

# वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

स च

संहिताब्राह्मणोपनिषद्वेदाङ्गसूत्रवर्गीयोपपञ्चशत[५००]वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः

प्रतिपदप्रतियुक्त-श्रुतिस्थलसर्वस्व-निर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तत्प्रागर्वाग्लक्षण-

विचारसमन्वितटिप्पणैः सनाथितश्च

संभूय पञ्चदशखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्व्यूढश्च

सत्र

दयानन्दब्राह्मणमहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य

च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

किशककन्धुक्क

भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त-

प्रमुखानां वहूनां शास्त्रिणां

सायुज्य-समुपलम्भेन

संपादितः

अयं च तत्र

(वैदाङ्गिकस्य)

चतुःखण्डात्मकस्य धर्मस्य विभागस्य

२यः खण्डः

ऋ-न

पृष्ठानि, I-IV च ७६१-१४५६ च

होशियारपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१५ वि०

( All Rights Reserved )

Printed and Published by Dev Datta Shastri,  
at the V. V. R. I. Press, Hoshiarpur.  
First edition, first issue, 1958. Quality I, 375 Copies.  
Price Rs. 40/-.

( अधिकार-सर्वस्व सुरक्षितम् )

होशियारपुरे वि. व. शो. सं. मुद्रागृहे

देवदत्तशास्त्रिणा मुद्रापितः प्रकाशितश्च ।

प्रथमं संस्करणम्, प्रथमः प्रकाशः, २०१५ वि. । १म वोटिः, ३७५ प्रतिलिपयः ।

मूल्यम् ४०) रु. ।



Prepared and published under the patronage of the Governments of the Indian Union and the States of Panjab, Jammu-Kashmir, Himachal, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Orissa Madhya Pradesh, Bombay, Mysore, Kerala and Madras, the former Princely States of Hyderabad, Travancore, Baroda, Indore, Kolhapur, Sangli, Patiala, Nabha, Jodhpur, Bikaner, Idar, Alwar, Udaipur, Shahpura, Sirmur and Keonthal, the former Princely Estates of Awagarh and Vijayanagaram, the Universities of Panjab, Poona, Andhra and Calcutta and the Trusts and Charities of Swami Vishveshvarananda, Shri Vishva Bandhu, Shri Moolchand Kharaitiram, D. B. Krishna Kishore, Shri Dhani Ram Bhalla, Shri Jai Dayal Dalmia and other donors.

अथ

# वैदिक-पदानुक्रम-कोषे

वैदाङ्गिके चतुर्थे विभागे

द्वितीयः खण्डः

क

क<sup>१</sup> श्रुपा ८, ३; कृत १, ४; पाग १, ४, ५७; उ: पा १, १, ५१; पावा १, १, ३; ५१<sup>३</sup>; क्त्स्न कृत ३, ५, २.  
 क-क-क<sup>२</sup> याशि २, १४.  
 क-क-वर्ण- -गर्भाभ्याम् श्रुपा ४, १७; -र्णै श्रुपा ४, १४८; -र्णौ माशि ९, ८.  
 क-क-क- -कौ श्रुपा १, १५.  
 क-कार- -र: अथ ४७, ३, ३; श्रुपा ४, ६७; तैत्रा ५, ९; शैशि ८४; कौशि ७८; भाशि २५; नाशि २, ६, ४; ७; -रम् कप्र १४, ४५; माशि १०, ३; नाशि २, ६, ३; -र: नाशि २, ६, ५; -रात् कप्र ७, १; शौच ३, ८५; -रे कप्र २, २२; ६४; १३; ३४; श्रुपा ३, १४; ४, ५०; १६६; नाशि १२, ६; याशि २, १९; -रेण शैशि ११२.  
 ककार-लकार- -रयो: पावा १, १, ९.  
 ककार-गुण-वलीयस्त्व- -स्त्वान् पावा ६, ४, ६२.  
 ककार-प्रहण- -णम् पावा ८, ४, १; पाप्रवा ४, ११.  
 ककार-द्वय-संयुत- -रम् शैशि ३३२.  
 ककार-पर- -र: श्रुपा ४, १२५; -रे तैत्रा १०, ८.  
 ककार-प्रत्यय<sup>३</sup>- -य: माशि १०, १.  
 ककार-रेफ-वत्- -वति तैत्रा ६, ८.

ककार-रेफ-वकार- -रा: कप्र ५, ४०.  
 ककार-रेफ-संयुक्त- -कम् माशि १२, ३.  
 ककार-रेफ(फ-अ)इ-उदब<sup>४</sup>- -य: श्रुपा ३, ८२.  
 ककार(र-क)कार(र-ल)लकार- -रेषु तैत्रा २, १८.  
 ककार(र-ल)लकार- -रौ कप्र १, ४१; १२, २; तैत्रा १, ३१.  
 ककार-व(क्षि>)र्ण<sup>५</sup>- -र्ण कप्र ६, ४६.  
 ककारा(र-अ)क्षर- -रयो: अथ ४७, ३, १.  
 ककारा(र-अ)दि- -दय: कप्र १, ६५.  
 ककारा(र-अ)त<sup>६</sup>- -तान् शौच २, १९; -न्तानाम् पावा ६, ३, २४; -न्ते माशि ८८.  
 क-पर<sup>७</sup>- -रम् कप्र १५, १२.  
 क-वचन- -वान्, -नै पावा ६, ४, ४७.  
 क-वर्ण- -र्ण: आशि १, २६; -र्णम् शौच १, ३७; नाशि २, ६, २; -र्णस्य अथ ४७, १, २०; शौच १, ७१; पावा १, १, ५०<sup>८</sup>; -र्णान् पावा ८, ४, १; -र्णै श्रुपा ४, ११३; शौच ३, ४६; नाशि २, ६, ३.  
 कवर्ण-प्रक-क-स्त-ग-य-व- -वा: याशि २, १४.  
 कवर्ण देश-संदेह- -इ: अथ ४७, ३, २.  
 कवर्ण-रेफ-वकार- -रेभ्य: शौच ३, ७५.

३, ७५.  
 कवर्ण-रेफ-संयुक्त- -कम् माशि १२, ३.  
 कवर्ण-व्यञ्जना (न-आ) दि- -ग<sup>९</sup>- -ग: याशि २, ४४.  
 कवर्ण(र्षि-आ)देश- -भस्य पावा १, १, ५०.  
 कवर्ण(र्षि-उ)दब<sup>४</sup>- -य: याशि २, ५६.  
 क-वर्ण<sup>१०</sup>- -र्णै कप्र ९, ६.  
 क-रथ- -रथम् कृत ३, ५, ७.  
 क<sup>११</sup> पावा. अ. पर. गतिप्रापणयो: अ. पर. गतौ; क<sup>१२</sup> तुदा. पर. गतीन्द्रियप्रत्ययवृत्तिभावेण, क<sup>१३</sup>याव वीथी ७, १०:५; द्विगो ८, ५, २९.  
 क<sup>१४</sup>यति निप २, १४; या ९, ४७.  
 क<sup>१५</sup>णोति निप २, १४<sup>१६</sup>.  
 क<sup>१७</sup>च्छति आपथी १२, ७, ४<sup>१७</sup>; द्विगो १०, ७, १६<sup>१८</sup>; सु १२, ११; अथ; क<sup>१९</sup>विप २, १४; ३, ५; या ४, १८; ९, २; क<sup>२०</sup>च्छन्ति वाच ३, १२; कप्र ५, १८<sup>२१</sup>; क<sup>२२</sup>च्छन्तु आपथी ८, १४, १८; शायी ६, ३, १-७; ८, १२, ११; आपथी; क<sup>२३</sup>च्छन्तु अथ १२, १, १<sup>२४</sup>; क<sup>२५</sup>च्छ आपथी ६, ६, ८<sup>२५</sup>; क<sup>२६</sup>च्छन्त या ३, १७; क<sup>२७</sup>च्छन्त आपथी ५, २, ४<sup>२७</sup>; क<sup>२८</sup>च्छन्त आपथी १६, १, ४, १४, १३, ७; क<sup>२९</sup>च्छन्तु ३, २३; ३; द्विगो १०, ७, १६; १५, ८, ३३; क<sup>३०</sup>च्छेयु: शायी १३, ३, ४. क<sup>३१</sup>मारिन् द्राथी ६, ४, ११; लाथी २, १२, १२; क<sup>३२</sup>रिष्यति वाथुथी

a) =वर्ण-विशेष- । b) निप. । वस. उप. भाप. । c) विप. । इम. >वस. । d) विप. । वस. । e) विप. । मलो. कय. >य. >उस. उप. < / >गम् । f) किति कश्चाऽऽदेशः (तु. वैप१) । या १, १, १८; २, ७; २५, ५, ७; ९, ८; ३२ पा ३, १, ५६; ७, ६६; ७४; ३, ३६; ७८; ८०; ४, ११; २९; ७७ पराच्छेदः क. ।



३, १९ : १७; ऋत्वात् मासि  
 ११५; १२०; ऋत्वात् मासि  
 ३, ८, ३ : २८; वीधि १, १६ :  
 १५; द्विपि १६ : ११; आदिष्वत्  
 वापुथी ३, २२ : १२.

अच्छ(व)न्ती-न्ती या १, ११.

अकृत-पाठ ३, ८१; -०त  
 शार्थी २, ७, १४; -तः वीथी  
 १०, ५२ : ४<sup>३</sup>; माथी ६, २, ५,  
 २३; अय ४८, १३७; वृद्धे  
 १, १२४; निष ५, ४; ङ्या  
 १०, ४०; ४२; ऋत्वा ४, ५२;  
 उच्च ८, १९; -तम् शार्थी २,  
 ९, १०; ३, ८, १; ४,  
 ५, ७; ५, २, १४; ६, २, १;  
 शार्थी २, ६, १०<sup>३</sup>; ५, ८, ५४४;  
 काथी; आपथी ६, ५, ४<sup>३</sup>;  
 वाथीं ३३६ : १३<sup>३</sup>; १४<sup>३</sup>;  
 वीथी ३, ५ : १<sup>३</sup>; माथी ६, १०,  
 १<sup>३</sup>; वैथी २, २ : १५<sup>३</sup>; द्विथी  
 ३, ७, २२<sup>३</sup>; वैताथी ७, ४<sup>३</sup>;  
 आपथि २<sup>३</sup>, ४, १० : २४; ६, ७ :  
 १८; कौत् ३, ४<sup>३</sup>; अय ४५, १,  
 ९<sup>३</sup>; शेष ११६. ६११<sup>३</sup>; निष १,  
 १२; २, १०; ३, १०; या २,  
 २५१<sup>३</sup>; ४, १११<sup>३</sup>; १४, ११३;  
 ३१; पाग १, ४, ५७<sup>३</sup>;  
 -तस्य शार्थी १, ३, २५४४;  
 शार्थी; लाथी ९, १०, ६<sup>३</sup>; आपथी  
 २, ११, २३; निष १, १२;  
 या ३, ४<sup>३</sup>; ६, १६; २२<sup>३</sup>;  
 ७, २४<sup>३</sup>; ८, ६<sup>३</sup>; ११<sup>३</sup>; २१;

१०, १६; ४१<sup>३</sup>; १४, २; ११;  
 १४<sup>३</sup>; २५; -तात् शार्थी १४,  
 १६, १०; आपथी ४, १, ६; १६,  
 १६; ६, ५, ३; ९, ३; ११, ४, १४,  
 ६; माथी ६, १, ५; द्विथी ६, ४,  
 २३; -तानि शार्थी १५, ३,  
 ७; -ताय शार्थी २, ७, १३;  
 आपथी १६, ३१, १; वीथी २६,  
 ३१ : ८<sup>३</sup>; वैथी १८, २० : ५३;  
 द्विथी ११, ८, ४; -ते आपथी  
 ५, १०, १; ८, ४, २<sup>३</sup>; १०, १, ४;  
 १६, ३१, १; वीथी ५, ४ : २६<sup>३</sup>;  
 वैथी १८, २० : ५४; माथी १,  
 ७, २, २३; द्विथी ३, ३, ४१; ५,  
 १, ४५<sup>३</sup>; १०, २, ६, १३, ८, ४;  
 आय १, ५, ४<sup>३</sup>; काय; पावा ६,  
 १, ८८<sup>३</sup>; -तेन शार्थी २, ६,  
 ११<sup>३</sup>४४; काथी; आपथी ६, ५,  
 ४<sup>३</sup>; वीथी ३, ५ : २<sup>३</sup>; माथी ६,  
 १०, १<sup>३</sup>; वैथी २, २ : १६<sup>३</sup>;  
 द्विथी ३, ७, २२<sup>३</sup>; वैताथी ७ :  
 २०<sup>३</sup>; आपथि २, ४, १० : २३<sup>३</sup>;  
 ६, ७ : ११<sup>३</sup>; कौत् ६, २०<sup>३</sup>;  
 अय ४५, १, १०<sup>३</sup>; वैष २,  
 १४, १०<sup>३</sup>; या ११, १५<sup>३</sup>;  
 -तेष्वः आपथी १६, ३१, १;  
 वैथी १८, २० : ५४; द्विथी ११,  
 ८, ४.  
 अत्-जा<sup>३</sup>-जा या १४, ३१<sup>३</sup>.  
 अकृत-वित्<sup>३</sup>-वित् वीथी  
 १०, ५२ : ३<sup>३</sup>; माथी ६, २, ५,  
 २३; -वित्तम् शेष ११६ : ५१<sup>३</sup>.

अकृत-जा<sup>३</sup>-जा-जा वीधि  
 २, १, २२<sup>३</sup>.  
 अकृत-जा<sup>३</sup>-जा-जा वीथी २, ८ :  
 २९; या ११, १८<sup>३</sup>; -ञाः  
 गीपि २, ५, १४; अय ४४, ४,  
 १२.  
 अकृत-जय<sup>३</sup>-जय आपथि १,  
 २, २ : २१; माय ३, १० : ६;  
 द्विपि २, १९, ६.  
 अत्-वे(व)न्ती<sup>३</sup>-न्ती ऋत्वा  
 २, ४, २३.  
 अकृत-वामत्<sup>३</sup>-मा शार्थी ६,  
 १२, २३; आपथी ११, १४, १०;  
 १७, २०, १; वीथी ६, २९ : १९;  
 १०, ५४ : १४; १४, १७ : ४;  
 माथी ६, २, ५, ३२; वैथी १४,  
 १३ : ६; द्विथी १०, ३, ४२; १२-  
 ६, १५, २२, १, ३१; वैथी १३ :  
 १७; दाथी ४, २, ११; लाथी २,  
 २, २०; आपथि १, १, २ : २०;  
 ५, २ : ३७; ६, २ : ७; माय १-  
 ११, १५; वैष १, १८ : १; द्विपि  
 १, ३, १३; शुभ्र १, ३४५.  
 अत्-पीत्<sup>३</sup>-निम् वीथी २५,  
 ४ : १२<sup>३</sup>.  
 अत्-निघन<sup>३</sup>-न्तम् दाथी २, १,  
 १२; लाथी १, ५, ९.  
 अत्-वर्ण<sup>३</sup>-वर्ण या ८, ११.  
 अत्-वा<sup>३</sup>-वा-वा वीथी ८, १२ :  
 २९<sup>३</sup>.  
 अकृत-वा<sup>३</sup>-वा-वा दाथी ३, १,  
 १८; लाथी १, ९, २०.

a) वैष १ द. b) पाठे. वैष २, ३३. तैमा २, १, ११, १ टि. द. c) = द्रव्य- ? d) = द्वात्पा-  
 त्तिरिषेवन्त्यतम-। e) पाठे. वैष १ सव्यस्य मा २२, २१ टि. द. f) पाठे. वैष १, १९५ द.।  
 g) पाठे. वैष १, ११७ g द.। h) पाठे. वैष २, ३३. अत्तम् मंजा २, ४, १० टि. द.। i) = एवो-  
 न्यवाक्यस्यस्यन्यतम-। j) विप.। उच. कः प्र। l) पाठे. वैष १ परि. अत्तन्नाः टि. द.।  
 k) अय.। उय. पञ्जन्तम्। m) विप.। वय.। n) विप. (आज्यदोह- [सामन्विशेष-]।)। वय.।  
 o) विप. (वनस्पति- [अग्नि-])। वत्.।

कृत-वेग<sup>०</sup> - वा: काशी २२, ८, १०; -वस्य वीथी १८, ३४, ४; -ये द्राथी १५, ४, १८; लाथी ५, १२, २२; ८, ९, ७; -येन आथी ९, ७, ३५; शाथी १४, १६, १; आपथी २२, ९, ११; काथी २९: १४; वीथी १८, ३२: १; हिथी १७, ४, ६<sup>०</sup>.

कृतपेय-स्व- -स्वम् वीथी १८, ३४: ४.

कृत-पजा(त>)ता<sup>०</sup> - वा: वीथी ७, ५: २२; १४, ४: ३८.

कृत-भाग<sup>०</sup> - वाग ४, १, १०४; -वा: वीथी ३: ८.

कार्तभाग- वा ४, १, १०४.

कार्तमागो-> वी-दुग्ध- -वा: वीथी २१, १६: १२.

कृत-तय, कृतयन्त क्रमा ९, २११.

कृततयु- -यु: वीथी १८, ४०: ८; क्रमा ९, १५.

कृत-मुक्ति<sup>०</sup> - नक्तिम् क्रमा ९, २११.

कृत-व(त>)ती- -ती शाथी १४, १६, १०; -व: वा २, २५.

कृत-वाक<sup>०</sup> - केन क्रमा ९, १८१.

कृत-वादि- -दिव्य: काथी ४, ५, ७; शाथी ५, ८, ५; वीथी ६, ८९: १८; २१: १६, द्राथी १४, २, ६; लाथी ५, ६, ९; वंताथी १३, २४.

कृत-सच- -चै क्रमा १७, ३३.

कृत-धी<sup>०</sup> - धी: आपथी २, ३, ७; वीथी १, ११: ३२; माथी २, २, ९; हिथी १, ६, १०.

कृत-स्वय- -स्वाम्याम् आथी २, २, ११; वीथी १८, ३३: २; माथी ६, १०, १; माथी १, ६, १, १०; वाथी १, ५, २, १५; -स्वै वीथी १८, ३३: ७.

कृतसव-शील<sup>०</sup> - ल: आथी २, १, ५.

कृत-सद्, -स्व- -सत् आपथी १६, २९, २; वीथी ७, १२: ३७; वाथी: वा १४, ३१; -सप: आपथी २, ३, १३; वीथी ५, २: ५; हिथी १, ६, १११.

कृत-सद्व- -नितम् काथी ७, ९, २६; २७; आपथी २, २, ७; वीथी: -नै द्राथी ३, २, ६; ३, ५; लाथी १, १०, ५: २९.

कृतसद्व- -नी काथी ७, ९, २५; आपथी १०, ३१, २; वीथी १२, २१: १७.

कृत-सद्वि<sup>०</sup> - नि: माथी १०, २०, १६; हिथी ७, ३, ५०.

कृत-मा<sup>०</sup> - स्वाप: वीथ १, ६, ३१.

कृत-स-पति<sup>०</sup> - ०ते आथी ३, ८, १; माथी ३, १८, ५; क्रमा १३, ३०; उख ८, १५; शुभा ३, ५१.

कृता(त-आ)दि- -दि वैथु १, १८: १३.

कृताय->कृताय- -यते आपथी ८, १४, २४; १६, २५,

१; वीथी १०, ३३: २; माथी ६, १७, २२; वाथी २, १६, ३६; वैथी: -कृ क्रमा ९, २२.

कृतायि(त>)नी<sup>०</sup> - नी क्रमा ९, १४१.

कृतायु- -यव: आथी ४, १२, ७; शाथी ११, ६, ८; १४, ५६, ४; वीथी ३, १४: १४; तैपा ३, २; -दुभि: क्रमा ९, ५१;

-दुग्ध: वीथी ७, ४: १४; -दुग्धम् आपथी १२, १८, १२;

वीथी ७, ६: ४५; १८, २८: ९; माथी २, ३, ५, ६; वैथी १५, १६: ३; -दुग्ध क्रमा ९, २२;

-यो: वा १०, ४५०; क्रमा ९, २२.

कृत् (त>) ता-य<sup>०</sup> - ०व: क्रमा २, ४१; -वा आपथी १४, १७, १; २४, १३, ३; हिथी १५, ५, १; वैताथी ३३, २०; वीथि २, ४, ७; क्रमा ९, ११; -यत्न आथी ८, १०, ३; शाथी ३, ३, ५; १०, १०, ८; वीथी १३, ९: ६;

माथी ५, १, ५ ३२; निष् ९, ५: १४; शुभ, -स्वै क्रमा ९, २४.

कृताय(इ>)री<sup>०</sup> - री आथी १, ७, ७; शाथी १, १२, १; शौच ३, २४; -री: वीथी ९, २: १८; क्रमा ९, ११;

-०री: काथी ४, २, ३२; आपथी १, १३, १०; वीथी: वा २, २५०.

कृत् (त>)ता-य<sup>०</sup> - यत्न वैताथी ३३, २०६; -युती क्प ४८, ६०.

a) = एकाह-विशेष- । b) कृतं इति पाठः इ यनि. शोधः (तु. आपथी). । c) वैप १ द. । d) वैप २, ३खं. द. । e) बहु. <कार्तभाग- । f) पामे. वैप २, ३खं. कृतम् तैपा २, १, ११, १ डि. द. । g) विप. । वस. वा वस. वा । h) विप. (२अप- । i) नाप. । वस. उप. अधिकरणे यनि: प्र. वसं. (पाठ २, १०२) । j) एषा. \*युक्तः <> युक्तः इति पामे. । k) \*युक्तः इति ०. । l) = यानावृषि- ।

फ्रक (त) ता-वृष्- -वृष्ः  
 शाश्री १०, १०, ७; ११, ८, ३;  
 आपथी ५, १९, ४; ११, १, ९;  
 वीथी २, १० : १५; ६०, १९ :  
 ९; २१ : ८; २४, २६ : ५;  
 माथी १२, १, ७०; माथी २, २,  
 १, ११०; ५, २, ७, ५; वीथी ८,  
 १ : ९; १२, २३ : ४०, द्विथी ३,  
 ५, ५, ४, ३, ५४, ७, ३, ७६०;  
 वैताथी, विष ४८, १००; या १२,  
 ३३०; -वृष्. आथी ३, ८, १;  
 शाथी ८, ३, ११; आपथी १३,  
 १३, ८; वीथी; -० वृष्. या ५,  
 २२; -वृष्. वृदे ३, ३८; ४,  
 १२५; -० वृष्. क्रा १७, ३१.  
 क्र(त) ना-पाह- -पा ८, २,  
 १०९; -पाह. वाथी १८, ५,  
 १६; आपथी १७, २०, १; वीथी  
 १०, ५४; १३; १४, १७; ४; माथी.  
 √कृति > कृतवत् - यत्  
 वीथी ९, ७ : ४५.  
 कृति- > कृति-वर- पा ३, २, ४३.  
 कृति-मत्- > √कृतीय,  
 कृतीये आपथी २१, १९, ५.  
 क्र(ति) पी-पाह- -पा ८, ३,  
 १०९; -पाह. आथी ५, १६,  
 २, ७, ४, ३; ८, ९, १६; शाथी १८,  
 १०, ८; वंताथी २२, ७; ३१,  
 २३; ३३, ७; ४२, ५; कृपा ९,  
 ३; शुभा ३, १२९.  
 √कृत् पाथा. स्वा. पर. हिमायाम्.

√कृत्, कृह, कानुहुः पा ६, १,  
 ३६५.  
 कृत्-हृत्- -हृत् अप ४८, ६७;  
 निघ ३, २.  
 क्रिक्वा- पाठो २, २, ६.  
 कृक्-चोदना- प्रथ. √कृत् द.  
 कृकृतु- (> भाकृतव- पा.) पाग  
 ४, ३, १६४.  
 कृक्-यत्, -वत्- प्रथ. √कृत् द.  
 √कृत्.  
 कृत्- -पाठ ३, ६७; पाग २, १, ५६;  
 ४, २, ८६; -अ. विष ४४, ४१;  
 -अम् अप ५७, २, १; अथी १,  
 ६ : २-३, ४; ५; ४, ३-५,  
 ५, १, ३; ४; ६-८; -क्षा वीथी  
 १९, १० : ३२५; कप ३, ६,  
 ११; अप ४८, १२०५; अथा ६,  
 ६; निघ ३, २९५, या ३,  
 २०५५, वेज्यो १८; -क्षाणि  
 कप १, ९, ३, शजो १, १; शेष  
 ११६; ४८; -अ. वीथी २, ५, ६५;  
 अप १४, १, ५; -क्षेभ्यः माय २,  
 १२, १७; -क्षेपु अप ५२, १५, ३.  
 आथी- -क्षे आपथी २२,  
 १२, ७.  
 आथी (वि-उ) वास- -अ.  
 शाथी १४, ३३, २०.  
 कृत्-नाम् (:) आपथी १०, २४, ६.  
 कृत्-वत्- -पा ४, २, ८६; -वन्तम्  
 शेष ११६ : १०.  
 कृत्-विभाग- -अ. अप ५६, १, १.

रकृत्- -पाग ४, १, ८; १०५; -अम्  
 शेष ११६ : ५६१; ९११;  
 -क्षणात् आथी १२, ११, २;  
 आपथी २४, ७, ६; द्विथी २१,  
 ३, १०.  
 रक्षा- -क्षेप्य कृत् २, ८, ७४.  
 आथी- -पा ४, १, १०५.  
 आथीयण- -पा ४, १, १८.  
 कृत्- -अ. अथो- -वयोः कृत्  
 २, ८, ६८; वृदे ६, १२.  
 कृत्-पाठ- -पाठम् शेष ११६ :  
 ५५५.  
 कृत्- -पाठ ३, ७५; या ९,  
 ३२५.  
 कृत्-संहिता- प्रथ. √कृत् द.  
 कृत्-स्व(र)रा- -रा नाशि २,  
 ३, ८.  
 कृत्-प्रथ. √कृत् द.  
 कृत्-गोप्यमाज- -चा १६ : ४.  
 कृत्-गुण- -प्रथ. √कृत् द.  
 √कृत् (= अर्थ) पाथा. तुवा. पर.  
 रुतो, पाठवृत्तः पा ६, १, ३६;  
 अथा ३, ४, १.  
 अर्थ- -पा ७, ३, ६६.  
 पाठवृत्त- -अभिः आथी ५, २०, ८;  
 ९, ६, २; शाथी ११, २, १३; -अ.  
 माथी ४, १, २३; शेषि ३३०;  
 -अ. अ. शेषि १२१.  
 कृत्- > कृत्-यत्- -यत्  
 वीथी १८, ४८ : १५; पा ७,  
 २६५; -याणि वीथी ८, १६.

- a) शेष १ द. । b) पाठि. पृ ७६५ जि. द. । c) = √रि इति [पक्षे] BFG. । d) नाप. ।  
 एतु ? । कथनु- इति भाषां, कर्तु- , कर्तु- इति [पक्षे] पाथा. । e) < √कृत् + √वि इति BFG. ।  
 f) = भक्त- , नक्ष- , पर्व- प्रथ. । g) शि. । विद्यारायें अम् प्र. । h) वि. (अथ-रय- ) । वत. उप.  
 = वृत्त- । i) वि. , नार. । j) = कृत्-विशेष- । व्यु. ? । k) पाठः ? । दक्षम् इति अप २१९, २५ । l) पाठः ? ।  
 दक्षम् इति अप २१९, २० । m) = महत्-विशेष- । व्यु. ? । n) पाठः ? । कृत्-पाठम् इति अप २१९, ३३ ।  
 o) अर्थः व्यु. य ? । < √कृत् इति पाठ. । p) = कृत्- । < √कृत् इति । q) वि. । वत. पू. ।  
 अर्थः ? । r) पाठः ? कृत्-गोप्यमाजः इति त्वात् ? (तु. वाठ १६, ३) । s) < √कृत् [प्रायाम्] इति ।

८; वीथी १६, २२: १०.  
 १ अच्- पाठ २, ५७; कक्  
 आपथी ४, ४; ९, २, ३;  
 १६, ३२, ४; वीथी; निघ १,  
 १११; या १, ८००; अक्षु वीथी  
 ६, १, ४; वीथी; पा ८, ३,  
 ८; अग्नि: आपथी १६, १, ४;  
 वीथी; या १३, ७; अग्नेय:  
 जेष्ठ २, ८: ७; वीथ ३, ९, ५;  
 वृद्धे १, १; अग्नेयाम् वीथी ४,  
 १४, १५; १५, २३, १; काशी;  
 अच्: आपथी २, १३, ८००;  
 वीथी; हिपी ६, ३, ९१<sup>१०</sup>;  
 आग्नि २, १, ४: २१; वैश्व ३,  
 १५: १८१; हिग् २, ९, ११<sup>०</sup>;  
 अग् ४: ५१<sup>१</sup>; या १, ८, ७, १००;  
 पा ६, ३, ५५; अच्: आपथी  
 १, १, १०००; वीथी; या २, ८;  
 ७, ८; अच्: अच्: आपथी ४, ६,  
 ३; अच्: आपथी २, ११, ३५; ८,  
 २, ९; वीथी; या ३, १००;  
 अच्: अच्: वीथी २२, १:  
 १३; ६: ४; ९: १६; वीथ  
 ७६, ३१; अच्: वीथी १३,  
 १, ६; काशी; या १, ८१; अच्  
 वीथी १५, २२, १; आपथी १३,  
 १६, ३; २४, १३, १२;  
 वीथी; या २, २०००; पा ४,  
 १, ९; ६, १, १३३; ७, ४, ३९;  
 पावा ६, १, ३७; अच्: अच्  
 वीथी १५, २२, १, १ अच्: वीथी  
 १७, ५, ९; आपथी १६, २७,  
 २००; अच्: अच् २, ५, २;  
 अच्: वीथी २, १२, ३; आपथी.

आच्- > आची- -चीं  
 अग् ५, ६००; -चीं: अग् ९,  
 ६(६).  
 आची-प्रिष्टम्-  
 -प्रिष्टम्: अग् ८, १०(४); -प्रिष्टम्  
 अग् १५, ६.  
 आची-पट्टि-  
 -हकी अग् ९, ६(६); १५, ४; ६;  
 १४.  
 आची-सुहती- -स्य:  
 अग् ८, १०(३); -स्यो अग्  
 १५, १८.  
 आची-सुहती-  
 -प्रिष्टम् अग् १९, १८; -प्रिष्टम्:  
 अग् ८, १०(४); ११, ३(२);  
 १२, १८; -प्रिष्टम् अग् ९, ६;  
 ७; १२, ५(२); १४-१५, ४;  
 १६, १; ३.  
 आची-सुहती-  
 -प्रिष्टम् अग् ५, २६.  
 आची-सुहती-  
 -ये या २, १३.  
 आची-सुहती-  
 -प्रिष्टम् पा ४, ३, ७२;  
 -प्रिष्टम् वीथी ७, ८, ५-७; ९, ७;  
 मैत्र २१; निघ २, १०: १३;  
 २४; नाशि १, १, २; -कश्य  
 ताग्र १, १; नाशि १, ८, १;  
 -का: मैत्र २४; -कान् वीथी  
 ६, ३, ३; वीथी २, १०, २४,  
 -कानि वीथी १०, ९, ७; निघ  
 ६, ७: ५१; -केशु मैत्र २८.  
 आची-सुहती-  
 -ताग्र वीथी ६, १०, २६.  
 आची-सुहती-  
 -ना वीथी १०,

२, १.  
 अच्-सुहती-सुहती- वीथी १२,  
 ११, ८; १५, ३, २.  
 अच्-सुहती- वीथी १, १२, ३२;  
 आपथी ९, १६, ४; १४, ३२, ७;  
 वीथी २७, ४: ५; माथी.  
 अच्-सुहती- -अग् चयू ३:  
 १३.  
 अच्-सुहती- -ये वीथी १२,  
 १६.  
 अच्-सुहती- -कश्य अग् २: १.  
 अच्-सुहती- -या वीथी ६, १०,  
 ५१.  
 अच्-सुहती- -ताग्र विप ५०,  
 ४८.  
 अच्-सुहती- वीथी ८२, ६;  
 ११; १९; गीष्ट.  
 अच्-सुहती- -काम्याम् या  
 ३, ४.  
 अच्-सुहती- -ताग्र वाशि १  
 ३१.  
 अच्-सुहती- -ये वीथी ५,  
 १, १, ३३.  
 अच्-सुहती- -तेन निघ २  
 १२: ३.  
 अच्-सुहती- पा ५, ४, ७७;  
 पाग २, ४, १४; -अग्नेयो:  
 वीथी ७, ३, २०; आपथी १०,  
 ८, १६; वीथी; मैत्र ९, २, ३०६;  
 -मानि वीथी ६, ९, १२; अग्  
 ३, १६: २; आग्नि १, ५, २:  
 ४५; वैश्व १, १८: ६; वैश्व २,  
 ७: ८; -अग्नेयाम् वीथी २,  
 १, ९, ६; अग् ३, ८१; तंप्रा ३,

a) वैप १ ३. 1 b) रु इति पाठः इ यनि. शोषः (तु. तंप्रा ३, ५, ६, १८)। c) मया. वीथ  
 १, १६, १६ वीथ १, २४, ८ अच्: अच् इति पाठे। d) अच्: इति पाठः इ यनि. शोषः। e) तस्मैदमीयम्  
 तस्यसम्प्रदाय अग् प्र.। f) = अग्नेय-। कम्.। g) = अग्नेय-विशेष-। h) विप.। तत्रगर्वनि  
 यति प्र. कुलम् (तु. वैप १ अच्-)

५; -मे भाथी ९, १३, १५;  
वाथुथी ४, ३३; ५; जैथी ७;  
९; शुभ्र १, ५०२; तैप्रा ४,  
११.

अक्-साम-देवता-> श्वत्य-  
-रथम् अथ ७, ५४.

अक्-सामवृ- -स्रः साद्य १,  
३६९; -साम् लाथी १०, १०,  
५; -स्रि शुप्रा २, ५७.

अक्-साम-यजुस्- -जुषि वीथु  
३, ५, ७.

अक्-सामयजुस्-अद्- -हानि  
नाशि १, १, ४.

अक्-सूक्त- -क्ताः अथ २: ४.

अक्-सूक्ता (क-अ)थर्व-संश्रित-  
-तम् वृदे १, ५९.

अग्-अक्षर- -रे निस् ३, १२:  
२७-२९; ३२; ४५; ४, ७:  
२१.

अग्-अन्त- -न्तम् आथी १,  
२, १०; वैताथी २१, ४; -न्ते  
काथी १९, ७, ५; -न्तेषु आपथी  
२१, २०, ४; माथी २, ४, २, २५;  
हिथी २१, १, १३; गोथ ४, ५,  
२६; -न्तैः आथी ६, ४, ४; ८,  
१, ६.

अगन्त-क- -के याशि १,  
१४.

अग्-अन्तर- -रम् माशि १३, २.

अग्-अयन-> मार्गयन- [पा.,  
पाशाग ८, ४, १०], ण- पावा.)  
पाग ४, ३, ७३.

अग्-भागम- -मः मीस् १०,  
५, २६.

अग्-भादि- -दिभिः श्राथ ३, २.

२१; -दीनाम् कथ २, ४, १६.

अग्-भावान- -नम् आथी ४,  
६, १; ५, १, ५; ९, २२; १३, २;  
२०, ३; ८, १२, २०; वैथी १३,  
८: ५.

अग्-उत्तर- -रेण आपथी २१,  
७, १५.

अग्-उपसंधान- -ने वीथी  
१९, ४: ३५.

अग्-उद- -डम् लाथी ७, ९,  
७.

अग्-गण- -णः चयू २: ९;  
या १४, १; ३६; -णानाम् वाथी  
१, १, २४; -णेषु शोथी १, १,  
१८; २२.

अग्-गुण- -त्व- -त्वाय मीस् ८,  
३, २७.

अग्-जप- -पः गीपि २, ४, ९.

अग्-दृष्टि- -ष्टीनि निस् ६,  
७: ५९.

अग्-द्वय- -यम् वैथी २१, २:  
१०; -येन कथ २, १, १०.

अग्-भाज्- -भाजः या ७, १३;  
-भाजि वृदे १, १७, १८;  
२, ७८.

अग्-मय- -मन्तम् या ७, २६.

अग्-यजुष- पा ५, ४, ७७,  
-पयोः शुभ्र ४, १९४; -पाणि  
चाथ २: ५.

अग्-यजुस्- -जुभिः हिथी  
१५, ७, १२; १६; आशिथ २, ३,  
५: २७; ३, २, २: २१; ११,  
३: २०; -जुषाम् वाथ १३,  
३०; गौथ १६, २१; कप्रा ११,  
७१; उनिस् ३: १८; -जुषी

विथ ३०, २६; -जुषि चयू २:  
३०.

अग्-यजु-सामन्- -मभिः शैशि  
१६९; १७१; माशि ३, ५; याशि  
१, ४०; ४६; -म्नाम् आ ६७,  
८, १.

अग्-यजु-साम-निर्दग्ध- -यः  
माशि ३, ३.

अग्-यजु-साम-लक्षण- -गम्  
नाशि १, २, ३.

अग्-यजु-साम-वेद- -दानाम्  
वीथ ४, ५, २९.

अग्-यजु-साम-संस्थित-  
-तम् अथ २, ५, ३.

अग्-यजु-सामा(म-अ)मक-  
-काः आशिथ २, ४, १२: ८.

अग्-यजु-सामगाव- -नानि  
माशि ३, ४१<sup>d</sup>.

अग्-यजु-सामा(म-अ)थर्वन्-  
-वैभिः आशिथ २, ५, ७: १७; वीथ  
१, ११, १२; वैथ ३, १३: १०.

अग्-यजु- -ष्टा या ३, १९.

अग्-या(ज्या)> ज्य- -ज्यौ  
हिथी २१, २, ४६.

अग्-वत् मीस् ९, २, ३४.

अग्-विद्- -विद् कथ ३,  
३७; -विदम् वैताथी ११, २.

अग्-वि(धा)> व- -वम् वीथ  
१, ४, २५<sup>a</sup>.

अग्-विधान- -नम् वीथ १, ४,  
२५<sup>a</sup>.

अग्-विराम- -मः तैप्रा २२,  
१३.

अग्-वेद- -दः शोथी १, १;  
२८; अथ ४१, ५, ३; वैथ,

a) मलो. कथ. ।

b) विर. । बरा. ।

c) वत्. उप. < भा/वे (स्तुतंताने

[P. P. M. W. J.] ।

d) \*सामगादीभि इति पाठः इति यति. शोथः (उ. याशि १, ४०) ।

e) उथ.

उप. < [विद् [शाने] ।

-दम् कौष्ट १. १६, १६<sup>१</sup>;  
 वांष्ट १. २४, ८<sup>१</sup>; आसिष्ट १.  
 २, १ : ५; २ : ४०; २, ६, १ :  
 ११; ३ : ४२; द्विष्टः-दस्य कौष्ट  
 २, ९, ५; भाष्ट ३, १५ : ४;  
 चव्यु १ : ४; छः १०; २१;  
 -कृदाष्ट आसिष्ट १, २, २ : २५;  
 कौष्ट ३, १, ८; २, ९; २, २; ३, ४; ४, ७;  
 ३, ११; ९, ५; भाष्टः -दे शीथी  
 ३, २, १, २; पाष्ट २, १०, ४; आसिष्ट  
 २, ४, १२; ११; ऋष्टः वाष्ट १,  
 २, ३; २, ५९; -नेन आपथी  
 २, ४, १, १६; वाथी १, १, १, ६;  
 द्विथी १, १, ३; ४५; कौष्ट १,  
 १०, ११; वांष्ट १, १६, ३१.  
 कर्त्वेद-यत्तुवेद-दाभ्याम्  
 आभथी २, ४, १, ५; द्विथी १, १,  
 ४.  
 कर्त्वेद-यत्तुवेद-सामवेद-  
 -देः आपथी २, ४, १, ४.  
 कर्त्वेद-वादिन्-दिनः काष्ट  
 ४२ : १२.  
 कर्त्वेद-यामवेद-दाभ्याम्  
 आपथी २, ४, १, ८; वाथी १, १,  
 १, ७.  
 कर्त्वेदा(द-अ)न्य-न्यः  
 ऋष्ट ३, ३१.  
 कर्त्वेदा(द-आ)प्राथ-जे  
 प्राथ १, १.  
 कर्त्-प्यपदेश-कात् मीत् २,  
 १, ४३.  
 कर्-मन्त्र-म्राणागम् ष्टे ३,  
 ३९.

कृद्-मय-यः लाथी १, ६, ३७;  
 लुथ ४, २१९; -यम् वीथी  
 १६, ९; १७; -यान् मैथ २२.  
 कृद्-मिथ-अम् या छ, ६.  
 १. कृच्-√कृच् द.  
 २. कृच्- (> आर्चायित- वा.) पाय  
 छ, १, ९९.  
 ३. कृच्समाः निष् ९, ६ : ५.  
 कृचाम्-> आर्चामिन्->भि-  
 मीदृष्ट-लाः पाय ६, २, ३७.  
 कृचीक-पाठभो २, २, १९६.  
 कृचीकपुत्र-अः अप ५२, १०, ३.  
 कृचीप-यम् विष ४३, १७.  
 कृचीपम-मः निष ४, ३; वा ६,  
 २३६; शैथि १२१; ३३०; अप  
 ४८, ११५.  
 कृचीस- > ष-पङ्क-कम् शंथ  
 ४२, ७.  
 कृच्छर-पाठ ३, १३१.  
 √कृच् पाथा. भ्या. आत्व. गतिस्था-  
 नार्त्तनोपात्तमेव।  
 कृच्जीति-०ते<sup>१</sup> आपथी २०,  
 १६, १२; द्विथी १, ४, ३६;  
 ऋष्ट २, ६, ७५.  
 कृत्-पाठ १, २७; पाय ५, १,  
 १२२; -जयः आपमं १, १, २१;  
 वांष्ट ४, ४, ८<sup>१</sup>; आसिष्ट १, ५,  
 १ : ११; ६, १ : ५; काष्ट २५,  
 ११; वीष्ट १, १, १५<sup>१</sup>; वाष्ट  
 १०, ७<sup>१</sup>; जैष्ट १, २० : ३<sup>१</sup>;  
 कम् २, ५, १९; ३, ८, १३; अप  
 ४४, १, १०; ६८, १, ९; वीथ  
 ४, ७, २; -कृजवे काथी २६, १,

२७; वीथी २, ४ : १२; माथी  
 छ, १, २७; शुथ ४, ७७; -तु  
 अप २३, १०, १; -तुः आपथी  
 २१, ४, १८; काठथी; या ६,  
 २१; -तुना वाथी छ, ६४<sup>१</sup>;  
 ३; कम् १, २, १; -तुम् आपथी  
 २, १२, ७ x x; १७, १३,  
 २१<sup>१</sup>; वीथी; द्विथी १२, ४, ४<sup>१</sup>;  
 -तु आपथी २, १२, ८; -जोः  
 भाथी ७, १, ९; द्विथी छ, १, १८.  
 कृजो-ज्वीभिः माथी  
 २, १, ४, ३; -ज्वीम् कौष्ट १३, ७,  
 ८.  
 कर्त्तव-पा ५, १, १२२;  
 -वम् अप ३, १, १३; आपय १,  
 २३, ६; विष २, १७; द्विष्ट १,  
 ६, १४; या १४, ७; -जे पावा  
 ३, १, ६.  
 कृत्, राजिमिन्-पा ५, १, १२२;  
 ६, ४, १६२.  
 कृत्, रजिष्ठि-पा ६, ४, १६२.  
 कृत्, रजिष्ठि-पा ६, ४, १६२;  
 -यः अथ ५, १४<sup>१</sup>.  
 कृत्-कर्मिन्-सीभिः वीथ ४,  
 ७, २.  
 कृत्-नामन्-ने अप ४८, ४४.  
 कृत्-ना<sup>१</sup>-याः वीथी ७, ८ :  
 ५; १४, ५ : ४३; माथी २, ३,  
 ६, ४; द्विथी ८, ४, ४६.  
 कृत्-गामिन्-गिनः वा १०,  
 ३; -गिनाम् या १२, ३९.  
 कृत्-गामिनी-नी या ९,  
 २६.

a) पामे. ष्ट ७६७ ८ द.। b) पाठः? वति. शोधः (तु. उत्तरीयं खलम्, कावित्कः ग्थे. च)।  
 c) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। d) = वैशम्पायनाद्वेदासिन्.। गितिः प्र. (पा छ, ३, १०४)। e) इत्. उप.  
 < सुदृष्ट-। f) = जगदग्नि-विष्ट-। व्यु. ?। g) < √कृच् इति। h) = नरक-विशेष-। व्यु. ?।  
 ष- इति शोधः। i) वैप १ द.। j) = ऋजीप-। k) अर्थः व्यु. च ?। l) < √कृच् इति।  
 m) पामे. वैप. १, १००५ y द.। n) पामे. वैप १, ९८९ f द.।

श्रुञ्ज्-ञ्वा (ला) लृ- लः

अप २९, १, ४.

श्रुञ्ज्-तम- लैः या ८, १९.

श्रुञ्ज्-देह- > ङीय- -याः  
माथी २, ५, १, २०.

श्रुञ्ज्-वा आपथी ९, १४, १७;  
बौध्नी.

श्रुञ्ज्-नीति- -ती आथी ७,  
३, १०; दाथी १०, ९, १६; १२,  
३, १४; ऋथ २, १, ९०; साथ्य  
१, २, १८; निष ४, ३; या ६, २१.

श्रुञ्ज्-ले (ख) ला- -ला  
वैथी १८, १६: ४०: १४; -लाः

आपथी १६, १३, ६; ३४, २;  
माथी ६, १, ४, ३९; ८, १०; वाथी  
२, १, ४, ३; वैथी १८, ११:

२३; हिथी ११, ५, १८; बौशु  
६: ५; -लाभिः वाथी २, १,  
६, ४.

श्रुञ्ज् (शु-उ)दा- -राः माथी  
२, ४, ४, १३.

√श्रुञ्ज् > श्रुञ्ज्-यत्- -यताम्  
या १२, ३९; शुभा ३, ११२;

-यन्तम् ऋषा ९, १६.  
श्रुञ्ज्या- -या ऋषा ९,  
४९१.

श्रुञ्ज्यत्- -ञ्यन्तः या १०, ३६.  
श्रुञ्ज्, श्रा- पाठ २, २८; -ञ्रम् वृदे  
६, ६६१; -ञ्रा या ५, १५१.

श्रुञ्जा (अ-अ) ष- -ञ्रम् या  
५, २११.

श्रुञ्जाभा (श्र-अ) म्बरीप-  
सहदेव- मयमान- सुराधस-  
-धसः ऋषा २, १, १००.

श्रुञ्जि-मन्- √श्रुञ्ज् द.

श्रुञ्जि-श्व- -श्वः शुभ ३, २१८; ४,  
२६; ३५.

श्रुञ्जि-श्वन्- -श्वनि वृदे २, १२९; -धा  
ऋष २, ६, ४९; ९, १८; १०८;  
वृदे ३, ५५, साथ्य १, ६११.

श्रुञ्जि-ष्ठ- √श्रुञ्ज् द.

श्रुञ्जिक- पाठ ४, २२; ५, ५१.

श्रुञ्जिक-प्रम(व)वा- -वा या ९,  
२६.

श्रुञ्जोति- , श्रुञ्जोयस्- √श्रुञ्ज् द.

श्रुञ्जो- > श्रुञ्जो-विन्- -विणः  
आथी ६, ४, १०; दाथी १८, ७,  
१०; शैथि १२२, ३२९; -०-विन्  
दाथी १४, ७१, ४; आथ १, १५,  
३; पाथ १, १८, ४; या ६, ७;

-वी आथी ५, १६, २; आथी  
७, २३, ९; १८, १९, ८; बौथी  
१०, २४, १०; वैताथी ३३, १७;  
या ५, १२.

श्रुञ्जो-पाठ ४, २८; पाथ ५, २,  
३६; -यम् आपथी १२, १२,  
११; १३; १०, ६; २०, ८, बौथी;  
श्रुया ५, १२६; -यस्य काथी  
१०, ३, १८; ८, २८; ३०;  
आपथी १३, २०, १०; माथी  
८, १०, ८; वाधुथी ४, ६५;  
३; हिथी ९, ५, २७; मीथ १०,  
६, १६; -ये आपथी १३, १०,  
५; बौथी ८, ९: ५; १४, ६:  
२३; २९: १०, २३. ८: २८;  
माथी २, ५, १, ११; ३, ६,  
१८; २१; वैथी १६, १०: ११;  
२१, १४: १; हिथी ९, ३, २७;

श्रुञ्जो-पाठ ४, २८; पाथ ५, २,  
३६; -यम् आपथी १२, १२,  
११; १३; १०, ६; २०, ८, बौथी;  
श्रुया ५, १२६; -यस्य काथी  
१०, ३, १८; ८, २८; ३०;  
आपथी १३, २०, १०; माथी  
८, १०, ८; वाधुथी ४, ६५;  
३; हिथी ९, ५, २७; मीथ १०,  
६, १६; -ये आपथी १३, १०,  
५; बौथी ८, ९: ५; १४, ६:  
२३; २९: १०, २३. ८: २८;  
माथी २, ५, १, ११; ३, ६,  
१८; २१; वैथी १६, १०: ११;  
२१, १४: १; हिथी ९, ३, २७;

श्रुञ्जो-पाठ ४, २८; पाथ ५, २,  
३६; -यम् आपथी १२, १२,  
११; १३; १०, ६; २०, ८, बौथी;  
श्रुया ५, १२६; -यस्य काथी  
१०, ३, १८; ८, २८; ३०;  
आपथी १३, २०, १०; माथी  
८, १०, ८; वाधुथी ४, ६५;  
३; हिथी ९, ५, २७; मीथ १०,  
६, १६; -ये आपथी १३, १०,  
५; बौथी ८, ९: ५; १४, ६:  
२३; २९: १०, २३. ८: २८;  
माथी २, ५, १, ११; ३, ६,  
१८; २१; वैथी १६, १०: ११;  
२१, १४: १; हिथी ९, ३, २७;

श्रुञ्जो-पाठ ४, २८; पाथ ५, २,  
३६; -यम् आपथी १२, १२,  
११; १३; १०, ६; २०, ८, बौथी;  
श्रुया ५, १२६; -यस्य काथी  
१०, ३, १८; ८, २८; ३०;  
आपथी १३, २०, १०; माथी  
८, १०, ८; वाधुथी ४, ६५;  
३; हिथी ९, ५, २७; मीथ १०,  
६, १६; -ये आपथी १३, १०,  
५; बौथी ८, ९: ५; १४, ६:  
२३; २९: १०, २३. ८: २८;  
माथी २, ५, १, ११; ३, ६,  
१८; २१; वैथी १६, १०: ११;  
२१, १४: १; हिथी ९, ३, २७;

श्रुञ्जो-पाठ ४, २८; पाथ ५, २,  
३६; -यम् आपथी १२, १२,  
११; १३; १०, ६; २०, ८, बौथी;  
श्रुया ५, १२६; -यस्य काथी  
१०, ३, १८; ८, २८; ३०;  
आपथी १३, २०, १०; माथी  
८, १०, ८; वाधुथी ४, ६५;  
३; हिथी ९, ५, २७; मीथ १०,  
६, १६; -ये आपथी १३, १०,  
५; बौथी ८, ९: ५; १४, ६:  
२३; २९: १०, २३. ८: २८;  
माथी २, ५, १, ११; ३, ६,  
१८; २१; वैथी १६, १०: ११;  
२१, १४: १; हिथी ९, ३, २७;

श्रुञ्जो-पाठ ४, २८; पाथ ५, २,  
३६; -यम् आपथी १२, १२,  
११; १३; १०, ६; २०, ८, बौथी;  
श्रुया ५, १२६; -यस्य काथी  
१०, ३, १८; ८, २८; ३०;  
आपथी १३, २०, १०; माथी  
८, १०, ८; वाधुथी ४, ६५;  
३; हिथी ९, ५, २७; मीथ १०,  
६, १६; -ये आपथी १३, १०,  
५; बौथी ८, ९: ५; १४, ६:  
२३; २९: १०, २३. ८: २८;  
माथी २, ५, १, ११; ३, ६,  
१८; २१; वैथी १६, १०: ११;  
२१, १४: १; हिथी ९, ३, २७;

श्रुञ्जो-पाठ ४, २८; पाथ ५, २,  
३६; -यम् आपथी १२, १२,  
११; १३; १०, ६; २०, ८, बौथी;  
श्रुया ५, १२६; -यस्य काथी  
१०, ३, १८; ८, २८; ३०;  
आपथी १३, २०, १०; माथी  
८, १०, ८; वाधुथी ४, ६५;  
३; हिथी ९, ५, २७; मीथ १०,  
६, १६; -ये आपथी १३, १०,  
५; बौथी ८, ९: ५; १४, ६:  
२३; २९: १०, २३. ८: २८;  
माथी २, ५, १, ११; ३, ६,  
१८; २१; वैथी १६, १०: ११;  
२१, १४: १; हिथी ९, ३, २७;

श्रुञ्जो-पाठ ४, २८; पाथ ५, २,  
३६; -यम् आपथी १२, १२,  
११; १३; १०, ६; २०, ८, बौथी;  
श्रुया ५, १२६; -यस्य काथी  
१०, ३, १८; ८, २८; ३०;  
आपथी १३, २०, १०; माथी  
८, १०, ८; वाधुथी ४, ६५;  
३; हिथी ९, ५, २७; मीथ १०,  
६, १६; -ये आपथी १३, १०,  
५; बौथी ८, ९: ५; १४, ६:  
२३; २९: १०, २३. ८: २८;  
माथी २, ५, १, ११; ३, ६,  
१८; २१; वैथी १६, १०: ११;  
२१, १४: १; हिथी ९, ३, २७;

श्रुञ्जो-पाठ ४, २८; पाथ ५, २,  
३६; -यम् आपथी १२, १२,  
११; १३; १०, ६; २०, ८, बौथी;  
श्रुया ५, १२६; -यस्य काथी  
१०, ३, १८; ८, २८; ३०;  
आपथी १३, २०, १०; माथी  
८, १०, ८; वाधुथी ४, ६५;  
३; हिथी ९, ५, २७; मीथ १०,  
६, १६; -ये आपथी १३, १०,  
५; बौथी ८, ९: ५; १४, ६:  
२३; २९: १०, २३. ८: २८;  
माथी २, ५, १, ११; ३, ६,  
१८; २१; वैथी १६, १०: ११;  
२१, १४: १; हिथी ९, ३, २७;

१५, ७, १; अयाव ३, ३:  
-यंग आपथी १४, २४, ७;  
काठथी १२४; बौथी १७, ५६:  
२२; ६२: १२; माथी २, ३, ४,  
१८; वैथी १६, २६: ३; लाथी  
८, ८, ६<sup>५</sup>.

श्रुञ्जीप-कल्प- -कल्प आपथी १९,  
४, ७; वैथी ११, ६: ३.

श्रुञ्जीप-कुम्भ- -म्भम् काथी १०,  
९, १.

श्रुञ्जीप-धर्म- -र्मम् आपथी ८,  
७, १५; -र्मंग हिथी ५, २, ६७.

श्रुञ्जीप-भक्ष- -क्षान् माथी ८, १०,  
७.

श्रुञ्जीप-भक्षग- -गम् वाथी १, ७,  
२, ४२.

श्रुञ्जीप-भाव- -वात् कांथी ९, ५,  
११.

श्रुञ्जीप-मिथ- -थम् काथी १०,  
३, १३; -धस्य काथी २५, १३,  
१८.

श्रुञ्जीप-मुल- -लान् वैथी १५,  
१४: १; १६, ११६; हिथी ८,  
३, ३९; -लेपु काथी ९, ५, १२.

श्रुञ्जीप-चव् मीथ ११, ३, ३३.

श्रुञ्जीप-स्थान- -ने वैथी ८,  
१४: ४.

श्रुञ्जीपित- पाग ५, २, ३६.

श्रुञ्जीपिन्- -पि वैथी १४, ६:  
२४; तैमा १६: १८.

श्रुञ्ज्-प्रम्. √श्रुञ्ज् द.

श्रुञ्ज् (वधा.) पाया. भवा.  
आत्म. भर्जन, श्रुञ्जते आपथी  
५, ६, ३; हिथी ३, २, ५६;

a) विप. । वस. । b) पाथे. वैप १, १०१२ f द. । c) वैप १ द. । d) पाठः ! एत्वाः इति

शोषः (तु. आपथी प्रम्.) । e) = श्रुञ्जि-विशेष- । ल्यु. ? । f) ऋष्यः ल्यु. च ? । g) < √श्रुञ्ज् इति ।

h) सहजीये इति पाठः ? सह, श्रुञ्जीवेण इति द्वि-पदः शोषः (तु. भाष्यम्, काथी २२, ६, ७ च) । i) तु. चौतं. ।

j) निष ४, ३ या ६, २१ परामृष्टः द. ।

कञ्जति अण ४८, ४४.  
 कञ्ज- -अन् या ३, ४†.  
 कञ्जलो- पावा ६, १, ८२.  
 कञ्जमान- पाठ २, ८७.  
 √शृणु- पाधा. तना. उम. मतो.  
 शृणु- पाग २, ४, ३१; -णम्  
 शाश्री १५, १७, १†; आपथी  
 २२, १, १०†; द्विथी १७, १,  
 १२†; वीथ ३, १३, ६; ऋथिथ २,  
 ४, ४ : १०; ११; बाध  
 १७, १; शंथ २८५; वीथ १,  
 ५, ७६; ऋथि. ७, ११; १४;  
 विथ ६, २६; २४; ३५; ४०;  
 १५, ४५; गीथ १२, ३७; पा ८,  
 २, ६०; अथ १२, ४५†; -णात्  
 शंथ ४२; अथ १२, ४५†;  
 -णानि वीथी २४, १२ : २;  
 २५, ४, २; -णे गोथ ४, ४, २५;  
 या ५, २५; पा २, १, ४३; ३,  
 ३४; ४, २, ४७; पावा ६, १,  
 ८८; -गैः बाध ११, ४८†.  
 कञ्ज-च्युत्- -च्युत्तम् आश्री ८,  
 १, १२†.  
 कञ्ज-च्य- -च्यः कञ्ज २, ५,  
 ३०; १, १०८; वृद्ध ५, १३; ३३;  
 नाम १, ५८३.  
 कञ्ज-जय- -याय आपथिथ १, २,  
 ३ : २१, वीथि ३, १, ५; भाथ  
 ३, १० : ६; द्विथ २, १९, ६.  
 कञ्ज-प्रय- -यम् वीथ २, १८ :  
 १९†, -कैः वीथ १, ४, ५.  
 कञ्ज-श- -शाभ्याम् पावा ६,

१, ८८.  
 कञ्ज-भूत्- -सो वीथि ३, १, ४.  
 कञ्ज-या- -याः आपथी १६,  
 १८, ७; वीथी १८, १६ : २;  
 द्विथी ११, ६, २९.  
 कञ्ज-वा- -वाद् वीथि ११, ४८†.  
 कञ्ज-वृ- -वृः वीथि २, ६,  
 ३५; १, ७.  
 कञ्ज-वाच्य- -वच्ये वीथि ६, २, ३३.  
 कञ्ज-संयोग- -स्यः वीथि २, १, ४;  
 -यम् वीथि २, ५, ७.  
 कञ्ज-संयोगा(ग-या)दि- -दीनि  
 वीथि २, ६, ३५.  
 कञ्ज-संयुत- -यम् बाध ११, ४७.  
 कञ्ज(शु-क)गै- पावा ६, १, ८८.  
 कञ्जिक- -कः विथि ६, ४३.  
 कञ्जित्- -णी विथि ७, १३.  
 कञ्जति- निघ २, १४.  
 कञ्जणाकुण्ड- -ण्डे वाश्री ४, ७५ :  
 ८.  
 कञ्ज-कृत् (=√कृत्), कञ्जति-  
 कश्री २२, ६, १६; माथी १,  
 ५, ३, ४; वाथी १, ४, ३, २६;  
 जैथी २२ : ५; श्राथी १२,  
 २, ३; लाथी ४, १०, ३; ८,  
 ८, ३६; गोथि १, ३, १६; जैथ  
 २, ४ : १२; निघ २, १४९.  
 कञ्ज-कृ- -कृन् वीथि २, ५, ५८†.  
 कञ्ज- -कृत् √कृत् द.  
 कञ्ज- -ते आथी ८, १, ६; शाथी;  
 वीथि ७, २; ११, ३९; पाग १,  
 १, ३७; पावा १, २, १७.

कञ्ज-मह- -हाय वीथी २०, ५ :  
 २५; २३, १५ : २.  
 कञ्ज-मूल- -लानाम् आपथी १,  
 ५, १३.  
 कञ्ज-स्वय- -स्वयैः आपथी २,  
 १३, १.  
 कञ्ज-स्वाहाकार- -राय वीथी २०,  
 ५ : २४; २३, १५ : १.  
 कञ्ज-जा- प्रथ. √शृ द.  
 कञ्ज-पर्य-कयोवधि- -थी आपथी  
 २१, २०, ३०; द्विथी १६, ६,  
 ४१०.  
 कञ्ज-प्रथ- प्रथ. शतु- द.  
 कञ्ज-श- -प्रथ., कता-च- -प्रथ.,  
 √कति प्रथ √शृ द.  
 कञ्ज- -पाठ १, ७२; -तवः आपथी  
 ८, १३, १४; शाथी ५, १, ९;  
 १४, ७५, २; १६, २५, २९;  
 आपथी ४, १ : ९; ८, २१,  
 १; १४, १४, १२९; २८, ४;  
 वीथी; -तवै वीथी १८, २४ :  
 ३; अथय २, ९†; -तुः आथी  
 ४, १२, २; ६, १, २; ८, ४, ३;  
 शाथी ९, ४, ३; १२, २९, १२;  
 आपथी १२, १२, १४; वीथी  
 १२, ३ : ३८†; माथी; या ९२,  
 २५†; १२, ४६†; -तुना  
 शाथी ७, ८, ५†, १४, ९, ११;  
 काथी ९, १३, १३; १२, ७,  
 २१†; आपथी; -तुनिः आथी  
 ४, ४, ४; शाथी ३, १८, १४;  
 काथी ९, १३, १४९; १७, ८, ९;

- a) वैप १, १७२३ [ द. । b) पा ६, ४, ३७ पराश्रुतः द. । c) वैप १ द. । d) व्यप. । लस. लप.  
 खगन्तम् । e) द्वस. उ५. =दश- । f) सुष्ठुपीयः समसः । g) पामि. वैप १, १००८ [ द. । h) सण.  
 परस्परं पामि. । i) =अधमर्ष- । मत्वपीयः लम् प्र. । j) लघुसाधीयः पाठः । k) पामि. वैप १,  
 १८८ [ द. । l) विप. । वस. । m) ग्यु. पामि. च वैप १ परि. द. । n) शक्ति-विशेषयोः  
 लस. । o) श्रुत पर्णकयोऽपथीः इति श्रुतपर्णकं योऽपथीः इति च पाठो ? यनि. दोषः ( तु. O L Z D M G  
 ५७, ७४३ ) ।



आपथी ८, १५, १७; २०, ५<sup>०</sup>;  
 xx; माण्ड १, १४, १६<sup>०</sup>; या ८,  
 ३६; १४, २७; -वृत्तव्यः आथी  
 २, ४, १२; आपथी २०, २०, ६६;  
 आपथं १, ३, १२<sup>०</sup>; आण्ड; पाण्ड  
 १, ८, १<sup>०</sup>; माण्ड १, ११, १८<sup>०</sup>;  
 -सुम् आथी २, १, १५; शोथी;  
 -सुसुवाथी ४, २८ : ११; ६५<sup>०</sup>;  
 ९; ११; वैथी १७, ७ : ३;  
 आण्ड १, ७, ४ : ९; ३, ६, ३ :  
 २; वीथि १, १७ : ३४; अप  
 ७०<sup>०</sup>, १७, ४; वृदे २, ४१; -द  
 वीथी २, १६ : १७<sup>०</sup>; माथी ८,  
 २४, १०; वैथी १, १९ : १३;  
 १८, १७ : ४३; १९, २ : १०<sup>०</sup>;  
 २१, १५ : १७<sup>०</sup>; द्विथी ५, ६,  
 १३; वृदे १, १३१; -तुम् आथी  
 ८, ९, ७; शोथी; आपथी ८, २२,  
 १०<sup>०</sup>; द्विथी ७, २, ४७<sup>०</sup>; वा७,  
 ११<sup>०</sup>; -तुनाम् आथी १०, ३,  
 १; शोथी; -तो वीथी १४, ९,  
 ९; द्विथी १७, १, ८; वीथि १,  
 १, ११; वीथि १८, २२; वा७,  
 ३, ११; पावा १, १, ७२; -तो  
 आथी २, १, १४; १६, २५;  
 शोथी; -तोऽतो आथी २,  
 १२, ६; वीथी २८, २ : ५८;  
 आण्ड २, २, १ : १; ९, १ :  
 ६; १ : १, वीथि ३, ७, २; १०,  
 २; माण्ड, या ८, १७.  
 आतर्वी- वा ५, १, १०५; -वम्  
 वृदे ३, ३४; -वाः वीथी १७,  
 १९ : ३; वीथि १०६, ७<sup>०</sup>; -वा  
 अप ७०, ९, ३; -वानाम् इव

१६, ८<sup>०</sup>; -वे शंघ १३; ३३३;  
 वृदे ४, ९१<sup>०</sup>; आण्डो १३, ३;  
 -वैष्यः अण्ड १९, ३७<sup>०</sup>; -वैषु  
 वृदे ३, १५; -वैः वीथी १७,  
 ४१ : २६; आण्ड १, ३, ५ :  
 २; वैथि २, १५ : ३; द्विथि १,  
 ११, २.  
 आतर्वी- वीः वीथि १४,  
 २४.  
 आतर्वी-स्वा(त>)वा- ता  
 शंघ २४१.  
 आतर्वी-स्वस्वल्पयन- नाति  
 काण्ड ५५, १.  
 अतव्य, व्या<sup>०</sup> पा ४, २, ३१;  
 -व्यम् ऋय २, १, १५; २, ३६,  
 शुभ २, १८३; २०६, २४०; -व्या  
 ऋय २, ३, २७; मात्र १, ६१७;  
 -व्याः आपथी १७, १, ३xx;  
 वीथी; -व्यानाम् चाण्ड १७ :  
 ८; -व्यासु आपथी १६, २४,  
 १०; वाथी २, २, १, ५, वैथी  
 १८, १७ : ४५; द्विथी ११, ७,  
 ३८; -व्ये वाथी १७, ४, २४xx;  
 आपथी.  
 अतव्या-पात्र- अण्ड वाथी ३,  
 १, १, १३.  
 अतव्या-वेला- लायाम् काथी  
 १७, १२, १.  
 अतु-बाल- अः या १२, ४६<sup>०</sup>;  
 -लम् वीथि ४, १२, २; -ले  
 शोथी ३, १३, २०; वीथी २२,  
 १० : २१; द्राण्ड १, ४, १५;  
 आपथी १२, ५; -लेन वाथि २८,  
 ३; -लेषु या १, १९<sup>०</sup>; ३, ५.

अतु-बाल-गामिन्- वी वाथ  
 १२, २१; वाथ २७० : २.  
 अतु-काल-मय- वाण्ड वाथ १७,  
 ७०.  
 अतु-केतु- तुम् अण्ड ५५, १, १.  
 अतु-स्य- ये आण्डो ७, ७.  
 अतु-नत- तम् अण्ड ५५, १, ४.  
 अतु-गमन- नग् वीथि १, ७, ४६;  
 -वे आपण्ड ९, १.  
 अतु-गामिन्- -निनाम् या १२,  
 ३९.  
 अतु-मह- -हान् वाथी ४, ८३ :  
 १६; -हे वैथी २१, १५ : ११;  
 -हेषु वीथी २५, २१ : ५; माथी  
 २, ४, २, ५; द्विथी ९, २, २१;  
 -हेः काथी ९, १३, १; आपथी  
 १२, २६, ८; १४, २८, ४<sup>०</sup>;  
 माथी २, ४, २, १; द्विथी ८,  
 ८, १; १५, ७, १२; -हो वीथी  
 १५, ३४ : ९.  
 अतु-मह-वृत् वैथी १६, ८ : १३.  
 अतु-पुत्र-स्त्वोम-वृष्ट- -वृष्य  
 या ७, ११; -छानाम् अण्ड ४८,  
 १४७.  
 अतु-जायो(वा-उ)वायिन्- वी  
 वाथी ५, २, २१.  
 अतु-विधि-वृष्य-वृष्यवा- -वाः  
 वाण्ड ४७, १२.  
 अतु-व्यप- -व्यम्, -ये विधि २४,  
 ४०.  
 अतु-वा-वा आथी २, ११, १२<sup>०</sup>;  
 शोथी ३, ६, २<sup>०</sup>; या ८, १७<sup>०</sup>;  
 १२, २७; शुभ ५, १२.  
 अतु-रीमा- -श्वः आपथी २०,

a) पथि. वैष २, ३८. तेना २, ५, ८, १ टि. द. । b) तण. आपथं १, ११, ४ वृत्तिः इति पथि. ।  
 c) पथि. वैष २, ३८. राण्डः तेना ३, ७, ७, ११ टि. द. । d) अतु-र इति ८. (त. इदमन्तः) । e) पथि.  
 वैष १, १०-११ ० द. । f) विष, नाण्ड. । g) = वृष्य, अतु, इष्टान-प्रण्ड. । h) वैष १ द. । i) वनाशोरे  
 द्रण्ड. । j) पथि. वैष १, १०-११ ० द. । k) = वाहुति-विशेष, मन्त्र-विशेष. ।

११, ६; वीथी १५, २० : ३;  
 -शाभिः आपथी २०, ८, १२;  
 हिथी १४, २, २९; -क्षाम्  
 वीथी १५, १३ : ८; १०५; -क्षे  
 वीथी १५, १३ : ११.  
 १ऋतु-देवता, ना<sup>१</sup> - ना गीयु ३,  
 १०, ३; -ताः वीथी २४, ३ :  
 १५; २५, २१ : ८; २६, ११ :  
 २५; ऋतु २, १, १५; या ८,  
 २९; -ताम् आयु २, ४, १२.  
 २ऋतु-देवता - ताम्यः वैयु ४, ८ :  
 ७; -ताम् माए १, १०, ९; २,  
 २, १५.  
 ३ऋतु-देवता<sup>२</sup> - तम् श्रु २, १५८;  
 ३, ७२.  
 ४ऋतु-भा आपमं २, ४, ४<sup>०</sup>; वैए  
 १, १९ : १३; गाशि ४२.  
 ५ऋतु-नक्षत्र - प्राणाम् वीथी २४,  
 १६ : १; पाया २, २, ३४;  
 -प्राणि वीथी २, ६ : २.  
 ६ऋतु-नक्षत्रा (म-अ) विक्रम-  
 मचन - नात् गीम् ५, ४, ६.  
 ७ऋतु-नक्षत्र-पूर्व-संनिपात - ते  
 वाथी १, ४, १, २.  
 ८ऋतु-नक्षत्र-संसार साम-वपन-चातु-  
 ध्यादय-जागतणे (ए-इ) क्मपूर्वा-  
 घन्सारम्भण-नार्पताथी - जोः  
 काथी ४, १०, ३.  
 ९ऋतु-नामन् - मणिः वीथी २१,  
 १ : ३३; -मसु आपथी १४,  
 २८, ५; -मानि आपथी १९,  
 १२, १४; वीथी १०, ४५ : ४०;  
 हिथी २३, ३ : २५; -म्ना वैथी  
 १, १५ : ५.  
 १०ऋतु-पति<sup>३</sup> - ०ते शशि ३३५.

१ऋतु-पर्याय<sup>४</sup> - यम् वीथी १५,  
 ३८ : १०५.  
 २ऋतु-वसु<sup>५</sup> - नायः शोथी १६, ९,  
 २६; १४, २०; १५, १८; वीथी  
 २६, ११ : २५५; -श्रुमिः  
 आपथी २०, २३, १०; वीथी  
 १५, ३८ : १०; माथी ५, ३,  
 १२, ४६; हिथी १४, ५, १०५.  
 ३ऋतु-प्राय - प्रम् आथी ५, ८, ८;  
 आपथी १२, २७, १३; माथी २,  
 ४, २, २५; वैथी १६, ९ : २३  
 हिथी ९, ३, २५; -त्राम्याम्  
 वीथी ८, १ : २०; माथी २, ४,  
 ४, ११; हिथी ९, ३, १३; -त्रे  
 काथी ९, २, १३; आपथी १२,  
 १, १३; १८, २०; काठथी ११६;  
 वीथी ७, २ : १२; १६ : १;  
 १७, ३०५; १४, ८ : २३; २५,  
 १३ : १५; माथी २, ३, १५;  
 ४, २, ३४; वैथी १५, २ : ८;  
 २२ : १०; हिथी ८, १, २४;  
 वैताथी २०, ६, अग्राय ६, ६;  
 -त्रेण काथी १०, १, १३; ३,  
 ३; आपथी १३, २, ४; वैथी  
 १६, २ : ७; ८; ९ : १.  
 ४ऋतु-प्राय-वर्जम् आपथी १२,  
 २८, ९.  
 ५ऋतु-प्रत्यय<sup>६</sup> - यानि निवृ ६, ९ : ४.  
 ६ऋतु-प्रैव<sup>७</sup> - येन्यः शोथी १०,  
 ७, ८; -पैः शोथी ७, ८, २.  
 ७ऋतु-प्रैव-मूल - कं वृदे ३, ३६.  
 ८ऋतु-प्रैवा (य-आ) दि - दिमि  
 आपथी ११, १५, माथी २,  
 ३, ६, १७, वैथी १४, १७ : ८;  
 हिथी ७, ८, ३७.

१ऋतु-भव<sup>८</sup> - वानि कप्र २, ८, ११.  
 २ऋतु-मण्डल - लानि वीथी १९,  
 १० : १४.  
 ३ऋतु-मत् - गतः श्रु ३, १५०५.  
 ४ऋतु-मती - त्ति गीयु २, ५, ८;  
 वाथ १७, ६७; वीथ ४, १, १५;  
 -तोम् वैताथी १२, १४; वीथ  
 ४, १, १३; १९; -त्याः कौम्  
 २२, ५; -त्वाम् वाथ १७, ७०;  
 वीथ १, ५, १२०.  
 ५ऋतु-मती-समन-सहासन -  
 शयन - नानि वैप ३, १, ६.  
 ६ऋतु-सुख<sup>९</sup> - क्षे वीथ २, २, ७६;  
 -क्षेऽ-ये आपथी १४, १४, १३;  
 वीथी २४, १३ : ७; हिथी १०,  
 ७, १८; -वेयु वीथी १६, २७ :  
 २३; २६, १८ : १०; गाथी ५,  
 २, १४, १८.  
 ७ऋतु-सुखी<sup>१०</sup> - स्तोमिः वैए ५,  
 ५ : २३.  
 ८ऋतु-सुख-क्षुति - तेः काथी १,  
 २, १३.  
 ९ऋतु-सुखीय - यः आपथी १४,  
 १४, १३; -येन आप्रिय ३, ४,  
 ४ : ६; वीथि ३, ४, १३<sup>१</sup>.  
 १०ऋतु-प्राय<sup>११</sup> - गम् आपथी २१,  
 ७, १४; वीथी १६, ५ : १; २;  
 २६, १३ : १५; हिथी १६, ३,  
 ३३; -जा. वीथी २५, २१ : ८;  
 -जान् आथी ५, ५, २१५; वीथी  
 २५, २० : २०; वैताथी २०,  
 ४; -जानाम् आथी ८, १, ५;  
 -जेयु या ८, २; -सौ आथी ५,  
 ८, १; शोथी ७, ८, १; जैथी  
 १५ : १.

a) विप. 1 वस. । b) वानि. वैप १, १०१२ इ. द. । c) वैप १ द. । d) ऋत. वा. मि. वि. ।  
 e) वैप २, ३ खं. द. । f) 'प्रायम् इति' C. लोचः । g) विप. 1 उत. वा वस. वा । h) = 1 ऋतुसुख-  
 शब्दयुक्तः । ऋतु. । i) ऋतुसुखीभिः इति R. । j) = याग-विशेष-1

ऋतुयाजे(ज-इ)ज्या- ज्या  
काथी १२,३,१४.

ऋतु-याजिन- जी आपथी ८, ४,  
१३; वैथी ८, ८ : ९; या ३,  
१९.

ऋतु-याज्या- ज्या आपथी २१,  
२,२; -ज्यानाम् वैताथी ३१,  
२७; -ज्याम् हिथी १६, १,  
२३.

ऋतु-रात्रि- त्रयः वैथ ३, ९ : ७;  
-त्रिषु वैथ ३, १, ५.

ऋतु-विशेष- यः वैथी १९, २ :  
१०; ११.

ऋतु-वेला- लायाम् कौष्ट १, १२,  
१; शांथ १, १९, १; आमिष्ट १,  
६, ३ : ६८; २, ७, ६ : ३६.

ऋतु-व्यतिक्रम- मे वीथी २८, १ :  
३०; २ : ५२.

ऋतु-व्यावृत्ति- तौ आपथी ७,  
२८, ७.

ऋतु-वास(ः) आपथी ३, १२,  
१; वीथी ३, ३१ : ४; माथी  
३, ११, १; हिथी २, ६, १७;  
आमिष्ट १, ५, ४ : २१.

ऋतु-वैष- पम् वैज्यो ४१.

ऋतु-वड्ड- दे निम् ८, ११ : १.

ऋतु-श- > छा-यजावशिष्य-  
-यम् द्राथी २, १, १८; लाथी १,  
५, १५; -येन जैथी ४ : ६.

ऋतु-संवेदान-> न-विष्टेद-प्राय-  
श्चित्त- सत्म् कौष्ट ४, १२, १; ७.  
ऋतु-संवेदाना(न-आ) दि- दि  
वीथ ३, १३, १.

ऋतु-संगमन- > न-गर्भाधान-  
पुंसवन-मीमन्त-विष्णुबलि-जा-  
तकर्मो(मं-उ)स्थान-नामकरण-

(ण-अ) सप्तशान-प्रवासागमन-  
विण्डवद्वेन-चौदको(क-उ)पनयन-  
पारायण-अनबन्धविसर्गो(मं-उ)-  
पाकर्म-समावर्तन-पाणिप्रदण-  
-णानि वैथ १, १ : १-४.

ऋतुसंगमन-वर्जम् वैथ २, १ : १.

ऋतु-संधि- थिषु पाथ २, ११, २.

ऋतु-समावेशन- ने आपथ ८,  
१३.

ऋतु-संमिष- -पम् वीथी २६, १४ : २.

ऋतु-सर्व- -वः वीथी १८, ४ : १३.

ऋतु-स्तोम- -माः आथी ९, ८,  
२६; शाथी १४, ७, १.

ऋतु-स्था- -स्थाः तैमा ६, ७११.

ऋतुस्था-यजावशिष्य- -येन  
आपथी १७, १२, १०; वीथी  
१०, ४९ : १४; वैथी १९, ६ :  
६; हिथी १२, ३, १३.

ऋतु-रत्ना(त>)ना- ता वैथ ३,  
९ : ६; -नाम् वाथ २०, ३५.

वाथ ४, १, २०; २३, -तायाम्  
आमिष्ट २, ५, ६ : १२; वैथ ६,  
२ : १.

ऋतु-स्नान- नान् आमिष्ट २, ७,  
६ : १.

ऋतु-स्वभाव- वाः ऋष ६४, १०, १.

ऋतु-होम- नाम् वैताथी २०, ५;  
-मैः वाधूथी ३, १४ : ३, ५.

ऋतुत्ना(वड्ड-)आथी २२, २२, ४.

ऋतुत्नाम् (एकरमाद्यपद्याश-) हिथी  
१८, ३, ३.

ऋतुत्नाम् एकादशरात्र- -श्रेण  
आपथी २३, १, ५; हिथी १८,  
१, ६.

✓ऋतुव>ऋतुवा- -या वीत्  
९९, २१.

ऋत्व(तु-अ)न्त- न्ते हिपि २० :  
९१.

ऋत्व(तु-अ)न्तर-ग्रह-सूतक- के  
विष ३०, ५.

ऋत्व(तु-अ)न्तर-भारमण- -जे  
गोध २४, ४.

ऋत्व(तु-अन्त्य)>नया- न्यासु  
वीथ ३, ७, १३; वाथ ४, ५, १७.

ऋत्व(तु-अ)भोग्या- ज्या निम् २,  
५ : १६; -ज्यायाम् निम् ७,  
३ : २०.

ऋत्वि(तु-इ)ञ्- वा ३, २, ५९; पाथ  
५, १, १२४, -विकृ शाथी ४,  
२१, १; द्राथी; या ३, १९१;

-विधु वीथी २४, १२ : १५;  
२८, ११ : ७; द्राथी १२, ४,  
२०; लाथी ४, ६२, १५, संघ  
३०३; पावा ३, २, १३५;

-विभिन्न आपथी ६, १, ६१; १४,  
२६, १११; वीथी ३, ४ : ६१, २४,  
३० : ८; माथी ६, ७, ५१; माथी  
१, ६, १, २१; वाथी; -त्विग्यः  
आथी १०, १०, १०; शाथी १३,  
२, १; काथी; -विव् शोध ३०२;

-विजः आथी १, ११, ७१ x x;  
शाथी; या ७, ३०; ८, २; १३, १३;

-विवजम् वाधूथी ४, १८ : २२;  
३२; निम्; या ७, १५१;

-विवजा आथी ७, २, ४; शाथी  
१२, १, ५१, अप्राय ६, ६१;

-विवजम् आथी १, ११, ७; २,  
४, ३; वाथी, निघ ३, १८;

-विवजि शोध ३०३; -विवजे आप  
१, ६, २; कौष्ट ३, १०, ३२; शांथ;  
-विवजोः वैथ ६, १ : ८; -विवजो  
वैथ १, ९ : १७, ११ : ११;

a) = ऋहीनयाव-विशेष-। b) वैर १ द.। c) वै १, १०-१३ d) = याव-विशेष-।

e) वैष १, १९९ d द.। f) गम्यः इति पाठः? यति. शोधः (तु. काठ ३५, १०)।

कीर्त्त ७२, ४४.  
 आखिज<sup>a</sup> - जम् वृदे ७, ८३;  
 -जा: वृदे ७, १३८; -जे मीत् ३, ४, ३४.  
 आखिजीन- पा, पावा ५, १, ७१.  
 आखिज्य<sup>b</sup> - वा ५, १, १२४;  
 -ज्यम् शाथी १, ४, ५<sup>c</sup>†; †आपथी २, १५, १<sup>३</sup>; ३, १८, ४; १०, १, ३; २१, १, २०; २४, १, २१; ११, २<sup>३</sup>; वीथी: -ज्यस्य शाथी १३, १४, २; वीथी १४, ११: ३१; -ज्याव आपथी १४, १५, १†; ३१, ८; द्विथी १०, ७, १७; -ज्याव वृदे ५, ३३; ५५; ८, ६; -ज्येन आपथी २१, १, १९.  
 आखिज्या(ज्य-अ)भाव-  
 -यात् मीत् ६, ६, १८.  
 अखिक्-कर्मन्- -र्मणाम् या १, ८.  
 अखिक्-कल्प- -ल्प: कौस् २२, ३२.  
 अखिक्-स्व- -स्वम् मीत् ३, ७, ३२.  
 अखिक्-पत्नी-प्रीपकृत्- -कृत: वैताथी ३८, ९.  
 अखिक्-पथ- -थेन शाथी ४, ४, ८; लाथी २, ४, ४.  
 अखिक्-पुण- पा ६, २, १३३.  
 अखिक्-फल- -लम् मीत् ३, ८, २५.  
 अखिक्-धृति- -ते: काथी १,

६, १३.  
 अखिक्-अशुर-पितृव्य-मानुल्-  
 -लात् वाप १३, ४१; आपथ १, १४, ११; द्विथ १, ४, ४३;  
 -लानाम् वीथ १, २, ४६; वीथ ६, ९.  
 अखिक्-अशुर-सखि-संबन्धि-  
 मानुल्-भागिनेव- -वानाम् वाप ३, १०, ४६.  
 अखिक्-स्तुति- -ति: श्रथ २, १०, १०१; वृदे ८, १०.  
 अखिक्-अपोहन-> -णीव<sup>d</sup>-  
 -या: काथी २२, ६, २१.  
 अखिक्-अपोहन<sup>e</sup>- -न: क्षुस् २, ९: १.  
 अखिक्-आचार्य- -र्षयो: काथी २४, ६, ३०; -र्षी वाप १३, ५०;  
 गीथ १५, १४; २१, १२.  
 अखिक्-आचार्य-अशुर-पितृव्य-  
 मानुल्- -लानाम् वीथ ५, २८.  
 अखिक्-आदि- -दिना कप्र ३, १, १.  
 अखिक्-दान- -नम् मीत् १०, २, २२.  
 अखिक्-दीक्षित-ग्रहचारि-  
 -वजेम् वीथ १, ५, ९०.  
 अखिक्-यजमान- -नी अप ११, १, ३; १३, १, ३.  
 अखिक्-चरण- -णम् वैथी १८, १: ८; २१, १०: ३.  
 अखिक्-नामन्- -मानि निप ३, १८; या ३, १९.  
 अखिक्-व<sup>b</sup>- वा ५, १, १०६९; -व:

आथी ३, १०, ५४४; शाथी:  
 -यम् आथी १०, ९, ५; शाथी १६, ७, १; वीथी २९, १२: १०९;  
 वापुथी ४, ६८: ४; -या: आथी ३, ७, ९; -ये माथी ८, ३, २८;  
 आपथं १, ११, २; माप १, १४, १६; वाप १६, १; श्वय १४, २;  
 -थी आपथी १४, ३०, २; वीथी २९, ५: २; वैथी २१, १६: ५; द्विथी १५, ७, १८.  
 अखिक्-व(त् >)नी- -नी  
 आपथी ५, ८, ८; वीथी २, १५: ११; माथी १, ५, २, ४; वाथी १, ४, १, १९; वैथी १, ८: ४;  
 द्विथी १५, १०.  
 अखिक्(व >)वा-व(त् >)वी-  
 -वी श्रथ ९, १७†.  
 अखिक्(त् >)एका<sup>e</sup>- -का: वीथी १९, ३: ३६.  
 अख्य<sup>f</sup>- पा ६, ४, १७५; -ख्य: श्रथ ३, २, १२१९.  
 अनुपूर्ण<sup>g</sup>- -र्ण: वीथी १८, १३: ३.  
 अनुजनित्री- > -त्रीव<sup>h</sup>- -यम् शाथी ११, १४, २२; -यस्य शाथी ११, १४, १०.  
 अनु-यर्ण<sup>i</sup>- -र्ण: श्रथ २, १७.  
 अन्तेऽवस्थूणा<sup>k</sup> माप २, ११, १४.  
 अन्ते-ग्रह- प्रम्. २अत-द्र.  
 अन्ते<sup>l</sup> आपथी १, १०, ८; ८, ४, ६;  
 आपथ २, ५, १७; द्विथ २, १, १९.  
 अन्तेऽपत्रागेव नेत्र ३२.  
 अनुद्वर<sup>m</sup>- -र: निप ४, ३; -रेण वीथी १३, २५: २; या ६, ४.

a) विप. । तस्येदमीय. अण् प्र. । b) वैप १३. । c) = एकाह-विशेष- । d) वत्. उप. माप. । e) = इष्टका-विशेष- । f) = अखिक्-व. । g) पाठ: ? ख्यम् इति शोधः । h) = वृप-विशेष- । व्यु. १ । i) = सुक्त-विशेष- । j) व्यप. । व्यु. १ । k) पाठ: ? अन्तेन स्थूणां इति शोधः (तु. सप्र. की ३, १२, ६ आशु २, ९, २; काशु ११, ३) । वैप १, १९७ k नेष्टम् । l) पाठ: ? अन्ते (तु. O.); वैतु. आपथ. द्विथ. माथ्ये य-लोप इति ?), इति यद्वा अखिक्वे (तु. सपा. माथी ८, ३, २८; O. च; वैतु. आपथी. माथ्ये कर्त्तौ इति) इति शोधः ।

†अध्-प- -वे निघ ४, ३; या ६, ४;  
३३३.

†अध्-वृष्- -वृधा या ६, ३३; अष्टा  
९, ८.

√अध्, न्ध् (वधा.)<sup>०</sup> पाषा. दिवा. स्ना.

पर. वृद्धी, अद्वय शंभ्री १, १४,

१६१<sup>०</sup>; †अध् आश्री १, ९,

१; शंभ्री १, १४, २; अद्वय

आश्री १, ९, ५१<sup>०</sup>; शंभ्री १, १४,

१८; †अद्वयाम, > मा वैष्ट १,

६ : ९; अष्टा ७, ५५; शुभा ३,

१२९; तैषा ३, १०.

अद्वयान् वाधुधी ४, ९४ : ८;

९४<sup>०</sup> : ९ : ९४<sup>०</sup> : ८ : ९४<sup>०</sup> : ९.

अध्नेति आपश्री १९, १७,

२०××; शंभ्री; निघ ३, ५१<sup>०</sup>;

अध्नेवन्ति दिश्री १६, १, ३४<sup>०</sup>;

अध्नेवन्ति आपश्री २३, ७,

५××; शंभ्री; †अध्नेमि<sup>०</sup>

माश्री १, ५, २, १; वाश्री १,

४, १, १६; अध्नेदि हिश्री १४, १,

२८; †अध्नेवन् आपश्री २३, ११,

१४; अध्नेव् हिश्री १८, ४,

१८, †अध्नेवन् आपश्री २१,

११, १-१०; शंभ्री १७, २१ :

१०S; हिश्री १६, ४, २७-२९;

२०<sup>०</sup>; ३१<sup>०</sup>; ३२; तैषा ५, २१;

अध्नेवन् आपश्री ५, २६, २;

२८, १; ६, ७, ७; १७, २४, ६;

माश्री ५, २०, ३; माश्री ६, १,

१, २७; वाश्री १, ५, २, २४<sup>०</sup>;

२, १, १, २३; ३, २, ६, २१<sup>०</sup>;

शंभ्री १९, ८ : ७; निघ् ६, ११ :

१३; अष्टा ७, २, ८; †अध्नेवाम्

आपश्री ३, १४, १४; १०, ५, ५<sup>०</sup>;  
शंभ्री १७, ३० : १; हिश्री २,  
६, ४९; ३, ७, ४८; ७, १, २९;  
३०; १२, ८, १५; आपश्री १४,  
८; हिश्री ४, ४८.

†अध्नेव् आश्री १, ९, ५; वाश्री  
१, ३, ६, ८.

†अध्नेवत् या १४, २५; माशि  
४९; †अध्नेदि अष्टा ४८, १०;  
निघ ३, ५.

अध्नेवाम् शंभ्री ६, १, ५;  
†अध्नेवाम् आपश्री ४, १०,

१; १४, १८, १; १५, १, १०;  
शंभ्री ४, ३ : ३७; ९, २ : १०;  
१४; १९; २३; २७××;

माश्री; माश्री २, ४, ५, १४<sup>०</sup>;  
†अध्नेवाम् आश्री १, ९, १;

शंभ्री १, १४, २; हिश्री २, ८,  
३९; वैष्ट १, ७ : ७; कौस् १३६,  
२<sup>०</sup>; अष्टा ६, ५.

अध्नेवन्तीध ११, १६<sup>०</sup>; अध्नेवन्ते  
अष्टा ५३, ४, १; †अध्नेवाम्

शंभ्री २, १ : १७; १८; आपमं  
१, १३, ४S, आमिष्ट २, ३, ४ :

५; कौस् ४५, १६; अध्नेवन् माश्री  
५, १, १, ३४<sup>०</sup>.

ईश्वर्य आपश्री ६, २९, ९; १९,  
१७, २०; शंभ्री १४, १६ : १५;  
१६<sup>०</sup>, पाष्ट १, ५, ८<sup>०</sup>; †अध्नेवाम्

२, ५, ५ : ११; १२; वाष्ट  
१४, १२.

ईश्वर्य- -लैतः लुम् १, २ : २८.  
अध्नेवाम् शंभ्री १७, १९ : ११;  
आमिष्ट २, ५, ३ : ४५; ४७;

वीष्ट ३, ७, २८; २९; -दाः  
काश्री ४, २, १२<sup>०</sup>.

अध्नेवाम्- -मः या ३, २०.  
अध्ने- -द्वयः शंभ्री १७, ४१ :

१९<sup>०</sup>; आपमं २, ८, २; आमिष्ट  
१, ३, ४ : १२; माष्ट २, २१ :

१६; हिष्ट १, १०, ६, -द्विः  
काश्री १२, ४, १०<sup>०</sup>; शंभ्री २,

१२ : १६; माश्री ५, १, १, १९;  
आपश्री ३, १६; २०; वैष्ट १,

१९ : ५; अष्टा १, ५; शुभा  
६, २६<sup>०</sup>; -द्विम् आश्री २, ३,

१३; ८, १३, १०; काश्री; लंघ  
११६ : ३४<sup>०</sup>; -†अध्नेव आपश्री  
३, ११, २; २०, ९, ५; शंभ्री

१, २१ : १४; माश्री ३, १०, २,  
हिश्री २, ६, १; शंभ्री १, १०-  
२२S; आमिष्ट १, ५, २ : १५S;

वीष्ट १, ५, २९; काष्ट ३०, ३.  
अध्ने-कर्मन्- -मैणा वृद्धे ३, ४;

अध्ने-काम- -म आश्री १०, ३,  
६××; आपश्री; -मस्य आश्री  
३०, १, १; काश्री १९, १, १; हिश्री

३, २, १७; वैताधी ४३, ३८;  
-माः आश्री ११, ३, ११; आपश्री  
२३, १, १७; ५, १०; ८, ८; हिश्री

१८, २, १०; -मानाम् आश्री  
११, २, २; काश्री २४, २, २२;  
३४.

अध्ने-नदीसमाम-संख्यावयव-  
-वैभ्यः पावा २, ४, ८४.

अध्ने-यशु-मद्वयवैम-वीथी(र्थ-  
-क)वाच-प्रतिष्ठा-काम-  
-मानाम् काश्री २३, १, ८.

- a) वैष्ट १ द. 1    b) या ३, २०; ४, १५ वा ७, २, ४९; ४, ५५ पावा ६, १, ९ पराष्टः द. 1    c) पामे.  
वैष्ट १, १-१४ d) पामे. वैष्ट २, ३६. अद्वय दि. द. 1    e) पामे. वैष्ट १, १-१५ f) पामे.  
वैष्ट २, ३६. भूवाम पर, ६ दि. द. 1    g) ईश्वर्य इति पाठः! यनि. शोषः (शु. राजा.)    h) अध्नेव इति  
पाठः! यनि. शोषः (शु. छत्र. सि ४, ६, २)    i) नाग.    j) विप. 1 बत. 1

कदि-पुनराधेय- -यम् वीथी  
३, ३ : १३.

कदि-ईर्त्त- -संपु वीथि, १, २२.

कदि-सस्ताव- -यम् निष् ८,  
१ : ३२.

कदि-सससमिद्-स्याद्धति- -तोः  
वैथ ३, ४ : ६.

कदि-सामन्- -म् निष् ७,  
३ : २६.

कदि-वृष्- -आपथो ५, ८, ४; वीथी  
२, १५ : १९; द्विथी ६, ५, ९.

कधु- > कधु-क- -कम् आथ  
४, ७, २५१.

कधुवत्- -न्त् या ४, २५२.

कधुवत्- -न्त् या ८, ११.

कधुवत्- -न्त् या ४, २५२.  
कधुवत्- -न्त् या ८, ११.

कधुवत्- -न्त् या ४, २५२.  
कधुवत्- -न्त् या ८, ११.

कधुवत्- -न्त् या ४, २५२.  
कधुवत्- -न्त् या ८, ११.

कधुवत्- -न्त् या ४, २५२.  
कधुवत्- -न्त् या ८, ११.

कधीसपक(क-अ)वान- -न्म्  
वाथी १, ४, ३, ४२.

कधु- -पावतो २, १, २८१; -भवः  
वाथी ८, २०, १९; वीथि २, २,  
६१; माथ २, १५, ६१; अप  
४८, १३९१; श्वेदे १, ८२; ४,  
१२२; ८, १२८; निष् ५,  
५१; या ११, १५१; १६१११;  
-०भवः माथा २, ६८१; -पुंसुः  
आथी ६, ३, १; ८, ८, ६;  
वाथी १०, ६, १८; काथी  
१३, १, ११; २३, ३, १;  
आपथी २२, १९, १; वैताथी  
१७, १०; अप ४८, ८५; कथ  
२, ४, ३४; श्वेदे ३, ८३३; ६,  
१३५; अथ ४, १२; निष्  
३, १५; या ११, ११, १६;  
-भुभिः आथी ५, ५, १९१;  
७, ७, ७; ९, ५, ५; प-वाथी  
३, १८, १५१; ८, २, ५;  
१४, ३, १२; श्वेदे १, १२७;  
-भुम्भुः आथी ८, ८, ४; आथी  
१०, ५, २३१; आथिथि १, २,  
२ : ११, वीथि ३, ९, ३; वीथि  
३, ५, २; माथ ३, ९ : ११; द्विथि  
२, १९, १, कथ २, ४, ३३;  
३, २४; -प-भुम्भुः आथी  
३, ११, २; माथी ३, १०, २;  
द्विथी २, ६, ९; -प-भुम्भुः आथी  
४, ६, ३, आथी ५, ११, ७;  
वीथी २, १६ : ४८; ७, ४२ :  
१५; माथी ५, ६, ७; वाथी  
१, ४, ३, १; वैथी १, ११ :

१; द्विथी ३, ४, १०; साथ  
१, २५७; २५८; या ९, ३; -भुम्भुः  
आथिथि २, ५, ३ : ३११; वीथि  
३, ७, २१; -भोः या ११, १६.  
कार्थव- -वः आथी १४,  
२४, २; ३३, ५; ६१, ६;  
वीथी ८, ११ : ८५५; वाथी;  
निष् ९, १०२३६०; -वम् आथी  
८, ८, ८; १२, २४; वाथी ८,  
३, १४; १०, ८, १८; ११, २, ९;  
५, ४; ६, ७; ७, ९; १८, २२,  
६; माथी २, ५, १, २०; द्विथी  
९, ३, ३५; कथ २, १, २०;  
११०; १६१; ३, ६०; ४, ३३;  
७, ४८; श्वेदे ४, २७१; ५, १;  
१७५; ६, १०८; -वत्स्य वाथी  
१४, ५६, ८; माथी २, ५, १, २२;  
३, ७, ५; अपाथ ६, ४; -वात्  
आथी १३, ११, १; १७, २३,  
२; द्विथी १०, ५, ६; -वात्  
आथी ३, ११ : १३; -वाथ वीथी  
१६, १२ : १७; -वे आथी ५,  
१७, ४; वाथी ६, ८, १२; आपथी  
२२, ७, २४; वीथी १४, ५ :  
१४; ६ : ६; माथी ३, ७, ६;  
वैथी २१, १३७; द्विथी १५, ६,  
४४; १७, ३, २३; वीथी; निष्  
४, ७, ४; ६, २, २२; ७, ५, ३१;  
-वेण वाथी ८, १, ९; आथी ६,  
२, ४; १०, ३, ३; आथी २, १०,  
४; -वेणु आथ २, १२ : ५;  
१२; १९, २७.

कार्थवो- -वी कथ २,

a) विप. 1 मलो. वस. । b) पाठे. वैप २, ३४. द. । c) विप. 1 वसुः प्र. उखं. (वा ३, १४०) ।  
d) हाथे का प्र. । e) वैप १ द. । f) पाठे. वैप १, १-१६ ज द. । g) √रिम् इति [पठे] BFG. ।  
h) पाठे. वैप १ परि. द. । i) कधीवप इति पाठः? इति. शोधः । j) <√रिम् । k) पाठे. वैप २,  
३४. कधुभिः तैत्रा २, ५, ८, ३ टि. द. । l) पाठे. वैप १ परि. कधुवः क १, ११, १ टि. द. । m) विप.,  
ना. (= साम-विशेष-1 निष्. 1) । n) पाठः? इति शोधः (टि. मूलो.) ।

१०, १७६, वृदे ५, १७४, १०८, ८, ७४

आर्भवेचर- रम् निम् ५, ८ २५, ८, ४. २

आर्भवे चन्द्रस्- न्दासि नित् ३, १ २३

आर्भवे-जातवेदमीय- ये शाश्री १६ २०, १६

आर्भवे परमान- नात् वैश्री १६, १२ २१, -ने काश्री २२, ६, ४<sup>०</sup>

आर्भवे माहत्- ते शाश्री ११ १४, ३२

आर्भवा(व क)न्त- न्तान् नित् ५, ६ ३

आर्भवा-ली(य>)या- या नित् ६ २. १४

आर्भवा(व क)न्व- ग्या द्राश्री ८, २, २१, लाश्री ४ ६

१६, लुत् ३, १० २५ २६, ११ १४<sup>०</sup>, १० १५ नित् ४ ६ २० २, ५ २८

आर्भवी(य>)या- यानित् ५, ० २५ ६, ० ९, -याम् नित् ५, २ २४, ६, २ ७ ८, ९, २ १

क्रमु-मत्- मत काश्री १०, ५ ९, ७, १३ आपश्री १३, १२, २, वीश्री ८, १२-१६, माश्री २, ५, १, ३२, वैश्री १६, १३ १५ द्विश्री २, ३, ४९, -मते

शाश्री ५, १, १५ शाश्री ६, ७, १०, वीश्री ९ १० ११, -मन्तम्

आश्री ५, ३, १०, शाश्री ६, ९, १३, -मान् काश्री १०, ७, १३

समुक्षन्, दात्- ऋक्षण शाश्री ८, १२, २४, ऋम् २, ७, ४८, -ऋक्षा अप ४८, ६८, निघ ३, ३, या २, ३

क्रमुक्षिन्- पाउभो २ १, २९५, पा ७, १, ८५

क्रम्- ग्यम् या ११, २१<sup>०</sup>

ऋभ्यन्- भ्वा ऋप्रा १४, ४८, ५२, -भ्याणम् अप ३ २, ३२<sup>०</sup>

क्रमुचु- लु अप ५२, ९, ५

✓क्रम्फु ✓क्रम् द ऋदय- पाग ४, १, ४१<sup>b</sup>, १५४<sup>b</sup>, २, ८०<sup>३०</sup>, -इयस्य नित् ६, ७ २२<sup>०</sup>, -इया वीश्री २५ १<sup>०</sup>, -इये वीश्री २, ५ १०<sup>f</sup> m

क्रदपी- पा ४ १, ४१

आइर्यापि- पा ४, १, १५४

क्रदय-क- पा ४, २, ८०<sup>०</sup>

क्रदय-द- द रूप ४८, ७७, -दान् निघ ३, २३

क्रदय-द्विण प्रपत-महिष वराह कुल- -द्वा वीष १, ५, १३२

क्रदयाण- णा वीश्री २५ १

✓क्रप् (✓कर्ष[बधा]) पाथा तुदा पर गती, क्रप्वति आमित् २, ४, ५ १९<sup>०</sup>

क्रपण- -गेन या ४, ७

क्रपक- कै अप ५२, ५, ३.

अत्रम, भा- पाउ ३, १२३, पाग ०, १, ५६, -०म वीश्री ५, १- २४, -म आश्री २, ४, ६ x x, दाश्री, -मम् आश्री १२, ७, १३, दाश्री, -मस्य नाश्री १७, ५ ९, आपश्री, लाश्री ६, १०, १२<sup>०</sup>, -मा वीश्री २५ १<sup>०</sup>, दाश्री २, १, १६, लाश्री ३, ५, ५ १५<sup>०</sup>, ६, ४, ९ ४, २१, ऋापम १, १३, २<sup>०</sup>, ३, अप १. १, ४, वीश्री १, १२, ६<sup>०</sup>, द्वि १, २५, ११<sup>०</sup>, -भाणाम् काश्री ३० १०, माश्री ५, ३, १०, ३५ लाश्री ९, ४, २०, -मान् वीश्री २१, २६ २ -मान् वीश्री १०, ५ २३, ६ ६, १२, ८ ४, २२, २ १७, माश्री ५, २, १०, ४४, वैश्री १८ १ ७६, -भाम् आप ३, १२<sup>०</sup>, -ऋाप वीश्री १८, ४० ९, १०, वाश्री ४ ८९ २४, वीश्री २, ८, १६, -ऋास आपश्री १९, ३, २ वीश्री १७, ३६ १, आप १, १, ४, -मे काश्री २, १८, १०, शाश्री १६, ९, १०<sup>f</sup>, आपश्री १०, १२, ४, १९, १७, १, वीश्री १५ १७ २ भाश्री १०, ११ १<sup>f</sup>, वैश्री ९, ३ ८,

a) आर्भवे, स्तूपमाने इति चीस । b) विप । बस । c) वैप १ द । d) = क्रमुक्षन्- । e) पाभे वैप १ द । f) व्यप । व्यु १ । g) यप्रा । उत्तरर दि विवेक द । व्यु १ । h) क्रप्य- इति पाका । i) = क्रपि विरेप । j) क्रप्य इति [पल] भाण्डा । k) अर्थ १ । l) बहु < आइर्यापि- । m) = ग्य विशेष । n) = देश विशेष १ । o) हितायाम् वृति । सपा वीश्री २, ५ २६ रिच्यु इति पाभे । p) विप । कर्तारि कृत् । q) अर्थ व्यु न<sup>०</sup> । r) विप, नाप (उक्षन्, स्वर विशेष [नाशि माशि प्रसु] इक्षका विशेष प्रसु), व्यप (कपि विशेष [क्रध]) । वैप १ द । s) पूर्वेषु सधिरार्य । t) बहु < अर्षम । u) पाभे वैप १ कृपम्ना शी ९, १, ९ टि द । v) पाभे वैप १, १०-१९ ११ द । w) = [वरय परिवर्जितान्] कन्या ।

द्विधौ १०, २, ४११; २२, १, १३;  
 त्रिधौ २५: ५; द्वात्रिंशो २, २, ४६;  
 १३, १, १६; चात्रिंशो १, ६, ४३;  
 ५, १, १४; ७, १, ७; ९, ४, २०;  
 चैत्रिंशो ३९, १८; निम्न ६, ३:  
 २२; मासि १, ९; नाशि १, २,  
 ११; -भेग चात्रिंशो ९, ७, ३०;  
 आषाढौ १०, २५, १४; २२, १२,  
 ११; भाद्रौ १०, १७, ७; माघौ  
 ६, १, ८, १०; द्विधौ ७, २, ६८;  
 १७, ५, १९; ३०; चात्रिंशो ९, ४, ९;  
 आश्वि १, ५, ५: १४; ६, ३:  
 ६६; २, ७, ६: ३३; द्विधौ १,  
 २५, २१; कौस्तु २४, २२;  
 अश्व ५, ६; ऋष २४, १०,  
 १०२; -भेगु चात्रिंशो ४, ४, ११.  
 कार्यम<sup>०</sup> - भस्म वीथी १६, २०:  
 ३, १८, ३: २; ७; जेथी २५: ५;  
 द्वात्रिंशो २, २, ४६; चात्रिंशो १, ६,  
 ४३; ६, ११, ४; वाध १७, ८;  
 अश्व ९, ४; -भेग वीथी १६,  
 २०: १०; चात्रिंशो ३, ११, २;  
 अश्व १, २७, २.  
 कार्यम-स्तोत्रीय - यम्  
 निम्न ६, ४: १२.  
 कार्यम्य - पा ५, १, १४.  
 रूपम-गोस्य - वी चात्रिंशो २२,  
 ११, ३.  
 रूपम-चर्म - मी आषाढौ २०, २०,  
 १: २२, २५, ५; वाधौ ३, ४, ५, ५;  
 द्विधौ १४, ४, ४३; २३, ४, ३;  
 माघ २, १४, २६.  
 रूपम-त - पा ५, ३, ११.  
 रूपम-द्विधौ<sup>०</sup> - द्विधौ: कौस्तु

२४, ९.  
 रूपम-धैवत - लौ शैवि १७४;  
 पाशि १२; याशि १, ७; नाशि  
 १, ८, ८.  
 रूपम-पूजा - जा गोग ३, ६, ११.  
 रूपम-प्रतिरूप - पा: जुगु २, २:  
 २.  
 रूपम-प्रभृति - ति: द्विधौ १२,  
 १, ७; २०; २९; -तीनि द्विधौ  
 ११, ८, २२.  
 रूपम-रूप - यम् चात्रिंशो १४,  
 २३, २.  
 रूपम-वच नाशि १, ५, ८.  
 रूपम-व(त>)ती - ती चात्रिंशो  
 १४, २३, ४.  
 रूपम-वेहृत् - हतौ वाय २१, २२.  
 रूपम-वोड(व>)शा - शा: गीय  
 २८, १५.  
 रूपम-सहस्र - यम् चात्रिंशो २२,  
 ११, ५.  
 रूपमा(म-आ)दि - दि: आषाढौ  
 १७, १, १०; २, ७; १३.  
 रूपमा(म-अ)धिक<sup>०</sup> - कम् चात्रिंशो  
 २४, ५, २८.  
 रूपमै(म-ए)कमा(त>)वा<sup>०</sup> - वा:  
 वीथी १६, २९: ६; गीय २२,  
 १६; -वानाम् चात्रिंशो १२, ६,  
 ३२.  
 रूपमै(म-ए)कसह(त>)वा<sup>०</sup> -  
 वा: गीय २२, १४.  
 रूपमै(म-ए)कादश, वा<sup>०</sup> - वा सुष  
 ३६!; -शम् वीथ ४, ४, १०;  
 -शा: वीथी १६, २९: ६;  
 गीय २२, १८; वाध २४, ७६.

रूपमै(म-ए)काधिक<sup>०</sup> - कम् वीथ  
 १, १०, २१.  
 रूपमो(म-उ)क - कम् निम्न ७,  
 १०: ८.  
 रूपमो(म-उ)धित-पङ्गु - हत -  
 वा: नाशि १, ४, ५.  
 रूपमयुपा निम्न ६, १०: १०.  
 रूपि<sup>०</sup> - पाउ ४, १२०; पाय ४, ४,  
 ६२; -पय: आशौ ५, ६, १; ७;  
 ११; चात्रिंशो: वा १, २, २०; २, ११;  
 ४, ३१; २७; ७, ४; १२, १७; १;  
 १९; २३; १२, ३६; ३७; १४;  
 ३८; १५; १९; १९;  
 -पय: वृदे ५, ५८; ६, ६०;  
 ६६; -पि: आशौ ४, ७, ४;  
 १२, ९, १८; चात्रिंशो: आषाढौ  
 ४, १०, ४; भाद्रौ ४, १५, ३३;  
 विध ४८, ६०; अश्व ८, २०; पा  
 २, ११; २४; ३, ११; ४,  
 १५; १६; ११; ५, २; ६, २५; ७,  
 १; १३; ९, २३; १०, ५; ३२; ४२;  
 १३, १२; १४, १३; -पिणा  
 आशौ २, २, २५; चात्रिंशो  
 १६, २८, १; २४, ५, ४; चात्रिंशो  
 १८, २०: १४; २१; चात्रिंशो  
 ११, ७, ६५; २१, ३, ४; कौस्तु  
 २, ४, १६; ऋष १, २, २७; वृदे  
 ३, ६८; १०९; साय २, ६५;  
 -पिभि: चात्रिंशो १६, २६,  
 ६ x ४; वीथी: वा ७, १६; पि  
 ३, ९; -पिण्य: आशौ ८, १४,  
 १८; वीथी: पावा ४, १, ११;  
 -पिम् चात्रिंशो १५, १९, १; वीथी:  
 वा ४, १४; १३, १२; -पिपु वृदे

a) = एकाह-विशेष- । b) तस्येदमित्वावर्धेण प्र. । c) = साम-विशेष- । d) सप्त. उप. = वलीयस्- ।  
 e) निप. । वस. । f) पाठ: ? शा: इति श्लोक: (वृ. गीथ.) । g) सप्त. शास्त्र <> शा: इति पाठो. । h) निप. ।  
 तुस. उप. वस. । i) वैपरी द्र. । j) वृ. पाका. । कृपि- इति भाषा. । k) पाठो. वैप १, १०-२० d द्र. । l) श्लोक:  
 वैप १, ८९८ b द्र. । m) पाठो. वैप १, १०-२० f द्र. । n) अन्ये इति पाठ: ? यनि. श्लोक. । o) = सप्त- । :



२, १३, या १३, १३, -पी सु  
 २, ३, वृदे २, ३०, ५, ६२, १५०,  
 पा ६, १, १५३, -पीणाम्  
 आधौ ८, १४, ४, शोधौ, या  
 २, ११, ३, १०, ७, ३, ८,  
 २१, १४, १९, -पोन् काश्री  
 ४, १४, २०१, बोधौ, या ६, ५,  
 -०वे शाश्री १५, २०, १×४,  
 आपधौ, -वे सु २७, ६, वीथ,  
 या ९, ८, १०, १०, ४६, १४,  
 २९, वेज्यो २९, ३०, -वे ५-  
 वे आपधौ २४, ११, १०१,  
 -वो वृदे २, १२९, १५५ ऋत  
 ५, १, ५, पा ४, ४, ९६<sup>b</sup>, ६, ३,  
 १३०.  
 आधौ- पा २, ४, ५८, -वं  
 आध १, ६, ४, वैथ ३, १ २,  
 वाघ १, २९, ३२, शघ ६७ ६८,  
 वीध १, ११, ४, विध २४, १८,  
 २१, अग्र २०, ८५, -वंम् आश्री  
 ५, १०, २०, शाश्री ६, १, २,  
 आश्रि २, ६, १ ७, वैथ या ६,  
 २०, ९, ८, १३, ९, १२, -पाणाम्  
 वाघ १२, ४१, -पाणि उनिस् १  
 ३, -पां वीध १, ११, १८१,  
 गीध ४, ३०, -वं आपध २,  
 ११, १८, हिघ २, ४, ३३, गीध  
 ४, ८, तैषा ९ २१, १०, १३,  
 -वंण वैथ १, ५ ९, ११, ४,  
 विघ २४, ३५, वैध २, १३, ५  
 वृदि ४, १४, ५०४  
 आधी- र्थि अग्र १,  
 १०×४, ऋप्रा -त्वं अग्र १३,  
 ३, उनिस् ३ १४, पि २, १६,

-व्याम् ऋप्रा २, ५२, ५६, ११,  
 ५५  
 आधी गायत्री- -य  
 अग्र १८, २, -व्यौ अग्र १०,  
 ७  
 आधी-जाग- -त. वैथ  
 ३, १ १३  
 आधी पापद- -दे  
 अग्र ३ १  
 आधी पुत्र- -त्र विध  
 २४, ३१  
 आधी (पी अ)नुप्रद-  
 ह ऋप्रा ११, १८  
 आधी (पी अ)लोप-  
 -येन ऋप्रा ११, १  
 आधी (पी अ)त्रिलो-  
 प-त्रिक्रम- म ऋप्रा ११, ५९  
 आधी-क- कम् वृदे २, १२६  
 आधी वत् ऋप्रा १६, ११  
 आधी-य-य शाश्री ५ १६,  
 ५, काश्री, -यम् शाश्री ३, १६,  
 २३, आपधौ, -यस्य वीश्री २३,  
 ९ १९, २९, ८ २५, -या  
 आपधौ ५ २२, ४, बोधौ २,  
 १९ १५, १४, १८ ३०, २०, १९  
 ३९, भाश्री, -वाणाम् द्विधौ १६  
 १, ३६, अग्र १६, ८१, -याणि  
 आश्री ४, १, १०, शाश्री १, ४,  
 १५, -यान् आधी १, ३, १,  
 शाश्री ५ १, १, बोधौ २, १४  
 ७, भाश्री २, १५, ९, ११, १०,  
 १, १, भाश्री २, १, १, ४, वैश्री  
 १२, १ ३, द्विधौ १०, १, ४,  
 वीध ६३, ३ -याय आपधौ

१३, ७, १०, माध १, ९, १२५  
 -वेण आपधौ २४, ५, ५१, द्विधौ  
 २, १, ५४, -वेय्य आपधौ ५,  
 ५, ९, २०, ३, ५, भाश्री ५, ३,  
 १०, द्विधौ ३, २, ४८, १४, १,  
 १८, वीस् ६७, २०१, ऋप ४३,  
 १, १२१, -वेयु वीस् ६५, १२१  
 आधी-वो- वीम् अग्र ३ ६,  
 आधी-वत्- -व्य निम्  
 २, ४, १०, १२ ६, ३, ३  
 ४३, -ह्येन लाश्री ९, ५, २२,  
 १२, ९, १०, ६, ७, ८, ३, ६,  
 १०, २०, १३, १८, २०, ११  
 आधी गोन-स्मृति- ति  
 वैध ४, ८, ७  
 आधी प्रवादिन्- -दिभ्य  
 लाश्री ९, ६, ११  
 आधी-वत् मोन् ६, ८, ३५  
 आधी-वरण- -णम् आपधौ  
 २१, ३, ४, -गे वीश्री २३, ९,  
 १८, २१  
 अधि-वत्- पाग ५, १, १२८<sup>b</sup>,  
 -कान् आश्रि २, ६, ३ ३८, शघ  
 ११६ ३२, वीध २, ५, २०१  
 आधि-क- पा ५, १, १२८  
 अधि-वत्- -रूप वीध १, ७, ५,  
 वैथ १, १ १६, -ह्यम् वीध  
 १, ७, १४  
 अधि-वत्- -वत् द्राश्री ७, ३,  
 ७, लाश्री ३, २, ७, या ६, २०,  
 शोधि ३३१  
 अधि-वत्- -तम् वृदे ३, ४, -तस्य  
 जैश्री २० ५, -ता निम् १, १  
 १, २, १ १५, -नानि, मैध ४,

a) = चन्द्रम् । b) = मात्र वा वेद- वा । c) विर, नाप (विवाह, तीर्थ- पाठ प्रथ) ।  
 तस्यापत्येदमाद्यर्थेण ऋण प्र । d) वैप १ द्र । e) प्यथ इति पाठ ? यदि शोध । f) = प्रथम विशेष ।  
 g) अल्पार्थे क प्र । h) रूपिक- इति पाठ । i) भूशंस पाभे इति संस्कृते टि द्र । j) 'त इति पाठ ?  
 यदि. शोध ।

ऋषि-क्रम- -वेण वैश्व ३, २३: ११.  
 ऋषि-गण- -गा: ऋषय २, ९, ८६;  
 साध १, ५६०; २, १७३१;  
 २४८: ३०८; ३८२; ३८३; ३८७.  
 ऋषि-ग(त>)ता- -वाग् बृदे ७,  
 ११२<sup>b</sup>.  
 ऋषि-गोत्र-अवर- -रान् वैषष्ठ, १, १.  
 ऋषि-गृह्यम्- -गः नित् १, ६:  
 १८; ऋषा १६, ७; -ग्रांसि  
 ऋषा १६, ८; १५.  
 ऋषि-गृह्यन्द्स- -सामि वाधुधी ४,  
 १००<sup>c</sup>: १३.  
 ऋषि-गृह्यन्द्देवता( त-आ)दि-  
 ज्ञान- -नम् बृदे ८, १३५.  
 ऋषि-ग- -णः या १४, १३<sup>d</sup>.  
 ऋषि-नस(ः) अप १, ३९, ५;  
 ४१, ६; असा १, ५; ११, ६९.  
 ऋषि-स्व- -स्वम् जैश्व २, ८: २६;  
 बौध ३, ९, ११; या २, १११<sup>e</sup>;  
 ऋषि-दर्शन- -नम् नित् ५, ५:  
 २७; -नात् बौधौष ५४: ११.  
 ऋषि-देवता- -वयो: पा ३, २,  
 १८६.  
 ऋषि-देवत-गृह्यन्द्स- -ग्रांसि बौध  
 २, ४, १७; साध २, ७, १९; ऋष  
 १, १२, ३; शुभ १, १; अथभू  
 १; ८, १.  
 ऋषि-नामधेय- -यम् बौधौ २४,  
 ३८: ७.  
 ऋषि-नामन्- -मसु जैथीका ८७.  
 ऋषि-निकेतन- -नानि बौध ३, १०,  
 १३.  
 ऋषि-निर्वचन- -नय या १४, ३१.  
 ऋषि-निवास-> -थ-गोष्ठ-परिष्क-

न्द्, ग्व-ज- -ग्रांसि: गौध १२,  
 १५; -ग्रांसि: वाध २२, ११.  
 ऋषि-पत्नी- -नीा वैश्व १, ४: १७;  
 बौध २, ५, २७<sup>f</sup>; -ग्रीम् शोध  
 १३६: ३२; -ग्रांसि: वैश्व १,  
 ७: १.  
 ऋषि-पुत्र- -त्रम् बृदे ५, ६३;  
 -ग्राणाम् चाव ४: ९; ४१:  
 ३; -ग्रात् आग्नि २, ६, ३:  
 ३८; शोध ११६: ३२; बौध  
 २, ५, २७<sup>f</sup>; -ग्रीं बृदे ४, ११.  
 ऋषि-पुत्रिका- -कामाम् अप २४,  
 १, १.  
 ऋषि-पुत्री- -त्री: आग्नि २, ६,  
 ३: ३८; -ग्रांसि: या ५, २.  
 ऋषि-पौत्र- -ग्रात् बौध २, ५,  
 २७<sup>f</sup>.  
 ऋषि-प्रतिषेध- -धः पावा ६, २,  
 १६५.  
 ऋषि-प्रति(ष्ठ>)ष्टा- -ष्टा कौश  
 ६०, ३४; ६१, ३३.  
 ऋषि-प्रोक्त-मन्त्रादि-शब्द-स्वर-  
 ज्ञाना(न-अ)शै- -र्षः अग्रा  
 १, १, ३.  
 ऋषि-यन्तु- -यदे आग्नि २, ३,  
 ५: २०<sup>f</sup>.  
 ऋषि-मुक्त- -स्वानि पाठ २, १०,  
 ११.  
 ऋषि-वाक्य- -क्यम् बृदे १, १३.  
 ऋषि-विद्वन्-रूप- -पा: बौध २,  
 ३, ५७.  
 ऋषि-विद्वन्-रूप-वर-मातुल-रवचुर-  
 (र-अ)श्विज- -श्विज: बौध २,  
 ३, ५६.

ऋषि-श्रेष्ठ- -ष्ठम् बृदे ७, ५५.  
 ऋषि-शु( <शु)श- -ता: आश्री  
 १, ३, ६; आश्री १, ४, १९.  
 ऋषि-संयुक्त- -कम् भाग १, १२:  
 ७.  
 ऋषि-संसद्- -सदि बृदे ४, १३३.  
 ऋषि-संस्तुत- -तः वाध २३, ४७.  
 ऋषि-सत्तन- -मः बृदे ४, ७६; ५,  
 १५१.  
 ऋषि-सत्तराश- -यम् आश्री १०,  
 ३, ९.  
 ऋषि-सु(त>)ता- -ता शुभ २,  
 २७९.  
 ऋषि-सुक्त- -ताम् बृदे १, १४.  
 ऋषि-सृष्टि-प्रतिपा(दक>)दिका-  
 -कम् शुभ ४, ३३.  
 ऋषि-सोम- -मा: आश्री ९, ८,  
 २५; आश्री १४, ६३, १.  
 ऋषि-स्वाध्याय- -ये शाध २, ७,  
 २०<sup>g</sup>; -येन कौश २, ४, २३<sup>h</sup>.  
 ऋ(वि>)वी-वल्- -वः ऋषा  
 ९, २४<sup>f</sup>.  
 ऋषी(वि-इ)एका- -का: आपधौ  
 १६, ३१, १; वैथी १८, २०:  
 ५८.  
 ऋष्य(वि-अ)णूक- -कम् बौध २,  
 १, २८.  
 ऋषि-पेण- ऋषिपेण- टि. इ.  
 ऋषि-पि- -पयः आश्री ५, १, ७, ९;  
 -पि: या ६, १५; -पिभि:  
 वैताश्री ३१, २७.  
 ऋषि-मत्- -मजि: या ११, १४<sup>f</sup>;  
 ऋषि-पेण-पाग | > ऋषिपेण-  
 पा ४, १, १०४<sup>m</sup>; ११३; -०ण

a) ऋषिर्ण इति पाठः ? यनि, शोधः । b) पूर्वेण संघिरादिः । c) पस. समासान्तत्पृच् प्र. (पावा ५, ४, १०३) । d) विप. । मत्पर्यायः नः प्र. उत्त. (पा ५, २, १००) । e) परस्परं पामे. । f) वैश्व १ ६. । g) विप. (पर-विभाग-). तुष. > कन. > इत. > पस. > धस. । h) वध. उप. = प्रादम्भ-। पृ. = ऋषि-मयदल- । i) = अहीन-विशेष- । j) = एनाह-विशेष- । k) परस्परं पामे. । l) = श्लका विशेष- । m) ऋषि इति पाति. ।

आधौ १२, १०, ८; आधौ २४,  
५, १५, १६, धौधौ ५: ४;  
हिधौ २१, ३, ७, वैध ४, २, ३;  
-ण वृदे ७, १५५, ऋध २,  
१०, ९८, या २, १०, १११, १, ३, ५: १, ३, ५, -णानाम्  
आधौ १२, १०, ८, आधौ  
२४, ५, १५, हिधौ २१, ३, ७,  
वैध ४, २, ३.  
ऋषियेण-वत् आधौ २४, ५,  
१५, १६, हिधौ २१, ३, ७,  
धौधौ ५: ४, वैध ४, २, ३.  
ऋषियेण सुत्- व वृदे ७,  
१५६.

ऋष्य- पाठ ४, ११२, -ष्य साध  
१, ६२५, -ष्यान् साधौ ८,  
२५, ११०.

आध्यायिणि-, ऋष्यक-  
ऋष्य ऋध- ऋ ऋध २, १०,  
१३६

ऋष्य- पाठना १, १४२, -ष्य  
आमिष्ट २, ७, ३, ४, ३, १०, ३  
१२, -ष्य अप ४८, ६८, निष  
३, ३, ऋध १६, ६३, -ष्या  
वाधौ १, १, ६, ६, या ७, ६

✓ऋध्, ऋध्व- ✓ऋध् द्र

ऋ

ऋध्, ऋध् शुभा ८, ३

ऋ कार-> ऋ गुण-प्रतिषेधा  
(ध-ऋ)धै- धैम् पावा ३, २,  
१७१

ऋकारा(र-ऋ)न्त-गुण-प्रतिषेधा  
(ध-ऋ)धै- धैम् पावा ३.

२, १०७

ऋ-वाचपन- नम् पावा ६, १, १९  
✓ऋध् वाधा. ऋधा. पर. गतौ ।

ऋ

ऋध् शुभा ८, ३, यासि २, १४, पाग  
१, ४, ५७

ऋकार-र ऋध १३, ३५, शुभा  
४, ६१, ८, ३५, पासि ५, यासि  
२५, -रम् ऋध १४, ४५, -रस्य  
यासि २, २३, -रे यासि २, १९  
ऋकार-वाम् शुभा १, ८७.

ऋ-र-स-सा पासि १७, आसि  
१, १५

ऋ-सि त-ता शुभा १, ६९.

ऋ वर्ण-णं ऋध ४७, १, २०,

-णैम् शीच १, ३९, -णस्य आसि

६, ४, -णं शुभा ४, ११४

ऋ वर्णं त ध द-ध-न-रकार-

सकार-रा यासि २, १४.

ऋ

ऋध्, ऋध् शुभा ८, ३, यासि २, १४.

ए

एध् शुभा ८, ५ शीच ४४, पासि १९,  
आसि ३८, पाग १, ४, ५७

ए ह-कारा(र-ऋ)न्त-न्ता  
भासि ११४

ए-कार-र अप ४७, ३, ४, उम् ७,  
६, तैषा ९, ११, अया २, १, २,  
शीच १, ७६, ९७, ३, ४४, यासि  
२, १४, शीचि १४, -रम् ऋध  
२, १६, १८, उम् ७, २, शुभा ४,  
५४, तैषा १०, ४, वृदे ८, ८५,

-राम् ऋध ५, १; अया ३, १,  
१६, -रे तैषा २, १५, २३;  
-रेण ऋध ५, ८, शुभा ७, २.  
एकार-भोकार-पूर्व-वै- तैषा  
११, १.

एकार-वकारवर्ग-गौ ऋध  
१, ४७.

एकार रेफ-वृत्तौ(ता-उ)प(पा-  
>)ध-ध ऋध ५, २२

एकारा(र-ऋ)दि-दी ऋध १,  
१, ९.

एकारा(र-ऋ)त-न्तम् ऋध  
२, ६१, शुभा ७, ७, -न्तान् ऋध  
२, ३, ७, ३, १, २१, -न्तानि  
ऋध २, ३, १७

एकारान्त र्व-रवम् पावा  
४, ३, २३.

एकारान्त निपातन- नम्  
पावा २, १, १८.

एकारान्त प्रस्ताव-वम्  
लाधौ ७, २, १.

एकारे(र-ई)कार-रौ तैषा ४,  
८

एकारे(र-ई)कारो(र-ऊ)कार-  
रा शुभा १, ९३.

एकारे(र-ए)कार-रयो शीच  
३, ५०, -रौ हिधौ २१, २, १३.

एकारेकार-पर-र तैषा  
१०, ६.

एकारे(र-ओ)कार-रयोः शीच  
१, ३४, पासि २०, यासि २,  
२०, -रौ धौधौ १, २, ७, शीच  
३, ५५

एकारीकार पर-र ऋध  
२, ६२.

a) यत्र । व्यु १ । b) = ऋषि विशेष । c) = मूल विशेष । d) वृ ७७८ b, j टि द ।

e) वैप १ द । f) = रिष्य- (द पाठ १, १५३) । g) पाप्मे वैप १, ८६९ ० द । h) = वर्ण विशेष- ।

i) वस > पस > पम । j) पा ७, ३, ८० परामृष्ट द । k) विप । वस ।

१२<sup>३</sup>, हिण्ड १, २०, २<sup>३</sup>, जेण्ड १,  
 ११:१<sup>२०</sup>, २१ १५<sup>३</sup>, कौसू ५४,  
 ८<sup>३</sup>, ७३, ११<sup>१</sup>, अण्ड ४, ४, ६<sup>३</sup>,  
 अम २, १३<sup>३</sup>, या १०, १८<sup>०</sup>,  
 १२, २८, पा ८, १, ४६, १<sup>३</sup>जा  
 इदि आश्री ५, १४, ५, शोश्री  
 ७, १९, १०, आ(इदि) शाय १,  
 १३, ४<sup>३</sup>, नृएण्ड कश्री ७९,  
 १०, आपश्री १०, २८, १, वीश्री  
 २, १५. ८, ६ १५. २७, माश्री  
 माण्ड १, १०, १६<sup>३</sup>, नृएण्ड,  
 > ता, मो(त-उ) आश्री ७, ८,  
 ० ९, ८, १३, शाश्री, काश्री ९,  
 ३, ३<sup>३</sup>, आपश्री ३, ४, ४, वीश्री  
 ७, ३ ८<sup>३</sup>, भाश्री ३ ४, २<sup>३</sup>,  
 माश्री १, १, २, १२<sup>३</sup>, २, ३, २,  
 ९<sup>३</sup>, वैश्री ७, ३ ७ हिण्ड २,  
 ३, ४<sup>३</sup>, ६, ३, ७, वाण्ड ६ ४<sup>३</sup>,  
 माण्ड २, १, १३<sup>३</sup>, वैण्ड १, ९,  
 १, माण्ड ३, ४<sup>३</sup>, गौण्ड २,  
 ३, १०<sup>३</sup>, ४, ९ कौण्ड ३, २,  
 विण्ड ७३, १२<sup>३</sup>, अम २ १, २३,  
 अम ८, २२, १<sup>३</sup>मा<sup>३</sup> ए(का ३)  
 त> ता<sup>३</sup> आश्री ६, ४, १०,  
 शोश्री ९, १६, १, वेताश्री ३२  
 ७, अण्ड ८, ३३, १<sup>३</sup>मा<sup>३</sup>ए  
 (आ-अ) त> ए<sup>३</sup> अम २, १,  
 ५ माण्ड १, १६४, जागानि  
 वीश्री १८, ४५ ३, एयान्ड  
 वीश्री १४, २३ २२, २०,  
 ०१. ९, वैश्री २०, ११ १.

हिश्री १५, २, १०, शोश्री ७,  
 ४, १, लाश्री ३, ४, १, ८, ८,  
 ३४, १०, १९, १२, द्राण्ड ४, १,  
 १७, या ५, २८<sup>३</sup>, एण्ड लाश्री  
 १०, ९, ५  
 एयान्ड शोश्री १५, १८, १, १९,  
 १<sup>३</sup>, २०, १, २१, १, एयण्ड  
 अम १०, १<sup>३</sup>  
 आ(आ अ) एण्ड-> एय स्थान- जे  
 वेण्ड १, २३. ८, -नेय्य पा  
 ४, ३, ७५, पावा ४ २, १०४  
 का-यण्ड- यते माश्री ३, १, २५,  
 अण्ड ४, १, -यण्ड शोश्री २  
 १४, ११, वीश्री, -यण्ड  
 शोश्री १८, २१, ६, वैश्री १८,  
 १ ५५<sup>३</sup>, कौण्ड ४८, ७, या  
 ५, १९<sup>३</sup>, १४, २, -यण्ड निण्ड  
 ४, १२ १५, ५२ २३  
 आयनी- -श्री आश्री ५, १,  
 १०<sup>३</sup>, आपश्री १, ११, १०,  
 वीश्री १, ३ १५ भाश्री १  
 १२, ३, माश्री १, १, २, ७, ६,  
 २, १०<sup>३</sup>, वैश्री ३, ६ १२,  
 हिश्री १, ३, १९, वेताश्री २१,  
 २४, आण्ड २, १०, ६, हिण्ड १,  
 १८, २, गो २, १८, कौण्ड २१,  
 ८, -नृवीण्ड उवीश्री १५, २  
 ४, १८, ८ १, १६ ५४० १८,  
 आपण्ड २, ००, ०७, पाण्ड ३  
 २, २, आण्ड ३, २, २ ७,  
 माण्ड २, २ ७, माण्ड २, ८,

४, हिण्ड ३, १७, २, कौण्ड  
 ६०, २६६, -तीण्ड शोश्री ६, ७,  
 ७, -त्याण्ड शोश्री ५, १०, २  
 आयनी-यण्ड- पाण्ड २, १,  
 १७, -वे वीश्री २, १४ २  
 आपण्डो-यण्ड- पाण्ड २, १,  
 १७.  
 २आ(आ अ)यण्ड-नाण्ड आश्री २,  
 ५, २, १२  
 १ए(का २)त-त वीश्री १८, ४७,  
 १५<sup>३</sup>, -तण्ड वीश्री १८, ४७  
 १२<sup>३</sup>, १५  
 एण्ड हर- र या ३ १६  
 ए(आ-२)ति- तय अण्ड २,  
 ७३<sup>३</sup>  
 ए(आ ३)य आश्री ३, ६, २७,  
 शोश्री ४, १२, ११, १४ ७, १,  
 १५, २०, १, काश्री  
 ए(का ३)विण्ड- दुवि वैश्री ३  
 १८ ७३  
 एण्डवा- पीण्डवा ४ १६<sup>३</sup>  
 एदि> हि-कण्ड, हि द्वितीयाण्ड,  
 हि पण्ड, हि प्रकसाण्ड, हि-  
 प्रकसाण्ड, हि यण्ड- हि वेवा-  
 हिण्ड, हि-याण्डाण्ड, हि  
 मिण्डाण्ड, हि रवाण्डाण्ड- पाण्ड  
 २, १, ७२, एण्ड( हि ३)इण्ड-  
 पाण्डा २, १, ७२  
 एण्ड(हि यण्ड>) ता- न्ता गो  
 १, १७  
 नृण्ड(का ए)नोण्ड ( ) काश्री २, ५,

द) पामे वैण्ड १, १०२५ ज द । ब) पामे वैण्ड १, ७९९ क द । c) पामे वैण्ड १, १०२५ । द ।  
 d) पामे वैण्ड १ स्तोत्र तै ५७, २, ५ टि द । e) पामे वैण्ड १, १३३ १ द । f) पामे वैण्ड २, ३४४ एण्ड माण्ड  
 ३, ९, १६ टि द । g) गण्ड माश्री १, ३, १४ परीत इति पामे । h) पामे १ ४८६ द । i) एण्ड  
 इति पाठ १ यनि तोष (तु पामे वैण्ड १, १०२६ ०, परि च) । j) पामे वैण्ड १, १८३ ० द । k) वैण्ड १,  
 १०२६ द । l) पामे वैण्ड १, ६८४ ० द । m) वैण्ड १ द । n) पामे वैण्ड १ ६२५ ह द । o) पामे  
 वैण्ड १, १०२७ ह द । p) तु पाण्ड । q) पाठ १ इण्ड- (पाण्डव) वैण्ड २, १४ द इति समाभ्येत, एण्ड  
 वैण्ड १ इण्ड- इति यण्ड, तद् वाचि स्यात् ।

३; वीथी ३, १३ : ४; माथी १,  
६, ३, ९; वाथी १, ५, ४, २९.  
ए(आ ✓ई), आ... ह्याते या ५,  
२८५; आ... ईमहे आपथी  
१०, ८, १; माथी १०, ५, ६;  
वीथी ६, २ : २४; वैथी १२, ७ :  
१६; हिथी १०, २, १; माथी  
२, १, २, १८; शुभ्र १, २४२;  
आ(ईमहे) काथी ७, ३, ४.  
२ एक, प्रा<sup>३</sup> - पाठ ३, ४३; पाग १, १,  
२७; २, १, ५९<sup>३</sup>; -क पा<sup>३</sup> ६, ३,  
६२<sup>०</sup>; -कः आथी २, ४, ३; ७,  
५, २०××; शाथी; गीपि २, ६,  
५<sup>०</sup>; या ३, ९०<sup>०</sup>; -कम् आथी  
३, १०, ९<sup>३</sup>; ६, ६, १××,  
शाथी; कौण्ड ३, १४, १२<sup>०</sup>;  
१३<sup>३</sup>; पा ८, १, ९; पावा १,  
२, ६४; मीम् ५, ४, १८<sup>६</sup>;  
-कम्-कम्<sup>३</sup> आपथी ५, २१, ७;  
-कया आथी २, १९, ३५; ५,  
१८, ५; ७, १२, ४; शाथी, या ५,  
११<sup>३</sup>; -कया-कया<sup>३</sup> आपथी  
१०, २४, ९; वीथी; -कस्मात्  
काथी ३ ३३ : २; ३; वाथी;  
-कस्मिन् आथी ६, ६, ९; शाथी;  
-कस्मि आपथी १४, २, २;  
२०, १०, ७; १२, १०<sup>३</sup>××;  
वीथी; -कस्व आथी ९, ५, १६;  
शाथी; -कस्याः आथी १२, ८,  
३०; काथी; -कस्याम् शाथी ३,  
१०, २××; काथी; हिथी १७,  
५, ३१<sup>३</sup>; -का आथी २, १४,  
६; ३, ७, ६; ४, २, १७××;  
शाथी; -काऽ-का<sup>३</sup> आपथी १७,

२६, ६; द्राथी; -काः हिथी  
२२, २, २; -कात् आमिष्ट २,  
७, ७ : ९; शुभ्र; पा ५, ३,  
५२; ९४; -कान् निम् ८, ७ :  
३०; -कानि वाथी ४, २६<sup>३</sup> :  
१; -काभिः वाथी ३, ९१ : ६;  
-काम् आथी ४, ७, ४××; शाथी;  
-काम्-काम्<sup>३</sup> वीथी १८, १२ :  
१९; २० : १३; हिम २, २, ४;  
-के आथी १, ३, १३<sup>३</sup>; २, २,  
१××; शाथी; -केन आथी ८,  
१, १०; १५; ३, १२××; काथी;  
-केन्या आथी ६, १०, १९; वृदे  
८, ५९<sup>३</sup>; अत्र १८, २<sup>३</sup>;  
-केवाम् काथी ३, ७, २०;  
४, १३, ७; आपथी; -केवाम्-  
-केवाम्<sup>३</sup> आमिष्ट २, ६, ३ : ६०;  
-केयु शाथी ३, १९, ८; कौण्ड  
१५, ४; या २, २<sup>३</sup>.  
१ ऐक्य- -व्यम् याशि १, ९०.

एक<sup>३</sup> पा ६, ३, ५९; ४, १२०.

एक-क- पा ५, ३, ५२.

एक-कनीयस्<sup>३</sup> - -यः सु लाथी ६, ७,

५.

एक-कपाल<sup>३</sup> - -लः काथी १, ९,  
१२××; आपथी; या ७, २४;  
-लम् काथी १९, ४, २; आपथी;  
-लस्य काथी १९, ७, १४;  
आपथी ८, २०, १३; वीथी ५,  
८ : ३०; ३६; २०, २२ : १२;  
माथी ८, ७, ११; ९, ८; १०, ९;  
१४, ६; २३, ७; -लाः काथी ४,  
५, ३<sup>३</sup>; वीथी २३, १२ : १३;  
द्राथी १३, २, १०; लाथी ५, ३, १;

-लान् काथी ५, १०, १; आपथी  
८, १७, १; वीथी ५, १६ : २<sup>३</sup>;  
२६, २१ : ३; माथी ८, २१, १;  
९; माथी १, ७, ७, १; ४; ५, २,  
१, १; ३; वाथी १, ७, ४, १३;  
वैथी ९, १० : ९; हिथी ५, ५, १;  
काण्ड ५२, ७; गौण्ड ३, १०, ११;  
-लानाम् आपथी २४, ३, ३८;  
वीथी २१, १ : २५; २७; ३२; २;  
१; माथी ८, २१, ७; माथी १,  
६, ४, ६; हिथी ३, ८, ८०; मीम्  
७, १, २३; -लानि हिथी १, १,  
६०; -ले आपथी ८, ७, १;  
वीथी २०, ८ : १९; २१, ५ :  
२०; हिथी ५, २, ५६; -लेन  
काथी १०, ८, २७; आपथी ८,  
२, १७; काथी २९ : ४; वीथी  
५, ३ : १२; ८ : २८; २१, १६ :  
१२; माथी ६, १७, ९; माथी  
१, ६, ४, १९; ७, ४, २४; २, ५, ४,  
२८; हिथी ३, ८, ८०.

एककपाल-व्येता - -तायः शाथी  
१४, ५, ७.

एककपाल-व्यमृति - -तीनाम्  
काथी २३, २, १८.

एककपाल-वत् वीथी २८, ४ : १४.

एककपाल(ल-आ)तत्<sup>३</sup> - -वत्य  
माथी १, ६, ४, २२.

एककपाल(लये) द्वात्रिंश- -श्री  
मीम् ७, १, २२.

एक-कर<sup>३</sup> - -रः विध ५, ७८.

एक-करपाद<sup>३</sup> - -दः विध ५, ४८;  
७७.

एक-कर्ण<sup>३</sup> - -गार्गनाम् काश ४, १०.

a) वैप १ द. । b) पामि. पृ ७५२ ७ द. । c) लुगविभक्तिभे निर्देशः । d) सपा. एक पिण्डः

<> एकपिण्डम् इति पामे. । e) सपा. एकं पत्रिम् <> एकपत्रिम् इति पामे. । f) सपा. एकमर्षम् <>  
एकमर्षम् इति पामे. । g) एवम् इति जीव. श्रेषः । h) वैप १, १०२८ f द. । i) सप. एकस्याम् <>  
एकस्य इति पामे. । j) विप. । मत्. ।

एक-कर्मन्- -संगि काश्री १, ५,  
११; १०, ११; काण्ड २५, २५;  
२६; मीसू ८, १, २६; १२, ३, ९.  
एककर्म्य- -स्यम् मीसू २,  
४, ११; ६, १, १७; ३, १२; ११,  
१, १; ६; ४, ५०; -स्यान् मीसू  
३, १, ११; ५, २, ११; ८, २, २५;  
१०, ४, ३५, ५, ८२; ६, ६३; ११,  
२, ११; -स्यै मीसू २, ४, ३२.  
एककर्मन्-स्व- -स्वम् मीसू ११,  
४, ४३; -स्वान् मीसू ५, ४, १२६;  
१०, ६, ६५.  
एककर्मन्-यव मीसू ९, ३, ३२.  
एक-कल्प- -त्वानाम् काश्री १, ६,  
१४.  
एक-नाम- -म- आश्री ३, १४, ९;  
१०, २, १; वीथी १९, १० : ६२.  
एक-कार्य- > -स्य-त्व- -त्वात्  
मीसू ५, २, ५.  
एककार्या(वे-श्च)र्थ-साध्य-  
त्व- -त्वात् वप्र १, ९, ८.  
एक-काल- -लम् शंघ ३८७, विध  
५५, २; -ले द्विथी ८, ७, ५०;  
वैष ३, ६, ९.  
एककाल्य- -ल्यम् मीसू ५,  
४, २४.  
एककाल-त्व- -त्वान् मीसू ११,  
२, १८; २३.  
एकनाला(ल-आ)हार- -रः शंघ  
३७९ : ३.  
एककालिक- -न्म् विध २८,  
५०; -काः वैष १, ८, १.  
एक-वस्तु- -तौ द्वाश्री ५, ४, २७;  
लाश्री २, ८, २७.

एक-श्रीतक- -केन आश्री ३, ८, ८.  
एक-सुर- -राः आपथ २, १६, १६;  
द्विष २, ५, १६; -राणाम् लाश्री  
९, ४, ८.  
एकसुरो(र-उ)ट्-गवय-ग्राम-  
सुकर-गरभ-गो- -गवाम्  
आपथ १, १७, २९; द्विष १, ५,  
६१.  
एक-म(ण>)गा- -णाः वीथी १८,  
२१ : ३; २६, ३२ : १५.  
एक-गस्य(ति-अ)र्थ- -स्यम् पावा ६,  
२, ४९.  
एक-गु- -गुना वैताश्री २४, २०.  
एक-गुर्ग- -गः आज्यो ७, २१;  
-णम् शंघ ११४.  
एक-गृह- -हे वाध ३, ९.  
एक-गोत्र-> -गो(त्र-उ)पच-  
-शाः वैष ४, ८, ५.  
एक-गोत्र- -ग्राः शंघ २९१.  
एक-गो-पूर्व- -वान् पा ५, २,  
११८.  
एक-ग्रन्थि- -न्थिम् माश्री १, ३,  
१, ३.  
एक-ग्रह- -हाय आपथी १२, ७,  
१०; ८, ५; ९, ८; वैथी १५, ९;  
१, ११ : ७, द्विथी ८, २, ६; ३०;  
३, ४.  
एक-ग्राम- पाग ४, २, १३८.  
एकग्रामीण- -ण वाध ८, ८;  
-णम् कौण्ड ३, १०, ३५; शीघ्र  
२, १६, ३; विध ६७, ३५.  
एकग्रामीय- पा ४, २, १३८.  
एक-वक्र-> -वक्रा(क-व)पहरण-  
-णे शंघ ३२४.

एक-वक्र- -क्रम् आप १४, १,  
२९; ४८, ११६; या ४, २७;  
श्रम १०, ११; -केण आश्री  
१६, १८, ६; वैथी १८, १५; १८,  
द्विथी ११, ६, ३०.  
एक-वचरिदन्- -दत्तम् वीथी २६;  
११ : १०.  
एकवचरिदन्-नात्र-प्रभृति-  
-तानि आश्री ११, ४, ८.  
एक-चरि- -रम् वीथी ४ ८ : ५, १४-  
३ : २५; -राय गोध २६, १२.  
एक-चरु- -रुः जैष्ठ १, २४; ३; -तौ  
वीथी २०, ८ : १.  
एक-चारिन्- -रिणम् या ४, २७.  
एक-चिति- -तिः मीसू ४, ४, १७.  
एक-चिनिक्- -क्त्वं वाश्री २, १,  
४, १७.  
एक-चितीक- -कः द्विथी ११;  
५, ४०; -कम् आपथी १६, १५,  
३; १७, २४, ६; ८; वीथी २२,  
४ : १०; वैथी १८, १२ : २३;  
द्विथी ११, ५, ३९; १२, ७, १८;  
२१; -काः वीथी ७ १४; -कान्  
आश्री १६, १५, ४, वैथी १८,  
१२, २३.  
एक-चित्त- -त्तः नाशि २, ८, १३.  
एक-चैल- -लः कौसू ८२, ४३.  
एक-चोदन- -नान् काश्री ४, ३,  
११; ५, ६, ९.  
एक-चोदन(>)ना- -नान् काश्री  
१६, ७, १७.  
एक-चण्डस- > -ण्डस- -स्यम्  
गोष्ठ ४, ९, ४.  
एक-चण्डस- -न्दसः मीसू ३,

a) कम वा वस. वा । b) भावे व्यञ्ज. प्र. । c) चर्यान् इति चौसं. । d) एककर्म्यात् इति जीसं. ।  
e) विप. । वस. । f) विप., नाप. । मत्वर्थायः उन् प्र. । g) अर्थः व्यु. च १ = एकरीजयुत-करण- (= तत्पिठ-)  
इति भाष्यहृत् । मलो. कस. । h) शैथिल्यः स्व > ईन्. प्र. (या ४, ३, ९४) । i) विप., नाप. (गोध. ।  
वस. उप. वरीरि इत् । j) वैष १ द्र. । k) घना. मंत्रा २, ६, १३ एकं पदम् इति पाभे. ।

पात्रवा १, ५; मीम् ६, ६, ८; ९, ३, ३४; १०, ७, २१; ११, १, २, ३; -त्वे पात्रा २, १, १०; मीम् २, ४, १३; २०; ९, ३, ४२.  
 एकत्व-निर्देश- -शात् पात्रा १, १, ५०.  
 एकत्व-युक्त- -नम् मीम् ३, १, १२.  
 एक-दक्षि(एण) > ण- -णम् आधौ ६, ८, १४; लाधौ १०, १, १२; अत्राय ६, ४.  
 एक-दण्ड- > ण्डम्- -ण्डौ वीध २, १०, ४०.  
 एक-दन्त- > -न्तम् वीध २, ५, २१.  
 एक-दा निम् ५, १२ : १६; वैय ७, ६ : १३; गोय १, ५, ९; वृदे ७, ५१; पा ५, ३, १५.  
 एक-दिवस- -सम् विध ४६, १९.  
 एक-दिग्- -दिक् पा ४, ३, ११२.  
 एक-दी (दा) > ङ- -ङः लाधौ ८, ५, १९; -ङे दाधौ ५, ४, ३.  
 एक-दीक्षा- > ण्दि- -ङी वाधौ ७, ५, ११.  
 एक-दुग्ध- -दधम् आधौ १०, १६, ६; द्विधौ १०, २, ४८; -ङ्ये माधौ २, १, २, ३९; ३, २, ४; द्विधौ १०, २, ४९.  
 एक-देव(ता) > त- -तः माधौ ६, १५, ९१; -ताः आधौ २४, ३, ४१; द्विधौ ३, ८, ३०; -तात् आधौ ३, ६, १९; -तानाम् आधौ २४, १२, ५; -तानि वा ५, ११; -ते मीम् १०, ८, ४२; -तेषु वाधौ २२, ७, ४; द्विधौ ९, ८, ५०; मीम् ११, ३, २३.

एकदेवत-द्विदेवत- -तयोः शाधौ ६, १, १२.  
 एक-देवता- > ण्य- -त्यम् वृदे २, १४२; -त्ये निम् ६, ८ : १४.  
 एक-देश- -शः काधौ १४, २, १४; वाधौ ३, ४, २, ३; भाय ३, १९ : १; गीध ८, २३, मीम् ३, ३, २२; १०, ३, ३३; ८, ४; -शम् वीधौ २७, ५ : ११; माधौ, -शस्य मीम् ३, ८, ३२; ६, ४, १८; -तो वाधौ २५, ८, १८; द्विधौ ८, ३, ४; १५, १, ७९; निम् ५, ४ : ४, आपय १३, ८; वाय २८, ५, वृदे ५, २५; पात्रा ८, ४, १; मीम् ३, ५, २७, ६, ३, २, ३७; ४१; ४, १०; १९; -क्षेन आधौ १२, ९, १०; माधौ ८, २, ३; द्विधौ ७, ५, २; मीम् ६, ३, ४२; ६, ११; १०, ८, ३६.  
 एकदेश-ग्रहण- -णेषु मीम् १०, ५, १.  
 एकदेश-स्व- -स्वम् मीम् १०, ६, १३; ११, २, ७; -स्वात् मीम् १, ३, २९; ३, २०; ६, २२; ४, १, ३४; ४, २५, ९, ३, १७; ११, २, १३.  
 एकदेश-द्रव्य- > -व्यः मीम् ४, १, २८.  
 एकदेश-प्रतिषेध- -पात् मीम् १०, ७, ४९.  
 एकदेश-रिक्त- -तरय पात्रा १, १, ५६; २, ४, ८५, ८, ३, ८५; पात्रा २, ४.  
 एकदेश-विभाजित- -तः विध

६, २२.  
 एकदेश(श-अ)नुवृत्ति- -त्तिः पात्रा ६, १, ९३.  
 एकदेशिन्- -शिनो पा २, २, १.  
 एकदेशि-ग्रहण- -णान् पात्रा २, ४, २६.  
 एकदेशि-प्रधान- -नः पात्रा ५, ३, ७२; -ने पात्रा २, १, १८.  
 एक-दे(य) > ङ- -ङाम् वाधौ १६, ७, १७.  
 एक-देश काल-कर्तृ- -त्व- -स्वम् मीम् ११, २, १.  
 एक-सू- -सूः क्रम २, ८, ८०.  
 एक-द्रव्य- -द्रव्यम् पात्रा ५, ३, ५७; -ङ्ये काधौ १, ७, ६; १०, ६; मीम् ११, ४, ४३.  
 एकद्रव्य-चिकीर्षा- -र्षया मीम् ११, ३, ४१.  
 एकद्रव्य-वत् मीम् ११, ४, ४९.  
 एकद्रव्या(व्य-अ)विधान- -नात् पात्रा ८, १, ५१.  
 एकद्रव्यो(व्य-उ)पनिवेश(ि) > ) नी- -नी पात्रा १, ४, १.  
 एक-द्वार- -राः द्विधौ ७, १, २८.  
 एक-दि- -द्वयोः पात्रा २, ४, ६४.  
 एकद्वय- (दि-ऊ)ना(न-अ)धि- (क) > का- -वा क्रमा १७, २.  
 एक-दि-धि-क्रम- -येण कौशि ६९.  
 एक-दि-धि-धनु-पञ्च-पद- -द्वानि उनिम् २ : १४.  
 एक-दि-धि-धनु- -सुर्गम् रूप ५, १, ४; वाय २७० : ३.

a) वि.। ब.। उप. = दान-। b) वि.। व.। c) ण्ताः इति पाठः इ यति. शोधः (तु. तरय. द्विदेवतः)। d) 'देशद' इति कौट. Pch. n e) 'प्येयवा' इति काट.। f) व. वा व. वा (तु. कैयटः)। g) व. > द.। h) वि. १ द.। i) तुम्. > दम्.। j) द. > प.।। k) वि.। द. > व.।

एक-द्वि-त्रि-चतुष्-पाद्- -पात्  
वि ३, ७.

एक-द्वि-व्य(त्रि-अ)धिक- -कम्  
काश १६, ११.

एक-द्वि-बहु- -हुषु पाता ३, १,  
६७.

एक-द्वि-शब्दपरिमाण-द्रव्य-देशना-  
गुण-सामान्य<sup>b</sup>- -न्येभ्यः काश्री  
४, ३, ८.

एक-द्वि-तीर्थ<sup>c</sup>- -र्षे कष ७२, ६, २.

एक-धन- -नम् वीथी २०, ३१,  
३५; माथी १०, २, ८; माथी  
५, १, ५, १; वीथ १, २, ६१,  
अव १, ४९, ३; असां १३, २;  
-नेव द्विषि ५: ८; आपव २,  
१२, १२; द्विष २, ३, १२.

एक-धन, ना<sup>d</sup>- -ना: आपथी १२,  
५, ११; ७, २; वीथी २२,  
६: १७; वैथी १५, ७: १; ८:  
९; २१, १८: ३; द्विथी ८, १,  
२९; ६, ११; -नात् काश्री २,  
२, २२; ३, ७; आपथी १२, २,  
१३; वीथी ६, ३४: ५; ७,  
३: १८; ४: १०; २०: ९;  
८, ८: २७; २८; १७, १: ३;  
२१, १६: २५; २५, १७: ६;  
वैथी १५, ३: ७; ६: २;  
-नागम् काथी ९, ३, १५;  
आपथी १२, १६, ११; १३, २,  
६; १०, १४; वीथी ७, ४: ९;  
२०: ८; १८, ३०: ४; २५,  
१७: ८; वैथी १६, २: ९;  
द्विथी २, १, १६; -नाम् आथी  
५, १, ९; द्विथी ८, १, ६; -नै:

काथी २५, १२, २५.  
एकधन-परिधि(द्व>)दा- -दा:  
वीथी १६, २२: १०.

एकधन-परिधेय- -पात् द्विथी  
९, ४, ५५; -येषु आपथी १३,  
१७, १०.

एकधन-श्रवण-काल<sup>e</sup>- -के  
काथी १४, १, २६.

†एकधन-विद्<sup>f</sup>- -विदे आथी  
४, ५, ६; शाथी ५, ८, ३; वीथी  
४, १९: ११, २१: १०; शाथी  
१४, २, ५; काथी ५, ६, ८;  
वैताथी १३, २३.

एकधन-वेष- -नम् काथी १०,  
३, २३.

एकधन-स्थान- -ने काथी ९,  
४, १.

एकधना(न-अ)र्द्ध- -र्धम् काथी  
२, १४, १८.

एकधना-स्वाली- -ली: द्विथी  
८, १, ६०.

†एकधनिन्- -०निन: काथी ९,  
३, ३; आपथी १२, ५, २, वीथी  
७, ३: ७; माथी २, ३, २, ९;  
११; वैथी १५, ५: ६, ६: १;  
द्विथी ८, १, ५८.

एकधनी(ना-ए)कदेश- -शम्  
वैथी २१, १४: ३; -शात् वैथी  
१५, १८: ७; द्विथी ८, ४, २६.

एक-धर्म-> एकधर्म- -न्यम् नीम्  
७, १, २.

एक-धर्मा<sup>g</sup> आथी ३, ३, ११; ३,  
शाथी; एकनाडएकधा पाथी ३,  
१, १०; माथी ५, २, ९, ५.

एकध्व<sup>h</sup>- वा ५, ३, ४४; -ध्वम्  
काथी १४, २, २४; आपथी  
२, १७, ३; द्विथी ५, १, ५; नीम्  
९, ३, ३४.

एक-धान्य- -न्यम् गोर ३, २,  
५१.

एक-धामन्<sup>d</sup>- -मा जैय २, १:  
२२१.

१एक-धुर-> २एकधुर<sup>e</sup>, एक-  
धुरीण- वा ४, ४, ७९.

एक-नक्षत्र- -ने काथी २१, ३, ३;  
आय ४, ५, १.

एक-नरति- -ति: शंख २६३.

एक-नारासंज्ञ<sup>f</sup>- -सम् आपथी १२,  
२५, २६; वीथी २५, २२: २.

एक-नाल- -ले अप ७०<sup>g</sup>, ४, ३.

एक-निधन्<sup>h</sup>- -नम् निम् ६, ५, ३;  
-नावि निम् ६, ५: ४.

एक-निष्पत्ति- -त्ते: मील ४, १, २२.

एक-नीच- -चे माति २, १, ११.

एक-पद्मरघु(द्विक-उ)पविष्ट-  
-दानम् वांघ ३८३.

एक-पद्याशय- -शय् काश ४, १;  
वाय १४: ७; -शता: अप ५२,  
३, १; -दातम् वीथी ११, १:  
११; २५, ३२: २; -शता  
आपथी १८, १४, ६; वाथी ३, ३,  
२, ३२; द्विथी १३, ५, २३.

१एक-प(ति>)क्षी<sup>i</sup>- वा ४, १,  
३५. -सीनाम् वाध १७, ११.

२एक-पत्नी<sup>j</sup>- -नीम् आपथि १,  
२, २: २०; वीथ ३, ९, ६; भाए  
३, ११: ५, द्विथ २, २०, १.

एक-पद्<sup>k</sup>- -पदे शांथ १, २६, २४;

a) विप. । द्वय > वस. । b) द्वस. > पय. । c) विप. । मलो. कस. (= एकाऽव्यवधीभूते द्वे ) > वस. ।  
d) विप. । मय. । e) शय. गिताः <> 'शोषाम्' <> 'शोषेयु इति पाठे. । f) पय. > पय. । g) वैप १  
द. । h) स्तार्थिक: प्यन् प्र. । पात्र. प्यम्पु प्र. इति । i) विप. (त्रि-). वस. । j) विप. (द्वय-). वस. उप.  
हस्ताभात: वस. (११ १, २, ४८) ।



पाण्ड २, १५, २; वैश्व ३, २० :  
 १०; ५, २ : ३०.  
 एकपदा-दा ऋषय २, ४, १७x४;  
 शुभ्र; -दाः आश्री ६, ५, १२;  
 ८, २, २०; २५; १२, २०<sup>३</sup>;  
 १२, ९, १४; निम्ब २, १२ : ३२;  
 ऋषय १, १२, ९; ४, ८; वृदे ८,  
 १०९; शुभ्र १, १७४; अश्व २,  
 १७, ११, ३, (२<sup>३</sup>), १२, ५ (२);  
 ऋषय १७, ४३; उच्च ३, २;  
 उनिम्ब ८ : १०; २८; -दाभिः  
 कौत् ४७, ४१; -दाभ्यः आश्री  
 ८, २, २४; -दायाः शुभ्र ४,  
 १४६; -दायाम् लाश्री ७, ४,  
 ९; -दे अश्व ९, ७.  
 एकपदा-द्विपदा-दानाम्  
 निम्ब १, ७ : २.  
 एकपदा(दा-अ)न्त-न्तम्  
 ऋषय २, ६, ६३.  
 एकपदा-प्रभृति-तयः  
 निम्ब १, ४ : २५.  
 एकपदी-पाण्ड ५, ४, १३९;  
 -पुंदि आश्री ९, १९, १०;  
 वौश्री १४, १४ : ३१; वैश्री २०,  
 ३८ : १; द्विप्री १५, ८, २२;  
 आण्ड १, ७, १९; कौण्ड १, ८, २८;  
 पाण्ड १, १४, ६; अश्व १३, १;  
 या ११, ४०.  
 १ एकपद-दानि या २, २; ३;  
 ऋषय ११, २५; अश्व २, ३, १९;  
 -दे शुभा १, १११; तेषा १५,  
 ४; ऋत ५, ६, ७, याशि १, ७८;  
 २, ५५, ६५.  
 एकपदिक-कम् या ४, १;  
 -काः या १, १४.  
 एकपद-निरन्-नम् या ९,

२६.  
 एकपद-वत् शुभा २, १८.  
 एकपद-रवा-रस्य पावा १,  
 १, ६३.  
 एकपदा(दा-आ)वाध-धे अश्व  
 २, ३, १८.  
 २ एक-पद, दा<sup>३</sup>-दः शौच ४, १२६;  
 -दा नाशि २, ६, ६.  
 एकपद-द्विपद-त्रिपद-चतुष्पदा-  
 (दा-अ)निकपद-दाः शुभा १,  
 १५७.  
 एकपद-द्विपदा<sup>३</sup>-दाः आश्री ४,  
 १५, ६.  
 एकपदि-पाण्ड ५, ४, १२८.  
 एक-पदौ-पौन भाण्ड ३, १४ : १९.  
 एक-पर्व-वे भाश्री ६, १५, १६.  
 १ एक-पर्वन्-वेणि शाश्री १४,  
 १०, १९.  
 २ एक-पर्वन्-वसु या २, २.  
 एक-पल-लम् आण्ड २, ७, ७ :  
 १२.  
 एक-पलाश-शिका<sup>३</sup> (> शीय,  
 शिकीय-पा.) पाण्ड ४, २,  
 १३८.  
 १ एक-पवित्र-ग्रम् माश्री १, १,  
 २, ३; वाश्री १, २, ३, ४; ३, ५;  
 गाण्ड ४, २, २<sup>३</sup>; गौण्ड २,  
 ६, ५<sup>३</sup>; -त्रे भाश्री १, ७, ३; -त्रेण  
 आश्री १, ७, ७; आण्ड ३, ५,  
 ५ : १४; ११, ३ : २; गौण्ड १,  
 ४ : १४, द्विपि ३ : १४.  
 एकपवित्रा(त्र-अ)न्तर्हित, ता-  
 -ताम् कौत् ८७, ७; -तानि  
 द्विपि २, १४, ३; -ताम् द्विप्री  
 २, ७, १०; -तायाम् आण्ड ३,  
 १, १ : ५; द्विपि २, १०, ४;

-ते आण्ड ३, ११, २ : ५.  
 २ एक-पवित्र<sup>३</sup>-त्रः आण्ड ३, २,  
 १ : ३.  
 एक-पशु-शुः काण्ड १९, ४; -शोः  
 अश्व १, ३२, २; द्विपि २, १४;  
 -शौ शाश्री १४, १०, १९.  
 एक-पशु(क>)का<sup>३</sup>-काः आश्री  
 ३, ६, १८.  
 एक-पाण्ड(णि-आ)वर्जित-तेन  
 आण्ड १, ४, २१; द्विपि १, १,  
 १४०.  
 एक-पात-> १ एकपानि(व>)नी-  
 नी आश्री ६, ५, ६; -नीः आश्री  
 ५, १८, ११; -नीनाम् शाश्री  
 १४, ५३, ६; ५६, १३; -न्यः  
 आश्री ७, ११, २३; ८, १, १२;  
 ९, २; १०, १; ११, २; शाश्री ८,  
 ३, १५; ६, १६; १२, २, १४; १८,  
 १, ८; ११, २ -न्याः शाश्री ८,  
 ७, ८.  
 २ एक-पातिवृ-तिनः ऋषय ११,  
 ५२; १७, ४३; तृतीनि आश्री  
 १२, ६, २३.  
 १ एक-पात्र-त्राणि आश्री ५, ९,  
 २८; -त्रे गौत् ३, ५, ३७;  
 -त्रेभ्यः आश्री ५, ६, २९.  
 २ एक-पात्र<sup>३</sup>-ग्रम् आश्री १२,  
 २४, १७; -त्राः काश्री ४, ७८;  
 १; २; ४<sup>३</sup>; -त्राणाम् गौत् ३, ५,  
 ४४.  
 एक-पात्री-न्याम् काश्री ९, ९, ४.  
 १ एक-पाद<sup>३</sup>-पात् कण्ड २, १,  
 १२१; अश्व १३, २; ३; अश्व १,  
 २, २.  
 २ एक-पाद<sup>३</sup> (अज-)-पात्(जः)  
 शाश्री ६, १२, २५१; काश्री ५,

द) विप. । बघ. । - ढ) मलो. बस. । c) कस. समासतस्य प्र. विवक्ष्यः (पावा ५, ४, १०३) ।  
 d) द्व. पाण्ड. । e) पाणे. ४ ७८५ ८६. । f) वैप १६. ।

१९, ४१×; वीथी; या १२,  
२९६; ३०१; ३२; -पुपादम्  
(-त्रम्) वाधुथी ४, ६१ : ७.  
एक-पाद- -वे कप्रा १, ९९.  
एकपाद-स्थित- -ता: वैध १, ८, १.  
१एक-पिण्ड- -पण्डम् कौश ३, १४,  
१४; शाय ४, २, ४; -पण्डस्य  
कौश ५, ७, २.  
२एक-पिण्ड- -भडा: शोध २०८.  
एक-पिण्ड-स्व(धा >)घ-  
-धानाम् सुधप ८८ : १.  
एक-पुत्र- -त्र: शोध २६८; -त्रा:  
विध १८, २८.  
एक-पुरोडास- -केषु काथी १२,  
२, १२.  
एक-पुत्रकिणी-पर्व- -णी थप ६८,  
२, २.  
एक-पु(ध>)मा- पावा ४, १,  
६४.  
एक-प्रकरण- -षे थापथी २४, २,  
२६.  
एक-प्रतिषेधा (ध-प्र)थ- -थम्  
पावा १, १, ७.  
एक-प्रतिहार- -रम् लाथी ६, १२,  
४; ७, ४, ४; -रे लाथी ७, ४, १७.  
एक-प्रत्यवाय- -यम् वाथी १, ९, ९.  
एक-प्रदक्षिण- -णम् हियाँ १७,  
१, १६.  
एक-प्रदान, ना- -न: काथी १२,  
६, १२; -ना: आथी १, २, १८;  
२, ११, ३; ११.  
एक-प्रधा(न>)जा- -ना: शूदे ४, ८  
एक-प्रभृति- -तीनाम् वाथी ३, २,

१, ३.  
एक-प्रसाव- -वानि निम् १०, ६ :  
२७.  
एक-प्रस्य- -पा ६, २, ८८.  
एक-प्राण-भा- -वे तंमा ५, १.  
एक-प्राण-योग- -या: शुभा १,  
१५८.  
एक-वर्द्धि-इध्मा(ध-शा)उय-स्विध-  
कृ- -कृत: आथ १, २, १६.  
१एक-वर्द्धि- -र्द्धिप: आथ १, २,  
१०; माथ २, १८, ४६; कौश ६,  
२४.  
एक-वृद्धीका- -का: निम् ५, ७: ५.  
१एक-व्यक्त- -कम् कौश २८, २२.  
एक-व्यक्त- -क: गीप २४, ७.  
२एक-भक्त, का- -का वैय ३, ९ :  
२; -का: वैय ५, ७ : ४.  
१एक-भाग- > भाग्य- -यम्  
निम् ३, ६ : ३.  
२एक-भाप- -ग. मीम् १०, ७, २१.  
एक-भा(या>)थ- -थस्य थापथी  
१६, ४, ५, हिथी ११, १, ४९.  
एक-भाव- (> एकमान्य- वा.)  
पाग ५, १, १२४.  
एक-भुक्त- -कम् हिपि ८ : १०.  
एक-भृत्स- -भृत्सि गीप ४, ५,  
२०; श्रभ २, १, ९९.  
एक-भृत्स-स्य- -स्यम् शूदे ३,  
१३०.  
एक-भृत्गी- -तीम् आथी ५, १४,  
२०; ७, ५, १२; ८, ४, १२.  
एक-भेद- -दम् शू १६, २.  
१एक-मनस- -नाः कौश २, २,

१४; शाय २, ४, १; पाथ १, ८,  
८; २, २, १६; आथिप १, १, ३ :  
२४; ५, ४ : ३९; वीथ १, ४,  
१; भाथ १, १७ : ९; माथ १,  
१०, १३; हिय १, ५, ११.  
१एक-मन्त्र- -त्र: हिथी १, १,  
२९; कौश ३, २, २६  
एक-मन्त्र- -मन्त्रम् मीम् ३, २,  
४२६.  
२एक-मन्त्र- -मन्त्राणि भापथी २४,  
१, ३८; भाथी १, १, २०; हिथी  
१, १, ३४.  
१एक-मा(वा)व- -त्र: तंमा २२,  
१२; वीथ २, ५९; माथि १३,  
१; वाथि १, १६; -त्रम् उय्  
१, ९; -त्रे माथी १, २, २, ६.  
२एक-मात्रा- -त्रा वाथि १, १२.  
एक-मात्रिक- -क: कौशि ७३.  
एक-माप- -पेण जैय २, ५ : ११.  
एक-मु(ख >)खी- -खीम् थप  
६, १, १४; १५.  
एक-मुष्टि- -ष्टिम् आथिप १, ६, ३ :  
४६.  
एक-मुल- -ल: भाथ १, १० : ४;  
-लम् आथ १, २२, २१.  
एक-वज- -जे काथी २५, १३,  
२९.  
एक-यम- -यम् तंमा १५, ९.  
एक-यान-भोजना(न-शा)सन-वाय-  
न- -नै: विध ३५, ४.  
एक-याव- -वः वापथी ३, ९४: ५.  
एक-युक्त- -कम् आथी १, ४, १८;  
-कैतन आपथी २२, २, २०.

a) पाणे. ७८५ d. 1 b) विप. 1 वस. 1 c) विप. 1 वस. > दस. 1 d) कस. > पस. 1 e) कस. > पस. वडा कस. > उत. (तु. भाष्यम्) । f) 'वर्द्धिराणान्य' इति वृत्तिहासः । g) 'वर्द्धिप' इति पाठः ई यनि, शोषः (तु. आथ.) । h) मत्तर्थाप. उन्. प्र. 1 i) विप. 1 वस. 1 j) पाणे. वैप २, ३ खं. एकमना: मंसा १, ३, २१ टि. द. 1 k) एकमन्त्रव्यम् इति कासं. 1 l) कय. उप. = अन्न-विशेष- (तु. ०.) वैठ. भाष्यम् = प्रमाण-विशेष- [लक्षिताभे द्विस.] । m) विप. 1 वस. उप. = उदात्तादि-स्वर- 1 n) कस. > दस. 1 o) वैप २, ४ खं. द. 1

एक-यूप- -प. हिथ्री १६, २, १;  
 -पम् आपथ्री १७, २२, ६; १९,  
 १, ११; वैथ्री १९, ६; १४३;  
 हिथ्री १२, ६, २७; १३, ८, ९;  
 मीसू ११, ३, ४; -वे काथ्री ८,  
 ८, २६; आपथ्री १७, २२, ८;  
 १९, १, २०; १६, २१; २२,  
 १, १५; वीथ्री २२, ११ :  
 २७; माथ्री ५, २, १२, ४६; ६,  
 २, ६, १३; वाथ्री २, २, ५, २;  
 वैथ्री १९, ६; १४४; हिथ्री १२,  
 ७, १; १७, १, १६, -येन हिथ्री  
 ९, ८, ५.  
 एक-यूप- -येषु शथ्री ६, ९, ४.  
 एक-योग- -जे पावा १, ४, ५९; २,  
 ४, ८३; ६, १, ९०; १००; ७, ३,  
 ११९.  
 एकयोत-लक्षण-त्व- -त्वात्  
 पावा १, १, ६२.  
 एक-योनि- -नयः आथ्री २, २, १.  
 एक-रज्जु- -ज्जा आपथ्रु ५, २; ६,  
 ७; १०-१२; ७, १; हिथ्रु २, ९;  
 ३५; ३९; ४०; ४५; ४७.  
 एक-रथ- -येन वृदे ६, २०.  
 एक-राज- -राद् आपथ्री १८, ६,  
 ४; वाथ्री ३, १, २, २४; हिथ्री  
 १३, २, १८.  
 एक-राज्य- -ज्यम् आथ्री ५, १९,  
 ४१६.  
 एक-राज- -जः सुत् १, २ : २७;  
 -जम् वाथ्री २२, ११, २९;  
 -जात् पावा ४, १, १६६; -जेन  
 कीत् १७, ११.

एक-रात्र- -त्रेण शथ्री १६, १९,  
 २.  
 एक-रात्र-चतुरात्रो(त्र-उ)पजन-  
 -नानि आथ्री ११, ४, ९.  
 एक-रात्रो(त्र-उ)पजन- -नः  
 आथ्री ११, ४, ७, -नम् आथ्री  
 ११, २, १८; ३, ११.  
 एक-रात्रि- -त्रिम् आपथ २, ७,  
 १६१.  
 एक-रात्रिक- -कः गौध ५,  
 ४१.  
 एक-रात्र- -त्रम् आथ्री ८,  
 १४, ८; शथ्री ४, १५, ६; माथ्री  
 १, ५, १, २५; वाथ्री १, ४, १, ११;  
 हिथ्री १०, ३, २०; वीथ्रु ५, ४,  
 ९; पाथ्रु २, ११, ९; ३, १०,  
 ४×४, -ग्राय हिति १४; ५१,  
 -त्रेण आपथ १, २७, ११; वीथ  
 २, १, ४२; विथ २२, ४०; ४४;  
 ५३, ९; हिथ १, ७, ३६.  
 एक-रात्र-पृतो(त-उ)पि (त-  
 >)ता- -ताः वैथ्री १९, ६ :  
 ७८.  
 एक-रात्रीण- -णाः लाथ्री ८,  
 ४, ३; -णस्य वीथ्री १८, १, ७.  
 एक-रात्रो(त्र-उ)पवाम- -सः  
 काथ्रु ७, ३; वाप २७, १३;  
 वीथ ४, ५, ११; सुप १८;  
 ६४.  
 एक-रात्रो(त्र-उ)पित- -सम्  
 या १४, ६.  
 एक-रुद्र-देवता->थ- -रयः  
 सुभ्र २, २४६.

एक-रुद्र-स्तुति- -तिः सुभ्र २,  
 २५३.  
 एक-रूप,वा- -यम् काथ्रु ५९, ५;  
 अप १८, १, ११; -पाः माथ्री  
 १, ८, ३, ३; हिथ्री १३, १, २२६;  
 -पान्त् आथ्री १८, २, १३;  
 वीथ्री ११, ३ : २०; वाथ्री ३,  
 १, १, २०; वैथ्री १७, १० : ६;  
 -पाम् कीसू ६९, २.  
 एक-रुद्र-सर्व,वा- -सर्वः लाथ्री ६,  
 ४, ७; निस् ६, २ : २६; क्रम  
 ३, ४०; चय्यू १ : ११; -सर्वम्  
 जैथ्री ९ : २४; लाथ्री; -सर्वया  
 वैथ्रु ५, ५ : २९; ७, २ : ५; १३;  
 -सर्वयोः शथ्री ९, ३, ६; लाथ्री ३,  
 ६, २५; -सर्वाः शथ्री ८, २, ५;  
 लाथ्री, -सर्वान् निस् २, २ : ४;  
 ५, ७, ११; १४; -सर्वानाम् लाथ्री  
 ८, ५, ९; अप ४ : १६; -सर्वानि  
 वैथ्री २२ : १३; २६ : ७; क्रम  
 १९, ६१; -सर्वे लाथ्री ६, ४,  
 ८; -सर्वेभ्यः अप ४६, १०, २०;  
 क्रम १९, २३; -सर्वेषु लाथ्री ६,  
 १, १०, अप २ : ४; १४; ७२;  
 -सर्वैः निस् २, २ : ६; -सर्वो निस्  
 ६, ३ : १८; २२; १३ : २४.  
 एक-सर्व-रुद्रि- -रुद्रिनि निस् २,  
 २ : १; २.  
 एक-सर्व-जत् लाथ्री ६, १, ४.  
 एक-सर्व-रथ- -रथानि मीत् १०  
 ६, १०.  
 एक-सर्व-स्थान- -नेषु लाथ्री ६,  
 ४, ५.

a) विप.। बस.। b) कल. उप. = सुत्.। c) वैप १ द.। d) पात्रे. वैप २, ३६. आत्रिम् लात्रा  
 १, ५, १९ टि. द.। e) वैप १, १०-३२ द.। f) दस. > बस.। g) विप. (अतिथि-). रुद्र प्र. (वा ५,  
 १, ८०)। h) समासान्तः अच् प्र. (वा ५, ४, ८७)। i) विप. (तमिधु-).। j) विप.। निर्वृतार्थे ख>ईनः प्र.  
 (वा ५, १, ८७)। k) परस्परं पात्रे.। l) विर., नाप. बस. वा बस. वा। अर्थवोदिः द.। प्र. वाच.।।  
 म) एक-स्य-स्थानानि इति कर्त्त.।

एक(क.श्र)द्वि<sup>०</sup> - द्वि<sup>०</sup> आपथी २२,  
१३, १०.  
एक(क.श्र)वि<sup>०</sup> - वि<sup>०</sup> कौत् ६७,  
२०.  
एकवि<sup>०</sup> - स्वात् आपथी २४,  
११, १४.  
एकलि<sup>०</sup> - इम् वां १२, ४०.  
एकवचन - नम् अत्राय १, १;  
अप्रा २, १, ११; २, २; ३; ६; पा  
१, २, ६१; २, ३, ४९; ४, १; पावा  
१, २, ६९; २, ४, १२; ४, १, ९३;  
६, १, ८३; - नस्य पा ७, १, ३२;  
८, १, २२; - नानि या ४, १५;  
अप्रा २, १, १५; २, १; १६;  
२०; ३, २, २; ३, १९; - ने  
अत् २, २, ९; पा ४, ३, ३; ७,  
२, ५०.  
एकवचन-प्रहण - नम् पावा  
२, ४, ७९.  
एकवचन-द्विगु<sup>०</sup> - गौः पावा २,  
२, ५.  
एकवचन-द्विवचन-बहुवचन -  
नानि माथी ५, २, ९, १; अप्रा  
२, २, १४; वा १, ४, १०२.  
एकवचन-द्विवचन(न-अ)न्त<sup>०</sup> -  
न्तस्य पावा २, ४, ६२; ४, १,  
८९.  
एकवचन-विधान - नम् पावा  
२, ४, १.  
एकवचन(न-अ)द्वैत - द्वै पावा  
१, २, ५८.  
एकवचन(न-अ)भाव - वः  
पावा २, ४, १.

एकवचना(न-अ)र्ष<sup>०</sup> - र्षः या  
६, १६.  
एकवत् शायी २, २३, १४;  
आपथी ८, ५, ८; ११, ११, ७;  
बौथी १७, ५५; १०; ६१ =  
८४४; जैत् २, ५; २१; पा  
१, २, ६९; ४, १०६.  
एकवद्-भूत् - गत् बौथी  
१६, १ = ८.  
एकवद्-वचन - नम् पावा ६,  
३, १; - नात् पावा २, ४, १;  
- ने पावा ६, ३, १.  
एकवयः - प्रभृति<sup>०</sup> - ति वैथी १७,  
११ = १०.  
एकव्यर्थ<sup>०</sup> - रः मात् २, १३, ९.  
एकवर्ग<sup>०</sup> - गौः कस्य ३, ४०; चव्य  
१ = ११.  
एकवर्जम् काथी ३, १, ११; १४,  
५, २१; १७, ३, ६; अर्ष २ = ३;  
पा ६, १, १५८; पावा ६, १,  
१५४.  
१ एकवर्ग<sup>०</sup> - गौः शुप्रा १, १५१;  
तिप्रा १, ५४.  
एकवर्ण-वत् अप्रा १, ६७; शुप्रा  
४, १४४; गौव १, ४०, पाप्रवा  
४, ८.  
एकवर्ण-विकार - रः निस् ३,  
११ = १२.  
२ एकवर्ण, गौ<sup>०</sup> - गौम् कौत् ३, ६,  
३; वात् ३, ११, ७; पात् ३, ९,  
६; गोत् ४, ७, ८; अप्रा २, ६;  
१०, ३; - गौम् अप्रा ४, २, ६;  
- गौनाम् पाप्रवा ५, ९; - गौं अय

६३, १, ८; - गौत् पावा ६, १, १;  
- गौं शुप्रा ४, १४८.  
१ एकव्यय - खम् गोत् ३, २, ५१.  
एकव्यय-ना - ना गौव २, १,  
७०; ३, १०, १४.  
२ एकव्यय<sup>०</sup> - काः शायि १, २, २२;  
आमिष्ट २, ६, ३ = ५९; आपथ  
१, ६, २९; गौव २, ५, ३१;  
द्विध १, २, ४२; - स्वाः पात् ३,  
१०, १७.  
एकव्यय - वयत् गौत् ३, १,  
१९.  
एकव्यय-व - स्वात् गौत् १, २,  
७; ३, ४, ९; ७, १४; १०, १, ८; ४,  
४; ११, २, ३९; ४७.  
एकव्यय-भाव - वात् पावा ६,  
१, ८३.  
एकव्यय<sup>०</sup> - सः वाध २४, ५  
एकव्यय<sup>०</sup> - सतः आमिष्ट ३, ४,  
४ = १८; द्विधि २ = १३; ८ =  
५; गोत् ३, १, २९; गौधि १, ४,  
७; शाय २, ५, १९; आपथ २,  
१५, ७; द्विध २, ३, २७; - स्वाः  
कौत् ३, ११, २२; जैत् १, १६ =  
३; अय ४०, १, १४; शेष १९७;  
३७९<sup>m</sup>; ४३३; ४४३; ४५३<sup>m</sup>;  
विध ६८, १३; वैध २, १४,  
१३.  
एकव्ययानि - सये शायी १६, ३,  
१५; - तिः शायी ८, ८, ५;  
शायी; निप १, १; या २, ७;  
- तिम् शायी ६, ९, १; ७, ५;  
११; काथी; आपथी २३, १.

५) कस. वा. क्विपि । विप. इति क्लृप्ता ऋषौ इति ०. गोधः ? । ऋषौ इति संभाव्यते ? । ६) पाप्मे.  
पृ ७८५ । द. तत्र न एकव्याम् (तु. मूको.) > एकवर्षाम् इति ०. विपतियुः । ८) विप. । वस. । ८) मलो. वय. ।  
९) इत्स. > वस. । १०) तदृशयः वतिः प्र. (पा ५, १, ११७) । ११) विप. । वस. > वस. । १२) कस. उप. = श्रेष्ठ. ।  
१३) कस. उप. = अक्षर. । १४) विप. । वस. उप. = रः- वा अक्षर- वा । १५) सपा. व्यत्यः < > व्यासाः इति पाप्मे. १६  
१७) विप. । वस. उप. = वसन्. । १८) उत्तरेण संधिपर्यः (तु. ४४३) । १९) ऋषौ इति पाठः ? 'साः इति शेषः ।

१४१<sup>०</sup>; हिथी १३,१,६०, १६, १,  
 १११<sup>०</sup>; -त्या काथी १७, १, ७;  
 १८, ६, १०; आपथी; -त्या:  
 वीथी २६, १० : ५; वीथुष्ठ:  
 २०; -त्याम् वीथी ११, १ :  
 १५<sup>०</sup>; १८, ४५ : २९; कौत्  
 ३७, ३; -स्य वीथी १८, ४५ :  
 ३८.  
 एकविंश<sup>०</sup>- -श- आपथी ११,  
 ७, ७; शाथी; -शाम् शाथी  
 १७, ३३, ६४; आपथी;  
 -शस्य शाथी १६, २४, ७;  
 लाथी ६, ८, १४; छम् १, २ :  
 २२; -शा. आथी १२, ५, १६;  
 आपथी; -शाम् निम् ७, १३ :  
 ९; ७, ७ : ५; १०, ४ : ११;  
 -शानाम् कथ ३, ८, २०; -शानि  
 आथी ११, ५, २; शाथी ९,  
 २१, ६; १७, १२, ९; आपथी;  
 -शाम्याम् शाथी ९, २७, ११,  
 -शे आथी ७, ५, ११; १२,  
 ७, ११; शाथी; -शेन आथी  
 १२, ३, ३; ४, २३; आपथी;  
 -शेषु निम् १०, २ : ३१;  
 -शो आथी ७, १२, १; आपथी  
 १६, ३३, ५१, वीथी १६, ३५ :  
 ७; १८, ४८ : २७; वीथी १८,  
 २१ : २२, हिथी ११, ८, ३, १.  
 एकविंश<sup>०</sup>- -शो शाथी  
 १८, १४, ४; आपथी १, ५, ११;  
 माथी १, ५, १०; वाधुथी ७,  
 ११५ : २; हिथी १, २, ६४;  
 शम् २, १, २३; -शोम् आपथी

१८, १, ६०; वीथी १७, ७ : ५<sup>०</sup>;  
 कौम् १३८, १२; -श्याम् वाधुथी  
 ७, ११५ : १६.  
 एकविंश<sup>०</sup>-त्रयोविंश<sup>०</sup>-  
 -श्वो ऋथ २, ७, १०४.  
 एकविंश<sup>०</sup>- -श्यात् निम् ६,  
 ५ : १४<sup>०</sup>; १०, ६ : २२.  
 एकविंश<sup>०</sup>-त्रयस्त्रिंश<sup>०</sup>-  
 -शाम्याम् निम् ७, ११ : ५.  
 एकविंश<sup>०</sup>-त्रिणव-त्रयस्त्रिंश<sup>०</sup>-  
 -शा: आथी ११, ३, ८.  
 एकविंश<sup>०</sup>-प्रभृति- -तथ:  
 शाथी १६, २, १, ६.  
 एकविंश<sup>०</sup>-स्तोम- -म: निम्  
 ३, ४ : २१; १०, ७ : १७; या  
 ७, ११; -मम् शाथी १०, ५, १;  
 ११, १३, १; १७, १३, १२; १६,  
 ३, ९; निम् ८, १३ : ३२.  
 एकविंश<sup>०</sup>-स्तोम<sup>०</sup>- -मा:  
 निम् ८, ३ : १५; -मानि निम्  
 ८, १३ : १२.  
 एकविंश<sup>०</sup>(श-आ)पतन<sup>०</sup>-  
 -न. निम् २, १३ : ५.  
 एकविंश<sup>०</sup>- -यम् जैथीका  
 १९५; अम् ८, १; अं ७:२०.  
 एकविंश<sup>०</sup>-का ऋथ १६,  
 २१.  
 एकविंश<sup>०</sup>-क<sup>०</sup>- -कम् वैथ ३,  
 १ : १५.  
 एकविंश<sup>०</sup>-क<sup>०</sup>- -कम् ऋथ ३,  
 ४४.  
 एकविंश<sup>०</sup>-कपाल<sup>०</sup>- -लम्  
 आपथी १८, १२, ११; वीथी

१२, १० : २; २६, ३० : १५  
 माथी ५, १, ७, २४; वाथी ३, ३-  
 २, ४; हिथी १३, ५, ७; २५;  
 -लस्य वीथी २२, १८ : १९;  
 -लात् वीथी २७, १० : १२;  
 -लेन हिथी १३, ६, ३९.  
 एकविंश<sup>०</sup>-कुश-विष्णु-  
 -लानि आय १, १७, ४  
 एकविंश<sup>०</sup>विंश<sup>०</sup>- -मं: वीथी  
 २६, १६ : १०.  
 एकविंश<sup>०</sup>विंश<sup>०</sup>-दि<sup>०</sup>- -दि<sup>०</sup> हिथी  
 ९, ७, ३६; १६, १, ५०!  
 एकविंश<sup>०</sup>विंश<sup>०</sup>-दि<sup>०</sup>- -दि<sup>०</sup>  
 आपथी २१, ४, १६, वीथी १५,  
 १७ : ५; वीथी १७, ३ : १०.  
 एकविंश<sup>०</sup>विंश<sup>०</sup>(वा >)ण<sup>०</sup>-  
 -णस्य आपथी १०, २६, ४;  
 माथी १०, १७, ११; वीथी १२,  
 १९ : २; हिथी ७, २, ५५;  
 -णेन वीथी २५, ४ : ९.  
 एकविंश<sup>०</sup>विंश<sup>०</sup>-दुर्भ<sup>०</sup>दुर्भ<sup>०</sup>- -दुर्भ:  
 वीथी १२, ७ : ९.  
 एकविंश<sup>०</sup>विंश<sup>०</sup>-दुर्भ<sup>०</sup>- -दुर्भ<sup>०</sup> आपथी  
 १, ५, ६; वीथी १, २ : २६;  
 माथी १, ५, २, वीथी ३, ५ : २;  
 हिथी १, २, ५८; आम् १, १,  
 १ : १८; भाथ १, २ : ८; हिथ  
 १, १, १८.  
 एकविंश<sup>०</sup>विंश<sup>०</sup>-धा आपथी १,  
 ६, १; वीथी.  
 एकविंश<sup>०</sup>विंश<sup>०</sup>-निर्वाण<sup>०</sup>- -ध.  
 आपथी १६, १०, ९; हिथी ११,  
 ३, २६; -धम् वीथी १०, १२ :

a) पाठः ? इति C. शोषः (द्र. पृ ४२१ W) । b) स्या. विंशतियम् <> विंशतियाम् <> विंशतियम् इति पाठे । c) स्याथे इत् प्र. उक्तं. (वा ५, २, ४६) विंशत् वैप १ द. । d) इत्या इति पाठः ? इति. शोषः (द्र. नान्दरीया संक्रि.) । e) निप. । बल. । f) विप. । परिमाणये इत्तु प्र. (वा ५, १, २४) । g) एणायथे कन् प्र. उक्तं. (वा ५, २, ५६) । h) स्याथे कः प्र. । i) वैप १ द. । j) कस. > पत. । k) परस्परं पाठे. ।

९; माथी ६, १, ४, १; बाथी २,  
१, २, ३४; वैथी १८, ६ : ८; ७ :  
२८.

एकविंशति-पिण्ड<sup>०</sup> - पण्डम् काथी  
१६, ५, १.

एकविंशति-प्रदान<sup>०</sup> - नान् काथी  
२०, ७, २२.

एकविंशति-मन्त्रति- निति शोथी  
७, १७, १८.

एकविंशति-माय- वाय् वैथी  
१८, ४ : ४.

एकविंशति-यय- नान् हिथी  
१५, ५, २४.

एकविंशति-राय<sup>०</sup> - प्रः शोथी  
१३, १६, ३; वीथी १६, ३३ :  
१३; -अन् वीथी २८, २ : ५३;

निसू १०, १ : ११; वीथ ३, ६,  
२०; विथ ४८, १६; -अयोः  
काथी २४, २, ३; -आय् वीथ  
३, ५, ७; -त्रे निसू १०, १ : ९;

-थी काथी ११, १, १; थापथी  
२३, ३, १; हिथी १८, १,  
२५.

एकविंशति-वर्ग- गान् काथी  
२२, १०, ८; लाथी ९, ४, १.

एकविंशति-वि(धा>)थ<sup>०</sup> - थः  
काथी २०, ४, १५; वीथी १५,  
१७ : ४; २६, १० : ७; ८; काशु  
५, ३; -थय वीथी १५, १४ :  
११; वाथी ३, ७६ : २०.

एकविंशति-सं (स्था>) थ<sup>०</sup> -  
स्थाः कौसू १३८, १३.

एकविंशति-सोम<sup>०</sup> - सैन वीथी  
१८, ४७ : ९; २६.

एकविंशति (ति-इ)थ्म- न्मान्  
वैथू ४, १ : २.

एकविंशत्य(ति-अ)थ(र>)थ<sup>०</sup> -  
रा निसू ६, ५ : १३.

एकविंशत्य(ति-अ)थुल- लम्  
वैथी ११, ७ : ८.

एकविंशत्य (ति-अ)नुवाक-  
-कान् माथ १, २३, १५; -कैः  
वाथी ३, ४, ३, २२.

एकविंशत्य(ति-अ)रथि<sup>०</sup> - त्रयः  
शोथी १६, ३, १; वाथी ३,  
७६ : ९; -त्रिः वाथी ३, ४, १,  
५४; -त्रिम् थापथी २०, ९,  
६; हिथी १४, २, ३८; -त्रोन्  
वीथी १५, १४ : २; -त्रिः वीथी  
२४, ३५ : ६.

एकविंशत्यवरापराधात् माथी  
२, ४, ५, १०.

एकविंशत्य(ति-अ)थ<sup>०</sup> - हे सुम्  
२, १४ : १९.

एकविंशत्य-कारिन्- रिंगः  
शोथी ८, २, १२१<sup>०</sup>; लाथी ४, ६,  
१२; निसू ५, ७ : ३; -रिंगाम्  
निसू ९, १२ : १५.

एकविंशति(र>)नी<sup>०</sup> - नीम्  
थापथी २०, ११, ५; वीथी १५,  
१३ : ६; २० : २; वाथी ३,  
८३ : २१<sup>०</sup>.

एक-वि( धा>)थ<sup>०</sup> - थः थापथी  
१६, १७, १५; थापथु ८, ७;  
दिशु ३, ८; -थम् शोथी १६,  
१९, २; वीथी ६, २० : १४;  
७, १ : १६; २५, १५ : २१.

एकविथ-मन्त्रति- नीन् वीथु

५ : १०; २१ : १०; -तीनाम्  
थापथु ८, ९; ११, १४; १६;  
दिशु ३, ११; ४, १७; २०.

एकविथ-प्रसङ्ग- अः वीथु ५ :  
१७.

एकविथो( ध-उ)थ- नम्  
थापथु १२, ४; दिशु ४, २६.

एक-विभक्ति- -कौ पा, पावा १,  
२, ६४.

एकविभक्त्य( ति-अ)न्त<sup>०</sup> -  
-तानाम् पावा १, २, ६४.

एक-विभक्ति- -क्ति पा १, २,  
४४; -कौ पावा १, २, ४४.

एकविभक्ति-न्व- न्वत् पावा  
२, २, १४.

एक-विमुक्त- -के काथी ८, १, २.

एक-विष्टर- -रः वैथू १, १९ : ३७.

एक-वीर- -रः माथी १, ६, ३,  
१७; वैताथी १४, १.

एक-वीर<sup>०</sup> - -रात् कौसू ४७, १४.

एक-वृक्ष- वाग ४, २, १३८; -क्षे  
माथ १, १३, ११; वाय १५, ५;  
था २२, ३, ४; ७०<sup>०</sup>, ४, ५;  
७२, ३, ८.

एकवृक्ष-सद्- -सदे माथ १,  
१३, ११; वाय १५, ५.

एकवृक्षीय- पा ४, २, १३८;  
-वान् काथी २, ८, १.

एक-वृथ<sup>०</sup> - वृथ काथी ८, २, २७;  
७, १३; थापथी ६, २३, ११<sup>०</sup>;

माथी २, २, ४, ३१; माथ १,  
१०, २१<sup>०</sup>; २, २, ५; माथ २,  
२० : १५<sup>०</sup>.

एक-वृद्धि- -द्ध्या वीथ ४, ५, १७.

a) विप. 1 वस. 1 b) वेप १ ३ । c) पाठः ! एकविंशतिः, भवरा, भा, परार्णव इति चतुष्टयः  
शोथः (तु, शोथी ७, १७, १७; संस्कर्ता व) । d) = कनु-विशेष- । e) 'हः का' इति पाठः ! यनि. शोथः (तु.  
लाथी.) । f) विप. 1 परिमाणार्थे दिनिः प्र. (पावा ५, १, ५८) । g) 'श' इति पाठः ! यनि. शोथः । h) विप. 1  
वस. उप. ? । i) 'व्य' इति पाठः ! यनि. शोथः (तु. काथी.) ।

एक-वृष<sup>१</sup> - ऋषः अग्र ५, १६; अर्ध  
 २ : ९; ४८; ३ : ९; ४ : ११;  
 -पम् ध्रुम् १, २ : २६<sup>०</sup>; अग्र  
 ५, १६<sup>०</sup>; -पस्य लाश्री ७, ६, ५<sup>०</sup>.  
 एकवृष-देवता - > प्य - स्वम्  
 अग्र ५, १६; ६, ८६.  
 एक-वेद - दे वागु ६, २९; गीष  
 २, ५२.  
 एक-वेदस्<sup>०</sup> - दाः वीथी १८, ३३ :  
 १२.  
 एक-वेद्य(दि-अ)न्त - नै आग्रिण  
 १, २, २ : १७.  
 एकवेद्यान्तेभ्यः<sup>०</sup> हिण् २, १९, ६.  
 एक-व्यपदेश - दान् मीत् १०,  
 ६, ४८.  
 एक-व्यवेल - तः तैषा ४, ५१.  
 एक-व्यूह<sup>१</sup> - हम् विध १, ६१.  
 एक-मत्, ता<sup>१</sup> - तः आग्र १, २१,  
 ७; काय ४१, ९; माय १, २३,  
 १०; जैय १, १२ : ३३; -ताः  
 आपथी १७, १३, २; द्विथी  
 १२, ४, ६.  
 एक-वात्य<sup>१</sup> - ०००० आपमं २,  
 १६, ३, ६; माय २, ५ : ११; १७;  
 द्विण् २, ५, २.  
 एक-वाक<sup>१</sup> - कम् शंभ ११६ : ५०.  
 एक-शत - तम् शशी ११, १४,  
 २९; १५, २६, १; काथी २०,  
 ५, १६; आपथी १६, १६, १<sup>१</sup>;  
 वीथी १२, ९ : ३; १५, १४ :  
 १; वीथी १८, १४ : ५<sup>१</sup>; ६;  
 माय १, २५ : १९<sup>१</sup>; द्विण् १,  
 २३, १<sup>१</sup>; कौत् १७, ८<sup>१</sup>; अग्र

७, १, ८<sup>१</sup>; वृदे ४, ९५; निष  
 १, १२; या २, २४; -तात् वाथी  
 ३, ४, २, ६; द्विण् १, २३, १<sup>१</sup>;  
 -तेन काथी ७, ३, ३; आपथी  
 १८, १४, ५<sup>१</sup>; वीथी १२, ९ :  
 १६; वीथी १२, ७ : १२; द्विथी  
 १३, ५, २३.  
 एक-शत<sup>१</sup> - तः वीथी १५,  
 २ : १६; ३६ : २८.  
 एक-शत-तम - मः वीथी २२,  
 २० : २१; लाश्री ८, ४, ९.  
 एक-शत-वि(घा)घ<sup>१</sup> - अ-  
 आपथी २०, २५, ५, द्विथी १४,  
 ६, १६; -घात् काथी १६,  
 ८, २०; आपथी १६, १७,  
 १५; वीथी १८, १४ : ३०; काशु  
 ५, १; ६, ५, आपथु ८, ७; द्विण्  
 ३, ८; -घात् वीथु ५ : ३; -घे  
 काशु ६, २.  
 एक-शत-विघा(घ-अ)न्त<sup>१</sup> -  
 न्तम् वीथु ५ : ३.  
 एक-शक<sup>१</sup> - फम् शशी ७, १८,  
 ४, आपथी १६, २१, १५<sup>१</sup>;  
 वीथी १०, ३४ : ५<sup>१</sup>; माथी ५,  
 २, १४, ७; वीथी १८, १९ :  
 २२<sup>१</sup>; द्विथी ११, ७, ५९<sup>१</sup>;  
 -फाः वीथी २, १८ : १९<sup>१</sup>;  
 वाथुथी ३, ७५ : १३; वाथ २,  
 २८; -फात् काथी २२, १०,  
 २०; शंभ ४२०.  
 एक-शक<sup>१</sup> - फम् गीष १७,  
 २२.  
 एक-शक-द्विपद - दानाम् गीष

२८, १३.  
 एक-शक-विक्रियन् - थो विष  
 ४५, २३.  
 एक-शको(क-उ)भयदन्ता(न-  
 अ)शान<sup>१</sup> - ने विष ५१, ३०.  
 एक-शको(क-उ)ट्ट-खी<sup>१</sup> -  
 -खीणाम् वैष २, १५, ५<sup>१</sup>.  
 एक-शक-वद - वदे मीत् १, ४, ८<sup>०</sup>.  
 एक-शक-व्य - वद्यात् मीत् २,  
 १, २८<sup>०</sup>, ७, १, १८, ९, १, ४७,  
 ३, ३७; १०, ३, ६; ११, १, १४;  
 २५; २, ४.  
 एक-शक-वत्-स्व - स्वम् पावा १,  
 २, ६४.  
 एक-शक-वृ(व-अ)भिसंयोग-  
 गान् मीत् ११, १, १.  
 एक-शक-वृ(व-उ)पदेश - नः  
 मीत् ११, ४, २; -शान् मीत्  
 ११, १, ५५; ३, १.  
 एक-शक-वद<sup>१</sup> - वदानि या ४, १.  
 एक-शला(का)क<sup>१</sup> - केन वीत्  
 ८०, २५.  
 एक-शलाका - कया काथी ५,  
 ८, १८.  
 एक-शस(ः) वाथी ४, १, ३; वृदे ६,  
 २१; या १, ४, १०२.  
 एक-शा(खा)क<sup>१</sup> - वाय ४, २,  
 १३८; -कम् वीत् ९०, २.  
 एक-शाखीय - शा ४, २, १३८.  
 एक-शादी-परिहित<sup>१</sup> - नः वाय  
 १०, ९.  
 एक-शाला - > लिक - एक-शा-  
 लिक - पा ५, ३, १०९.

a) वर ११. b) = साम-विशेष-। c) = सङ्ग-देवता-। d) विप.। बस. उप. = वेद-।  
 e) पाठः? 'वेद्यन्तेभ्यः' इति शोधः (तु. Bōht [ZDMG ४३, ६००], वैतु. माध्यम्)। f) विप.। बस.।  
 g) पाठि. वैष २, ३१. एकमनाः मंत्रा १, २, ११ टि. द्र.। h) = धपद-विशेष-। i) = मरुद-विशेष-। समासः १ :  
 j) एरण्थे वृ प्र. (पा ५, २, ४८)। k) विप., नाप.। बस.। l) विप.। तस्येदमीयः अण् प्र.। m) हस. >  
 बस.। n) 'को' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. C.)। o) एक-शक्ये इति जीर्ण.। p) एक-शक्ये इति जीर्ण.।

एक-सि(सा)>स- अतः वीण २, ४, १७.  
 एक-सिनिपाद- पाग ६, २, ८१;  
 -पात्र माथी ५, २, १०, २८.  
 एक-सिनिपाद-स्वर-वचन-नम्  
 पासा २, १, १.  
 एक-सोषेन्- -र्षी मु १६, ४.  
 एक-सुवि- -नयः द्विष १, ७, ८.  
 एक-सु(ल)>न- अथा आश्री  
 ७, १७, ९; १९, १०; आथी ७,  
 १३, ७; १४, १४; वैथी १०,  
 १४; २; १५; ३; द्विषी ७,  
 ४, ३; १६; भाग २, १९; २;  
 द्विष २, १५, २; -नाम् आश्री  
 ७, ८, ३; २१, ३; आथी ७, ९,  
 ६; १६, १०; वैथी १०, ७; २; ३;  
 द्विषी ७, २, २७; ४, १८; ४१;  
 गीण ७, १, २.  
 एक-श्व, द्वा- -द्विषि ९८, ७८;  
 -द्वा माथी १, ८, ३, २८; ४,  
 १२; वाथी १, ६, ५, ८; २९, १४;  
 -द्वा माथी १, ८, ३, २९; -द्वा  
 माथी १, ८, ४, ३८; वाथी १,  
 ६, ११; कौम् ७, १, १३.  
 एक-शेष- अतः पा, पासा १, २,  
 ६४; -ये पासा १, २, १४.  
 एक-शेष-निर्देश- -नाम् पासा १,  
 ३, ३; ४, १-१; २, १, १, ६, ३,  
 ६७; ८, ४, १८.  
 एक-शेष-प्रतिषेध- -अतः पासा २,  
 ४, १.  
 एक-शेष-प्रतिषेध(प-प्र)थे-  
 -नाम् पासा २, २, २८.

एक-शेष-वचन- नम्, -नाम्  
 पासा १, २, ६४.  
 एक-शुनि- -नी मीम् १०, ७, ५१;  
 -रवा पासा ६, ४, १७.  
 एक-शुनि-क्रम- -नाम् जैश्रीका  
 ९३.  
 एक-शुनि-व्य- -स्वान् मीम् ७, १,  
 १२; ११, १, १६.  
 एक-शुनि-विगत- -नाम् श्राथी  
 १, १, ४; लाथी १, १, ४.  
 एक-शुनि- -नि आथी १, २, ८;  
 काथी १, ८, १५; पा १, २, ३३.  
 एक-शुण्य- -नम् आथी १,  
 २, १; पासा १, २, ३९.  
 एक-शुण्य-वचन- नम् पासा  
 १, २, ३९.  
 एक-शुण्य-प्रतिषेध- -अतः पासा  
 ८, १, ५५.  
 एक-शुधि- -धिः चाप ७१; ३;  
 अय १८, १; चां ७; ४०;  
 -एसा देवो ७०.  
 एक-शुध- -थे काथी १६, ८,  
 १७.  
 एक-शुधिसात्र- -अतः कौथी १६,  
 ३६; १३; -अम् आथी ११,  
 ६, १३; आश्री २३, ८, ८; निम्  
 १०, ४; १७, -पात्र निम् १०,  
 ४; १९; -ये वाथी १३, १८,  
 १; काथी २७, ३, १७; वैथी  
 २३, १३; १५. लाथी १०, ५,  
 ६; -अम् द्विषी १८, १, ४.  
 एक-संशुण्य- -अतः कौम् ९, ३, १७.  
 एक-संशेष- -नाम् कौम् ३, ३, १९;

१९; ६, ५, ५३; ९, ३, ३२; १०,  
 ३, ४, १.  
 एक-सं(स्य)>स्था- -स्थाः अय  
 ६७, ५, ४.  
 एक-संस्था->एकसंस्थ- -अयम्  
 मीम् ८, ३, १६.  
 एक-संस्था(ज्ञा-प्र)धिकार- -रे पासा  
 १, ४, १.  
 एक-संतति- -निः विष २०, ११.  
 एक-समाय- -म. कागु ३, ३; -मैग  
 कागु ३-७, ३; ५, ५.  
 एक-संश्रित- -ये आथी २, १६, १५.  
 एक-संश्रित- -अम् आथी ११, ७,  
 १२; -ये वाथी ३, ४, १.  
 एक-संश्रित-ना- -ना वाथी ३,  
 २, ३, ३२.  
 एक-संश्रित- -अम् कागु ७१, २१;  
 -राभिः कागु १५, ५, ७;  
 वैथी ६, १०; ९; १०, १२; ६;  
 आथी ११, ५, १; वैथी १८, ९;  
 ६; द्विषी २७, २, ४; -रे कौम्  
 ३३, १२.  
 एक-संश्रित- -अयेण अय ३, ८, २.  
 एक-संश्रित- -अतः निम् १, १३;  
 ४.  
 एक-संश्रित- -मा मीम् १०, ६,  
 १५.  
 एक-संश्रित- -अतः आथी ११, १०,  
 १०.  
 एक-संश्रित- -अतः आथी ९, १२,  
 ४; १५, १९, २; वैथी ९, १८;  
 ४; आथी ११, १९, १०; वैथी  
 २०, २५; ४; -अम् द्विष १,

a) विर.। बग.। b) देव १६.। c) मन्. "सूक्तवा<>"श्रद्धा इति पाठे.। d) मन्. "श्रद्धावा  
 <>"श्रद्धा इति पाठे.। e) एषा इति पाठः ई मनि. सोधः (द्र. कागु ७, ८, ३)। f) = निम्। g) "श्रावो"  
 इति पाठः ? मनि. सोधः (द्र. कागु ७, १९, १)। h) पय. वा बग. वा। i) एक-शुनि-निर्देश-नाम् इति युगे.।  
 j) इः प्र. अयं. (पा ५, २, २६)। k) विर. (दृष्ट-उ, अणु-प्रवृ.)। उग. वा बग. वा। l) = एक-शेष-नाम्-  
 १। मलो. बग.।



१६, १९; -के आपथ १, ११, ३३; द्विप १, ३, ८४.  
 एक-स्तन<sup>१</sup>- -नम् आपथी ११, १५, ६; १६, ३५, १०; १७, २६, ७; २१, ४, १४; २३, ११, ६; माथी १२, ५, १९; वैथी १२, २४ : ७, १९, १ : १८; द्विथी १०, ३, ३९; -नानि द्विथी ११, ८, २६; १२, ८, २०; १६, १, ४८; -ने माथी २, ३, १, ४६.  
 एक-स्तन-प्रभृति- -नि वीथी २९, ११ : २१.  
 एक-स्तन-मत- -नम् वीथी ६, २४ : १.  
 एक-स्तोत्र- -प्रम् आपथी १७, १८, १३; १९, ९; द्विथी १५, ५, १४; २०; निम् ७, ८ : २१; ६, १३ : १८; -प्रत्य लाथी १०, ३, ५.  
 एक-स्तोत्रिय- -यः आथी ६, ६, ८; -येषु आथी ७, २, ७.  
 एक-स्तोम<sup>२</sup>- -मः वीथी १८, ३६ : ११; निम् ८, ८ : १५; मौम् ५, ३, ४३; -मम् सुम् ३, १६ : ९; -माः निम् ८, ३ : ४; १०, ७ : १६; -मानाम् निम् ९, ४ : ३९; -मानि निम् ८, ३ : ६; -मैन धुम् ३, १६ : ११; -मेषु लाथी ९, ७, ८; निम् १०, ७ : ८.  
 एक-स्तोम-न्ता- -ताम् निम् ८, ४ : २६; १० : १२.  
 एक-स्थ<sup>३</sup>- -स्थः वीथ २, ६, २२.  
 एक-स्थान- -ने द्विथी १६, १, ३६; ६, ३.

एक-स्थान-वागिन्- -ती रंथ १६०.  
 एक-रथम् >) श्रवा<sup>४</sup>- -रथपया ष्माथी ५, ४, ७; १८, ३, १७; आपथी ८, ५, २०; वीथी ७, २ : ३८; १०, ५१ : १९; दाथी १३, १, ४१; लाथी ५, १, ४१; -श्रवाम् आपथी १, ७, १३; ७, ४, ५, ५, ४; माथी १, ७, ८; ७, ३, ९; वैथी ८, ९ : ९; १०, ४ : ११; द्विथी २, ७, १८; २०; ७, १, ६०; ५, २, १३; -श्रवायाम् आपथी १, ८, १ : १०; ९, १४; माथी १, ८, ६; वाथी १, २, ३, ८; ३, ९.  
 एक-श्रवा-देत- -दो द्विथी २, ७, १७.  
 एक-श्रवाद्-त-पद्याश्रव<sup>५</sup>- -श्रव् वाधुथी ३, ८६ : ५.  
 एक-श्रवाश्रवाश्रव<sup>६</sup>- -श्राः द्विथी १८, ३, १.  
 एक-श्रमान्नपद्याश्रव<sup>७</sup>- -श्रः वीथी १६, ३६ : ४; ८; -श्राः आपथी २३, ७, १.  
 एक-श्रव- -श्रम् वाथी १, ५, २, ४९.  
 एक-श्रव- > ऐत्रस्वयं<sup>८</sup>- -श्रम् शाथी १, १, ३१.  
 एक-श्रव- -श्रम् याथि १, ६०.  
 एक-श्रवित<sup>९</sup>- -तम् श्रवा १, १, ५; वीथि ३५.  
 एक-श्रवितकृत्<sup>१०</sup>- -कृत्ः श्राव १, ३, १०; माय २, १८, ४१; कौम् ६, ३४.  
 एक-श्रवितान<sup>११</sup>- -नः वीथी १८, ३६ : ११.

एक-श्रवित- -श्रिः वीथी २०, ८; ३२; ३५; कौम् ७७, १५१.  
 एक-श्रवित-कृत् (< त)- -कृत् मौम् १०, ७, १.  
 एक-श्रवित- -श्रिः आथी २, ११, ६; शाथी २, ३, १४.  
 एक-श्रवित- -श्रम् श्रा ३०, १, ३.  
 एक-श्रानि- -श्रा वीथ ७, ५, १७.  
 एक-श्रायन<sup>१२</sup>- -नः आपथी ९, ८, २; १३, १४; माथी ९, १६, ७; माथी ५, १, १, २६; वैथी २०, २८ : १५; द्विथी १५, ४, ७; -नम् माथी ५, १, ५, ३५; श्राय ७, १; विष ५०, २७; -नान् वीथी १८, ११ : २.  
 एक-श्रायनी- -नी आपथी १०, २२, २; २२, १५, ३; वीथी ६, १० : ३; माथी १०, १४, १९; १७, १२; द्विथी ७, २, १६; १७, ६, २३; -नीम् काथी ८३; वैथी १२, १६ : ९; -श्रा वीथी १६, २४; १४; १७, १ : ३.  
 एक-श्रायन प्रभृति- -ति आपथी १८, ३, ९.  
 एक-श्रावित<sup>१३</sup>- -वी शाथी २, १२, ८.  
 एक-श्रद्वार<sup>१४</sup>- -रः निम् २, ७ : ७; -रम् निम् २, ७ : १.  
 एक-श्रोत<sup>१५</sup>- -शा आपथी ८, ४, ३; वीथी २७, १० : १७, २९, २ : ३; वैथी ८, ८ : ५; २१, १२ : ६; आमित ३, ४, ४ : ६; ७, ३ : २२; वीथ ७, १०, १ : ३; वीथि २, २, २; ३, ४, १३; वैथ ५, ५ : २६; ७, ९ : ८; द्विपि १२ : ९;

a) विप. । वस. ।      b) विप. ( परिव्राजक- ) ।      c) वैप १ द. ।      d) एकं स्थितकृतम् (तु. ३०.) इति पाठः ? यनि. शोधः ।  
 (दाना) ।      e) विप. । तदितान्ये द्विस. ।      f) विप. । उच. उप. < ✓

-तारम् आसिष्ट २,७,४: १५.  
 एक-होम- -मे वाँथी २, ९, १५;  
 वीष्ट ३, १३, १; २; वीष्ट ६, ६ :  
 ४;७.  
 एकाकिन्- पा ५,३,५२; -किन्म्  
 वाच १७, ८६; वीष्ट १, ५,  
 १०२; -फकी छाथी १०, ९,  
 २; वाँथी १६, ५, १; काथी  
 २०, ५, २०; ७, १०; वीथी १५,  
 २९; ५; ७; वाथी ३, ४, ३,  
 ५१; अर २, १, ५९; विष ४५,  
 २७९; चात्र ४२: ६.  
 एकाकि-ता- -ताथी वापूथी ३,  
 १: ५.  
 एक(क-अ)शर- -रम् वाथ १०,  
 ५; २५, ११; विष ५५, १७;  
 -रान् श्रमा १६, ५; नाति २,  
 १, १०.  
 एकाक्षर-गिचन- -नः निम् ६,  
 ३: ५; -नम् खाथी १०, १, १४;  
 निम् ८, ५: २८.  
 एकाक्षर-नियत- -नस्य उगू ८,  
 १६.  
 एकाक्षर-भाविन्- -विनः निम्  
 १, ७: २६.  
 एकाक्षर-वृद्धि- -द्धी श्रमा ५,  
 २९.  
 एकाक्षर-समावेश- -सो श्रमा  
 ३, ३.  
 एकाक्षर-दी( न > )ना- ना  
 उनिम् २: ३.  
 एकाक्षर(र-या)दि- -द्धी श्रमा  
 ९, १५.  
 एकाक्षरी ✓ कृ > एकाक्षरी-कृत-  
 -लाव श्रमा ३, २३.  
 एकाक्षरी ✓ भू > एकाक्षरी-

भात्र- -वान् श्रमा १७, २२.  
 एकाक्षरी(र-उ)व(पा > )व-  
 -धम् श्रमा ८, १६.  
 एकाक्षरी( > )वाँ- -वैया दाष्ट  
 ४, ३, १; -वाँयाम् गोष्ट ४, ८,  
 ११.  
 एक(क-अ)शर, रा- -रः श्रमा ६,  
 ५; -रम् वापूथी ४, १००: ३;  
 वीष्ट ६४: ४; वीष्ट १, ४: २८; २,  
 १०: १३; श्रमा १२, ३; अश्र  
 ३, ४, ३; ४; -रवोः श्रमा ८, ५;  
 -रस्य श्रमा ५, ३३; -रा वीथी  
 २४, २: ७; निम् ३, ४: ५;  
 उनिम् ३: ३; -रंशः खापथी  
 ४, ४, ४; भाथी ४, ५, ५;  
 वाथी १, १, २, १६; द्विथी ६,  
 १, ५१; श्रमा १२, २२९; -रागि  
 अश्र १, ३, १०; -रान् पावा ५,  
 २, ११५; -रंशम् वाथी ३, १,  
 १, ४१; निम् ३, ४: २; मश  
 १७, वाच १४: ६; -राय  
 वाथी ३, १, २, २१; -रे श्रमा  
 ७, १०; श्रमा ३, ७६; श्रत ५,  
 २, ६; नाति ५, ९; -रंशेण काथी  
 १४, ५, २८; अरथी १८, ४, १९;  
 वीथी ११, ७: ३१, वापूथी ४,  
 १००: १९; वैथी १७, १३: ९;  
 द्विथी १३, १, ५४; श्रौथ ४,  
 ५५, ५६; -रेपु वाथी ३, ४, ११.  
 एकाक्षर-पपनि-धम्-यजैम्  
 श्रमा ९, २७.  
 एकाक्षर-तय-पूर्व- -वैम् श्रमा  
 २, ५८.  
 एकाक्षर-पदा(द-या)दि- -द्धीनि  
 उनिम् १: ४.  
 एकाक्षर-पूर्व-पद- -दानाम् पावा

५, ३, ८४.  
 एकाक्षर-प्रभृति- -तीनि निम्  
 १, ६: ११.  
 एक(क-अ)शि- -शिः अय ६९, २,  
 ३.  
 एक(क-अ)गम- -मात् शोथी ९,  
 १, ९.  
 एक(क-अ)गार- -रान् पावा ५, १,  
 ११३.  
 ऐकारिक- वा ५, १, ११३.  
 एक(क-आ)शु(र >)रा- -रे थाथी  
 ५, ५, ४.  
 एक(क-अ)गि- -गिः भाष्ट ३,  
 १: १; -निम् कौम् ६९, १; -शेः  
 काष्ट ४५, १; -रवो दाथी १२, १,  
 ३; लाथी ४, ९, २; जैष्ट १, १: ५;  
 दाष्ट १, १, २०; अश्रय १, १;  
 ६, ९.  
 एकाक्षर- > का( क-आ )  
 दि- -द्धी शंष १३८.  
 एकाक्षर-व- -वान् मौम् ११,  
 २, ४७.  
 एकानि-परायण- -णः आसिष्ट  
 २, ७, १०: १३.  
 एकानि-वत् मौम् १२, १, ६.  
 एकानि-विधान- -नम् आसिष्ट  
 २, ५, १: ८; भाष्ट ३, ३: १४.  
 एक(क-अ)शि- -शयः काथी ६,  
 १०, २०; -मिनः थापथ २, २१,  
 २१; द्विष २, ५, १२०.  
 एक(क-अ)श- -शम् आसिष्ट ३,  
 ११, ४: ४५; थापथ १, २६, ६;  
 द्विष १, ७, १७; -शस्य विष  
 १२, ६.  
 एकान्-दुर्शन- -ने वीथि ३, ७, १.  
 एकान्-उचन- -ने थाथी १, १,

a) वैष १ श्र. 1 b) विष. 1 यस. 1 c) विष. 1 उच. 1 d) = प्राग्-विशेष-1 मरवर्थायः यत् प्र. 1  
 e) विष. 1 यस. 1 तामासान्तरस्य पचः श्रमावः उदर. (पा ५, ४, ११३) f) = एकानि-1 स्वायं कः प्र. 1

१२.  
 एका(क-अ)हुल, छा<sup>०</sup> - लम् वैध्री  
 ११, ७ : १०; ८ : ६; - छा वैध्री  
 ११, ८ : १२; - लाम् वैध्री २,  
 ३ : ११.  
 एका(क-अ)हुलि - ल्या वैध्री २१,  
 ९; ६; - ल्याः लाध्री ८, ९, १०? १०.  
 एकाहुलि-परिणाह<sup>०</sup> - हाः वैध्री  
 १, ८ : ५.  
 एका(क-अ)हु(छ>)छा<sup>०</sup> - छा कप्र  
 १, ७, ९.  
 एका(क-अ)ज्य<sup>०</sup> - जयान् आय  
 १, ३, १०; माय २, १८, ४? १०,  
 कौस् ६, ३४.  
 एका(क-अ)जलि - लित् आय छ,  
 ४, १०; वैध्री २, ५ : ६.  
 एका(क-अ)तिरिक् - कान् आपध्री  
 ८, १७, १; वीध्री ५, १६ : २;  
 १३, ३३ : २; २३, ४ : २; ४;  
 ६; वीध्री ३, ८, २; - कानि  
 आपध्री ८, ५, ४१; वीध्री ५,  
 ५ : ६; वैध्री ८, १० : ९.  
 एका(क-अ)त्सम् - एकात्सम् -  
 -त्सम् वृदे २, १८.  
 ए(क>)का-दशम्<sup>०</sup> - वा थाध्री ३,  
 २, १; ६, १२; थाध्री; अज्यो  
 १२, ११; - वा-स-स थाध्री ९,  
 ५, ७; ८; थाध्री १५, ४, ११;  
 काध्री २१, १, ९; २२, ५, २१;  
 हिध्री १४, ६, ७; - वाभिः थाध्री  
 १०, ८, ५; थाध्री १६, ३, २०;  
 १२, १७; काध्री, - वाभ्यः थाध्री  
 छ, १०, २; पा ५, ३, ४९; - वासु  
 काध्री छ, ८, १७; १८, ६, ११;  
 थाध्री, - शानाम् वीध्री २६,

२३ : ५; वीध्री छ : १७; कप्र  
 ३, १०, ५.  
 एकादश - वाः थाध्री १६, ३०,  
 ७; वीध्री १८, ३२ : ८;  
 वाध्री; - वाम् थाध्री १६, ३०,  
 १०; लाध्री ७, ५, १७;  
 आपमं १, ४, ६१; काय; - वास्य  
 वीध्री १०, ४८ : ११; १७,  
 २५-२६ : ११, - वाः वैध्री १८,  
 १ : १०१; हिध्री ६, १, २६१;  
 ऋअ ३, २२, - वात् आपध्री  
 २०, ७, ७; हिध्री १४, २, २०;  
 - वाय आपध्री ७, १४, ८; वीध्री  
 १०, ४७ : १४; माध्री ७, ११,  
 १२; माध्री १, ८, ३, १८; वैध्री  
 १०, ११ : ६, हिध्री छ, ३, ३४;  
 - वासः थाध्री ९, ११, १५;  
 थाध्री ८, २१, १६; तैत्रा ११,  
 १६; - वा थाध्री ६, ९, ७; वीध्री  
 १०, ४७ : १७; ५० : १; १२,  
 २ : ३; ४ : २४; ५ : २८; १७,  
 २४ : ८; २६, ३ : ३; माध्री,  
 वाध्री; - शेषु वाध्री ११, ५०.  
 एकादशी - शी वीध्री  
 २५, ४ : ८; वाध्री; - शीः नित्  
 ७, ७ : ३१; - शीम् थाध्री ६,  
 ७, २; वीध्री ३, ८, ९, अज्यो ६,  
 ९; - श्या वीध्री १०, २९ : १२;  
 कौस् २९, १४; वृदे ३, ४०; अज्य  
 ५, २४; - श्याम् वाध्री १७, ७,  
 ११; वीध्री.  
 एकादशी-प्रभृति-  
 - तयः थाध्री ७, १५, १०; नित्  
 १, ९ : १७; - ति आमित् २,  
 ७, ९ : २५; ३६; भाय ३, २० :

४; ६; १०; ११.  
 एकादश-दिन - नाव् वैध्री  
 ३, ९, १; - नै वैध्री ५, १३ : ४.  
 एकादश-द्वादश - शयोः  
 गीध १, १३; - नो अय १,  
 १२, १; १३, १; १५, १;  
 १६, १.  
 एकादश(श अ)नुवाक-  
 -के वैध्री १२, ६ : ४१.  
 एकादश-क<sup>०</sup> - कः ऋअ ३,  
 २८; २९<sup>२</sup>; - कम् ऋअ २,  
 १०, ५३; अय ५, ३; १५, १९,  
 १९; अय ५ : २५; - वाः ऋअ  
 १, ६, ८; छुअ ५, ३९; अज्य १५,  
 १०; अयं ५ : १९; - कानि  
 ऋअ २, १, १३; अयं २ : ४७;  
 - के अयं २ : ४८; - कौ ऋअ  
 ३, २३.  
 एकादश-कपाल - लः वाध्री छ,  
 ५, २१××; आपध्री; - लम् थाध्री  
 १४, १३, ६; वाध्री; - लस्य  
 माध्री १, २, ३, ५; वैध्री  
 छ, ९ : ५; हिध्री १, ६, १५;  
 २०; - लाः वीध्री १३, ३५ :  
 ९; २४, १० : २-५; ७; - लात्  
 आपध्री १२, ४, २; वीध्री ७,  
 २ : ६; २६, १५ : ९; १७, २५;  
 २७, १४ : २१; माध्री; - लेन  
 वाध्री छ, २२ : ६; १३; २६ :  
 २१; वाध्री ३, २, ४, ६.  
 एकादश-काण्डा(ड-अ)न्त-  
 -न्तम् अज्यम् ८.  
 एकादश-कृत्वस् (ः) थाध्री ९,  
 ४, १५; आपध्री.  
 एकादश-गुण<sup>०</sup> - गः वैज्यो १५;

a) विप. । तद्विधौ द्विस. । b) श्या इति पाठः इति. शोधः । c) विप. । वस. । d) ज्ययाम् इति पाठः इति. शोधः (दु. आय.) । e) वैप १ द. । f) शः इति पाठः इति. शोधः । g) पाभे. वैप १, १०-१६ b द. । h) वृ ४४२ ई द. ।

१९:२;२३,१९:२८; हिथी ९,  
८, १; १७, ३, ३३; ५, ३९;  
-नाम् काथी २०,५, ८; २१,१,  
७; आपथी ७,१३,९; १७,२३,  
८; २३, ४; १८,२२,१७; २०,  
१,१३; १५,४; २२,४; २४, ७,  
२१,१४,८; २२,१४,२३,७; १३;  
बौथी १०, ५७: ७; १५, १८:  
१०; २२,११: २७,२८; १४:  
१२; १४; माथी ६,२, ६,१३;  
वैथी १२, ६: १४४; ७: ३;  
हिथी १७,२, ४२; ५,२; ६,५,  
१६,२,१७; ८,३, ९; -नानाम्  
बाथी ६, १०, १२; १७, ७, ७,  
आपथी २४,३,२५; बौथी २२,  
११: २६; -नेपु बाथी ६,९,  
४; मीस् ८,१,१४; १०,५,८६;  
६, ६; -नै: आपथी २०, २४,  
११.

एकादशिन-  
देव(त>)ना<sup>०</sup>- ता<sup>०</sup> आपथी  
१९,१६,१०.

एकादशिन-  
पथु<sup>०</sup>- धानि बाथी २३,११:  
२६.

एकादशिन<sup>०</sup>- नान्  
आथी १२, ७, ६; ८; माथी ७,  
१०, ९; -नानाम् बाथी २५,  
३२: १; २६,११: २४.

एकादशिन-धर्म<sup>०</sup>-  
-मा: काथी १९,४,६.

एकादशिन-लिङ्ग-  
-नाम् काथी १५,१०,६.

एकादशिनो-नाना-  
-ना: आपथी १७,५,१२; बाथी

१७,११: १५; हिथी ९,८,७.

एकादशिनो-वत्  
काथी २०,४, १६; मीस् १०,  
५,८३.

एकादशिनो-द्विदशिनो-  
-दशिनो:  
अप्रा ८, ३६; -दशिनो अप्रा  
१७,३८.

एकादशिनो(श-उ)प(र>)ना<sup>०</sup>-  
-नाम् आपथी १७,५,१०; हिथी  
९,८,६.

एका(क-अ)दि- -दि: पा ६, ३,  
७६; -दीनाम् पावा २,२,२९.

एका(क-अ)दिष्ट<sup>०</sup>- -ष्ट: कौशि १५;  
-ष्टस्य पावा ३,२,१०९; -ष्टात्  
पावा ७,१,१४.

एका(क-अ)द्वैश- -वा<sup>०</sup> अप्रा ३,  
१,३; शीच ३,६६, पा ८,२,५;  
पावा १,१,५७, ४,२, ३, १,३;  
-शस्य पावा १, १, ५१; ५७;  
६,१, ८५; -शात् पावा १, ४,  
२<sup>०</sup>; ६, १, ८४; १०; १२३<sup>०</sup>,  
-शे अप्रा १,१,६; २,३,६; ३,  
२१; २३; शीच १, ६९; पावा  
६,१,४५; ८४<sup>०</sup>; ८, २, ६,१९;  
पावा ७,५.

एकादेश-शन्-स्वर<sup>०</sup>-><sup>०</sup>द्वै-  
(र-ए)वाननुदात्त-म्वानुदात्ता-  
(त-अ)धि- -थीम् पावा ८,  
२, ६.

एकादेश-स्वर- -र: पावा ८,  
२, ६.

एकादेश-वर-लंघि-दीर्घ-  
विनाम- -मा<sup>०</sup> शीच ७,११४.

एका(क-अ)धर<sup>०</sup>- -रागि बाथी  
७,१००: ३<sup>०</sup>.

एका(क-अ)धिक,का<sup>०</sup>- -क: बापे ७:

४; -कम् अपा ५२, ३, ३; ६,  
१; -का अत्रय ३, ३३; अथ १-  
३; १८, ३; उनिम् २: ४;

-का: अप्रा १७, ४४; -कान्  
काथी ५,१०,१; बाथी १,७,४,  
१३; हिथी ५, ५, २; -कानि  
काथी ५,३,३; हिथी ५,०,२४;  
काथु ६, ७; -केपु बाथी १, ३,  
१०; -कौ अप्रा १६,४१.

एका(क-अ)धिकरण- -जे पा २,  
२,१.

एका(क-अ)दि-शत- -तानाम्  
चात्र ३: १.

एका(क-अ)दिताय<sup>०</sup>- -य: निस् १,  
८: ११; -या: लाथी ६, ५,  
१८, निस् १, ८: १०; २४; १:  
३; १३; १६; २०; २१; २५;  
-यानाम् लाथी ६, ५, २७;  
निस् १, ८: ४१; ४३; -येपु  
लाथी ६,५,१३;२३.

एकादिशय-प्रभृति- -विपु निस्  
१,८: २३.

एका(क-अ)प्यायिन्- -थी आपथ  
१,६,२४; हिप १,२,४७.

एका(क-अ)प्या(स>)सा<sup>०</sup>- -से  
निस् ३,१३: २२.

एका(क-अ)प्यु- -सु: वैपु २,  
१८: ६.

एका(क-अ)प्यवयव-प्रायश्चित्त-  
-तानि बाथी २७, ६: ३; १९;  
वैथी २०,२०: १४.

एका(क-अ)नुदात्त<sup>०</sup>- ><sup>०</sup>त्-त्व-  
-त्वात् पावा ६,१,१५४.

एकानुदात्तद्वि-गुस्वर-गति-

a) विप. 1 वत. 1 b) वृ ८०१ वृ द्र. 1 c) वत. पू. हस्तत्वम् (पा ६, ३, ६३) d) विप. 1  
तद्विषयं द्विस. उप. = हपरिमाण-विशेष- 1 e) = एकादेश- 1 f) द्वस. > वम. 1 g) सप्र. धराणि <>  
ध्वामि इति पाठे. 1 h) विप. 1 उत. उप. कर्त्तरि कृत्. 1

विषय- सेषु पावा १, १, ५७.  
 एका(क-अ)नुगान- -न्म् द्राधौ २,  
 १, १२; लाधौ १, ५, ६.  
 एका(क-अ)नुव- -चेन्वः अण  
 छ६, १०, २२†; -सेषु अण  
 २: ५.  
 एका(क-अ)नेक-प्राशन- -ने सुध  
 ६२.  
 एका(क-अ)न्त- -न्तः पावा १,  
 ३, ६; -न्तम् गाधौ १, १, १,  
 ३१; -न्ते पावा १, २, ६.  
 एकात्-तस्य(ः) शंघ २५०;  
 आपसु १६, १३.  
 एकात्-दर्शन- -न्नात् पावा छ,  
 ३, १६१.  
 एकात्-समाहित- -तम् आपघ  
 १, २०, ८; २, २९, १४; द्विष १,  
 ६, २२.  
 एकात्(न्त-आ)दि-त्व- -त्वे  
 पावा १, १, ७३.  
 एका(क-अ)न्तर, रा- -रः तैत्रा २,  
 २५; नाशि १, १, ३; -रम् पा  
 ८, १, ५५; -रया शाधौ १६,  
 १३, १८; -रा माशि १, २;  
 -रात् शुभा ६, १३; -रायाः  
 वृदे २, १४०; -रे पावा ८, १,  
 ५५; वेजयो ११; -रेण लाधौ  
 १, ११, २९.  
 एकात्तर-द्वयन्तर-व्यन्तरा(र-  
 आ)शित्- -शी विध ९५, ६.  
 एकात्तर-विधि- -धौ पावा  
 ८, १, ७२.  
 एकात्तर-वृत्तु(ति-उ)पात्-  
 -तम् विध ५८, ८.  
 एकात्तर-द्वयन्तर(र>)रा-  
 -रासु वीध १, ८, ७.

एकान्तरा-द्वयन्तरा-व्यन्तरा-  
 -रासु वाध १८, ८.  
 एका(क-अ)व- -वम् वैशु ६५:  
 ११; वीध २, १०, ५४†.  
 एकात्-न-चत्वारिंशत्- -दात् षष्ठ  
 २, ८, ५.  
 एकात्तत्वारिंशद्-रात्र- -त्रम्  
 आधौ ११, ४, ८; -त्रेण आपधौ  
 २३, ६, ९.  
 एकात्-न-त्रिंशत्- -शत् वृदे ५,  
 १०५; -सत्त्रम् आपधौ १४,  
 १०, ४; द्विधौ १०, ८, ४७;  
 लाधौ १०, ११, ३; -शता वीधौ  
 १४, १०: १०.  
 एकात्त्रिंश- -शाः अत्राय ६, ८;  
 -शे वीधौ १७, २४: १०; २५-  
 २६: १३.  
 एकात्त्रिंश(श-ए)कत्रिंश-  
 -दायोः लाधौ ६, ७, ६.  
 एकात्त्रिंशत्-स्तोमभाग- -गोः  
 नैताधौ २०, ७.  
 एकात्त्रिंशद्-रात्र- -त्रम् आधौ  
 ११, ३, ११; द्विधौ १८, २, ६;  
 -त्रेण आपधौ २३, ४, ११.  
 एकात्-न-पञ्चाशत्- -दावः वीधौ  
 २, ८: २५.  
 एकात्पञ्चाशद्-रात्र- -त्रः  
 आधौ १३, १७, ३; -त्राणि  
 आधौ ११, ५, १; काधौ २४,  
 २, ३७; लाधौ १०, १, १०;  
 -त्रे काधौ २४, ३, ३२.  
 एकात्-न-विंशति- -तिः लाधौ  
 १०, १, ७.  
 एकात्विंश- -त्रम् वीधौ ११,  
 ७: ५६; -शे लाधौ ६, ७,  
 १४.

एकात्त्रिंशति-रात्र- -त्रम् आधौ  
 ११, ३, १८; -त्रेण आपधौ २३,  
 २, १७; द्विधौ १८, १, २३.  
 एका(क-अ)न्य- -न्याम्पाय पा ८,  
 १, ६५.  
 एका(क-अ)पचप- -येन काधौ ८,  
 ३, २; वीध ३, ८, २३; वीध २७,  
 १३.  
 एका(क-अ)पयर्ग- -गाधि द्विधौ  
 १, ६, ४०.  
 एका(क-अ)पल्लव- -वम् वीधौ  
 १५, २: १४.  
 एका(क-अ)भिधान- -ने पावा ८,  
 १, ४.  
 एका(क-अ)भिप्राय- -यान् मीत्  
 २, ३, ४५.  
 एका(क-अ)मन्त्रित- -वे शौध २,  
 ४७.  
 एका(क-अ)रति-प्रभृति- -ति  
 आपधौ ७, २, १२; -तीन् काधौ  
 ६, १, २५; -तीनि भाधौ ७,  
 २, ६; द्विधौ ४, १, २७.  
 एका(क-अ)कै-सुव- -त्रम् वीत्  
 ४०, १६.  
 एका(क-अ)ध्व- -ध्वम् शांघ छ,  
 २, ३; वीध २, ६, ५.  
 एका(क-अ)धैव-मात्र- -तः विध  
 १, १०.  
 एका(क-अ)धैव-जल- -अ(ए>)  
 छा- -छाम् विध १, १०.  
 एका(क-अ)धै- -धै पावा छ, १,  
 १२.  
 एकाक- -व्यम् पावा १,  
 २, ५८; ६४; मीत् २, १, २८;  
 ६, ८, ३७; -प्यात् पावा २, १,  
 १; पापवा ५, १३; मीत् ११, ३.

a) वि. १ वस. । b) वैष १ द. । c) वस. > वस. । d) वद्वे इति पाठः ? मन्. शेषः ।  
 e) १ वस. d. । f) वि. (आर्क-अर्कमणिः) । वस. > वस. । g) पाठि. ५ ७८५ f. ।

१, ६; १२, ३, १६; -ध्वं मीस्  
 ७, २, १९.  
 एकार्थ-संयोग- -यान् मीस् ३,  
 २, २६.  
 एकार्था(र्थ-आ)पत्ति- -त्ते: मीस्  
 ९, २, ४९.  
 एकार्था ✓सू> एकार्थाभाव-  
 -व: पावा २, १, १.  
 २एक(क-अ)र्थ<sup>०</sup>- -र्थम् या ४, १;  
 -र्था: मीस् १२, ३, १०; -र्था-  
 नाम् काथी १; ८, १; पावा १, २,  
 ६४; मीम् १२, ३, २९; -र्थे  
 निस् ९, १० : ६; १०, ३ : ३५.  
 २एकार्थ- -वर्ति मीस् ८,  
 १, २८; ९, २, २४; ४६; १०,  
 ४, १२; ७, ६५, ११, १, ५६;  
 ४, ५; १२, ३, २६.  
 एकार्थ-प्रहण- -णम् पावा ४,  
 ३, ३.  
 एकार्थ-त्व- -त्वान् पावा १, २,  
 ६४; २, २, २९; ३, १, ६९; ८,  
 १, ४; मीम् १०, २, २१;  
 ६, ५०.  
 एकार्थ-विकार- -रे मीस् १०,  
 ७, ६१.  
 एका(क-अ)द्वं-यात्स<sup>०</sup>- -सा:  
 शंघ ३९०.  
 एका(क-अ)र्थं- -र्थे निस् २, २, २४.  
 एका(क-अ)र्थं-> -र्थ-द्वयार्थ-न्याय-  
 पञ्चार्थ-सप्तार्थ- -न्यायं वैष्ट ३,  
 २३ : ११.  
 एका(क-अ)र्थेय, या<sup>०</sup>- -य: आपथी  
 २४, ६, ४; १०, ९; वीथीप्र ९ :  
 ३; ४५ : ८; द्विथी २१, ३, ७;  
 १५; वैध ४, २, ७; ८, ६, २;

-यम् आपथी २४, १०, १८;  
 द्विथी २१, ३, १८; -या: आपथी  
 २४, १०, ४; १६; वीथीप्र १ :  
 ५; द्विथी २१, ३, १४; १६;  
 -यान् वीथीप्र ४५ : १.  
 एका(क-अ)र्थ<sup>०</sup>- -व्या: वैध १,  
 १०, १; ३; ११, १.  
 एका(क-अ)लाम- -मे माष्ट १, ७,  
 ७; वाष्ट १०, ६.  
 एका(क-अ)लीय(सु>)सी-  
 -सी: आथी ७, ५, १२.  
 एका(क-अ)शदान-त्व- -त्वात् मीस्  
 १०, २, ७; १०.  
 एका(क-अ)यम<sup>०</sup>- -मानि ऋया १६,  
 ६.  
 एका(क-अ)य<sup>०</sup>- -यम् वैष्ट १, ३ :  
 १७.  
 एका(क-अ)यसान, ना<sup>०</sup>- -नम् अथ  
 ५, १६; -ना अथ ५, ६; ६,  
 ८; १२३; १३६; ७, २२; ११६;  
 ८, १, ९, १, ५; १०, १; १०; ११,  
 ५; १२, २; १८, ३; १९, २१;  
 ३८; -ना: अथ ५, २६; २७;  
 ९, ३; १८, ४, १९, २२, २३; २७;  
 ४५, ६९; २०, २; अर्थ ३ : २४;  
 -नानि अथ २, १९; -ने अथ  
 १, २६; २, १७; १२, १; १८, ४;  
 १९, ५१.  
 एका(क-अ)याम्ब<sup>०</sup>- -याञ्चि निस्  
 १, ६ : १३६.  
 एका(क-अ)रीय(ति-अ)धिक<sup>०</sup>-  
 -कम् ऋध ४, ३.  
 एका(क-अ)यम-> एकायम-  
 -यम् वीथ २, ६, २९; वीथ ३,  
 ३६.

एका(क-अ)एका'- -का लाथी १०,  
 १, ७; आपमं २, २०, ३५; १;  
 आमिष्ट ३, २, ६ : ३; ६; आपष्ट  
 २१, १०, वीथ २, ११, ६०; माष्ट  
 २, १५; २; १७; ४; ११; द्विष्ट  
 २, १४, २; ५; १५, ९; वीथ  
 ४, ४, ३२; द्राष्ट ३, ५, ३८;  
 अथ ३, १०; -काम् वीथी  
 १६, १३ : ८९; आपमं २, २०,  
 ३३; आमिष्ट ३, २, ६ : १;  
 माष्ट २, १७ : २; द्विष्ट २, १५,  
 ९; -काया: आपथी ६, ३०, ७;  
 २०; भाथी ६, १७, १९; १८,  
 ८; -कायाम् काथी १३, १, २;  
 आपथी १६, १, १; २१, १५, ४;  
 वीथी १४, १३ : २२; २४; १६,  
 १३ : ४; ६; माथी ५, २, १०,  
 ३८; ३९; ६, १, १, १; वैथी १८,  
 १ : ७; वैताथी ३१, ४; वीथ  
 १, १, १२; गो १, १०; २, ८;  
 -कायै वैष्ट २, ३; ४; -कंके  
 आपमं २, २०, ३४; आमिष्ट ३,  
 २, २ : ५; माष्ट २, १५ : ७;  
 माष्ट २, ८, ४; द्विष्ट २, १४, ४.  
 एकाएका-दीक्षिन्- -क्षिण:  
 द्राथी ८, ४, २५; लाथी ४, ८,  
 २१.  
 एकाएका-धुति- -ते: मीम् ६,  
 ५, ३२.  
 १एका(क-अ)यन- -ने आथी ७,  
 २, १५; द्राथी १२, ४, ५; लाथी  
 ४, १२, ५.  
 एकासन-स्व- -स्व: शाष्ट ८, ६-  
 एकासनो(न-उ)पवेतिन्- -ती  
 विध ५, २०.

a) एकार्थे इति कासं. । b) विप. । वस. । c) वस. इति शाबरभाष्यम् । d) विप. । वस. > वस. ।  
 e) = वानप्रस्थ-विशेष- । वस. । f) 'नैक' इति पाठः । 'नैक' (सु, ए)° इत्याकारकः शेषः । g) पाथे. घृ  
 ८०२ हृ द. । h) विप. । वस. > वस. । i) वैप १ द. ।

२एका(क-आ)सन्- -नः विभ २८, २७.

एका(क-आ)ह- -हः आश्री ५, १५, १५; ९, १, ३; ११, १, २; शाश्री १३, २४, १६; १५, १, ३६; २, ३१; १६, ८, ६, १७; काश्री ८, २, ३७; वीश्री २६, २२ : १; माश्री; -हम् आश्री १०, ५, ९; काश्री १३, ४, ६; आपश्री ५, ३, २३; ७, १४; वीश्री १८, ३२ : २; २३, १२ : २४; वीश्री १, ६ : १०; हिश्री ३, २, ५८; निम्; -हस्य शाश्री ११, १५, ९; वीश्री २६, २२ : ३; -हः आश्री ९, ८, १५; १०, १, १०; काश्री २२, १, १; २३, ५, ९; २४, ४, १७, वीश्री २६, १ : २; ३० : १; वेताश्री ४२, १२; निम् २, १ : ३५; ३, ७ : १४; ६, २ : १; ८, ८ : १६; -हात् शाश्री ११, ४, १२; ५, ३; ६, ४; ७; ७, ६; १०, ११; वैष ३, ६, ७; मीत् ८, ३, १२; -हात् आश्री १०, १, १३; -होश्दृशि<sup>०</sup> वीश्री १६, २७ : २४; -हाताम् आश्री ४, २, १६; ८, १३; ९, १, ३; शाश्री ९, १, १; आपश्री २४, ४, ३; वीश्री २३, १८ : २३; २२, १० : २४; निम् ६, ९ : १९; ८, ८ : १७; -हानि अश्यात् ३, ९; -हाय हिश्री १६, २, ५; -हे आश्री ८, ४, १७; शाश्री १३, १९, ३; १५, १२, ३; आपश्री; -हेन आश्री ९, ११, ३; १०, ५, २०; वीश्री १, १ : २; कम् ३, ५, ९; -हेस्यः लाश्री ८, १, ४; -हेषु

आश्री ६, १०, २८; ७, ५, १३; शाश्री ४, १४, २; १४, १, १; आपश्री २२, १, १५; वीश्री २९, ४ : १५; वेताश्री ३५, ६; ३९, २; कौष ५, १, २; निम् ६, २ : ५; -हैः निम् ३, ७ : १४; १०, ८ : २२; -हो क्षुत् २, ९ : २४; निम् ७, ८ : २४; ११ : २४; १२ : १७; -हो-हो जुत् २, ९ : २७.

एकाहिक,का- -कः आश्री ७, २, ८, १०, १०, ४; ६; वीश्री २२, ३ : ७; २३, ११ : १८; -कम् आश्री ७, १, २२; ८, २, १६; ३, ३४; १०, ५, २२; १०, २; ४; शाश्री ११, १०, ६; १३, १७; १२, ५, २४; १४, १, ३; ३, १४; ८, ७; १५, १, ३८; २, ३०; १६ ७, १३; १५; १४, २; ४; १७, ८, १३; १८, २०, ८; वीश्री २२, ३ : ६; २६, १० : १७; लाश्री ६, ९, १६; निम् ८, ६ : ११; १० : २३; ९, ३ : २५; ९ : ४१; मीत् ७, ४, १२; -कयोः शाश्री १६, ८, ५; -कस्य शाश्री १२, ४, ५, १; शैश्री २१ : २१; लाश्री ८, २, २०; -काः आश्री ७, ५, १४; ९, २, ५; १०, १०, ३; जुत् २, १६ : ३; ७; ९; निम् ३, ६ : ३४; -कान् आश्री ६, ९, ६; शाश्री ११, १०, ७; १५, ७-८, १; निम् ६, ७ : ४३; -कान् शाश्री १२, ६, १९; ८, २; १५, ७, ९; -कानाम् आश्री ९, १०, १४; वेताश्री २५, १०; -कानि आश्री ८, ४, ३; १६; १०, १०, ६;

शाश्री १२, ११, १७; २७, ५; वेताश्री ३३, १९; निम् ५, २ : १८; ७ : १५; ७, ३ : १०; ८, ५ : १२; -काम्याम् शाश्री १५, ८, २; -के आश्री ८, ५, ५; ९, ८, २१; १०, १०; शाश्री १६, ७, १४; १६; १४, ३; ५; वीश्री २४, ३९ : ९; शाश्री ८, ३, ३५; लाश्री ४, ७, १३; ६, ९, ११; निम् ९, ४ : १२<sup>१</sup>;

-केन लाश्री ९, ४, १८; -केषु शाश्री १६, ८, १६; -कौ आश्री ८, ६, २०; ७, ९, ११; शाश्री १२, ११, १३.

एकाहिकी- -की निम् ९, ३ : २३; -कीभिः शाश्री १०, ७, १४; १२, ६, १८; -कयः लाश्री ८, ७, १२.

एकाहिक-तस्य- -स्याः शाश्री १४, ८, ४.

एकाहिक-वास्य- -स्याः आश्री १०, १, ६.

एकाह- -स्यात् निम् ३, ६ : ३३, ३५.

एकाह-नृस- -सः निम् ८, १० : ४७; ९, १ : २; ६ : १४.

एकाह-गम- -मः पा ५, २, १९.

एकाह-तन्त्र- -न्त्रात् निम् ८, ९ : ८; १३; ९, ४ : १९.

एकाह-स्यह- -हम् निम् ८, १२ : ३.

एकाह-द्रादशाह- -हयोः काश्री १२, १, १.

एकाह-स्याय- -येन निम् ७, ८ : २८.

एकाह-मन्त्रि- -ति आश्री ४,

: a) निप. । षव. । b) =याग-विशेष, एकदिन- । तद्विधार्थे ङित्. वा षत्. वा । c) -हः इति > -ह इति > यनि. प्लुतो ष्ठुनासिक आर्षः । d) ए<sup>०</sup> इति पाठः । यनि. शोषः । e) निप. ।

२, १४.

एकाह-भूत- -तस्य शोध्री १२,  
२, २६; ६, १९.एकाह-मध्य- -न्वे काशीसं २७:  
२.एकाह-याजिन्- -जिनः वीथी  
१४, ४ : ३२; २६ : २१.एकाह-वम् काशी १२, २, ११;  
मील ७, ४, १३; १०, ६, ४.एकाह वन- -शेन निम् ५, १ :  
११.एकाह-संनिपात- -त्वे वैप ७,  
४ : ९.एकाह-समास- -सम् निम् ९,  
३ : २५.एकाह-स्वोम- -मः निम् १०,  
७ : ३.एकाहा(ह-आ)तान<sup>०</sup> - -नः शोध्री  
१७, ९, ४; १८, २२, ३.एकाहा(ह-अ)थे- -थे शोध्री ११,  
१, ९; शोध्री १३, १५, १; काशी  
२४, १, ५.१एकाहा(ह-अ)होम<sup>०</sup> - -नः निम्  
९, ९ : ३९; ४०.२एकाहा(ह-अ)हीन- -नयोः  
जोध्रीका १४०.एकाहा(ह-अ)हीन-स्य- -त्रेपु  
वाध्री १, १, १, ६६.एकाही/रू> एवादी-भवन्-  
-वतः शोध्री १३, २४, १७; -वासु  
शोध्री ८, ४, १४; १५; ९, २, ५.१एका(क-अ)हन्- -द्धि निम् १०,  
६ : १५<sup>०</sup>.एका(क-आ)ह्वनी( य> )या<sup>०</sup>-  
-याः काशीसं ५ : २.एकाहवनीय-पक्ष- -शे काशीसं  
५ : ४.एका(क-आ)हुति- -तिम् हिथ्री  
११, ७, ५३; १२, ५, ८; ७, ७;  
१५, ७, ११; -थै वाध्री ३,  
२२ : १२.एकिन्- -किनि लाथ्री ६, ६, १२;  
१३; -किपु लाथ्री ६, १, १८;  
-कीनि लाथ्री ८, ५, २३; २४.एकिनो-> णी-पर्याव-  
-या लाथ्री ६, ५, ९.एकि-प्रभृति- -तयः लाथ्री ६,  
५, १६; १८; निम् १, ८ : ५; २४;  
९ : ७; १२, २५, -तीन् लाथ्री  
८, १२, ६.एकी/> एकी-कर्तुम् काशु ६, ७.  
एकी-कृत्य वृदे २, ११३, शैवि  
३३३३.एकी/भृ, एकीभवति ऋया २,  
३४; ११, ३९.एकी-भाव- -व. शुभा ४, ११२;  
मासि ६, २; -वम् या १, ३,  
-वे ऋया ३, ११; नासि १, ३, १.  
एकी-भाविन्- -विनाम् ऋया ३,  
१५.

एकी-भूत- -तम् इत् ८, ९.

एकी(क-ए)क, का<sup>०</sup> - -क<sup>०</sup> शोध्री ३,  
६, २५, काशी; -कस् शोध्री १,  
५, ३××; शोध्री; काशी १५, ८,  
१८<sup>१</sup>; -कया शोध्री ४, २१, ५,  
१४; १६, १३, ५; काशीसं;  
-करमात् वैथ्री ६, ५ : २; हिथ्री  
२, १, २६; द्राप ३, ४, २१;  
-करिमन् द्रापथ्री १, ९, ७××;  
भाथ्री; -करमै लाथ्री ९, १, ९;६, ४; ११, ३; वीम् ७२, १२;  
अर ९, ४, ६; -कस्य शोध्री७, ५, २१; काशी; पा,  
पावा ८, २, ८६; -कस्यऽ-  
कस्य लाथ्री ८, ८, ४८; -कस्याः  
शाथ्री ८, ७, ८; द्रापथ्री २०,  
१५, ८; या ७, ५; -कस्याम्वीथ्री २०, १४ : १२; १८ :  
२२; २९; जैथ्री ५, लाथ्री ६,  
१, १; -कस्यै शोध्री १, १७, ७;  
वीथ्री १३, २८ : ९; २९ : ६;माथ्री ५, २, ३, ४; वाध्री ४,  
६ : ३; हिपि २० : १२; १४;  
-वा शोध्री २, १९, २८; शोध्री;  
-काम् शोध्री ४, ८, ५; शोध्री;-केन शोध्री १२, ५, १७-१९;  
शोध्री.

एकैक-वस् (ः) द्विपु ३, ३१.

एकैक-वर्ण-वर्ति- -त्व- -त्वार्  
पावा १, ४, १०९.एकैक-वास्त<sup>०</sup> - -ससः वीपि ३,  
४, १६६.एकैक-दास् (ः) शोध्री २, ६,  
४××; द्रापथ्री.एको(क-उ)घ<sup>०</sup> - -वम् ऋव ३, १,  
२.एको(क-उ)घय- -वेन काशी २३,  
१, ५, २, १८; २४, १, २; गीघ  
२७, १४.एको(क-उ)घा- -दनाम् विघ  
१५, ४१.एको(क-उ)घि<sup>०</sup> - -नेः वाध्री ३,  
१८ : १; १४.एको(क-उ)घर<sup>०</sup> - -येन शोध्री १७,  
४४.

a) पक्ष. उप. = विल्लार- (द्र. वैप २, ३६. )। b) एकादशविधः शशीनः इति कृत्वा मलो. कस. ।

c) पाठः १ \*काह-> -हे इति शोधः स्यात् (द्र. मू. धे.)। d) विप.। वस.। e) वैप १ द.। f) एकम् इति  
पाठः १ यनि. शोधः (द्र. चौ. र.)। g) एकवा<sup>०</sup> इति B.। h) अर्थः १ इति C.। वैप २, ३६. द.।



एको(क-उ)तर<sup>a</sup>- -रम् शाभी ४,  
 १०, २; अत्र ५५, १, ४; -रा:  
 शाभी १६, १९, १; ३०, १२;  
 -रागि शाभी १३, १४, ९;  
 वापुथी ४, १०० : २; निम् १,  
 ६ : ११; अत्र १६, ५; -नरात्  
 आपुथी १६, १७, १६; वैथी  
 १८, १४ : ३०; आपुथु ८, ६;  
 द्विपु ३, १०.  
 एकोत्तर-वृद्धि- -द्धि: आगिष्ट  
 ३, १०, ५ : ३; वीपु ३, १२, ९;  
 द्विपि ८ : ७; गीपि १, ४, १०.  
 एको(क-उ)स्वर्ग- -गम् काथी ७,  
 ७, १२.  
 एको(क-उ)रक<sup>b</sup>- -रम् सु ९, ४.  
 एको(क-उ)दात्त<sup>c</sup>- -तम् गुप्ता २,  
 १; अत्र १, १, ५.  
 एको(क-उ)द्वि<sup>d</sup>- -द्वम् वीपु ३,  
 १४, ११; वापु ४, २, १; आगिष्ट  
 ३, १, १ : १२; १०, ३ : ५, ११,  
 २ : १, १२, १ : ७; वीपि ३, ४,  
 २५; ५, २; ९, ६; वैपु ५, ७ :  
 १३; १३ : १; २७; ७, ७ : ३;  
 ८; गीपि २, ६, १; अत्र ४४, १,  
 ३; ७; १२; क्षेप १९०; २४०,  
 -छात् वैपु ५, १४ : २; -छे आगु  
 ४, ७, १; आगिष्ट ३, २ : १३,  
 वीपु ३, १२, १३; वीपि २, १०,  
 १, ७; अत्र ४४, ४, ६; विष २१,  
 २; -छेन कर ३, ५, १३; -छेषु  
 वीपु ३, १२, ६; वीपि २, ९, १.  
 एकोद्विष्ट-निमित्त-श्राद्ध- -द्वे  
 वैपु ७, ७ : ३.  
 एकोद्विष्ट-पत् आगिष्ट ३, ३, २ :  
 २९; वीपि २, ११, ३; वैपु ४,  
 ४ : १.

एकोद्विष्ट-धाद्- -द्वम् आगिष्ट  
 ३, ११, १ : १४; वैपु ५, १३ : १५;  
 -द्वे आगिष्ट ३, ३, २ : १३.  
 एकोद्विष्ट-सूक्त-सूक्तक- -केतु  
 शंभु ४७.  
 एको(क-उ)न, ना- -नम् अत्र ७०,  
 २, २; वेज्यो ३०; -ना वाथी २,  
 २, २, ९; अत्र; -ना: मैत्र २१;  
 -नानि आगु ६, ७; -नौ लाथी  
 १०, १०, ७.  
 एकोन-चत्वारिंशद्-राध- -श्रेण  
 द्विथी १८, २, १६.  
 एकोन-विंशत्- -शत् लाथी  
 १०, ६, ६; निम् ५, ३ : १५;  
 विष २६, ८४; गुञ्ज २, २१२.  
 एकोनत्रिंशद्-धा वीपु २ :  
 २२<sup>e</sup>.  
 एकोन-नवति- -ति: अत्र १८,  
 ४; अत्र ४ : ४१.  
 एकोन-पञ्चाशत्- -शत् गुञ्ज ३,  
 ६; अत्र ४, २९, नावि १, २, ४;  
 -शत्तम् शंभु ११६ : ५५.  
 एकोन-विंशत्<sup>f</sup>- -शत् वैथी  
 १७, ६ : १०.  
 एकोन-विंशति- -ति: अत्र ४६,  
 १०, १६; ४७, २, ६; अत्र २०,  
 ४७; वेज्यो १९; -तिम् आज्यो  
 ९, ५; -स्या काञ्च ७, ३८.  
 एकोनविंश- -शत् अत्र १९,  
 ५, ९; ४१, ५, ७.  
 एकोनविंशति-लिङ्गोक्त-देव-  
 (ता>)त<sup>g</sup>- -नानि गुञ्ज २,  
 १८८.  
 एकोन-शत- -शत् वाथी ३,  
 ४, २, ६.  
 एकोनशत-रात्र- -त्रात् आथी

११, ४, ८.  
 एको(क-उ)नत्- -तम् वापुथी ४,  
 १० : १०; -ते वापुथी ४, १० : १०.  
 एको(क-उ)पक्रम-त्व- -न्यात्  
 आपुथी ८, २२, १७.  
 एको(क-उ)पचय- -चम् काथी ७,  
 ७, १४; -येन वीपु ३, ८, २७.  
 एको(क-उ)परिष्ट- -ष्टम् पात्रा १,  
 २, ६४.  
 एको(क-उ)पवास- -सम् वैपु ६,  
 १५ : ७; १२.  
 एको(क-उ)पलम्<sup>h</sup>- -गत् वा ७, ९.  
 एको(क-उ)प्वेदार<sup>i</sup>- -रम् अत्र  
 २१, ४, ५.  
 एको(क-उ)सुक्त- -सम् आथी २,  
 ६, २; आपुथी १, ८, ७; १०, १४;  
 ८, १७, ८; १२; १८, ८-९, १६;  
 वीथी ५, १६ : ५१; ९; १२, १ :  
 १२; १६; ४ : ११, १३; १४,  
 १३ : २७; २८; भाथी १, ८, ५;  
 ८, २१, ५-७; भाथी १, ७, ६,  
 १४; ७, ३; वाथी १, २, ३, १; ७,  
 ६, ६; ११; ६३; ३, ३, १, ७; १८;  
 वैथी ९, ६ : ५, १० : १५; ११ :  
 २; १०, १५ : ९; द्विथी २, ७,  
 १७; ५६; ५, ४, ३७; ५, ७; ११;  
 १३, ३, १८ : ३३; -कस्य वीथी  
 २१, ५ : २२; २२, १६ : ८;  
 -केन आगिष्ट ३, ५, ६ : १०;  
 वीपि १, ४ : २५.  
 एकोसुक्त(क-आ)हरण- -णम्  
 वाथी १, १, २, २.  
 एको(क-ओ)द्व- -नम् वीथी १८,  
 ८ : ११.  
 २ एक<sup>k</sup>- (>पुंकायन-, पुंज्य- पा.)  
 पात्र ४, १, ९, ९; १०५.

a) विप. । वस. । b) = धाद्-विशेष- । वस. । c) \*अत्र इति वाः ? वनि. शोचः (तु. द्वारकानाथ-यज्वा) । d) कस. वष. = विशति- । e) विप. । वस. > कस. । f) वष. । ध्यु. ? ।

एक-कुणिक- कौ आपध १, १९,  
७; हिष १, ५, १०९.

एकल- (> ऐकलभ्य-> ऐकलव-  
पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.

एकविन्दु- > ऐकविन्दवि- (>  
वीय-) उपविन्दु- टि. द.

एकव्यम् वाथी ३, २, ६, ४६.

एकशफाष्टसन्धीनाम् सुध ३४.

एकध्वंदिष्टं लृत्यं मासपूजादधा-  
ज्युडुलिकापिष्टका. वाथी ३,  
२, ५, २६.

एकामरगीणिन्- -र्णिनः चाम  
४० : १३.

एकानसि- पाठभो २, १, २३९.

एकपरम् वाधुथी ४, २९ : १७.

एकारिणाम् धव १, ६, ५.

एग- (> ऐग- वा.) पाग ४, २,  
८०.

✓एज् पाधा भ्वा. आत्म. दीती, पर.  
कम्पने, ऋजति शाथी १६, ४,  
२०; आपमं २, ११, १६; आमिष्ट  
२, १, ३ : ३; काष्ट ३३, २,  
वीष्ट २, ८, २९; भाष्ट १, २२ :  
१२; ३, १३ : १०; हिष्ट २,  
३, १; कौसू ११५, २; अश १०,  
११; शुषा ४, ५७; निष्ट २, १४;  
या ३, १५; ऋजतः शाथी १२,  
२४, ७; लाथी ९, १०, ५;  
पूजन्ति ऋष ७०<sup>३</sup>, ८, ४<sup>१</sup>;  
पूजाति मामि ८, १<sup>१</sup>; ऋजतु  
आथी १०, ८, १२<sup>३</sup>; १३; काथी  
२५, १०, ५; लाथी ९, १०, १<sup>३</sup>।

४; आपमं २, ११, १६; पाष्ट १,  
१६, १; आमिष्ट २, १, ३ : ३;  
काष्ट ३३, २; भाष्ट १, २२ :  
१३; हिष्ट २, २, १; शुष १,  
५१६.

एज् (>) जयम् आपमं २, १६,  
१; भाष्ट २, १७ : ७.

ऋजत्- ऋज् वीष्ट २, १, ७; भाष्ट  
२, ७, १, कौसू १३३, ३; १३५, ९.

ऋजत्- (क >) का- का-  
आपथी १९, १२, १२; वीथी  
१२, ३ ३२; हिथी २३, २, २३.

एज्य- पा ३, २, २८.

ऋजयत्- ऋज् आपथी १४, २९,  
३<sup>१</sup>.

एजि- (> ऐज्य- वा.) पाग ४,  
१, १५१.

एज्या- आ ✓यज् द.

✓एट् पाधा. भ्वा. आत्म. विवाधायाम्.

एडक- पाठभो २, ११<sup>०</sup>, पाग  
४, १, ४; -क. हिथी १५, ३,  
२५.

एडका- पा ४, १, ४; पावाग ७, ३,  
४५.

एडक- कम् आपध १, १७, २२.  
हिष्ट १, ५, ५४.

एडकी- ऋया आपथी १५,  
१७, ५; १७, ११, ३; माथी ११,  
१७, ७; वैथी १९, ६ : २९.

हिथी १२, ३, ३.

एण- पाठभो २, २, १२२.

एणी- ऋनी वाधुथी ४, ३० : १० :

तैषा १३, १२<sup>१</sup>; - ऋणीः  
आमिष्ट ३, ८, २ : ३८; वीषि  
१, १५ : ४५; हिषि १५ :  
१५.

एणेय- पा ४, ३, १५९; - यम्  
पाष्ट २, ५, १७; काष्ट ४१, १३;  
भाष्ट १, १ : ७; वाष्ट ६, २८;  
वैष्ट १, १२ : ५०; ५१; आपध  
१, ३, ३; हिष्ट १, १, ७५; - येन  
काष्ट १, १९, १०; वीष्ट २, १, १;  
शाष्ट २, १, २.

एणेय- रौरथा (व-का) ज-  
-जानि गोष्ट २, १०, ८.

एणेय-हारिण- शानि  
कौसू ५७, १०.

एणी-यद्- पा ५, ४, १२०.

एत्- (> ऐत्- वा) पाग ५, ४, ३८९.

१एत्- ए (आ ✓इ) द.

२एत्- पाठ ३, ८६; - ताः शुषा  
२, ३५.

एनी- ऋनी आपथी २२, १५,  
८.

एन-३३- ऋवः निष्ट १, १४.

एन-प्रविषध- -ये पाठा २, १, ६९.

एण्णा (त-अ) ऋव- -ये ऋष ३,  
३, ५.

३एत्- (> एती- वा.) पाग ४,  
१, ४१.

४एत्, ता- एतद्- द. ।

एतद्- पाठ १, १३३.

२अ- > अत्स (ः) आथी १,  
३, ३०; ४, ८४, शाथी; माथी

a) व्यप. । व्यु. १ । b) पाठः ? ऋण्डवन्धिनीनाम् इति शोधः (दु. गौष १७, २२; २३) । c) पाठः ?  
वप. आपथी २१, १७, १६ वीथी १६, २१ : ५ हिथी १६, ६, २१ प्रथ. विरिष्टः पाभे. । d) = उज्जयिनी- । व्यु. १ ।  
e) पाठः ? एकवार-> ऋम् इति संस्पर्शः । f) अर्थः व्यु. चं । g) = देश-विशेष- । h) पाभे. वैष १,  
१-५४ ० द. । i) पाभे. वैष १, १-३८ d द. । j) द्वान्द्वो दोषः । k) = विक्ता- । व्यु. वैष १ द. ।  
l) पाभे. वैष १, १-३८ i द. । m) < ✓एज् इति MW. । n) = मेप- । व्यु. १ । o) < ✓ईद् इति ।  
p) वैष १ द. । q) दु. पाका. । एनस्- इति भाषणा. । r) एप. अर्थः । उप. = वंश- । s) एनी- इति BPG. १ ।

१, ५, २, १२०; वा २, ४, ३३;  
पावा ७, ३, ८५.

गतः प्रभृति- -ति वीथी  
१३, ४, ११.

जतो देवा(व-आ)दि<sup>०</sup>- -दि  
वैशु १, ५ : १; २, २ : ६.

अत्र, या आथी २, ६, १५; ७,  
१××; वाथी: वा १२, ३८<sup>०</sup>;  
वा २, ४, ३३; ५, ३, १०.

अत्र-प्रद्वग- -णम् पावा ६,  
४, २२.

अत्र-भक्षित- -तः वाधूथी  
७, ४९ : ५.

अत्र-सिधित- -तेन वाधूथी  
७, ६९ : ३; ७६ : ५.

अत, ता- -ताम् आथी १, ३, २३;  
७, ६, ३××; वाथी: आथी ७,  
१५, ५<sup>०</sup>; ९, १०, १५<sup>०</sup>; १०, १०,  
३<sup>०</sup>; १३, ७, १६<sup>०</sup>; -तया आथी  
५, ३, २५; आथी: -तयो:  
आथी १, १३, ९; वाधूथी:  
-तस्मात् काठथी १२८; वाधूथी:  
-तस्मिन् आथी २, १६, ३; ५,  
७, १××; आथी: -तस्मै  
वाधूथी ३, ९९ : ७; -तस्य  
आथी १, १, १; २, १९, ८××;  
आथी: -तस्याः आथी ७,  
१३, १; वाथी ९, ६, १२; १०,  
१३, ६; लाथी ७, १३, २, वा ६,  
२; -तस्यान् आथी २, १८, ८;  
वीथी: -तस्यै शाथी ६, ३, ६<sup>०</sup>;  
आथी ६, १८, ३<sup>०</sup>; वीथी:

-ता आथी ५, ७, ५; वाथी ७,  
६, ६; -ताः आथी २, ७, ७<sup>०</sup>; ७,  
८, ७; १४, २; वाथी: आथी २,  
१०, ४<sup>०</sup>; १८, १३, २१<sup>०</sup>; वाथी  
३, २, ५, ० ३<sup>०</sup>; वैताथी ३७,  
९<sup>०</sup>; -तान् वाथी ७, १६, ३;  
वीथी ६, ३४ : ८; वाधूथी:  
-तानि आथी १, ६, १; २,  
१४, १२××; आथी: -ताभिः  
आथी ३, १४, २××; माथी:  
-ताभ्याम् आथी ३, ८, ५;  
माथी: -ताभ्याः वाधूथी ३,  
४५ : १२; आथ १, २, ४;  
-ताम् आथी १, ६, १; ३, ८,  
१<sup>०</sup>; १०, १६<sup>०</sup>××; आथी:  
माथी ३, ४, १०<sup>०</sup>××; -तासाम्  
आथी १९, १८, ८; वाधूथी:  
-तासु आथी ५, ४, ७; वाधूथी:  
-ते आथी १, २, ३२; ५, २××;  
आथी: वैताथी २०, ४<sup>०</sup>;  
द्वि १, १७, ४<sup>०</sup>; -तेन आथी  
१, २, २३; १०, ४××,  
आथी: -तेभ्यः वाधूथी ३,  
९२ : ६; वीथ १, २, ६६; ३,  
१, ११; वा ७, ९<sup>०</sup>; २५; वा ५,  
४, ८८; पावा ३, १, २२; -तेषाम्  
आथी २, १, ११; ३, ८, ६××;  
शाथी: -तेषु वाधूथी ३, १०२ :  
४, ६; -तेः आथी १, ९,  
१, २५, १५××; वाधूथी: -ता  
आथी १, ५, ३३; वाधूथी.  
ए(तक>)तिहा- -कासु पावा

७, ३, ४४.

एतद्- -तत् आथी १, १, ७; २४××;  
शाथी: -तत्-तत् द्विथी २, ४,  
२८; -तत्: वा २, ४, ३३; ५,  
३, ५; पावा ५, ३, ५<sup>०</sup>.

एतच्-न्या<sup>०</sup>- -णिव अप ३५,  
१, १७.

एतन्-ज्ञान- -नम् अत्र १, १, १.

एतन्-तद्- -तयोः वा ६, १,  
१३०.

एतन्-वीथी- -यानि वीथी १३,  
१ : ५.

एतन्-अथ-विसयुक्त- -यतः  
विध ५५, १४.

एतन्-अथ- -ज्ञौ वीथी १८,  
३८ : ६; १४.

एतन्-पशु- -क्षामि निस् ७,  
१३ : ११.

एतन्-पतिव<sup>०</sup>- -यः वाधूथी ३,  
२५ : ८.

एतन्-पुरस्तात् आथि ३, ८, १:  
१८.

एतन्-पुरोडासा<sup>०</sup>- -शाः वीथी  
१७, १२ : ५.

एतन्-शुभ<sup>०</sup>- -शेषु आथी ५, १५,  
१०.

एतन्-यकम्प- -न्यानाम् अप  
६२, १, २.

एतन्-ययम- -वा ६, २, १६२.

एतन्-प्रभृति -तयः माथी ५  
२, १६, १५; लाथी ९, १२, ५,  
-ति द्विथी ९, ४, ४४; -तिना

a) पामे. वैप १ परि. अट्टः काठ ७, १२ टि. द. । b) विप. । वस. पूर. <श्रुतो देवा (क १, २२, १६)  
इति । c) पामे. वैप १, १४१४ a द. । d) पामे. वैप १, १०४१ b द. । e) पामे. वैप २, ३३३ एतन् तैवा  
१, ४, १० टि. द. । f) पामे. वैप १, १०४१ c द. । g) पाठः? सा इति शेषः (द्व. वैप १ परि. इष्टुा मे १,  
१०, ३ टि.) । h) पामे. वैप १, १०४३ f द. । i) पामे. वैप १, १०३० c द. । j) पामे. वृ ५५४ c द. ।  
k) एतेषाम् इति वा १२, एतान् इति च्छेदः । l) पाठः? एतान् इति शेषः (द्व. आथी [५, ५, २१], c. च) ।  
m) पामे. वैप १ पुनः शी ७, ६९, १<sup>०</sup> टि. द. । n) विप. । वस. ।

गोष्ट ३, ४, १९; -तिमिः द्राघी  
 ५, ३, २३; ६, ३, २०; लाघी २,  
 ७, २०; ११, १४; गोष्ट २, १,  
 २३; ३, ६; ३, ८, ३; १०; -वीनि  
 आघी ४, १३, ७; हिथी ९,  
 ७, ६२; अग्र ७, १.  
 एतद्-प्रमा(ण>)गा<sup>३</sup> - गाम्  
 कप्र १, २, १२.  
 एतद्-फल<sup>३</sup> - लः जैश्री १-१८.  
 एतद्-ससृदि<sup>३</sup> - द्वयः वीथी  
 २४, ३८ : ६.  
 एतद्-मग्नि<sup>३</sup> - नीनि वीथी  
 २३, ७ : १९.  
 एतद्-अधि(क>)का<sup>३</sup> - कया  
 द्राघी ७, १, २२; लाघी ३, १,  
 २२.  
 एतद्-अनुख्य<sup>३</sup> - ख्यानि वीथी  
 २४, १० : १६.  
 एतद्-अन्त<sup>३</sup> - न्तम् वाधो १,  
 ३, २, २; निम् ५, ८:७<sup>३</sup>; ६, ७ :  
 ३३; ७, ४ : ४३; ऋग्र २, १,  
 १६४; शुभ ३, ४४; -न्ताः शुभ  
 ४, ८१.  
 एतद्-अर्थ<sup>३</sup> - र्थम् आपघी १२,  
 १४, ११.  
 एतद्-अह-कर्मन्-मं क्रामिष्ट  
 ३, २, ४ : १०<sup>३</sup>; ६ : १५, ७ :  
 १४.  
 एतद्-अहर्-मत-परिमाण<sup>३</sup>-  
 -गम् हिथी १०, ३, ३६.  
 एतद्-अहः-स्नाग-तानाम्  
 भाष्ट २, १८ : ८.  
 एतद्-आदि-द्वयः आपघ १,  
 १३, ८, हिष्ट १, ४, २२; -दि

आपघी x१३, १६, १२<sup>३</sup>; वधी  
 १४, ३ : १०; हिथी २३, २, ४;  
 आमिष्ट; -दीनि आपघ १, १३,  
 ९; हिष्ट १, ४, २३; ऋग्र २, १,  
 ९९; अग्र ५, ६.  
 एतद्-उत्थ-रथे अप ५२, १६,  
 ६.  
 एतद्-देवता->त्वत्, र्वा-  
 -रवाः निम् ७, ४ : ७; -र्येषु  
 निम् ७, ४ : ८.  
 एतद्-ध्यान-युक्त-क्तः काण्ड  
 ४२ : १.  
 एतद्-भक्ति<sup>३</sup> -क्ति निम् ७,  
 ४ : ३०; ६ : ३; १० : २१;  
 -क्तिनः निम् ७, ४ : २.  
 एतद्-रूप<sup>३</sup> -पर्य वीथी १८,  
 २४ : ११; -वेभ्यः निम् ४,  
 २ : ३६.  
 एतद्-वचन<sup>३</sup> -नः आपघी ८,  
 २२, १५.  
 एतद्-वज्रम् आपघी १२, ७,  
 १३.  
 एतद्-विद्<sup>३</sup> -विद्म् आघी  
 ८, १४, १; -विदे आपघ ९,  
 ११.  
 एतद्-विद्वत्-द्वंसः आमिष्ट  
 ३, २, ६ : १५, ७ : १५.  
 एतद्-विपरीत-तम् आपघी  
 १७, २३, ३; -ताः नाति १, ३,  
 ११.  
 एतद्-वृक्ष->क्षी(य>)-  
 या<sup>३</sup> -याम् भाष्ट १, १ : २.  
 एतद्-सत<sup>३</sup> -सतः हिष्ट १, ८, ८.  
 एतद्-नामधेय<sup>३</sup> -याः वीथी

२४, २७ : २.  
 एतद्-महा-वृक्षा(क्ष-अ)म-  
 -माधि दाण्ट १, ३, २.  
 एतद्-मास-माभि वीथी २४-  
 ५ : १२.  
 एतद्-मुल<sup>३</sup> -खम् वीथी २२,  
 २० : २५.  
 एतद्-मूल<sup>३</sup> -लम् वैध २, ५, ९;  
 -लाः वैष्ट २, ७ : १४.  
 एतद्-वि<sup>३</sup> वीथी १४, १ : १८,  
 वाधुथी.  
 एतद्-लक्ष्मण(ण-उ)वेत-तम्  
 अप ६२, २, ३; ३, ३.  
 ए(त>)ता-दक्ष<sup>३</sup> -क्षम् शंभ  
 ११६ : ५२<sup>३</sup>; -क्ष्वासः वीथी  
 १०, ५३ : ६<sup>३</sup>; माथी ६, २, ५,  
 २३.  
 ए(त>)ना-दक्ष<sup>३</sup> -दक्ष वाधुथी  
 ३, ४६ : ४; -दक्ष माथी ६, २,  
 ५, २३; -दक्षम् शैति ५६.  
 ए(त>)ता-वत्-पा ५, २,  
 ३९; -वत् आघी ३, ५, ३; ८,  
 १३, ३०, माथी; -वतः आपघी  
 १९, १३, १२; वीथी २, ७ : २४;  
 १९, ५ : २८; २१, ६ : २१;  
 हिथी २३, २, ४५; -वता वीथी  
 ३, २८ : २१; द्राघी ३, १, ३, २,  
 ६; लाघी, -वताम् या १,  
 २०; -वति वीथी ११, ११:१८;  
 १८, ४३ : ८x४; -वतिः वाधुथी  
 ४, १-३<sup>३</sup>:१४; ११९ : ६; निम्  
 ५, १२-३; -वन्तः वीथी १०,  
 ४८ : ११; वाधुथी; या १, २०;  
 -वन्तम् वीथी ९, ७ : २; -वन्ति

- a) विप.। दम.। b) 'न्तत' इति पाठः? यनि. च त<sup>३</sup> इति च शोधः (द्र. अमीयं स्थलम्)।  
 c) 'त्वं मद्दह' इति पाठः? यनि. शोधः (द्र. अमीयं स्थलम्)। d) कय.>सल.>पम.। e) पाभे. पृ ५९२  
 ज्.द. f) विप.। उस. उप. <✓विद्।[सोने]। g) विप.। विकारार्थे छ>ह्यंयः प्र. उसं.। h) वैप १,  
 १०-४९.।। d.। i) वैप १.८.। j) =महर्-विशेष-। सप्र. अयु २१९, ३२ एतादृक् इति पाभे.।

आपथी १४, १५, ४; वीथी २,  
७; २४; २१, ६; २१; वाधुथी;  
-वान् आपथी ८, १४, २२; ११,  
३, ८; काथीयं.  
एतावती-नीः आपथी  
१९, १३, १३; द्विथी २३, २,  
४५.  
-एतावत्-न- न्वम् आपथी  
८, १३, ३४; अप्रा १, १, ४;  
-स्वे शीथी १३, १, ३.  
एतावद्-गह- -हे शीथी १,  
३, ४; लाथी १, ३, १.  
एत, वा- -एः शीथी १, २, ४ × ×;  
शीथी; आपथी १८, १७, ११;  
द्विथी १३, ६, १०, १०; -नृपा  
आथी ३, ७, ६ × ×; शीथी; वा  
१, १४.  
एतका-, एतिका- पा ७, ३,  
४७.  
नृपपो(वाउ) आथी ४, १५, २;  
शीथी ६, ६, २.  
एतर्हि एतद्- द.  
एतवै, एतव्य- ✓ द.  
एतश- पाठ ३, १४९; -नृदाः कथ  
२, १०, १३६; निघ १, १४;  
-न्वे कप्रा १, ८८; -नृदेव  
वीथी ३, १९; १०; -शैमिः  
वीथी ६, १२; १५, १.  
एतशसु- पाठना ३, १४९.  
एतादृश- मधु. एतद्- द.  
पितावादिना माथी ३, ५, ३.

एति- ए (आ/√इ) द.  
एतिक- पाठना २, २, १८.  
एतिका- एतद्- द.  
एते<sup>०</sup> दंवि २, ११.  
एतोस(ः) ✓ द.  
एत्य ए (आ/√इ) द.  
एन्व- प्रस. ए- द.  
एदिधिसु<sup>०</sup> -> ए-वति<sup>०</sup>-  
-तिम् शुभा ३, ३८, १०.  
एचंतास्तात्, वाथी ३, २, ६, ३०.  
✓एध् वाया. भ्या. आत्म. कुकौ,  
प्रपते अय ६८, ३, ११; ७७,  
८, ४; निघ ५१, ६८; नृएधर्ति<sup>०</sup>  
शीथी १२, १७, १; वैताथी ३४,  
९; नृएधन्ते आपमं १, ६, ८;  
काए ३१, ४; वीथ १, ५, १०;  
नृएधनु वैताथी ३६, २१६;  
आपमं १, ९, ७<sup>०</sup>; वीथ १, ५,  
१३<sup>०</sup>; नृएधन्ताम् पाठ १, ६, २;  
आमि १, ५, ४; ३; काए २५,  
३२; भाए १, १६; १३; माए,  
एधन्ते वीथ ३, १२, १७;  
नृएधिरीमहि<sup>०</sup> आथी ३, ६,  
२६; आपथी ७, २७, १६; ८,  
८, १८; १८, १०; १३, २२, ६;  
वीथी ४, ११; ५ × ×; माथी.  
एधत्<sup>०</sup>- वाउ १, ७७; -तुः शीथी  
४, ५, ११.  
नृएधमाव, ना- -नः आपमं २, ११,  
३२; -ना आपमं २, १२, १;  
आमि १, १, ४; १६; भाए १,

२५; ९; द्विथ २, ४, २; -नाः  
वीथ ८९, १३; -नात् या ६,  
२२९.  
एधमान-द्वि<sup>०</sup>- -द्विद् या ६,  
२२१.  
ए (आ/√इ) ध्, न्, नृ, नृमा... इन्वते  
आथी ६, ४, १०; ७, ८, १; शीथी  
१२, ११, २०; १८, ७, ६; आपथी;  
नृमा(इन्वते) शीथी ३, १३, ७;  
कथ २, ८, ४५; शुभ १,  
४७४; साथ १, १३३.  
नृमा... वृषीमहि आथी ७, ८,  
१; शीथी १२, १०, ११;  
माथी; वाथी १, २, ३, ३५, १;  
नृमा(वृषीमहि) काए ७०;  
१; निस् ६, ७; ५७; लाथी  
१०, १, ९; साथ १, ४१९.  
एध-एधस्- प्रत्. ✓ इत्, नृ द.  
नृएधसास्म वीथि १, १५; ८२.  
एधिधीयताम् अप्राय ६, ८.  
एधोदक- प्रत्. ✓ इत्, नृ द.  
एतद्<sup>०</sup>-> एन, ना- न शुभान, १३;  
शीथ ३, ८०; पा २, ४, ३४; -नम्  
आथी १, १३, ३६; ३, ३, १;  
शीथी, आपथी ३, १४, २, ११;  
माथी ३, १३, १, ११<sup>०</sup>; माथी  
२, ५, ५, २१, १०, साथ ३, २, १०;  
द्विथ २, ९, ८<sup>०</sup>; कंध ३, २, १०;  
कथ १५, ७, १०, १०, ११, ११;  
निघ ४, ३, १; या १, १०, १; १५;  
१६; २०, १; २, १०, १, २, १४, ५,

a) एतु इति पाठः? यनि. शोषः (तु. सपा. आपथी १८, १७, ११)। b) वैप इ निर्दिष्टानामत्रयं निवेद्यः  
द.। c) पाठः? एताः (=धुनीः) इति शोषः (तु. गृही.)। d) वैप इ द.। e) पाणे. वैप १, १०-५४। द.।  
f) सपा. शी २०, १२७, १० एधते इति पाठे। g) पाणे. वैप १, १०-५४। द.। h) सपा. द्विथ १, २२, १४  
आजतु इति पाठे। i) पाणे. वैप १, १०-५४। द.। j) हया इति पाठः? यनि. शोषः। k) पाणे. वैप  
१, १०-५४। द.। l) पाणे. वैप १, १०-५७। द.। m) = वैता ३, १, १, ३। रंदितायां एतद् द.।  
n) पाणे. वैप इ परि. एतम्, मा १८, ६०। द.। o) पाणे. वैप १, ७९३। द.। p) एवम् इति Böhler (ZDMG  
५२, ८७) शोधकः। q) नाम् इति पाठः? यनि. शोषः। r) पाठः? दे(आ-ए)नम् इति शोषः (तु. सपा. शी.)।

२८; १०, ८; ११, २; २३; ऋषा ५,  
६०; -नवा या ६, १२; -नवोः  
आथो ५, ६, ५; वाधूथो; -ना  
शाथो ६, ४, ७; काथो; आपमं  
१, ९, ४; काथ २५, १; निघ  
३, २९; या ३, २१; -नाः शाथो  
४, १६, १०; वीथो; ऋषा ५,  
६०; -नात् आथो २, ५, २; १  
१२×; शाथो १०, १५, ८;  
वीथो; लाथो १०, १७, १३; १;  
१या २, ११; ८, ८; ९, ७; ८;  
१२, ४३; -नाति वीथो १, ३;  
८; ८: १७; लाथो, -नाम्  
आथो १, ११, ७, २, ४, १३××;  
आपथो; वीथो ६, २७: ७; १;  
निघ ४, २; या १, १३, १४××;  
-ने शाथो ११, १४, १; वीथो  
१, ४: १८; गोथ, -नेन वाधूथो  
३, ३१; या २, ५; ३, २४××;  
-नोः वीथो १६, २६; ९; -नो  
वाधूथो ३, ६९: २४; लाथो ९,  
४, ११; ४, ३९; पाथ.

एनद्- नत्, द् आथो ५, ४, ८;  
७, ९; आपथो २, ६, ७××,  
वीथो; या १, ९; ८, १; ११, ४७,  
पावा २, ४, ३४.

एनस्- पाठ ४, १९८; पाग ५, ४,  
३८; -नः आथो १२, २, ३, ६;  
५, १४, २४; ९, ३, १३; शाथो,  
-नसः आथो २, ७, ११××;  
शाथो; -नस-नसः आपथो १३,

१७, ९; -नमा आपथो १३,  
७, १७; वीथो ८, ६; १४; १;  
वीथो १६, ८: ९; हिथो ९,  
२, १८; तु ११, ४; कथ २,  
२, ११; -नसि विघ २८,  
४९; -नसे आमिथ १, ५, ४:  
२२; ६, ३: ५: २, ७, ४: ७;  
वीथ ४, ११, २; वैथ ४, १: १४;  
६, ९: ४; -नसु वाघ २२,  
१५; वीथ ३, १०, १७; गोथ  
१२, १९; -नांसि वीथो २१,  
२४: १२; जैथो २०: ४.

एनस- पा ५, ४, ३८; -सम्  
वाघ २६, २; ३.

एनस-विन्- विन. वाघ १, १८;  
-विनि: विघ ५४, ३१; -वो  
गोथ १२, ४२; वृदे ५, ५५.

एनो-निर्णोदन- नम् शुभ्र ४, १९६.

एपनी- एत- द्र.

एपनी- न्यः अप ४८, ७६; निघ  
१, १३.

एपन्- ५६ द्र.

एप्युप- एम् या ५, ४; १.

एयिचस्- युधी- ए(आ√इ) द्र.

ए(आ√इ)र, एरिरे निघ ४, १; या  
४, २३; १.

एयन्ताम् वीस् १३३, २; १;  
नृयस्व शाथो १०, १६, ६;  
आपमं १, ११, ६, आमिथ १,  
५, ३: ११; ३, ९, ३: ८; काथ  
२५, २२; वीथ १, ७, ४; वीथि

२, ७, ६; माथ १, १५: १३;  
हिथ १, २०, २; जैथ १, २१:  
१२; नृयस्व आथो १, ८, ७;  
शाथो १, १३, ४; १८, ११, २;  
आपथो ४, ११, १; वीथो १,  
१९: २७; भाथो ३, ६, १; ४,  
१६, २; हिथो ६, ३, ३; पाथ १,  
४, १६; आ...एयस्व शाथो  
८, २५, १; आ...एयस्व माथ  
२, ११, १३; ०.

एयस्व- एय अप १, ३८, ५.

एर- पाठो २, ३, २९.

एर(क>)का- पाठो २, २,  
११; (>एरक्य- पा.) पाग  
४, १, १५१.

एर(क>)का- का: वीथ १, २, २;  
-काम् वीथो १७, ३९: १; २६;  
आमिथ १, ३, १: १; २: ११; २-  
४, ६: २७, वीथ १, ३, २०;  
वीथि ३, ३, १२; माथ २, १८:  
२; १४; जैथ १, १९: २, ४; २०:  
१२; १६; -काम् वीथो १७,  
४०: ३; आपथ १२, ३; जैथ  
१, ७: ४; २०: १७.

एरको(का-उ)पवर्हण- ए वीथो २,  
८: ४, २३; ९: १३; ३, १०: ३;  
५.

एरण्ड- पाठो २, २, ११७.

एरा- पाठना २, २७.

एरस्मान- अथा ३, ४, १; १.

एर्वाह- पाठो २, १, १०-१

a) एण् द्र। b) पामे. वैप १, १०-५५ j द्र.। c) एतात् इति ०.। d) एतात् इति पाठः? यनि.  
शोधः। e) एता इति पाठः? यनि. शोधः। f) वैप १ द्र.। g) पामे. पृ ८०० वृ द्र। h) पामे. पृ ५९७  
द्र.। i) =नदी-। व्यु. ?। <√इ [गती] इति दे.। j) पामे. वैप १, १०-६२ m द्र.। k) एयस्व इति  
पाठः? यनि. शोधः (तु. मया. हैआ ३, ४, १; ० च)। l) पामे. वैप २, ३४. एयस्व मास ११, ७, २, ६ टि. द्र. f  
m) पामे. वैप १, १०-६२ n द्र.। n) ए इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पामे. वैप १, १०-६२ n)। o) पामे.  
वैप १, ६२७ c द्र., यत्र माथ यनि. शोधः। p) व्यप.। व्यु. ?। क- इति पाठा.। q) =तुण-विशेष-।  
r) =। उर्णानिमित्त-। आस्तरण-विशेष-। व्यु. ?।

१० : २१; -येन श्राधौ ५, २,  
५; छाधौ २, ६, ३; निष् १,  
११ : ११.  
एवं-देव ( ता > ) त<sup>३</sup> - ताः श्राधौ  
६, १०, १३.  
एवं-नामन्- मानम् काधौ १५,  
७, १०.  
१ एवं-न्याय- येन आधौ २४,  
१०, ३; १५; द्विधौ २३, ३, १६.  
२ एवं-न्याय<sup>३</sup> - याः आधौ ११, १,  
१३.  
एवम्-अनुपूर्व<sup>३</sup> - वाः द्विधौ ८, ७,  
४६.  
एवम्-अन्त<sup>३</sup> - न्तम् रूप ४४, ४,  
११; -न्तानि आध ३, ४, १;  
कौट २, ५, १; वाट ४, १, ३.  
एवम्-अर्थ<sup>३</sup> - र्थः निष् ७, ११ :  
१६; -र्थान् भाग २, १ : १९.  
एवमर्थ-स्व- स्वात् भीष् ११२,  
२, ८.  
एवमर्थीय- ये या ३, १.  
एवम्-आचार<sup>३</sup> - रः शौच ९, ७१.  
एवम्-आदि<sup>३</sup> - द्यः शंसि २३७,  
-दि काधौ २९ : २१; ऋषय  
४४, ४, ११, ६८, ३, १३; -दीन्  
बोधौ २९, ४ : ४; -दीनि अत्रा  
२, ३, १४-१६; धरे, २, ४०.  
एवमादि-क- कम् अघ ६९,  
५, ४.  
एवमादि-धर्म- मम् आमिष्ट  
२, ७, ११ : १७.  
एवमादि-निमित्त- न्तेषु वत्र  
३, ५, ४.  
एवमादि-प्रायासनान्त- न्तान्

वैधौ १६, १५ : २.  
एवं-प्रकार<sup>३</sup> - नम् वृदे १, ५९;  
-राणि सुधप ८३ : ३.  
एवं-प्रकृति<sup>३</sup> - तयः वृदे १, ४०.  
एवं-प्रभृति<sup>३</sup> - तयः वाय १४,  
२७.  
एवं-प्राय ( > ) या<sup>३</sup> - याः आधौ  
९, १, ६.  
एवं-श्रोक्त-विधान- न्तेन अघ ३१,  
१०, १.  
एवं-बल<sup>३</sup> - लस्य सु २९, ६.  
एवं-भूत- न्तः आधौ १, १, २५;  
११, १२; ८, १४, १०; -तस्य  
माधौ १, ५, ४, १८; -तानाम्  
बोध १, ५, ४३.  
एवं-माना ( न-या ) दि- दि वैधौ  
१६, १ : ७.  
एवं-मुल<sup>३</sup> - तस्य आधप २, १९,  
२; द्विध २, ५, ७४.  
एवया-मरुत्- न्द-आरवात- एव-  
वावन्- √इ द.  
एवाजननेयाजनकम् अघ ४०, १,  
१४.  
एवाचद<sup>३</sup> - दस्य ऋषा ९, २४.  
√एप् पाथा. भ्वा. आत्म. गती.  
एव-, एवका- एतद्- द.  
१ एवपण- णे सुध ४२.  
२ एवपण- पाग ४, १, ४१<sup>६</sup>; -णेन या  
४, ७<sup>६</sup>; -णेपु या ६, २२.  
एवणी<sup>३</sup> - पा ४, १, ४१.  
एवणां-, एवणिन्- √इप् ( वधा ) द.  
एविक- ( > ऐविक्य- पा. ) पाग ५,  
१, १२८.  
एवियत-, एतद्- द.

ए ( आ-इ ) ए- आ √यन् द.  
एष्टवै, एष्टव्य- √इच्छ ( इच्छायाम् )  
द.  
एष्टि<sup>३</sup> - ष्यः यासि २, ८.  
एष्ट्री- √इच्छ ( इच्छायाम् ) द.  
एष्यत्- √इ द.  
ए ( आ-इ ) ह्- ए ( आ-इ ह् ) हा<sup>३</sup> -  
-हाः अत्रा २, ३, ९<sup>१</sup>.  
एहस्- -हः निप २, १३.  
एहि<sup>३</sup> - ( > एही- पा. ) पाग ४, १,  
७३.  
एहिकटा- प्रय. ए ( आ-इ ) द.

ऐ

ऐ<sup>३</sup> पाग १, ४, ५७; अघ ४७, १, १८;  
शुषा ८, ५; ऐरे शुषा ८, ५.  
ऐ-वार- रः अघ ४७, ३, ४; उम्  
७, ७; तैत्रा ९, १४; १६, २३;  
अत्रा ३, १, १६; २, २०; शौच  
३, ५०; भासि २७; -रम् ऋषा  
१४, ४१; ४२; तैत्रा १०, ६.  
ऐकार ( र-अ ) न्त- न्तः भासि  
९५; -न्तम् या १, १७; शुषा  
७, ७; -न्तानि अत्रा २, १, १४.  
ऐकारौ ( र-अ ) क्तर- -रयोः शुषा  
१, ७३; तैत्रा २, २६; शौच १,  
४१; भासि २०; -री शुषा ४,  
५८; १५५.  
ऐन्व- न्वम् भासि ८१; -स्वे  
ऋषा १४, ४४.  
ऐव-ना<sup>३</sup> - नाः भासि २८.  
ऐक- ( > ऐकीय- ) उपविन्दु- > बोध-  
विन्त्वि- टि. द.  
ऐक्यधर्म-, क्कान्य- प्रय. ऐक- द.

a) विप. १ बस. १ b) वैप १ द. १ c) धर्मः भ्यु. च १! d) विप. १ भ्यु. १! < √इप् ( गती )  
इति इह, SEX ( ४२ ), < √इप् ( इच्छायाम् ) इति ड. १ e) = नाराची-, वैपद्यताका- इति पागम. १  
f) वैप १, १०७१ g द. १ g) = बोध- १ भ्यु. १! < √इप् इति दे. १ h) < ए ( आ-इ ) ह् इति न्यासः १  
१) = ऐर्ष-विशो- १ j) उत. उप. < √गम् १

एकलव-<sup>१</sup>, लव्य- एकल-द्र.  
 एकविंश- १एक-द्र.  
 एकविन्दवि-<sup>२</sup>, शीय- उपविन्दु-  
 औपविन्दवि- टि. द.  
 एकधृत्य- प्रभ. १एक-द्र.  
 एकायन- २एक-द्र.  
 १, २, रेफकार्य-<sup>३</sup>, काशम्य- प्रभ.  
 १एक- १एक-द्र.  
 २रेफय- २एक-द्र.  
 ऐश्व- १, २रेफु-<sup>४</sup>, ऐशुमारिक-  
 इशु-द्र.  
 ऐक्याक-<sup>५</sup>, उ- इशुगु-द्र.  
 ऐरय- ए-द्र.  
 ऐङ्ग- इशुदी-द्र.  
 ऐच्छिक-<sup>६</sup> √इच्छ (इच्छायाम्) द्र.  
 ऐज्य- एजि-द्र.  
 ऐतल- इशु-द्र.  
 ऐष्ट- √इष्ट-द्र.  
 २ऐष्ट- २इशु-द्र.  
 ऐडक-<sup>७</sup> शी- एडक-द्र.  
 ऐडन्व- इड-द्र.  
 ऐड-याक्य- २इशु-द्र.  
 ऐड-चाङ्-निघन-<sup>८</sup>, ऐडादय- √इड-  
 द्र.  
 ऐण्य- ऐणी-द्र.  
 ऐतर- ऐतरेय- ऐतरेय-क-<sup>९</sup>, ऐत-  
 रेविन्द- २इतर-द्र.  
 ऐतश-<sup>१०</sup> -शः शूरे ८, १०१; -शस्य  
 शूरे १, ५५.  
 ऐतश-प्रलाप-<sup>११</sup> -पः शाशु १२, १७,  
 ११<sup>१२</sup>; -पम् वैताथी ३२,  
 २०.  
 ऐतश-प्रलाप-वम् वैताथी ३२,  
 २८.  
 ऐतिकायन- इतिक-द्र.

ऐतिशायन- इतिश-द्र.  
 ऐतिह- इदम् > इतिह-द्र.  
 ऐतिहासिक- इतिहास-द्र.  
 ऐतिहा- इदम् > इतिह-द्र.  
 ऐतोसः(ः) ए(आ/इ) द्र.  
 ऐस्वरायण- इवरा-द्र.  
 ऐन्द्रयुगीन- इदम्-द्र.  
 ऐङ्ग- ऐष्मवाह- √इष् द्र.  
 ऐनपिण्डय- इनपिण्डी-द्र.  
 ऐनस- एनम्-द्र.  
 ऐन्दय-<sup>१३</sup>, शी- इन्द-द्र.  
 ऐन्द्र- ऐन्द्रजाल्य- प्रभ., ऐन्द्रा<sup>१४</sup>,  
 १ऐन्द्राखुष- इन्द्र-द्र.  
 २ऐन्द्राखुष- ३इन्द्राखुष-द्र.  
 ऐन्द्रार्भव- प्रभ., ऐन्द्रि- प्रभ.,  
 ऐन्द्रोत- इन्द्र-द्र.  
 ऐन्द्रोपानस्यक<sup>१५</sup> माथी १, ३, ५,  
 १४<sup>१६</sup>.  
 ऐन्द्रय- ऐन्द्रवादि- इन्द्र-द्र.  
 ऐन्धायन- २इन्ध-द्र.  
 ऐन्य- इन-द्र.  
 ऐमकान्तक- इन-द्र.  
 ऐपर- √इपर द्र.  
 २ऐपर- २इरा-द्र.  
 ऐरक्य- १एरका-द्र.  
 ऐरम्म-<sup>१७</sup> आपमं १, ३, ६.  
 ऐरमद- १, २ऐरायन- √इर द्र.  
 ऐल- √इल द्र.  
 †ऐलय-<sup>१८</sup> -यः अत्र ४८, ११६; ऋषि  
 २, ६.  
 †ऐल्य-कार- रेभ्यः अत्र ११,  
 २.  
 ऐलन्तुद- √इल द्र.  
 ऐलाक्य- एलाक-द्र.  
 ऐलय- इलय-द्र.

ऐशानी- ऐशी-<sup>१९</sup>, इवरि-<sup>२०</sup>, इवरी-<sup>२१</sup>,  
 इवर्यं- √इर द्र.  
 ऐयमस(>) वा ४, २, १०५; ५, ३,  
 २३; पावा ५, ३, २२.  
 ऐयमस-तन-<sup>२२</sup>, लव- वा ४, २, १०५.  
 ऐयमितिकम् अप १९, ३, ८.  
 ऐयिकि-<sup>२३</sup> -कयः वीथीप्र ४३: ३;  
 -किः वीथीप्र ४४: ४.  
 ऐयिक्य- ऐयिक-द्र.  
 ऐयिर- इयिर-द्र.  
 ऐयीक- √इय द्र.  
 ऐयीकपावि<sup>२४</sup> -वयः निघु ६, ११:  
 २२; -वीनाम् निघु ६, ११:  
 २४<sup>२५</sup>.  
 ऐयीरधि- इयीरथ-द्र.  
 ऐयुकारि- इयु-द्र.  
 ऐयक- इयका-द्र.  
 ऐयिक-<sup>२६</sup>, की-<sup>२७</sup>, शीक- इयि-द्र.  
 ऐयिपि-<sup>२८</sup> -पयः वीथीप्र ३: ५.  
 ऐयलौकिक-<sup>२९</sup>, ऐयिक- इयम् >  
 इह द्र.

ओ

ओ<sup>३०</sup> ऋपा २, ३३; छपा ८, ५<sup>३१</sup>;  
 शेषि ४४; ५१; ५७; माशि ७,  
 ३; पाशि १९; पाग १, ४,  
 ५७.  
 ओ-कार-<sup>३२</sup> -तः आथी ७, ११, ११;  
 शाथी १, १, १५; ऋथीका ११६;  
 अप ४७, २, ३; २, ४; या २, ५;  
 ऋपा १, ६८; छपा २, १४; ४,  
 १३; शैपा; -रम् आथी १, ४,  
 १३; ७, ११, ३; ऋपा २, १७, ४,  
 २५; छपा ३, ४६; ४, ४३, ५५;  
 शैपा २, ७; २०, ५; १८, १२

a) = मुनि-विशेष-। व्यु. ? (वेप २, ३६ द्र.) । b) पुत्र इति पाठः ? वलि. शोषः । c) इन्द्रो-  
 पानस्य टि. द्र. । d) अर्थः व्यु. च ? । छपा. पाश १, ४, १५ षेकणः इति पाठे. । e) वेप १, १०० २ d d<sup>३</sup> ।  
 f) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । g) = मातृ-विशेष-। व्यु. ? । h) -वि इति पाठः ? वलि. शोषः । i) = व-र-विशेष-



-राव् लाभी ७, २, ११; शुभा  
३, ६१; पावा ७, २, १; ८, ३,  
२०; -रं तैत्रा २, १३; अत्रा  
३, १, ३.

ओकार-प्रतिषेध- -घः पावा ७,  
२, १.

ओकार-सकार-भकारा(र-था)  
दि- -दौ पावा ५, ३, ७२.

ओकारा(र-थ)न्त- -न्तः शौच  
१, ८०; -न्तात् अत्रा ३, १,  
२२.

ओकारी√भू, ओकारीभवति  
माथी ५, १, १२.

ओकारौ(र-थौ)स्तर- -रयोः  
शौच ३, ५१; -रौ हिथी २१,  
२, ३३.

ओकारौकार-पर- -रं तैत्रा  
१०, ७.

ओन्- > ओव्-व- > एवा(त्व-  
अ)माव- -घः पावा ७, २, १.

ओन्-भा- -वे पावा ७, १, १.

ओव-वचन- -नम् पावा ५, २,  
१०.

ओ-भाव- -वः शैशि १९६; पाशि  
१४; माशि १०, ४, ५; याशि  
२, ४६; -वम् याशि २, ४८.

ओभाव-प्रलेपान- -नम् पाशि  
१५; शैशि १९८; याशि २, ४७;  
नाशि २, ५, ८.

ओ-भू- -ने ऋन ३, १, १०.

ओ-वर्ण- -ओं शैशि ५०.

ओक्- -पाउथ ३, ४१; पा ७, ३, ६४.

ओक्त्- -पाउमो २, १, ३४५;  
-फकः आथी ९, ११, २०;

शाथी १५, ८, २१; आमिथ ३,  
६, ३ : २५; ७, ४ : १६; वीपि  
१, १२ : १; वाथम् २९;  
अथ ५, २२; या ३, ३६; ९, ५९;  
ऋथ १४, ५१; -फकसः आपथी  
३, १४, २; वीथी २, ९ : ४;  
माथी ३, १३, १; हिथी २, ६,  
३४; -फकामि आपथी ५, १९,  
३, हिथी ३, ५, ४; जैथी ८ :  
१७९; द्राथी २, ४, ११; लाथी  
१, ८, ९.

ओको-निघन- -नम् लाथी ७,  
१, १.

ओ(आ√उ)श्, फका(उक्षन्) आथी  
२, १४, ११; ३, ८, १; ५, १०,  
२८; ७, २, २; ५, ९; शाथी.

√ओख् पावा. भ्वा. पर. शोपणा-  
लमर्थयो.

ओघ- -घः या २, २.

ओघ-व(त>)ती- -तीम् वीथी  
१९, १० : ४९.

ओद्धार- -ओम्-द्र.

फओचिपे- ऋथ २, ७१.

ओज- -जः आउयो ६, १३; -जयो.  
ऋथ २, १८; -जाः ऋथ १,  
१७.

१ओजस्- √उञ् द्र.

२ओजस्- (>भोजमायन-) पा.)  
पाग ४, १, ११०.

√ओजाय √उञ् द्र.

१ओजाः वीथ २, ३, १०१.

ओजिष्ठ- , ज्वीयस- , भोजोदा-  
√उञ् द्र.

ओढ- आ√वह् द्र.

ओद्- पाउमो २, ३, २०.

√ओण् पावा. भ्वा. पर. अयनये.

फओणी- -ण्यो. आथी ४, ६, ३; ८,  
१, १८; १२, २३; १०, १०, ६;  
शाथी ५, ९, ७; अत्रा ३, ४, १;  
शौच ३, ६१; -फण्यौ अथ ४८,  
६०; निघ ३, ३०.

ओत,ता- आ√वे द्र.

ओतु- पाउ १, ६९.

ओत्वो(तु ओ)ष्ठ- -ष्ठयोः पावा ६,  
१, ९३.

फओद्(त>)ती- -ती निघ १, ८;  
-तीनाम् शाथी १८, १, १३;  
लाथी ७, ३, ८; निम् १, २ : १०;  
उनिम् ७ : २२.

ओदन- पाउ २, ७६; पाग २, ४,  
३१; ५, १, ४; पागवा ५, १,  
१०१; -फोन वाथी १, १, ५,  
४; कौम् ६५, १२; ६८, २६;  
-नः आथी २, ३, २; आपथी;  
अथ ४८, १००१, निघ १,  
१०१, -नम् आथी ३, १०,  
२७, १४, १; शाथी; या ६,  
३४१६; ७, १३; पावा १, १,  
६७, -नयो आपथी ८, ११, २;  
वैथी ९, २ : ९; वाथ ७०, ६;

-नस्य वीथी २, १४; ५, वाथुथी;  
-नाः ३ शौच १, १०५१, -नात्  
आथी २२, २५, २२; हिथी  
२३, ४, १६; -नात् आपथी ८,  
१०, ७; १९, १३, १२; वीथी;  
-नानाम् माथी ८, १२, १०; १३;  
वाथी १, ७, ३, १२; माथ २, ९ :  
६; -नानि आपथ २०, ५;

a) विप. । वस. । b) वस. । पाग । पले। उ' इति । c) वैच १ द्र. । d) =साम-विशेष- । वस. ।

e) व्यु. ? । <√वह् इति स्क. दु. प्रस. । वैच ३ अपि द्र. । f) =इहका-विशेष- । g) =विषय- (तिथि-, वर्ण-) ।

व्यु. ? । h) व्यप. । व्यु. ? । i) पाठः ? सप्र. शौच २, ६, १ ऊर्जाः इति पाठे. । j) ओद्- इति पाउनाथ २, २८ ।

k) पाठे. वैच १, ९८३ b द्र. । l) =विहास- । व्यु. ? <√वह् । शथे। इति प्रायोशदः । m) =मेघ- । ( ।

-ने माथी १, ५, १, २४; कौत्  
 ६६, ६; १०९, ७, -नेन आपथी  
 ४, ११, १५५५; माथी; -नेम्यः  
 वैथी २, २ : १२; द्विथी ५, ३,  
 २६; आपथ २०, ४; द्विथ २, ८,  
 ९; -नौ काथी १९, १, २१.  
 औदनिक- पादा ५, १, १०१;  
 -कम् वीपि २, ४, १४.  
 ओदन-वल्- -रम् गोथ ४, १, ६;  
 २, १४.  
 ओदन-द्व- -वेंग कौथ ४, २, ३.  
 ओदन-पिठ- -षट्म् आपथ १९-  
 २०, ७; माथ २, १० : ३;  
 द्विथ २, ९, ५.  
 ओदन-वत् मीत् ६, ४, २७.  
 ओदन-वल्- -वताम् वीथी १८,  
 १८ : १७.  
 ओदन-नेप- -वम् आपथी २२,  
 २६, ६; द्विथी २३, ४, २३; भाथ  
 २, १० : १०; -वान् आपथी  
 ८, ११, ८.  
 ओदन-सच्चवा- (कु-आ)दि- -दि कप्र  
 ३, ५, ३.  
 ओदन-सव- -वः आपथी २२, २७,  
 १; वीथी १८, १० : २३; द्विथी  
 २३, ४, ३४; -वानाम् कौत्  
 ६७, ५; -वेन आपथी २२, ७५,  
 १९; वीथी १८, ८ : १; द्विथी  
 २३, ४, १३.  
 ओदना(न-अ)वसिष्ट- -ष्टन् कौत्  
 ८९, २.  
 ओदनिक- पा ४, ४, ६७.  
 ✓ओदनीय, ओदनीयन्ति काथी  
 १२, २, १२.

ओदनीय-, न्य पा ५, १, ४.  
 ओ(आ-उ)श्-श्रुच्- -चम् माथी  
 २, १, ३, १६.  
 ओन्न- पाठना १, १३०.  
 ओन्न- ✓उद् द.  
 ओ(आ-उ)प✓नम् > ओ(आ-उ)प-  
 न- -तम् आपथी ७, १, १७.  
 ओपदा- -शः अपा ३, ४, ५.  
 ओपशिव- -शिनम् अपा ३, ४, १५.  
 ओप्य, न्यमान- आ ✓वृ द.  
 ✓ओम् ✓श्रु द.  
 ऋओम्<sup>१</sup> आथी १, २, ३; ११, १५;  
 १२, १२; १३, ७; ८, १३, ८६; ९,  
 ३, ११६; १२६; साथी ४, ६, १७;  
 ७, १७; २१, २३; २४; काथी २,  
 २, ८; ९, १३, ३०; आपथी ३,  
 १९, १; २०, ८, ६, ४, ४; ६, ७, १;  
 वीथी; पा ८, २, ८७; पाठ १,  
 १४२; पाग १, १, ३७; ४, ५७;  
 ऋओश्म् साथी ४, ६, ९; काथी  
 ४, १४, ९; १५, ६, ३; वैताथी  
 १, ३.  
 ओ-कार- -रः काथी १९, ७, ५;  
 लाथी ९, ७, ५. निस्: या  
 १३, ९; श्रुता १, १६; याथि  
 २, २१; -रम् आथी १, २, १०;  
 द्विथी २१, १, १४; द्राथी १५,  
 ३, ६; लाथी ५, ११, ६; ६, १०,  
 १६; ७, १०, २०; याथ, -राय  
 लाथी ९, ७, ४; दीप १०७, -रे  
 वाथी १, १, १४; -रेण काथी  
 २, २, ९; द्विथी २, ८, १२; लाथी  
 ६, १०, १३; ७, ७, २४; ८, ३;  
 निस्, ४, १ : ३५; ४१.

ओकार-चतु(श्)र्था- -र्थाभिः  
 थाथ ८, १०; १५, ४.  
 ओकार-वृत्- -वम् वीथ १, १,  
 २४.  
 ओकार-वृ(र्विक)र्षिका- -कः  
 विष ५५, १५.  
 ओकार-वपदृकार- -री अप ४३,  
 २, १५.  
 ओकारा(र-अ)पकार- -री श्रुता  
 १, १७.  
 ओकारा(र-आ)दि- -दि विष  
 २, १०, ३; -दिः लाथी ६,  
 ११, ८.  
 ओकारा(र-अन्त)न्ता- -न्ता  
 वीथी २५, ९ : ६; -न्ताः गोथ  
 २, १०, ३६.  
 ओकारी ✓कु, ओकारीकुवल्  
 लाथी ६, १०, १६.  
 ओ/कु, ओकुवल् कप्र २, ८, १६.  
 ओम्-गार्थी(र्वि-अ)शक्ति- -क्तिः  
 वैथ २, १८ : ५.  
 ओम्-आद्- -वाङोः पा ६, १, १५.  
 ओम्-पु(र्वि)र्था- -र्थाः थाथ ३,  
 २, ३; ५, १२; कौत् २, ४, ६१;  
 ४, ७५; थाथिथ २, ६, ४ : ७;  
 वैथ २, ८ : ९; वाथ २३, २३;  
 गोथ १, ५७.  
 ओम-, १-२ओमन्-, म्या-  
 ✓श्रु द.  
 ओयि<sup>१</sup> द्विथि १४ : १२.  
 ✓ओलपद्<sup>१</sup> पाथा. श्रुता. पर.  
 उल्लेखेण.  
 ओवा<sup>१</sup>- -ववा लाथी ७, २, १२;  
 -वावाः लाथी ७, २, ९.

a) राप्र. शांथ ४, १५, १९ अक्षतसकृतां द्वेण इति पाठे. | b) = यक्ष-विशेष-। वैप १ द. |  
 c) अस्त. समासात्पठ् प्र. उल्ले. (पा ५, ४, १००)। सपा. तै १, २, २, ३ प्रथ. श्रुता उक्-कृत्-वः इति वि-पदः पाठे. |  
 d) पाठे. वृ ५७५ दृ द. | e) वैप १ द. | f) वैप १, ४४६ द. | g) = धतिगत्-। h) = विजाप-  
 म्युत्करण-। म्यु. ?। i) = लृप्-। j) = स्तोम-विशेष-। म्यु. ?।



ओपधा(घ-आ)प्रतथा(घ-अ)  
 नामा (न-आ) च्छदान- नैः शेष  
 २४७.  
 ओपधा(घ-आ)दुति- न्वा  
 या १०, २१.  
 ?ओपधि-कुरुच्छीयन्- ने अत्र  
 ४८, २८.  
 ओपधि-खनन- नम् कौस् ३३,  
 १६.  
 ओपधि-देवता->(त्य->)त्या-  
 न्त्वे श्रुय २, ५१.  
 ओपधि-पर्यन्त- न्तानि या ७, ४.  
 ओपधि-पाणि- नयः माध्री ४,  
 ३, ३९; ४, ३७; ५, १३; ६, ३;  
 -णिः माध्री ४, १, ३१; ६, ६;  
 ७, ९.  
 ओपधि-पात्र- प्राणि द्विधौ ८, १,  
 ४८.  
 ?ओपधि-भक्त्य(हि-अ)भोज्या-  
 -ज्या निस् २, ५ : १७.  
 ओपधि-भार- नम् शेष ४०८.  
 ओपधि-भोजिन्- जी वैष १, ७,  
 ३.  
 ओपधि-मूल- लानि अशा १२, ३.  
 ओपधि-वत् कौस् ३६, १२; ३२.  
 ओपधि-वत्- वत् द्विधौ १०, १,  
 २२.  
 ओपधि-वनस्पति- तयः वीष्ट १,  
 ५, ५; द्राय १, ५, ३३; वीष ४,  
 १, ५; या ८, ५; -निभ्यः आष्ट  
 १, २, ४; वीष्ट ३, १०, ११; वीष्ट  
 २, ६, १७; भाष्ट ३, १३ : ६; ८;  
 वाष्ट १७, ८; गोष्ट १, ४, १६;

कप्र २, ४, १-५; कौस् ७४, ६;  
 या ८, ५६; -निभ्याम् आमिष्ट १,  
 ७, ३१००; २, ४, ३७, -तिभ्यः  
 पा ८, ४, ६; -तिषु माष्ट २, १०,  
 ८; या ६, ३६; -तीन् आप्रथी  
 २०, २५, १४; वैयाथी ७, १४;  
 वीषि ३, ४, ८; वीषि १, ३, १०;  
 आप्रव १, ३०, १६; द्विष १, २,  
 ६३; ८, २३; -तीनाम् शोध्री  
 १६, १५, ११; शोध्री २१, १, ६;  
 द्विधौ १४, ६, २५; गोष्ट १, ९,  
 १५; कौस् ३२, २६; आप्रव १,  
 ७, ४; २, ३, ४; द्विष २, १, २६;  
 गीष ३, २०.  
 ओपधिवनस्पति-मूल-फल-  
 -लैः आप्रव १, ११, ५; द्विष १,  
 ३, ६३.  
 ओपधिवनस्पति-वत्- वत् आष्ट  
 २, ७, ३.  
 ओपधि-वनस्पति-गन्धर्वा(न-अ)  
 प्प्रम- नसः वैष्ट १, २० : ४.  
 ओपधि-विभाग- नः आमिष्ट २,  
 ६, ५ : २३; वीष्ट २, ९, २२.  
 ओपधि-संयोग- गाष्ट मौस् ६, ५,  
 २२.  
 ओपधि-भूक्त- क्तेन आथी ६, ९,  
 १; आपथी १४, २१, १७; द्विधौ  
 १५, ४, २५.  
 ओपधि-वसन्त- न्यम् द्विष १२ :  
 १; न्यान् द्विषि १६ : ४.  
 ओपधि-वसुति- नतिः षड्य २, १०,  
 ९७; -तिम् श्रुय २, १२७.  
 ओपधि-होम- नम् माष्ट्री ३,

७८ : २; -मीर्षु आपथी २०  
 ११, १४.  
 ओपधी-पर- नः तैत्रि-  
 षोपधी-म(व->)ती- न्तीः अत्र  
 १२, १८.  
 ओपधी-वनस्पति- नयः अत्र ४१,  
 ६, ४.  
 ओपधी-वीरुष्- लयः अत्र ७०;  
 ६, १.  
 ओपधी(धि-ई)ग- शाय वैष्ट ४,  
 ८ : ८.  
 ओपधी-सूक्त- क्तेन वैध्री २१, ७ :  
 १६.  
 ओपधी-स्त्व- न्तः वृदे ७, १५४.  
 ओपध्व(धि-अ)नुवाक- कान् वीष्ट  
 ३, १, २८.  
 ओपन्ती- ✓उष् द्र.  
 ओषु- मुम् शोध्री ५, १०, १००.  
 ओष्ठ- पाठ २, ४; वाग ५, २, २४,  
 -ष्ठः आथी १२, ९, ९; -ष्ठम्  
 वीध्री १७, २९; ८; आप्रव ११,  
 १३; -ष्ठयोः आथी १, ७, १;  
 -ष्ठान्याम् कप्र १४, ४; तैत्रा  
 २, ३९; १०, १४; -ष्ठे वीष्ट  
 १८ : ७; श्रुया १, ७०; -ष्ठो  
 वाध ३, २९; आप्रव १, १६, ३;  
 १०; विष १६, १२; द्विष १, ५,  
 ३, ९, तैत्रा २, १३; २१; तैत्रि  
 ५३; ५८; १२०; पाति १३;  
 माति ६, ७.  
 ओष्ठ- ष्टम् काथी १, ९, ७.  
 ओष्ठ- -ष्टीभ्याम् काथीध  
 ३६ : १७.

a) पाठः! ओखति (> ओखति [उ. मू.]) < ओख [उ. पंजा. बीखा] इति कृ- इति च द्वि-परः शोषः ।  
 b) विप. । यस. । c) = आग्रयण- [ओपधीनां वृत्तेः वाक्याभोज्या-] । पाठः! पधि-पक्ष्य इति शोषः (उ. मूत्रे) ।  
 d) विप. (ओद्ध्य- [सपत्नीकवानप्रस्थाऽन्यतम-] । उच. । e) सप्र. ! तीन् <> वीनाम् इति पाठे. । f) पत.  
 > हस. । g) सवा. 'धिसू' <> 'धीसू' इति पाठे. । h) पाठे. पृ ७५५ ] द. । i) पाठः! सवा. वी ७, ७७, १  
 ओपद्म इति पाठे. । j) वैष. १ द. । k) इवाथं अण् प्र. उचं. (पा ५, ३, १०७) । l) = [ओष्ठाकृति-] पात्री- ।

ओष्ठ-चलु- -लुः माशि १२, ५.  
 ओष्ठ-ज- -जः शैशि ४२; -जौ पाशि १७.  
 ओष्ठ-जाह- पा ५, २, २४.  
 ओष्ठ-द्वय-विहीन- -नः विष ५, २१.  
 ओष्ठ-वृ-वैशौ ११, ७ : ५.  
 ओष्ठ-हनु- -नु तैत्रा २, १२.  
 ओष्ठा(ष्ठ-अ)न्त- -न्ताभ्याम् तैत्रा २, ४३.  
 ऋओष्ठा(ष्ठ-अ)पिधा(न>)ना<sup>०</sup>-  
 -ना गोट ३, ४, २६; दाणु ३, १, २६.  
 ओष्ठो(ष्ठ उ)परि-इन्त- -न्ताः  
 काय २७२ : ३  
 ओष्ठो(ष्ठ उ)पर्वहार- -रः तैत्रा २, २४.  
 ओष्ठ्य- -ष्ठ्यः अथ ७७, २, २;  
 ऋषा १, ४७; -ष्ठ्यम् दंवि १, २; ४१<sup>०</sup>, २, ८१<sup>०</sup>; -ष्ठ्यस्य याशि २, २०; -ष्ठ्याः शुभ्रा ८, ४१;  
 याशि २, १, २४; आशि १, १८;  
 दंवि १, १२; -ष्ठ्याम् दंवि १, ३१<sup>०</sup>;  
 -ष्ठ्यानाम् शीच १, २५; -ष्ठ्ये  
 ऋज २, १, ९; -ष्ठ्यौ शैशि ४३.  
 ओष्ठ्य-निभ- -भौ ऋषा १४, ३८.  
 ओष्ठ्य-पूर्व- -वंस्य पा ७, १, १०२; -र्वा ऋषा २, २३३.  
 ओष्ठ्य-योनि- -न्योः ऋषा २, ३१.  
 ओष्ठ्य-रधान- -ने शंभ्री १, २, ५.  
 ओष्ठ्य-रवरा(र-अ)न्त- -न्ते  
 कौशि ७२.

ऋओह- -हम् या ५, ११<sup>०</sup>; -हेन  
 उम् ३, ५<sup>०</sup>; -हेः माशि ४५५.  
 ऋओह-अहान्<sup>०</sup>- -ह्यागः या १३,  
 १३५.  
 ओ(आ-ऊ)हिवस्- आ√वह द.  
 ओहिवे<sup>०</sup> ऋषा २, ७११.  
 ओ(आ-उ)ह्य, 'ह्यमान- आ√वह द.

औ

औ<sup>०</sup> अथ ४७, १, १८; शुभ्रा ८, ५<sup>०</sup>;  
 ऋत ३, २, ३; शैशि ४७, ५३;  
 ५७, पाशि १२; पाग १, ४, ५७.  
 औकार- -रः शंभ्री १, २, १३; अथ  
 ४७, ३, ४; तैत्रा ९, १५; उम् ७,  
 ५; शीच ३, ५१; -रम् ऋषा २,  
 १९; शुभ्रा ७, ५; तैत्रा १०, ७,  
 -राव लाथौ ७, २, ४.  
 औकारः(र-अ)न्त- -न्तम् शुभ्रा  
 ७, ८.  
 औकथ- , 'थ्य- उकथ- द.  
 औक्त्रायणि<sup>०</sup>- -णिः यौधौष ४१ :  
 १४.  
 औकथ- १उकथ- द.  
 औविधक, वा-, 'नियक्य- √वच्  
 द.  
 औकथ्य- , 'व्यायन- १उकथ- द.  
 २औक्ष- √उच् द.  
 २औक्ष- २उकथ- द.  
 औदणोरन्ध- उदणोरन्ध- द.  
 औल-, 'प्ली- उला- द.  
 औलीय-, 'पेय- २उल- द.  
 औल्येयद- उला- द.  
 औप्रचिति<sup>०</sup>- -तयः यौधौष ६ : ४.  
 औम्रेय- २उम- द.  
 औचथ-, १औचथ्य- १उचथ- द.

२औचथ्य- उचथ्य द.  
 औचित्य- √उच् द.  
 औचैथ्रवस- उच- द.  
 औजसायन- २ओजम्- द.  
 औजसिक- √उच् द.  
 औजयनक- उजयनी- द.  
 औजिहानि- उजिहान- द.  
 औड-> औडो- पृ ५४७ h टि. द.  
 औडपिक- उडप- द.  
 औडलि<sup>०</sup>- -लयः यौधौष ४७ : ८.  
 औडयि-, 'धीय- उडव- द.  
 औडायन- (>'न-भक्त- पा.) पाग  
 ४, २, ५४.  
 औडुप-, 'पिस- उडुप- द.  
 औडुलोमि- उडुलोम- द.  
 औतकि<sup>०</sup>- 'प्ली- (>औतकीय-  
 पा.) पाग ५, ३, ११६.  
 औनथ्य- उतथ्य- द.  
 औत्क्षिप- उत्क्षिपा- द.  
 औत्क्षेप- उत्क्षेप- द.  
 औत्तम-, 'मिक- उत्तम- द.  
 औत्तरकीय-, 'रतनिक-, 'रपक्षिक-,  
 'रपयिक-, 'रपदीय-, 'रथे-  
 दिक-, 'राथयं-, 'राह-  
 १उत्तर- द.  
 औत्पत्तिय- उत√पत् द.  
 औत्पत्तिक- उत्पात- द.  
 औत्पन्निक- २उत्पन्न- द.  
 औत्पात-, 'पिक- उत्पात- द.  
 औत्पाद्- उत्पाद- द.  
 औत्पुट-, 'पिक- उत्पुट- द.  
 औत्पुतिक- उत्पुत- द.  
 औत्पूतिक- २उत्पूत- द.  
 १औत्स- १उत्स- द.  
 २औत्स- √उद्, न्द् द.

a) विप. (पाठक-)। ऋष्यः म्यु. च ?। b) वैर १ द.। c) विप.। पाग. > वग.। d) विप.। भवार्थे  
 वच् प्र. (पा ४, ३, ५५)। e) औ<sup>०</sup> इति पाठः ? इति. शेषः। f) वैर १, १०७९ j द.। g) वैर १, १०७९ k द.।  
 h) = वषट्-विधेय-। i) = अथि-विधेय-। म्यु. ?। j) ऋष्यं पृ ४८० m द.। ट्ट. पाका, औदकि-इति भाष्य. पाशि.।

औपस्थान-<sup>०</sup>निक- उप/स्था द.  
 औपस्थान्य- २उपस्थान- द.  
 औपस्थिक- १उपस्थ- द.  
 औपस्थूप्य- उपस्थूण- द.  
 औपस्थूल्य- उपस्थूल- द.  
 औपहस्तिक- उपहस्त- द.  
 १-२ औपाकरण- उपा/कृ द.  
 औपानह्य- उप/नह द.  
 औपानुवाक्य- प्रथ. उपानुवाक्य-  
 द.  
 १औपासन- उपा(प/अ)म्  
 (क्षिपणे) द.  
 २औपासन-<sup>०</sup>निक-<sup>०</sup>नीय-  
 उपा(प/अ)म् द.  
 औपास्तिक- उपास्ति- द.  
 औपोदिति- उपोदित- द.  
 १औञ्जाङ्गिरस- रसाम् चाश २ :  
 ४.  
 १औभय- उभ- द.  
 २औभय-<sup>०</sup>भय- २उभय- द.  
 औभयसाम्य- १उभय- द.  
 औभ-<sup>०</sup>मक-<sup>०</sup>मिक-<sup>०</sup>मीन-  
 उभा- द.  
 औभ्येयक- उम्भि- द.  
 औम्भि- (> २औभ्येयक-)  
 उम्भि- टि. द.  
 १औभ्येयक- उम्भि- द.  
 औरभ्र-<sup>०</sup>भ्रक- प्रथ. उरभ्र- द.  
 १और्य- १उह- द.  
 २और्य- २उह- द.  
 और्य- (> २औरसायनि-)<sup>१</sup>औरस-  
 टि. द.  
 १औरसायनि- उरस- द.  
 औरशि-<sup>०</sup>शय- वीथीप्र ३ : १.

औरशी- उरश- द.  
 १औरस- प्रथ. १उरस- द.  
 २औरस- उरसा- द.  
 ३औरस<sup>०</sup>- (> २औरसायनि- पा.)  
 पाग ४, १, १५४<sup>०</sup>.  
 १औरसायनि- २उरस- द.  
 औरसिक-<sup>१</sup>औरसी-<sup>१</sup>उरस-  
 द.  
 २औरसी- २उरस- द.  
 औरस्य- १उरस- द.  
 औरासुत- २उ(र>)रा- द.  
 औरुक्ष्य- १उह- द.  
 औरुक्ष्यायण<sup>०</sup>- पाः वीथीप्र ७ :  
 ३.  
 और्ण- प्रथ., णक- √कर्णु द.  
 १और्णनाभ- ऊर्णनाभ- द.  
 २और्णनाभ- (> २और्णनाभक-)  
 ऊर्णनाभ- टि. द.  
 १और्णनाभक-<sup>०</sup>और्णनाभि- ऊर्ण-  
 नाभ- द.  
 और्णनाभ- ऊर्णनाभि- द.  
 और्णायव- १ऊर्णायु- द.  
 और्णायत-<sup>०</sup>य- १ऊर्णायव- द.  
 और्ध्व-<sup>०</sup>वैवालिक-<sup>०</sup>ध्वैदेहिक-  
<sup>०</sup>ध्वैदमिक-<sup>०</sup>ध्वैसघन- ऊर्ध्व-  
 द.  
 और्ध्या- ऊर्धि- द.  
 १और्ध्व- २उर्व- द.  
 २और्ध्व- २ऊर्व- द.  
 १और्ध्वभृगुयत् १उर्व- द.  
 २और्ध्वभृगुयत् २ऊर्व- द.  
 और्ध्वश- उर्वशी- द.  
 और्ध्वक- उलन्द- द.  
 और्ध्वपि- २उलप- द.

औलपिन्- २उलप- द.  
 औलपीय- २उलप- द.  
 औलव <> व<sup>०</sup>-<sup>०</sup>यः आपम् २, १६,  
 २; भाग २, ७ : ८; हिय २, ७, २.  
 औलालायत<sup>०</sup>- (> औलालायत-  
 भक्त- पा.) पाग ४, २, ५४.  
 १औलूक- १उलू- द.  
 २औलूक-<sup>०</sup>य- २उलू- द.  
 औलूल- उलूल- द.  
 औदान-<sup>०</sup>नवाव-<sup>०</sup>न-श्यावाश्व-  
 उशन- द.  
 १-२औदानस- उशनम्- द.  
 ३औदानस- उशनस- द.  
 १-२औदाज- उशज- द.  
 ३औदाज- उशज- द.  
 औशीनर-<sup>०</sup>नरी- उशीनर- द.  
 औशीरीय- उशीर- द.  
 १औपजलराजसु वाथी ३, ४, ३, २२.  
 औपद् आपथी २४, १४, १०<sup>०</sup>; पाग  
 १, ४, ६१.  
 औषद् √कृ पा १, ४, ६१.  
 औषध- औषधि, धी द.  
 औ(था-सो)पधय(धि-अ)नुवाक<sup>०</sup>-  
 कम्<sup>०</sup> आश्रित १, २, १ : २३;  
 २४.  
 औपस- उपम्- द.  
 औप्ट-<sup>०</sup>प्टक-<sup>०</sup>प्टाक्षि- १उप्ट- द.  
 औप्टायण-<sup>०</sup>यणक- २उप्ट- द.  
 औप्टिक- १उप्ट- द.  
 औप्ट-<sup>०</sup>ठी- औप्ट- द.  
 औपिणह- प्रथ. उपिणह- द.  
 औप्य- √उप् (बधा.) द.  
 औसज<sup>०</sup>-<sup>०</sup>जे विध ८५, ५२<sup>०</sup>.  
 औह- √ऊह (प्रापणे) द.

a) = शयि-विशेष-। ब्यु. ! । b) ब्यप.। ब्यु. ! । < २उरस- (हादिय-विशेष-) इति पागम. ।  
 c) आ- इति [पशे] भाण्डा. । d) = बालप्रह-विशेष-। ब्यु. ! । एव- इति हिय. । e) ब्यप.। ब्यु. ! ।  
 f) [पशे] औषद् इति परसुची ! । g) क्त. > पत. । h) पागे. पृ ७५५ । इ. । i) = तीर्थ-विशेष-। ब्यु. ! ।  
 j) = जमे इति जीठ. !, औशिजे इति Jolly ।

## क

१क- कः मासि ३४; काल् पा ७, ३, ४४; के शौच ४, २५.  
 क-कार- -रः अण ४७, १, १५;  
 श्रमा ४, ४७; ६, २१; तैसा ५, १२; शैशि ३१२; ३१३; -रम्  
 श्रमा ४, १६; -रे श्रमा ४, ४१.  
 ककार-द्रव्य- -यम् यासि २, ६२.  
 ककार-पकार- -रयोः शुभा ३, २१.  
 ककार-वर्गे- -र्गे शुभा ४, १६५.  
 ककार-यकार-(र-भा)दि- -दिः  
 निवृ ८, ६ : ११; २०.  
 ककारा(र-धा)दि- -दयः उम्  
 १, ३; यासि २, १.  
 ककारादि-प्रथम- -मात् मासि  
 ३६.  
 ककारा(र-ध)न्त- -न्ते मासि  
 १४, २; यासि १, ६२; २, ३६;  
 -न्तौ मासि ३२.  
 क-ल- -रयोः शुभा ३, ११; शैशि  
 ३२३.  
 कल-प(र>)रा- -राः नासि  
 १, ८, ३.  
 कल-व-प- -फेयु श्रमा ४, ३८;  
 शुभा ४, ८.  
 क-महण- -णम् पावा ७, ३, ४४.  
 क-व-त-व- -वाः यासि २, १४.  
 क-व-त- -तैः शौच २, ९.  
 क-व-त-व- -पम् मासि १४, ६.  
 क-टा(ट-अ)न्त- -न्तयोः मासि  
 ४, ११.  
 क-व- -नौ अण ३, २, १६; २२.  
 क-व- -वयोः अण ३, ३, ५; शैशि  
 १२३.

क-व-पर- -रः उल् ५, ६.  
 कवा(व-आ)श्रितो (त-ऊ)ण-  
 जात- -नौ शैशि ३०.  
 क-वर्गा-पर- -रः तैसा २, ४.  
 क-रेफ- -फाम्बाम् शुभा ३, ५८.  
 क-व(र>)ती- -त्यः निवृ ८,  
 ६ : ५.  
 क-वर्गे- -र्गेः शुभा ८, ८; -र्गेत्य  
 अण ४७, १, २०; -र्गे तैसा २, ३५.  
 क-वर्गा-निवृत्त्य(ति-अ)र्ध- -र्धम्  
 पावा ८, ३, ७९.  
 क-वर्गा-प्रथम- -माः द्विधौ २१,  
 २, ३३.  
 क-वर्गा(र्ग-अ)नुत्वार-जिह्वामूलो-  
 य- -याः आशि १, १०.  
 क-वर्गा(र्ग-अ)वर्गा(र्ग-अ)नुत्वार-  
 जिह्वामूलो- -याः आशि १,  
 १०.  
 क-वन्द- -न्दे श्रमा ३, ४, १.  
 क-स-वर्गे- -र्गेय् यासि २, ४१.  
 का(क-आ)दि- -दयः अण ४७, १,  
 ८, -दि शुभा १, ४७; शैशि १८;  
 -दीनाम् शैशि २१.  
 कादि-कोप- -पः पावा ६, ४,  
 १४९.  
 को(क-उ)पध,धा- -धात् पा ४, २,  
 ६५; ७९; ११२; १, १३७;  
 पावा ४, २, १०४; -धायः पा  
 ६, ३, ३७.  
 कोपध-अहण- -णम् पावा ४, २,  
 १४१.  
 कोपध-प्रतिवेध- -वः पावा ४,  
 २, १०४; -धे पावा ६, ३, ३६.  
 २क- -फः काथी २, ७, १३; १९, ४,  
 १९; आपथी ४, ४, ४; १; १९,  
 १०, १; १२, १५; वीथी १४,

८ : २७; १५, ३० : २२;  
 भाथी ४, ५, ५; वाथी १, १, २,  
 १६; वैथी १५, २२ : १३;  
 द्विथी ६, १, ५१; ४, २१; १४, ४,  
 २०; २३, २, २६; द्राथी ५, ३,  
 १९; कौथ ४५, १७; अण ४८,  
 १३७; वृदे १, १२२; २, १२५;  
 ३, ७०, निप ५, ४; या १०,  
 २२९; वेज्यो १०९; फम्  
 आपथी ८, ७, १, १७, २; वीथी  
 ५, ८ : २६; १६ : ६; ६, २ :  
 २२; १३, २० : ९; २५, ३ :  
 १७; भाथी ८, २१, ६; १०, ५,  
 ५; वाथ्यौ ४, १९; १४; १०; ३;  
 ११; १२; द्विथी १, २, ४७, ५,  
 २, ५६; वृदे २, ४७; अण ४८,  
 ७५; निप ३, ६; या २, १४४;  
 ४, १८४; १०, ४; १४, ११;  
 पा ५, २, १३८; कस्य वीथी  
 २७, १४ : १४; द्विथी २३, ४,  
 ३१; वृदे ५, ९८; पा ४, २,  
 २५; ५, ३, ७२; फकाय शाथी  
 ९, २७, १; काथी २०, ४, २;  
 आपथी ८, ७, १; वीथी ५, ८ :  
 २८; १४, ८ : २७; २५, ३ :  
 १६; १७; वाथी ३, ४, १,  
 ४८; वैथी ८, १३ : ७; द्विथी  
 ५, २, ५६; आप १, २०, ६; शाथि  
 ३, ३, २; काथ ३४, ४; धर १, ६;  
 भाथ १, ७ : ११; माथ १, २२,  
 ५, शुभ ३, १४.  
 १काव,या- -पा ४, ३, २५;  
 -यः शाथी ३, १४, ४; १६;  
 काथी ५, ४, २१; वीथी १७,  
 ५६ : १८; ५९ : १६; वाथी १,  
 ७, २, १७; -यम्-आथी ४, १२,

a) = वपी-विशेष-।

b) विप.। वस.।

c) वस, उप. स = रसमान-।

d) = प्रजापति-

सुख, तदक-प्रभ.। वैप इ इ.।

e) विप. (पुरोडास, यज्ञ-प्रभ.)।

f) स्त्री. दम् प्र. (तु. दं- &gt; -प्या प्रभ.)।

२; आपथी ८, ६, ७; बौधो ५,  
५: १६१; ६: १८; ८: १६;  
२५, ३: १७; माथी ८, ५, ११,  
६, ९; माथी १, ७, ३, १; वैथी  
८, १०: ६; हिथी ५, २, २३;  
३१; वैताथी ८, २२; ऋथ २,  
१०, १२१; शुभ २, १४२;  
-यस्य हिथी ५, २, २७; -या  
बौधो १७, ५६: २४; ६२: १४;  
-या: आपथी २०, १४, ९; हिथी  
१४, ३, १७.  
काथी- -थी शाथी १४, ७,  
५; शुभ ३, १८; वेद ३, ९८;  
वास १, ३४१; -वीथ शुभ २,  
१२९; -रथी शुभ ३, ४९.  
कार्या (मी-आ) द्वयो-  
-रथी ऋथ २, १, २४.  
कंथ- कंथु- पा ५, २, १३८.  
कंथ- -वति पाथी २१, ३, २२.  
कंथ- कंति- १कंथु- कंथ- कंस-  
पा ५, २, १३८.  
के(कं-रु)रा- -दारथ अगो ६, २.  
केक, का- किम्- द.  
✓कंस<sup>०</sup> पाधा. मदा. आत्म. गतिशा-  
सनयोः।  
१कंस<sup>०</sup>- पाठ ३, ६२; पाठ २, ४, ३१;  
-स- आथ ४, ६, १९; कौथ ५,  
८, ७; काथ ४६, १०; ५७, ८;  
गोथ ३, २, ३८; द्राथ २, ५, ३३;  
अथ १, ३५, १; -सम् आपथी  
१, १६, ३; बौधो १, ४: २०;  
१८: १××; हिथी; -सा: अथ  
१०, १३१; -साथ द्राथ ३, ४,  
२४; पा ५, १, २५; -से बौधो

४, ९: १२; ५, २: १८; ६: १०;  
१३; ६, ७: ८; ९; ८, ३: ३××;  
माथी; -मेन आपथी १, १६, ३;  
बौधो १, ३: ३५; माथी १, १७,  
१२, वैथी ४, २: १०; हिथी १,  
४, ४५; कौथ ५, ८, ४; काथ ४५,  
५; गोथ १, ३, ९; ७, २; द्राथ १,  
५, ११; -सौ बौधो ५, ९: १०.  
१कांत्<sup>०</sup>- -सम् जैथ १, १७: ९;  
१३; १५; -तस्य शेष १६४<sup>३</sup>;  
२६५, -सेन माथि १०, १०.  
कांत्थ<sup>०</sup>- -स्य: शाथी ४, १६,  
९; बौधो १८, ३५: ८; -स्यम्  
बौधो १८, ८; ४, ९: १५; माथी  
१, २, १, ९: १०; ४, ७, ५, बौथ.  
-स्यस्य शाथी ४, २१, ८; शेष  
१६४, -स्थानि बौथ १, २, ५;  
-स्ये माथी २, १, ३, ४, २, १, १,  
४, १, ६, ५, २, २, १, ७, ९, १६;  
पाथ १, ३, ५, ३, ४, ९; काथ:  
-स्येन शाथी ४, १६, ३; नाथी  
१, २, १, ८, वाथी १, ४, ५, पाथ  
१, ३, ५, आपथ; -स्यै: अप २७,  
१, १.  
कांत्थ-कवच<sup>०</sup>- -व: शाथी  
१४, ३४, २; काथी २२, १०,  
३१; बौधो १२, २: १३; -चौ  
लाथी २, ४, १४.  
कांत्थ-कार- -र. वैथ ३,  
१४, १०.  
कांत्थ-तात्त्रा(स-आ)दि-  
-दीनाम् काथ २७८: २.  
कांत्थ-नुर्व<sup>०</sup>- -र्याग्नि आग्नि  
२, ६, ६: १.

कांत्थ-दोहन-एर(ण)>  
णी- -णीम् अगो १३, ४.  
कांत्थ-यात्र -त्रम् अग ९,  
३, २.  
कांत्थ-यात्री- -त्रीम् अग  
६८, ५, ५.  
कांत्थ-माजन- -ने विप ७१,  
३९.  
कांत्थ-मोत्रि- -त्र् मत्सु १२,  
२, ३४.  
कांत्थ-मय- -यम् आग्नि २,  
६, ७: १४.  
कांत्थ-लोह- -यो: विप  
२३, २६<sup>५</sup>.  
कांत्थ-वानस्पत्य-आदि-  
-कै: काथी २, ३, ५.  
कांत्थ-स्य- -स्यम् कप्र ३,  
१०, १९.  
कांत्था(स्य-आ)दि- -दि वैथ  
५, १३: २०.  
कांत्थादि-लोह-न(य)>  
यो- -थी वैथी ११, ९: ७.  
कांत्था(स्य-अ)वहारि- -री  
विप ४४, १५.  
कांत्था(स्य-अ)विधान<sup>०</sup>- -नम्  
कप्र ३, १०, १९.  
कांत्थो(स्य-उ) पदो(ह)>  
हा<sup>०</sup>- -हाम् विप ९२, ८.  
कंस-नुग्म-पात्र-नुदा-कर्गो- -णीषु  
पा ८, ३, ४६.  
१कंस-यात्र- -त्रम् काथीमं ४: १३.  
२कंस-यात्र-> कांत्थाथि- -त्रय:  
बौधो ४४: २.  
कंस-यात्री- -स्थाम् पासा १, ४, १.

a) विप. (कन्-वसा)-। b) विप.। वस.। c) ✓कम् वा ✓कप्र वा इत्यप्येके। d) = पाठ-  
विशेष, लक्षित-यात्र-परिमाण- च। वै १ द.। e) विप.। विकारार्थे अणु प्र.। f) विप., नाप. (कंस-)  
विकारायर्थे षण् प्र. (वा ४, ३, १६८)। पात्र. तु कंठीय-> यनि. इति। g) विप.। कन्-> उठ. उप. क्तीरि  
स्तुट प्र.। h) लौ- इति जीव.। i) विप.। वस. उप. अथिद्वारेणे षण् प्र.। j) = कपि-विशेष-। म्यु.।

कंम-मन्थ-मुरे-माय-काण्ड- -वटम्  
 वा २, २, १२२.  
 कंम-मन्थ- -मम् कौम् ५४, २१;  
 १३६, ११; म् ७२, २, १.  
 कंम-मन्थ- -मे लाथी ८, ११, २५.  
 कंम(मन्थ)दि- -दिना वर १, १,  
 ११.  
 कंमि- -वा ५, १, २५.  
 कंमीय->प्य-गा-मन्थ- -म्ययो:  
 वा ४, १, १६६; वावा १, १,  
 ११.  
 २कंम- (> २कंम- वा.) वाग ४,  
 १, ११.  
 ३कंम- (> कांम- वा.) वा. कौमीय  
 ४१: १४.  
 कांमि- -म्य: कौमीय ३: २.  
 ✓कक्- वाधा, भा. म्म. मी.ये.  
 ककन्द- वाधो २, १, १६७.  
 ककर- -नाम् कागधी २०, १०, ५.  
 ककल- (> ककल- वा.) वाग ४,  
 १, ११.  
 ककलटिका- -नाम् मया ३, ४, ११.  
 ककुम्- -मि: कौम् ४८, १२.  
 ककुम्- वाग ८, २, १; -कुम् कौमी  
 १३, ४२: २, निम् १०, १: १.  
 तीरा ८, ४; -कुम् कागधी १८,  
 ७, १; कौमी १८, ४०: ११.  
 हिमी १३, २, १६. -कुम्  
 कागधी १८, ७, १; दिमी १३,  
 २, १६; -कुम् कौमी ४, ६: ६;  
 कौमी १०, १०: १६; -कुम्  
 कागधी १४, ११, ७; मागी  
 ६, २, २, २१; दिमी १५, ६.

४०.  
 ककुम्- -मि: वाग ४, १, ११२.  
 काकुम्- वा ४, १, ११२.  
 काकुम्-कन्था- -म्या: कुं  
 ६, ५४.  
 ककुम्- वा ८, २, १; -मन्  
 कौमी ११, ६: ३४; म् ४,  
 २२; तीरा ८, ४; मी २५३.  
 ककुम्- -मम् निम् ७, १०: २.  
 ककुम्- वाग २, ४, ११; -म्य वा ५,  
 ४, १४६; -मि कौम् ४४, ७.  
 ककुम्(२-म)म- (> वाकुम्-मि-  
 वा.) वाग ४, १, १४६.  
 ककुम्- -मि कौम् १, ५, ६६.  
 ककुम्- -मि मि २६, १२.  
 ककुम्- निम् १, २: १.  
 १ककुम्- वाग ४, १, ६६; -कुम्  
 कौमी ७, २५, ३; २०, ४, कागधी  
 ६, ४, ७; निम् १, २: ७, २, ११:  
 २०; २६; म् १, ५, १०४,  
 वा ७, १२: १. म् १६,  
 १०: १८, २१. मि ३, ११;  
 उन्मि ४ १४, ५: १५, १७;  
 ७: १७. -कुम् कागधी ७, १,  
 ५; निम् १०, ५: १. -कुम्  
 कागधी २, २, १, २१; -कुम्  
 कागधी ६, १, २, ७, २, १७, कागधी  
 ७, २५, १४, १६; २०, २०; कागधी  
 ७, १०, १०, कागधी १२, १,  
 २१; दिमी ८, १, ४१; म्  
 १, ५: १६; १०, ७: १७, कौमी  
 ९: ८१; निम् १, १: ११; म्  
 निम् १, ११; -कुम् निम् ६, ६

२६; ८, १: १६; १०: १६; २, १:  
 १२; -कुम् कागधी ७, २५,  
 ५६; कागधी २, ५, ११; कौमी  
 १, १२: १०; ३, ११: १;  
 १४, १४: १; कागधी १, १, २,  
 १८; मागी २, ५, २; मागी  
 १, २, ५, ६; हिमी १, ७,  
 १४; ६; निम् ४, १०: ६; ६,  
 ६: १४; ७, १२: ६; -कुम्  
 कागधी ७, २५, ७, कागधी ६, १,  
 २०-२२; ७, १, १; ८, ५, १३;  
 म्.  
 १ककुम्- -म: वा ४, १, ६६;  
 कागधी ७, २५, ५; निम् ३, १२: ४;  
 म् १, ११, ३; २, ६, ४८; म्  
 २, २२४; म् १८, १: -मम्  
 म् २, ६, ११; -मा: कागधी  
 १८, ११, १; म् २, १, १०६;  
 -मा: म् १८, २; -मा: म्  
 कागधी २५, ५; म् ४, १०;  
 -मे म् १८, १; -मे म् कागधी  
 ५, १५, ६.  
 काकुम्-वाग्- -म: म् १४,  
 १६, ११.  
 ककुम्-वाग् कागधी १, २०, १; १८,  
 ४, १, ४, १; ४: कौम् ३, १, १;  
 कागधी ३, ४, १, १, १.  
 ककुम्-मि- -मि म् २, ६, ११.  
 ककुम्-मि- -मि म् १८, ११.  
 ककुम्-मि- -मि कागधी ६, १,  
 २६.  
 ककुम्-मि-मि- -मि म् २,  
 ५, ५२.

a) = देस-विशेष-। म् १। b) कांमि-विशेष-। म् १। c) देव १६.। d) म्म: म्. ५।  
 e) = मिमि-मन्- इति दारिद्र्य, कौमी-विशेष- इति शीकर्ण (ग्र. म्. XLVIII)। f) कांमि. देव १, १०-६। k द.।  
 g) ककुम्: इति म्मि.। h) म्म.। उन्मि.। i) = हरी(लवण) विमि-मन्, म्म. म् ककुम्- इति म्मि.।  
 j) = म्म-मि, मिम्,। उन्मि-मन्। इत्य-विशेष-मन्.। k) म्मि: इति वाग्: इति म्मि. कांमि: (ग्र. तीरा ३, ३,  
 १, १)। l) कांमि. म् १४५० द.। m) म्मि. म्म.। n) मि.। १४५.।



ककुब्-उत्तरा<sup>०</sup> - रागि निस् २,  
 १० : ४; -रामु लुम् ३, ११;  
 ४ : १; निस् ७, २ : २२; ४ :  
 २९; २९; ५२.  
 ककुबुत्तरा-स्थान- नम् निस्  
 ७, २ : २२; ४ : ४०, ५३.  
 ककुब्-उजिह- -दिग्गु उनिस् ७ :  
 १७; -दिग्गु द्वित्री ८, ३, ८;  
 २०, त्रित्री ४, ७, १, ३.  
 ककुब्-देव<sup>०</sup> - नो माथी १, ८, ३, १२.  
 ककुब्-भन्द<sup>०</sup> - न्द सु २३, ४.  
 ककुब्-रूप- पम् निस् १०, ४ : ७.  
 ककुम्-आदि- -दयः अत्रि, ३, २१.  
 ककुम्-रु (>) नी<sup>०</sup> - नो या ७, १२.  
 ककुम्-न्यह्नुतिरा<sup>०</sup> - रा ऋम  
 १, ५, ४; २, ८, ४६; शुभ ५,  
 २७; ऋषा १६, ३३.  
 ककुम्-म(रु)> नी<sup>०</sup> - नो अत्र १,  
 १० : ११; १४ x ४; पि ३,  
 ५६; -रवो अत्र ८, ५; १३, १.  
 ककुम्मती-ग(र्भं) मां- -र्भा  
 अत्र ३, १९; २७; २९; ४, ३;  
 -र्भाः अत्र १०, ५.  
 ककुम्मत्य (ती-अ) नुष्टुम्-  
 -ष्टुमः अत्र ५, २८.  
 ककुम्-मरवेगोतिस्- -तिपी ऋम  
 २, ८, २२.  
 २ककुम्<sup>०</sup> (> २काकुम्- पा.)  
 पाग ४, १, ११२.  
 ककुम्-भ- भः कप्राय ३, ३१<sup>०</sup>; -भम्  
 वैथी २३ : १०<sup>०</sup>; वैथी ५ ५६<sup>०</sup>;  
 अत्र २६, ५, ३<sup>०</sup>; -भाः कप्र  
 ३, ४, ११<sup>०</sup>.

ककुह<sup>०</sup> - हः निघ ३, ३; -हम्<sup>१</sup>  
 आथी १२, ८, ३; वीथी १४,  
 १२ : १३; वैथी १५, १० : ७;  
 द्वित्री ८, २, ४२.  
 ककुल- पाठो २, ३, ११५.  
 ककुलट- ✓कल् द.  
 ककुत्ता<sup>०</sup> - पाठ ३, ६२; पाग ५, २,  
 १३१; -चः वीथी १४, १३ :  
 २८; या २, २४; -क्षम् आथी  
 ९, ११, २२; वीथी १४, १३ :  
 २३; ३०; २३, ६ : ८; ९;  
 वाथी १, ५, ३, १७; वैथी २०,  
 २२ : ११; वताथी ३१, ४;  
 आथ २ ४, ९; वीथ ३, १५, ७;  
 शाथ ३, १४, ६; वीथ २, ११,  
 ६०; वैथ ४, ४ : २६; द्विपि  
 २३ : १९; गोथ १, २, २; ३;  
 ४, १, २१; वाथ २, १२, वीथ  
 १, २, ५०; या २, २; -आन्  
 कौष ४६, ४०; -कक्षाम् द्विपि  
 १, ४, ९<sup>०</sup>; -क्षाय वैथ १, १५;  
 १३; -क्षे काथी २१, ३, १५;  
 वैथ ३, १४, ७; या २, २८<sup>०</sup>;  
 -क्षी माथी १, ४, १, ३; २, १,  
 १, २८.  
 कक्ष-वैवत-सोम- -माय वैथ १,  
 १५ : १३.  
 कक्ष-वन-दादिव- -ही शेष ३७७ :  
 १५.  
 कक्ष-सेन-> काक्षसेनि- निः निस्  
 ४, ११ : २२.  
 ✓कक्षाय पावा ३, १, १४.  
 कक्षिन्- पा ५, २, १३१.

क(क्ष्य>)क्ष्या<sup>०</sup> -क्ष्या या २, २४<sup>०</sup>;  
 ६, २८<sup>०</sup>; -क्ष्याः अत्र ४८,  
 ८२<sup>०</sup>; निघ २, ५<sup>०</sup>; या ३,  
 ९४<sup>०</sup>; -क्ष्याम्<sup>१०</sup> आथि १, १,  
 २ : ४२; वैथ २, ६ : १३; १२ :  
 १८; -क्ष्यायाः पावा ६, १, ३७.  
 कक्ष्या-जीविन्- -यी वैथ ३,  
 १२, १०.  
 कक्ष्या-वल्- -यान् या ६, १०.  
 कक्षतु<sup>०</sup> (> काक्षतव- पा.) पाग ४,  
 ३, १६४.  
 कक्षी-वत्<sup>०</sup> - पा ८, २, १२; पावा ६,  
 १, ३७; -वताम् आथी १२,  
 ११, ३; -वति वृदे २, १३०.  
 -वन्तम् वीथी ३, ९ : ६; द्वित्री  
 ६, ६, १६; अत्राय ४, १; शुभ  
 ५, ३७, या ६, १०; -वान्  
 शाथी १६, ११, ५, ऋम २, १,  
 ११६; १२६; ९, ७४; वृदे ३,  
 ५६; १४२; १५०; या ६,  
 १०४<sup>०</sup>; तैरा ९, २१<sup>०</sup>; अत्रा ३,  
 ४, ११<sup>०</sup>.  
 कक्षीवत- -त आथी १२,  
 ११, ३; आथी २४, ६, १५;  
 वीथी १२ : ३; १३ : १;  
 द्वित्री २१, २, ९; वैथ ४, ४, ३;  
 ४; -तः ऋम २, १०, १३१;  
 १६९; शुभ १, ६४०; -तस्य  
 चात्र ४२ : ५.  
 काक्षीवती- -ती ऋम २,  
 १०, ३९; वृदे ७, ४२; -वथी  
 वृदे ७, ४८.  
 कक्षीवत<sup>०</sup> -सम् शाथी ९,

a) विर.। बल.। b) कव. पू. = ककुद्.। c) = सोमरसक-विशेष-। द्यु. ?। d) ककुदिनी-  
 इति स्.। e) मलो. कस.। स्त्री. आकन्तम्। f) = छन्दो-विशेष-। g) द्युप.। द्यु. ?। h) सपा. काठ  
 ३७, १६ इति पाठे.। i) = अर्जुन-वृक्ष-। j) = मिथाच-विशेष-। वैप १, १०८१। यनि. शोष.। k) वैप १ द.।  
 -। पाठे. वैप १, १०८१। m) द.। n) कक्षाम् <> कक्ष्याम् इति पाठे.। n) वैप १, १०८२। j. d.।  
 o) स्तार्थे प्र.। p) = वनरपति-विशेष-। द्यु. ?। आकनु-, कर्कनु-, कर्कनु- इति पाठा.। q) = स्रज-विशेष-।

२०, १२; १६, ११, ४; साधी  
 ६, १२, १४<sup>०</sup>; निम् ७, ५: ३३<sup>०</sup>;  
 वृदे ३. १४१; १५२; -ताति  
 साधी २, २०, ११.  
 कक्षीवत्-प्रमुख<sup>०</sup> - व्याज् वृदे ४, २५.  
 कक्षीवत्-वत् आपधी २४, ६, १५;  
 वीथीप्र १२: ४; १३: २; द्विथी  
 २१, १, १; वैष ४, ४, ३; ४.  
 -कक्ष्या- कक्ष- द.  
 ✓कक्ष् पाथा. भ्वा. पर. ह्रस्वे.  
 कक्षर- पाठ ४, ८१.  
 ✓कम् (वधा.) पाथा. भ्वा. पर.  
 ✓कक्ष् पाथा. भ्वा. आत्म. गती.  
 कक्ष्- -कम् अत्र ४८, ८८<sup>०</sup>; -क्या:  
 अत्र १२, १, ७; ५२, ४, ५; वास  
 २, १२, १४<sup>०</sup>; उनिम् ७: १०<sup>०</sup>;  
 -क्यै: अत्र ६१, १, ७.  
 कक्ष-चिन्- -चिन् काथी १६, ५,  
 ९; आपण २१, १; काशु ४, १;  
 द्विशु ६, ५९; -चिन्: वीथु १२:  
 १; -चिन्म् वीथी १७, २८:  
 ८; द्विथी १२, ८, ४; आपण  
 २१, ५; द्विशु ६, ६४.  
 कक्षा(ङ्-आ) कृति<sup>०</sup> -ति: द्विथी  
 १२, ८, ४.  
 रकक्ष<sup>०</sup> -> काङ्गायन<sup>०</sup> -न: कौस् २२,  
 १३; अत्र ३०<sup>०</sup>, १, १; अत्र ६,  
 ७०; ११, ९.  
 कक्ष्<sup>०</sup> -> कक्ष्<sup>०</sup> -कक्ष्<sup>०</sup> -  
 कक्ष्<sup>०</sup> - पा. ) पाठ ४, ८१;

पाग ४, २, ८०<sup>०</sup>.  
 कक्ष्णीका- पाठ ४, १२४.  
 रकक्ष्<sup>०</sup> - नै: वीथी १८, १९: ६;  
 काशु ३१, २; -नैतम् काशु ३१,  
 २; वाशु १६, ८<sup>०</sup>; -नैत कौस्  
 . ७६, ५; -नै: पाठ २, १४,  
 १५.  
 रकक्ष्<sup>०</sup> -त: मध्य २, १, १९१;  
 वृदे ४, ६३<sup>०</sup>.  
 रकक्ष्<sup>०</sup> -तम् आश्रित २, ४, ८:  
 ९; -नैभ्य: आश्रित २, ४,  
 ८: ४.  
 कक्ष्ति<sup>०</sup> -> ति-वाह्यम् -यम्  
 आपधी १४, २०, ४.  
 कक्ष्जल- पाठ ४, ३, १०५.  
 कक्ष्गु- पाठ ४, १, ४८.  
 ✓कक्ष् पाथा. भ्वा. आत्म. धन्वे.  
 कक्ष<sup>०</sup> -> कक्षि<sup>०</sup> - पा.) पाग ४, २,  
 ८०.  
 कक्षप- पाठ ३, १४२.  
 कक्षुलक<sup>०</sup> -> काचुलक्य- पा.) पाग  
 ४, १, १०५<sup>०</sup>.  
 कक्ष्चूर- पाठना ४, ९६.  
 रकक्ष<sup>०</sup> - पाठ ४, १०५; -रक्ष: या  
 ४, १८४; -रक्षम् या ४, १८;  
 -रक्षन या ४, १८<sup>०</sup>.  
 कक्षन्- -प: या ४, १८४; -पर  
 माथी ३, ६, १६; वाथी २, १, ६,  
 ३६.

कक्ष्(छ-अ)भि-यवत्-गती<sup>०</sup> - (नै-उ)  
 चरपद- -दात् पा ४, २,  
 १२६.  
 रकक्ष<sup>०</sup> -> कक्ष- काचुल- पा.)  
 पाठ ४, २, ८५; पाग ४, २,  
 १३३; १३४.  
 कक्ष्(छ-आ)दि- -दिभ्य: पावा  
 ४, २, १००; -दिपु पावा ४, २,  
 १३३.  
 कक्ष्<sup>०</sup> - पाठ १, ८४<sup>०</sup>.  
 कक्ष्<sup>०</sup> - पावा ५, २, १०७.  
 कक्ष्<sup>०</sup> -> कक्षि<sup>०</sup> - पा.) पाग ४,  
 २, ८०<sup>०</sup>.  
 ✓कक्ष् ✓कक्ष् द.  
 कक्ष्जल<sup>०</sup> पाग ५, २, ३६.  
 कक्ष्जल(ल-अ)मं- पा ६, २, ९१.  
 कक्ष्जलित- पा ५, २, ३६.  
 ✓कक्ष् पाथा. भ्वा. आत्म. वीति-  
 धन्वनयोः.  
 कक्ष्जलन्ता अत्र ४०, ५, ६.  
 कक्ष्जम्<sup>०</sup> - नम् वाशु ६, ९<sup>०</sup>.  
 कक्ष्जुक्<sup>०</sup> - पाठ ४, २, २३५; पाग  
 ५, २, ३६; -कानि माथी १, १,  
 २, १८.  
 कान्जुक्<sup>०</sup> -> कक्षि- -की  
 आपध १, ८, २; द्विथ १, २, ९.  
 कक्ष्जित- पा ५, २, ३६.  
 कक्ष्जुल- पाठ ४, ९०.  
 कक्ष्ज- पाग २, २, ३८.  
 कक्ष्ज- पाठ ३, १३४.

a) = साम-विशेष- । b) विप. । वस. । c) = पक्षि-विशेष- । द्यु. ? । d) विप. । उत्त. उप. क्विबन्तम् ।  
 e) व्यप. । द्यु. ? । f) आनुवंदाचार्य-विशेष- , पक्षि-विशेष- । g) अर्थ: द्यु. व ? । h) कक्ष्क- [काशादी] इति  
 कक्ष्य- [प्रिलादी] इति व पाठा. । i) = देश-विशेष- ? । j) वैप ३ द. । k) = केशप्रलेखलोपकरण- [कक्षी  
 इति मभा.] । द्यु. ? । l) उत्तरेण संधिरार्यः । m) = वायव्य-विशेष- । द्यु. ? । n) दु. पाठा. । कुल- इति  
 भाषणा. प्रथ. । o) = नदी-सट- , कुर्मात्र-विशेष- प्रथ. । द्यु. ? । p) उप. < ✓पा [पाने] ✓पा [रक्षणे] चेति या. ।  
 q) = रोग-विशेष- । द्यु. ? । r) < ✓कप् इति । s) वैत. भाष. < कक्ष् इति । t) कक्ष्क- इति पागम्. ।  
 u) नाप. । द्यु. ? । v) पाठ: ? कक्ष् इति शेषः ( दु. माथ १, १, १० ) । w) < ✓कक्ष् इति पाभाया. ।  
 x) < ✓कक्ष् इति । y) सार्थे षण् प्र. ।

कट्<sup>१</sup> बौधो २३, ७: २६.  
 ✓कट् (बधा.) पाषा. भ्वा. पर. वधा-  
 वरणयोः गतौ च.  
 कट्<sup>२</sup> पाग ४, २, ८०<sup>१</sup>; ५, १, ४; ६, २,  
 ८५; -टः वाधुधौ ३, ७६: ३५;  
 -टम् आपधौ २०, २१, ७, बौधौ  
 १५, १४: १; वाधौ ३, ४, १, ७,  
 ५, १०; पाय १, ५, २; आपय ४,  
 ९; गोय २, १, १९; बौध १, ५,  
 ११०; -टान् पागनां ४, १,  
 ४१; -टान् आपधौ ११, ८,  
 २१; २१, १२, ९; हिधौ ७, ५,  
 २७, ७, २१; १६, ५, ३; -टे काधौ  
 १३, ३, १६; आपधौ २०, २१, १;  
 बौधौ १५, ३२: १२; ३३: ६;  
 १८, २१: १३; २६, ३२: १७;  
 वाधौ ३, ४, ५, ९; हिधौ १४, ४,  
 २४, ४८<sup>१</sup>; आपय १२, ३; काय  
 ४५, ६; माय २, १, ७; वाय १४,  
 ५; -टेन आपधौ २०, २१, ६;  
 बौधौ १५, ३३: १०; हिधौ  
 १४, ४, ५१; आश्रिय ३, ५, ३:  
 १; बौधि १, ३: ७.  
 कटी- पा ४, १, ७१.  
 १कट-क<sup>१</sup> -कम् अय १८, २, २.  
 कट-कार-रः वैध ३, १३, ६  
 कट-कारिन्-री वैध ३, १३, ६.  
 कट-परिवार<sup>१</sup> -रम् बौधौ १६,  
 २०: ६; -रे बौधौ १६, २१:  
 ७; -रौ बौधौ ६, १: १४.  
 १कट-प्रवृत्त-न्ते धा ३६, १, ३.

कट-यू- पाउ २, ५७; पावा ३, २,  
 १७८.  
 कट-शालाका- -कया आपधौ २१,  
 १८, ९.  
 कट-संघात<sup>१</sup> -न्ते आपधौ २१, १८,  
 ५; हिधौ १६, ६, ३३.  
 कटा(ट-अ)ग्नि- -ग्निना बौध २, २,  
 ५३.  
 कटा(ट-आ)दि- -न्देः पा ४, २, १३९.  
 कटा(ट-अ)न्त- -न्तम् गोय २,  
 १, २१; -न्ते गोय २, १, २२.  
 कटिन्<sup>१</sup> - पा ४, २, ८०.  
 कटीय- , वञ्च- पा ५, १, ४.  
 २कटक<sup>१</sup> - पाउ ५, ३५; पाय २, ४,  
 ३१, ५, १, ४<sup>०</sup>.  
 कटक-केयूर-धारिन्- -रिणे अय  
 ४०, १, १३.  
 कटकोय- , कटवय- पा ५, १, ४.  
 कट-न्त- , ष्य- १क-द.  
 कटनि- पाउमो २, १, २१२.  
 कटम<sup>१</sup> - -भम् अय २६, ५, ३.  
 कटम्ब- पाउ ४, ८२.  
 १कटविकटकटाटेमाटे अय ३६, १, ३.  
 कटा<sup>१</sup> - (> कटालु-पा.) पागवा  
 ५, २, १७.  
 कटाकु- पाउना ३, ८०.  
 कटान्त- १क-द.  
 कटार- पाउना ३, ११६.  
 कटाह- पाउमो २, ३, १८७.  
 कटि- पाउ ४, ११८<sup>१</sup>; -टिः कप्र  
 १, ७, १; -टिम् कप्र १, १, ३;

-टौ शंघ १९७; -टयाम् विप  
 ५, २०.  
 कटिन्न- पाउमो २, ३, ८८.  
 कटिप<sup>१</sup> - (> काटिप्य- पा.) पाग  
 ४, २, ८०.  
 १कटिरमाटर<sup>१</sup> - -राय अय ६६, ३, २.  
 कटीर- पाउ ४, ३०.  
 कटु<sup>१</sup> - पाउवृ १, ८, पाग ६, २, २४<sup>०</sup>.  
 -ड अय ३६, ३०, १.  
 १कटुक, का<sup>१</sup> - पाग ५, १, १३०;  
 ६, २, ८७<sup>०</sup>; -कम् विध १, १५,  
 आपधं १, १७, ११; -काः द्राय  
 ४, २, ८; -के अय ३५, १, १-  
 -कैः अय २६, ५, २.  
 पादुक- पा ५, १, १३०.  
 कटुक-प(व>)प्रा<sup>१</sup> - -०त्रे अय  
 ३५, १, १.  
 कटुक-प्रत्य- पा ६, २, ८७.  
 कटुक-वद्री<sup>१</sup> - वा, पाग ४, २, ८२<sup>१</sup>  
 कटुकिन्- -द्वा वा ५, ४.  
 कटु-तेल- -लेन अय ३५, १, १०.  
 कटुसैला(ल-अक>)का- -क्ता-  
 अय २६, ४, २.  
 कटु-मन्थ- (> काटुमन्थि- )  
 २कटुक- टि. द.  
 २कटुक<sup>१</sup> - (> काटुकि- वा.) पाग  
 २, ४, ६३<sup>१</sup>.  
 कटुक-वाधू (, वाउं/पाका.) लेप-  
 पाय ६, २, ३७.  
 कटेट- (> ट्टी-) पाग ४, १, ४१<sup>१</sup>.  
 कटेर- पाउनाय १, ६०.

a) = घञ्गुणवृत्त-। b) घञ्। वैध १३, ६। c) अर्थः?। d) स्वार्थेऽन्वयार्थे वा प्र.। e) नाप.।  
 घञ्. उप. < परि/वृत् (आच्छादने)। f) पय.। g) = देश-विशेष-?। h) = आभरण-विशेष-।  
 व्यु. ?। i) < ✓कट् इति। j) = वृत्त-विशेष-। व्यु. ?। k) अर्थः व्यु. च ?। = लुप्तजगण्ट- इति  
 पागम.। l) = भोक्ति-। व्यु. ?। m) ट्ट. पाका.। वटु- इति भाष्य.। n) विर., नाय.  
 (शोषाधि-विशेष-.) वैध १३, ६.। o) ट्ट. पासा.। कटुक- इति भाष्य.। p) विप.। वय.। q) = तदद्रुमव-।  
 प्रास-विशेष-। r) कटुक<sup>१</sup> इति [पथे] भाष्य.। s) व्यप.। व्यु. ?। t) कटुक- इति पाका.,  
 कटुमन्थ- इति पागम.। u) ट्ट. पागम.।

कटोल, क- (> कटोल-पाद-, लक-  
पाद- पा.) पाठ १, ६६; पाग  
५, ४, ११८<sup>०</sup>.  
कटूर- पाठ ३, १.  
✓कटू पाधा. भ्वा. पर. कृत्स्नशोबने.  
कठिन- पाठभो २, २, ११४; -जः  
या १४, ६; -नम् वेणु २, ८;  
१; -ने वीथी १७, ३१ : १६.  
कठिनिक- पा ४, ४, ७२.  
कठिनो(प-उ)पचिवा(त-अ)ङ्ग<sup>०</sup>-  
-ज्ञाः अप ६८, १, ४०.  
कठेर- पाठ १, ५८.  
कठोर- पाठ १, ६४.  
कठ<sup>०</sup>- पा ४, ३, १०७; -डाः बन्धू  
२ : ३; -दानाम् बन्धू २:३३;  
-डेः काथीसं ३१ : १६; ३२ : १.  
काठक<sup>०</sup>- -कम् या १०, ५;  
-काः आपथी २१, २३, ६;  
हिथी १६, ८, ९; -के पा ७, ४,  
३८; वीण ३, १, २५; वाघ १२,  
२४; ३०, ५; साय १, २६७;  
माशि ६.  
काठक-चातुर्मास्य- स्थेषु  
आपथी १९, १५, ७; हिथी २३,  
३, २७.  
काठक-मसि(द>)दा-  
-दा काण्ड ४३ : १५.  
काठका (क-म) मि<sup>०</sup>-  
-मीनाम् आशिण ३, ८, ३ : २५;  
वीणि १, १६ : ११.  
काठकाग्नि-चिति- -वी

आशिण ३, ८, ३ : २३; वीणि  
१, १६ : ९.  
कठ-कालाप- पाग ६, २, ३७.  
कठकालान-वृत्त- -तेषु नाशि  
१, १, ९.  
कठ-कौशुम- पाग ६, २, ३७; -माः  
दाण्ड ३, २, ३१.  
कठ-मैत्रा (प्र-सा)दि-स्थ-  
-त्रेषु काथीसं २७ : २.  
कठ-काठ- (> काठशाठिन्- पा.)  
पाग ४, ३, १०६.  
कठ-श्रुति- -जेः काठश्री ६.  
कठ-सूय- -धात् काठश्री ५.  
कठाकु- पाठ ३, ७७.  
कठिण<sup>०</sup>- (> कठिणिन्- पा.)  
पाग ५, २, १३१.  
कठेरणि<sup>०</sup>- (> काठेरण- पा.) पा, पाग  
२, ४, ६९.  
✓कडू पाधा. भ्वा. तुदा. पर. मदे.  
कडूर<sup>०</sup>-> श्रिय-, कृष्य- पा ५, १,  
६९.  
कडूर- पाठना ३, १३३.  
कडव- पाठ ३, १०६.  
कडम<sup>०</sup>- पा, पाग २, ४, ६३<sup>०</sup>.  
कडम्य- पाठ ४, ८२.  
कडार<sup>०</sup>- पाठ ३, १३५<sup>०</sup>; पाग २, ४,  
३१, -राः पा २, २, ३८; -रात्  
पा १, ४, १; २, १, ३.  
कडोल- पाठना १, ६३.  
✓कडू पाधा. भ्वा. पर. कार्कश्ये.  
✓कण्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. शब्दे गती ष;

चुरा. उभ. निमीलने, कणति  
निष २, १४<sup>०</sup>.  
१कण<sup>०</sup>- पाग ४, १, ४१; ५, ४, ३<sup>०</sup>;  
-णः या ६, ३०<sup>०</sup>; -णाः  
अत्र ११, ३<sup>०</sup>; -गान् काथी  
२, ४, २३; ३, ८, ७; षोण्ड  
४, ६, १३; दाण्ड ४, २, २;  
विष ५१, १; ५२, १०; -जैः  
आशिण २, १, ३ : ११; ४ : २४;  
हिण्ड १, १५, ५; २, ३, ७ अप  
३६, ११, १.  
कणी- पा ४, १, ४१.  
कण-क<sup>०</sup>- पा ५, ४, ३.  
कण-विण्यारक-नाक- -त्राणि  
वीध ४, ५, २२.  
कण-विण्यारक-पावक-दधि-पयो-  
-वदल- -वम् वीध २, १०,  
५६.  
कण-वृत् काथी ४, ३, ६.  
कण-सर्प- -पै. वैण्ड १, ५ : ३.  
कण-सर्प-यव- -वानाम् वाण्ड  
२, ११.  
कणि<sup>०</sup>- -कः माथी ५, १, ५,  
२६.  
क(ण-क>) गिका<sup>०</sup>- -का  
याशि १, ११.  
कणि<sup>०</sup>- पाठभो २, ३, १४६<sup>०</sup>;  
-नम् वीध ३, २, ११.  
२कण-> कणे-धात<sup>०</sup>- -तः या ५,  
११.  
कणे-मनम्- -नासो पा १, ४, ६६.

a) तु. पागम. । b) विप. । दस. > वस. । c) = वैशंपायनशिल्प-, नाप. (चरण-) । व्यु. ? ।  
d) = शाखा-, तदभ्यासिन् प्रच. । तुज् प्र. (पा ४, ३, १२६) । तदधीत इति पक्षे प्र. लुक् । e) वस. उप. = स्थण्डिल- ।  
f) तु. पासि. । कक्ष्य- इति माण्डा., कक्ष्य- इति पाका. । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । h) = भूसा(नमा.) ।  
व्यु. ? । i) व्यप. । व्यु. ? । j) नाप. । व्यु. ? । k) < ✓गडू इति । l) स्रष्टारुणां इति या. । या ६, ३०  
पावा ७, ४, ३ पराण्डः द. । m) वैप १ द. । n) = लोहोपकरण- । o) विप. । मत्वर्थे ठन् प्र. ।  
p) = सुकम-रजसू- । स्वार्थे कः प्र. । q) = घान्यस्तम्ब- । मत्वर्थिः इराच् प्र. उर्स. (पा ५, २, ११७) ।  
r) । < ✓कण् इति । s) = श्विलापातिराय- ।

कणे-हत- -तः या ५, ११.  
 कणीक- पाठना ४, २६.  
 कणीचि- पाठ ४, ७०.  
 कणूक- पाठभो २, २, २७.  
 ✓कण्ट<sup>१</sup>, कण्टि निघ २, १४<sup>१</sup>.  
 कण्ट<sup>२</sup>- अट्टेषु विध ४३, ४३<sup>१</sup>.  
 कण्टक<sup>३</sup>- पाग २, ४, ३१; ४, २, ८०<sup>४</sup>;  
 ५, २, ३६; -कः या ९, ३२<sup>५</sup>क<sup>६</sup>;  
 -कम् अप ३६, ११, १; -कैः  
 आपथो २२, ४, २५; काथो २२,  
 ३, २२; हिथो १७, २, २९; अप  
 २६, ५, २; विध ४३, ३५.  
 काण्ट(क>)की<sup>७</sup>- कीम्  
 आपथो १५, १, १; २, ५, ११; ७,  
 १; ११, ९; माथो १३, १, १, २;  
 ५, १४; ११, १०; १२, ७; हिथो  
 २४, १, १; २; २, ५; ११; ५, २;  
 वैथो १३, १ : ४.  
 कण्टकमर्दन- (> काण्टकमर्दनिक-  
 पा.) पाग ४, ४, १९.  
 कण्टक-श(व्य>)व्या<sup>८</sup>- व्यया  
 कौनु ३५, २८.  
 कण्टक-शाथिन्<sup>९</sup>- -थिनः वैध १,  
 ८, १.  
 कण्टक-शात्मलि<sup>१०</sup>- -लिः विध ४३,  
 १९.  
 कण्टकिक<sup>११</sup>- पा ४, २, ८०.  
 कण्टकित- पा ५, २, ३६.  
 कण्टकिन्- -किनः प्राय ४, २, ८;  
 द्विपि १ : ६; यासि १, ३५;  
 नासि २, ८, ४; -किनम् आसिप  
 २, ३, ५ : २.  
 कण्टकिनी- नीम् गौपि १,

४, ४; सुध ५६.  
 कण्टकि-क्षीरिन्- -रिणः आरु  
 २, ७, ५; ४, १, १४<sup>११</sup>.  
 कण्टकि-ज- -जम् विध ६६, ७;  
 ८; -जानि विध ७९, ५; ६.  
 कण्टकिल- पा ४, २, ८०.  
 कण्टको(क-ऊ)पर-वत्- -वति  
 काध २७७ : १<sup>१</sup>.  
 कण्टकार<sup>१२</sup>- (> काण्टकार- पा.)  
 पाग ४, ३, १५४.  
 कण्टकारिका<sup>१३</sup>- पा, पाग ४, ३,  
 १६७.  
 ✓कण्ट पाथा. भ्वा. आम्. चु. उभ.  
 शोके, कण्टति निघ २, १४<sup>१२</sup>.  
 कण्ट<sup>१४</sup>- पाठ १, १०३; -पटः आथो  
 १२, ९, ४; अप, -पटम् काथो  
 २५, १०, ७; माथो; -पटस्य  
 श्रपा १३, १; पासि २०; -पटत्  
 कायु ४६ : १४; मासु ३, १९;  
 मासि १, ११, १२; नासि १, ५,  
 ५, ६, -पटो शाथो ४, १४, २१;  
 काथो; -पटेन मासि ४, ४; -पटेषु  
 काथो १६, १, १८.  
 कण्ट-नाडु- पाग २, २, ३७.  
 कण्ट-गत- -गेन मासि ४, ५.  
 कण्ट(ग>)गा- -गामिः वाध ३,  
 ३२, शंघ ९३; ९४, वैध २,  
 १०, १.  
 कण्ट-ज- -जाः शैथि ४२.  
 कण्ट-पालु-> लव्य- -व्यौ शैथि  
 ४४, पासि १९; आसि १, २२.  
 कण्ट-देश- -शे अप ४७, २, ६.  
 कण्ट-नासिका-> -मिक्थ- -मयम्

आसि १, २०.  
 कण्ट-पृष्ठ-भीवा-जह- -हम् पा ६,  
 २, ११४.  
 कण्ट-प्रावृत-> एत(त-अ)वमविध-  
 का( का-अ) पाश्र्वगण-पाश्र्वप्रता-  
 रण- -गानि गौध २, २०.  
 कण्ट-यन्व<sup>१५</sup>- -यम् माथो ५, १, ५,  
 ३५.  
 कण्ट-विल- -लम् आसि ८, १;  
 -लस्य आसि ८, २०, २१; -ले  
 आसि ८, १०.  
 कण्ट-मात्र- -त्रम् सुधप ८७ : ९.  
 कण्ट-युक्त- -कम् नासि १, ३, ३.  
 कण्ट-शीथ-समाहत- -तः नासि १,  
 ५, ८; ९.  
 कण्ट-सक्त- -के वैशु १, ५ : १२.  
 कण्ट-स्यान- -नम् नासि १, ७, २.  
 कण्ट-स्यान<sup>१६</sup>- -नौ तेषा २, ४६.  
 कण्ट-हस्त- -स्तेन अप १, २७, ४.  
 कण्टे-विद<sup>१७</sup>-> वाण्टेविधि- -धिः  
 वौश्रय ४५ : ४.  
 काण्टेविद्धी-, काण्टेविद्धया-  
 पा ४, १, ८१<sup>१७</sup>.  
 कण्टो(एठ-उ)कि<sup>१८</sup>- -कि मासि  
 १२९.  
 कण्टो(एठ-उ)रस- -रसोः तैप्रा २,  
 २.  
 कण्टो(एठ-हो)ह-> एठ-ज- -जौ  
 शैथि ४४; पासि १९.  
 कण्टो-व्य- -व्यौ आसि १, २३.  
 कण्ठ्य, षट्वा- -षट्यः श्रपा १,  
 २८; द्रुपा ४, ४९; -षट्यम् अप  
 ४७, २, ७; पासि १६; यासि २,

a) = धान्य-श्लोक । वैप १ द. । b) या ९, ३२ परामृष्टः द. । c) = कण्टक- । व्यु. ? । d) षट्टेषु  
 इति जीर्ष. । e) <✓कृत् वा ✓कण्ट वा कम् (< किम्-) + तप- (<✓त्) वेति या. । वैप १ द. ।  
 f) षट्ट-द्रु. पाका. । g) विप. । मत्पर्यायः जम् प्र. (पा ५, २, १०३) । h) विप. । वस. । i) = वानप्रस्थ-  
 विशेष- । j) = नरक-विशेष- । k) = देश-विशेष- । l) पाठः ? 'यन्व-स्यल' इति शोधः संभाव्येत ।  
 m) = श्लेष-विशेष- । व्यु. ? । n) धा. शती इतिः । o) वैप १ द. । p) = ऋषि-विशेष- । q) षट्ट इति पाठि. ।

५७; -ण्ठ्ययोः ऋप्रा १४, १२;  
-ण्ठ्यस्य ऋप्रा १३, १२; याशि  
२, २०; -ण्ठ्या शुप्रा १, ७३,  
-ण्ठ्याः शुप्रा १, ८४; ८, ३२;  
सौमि ३२४; याशि २, १; १४;  
आसि १, ७, -ण्ठ्याम् ऋप्रा १४,  
३१; शुप्रा ४, ५३; -ण्ठ्यानाम्  
शौच १, १९; -ण्ठ्याभिः दौघ  
१, ५, १८; -ण्ठ्ये ऋप्रा १४, ६२;  
ऋत ५, ३, ५; -ण्ठ्यौ ऋप्रा २,  
१२; ६२; पाशि १७.

कण्ठ्य-विज्ञानमूलोद्य-तालव्य-म्-  
धे-य-द्वन्द्वो(न्य-यो)ठ्य-प्रमा-  
(म-थ)नुस्वार-विमर्जनीयो(य-उ)  
पद्मानीय-नासिनया(क्य-अ)नु-  
नासिनय-रङ्ग-डा-याशि २, १.  
कण्ठ्य-द्वन्द्व-पर-रे ऋत ४,  
१, ७.

कण्ठ्य-पूर्व-र्वेः शुप्रा ४, ३८.  
कण्ठ्य-स्वर-रः मासू ३, ११;  
-रम् शुप्रा ७, २.

✓कण्ठ पाषा. भ्वा. ध्यात्. पर. मवे;  
नु पर. भेदने.

कण्ठन<sup>१</sup> -> णी-नी शेष १३२;  
विध ५९, १९.

कण्ठन-मन्त्रालन-ने विध २३,  
३५.

क(एक->)ण्डिका-के शुभ ३,  
१३६.

१कण्ड, ण्ड<sup>२</sup> - पाठमो २, १, ५१०;  
पाग ३, १, २७, ५, २, १०७; ४,  
३४; पावा ५, २, १०७.

काण्डविक-पा ५, ४, ३४.

कण्डु, ण्ड<sup>३</sup>-ल- पा ५, २, १०७.

कण्डू/क>कण्डू-रु(त>)  
ता<sup>४</sup>-ता बौधो १६, २४; १३;  
२६, १८; ७.

✓कण्डूय पा ३, १, २७; कण्डूयते  
आपथो १०, १०, २; बौधो ६, ५;  
२१; माथो १०, ६, १६; ८, ३; माथो  
२, १, २, १३; वैथी १२, ९; ७;  
हिथी १०, २, १०; ६७; कण्डूयति  
माथी १०, ६, १६; कण्डूयति  
बौधो ६, ६; ३; कण्डूयस्व  
बौधो ६, ५; २२; कण्डूयते  
माथी २, १, २, १४, २, ४, ४४;  
कण्डूयते कौट ३, ११, १९; काश  
४, १२, १८; विध ७३, ५३;  
कण्डूयथाः बौधो ६, ६; २.

कण्डूनि-रथ्याम् वैथी १२,  
९; ७.

कण्डूय<sup>५</sup> बौधो २८, ९; २३;  
वैथी २१, २; ९.

कण्डूयन<sup>६</sup>-नम् विध २३,  
६०; काथो ७, ३, २६; माथो  
१०, ९, ८; -ने काथो ७, ४, ८,  
मीम् ११, ४, ४९.

कण्डूयनी-न्या  
काथो १५, ६, ८.

कण्डूयन-मन्त्र-न्त्रः  
हिथी १, ४१.

कण्डूयन-स्वप्न-नदीवरा-  
(र-अ)वर्षणा(श-अ)मेघ-प्रति-  
मन्त्रण-गेपु आपथो २४, १,  
४०.

कण्डूयमान-नम् वैथी  
१२, ९; ९.

कण्डूका(रुड-आ)दि-दिभ्यः

पा, पावा ३, १, २७; -दिपु  
पावा ३, १, ११; -दीनाम् पावा  
६, १, ३.

कण्डर<sup>७</sup>-(>✓कण्डराव पा.) पाग  
३, १, १२१.

कण्डिनी<sup>८</sup>-(>काण्डिन्य- पा.)  
पाग ४, १, १०५, २, १११.

२कण्डु(>काण्डव-) १कण्डु-दि. द.  
कण्डूल-पाठमो २, ३, ११२.

कण्डोल, कण्डु-(>कण्डोल-पाठ-  
कण्डोल-क-माद- पा.) पाठयु  
१, ६६; पाग ५, ४, १३८.

कण्डुवा<sup>९</sup>->✓कण्डुवाय पावा ३,  
१, १७.

कण्व<sup>१०</sup>- पाठ १, १५१; पाग ४, १,  
१०५; २, १११; -ण्वः अर ४८,  
८५; विध ३, १५१; आपथ १,  
१९, ३; हिथ १, ५, १०५; ऋथ  
२, १, ३६, १, ४४; वृदे ६, ३५;  
३७; शुभ २, ४४; ३१०; ३,  
२४६, ४, ३९; साथ १, ५४;  
१३६; २२१; -ण्वस्य ऋथ २,  
८, १; वृदे ६, ३६; सा ३, १७;  
-ण्वाः<sup>११</sup> आपथो १३, २१, ३१;  
२४, ८, २; बौधो २२; १;  
३; हिथी १, ५, ४२१; विस् ४,  
८; ५; वृदे ४, ९८; तैप्रा १३,  
९१; -ण<sup>१२</sup>ण्वाः काश २२, १;  
सा ७, २१; -ण्वानाम्<sup>१३</sup> आपथो  
१२, १३, १; वैध ४, ३, ५;  
-ण्वाय भाग ३, ११; ३; या  
६, ६१; -ण्वासाः ऋप्रा ४,  
६११.

१काण्व<sup>१४</sup>-ण्वय आपथो १२;

a) माप., नाप. (अजशोभन-सायन-). b) गात्रविपर्ययो धा. वृत्तिः। c) <✓कण्व इति। d) ण्डु-  
इति पाका., ण्डु इति पागम., कण्डु- इति भाण्डा.। e) तु. पागम.। f) = उपध्वता-। g) = कण्डूयिता।  
h) तु. पाठि.। कुण्डिन- इति पाका., कुण्डिनी- इति माण्डा.। i) = कृपा- (तु. पागम.)। j) वैप १ द.।  
k) वैप १, १०८३ च द.। l) वैप १, १०८४ च द.।

कणे-हत- -तः या ५, ११.

कणीक- पाठना ४, २६.

कणीचि- पाठ ४, ७०.

कणूक<sup>१</sup>- पाठभो २, २, २७.

✓कण्ट<sup>२</sup>, कण्टति निघ २, १४<sup>१</sup>.

कण्ट<sup>३</sup>- ष्टेपु विध ४३, ४३<sup>१</sup>.

कण्टक<sup>४</sup>- पाग २, ४, ३१; ४, २, ८०<sup>१</sup>;  
५, २, ३६; -क. या ९, ३३<sup>१</sup>०<sup>१</sup>;  
-कम् अप ३६, ११, १; -कैः  
आपथी २२, ४, २५; काथी २२,  
३, २२; द्विथी १७, २, २९; अप  
२६, ५, २; विध ४३, ३५.

काण्ट(क>)की<sup>५</sup>- कीम्  
आपथी १५, १, १; २, ५, ११; ७,  
१; ११, ९; माथी ११, १, १; २;  
५, १४, ११, १०; १२, ७; द्विथी  
२४, १, १; २; ३, ५; ११; ५, २;  
वैथी १३, १ : ४.

कण्टक-मर्दन- (>)काण्टकमर्दिक-  
पा.) पाग ४, ४, १९.

कण्टक-श(व्य>)लया<sup>६</sup>- ल्यया  
कौमु ३५, २८.

कण्टक-साधि<sup>७</sup>- -विनः वैध १,  
८, १.

कण्टक-शाहमलि<sup>८</sup>- लि. विध ४३,  
१९.

कण्टकि<sup>९</sup>- पा ४, २, ८०.

कण्टकित- पा ५, २, ३६.

कण्टकिम्- -किनः द्राय ४, २, ८;  
द्विपि १ : ६; याशि १, ३७;  
नाशि २, ८, ४; -किनम् आद्रिय  
२, ३, ५ : ३.

कण्टकिनी- नीम् गौपि १,

४, ४; सुध ५६.

कण्टकि-क्षीरि<sup>१०</sup>- -रिणः आयु  
२, ७, ५; ४, १, १४<sup>१</sup>.

कण्टकि-ज- -जम् विध ६६, ७;  
८; -जानि विध ७९, ५; ६.

कण्टकिल- पा ४, २, ८०.

कण्टको(क-उ)पर-वत्- -वति  
काध २७७ : १<sup>१</sup>.

कण्टकार<sup>११</sup>- (>)काण्टवार- पा.)  
पाग ४, ३, १५४.

कण्टकारिका<sup>१२</sup>- पा, पाग ४, ३,  
१६७.

✓कण्टु पाधा. भ्वा. आत्म. नु. उभ.  
शोके, कण्टति निघ २, १४<sup>१</sup>०<sup>१</sup>.

कण्ट<sup>१३</sup>- पाठ १, १०३; -ष्टः आथी  
१२, ९, ४, अप; -ण्टम् काथी  
२५, १०, ७; माथी, -ण्टस्य  
ऋप्रा १३, १; पाशि २०, -ण्टात्  
कायु ४६ : १४, माम् ३, १९;  
माशि १, ११; १२; नाशि १, ५,  
५, ६, -ण्टे शथी ४, १४, २१;  
काथी, -ण्टेन माशि ४, ४; -ण्टेपु  
काथी १६, १, १८.

कण्ट-भाडु- पाग २, २, ३७.

कण्ट-गत- -तेन माशि ४, ५.

कण्ट(ग>)गा- -गाभिः वाध ३,  
३२; शंध ९३, ९४; वैध २,  
१०, १.

कण्ट-ज- -जाः शैशि ४२.

कण्ट-नालु-> ल्व्य- -व्यौ शैशि  
४४; पाशि १९; आशि १, २२.

कण्ट-देवा- -दो अप ४७, २, ६.

कण्ट-नासिका-> -निकय- -नयम्

आशि १, २०.

कण्ट-वृष्ट-श्रीवा-जड- -डम् पा ६,  
२, ११४.

कण्ट-वावृत्-> वा(त-अ)वसविय-  
का( का-अ)पाध्रयण-पादप्रस्ता-  
रण- -गानि गौध २, २०.

कण्ट-बन्ध<sup>१४</sup>- -बम् माथी ५, १, ५,  
३५.

कण्ट-विल- -लम् आशि ८, ९;  
-लस्य आशि ८, २०; २१; -ले  
आशि ८, १०.

कण्ट-मात्र- -ग्रम् सुधप ८७ : ९.

कण्ट-मुक्त- -कम् नाशि १, ३, ३.

कण्ट-सौर्ष-समाहत- -तः नाशि १,  
५, ८; ९.

कण्ट-सक्त- -नेके वैशु १, ५ : १२.

कण्ट-स्थान- -नम् नाशि १, ७, २.

कण्ट-स्थान<sup>१५</sup>- -नौ तैप्रा २, ४६.

कण्ट-हात- -स्तेन अप १, २७, ४.

कण्टे-विद<sup>१६</sup>-> काण्टेविदि- -द्विः  
वौथीप ४५ : ४.

काण्टेविदी-, काण्टेविद्या-  
पा ४, १, ८१<sup>१</sup>.

कण्टो(ण्ट-उ)कि<sup>१७</sup>- -क्ति माशि  
१२९.

कण्टो(एठ-उ)रत्न- -रतोः तैप्रा २,  
२.

कण्टो(एठ-ओ)ष्ट-> ष्ट-ज- -जौ  
शैशि ४४, पाशि १९.

कण्टोऽव्य- -व्यौ आशि १, २३.

कण्ट्य, षण्ठा- -ण्ट्यः ऋप्रा १,  
३८; शुप्रा ४, ४९; -ण्ट्यम् अप  
४७, २, ७; पाशि १६; याशि २,

a) = धान्य-म्लोक्त । वैप १ द. । b) या ९, ३२ परामृष्टः द. । c) = कण्टक- । व्यु. ? । d) ष्टेपु इति जीतं । e) < ✓ हृत् वा ✓ कण्ट वा कम् (< किम्- ) + षप (< ✓ तृ ) वेति या. । वैप १ द. । f) सङ्घट्ट. पाक्र. । g) विप. । मत्वर्थायः षण् प्र. (पा ५, २, १०३) । h) विप. । वस. । i) = वानप्रस्थ-विशेष- । j) = नरक-विशेष- । l) = देश-विशेष- । k) पाठः ? 'वत्-व्यल' इति शोधः संभाव्यत । m) = श्लोपि-विशेष- । व्यु. ? । n) धा. गतौ इति । o) वैप १ द. । p) = ऋषि-विशेष- । q) ष्टे इति पात्रि. ।

५७; -ण्ठ्ययोः ऋत्रा १४, १२;  
 -ण्ठ्यस्य ऋत्रा १३, १२; याशि  
 २, २०; -ण्ठ्या शुभ्रा १, ७३;  
 -ण्ठ्याः शुभ्रा १, ८४; ८, ३२;  
 शीभि ३२४; याशि २, १; ९४;  
 आशि १, ७; -ण्ठ्यान् ऋत्रा १४,  
 ३१; शुभ्रा ४, ५३; -ण्ठ्यानाम्  
 शीघ १, १९; -ण्ठ्याभिः यौघ  
 १, ५, १८; -ण्ठ्ये ऋत्रा १४, ६२;  
 ऋत ५, ३, ५; -ण्ठ्यौ ऋत्रा २,  
 ३२; ६२; पाशि १७.  
 कण्ठ्य-विह्वाम्बुलीय-तालम्ब-मू-  
 धेन्व-द्रुम्बो(न्व-ओ)उन्-पमा-  
 (म-आ)नुरवार-विमर्जनीधो(प-उ)  
 पप्मानोय-नासिन्मा(क-अ)नु-  
 नासिन्व-रङ्ग-ज्ञा. याशि २, १.  
 कण्ठ्य-द्वन्द्व-पर-रे श्रा ४,  
 १, ७.  
 कण्ठ्य-पूर्वे-वेः शुभ्रा ४, ३८.  
 कण्ठ्य-स्वर-रः भास् ३, ११;  
 -रम् शुभ्रा ७, २.  
 ✓कण्ठ् पावा. भ्या. आतन. पर. भेदे;  
 तु. पर. भेदेने.  
 कण्ठन<sup>१</sup> > णी-नी शेष १३२;  
 विघ ५२, १९.  
 कण्ठन-प्रसालन-ने विघ २३,  
 २५.  
 क(ण्ठक) > ण्डिका-के श्रुय ३,  
 १३६.  
 १कण्ठ्, ण्ठ्- पाठभो २, १, ५१८;  
 पाग ३, १, २७; ५, २, १७७; ४,  
 ३४; पावा ५, २, १०७.  
 काण्ठविघ-पा ५, ४, ३४.  
 कण्ठ्, ण्ठ्- पा ५, २, ९७.

कण्ठ् ✓क > कण्ठ्-ट्(त) >  
 ता-न्ता वीधी १६, २४; १२;  
 २६, १८; ७.  
 ✓कण्ठ्य पा ३, १, २७; कण्ठ्यते  
 आपथो १०, १०, २; वीधो ६, ५;  
 २१; भाथो १०, ६, १६; ८, ३; माथो  
 २, १, २, १३; वैथो १२, २; ७;  
 द्विथो १०, २, १०; ६७; कण्ठ्यति  
 भाथी १०, ६, १६; कण्ठ्यात्  
 वीधी ६, ६; ३१; कण्ठ्यस्व  
 वीधी ६, ५; २२; कण्ठ्येत  
 माथी २, १, २, १४; २, ४, ४४;  
 कण्ठ्येत कीष्ट ३, ११, १९; श्राष्ट  
 ४, १२, १८; विघ ७१, ५३;  
 कण्ठ्यथाः वीधी ६, ६; २.  
 कण्ठ्यति-त्याम् वैथी १२,  
 ९। ७.  
 कण्ठ्यत् वीधी २८, ९; २३;  
 वैथी २१, २; ९.  
 कण्ठ्यन<sup>२</sup> -नम् विघ २३,  
 ६०; काथी ७, ३, २६; भाथी  
 १०, ९, ८; -ने काथी ७, ४, ८;  
 मीष्ट १२, ४, ५९.  
 कण्ठ्यनी-न्या  
 काथी १५, ६, ८.  
 कण्ठ्यन-मन्त्र-मन्त्रः  
 द्विथी १, १, ४१.  
 कण्ठ्यन-स्वप्न-नदरिक्ता-  
 (र-अ)वर्षणा(श-अ)भेष्य-प्रति-  
 मन्त्रण-गेपु आपथी २४, १,  
 ४०.  
 कण्ठ्यमान-नम् वैथी  
 १२, ९; ९.  
 कण्ठ्या(एउ-आ)दि-दिभ्यः

पा, पावा ३, १, २७; -विपु  
 पावा ३, १, ९१; -दोनाम् पावा  
 ६, १, ३.  
 कण्ठर<sup>३</sup> (> ✓कण्ठराय पा.) पाग  
 ३, १, १२१.  
 १कण्ठनी<sup>४</sup> (> काण्ठन्य-पा.)  
 पाग ४, १, १०५, २, १११.  
 २कण्ठ (> काण्ठव- १खण्ड-टि. द.  
 कण्ठल- पाठभोष्ट २, ३, ११२.  
 कण्ठोल, क- (> कण्ठोल-पाद-  
 कण्ठोल-क-पाद-पा.) पाठभु  
 १, ६६; पाग ५, ४, १३८.  
 कण्ठ्या<sup>५</sup> > ✓कण्ठ्याय पावा ३,  
 १, १७.  
 कण्व<sup>६</sup> पाठ १, १५१; पाग ४, १,  
 १०५, २, १११; -ण्वः अप ४८,  
 ८५१; निघ ३, १५४; आपथ १,  
 १९, ३; द्विघ १, ५, १०५; ऋष  
 २, १, ३६; ९, ५४; वृदे ६, ३५;  
 ३७; श्रुय २, ४४; ३१०; ३,  
 २४९; ४, ३९; साम १, ५४;  
 १३६; २२१; -ण्वत्य ऋष २,  
 ८, १; वृदे ६, ३६; या ३, १७;  
 -ण्वाः<sup>७</sup> आपथी १३, २१, ३१;  
 २४, ८, २; वीथीय २१; १;  
 ३; द्विथी ९, ५, ४२१; निघ ४,  
 ८; ५; वृदे ४, ९८; तैषा १३,  
 ११; -ण्ण्वाः श्राष्ट २२, १;  
 या ७, २१; -ण्वानाम्<sup>८</sup> आथी  
 १२, १२, १; वैध ४, ३, ५;  
 -ण्वाय भाष्ट ३, ११; ३; या  
 ६, ६१; -ण्ण्वासः ऋत्रा ४,  
 ६११.  
 १काण्व<sup>९</sup> -ण्व आपथी १२;

a) भाष., नाप. (अनसोपन-साधन-). b) गानविषयणे भा. श्रुतिः। c) < ✓कण् इति। d) ण्ठ-  
 इति पात्रा., ण्ठ् इति पागम., कण्ठु- इति भाषा.। e) तु. पागम.। f) = लण्वत्ता-। g) = कण्ठ्यिता।  
 h) तु. पाशि.। कुण्ठन- इति पाका., कुण्ठनी- इति भाषा.। i) = ण्ण्वा- (तु. पागम.)। j) वैप १ द.।  
 k) वैप १, १०८३ ष द.। l) वैप १, १०८४ ० द.।



सु २९, २.

कटु-नामन्- मा सु २, १.

कटु-पुत्र- यान् आमिष्ट २, ४, ८ :

१; -त्रैभ्यः आमिष्ट २, ४, ८, १५.

कटुयच्, च्च्- किम्- द.

कटुविन्दुकोष्ठ<sup>१</sup>- -ष्टेः कौसुष्ठ ८, ३०.

क<sup>२</sup>क<sup>३</sup>> कथ-मी<sup>४</sup>- -०प्रियः शार्धो

१०, १०, ८१.

क<sup>५</sup>क<sup>६</sup> पाषा. भ्वा. पर. दीप्तिकान्ति-

गतिषु, क<sup>७</sup>क<sup>८</sup>तिश्च ४८, ३; निघ

२, ६.

क<sup>९</sup>चाकन् शार्धो ८, ११, ४<sup>१</sup>;

अप ४८, ३; निघ २, ६; ३;

११; क<sup>१०</sup>चाकन् शार्धो १८, १, ६;

वैताधो ३२, १०; निघ ४, ३; या

६, २८६.

क<sup>११</sup>कानियत् अप ४८, ३; निघ

२, ६; कानियः शार्धो ५, ४, ६१.

कनर<sup>१</sup>- पाठश्च २, ३२; -कम् अप

४८, ११; ६८, ३, ४; अर्शा १२,

३; वाप २८, १७, विष ९, ४;

७८, २१, निघ १, २१; या १४,

३०, -का अप १४, १, ८; ५२,

२, ५१, ६, २, -कानाम् अप १७,

१, ८; -के अप ६७, ८, २.

कनक-किजलक-नदित्-कल्प-

-रुपाः अप ५८, १, ७.

कनक-विह(ल)>ला- -र्याः अप

६८, १, १३.

कनक-मजिरजन-शङ्ख-शुक्ल(कि-अ)

रुद्रो(रुद्रो)वल- -रानाम् सुप

२७.

कनक-जन- -गम् निघ ७८, ४७.

कनका(क-आमा>)स<sup>१</sup>- -मः

मासि १, १३; नासि १, ४, १.

कन<sup>२</sup>> ३कनिष्ठ, छा- पा ५, ३, ६४;

पा, पाग ४, १, ४; -ष्टम् वैष्ट ६६:

२; -ष्टया वैधो १२, १७ : १७;

१८; वाप २४, १३; -छायाम्

मासि २, २; नासि १, ७, ४.

कनिष्ठ-कुल->कनिष्ठकुलीन<sup>३</sup>-

-मस्य शार्धो १४, ३१, १.

कनिष्ठा(ष्ट-अ)कुलि-नाह<sup>४</sup>- -हाः

वैधो ११, ११ : २.

कनिष्ठा(ष्ट-अ)कुलि-मूल- -लम्

वैष्ट १, ५ : ७.

कनिष्ठा(छा-अ)हुष्ट- -ष्टयोः कप्र

१, १, ७.

कनिष्ठाहुष्ट-योग- -गेन शंष

४५७-४५८. ४.

कनिष्ठा(छा-आ)दि- -दि वैष्ट ३,

२२ : १०.

कनिष्ठाद्य(दि-अ)कुल्य(लि-

अ)म- -माणि वैष्ट २, ६ : ८-९.

कनिष्ठाद्ये(दि-ए)कैका(क-अ)

कुलि- -रुपा वैधो १२, १७ १६.

कनि(ष्ट-क)>ष्टिका<sup>५</sup>- पाग

५, ३, १०५<sup>६</sup>; -कया वाधो ७,

७, १३; आपधो १०, २४, ८;

आमिष्ट २, ३, १ : १; वैष्ट ६६ :

२; -कियत् वैष्ट १, २ : ८<sup>७</sup>;

-का कौसि ३८; -कायाम्

आमिष्ट २, ६, १ : १०, शीसि

१७२; -के वैधो १२, १० :

२; २२ : २१.

कानिष्टि- पा ५, ३,

१०७.

कनिष्ठिका-जल- -रुयोः शंष

५४.

कनिष्ठिका-जम्(ः) आपधो<sup>१</sup>

१०, ५, १२; भाधो १०, ३, १९;

माधो १, ४, १, ३; २, १, ४, ३;

द्विधो ७, १, ३८.

कनिष्ठिका-अमृति- -तिभिः

माधो २, १, ४, ३.

कनीयस्- पा ५, ३, ६४; -यः

शार्धो १५, २२, १; आपधो ४,

८, ५१, ६, ११, ३, १६, २७, २११<sup>२</sup>;

बोधो १, १२ : ५४××; भाधो;

-य-ऽयः आपधो १०, ६, ९;

भाधो १०, ४, ६; वैधो १२, ७ :

२; द्विधो १०, १, ४२; -यसः

बोधो २ : १; -यसम् जैष्ट १,

३ : ५; -यसा या ३, १३;

-यसाम् बोधो १८, २६ : ३;

२६, ३३ : १; विष ३२, ४;

-यसि शार्धो ९, ३, २१; लाधो

३, ७, ७; -यांसः शार्धो १५,

२६, १<sup>३</sup>; तैषा १६, १२१<sup>४</sup>;

-यांसम् बोधो २, ९ : २२;

आपधो १०, १४१<sup>५</sup>; बोधो ५ :

१२१<sup>६</sup>; द्विधो ३, ५४१<sup>७</sup>, या ३,

१३; -यामि वाधुधो ४, १०० :

१; -यामो निम् ६, १२ : ९;

-यान् वाधुधो ३, ८३ : १०;

निम् २, १२ : २८; लाधो ६,

७, ५; बोधो २, ६, ३२१<sup>८</sup>; १०,

८; वृदे ४, १२; ६, ३६; ७, १३;

१५६; या २, १०.

a) विर. । बल । b) अर्थः ध्यु. चरि । c) वैष्ट १ द. । d) या ४, १५ पराण्टः द. । e) पाणे. वैष्ट १, ११७१ व द. । f) = सुवर्ण, तद्वर्णम्. । g) = [गनेधरल्ल] प्रह-विशेष- । h) अत्यार्थे लः > ईनः प्र. (पा ४, १, १२९) । i) कस. > बल. । j) = कनिष्ठा- । l) कपिष्ठिका- इति [पक्षे] पाति., कपिष्ठिक-, पिष्ठिका- इति पादा. । कनिष्ठिक-, पिष्ठिका- इति [पक्षे] भाण्डा. । l) पाठः ? कनिष्ठस्य (द्र. मू. ०.) यद्वा कनिष्ठस्य इति शेषः ।

कनीयसी- सी श्य ५९, १,  
६; -सीम् वैश्री २, ४ : ९; जैय  
१, २० : ३; -स्याः शेष ५७;  
४५६.

कनीयसाम्-उक्यम्- -क्यः  
वीथी १८, २६ : २; २६, ३३ :  
१.

कनीयो(सम्-अ)क्ष (र>)श<sup>०</sup>-  
-नाभिः सुसु १, ७ : २६.

कनीयो-वादिन्- -दी मासु  
३, ६.

कनक- प्रत्य. √कन् द्र.

कनखल<sup>०</sup>- के विष ८५, १४.

कनल<sup>०</sup>- (>कानलक<sup>०</sup>)- पा ४, २,  
८०.

१<sup>०</sup>कनि-> १<sup>०</sup>कनीन, ना<sup>०</sup>- नः  
आश्री ९, ५, १६; -नाः सांश्री  
८, २०, १; -ने<sup>०</sup>आपथी ७, ५, १;  
माश्री ७, ४, १; वैश्री १०, ४ :  
१३; द्विथी ४, १, ६२.

२<sup>०</sup>कनि-> कनी<sup>०</sup>- कनीनाम् आपमं  
५, १२; आश १, ४, ८; काश १६,  
७; या १०, २१६.

३<sup>०</sup>कन्ध-> ३<sup>०</sup>कन्ध-ल(>)ला-  
-ला आपमं १, ४, ४; वीथ १, ४,  
१७; गोथ २, १, ८; जैथ १,  
२१ : २०<sup>१</sup>; द्राथ १, ३, २४;  
-लाः अथ १४, २; अथा २,  
१, १.

४<sup>०</sup>कन्ध-> न्या<sup>०</sup>- पाठ ४, ११२;  
पाग ६, २, १९४; कि ७६;  
-न्ययो या ४, १५; -न्या आश्री  
२, ८, ३१<sup>१</sup>; ३, ७, ६१<sup>१</sup>; ५, २०, ६;  
१<sup>०</sup>माश्री ६, १०, २; १२, २१, ३;

४; द्विथी २२, ३, ४<sup>१</sup>; पाथ  
१, ६, २१<sup>१</sup>; आश्रि ३, १०, १ :  
६; काथ १७, ३; वीथ ४, १, ९-  
११; वीथि ३, ५, २; माथ १, ८,  
२; वाथ १३, ४; १<sup>०</sup>१४, १८<sup>१</sup>;  
२१<sup>१</sup>; वैथ ३, १ : ३; जैथ १,  
२१ : २३<sup>१</sup>; कथ १, ६, १३;  
१४; अथ १, ४२, ८; ४४, ३; १४,  
१, ८; ६८, २, १९; ४४; ६९, ४, ५;  
सुथ ८८:६; वीथ ४, १, १७<sup>१</sup>;  
विथ २४, ४०; ४१<sup>१</sup>; वाथ १७,  
६५; ७३<sup>१</sup>; शेष २७६; २९८;  
अथ २, ८, ११<sup>१</sup>; वृथे ५, ५०;  
६, ७६; ९९; १०१<sup>१</sup>; १०७; या  
२, २७; ४, १५६; आश्रयो ३,  
६<sup>१</sup>; १४, १; ५; -कन्याः  
आपथी १७, १८, १; आपमं  
१, ५, ७; आथ १, ७, १३<sup>१</sup>;  
वीथ १, ११, ४<sup>१</sup>; वाथ १,  
१८, ३<sup>१</sup>; १<sup>०</sup>काथ १७, २; २५,  
३०; २५, वीथि २, १, १२<sup>१</sup>;  
माथ १, ११, १३; २, १४,  
१५; वाथ १३, ४<sup>१</sup>; द्विथि  
१२ : ११, काथ २८० : १;  
वृथे ३, १४६; -न्यानाम्  
शाथ १, २८, २२; वीथ ३,  
१३, ८; वीथि २, ३, ११,  
३, ६, १; शेष ३४९; या १०,  
२१; आश्रयो ३, ५; -न्याम्  
आश्री ५, १२, १७; माश्री ७,  
१६, १४; माश्री ४, ७, २;  
आथ १, ५, २; ६, १; वीथ १,  
२, ७, १<sup>१</sup>; ८, १३; ९,  
१३; शाथ १, ६, ४; ११, १;

२, ४; १२, ११; १५, ९; आश्रि  
१, ६, १ : २; काथ १७, १; २१,  
१; माथ १, ७, ८; १०; ८, ९;  
११; १०, ७; ११, ६; वाथ १०,  
८; १३, १; ६; १४, १३; वैथ  
३, ११४; ६-८; २१२;  
५, ९ : ८; १०; ६, १२-१३ :  
१; अथ १, १०, २; ३६, ६, १;  
६८, ४, २; वाथ १, ३१; १७,  
१७; ७०; ७१; वीथ ४, १, १२;  
१३; विथ ५, ४५; १६०; २४,  
३३; ७८, २७; वीथ ९, २२;  
काथ २८१ : ८; वृथे ५, ५६;  
६६; ७६; आश्रयो ३, ६; १३,  
६; -न्यायाः वीथ १, २, ३;  
शाथ १, ६, ६; काथ १४, ६;  
२५, २०; वाथ ३, ३; ४, २५;  
१३, २; वैथ ३, १९ : १०; ५,  
११ : ७; ६, ४ : २; १३ : ३;  
अथ ३६, ६, ३; वृथे ५, ६०;  
-न्यायाम् शेष ३३२; ३६६;  
-न्याये काथ १८, १; -न्यासु  
वीथ १, ५, ९४; काथ २८२ : २;  
-०न्ये माथ १, १०, १७<sup>१</sup>.  
कन्यका- पावाग ७, १, ४५;  
-का कथ १, १०, १२<sup>१</sup>; -काम्  
कथ १, ६, १५; -के<sup>०</sup> या ४, १५.  
कन्या-काम- नः अथ ३६,  
६, १.  
कन्या-कुमार- श्री वैथ ७, २ :  
७.  
कन्या-शामन-प्राथशित्त- -तम्  
वैथ ६, १२ : १४.  
कन्या-गृह- -तम् वैथ ३, २ :

a) वैप २, ३खं. द. । b) = तीर्थ-विशेष- । व्यु. ? । c) अर्थः व्यु. य ? । विप. इति ग्रन्थ. ।  
d) = देश-विशेष- । e) वैप १ द. । f) विप. (वेदि- ) । g) पाठः ? न्याः इति श्लोकः (व-  
काथ २५, ३० प्रथ. Old. च) । h) कन्यानाम् इति मैथ. । i) नारी इति BI ? । j) वैप १-  
१०८६ ४ द. ।

४; १०.  
 कन्या(न्या-अ) म्यु (मि-उ)-  
 पयस- मेषु गौध १८, १९.  
 कन्या(न्या-अ)दाह-याजक-  
 -कानाम् सुप १८६: ४.  
 कन्या-दान- नम् विध २४,  
 १९; ३७, १७; गौध १, ११, २;  
 -ने घृदे ३, १४४, -नेन वाध  
 २९, १८.  
 कन्या-नूपरु- -कः शंघ ३७७: १२  
 कन्या-नूपग- -णम् गौध २, १,  
 ४४.  
 कन्या-नूपिन्- -पी शंघ ३७८;  
 ४१६.  
 कन्या-नोयिन्- -नी शंघ ४१५.  
 कन्या( न्या-अ)मृत- -ने वाध  
 १६, ३४.  
 कन्यामृत-गवानृत- -तम् अघ  
 ९, ३, ४.  
 कन्या-प्रजा(जा-अ)र्ष- -र्षम्  
 आज्यो ८, ५.  
 कन्या-प्रद- -दः वैप २, १५:  
 १४; ३, २, ५, -दा: विध २४, ३८.  
 कन्या-प्रदान- -नम् आज्यो ८, ७  
 कन्या-भाग- -ता: शंघ २९८.  
 कन्या-यत्- -ते गौध १, ११,  
 ४; गौध ४, ८.  
 कन्या-विवाह- -हः वैषध ८, ६.  
 कन्या-सहस्र- -स्वेन अघ २०,  
 २, ७  
 कन्या-इरण- -णम् वैप ३, १:  
 १०.  
 कनिक्तत्- -कनतम् अघा ३, २,  
 १६१<sup>०</sup>.  
 रकनिष्ठ, घ्रा- \*कन- द.

रकनिष्ठ, घ्रा<sup>०</sup>- पाग ४, १, १२६;  
 फि २२; -घः वीधौ २, ९.  
 २०; कौस् ८१, ३३; ८५, २४;  
 -घम् शार्धो १५, २०, १; सु  
 ३०, ३; विध २६, २; -घस्य  
 आपधौ २, १९, ४; ६, ४, १;  
 वीधौ ३, ४: १८; भाधौ ६, ९,  
 १; २; वाधौ १, १, १, ४१; ५, २,  
 १२; हिधौ २, २, १९; ३, ७, १९;  
 वाध १७, ४४; -घा. काधौ २२,  
 ४, ५; निस् ६, ११: ३१; ३२;  
 -घानाम् शार्धो १४, ७२, १;  
 आपधौ २२, ५, १४, हिधौ १७,  
 २, ४२.  
 कानिष्ठिन्य- पा ४, १, १२६;  
 -यस्य आपधौ २, १९, ४; ६,  
 ४, १; वीधौ ३, ४: १९; भाधौ  
 ६, ९, १, २; वाधौ १, १, १,  
 ४१; ५, २, १२; हिधौ २,  
 २, १९; ३, ७, १९.  
 कनिष्ठ-जयन्<sup>०</sup>- -न्या: आघ ४,  
 २, ९.  
 कनिष्ठ-तस (:) आपधौ ६, ७, ८.  
 कनिष्ठ-पूर्व- -वैम् वैप ५, ६:  
 १३; -र्षा: शार्धो ४, १५, ४,  
 पाय ३, १०, २३; गौवि १, २,  
 ३७, ४, १४.  
 कनिष्ठ-प्रथम, मा<sup>०</sup>- -मा: आघ ४, ४,  
 १२; कौप ५, २, ९, आपिण ३,  
 ४, ४: २२; ५, ३: ५; ४: ६;  
 १४; २२; वीधि १, ३: ४; १६;  
 २३; ३०, ३, ४, १६; १९; वैप  
 ५, ५: ४; हिपि ४: ७; -मान्  
 माघ २, ७, ५.  
 कनिष्ठ-भार्या- -र्षांश्च शंघ ३९७.

कनिष्ठ-यज्ञ- -यः निस् ६, ११ =  
 ३०.  
 कनिष्ठिका- प्रय. कन- द.  
 कनी- रकनि- द.  
 कनीत-> कनीत<sup>०</sup>- -तः घृदे ६, ७९;  
 -तस्य ऋय २, ८, ४६१; -ते  
 शार्धो १६, ११, २३१.  
 रकनीन- १<sup>०</sup> रनि- द.  
 रकनीन<sup>०</sup>-> कानीन- पा ४, १,  
 ११६; -नः वाध १७, २१;  
 शंघ २९१; वीध २, २, २४४;  
 विध १५, १०, -नम् वीध २,  
 २, ३२.  
 कानीन-सहोद-पौनर्भव-पुत्रि-  
 कापुत्र-स्वयंदत्त-क्रीत- -ता:  
 गौध २८, ३४.  
 कनीन( क > )का<sup>०</sup>- -नैका घृदे  
 ४, १४४; या ४, १५; -के या  
 ४, १५.  
 कनी( नक > )निका<sup>०</sup>- -नैका  
 आपधौ १०, ७, १; वीधौ ६, २:  
 १७. २१, ८: ११; भाधौ १०, ४,  
 १२; माधौ २, १, १, ३८; वैधौ  
 १२, ७: ६; हिधौ १०, १, ४४;  
 माघ १, ११, ८; -काम् वीधौ ६,  
 १२: १५१; अघ २७, २, १;  
 २८, २, १; -के विध ९६, ९२;  
 तैपा ४, १११.  
 कनीनिका-मूल- -ते विध ६२, १.  
 कनीनी<sup>०</sup>-> कनीन्य( नी-अ)प्र-  
 सम- -स्यौत्व<sup>०</sup>- -न्यम् विध  
 ६१, १६.  
 कनीयस्- कन- द.  
 कन्त- रक- द.  
 कन्तप<sup>०</sup>- -यः वा ९, २२<sup>०</sup>.

a) उस. उप. १. यदा ककाराऽभावः वैकल्पिकः उरसं. (पा ६, ४, ९०)। b) पाठे. वैप १, १०, ८५। द.। c) वैप १  
 द.। d) विप.। वस.। e) पात्र. तु < २कन्या-। f) वैप १, १०, ८६। s. द.। g) = कक्षितारक-, कनिष्ठा-  
 क्पुत्रि-। h) = कनिष्ठिका-। म्यु?। i) विप.। पस. > तुष. > वस.। j) = कण्टक-। व्यु?।। k) पृ ८३० c टि.।

कान्ति- १कन्तु- २क- ३.  
 २कन्तु-  $\sqrt{\text{कम्}} ३.  
 \checkmark \text{कन्थ}^{\circ} (\text{श्वारणे}) > \text{क}(\text{न्थ}) >  
 न्था- पाउना २, ४<sup>६</sup>; -न्था  
 पा २, ४, २०; ६, ३, १२४.  
 काथिक- पा ४, २, १०२.  
 कन्था-मलद-नगर-ग्राम-द्वारे  
 (६-उ)नरपद- नान् पा ४, २,  
 १४२.  
 कन्थक- ( $\checkmark$  कान्थक्य- १वयम  
 (न) > नौ- पा. यक. ) पाग ४,  
 १, १८; १०५.  
 कन्थु- ( $\checkmark$  कन्थुव्य- पा. ) पाग ४,  
 १, १०५.  
 \checkmark \text{कन्द} ( यथा. ) पाषा. भ्वा. पर.  
 भाङ्गाने रोदने च, आत्म. वैकुण्ठे<sup>६</sup>  
 वैकल्ये च.  
 १कन्द- ( $\checkmark$  कन्दी- पा.) पाउड  
 ४, ९८; पाग ४, १, ४१<sup>०</sup>.  
 कन्द-मूल-फल- लम् वीथ ३,  
 ३, १८.  
 कन्द-मूल-फल-दाया-मल-  
 -आगाम् वीथ ३, ३, ८.  
 कन्द-मूल-फल-साका(र-आ)  
 दि- दीनि वैथ ३, ५, ७.  
 कन्द-मूल-फल-दायी (क-ओ)  
 पथी- धो: वीथ ३, २, २.  
 कन्द-मूल-मल- क्षा: वीथ  
 ३, ३, २.  
 २कन्द- ( $\checkmark$  १कन्द- पा. ) पाग$

४, २, ८०.  
 २कन्द<sup>२</sup> ( $\checkmark$  कन्दी- पा. ) पाउड  
 ३, १३१; पाग ४, १, ४१; पावाग  
 ८, २, १८<sup>१</sup>.  
 कन्दर्प- ( $\checkmark$  कान्दर्प- पा. ) पाग ४, १,  
 १०४.  
 कन्दल<sup>२</sup> ( $\checkmark$  कन्दली- कन्दलित-  
 पा. यक. ) पाउभो २, ३, १३<sup>१</sup>;  
 पाग ४, १, ४१; ५, २, ३६;  
 पावाग ८, २, १८<sup>१</sup>.  
 कन्दु- पाउ ३, १४.  
 कन्दुक- ( $\checkmark$  कान्दुक- कन्दुक-प्रथ-  
 पा. यक. ) पाउभो २, २, २२<sup>३</sup>;  
 पाग ५, १, १३०; ६, २, ८७<sup>३</sup>.  
 कन्दुक-भद्री- कन्दुक-दरी- टि. द.  
 कन्ध(र)रा<sup>०</sup> - रा अत्र २, ७, ८.  
 कन्ध- २कन्ध > न्था २कानि- द्र.  
 \checkmark \text{कप्} / \checkmark \text{कप्} द्र.  
 क-प- प्रथ. १क- द्र.  
 कपट- पाउड ४, ८१; पाग २, ४,  
 ३१.  
 कपटु- पाग ४, १, ७३.  
 कपटव- न: निरु ४, ८: ३५.  
 कपटवी- पा ४, १, ७३.  
 कपरि. लिङ्का- पावाग ८, २, १८<sup>१</sup>.  
 कपर्द- -दा: वाउ ४, १८.  
 कपर्दि- -ईय निस् ९,  
 १३: ४.  
 कपर्दिक- -कान् पाउ ३, ५, ३.  
 कपर्दिन्- -विन्म युं ५, ११५,

-विने वायु ५, ६, २; था ६६,  
 ३, २<sup>१</sup>; गीष २६, १२; धृषा ५,  
 २७.  
 कपर्दिनी- नो नाशि १, २,  
 १०.  
 कपाल- -लम् शोभी १८, ७, ८;  
 २०.  
 कपाट- पाउभो २, २, १००; पाग २,  
 ४, ३१.  
 कपाट-न- पा ३, २, ५४.  
 कपा(टक)टिका- ( $\checkmark$  कपा-  
 टिक- पा. ) पाग ५, ३, १०७.  
 कपाल- वाउ १, ११८; कि ६७;  
 -ला: आश्रित ३, ४, ४: ७; -लम्  
 आश्री ३, १४, १०; काश्री:  
 -लयो: माश्री ७, ४४; वैश्री  
 १५, ५: १; -लव्य माश्री ६,  
 १५, ७; -ला: द्विशी १६, ८,  
 २३; -लात् तैषा ६, १४<sup>१</sup>;  
 -लाताम् आपश्री ८, १, १४<sup>१</sup> > >;  
 वीथी; -शानि वाश्री ४, १४,  
 २५; काश्री; वीथी २०, १२:  
 ११५; वा ७, २४; -ले आश्री ३,  
 १३, ९; आपश्री १, २२, ३; २३, ३:  
 ३, १०, ११<sup>१</sup>; १२, ४, १५; काश्री:  
 पावा ६, २, ४५; -लेन काश्री  
 २, ४, २६; द्विशी १, १, ४३;  
 अथ ४, ५, १०; -लेभ्य:  
 आपश्री १, १४, ६; भाश्री १,  
 २५, १०; भाश्री १, २, ३, १९;

- a) वैप ३ द. । b) <  $\sqrt{\text{कन्}} ३ इति । c) = \text{कपि-विशेष-} । d) \checkmark \text{कप्}$   
 इति [पले] BFG. । e) अर्थ: ३ । f) अर्थ: लु च ? । g) = देवा-विशेष- ? । h) = दरी- । लु. ? ।  
 i) तु. पागम. । j) व्यप. । लु. ? । तु. पाका: । किन्दर्भ- इति भाष्यदा. । किन्दर्भ- इति [पले] पाका. । k) वृ  
 ८३३ j द. । l) <  $\sqrt{\text{कन्द}} । m) < \sqrt{\text{कम्}} । n) १कन्दुक- इति पाका. । o) = श्रीवा- ।  
 वैप ३ द. । p) = आचार्य-विशेष- (उ. पासा ४, १, ७८; ३, ८०) । q) = च्छा- वराटक- प्रथ. । लु. ? ।  
 r) = आचार्य-विशेष- । कपटव: इति मूले. । s) = मूर्च्छना-विशेष- । t) = गाम- । लु. ? । u) नाप. ।  
 लु. ? । <  $\checkmark \text{कप्}$  [पतौ] इति धमा. । v) हावाथि कन् प्र. । w) वै ३ द. । x) कपा<sup>०</sup> इति गुण. ३  
 यनि. सोध: (तु. भव-रानी) ।$

-लेषु आपथी १, २३-२४, ६; ८, ६, ५; ९, १३, १०; १९, २१, २२; २२, ८; वीथी: -ले: वीथी १०, १३: १२; वैथी १८, ७: ४; द्विथी १५, ८, ४३; अग्रय ६, २. कापालिक\* -क: वाय २७८: १०.

कपाल-वरण- जे वीथी २७, ३: १.

कपाल-विह्व-ध्वजा-> षिज्-

-जो दीध ३७९.

कपाल-धर्म- सं: द्विथी ३, ८, ४४.

कपाल-नाश- दो वीथी २८, ११.५.

कपाल-प\* -पान् आमिष्ठ २, १, ३:

२३; आपमं २, १४, १; भाय १,

२३: १४; हिय २, ३, ७.

कपाल-मन्त्र- म्त्रेण आपथी ८,

१०, २; १३, १८; १२, ४, ९; २४,

३, २४; भाथी ५, १४, ९; वाथी

१, ४, ४, ३२; द्विथी ३, ८, ५८;

५, ४, २२; ८, १, ५२; -म्रै:

वीथी २०, ८: २०.

कपाल-मात्र- अत्रम् वीथी २८, ४:

१३.

कपाल-योग- नम् आपथी १, २३,

२; भाथी १, २४, ६; -नात्

द्विथी १, ६, ३७; -ने भाथी १,

२५, १०; द्विथी १, ६, ४२.

कपाल-वत् आपथी २, १०, ४; वैथी

५, ८: ५; मौत् ६, ६, ६; १०,

१, २२; २६.

कपाल-विकपु- न: मौत् १०, १,

३८.

कपाल-विमोचन- नम् आपथी ४,

१४, ५; १२, २५, १३; द्विथी ४, ४, ७१; -नात् भाथी २, ३, ७, ११.

कपाल-वृद्धि- द्वि: वीथी २७, ३:

२.

कपाल-वृद्धि-दास- सौ वैथी

२०, २८: १२.

कपाल-शे(प>)पा- -पा: आमिष्ठ

३, ४, ३: ९; वीपि ३, ४, ८.

कपाल-शे(प-उ)पोदक- अम् वैथ

७, २: १२.

कपाल-संयोजन- ने वीथी २०, ८:

१२.

कपाल-संतपन-> णा(न-अ)गिन-

-गिना वीपि ३, १, ११; वैथ ५,

५: २९; ७, २: १३.

कपाल-संयोजन- येन गौपि

१, १, २०.

कपाल-सामान्य- न्यम् वीथी २७,

१४: २६.

कपाल-स्थान- ने वैथी ९, १: ११.

कपाल-द्वाम- न्त: वीथी २७, ३: २;

कपाल(ल-अ)वशे(प>)पा- न्या:

वैथ ५, ५: १५<sup>d</sup>.

कपा(ल-क>) लिका- (२कापा-

लिक- पा.) पाग ५, ३, १०७.

कपालिन्- -लिने वैथ ५, २: ३०;

-ली अर ४३, ५, १७; वाय

१६, ३३; वाय ३७७: ७; वीथ

२, १, ३.

कपालो(ल-उ)पधान- नम् काथी

५, ८, १५, -नात् वीथी ३,

२४: ७; २०, ६: २८; भाथी

५, १४, ८; ८, १६, ४; -नानाम् वीथी २०, ८: १७<sup>f</sup>; -ने वीथी २२, १८: १९.

कपाश्रितोपमजात- १६-द्र.

कपि\* - पाउ ४, १४४; पाग ४, १,

१८, ४५; १०५<sup>f</sup>, ५, १, १२४;

२<sup>f</sup>, १८; ९७, १००; ३, १०८<sup>f</sup>;

६, ३, ११९<sup>f</sup>, -पय: वीथीप्र

२६: १; ३; -पि: आपथी १४,

२९, ३<sup>f</sup>; द्विथी १५, ७,

१६<sup>f</sup>, आमिष्ठ ३, ७, १:

१४<sup>f</sup>; वीपि १, १७: १३<sup>f</sup>;

या ३, १८<sup>f</sup>; वृदे २, ११६<sup>f</sup>;

शुअर १, २८<sup>m</sup>, -पीनाम् आथी

१२, १३, २; आपथी २४, ७, ८;

द्विथी २१, ३, १०; -पे: द्विथी

२१, ३, १०<sup>m</sup>.

कपी- पा ४, १, ४५.

कापि\* - पा ५, ३, १०८.

कापेय\* - पा ५, १, १२७; -या:

आपथी १४, ७, २०; द्विथी १,

४, ६; ९, ८, ४५.

कापेयो- -यी आपथी १४,

७, १९; द्विथी ९, ८, ४४.

काप्य- पा ४, १, १०५; १०७;

५, १, १२४.

काप्या(प्य-आ)ध्वयं व\*

-वम् आपथी २३, ११, ११;

द्विथी १८, ४, १५.

काप्याय(न>)नी- पा

४, १, १८.

कपिकेश- कि ७३; -ता: वीथीप्र

४७: ६<sup>m</sup>.

a) = भिष्ठ-विशेष-। तेनचरतीयः उक् प्र. (पा ४, ४, ८)। b) = बालप्रह-विशेष-। उच. उप. <√पा (पाने)। c) = मन्त्र-। तु. तै. १, ७, २। d) उपा. \*शेषा: <> \*लावशेषा: इति पाठे.। e) उप. भाववरणयोः व्युद् प्र.। f) \*सान्त्वनम् इति B.। g) = मन्त्र-। h) वप्रा.। वैप १६.। i) = वानर-। j) ध्यप.। कव-दि. अपि द्र.। k) बहु. <कापेय-, काप्य-। l) वृषाकपिः इत्यस्योत्तरांगः। m) = कपि-विशेष-। n) भावाऽपत्याद्यर्थे क् > एयः प्र.। o) विप.। वस.।

१कपिल- पा ५, २, १७.  
 कपि-ना- पा ५, २, १००.  
 कपि-नी(र्षन् >) - नी- -ज्याम्  
 आधी ११, २, ३; लाधी ७, २, २.  
 कपि-श्यापण्ये- पाग ६, २, ३७.  
 क(पि >) पी-व(त >) नी- पा ६,  
 ३, १२०.  
 कप्या(पि-श्रा)दि- -दयः अय ६९,  
 ३, ४.  
 कप्यु(पि-उ)ट्टे(पू-उ) भ-गवाम् (गो-  
 श्रा)दि- -दीनाम् आ ६९, ३, ३.  
 १कपिञ्जल<sup>b</sup>- पाठगो २, ३, १९०;  
 -०ल कौम् ७६, ५४<sup>४</sup>; या ९,  
 ५<sup>०</sup>; -लः अय १, २६, ६; वृदे  
 ७, ९३; ६, १५१; या ३, १०७;  
 १, ४; -लम् संघ २२३; -नीलान्  
 आधी २०, १४, ५; वाधी ३,  
 ४, ३, २२१.  
 १कापिञ्जल- -लानि कौम् ७६,  
 ५३; ५४; अय १, २६, ६.  
 कपिञ्जल-मांस- -मेग पाए २, १९, ८.  
 कपिञ्जला(ल-श्रा)दि- -दयः शुभ्र  
 ३, ४३; -दीम् काधी २०, ६, ६.  
 कपिञ्जलादि-वत् काधी २१, १,  
 १२.  
 २कपिञ्जल<sup>c</sup>- पाग ७, १, ११२३, -लः  
 अय २, २७; ७, १६.  
 २कापिञ्जल- पा ७, १, ११२; -लाः  
 वीधीप्र ७७; १.  
 कपित्य<sup>d</sup>- पाग २, ४, ३१; ७, ३, ८०<sup>१</sup>;  
 ५, ३, १३५, ६, ३, ११९<sup>१</sup>.

कपित्य-क<sup>e</sup>- -कः माय २, २१: १०.  
 कपित्यि(>)नी- पा ५, २, १३५.  
 कपित्यिल<sup>f</sup>- पा ७, २, ८०.  
 १कपिल- कपि- द्र.  
 २कपिल<sup>g</sup>- पाउ १, ५५; -०ल विप  
 ९८, ८५; -लः वैश ३, २१;  
 १०<sup>१</sup>; अय २९, २, ४; ७३;  
 ३, ४<sup>१</sup>; वृदे २, ६७; ७, १४१;  
 वीथ २, ६, ३०; -लम् अया  
 १७, ५८, -लाः याति २, १; ३;  
 -लान् आगित २, ७, ७; ९;  
 -लान् आगित २, ४, ८६.  
 कपिल(ल >)ला- -ले अय १,  
 ३, १.  
 कपिल-रोम<sup>h</sup>- -माणः अय ६८,  
 १, ९.  
 कपिला(ल-अ)के(क-उ)ट्टु-  
 मण्डल<sup>i</sup>- -लम् अय ६७, ९, ३.  
 कपिललाट<sup>j</sup>- -लः कौम् ७५, ४<sup>१</sup>;  
 -लम् माधी १, ८, ५, १९, वाधी  
 १, ६, ७, १; ४; -लात् माधी १,  
 ३, ५, १८.  
 कपिला<sup>k</sup>- -लानाम् आगित २, ४, ८;  
 २१; अय ७२, ४, ७; -लान्  
 आगित २, ५, १; ४४; अय ८,  
 २, ३, विप ९२, ९; -लायाः  
 आगित २, ७, ७; ८; अय ३८, १,  
 ६; -लायु अय ७२, ४, ७.  
 कपिला प्रदान- -नम् संघ २५०.  
 कपिलि(क >)का- (>)कपिलि(क-  
 पा.) पाग ७, १, ११२.

कपिवन<sup>l</sup>- -नः निम् ८, ४ : २९.  
 कपिवन<sup>m</sup>- -नम् आधी १०, २, ३;  
 -नेन आधी २२, १४, २०; द्विधी  
 १७, ६, १५.  
 कपिष्टिक- > कापिष्टिक- वनि-  
 ष्टिक- दि. द्र.  
 कपिष्टल<sup>n</sup>- पाग २, ४, ६९<sup>१</sup>; -लः  
 पा, पावा ८, ३, ९१.  
 कापिष्टलि- (>)कापिष्टल्या-  
 पा, पावा.) पाग ७, १, ८०;  
 पावाग ७, १, ७९.  
 कपिष्टल-कट- -टाः बयू २ : ३.  
 कपिष्टि(क >)का- > कापिष्टि(क-  
 कनिष्ठिक- दि. द्र.  
 कपी- कपि- द्र.  
 कपुच्छल<sup>o</sup>- -लम् गोय २, ९, १८;  
 वय ३, ६, ७.  
 कपुजा<sup>p</sup>- -जा काय ७०, २.  
 कपुष्पिका<sup>q</sup>- -का अय ३, ६, ७;  
 -कान् गोय २, ९, १३; १८;  
 -कायान् गोय २, ९, १४.  
 कपुस्- > १-विपर्वा-रोडाका-रुका-  
 वपी-नाडा-निर्द्धनी<sup>r</sup>- -नी-  
 नाम् पैताधी ५, १०.  
 कपूय<sup>s</sup>- -यम् या ५, २४; -याः या  
 ५, २४; ६, १९.  
 १कपूयू<sup>t</sup>- -यूत् आधी ८, ३, ३०;  
 आधी १२, २४, २; ४; अय २०,  
 १३७.  
 कपोत<sup>u</sup>- पाउ १, ६२; पाग ७, २,  
 ११; ५, ४, १३८; ६, ४, १५३;

a) = कीला-विशेष-। बस.। b) वैप १, १०८० II द्र.। c) <✓कम्। d) छल्ल पागे. वैप १  
 शुक्रन्तक (खि २, २, ५) दि. द्र.। e) लः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. लि २, २, १)। f) = कपि-विशेष-।  
 व्यु. ?। g) छु इति [पक्षे] भावटा.। h) वैप ३ द्र.। i) अर्थः ?। j) तु. पापम.। k) = कापि-विशेष-।  
 l) = देश-विशेष-?। m) विप., व्यप. (मुनि-, अयुर-विशेष- [वीथ.])। वैप १, १०८० O द्र.। n) विप.  
 (वात-प्रकृतिक-नर-). बस.। o) वस. > दस. > पस.। p) = अश-विशेष-। व्यु. ?। q) = गो-। व्यु. ?।  
 r) व्यप.। व्यु. ?। s) वैप १ द्र.। t) = अश-विशेष-। u) नाप.। व्यु. ?। पात्र. तु व पि- + स्थल- इति।  
 v) = चूदा-। व्यु. ?। w) औपनीनां दस. इति सोमादित्यः। x) नाप., व्यप. (अपि-विशेष- [अश. वृदे.])।

-तः आगृ ३, ७, ७<sup>३</sup>; शागृ ५, ५, २<sup>१</sup>; आगृ २, ५, २ : १; ३, ६, ३ : २१; २३; कागृ ५६, १<sup>१</sup>; वीगृ ३, ६, १; वीगृ १, ११ : १८; १९; मागृ २, ३२ : १; मागृ २, १७, १<sup>१</sup>; हिगृ १, १७, ५<sup>१</sup>; जैगृ २, ७ : २; कौम् ४६, ७<sup>१</sup>; अगृ १९, १, १०<sup>१</sup>; दरे, ४, ७, ६७, ३, १; ७०<sup>१</sup>, ६, ९; २९, १<sup>१</sup>; शीघ ३७८; काघ २७६ : ५, ऋघ २, १०, १६५; वृदे ८, ६७; ६८; अघ ६, २७<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>तम् मागृ २, १७, १; कौम् ४६, ७; वृदे ८, ६८; अघ ६, २८; -ताय शाश्री १२, १६, १<sup>१</sup>. -ते कागृ ५६, १; मागृ २, १७, १; -तौ वृदे ७, ८७.  
 कपो (त>) ता<sup>१</sup> - ता वीघ ३, १, ५.  
 कपोत-वृत्ति-नि(ष्टा) > ष-  
 -रुष्य वीघ ४, ५, २८.  
 कपो (त>) ती<sup>१</sup> - तीम् अघ ७०<sup>१</sup>, ८, १.  
 कपोतकीय- पा ४, २, ९१.  
 कपोतक- पा ६, ४, १५३.  
 कपोत-यद्-दर्शन- -ने आपगृ २३, १.  
 कपोत-पाक- पाग ७, ३, ५३.  
 कपोत-याद्- पा ५, ४, १३८.  
 कपोत-नव् वीघ ३, २, १२.  
 कपोत-वृत्ति- -त्तिः विघ ९४, ११.

कपोत-वृत्तिक<sup>१</sup> -काः वैध १, ८, १.  
 कपोतो(त-उ)पहति- -तौ ऋघ २, १०, १६५.  
 कपोतो(त-उ)ल्ला- -काभ्याम् कागृ ५, ५, १.  
 कपोतोल्लङ्-अन्या(न्य-अ)रिष्ट-  
 क्षम<sup>१</sup> -काम- -मः अघ ६, २९.  
 एकपोल<sup>१</sup> - पाउ १, ६६.  
 रकपोल<sup>१</sup> - ला. ४ चय्यू २ : ३६.  
 कफ<sup>१</sup> - पाउभो २, २, २१८; -कम्  
 वैधौ २१, २ : ५.  
 कफ-प्रवृत्ति<sup>१</sup> -तयः अघ ६८, १,  
 ४; २९; ३७.  
 कफस्<sup>१</sup> -> कफ(स्य>) स्या<sup>१</sup> -  
 -स्याः वीधौ २८, ९ : १७; वैधौ  
 २१, २ : ४.  
 कफेल्<sup>१</sup> - पाउ १, ९३.  
 ✓कव् पाधा. भ्वा. आत्म. वणै.  
 कयन्ध<sup>१</sup> - पाउभो २, २, १७४, पाग  
 २, ४, ३१; -न्धः वाधुधौ ४, ३७ :  
 २१; २५; अघ ५२, ८, १; अघ  
 ६, ७५. -न्धम् अघ ४८, ७५<sup>१</sup>;  
 ६७, ६, १; निघ १, १२<sup>१</sup>, या  
 १०, ४<sup>१</sup>; ऋघ ४, ६१<sup>१</sup>;  
 अघ ३, ४, १<sup>१</sup>; -न्धाः अघ  
 ५२, ५, १; -न्धानि आपग्री १६,  
 ८, १; हिधौ ११, २, १३; -न्धे  
 अघ ७२, १, ५, ६, २.  
 कयन्ध-यान- -नाति अघ ७०<sup>१</sup>, ११,  
 २४.  
 कयन्धा(न्ध-आभा)> म<sup>१</sup> - भाः  
 अघ ५२, ५, १.

कवर<sup>१</sup> - पाउ ४, १५५<sup>१</sup>.  
 कयरी<sup>१</sup> - पा ४, १, ४२.  
 कय-पुच्छी- पाधा ४, १, ५५.  
 कवोघ<sup>१</sup> (> कवोघ- पा.) पाग  
 ४, १, ११२.  
 क्वमु- -<sup>१</sup>मु<sup>१</sup> अघ ११, ३; दंति २, ४.  
 ✓कम् पाधा. भ्वा. आत्म. कान्तौ,  
 कामयेते काधौ ३, ८, १६;  
 आपग्री xx; २१, १३, ४<sup>१</sup>; वीधौ;  
 कामयति अघ १, १३-१६, ३;  
 कामयेते हिधौ ५, २, ६८;  
 कामयन्ते आपग्री २३, १, ८xx;  
 वीधौ; कामयते अघ ३६,  
 २५, ३; कामये आपमं १,  
 १३, ४<sup>१</sup>; कामयावेते वाधुधौ ४,  
 २ : ६; कामयामहे या २, ७;  
 कामयाति आपग्री ४, ८, ५;  
 भाधौ; कामयेताम् वीधौ १८,  
 ३५ : ४; या ९, ४२; ४३;  
 कामयन्ताम् या १२, ४६;  
 अकामयत शाश्री १०, १४-१५,  
 २xx; वीधौ; अकामयेताम्  
 वीधौ १८, ३५ : १; अकामयन्त  
 शाश्री १०, १८, २; वीधौ;  
 कामयति वीधौ २, १ : १; वैधौ  
 २०, ३४ : ९, आगृ १, ७, ३; २,  
 ४, ६; कामयेत आपग्री ९, ७, ३५;  
 शाश्री; कामयेन् आपग्री ८, १९,  
 ६; हिधौ १७, २, ६५; वाघ १७,  
 ३५<sup>१</sup>; कामयेयाताम् आपग्री  
 ८, ८, १७, भाधौ ८, १०, १५;  
 कामयोरत् आपग्री १२, ८, ३३;

a) =वृत्ति-विशेष-। ताहितः अण् प्र. स्त्री. च टाप् प्र. । b) विघ.। अण् प्र. । c) =वानप्रस्थ-  
 विशेष-। वत.। d) पंत.>कप.>पस.। e) वैध १ द.। f) =यजु.शाखा-विशेष-। ध्यु. ?। g) =शाखा-  
 प्यायिन-। h) =श्लेषमन्-। वैध ३ द.। i) विघ.। वत.। j) नाप.। ध्यु. ?। k) विघ. (२अपृ-। l) सपा.  
 आपग्री १०, १४, १ २४पा- > याः इति पाठे.। m) =क्रवि-विशेष-। [वाधुधौ. अघ ], अमुर-विशेष-। [अप.]।  
 n) =केज, चित्र-। ध्यु. ?। o) <✓क। p) =देशेय-। g) ध्यु.। ध्यु. ?। r) हिधौ ६, १, ३ पा ३,  
 १, ३०; ८, ३, ४६; ४, ३४ पाधा १, १, ५ पराष्टः द.। s) सपा. यद् कामयेते <> पक्कामाः भवन्ति इति पाठे.।

कामयेरन् वीथी १४, २६ : १ ;  
 कामयेयम् सु २८, २.  
 चक्रे वाधूथी ४, १०८ : ४ ;  
 ५; वृदे ६, १९; या ११, ३४.  
 लचीकमेताम्, लचीकमन्तावाथी  
 ६, १, ५; लचीकमथा: वाधूथी  
 ३, ९२ : ८.  
 रकन्तु- पाठ १, २७; ७३.  
 -कमर- -नः या १०, २२; -मेन  
 या ४, १५.  
 कमनीय, या- -या: या २, २;  
 -यम् या २, ३३; १८; -या  
 या ४, १५.  
 कमनीय-द्वैव- -वः या ५,  
 २७.  
 कमनीय-भोज- -जा: या  
 २, २.  
 कमर- पाठ ३, १३२.  
 कमित्- -ता या ५, २, ७४.  
 कन्- पा ३, २, १६७.  
 कान्त- -तः वा ५, ११; -श्वता:  
 काठथी ३३; माथी १, ७, ४,  
 ११; कौट २, ६, १; १; ४; ४  
 ५२, १३, ३; -तानाम् कौट १,  
 ८, १०; -श्वानि या १०, २६;  
 १४, १९.  
 कान्त-क- -कानि या ५, ११.  
 कान्ति- -मिः विष १२, ४; वा  
 ५, १४; १५.  
 कान्ति-कर्म- -मैजः वा ४,  
 १५, ६, १०; ७, १२; १०, ३८;  
 ११, ५, १२, ५; -मार्जः मिष २,  
 ६; या ३, ९.

कान्ति-द्व- -तः या ५, ११.  
 ३काम, मा- -पाठ ६, १, १९९;  
 पाताम ५, १, १११; -म  
 थाथी ५, १३, १५; ८, १४, ४;  
 थापथी १४, ११, २; काथीसं  
 ४ : २; वीथी १२, ७ : ५६;  
 माथी ५, २, १४, १३; द्विथी  
 १०, ६, ९; वैथी २० : १४;  
 जैथीका २०२; वैताथी ४, ५;  
 द्राथी ६, ३, २७; लाथी २, ११,  
 २०; पाण्ड ३, १२, ९; आमिण्ड  
 २, ७, ५; ५; ६; वीण्ड ३, ३, ६;  
 माण्ड १, ८, ९; वैण्ड ४, १ : १६;  
 ६, ९ : ५; गौण्ड १, ९; कौण्ड  
 ४, ५; ९, २, ३०; ३१; स्व ३२,  
 १, ८; वीथ २, १, ३३; ४, २,  
 १०; वीथ २५, ४; वय ९, २;  
 १२, ५३; -मः वृथाथी ५, १३,  
 १५; ८, १०, २; शांथी ३, ५,  
 ८; ४, ७, १५; ४; या ५, २; २;  
 ६, ७, -मम् थाथी २, २,  
 ४; ४; थाथी; काथी २६, ७,  
 ४; ४; थापथी ६, १, ८; ४;  
 माथी १, ६, १, ४; थापथं २,  
 १५, १४; या १४, ६; पाण्ड १,  
 १, ३७, -मण्ड-मम् वीथी  
 १८, २९ : ७; ९; गो १, ८;  
 -मस्य काथीसं ४ : ४; १; ५;  
 ७; वाधूथी ४, १४; ७; कौट २,  
 २, १४; शण्ड २, ४, २; आमिण्ड १,  
 ५, १२; ३०; वीण्ड ३, ५, २९;  
 द्विण्ड १, २४, ४; -मा माण्ड  
 २, १२, ९; -मा: काथी २,

८, २४; शांथी १४, ९, १२; काथी  
 ३, ८, १; थापथी ५, २९, ४; १;  
 १०, ६, ५; ४; माथी १, ८, ४,  
 ३; ४; कौण्ड १, ५, ४; शण्ड ३,  
 १३, ३; वृथाथं २, ४, ५, ९,  
 ४; वृथाथं ६, १; ४, ११; १४;  
 ८४, १; या ४, ६, ७, २; -माण्ड  
 काथी ४, २, ४; पाण्ड २, ७, २;  
 १७, ३; कय ३, १, ८; वाष;  
 -माण्ड थाथी ६, १२, ४;  
 १०, ६, १; शांथी ४, १८,  
 २; १०, २१, १४; १५, १,  
 १२; थापथी ४, ६, २; ४;  
 द्विथी ६, २, १०; थापथं १, ७,  
 ११; या १, ७; २०; ४, १६;  
 -मानाम् थापथी ४, १, २; वीथी  
 १, २१ : २४; माथी ३, ११,  
 १; वैथी ३, १; ५; निवृ- -माथ  
 थाथी १, ११, १४; काथी;  
 काथीसं २; वीथि ३, ७, ५;  
 -माथ-माथ माथी ५, २, १०,  
 १३; वीथ ३, ८, ३५; -मार्ज  
 माण्ड २, १३, ६; वाण्ड १४, १२;  
 -मे वीथी १, १२; २२; २०, ४;  
 ४, द्राण्ड २, ५, १३; थापण्ड ८, १;  
 पा ५, २, ६५; पावा ६, १, १४;  
 -मंड-मे वीथी २३, १ : ३७;  
 -मेन थाथी ५, १३, १५; १;  
 वृथाथी २, १३, ६; ४, १२, १०;  
 थापथी १४, ११, २; वीथी  
 १३, १; १३; द्विथी ३०, ६, १; १;  
 कौण्ड; या १२, १८; -मेण्यः  
 थापथी ४, ४, ४; ६, ४; २०,

a) भवि कर्तरी च कृत् । b) विप. । उम. । c) सप. कान्ता: <> जरा: इति पाथे. ।  
 d) = वृक्ष-विशेष- । e) विर. । वस. । f) वैप १ द. । g) क्वचित् वा. क्विचि. । h) सप. शांथी २, ६, ७ लोचम्  
 इति पाथे. । i) पाथे. वैप १, १०९० अ. द. । j) = काय-पत्री- । k) पाथे. वैप १, १०९० अ. द. । l) पाथे.  
 वैप १ भूतिकामात् काठ ३१, १४ द्वि. द. । m) पाथे. वैप १, १०९० अ. द. । n) कय इति पाठः १ मनि. श्लेषः  
 (तु. सस्य. श्वमथे कामाय, तैरह्लां व) । o) बायुम्वीत् इति अ. । p) पाथे. वैप १, १०९१ अ. द. ।  
 वैप ४४-११



१, ५; २२, ४; वीथी; -मेपु  
माथी ६, १, ३, २६; अथा १७,  
३; -मिः निस् २, ४ : ९; आपमं  
२, २०, २८<sup>१</sup>; आमिष्ट १, ५, २;  
९; ३, १, १२ : २; ७<sup>२</sup>; ४×२, ७;  
५<sup>१</sup>; वीथि; फामाष्ट २, १५; १४;  
१६ : १४; १७ : ९; फहिष्ट २,  
११, १<sup>१</sup>; १५, ७; या १२, २१;  
-मी थापथी १७, २४, १०; २३,  
२, ७; कुम् ३, १० : ५.  
काम-काति<sup>१</sup> - तयः आपमं २,  
११, ७<sup>१</sup>.  
काम-काम- -माय वाघ २३,  
३<sup>१</sup>.  
काम-कामिन्- -मी विघ ७२, ७.  
काम-कार- -रेण विघ ५, १०४.  
कामकार-तस् (:) विघ २८,  
५३.  
काम-काल-देश-दक्षिणा-  
-णानाम् आथी ८, १३, ३४.  
काम-कृत्- -ने आपघ २, २८,  
१२; हिध २, ६, १२.  
काम-कृतृति- -सीः वैनाथी ४२,  
१३.  
काम-क्रोध-द्रोह-लोभ-मोह-  
-हाम् वीथ २, ३, २१.  
काम-क्रोध-भय-लोभा (म-त्रा)  
दि- -दिभिः विघ ३, ७४.  
काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद्-  
-मात्मर्य-स्थान- -नम् विघ  
९६, ५०.  
काम-क्रोध-लोभा (म-आख्या) >  
एय- -त्यम् विघ ३३, १.  
काम-चार<sup>१</sup> - २: वीथी १५, ८ :  
८; काघ २७१ : ३.

काम-चार-वाद-मञ्ज- -क्षः  
गोध २, १.  
काम-चारिन्- -सी जैष्ट २, ८ :  
२२; कप्र २, ४, १७.  
कामचारिणी- -णोग् शंघ  
३३६४.  
काम-जात- -तय् अत्र २०, ७,  
११.  
काम-ज(व>)वा<sup>१</sup> - वाम् अघ  
१, ४९, १; १४, १, १६<sup>१</sup>.  
काम-तस् (: ) शाष्ट १, १, ७; कप्र  
१, ६, ६; शंघ १६१; ४३२; विघ  
२८, ४८; ५१, १८; अदे ६,  
५५.  
काम-दर्शन- -नात् मीस् १२, ४,  
१७.  
काम-दापि (त् >) गो- -० नि  
अथा ५, ७.  
काम-दुष्ट<sup>१</sup> - दुघ. १ अथपथी ६,  
१, ५; वीथी २, ७ : २८.  
काम-दुघ, घा<sup>१</sup> - फिघः कौष्ट ५,  
७, २; आमिष्ट ३, ११, २ : ८;  
३ : १६, -घम् अघ १, ४६, ३;  
४७, १; -घा माष्ट २, २ : ११<sup>१</sup>;  
-घाः आथी ६, १२, ४; फामाथी  
१, १४, १२; ५, २६, ५, वीथी  
२, ७ : २८; १८, ४७ : ११;  
१६; २४, ११ : १५<sup>१</sup>; फामाथी  
१, ११, १; ५, १८, १; वैथी १,  
१९ : ७<sup>१</sup>; फहिथी १, ४, १०;  
३, ६, ५; वीथि १, १५ : ७२<sup>१</sup>;  
-घाभिः वीथी १८, ४६ : १८;  
-फाम् आथी ६, १, ४<sup>१</sup>; हिथी  
३, ७, ६१<sup>१</sup>; -०घे आथी १६,  
१९, ५<sup>१</sup>, वीथी १०, २५ : ५<sup>१</sup>;

माथी ६, १, ६, ६; वाथी २, १,  
५, १६<sup>१</sup>; वैथी १८, १६; १३<sup>१</sup>;  
हिथी ११, ६, ३५.  
काम-दुह- -धुम् कौष्ट ३, १२,  
२६.  
काम-देव<sup>१</sup> - -०य विघ ९८,  
१०.  
काम-देवता- > त्व, त्या-  
-त्यन् अत्र ९, २; -त्या अत्र  
३, २९.  
काम-देव(त>)ता<sup>१</sup> - ता या  
७, ४.  
काम-द्वेष- -यः या १४, ३.  
फाम-घरण<sup>१</sup> - णाम् शाथी २,  
१२, ४; वीथी १०, २० : ६<sup>१</sup>;  
१२, २ : २३<sup>१</sup>; माथी ५, ५, २;  
वाधुथी ४, ११४ : २; ३; हिथी  
३, २, २४; ११, ५, २६.  
काम-नियुक्त- -क्तानि वीथी  
२४, १६ : ५.  
काम-पति- -तिः शाथी ४,  
१८, २<sup>१</sup>.  
काम-पत्नी<sup>१</sup> - स्त्री माष्ट २, १३,  
६<sup>१</sup>.  
काम-पाल<sup>१</sup> - -०ल विघ ९८,  
११.  
काम-प्र<sup>१</sup> - -प्रेण जैष्ट १, २; १७;  
-प्री वैताथी १२, १.  
काम-प्र<sup>१</sup> - -प्रम् कौस् ६६,  
५; -प्राय शाथी १७, १६, ४<sup>१</sup>;  
-प्रेण वीथी २६, १० : २५.  
काम-प्र(द>)दा- -दाम् माष्ट  
२, १३, ६.  
काम-प्रवेदन- -नम् पावा ३,  
३, १५७; -ने वा ३, १, १५३.

a) पाथि. वै १, १०-१० ह्र. 1 b) वै १ ह्र. 1 c) वै २, ३ सं. ह्र. 1 d) विघ. 1 वस. 1

e) विघ. 1 उस. उप. ✓दुष्ट + क्वि प्र. 1 भव्वाऽभावश्च ह्र. 1 f) स्या. भे १, ८, ६ कामदुघाः इति पाथे. 1

ह्र) विष्णुनाम-विशेष 1 h) विघ. (देवी-विशेष-पृष्ठी-);

काम-व्यस्य<sup>१</sup>- पाग ४, २, १३८;  
 पा ६, २, ८८.  
 काममस्थीय- पा ४, २,  
 १३८.  
 काम-बल- -ले पा ५, २, ९८.  
 काम-भोग-वरीत- -तस्य वाच्य  
 ३० : २६.  
 काम-भो(ग >)मा<sup>२</sup>- -गा  
 आगिष्ट २, ७, ६ : १२.  
 काम-मन्यु- -युभयाम् आगप  
 २, २६, १२; द्विप २, ७, २४;  
 -न्यु आगप २, २३, ५; द्विप  
 २, ६, १३.  
 काम-मा(व >)प्रा- -प्रा:  
 वाथी ३, ४, ४, २६.  
 काम-योग- -गः वैष्ट ३, १ : ९.  
 काम-रूप- > ष्विन्- -पिणे  
 गीष २६, १२; -पी चञ्जू ४:  
 १९.  
 काम-लिङ्ग<sup>३</sup>- -ङ्गेन आगप २,  
 ४, १; द्विप २, १, ५४.  
 काम-सुख- -स्वः साधि २,  
 ६२.  
 काम-वत्- -वात् या १०, ४२.  
 कामवती- -नयाः काथी १६,  
 १, २७.  
 काम-वर्षिन्- -र्षीं निवृ ४, ३ :  
 ७; गोष्ट ३, २, २४; वैष्ट १,  
 १७ : ७.  
 काम-वादिन्- -दी वीष १, ५,  
 ८६.  
 काम-विधेक- -कात् वीषु ७ :  
 २१.  
 काम-शास्त्र- -अम् मीत् १०,  
 ५, ६६.

काम-भोचिन्- -चिभिः अय १,  
 ३८, २१; अशौ ८, २.  
 काम-श्रुति- -तिः मीत् २, २,  
 २९.  
 काम-संयोग- -गः लाथी ७,  
 ११, २३; मीत् २, २, २८; -गात्  
 मीत् १०, ५, ८१; -गे काथी  
 ४, १५, २६; मीत् ३, ६, ४३;  
 ६, २, ७; १०, ५, ६५; -नेन  
 मीत् ११, ४, १०.  
 काम-सूक्त- -कम् अय १०, १,  
 ७; ४६, ७, ४; ५; अर्थ ४ :  
 २४१; -ङ्गेन आगप २, ५; अय  
 २०, ५, ५; ३९, १, ९.  
 कामसूक्ता(ज-आ)दि- -द्वयः  
 अय २०, ४, १.  
 काम-दत्त- -तः आथी २२,  
 ६, ८; द्विथी १७, २, ५३.  
 कामा(म-या)गान- -भम् निवृ  
 २, ४ : १९  
 कामा(म-य)शान- -नात् मीत्  
 १०, २, ४९.  
 कामा(म-या)तु(र >)रा-  
 -रा याकि २, ६७.  
 कामा(म-या)मन्- -येतस्-  
 -तसा अद्य ६, ९.  
 कामात्म-द्वैव(त >)ता-  
 -ते यद्य ६, ९.  
 कामा(म-या)नस्य- -नस्यत्  
 वैताथी ४३, ४३.  
 कामा(म-य)मिधान- -ने पावा  
 ५, २, ६५.  
 कामा(म-य)र्ध- -वा पाग २, २,  
 ३१.  
 कामा(म-य)वधारण- -शानि

निवृ ३, १ : ४०.  
 कामि(क >)का<sup>४</sup>- -काम् अय  
 ७०<sup>१</sup>, ८, २.  
 कामे(म-इ)पु<sup>५</sup>- -स्वोः वाच्य  
 १९ : २६.  
 कामे(म-इ)वृ-देवताक<sup>६</sup>- -कम्  
 अय ३, २५.  
 कामे(म-इ)ष्टि- -ष्टी मीत् १०,  
 २, ४२.  
 कामी(म-उ)श्क- -कानि पाय  
 ३, १०, ४६.  
 काम्य- पावा ५, १, १११.  
 कामन<sup>७</sup>- -नम् आथी ४, १, २;  
 वैथी ३, १ : ५.  
 कामयत्- -यन्तः या ६, २६.  
 कामयमान, ना- -नः वीथी १४,  
 २५ : ११; २०; माथी ३, ८,  
 ११<sup>८</sup>; वाथ; -नस्य वाथी १४,  
 ३१, १; वीष ४, १०२; -ना  
 वीथी १८, ४४ : २; १०; या  
 १, १९; ३, ५; -नाः वीथी  
 ९२, ३०; ३१; १९, ५२; वा  
 ५, १८४४; -नात् या ६, १३;  
 -नानि या ६४, १५; -ने या ९,  
 ३९; -नेषु वीथी १४, २६ : १.  
 कामयाम्/वस(भुवि), कामयामास  
 वृदे ६, ७६.  
 कामयिवा वैताथी ३४, २.  
 कामि- पाउमो २, १, १६६.  
 कामि(न >)नी- ><sup>९</sup>मी-अनो(नस्-  
 अ)भिसुखोचरण-काम- -सः  
 अय २, ३०.  
 कामुक, का- पा ३, १५४; पाग ४,  
 १, ११<sup>९</sup>; -वः दाधुथी ४,  
 ४७ : ९.

a) = देश-वितो-। b) विप.। वष.। c) = मन्त्र-वितो-। d) विप. (दक्षिणा-).। मत्वर्थे ठ्ठ्  
 प्र.। e) विप.। पव.। f) विप.। पय. > वस.। g) = कामना-। माप.। h) कामे. वैप २, ११७३। इ. ४  
 ३) व्यप.। धा. अर्थः ?।

कामुकी- पा ४, १, ४२.  
 कामुकायन- पा ४, १, १९; -नः  
 मीस् ११, १, ५७, ६२.  
 २काम्य, म्या<sup>१</sup>- म्य- आपथी १२,  
 ७, ८; भाथी ५, १, १, ३५; हिथी  
 १७, ६, ४५; वैताथी; -म्यम्  
 आथी ८, १०, १; शाथी २, ५, १;  
 १२, २०, २१; आपथी; -म्यस्य  
 वीथी २२, ३, ८; निस् २, ८ : ६;  
 -म्या आपथी २०, १६, २; वीथी  
 १५, २४ : ४; वाथी; -म्याः  
 आथी २, १०, १; शाथी ६, १,  
 २०; आपथी ४, १३, २××;  
 वीथी; -फं-म्याः काथी ४, १२,  
 ९; शाथी २, १२, ४; -म्यान्  
 वीथी २४, ३८ : १; हिथी;  
 -म्यानाम् माथी ५, २, ७, १;  
 द्राथी, -म्यानि शाथी ३, ११, ५;  
 आपथी १०, २०, ५; ११,  
 १०, १२, १२, १४, ४; भाथी,  
 या ११, ३६फं; -म्याभिः  
 आपथी १९, १८, १; हिथी २२,  
 २, १; -म्यासु शाथी १, १६,  
 २१; -म्ये हिथी ८, २, ५; ४,  
 ५××; आपथी; -फं-म्ये द्राथी  
 ९, २, ३; लाथी ३, ६, ३; -म्येषु  
 गोथ ४, ५, १; ७; ९; द्राथी  
 १, २, २३; ४, १, १; रूप;  
 -म्येः आपथी १९, १६, १;  
 हिथी २२, १, १; लाथी ७, १३,  
 ८; वप्र १, ६, १२; -म्यी आपथी  
 १२, ७, ८; वैताथी ४३, ३४.  
 काम्य-व- -म्याव मीस् ५, ३,  
 ३४, ६, १, ३१.

काम्य-देवता- -ता काथी ४,  
 ५, १.

काम्य-नित्य-समुच्चय- -यः  
 मीस् १२, ४, १७.

काम्य-वैमित्तिका(क-आ)दि-  
 -दिसु शुभ ४, १२७.

काम्य-युक्त- -क्तम् मीम् ३, २,  
 १९.

काम्य-वत् भाथी ३, १३, १०.

काम्य-सामान्य- -म्ये कप्र २,  
 ४, ६.

काम्य-होम- -नाः कौस् ५, ४.

काम्य(म्य-आ)घेडित- -तयोः  
 शौच ४, ३०.

?काम्यमा(न>)ना- -नाः वाधूथी  
 ३, ९२ : ४<sup>b</sup>.

फंक्कमान- -नः अप ४८, ३; निघ  
 २, ६<sup>०</sup>, -नाय वीथ २, १, १४;  
 अय १९, ५२.

फंक्कम् आथी ५, २०, ६××; शाथी;  
 या १, १९, १०; ७, २५.

कमक<sup>१</sup>- पाग २, ४, ६९.

कामकायन->प्यनिन्<sup>०</sup>- -निनः  
 वीथीप्र ३३ : १.

कमठ<sup>१</sup>- पाउ १, १००.

कमण्डलु, लु<sup>१</sup>- पाउभो २, १, १०६;  
 पा ४, १, ७१; ७२<sup>b</sup>; पाग २, ४,  
 ३१; ५, १, १३<sup>b</sup>, -लुः वाधूथी  
 ३, ७६ : ३५; वाथी; -लुना  
 आपथी २०, २३, १; काठथी;  
 -लुभि. वीथी २०, २७ : २०;  
 २१, १४ : २१; -लुम् वीथी  
 १५, १५ : ७××; वीथी; -लुत्  
 वीथी १५, १५ : १३; वाधूथी

३, ७६ : २४; -ली वाधूथी ३,  
 १६ : ४; वीथ १, ४, ६.

कामण्डलय- पा ५, १, १३०.

कामण्डलेय<sup>१</sup>- (>लेयी- पा.)  
 पाग ४, १, ७३.

कमण्डलु-कपाल- -ले अप ४७, ६, ५

कमण्डलु-ना(त >)त्रा- -ताभिः

वीथी २०, ४ : ७.

कमण्डलु-चर्वा- -र्वाम् वीथ १,

४, १.

कमण्डलु<sup>१</sup>-पद- -दे अपथी ५, १५,

१; भाथी ५, ८, १६; वीथी १,

१३ : ३.

कमण्डलु-मृदुमह(ण>)णी- -म्वी

वैथ २, ३, ३; ८, १.

कमण्डलु(लु-उ)दक- -केन वीथ

१, ४, १४<sup>फं</sup>.

कमण्डलु(लु-अ)धारण- -जे वीथ

४, ११, १.

कमथ<sup>१</sup> अप ४८, ११६<sup>फं</sup>.

कामन-, कामनीय- ✓कम् द.

कामन्त, न्दाक<sup>१</sup>- (<> कामन्त-  
 L, न्दाकि- पा.) पाग २, ४, ६९.

कामर- ✓कम् द.

१कमल<sup>१</sup>- पाउभो २, ३, ९३; पाग

२, १, ५६; ४, १, ४५; ५, २-

१३५; -लेः अप १, ४३, ८.

कमला-, कमली- पा ४, १, ४५.

कमल-गर्भा(र्भे-आमा>)भ- -माः

अप ५२, ३, १.

कमलि(न्>)नी- पा ५, २, १३५.

२कमल<sup>१</sup>- पाग ४, ३, १०६<sup>भ</sup>.

कामलि- (> लायन- पा.) पाग

२, ४, ६१.

a) वैष १ द. । b) पाठाः! कामयमानाः इति शोधः । c) <✓कम् इति दे. । d) व्यय. ।

व्यु. ? । न्तक- इति भाएडा. । e) प्रोक्षयै इति: प्र. उर्म. (पा ४, ३, १०६) । f) वैष ३ द. । g) = पात्र-विशेष- ।

h) व्यय. । i) अपत्ये दन् प्र. उकारलोपध (पा ४, १, १३५, ६, ४, १४७) । j) = पद्म-विशेष- ।

क; अर्थः व्यु च ? । f) वैष १, १०९३ । द. । m) तु. पागम. ।

कामलिन्- पा ४,३,१०६.  
 कमलकीकर- (>काम्) कगल-  
 शीट- द्र.  
 कमलकीटा, र्क<sup>म</sup>- (>काम् वा.)  
 पाग ४,२,११०.  
 कमल-भिदा<sup>म</sup>- (>कामलभिद-  
 वा.) पाग ४,२,११०.  
 कामित्- ✓कम् द्र.  
 कामुजा<sup>म</sup>- जा काण्ड ५४: १९.  
 ✓कम्प<sup>म</sup>- पाठा. भ्या. आत्म. चलने,  
 कम्पते अप ५०,९,२; ७०<sup>१</sup>,११,  
 २३; निघ २,१२१; कम्पन्ते अप  
 ५७, १-४, २; कम्पन्ति अप  
 ६४, ७, ६.  
 कम्प्येते शैशि १२०.  
 कम्पयन्ति अप ६४, १, ५;  
 कम्पयेत् अप ६४, १, १०; ६८,  
 २, ६; शंघ.  
 कम्प-म्प: अप ६४, २, ३, ९; उस्;  
 -म्पम् उस् ८, २२x४; शैशि;  
 -म्पा: शैशि २००; कौशि २१;  
 -म्पात् अप ६४, १, ८; -म्पानाम्  
 अप ६२, २, ७; ६४, १, ६; -म्पे  
 अप ६४, १, ७, २, ४; -म्पेषु अप  
 ६२, ४, ६; कौशि १८; -म्पै:  
 आप्तो ११, १; -म्पौ अप ६४,  
 २, ५.  
 कम्प-प्रहास- स्ता: अप ६४,  
 ६, ४.  
 कम्प-विधि- नचि: शैशि १४५;  
 १५२.  
 कम्प-संवि-स्वरा (र-आ) दि-  
 न्य: कौशि ५६.

कम्प-स्वरा-ने शैशि २४१.  
 कम्पा (म्प-अ)र्षे- शैशि  
 १४३.  
 कम्पो (म्प-उ)स्वरिता(त-अ)  
 भिगीत- तम् माशि २,३,७.  
 कम्पन्- पाग ४, ४, ५९<sup>१</sup>; -नम्  
 वाधौ ९,१३,३५; अप ६४, ४,  
 १०; भास् १, २०; -ना: या  
 ६, ४; -ने अप ७१, २, २.  
 काम्पिक-, काम्पनीक- पा  
 ४, ४, ५९.  
 कम्पयन्- न्यत् सु १४, २; वृदे २,  
 ६७.  
 कम्पित- स्त: नाशि १, ४, ८; -तम्  
 माशि ५, २; -ता: अप ४७, ३,  
 ५; -तात् माशि ५, २.  
 कम्प- पा ३, २, १६७; -म्पाम्याम्  
 काधौ २२, ४, १७.  
 कम्प-निश्च- -श्राम्याम्, लाधौ  
 ८, ६, १०.  
 काम्पिल<sup>म</sup>- पाग ४, २, ८०.  
 काम्पिल्य<sup>म</sup>- पा ४, २, ८०; -ल्य:  
 कि ६२.  
 काम्प- रक- द्र.  
 काम्पल<sup>म</sup>- पाठ १, १०७; -ल:  
 वैध्रीका १९५; आप्त १, ३,  
 ८; हिप १, १, ८०; क्त ३, ८,  
 १११; या २, २, ३५; -लम् अप  
 १, ५०, १; असा १३, ३; वंवि  
 २, २१; -ला: वैध्री २६, ३२;  
 २८; -लानि हिप १, २२, १४१;  
 -ले असा ३, ४, ११; -लेन अप  
 ३३, ६, ५.

कम्पल-भा, हार<sup>क</sup>- पाग २, ४, ६३.  
 कम्पल-भोज- -जा: या २, २.  
 कम्पला(ल-अ)र्षे- पावा ६, १,  
 ८८.  
 कम्पय- पा ५, १, ३.  
 काम्पलिका, का<sup>म</sup>- (>काम्पलिका-  
 यन्<sup>म</sup>- वा.) पाग ४, २, ८०.  
 काम्पु<sup>म</sup>- पाठभो २, १, ८५<sup>म</sup>.  
 कम्पु-क(क->)ण्ठी- ण्ठीम् विघ  
 १, २३.  
 कम्पु-दूष- षे भाधौ ९, १६,  
 १७.  
 काम्पु- पाठ १, १३.  
 काम्पुका<sup>म</sup>- क्का: अशा १५, ५; -कान्  
 गोथ ४, ९, १४; द्राय ४, ३, ६;  
 कौथ ६३, ७१; असा ३, ४, ११;  
 वंवि २, ४१.  
 काम्पुका-विण्डक- क्का: अप १,  
 ३४, ३.  
 काम्पुका(क-का)हुति- -तिम् अशा  
 १५, ५.  
 काम्पुज<sup>म</sup>- पाग ४, १, १७५; २, १३३;  
 १३४; ३, ९४; -जा:, -जेषु या  
 २, २५.  
 काम्पुज- पा ४, २, १३३; ३,  
 ९३; -जा: अप १, ७, १०.  
 काम्पुज-मुण्ड- पाग २, १,  
 ७२.  
 काम्पुज-वादिहक- क्का: अप  
 ५७, २, ५.  
 काम्पुजक- पा ४, २, १३४.  
 काम्प- रक- द्र.  
 कम्प- ✓कम् द्र.

a) = प्राम-विशेष-। व्यु. १। b) कल्लकीट- , कल्लकीकम्प- इति पत्तो पाका.। षीक-  
 इति भाषडा. पाति.। c) = चूड-। d) पा ३, २, १६७ पावा ६, ४, २४ परावृत्त: द्र.। e) भाष., नाप. (ह्यवि-  
 विशेष-। वा.)। f) वृ. पागम.। अर्थ:। g) अर्थ: व्यु. च। h) = देव-विशेष-। i) वैप १ द्र.।  
 j) = गृह-विशेष-। क इति पाठ: १ यनि. शोष:। k) व्यप.। l) = सङ्घ-। व्यु. १। m) < ✓कम् इति।।  
 n) = जनपद-विशेष-, तद्राज- प्रथ.। व्यु. १।

कयाधु<sup>१</sup> -> कयाधव<sup>२</sup> -वः भाशि  
५२१.

कयाजुभीय- प्रम्. किम्- द्र.

१कर<sup>३</sup> - ३ैः अय ७०<sup>१</sup>, ११, १३.

करिन् -> करि-प<sup>४</sup> - पाग ६, २,  
१३४.

करि-पय- पा, पाग ५, ३, १००.

२कर- √कृ द्र.

३कर- √कृ (विधेय) द्र.

करक, का<sup>५</sup> - पाउ ५, ३५, पावाग ७,  
३, ४५; -कम् वैय १, ६ : २<sup>०</sup>.

करङ्क - पाउमो २, ३, ३.

करा, लज्ज<sup>६</sup> - पाउमो २, २, ९०; -जम्

वध २, १५, ५; -जस्य माशि ४, १

करा, लज्ज-पलण्डु-पारिका- काः

आपथ १, १७, २६; हिध १, ५,

५८.

करञ्जा(ञ-ञ)घ्रा(ञ-ञ)सवर्ण-

-गांः बौय २, ६, ९.

करट<sup>७</sup> - (> ष्टिव- पा.) पाउ ४,

८१; पाग ४, ४, १६<sup>८</sup>.

१करण - (> कारणिक- पा.) पाग

४, २, ११६<sup>९</sup>.

२करण - वरणि- णी- प्रम्. √कृ द्र.

कराण्ड - पाउ १, १२९.

करत् - णी- √कृ द्र.

१करभ - पाउ ६, १२२; पाग ५, ४,

३<sup>१०</sup>, -जे पा, पावा ५, २, ७९.

करभ-क- पा ५, ४, ३.

करभ-नायभ- पाग २, २, ३१<sup>११</sup>.

२करभ<sup>१</sup> - भाः बौध्रीत्र ३५ : १.

करभूर - पाउमो २, ३, ५९.

करभ्य - पाउ ४, ८२.

करम्भ<sup>१</sup> - पाउमो २, २, २३२; -म्भः

आध्री १२, ८, ३३; आध्री

१२, ४, १३<sup>१२</sup>; काठथी ११३:

वैथी १५, ५ : ३; हिथी ८, १,

५६; १२, ६, ६<sup>१३</sup>; वैताथी १६,

१७; कौस् १३८, २; -म्भम्

काथी ९, १, १५; ऋपाथी ८,

१५, १७; १२, ४, ६; वीथी ५,

१२ : १८; २०; १३ : १३:

१४ : २८; १५ : ३<sup>१४</sup>; ७, १२ :

४; २५, ३ : १४; २० : ४;

२८, ४ : ३; वैथी ९, ६ : ७, ९;

१५, ४ : ५; हिथी ८, १, ५०;

अथा ३, ४, १<sup>१५</sup>; -म्भस्य वीथी

५, १४ : २; ७; १२; १३; ७,

१२ : ९, वैथी १५, २५ : २;

-म्भात् माथी २, ४, ६, २६<sup>१६</sup>;

-म्भात् आपथी २०, १०, ५;

वीथी २८, ४ : ४; हिथी

१४, ३, ३, बौय ३, १०, ४;

-म्भाय माथी २, ३, २, २; ७,

८, -म्भेण वीथी ५, ७; १३<sup>१७</sup>.

करम्भ-चर्मन् - माणि वीथी १५,

१६ : ४

करम्भ-पात्र - प्राणि काथी ५, ५,

१०; आपथी, -त्रेयः माथी

८, ५, ९; -त्रेषु आपथी ८, ६,

१४; माथी ८, ७, १०; वैथी ८,

११ : ४; हिथी ५, २, ४३; -त्रै-

आपथी २२, ८, १२.

करम्भपात्र-करण - णम् काथी

५, ३, २.

करम्भपात्रा(द्र-ञ)थै- -थान्

आपथी ८, ५, ३७.

१करम्मिन् - भिभणम् आथी ५,

४, २; गोय ३, ३, ६.

करवाल - पाउमो २, ३, १०५.

करवीर<sup>१८</sup> - पाउमो २, ३, ५०; पाग ४,

२, ८०; -रस्य माशि ४, २.

कारवीर्य - पा ४, २, ८०<sup>१९</sup>.

करवीर-करत्र - जयोः नाशि २,

८, ४.

करवीर-करञ्जक - कौ याशि १;

३६.

करवीर-राहुपुण्यो(प-उ)पल-नन्वा-

वर्न-चम्पक-मल्लिका(वा-अ)सित-

गिरिकर्णिक-कलहार-तापिष्ठ-

पुण्य - ष्टैः वैय ४, १३ : १२.

करशिखण्ड<sup>२०</sup> - ण्डानाम् बौध्रीत्र

२६ : २.

करस् - √कृ द्र.

करस्कर<sup>२१</sup> - पाग ६, १, १५३<sup>२१</sup>; -रान्

वीथी १८, १३ : १<sup>२२</sup>; -राम्याम्

बौय २, ८, ३०<sup>२३</sup>.

करस्करा(र-ञ)वनाश - श्ये बौय

२, ८, ३०.

करस्न<sup>२४</sup> - स्नान् काथी १८, २४, ३;

-स्तौ निप २, ४<sup>२४</sup>; या ६,

१७<sup>२५</sup>.

१करस्सु<sup>२५</sup> - स्सुः प्राथी ११, १, ५;

लाथी ४, १, ५.

कराल<sup>२६</sup> - पाउमो २, ३, १००; -लः

शैशि १६०; पाशि २७; माशि

१५, २; याशि १, २६; नाशि

२, ८, १२; -लाय ऋषय ३६,

९, ४; ६६, ३, २.

- a) वैप २, ३, ६. द्र. । b) = सुएडा-दएड- । c) = हस्तिप- । d) घरा. । व्यु ! । e) = कम्पल्लु-  
[जल-पात्र-] । f) = वृक्ष-विशेष, रत्न-सङ्ग- । व्यु ! । 'ल' इति वैध. हिध. । g) कर्धः व्यु. च ! । h) तु. पागम. ।  
i) = ऋषि-विशेष- । व्यु ! । j) वैप १. द्र. । k) = वृक्ष-विशेष- । व्यु. ! । कर-थी<sup>२७</sup> इति MW. । l) = देश-विशेष- ।  
m) व्यु ! । n) तु. पागम. । करस्कर - इति भाण्डा. । = वृक्ष- वा गिरि- वा । o) = जनपद-विशेष- ।  
p) = चम्पारकदेश- तदधिष्ठित- देवता-विशेष- । q) विप. (काण- [वीणा-]) । व्यु. ! । r) वैप ३. द्र. ।

कराली- (> ञ्जी/कृ पा.) पाग  
१, ४, ६१.  
किराणीला: वाध १९, २१.  
करिक्रत्- ✓कृ द.  
करिक्रत<sup>०</sup>- -तः श्रम २, १०, १२६.  
करिणी<sup>०</sup>- ञी माशि ९, ११; याशि  
२, १३-१५; -णीम् माशि ९,  
१२.  
करित- ✓कृ द,  
करिण्- १ख- द.  
करिण्यस्- , करिण्यमाण- ✓कृ द.  
करिर<sup>०</sup>- पाठ ४, ३०; पाग ४, २,  
८९<sup>०</sup>; ३, १४१; ५, २, २४;  
६, २, ८७; -राणाम् माश्री ५,  
२, ६, २३; -राणि काश्री ५,  
५, १.  
कारिर- पा ४, ३, १४१.  
कारिगे<sup>०</sup>- -सि आश्री २,  
१३; १; वीथी १३, ४० : ५;  
माश्री ५, २, ६, २३; -र्था आश्री  
१९, २५, १६; वीथी १३, ३७ :  
१; माश्री ५, २, ६, १; द्विथी  
२२, ६, १.  
कारिरी-वत्- -तम्  
आमिष्ट १, २, १ : २०<sup>०</sup>; वीथ  
३, १, २६.  
कारि-कुण- पा ५, २, २४.  
कारि-भरष- पा ६, २, ८७.  
कारि-मूल- -लग् वीथ २९, २०.  
कारि-वत्- पा ४, २, ८६.  
कारि-सक्तु- -त्तवः आमिष्ट २, ५,  
१० : ३; -कृन् आश्री १९, २६,

१; वीथी १३, ३७ : २; ६; ३८,  
७; माश्री १, ७, ४, ७; ५, २,  
६, ३; ५; द्विथी २२, ६, ६;  
आमिष्ट २, ५, १० : १८.  
कारि-सक्तु-मि(ध्र >)आ-  
-आः श्रम ३०<sup>०</sup>, १, १७.  
कारिरी<sup>०</sup>- पा, पाग ४, १, ४१.  
इकरिप<sup>०</sup>- पाठ ४, २६; पाग ४, २,  
३८; ५, २, १३५; -पाणि वाश्री  
१, ४, २, ८; -पे माथ १, २३,  
९; १७; वाथ ७, ८; विष २३,  
६१.  
कारिष- पा ४, २, ३८.  
कारिषं-कय- पा ३, ४, ४२.  
कारिषा(प-आ)दि- -दिसु वैथी १,  
११ : २.  
कारिपिन्- पा ५, २, १३५; -पिणः  
वीथ ८९, १२०.  
कारिपिणो- ञीम् आमिष्ट २,  
६, १ : २९; माथ २, १२, ६.  
इकरिप<sup>०</sup>- > कारिषायण- -जाः  
वीथीप्र १७ : १८.  
कारिषि- -पय वीथीप्र २२ : ३;  
३६ : १.  
इकरण<sup>०</sup>- -कृण् वीथी ३, ३० : ३<sup>१</sup>;  
७; निष २, १.  
इकरण, पा<sup>०</sup>- पाठ ३, ५३; पाग ३,  
१, १८; ५, २, १३१<sup>०</sup>, ६, २,  
१७०; -णम् वप ६८, २, २४;  
-णा नाशि १, ७, १०.  
✓कहणाय पा ३, १, १८.  
करगिन्- पा ५, २, १३१.

कहणय<sup>०</sup>- > ञ्य-तर- -रः भाशि  
९२<sup>०</sup>.  
कहण- पाठना ४, १८१.  
करम<sup>०</sup>- -माः श्रम ३, ४, ११<sup>०</sup>.  
कहकर<sup>०</sup>- -रम् श्रम ३, ४, ११<sup>०</sup>.  
करकळतिन्- -सी श्रम ४८, ११५;  
वृदे ४, १३१; निष ४, ३; या  
६, ३०९<sup>०</sup>, ३१.  
करुणा, व<sup>०</sup>- पाठमो २, ३, १६६;  
( > कारुणी- पा. ) पाग ४,  
१, १७६.  
करेडु- पाठवृ १, ३७.  
करेणु<sup>०</sup>- पाठ २, १<sup>०</sup>; -मुम् वप ६८,  
२, २८; शोध २५४.  
करेणु-पाल<sup>०</sup>- -लानाम् वैथ ४, ८,  
५.  
करेणुपाल- -०ल वीथीप्र  
२५ : ३; वैष ४, ४, ५.  
करेणुनालि- (> करेणु-  
पालायन- पा.) पाग २, ४, ६१  
-लवः वीथीप्र १५ : ११; २.  
करेणुपाल-वत् वीथीप्र १५ : ४;  
वैष ४, ४, ५.  
करोट- पाठमो २, २, १११.  
कर्क<sup>०</sup>- पाठ ३, ४०, पाग ४, २, ७७<sup>०</sup>;  
५, २, १००<sup>०</sup>; -र्कः काश्रीसं  
३६ : १३<sup>०</sup>, -र्कम् माश्री ३, ६,  
१६.  
कर्क<sup>०</sup>- पा ४, २, ७७.  
कर्ककि- पा ५, ३, ११०.  
इकर्क-श- पा ५, २, १००.  
कर्कट<sup>०</sup>- पाठमो २, २, १७.

a) = शक्ति-विशेष- । व्यु. ? । b) = स्वरगति-विशेष- । व्यु. ? । c) तैप १ द. । d) किरा- इति पाठ. । e) = इष्टि-विशेष- । f) कारिरी इति पाठः ? यदि. शोधः (तु. वीथ). । g) = करिदन्तमूल- (तु. पागम.) । व्यु. ? । h) पामे. तैप २, १०१४ । द. । i) ञ्णाम् इति पाठः ? यदि. शोधः (तु. तप. तै १, ६, ४, ४) । j) = दया । तैप ३, २२२ ० द. । k) ञ्ण- इति पाठ. । l) तपसाधनीयः पत्र प्र. (पा ४, ४, १८) । m) तु. पाठ. पाठमो. च । n) = इतितद्- । व्यु. ? । o) < ✓कृ । p) = कवि-विशेष- । उत. । q) चप्रा. । व्यु. ? । r) अर्थः ? । s) = आचार्य-विशेष- ।

कर्कटक- (>कार्कटव्य-,>कार्क-  
टक- पा.) पाग छ, १,१०५; २,  
१११.

कर्कटा- (>वर्कटिन्-) कट्ट- टि.  
द.

कर्कन्तु- (>कार्कन्तव- ) कन्तु- टि.  
द.

कर्कन्धु, न्यु<sup>३</sup>- पाउ १, ९३; पाग छ,  
२, ८६; ३, १३४, ५, २, २४; ६, २,  
८७; पावाग ६, १, ९३.

कार्कन्धव- पा छ, ३, १३४;  
१६४<sup>३</sup>.

कर्कन्धु-कुण- पा ५, २, २४.

कर्कन्धु-णो- नानि कौष्ट छ, ४,  
१९; शाष्ट ४, १९२.

कर्कन्धु-प्रस्थ- पा ६, २, ८७.

कर्कन्धु-मत्- पा छ, २, ८६.

कर्कन्धु, न्यु<sup>३</sup> मतो- (>कार्क-  
न्धु, न्यु<sup>३</sup> मत- पा.) पाग छ,  
२, ७७.

कर्कन्धु-सन्तु- वन्तुभिः आपथी  
१९, २, १०; वीथी १७, ३४; १५;  
माथी ५, २, ४, २१; ११, १६;  
वाथी ३, २, ७, १८; द्विथी १३,  
८, २३; -वत्त्वं वैथी ११,  
४: २.

कर्कर<sup>३</sup>- (>कर्करो- पा.) पाउमो २,  
३, ३५; पाग छ, १, ४१<sup>०</sup>.

कर्करि<sup>३</sup>- रिः कौस्त छ ६, ५४<sup>१</sup>.

कर्करिक- कः शोधो १२, १८,  
११.

कर्करिक, का<sup>३</sup>- पाउना छ, २०; -काः  
वीथी १६, २०: ६; २६, १७:  
१३; -कानिः वीथी १६, २१:

५; १४; २६, १७: ११.

कर्करेडु- पाउष्ट १, ३७.

१कर्करेश- कर्क- द.

२कर्करेश<sup>३</sup>- पाग छ, २, ७७<sup>३</sup>; -वाः  
वीथी २, ५: १४<sup>३</sup>; -शानाम्  
मासि १६, १२; यासि २, १०६.

कार्कस- पा छ, २, ७७.

कार्कार- पाउमो २, १, १००.

१कर्को<sup>३</sup>- वा ५, ३, ११६, ६, २, ८७.

कर्को-प्रस्थ- वा ६, २, ८७.

कर्को- पा ५, ३, ११६.

२कर्(कि>)को<sup>३</sup>- को<sup>३</sup> कौस्त ६६,  
१३<sup>१</sup>.

कर्को-प्रवाद(>)दा<sup>३</sup>-दानाम् कौस्त  
२१, ११.

कर्कोट- पाउमो २, २, ११२.

✓कर्को<sup>३</sup> पाधा. अा. पर. व्ययने.

✓कर्को<sup>३</sup> पाधा. सु. पर. भेदने.

१कर्ण<sup>३</sup>- पाउ ३, १०; पाग ५, २,  
२४; ९७, -णैः माष्ट १, ३, ४;  
कौस्त ५८, ११; या १, ९; सुया २,  
३१<sup>१</sup>; वा ६, २, ११२; -णैम्  
आपथी १९, १७, १, २०, १८,  
१३; २२, १६, ७; वीथी १४,  
१३: ३५, १५, ७: १२; १६,  
२६: १३; द्विथी १४, ३, २९<sup>१</sup>; २२,  
१, १३, वीष्ट १, २०, ६;  
भाष्ट १, ८: ८; १७: ११;  
२४: २; कौस्त १०, ८; ५८,  
१; वा ९, १८<sup>१</sup>; -णैयोः काथी  
२५, ७, २७; आपथी; -णैस्त्य  
रुन ५, १, ११-णां वा १०, ४१<sup>१</sup>,  
-णांश्वाम् आपथी ५, ६, १२;  
आपथे १, १७, ११<sup>३</sup>; आष्ट ३, ६,

८<sup>१</sup>; पाष्ट २, ६, १९; ३, १५, २३;  
वीष्ट २, ५, ४१<sup>१</sup>; माष्ट १, ९,  
२५<sup>१</sup>; वाष्ट १२, २<sup>१</sup>; या ७,  
३<sup>१</sup>; -णै आथी ३, १४, १९;  
शोधो छ, १४, २३; काथी १३,  
४, १८; आपथी; वा ६, ३, ११५;  
-णैभिः आथी ५, १९, ५८, १४,  
१८; आपथी १४, १६, १; वीथी  
१९, १०: ६; द्विथी १५, ५, १;  
कौष्ट ३, ५, ३; शाष्ट ३, ८, ६;  
५, ५, ११; वाष्ट ७२, ३; माष्ट १,  
१, १९; वैष्ट १, ६: १२; अप्राय  
६, १<sup>३</sup>, सुष्ठ ३, ५२; -णै काथी  
६, ६, ३; आपथी ६, २०, २<sup>१</sup>;  
माथी २, २, ३, २०; वैथी १३,  
१७: ३; शाष्ट ५, ५, ११; आपष्ट  
११, १३; वाष्ट २, ४; ३, १०; वैष्ट  
१, ३: ११; गौष्ट १, २, ८; कौस्त  
छ ४, २२; अप २, १, ४, वाष्ट २,  
१०<sup>१</sup>; शंघ ५७, छ ५६; आपघ  
२, १९, १; विघ ३०, ४७<sup>१</sup>; ९६,  
९२; द्विघ २, ५, ७३; वृदे ८,  
११८; अम १६, २<sup>१</sup>; या २,  
४<sup>१</sup>; १०, ४१<sup>३</sup>.

२कर्ण, ना<sup>३</sup>- -णै आपथी ९, १४,  
१४; माथी ९, १६, १७; द्विथी  
१५, ४, २१<sup>१</sup>; -णां अम ५,  
१३<sup>१</sup>; -णां आपथी १८, ११,  
१५; २५, ४, २४; वीथी १२,  
६: ८; द्विथी १३, ४, २३; १७,  
२, २८; -णां आपथी १८,  
११, १३; वीथी १२, ६: ३; ७;  
द्विथी १३, ४, २२.

१कर्ण-क<sup>३</sup>- -कौ शोधो १२, २२,

a) वैष्ट १ द.। b) पृ ८२६ पृ द.। c) तु. पावा.। d) अर्थः व्यु. च १ e) कर्करक- इति [परे] भाष्य.।  
f) = वाय-विशेष-। म्यु. १। g) वैष्ट २, २२३ b द.। h) अर्थः !। i) भाष. = कर्कसता-। j) = आशुषजीवि-संघ-। म्यु. १।  
k) विघ. (माचू-। बच.। l) = धोत्रेन्द्रिय-, तद्वत्, घोष, पार्व-। m) पाभे. वैष्ट १, १०९९ b द.। n) २, १ कर्ण-  
वैष्ट १ द.। इत्येतदोरथ समारोहः द.। o) कर्क इति पाठः इति यनि. शोधः। p) पाभे. वैष्ट १, १०९९ h द.।

३१.

३१. कर्ण-क<sup>०</sup> - पाग ५, २, ३६.

कर्णका(क.प्र)भाष<sup>०</sup> - ङे काथी

१८, ४, ७.

कर्णकाय (त >) ती<sup>०</sup> - ती

तीषा ३, ५; - तीम् वापूथी ४, ३० : १२.

कर्णकित<sup>०</sup> - पा ५, २, ३६.

कर्णकोष्ठ- (> कर्णकोष्ठ- पा.)

कोष्ठ-कणु- टि. ६.

कर्णगृहीत, ता<sup>०</sup> - तम् माथी २,

१, ४, ३३; - ताम् हिथी ७, २,

२३; - तेव थापथी १०, २९,

४; वीथी २३, १२ : २८; माथी

१०, २०, ४; वैथी १२, २० :

१३; हिथी ७, ३, २१.

कर्णप्राह<sup>०</sup> - (> कर्णप्राहिक- पा.)

पाग ४, १, १४६.

कर्णघोष-वल् - वलि पाय २७६ : १२.

कर्णरिच्छ- ङे वाथी २, १, ७, ५.

कर्णउद्ग-प्रतीयास- -शाः अय

५२, ७, ५.

कर्णखेद- -दम् अय ६८, २, १०.

कर्णजाह- पा ५, २, २४.

कर्णमत्र- -मम् थापथी ५, १४,

८; माथी १५, ४, १३; वाथी

१, ४, ३, १४; हिथी ३, ४, १८;

- ङे वाथी १, ४, ३, १३.

कर्णधार<sup>०</sup> - -राः या १४, ३३.

कर्णध्वनन- ङे थाय ३, ६, ७.

कर्णनासा-विकर्तन- ङे विष ५,

६८.

कर्णपत्रक- ङी विष २६, १२.

कर्णपत्रिक- -त्रे गौपि २, ६, १२.

कर्णप्रावृत्त- -ताः वैथी १६, १८ :

१०.

कर्णमूल- > 'तीय- -यः शैषि

१३०.

कर्णपुग्म- -ग्मे अय ४५७ : १२.

कर्णरु- पा ५, २, १७.

कर्णखलात-नामिका- -काः माथि

१२, ५.

कर्णखोमन्- -मानि थापिण ३,

५, ८ : ५; वीपि १, ७ : ७.

कर्णनव्- -वन्तः या १, ९१.

कर्णविष्- -विट् विष २२, ८१.

कर्णवेधन<sup>०</sup> - -मन् कोय १, ३०, १.

कर्णनेत्रक<sup>०</sup> - पाग ५, १, ४; - ङी

पाय २, ६, २६.

कर्णवेद्यकीय- -व्यय- पा ५,

१, ४.

कर्णध्वस्- > कर्णध्वस<sup>१</sup> - -सम्

ताथी ७, ३, ३.

कर्णध्वसा(ग-आ) विग-स-

ल्प- -पाणाम् लाथी ६, १०, ४.

कर्णभ्राथिन्- -विगि गीष १६, ६.

कर्णभ्रुव<sup>०</sup> - -ध्रुव् अय २, ९, १७;

ताम १, ५३८.

कर्णसंघित- -तः कुदे ८, ११३.

कर्णसंघित- -तः वीथी १९, १ :

६; ७.

कर्णसहि(त >) ता<sup>०</sup> - -राः काथी

१७, ६, ३.

कर्णस्य-प्रसृष्ट<sup>०</sup> - -त्रः थापिण

२, ६, ८ : ४.

कर्णा(ख-आ) तद<sup>१</sup> - -इय् थापथी

१२, ७, ३, ४; हिथी ७, ५, १६३.

१ कर्णिका- पा ४, ३, ६५<sup>०</sup>; - कय

अय १८, १, १६<sup>०</sup>.

कर्णिका-मण्य- -व्ये थापिण २,

४, १० : ६.

कर्णिन्- -जिभिः वीष १, १०, १०.

कर्णिनी- -नी वीथी १८, ४६ :

१४; - म्यः ताथी ८, ६, २३;

- व्यी वाथी २२, ४, २३.

कर्णचुय, र<sup>०</sup> पुरा- पाग २, १, ४८.

कर्णजप- पा ३, २, १३.

कर्ण-तिरिदिता<sup>०</sup> - पाग २, १, ४८.

३ कर्ण- पाग ४, १, ११२<sup>०</sup>, २, ८०१;

- णः अय ५२, ९, ४<sup>०</sup>.

कर्ण- पा ४, १, ११२.

कर्णायनि<sup>०</sup> - पा ४, २, ८०.

३ कर्ण-क<sup>०</sup> - पाग २, ४, ६६.

१ कर्णाजायेन वाथुथी ४, १०८ : २.

कर्णाटा, डाक<sup>०</sup> - पाग २, ४, ६३.

२ कर्णिका<sup>०</sup> - कानाम् हिथी २१,

३, ५८.

कर्णिकार<sup>०</sup> - > 'र-यत- -नागि अय

१८, १, १६.

कर्णिन् " कौषि ४५.

कर्णु<sup>०</sup> - (> कर्णव- पा.) पाग ४, २,

१३३.

a) वैष १६. b) पू. = दासकोटरीग- c) = अडुडरित- इति MW. d) व्यप. i) व्यु. !

e) = नाविक-। उसा. पू. = अरिप-। f) = कर्ण-मूल-। g) = संस्वार-विशेष-। h) = कुण्डल-। पस.।

i) = साम-विशेष-। j) विष. (इष्टका-। k) विष.। उसा. > वस.। l) = ईपासुधानकील-।

m) = अलंकार-विशेष-। n) = ओषधि-विशेष-। o) तु. पाका.। p) 'ऑ-तिदिन- इति पाका., 'ऑ-तिरिदिनि-

इति पागम.। q) कर्ण. व्यु. च ?। r) = सूर्य-ग्रह-। s) = देश-विशेष-। t) रवाधिकः कः प्र.। u) व्यप.।

व्यु. !। v) इति पाका.। w) = वनराति-विशेष-। व्यु. ?। x) व्यप.। पाठः ? कुण्डल- > -नः इति शेषः

(तु. तै. काण्डानुक्रमणि २७)। y) तु. पागम.।

वैष ४ प्र-१२



इकण्याः वाध्री ३, २, १, २.  
 ✓कर्त् पाथा. जुं. उम. शैथिल्ये.  
 इकर्त्- ✓हृत् (छेदने) द.  
 इकर्त्- ✓हृत् (वेदने) द.  
 कर्त्तरि, री- ✓हृत् (छेदने) द.  
 कर्त्तव्ये, कर्त्तव्य- ✓हृत् द.  
 कर्त्त- पाठभो २, १, ६४.  
 कर्त्तम् ✓हृत् द.  
 इकर्त्- (>कार्यं- पा.) पाग ४,  
 १, १५१.  
 इकर्त्- कर्त्तव्यः (ः) ✓हृत् द.  
 ✓कर्त् ✓कृत् टि. द.  
 कर्त्- ✓हृत् द.  
 ✓कर्द् पाथा. भ्वा. पर. कुत्सिते  
 वाद्ये.  
 इकर्द्. दीम<sup>०</sup>- पाठ ४, ८४; पाग ४,  
 २, ८०<sup>०</sup>, ५, २, ३६; १२७;  
 १३५; कि ५९; -सम् वाध्री  
 २५, ८, २; रूप ७१, १३, ५,  
 -सेव गौवि १, ६, २.  
 कर्द्- वादीमिक- पाठा ४,  
 २, २.  
 इकर्द्- पा ५, २, १२७.  
 कर्द्-क- पा ४, २, ८०<sup>०</sup>.  
 कर्द्म-कृत्- येयु था ६८, ५, २.  
 कर्द्म-भिरयन्तःकोण-वेध- -येः  
 धय ३, १०, १६.  
 कर्द्मित- पा ५, २, ३६.  
 कर्द्मित (>)नी- पा ५, २, १३५.  
 कर्द्मित- पा ४, २, ८०<sup>०</sup>.  
 कर्पट- पाठ ४, ८१; पाग २, ४,  
 ३१.  
 कर्पर- पाठभो २, ३, ३९.

कर्पास<sup>०</sup>- पाठ ५, ४५; पाग २, ४,  
 ३१.  
 कर्पासो- पाग ४, २, १३६.  
 इकर्पाय- पा ४, २,  
 १३६; -सम् वाध्री ९, ४, १७;  
 लाध्री ९, २, १४; निम् १, ११ :  
 ८; गोय २, १०, ११; शंष २३५;  
 विध ७१, १५; गौध १, २०.  
 कर्पास-क्रीटनो (ज-  
 क) णां (णां-ञ) पहरण-  
 -ये विध ५२, ११६.  
 कर्पास-शाणा(ण-ञ)  
 विक- -कानि विध २७, १९.  
 इकर्पास<sup>०</sup>-सः आगिण २, ४,  
 १ : ३.  
 कर्पासा(त-ञ)स्थि- -स्थि  
 विध ६३, २५.  
 • कर्पासो (त-ञ)स्थ- -स्थम्  
 विध ७९, ३.  
 कर्पासिक- -रानि वीध १, ६,  
 १०.  
 कर्पास-तन्तु- > कर्पासतान्तव<sup>०</sup>-  
 -ञम् विध ४४, २८.  
 कर्पूर- पाठ ४, ९०, पाग ४, १, १२३,  
 २, ८०<sup>०</sup>.  
 कर्पूरेय- पा ४, १, १२३  
 कर्पूरि<sup>०</sup>- (> कर्पूरिण- पा.)  
 पाग ४, २, ७७.  
 कर्पूरिल- पा ४, २, ८०<sup>०</sup>.  
 ✓कर्प् पाथा. भ्वा. पर. गती.  
 कर्पट<sup>०</sup>- पाग २, ४, ३१<sup>०</sup>.  
 कर्पुदार- पाठभो २, ३, ४५.  
 कर्पुट- पाठ १, ४१; -रम् रूप ४८,

७५१.  
 कर्म- ✓हृत् द.  
 इकर्मग्रामोऽयच्छेत<sup>१</sup> वाध्री ३, २, ५,  
 ४३.  
 कर्मन्- ✓हृत् द.  
 कर्मन्द्-> इन्द्रि- पा ४, ३, १११.  
 कर्मर- ✓हृत् द.  
 ✓कर्क् पाथा. भ्वा. पर. द्वे.  
 कर्क्-कर्मर- ✓हृत् द.  
 कर्क्णि<sup>०</sup>- णी माशि ९, ११;  
 -गीम् माशि ९, १२;  
 इकर्क्णि<sup>०</sup>- -फस्य वीम् ४३, १; अथ  
 ३, ९.  
 कर्शित्या ✓हृत् द.  
 कर्श- कर्श- ✓हृत् द.  
 कर्षट- पाठभो २, २, ९७.  
 कर्षण- कर्षन्- कर्षमाण- कर्षयित्वा  
 • ✓हृत् द.  
 कर्षा<sup>०</sup>- पासु अथ ६८, २, ४६.  
 कर्षापण<sup>०</sup>- पाग ५, ४, ३८<sup>०</sup>.  
 इकर्षाय- पा ५, १, २९; ४, ३८;  
 पाग २, ४, ३१; -णः शंष  
 ३२२, विध ४, १३; -णम् विध  
 ५, ५४; -णाः शंष ३१२<sup>१</sup>;  
 ३२४, विध ५, ३८; वाध १९,  
 २१; -णात् पादा ५, १, २५;  
 -णात् विध ५, ५२; ५३; ६०;  
 १३९.  
 कर्षापण-इय- -यम् विध ५,  
 २७.  
 कर्षापण-पञ्चविंशति- -तिम्  
 विध ५, ११.  
 कर्षापण-शत- -तम् विध ५,

a) कर्षः स्यु. च! b) वेप १, ३३ द. । ई<sup>०</sup> इति वय । c) कर्षः ?! d) = देण-विशेष-? ।  
 e) नाप. । स्यु. ! < ✓हृत् [कर्षः ?] इति प्रायोवादः । कर्पास- इति पाठना. । f) णांघण इति जीवै. ।  
 g) = कर्पास- । रशांश्च ऋत् प्र. । h) विर. । तत्त्वेदनीयः ऋत् प्र. उभयपदद्वयविध । i) तु. पागम. ।  
 j) पाठाः सय. आध्री २१, २०, ३ श्लेषे स्पृधे प्राप्ते इति पाठे. । l) = स्वरभक्त-विशेष- । स्यु ! । सय. याशि  
 २, १३ कुर्विनी इति पाठे. । m) वेप १ द. । n) = पीडयत्त-प्रमाण- । स्यु. ! । o) का इति पाथा. ।

२६; ३३; ४४; ५०; ५७.  
 कार्पाण-शतद्वय- -यम् विध  
 ५, २६.  
 कार्पाण-सहस्र- -साम्याम् पा  
 ५, १, २६.  
 कार्पाणिक- पावा ५, १,  
 २५.

कार्पिन- कर्प- प्रत्य.  $\sqrt{\text{कृष्}} \text{ द.}$   
 $\sqrt{\text{कल्}}$  (वपा.), पावा. भ्वा. आत्म.  
 शब्दसंस्थानयोः, घुरा. पर.  
 क्षेपे, उभ. गती संस्थाने च,  
 कालवति निघ २, १४१.  
 कल्<sup>०</sup> => कल्-हंस-प(दु>)दी<sup>०</sup>-  
 पाग ५, ४, १३९.

कलित- पाग २, १, ५९.  
 कलकीट<sup>०</sup> - (> कालकीट- पा. )  
 पाग ४, २, ११०.  
 कलकूट<sup>०</sup> -> कालकूटि- पा ४, १,  
 १७३.  
 कलकूट<sup>०</sup> - पाठभो २, २, २०; पाग ५,  
 २, ३६.

कलद्वित- पा ५, २, ३६.  
 कलज-करज- द.  
 कलत्र<sup>०</sup> - पाउ ३, १०६.  
 कलन<sup>०</sup> - (> कालनक<sup>०</sup> - पा.) पाग  
 ४, २, ६०.  
 कलन्दन- भलन्दन- टि. द.  
 कल्प- पाठनाष्ट ३, १४२.  
 कलभ- पाउ ३, १२२; पावाग  
 ८, २, १०८.  
 कलम- पाउ ४, ६४.

कलम्ब- पाठना ४, ८८.  
 कलल<sup>०</sup> - पाठभो २, ३, ९६; -लम् पा  
 १४, ६.  
 कललकीकटा-, कललकीट-  
 कललकीट- टि. द.  
 कल-व(त् >)ती<sup>०</sup> - ती कप्र ३, ९,  
 १०.

कलविह<sup>०</sup> - पाठभो २, २, ३२; -ङ्कः  
 वृदे ६, १५१; -ङ्गाम् आपथी  
 २०, १४, ५१.  
 कलविह-पठ्य-चक्रवाक-हंस-रज्जु-  
 दाक-सारस-दाव्यूह-शुक-सारिका-  
 बलाका-यल्ल-कोकिल-खञ्जरीदा-  
 (ट-स)दान- -ने विध ५१,  
 २९.

कलविह-ह(रिङ्)व-चक्रवाक-हंस-  
 चाप-मास-कौस्तुभ-कक-  
 गृध-श्येन-बलीक-मल्ल-यिहिरा-  
 खञ्जरीदे(ट-उ)हृह-रक्तपादा  
 (द-मा)दि-मांस-भक्षण-  
 -ने सुख ३५

कलश<sup>०</sup> - पाठभो २, ३, १४२; -दाः  
 शायी ५, ५, १९१; काथी; या  
 ११, १२१; -सम् काथी ८, ९,  
 १८; आपथी; माण २, ११,  
 १२१; गोण २, १, १२०;  
 -साः शांथी ७, १५, ८१; नाथी  
 २, ३, ७, ६१; -तात् आपथी  
 १४, २०, ३, यौथी; -शाल् शांथी  
 १७, ४, ८; १७, ९; माथी; या  
 ११, १२१; -दानाम् अप २१,

२, १; -तो शांथी १३, १२, १३;  
 जैथीका; -केषु आथी २, १२,  
 ४१; ५, १२, १५१; शांथी;  
 -तोः वैथी २१, ४ : ६; थाण  
 २, ८, १६१; कौण ३, २, ६१;  
 नाण ३, २, ९१; पाण ३, ४, ४१;  
 काण ११, २१, १६४, १० :  
 १८; हिय १, २७, ४१; अप  
 ५, १, २; वीथ १, ५, १२६;  
 -तो आपथी १२, २९, ९४४;  
 वैथी.

कलशी<sup>०</sup> - शीथीः आपथं २,  
 १५, ४; शामिण २, ४, १ : १६;  
 भाण २, ३ : ९.  
 कलशी-कण<sup>०</sup> - पाग २,  
 ४, ६९.

कलशी-म(दु>)दी<sup>०</sup>-  
 पाग ५, ४, १३९.  
 कालशिक<sup>०</sup> - काः वैध १,  
 ८, १.

कलश-भेदन- -ने काथी २५, १२,  
 २३.  
 कलश-व(त् >)ती<sup>०</sup> - तीः शांथी ७,  
 १५, ८.

कलशि<sup>०</sup> - (> कालशेप-) पा ४, ३,  
 ५६.

कलह<sup>०</sup> - पाठभो २, ३, १८५; पा ६,  
 २, १५३; पाग २, ४, ३१; -हः  
 माण २, १४, २९१; -हम् हिथी  
 ६, ७, ८; हिय १, २९, २, अप  
 ६, १, १०; -हाम् वैण १, १९ :

a) या २, २५ पराष्टः द. । b) विप. । पा. कान्तो युक्तिः । c) कस. > वस. । d) अयं:  
 व्यु. च ? । e) = योद्ध-वंश- । व्यु. ? । f) = विह, अपवाद- प्रत्य. । व्यु. ? । g) नाप. । वैप ३ द. ।  
 h) = देश-विशेष- ? । i) तु. पागम. । = धरम- । j) नाप. । व्यु. ? । k) = बद्री-शाखा- ।  
 व्यु. ? । l) वैप ३ द. । m) पाठः ? यनि. शोधः ( तु. विध. ) । n) पात्रे. वैप  
 १, १०१७ । द. । o) 'सम्' वाचि. यनि. शोधः । p) व्यप. । वस. । q) = वानप्रस्थ-  
 विशेष- । r) कलवा- । s) = युद्ध- । व्यु. ? कल- + ह- (<  $\sqrt{\text{कल्}}$ ) इति क्मा. ।  
 j)  $\sqrt{\text{कल्}}$  ।

२९; -हे अप ७०<sup>३</sup>, १६, ३; सु  
५, ४.  
कलह-कर्मन्- मैगि अप २६, ४, ६.  
कलह-कार- पा ३, २, २२.  
कलह-प्रिय<sup>४</sup>- न्याः अप ३८, १, ९.  
✓कलहाय पा ३, १, १७.  
कलिन्- हि कौस् ९७, १; -हिन्ः  
आय २, ७, ११; -हिनि कौस्  
९३, ५.  
कला<sup>१</sup>- पाग ४, २, ८०<sup>६</sup>; कि ५७,  
-लया आपथी १०, २५, ४;  
काथी; -ला शायी १६, २२,  
१८; बौथी; -लाः शायी १६,  
२२, १६; बाधुथी; या ६, ६; ११,  
१२; -लानाम् वेज्यो ३८<sup>१</sup>,  
-लाम् अप ८, १, ४××; बाध;  
-ले निम् ५, १२ : ५.  
कालायन<sup>२</sup>- पा ४, २, ८०.  
कलभ्रिदान्- न्वात् आज्यो १, ४.  
कला-मर<sup>३</sup>- नः गौष ६, १६.  
क(त्य>)व्या<sup>४</sup>- न्वा व्याप्रिय २,  
६, ५ : २४  
कलाप<sup>५</sup>- पाः बौध्रीप्र ३१ : ८<sup>१</sup>; -पात्  
आपथी ८, १, १५; हिथी ५, १,  
११; -पेन अप ५८<sup>२</sup>, २, ८<sup>३</sup>.  
कलाप-मा(त्र>)प्रः- न्नाम् अप  
३६, १७, १.  
कलापिन्- पा ४, ३, ४८; १०४;  
पाग ४, १, ११२<sup>१</sup>; पावा ६, ४,  
१४४; -रि आपथी २२, ३,  
८<sup>२</sup>; बाधोमि २८ : २; -पिनः

काथी २२, ३, १८; पा ४,  
३, १०८; -पिनम् शेष ११६;  
६०<sup>३</sup>; -पी आथी ९, ७, १८;  
काथी २२, ३, ४८; लाथी ८, ३,  
६.  
कालाप- पा ४, ३, १०८;  
पावा ६, ४, १४४.  
कलापक- पा ४, ३, ४८.  
कलापि-खाडायन-ग्रहण- न्गम्  
पावा ४, ३, १०४.  
कलापि-वैशोपायना(न-म)न्वेवा-  
तिन्- -सिम्यः पा ४, ३, १०४.

कलाय- पाठो २, २, ८.  
कलि<sup>१</sup> पाठ ४, ११८<sup>१</sup>; -लिः शायी  
१५, १९, १; बाधुथी ४, ५९<sup>१</sup>;  
६; अप ६७, १, ४; या ११,  
१२<sup>१</sup>, -लिम् काथी १५, ७,  
१९; आपम २, १३, ७<sup>६</sup>; अप  
७०<sup>३</sup>, ३२, ४, ५; -लेः बाधुथी  
४, ५९<sup>१</sup> : ४; कप २, १०,  
१०; -लौ वैथीका १.

✓कलि पा ३, १, २१.  
कलि-युग- न्गम् विध २०, ६.  
कलि-मरे(त>)ता- न्नाम् विध  
९९, २२.  
कलि-स्तोम- माः निम् १, १ : ७;  
१२-१४.  
कलि-स्थान- न्गम् निम् १, ६ : ६.  
कलि<sup>१</sup>- न्यः बौध्रीप्र ४४ : २;  
-लिः शाय २, ८, ६६; शाय १,  
२३९; २७२; २, ९५९, अप २०,

९७; -लेः पा ४, २, ८; पावा ४,  
२, ७.  
कालेय<sup>२</sup>- पा ४, २, ८; पावा ४,  
२, ७; -यम् शायी ७, २४, १;  
१५, ७, ५; बौथी १८, १५ : ९;  
वैथीका १८१; लाथी ९, ५, १८;  
१०, ७, ९; चुम् १, २ : १०××;  
-नस्य लाथी ७, ८, २; ९, ५,  
१६; निम् ५ ४ : १४; -यात्  
धुम् १, ४ : १०; २९; ६ : १९;  
८ : १०; निम् ४, १० : ११;  
-येन वैथी १७ : २५.  
कालेय-रैवत- -ते आथी ९,  
११, ९.  
कालेय(य-श)र्षे- -यर्षः शायी  
९, २, १७; लाथी ३, ६, १८.  
कालेय-स्थान- -ने शायी ८,  
३, १६; लाथी ४, ७, ३.  
कालेय<sup>१</sup>- न्याः बौध्रीप्र ४४ : १.  
कालिका- पाठो २, २, १५.  
कलिङ्ग<sup>२</sup>- पाठो २, २, ६३; -न्नाम्  
बौथी १८, १३ : २; बौष १, १-  
३०; ३१; -ङ्गानाम् अप १, ६,  
२, -त्रैषु बौथी २, ५ : २०<sup>१</sup>;  
जैय २, ९ : १८; अप ५१, १, ३.  
कालिङ्ग- पा ४, १, १००.  
कलिङ्ग-मुत्-शुधिवी-मण्डल-  
मध्य- -ये अप ५६, १, २.

कलित- ✓कल् द.  
कलित-दूरण- पाग २, ३, ३७<sup>१</sup>.  
कलिन्द<sup>३</sup>- पाठो २, २, १६८.

- a) विर. १ वस. १ b) वेप १ द. १ c) अर्थः ? १ d) कु इति पाठः ? यनि. सोधः १ e)  
=देश-विशेष-१ । f) = कलाकार- १ उस. १ g) विर. १ तत्रमाधवीयः यत् प्र. १ । h) वस. १  
स्यु. ? १ । <कला- + ✓कार इति वसा. MW. १ i) = कृषि-विशेष-१ j) = निधन- इति भाष्यम् ।  
k) = बर्ह- १ l) तु. पागम. १ m) = धान्यवृक्ष-मुष्टि- १ n) तत्र. अयु २१९, २३ कापालिम्  
इति वसो. १ o) = युन-विशेष- १ कलह- १ युन-साधन- १ छन्दस्- १ स्तोम- १ वेप १ द. १  
[भाष्यो] इति । q) = श्रमि-विशेष- १ स्यु. ? १ r) = धाम-विशेष- १ s) = जनपद-विशेष- १, तद्वानिन्- १.  
स्यु. ? १ t) = पर्वत-विशेष- १ स्यु. ? १

कालिन्दी<sup>१</sup> - नदी यात्रि १, ३३.  
 कालिन्दी<sup>२</sup> - न्दः द्राघी १, २,  
 १५; साध्री १, ३, ९.  
 कलिङ्ग - पाठ १, ५४.  
 कलिय- (> कालिङ्ग-) कविल- टि.  
 द.  
 कलील- पात्राग ८, २, १८०.  
 कल्लु<sup>१</sup> क<sup>२</sup> ति<sup>३</sup> - (> कालु, लू<sup>४</sup> तर-  
 पा.) पाग ४, २, १३३.  
 कलुप, पा<sup>१</sup> - पाठमो २, ३, १६४;  
 -पाः अष ६४, ४, ५; -पानिः  
 बाध १, ५, १४; -बी अष ६४,  
 ३, ८.  
 कलुप-सलिला(ल-अ) वपांसु  
 -मद्र<sup>२</sup> -अः अष ६८, ४, १.  
 कलुपा(प-आ)रुति-रदिम<sup>३</sup> -दमवः  
 अष ५२, ३, ४.  
 कलेचर<sup>४</sup> - पाठमो २, ३, ७५; -रम्  
 शंभ १५९: ९.  
 कल्का<sup>५</sup> - वाड ३, ४०६; वा ३, १,  
 ११७; पाग २, ४, ३१; -लकः  
 बाध ६, ४०.  
 कल्प-, कल्पन्- प्रसृ. ✓ कल्प<sup>६</sup> द.  
 कल्पट- पाठना ४, ८६.  
 कल्पमन्<sup>७</sup> - पात्राग ८, २, १८०.  
 कल्पलि<sup>८</sup> - लिः अषा ३, २, २८.  
 कल्पमहीश<sup>९</sup> - पाठमो २, ३, २०.  
 कल्पमहीकिन् - किन्म अषा ४८,  
 २०; निष १, १७.  
 कल्पमप<sup>१०</sup> - पाठमो २, ३, १५२<sup>१०</sup>, -पम्  
 अष ८, १, ७, आपथ १, २४,  
 २६; २८, १८; २९, १; द्विष १,  
 ६, ७४; ७, ५१; ५७; -पथ

विष ५२, १४; -पानि अष ५३,  
 १, ४.  
 कल्पमप<sup>११</sup> - पाठमो २, ३, १५३;  
 पाग ४, १, ४१; -पः आपथी  
 २०, २२, १३१; बाधो ३, २,  
 ६, ३४; द्विषी १४, ५, ९; -पम्  
 आपथी ५, ७, १७; धीथी २,  
 १५: २०; १०, ५७: १०; १५,  
 ३७: ८; माथी ५, ४, १; माथी  
 १, ५, १, ३३; बाधो १, ४, १,  
 १४; वैथी १, ६: १६; द्विषी  
 ३, २, ६३; २, ८, ३१; आण ४,  
 ८, ५; कौम् १०, १२; कष १,  
 २, २; -पे कौम् २७, १५.  
 कल्पमयो - पा ४, १, ४१; -पी  
 बाधो १६, २, ५; साधो ८, २, ६;  
 भाधि ९६, १; -पी: वीथी १८,  
 ११: ८; -पीम् आपथी १६, १, ७;  
 माथी ६, १, १, ८; बाधो २, १, १,  
 ४; वैथी १६, १: ७; द्विषी ११, १,  
 ११; १७, १, १३; -पुण्यः आपथी  
 २१, २०, ३; द्विषी १६, ६,  
 ४१.  
 कल्पमय-मीश<sup>१२</sup> - वाः आपम २, १७,  
 १९१; -अम् अष ३, २६.  
 कल्पमप-दण्ड<sup>१३</sup> - ण्डः वीथीप्र  
 ४९: २.  
 कल्पमप<sup>१४</sup> - पाः वीथीप्र १७: ८.  
 कल्प- पाठमो २, ३, १.  
 कल्पयाण, णा<sup>१५</sup> - पाठमो २, २, १२८;  
 पाग ४, १, ४५, ५, १, १३३, ८, १,  
 ६७; -णम् साध्री १०, १९,  
 २; आपथी: वा २, ३, २, २; -णा

पा ४, १, ४५; -पी वीथी १८,  
 ४४: १; आपृ १, ४, १; या  
 ११, १९; पात्रा ५, २, १००;  
 -णेषु आपृ १, ८, ६; -णीः आपृ  
 १, २३, २२.  
 कल्याणो - वा ४, १, ४५; पाग  
 ४, १, १२६; ६, ३, ३४;  
 -०णि वृदे ८, २६; -णी साध्री  
 ८, १३, १३; वीथी: -णीः आपथी  
 १०, २०, ४१; १७, २३, ६; द्विषी  
 १२, ७, ४; कौम् २०, १; या ७,  
 ६; -गीभिः गीपि १, ४; २;  
 लणु २, ५: १०; -णीम् शोधो  
 १०, १९, २; साधो: या २,  
 ११; ११, ११; -पुण्यः आपथी  
 १०, १, ३×४; वैथी: या ७, १७;  
 -ण्याम् या ७, २२; ११, १९;  
 १२, ३९; -०वै साध्री ५, १३,  
 १२; शोधो.  
 काल्याणक - वा ५, १, १३३.  
 काल्याणिनिय - वा ४, १,  
 १२६.  
 कल्याण-कर्म<sup>१६</sup> - कर्मणः वा ११,  
 १४.  
 कल्याण-कृत् - कृत् कष १, ७, ११.  
 कल्याण-न( > )वो - वी भाध्री  
 १०, १७, १३.  
 कल्याण-न्यक<sup>१७</sup> - के वा १०, ३.  
 कल्याण-चित्त<sup>१८</sup> - चेत विष ९२, २०.  
 कल्याण-जिह्व<sup>१९</sup> - ० ह वा ८, ६.  
 कल्याण-दान<sup>२०</sup> - वा: या २, २४; ५,  
 २७; ६, १४; -०ना: वा ६,  
 २३.

a) = नही-विशेष- । ततःप्रभवनीत्यर्थे अणि प्र. (पा ४, ३, ८३) स्त्री. ङीप् । b) विप. । तस्तेदमीयः अण्  
 प्र. । c) तु. पागम. । d) = तु. BFG. । e) = देश-विशेष- । वृ. ? । तु. माण्डा. । कुल्ल- इति पाथा. ।  
 f) = मलिन- । व्यु. ? । g) कस. > दस. > तस. । पाठः ? । h) विप. । वस. > वस. । i) = शरीर- । व्यु. ?  
 j) नाप. । व्यु. ? । k) < ✓ कल् इति । l) = कर्मन्- । m) वैप १ द. । n) < ✓ कल् [ कालिन्दी ]  
 इति । o) = अदि-विशेष- । व्यु. ? । p) विप. । वस. ।

कल्याण-देव- -वः या १४, २७.  
 कल्याण-नामधेय- -यम् अत्र १,  
 ३१, ७.  
 १कल्याण-नामन्- -म या ९, २.  
 २कल्याण-नामन्- -मानम् कौस्तु  
 ७८, ८.  
 कल्याण-नासि (का >) क- -कम्  
 वाध २, ३५.  
 कल्याण-पाणि- -णिः या २, २६.  
 कल्याण-प्रज्ञा- -ज्ञाः जैय १, २२; ३.  
 कल्याण-भ्र (जा >) ज- -ज्ञाः या  
 १४, २७; -ज्ञाः या ११, १४.  
 कल्याण-भ्र (द्र >) द्र- -द्राम् या  
 ११, ३४.  
 कल्याण-मन्त्र- -लः या ९, ४.  
 कल्याण-न्वर्ण- -र्णस्य या २, ३.  
 कल्याण-वर्ण- -वः या २, ३.  
 कल्याण-यासस्- -साः या १, १९.  
 कल्याण-वि (या >) व- -वः या  
 ६, १४.  
 कल्याण-वीर- -रः या ९, १३,  
 -रा या १, ७.  
 कल्याण-शी (ल >) ल- -लाः जैय  
 १, २२; ३.  
 कल्याण-भारथि- -थिः या ९, १६.  
 कल्याण-हस्त- -स्तः या ११, ४३.  
 कल्याण (ए-अ) भिव्याहार- -रः  
 शार्थी १७, १, १८.  
 कल्याणो (ए-ऊ) मि- -मिः या ५,  
 २७.  
 ✓कल्ट् पाषा. भा. आत्म. अव्यक्ते-  
 शब्दे.  
 कल्लोल- पाठभो २, ३, ११५; पाग  
 ५, २, ३६; १३५.  
 कल्लोलित- पा ५, २, ३६.

कल्लोलि (र >) नी- पा ५, २, १३५.  
 कल्लहार- पाठभो २, ३, ४५.  
 कव- किम् द्र.  
 कवक- पाठभो २, २, ७.  
 कवकेशावकाशि (र >) नी- नी  
 काय ३५, १.  
 कवच- पाठभो २, २, ७५; पाग २,  
 ४, ३१; -चः आपथो २२, १२,  
 ७; -चम् शार्थी १३, ३, १३;  
 आपथो १८, १०, ३०; २०, १६,  
 ४; हिथो १४, ३, २७; शार्थ ३,  
 १२, ३; शार्थि २, ५, १; ५०,  
 अत्र ३६, १, ४, या ५, २५<sup>३</sup>क;  
 -चस्य वृदे ५, १३४.  
 कवच-बल्य- -थम् बाधुथो ३,  
 ७६; १६.  
 कवच-स्तुति- -ति. वृदे ५, १३२.  
 कवचिन्- -चिनः शार्थी १६, १,  
 १६; आपथो २०, ५, १०; २१,  
 १८, ६; १९, १३; शार्थी ३, २, ५,  
 ४६, ४, ३१; हिथो १४, १, ४६;  
 १६, ६, ३४; काय ५७, ५; या  
 १०, ३०; -ची अत्र ११, १०<sup>१</sup>.  
 कावचिक- पा ४, २, ४१.  
 कवचि-निर्गन्धि-कलापि-देण्डिन्-  
 -ण्डिन. शार्थी २०, २, ११.  
 क-यन्- १क- द्र.  
 कवन- -नम् या १०, ४६.  
 कवन्तक- पाग २, ४, ६९.  
 कव-पथ- प्रम्. विम्- द्र.  
 क-यर्ग- १क- द्र.  
 कवल- पाठभो २, ३, ९८.  
 कवल-प्रथ- पाग ४, ७, ८०; ६, २, ८७.  
 कवल्य- पा ४, २, ८०.

कवच्य- -यथा शार्थी ३, ३, १;  
 शार्थी ६, १७, ५; ६, १, ६; शार्थी  
 ५, २, ९, ४.  
 कवच्य- > कवची- -व्यः ऋषा २,  
 ४१.  
 २कवच्य- -पः ऋष २, १०, ३०;  
 तात्र १, ४३९; ४४०; ४५४;  
 -पस्य चात्र १९; १३.  
 कवस- पाठ ४, २.  
 कवाट- पाग २, ४, ३१.  
 कवाट- -के अत्र ६८, २, २९.  
 क (व >) चा-तिर्यङ्- -र्थे  
 शार्थी ६, १६, ३; शार्थी ३, ९;  
 १६; शार्थी ६, १, ७; शार्थी २,  
 ७; १; हिथो ६, ६, ७; शार्थ २,  
 १, ३४; ४, २, ११.  
 कवाद्यायोयसा शार्थी ३, २, ८, १४.  
 कवास-ख- -खः या ६, १९<sup>१</sup>क;  
 ऋषा ९, ८.  
 कवि- पाठ ४, १३९; पाग ४, १,  
 १८; १०<sup>५</sup>; १५१; -वयः शार्थी  
 ५, ९, १<sup>१</sup>; शार्थी; या ६, २७<sup>१</sup>;  
 -वय. या ३, २२<sup>१</sup>; -वये  
 शार्थी ४, १३, ७; शार्थी;  
 -वः शार्थी १, ८, ७<sup>५</sup>;  
 शार्थी, निघ ३, १५; या ५, २;  
 ८, ५; १२, १३<sup>१</sup>; १४, २०;  
 -विना पात्रा १, ४, ५१;  
 -विविभिः शार्थी ४, ७, २;  
 शार्थी; -विवि शार्थी ४, ६, ३;  
 शार्थी; -विवि शार्थी ६, १२,  
 १२; शार्थी, -विवि शार्थी  
 ६, २१, १; शार्थी ३, ५, ४; १;  
 -विविनाम् शार्थी ३, ७, १४<sup>५</sup>;  
 शार्थी; या १४, १३<sup>१</sup>; -विवि

a) विप. । बत. । b) भाग. । वैप ३ द्र. । c) मार. । कर्षः श्यु. च! । d) वैप १ द्र. ।  
 e) = उदक- । श्यु. ! । f) व्यप. । श्यु. ! । g) = प्राप्त- । h) कर्ष. श्यु. च! । i) = देस-विरेप- ! ।  
 j) द्र. पागम. । = कपाट- । श्यु. ! । k) व्यप. ।

आपथी २, १, १०; वीथी; -वे:  
वैथीका ३; वैथि २८३१.

काव<sup>३</sup> - नम् वैथी २३; १६;  
जैथीका ६१; लाथी ७, ३, ११;  
छम् १, ८; १५; ३, ३; १६;  
११; २९; निम् ७, ८; ३१;  
३५; १०, १२; २८; -पथ  
छम् १, ७; २७; ३, ३; १६;  
निम् १०, २; ३४.

कावा(व-अ)न्त - न्तम्  
जैथीका १८६.

कवाव्य<sup>३</sup> - वा ४, १; १०५;  
१५१; पाग ४, १, १९९; -व्य:  
शाथी १४, २७, १; वीथी; अप्राय  
६, ३११; -व्यम् वीथी १४, ७;  
४१; १८, ४६; १७, वापथी;  
या १४, १८१; -कव्ययोः शाथी  
७, १०, ११; शुभ्र २, ३९; -व्यस्य  
भाए २, ६; १६; चाय ३८:  
१६; -कव्या आथी २, १९, २४;  
वीथी; -कव्याय शाथी १४, २७,  
१३; वीथी १३, ६; -कव्येन वीथी  
१८, ३१; ६; ऋता ८, १३;  
-कव्येभिः आथी ७, ५, ९;  
शाथी १२, २, ५; १५; -व्येभ्यः  
द्राथी ७, २, १२; लाथी ३, २,  
१२; -व्यैः शाथी ७, ५, २४,  
वैथी.

कावी - वा ४, १, ७३.

काव्यायन - वा ४, १, १९९;

-कौ ऋत २, ८, १४.

काव्यायनी वा ४, १, १८.

कवि-कउ<sup>३</sup> - तुय आथी ४, ६,

३; शाथी ५, ९, ७; वीथी ६,  
१४; १४.

कवि-तम - नम् आथी ३, ७, १४;  
-नस्य वा ६, १३.

कवि-प्रशस्त<sup>३</sup> - स्ता वीथी २८,  
२; ४६१.

कवि-मत् - मतः निम् ७, ५; १०;  
-मन्तम् निम् ८, ७; ३४; ९,  
४; ३५.

कवि-रुव<sup>३</sup> - अः शाथी १८, १८,  
१११.

कवि-शब्द - व्दे ऋता ४, ५२.

कवि-शस्त - पाग ६, २, १४७;  
-कस्तः आथी १, ३, ६; शाथी १,  
४, १९१; -कस्ताः आपथी ५,  
१९, ४; हिथी ३, ५, ५; या १२,  
३३.

कवि-ततम - नम् अप ७०<sup>३</sup>,  
१, १.

✓कवीय > कवीयमान - नः ऋत १,  
९, १४१; -नानाम् वा १४,  
१३.

✓कव्य वा ७, ४, ३९.

काविय - पाठमी २, ३, ११.

काविर - पाठमी २, ३, ४७.

काविल<sup>३</sup> (> काविल्य<sup>३</sup> - वा.) पाग  
४, २, ८०.

कावूर - पाठमी २, ३, ५६.

कावेर - पाठमी २, ३, ६१.

कावेरजेय चोडानाम् वैथीका ३.

काव्य<sup>३</sup> - वा ५, ४, २५; -कव्यः शाथी  
६, १२, ९; आपथी ११, १५, १;  
वैथी १४, १३; ९; हिथी १०,

३, ४२; वैथी १३; २३; द्राथी  
४, २, १६; लाथी २, २, २५;  
-व्यम् वीथी २, ११, ३२१; वाए  
१७, १४; वैथ ४, ३; १६; ५,  
१३; ८; १४; ७; -कव्यास्तः  
आपथी १४, ३२, ३१; -व्येन  
वैथ ५, २; २५; -कव्येभ्यः आपथी  
१४, ३२, २१; -कव्यैः आथी  
५, २०, ६; शाथी ८, ६, १३;  
वैथी ९, ९; १.

कव्य-वाल्<sup>३</sup> - वारम् अप ४३,  
५, ३२.

कव्यवाल्-धनल - स्तम् कउ  
२, २, ३८.

कव्य-वाहन<sup>३</sup> - वा ३, २, ६५; -क<sup>३</sup>न<sup>३</sup>  
आपथी १९, ३, ११; वीथी;  
-न आथी २, १९, २५×४, शाथी;  
आपथी ११, १५, १११; वैथी  
१४, १३; १०१; हिथी १०,  
३, ४६१; वैथी १३; २३१; -नम्  
आथी २, १९, ८; आपथी;  
-नस्य शाथी ३, १६, १०; -नाः  
अपथ २, ९; -नाय आथी २,  
६, १२१; शाथी.

कव्यवाहनो<sup>३</sup> - नीतिः  
आपथी १९, ३, ११; वैथी १३,  
५; १२१; हिथी १३, ८, ३५१.

कव्यवाहन-प्रयाद - नः माथी  
५, १, ४, १४.

कव्यवाहन-संस्तुति - नतिः वृदे  
६, १६१.

कव्य-स्थाली - स्त्रीम् वैथ ५, १३;  
१६.

a) = साम-विशेष- । तेनष्टीयः अण् प्र. । b) शकाम्य-, रकाम्य-, शकाम्य- (डु. वैप १) अण्  
समाविष्टाः । c) काव्य- इति [पक्षे] भाण्टा. । d) पाठे. शोषय वैप १, ११०३ b द्र. । e) वैप १ द्र. ।  
f) अणोः ध्यु. च । कडिर- इति पाठा. । g) = देव-विशेष- ? । h) विप. । उत. उप. = वाह > ह्य्. ह्. ।  
i) पाठे. वैप १, ११०३ a द्र. । j) पाठे. वैप १, ११०३० द्र. । k) = [कव्यवाहन-संस्तुति] कव्य- ।  
l) का इति पाठः । यनि. शोषः । m) 'हि' इति पाठः । यनि. शोषः ।

कव्या(व्य-अ)पहारिन्- -री शंघ  
३७८.  
✓कश् पाधा. अदा. आत्म. गति-  
शासनयोः.  
कशस्- -शः निघ १, १२१.  
क(ग>)शा<sup>०</sup>- पाग ५, १, ६६;  
-शा आपथी १२, १८, १०१;  
काठथी १२८; वीथी ७, ८ :  
२०१; माथी २, ३, ६, १४१,  
वैथी १५, २१ : ८१; हिथी ८,  
५, १०१. अपष्ट८, १०२<sup>१</sup> निघ  
१, १११, या९, १९<sup>१</sup> कृ; -शाम्  
वाथी ३, १, २, २०; ४, ३, २८१;  
वृदे ५, १३२; शुभ ३, १२६;  
-शायाः अथ ९, ११.  
१कदय- पा ५, १, ६६.  
१कदा<sup>०</sup>- -शे वीथी २, ५ : ८१.  
२कदा<sup>०</sup>- (> २कदय- पा.) पाग ४,  
३, ५४.  
कशक<sup>०</sup>- -काय आमिष्ट १, १, २ :  
४२६.  
कदा, म<sup>०</sup> कृत्स्न- (> कदा, स-  
कृत्स्न- पा.) पा, पाग २, ४,  
६९.  
क-शब्द- १क द.  
कशाम्युक<sup>०</sup>- -कः सु २३, ५.  
कशाम्य- पाउभो २, ३, २२२.  
कशाय<sup>०</sup>- (> काशायन- पा.) पाग  
४, ३, १०६.  
कशिक<sup>०</sup>- (> कशिक-पाद- पा.)  
पाग ५, ४, १३८.  
कशिपा<sup>०</sup>- -पा शुभ ४, १९.  
कशिपु<sup>०</sup>- पाउभो २, १, ८४; -पु

वीथी १२, १६ : ६; १५, १५ :  
१७; २ : २३; २६; ३८ : ८;  
वाधूथी ३, ७६ : २२; हिथी  
२, ७, २२; १४, २, ९; कौष्ठ २४,  
२८; अथ २३, ५, ४; -पुनि  
वाथी ३, ४, १, ३६; -पुनो  
काथी १५, ६, ४; -पुम् वाथी  
१, २, ३, ११; -पुपु काथी २०,  
२, २१; -वी वीथी १२, १५ :  
२५; वृदे ५, २०.  
कतिपु(पु-उ)पवर्हण- -णम् आपथी  
१, ८, २; ८, १४, १६; भाथी  
१, ७, ९; ८, १७, ७; वैथी  
९, ६ : ९. हिथी ५, ४, ३९;  
वैताथी ३६, २३; अथ ९, ६१,  
-णे वीथी ५, ११ : ४, ५, १२ :  
२०; १५ : २०.  
कतिपु(पु-उ)पवर्हण-व्यासस्- -सः  
वैष्ट ४, ६ : ७.  
कतिपु(पु-उ)दि- -दि वैताथी  
११, १४.  
कशी<sup>०</sup>- पागम ५८.  
कशी(क>)का<sup>०</sup>- -का अथ १,  
३४, ४.  
कनु<sup>०</sup>- -शोः कथ २, ८, ५, वृदे ६,  
४५.  
कशेर, क- पाउ १, ८८.  
कश्मर- कमीर- टि. द.  
कदमठ- पाउ १, १०९.  
कदमीर<sup>०</sup>- पाउ ४, ३२, पाग ४, १,  
१७६; २, ८०<sup>०</sup>; १३३; १३४; ३,  
९३.  
कादमीर- पा ४, २, १३३; ३, ९३;

-रग् अथ ५६, १, ९; -रान् अथ  
५०, २, २.  
कादमीर- पा ४, १, १७६.  
कादमीरक- पा ४, २, १३४.  
कादमीर्य- पा ४, २, ८०<sup>०</sup>.  
३कदय- पाउ ४, ११२.  
कदयप<sup>०</sup>- पाग ४, १, १०४; -०प  
वीथी १८, १६ : १०१; वैथ  
४, ७, ६; -पः शीथी १६,  
१६, ४; वीथीप्र ५४ : ७; १३;  
आपमं १२, २१; काष्ट ३, ५१;  
हिष्ट २, १९, २; अथ १, ३,  
१; ४८, ११५१; ५२, १०, २;  
वीथ १, ११, २०; विथ १,  
२१; ३०; अथ २, ८, २९××;  
-पपम् वैष्ट १, ४ : १६; विथ  
१, २०; २१, ३३; -पपस्य  
वीथी १७, ४० : ४××; आपमं;  
-पपा आथी ३, ३, १; शीथी  
५, १७, ५; ६, १, ६; माथी ५,  
२, ९, ४; -पाः वीथीप्र ४१ :  
१; १९, ४४ : ६; -पार<sup>०</sup>  
वीथीप्र ४१ : १; -पानाम<sup>०</sup>  
आथी १२, १४, ७, आपथी २४,  
९, १४; हिथी २१, ३, १३;  
-पपाय वाथी १६, १६, ३; पाष्ट  
२, १९, २; भाष्ट ३, १० : २; हिष्ट  
२, १९, ३; वृदे ५, १४५.  
३कदयप- पा ४, १, १०४;  
पाग ४, १, ९९; -०प आथी  
१२, १४, ७<sup>३</sup>××; आपथी;  
-पः आमिष्ट १, २, २ : १३;  
काथ; या १२, ४०; -पम् शंघ

a) = जल-। b) वैष्ट १ द.। c) का इति पाठः? यनि. शोचः। d) = शत्रुनि-विशेष-। एयु. ?।  
e) = देश-विशेष- (पु. पागन.)। f) = देवना-विशेष-। एयु. ?। g) स्रज. कश<sup>०</sup> << कय<sup>०</sup> इति पाठे।  
h) पु. पागम.। काश<sup>०</sup> इति पाका. प्रष्ट.। i) = तर्पण-विशेष-। एयु. ?। j) व्यप.। एयु. ?। k) पु. पाका.।  
२कपाय- इति भागडा.। l) अर्थे एयु. च ?। m) पुं. न. = कष्ट-। एयु. ?। n) खनिश-। पंजा. बरसी।  
o) = जनपद-विशेष-। एयु. ?। p) अर्थे ?। परम- इति पाका. ?। q) = देश-विशेष-। ?। r) बहु. < कायप-।

११६ : ३५; वीध २, ५, २६१;  
-स्य काथ २७२ : ८; चाथ;  
पा १, २, २५०; -पा: वैधो १२,  
१ : १९; वैध; -पानाम् वैध  
४, ७, १; -पाय द्रामिष्ट १, २,  
२ : १६; वीध ३, ९, ३; -वे  
राय १, ३६१; ५७०; पा ४,  
१, १२४; -वी प्रथ २, ९, ९९;  
१०४; साथ.

काश्यपी० - वी शप १,  
३, १; -पीनाम् चाथ १६ : ३१;  
४० : १.

काश्यप-कौशिक-ग्रहण-  
-णम् पावा ४, २, ६६.

काश्यप-शाकटायन- नौ  
मुद्रा ४, ५.

काश्यप-समोत्र० - ग्रम्  
चव्यू ४ : २२.

काश्यपावन- पा ४, १, ९९.

काश्यपिन्- पा ४, ३, १०३.

काश्यपीय० - यम् काथ २८२ :  
६; -यान् काथ २७० : १.

काश्यपय० - यन् श्व ८, १.

कश्यप-त्रो (क>) का- -क्ता:  
काथ २८० : ५.

कश्यप-वत् आप्तो २४, ९, १४;  
१५, १०, २; वीक्रोप्र.

कश्यप-ग्रन्- -त्तम् निम् २, २ : २९.

कश्यपा(क-आ)थं- -थम् का २, १,  
९९; वृ ३, १३०.

कथेत वैताथी ११, २५.  
१कप- -पः पावा ३, ३, ११९.  
कपि- पाठ ४, १४०.  
कट, छा- पा ७, २, २२; पाय ५, १,  
१२३; -छार या १४, २०;  
-छायाम् विध २२, ५५.  
काद्दय- पा ५, १, १२३.  
√कष्टाय पा, पावा ३, १, १४.

रकप० - (> काव्य- > काव्या-  
[ण>]णी- पा. सक.) ४, १,  
१०५; १८.

रकपक- -काय हित १, ६, ५१\*.

रकपक० - पाय २, ४, ६३\*.

रकपाय० - पाठभो २, ३, ८; पाय  
२, ४, ३१.

कापाय० - यम् छाट १, १९,  
११; वीष्ट २, १, ८; आसिष्ट १,  
१, ४ : ४७; हित १, ८, १२;  
आयध; -याणि कौस् ५७, १४;  
-येण अय ३३, ३, ८.

कापाय-तोय० - यैः वैष्ट ७,  
३ : ४; १३.

कापाय-धारण- -णम् वैध  
३, ६, ५.

१कापाय-यानम्- -सः श्रप  
६८, ५, ७; -ससी आसिष्ट २,  
७, ११ : २.

२कापाय-यामम्- -ससः  
माष्ट २, १४, १०; श्रप ५३,  
२, ३; -साः वीध २, ६, २३;  
८, १६.

कापाया(य-अ)जिन-  
-नयोः वैष्ट २, ८ : ११.  
कापाया(य-अ)प्वित्रा(प्र-  
आ)दि- -वीन् वैध ३, ६, ९.  
कापाया(य-आ)विक-  
-रूपीः श्रप ६, ३२, ५.

कपाय-कटुक-मिथ० - याः श्रप  
६८, १, ३८.

कपाय-कटुका (क-आ)थ(य>)-  
या० - याम् वीध ३, ३,  
२१.

कपाय-व० - पः आयध १, २७, १०;  
हित १, ७, ३५.

रकपाय- (> कापायिन्- )  
कशाप- टि. द.

कपीका- पाठ ४, १६.

कप्यक० - यामः श्रप ३, ४, ११\*.

√कस्० पाधा. भा. पर. गती, अदा.  
आत्म. गतिशासनयोः, कसति  
निध २, १४\*.

कस- पा ३, १, १४०.

कस्वर- पा ३, २, १७५.

कास- पा ३, १, १४०.

कसशील० - लः श्रप ३, ४, ११\*.

कस-धर्ण० - १क- द.

रक्तसाम्बु० - म्बु कौस् ८६, १; श्रप  
३, ४, १.

रक्तसाम्बु० -> कासाम्बव० - -वेन  
आपथो २०, १५, १२; १३;  
वाधो ३, ४, ३, ४४; हिथी १४,  
३, २३\*.

√कप्० पाधा. भा. पर. हितायाम्,

a) = आचार्य-विशेष- । b) काश्यपी इति (पक्षे) पङ्कुरविश्वः । c) विप., नाप. । d) विप. ।  
यस. । e) विप. । श्लोकांशं छण् > ह्यं प्र. उत्स. (पा ४, ३, १०२) । f) विप. । दृष्टार्थं क्क् > ष्णः प्र. ।  
g) = साम-विशेष- । म्बु. १ । h) या २, २ पराप्रष्टः द. । i) कु. पावि. । पाप्मे. वृ ४८२ । द. । j) व्यप. । म्बु. १ ।  
k) पाप्मे. वृ ८५६ h द. । l) कु. पागम. । m) = रस-, वर्षे-, राग- । म्बु. १ । <√कप् इति अना. प्रसू. ।  
n) विप. । अण् प्र. (पा ४, २, १) । o) पू. र्थांशं प्र. । p) विप. । द्रव्य->यस. । q) उप. <√पा[पानं] ।  
r) वैप १ द. । s) या ४, १० पा ७, ४, ८४ पराप्रष्टः द. । t) = सर्प-विशेष- । म्बु. १ । u) पाप्मे. वैप १,  
११०५ ० द. । v) = वृध-विशेष- । म्बु. १ । w) विप. । तत्त्वेदमीयः अण् प्र. । x) कौमुद्यमेन इति संस्कृत्या ।



कस्त(म्भ>)म्भी<sup>३</sup>-म्भ्याम् कापथी  
 ३,८,४; माथी ७,२२, ७; ८,  
 १०,२; द्विथी २,५,३.  
 कस्तम्भ-देश- -शे माथी १,३, ४,  
 २८; वाथी १,३,६,२२.  
 कस्तूर- पाठवृ ४,९०.  
 कस्तुतेडा: नित् ८,२ : ४२.  
 कस्थली<sup>३</sup>-ली वीथ २,१,१९.  
 कस्थे<sup>३</sup> कौस् ८४,१०<sup>१</sup>.  
 कह्य<sup>३</sup>(>काहय-पा.) पाग ४,१,  
 ११२.  
 कहल- पाठमो २,३,९९.  
 कहुया,प<sup>३</sup>( >काहुया,प- पा.)  
 पाग ४,१,११२<sup>१</sup>.  
 कहुडा,ळ,ल<sup>३</sup>- पाठमो २, २,  
 ११९; पाग ४,१,११२; -ळ:  
 कौथ २,५,६; -ळम् अथ ३,४,  
 ४; कौथ २,५,३; वाथ ४,१०,३;  
 ६,१,१; अथ ४३,४,२८; -ळय  
 कौथ २,५,६.  
 क<sup>३</sup>- -०४ माथी ६, १, ८, १३;  
 वाथी २,१,८,१२.  
 क<sup>३</sup>-मिथ<sup>३</sup>- -अम् माथी ८,६,१२.  
 क<sup>३</sup>स- १कंम- द.  
 २क<sup>३</sup>स- २कंम- द.  
 क<sup>३</sup>सपात्रि- १कंम- द.  
 क<sup>३</sup>सायन-, क<sup>३</sup>नि- ३कंम- द.  
 क<sup>३</sup>स्य- प्रस. १कंम- द.  
 क<sup>३</sup>स्यस्थल- -ळम् माथी ४,६,३.  
 क<sup>३</sup>क- पाठ ३, ४३; -क: जैथ्रीदा  
 १७९; अथ ३७, २, १; विध  
 ४४,१८; या ३, १८<sup>१</sup>; -कम्

शोध ४२६; -का: अथ ९, ४, १;  
 ५३,२, १; ७०<sup>१</sup>,६, ४; -कात्  
 आमिथ ३, ११, १: ७; -कै:  
 वाथ १४,२५.  
 काकी- पासाग ६,३,४१.  
 काक-कङ्क-गृध-श्येन- -ना: गौध  
 १७,२७.  
 काक-कङ्क-यका(क-आ)दि- -दिभि:  
 विध ४३,३४; -दीनाम् विध  
 ४३,३७.  
 काक-कपोत-वङ्क-गृध-यक्ष-राक्षन-  
 पिशाच-आपद- -देवु अथ ७२,  
 २,२.  
 काक-गृह- पासा, पासाग ३,३,५.  
 काक-ताल<sup>३</sup>- (> लीय-) पागम  
 १९५.  
 काक-तुण्ड-नि(म>)मा- -माभि:  
 अथ ५२,४,४  
 काक-वन्ध्या<sup>३</sup>- -न्ध्याया: कप्र ३,  
 ९,४.  
 काक-यलाक-हंस-सारस-कारण्डव-  
 चक्रवाक-गृध-श्येन-सज्जरीट-  
 विट्थिमो(म-उ)रुद्र-शुक-सारिका-  
 नयूर-का [ब<sup>३</sup>]क-कोटिल-वल-  
 विद्र-कपोत-कपिअल( ल-आ)  
 दि- -दीनाम् काथ २७२ ४.  
 काक-माजार-नकुल-सर्प-मूषक-  
 पत्तिन्- -क्षिभि. शोध १८३.  
 काक-मयूर<sup>३</sup>- पाग २,२,३१.  
 काक-मूषिक-माजार- -नात् अथ  
 ७०<sup>१</sup>,७,३.  
 काक-शब्द-कान्त- -न्ते शोध ५,

५, ४.  
 काक(< की पावाग.)-शाव- पावा  
 ६, ३,४१.  
 काक-धा(ध-अ)रलीड- -डे आमिथ  
 २,७,७: ४.  
 काक-संपाव- -ताव वीन् ३१,२८;  
 ३४,२२.  
 काक-स्वर<sup>३</sup>- -रम् याशि १, २९;  
 नाशि १,३,११.  
 काका(क-अ)ण्ड<sup>३</sup>-वर्ज- -वैणु अथ  
 ६५,१,२.  
 काको(क-उ)च्छिष्ट- -ष्टम् शोध  
 ४३१.  
 काकोच्छिष्टो(ष्ट-उ)पहत- -तम्  
 वीथ ३,६,७<sup>१</sup>.  
 काको(क-उ)लक- -का: अथ ७०<sup>१</sup>,  
 ६,१०.  
 काको(क-उ)लक-कपोत- -तानाम्  
 अथ ७०,५,४.  
 काको(क-उ)लक-हृवलास-श्येन-  
 निपतित- -ते अथ ७२,२,६.  
 रकाक<sup>३</sup>, (काकय-,काककायनि- पा.  
 यक.) पाग ४,१,१५१;१५८.  
 काकण- (>काकणी- पा.) पाग  
 ४, १,४१.  
 काकदन्तिक<sup>३</sup> (>कीय- पा.)  
 पाग ५,३,११६<sup>१</sup>.  
 काकदन्ति- (>कीय-)घाक-  
 दन्तिक- टि. द.  
 काकन्दि<sup>३</sup> (>कीय- पा.) पाग  
 ५,३,११६.  
 काकपिअक<sup>३</sup>- -क: वीथी २,१८:१४-

a) =नेथी- (द्र. सा [मास १,१,२,९]). b) ररुष्म् ?। एरुस्ननी- इति मूलो:। c) वैप १ द.।  
 d) व्यप.। व्यु. ?। e) प्य- इति पाका.। f) ष- इति पाठमो. पाग., -ळ- इति अथ.। g) पामे. व्यु. व  
 वैप १ द.। h) विप.। पूव. अर्थ: व्यु. च ?। i) =वायस-। वैप ३ द.। j) द्र. पासा. प्रस. (पा ५,३,  
 १०६)। k) =एकसंतति-। स्त्री-। व्यु. ?। l) पाठ: ? यनि. शोध: ?। m) द्र. पागम.। n) =वीतिरोप-  
 विशेष-। वस.। o) वस. पूव. पुंवद्भाव: (पावा ६,३,४१)। p) पामे. पृ ६२९ अ द.। q) =आयुषजीविषय-  
 विशेष-। व्यु. ?। r) षन्वि- इति पासा.। s) =पथि-विशेष- ?। व्यु. ?।

काकरन्ति<sup>०</sup> - (> गतीय- पा.) पाग  
५,३,११६.  
काकलि<sup>०</sup> - लि: माशि १,४,१; ११.  
काकलेय- कल- द.  
काकावन्<sup>०</sup> - पाग ४,१,४१.  
काकादा, त<sup>०</sup> नी- पा ४,१,४१; न्या:  
कीष्ट १,१५,१; अष्ट १,२३,१.  
काकि- पाठमो २,१,१७२.  
काकिणी<sup>०</sup> - न्या आपथो १९,२१,३;  
हिथी २२,४,२.  
काकिगीक- पावा ५,१,३२.  
काकिनी<sup>०</sup> - नीम् माशि ९,१३.  
काकु- पाठ १,१.  
काकुत्स्थ- ककु- द.  
काकुद<sup>०</sup> - कुम् निघ १, ११;  
-कुम् निघ ४,२; या ५, २७.  
काकुद<sup>०</sup> - पाठमो २,२, १७७; -दम्  
या ५ २६; -दम् पा ५, ४,  
१४८.  
काकुदात्तिक- ककुद- द  
काकुद<sup>०</sup> - द: आथी १२,९,४.  
काकुम्- प्रम्. १४४म्- द.  
काकुम्- २कुम्- द.  
काकोल<sup>०</sup> - लम् विघ ४२, १३.  
काक्य- २काक- द.  
काक्य<sup>०</sup> - पा, पाग ४,३, १६४.  
काका(का-अ)श- मिम्- द  
काक्षतव- कधनु- द.  
काक्षलेनि- कश- द.  
१-२काक्षीयत- प्रम्. कशीवन्- द  
काकायन- २काक- द.  
काक्य<sup>०</sup> पाधा. अ. पर. कांशा-

याम्, काक्षते आथी ५,७,४;  
काक्षति शीथी १, १, २५;  
माथी २,३,२,१२; थुदे ४,२०;  
काक्षन्ते गोष्ट ३, ३, १; १३;  
जैष्ट १, १४: १३; काक्षत  
गोष्ट २, ७, १६; काक्षेत  
आथी २, ३, २७; बीव ४, १,  
१५; काक्षेत् आथी ५, १,  
७x४; शीथी; काक्षेयु: वीथी  
१४,२७: ८; २६,१: १९.  
काक्षण- न्याय वीथी २४, १६:  
१३.  
काच<sup>०</sup> - चा: वाधुथी ३,७६: ३२;  
हिथी १४,३,२२; -चाम् वीथी  
१५, १५: १६; २५: ५; ६;  
८; हिथी १४, ३, २२; -ची  
माथी ६,१,७,१५.  
काच-नीलाज्ञान (न-अ) रिधा  
(अ-अ)गानि-सर्प-निभ- भेषु  
अप ६१,१,५.  
काचाक्षि<sup>०</sup> - चय: वीथीय १०: १.  
काचान्ति<sup>०</sup> - न्तय: वीथीय ४७: ५.  
काचान्ति-कर<sup>०</sup> - रम् या १२,१७.  
काचुलुज्य- कचुलु- द.  
काचल- काचक- २कचल- द.  
काजव<sup>०</sup> - वानि वीथी २,११:२३१.  
काच्य<sup>०</sup> पाधा. अ. शतम्. दीहि-  
यमनयो:  
काञ्चन<sup>०</sup> - पाठमो २, २, १९२;  
११, पाग ४, ३, ५०<sup>०</sup> -नम्  
आमिष्ट २, ५, १: ४५; जैष्ट २,  
१: ३३; अय ३७, ४, १: ३१;

६,४; ४६, ८, २: ४८, १११; ६८,  
२, २७; वाघ ३, ६१; १५, २०;  
२८, १६; थुदे ५, ३४; -ना: अय  
६५, १, ८; -चे विघ १, ६४;  
-नेन अप ५८<sup>०</sup>, २, ४.  
काञ्चन-गुल्य-गौर- न: अय २४,  
६, ४.  
काञ्चन-मन:सिलो(ला-उ)व(मा>)  
म- भेषु अप ६५, १, ६.  
काञ्चन-रत्न-वर-प्रतिरूप- न: अय  
२०, ६, ७.  
काञ्चन-स्रग(भा>)म- न: अय  
२९, २, ४.  
काञ्चना(न-आमा>)म- न: अय  
२९, १, ६.  
काञ्चनार<sup>०</sup> - पाठमो २, ३, ४५.  
काञ्चित<sup>०</sup> - न्तय या ५, २५.  
काञ्ची<sup>०</sup> > श्री-नूपुण (र-आ)  
दि- दि काथीमे ४: १४.  
काञ्ची<sup>०</sup> (> श्री-वस्य- पा.)  
पाग ६, २, ८८.  
काञ्चुकिन्- कञ्चु- द.  
काञ्चुकि<sup>०</sup> - द: आपमं १, १०, ७;  
अप ४८, ७७; निघ ३, २३;  
-टाव आपथी १४, २, ६.  
काट<sup>०</sup> (> काट<sup>०</sup>- पा.) पाग ४, २,  
८०<sup>०</sup>.  
काटिण्य- कटिप- द.  
काटुक- १कटु- द.  
काटुकि- २कटु- द.  
काटुमन्धि- १कटु- द.  
काटक- प्रम्. कट- द.

a) आनुपजीवि-गंम-विशेष- व्यु. ?। b) = स्वर-विशेष-। व्यु. ?। c) = श्रोत्रवि-विशेष-। व्यु. ?।  
d) इति आण.। e) = गुणा-। व्यु. ?। f) = स्वरमक्ति-विशेष-। व्यु. ?। g) वैप १ द.।  
h) = तालु-। व्यु. ?। i) = काकुद-। j) = नरक-विशेष-। व्यु. ?। k) = वृक्ष-विशेष-। तत्पञ्च-। व्यु. ?।  
l) = श्वापि-विशेष-। व्यु. ?। m) विप., नाप.। वैप ३ द.। n) द्र. पागम.। o) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?।  
p) व्यु. ? <क- (<किम्-)+ अञ्जित- इति दु.। q) = श्वाभरण-विशेष-। व्यु. ?। r) = नगरी-विशेष-।  
व्यु. ?। s) अर्थ: व्यु. न ?। t) = देश-विशेष- ?। u) तु. पाका.। फोट- इति भाण्ड.।

काटेरण-कटेरणि- द.  
 काटेरणि<sup>a</sup> - (> णीय- पा.) पाग  
 छ, २, १३८.  
 काठोरकृत्<sup>b</sup> - कृत् वीथीप्र ३: १०.  
 काठोरि<sup>c</sup> - रि: वीथीप्र १०: ४.  
 श्काण, पा<sup>d</sup> - पाग २, २, ३८; -णा:  
 वीथी १५, ८: १४<sup>e</sup>; हिथी  
 १७, ७, २९; शंष ३७७: ४;  
 विध ४५, २१; या ६, ३०<sup>f</sup>;  
 तैप्रा १३, ९<sup>g</sup>; -णम् अथ ३,  
 २, ४; -णा सु ५, ४; -णा:  
 आपथी २२, ४, २४, -णे अथ  
 ३, २, ५; ९, ४, ५; या ६, ३०<sup>h</sup>,  
 -०णे सु ६, २.  
 काण-त्वञा(ञ-आ)दि- -दीनाम्  
 विध ५, २७.  
 काण-योर-कृत् वा, व(ण्ड>)ण्डा-  
 -ण्डानाम् लाथी ८, ५, १६.  
 काणखोरकृत्वण्डा-कुतमि(प्र>)  
 आ- -आ: काथी २२, ३, १९.  
 काण-योर-कृत्-उण्ट- -ण्टा: गीथ  
 २८, ६.  
 काण-द्वेण- पाग २, २, ३८<sup>i</sup>.  
 काणैय- (> काणैय-विध- पा.)  
 पाग ४, २, ५४.  
 रकाण<sup>j</sup> - पाग ४, १, ११०.  
 काणायन- पा छ, १, ११०; -णा:  
 वीथीप्र १२: ३.  
 क्काण्युक्<sup>k</sup> - -का अथ ४८, ११५; निध  
 ४, २; या १, १५; ५, ११<sup>l</sup>.  
 काण्यु- पाउ छ, ३९.  
 काण्टकमर्दिनिक- कण्टक- द.  
 काण्टकार- कण्टकार- द.  
 काण्ट(क>)दी- वण्टक- द.  
 काण्टेचिद्धि- ,दी-, दया- वण्ट- द.

श्काण्ड<sup>m</sup> - पाउ १, ११५; पाग छ, २,  
 ८०<sup>n</sup>; ३, १३६; -ण्डम् आमिण्  
 ३, ८, ३: ७; वीथ्ये, १, २५; वीथि  
 १, १५: ७८<sup>o</sup>; वीथ २, १०:  
 १४; कौस् ३०, २; आपथ १,  
 ११, ६; हिध १, ३, ६३; अथ छ,  
 १; १३-१५, १; १८, १) -ण्डस्य  
 वीथ्ये, १, १९; २०; -ण्डात्  
 ण्डात् काथी १७, ४, १८;  
 आपथी १६, २४, १; वीथी:  
 -ण्डानाम् कौस् ८६, १४;  
 -ण्डानि आमिण् १, २, १: ८;  
 कौस् ६२, १०, -ण्डाभ्याम्  
 वाथी ३, ३, १, ७; हिथी १३, ३,  
 १९; -ण्डे कौस् २७, १५; ३४,  
 १०; कौस् २२; अं छ: ३६;  
 -ण्डे-ण्डे वीथ्ये ३, २, ३; -ण्डेन  
 आपथी २२, १, १५; लाथी ८,  
 ९, ९<sup>p</sup>; कौस् २९, २०, -ण्डेण्  
 अं २-२.  
 रकाण्ड- पा छ, ३, १३६.  
 काण्ड-क्वि- -पथे आमिण् १, २,  
 १-३<sup>q</sup>; ४, ५, वीथ्ये १, ५<sup>r</sup>;  
 ७, ६; १९; ३, ८, -वि वीथ्ये  
 ३, १, १८; -विभ्य आमिण् १,  
 २, १: ४; वीथ्ये १, ५; २,  
 ३१; ४४; -विभ्य वीथ्ये ३, २, ६,  
 १९, ३१; ४४; ३, ८; -पीन्  
 आमिण् १, २, १: २; २: ३९;  
 वीथ्ये ३, १, ५.  
 काण्ड-वार<sup>s</sup>, काण्ड-वरक<sup>t</sup>, काण्ड-  
 वारण<sup>u</sup> - पा, पाग छ, १, ९३.  
 काण्ड-नामन् -मानि आमिण् १,  
 २, १: ५, २: ४०; भाण् ३, ८:  
 ३; दिण् २, १८, ३; २०, ९.

काण्ड-परिसमाप्ति- -से: अथ २, १.  
 काण्ड-सु(पा>)या- पावाड, १, ४.  
 काण्ड-प्रतीक-त्व- -त्वेन अथ  
 १९, ९.  
 काण्ड-प्रस्ता(इन-अ)नुवाक-  
 -कानाम् कौस् ७५.  
 काण्ड-मणि- -णिम् कौस् २६,  
 २७.  
 काण्ड-म(य>)वी- -योम् दाथी  
 ११, २, ७; लाथी छ, २, ६.  
 काण्ड-र- पा छ, २, ८०.  
 काण्ड(एउ-अ)र्वि- -पथे: दिण् २,  
 १८, ३; -पथे णिभाण् ३, ८: ४-  
 ६; णिथ्ये २, ७: १; ९: ८: १०:  
 १; ३; ६; ४; दिण् २, १८, ३<sup>v</sup>;  
 -णिथ्ये: भाण् ३, ८: ७; दिण्  
 २, १८, ३; -णिन् आमिण् २, ६,  
 ३: ७; दिण् २, १८, ३; २०, ९;  
 भाण् ३, ८: ३; वीथ्ये २, ५, २७.  
 काण्डवि-द्वितीय- -यम् आमिण्  
 १, १, ४: ५०.  
 काण्ड-विसर्ग- -र्गे आमिण् १, १,  
 ४: ४८; वीथ्ये १, २१; दिण्  
 १, ८, १६.  
 काण्ड-वीणा- -णा: दाथी १७, ३,  
 १२; काथी १३, ३, २१; वाथी  
 ३, २, ५, २६; हिथी १६, ६, २१;  
 -णाम् दाथी १७, ३, १४; दाथी  
 ११, २, ६; लाथी छ, २, ५.  
 काण्ड-वत-विशेष- -या: वाण् ७,  
 ११.  
 काण्ड-वमवाय- -य: अं २: ७.  
 काण्ड-समापन- -ने आपथ १, ११,  
 २; हिध १, ३, ५९.  
 काण्ड-मुक्त<sup>w</sup> - -क्ता अं २: ५.

a) अर्थ: व्यु. च !। कामेरणि-, कावेरणि- इति पाठा.। b) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। c) वेपथि द.।  
 d) सग. आपथी २०, ७, १८ अर्थ: इति पाठे.। e) द्र. पागम.। f) = देश-विशेष-। धार- इत्यस्य  
 चरक, काण्ड इति पाठे. द.। g) द्र. पावा.। h) मलो. कस. (द्र. वी १६, १७)। तात्पर्यात् = मन्त्र-।

काण्डा( एउ-आ )दि- दि आसिण्ड  
 १, २, २: ४७; -दिभिः अण  
 ४६, २, ४; -दीन् आसिण्ड १, २,  
 २: ४१; वीण्ड ३, १, ९; ९, १०;  
 भाण्ड ३, ८: १०; ११: ११;  
 हिण्ड २, १०, ५; २०, ९; -दीनि  
 पा ६, २, १३५.  
 काण्डादि-द्वौरोपणो ( य-उ )-  
 द्विधावन-वर्जम् वीण्ड ३, ९,  
 १६.  
 काण्डा( एउ-अ )सुवचन- नेपु वाण्ड  
 ५, २५.  
 काण्डा( एउ-अ )न्त- न्तात् पा ४,  
 १, २३.  
 काण्डार- पा ५, २, १११.  
 काण्डो( एउ-उ )सम- भैः अण ४६,  
 २, ४.  
 काण्डो( एउ-उ )पाकरण- णे आसिण्ड  
 १, १, ४: ४८; हिण्ड १, ८, १६;  
 आण्ड १, ११, १; हिण्ड १, ३,  
 ५८.  
 काण्डोपाकरण-काण्डसमापन-  
 -नान्याम् वीण्ड १, १७; २,  
 ५८.  
 काण्डमायन\* - नस्य तैत्रा २, १.  
 काण्डरथि<sup>b</sup> - धयः वीथीप्र ४: २.  
 काण्डय- रकण्ड- द.  
 काण्डयिक- ✓कण्ड- द.  
 काण्डन्य- कण्डनी- द.  
 काण्डुशाय<sup>b</sup> - याः वीथीप्र ४८: १.  
 काण्य-, °वापन- °विच-, °वी-,  
 °व्य- कण- द.  
 कातक- कतक- द.  
 कातर<sup>c</sup> - पाठभो २, ३, ६९<sup>d</sup>.

कातर-नयन<sup>e</sup> - नः चञ्चु ४: १८.  
 कातर-ल<sup>b</sup> - (> षा, लापण- पा.)  
 पाण्ड ४, १, ९९.  
 कातु<sup>f</sup> - तुः निप ३, २३<sup>g</sup>.  
 कात्कल<sup>h</sup> - लाः वीथीप्र १७: ११.  
 कात्त्रेयक- कत्रि- द.  
 कात्थनय- कत्थक- द.  
 कात्य-कात्यायन- कत- द.  
 काथनय-, °वापयनी- कथक- द.  
 कायंचित्तक- किम्- द.  
 काथल<sup>b</sup> - (> काथलायन- पा.)  
 पाण्ड ४, १, ९९<sup>e</sup>.  
 काथिक- ✓कथ- द.  
 कादम्य- पाठ ४, ८३.  
 कादुलय- कदल- द.  
 कादि- १क- द.  
 कादुरक- कदुर- द.  
 काद्रवेय- रकद्रु- द.  
 कामन- पाठभो २, २, ११२.  
 कानलक- कनल- द.  
 कानान्ध<sup>b</sup> - न्यम् वीथी १८, ४१: ६;  
 -न्यस्य वीथी १८, ४१: १५<sup>g</sup>.  
 कानान्ध-यज्ञ- ज्ञा वीथी २४,  
 ११: २; -ज्ञे वीथी २६, ३३:  
 १०.  
 कानिष्ठिक- \*कन- द.  
 कानिष्ठियेय- र कनिष्ठ- द.  
 कानीत- कनीत- द.  
 कानीन- रकनीन- द.  
 कान्त- ✓कम्- द.  
 कान्तर<sup>b</sup> - पाठभो २, ३, ४५.  
 कान्तर-पथ-> °विक- पाठा ५,  
 १, ७७.  
 कान्तर-भय- न्यम् विध ९०,

१६.  
 कान्ति- प्रथ. ✓कम्- द.  
 कान्यन्य-, °वापयनी- कन्यक- द.  
 कान्यन्य- कन्यु- द.  
 कान्यिक- ✓कन्य- द.  
 कान्द- (> °न्द- पा.) पाण्ड ४,  
 २, ८०.  
 कान्दम<sup>b</sup> - मस्य वाथुथी ३, ९४: ५.  
 कान्दुर्ष- कदुर्ष- द.  
 कादिशीक- किम्- द.  
 कान्दुक- कन्दुक- द.  
 कापटव-, °वी- कपट- द.  
 कापटु<sup>b</sup> - टवः वीथीप्र ४६: २.  
 कापथ- । किम्- द.  
 कापर्दि- कपर्द- द.  
 कापाटिक- कपाल- द.  
 १, २, कापालिक- कपाल- द.  
 कापिक- कपि- द.  
 कापिञ्जल- रकपिञ्जल- द.  
 २, कापिञ्जल- रकपिञ्जल- द.  
 कापिञ्जलवि<sup>b</sup> - (> °च- पा.)  
 पाण्ड ४, १, १५१<sup>h</sup>.  
 कापिला- रकपिल- द.  
 कापिलिक- कपिलिक- द.  
 कापिचन- कपिरन- द.  
 कापिशो<sup>i</sup> - > वापिशासन- पा ४,  
 १, ९९.  
 कापिष्ठाद्य<sup>b</sup> - आः वीथीप्र ४८: ९.  
 कापिष्ठिक- कपिष्ठिक- द.  
 कापिष्ठ<sup>b</sup> - शाः वीथीप्र ४५: २.  
 कापिष्ठलि-, °व्या- कपिष्ठल- द.  
 कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द.  
 कापुष्टि<sup>b</sup> - षिः वीथीप्र ४४: २.  
 का-पुस्तक-, °कन्य- किम्- द.

a) = आकार्य-विशेष- । व्यु. ? । काण्डम- इति PW. । b) = कपि-विशेष- । व्यु. ? । c) विप. ।  
 व्यु. ? का- (< किम्-) + √ वृ इति अभा. । d) < √ का इति ? । e) विप. (सामवेद-) । वत. । f) = कृप-नामन्- ।  
 व्यु. ? (ह. दे.) । g) ह. पाण्ड. । h) नाप. । व्यु. ? । i) अर्थः व्यु. च ? । j) = देश-विशेष- ? ।  
 k) < कपिञ्जलाद्- इति PW. । l) = नगरी-विशेष- ।

कापेय-<sup>०</sup> कपि- द्र.  
 कापोतक-<sup>०</sup> ता-<sup>०</sup> ति- कपोत- द्र.  
 काप्य- प्रभृ. कपि- द्र.  
 काप्यतिशययो<sup>०</sup> चाद्य ४२ : ८.  
 काप्यायनी- कपि- द्र.  
 कावव<sup>०</sup> - नम् दंवि १, ९१.  
 कावेर-क<sup>०</sup> - कः दंवि २, ६१.  
 कायोध- कवोध- द्र.  
 शकाम- ✓कम् द्र.  
 रकाम<sup>०</sup> (>कामायन- वा.) पाग ४,  
 १, ९९.  
 कामायनी- नी ऋद्य २, १०,  
 १५१; -स्वै<sup>०</sup> वीथी १७, ४२ :  
 ३; आयनं २, १०; भाय २,  
 २२ : ५; हिय १, ११, ४.  
 कामकायन-<sup>०</sup> निन्- कमक- द्र  
 कामण्डलय-<sup>०</sup> खेय- कमण्डलु-  
 द्र.  
 कामन- ✓कम् द्र.  
 कामन्तक<sup>०</sup> - वाः वीथीप्र ३१ : ३.  
 कामयत्- प्रभृ. ✓कम् द्र.  
 कामलकीकर- कमलकीर- द्र.  
 कामलकीट, र- कमलकीट, र- द्र.  
 कामलभिद- कमलभिदा- द्र.  
 कामलायन-<sup>०</sup> कामलि-<sup>०</sup> कामलिन्-  
 २कमल- द्र.  
 कामशि<sup>०</sup> - वायः वीथीप्र ४३ : ३.  
 कामाद्दुर्धनिनाः अय ६५, २, ४.  
 कामि-<sup>०</sup> कामिन्-<sup>०</sup> कामुक-<sup>०</sup> कामुका-  
 यन-<sup>०</sup> कामुकी- ✓कम् द्र.  
 कामेरणि- काटेरणि- टि. द्र.

काम्पनिक-<sup>०</sup> नीक- ✓कम्प द्र.  
 काम्पिल्य- कम्पिल- द्र.  
 शकम्पील<sup>०</sup> > शकम्पीली<sup>०</sup> - रुयाः  
 शंष ७.  
 शकम्पील-वासि ( न > ) नी<sup>०</sup> -  
 -०ति<sup>०</sup> आथी २०, १८, ३; वीथी  
 १५, २९, ३४, हिथी १४, ४, ९.  
 रकाम्पील<sup>०</sup> - लम् वीस् ४८, ४१;  
 -लैः कौस् ६६, २८.  
 रकम्पी(ल>)ली<sup>०</sup> - लीभ्याम्  
 कौस् ४३, २०; ८२, ८५.  
 काम्पील-पलाश-<sup>०</sup> शान कौस् ७६,  
 ३१.  
 काम्पील-पुट-<sup>०</sup> शान् कौस् २८, ८  
 काम्पील-शम्भ-<sup>०</sup> लैः कौस् २७,  
 ७.  
 काम्पील-शाखा-<sup>०</sup> खया कौस् ८३,  
 १७; ८७, ४२.  
 शकम्पीवकंसम्<sup>०</sup> अय ४८, ११९.  
 काम्परोदरि<sup>०</sup> - रयः वीथीप्र ४१ :  
 १०.  
 काम्पविक्रयन- कम्पविक- द्र  
 काम्पलय<sup>०</sup> - रुया. वीथीप्र १७ : १८  
 काम्पोज-<sup>०</sup> जन- प्रभृ. कम्पोज- द्र  
 १, २काम्प्य- ✓कम् द्र.  
 शक्याय- २क- द्र.  
 रक्याय<sup>०</sup> - पा ३, १, ४१; -यः वप्र ३,  
 ३, ७, या २, २०; -यम् वीय  
 ३, २, १; वैय ५, ८ : ८; आथ  
 १, २२, ६; वीय २, १, १७, या  
 १२, ३०, -याः आथ १, २३,

२; हिय १, ६, १०१; -यान्  
 माथी ६, १, ३, ११; -ये कायु  
 ४६ : ९; अय ५०, ३, १; या ४,  
 १६; ५, २५; ६, १७; -यैः आथि  
 ३, १०, ४ : १.  
 काय-हेन-<sup>०</sup> शान वैय १, ११, १३.  
 काय-नासन-<sup>०</sup> नम् काथी १६, १,  
 ११.  
 काय-मात्रा(प्र-आ)याम-<sup>०</sup> नम्  
 वैय ५, ३ : ७.  
 काय-तोषन-<sup>०</sup> नम् आथि २, ७,  
 ७ : १.  
 काय-स्थ-<sup>०</sup> स्थम् अय २३, ५, ४.  
 काया(य-अ)भि-<sup>०</sup> निम् पाति २६.  
 काया(य-आ)यस<sup>०</sup> - पाग २, १,  
 ४०.  
 कायिक<sup>०</sup> - कैः विप्र २२, ७७.  
 कायमान- ✓कं द्र.  
 कायाधय- कयाधु- द्र.  
 शकार<sup>०</sup> - पायाग ८, २, १८.  
 २, ३कार- ✓कृ द्र.  
 धकार- ✓कृ द्र.  
 फारक- ✓कृ द्र.  
 फारडि<sup>०</sup> - दिम् जैय १, १४ : ९.  
 फारण- प्रभृ. ✓कृ द्र.  
 फारणिक- १करण- द्र.  
 फारण्डय<sup>०</sup> - पाठो २, ३, १२५; पाग  
 ६, ३, ११९; -यः रंध ३७८.  
 फारण्डव-य(त् >) तो- पा ६, ३,  
 ११९.  
 फारपचव<sup>०</sup> - यम् दाथी १३, २९,

a) पाठः ? \*कल्प(वि-अ)तिशय-> -यस्य इति शोधः । b) वैय १ द्र. । c) = आथि-विशेष- । व्यु. ?  
 d) 'याम्ये इति, 'वास्यै[हिय] इति च पाठौ ? यनि. शोधः ( तु. आथमं. ( भू XXIV) ) । e) वैय १, ११०७ f  
 द्र. । f) = नगरी-विशेष- । g) पां. वैय १, ११०७ h द्र. । h) = वृष-विशेष- । व्यु. ? । i) विप्र. ।  
 विकारायें अणु प्र. । j) प्राति. अथः व्यु. च ? । k) = शरीर- । व्यु. ? पात्र < ✓चि [चयने] । l) 'व्याय  
 इति पाठः ? यनि. शोध ( तु. आथप. ) । m) = शीदरि- । n) हाप्रभिकः टक् > इकः प्र. ।  
 o) = रक्षा-निर्देश- इति पागम. । p) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । q) = पति-विशेष- । व्यु. ? । हंय-<sup>०</sup>, कारण्डव-  
 इति भागडा. । हंसकार<sup>०</sup> इति पात्र. । r) = देश-विशेष- । व्यु. ? ।

२१; काथी २४, ६, १०; आगधी  
२३, १३, ६; द्विधी १८, ४, ४०;  
-वे काथी १२, ६, २८.  
कारवु<sup>१</sup> - अत्र: वीथीय ३: १२.  
कारवत् - प्रत्य.  $\sqrt{क}$  द.  
कारवीर्येय- करवीर- द.  
१कारवत्-कर<sup>२</sup> - पाठ ६, १, १५०.  
२कारवत्-कर<sup>२</sup> - नाम् वीथ १, १,  
३०.  
कारा<sup>१</sup> - पा ३, ३, १०४; पाठ ६, १,  
११६.  
कारा-भू- पाया ६, ४, ८४.  
कारा-भन- अन् आगिथ १, ३, १ :  
२४<sup>०</sup>; वीथ ३, १, २५.  
कारादोत्रिया- निम्- द.  
कारालिक<sup>१</sup> - अत्रि वय १३, ५.  
कारि-, कारिका-, कारिन-, कारिन्-  
 $\sqrt{क}$  द.  
कारिवीति<sup>१</sup> - नि: वीथीय १९ : ५.  
कारीर-, वी-, वी-वत- करीर- द.  
कारीरिणी आगिथ १, २, १ : २२.  
कारीय- १ करीय- द.  
कारीयापण-, वीवि- २ करीय- द.  
कार-  $\sqrt{क}$  द.  
कारुणि<sup>१</sup> - नि: वीथीय १० : ४.  
कारुणधि<sup>१</sup> - अथ: वीथीय १७ :  
१०.  
कारुणी- कटन- द.  
कारुण- पाठभो २, ३, १६०.  
कारुणुपाठ-, लावन-, लि- करेणु-  
द.  
कारुये<sup>१</sup> - अा: वीथीय ४३ : २.  
कारुतर<sup>१</sup> - अ: वीथी २६, २३:११;  
अथ ४८, ५०<sup>०</sup>; तीमा १, १५<sup>०</sup>;

-रम् काथी १९, २, ७; आगधी  
१९, ९, १; वीथी १७, ३१ : ५;  
३२ : ३; ४; द्विधी २३, १, १०;  
-रा<sup>१</sup> काथी १९, २, ७; निव ३,  
२३<sup>०</sup>.  
कारक- कट- द.  
कारकिक-, कारकित्त- कटक- द.  
कारकित्तव<sup>१</sup> (> कारकित्तवनि- पा.)  
पाठ ४, १, १५८.  
कारकण- कृष्ण- द.  
कारकण्डेय- कृष्ण- द.  
कारकित्तव- कर्ण- द.  
कारकित्तवय-, अन्, अन्, अन्त- कर्ण-  
द.  
कारकित्तसेय- २ कृष्णाग- द.  
कारकिलि- कृष्णा- द.  
कारकित्त- १ कर्ण- द.  
कारकित्त<sup>१</sup> (> अन्तवनि-) कारकित्त-  
टि. द.  
कारकित्तसेय- कृष्णा- द.  
कारकित्त<sup>१</sup> - > अन्त- निग: पाठ ३,  
१५, १६.  
कारकित्त- कर्ण- द.  
कारकित्त- कृष्ण- द.  
कार्क- ३ कर्ण- द.  
कार्किकोष्ठ-, अन्-मादिक-, कार्कित्त-  
१ कर्ण- द.  
कार्कित्त- कर्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कर्ण- द.  
कार्कित्त-, कार्कित्त-  $\sqrt{क}$  >  
३ कर्ण- द.  
कार्कित्तवद- कार्कित्तव- कार्कित्त-  
 $\sqrt{क}$  > ३ कर्ण- द.  
कार्कित्त-  $\sqrt{क}$  द.

कार्कित्त-, अन्त- कार्कित्तिक-, कार्कित्त-  
केय- कृष्णा- द.  
कार्कित्त- १ कर्ण- द.  
कार्कित्त- कृष्ण- द.  
कार्कित्त- अन्त- १ कर्ण- द.  
१. २ कार्कित्त- प्रत्य. कर्ण- द.  
कार्कित्तवनि-, कार्कित्तव- कर्ण- द.  
कार्कित्त-, कार्कित्तव-, कार्कित्तवनि-  
 $\sqrt{क}$  > कर्ण- द.  
कार्कित्त-, अन्त-, अन्त- कार्कित्त-  
वांवि-  $\sqrt{क}$  > कार्कित्त- द.  
१ कार्कित्त<sup>१</sup> - का: आ ५२, ७, ३.  
२ कार्कित्त<sup>१</sup>  $\sqrt{क}$  द.  
३ कार्कित्त<sup>१</sup> - कृष्ण- द.  
कार्कित्त-  $\sqrt{क}$  द.  
कार्कित्त-  $\sqrt{क}$  द.  
कार्कित्त-, कार्कित्त-  $\sqrt{क}$  द.  
१ कार्कित्तवनि- प्रत्य. कर्ण- द.  
२ कार्कित्तवनि- पा, पाठ ५, ३,  
११०.  
कार्कित्त-, कार्कित्त-, कार्कित्तव-  $\sqrt{क}$  द.  
कार्कित्त<sup>१</sup> - ता: वीथीय ४५ : ५.  
कार्कित्तवनि- कार्कित्त-  $\sqrt{क}$  द.  
कार्कित्त- ३ कृष्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कृष्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कृष्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कृष्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कृष्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कृष्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कृष्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कृष्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कृष्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कृष्ण- द.  
कार्कित्तवनि- १ कृष्ण- द.

a) = अन्त-विशेष-। ब्यु. ?। b) = इत्त विशेष-। ब्यु. ?। c) = देश-विशेष-। ब्यु. ?। d) = वन्ध-  
नात्म-। वीथ ३ द.। e) कारीरावत् इति पाठः? यनि. शोवः (तु. वीथ).। f) = वादित्त-विशेष-। ब्यु. ?।  
g) वीथ १ द.। h) तु. पाठा.। कार्कित्त- इति भाषणा.। i) = कार्कित्तवत् इति-। ब्यु. ?। j) = प्रत्य-विशेष-।  
ब्यु. ?। k) = आगुपत्रीवि-विशेष-विशेष-। ब्यु. ?।

कार्मर्य- -र्यस्य माथी १,८,२,२६.  
 कार्मर्य-मय- -याः काथी ८, १,  
 १०; आपथी ७,७,७; १०,२०,  
 ३; माथी १,५,६; माथी १,८,  
 १, १८; वायुथी ३, १०० : ९;  
 वैथी १०, ६ : ९; हिथी ४, ५,  
 ६५; -यागि आपथी १५, ५,  
 ११; माथी ११,५,१५; -यान्  
 वीथी ४, १ : ४; ४ : ४×४;  
 माथी; -ये काथी २, २, १३;  
 आपथी ११, १३, १; वैथी;  
 -येन वीथी १४, २१ : २९;  
 -यैः वीथी ६, १८ : २.  
 कार्मर्यमयी- -वीथ्याम् काथी  
 ६,५,७; -योम् काथी १७, ४,  
 १२; आपथी १६, १, ७; २७, ५,  
 ६; वीथी १०, ३० : ८-१०;  
 माथी; -र्ये आपथी ७, ८, ३;  
 काठथी; वैथी १०, ७ : २१७;  
 हिथी ४, २, २७.  
 कार्मर्य- > ०व्य-वण- पा ८, ४, ५.  
 √काल् पापा. चुरा. उम. कालोपदेशे.  
 शकाल- पाग ४, ३, ५४; पागवा ५,  
 २, ९७, १००; ४, ३; -लं काथी  
 १, ७, ७; -लं आपथी २,  
 २१, ३१; भाथ २, २९ : १०;  
 -लः वीथी २, ५, ७; ६, ६, २०;  
 काथी १२, ६, ३६; २५, १, ३;  
 आपथी २, २१, २; ५, ३, १९;  
 वीथी ६, २२ : २१×४; वैथी,  
 या १, ६; २, १८; ३, १५; १२,  
 १३; १४, ४; पा ४, २, ३; पावा २,  
 २, ५; -लम् आपथी २, १, ४, ३;  
 ८, १४, ७; १०; ११; १२, ८,

३०; शाथी १३, ६, १; आपथी;  
 हिथ १, १२, ४, ११; गोथ;  
 -लवोः वीथी २८, ८ : ६;  
 आपथ २, १, २; हिथ १, ९, २;  
 -लस्य काथी १८, ६, ३०;  
 आपथी २४, ४, २०; हिथी ३,  
 १, २८; निम् २, १३ : २५;  
 अण; पावा २, २, २५; -लाः  
 वीथी १९, १० : १९; वायुथी  
 ३, १०२ : ३; आपथ २१, १;  
 वाथ, पा २, १, २८; २, ५;  
 -लात् वीथी ६, २२ : २४×४;  
 माथी; पा ४, ३, ११; ४३; ५, १,  
 ७८; पावा ४, २, १०४; ५, १,  
 ५८; -नूलाय आपथी ६, २०,  
 २; वीथी १०, १८ : ११; काथी  
 १, ५, ४, २०; हिथी ६, ६, २४;  
 आपथि, -ले आपथी ३, १४,  
 १४×४; शाथी, अथ १, २१,  
 ४७, या ५, ११; पा २, ३, ६४;  
 ५, ३, १५; पावा २, ३, २८, ४,  
 २, ३; -लेऽले वीथी २२, ८ :  
 ४; २३, २ : १४; जैथीका; या  
 ८, १७, १२, २७; -लेन वीथी  
 २८, १२; जैथ २, ८ : १३; अथ  
 ६८, ५, ५, ६; दीथ; -लेभ्यः  
 वीथ २, ८, ३३; पा ४, ७, ३४;  
 मीथ ६, २, २७; -लेषु आपथी  
 ६, ४, ११; माथी ६, ९, ९;  
 माथी ५, १, ६, ३२; आपथि;  
 -लौ हिथी ६, १, २३; आपथि  
 १, १, ४ : ३०; ३१; हिथ १,  
 ८, २३.

\*काल- पा ६, ३, १७.  
 काल-कर्मन्- -मंगाम् पावा १, ४,  
 ५२.  
 कालकर्मन्- -काणाम् पावा १, ४,  
 ५२.  
 काल-कर्म(म-ए)कव- -र्यात् काथी  
 ५, ७, ३.  
 काल-काम- -मौ शंभ २१०.  
 काल-कृति- -वी निम् ५, ४ : ४.  
 काल-कर्म(म-उ)दित- -ताः कथ  
 ३, ७, १४.  
 काल-गुण-भेद- -दात् काथी ६,  
 ७, २८.  
 काल-चक्र-वर्णन- -नम् अथ २,  
 १, १६४.  
 काल-शान- -नम् वेज्यो ५.  
 काल-तसः (:) आपथ २, १५, १२;  
 हिथ २, ३, ४६; पावा १०; ११.  
 काल-प्रया (य-आ)भक्त- -काः  
 आपथि २, ४, १२ : ८.  
 काल-भूत- > कृतिन्- -तिनः  
 जैथ २, ९ : १६.  
 काल-द्रव्ये(ध्व-ए)कार्थव- -र्यात्  
 काथी १, ७, १२.  
 काल-द्रव्य- -यम् विथ २८, ४.  
 काल-धाणा- -ण्य अथ ११,  
 ३२.  
 काल-नष्ट-प(ध>)या- -याम् अथ  
 ७०, २, १०.  
 काल-नामन्- -नामनः पा ६, ३,  
 १७.  
 काल-नियम- -मः वीथ १५, ५;  
 -मम् वीथ २, ७, १७; वीथ २,  
 ११, ३३.

a) वैप १ द.। b) ०र्मियम् इति पाठः ! यनि. शोधः। c) = वृष-विशेष-। ध्यु. !। d) वैप १,  
 ११०८ b द.। e) = काले। f) नरा. काल <> कालम् इति पाठे.। g) कामम् इति बोधत (ZDMG  
 ५२, ८१) शोधः।। h) अका इति पाठः ! यनि. शोधः। i) पस.> वृष, वष. < √वृ। j) विप.।  
 दृम.> वम.। k) 'यम् इति पाठः ! यनि. शोधः।

काल-निवृत्त्य( ति-श्र)र्थ- धंम्  
पावा ७,२,५३.  
१काल-परिमाण- णम् पावा २,  
२,५.  
२काल-परिमाण- णानाम् पावा  
७,३,१५.  
काल-पाश- -श्री संघ ११६:  
१९.  
काल-पुत्र- -प्रा: अ१ ५२,५,१.  
काल-पूरण- -णेन आश्री १२,३,८.  
काल-प्रकर्ष- -र्षात् पावा ३, ३,  
१५.  
काल-प्रयोजन- -नात् पा ५,२,८१.  
काल-प्राधान्य- -न्यात् काश्री १३,  
४,१३; मीम् ६,५,४१.  
काल-प्रवृत्ति- -त्तिम् माश्री ३,  
१,३४.  
काल-भावा ( व-श्र) ष्यगन्तव्य-  
-न्या: पावा १,४,५१.  
काल-भेद- -दात् काश्री ८,८,३६;  
१७,१,९; १५, १, २; १२,६,  
१; २०, ७, २५; काश्रीसं ५:  
२; पावा १, १, ७०; ४,१०९;  
मीम् ३, ६, २८; ८, १, २४०;  
१०,६,३१; ७१; ११, १, ६८;  
७,१२; २४; ४,३७; ५५; १२,  
१,१७.  
काल-मन्त्र-हीन- -ने श्य ३८,  
३,४.  
काल-मात्र- -प्रम् मीम् ७, ४, ६;  
६,५,५०; १०, ६, ३; १३, ३,  
४७; -त्रे पावा ३,१,१३३.  
काल-योग- -नाम् पावा ७,२,३.  
काल-ल- पावा ५,२,९७.  
काल-लिङ्ग- -ज्ञानाम् मीम् ६, २,  
२८.

काल-वचन- णम् मीम् ११, २,  
२१.  
काल-वाक्य-भेद- -दात् मीम्  
१२,२,१५.  
काल-वाद- -व: शशी १०, २१,  
१९.  
काल-विधान- णम् मीम् ६, २,  
२८; -नात् मीम् ५,४,८१.  
कालविधान-शास्त्र- -स्त्रम्  
वेज्यो ३.  
काल-विधि- -धि: मीम् ३, २, ९;  
११; ६,२१; ६,४, ४५.  
काल-विप्रकर्ष- -र्ष: शीव २,३९;  
-र्षा: मीम् ६,१: १९.  
काल-विभाग- -नो पा ३,१,३७.  
कालविभाग-द्रष्ट(ः) वीथ २,  
३,५६.  
काल-विशेष- -ये पावा २,१,१७.  
काल-वृद्ध-व्यवाय- -यात् पाप्रवा  
२,११.  
काल-वाक्य- -कम् मीम् २,४, ७;  
३,६,२१; १०,८,४०.  
काल-वैष- -यम् पाय ३,१०,४४.  
काल-वृत्ति- -त्ती मीम् ३,४, २८.  
काल-संयोग- -नात् मीम् ११, ४,  
२३  
काल-संशय-ल- -त्वात् काश्री १२,  
४,२०.  
काल-संक्षेप- -र्षात् मीम् ६, ९:  
१४;१९.  
काल-संनिकर्ष- -र्षे अपश्री ९,२,  
३. -र्षेण हिश्री १५,१,५१.  
काल-समय-वेला- -त्वात् पा ३,३,  
१६७.  
काल-समापादन- > शीव- णम्  
आश्री ९, ७, ३; ४; माश्री

९, ९, ११; १५; हिश्री १५, २'  
२२.  
काल-समुच्चारण- -गात् पावा ३,  
३,१३३.  
काल-संपत्ति- -त्त: काश्री २६, २,  
३७.  
काल-सामान्य- -न्यात् हिश्री ७,  
५, ६२; मीम् ८, २, १६; ११,  
२,६०.  
काल-सूक्त- -कम् अप १०,१,७.  
काल-सूत्र- -प्रम् विष ७३, ६;  
-त्राणि संघ ३७७.  
काल-स्नान- -नम् आश्रि १, २,  
३: १९.  
काल(ल-श्र)ति-रुद्ध- -द्वम् संघ  
११६: २.  
काल(ल-श्र)तिक्रम- -मे काश्री ७,  
१, २२; आश्रि २, ७, ४: १;  
पाय २, ५, ४१; वीथ ७,६,२;  
११, १; -मेपु वीथी २८, ८:  
१७; १२: १०.  
काल(ल-श्र)तिनय- -ने हिश्री १५,  
१,८३; २२,२,९.  
काल(ल-श्र)तिपत्ति- -त्ति: आश्रि  
२,७, ९: ३२; माय ३, २०:  
३; -त्ती माश्री ३, १, ३३; ५,  
१,७,२७.  
काल(ल श्र)तिपक्ष- -द्वर्य अपश्री  
९,७,११.  
काल(ल-श्र)तिपात- -ने अपश्र  
५, ३.  
काल(ल-श्र)तिरि(क>)का-  
-का वाच १७ ६९.  
काल(ल-श्र)ती(त>)ना- -त्ता:  
अ ७०<sup>३</sup>, १०, २; -तासु अ  
३७,१२,१.

a) विप. १ वस. १ b) पद-विशेष-१. c) कर्मभेद- इति जीव. १ d) कर्मिदोष- इति जीव. १ १  
e) नरक-विशेष- १ पक्ष. १ f) रूप->कर्म. १



काला (ल-अ) ध्वनत्व-संयोग- नो  
पावा ३, १, २६.  
काला (ल-अ) न्यय- -येन आधौ ३,  
१२, १९.  
काला (ल-अ) द्वि- -द्विषु पावा ३,  
१, १४.  
काला (ल-अ) ध्वन्- -ध्वनोः पा २,  
३, ५.  
काला (ल-अ) नन्तयं-धर्मानुग्रह-  
-हेम्यः काधौ ४, ३, १६.  
काला (ल-अ) नुपूर्वी- -न्यां वेज्यो ३.  
काला (ल-अ) नुवाद- -दम् या १२,  
१३.  
काला (ल-अ) न्तर- -रम् काठधौ  
१०३, लाधौ ८, ८, ४४; -रे  
काधौ १, ८, ६; आपध २, १, ५,  
हिष २, १, ५; मौसू १२, ३, १५.  
कालान्तर-भोजिन्- -जिनः  
वैध १, ८, १.  
काला (ल-अ) न्यत्व- -स्वम् पावा  
३, ४, १.  
काला (ल-अ) पतद- -यः आपधौ  
१९, १८, १५.  
काला (ल-अ) वराध- -धाव् मौसू ६,  
५, १.  
काला (ल-अ) भाव- -वाव् काधौ  
१२, ६, ३४.  
काला (ल-अ) भितियम- -मान्  
आपध २, १६, ७; हिष २, ५, ७.  
काला (ल-अ) म्यास- -से मौसू ८,  
३, ६.  
काला (ल-अ) र्थ-स्व- -स्वाव् मौसू  
६, ४, ४३.

काला (ल-अ) विभाग- -गाव् पावा  
३, २, १२३.  
काला (ल-अ) वयवाय- -येन ऋप्रा  
२, २.  
काला (ल-अ) स्ववेत- -तेषु आपधौ  
२४, १, ४०.  
कालिल- पा ५, २, १००.  
काले-ज- पा ६, ३, १५.  
कालै (ल-ए) ऋव- -स्वाव् मौसू ११,  
४, ५४.  
कालो (ल-उ) कर्ष- -र्षः मौसू ५,  
१, २१.  
कालो (ल-उ) पसजन- -ने पा १, २,  
५७.  
१काल्य, लया- पा ४, ३, ५४; ५,  
१, १०७, पागद, २, १३१; -ह्यम्  
आमिष ३, ७, ३ : ८; वीषि २,  
१, ३; -ह्या पा ३, १, १०४;  
-ह्याम् वीधौ २०, १ : ४७;  
४९; ५२; आमिष ३, ७, ३ : ८;  
वीषि २, १, ३.  
२काल- पावा ८, २, १८<sup>b</sup>, पागवा ५,  
४, ३; -हन आपधौ १९, ५, ७;  
हिधौ २३, १, ६.  
काली- पा ४, १, ४२; -लीम्  
काय १९, ७<sup>c</sup>.  
कालिका- -का आ ६८, २,  
४४.  
काल-क, कालिका<sup>d</sup>- पा ५, ४, ३<sup>e</sup>; ३३;  
-कः आ ६८, २, ३१.  
कालक-वन<sup>f</sup>- -नान् वाध १, ८;  
वीध १, १, २५<sup>g</sup>.  
कालका-सु<sup>h</sup>- -सुम् आपधौ

२०, २३, १; हिधौ १४, ५, ११-  
कालकेप<sup>i</sup>- -यान् वृदे ७, ५३.  
काल-क (सु>) गी- -गीं शंघ १०१;  
विध ६४, ४१, -गीम् विध ४८,  
१९<sup>j</sup>.  
काल-कणी (सु-उ) पित- -तः या  
६, ३०.  
काल-ने (सु >) प्रा<sup>k</sup>- -०त्रे कौम्  
१०६, ७<sup>l</sup>.  
काल-सुन्द<sup>m</sup>- -न्दैः कौसू ३२, ८.  
काल-रात्री<sup>n</sup>- -श्रीम् वीध ३, ६, ६<sup>o</sup>.  
काल-वाल<sup>p</sup>- -फि ७२.  
काल-विहीन<sup>q</sup>- -नम् वैष ४, ११:१-  
काल-शकुनि- -निः आ १, ३२, ३-  
काल-शाक- -कम् विध ८०, १४.  
कालशाक- -रुग-लोह-स्वह-  
मांस<sup>r</sup>- -सैः गीध १५, १५.  
काला (ल-अ) मुशातन<sup>s</sup>- -नेन  
आपधौ १९, ५, ७, हिधौ २३,  
१, ६.  
काला (ल-अ) म्बुद-परिधाव- -वा-  
आ ६४, १०, ५; -वैः आ ६३,  
५, ४.  
काला (ल-अ) यस- -सस्य वीधौ  
१५, १५ : ७; -सान् वीधौ १५,  
१५ : २; -सेन आपधौ १९,  
५, ७; हिधौ २३, १, ६; -सै-  
वीधौ १५, २८ : १३; ३० : २६;  
३३ : २.  
कालायस-कृत- -कृतः वीधौ  
१५, १५ : १.  
कालायस-स्वरु<sup>t</sup>- -स्वन् वीधौ  
१५, १५ : ३.

- a) = कृष्ण-वर्णः, तद्वत् । व्यु. ? । b) वृ. पागम. । c) देवी-विशेष- । d) विप., नाप. ।  
e) का- = शुरा- । f) = पर्वत-विशेष- । वस. । g) कालकृत, घनाव् इति काचित्कः पाधे. । h) विप. ।  
वस. । i) व्यप. । आरयाधे ढक् > एयः प्र. । j) सरा. कर्णीम् <> प्रात्रीम् इति पाधे. । k) = कृत्या- (वृ.  
गोविन्दस्वामी) । ममासः ? । l) विप. । तुल. । m) वृ. Böbler । दस. उप. दस. > वस. । लोह- = रफ-रुग- ।  
n) वस. उप. = उपपान- (वृ. हिधौ) ।

कालो(व-उ)रुक्- के विच ८५.  
३५.  
कालरुमेविचधु<sup>०</sup> वाधी ३, ४, ५,  
२३.  
काल-काञ्च- -भा: अत्र ३,४,११<sup>०</sup>.  
कालक्रीड- कलक्रीड- द.  
कालक्रीडक<sup>०</sup>- -कल्प क्रीड १,१५,११.  
कालकूटि- कलकूट- द.  
कालक्रीडक<sup>०</sup>- -कल्प शीष्ट १, २३,  
११.  
कालनक- कलन- द.  
कालपवि<sup>०</sup>- -वय: वीथीप्र २७ : ८.  
कालयय<sup>०</sup>-> पविन्- -विन: निम्  
६, ३:१७; ७: ८; ९, १३:  
२६.  
कालययि-माहाग- -णम् आपथी  
२०,९,९.  
कालमुद्र<sup>०</sup>- -वा: अत्र १,७,१०.  
कालनाय<sup>०</sup>- -य: वीथीप्र ४१: १३.  
कालशिक- कलश- द.  
कालशय- कलशि- द.  
रकाल<sup>०</sup>- पाग ४,३, १६७; -लाम्  
आमिष्ट ३, ५, ५: ६; वीथि १,  
४: ६.  
रकाला<sup>०</sup>- -ला वृदे ५,१४४.  
कालाप- कलाप- द.  
रकालायन- कला- द.  
रकालायन<sup>०</sup>- -ना: वीथीप्र ४९: १.  
कालाल- -लम् माधी १,८,२, १०,  
२,१,४,३३.

कालिङ्ग- कलिङ्ग- द.  
कालिङ्ग<sup>०</sup>, -न्दी- कलिङ्ग- द.  
कालिल- काल- द.  
कालिस्य- कलिव- द.  
कालूतर- कलतर- द.  
कालेता<sup>०</sup>- -वा वय् २: १६.  
१,२,कालेय- कलि- द.  
कालोप<sup>०</sup>- -वा: वय् ३: ४५.  
कालिक<sup>०</sup>- -कल्प: वीथीप्र ४८: ५.  
काल्य- -कल्प<sup>०</sup> द.  
रकाल्य- काल- द.  
रकाल्य<sup>०</sup> (> ल्यायन- वा.) पाग  
४,१,९९.  
काल्यताम्<sup>०</sup> भाग ३,१४: २३<sup>०</sup>.  
काल्याणक<sup>०</sup>, -गिदेव- वल्याण- द.  
काय- कवि- द.  
कायचिक- कवच- द.  
का-यिराज्- किम्- द.  
कायिल्य- कलि- द.  
कायी- कवि- द.  
कावेरणि- कवेरणि- टि. द.  
काय-काययन<sup>०</sup>, -नी- कवि- द.  
✓काशु<sup>०</sup> वापा. भ्ना., दिना. आत्म.  
दीती, काशवि कप ४८,५८.  
काशुमी पाग ७,३,८७.  
काश- -दो पा ६,३,१२३.  
काशन- -नाम् या १२,२५.  
काशित<sup>०</sup>- -नि: निच ४, ३; या  
६,१; ७,६; -नीम् कौम् २१.  
४; २४,२, ४७,३४.

काशना<sup>०</sup>- -नाम् आपथे २,१६,  
२; ५; भाग २, ७: १०; १६;  
द्विष्ट २, ७,२.  
काशरमान- -नेपु वाधी ४, १५,  
१९.  
रकाश<sup>०</sup>- पाग ४,२, ९०<sup>०</sup>; ३,५४<sup>०</sup>;  
-ना: अत्र १,६,३; शेष ११२;  
वृदे ७, ७९; -नाम् वैथी ११,  
१०: ८; विच ४२,२; -नालाम्  
आमिष्ट ३, ८, ३: ४<sup>०</sup>; काय  
४५, ६; वीथि १, १५: ७६<sup>०</sup>;  
-शे: शेष ११२.  
काश-तुला- पाग २, ३,३१<sup>०</sup>.  
काश-ज- पा ६,३,८२.  
काश-दिविधुवक-वेनस- -साम्  
कौम् ४०, २.  
काश-मय- -ये दाधी १४,२,६;  
लाभी ५,६,९.  
काश-स्तम्भ- -ग्यम् आमिष्ट ३, ८,  
१: ९; ३: ६; वीथि १,१४: ९;  
१५: ७७,  
काश-रुम्भ- -रग: शेष ५९.  
काशीय- पा ४,२,९०,  
१कारय- पा ४, ३,५४.  
रकाश<sup>०</sup>- पाग ४,१,११०.  
काश-रुम्भ<sup>०</sup>- पाग ४, २, ८०<sup>०</sup>;  
-ग्य. वीथि १,४, ४४; -रुम्भय  
द्विथी २२, २, ३४; -रुम्भा:  
वीथीप्र ३: ६.  
काश-रुम्भ- पा ४, २, ८०.

a) = तीर्थ-विशेष-। वस.। b) पाठः! काशकाशु - [द.]> -शुः इति शोधः। c) वैग १ द.। d) पाथि.  
वैग १,११०-८। द.। e) = वृध-विशेष-। श्यु. !। f) गवा, लकी<> लकी इति पाथे.। g) = कवि-विशेष-।  
श्यु. !। h) व्यप.। श्यु. !। i) = देश-विशेष-। श्यु. !। j) = वनरति-विशेष-। श्यु. !। k) = दूध-कन्या-।  
श्यु. !। l) विर.। श्यु. !। m) = वेदशाखा-विशेष-। श्यु. !। n) = गामगाति-विशेष-। श्यु. !। कापोल- इति  
कां। o) पाठः! कल्प-ता-> -नाम् इति शोधः (तु. संस्वतां)। p) अत्र ५,२,११ पराम्यः द.। q) तु.  
संस्वतां [धु. XXXV] इव आकनम् इति पाठः (व रमाने मवचाकनम् इति। DC.। r) = वृष्ण-। श्यु. ! <✓काशु  
इति अभा.। s) शकाशुद- इति [पथे] पाठः। t) द. वयम्.। u) अर्थः!। v) विर.। वय.। w)  
अवि-विशेष-। आचार्य-विशेष-।

काशकृत्स्न<sup>०</sup> - क्त्स्नः काशी ४,  
३, १७,  
काशायन- पा ४, १, ११०.  
धकाश<sup>०</sup> - (> काशिल<sup>०</sup> - पा.) पाग ४,  
२, ८०.  
काशपरी<sup>०</sup> - (> काशपरंय- पा.) पाग  
४, २, १७.  
काशाफरी<sup>०</sup> - (> काशाफरेय- पा.)  
पाग ४, २, १७०.  
काशाथिन्- कशाथ- द.  
१काशि- ✓काश् द.  
२काशि<sup>०</sup> - (> काश्या- पा.) पाग ४,  
१, ८०.  
३काशि, शी<sup>०</sup> - पाठभे २, १, १६६<sup>०</sup>;  
पाग ४, २, ११६; कि ५७।  
काशिका, की- पा ४, २, ११६.  
काशि-पारियात्र-कुश पाञ्चाल- लाः  
अप ५६, १, २.  
काशि-राज- जः ऋय २, १०, १७९.  
काशि-विदेह- हाः वीथी १८, ४४:  
२२.  
काशी(शि ई)इवर<sup>०</sup> - राय आमिष्ट  
१, २, २: २३; हिष्ट २, ११, ६.  
२काश्य<sup>०</sup> - पाग ४, १, १११; -वयस्य  
वृदे ६, ४२.  
काश्य-वैदेह- हयोः साधो १६,  
२९, ६.  
काश्यायन- पा ४, १, ११९.  
काशीत<sup>०</sup> - तम् लाधो ७, २, १; निस्  
३, १०: १०, ७, १२: ७; -से  
साधो ७, १०, ६.  
काशीय- २काश- द.

काशीवाज<sup>०</sup> - जाः वीथीत्र १०: ४.  
काश्- पाठ १, ८५.  
कादमर्थ<sup>०</sup> - कि ७६.  
कादमयो(र्वि-उ)दुम्बर- रः अप  
२३, ६, ५.  
कादमीर-, पर-, श्री-, र्वं-  
कश्मीर- द.  
१काश्य- २काश- द.  
१काश्यप- कश्यप- द.  
२काश्यप<sup>०</sup> - पम् अप ७०<sup>०</sup>, २०, १;  
७०<sup>०</sup>, १०, ६.  
काश्यपायन-, पिन्-, वीय-, व्येय-  
कश्यप- द.  
काश्यातप<sup>०</sup> - याः वीथीत्र ४१: ४.  
कापाय- १वपाय- द.  
कापायिन्- २कपाय- द.  
काष्टरेपि<sup>०</sup> - पय वीथीत्र १२: १.  
काष्ट्य- ✓कप् द.  
काष्ठा<sup>०</sup> - पाठ २, २; पाग ४, २, ९१;  
६, ४, १५३; पावाग ८, १, ६७;  
-ष्टम् काशी १५, ४, ३१; २५,  
३, २; आधो, -ष्टयोः गोष्ट ३,  
१०, २९; -ष्टव कौष्ट ३, १०,  
३५; शोष्ठ, -ष्टानाम् वीथी २२,  
१७: १७, वीथ १, ६, २४; वीथ  
१६४, -ष्टानि आधो २, १२,  
५, १२, ३, ५, वीथो; -ष्टे आमिष्ट  
३, १०, ३: २२; कौस् ८७,  
१९१, वाध १२, १५; -ष्टेन  
वीथो १२, ६: ८; पाठ, -ष्टेव  
आधो ३, १४, १६; -ष्टैः आधो  
१६, ११, १; वीथो.

काष्ठ-कलाप- पम् आमिष्ट १, १,  
४: ३१<sup>०</sup>; हिष्ट १, ८, २.  
काष्ठकीय- पा ४, २, ९१.  
काष्ठक- पा ६, ४, १५३.  
काष्ठ-जल-लोष्ठ-पापाण-शस्त्र- विद-  
रज्जु- -ज्जुभिः वाध २३, १५.  
काष्ठ-मय- मयः वाध ३, ११; -यम्  
हिपि १५: ६.  
काष्ठ-मौनिन्- नो शोध ३९०.  
काष्ठ-रज्जु-स्वकृ-स्वर्म-वीर-वेणु-विद-  
ल-पत्र-पर्ण- -र्णानाम् काध  
२७७: १२.  
काष्ठ-वन् वाध ६, ३२.  
काष्ठ-वाक्-स्थायु- -वा पावाग ८, २, २२.  
काष्ठ-संघात- -तैः अप २३, ५, २.  
काष्ठ-स्थ- -स्थः नाशि १, ६, १७.  
काष्ठा(ष्ट-आ)दि-ग्रहण- -णम्  
पावा ८, १, ६७.  
काष्ठा<sup>०</sup> - कि ५७; -ष्टा वीथो ११,  
७: ३७; आपध १, २२, ७; हिप  
१, ६, ७, या २, १५; वेज्यो ३९;  
-ष्टा आधो १७, १८, ११;  
१अत्र ४८, ७५; ९९; निच १,  
-ष्टानाम् या २, १६१; ७, २२१<sup>०</sup>;  
-ष्टान् वा २, १६१; वेज्यो  
३०; -ष्टाम् आधो १८, ३,  
१५; वीथो, -ष्टायाः वाए, २४१;  
-१ष्टानु आधो १७, ८, ७;  
माधो ५, २, ३, ९; १२<sup>०</sup>; वीथो  
१२, ५: ५१<sup>०</sup>, -ष्टे वीथो २६,  
२९: ५, ७, -ष्टोस् आधो १९,  
२३, १, हिथो २२, ४, १७.

a) = आचार्य-विशेष- । b) अर्थः व्यु च ? । c) = देव-विशेष- ? । d) = नगरी- (तु. पागम.) ।  
e) फरि- इति [पक्षे] भाण्डा., शस्यलः - इति वामनः, शफरी- इत्यग्रे (तु. पागम.) । f) तु. पागम. । ध्वर. ।  
व्यु ? । g) = वाराणसी. । व्यु. ? । h) ए. ? । i) < ✓कप् इति । j) काशीना- इति पासि. [मुषोधिनी] ।  
k) = महादेव- । l) = वृष-विशेषः । m) = साम-विशेष- । व्यु. ? । n) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।  
o) = कार्मण- । p) = गृह-विशेष- । व्यु. ? । q) वैप १ द. । r) 'लाम् इति पाठः ? यनि. शोधः  
(वृ. हिष्ट.) । s) लुसकाऽऽदिष्ठा<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः । t) तु. पा ८, २, ९० ।

काष्ठा-गमन- ज्ञे वीथी २२, १४ :  
२४.  
काष्ठापर्य- -नः कौष्ट २,६,९.  
काष्ठा- , प्यायणी- २४५-६.  
✓काष्ठा<sup>०</sup> पाषा. भ्वा. आत्म. शब्द-  
कुत्सायाम्, चकासति सु ४,  
२०.  
२काम,मा<sup>०</sup>-सम् आप्त २,३,३;  
द्विष २,१,३३.  
कामा-देवता- > षव्य- नयम्  
श्रम ६,१०५.  
कासिका<sup>०</sup>- का वीथी २, ५ :  
१५५.  
शकास- ✓कम् द्र.  
कासकिक<sup>०</sup>- कः गोष्ट १,२,२५.  
कासर- पाठो २,३,३८.  
कासाव्यय- कगाम्बु-द्र.  
कासार- पाठ ३,१३९.  
कास्- पाठो २,१,१५६.  
कास्-त(र>)री- पा ५,३,९०.  
का-सृति- किम्-द्र.  
कासौवलदादौष्य- -भाः अय १,  
७,८.  
कास्तीर<sup>०</sup>- पा ६,१,१५५.  
काह्य- कड्य-द्र.  
काहल- पाठो २,३,९९.  
काहायाह<sup>०</sup>- हम् अथा ३,४, १;  
द्वि २,३.  
काह्य- कड्य-द्र.  
काहायन<sup>०</sup>- नाः वीथी ३ : ११;  
४८ : ७.  
काहोदह<sup>०</sup>- डाः वीथी १७ : ६.

✓कि पाषा. जु. पर. ज्ञाने, चित्रयत्  
निघ ३,११५<sup>०</sup>.  
किदाके अथ ४८,५५.  
किदाह<sup>०</sup>- पाठ १, ४; -र वीथी १,  
५ : ४; १४; वीथी ४, ४ : ८;  
-रुगि वीथी ६, २३ : ७५;  
१५, १ : ४.  
किदाह<sup>०</sup>- -०ल वीथी १०, ४४ :  
११; -उः तैत्रा १६, २५;  
-लाप गुप्ता ५, ३७.  
किमुक<sup>०</sup>- पावम १०७; -कः अय  
५२, ५, २; -रुम् या १२, ८;  
-कानि आप्त १८, ६; द्विष्ट २,  
१६, ३, ५.  
किमुक-होम- -मः द्विष्ट २, १६,  
११.  
किमु(क>)का-गिरि- पा ६, २,  
११६.  
किमुका(क-आमा >)म- -मः  
अय २२, १, ४.  
किमुका(क-अ)सो-वामा(य-  
आमा >)म- -मः अय २१,  
७, ३.  
किमुलुक<sup>०</sup>- (>[क>]म-गिरि-  
पा.) पाग ६, ३, ११६.  
किस्- पाग ८, ३, ११०.  
किस्व<sup>०</sup>- > किस्व-नामि-विष्लो-  
-वो वीम् १०, १६.  
किस्व-व-वामाथीलोदकासिकाम-  
नाकादि<sup>०</sup>- -दिव्याम वीम् ३०,  
१६.  
किस्वा(स्व-आ)दि- -दीनि वीम्

३१, १६.  
किकि, कीप्री, दिग्वि<sup>०</sup>- पाठ ४,  
५६; -निः आप्तो २०, २२,  
१३; वीथी २६, ११ : २१; २२;  
द्विथी १४, ५, ९; -विम् वीथी  
१५ ३७ : ८; -या पावा ७,  
३, १०९.  
किकिडा<sup>०</sup> > षा/कृ > षा-कारम्  
वीथी १४, १५ : ६.  
किकिडा(कृ-य) वीथी १४,  
१५ : ६; ७; ८<sup>२</sup>; ९; चाश्र  
१३ : ४.  
किलि- पाठो २, १, १०६.  
किडुण- पाठो २, २, १२८.  
किडुणीका- पाठना ३, १०.  
किडु(क, ल)<sup>०</sup>- (> केंद्रावण-  
लावण- पा.) पाग ४, १,  
१९.  
किडुकर- किम्-द्र.  
किडुगिण<sup>०</sup>- -गिम् आप्त १८,  
१.  
किडुगिका- पाठु २, ६६.  
किडुणीका- पाठो २, २, २०.  
किडुकर- पाठो २, २, ६; पावम  
१०७.  
किडुकर(क-अ)रविन्द-संमि-  
-भेषु अय ६५, १, ६.  
✓किट पाषा. भ्वा. पर. त्रासे  
गती च.  
किटकिडा<sup>०</sup> > षा/कृ > षा-कार-  
-रः अय २, १, १०.  
किडुव<sup>०</sup>- पाठना १, १४०; पाग ५,

a) वृ ८६४ a टि. द्र. । b) पा ३, १, ३५ पाठ्यः द्र. । c) वृत्ति वृत्तिः । पाठे. वैप १ प्रकाशने  
वि २, १, ४ टि. द्र. । d) वैप १ द्र. । e) अर्थः व्यु. प? । = सोष्ण-इति भाष्यम्, ?Old. च । f) = नगर-  
विशेषः । g) = अग्नि-विशेषः । व्यु. ? । h) दशने वृत्तिः । i) = धान्य-रुद्र- । व्यु. ? < किम्-+√गृ इति अभा. ।  
j) ना. । वैप ३ द्र. । k) अर्थः व्यु. प? । l) = शङ्ख-विशेषः । व्यु. ? । m) पर-विभावः ? । n) पाठ.  
पाठः । तसैव वृत्तौ भूयासः पाठे. । o) ध्या. । व्यु. ? । p) ना. । व्यु. ? । q) वागन्तम् अर्थः ।  
r) = श्वर-किट । व्यु. ? ।

१, ४.

किण्व-कार्पास-सूत्र-चर्मा(र्मे-आ) यु-  
धे (ध-इ) एका (वा-अ) द्वार-  
-राणाम् विध ६, १६.

किण्व-हस्त-स्तेन अय १, ३०, ४.

किण्वीय-ष्ण्य- पा ५, १, ४.

✓कित् पाधा. भ्वा. पर. निवासे  
रोगापनयने च, जु. पर. ज्ञाने,  
चिकेत श्रमा ८, ४५<sup>०</sup>; चिकिदि  
कौत् ४६, ५४<sup>०</sup>.

फधिकेत शांथी १०, ५, ४; श्रम्य

२, ५, ६५; चिकित्ते या ६, १०<sup>०</sup>.

फुचिकित्तत् आपथी १३, १०,

१०; वीथी ८, १० : १७;

वैथी १६, १२ : १३; हिथी

९, ३, ३३; वीथ १, ९, ६;

फुचिकित्सन् आपथी ४, ८, ३;

माथी ४, १२, १; हिथी ६, २,

११; चिकित्सेत वीध २, १, २६;

चिकित्सेत् कार्थी २५, १३, १९.

फिकेत-त् आथी ८, १३, ९;

शांथी १०, १४, ४; वीथी ३,

३ : १८; हिथी ३, ६, २७; वैथ

५, ४ : ५; गोपि २, ६, २२; निध

३, १<sup>०</sup>; -त्तम् वीथी ११, २ : ३;

जैथ १, ३ : ८; श्रमा ७, ३८.

फिकेत-पू-पू- वीथी ११, २ : ३;

जैथ १, ३ : ८.

केता-त्ता पाथ ३, ८, १४<sup>०</sup>.

केतु-पाठ २, १, ५९<sup>०</sup>; -फुत्तवः

आपथी १६, १२, १; वीथी

८, ५ : ०; १९, १० : ५०;

वाथी ३, २, १, ६०; वैथी

१८, १० : ९; हिथी ८, ४, २७;

११, ४, १३; वैताथी ९, १६;

जैथ १, ४ : ९; कौत् १८, २५;

५८, २२; अय ३२, १, २२; ५२,

१२, ३; १३, ४; १५, २; अथ १३,

२; या १२, १५<sup>०</sup>; -फुत्तव वीथी

६, १६ : १३; आपमं २, २१,

७; आमिष्ट २, ५, १ : ३२<sup>०</sup>;

-फुत्तुः आपथी ९, १८, १५; १९,

१२, २; वीथी १९, ३ : ५; ५ :

२४; २८, ७ : १२; माथी २,

४, १, ३६, हिथी २३, २, १३;

वैताथी ३९, १६; आपमं १,

१६, ३; २, ११, २६; आय ३,

६, ८; माथ १, ३, २; वैथ ४,

१३ : ३<sup>०</sup>; हिथ १, १७, ४; जैथ

२, ९ : २१<sup>०</sup>; अय ४८, ८४;

४५१, १, ४; २, १, ५४, १,

४४; ६३, ३, ६<sup>०</sup>; ऋष २, १०,

१५६<sup>०</sup>; साय २, ८७७<sup>०</sup>; अत्र

१३, २; निध ३, ९; या ११, ६;

उत् ४, १७; धंवि १, ७, -फुत्तुता

आथी ३, १२, १८; कार्थी २६,

४, १६, आपथी ९, ७, १०; १५,

१०, १०; वीथी ९, ८ : २३,

११ : २२; १२ : ११; १४,

२४ : २१; २९, ३ : १५; माथी

९, १०, ९; ११, १०, ६; माथी

३, २, १५; ४, ३, २७; वैथी १३,

१२ : १२; २०, १३ : ३; हिथी

१२, ६, ६; १५, २, २७; ८, ४,

आमिष्ट ३, ६, १ : २०; वीपि १,

८ : १७; रिपि ७ : १०; ऋष

२, १०, ८, वृदे ६, १४७; शुभ

४, ८६; साय १, ७; या ११,

२७<sup>०</sup>; भासि १२१; -फुत्तुमिः

आथी २, १, १७; आपथी ५,

१, २; वीथी २, ६ : ३५; १२ :

१०; माथी १, ५, १, ९; हिथी

३, २, १; वैताथी ७, ५; अय

३ : ६८; अय ७०, ८, ३<sup>०</sup>;

-तुभ्यः आमिष्ट २, ५, १ : २१<sup>०</sup>;

-फुत्तुम् आपथी १, ४, १५; १४,

२९, ३; १९, ३, ५, २०, १६, ३;

२४, १३, ३; वीथी १५, २४ :

५; १७, १८ : २; माथी १, ४,

१५; माथी १, १, १, ४६; वाथी

१, ३, १, २७; ३, ४, ३, २७;

हिथी १, २, ५१; १३, ८, ३०;

१४, ३, २६; १५, ७, १६; आपमं

२, २०, ३१<sup>०</sup>; पाथ ३, ३, ५;

आमिष्ट २, ५, १ : ३१; वैथ १,

४ : ११; ४, १४ : ४; जैथ २,

९ : ६; ११; ११; अप्रान ५, ६;

शंघ ११६ : ४८<sup>०</sup>; वीध २, ५,

२३; शुभ ३, ११३; या १२,

७<sup>०</sup>; -तुताम् अय ३१, ४, ४;

५४, २, ३; ५५, १, ४; चाय २ :

१५, १५ : ३; -तोः आमिष्ट

२, ५, १ : १७; ३६, ४६; वैथ ४,

१४ : १३; जैथ २, ९ : १३;

१६, २४; २७; ३२, ३४.

केतु-पीडन-नेन अय ५१,

५, २.

फुत्तु-मत्-मत् कार्थी २०,

१६, १४; -मद्विः आपमं २,

१८, १०, आमिष्ट २, ५, ८ : ११;

वीथ २; ७, १६; माथ २, ८ :

५, हिथ २, ८, २; चाय १७ :

a) विप. 1 वस. 1 b) पा ३, ५ परामुष्टः द्र. 1 c) तु. BFG. d) पागे. वैप १, ६ १४ x द्र. 1

e) पागे. वैप १, १११० i द्र. 1 f) खरो. भावे अः प्र. 1 g) = प्रकाश, अर्बिन्, धामा, मद्-विरोध,

अपि-विशेष-1 वैप १ द्र. 1 h) <✓कि <✓चि इति 1 i) पाठः ? केनवे इति संभाव्येत (तु. अत्रैव शुक्राय प्रम्) 1

j) पागे. वैप १, ११११ c द्र. 1

१०:-सन्तव्य शेष ११६: १९;  
-मात् षोड ३, १२, २१.

केतु-संचार-रम् अण ५४, १, १.  
केतु (तु-उ) दय-ये वाघ  
२७६: १.

चिकित् > चिकित्-य-यम्  
आधी ४, १२, २०.

चिकित्काल-०न आधी ७, ११,  
२२; श्रम २, ५, ६६; -न:  
आधी १४, २९, ३; वीथी ९,  
७: १५; द्विथी १५, ७, १६;  
श्रमाय ५, ६.

चिकित्ति-०-ति: नाशि २, ३, १०५.

चिकित्किय-०-नुपे शोधी २, २८,  
३९; वीथी; -०-रः या ६, ८५<sup>०</sup>;  
श्रमा ७, ५४; -वान् आधी २,  
१७, १०; काशी; द्विथी २, १,  
५०<sup>०</sup>; या २, ११; ८, ५.

चिकित्कर-०-कः वाघ ३, ३;  
-कस्य आघ १, १९, १४;  
वाघ १४, १९; शेष ४३४; द्विथ  
१, ५, ११६; -कान् विथ  
८२, ९.

चिकित्कर-गुणसु-सुआली-दण्ड-  
क-रतेना(त-क)भित्तर-पण्ड-  
पण्डित-०-लानाम् वाघ १४, २.

चिकित्सा-०-स्ता शेष ४; श्रमा ३,  
१२९; -स्तायाम् आघ ४, ८.

चिकित्सित-०-वाग ४, १, १०५<sup>०</sup>; २,  
११९<sup>०</sup>; -वम् द्विथी १४, १, २५<sup>०</sup>.

चिकित्सित्य-०-पा ४, १, १०५.

चिकित्सित-०-पा ४, २, १११.

चिकित्स्य-०-स्य: पा, पाता ५, २,  
१२.

चिकित्-०-त्त खाधी ८, ५, २२५.

चिकित्काल-०-न: द्विथी २१, २,  
३५; -नम् वीथी १०, ३६: ९;  
माधी ६, १, ८, १०; वैथी १८,  
२१: २७; द्विथी ११, ८, १४;  
आघ १, ११, १; काघ ३०, ३;  
६०, ५; माघ १, १४, १६; वाघ  
१६, १; चाघ ४०: २१<sup>०</sup>.

कित् > कैवायन-०-पाग ४,  
१, ११०.

कित्क-०-कैतकायनि-०-रकित्वा-  
दि. द्र.

रकित्क-०-पाठभो २, ३, १३४; पाग  
२, १, ४०; ५६; ४, २, ९०; ५,  
१, १२०; -व: शेष २०१; या  
५, २२; -वम् वृं ७, ३७;  
-वस्य शेष ४३४; अण ४८,  
१२९<sup>०</sup>; काशी; -वा: आघ २, ७,  
११; -वात् या ३, १६; -वान्  
माधी १, ५, ५, ८; १३; श्रमा ३,  
४, १<sup>०</sup>; -वाव: आघि २, ५,  
१०: २१<sup>०</sup>.

कित्की-०-वी आघ १, ५, ५.  
कैतव-०-पा ५, १, १२०.

कित्क-वध-काम-०-म: अघ ७,  
५०.

कित्क-वध-हार-०-रे पावा २, १, १०.

कित्कीय-०-पा ४, २, ९०.

रकित्क-०-पाग ४, १, ११०; १५७<sup>०</sup>.

कैतवायन-०-पा ४, १, ११०; -ना:  
वीथीय ७: ३.

कैतवायनि-०-पा ४, १, १५४; -नव:  
वीथीय ३२: २.

कित्कवादाय-०-वस्य निम् ७, १०:

१२.  
किदुर्मा-० (> कैदुर्मा-०-पा.) कन्दर्प-  
दि. द्र.

किदुर्मा-०-अण ६५, २, २.

किदुर्मा-० (> कैदुर्मा-०-पा.) कन्दर्प-  
दि. द्र.

किदास-० (> कैदास-०, > कैदासा-  
यन्-०-पा. यक.) पाग ४, १,  
१०४; १००.

किदुर्मा-० (> कैदुर्मा-०-पा.) पाग ४, २,  
१३.

किम् > ३क, का-क: आधी १,  
२, १५; ४, १२, ३५<sup>०</sup>; काशी; या  
११, ४५<sup>०</sup>; १४, २५; २६; पा  
७, २, १०३; क (>) व ८ क:  
पाग ८, २, ४८; वम् आधी  
१, २, १३; ५, ६, ६; शोधी;  
आघ ३, १४, ३५<sup>०</sup>; पा ६,  
३५०<sup>०</sup>; पा काशी आधी २, १७,  
१५; शोधी; कम्मात् काशी २५,  
५, २५; निम् ८, १३: २७; सु २०,  
३; या १, ४; वीथि २४; कविम्  
आधी २, १, ११; १४; माधी;  
पावसे आधी ५, १२, १५;  
शोधी; कस्य पांशो १४, १६, ९;  
१५, २२, १; वाधुधी; पाठ्या:  
आधी ४, १३, १; वीथी १, १३:  
२५; माधी २, ३, १, २; वैथी  
१५, ३: १०; कस्य वीथी १४,  
९, १; पा काशी ४, ६, ३;  
काशी; -का: आधी २, १३, ३;  
वीथी; या ७, १३; कान् माघ  
२, १: १६; कौत् १३५, ५<sup>०</sup>; वाघ  
१२, ४७; कौ (>) व ८ का

a) वैप १ द्र.। b) पाभे वैप १, १११० b द्र.। c) पाभे. वैप १, १११२ d द्र.। d) कित्. इति डु.।  
e) एवम् इति पाठः! यनि. शोधः। f) व्यप.। पा. अर्थः?। g) पानानः इति पाठः? यनि. शोधः (वृ. तं ५,  
७, २, १)। h) व्यप.। व्यु. १। i) कित्क- इति [पदे] माएडा.। j) अर्थः व्यु. च?। k) कै इति पाठः।  
l) = देव-विशेष-। व्यु. १। m) पाभे. वैप १, १११३ इ द्र.। n) पाभे. वैप १, १११३ द्र.। o) = अघ-।

१२, ७; काथी १०, ३, ४; आपथी;  
 S पा ३, ३, ५; ५, ३, १५; S पा ३  
 २, १, ६९, ५, ३, ७२.  
 कयागुमीय<sup>१</sup>- नम शांती ११, २,  
 ४; ११, ६; १३, ५, १५; १५, २,  
 ९; ७, १; आपथी; चाथ ४१ :  
 ६१; -यस्य आथी ७, ७, ६;  
 माथी ५, १, ६, ४४; -यात् शांती  
 १०, ११, १२; -ये लुप् १, ८ :  
 १९.  
 कयागुमीय-तदिदासीय- ये  
 आथी ९, ८, २२; १०, ५, २२;  
 शांती १४, २९, ९; ८४, ५; १६,  
 २१, ३१; २३, १८.  
 कर्हि कौय १, ६, ७; शां १, ६, ८;  
 वाथ; पा ३, ३, ५; ५, ३, २१.  
 कव-> कव-पय- पा ६, ३, १०८.  
 कवो(व-उ)ण- पा ६, ३, १०७;  
 -श्री शांती ४, १४, १५.  
 का-> रका(का छ)क्ष- पा ६, ३,  
 १०४.  
 कादितीक<sup>१</sup>- पाग २, १, ७२.  
 का-पय- पा ६, ३, १०४; १०८.  
 का-पुरुष- पा ६, ३, १०६;  
 (> ०ह्य- पा) पाग ५, १,  
 १२४.  
 कारावद्योत्रि(य>) पा<sup>१</sup>- वा  
 नाथी ९, २०, १२.  
 का-विराण<sup>१</sup>- राट् श्रथ १, ६,  
 ५; श्रथ ५, ३६; श्रथ १६, ४०.  
 काविराण-नष्टरूपी- यथी  
 श्रथ २, १, १२०.  
 का-सुवि<sup>१</sup>- स्या गोप ३, ५, ३५.  
 को(का-उ)ण- पा ६, ३, १०७;

-श्री कौय ५, ३, ३६.  
 किम्- किम् आथी ३, १४, १३;  
 शांती; पाठ ४, १५८<sup>१</sup>; पा २, १,  
 ६४; ८, १, ४४; पाग १, १, २७.  
 कि-वदन्त<sup>१</sup>- न्तः पाठ १, १६,  
 २३; आथि २, १, ३ : १४;  
 काय ३५, १; हिण २, ३, ७; जैय  
 १, ८ : १६.  
 कि-वद(न्ति)>न्ती- पाठ ३,  
 ५०; पागम १०७.  
 कि-वर्ण-वैवत-किङ्ग- काः  
 गाथि २, १.  
 कि-वृत्त- चम् पा ८, १, ४८;  
 -चस्य पावा ३, ३, १४५; -ते  
 पा ३, ३, ६; १४४.  
 कि-स्तोम<sup>१</sup>- म्नाणि निष् ८,  
 १३ : ११.  
 कि-स्थान<sup>१</sup>- नम् नाथि १, ८,  
 ६.  
 कि-क्वित<sup>१</sup> पाग १, ४, ५७.  
 कि-कर- पा ३, २, २१; -रः  
 अप ३५, २, ३; -रैः विध ४३,  
 ३७.  
 कि-करा(र-अ)वतान<sup>१</sup>- नाः  
 वीथी १८, २४ : १५.  
 कि-कर्म<sup>१</sup>- म्नी वीथी २६,  
 १४ : ६.  
 कि-किरा<sup>१</sup>- पागम १०७.  
 कि-किल- पा ३, ३, १४६; पाग  
 १, ४, ५७<sup>१</sup>.  
 कि-कृत- वाः या ६, ३२.  
 कि-गत- ते वीथी २४, १२ : ६.  
 कि-नोय<sup>१</sup>- म्ना कौय ५५, १०;  
 वैथ ४, ८, ७.

कि-चन पाग १, ४, ५७<sup>१</sup>.  
 कि-चित्- वैथी १८, ११ : १४.  
 कि-चित्-त्व- न्वाय कौलिप.  
 कि-चित्-पुष्प-फ(ल>)  
 ला- न्वा या १, २०.  
 कि-तम-> माम् पा ५, ७, ११.  
 कि-तर-> तराम् पाग १, ४,  
 ५७.  
 कि-दक्षिण<sup>१</sup>- नम् कौथी २४,  
 २९ : १; वाधुथी ३, ३४-३५ :  
 १; -गाः वीथी २६, २० : १.  
 कि-दक्ष-पूर्णमास<sup>१</sup>- साः वीथी  
 २५, १६ : ४.  
 कि-देव(ता)>न<sup>१</sup>- ताः या  
 ८, २१.  
 कि-देवता-> ०व्य, त्या- न्वः  
 वीथी २४, ३७ : ८; -त्यम्  
 वीथी २४, ३६ : ३; -स्या वीथी  
 २४, ३७ : ७; २५, ८ : १३;  
 २६, ११ : २०; १४ : १५; ३० :  
 १९; -त्याः वीथी २४, ३ : १२;  
 २५, १० : १५; २१ : ८; २६,  
 ९ : १४; ११ : २५; -स्यानि  
 वीथी २५, १ : ११; २६, ७ : ८;  
 ३१ : १८; -स्ये वीथी २४, २५ :  
 ७; -स्येन वाधुथी ३, ४३ : १.  
 किम्-अग्निहोत्र<sup>१</sup>- म्नाः वीथी  
 २५, १६ : १.  
 किम्-अनु(त्या)> ०व्य<sup>१</sup>-  
 -स्यानि वीथी २४, १० : १३.  
 किम्-अभिपारिण- तम् वीथी  
 २४, २७ : ४.  
 किम्-अर्थ- -र्थः वीथी २६,  
 २७ : १३; निष् २, ४ : ३४ x x.

a) वैप १ द्र.। b) ष्यः इति पाठः ? यत्किं शोचः (तु. सध. मै २, १, ८)। c) कां दितम् > यत्किं इति। d) < क्वा राधलप्रोत्रा (श्र १, १२०, १)। e) = छन्दो-विशेष-। f) = का-पय-। g) कवो इति मूको। h) < √के। i) = बालप्रह-विशेष-। उ. सध. √वद् + इच् प्र. उरसं (पाठ ३, १२६)। j) विप.। बस.। k) तु. पागम.। l) पस.। श्यापतन- इति मूको. (तु. शब्दस्वी)।

पावा ३, १, ११२; -यैम् वीथी  
१८, ४६: ८; १३; निम् ४, ३:  
८; ७, ६: २०; या ८, २२; पावा  
१, १, १; ७×४; -या: निम् ३,  
१३: १४; -यौ वीथी २६, १०: ९.  
किम्-आवा<sup>२</sup> -र: या १, १३;  
१४.  
किम्-उत पाग १, ४, ५७.  
किम्-उप(सा) > ञ -ल:  
वीथी २४, २: ४, छम् ३, १३: ५.  
किम्-ओपसद<sup>२</sup> -द: वीथी २५,  
१६: १.  
किं-वित्र<sup>२</sup> -त्र: वाधूथी ३,  
२५: ७.  
किं-गु, प<sup>२</sup>रुय- पागम १०७;  
-ष: शाथी १६, ३, १४; १२,  
१३; वाधूथी ४, १९: १३;  
-यम् शुप्रा ५, २१, -यात् शंघ  
११६: ४९, -ये वीथी २, ५:  
१६१.  
किं-यूत-ते वीथी २४, २५: ७१.  
किं-प्रगृदि- तय: निम् ९,  
८: १.  
किं-प्रसुत<sup>२</sup> -त: वीथी २५,  
१६: १.  
किं-प्रोधि(त) > ना- तत: वीथी  
२४, २५: १११.  
किं-यल<sup>२</sup> -ल: छ २८, २.  
किं-भाग<sup>२</sup> -ग: निम् ३, ५: ९.  
कियद्<sup>२</sup> -यत् आपथी २०, ५,  
१५; वीथी २४, १८: १×४; पा  
५, २, ४०; पाग ५, ४, १०७;  
-यत. या ६, ३; -यति वीथी  
२३, ५: १, -यतत: वीथी २६,  
१६: १४; अप-५२, १, १;

-यन्तम् अत्राय ३, ६; थाज्यो  
७, ८; -यन्ति वीथी २४, ५:  
१११.  
कियती- रय: वीथी २४,  
४: १३; २.  
कियद्-था- -वा: या ६, २०.  
कियद्-रात्र<sup>२</sup> -त्रेण द्विथी ९, ६,  
३३,  
पृक्सि<sup>२</sup>(ः) निघ ४, ३; या ६, ३५.  
की-रुह- पावा ३, २, ६०; ६, ३, ९०.  
की-रुद्<sup>२</sup> - पा ३, २, ६०; ६, ३, ९०;  
-रुक् आपथी ९, ५, ८; ६, १; ३;  
५; ६; वीथी; -रुदाम् अप ४१,  
५, २; चव्यू ४: १२.  
की-रुश- पा ३, २, ६०; ६, ३, ९०;  
-शा: अप ५२, १, १.  
कीरती- -नीम् आग्रिष्ट ३, ७,  
३: ६.  
की-वन्<sup>२</sup> -वन: या ६, ३११.  
कु<sup>२</sup> - पा ६, २, १३१; पाग १, १,  
३७; कु<sup>२</sup> साम १, २०५१, षो:  
पा ६, ३, १०१.  
कु-गति-यादि- दय: पा २, २,  
१८.  
कु-चेल, ला<sup>२</sup> -लाम् शंघ ३३४.  
कु-चेल-दशन- नम् अप १,  
३२, ११.  
कु-तस (ः) आपथी १, ३, ५;  
वीथी; पा ७, २, १०४.  
कुतस ऽकुतस > कौगस्कु-  
तस (ः) पाग ८, ३, ४८.  
कौतस्कुमा(त-आ)दि-  
-दीनाम् रुत ३, ७, ८.  
कु-नीर्थ<sup>२</sup> -यात् पाणि २५;  
माशि १५, ६; नाशि २, ८, १०.

कुय, > शा माथी ५, २, १, १७;  
कय १, २, १०; रुया ७, ३३१;  
शैशि १४२; तैत्रा ३, १०; पा  
७, २, १०४; पाग १, ४, ५७.  
कु-दामन्<sup>२</sup> (> कौदामिक) >  
का-, षकी- पा. पाग ४, २,  
११६.  
कु-नव<sup>२</sup> > खिन्- -खिना  
अत्रा ३, ४, ११; -खी वीथी  
१५, ३७: २; अप ४८, ११६१;  
वाघ १, १८; २०, ६; ४४, शंघ  
३७६; विघ ४५, ५; काघ २७८:  
७; चव्यू ४: २.  
कु-नामन् (> कौनामि [क] >  
का-, षकी-) कुदामन्- टि. द.  
कौनामि- पा ४, १, ९६;  
-मि: वीथी ४४: ३.  
कु-नय- पा ६, ३, १०८.  
कु-पाल- नम् या ३, १९.  
कु-नुय- (> कौनुयक- पा. )  
पाग ५, १, १३३.  
कु-नुय- पा ६, ३, १०६.  
कु-ग्रह- , षहन्- पा ५, ४,  
१०५.  
कु-यव<sup>२</sup> -यम् शुप्रा ५, ३०१.  
कु-हल- पा ८, ३, ९६.  
कु-सुवि- रया आपथ १, ३१,  
२१; द्विघ १, ८, ४०.  
कु-खी- (> कौख- पा.) पाग  
५, १, १३०.  
कु-स्वप्न- भम् अप ६९, ५, ५.  
कु-स्व<sup>२</sup> आथी ७, ११, २८;  
शाथी १०, ५, ३०; ऋत्र २, १०,  
२२; वृद ७, २२; या ३, १५;  
पा ५, ३, १३; ७, २, १०४.

a) वि. १ बस. १ b) शुप्रा. पाठः । c) वैप १ द. १ d) इवदर्थं कुत्सार्थे प्रयेन स वृत्तिः ।  
e) वैप १, १११९ h. d. १ f) प्रास. उप. = गुफ. १ g) कु-नामन्- इति [पक्षे] पागम., कुल-नामन्- इति  
शामनः इति पागम. । h) = अथवेदेदीयराखा-विशेषः । i) पामे. वैप १, १११९ m. d. १



कुहधुवीय<sup>०</sup> - यस्य आधौ  
 ७, ११, २९; -यानाम् आधौ ७,  
 ११, ३२.  
 कृष्ण आधौ २, १६, १५; आधौ  
 १०, १०, ५; १२, १३, ५; वीथी;  
 पा ७, २, १०५; पाशा ४, १, ८३;  
 ६, १, २; ७, १, २.  
 क्वा(कु-आ) ह्-स्व(ग-अ)ति-  
 दुर-नाति-वचन-नात् पावा २,  
 १, २८.  
 किमीदिन्<sup>०</sup> - दिने निघ ४, ३; या  
 ६, ११४; -दी क्वा ४८, ११६;  
 अया ३, ४, १.  
 कि-पुठय-प्रथ. किम्-द्र.  
 किम्बक<sup>०</sup> - कः वैश्रीया १७९.  
 कि-भाग- किम्-द्र.  
 किमीर- पाठभो २, ३, ५०.  
 किथत्-प्रथ. किम्-द्र.  
 किपात्या<sup>०</sup> क्वा २, ५१४.  
 किवायु<sup>०</sup> - म्बु कौप ५, ५, ५४.  
 किथे-भ्य<sup>०</sup> - घाः अथ ४८, ११५;  
 निघ ४, ३; या ६, २०४.  
 किरण<sup>०</sup> - पाठ २, ८१, - फणाः क्वा  
 ४८, ११३; निघ १, ५; -जी  
 आधौ ८, ३, १८; आधौ १२,  
 २२, १; २; वैशाधौ ३२, २१.  
 रकिरण<sup>०</sup> - (> किरणक<sup>०</sup> - पा.)  
 पाग ४, २, ८०.  
 किराट- पाठभो २, २, ९९.  
 किरात- पाठभो २, २, १३७.  
 किराता(त-या) कुकि- - ली वृदे

७, ८६.  
 किरि- पाठ ४, १४३.  
 किरिक<sup>०</sup> - क्वायः गुप्रा २, २६५४<sup>०</sup>.  
 किरिट<sup>०</sup> - पाठ ४, १८५; पाग २, ४,  
 ३१.  
 किरिटिन्- टियम् निघ ७७, १०.  
 किरिर- (> क्-स्व- )कीर- टि. द्र.  
 किरेचेत्<sup>०</sup> वापुथी ४, ७४ : २८.  
 किमीर- पाठभ ४, ३०.  
 किम्ब<sup>०</sup> पापा. तुदा. पर. शैलकी-  
 इनयोः.  
 किल आधौ ५, २०, ६४; आधौ; या  
 १, ५; १८४; पाग १, ४, ५७.  
 किलाट- पाठभो २, २, १९.  
 किलात<sup>०</sup> - (> कैलात- पा.) पाग  
 ४, १, १०४.  
 किलालप<sup>०</sup> - (> कैलालप- , > कैला-  
 लपायन- पा. यक.) पाग ४, १,  
 १०४; १००.  
 किलास<sup>०</sup> - पाठभो २, ३, १७७;  
 -सः वीथी २, ५ : १७४; -सम्  
 कौस् १३, १२.  
 किलासा(स-आ)वाथ<sup>०</sup> - वम् काधौ  
 १५, ३, २५.  
 किलाविद्- -सी आग्रिण ३, १०.  
 १ : ५, वीथि ३, ५, २.  
 किलिवा(स्वा)प<sup>०</sup> - पाठ १, ५०;  
 -पम् वीथी २, ५ : २३४, फ्रञ्च  
 ३७, ९, ३, १९, २; बाध ३, १५;  
 १४, ३१; १९, ४४; शेष ३१७,  
 वीथ २, १, १६; या १३, २४४;

-पात् आग्रिण २, ६, २ : २६;  
 ३, १२, २ : १२; १३; बाध  
 ३०, ६; वीथ २, १, १६; ५, १४;  
 पाथि २५; नाथि १५, ६; नाथि  
 २, ८, १०.  
 किलिगिन्- -गी क्वा २, ३, १०;  
 शेष ३२५; गुपय ८५ : ७.  
 किलिम्ब<sup>०</sup> - दम् वा ११, २४.  
 किरार, रा<sup>०</sup> - पाग ४, २, ८६; ४,  
 ५३३.  
 किरारा-वम्- पा ४, २, ८६.  
 किरारिक- पा ४, ४, ५३.  
 किरारु- किरार- द्र.  
 किरालय<sup>०</sup> -> किशलयो(व-उ)प-  
 (मा>)म- मी निघ १, २५.  
 किशोर<sup>०</sup> - पाठ १, ६५; -रम् अथ  
 ७१, ७, ३; -रेण मीपु ७, ४, ७.  
 किशोर(र-क)>रिका<sup>०</sup> - (> कैशो-  
 रिकेय-पा.) पाग ४, १, १२३.  
 रकिशोर<sup>०</sup> -> कैशोरि- (> कैशोर्य-  
 पा.) पाग ४, १, १५१.  
 किक्क<sup>०</sup> पापा. जुदा. आत्म. हिंसा-  
 याम्.  
 किक्किन्ध<sup>०</sup> - पाग ६, १, १५३.  
 किक्किन्ध<sup>०</sup> - पाग ४, ३, ९३; ६, १,  
 १५३.  
 कैभिन्ध<sup>०</sup> - पा ४, ३, ९३.  
 किक्कु, - प्कुट<sup>०</sup> - पाग ६, १, १५३.  
 किम्(ः) किम्-द्र.  
 किस्तर<sup>०</sup> - पाठभो २, ३, ७२; पाग ४,  
 ४, ५३३.

a) <कुह ध्रुतः [पा १०, २२, १] इति । b) वी १ द्र. । c) अर्थः व्यु. व ३ । d) = देस-विशेष-ः ।

e) पागे. वी २, ११३१ d द्र. । f) = मुड-लव्यु. । g) पाठः किरेचेत् इति संसर्वाः । h) = √पिल्  
 द्र. । i) व्या. । व्यु. । j) पग. पूर. किलासा- [स्त्री.] इति त्रिधापरप्रचलनः । k) = गुगन्धि-द्रव्य- ।  
 व्यु. । l) किमह- इत्यन्व इति पागम. । m) तु. पाका. । किन्- इति भाण्डा. प्रथ. । n) = पल्लव- ।  
 व्यु. । o) = शावक- । व्यु. । p) व्या. । q) √किष् इति मण्डा., √किक्, √किष् इति [पक्षे]  
 DPO. । r) तु. पागम. । पर्वत- । s) = नगर-विशेष- । t) = तुदा-स्यपि । u) = प्रवाण-

विशे १ व्यु. । v) = चायुष- । w) = किरार ।

किसलय<sup>०</sup>- पाठभो २,३,७; पाग २, १,५७; ५,२,३६.  
 किसलय-क्याकु-लक्ष्मण-निर्यास-  
 -सा: गीघ १७,३०.  
 किसलयित- पा ५,२,३६.  
 शिकिहा: बाधो ३,४,३,१७.  
 कीकट<sup>०</sup>- पाठभो २, २, १८; -सा:  
 अप १, ८, १०; या ६, ३२<sup>१</sup>६;  
 -पूटेवु निघ ४, ३; या ६, ३२.  
 शकीकस, सा<sup>०</sup>- पाठव ३, ११७;  
 -सा: आधो १२, ९, ११; १२;  
 कौम् ३२, १११; -साम्य:  
 आपर्म १, १७, २१; -सामु  
 आम्रिय ३,४,१ : ३४; वीपि ३,  
 ३,१०; वैष्ट ५,४ : ११.  
 रकीकस<sup>०</sup>->कैकस<sup>०</sup>- (> 'सी-  
 पा.) पाग ४,१,७३.  
 कीकक- पाठ ५,३६.  
 ✓कीद पाथा. सुरा. पर. वणें.  
 कीट<sup>०</sup>- पाठभो २, २, १५<sup>०</sup>, -ट:  
 आपधो ९, २, ५; वीधो २६,  
 ७ : २३; २७, ९ : २; माधो,  
 -टा: अप ५७,४,४, -टेन कौम्  
 ३१,११; -टै: नाधि २,८,२१.  
 कीटा (ट-अ)वपस-अम् बाधोसं  
 ३१ : ६, ३२ : १२; माधो ३,  
 २,७<sup>०</sup>, वैधो २०, ५ : ४; हिधो  
 १५,१,४३; अप्राय २,६; ४,१;  
 ३; -अस्य वीधो १४,९ : १६;  
 २६,७ : २२.  
 कीटा(ट-अ)शन- ने विघ ५१,  
 ३२.

कीटो(ट-उ)पचातिन्- ती विघ ५,  
 ५४.  
 कीदुर्म<sup>०</sup>- पाग ४,१,१०४.  
 की-दृश- ,श- ,श- किम्- द.  
 कीनाश<sup>०</sup>- पाठ ५, ५६; -दास्य  
 आपध २,२८,२; हिघ २,६,२;  
 -पूशा: आपधो ६, ३०, २०;  
 १६,१९,३; वीधो ३,१२ : २८;  
 माधो ६, १८, ७; माधो १,६,  
 ४,२४; बाधो १,५,५, ८; वैधो  
 १८,१६ : १२; हिधो ६, ८,१;  
 ११,६,३३; पाय ३, १,६; वैष्ट  
 १, २४ : ८; कौम् २०, ४; वृदे  
 ५,९.  
 कीम् पाग १,४,५७.  
 कीर- पाठभो २,३,५०.  
 कीरि<sup>०</sup>- -पूये आपधो २२, ७, ११;  
 -पूरि: अप ४८,१७; निघ ३,  
 १६; -रिभि: वृदे ३,१६.  
 कीरिन्<sup>०</sup>- पूरिणा आपधो २, १०, ९;  
 वीधो १३,७ : ३; हिधो २२,  
 २,१७, आपर्म २, ११, ५; वीष्ट  
 १,६,१०; ४, १२, ३; माय १,  
 २२ : ५.  
 कीर्ण- ✓कृ (विधुणे) द.  
 कीर्तन- ,तैयन्- प्रघ. ✓कृ[स्तुतो]  
 द.  
 ✓कील् पाथा. भ्वा. पर. कन्धने.  
 कोल->ल-क- अम् अप ३६,  
 १, ६; -का: अप ५२, ७, ५;  
 -कानाम् अप २१, ३, ४; -कै  
 काधोसं ३५ : १३.  
 कोलक-स्नान- नान् अप

३६,१६,२.  
 कीलका (क-थ)खा(ख-आ)  
 दि- -दि अप ३६,३०,३.  
 कील-वत्- -यत्रि अप ७२,  
 १,४.  
 कीलाल<sup>०</sup>- पाठभो २, ३, १०५<sup>०</sup>;  
 -पूल: आपधो ६,२७,३<sup>१</sup>; हिधो  
 ६,७,८<sup>१</sup>; कौष्ट ३, २, ६<sup>१</sup>; ४,५;  
 नाय ३,३,१<sup>१</sup>; ७,२; काय २७,  
 ३<sup>१</sup>; माय १, २७ : ८<sup>१</sup>; हिष्ट  
 १,२९,१<sup>१</sup>; -पूल्म वाधो ४,५,  
 ३; आपधो १, १०, ४; हिधो  
 २,७,३७,४९; व्यामिय २,६,३ :  
 ५७; ३,११,२ : १२; वीष्ट; निघ  
 २,७.  
 कीलाल-पा<sup>०</sup>- ने आपधो १९, ३-  
 - २<sup>१</sup>.  
 पूकीलाल-पेशा<sup>०</sup>- -शस: आपधो  
 १६, १८, ६; वैधो १८, १५ =  
 १७; हिधो ११,१६,२८.  
 कीलाल-मिघ- -अम् कौम् १२,  
 १६.  
 कीलाली( ल-घो)पधि<sup>०</sup>-धीनाम्  
 आपध १,१७,२५.  
 कीलालि<sup>०</sup>- -लय: वीधोप्र १० : ४.  
 कीलिन्<sup>०</sup>- नम् कप्र ३,१०,१५.  
 की-वत्- किम्- द.  
 पूकीस्त<sup>०</sup>- -स्तास: अप ४८, ८५;  
 निघ ३,१५.  
 ✓कु<sup>०</sup> पाथा. भ्वा. तुदा. आत्म., अदा.  
 पर. शब्दे, कवते<sup>०</sup> निघ २,१४.  
 कोकृयमा(प>)ना- ना याप,२६-  
 १कु- किम्- द.

a) = प्रवाल- । b) वैप १ द. । c) ध्यर. । व्यु. ! । d) कैकसेय- इति पाका. । e) < ✓कि ।  
 f) वृ. पागम. । g) वैप १,१२२२ m द. । h) < ✓कल । i) पागे. वैप १,१२२३ d द. । j) पागे.  
 वृ ८१८ n द. । k) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ! । l) = किलिन- (द्र. अ-किलिन- इत्यत्र उप.) । नाप. = श्लि-  
 स्यान- । व्यु. ! । m) = ✓कृ [तुदा.] । ✓कृ इति BPG. । या ५, २६; १२, १३ पा ७, ५, ६३ परामृष्ट: द. ।  
 n) गतो वृति: ।

२कु<sup>१</sup> - कुः पाणि १७.  
 कु-व्य-विज्ञाना(न-अ)थै-थैम्  
 पावा ७,३,५६.  
 का(कु-आ)दि-त्रेः पा ७,३,५९.  
 ३कु<sup>२</sup> - पाठभो २,१,१९.  
 कु-ज<sup>०</sup> - पाग २,४,३११.  
 कौज<sup>०</sup> - जे विप ७८, ३.  
 कु-अ- पावाग ३,२,५.  
 १कु-ह- पा ८,३,९७.  
 कुं<sup>१</sup> - श्रुग ८,२४; यासि २,९४.  
 ✓कुंश्च पाषा. सुरा. उग. भाषायाम्.  
 ✓कुम् पाषा. भा. आस. आराने.  
 कुक<sup>१</sup> - आः वीथीप्र १७ : १६.  
 कुकुन्दुर- पाठभो २,३,५२.  
 १कुकुन्ध<sup>०</sup> - न्याः<sup>१</sup> अथ ८,६; अथा  
 ३,४,१.  
 कुकुम्<sup>१</sup> - > च्-देश -नाम् वाधौ  
 १,६,४,१९.  
 कुकुम- पाठभो २,२,१३६.  
 कुकुर- पाठ १,४१.  
 कुकुस<sup>१</sup> - सम अथ ३६,४,२.  
 कुकुरम्<sup>०</sup> - भाः अथा ३,४,१११.  
 कुकूल- पाठभो २,३,११२.  
 कुक्कुट<sup>०</sup> - पाठभो २, ३, १०६;  
 पाग २, ४, ३१; ६, २, १२५;  
 ३, ११६; -टः काधौ २, ४,  
 १५१<sup>म</sup>; दिधौ १, ५, ५४<sup>म</sup>,  
 आपथ १, १७, ३२; वीथ १, ८,  
 १२; ९, १४; हिष १, ५, ६३;  
 श्रुय १, ५७<sup>म</sup>; यासि २,  
 ६२<sup>३</sup>; -टाः अथ २०, ६, ३.

कुक्कुटी->कौक्कुटिक-  
 पा ४, ४, ४६.  
 कुक्कुटा, टव(ट,टी,तावाग)-  
 अ)ण्ड- पावा ६,३,४१.  
 कुक्कुट-कन्य- पा ६,२,१२५.  
 कुक्कुट-सूकर- रस वीथ १, ५,  
 १२९; -राणाम् आपथ १, २१,  
 १५; हिष १, ६, ४५.  
 कुक्कुटा(ट-असि)>स->कौक्कु-  
 टाक्षिक-पा. पाग ४, १, १४६.  
 कुक्कुटा(ट-अ)ण्ड- पावा ६, ३,  
 ४१.  
 कुक्कुटाण्ड-प्रमाण- -गम्  
 आसि ३, ११, १ : ४.  
 कुक्कु(ट>)या-गिरि- पा ६, ३,  
 ११७.  
 कुक्कुर<sup>०</sup> - पाठ २, ४१.  
 कुक्क<sup>१</sup> - > कौकाशय- नाम वीथीप्र  
 १७ : १७.  
 कुक्का(क-आ)मिनेदधी (रव-ग्री)-  
 र्जायन- नानाम् आपथी २४,  
 ७, ११<sup>प</sup>.  
 कुक्ष- पाठ ३, ६८.  
 कुक्षि<sup>०</sup> - पाठ ३, १५५; पाग ४,  
 २, १२७<sup>प</sup>; -क्षिः वेताधौ  
 १७, ९; कौच २४, १९<sup>प</sup>;  
 अथाय २, ५<sup>प</sup>; अथ १८<sup>१</sup>, १, ७;  
 १<sup>म</sup>अथ ७, १११; ९, ७; -सिम्  
 आसि ३, ५, १ : १९; वीथि १,  
 २ : ५; वाग १६, ६; -क्षी  
 आथी ६, ३, १; अथ ४१, ६, ५;

-श्री वीथी २, ६ : ११; आसि १  
 ३, ५, ७ : ९; वेग ३, १४ : ३;  
 ६, ३ : २; ७, ४ : ६; -दयोः  
 वीथि १, ६ : ४.  
 कौक्षक- पा ४, २, १२७.  
 कौक्षेय- पा ४, ३, ५६.  
 कौक्षेया(य-अ)सि- -सिम्  
 नासि २, ८, १.  
 कौक्षेयक- पा ४, २, १६.  
 कुक्षि-भरि- पावा ३, २, ३६.  
 कुक्षि<sup>०</sup> - आः अथा ३, ४, ११<sup>प</sup>.  
 कुगतिप्रादि- सिम्-द्र.  
 कुङ्कण- पाठभो २, २, १२६.  
 कुङ्कुम<sup>०</sup> - पाठभो २, २, २५४; पाग  
 २, ४, ३१; -मम् विष ६६, ९.  
 कौङ्कुम<sup>०</sup> - भाः अथ ५२, ३, २.  
 कुङ्ग- पाठभो २, २, ६६.  
 ✓कुच् पाषा. भा. पर. कञ्चे तदि,  
 सेवर्धन-सोडिलव-प्रतिष्ठम्म-विलेख-  
 नेपु, तुदा. पर. संकोचने.  
 कुचि- पाठ ४, १८६.  
 १कुचर<sup>०</sup> - रः आधौ २, १०, १४;  
 आपथी ११, ९, १; दिधौ ७, ५,  
 ३५; अथ १, ३६, ४; या १,  
 २०<sup>क</sup>; श्रुया ५, ३७; अथा ३,  
 ४, १.  
 कुच्यार- (> कौच्यार- १कौच-  
 पार्थ- पा.)पाग ४, १, १०४<sup>म</sup>;  
 ३, ७६<sup>प</sup>.  
 कुच्युक<sup>०</sup> - (> कौचुक- पा.) पाग ५,  
 १, १३०.

. a) = कर्त्तव्ये । b) = पृथिवी- । c) = भौम- । उच । d) तु. पासि, कुज- इति भाषायाः । e) स्वार्थे अण्  
 प्र. । f) = लक्ष्मि-विशेष- । यम- । g) = कर्त्तव्य-विशेष- । न्यु. ? । h) वैप १ द्र. । i) पामे. वैप १, १०८१ । द्र. ।  
 j) = शरीराङ्ग-विशेष- । न्यु. ? । k) अर्थः न्यु. च ? । l) कुक् (चन्द- ) + (✓अट् >) अट् इति पागम. ।  
 m) पामे. वैप १, ११२३ । प. द्र. । n) तु. पागम. । o) = रसर- । न्यु. ? । p) 'रको' इति पाठः ?  
 यनि. वीथः (तु. सग. दिधौ २१, २, १० तुध्यासिवेश्यो इति पामे. ) । q) = देश-विशेष- । r) नाथ. ।  
 न्यु. ? । s) वि. १ । इवार्थे अण् प्र. [ पा ५, ३, १०७ ] । t) कृष्यार- इति अन्त्य इति पागम., कृष्य इति  
 भाषाया, प्र. । u) = जनपद- ।

कुचेल- प्रथ. किम्- द्र.

✓कुञ् पाषा. भ्वा. पर. स्तेयकरणे.

कुञ्- ३ङ्- द्र.

✓कुञ्च पाषा. भ्वा. पर. कौटिल्यादीनि-  
भावयोः.

कुञ्चित- > कुञ्चित-कैदा-श्मश्रु-  
-धुः चव्यू ४: १३.

✓कुञ्च ✓कुञ् द्र.

१कुञ्च- पाठो २, २, ८८; पाग २,  
४, ३१.

कुञ्च- पाग ६, ३, १०८<sup>०</sup>; पावा  
५, २, १०७, -रः माशि १, १०;

माशि १, ५, ४; -रम् आशि २,  
५, १: ४६; जै २, ९: ३४; अप

३०<sup>३</sup>, २, ७; ६८, ५, ३०; -रस्य  
विष ७८, ५३, -राः अप ७१, ३, ५

२कुञ्च- (> कौञ्चायन- >) न्य- पा  
५, ३, ११३ (ग.) पाग ४, १, ९८.

✓कुट् पाषा तुदा. पर. कौटिल्ये,  
चुरा. आत्म. छेदने.

कुटिल- पाठ ४, १८६.

३कुटिल- पाठ ४, ५४; -लानि या  
२, २८; -ले काथी २१, ४, १९.

१कौटिल्य- क्ये वा ३, १,  
२३.

कौटिल्य-बहुल- -जाः  
अप ७०<sup>३</sup>, १६, ३.

कुटिल-गामि(न् >) नी- नी  
या ९, २६.

कुटिलि(क >) का- > कौटि-  
लिक- पा ४, ४, १८.

१कुट- -रस्य अप ४८, ११५, १३१;

निय ४, २; या ५, २४४<sup>०</sup>.

२कुट<sup>१</sup>- पाग २, ४, ३१:

३कुट<sup>०</sup>- (> कौट्य- > कौटायन-  
पा. यक. ) पाग ४, १, १५१;

११०.

४कुट<sup>१</sup>- > कुट-भार- > कौट-भा-  
रिक्- पाग ५, १, ५०.

कुटज<sup>१</sup>- -जस्य माशि ४, २<sup>१</sup>.

कुटज-भार- > कौटजमारिक-  
४कुट- टि. द्र.

कुटप- पाठ ३, १४२.

कुटर<sup>१</sup>- पाठ ४, ८०; -फ<sup>१</sup> आपथी  
१, २०, २; माथी १, २१, ९;

माथी १, २, २, १७, वाथी १, २,  
४, ५०; हिथी १, ५, ५४; -रम्

वाथी १, २, ४, ४, ४, ५०; हिथी  
१, ४, ३३; ४, ४, ४५.

कुटवं(ह-अ)त<sup>०</sup>- -म्वानि माथी  
१, २, १, ४.

कुटाकु पाठो २, १, ४१.

कुटि-टी<sup>०</sup>- पाठ ४, १४३, पाग ४,  
३, १४२; -टिम् आपथ १, २४,

१३, २१; हिथ १, ६, ६०; ६९,  
-टी आपथ १९, १४; भाग २,

८: ४; हिथ २, ८, २; -टगम्  
वाथ १०, २३; -टीम् वीथ २,

१, ३, ३, १, १३.

कौट- > कौट-तक्ष- पा ५, ४,  
६५.

कुटी-कुट- पाग, पावाग २, ४, ११.  
कुटी-मु<sup>०</sup>- (> कौटीगम्- >

कौटीगव- पा. ) पाग ४, १,

१०५; २, १११.

कुटी-चक्र<sup>०</sup>- -काः वैष १, ९, १; २.

कुटी-मय- पा ४, ३, १४२.

१कुटी-र- पा ५, ३, ८८.

२कुटिल<sup>१</sup>- पाग ४, १, १०५.

२कौटिल्य- पा ४, १, १०५; -स्याः  
वीथी १ ६: ३.

२कुटीर<sup>१</sup>- (> कौटीर- पा.) पाग ४,  
३, १३४.

कुटुम्ब- -भम् अ ६७, १, ५; वाथ  
१७, १९; शीष १५८; २७०;

-न्वे आथ २, ७, २; विष ६७,  
३७; हिथ २, २, २३.

कौटुम्ब- -म्बम् आथ २, ६, १०.

कुटुम्ब-क- -कः आ ६९, ८, ३.

कुटुम्ब-व्यवहार- -नान् शीष २७०.

कुटुम्बा(म्ब-अ)र्थ- -र्थे विष ६, ३९.

कुटुम्बिन्- -म्बिनः आपथ २, ७, १;  
हिथ २, २, २२; -म्बिनम् आपथ

२, ६, ५; हिथ २, २, ५; -म्बिना  
विष ६, ३८; -म्बिनौ आपथ

२, २९, ३; हिथ २, ६, १६;  
-म्बिन्यः विष ५९, २९.

कुटुम्बिनी- पावा, पावाग ४, २,  
५१<sup>१</sup>.

✓कुट् पाषा चुरा. पर. छेदनमर्त-  
नयोः; आत्म. प्रतापने.

कुट- > कुटिम्- पाग २, ४, ३१.

कुटपत्- -यत्. अप ६४, ७, ९.

कुटाक- पा ३, २, १५५.

कुटमल- पाठ १, १०९.

१कुठार- पाठो २, ३, ४३.

a) या ७, १२ पराम्भः द्र. । b) = लनादिपरिद्विन-स्थान- हस्ति-रन्त- । व्यु. ? । c) वैजु. पागम.

< २कु- + ✓जु इति । d) वृ. पागम. । e) व्यप. । व्यु. । f) या ६, ३० वा १, २, १ पराम्भः द्र. ।

g) वै १, ११२४ ० द्र. । h) अर्थः व्यु. च ? । i) = घट- वा हलाङ्ग-विशेष- वेति पागम. । j) वृ. पागम. ।

कुटज- इति भाण्डा. प्रम्भ. । k) व्यु. ? । l) = वृद्ध-विशेष- । m) वै १ द्र. । n) पागे. वै १, ११२३ प द्र. ।

o) विप. । वस. । p) = शाला- । व्यु. । q) = संन्यामि-विशेष- । उच. उप. वृत्तिरि < ✓क [कु] ।

r) उजुवि(न् >) मी- इति भागवा. । s) देननिर्हणयः म्प प्र. (पावा ४, ४, २०) ।

रकुटार- (> कौटार- पा.) पाग

४, १, ११२.

कुटारि(क)का- (> कौटारिकेय- पा.) पाग ४, १, १२३.

कुटि- पाठ ४, १४४.

कुटेर- पाठ १, ५८.

✓कुह पापा. बुदा. पर. बाल्ये.

कुडव<sup>b</sup>- पाग २, ४, ३१.

कुडव<sup>c</sup>- नै: वेज्यो २४.

कु(डि>)डी-> कुडी-कुड<sup>d</sup>- पाग २, ४, ११.

कुडुम्य<sup>e</sup>-> ष्व-मार- रम् आग्रिण २, ४, १०: ३.

कुडव<sup>f</sup>- वम् वैश्री १, ७: ५.

कुडमल<sup>g</sup>- पाग ५, २: ३६; -लम् विष ४३, १४.

कुडमलिय- पा ५, २, ३६.

कुडव, डवा<sup>h</sup>- पाठ ४, ११२<sup>b</sup>; पाग ४, २, १५.

कौट्येयक- पा ४, २, १५.

कुडव-मूल<sup>i</sup>- लाय वैश्र ३, १६: ११.

कुडव-म( > )का<sup>j</sup>- प्राग् कप्र १, १, १५.

✓कुण पापा. बुदा. पर. शब्दोपकर- गमो:; सुरा. पर. संकीचने आनन्त्रयो व.

कुणप<sup>k</sup>- पाठ ३, १४३; पाग २, ४, ३१<sup>c</sup>; ४, १, ८६<sup>d</sup>; -पम् तैप्रा १३, १२<sup>f</sup>.

कौणप- पा ४, १, ८६<sup>e</sup>.

कुणप-नाम्-> ष्विन- ष्विन:

अप ६४, ७, १०.

कुणप-रेतो-मूत्र-पुरीपो (प-उ) पठ- त- अलाम् शंष १७२.

कुणपतन्त्र<sup>l</sup>-> कौणपतन्त्रि- -न्त्रि: वीथी २०, १३: २६.

कुणपदी- कुणपदी- टि. द्र.

कुणव<sup>m</sup>- पाठना ३, १४४.

कुणव<sup>n</sup>- -रु: अप ४८, १००; -लम् मिष ४, ३; या २, ३; ६, १३<sup>g</sup>.

कुणाल- पाठ ३, ७६.

कुणि<sup>o</sup>-> कुणिव( > )ती<sup>p</sup>- पाग ५, ४, १३९.

रकुणि<sup>q</sup>- -णि: वीपि ३, ५, २.

कौणय<sup>r</sup>- -य: तैप्रा १३, १२<sup>f</sup>; -यत्प<sup>s</sup> चाश्र ४३: ९.

कुणिन्त्र<sup>t</sup>- पाठ ४, ८५.

कुण्ट<sup>u</sup>- पाग २, ३, ३८<sup>v</sup>.

✓कुण्ट<sup>w</sup> पापा. अा. पर. प्रतिपाते.

कुण्ट- पाठनो २, २, ११३; पाग २, ३, ३८<sup>v</sup>; ५, २, १२७<sup>w</sup>.

✓कुण्ट<sup>x</sup> अा. आाम. दादि. पर. वैकल्पे, सुरा. पर. रशणे.

रकुण्ट<sup>y</sup>- पाठ १, ११५; पाग ५, २, १७; -ण्टम् वीथी १७, २१: ३, ३<sup>z</sup>; शाप २, ७, २८; वैश्र १, ८: १४; अप २३, १०, ३, २५, १, १: २, ९; १०: ३०<sup>aa</sup>, १, ३; ५: ७, ६: १२-१४; वैश्र २, ६, ५; पा ६, २, १३६<sup>ab</sup>; -ण्टस्य अप २२,

५, ४; -ण्टानि वीथी १७, २१<sup>ac</sup>; १; अप २५, १, ४; -ण्टे आपथी १०, ५, १६; भाथी १०, ४, १; द्विथी १०, १, ३५; आग्रिण १, ६, ३: ३८; वैश्र १, ८: ५.

कुण्टी- पा ४, १, ४२.

कुण्टक<sup>ad</sup>- -कै: सु २३, ४.

कुण्ट-पायिन्-> कौण्डपायिन्<sup>ae</sup>- नस्य लाथी १०, ११, १; -नै लाथी १०, १०, ६; १६, १२.

कौण्डपायिनी<sup>af</sup>- न्य: वीथी २४, ४: ७.

कौण्डपायिन-लापधित- तयो: द्राथी १, ४, २८; लाथी १, ४, २३.

कौण्डपायिन-सारस्वत- तयो: द्राथी १, ४, ३०; लाथी १, ४, २६.

कौण्डपायिनी( > ) दा<sup>ag</sup>- यासु वीथी २३, १४: २२.

कौण्डपायिन्<sup>ah</sup>- न्ये वीथी २१, १: ११.

कुण्डपायिना<sup>ai</sup>-सत्र- -त्रमूठ आपथी २३, १, ४.

कुण्डपायिनाम्-सवन- -नम् आथी १२, ४, १; काथी २४, ४, २१, वीथी २६, २५: १; द्विथी १८, १, ४; -नत्र आथी १२, ६, ११; काथी १३, २४, ११<sup>aj</sup>;

a) व्यप. । व्यु. ? । b) अर्थ: व्यु. च ? । c) = परिमाण-विशेष- । व्यु. ? < ✓कुण्ट इति अमा. ।

d) तु. पागम. । e) = कुडव्य- । f) = कुडव- । g) = कुडमल- । h) कुडवा- इति पाठा. ।

i) पू. = भिति- । j) वैप १ द्र. । k) कुडव- इति [पथे] पाठि. । l) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? ।

m) = कुणप- । n) विप. । व्यु. ? नाप. > = विकलमुञ्ज-पुरस्य- । o) णव<sup>o</sup> इति पाठा. । p) ष्वेवणस्य इति पाठः ? यनि. शोधः (द्र. तै २, ३, ८, १) । q) कुण्ड- इति माण्डा. प्रस. । r) = ✓गुण्ट । s) = गर्त-; तदाकापात्र-विशेष- । वैप १ द्र. । t) = वन- । u) = सर्व-विशेष- । v) विप. । तस्येदमीयः अणु प्र. ।

w) = कुण्ड-पायिनाम्-अवन- । x) विप. । तस्येदमीयः उ>ईयः प्र. । y) तस्येदमीयः न्यः प्र. ।

z) कौण्ट इति पाठः ? यनि. शोधः (द्र. C.) ।

मीष ८, २, २९; -ने आपथी २३, १०, ६; हिथी १८, ४, २; वीष १, ६, ३०; -नेन वीथी १७, २० = १.  
 कुण्ड-वाट्य<sup>१</sup> - पा ३, १, १३०; -ये पावा ३, १, १३०.  
 कुण्ड-प्रतिरूप - पा: काथी २४, ४, ४०; -पै: लाथी १०, १२, १३.  
 १कुण्ड-ल- पा ५, २, ९७.  
 कुण्ड-स्रक्ति- -क्तिपु अय ३०<sup>२</sup>, १, १४.  
 कुण्डा(एड-आ)कृति- -ति अय २१, ५, ४.  
 कुण्डा( एड-आ )पुदात्तत्व- -त्वे पावा ६, २, १३६.  
 २कुण्ड<sup>३</sup> - अड: वैध ३, ११, ४.  
 कुण्डा(एड-आ)शिल्- -थी शंध ३७७<sup>४</sup> ३; विध ४५, २, ४.  
 कुण्डाशि-सोमविक्रय ( वि-अ ) गारदाहि-गारदा ( द-अ )वकीर्ण-गणप्रेथ्या ( व्य-अ ) शम्यागामि-हिंल-परिविधित-गरिवेत्त-पर्या-हित-पर्याधातु-रथकाज-दुर्पाल-कुनलि-न्यावदुष्टिष्ट ( त-धि )त्रि-पौनर्भव-किनवा, ( य-अ )जप-राज-प्रेथ्य-प्रातिरुपिक-शुद्रापति-निरा-कृति-किलासि-कुमीदि-वणिक-शिलोपजीवि-ज्यावादिप्रलाल-नृत्तगीतशील- -लान् गौध १५, १७.  
 ३कुण्ड<sup>५</sup> - ( > कौण्डायन<sup>६</sup> - पा. ) पाग ४, २, ६०.

कुण्डप<sup>७</sup> - पाग २, ४, ३१.  
 २कुण्डल<sup>८</sup> - पाउठ १, १०४; पाग २, ४, ३१; ४, २, ६०<sup>९</sup>; पावाग ५, २, १०३<sup>१०</sup>; -लम् वैथी ११, ५: ७; आमिष्ट ३, ३, २: १९; माशि १६, ११; -लाम्याम् वैष्ट २, १५: ३; विध १, ४२; -ले दाथी १२, ४, १३; लाथी ४, १२, ६; आष्ट ३, ६, १; १०; आमिष्ट २, ६, ६: १९; २०; हिष्ट १, १०, ६; ११, १; २; विध ७१, १६.  
 कौण्डल- पावा ५, २, १०३.  
 कौण्डलिक<sup>११</sup> - पा ४, २, ६०.  
 कुण्डल-युग- -गानि वीष्ट १, २, ७, ६१.  
 कुण्डल-युगम- -गम् आमिष्ट २, ६, ६: २.  
 कुण्डल-र- पा ४, २, ६०.  
 कुण्ड(ल>)ला-क ( छं > ) गीं<sup>१२</sup> - गीं कृत ५, १, ३.  
 कुण्डला(ल-आ)कृति- -ति: याशि १, ६२.  
 कुण्डलिद्- -लिनम् भाथी १०, २, ७; विध १७, १०; -ली अय २४, ४, ४.  
 कुण्डलिनी- पावा, पावाग ४, २, ५१.  
 १कुण्डिन<sup>१३</sup> - पाउठ २, ४९; पाग ४, १, १०५<sup>१४</sup>; २, ९५; १११<sup>१५</sup>; -ना<sup>१</sup> वीथीप्र ४६: १; ४; पा २, ४, ७०; -नानाम्<sup>१</sup> आथी १२, १५, ३; आपथी २४, १०,

७; हिथी २१, ३, १४.  
 १कौण्डिन- पा ४, २, १११.  
 कौण्डिनैयक- पा ४, ३, ९५.  
 १कौण्डिन्य- पा ४, १, १०५;  
 -न्य आथी १२, १५, २;  
 आपथी २४, १०, ७; वीथीप्र ४६: ५; हिथी २१, ३, १४;  
 वैध ४, ६, ३; -न्य: तैप्रा १७, ४; -न्यस्य शुभ २, ४२६;  
 तैप्रा १८, ३; १९, २; -न्यलाम् वैध ४, ६, ३; -न्य्याय आमिष्ट १, २, २: २९; वीष्ट ३, ९, ६;  
 भाष्ट ३, ११: २; हिष्ट २, २०, १.  
 कौण्डिन्यायन- -न: अय १, ३, १.  
 कुण्डिन-यत् आपथी २४, १०, ७;  
 वीथीप्र ४६: ६. हिथी २१, ३, १४; वैध ४, ६, ३.  
 २कुण्डिन- ( > कौण्डिन- ) २कुण्डल- टि. द.  
 कुण्डिनी- ( > २कौण्डिन्य- ) कश्चिनी- टि. द.  
 कुण्डोदरायण<sup>१६</sup> - -णा: वीथीप्र ४७: ४.  
 कुण्डया<sup>१७</sup> - ( कौण्डेयक- पा. ) पाग ४, २, ९५०.  
 कुण्ड- पाउठो २, २, १२०.  
 कुतप<sup>१८</sup> - पाउठो २, २, २१२; पाग २, ४, ३१; पावाग ५, २, १०३; -प: वीष्ट २, ११, ६३; वाध ११, ३५; ३६<sup>१९</sup>; -पम् बाष्ट ४, ६; ५, ९; -परय वैष्ट २, २:

a) वैष १ द. 1 b) = लीवति पथी जारज- पुत्र- 1 ध्यु. ? 1 c) अर्ष: ध्यु. च ? 1 d) = देश-विशेष- ? 1 e) टु. पागम. 1 f) = अठ-विशेष- 1 g) = आमरण-विशेष- 1 ध्यु. ? 1 h) १कुण्डिन- इति पावा. 1 i) विप. 1 बस. 1 j) = अवि-विशेष- 1 ध्यु. ? 1 k) कश्चिनी- टि. द. 1 l) बहु. < कौण्डिन्य- 1 m) < कुण्डोदर- इति 1 n) व्यप (= [आग्नदेरीया-] नदी- ) 1 o) = बाल-विशेष- ( [दिशसाडमभाग-तु. पागम. ], पर्वनीयछापरोमनिर्मितवस्त्र- 1 ध्यु. ? < √कु इति पाउठो., < कु- + √तप् इति पागम. 1

३; -पानाम् वीथ १, ५, ३३;  
विध २३, २०.  
कौतप- पावा ५, ३, १०३.  
कुतप-कौतप- पावा, पावाग २,  
१, ६९.  
कुतस्त- > कौतस्त- स्तौ वीथी  
१७, १८: ६१; वीथ १, १०, ६१.  
कुतुक- पाग ५, १, १३०.  
कौतुक- पा. ५, १, १३०; -कम्  
आमिष्ट २, ३, ५: १; -कानि  
आज्यो ६, ५; -के माष्ट १, १, ३०.  
कौतुक-अणु- -अणु आमिष्ट २,  
३, ५: ३.  
कौतुक-अणु- -अणु आमिष्ट  
२, ३, ५: ३.  
कुत्- > कुतप- पा ५, २, ८९.  
कुत्-हल- (> कौत्-हल- , कौत्-हल- ,  
कुत्-हलित- पा. यक) पाग  
५, १, १३४; १३०; ३, ६.  
कुत्-हल (न >) नी- नी वीथ  
२, १, १६.  
कुत्र किम्- ६.  
कुत्वविधानार्थ- २कु- ६.  
✓ कुत्स- पावा. बुरा. आरम. अवधेपणे.  
कुत्स- -नम् वाध १२, ४१; -नात्  
पावा ८, १, १७; -ने पा ४,  
१, १४७; ८, १, ६९, -ने पा  
२, १, ५३.  
कुत्स-आवोप- -अणु. ११  
४, २, १२८.  
कुत्स- (न-या) मीदण्य-  
-अणु. पा ८, १, २७.  
कुत्स-मीदण्य-अणु- -अणु.

पावा ८, १, २७.  
कुत्स-मिस्वा आपध १, १७, ४; हिष  
१, ५, ३६.  
कुत्स- -स्वाम्य या ३, १८;  
पा ४, १, १६७.  
कुत्सित, वा- -नम् या १, २०; ५,  
२४; पावा ४, १, १६२; -मा  
सुधर ८८: ६; -तानि पा २,  
१, ५३; -ते पा ५, ३, ७४; पावा  
३, २, ९३; -ते पा २, १, ५४.  
कुत्सित-अणु- -अणु पावा ५,  
३, ४७.  
कुत्सित-नामन्- -मा वृदे १,  
३३.  
कुत्सिता (न-आ) दि- -दीनाम्  
पावा ५, ३, ७४.  
कुत्सितादि-वचन- -नम्  
पावा ५, ३, ७४.  
कुत्सिनादि-समानाधिकरण-  
-गात् पावा ५, ३, ७४.  
कुत्सिता (न-अ) थं-> वीथ-  
-अणु या ५, ७.  
कुत्सि (न >) नी- नी वीथि, ५, २.  
कुत्स- पाग ४, १, ११०; २, ८०;  
-स्व: माथी २, १, ३, ५१; अणु  
४८, १०४; अणु; निपट, २०; <sup>m</sup>  
या ३, ११; <sup>m</sup> ७, १०; -स्वम्  
प्रना ७, ३४; -स्वम् अणु २,  
२५५, ३५६; -स्व: माथी ७,  
८, १९, पा २, ४, ६५, -स्वात्  
अणु ३, २१; वृदे ३, १२५;  
-स्वानाम् आपथी २४, ८, १;  
-स्वाय या ४, २५; -ये वृदे

३, १२८; ४, १८; -स्व: वृदे ५,  
२८.  
कौत्स- -स्व: आपथी २४,  
८, १; -स्व: आपथी १, २, ५;  
४, ६; ७, १, १९; वाथी ७, १, २;  
वीथी ६, १४: २३; वीथी १२,  
१५: ३; माथी १३, ४, १५;  
लाथी १०, २, ९; निष् २, ९:  
५; ३, ११: ४; ५, ९: ९; ८,  
१०: ७; गोष्ट ३, १०, ४; अणु  
२, ८, २४; आपध १, १९, ४;  
हिष १, ५, १०६; अणु; या १,  
१५; -स्वम् हिथी ७, १, ७२;  
अणु ३, ३, १; -स्वम् वीथी ६,  
१५: ७; -स्व: वीथी २ २:  
१; -स्व: आपथी १०, २०,  
१२; वीथी ६, १५: ८; माथी  
१०, १३, ७; -स्व: वीथी ६,  
१५: ११.  
कौत्स-दारीव- -ते आपध  
१, २८, १; हिष १, ७, ३७.  
कौत्स- -स्वम् अणु १, ५:  
१९; २, ३: १५; ३, ९: ६;  
लाथी ७, १, १; ९, १३; निष् ८,  
१: ३१; अणु ४२, २, १०;  
वाध २६, ५; अणु ४, १६९;  
-स्वम् अणु १, ७: ६; निष्  
४, १०: ११; १०, २: १८;  
-स्व: लाथी ७, १, ९.  
कौत्स-वीथ- -स्वान्याम् अणु  
१, ५: ३६.  
कौत्स-वर्णनामन्- -मन्वाम्  
अणु २, ३: २१.

a) व्यप. । मलो. क्त. । b) = सर्प-विशेष- । अणु. ? । c) 'कुत्सो' अणुः इति यक. पाठो ? ननि. शेषः  
(सु. सप्र. ता २५, १५, ३) । d) नाप. । अणु. ? । e) कवक- टि. द. । f) = चर्मनिर्मित-नेत्रभाजन- । अणु. ? ।  
g) = मातृ-विशेष- । अणु. ? । h) विप. । वत. । i) वेप १ द. । j) = नापि-विशेष- । k) अर्थः ? ।  
l) सप्र. कुत्सः < > कौत्सः इति पाठि. । m) = वज्र- । n) सकृत् = वज्र- । o) = देशणुः । अन्यतम- ।  
p) पठ. < कौत्स- । q) = गाम-विशेष, सूक्त-विशेष- ।  
मेष-अ-१६

कौत्स-वैमद- इम् ऋषा ८,  
२२.  
कौत्सावन- पा ४, १, ११०: २,  
८०.  
कौत्स्य<sup>१</sup>-> कौत्स्यौ (स्य-श्री)  
शानय- सौ ऋष २, ५, ३१.  
कुत्स-वद् आपथी २४, ८, १.  
कुत्स-सूक्त- केन अप १२, ४, १.  
कुत्सस्या (स्य-श्री) धिरथीप- यम्  
धुस् ३, १०: ३१.  
✓कुत्स पाषा. दिवा. पर. प्रतीमावे,  
मया. पर. संश्लेषेणे.  
कुत्स- पाठना २, १२.  
कुत्सहारि<sup>२</sup>- रिम् बौध ३, १, ८.  
कुत्सुम- पाठमो २, २, २५२.  
कुत्सुमिन्<sup>१</sup>-> कौत्सुम- पावा ६, ४,  
१४४; -मा: वय्य ३: ५-७  
कौत्सुम-लौकाक्ष- पाग ६, २,  
३७.  
कुत्सामन्- किम्- द.  
कुत्साल<sup>१</sup>- पाग ५, ४, १३८; -लेन  
बौध ३, २, ३.  
कौत्साल (>) ली<sup>२</sup>- ली बौध  
३, १, ५, २, ३.  
कुत्साल-पाद- पा ५, ४, १३८.  
कुत्साल<sup>१</sup>- पाठमो २, १, २२९; पा, पाग  
२, ४, ६३; ४, १, १३१.  
कौत्सेय- पा ४, १, १३६; -या:  
बौश्रीप २७: ८.  
कुत्साली<sup>१</sup>-> श्री-शफ- फान् कौस्

५०, २२.  
कु-भ्र- ३ कु- द.  
कुन्खिन्- किम्- द.  
कुन्खीन्<sup>१</sup> श्रामिप ३, ११, १: ९.  
कुन्नामन्- किम्- द.  
कुन्त<sup>१</sup>-> कुन्त (>) न्या<sup>१</sup>-  
न्या: वृदे ८, १०१.  
रकुन्त- पाठमो २, २, १४७.  
कुन्तल- पाठमो २, ३, ९९.  
कुन्ताप<sup>१</sup>- इम् आपथी ८, ३, ७; शार्थी  
१२, ६, १३; १३, ७; वैताथी  
३२, १९; -वे वृदे ८, १०१.  
कुन्ति<sup>१</sup>- पाठमो २, १, १९०; -तय.<sup>१</sup>  
अप १, ८, ६.  
कौन्त-> कुन्ती<sup>१</sup>- पा ४, १,  
१७६.  
कुन्ति-सुराण्ड- पाग ६, २, ३७.  
रकुन्ती<sup>१</sup>- (> कौन्तावनि<sup>१</sup>) पा ४,  
२, ८०.  
✓कुन्त म्वा. पर. हिवासंश्लेषानयो:  
मया. पर. संश्लेषेणे.  
कुन्त<sup>१</sup>- पाठवृ ४, ९८.  
कुन्त-गोक्षीर-गौ (>) रा-नामि:  
अप ६८, १, ३३.  
कुन्त-पुण्य (अ-श्रामा >) म- न्ना:  
अप ५२, १३, ४.  
कुन्त-सप्रम- म्मा. माशि १, १३;  
माशि १, ४, १.  
कुन्त<sup>१</sup>, कुन्त<sup>१</sup>म- पाग ६, २, १३४.  
कुन्तुमि (>) नी<sup>१</sup>- पाग ४, २,

५१.  
✓कुन्त पाषा. सुरा. पर. ऋतुतमापणे.  
✓कुप् पाषा. दिवा. पर. कोये, सुरा.  
उम. भाषावाम्, सुप: सु २८, ५.  
कोप- न्य: पा १, ४, ३७; -यम् अ  
५३, ४, ३; विष ७९, १९; -पाव.  
बंध १२.  
कोप-मर्लेन- नयो: पावा ८,  
१, ८.  
कोपन- न्ना: अप ६८, १, ४३.  
कोपित- न्ना. लैष्ट २, ८: १८;  
बौध ३, ९, १०.  
कुप- न्ये काथी ५, १०, १८.  
कुपथ- किम्- द.  
कुपय- पाठमो २, ३, १३४.  
कुपयान- किम्- द.  
कुपिञ्जल- (> कौपिञ्जल-) रकि-  
ञ्जल- द.  
कुपिन<sup>१</sup>- नै: माथी ६, १, २, १७.  
कुपिन्- पाठ ४, ८६.  
कुपुत्र- , कुपुत्र- किम्- द.  
कुपु<sup>१</sup>- न्याम् आपथ २३, ९; भाग  
२, ३२: १; द्विष्ट १, १७, ५१.  
कुप्य- न्यम् पावा ३, १, ११४.  
कुप्य-द्रव्य- न्यम् विष ७८, ३१.  
कुप्र- पाठना २, २८.  
कुवेर<sup>१</sup>- पाठ १, ५९; पाषाण  
८, ४, ३९; -र: आपथी  
१०, ७, ६; शार्थी १६;  
२, १६; अप ३६, १, १२

- a) = देस-विशेष-? । b) साप्रत्ययेवतीयः प्र. । c) = साम-विशेष- । d) अर्थः व्यु. व ? ।  
e) = दात्र- इति Dähler, भाष्यं च । f) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । g) = खनन-साधन- । व्यु. ? । h) = वृत्ति-  
विशेष- । i) व्यप. । व्यु. ? । j) विधि- इति [पक्षे] भाण्डा. । k) = गुरुवी- ? (द्व. संस्कृतां) । व्यु. ? ।  
l) पाठः ? कुन्खिनः इति शेषः संभाव्यते । m) = कुन्ताप- । व्यु. ? । n) विप. (स्यु- ) । o) = सङ्घ-  
विशेष- । व्यु. ? । p) = जनपद-विशेष- । व्यु. ? । q) बहु. < कौन्त- । r) व्यप. । s) = सता- ,  
सख्य- । व्यु. ? । t) द्व. भाण्डा. । u) द्व. पागम. । v) या ३, १९ परामृष्टः द. । w) = [ वेणुनि-  
मितभाजनद्रव्यसु- ] द्रव्य-विशेष- , द्रवा-द्रव्य- । व्यु. ? । x) = बुली- । व्यु. ? । y) कुत्सा इति पाठः ? यनि. शोधः ।  
z) नाप. । व्यु. ? पाग. < ✓ कुप् इति । a<sup>१</sup>) वेप १ द. ।



अथ ८, १०(४)†; २२; अथा  
 ३, ४, १†; दंवि २, ४†, -रम्  
 वैद्य १, ४: ७†; -राणाम्<sup>०</sup> अथ  
 ५५, ५, ४; -पुत्राम् भाव १, ८:  
 १; २, ५: १४; वैद्य ५, ३:  
 १३; -रे अथ ५५, ५, ३; ७३,  
 १७, २.  
 १ कौवेर- रा; अथ ५५, १, ४;  
 -रान् अथ ५५, ५, १.  
 २ कौवेर<sup>०</sup> - री वैद्य ३, १७: ७.  
 कौवेरी<sup>०</sup> - री अथा १६, १;  
 -रीम् अथ ६८, ३, ९; अथा  
 १७, ३; -र्याम् अथा १८-१९, ४.  
 † कौवेरक<sup>०</sup> - का; आपमं २,  
 १३, ११; आग्नि २, १, ३:  
 १७†; भाव १, २३: ९; द्विद्य  
 २, ३, ७.  
 कुवेर-केसव- पाग २, २, ३१†.  
 कुवेर-वन- पावा ८, ४, ३१.  
 कुवेरि (क>) का<sup>०</sup> (> कौवेरि-  
 केव- पा.) पाग ४, १, १२३.  
 कुब्ज<sup>०</sup> - पाठमो २, २, ८८; पाग ५,  
 ४, ३†; -वज्र: वीथी १५, ३७: २;  
 आग्नि ३, १०, १: ५; वीथि  
 ३, ५, २; या ७, १२.  
 कुब्ज-व- पा ५, ४, २.  
 कुब्ज-वि, कै<sup>०</sup> रात- पा, पाग २,  
 ४, ११.  
 कुब्ज-वज्रै (प्र-ए) कलोचन- ना:  
 विष ४५, ३२.  
 कुब्ज-वामन- पा, पाग २, ४, ११.

कुब्ज-पण्ड-पद्म-द्विद- -दा:  
 शंष ३७६.  
 कुब्जा(वज-आ)त्र<sup>०</sup> - अत्रे विष ८५,  
 १५.  
 कुब्ज- पाठ २, २८.  
 कु-प्रसन्-, वलन्- किम्- द.  
 ✓ कुम् (क्षय), कोमति अथ ४८,  
 ४२†.  
 कुम् पाग १, ४, ५७.  
 कुम्पण्ड<sup>०</sup> - > कौमण्ड - षण्ड वीथीप्र  
 १२: ४; वैष ४, ४, ३; -ण्डा:  
 वीथीप्र १: ३; १२: १: २.  
 कौमण्ड-गीतमण्ड-गीतम-  
 -मालाम् वैष ४, ४, ३.  
 कुम्पण्ड-वन् वीथीप्र १२: ४; वैष  
 ४, ४, २.  
 ✓ कुमा<sup>०</sup> पावा. सुरा. पर. कीडावापु.  
 १ कुमार<sup>०</sup> - पाठ ३, १३८; पाग ५, ४,  
 ३†; -०२ वाधुथी ३, १४: १२;  
 १६; १८; -र: कौय १, १७,  
 २४४; पाण्ड; अथ २, ५, २; ७,  
 १०२; १०, १३५; वृदे ३,  
 १४५†; या ५, १९; पा ६, २,  
 २६; -रम् वाधुथी २, ७, १३†;  
 वाधुथी; ऋणमं २, १३, १†,  
 -रस्य कौय ३, १, ३; पाण्ड, -रा:  
 आपथी १, ११, २; वीथी:  
 -राणाम् आग्नि २, ५, ३: ४३;  
 वीथि ३, ७, २७; अथ ७१, १७,  
 ६; मीधु ११, १, ५१†; -रान्  
 वाधुथी ४, ७५: २१; ३३;

शांथ २, १४, २१; आपण्ड १९,  
 १; गौय ३, २, ६; द्विष २, १,  
 ६५†; -रे वैद्य ३, १४: १०; ६,  
 ४: ५; वैद्य १, ८: १; -रेणु  
 अथ ५०, ३, ४; ७०†, १०, ७;  
 -रै: भाव १, २१: १३; -री  
 वृदे ७, ६.  
 कुमाती- पाग ५, २, ११६,  
 -०२ि शांथी १२, २३, १††;  
 -री माथी ६, ३, ३, ४; माथी:  
 -रीणाम् कौय १, २१, २०;  
 काण्ड: -रीम् वाधुथी २०, ८, २५;  
 अथ: -रीणु अथ ७०†, १०, ७;  
 ७१, १७, ६; -र्य: वाथी ५,  
 १०, १५; आपथी; -र्या आपण्ड  
 १४, ११; भाव १, २२: ३;  
 -र्या: पाण्ड १, ४, ५, ६, १; आपण्ड;  
 -र्याम् वीथी २, ५, ११†, आपण्ड  
 २, २६, २१; द्विष २, ५, २१६;  
 पा ६, २, १५; -र्यै अथ १, १५,  
 १०; १६, ६; १७, १९; कौय १,  
 १, ८; ८, १; १६, ११; शांथ १,  
 ५, ५; १२, १; कौस् ३७, ५.  
 १ कौमार- पा, पावा  
 ४, ३, १३; -रम् वाधु १७, १९.  
 कौमार-दर-  
 र्याग्नि- गो शंष ३७७: ४†;  
 ४१४.  
 कौमारिक<sup>०</sup> - का:  
 वाण्ड १०, १३; -कान् वाण्ड १०,  
 १३.

- a) बहु. < कौवेर- । b) विव. । साऽरपदेवतीवम् तस्येदमोपथ सण् प्र. । c) = शान्ति-विशेष- ।  
 d) = बालप्रह-विशेष । e) प्रिका: इति पाठः ? यनि बोधः ( वृ. आपम. प्रण. ) । f) वृ. पागम. ।  
 g) व्यप. । ध्यु. १ । h) वैष १ २. । i) वृ. पासा., [१७] पागम. च । j) = [अकलदेगरष-] तीर्थ विशेष- ।  
 k) = अग्नि-विशेष- । ध्यु. १ । l) ✓ कुमाह इति [१७] BFG. । m) कुमार., इगुर- इति पासा. । कुमारी-  
 अगुर- इति भाष्यदा. । n) सापा. द्विद्य २, ४, २ पुत्रम् इति पाणे. । o) वृ. अगन. । p) सापा. आपण्ड २, ४, १२  
 वाअत्र इति पाणे. । q) 'अपस्य्या' इति पाठः ? यनि. बोधः ( वृ. मदनपारिजातः, मिलाक्षरा च ) । r) विव. । मलयैः  
 उम् प्र. उत्सं. ( वा ५, २, ११६ ) ।

१कुमारिक, १कुमारिन्-  
पा ५, २, ११६.  
कुमारी-कुचयुग्म-वत्  
याशि १, ६९.  
कुमारी-कुल--लात् कौस्  
७५, १०.  
कुमारी-कोटन- (> न-  
क- पा.) पाग ५, ४, २९.  
कुमारी-ज- -जम् अथ  
७०<sup>१</sup>, १०, ७.  
१कुमारी-दा<sup>१</sup>- -दाः  
आपधौ १७, ५, १६; वैधौ १८,  
२१ : १७; हिधौ ११, ८, १०.  
कुमारी-पत्नी- स्त्रीभिः  
बाधौ २०, ६, १८.  
कुमारी-पाल- -लम् कौस्  
७५, १२, -लाय कौस् ७६, १.  
कुमारी-पुत्र- (> न-  
क- पा.) पाग ५, ४, २.  
कुमारी-पाल-शृङ्खल-  
प्रजा(त>)ता<sup>१</sup>- -ताः बाध  
११, ७.  
कुमारी-वत्- पा ५, २,  
११६.  
कुमारी-वदन- -ने अथ  
६८, ५, ३.  
कुमारी-वधुर- (> न-  
क-) १कुमार- टि. द.  
कुमारी(री-आ)दि-  
-दिभिः शुभ ३, ३२.  
१कौमार<sup>२</sup>- -रम् विष २०,  
४९; -रे अथ ९, २, ७; बाध ५,  
३; बाध २, २, ४६.

कुमार-क- पा ५, ४, ३; -कम्  
शांथ ५, ७, ३; -कात् अथ ६७,  
३, ३.  
कुमार-कर्मन्- -मंसु बाध ३, ५;  
-मोगि बाध ३, १३.  
कुमार-कुल(ट>)दा-, न-कुशल-,  
न-मभि(त>)गी- पा २, १,  
७०.  
कुमार-घातिन्- पा ३, २, ५१.  
कुमार-चपल- पा २, १, ७०.  
कुमार-ज- -जम् अथ ७०<sup>१</sup>, १०, ७;  
७१, १७, ६.  
कुमार-ताप(>स)ली-, न-दा-  
(स>)सी- पा २, १, ७०.  
कुमार-नन्दिन्<sup>१</sup>- पाग ८, ४, ३९.  
कुमार-निपुण-, न-पण्डित-, न-  
पटु- पा २, १, ७०.  
कुमार-प्रयत्न- पा ६, २, २७.  
कुमार-प्रवर्जित(>)ता- पा २, १,  
७०.  
कुमार-प्रसव- -वे शेष १७  
कुमा वन्ध(क>)की-, न-शुद्-  
पा २, १, ७०.  
√कुमारय > नर्मा √क >  
१कुमारयां चके वीधौ १८, ४६ :  
१०.  
कुमारयु- पाठ्य १, ३७.  
कुमार-यत्न- -लेपु जंथ १, ९ : ५.  
कुमार-रूप- -नेण वृदे ५, २१.  
कुमार-धम(ण>)गा-, या (र-अ)  
ध्याय- , न(र-अ)निरूपक-  
पा २, १, ७०.  
२कुमारिन्- -दिणा आपमं १, ११,

१०<sup>१</sup>.  
२कुमार<sup>१</sup>- पाग ४, १, १९.  
३कौमार-> कौमारी<sup>२</sup>- नी-  
अथां १६, १; -रिम् अथां १७,  
५; -याम् अथां १८, ७<sup>१</sup>; १९, ७.  
कौमारायण- पा ४, १, १९.  
कुमार-घाता<sup>१</sup>- -रायाम् विष ८५,  
२५.  
कुमार-वृष- -पौ शुभ २, २३८.  
कुमार-हारित<sup>१</sup>- -तः शुभ २, १२४.  
१कुमारिक- १कुमार- द.  
२कुमारि(क>)का- (>कौमारी-  
केय- पा.) पाग ४, १, १२३.  
√कुमाल् √कुमाट् टि. द.  
कुमालन<sup>१</sup>- -नाय आरथ १, ३२, २४;  
विष १, ८, ६५.  
कुमुद<sup>१</sup>- पाग २, ४, ३१; ४, २, ८०<sup>१</sup>;  
५, २, १३५; पात्राय ३, ३, ५;  
-दः अथ ५२, ५, ३<sup>१</sup>, -दः अथ  
१, ४४, ३.  
कौमुदिक- पा ४, २, ८०.  
कुमुद-गन्ध<sup>१</sup>- > कौमुदगन्धि-  
-निवः वीधौ १७ : १५.  
कुमुद-पत्र- -त्रैः वैशु ३, २१ : १४;  
कुमुद-मयूरगल-कालक- -केयु अथ  
६५, १, ६.  
कुमुदिक- पा ४, २, ८०.  
कुमुदि(र>)नी- पा ५, २, १३५.  
कुमुदी(र-उ)पल-पत्र- -भानि अथ  
७०<sup>१</sup>, ४, ३.  
कुमुद-वत्- पा ४, २, ८०<sup>१</sup>.  
कुमुद्वती- -नी कौस् १०६, ७<sup>१</sup>.  
कुमुर<sup>१</sup>- (>कुमुरित-पा.) पाग ५,

a) वैप १ द. । b) हस. । प्रजाता ? इत्यस्य स्थाने प्रजा(त>)ताः इति । Babbler । c) भावे  
अण् प्र. अंसं. (पा ५, १, १३०) । d) तु. पागम. । e) < कुमार- + यु- (<√या) । f) व्यप. ।  
यु. ? । g) = शान्ति-विशेष. । h) कौवेयाम् इति संस्कारा. । i) = तीर्थ-विशेष. । j) व्यप. । कत. ।  
k) = मह-विशेष. । l) = देश-विशेष. । m) = ऋषि-विशेष. । n) अर्थः यु. च ! । मुकुट- इति । पक्षे !  
भाष्य. ।

२,३६.

✓कुम्भ<sup>१</sup> पाया. भ्वा. लुट्. पर. आत्छादने.

कुम्भा- पा ३,३,१०५.

१कुम्भ<sup>२</sup>- न्यम् वीथी ६, १ : ६; ४ : १०; २५, ४ : ४; ५; दैवि १, ७१.

कुम्भ-कुटीर- नम् आपथी १०, ९, ५; ७; वीथी ६, ५ : १५; माथी १०, ६, ५; -राणि वीथी १५, १५ : १२.

२कुम्भ, म्या<sup>३</sup>- न्यम् वैथी ११, ८ : २; -म्याम् वीथी १८, २४ : १९.

कुम्भ-तस (:) वीथी ४, १ : १७; २०, ३० : ४; २५, ३२ : १२; २३; २८.

कुम्भ-सोप- नम् वैथी ११, ८ : ३.

✓कुम्भ ✓कुम्भ टि. द्र.

कुम्भ<sup>४</sup>- पातमो २, २, २३८; पाग ४, २, ७५<sup>५</sup>; ८०<sup>६</sup>; ५, ४, ३<sup>७</sup>; -म्मः वीथी ६, ३२ : ४; २५, १३ : ९; आपृ २, ८, १६<sup>८</sup>; १७<sup>९</sup>; ४, ४<sup>१०</sup>; आशि २, ४, १ : १६<sup>११</sup>; काट ११, २<sup>१२</sup>; भाट २, ३, १<sup>१३</sup>; माट २, ११, १२<sup>१४</sup>; हिण १, २, ७, ४<sup>१५</sup>; कप; कौस् १३६, १<sup>१६</sup>; अत्रा ३, ४, १<sup>१७</sup>; -म्मन् काथी १५, १०, १६<sup>१८</sup>; आपथी; -म्मरप आशि २, ३, ५ : ५; -म्भाः वाथी २, १, ५, २३; आपमं २, १५, ४<sup>१९</sup>; अत्रा २१, ५, ३; -म्भात् काथीत् २८ : ५; माथी २, २, ५, १६; कौट ३, ३, ६<sup>२०</sup>; गाण १, ११, २६; पोण

१, १, २६; छुदे ५, १५३; -म्भान् काथी २१, ३, ६; वीथी १०, ५० : ७; वाधुथी ३, ७६ : १८; हिथी ११, ८, ११; आण; -म्भे वाथी ४, १५, ८; काथी १०, ३, १८; १८, २, ४; ६; २५, ८, ६; आपथी १४, २१, १२; वीथी; कौस् ९३, ४३<sup>२१</sup>; -म्भेन काथी २१, ३, ७; आपथी ११, २०, ५; काठथी; -म्भेभ्यः विष ५, १२; -म्भेषु वाथी ३, ३, २३; -म्भो काठथी ११२.

१कुम्भी<sup>५</sup>- पाग ४, २, ८०; पा ४, १, ४२<sup>२२</sup>; -म्भी माथी १, २, १३; आशि २, ५, १०-११ : ३; अत्र ११, ३<sup>२३</sup>; -म्भोः वीथी १५, १४ : १२; वाधुथी ३, ७६ : १८; १९; हिथी २, ६, ५५; ११, ८, ११<sup>२४</sup>; -म्भीभिः आपथी ३, १६, १७; हिथी २, ६, ५५; -म्भीभ्यः आपथी ३, १७, १ : वाथी ३, २, ५, ४१; -म्भोन् काथी १२, ३, २३; आपथी; -म्भीषु वीथी १५, १६ : ९; -म्भ्यः आपथी ३, १७, १, १४, ७, ४; हिथी २, ६, ५५; ९, ८, ३६; २३, १, २४; -म्भ्याः कौस् ६१, १२; -म्भ्याः वाथी १४, ४१, ९; गाण ३, २, ९<sup>२५</sup>; -म्भ्याम् आपथी १, १३, ६; १०; ७, २२, ९; २३, ७; वीथी; वाथी ३, २, ७, ५<sup>२६</sup>; -म्भ्यो माथी १, १, ३, १०; वाथी १, ३, ३, १०.

कौम्भायति<sup>६</sup>- पा ४,

२, ८०, कुम्भी-दोहन- -नम् भाथी १, ११, ११.

कुम्भी-धान्य- -न्यः वैष ३, १, १२; -न्याः वीष १, १, ५. कुम्भी-पक<sup>७</sup>- पाग २, १, ४०.

कुम्भी-पाक<sup>१</sup>- -नम् कौस् ८८, १; -कात् कौस् ६, २३. कुम्भीपाक-नीरव- महारौरव-कृतकालमलि-शिलसं-घात-वज्रकण्टकनायन- -नानि शंष ३१४.

कुम्भीपाक-नीरवा- (व-का)दि- -दिषु शंष ३७५. कुम्भी-पावय<sup>८</sup>- -न्यो आपथी ८, ६, ६; माथी ८, ६, ८; हिथी ५, २, ३२.

कुकुम्भी-पाल<sup>९</sup>- -त्राः भाण १, २३ : ७<sup>०</sup>. कुम्भी-पूरण-सादन- प्रत्यसना (न-ञ) निमग्नग- -णानि वैथी १८, २१ : १३. कुम्भी-न्वत् मीस् ११, ४, ८०.

कुम्भी-शूल-वपाश्रयणी- -णीनाम् मीस् ११, ४, ३१. कुम्भीशूलवपाश्रयणी- प्रमुव- -त्वात् आपथी ६४, ४, १६.

कौम्भ- पा ४, २, ७५. कौम्भायत-, कौम्भ्य- पा ४,

a) = ✓कुम्भ इति (पठो) BFG. । b) वेर १४. । c) अर्थः न्यु. च ? । = मास- वा मासल-प्रदेत- वा स्थल-प्रदेत वा इति वीथी. सूची । d) अर्थः ? । e) तु. पागम. । f) पामि. वैष १, ११२७ ङ ड. । g) उत्तरेण शंषिरार्थः । h) = छुद्रकुम्भ-, उखा- । i) = तैलादि-स्थान-, सम्भाधार- । j) ककुम्भाम् इति पाठः ? यदि. दोषः । k) = देश-विशेषः ? । l) = स्रोदन-, मरक-विशेष- । m) विप. । उत. । n) = बाल-सह-विशेषः । o) स्र. कुम्भीपावः <> कुम्भिन्युः <> कुम्भी, न्युः <> कुम्भिः, वाकिः इति पामि. ।

२,८०<sup>३</sup>.कुम्भ-क<sup>०</sup>- पा ५,४,३.

कुम्भ-कार- पाग ४, ३, ११८;

-रः वैष ३,१२, ११; -राणाम्

वाधूथी ३, ७६ : १७; -रात्

वाधूथी ३, ७६ : ३,

कौम्भकारक- पा ४, ३,

११८.

कुम्भकारा(र-श्च)दि-वेइमन्-

-इमम् अप ३६, १४, १.

कुम्भ-देश- -ने वाए १७, ७.

कुम्भ-पदी<sup>०</sup>- पाग ५, ४, १३९.

कुम्भ-बिल- पा ६, २, १०२.

कुम्भ-मण्डक- पाग २, १, ४८; ६,

२, ८१.

कुम्भ-मप्य-गत- -न्म् औपि १,

३, ९.

कुम्भ-मात्र- -अम् वाधूथी ३, ७६ :

१८.

कुम्भ-मिध्र- -अम् औथी २१, २४ :

१८.

कुम्भ-दत् वाधूथी १९, ३, २३.

कुम्भ-न्य- -स्यम् आमिष्ट २, ४,

७ : १९; वैष् ४, ११ : १५.

कुम्भा(म-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्तम् आमिष्ट

२, ७, ३ : २८; औपि २, ३, २;

हिपि १२ : ८; ४४ : १२.

कुम्भिन<sup>०</sup>- -म्भी<sup>०</sup> पाय १, १६,

२३; हिष्ट २, ३, ७; जैष्ट १, ८ :

११.

कुम्भिनी- -नीः वैताथी

३४, ९; -न्यः शार्थी ११, ३,

२४; लाथी ४, ३, २३.

कुम्भि-शत्रु<sup>०</sup>- -श्रुम् आमिष्ट२, १, ३ : १५<sup>१</sup>.कुम्भे(म-उ)टका<sup>०</sup>- -काः औथी

१७, २७ : ४; २९, ६ : १७;

माथी ६, १, ९, १८; १९; वाथी

२, १, ५, २२; वैथी १८, २१ :

२०; २१, १८ : ३; हिथी ११,

८, ११; -कानाम् आपथी १६,

३३, १; ३; औथी २२, ६ : ११;

हिथी ११, ८, १२.

कुम्भो(म-उ)पमरणा(ण-अ)

न्त<sup>०</sup>- -न्तम् काथी २०, ८, २०.कु(म्य>)म्या<sup>१</sup>- -म्याताम्

आपथी ११, २०, ११; हिथी ७,

८, ५३.

कुम्भि<sup>०</sup>- -भिः वाए ३५, १<sup>१</sup>.रकुम्भी<sup>१</sup>- (>कौम्भेयक- पा.) पाग

४, ३, ९५.

कुम्भी(क>)का<sup>०</sup>- -काः अथ १६,

६१.

कुम्भीर- पाठो २, ३, ५०.

कु-यय- -न्म् द.

✓कुरु पापा. तुदा. पर. शब्दे.

कुरङ्ग- पाठो २, २, ६१.

कुरण्ट<sup>०</sup>- ण्ट-हेमा(म-अ) रण-शङ्ग-

कुन्द-मुक्तावली(लो-इ)न्दु-प्रति-

(मा&gt;)म- -मे अथ २४, ५, १.

कुरण्टा(एट-या)कृति-गोक्षीर-हेमा

(म-अ)रगतदिव-प्र(मा&gt;)म-

-मः अथ २४, ३, २.

कुरण्टक- पाठो २, २, ८.

कुरर- पाठ ३, १३३.

कुरल<sup>०</sup>- पाठना १, १०५; -रस्यअप ७०<sup>१</sup>, ३, ४.

कुरव- (&gt;व-क- पा.) पाठो २,

२, ८; पाग ५, ४, ३<sup>३</sup>.कुपीर<sup>०</sup>- पाठ ४, ३३; -स्म औथी

६, १ : ६; ४ : ११; २५, ४ : ४;

५; माथी १०, ६, ६; वाधूथी ३,

७६ : २६; वैताथी ११, २२; १३,

९; अप ४८, ११६;

रकुरु<sup>०</sup>- पाठ १, २४; पाग ४, १, ८६;११२<sup>३</sup>; १५१; १५४<sup>३</sup>; २, १३३;

१३४; -रवः शार्थी १५, १६,

११; -फोरवः आपथी १८, १२,

७<sup>१</sup>; हिथी १३, ५, ४; २४; -रःया ६, २२<sup>१</sup>; -रभिः अप ५०,

२, ४; -रपु वाधूथी ३, ९७ : ३;

वृदे ७, १५५; -रुणाम् वाधूथी

३, ७५ : ८; -रुद् अप १, ८,

४; वृदे ६, ११०.

कौरव- पा ४, १, ८६; ११२;

२, १३३; -वे<sup>०</sup> आथी ८, ३,

१०; वाथी १२, १४, १.

कौरवक- पा ४, २, ११४.

कौरवायणि- पा ४, १, १५४.

कौरव्य- पा ४, १, १५१; १०२;

-न्यः शार्थी १२, १७, १<sup>१</sup>; हिथी

१३, ५, ४; वृदे ७, १५५; -न्यम्

आपथी १८, १२, ७; -न्यस्य

चात्र ४२ : ५; -न्ये वृदे ८, १;

-न्यो या २, १०.

कौरव्याम(ण&gt;)णी- पा ४,

१, १९.

कुरु-कन- (&gt;कौरवाय- , न्या-

यन- पा.) पाग ४, १, १८;

१०५.

कुरु-क्षेत्र<sup>०</sup>- -अम् वाधूथी ४, ७५ :

२९; -प्रात् शार्थी १५, १६,

a) = देहा-विशेष-?। b) कुम्भिका- इति पागम.। c) कुम्भो इति पागम.। d) विप.। वस.।

e) = बालप्रद-विशेष-। f) पाने. पृ ८८५ पृ द.। g) वैप १ द.। h) विप.। पग.&gt;वस.। i) विप.।

तत्रमधीनः यत् प्र.। j) = नगर-विशेष-। कुम्भि- इति पागम.। k) = पुण्य-विशेष-। व्यु. ?। l) = कुरर-।

व्यु. ?। m) तु. पागम.। n) कुरु- इति पाग.। o) वैप १, ११२७ पृ द.।

११; -त्रे काथी २४, ६, ३२;  
 वीथी १८, ४५ : २४; ४७ : ७;  
 वाधुथी ४, ७५ : ४०; लाथी  
 १०, १९, १; शेष १२४; वृदे ६,  
 ५८.  
 कौरुक्षेत्र- -ग्रन् वैप १, ४ : १.  
 कुरुनामन- -नात् या ६, २२.  
 कुरुगार्हपत- पा, पावा ६, २, ४२.  
 कुरुपञ्चाल- पाग ७, ३, २०;  
 -लाः आपथी १८, १२, ७; वीथी  
 १८, ४४ : २२; -लान् हिथी  
 १३, ५, ४.  
 कौरुपञ्चाल- पा ७, ३, २०.  
 कुरुपञ्चाल- -लान् आपथी १८,  
 १२, ७; -लानाम् वाधुथी ४,  
 १०८ : १५, १८.  
 कुरुप्रमन्- -क्षगाम् वीथी १८,  
 २६ : ६.  
 कुरुनाज- -जः वाधुथी ४, ७५ :  
 १७; -ज्याय वाधुथी ४, १०८ :  
 १४.  
 कुरुश्रवण- -श्रवणम् वृदे ७, ३५;  
 उम् २, २६; -णस्य ऋम २,  
 १०, ३३.  
 कुरुश्रेष्ठ- पाग २, २, ३१.  
 २कुरु- -रिवः अय ४८, ९६; निप  
 ७, १८.  
 ३कुरु- -रः वैथी १७, ११ : ११.  
 कुरुश्रावण- -यः शोथी १५, ३,  
 १७; आपथी १८, ३, ७; लाथी  
 ८, ११, १८.  
 कुरुङ्ग- -ङ्गः या ६, २२; ऋम २,  
 ६, २२; ऋम २, ८, ४; वृदे

६, ४४.  
 कुरुण्टक- पाठमो २, ३, ८.  
 कुरुत्- (<त्व-पाद-पा.) पाग ५,  
 ४, १३८.  
 कुरु-पथ- > कौरुपथि- -थिः कौरु  
 ६३, २७; अम ७, ५८; ११, ८.  
 कुरुविन्द- -न्दान् वीथी २४, ५;  
 १८.  
 कुरुसुति- -तिः ऋम २, ८, ७६;  
 शत्रु २, ३४१.  
 कुरुस्तुति- -तिः शुच १, ५२७;  
 अम २०, ४२.  
 कुरुर्- -रः आपमं २, १६, १;  
 भाप २, ७६; ७; हिप २, ७, २.  
 कुर्द पावा. भ्वा. आत्म. ऋडायाम्.  
 कुर्द- (> कुर्दी- पा.) कुर्द- वि. इ.  
 कुर्पासक- पाग २, ४, ३१.  
 कुर्वत्- प्रत्. √कृ इ.  
 कुर्विणी- -णी याति २, १३-१५.  
 √कुरु पावा. भ्वा. पर. संख्याने  
 वन्धुपु न.  
 १कुरु- पाग २, ४, ३१; ५, ३, १३६;  
 -लम् वीथी २७, ४ : ११;  
 वाधुथी; या ६, २२; -लस्य  
 वाधुथी ४, ९० : १०; १२; १४;  
 वैप; -लान् शोथी १४, ४०, १०;  
 हिथी १४, १, ४७; आपथ २,  
 १७, ९; हिप २, ५, ३८; १,  
 -लानाम् आपथी २४, ७, २;  
 हिथी २१, ३, १०; निम् ४, ८ :  
 १०; -लानि वाधुथी ३, ९७ :  
 ३; निम् ४, ८ : ३; आसिप २,  
 ७, १ : ३; कौरु ५७, १९; वीथ

१, ५, ८२; ८४; विप २६, ६;  
 -लाय कौरु १८, २०; आपथ  
 २, २७, ३; हिप २, ५, २२३;  
 -ले आपथी २२, १८, १३; १;  
 वीथी; हिथी २, ५, ३८; १; -लेपु  
 या १, ४.  
 १कौरु- -लेन वीथी २४,  
 १२ : ५.  
 १कौरुयक- पा ४, १, १४०.  
 कुल-कन्य- -न्यः वाप ४, १; वैप  
 १, ११ : २२.  
 कुल-कमा(म-आ)ग(त>)ग- -वा  
 जैथीका इ.  
 कुलनामन- -नात् या ६, २२.  
 कुल-कुल- -लः शारि ४, १२, ११;  
 वाप १२, ८; गौप ९, ५३.  
 कुल-श्रय- -ये अशां १७, ४.  
 कुल-चारित्र-नील-विद्या-लक्षण-  
 गुग(रा-अ)धिक- -न्वेप शेष  
 २५२.  
 कुल-ज- -जः आपथी २०, १८, १;  
 हिथी १४, ४, ८; -जाः विप  
 ८, ८.  
 कुल-नैष्य- -श्रयम् ऋ २, ४, ११.  
 कुल(त>)दा- पापाग ६, १,  
 ६३; कि ५२; -दायाः वाप  
 १४, १९; शेष ४३४; आपथ १,  
 १९, १४; हिप १, ५, ११६.  
 कौरुविन्देय- -न्देय- या ४,  
 १, १२७.  
 कौरुदेव- पा ४, १, १३१.  
 कुलटा-पण्ड-पतित- -तेभ्यः  
 विप ५७, १४.

a) विप. । तत्रमनीयः भण् प्र. । b) वैप १ इ. । c) कुरुजः इति पाठः ? यनि. शोधः । d) तु. पागम. । e) = कृत्विप-विशेष- । व्यु. ? । f) = अल्प- । व्यु. ? । g) अर्मः व्यु. न ? । h) व्यप. । व्यु. ? । i) = ओपथि-विशेष- । व्यु. ? । j) = स्वरभक्ति-विशेष- । व्यु. ? । k) वैप १, ११२८ मा इ. । l) 'लान्कु' इति पाठः ? यनि. शोधः । m) विप. । तत्रवेदमीयः भण् प्र. । n) पाणि. पृ १२३ इ. । o) उम. उप. √अर् + कर्त्तरि अच् प्र., परहपय ।

कुलदो(डा-उ)न्मत्त-चौर- रात्र  
 कप्र १,६,६.  
 कुल-दक्षि(णा>)ग<sup>१</sup>- गः काथी  
 २२,११,१२; लाथी ४, ४, २८.  
 कुल-दूषण- -णम् आण्यो १४, १.  
 कुल-देवता-संबद्ध- -दम् शोध २२.  
 कुल-धर्म- -र्मः आपण १६, ७;  
 २०,१९; वीण २, ४, १७; भाण  
 २,१० : १८; द्विण २, ९, १२;  
 -मैम् कौण १,२०,२.  
 कुलधर्म-परिमह-> ष-रिक्थ-  
 रिण्डो(७ड-उ)दक- -कानि शोध  
 २८८.  
 कुल-नामन्- (>कौलनामिक>)  
 का-, °की-) कुरामन्- टि. द.  
 कुल-पति- पाण ४,१,८४; -त्योः  
 गौण ३,३,२९.  
 कौलपान- पा ४,१,८४.  
 कुल-पर्वत- -तान् शोध ११६ : १०.  
 कुल-पा- -पाः अत्र १,१४<sup>१</sup>.  
 कुल-पुत्र- (>कौलपुत्रक-पा.)  
 पाण ५,१,१३३.  
 कुल-प्रगाथ- -थे वाध १,३८.  
 कुल-मित्र- -म्रम् विध ५७,१६.  
 कुल-पौपित्- -पिताम् विध ८१,  
 २२.  
 कुल(ल-श्र)विज्ञ- -विज्ञाम् कप्र  
 २,५,४.  
 कुल-वत्- पा ५,२,१३६.  
 कुल-वध- -धः शोध ७८.  
 कुल-यद्वै(न>)नी- -नीम् आण्यो  
 ३,६.  
 कुल-युद्ध- -द्धः शोध २१; -द्दाः

कौण ३,१०,३५; वाण २, १६,  
 ४; आणिय २,४,७ : २.  
 कुल-वेद- -दम् शोध ११६ : ३९.  
 कुल-शील-वयो( यस्-अ)ग्वित-  
 -ताः अण ७०, १,५.  
 कुल-संख्या- -ख्याम् वीण १, ५,  
 ८४.  
 कुल-मत्प्र- -म्रम् काथी १, ६,  
 २३.  
 कुल-न्यो- -न्यियाः वाध १६,३५,  
 -न्यीणाम् शोध ३४१.  
 कुला(ल-अ)व(म>)ना- -माः  
 काध २८० : १.  
 कुला(ल-अ)वकर्म- -र्मः वाध १,  
 २७.  
 कुला(ल-अ)वदेश- -देशेन वाध १,  
 ३८.  
 कुलीन,ना- वा ४, १, १३९; -न-  
 माथी ५, १, १०, ४१; -नम्  
 अण ३, १, १३; विध ३, ७०;  
 -नाम् वाध १, ३८, -ने वाध  
 १७,८०.  
 कुलो(ल-उ)वधेद- -दम् अण ३५,  
 १,१०.  
 कुलो(ल-उ)त्साद- -दः अण ३६,  
 ८,५.  
 कुलो(ल-उ)पाध्याय- -यः शोध  
 ३०३.  
 कुल्य- पा ४,१,१४०.  
 रकुल<sup>२</sup>->रकौल<sup>८</sup>- -लम् विध २२,  
 ८३.  
 रकुल<sup>९</sup>- -ल. भाण २,७ : २०<sup>१</sup>.  
 रकौलेयक- पा ४,२,९६.

४कुल<sup>९</sup>-(>कुल-२<sup>१</sup>-,२कुल्य<sup>१</sup>-)पाण  
 ४,२,८०<sup>१</sup>.  
 ५कुल<sup>२</sup>- पाण ४,१,११०.  
 कौलायन- वा ४, १, ११०; -नाः  
 वीथीण ३१ : ४५.  
 वीलि- -ल्य वीथीण २२ : ३.  
 ६कुल<sup>३</sup>-(>३कौल-)पाण ४, २,  
 १३३.  
 कुलक<sup>१</sup>->क-वर्ज<sup>१</sup>- -र्जाः वीध १,  
 ५,१३२.  
 कुलक्यापमारिन्<sup>३</sup>- -री माण २,१४,  
 २९.  
 कुलक्य<sup>१</sup>- -स्यान् वीथी २४, ५ : १६.  
 वीलय- वा ४,४,४.  
 कुलक्यन्मस(म>)मा<sup>३</sup>- -माः  
 आपथी १६,१९,१४.  
 कुलप- पाठमो २,२,२१०.  
 कुलक्य<sup>२</sup>- -ले वीथी २,५ : ९.  
 कुलाय<sup>१</sup>- पाठमो २, ३, ८; -ण्यम्  
 काथी २२, १७, १०; १८, १३;  
 आपथी ७,१७,१७; वीथी ४,६ :  
 ३६<sup>१</sup>; ११,४ : २०<sup>१</sup>; भाथी ७,  
 १३, ४<sup>१</sup>; द्विथी ४,३,५४<sup>१</sup>; अण  
 ४८, ८९.  
 कुलायिन्- -विणम् आथी १,११,  
 १; काथी १, १५, १३; वीथी  
 ३,३० : ४; ८; भाथी ३,९,१३;  
 काथी १, १, ४, ३१; वैथी ७,  
 ११ : ५; द्विथी २, ५, ३२; ४१;  
 ६, ४, ६; २१, २, ७२; -वी  
 आपथी १६,२७,७.  
 कुलायिनो- -नीः वैथी १८,  
 १७ : ४७; द्विथी ११, ७, ४०;

a) विप. 1 वस. पृ. = गोहल, उप. = दान. । b) वैप १,११२८ B D. । c) = मय-विशेष- ।  
 d) = ध-मह-विशेष- । व्यु. ? । e) अर्थः स्यु. च ? । f) = देव-विशेष- ? । g) व्यप. 1 व्यु. ? । h) = देव-  
 विशेष- । व्यु. ? । कुल्य- इत्यस्य इति पाठम. । i) वैप १ द. ; j) उप. । लु इति वीथी. । k) = देव-विशेष- ।  
 स्यु ? । l) = पान्य-विशेष- । व्यु. ? । <कुल- + √रया इति अभा. प्रमु. । m) विप. 1 वस. । n) = वृत्त- ।  
 स्यु. ? । o) पाठे. वैप १, ११२९ B D. । p) पाठे. वै १,११२८ Z D. ।

अत्राप ६, २; -नीम् आरथी १५,  
३, १३; १७, ५; १६, २४, १४;  
यौजी ९, १७; ३६; ३७; भाथी  
१२, ३, ८; १७, ६; माथी ६, १,  
७, १४; वाथी २, १, ६, २३;  
वैथी १३, ४; ७; १८, १७;  
४७; द्विथी ११, ७, ४०; २४,  
१, १८; त्राथी ६, २, ११; १६.

कुलाल<sup>३</sup>- पाठ १, ११८; पाप ४, ३,  
११८; -ला; बीथी १५, १३;  
१४; -लात् बीथी १५, १४;  
११; -लेभ्यः श्रुता ५, ३७.  
कौलाल- लम् पाया ५, ४,  
३६; आण्ट ४, ३, १६.

कौलाल<sup>४</sup>- पा ४, ३, ११८.  
कुलाल-व्यय-निष्पन्न- -सम् कप्र २,  
८, १०.

कुलाल-वृत्त<sup>५</sup>- -ति; वैष ३, १२,  
११.

कुलाश्व<sup>६</sup>-> कौलाश- -श; बीथी  
१६, २७; २२.

कुलिङ्ग<sup>७</sup>- -श्री बीथी २, ५; १५.

कुलिङ्ग<sup>८</sup>- पाठमो २, ३, ८१.

\*कुलि(व>)ञी-; \*कुलि-जि(क>)  
की-; \*कुलि-जी(न>)ना- पा  
५, १, ५५.

कुलिङ्ग-दृष्ट<sup>९</sup>- -ले बीम् ४३, ४.

रकुलिङ्ग<sup>१०</sup>- पाठमो २, ३, १४६; पाग  
५, ३, १०८; -दा; ऋषय ४८,  
१०४, १३१; ऋषिप २, २०,  
४, ३; वा ६, १०४; -दीव> ना

सु २८, १; या ६, १७१.  
कौलिङ्गिक- पा ५, ३, १०८.

रकुलिङ्ग<sup>११</sup>-(>कौलिङ्गायनि<sup>११</sup>- पा.)  
पाग ४, २, ८०.

कुलीन- १कुल- द्र.

कुलीर<sup>१२</sup>- पाठमो २, ३, ४६.

कुलीर-कर्मन्ट- -श्री अत्र ३९, १,  
१०.

कुलीर-सुषिर- -रान् बीथी २४,  
१४; ४.

कुलीरो(र-उ)दृष्ट(त>)वा- -ताम्  
वैष २, ४, ३१.

कुलुन<sup>१३</sup>- (>कौलुन- पा.) पाग ४,  
३, ६३.

कुलूत- (पाठमो २, २, १४८) >कौ-  
लून- ) वस्तू- टि. द्र.

कुलून<sup>१४</sup>- (>कौलून- पा.) पाग ४,  
२, १३३; १, ९३३.

कौलूक- पा ४, २, १३४.

कुलू<sup>१५</sup>- -स्वामि आभवे १, ५, २११.

कुलू<sup>१६</sup>- पाठ ५, २६.

कुलू-दम् -सम् माथी १, ५, ४,  
१२, -सं वाथी १, ४, ३, १३.

कुलमल<sup>१७</sup>- पाठ ४, १८८; -सम्  
श्रुता ३, २, २८१

कुलम, वसु<sup>१८</sup>ल-वर्द्धिप<sup>१८</sup>- -वः ऋषय  
२, १०, १२६, पाय १, ४२६.

कौलमलयर्द्धिप<sup>१९</sup>- -वम् दाथी ८,  
१, ३३, लाथी ४, ५, २६; -पस्य  
लाथी ४, २, १५, -ये लाथी ४,  
२, १.

कुलमाय<sup>२०</sup>- पाठमो २, ३, ११३; पाप  
४, ४, १०३; -पम् विप वि. ४, ४,  
२७; -पा; या १, ४४; -पान्  
या १, ४.

कौलमाय- पा ५, २, ८३.

कौलमायिक- पा ४, ४, १०३.

कुलिम्->कुलिम्-माय- -प्रः आपथी  
१, ३, १७; भाथी १, ३, १५.

कुसमुद<sup>२१</sup>->कौसमुद<sup>२१</sup>- -दम् वैथी  
२२; ६; वैथीका २०.

रकुल्य- १कुल- द्र.

रकुल्य- ४कुल- द्र.

रेकु(स्व>)लया<sup>२२</sup>- पाठना ४, १२१;  
पाग ४, २, ९५१; -ऋष्याः धापर्म  
२, २०, २८; आण्ट २, ४, १३;  
३, ३, ३; कौ ३, १५, ४; शौष्ट  
३, १३, ३; भाण्ट २, १६; १३;  
१७; ८; भाण्ट २, ९, ४; कौव  
४५, १४; ६६, ८६; ८४, १; अण्ट  
४८, ७६; निप १, १३; -स्वाम्  
वीथी ४, ६; ४३१; वैथी ११,  
७; ५.

१कौलेयक- पा ४, २, ९५.

कुल्य- (कौल्य- ) ६कुल- टि. द्र.

कुवल<sup>२३</sup>- पाठमो २, ३, ९६; पाग ४,  
१, ४१; ५, २, २४१.

कुवली- पाठमो २, ३, ९६; पा  
४, १, ४१; पाग ५, २, २४१.

कुमलो-कुम- पा ५, २, २४.

कुल-कर्मन्ट-व्यय-चूर्ण- जाति  
काथी १५, १०, १०.

a) वैष १ द्र. । b) विप. १ मत्. । c) व्यय. । द्यु. ? । d) = पक्ष-विशेष- । द्यु. ? ।

e) = परिमाण-विशेष- । द्यु. ? । f) अर्थः ? । एव = षट्- (द्र. उद-कुलिङ्ग- [कौव १२, ६]) । g) अर्थः  
द्यु. च ? । h) = देग-निवेद- ? । i) = जलवर-विशेष- । द्यु. ? । j) कुली<sup>१२</sup> दत्त पाठः ? यान. शोच = (द्र. ०.) ।

k) कुलून- इति पाठा. । l) पृ ८५३ c द्र. । m) = लाल- । द्यु. ? । n) पाभे. वैष १ पूर्व्यानि  
थी १४, २, ९३ टि. द्र. । o) ऋष. पाठः ? । p) = कवि-विशेष- । वड. । q) = गान-विशेष- । r) = पान्य-  
विशेष- । द्यु. ? । s) = गोमाल- [गोमुच्छ-] । द्यु. ? । t) = कवि-विशेष- । द्यु. ? । u) कुड्या- टि. द्र. ।

v) बल- इति [पक्षे] भाषाया. । w) शाकटायनाभिमतमिति पागम. ।

कुवल-कुण- पा ५, २, २४.  
 कुवल-प्रथ- पाग ६, २, ८०.  
 कुवल-सक्नु- ऋमिः माथी ५,  
 २, ४, २१; ११, १६; बाथी ३, २,  
 ७, १५.  
 कुवल्य<sup>१</sup>- (> यित- पा.) पाग ५,  
 २, ३६.  
 कुविट्यास<sup>२</sup>- (कौविट्यासीय<sup>३</sup>-)  
 पाग ४, २, ८०.  
 कुवितः अप ४८, ११९१.  
 कुविद्<sup>४</sup> आथी ३, ८, १; १३, १२; ८,  
 १०, १; शथी; निघ ३, ११; या  
 ४, १५; पा ८, १, २०.  
 कुविद्यास- (> कौविद्यासीय-)  
 कुविद्याम- टि. द्र.  
 कुविन्द<sup>५</sup>- पाठ ४, ६६.  
 कुवेणिका<sup>६</sup>- (> कौवेणिकेय-  
 पा.) पाग ४, १, १२३.  
 कुश<sup>७</sup> कुश<sup>८</sup> पाठमो २, २, १४१; पाग ५,  
 २, १७; -शम् आमिष्ट २, ५, १ :  
 १७; -शास्य ऋ २३, १, ५;  
 -शाः वीथी १८, ३९ : १४४,  
 कौष्ट; -शान् शथी ४, ४,  
 २१४४; काथी; -शानाम् शथी  
 १७, ४, ५; वीथी २२, १७ :  
 १६; कौष्ट ५, १, ६; -शे शथी  
 ३, १९, ९; वैष २, ९, ३; -शेन  
 कौष्ट १, ४, १; शंष्ट १, ८, १४;  
 कप्र १, ६, १०; -शेष आथी १,  
 १२, ८४; शथी; -शैः आथी  
 २, ४, १२; शथी; -श्री काथी  
 २, ३, ३०; ४, ३, १५; ९, ६, ९;

थाय १, ३, ३; वैष २, २, १.  
 कौशा<sup>९</sup>- शम् शथी १६, १२,  
 २०; काथी १, ३, १२; २४, ५, ३;  
 द्राष्ट १, १, ६; कप्र १, २, १०; अप  
 ३०, २, २; वीथ १, ५, ५.  
 कौशी- शी काथी ६, ३,  
 १३; शीम् काय ४३ : २; कप्र  
 १, २, १२; -श्या काथी ६, ३,  
 २४.  
 कुश-कण्टक- ऋम्<sup>१०</sup> शंष्ट १, २०,  
 ३; पाय १, १४, ४.  
 कुश-करका(क-अ)सिहोत्रद्रव्या(व्य-  
 अ)पहास- रे शंष्ट ३२५.  
 कुश-काश- पाग २, २, ३१.  
 कुश-मन्थि-कृ (त>) ता- शाम्  
 शंष्ट १०७.  
 कुश-वीर-चर्म-वस्त्र-वासस-  
 -साः आमिष्ट २, ७, १० : ४;  
 शंष्ट ३६२; ३९०.  
 कुश-तरुण- शम् काथी ६, १, १२;  
 ७, २, ८, कौष्ट १, २१, १०-१२;  
 शंष्ट १, २८, १२; १३; १५;  
 शुभ्र १, २३४, ३६४; -शान् कौष्ट  
 २, ४, ३, २४; शंष्ट २, ७, ५; २८;  
 -शानि काथी ५, २, १५; पाय  
 २, १, १०; -शाम्याम् कौष्ट १,  
 ५, ४, -शाम्याम् शंष्ट १, ८,  
 १७; -शे शथी २, ७, १२;  
 काथी ५, १, २३; कौष्ट १, ४, १;  
 ५. शंष्ट १, ८, १४, -शेन काथी  
 १०, ९, ३१; २५, १२, १; कौष्ट  
 ४, २, ३; शंष्ट ४, १५, ११.  
 कुश-तरुणक- कानि आमिष्ट ३, ७,

१ : ३; २ : ७; वीथि १, १७ :  
 ३; २७; -शैः वीथी ९, १ : १५;  
 १०, १ : १३; आमिष्ट ३, ६, २ :  
 १७; १९; ७, २ : ५; ३ : १२;  
 १४; ९, २ : १२; वीथि १, १० :  
 ६; १२; १४; १७ : २५; २,  
 १, ६; ७<sup>१</sup>; ६, १०; ११.  
 कुश-तिल-मिश्र- अ्रेण विष ७३,  
 १२.  
 कुश-तिल-वस-पुण्या (व-अ) लंकार-  
 धूप-दीप- -शैः विष ७३, १२.  
 कुश-नीदण- -शम् वीथी ११, ७ :  
 १३.  
 कुश-तोय- -शैः वैष्ट ७, ३ : २; ५;  
 १४.  
 कुश-दण्डक- ऋम् कौष्ट १, १२,  
 ८.  
 कुश-दर्भ- -शान् वैष २, ४, २.  
 कुश-देश- -शे आथी २, ४, १४.  
 कुश-द्वीप<sup>११</sup>- शम् शंष्ट ११६ : ४.  
 कुश-पलाशो(श-उ)हृष्य-शम्-शम्-  
 पुण्यो-वट-वस-सुवर्चला-पत्र-  
 -शैः विष ४६, २३.  
 कुश-पवित्र- -शैः काथी ७, ३, १.  
 कुशपवित्र-पाणि- -शिः शंष्ट  
 १०७.  
 कुश-पिन्डूल- शान् आथी ६, ९,  
 १; -शानि आय १, १७, ८; ४;  
 ६, ४; -शैः आय १, १४, ४.  
 कुश-पुण्य-दर्भा (भे-अ) न्यतम-  
 -मैन वैष्ट ४, १२ : ३.  
 कुश-पुष्ट(>)शाम<sup>१२</sup>- -शः शथी ५,  
 २, ३; लाथी २, ६, १<sup>१०</sup>; निष्

a) तु. पासि. । कुशल- इति पाका. । b) =उत्तरल- । व्यु. ? । c) अर्थः व्यु. च ! । d) कुविद्यास-  
 इति [पसे] पासि., विकुवास- इति पाका., विकुव्यास- इति भाष्ये. । e) =देश-विशेष- ? । f) वैष १ द. ।  
 g) =तन्त्र-वाप- । व्यु. ? । h) तु. पासा. । 'वेरि' इति भाष्ये. ? । i) =दर्भ- । व्यु. ? । j) विप.,  
 स्वार्थे वा विकारे वा षण् प्र. । k) अत्र. कुशकण्टकम् <> कुशदण्डकम् इति पासे. । l) तु. पागम. ।  
 म) =सप्तदशोऽन्यतम- । n) विप. । यस. । o) कुशाः श् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शथी.) ।



कौशल- पा ५, १, १२०; -ले  
पा ८, ३, ८९.  
कौशलक- पा ५, १, १२३.  
कौशल्य- पा ५, १, १२४.  
कुशल-श्रुत- तम् गोष्ट १, ७, ७.  
कुशला(ल-अ)नामया(य-आ)रोम्य-  
-याणाम् गौष ५, ४२.  
कुशला(ल-अ)थ- -थैः पावा २, ३,  
१६.  
कुशलन्- -थी द्राष्ट २, ३, ३०.  
कुशली/क, कुशलीकुर आष्ट १,  
१७, १७.  
कुशलीकारयन्ति गोष्ट २, ९, २३;  
१०, ६.  
कुशली-कर्व- -उं जैष्ट १, ११ :  
२६.  
कुशली-कृत- -तम् द्राष्ट २,  
४, ७.  
कुशलीकृत-शितम्- -रसम्  
आष्ट १, १९, १०.  
कुशलो(ल-उ)दिष्ट- -ष्टम् निष्ट ९,  
९ : ४६.  
रकुशा(ल>)ला\*-( > कौशलि-  
पा.) पाग ४, १, ९६.  
कुशाहारीत\*--तः आश्रिष्ट ३, ११, २ :  
२२-२३.  
कुशाभ्य\*-- पाउना ४, १०३; पाग ४,  
१, १२३.  
कौशा(म्व>)म्बी\*-( > १ कौशा-  
भ्येय-पा.) पाग ४, २, ९७.  
रकौशाभ्येय- पा ४, १, १२३;  
-याः बौधाय ६ : ३.  
कुशिक\*-- पाउमो २, २, १८; पाग ४,

१, १०४; -कः श्रम २, ३, १;  
३१; १०, १२७, श्रम ३, २२२;  
या २, २५४; -करय या २,  
२५५; -काः आपथो २४, ९,  
१२; बौधाय ३१ : १, ९; ३८ :  
१; द्विथो २१, ३, १२; वृदे ४,  
९८; -कं काः शोथी १५, २७,  
१५; या ७, २; -कान् वृदे ४,  
११५; -कानाम् वृदे ४, ११४.  
कौशिक- पा ४, १, १०४;  
-क आथो १२, १४, ६;  
आपथो २४, ९, १३; बौधाय  
३८-३९ : २; द्विथो २१, ३, १२;  
जैथो ३ : १६; ७ : २, ३; द्राथो  
१, ३, ३, लाथो १, ३, १; द्विष्ट  
१, १७, ३५; वैष ४, १, १०;  
११; -कः वैताथो १, ३; २२, १;  
३६, २१, ४३, ३; कौस् ९, ११,  
४६, १६; ६८, ३७; अय २३,  
१०, ४; ४४, ४, ८; शंष ३७७ :  
७; ३७८; वैष ४, १, १०; अय  
६, ३५, ११७. -करय जैथो  
२२ : ७; जैथोद्वा २१; -कः  
अय १, ६, ९; अय १०, ६;  
-काय अय ४४, ४, १५६; -कान्  
अय ५०, १, ५; -कैय अय २९,  
२, २.  
कौशिको- -नी अय १,  
३, १६; -कयाम् विष ८५, ३१६.  
कौशिकिन्- पा ४, ३, १०३.  
कौशिको(क-उ)क- -कानाम्  
अय २३, ९, ४.  
कुशिक-वत् आथो २४, ९, १३;

बौधाय ३८-३९ : २; द्विथो २१,  
३, १२; वैष ४, १, १०; ११.  
कुशीरक\*-( > कौशीरकेय\* पा.)  
पाग ४, २, ८०.  
कुशीलय\*-- -वः वाध ३, ३.  
कौशीलय-> -व-गन्वा(म्व-  
अ)जन- -नानि गोष्ट ३, १, १७.  
कुशीलय-ता- -ता विष ३७, ३२.  
कुशाल\*-- -कानाम् अय ६४, ४,  
१०.  
कुशेरिका\*-( > कौशेरिकेय- पा.)  
पाग ४, १, १२३.  
कुसमल- पाउना ४, १९५.  
कुथि\*-- पाउमो २, १, २२८; -धिः  
श्रुय २, १७.  
कौधि- -अयः बौधाय ४३ : ३  
✓कुप् पाथा. कया. पर. निवर्क्ये.  
कुपिन्वा पा १, २, ७.  
कोप- पाग २, ४, ३१३.  
कुपय- पाउमो २, २, २१०.  
कुपाकु- पाउमो २, १, ४१.  
कुपीतिक\*-- पाउमो २, २, ४१; पा,  
पाग २, ४, ६९.  
१कौपीतिक- -कः बौधो २, ३ : ५;  
आष्ट ३, ४, ४; कौष्ट २, ५, ३.  
कौरितकायन- पा २, ४, ६९.  
कौपीतिकि- -क्ये बौष्ट २, ५, ६;  
-कः शोथो ४, १५, ७; ७, २१,  
६; ९, २०, ३३; वापूथो ३, ३९-  
२; कौष्ट २, ५, ६; ३, ७, ८; ५, ४,  
१०; गोष्ट ४, ५, ६; आश्रिष्ट ३-  
६, ४ : १६; कौष्ट १, १३ : १७,  
द्विष्ट १० : १४; वृदे ५, ४४;

- a) व्यप. । व्यु. ? । b) = नगरी-विशेष- । c) = श्रुति-विशेष- , वृत्त-विशेष- (पा २, २५) । वेप  
१ द. । d) बहु. < कौशिक- । e) विप. (ज्येष्ठा-नक्षत्र- ) । f) = नदी-विशेष- । g) अर्थः व्यु. च ! ।  
h) = देश-विशेष- ? । i) = गायक- । व्यु. ? < कु- + शील- + √ वा इति अभा. । j) कुसुल- -त्यनेन  
स-न्यायता द. । k) < √ कुश । l) या ५, २६; ६, २२ पा ३, १, ९०; ७, २, ४६ पराश्रुतः द. । m) द्र-  
पायम. । कोश- इति भाट्टा. प्रसृ. ।

-किम् वायु ४, १०, ३; ६, १, १; अथ ४३, ४, २९; -कोत्त्र विद्यु ६, १२ : १३; -कोः शोधौ ११, ११; ११, ३; ६.  
 २कौपीयक<sup>०</sup> -कम् शोधौ ४, २, १३; ११, १४, २०.  
 कौपीयकिन्- -किनः आपथौ १०, १, १०; माथौ १०, १, ५; आयु १, २३, ५; आसिध ३, ६, ४ : ११; वीवि १, १३ : १७.  
 कौपीयकेय- पा ४, १, १२४; -याः वीथीय ४१ : ८.  
**कुपुम-** (>√कुपुम्प वा.) पाग ३, १, २७.  
**कुपुम्प-** -कम् अत्रा ३, ४, ११.  
 √कुपुम्प-क<sup>०</sup> -कः आयु ३, ५, ७;  
 वीथ ३, ५, १०; शायु ४, ५, ८.  
**कुपुचिस्<sup>०</sup>** (>कौपचिक- वा.) पाग ४, ४, १०२.  
**कुपुचिद्-** (> कौपचिक-) वृष्ट-चित्- टि. द.  
**कुपुष्ट-** ३कु- द.  
**२कुपुट<sup>०</sup>**- पाउ २, २; -०ष्ट अथ ५, ४१; -ष्टः अत्रा ३, ४, ११; -ष्टम् कौष ३, ५, २५; अथ ३, ५, २, ३; ९; अथ ५, ४; -ष्टेन अथ १८, ३, १.  
 कुपुष्ट-मांती- सी अथ ३, ५, १, १४.  
 कुपुष्ट-रि(ह>)द्वा- -त्राभिः कौष २८, १३.  
**कुपुष्टिद्-** (>कौपुष्टिक- वा.) वृष्ट-चित्- टि. द.  
 कुष्टिन्- ष्ठी आसिध ३, १०, १ : ५; वीवि ३, ५, २१६; शोध ३७५;

३७७ : १; विध ४५, २; द्विप २, ५, ४६.  
 कुष्ठि-वैत्तिक-वाहण- -णानाम् विध ९, २७.  
 कुप्य्य(शि-अ)समर्थ-लोहकार- -राणाम् विध ९, २५.  
 कुष्ठि-व्याङ्ग- -ञ्जे अथ ९, ४, ५.  
**वेकुष्ट<sup>०</sup>**->कु(ष्ट-क>)ष्टिना- -काः अत्रा ३, ४, ११; -काम् आपथौ १९, ९, ५; द्विथौ २३, १, ४७.  
 कुष्टिका-क्षप- -फाः आपथौ १९, ९, ४; द्विथौ २३, १, ४६१; -फान् आपथौ १९, ९, ७; द्विथौ २३, १, ४७; -फाम्नाम् आपथौ १९, ९, ५; द्विथौ २३, १, ४७.  
**धकु(ष्ठ>)ष्ठा<sup>०</sup>**- -ण्टया<sup>०</sup> आपथौ १०, २५, ६; वैथौ १२, १८ : ८; द्विथौ ७, २, ६२; -ष्ठाः माथौ २, २, २, ३९; -ष्ठासु माथौ १, २, ३, ७; २, २, १, २.  
**कुपुष्टल-** किम्- द.  
**कुपुष्टीन्** आसिध ३, ११, १ : ९.  
**कुपुम्पन्-** पाउना ४, १५९.  
**कुपुमल-** पाउना ४, १९४.  
 √कुप्स पाथा. दिवा. पर. ईरलेपये.  
**कुप्सप-** वृष्ण- टि. द.  
**कुप्सव-सर्पिस्<sup>०</sup>**- -रिषा आपथौ १७, ११, ३; वैथौ १९, ६ : ३५.  
**कुप्सित<sup>०</sup>**- पाउ ४, १०६.  
 कुप्सितावी- पा ४, १, ३७.  
 कौप्सित<sup>०</sup>- -तम् माय १, ६, २; -तान् माय १, ६, ४.

**कुप्सिद्<sup>०</sup>**->कुप्सितावी- पा ४, १, ३७.  
**कुप्सिन्ध<sup>०</sup>**- -धम् अत्रा ३, ४, ११.  
 कुप्सिन्ध-भग-सुपाळ-सुराप्वज- -तान् वीथ १, १०, १८.  
**कुप्सी** अथ ४८, २७१.  
**कुप्सीद्<sup>०</sup>**- पाउ ४, १०६; -द्रम् आपथौ १३, २४, १५१; वीथौ ४, ११ : ८१; माथौ २, ५, ५, १८१; वैथौ १६, २८ : ५१; द्विथौ ९, ६, २५१; गीयु ४, ४, २५१; वाथ २, १९; वीथ १, ५, ७७; वीथ १०, ६; १२, ३३; -देन वीथौ १७, ३८ : १६.  
 कुप्सीद्-वीथय- -तम् विध ४७, १.  
 कुप्सीद्-वृद्धि- -द्विः वीथ १२, २६.  
 कुप्सीदिक- पा ४, ४, ३१.  
 कुप्सीदिन्- -दिनः आथौ १०, ७, ७; शोधौ १६, २, २०; या ६, २६; -दी श्दथ २, ८, ८११; अथे ३, ५८; वृष्ण ३, २०७; तात्र १, १३९; या ६, ३२.  
**कुप्सुण्ड-** पाउना ४, ११४.  
**कुप्सुभ-** पाउमो २, २, २३९.  
**कुप्सुम<sup>०</sup>**- पाउ ४, १०६; पाग २, ४, ३१; ५, २, ३६; -मानि अथ ३, ५, २, ९, ६७, ४, २; -मे नाथि २, ७५.  
**कुप्सुम-सर्पिस्<sup>०</sup>**- -रिः वाथौ ३, ५, २, ४.  
**कुप्सुमा(म-प्रा)शिन्<sup>०</sup>**- -शिनः वैध १, ८, १.

a) शोकार्थे अण्प्र. । b) वैप १ द. । c) पाभे. वैप १, १०९६ h द. । d) अर्थः व्यु च १ ।  
 e) तु. पाका. । कुपुष्टिद्- इति पाणि., कुपुष्टिद्- इति भाष्य. । f) वैप १, ११३१ t द. । g) ष्ठीः इति पाठः ? यनि. शोधः । h) वैप १, ११३१ y द. । i) क्कम<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपथौ.) । j) वैप २, ११३१ r द. । k) पाभे. वैप १, ११३१ s द. । l) पाभे. वैप १, ११३१ j द. । m) =शाय-विक्षिप- ।  
 n) =पुष्प- । व्यु. १ । o) अर्थः ? । नलो. कप. १ । p) =वानरथ- विधेय- । उत. उप. <√षर (मोजने) ।

कुसुमित- पा ५, २, ३६.  
 कुसुमो(म-उ)रुघ-यः अय ६४,  
 ८, ३.  
 कुसुम्म<sup>०</sup>- पाठ ४, १०६; पाग ४, १,  
 ४१<sup>०</sup>.  
 कुसुमो- पा ४, १, ४१.  
 कुसुम्म-कुङ्कुम- -मानाम् शंष  
 १८२.  
 कुसुम्मा(म्-अ)तसी-नातिके-  
 वृक्ष- -शाणाम् वैध्री ११, ११ :  
 ११.  
 कुसुरुविन्द<sup>०</sup>- -न्दः निसू ९, ४ : १;  
 माशि ६८.  
 कौसुरविन्द<sup>०</sup>- -न्दः काश्री २३, ५,  
 २२; २४, ३, १; हिथी १७, ८,  
 ३५; निसू १०, २ : १, -न्दे  
 निसू १०, १२ : १०; -न्देन  
 आपथी २२, २२, ११; २४, ६;  
 हिथी १७, ८, १६.  
 ? कौसुरविन्द-द्वितीय<sup>०</sup>- -यम्  
 काश्री २४, ४, ४८.  
 कौसुरविन्द-वल् आपथी २२,  
 २३, २.  
 कुसुरुविन्दु<sup>०</sup>- -न्दुः शुभ १, ५३१;  
 नाय २, ११८७; -न्दुम् आश्री  
 १०, ३, २३.  
 कुसुरविन्दु-त्रिप्राप्र<sup>०</sup>- -यः शाश्री  
 १६, २२, १४.  
 कुसुल<sup>०</sup>- पाठमो २, ३, ११२; पाग  
 ५, ४, १३८; -ल्यः अया ३, ४,  
 ११<sup>१</sup>.  
 कुसुल-धान्य- -न्यः वैध ३, १,  
 १२.

कुसुल-वाद- पा ५, ४, १३८.  
 कुसुल-थिल- पा ६, २, १०२.  
 कुस्तुमुयु- -नत ४, ६, ५; -रुणि  
 पा ६, १, १४३.  
 कु-स्त्री- किम्-६.  
 ✓कुस्म् पाथा. सुरा. आत्म. उतिसित-  
 रमयेन.  
 कु-स्वप्न- किम्-६.  
 ✓कुह<sup>१</sup> पाथा. सुरा. आत्म. विरमापने.  
 कुहक<sup>०</sup>- पाठ २, ३७; -कः वाघ  
 ६, ४०.  
 कुहक-शठ-नास्तिक-वाल-वाद-  
 -त्रैयु आपथ १, २०, ५, हिथ १,  
 ६, १९.  
 कुह किम्-६.  
 कुहर- पाठमो २, ३, ३९.  
 कुहुड- पाठमो २, २, ११९.  
 कुह<sup>०</sup>- पाठमो २, १, १२५; -हः आश्री  
 १, १०, ८<sup>१</sup>, ६, १४, १५; शाश्री  
 २, २८, ३<sup>१</sup>; वीथी २४, २० : ११;  
 १२; हिथी २१, २, ६७<sup>१</sup>; वागुड  
 ४४ -१३; वैद्य १, १६ : ५<sup>१</sup>; कौसू  
 १, ३०; अय ४८, १२९<sup>१</sup>; वृदे  
 १, १२८; २, ७७; ८, १२५; निष  
 ५, ५<sup>१</sup>; या ११, ३१<sup>१</sup>; ३२<sup>१</sup>;  
 अया ३, ४, १<sup>१</sup>; -हम् पाथाश्री  
 १, १०, ६-८; शाश्री २, २८, ३<sup>१</sup>;  
 आश्री ३, ९, ४, वीथी २४, २९;  
 १४; माथी ३, ७, १६, ८, २<sup>१</sup>;  
 ४, १९, ४, माथी १, ३, ५, ४;  
 वैथी ७, ९ : ३; हिथी २, ५, ९;  
 ६, ४, १, २१, २, ६७<sup>१</sup>, वीथी १,  
 १६; आश्रिय २, १, ५ : २१<sup>१</sup>, वैद्य

१, १६ : ५<sup>१</sup>; अय ३२, १, १९<sup>१</sup>;  
 वृदे ४, ८७; अया ७, ४७<sup>१</sup>; अय  
 २ : ६८<sup>१</sup>; या ११, ३३<sup>१</sup>; -हः  
 पाथाश्री ४, १३, २; ३; माथी  
 ४, १९, ४<sup>१</sup>; माथी १, ४, ३, १<sup>१</sup>;  
 वाथी १, १, ४, ९<sup>१</sup>; हिथी ६, ४,  
 १<sup>१</sup>; वृदे ४, ८७; -हाम् आश्री  
 ४, १, १५; -है शाश्री ९, २८, २;  
 वीथी ८, २२ : ११<sup>१</sup>; १२, ४ :  
 २२; माथी ३, ८, १<sup>१</sup>, माथी २,  
 ५, ५, ११; वैथी १६, २० : १९<sup>१</sup>;  
 आश्रिय २, १, ५ : २३<sup>१</sup>; वाय  
 १३, १; वैद्य ३, ७ : ४; -होः  
 हिथी २१, २, ६७.  
 कूच- पाठमो २, २, ७१.  
 कूचवार<sup>१</sup>- > २ कौचवार्य- पा ४,  
 ३, १४.  
 २ कूचवार- (> कौचवार-) कुचवार-  
 टि. ३.  
 ✓कूल् पाथा. भ्वा. पर. अर्थके रुन्दे-  
 कृतित- > एत-सश्लिभ- -भेन  
 माशि ४, ५.  
 ✓कूर् पाथा. सुरा. आत्म. आपदाने;  
 उभ. परितापे.  
 कूट, टा<sup>०</sup>- पाग २, ४, ३१<sup>०</sup>; ४, २,  
 ८०<sup>१०</sup>, ६, २, ८५<sup>१</sup>; -टः आपथी  
 २२, २१, ५; हिथी १७, ७, २९;  
 -टम् आपथी ९, १४, १४<sup>१</sup>;  
 माथी ९, १६, १७; हिथी १५,  
 ४, २१; -टाः आपथी २२, ४,  
 २४; हिथी १७, २, २८; -टानि  
 कौसू १६, १६; -टाम् वीथी १२,  
 ५ : २३; आश्रिय ३, ५, ३ : १;

a) = महाजन-। ध्यु. ? < ✓इस इति अभा. । b) तु. पागम. । c) वैप १ द. । d) = कटु-विशेष-।  
 तेनद्वितीयः अणु प्र. । e) ण्वि इति पाठः ? यनि. श्लोचः । f) = अयि-विशेष-। ध्यु. ? । g) = कटु-विशेष-।  
 h) = 'णु'। नाप. । ध्यु. ? । i) वैप १, ११३२ III द. । j) विरमापने, विरमारणे इत्यपीति BPG. । k) = चक्र-।  
 l) = नगर-विशेष-। ध्यु. ? । m) ✓कुल् इति BPG. । n) अयदाने इत्येके । परिदादे इत्यपे । o) अया. ।  
 वैप १ निर्दिष्टयोप संनिवेशः द. । p) अर्थः ? । q) वृद्- इति [पक्षे] भाएडा. ।

बीणि १, ३: १; -दे सु १३, १;  
-देन हिय १, १५, ६५.  
कौटिक-, टीय-, ४२- पा ४,  
२, ८०<sup>३</sup>.

कूट-कर्ण-काण-खण्ड-खञ्ज-पृष्ठ-जण्ड-  
झुलण-सप्तशफ-वर्जम् वैथी १०,  
१: १३.

कूट-कर्ण-काण-खण्ड-जण्ड-झुलण-  
सप्तशफ-वर्जम् आपथी ७,  
१२, १.

कूट-कारक- -कः शंभ २०१.  
कूट-तद्ध- -तद् पावा ६, १, ६७.  
कूट-तुलामान-प्रतिमान-स्यव-  
हार- -रे शंभ ३१६.

कूट-दन्त<sup>०</sup> - -न्तात् आयमं २, १३,  
१२; आग्रिय २, १, ३: २१;  
भाय १, २३: १३; हिय २, ३, ७.

कूट-लेख-कार- -राम् विध ५, १०.  
कूट-वादिन्- -दिनः विध ५, १२३.

कूट-न्यवहारिन्- -री शंभ ४०३;  
४०४; ४१४; विध ५४, १५.

कूट-शासन-कर्तृ- -सुन् विध ५, ९.  
कूट-शासन-प्रयोग- -गे शंभ ३१६;  
कूट-साक्षिन्<sup>०</sup> - -क्षिणम् विध ८,  
१६; -क्षिणाम् विध ५, १७९;  
८, २५; ३७; १०, ९; -श्री शंभ  
३७७, ९; विध ८, ४०; ५४, ९.

कौटसाक्ष्य- -क्षयम् विध ३६,  
२; गौष २१, १०.

कूट-स्थ- -स्थेयु अप ५२, ११, ४.  
कूट-स्थान<sup>०</sup> - -नामि अप ५२, ११, १.

कूटा ( १२८ )-कौ-काण-खण्ड-जण्डा-  
(शड-अ)पञ्चदत्- -नतः वाथी १,  
६, ३, २६.

कूटा(ड-अ)ध-देविन्- -विनाम् विध

५, १३४.  
कूटा(ड-अ)गार-प्रमाण- -जैः विध  
४३, ४४.

✓कूड् तुदा. पर. पसने<sup>०</sup>.

✓कूण् पाधा. सुरा. उभ. सीकोवने.

कूती<sup>०</sup> > कूती-पलाश-मा (त्रा >)  
त्र- -त्रय् माथी १, ६, ४, १४.

कूदी<sup>०</sup> - -दीम् कौत् ७१, २१; ८०,  
३३; ८६, २४; -द्या कौत् ८६,  
२२; -द्याः कौत् ७१, ११५.

कूदी-भ्रान्त- -भ्रान्ति कौत् २१, २;  
३५, २४.

कूदी-म(य>)थी- -थी कौत् २१,  
१३.

कूटु(दी-उ)पस्ती(यं>)र्णा-  
-र्णायाम् कौत् ४७, ३०.

✓कूप् ✓कूप् ड.

कूप<sup>०</sup>- पाउ ३, २७; पाण ४, ३, ८०<sup>३</sup>;  
५, १, २; -पः अप ७१, १४, ३;  
निप ३, २३५; या ३, १६५;  
-पम् वीथी १, १९: ४१; आय;  
या ४, १८; -पित्त अप ४८, ७७;  
निघ ३, २३; -पात् वीथ २, ३,  
७; विध २३, ४४; ५४, २;  
-पात् वीथ २, ३, ६; -पानाम्  
अप ७०<sup>३</sup>, २, २; -ये विध २३,  
४५; वैध २, १४, २; वृदे ३,  
१३२; या ४, ६; अभा ३, ४, १५;  
-येभ्यः हियि १८: १७<sup>३</sup>, १८;  
-येषु पा ४, २, ७३.

कूप-कच्छप- पाण २, १, ४८; ६,  
२, ८१.

कूप-कर्तृ- -तुं विध ९१, १.

कूप-कर्मन्- -मंगा या ५, २६.

कूपका- (>कूपकि-) कूप-

दि. द.  
कूप-चूर्णक- पाण २, १, ४८; ६, २,  
८१.

कूप-नामन्- -नामि विध ३, २३;  
या ३, १९.

कूप-पतन- -ने काप २७६: १.

कूप-पर्येत- -ताः अप ७१, ४, ४.

कूप-पर्यु<sup>०</sup>- -शिवः या ४, ६.

कूप-प्रक्षवण- -णेषु अप ६८, १,  
१७.

कूप-विल- पा ६, ३, १०२.

कूप-मण्डक- पाण २, १, ४८; ६,  
२, ८१.

कूप-यत्- -यस्य काण ७१, १३.

कूप-वन् विध २३, ४६.

कूप-वारी- -पीषु वीथ १, ५, ५५.

कूप-वारी-तडाग- -गानाम् अप ३२,  
१, ६; -गेषु अप ३२, १, ३.

कूप-सेतु-तडाग-विप्र-वेवतापतन-  
भेदन- -ने काप २७०: ८.

कूप-स्थ- -स्थानि कप्र १, १०, १४.

कूपा(प-आ)दि- -दीनाम् अप ३९,  
१, ५; -देः अप ३९, १, १२.

कूपा(प-आ)राम-तडाग- -गेषु विध  
९१, १९.

कूपिक<sup>०</sup>- पा ४, २, ८०.

कूपी(प-इ)ष्ट(क>)ज्ञा- -कामिः  
वृदे ३, १३५.

१कूप्य- पा ५, १, २.

२कूप्य, न्या- -न्याः काथी १५,  
४, ३५; वीथी १२, ८: ११;  
माथी ६, १, ५, २२; कौष ५, ५,  
६५; पाण्ड ४, १५; -न्यात् वैध २,  
१३, ६; -न्यानाम् आपथी १८,  
१३, ६; वाथी ३, २, १६

a) =देश-विशेष- ?। b) विप्र. । वस. पृ. = उन्नत- । c) विप. । वस. । d) पाठः ? यति.

गोषः । e) वृ. BFG. । f) अर्थः स्तु. व. ? । g) वैप १ द. । h) अर्थः ? । सङ्ख. कूपका- इति पाठः ।

३) पस. सप. = इष्टका- ।

हिथी १३, ५, १४; -न्प्याभ्यः  
आपथी २०, ११, १७; आसिष्ट  
२, ४, ३ : १३; वैष्ट १, ४ : २.

कूपत्- पाग १, ४, ५७.

कूपर- पाउभो २, ३, ७४; -रम् वीथी  
१२, १२ : ९; १३ : २४; १८,  
२४ : १४.

कूपरी- रोम् पाण्ड ३, १४, ५.

कूपर-बाहु- ह्य गोष्ट ३, ४, ३०.

कूपर- राः पाण्ड १, १६, २४३.

कूप- पाउभो २, २, ७३; पाग २, ४,  
३१; -चं: शाथी ४, २१, २५;

द्वैताथी ३६, २३; आसिष्ट १, ५,

१ : ३; २, ६, ६ : ७; वीष्ट १, २,

१५, द्विष्ट १, १२, १६९; -चंम्

द्राथी ४, २१, २; १७, ४, ५;

वाथी ४, १३, १४, वीथी;

-चंथो: काथी २०, २, १९, वीथी

१६, २१ : ८; द्विथी १६, ६, ४५;

-चंथ्य काष्ट ६, ३; -चंत् द्राथी

१०, ४, ७; १४; लाथी ३, १२,

१४, द्वैताथी ३४, ७, ८; वीष्ट १,

२, ५; -चंथ्याम् आपष्ट १३, ७,

१०; आसिष्ट २, ६, ६ : ९, वीष्ट

१, २, १९, २६; ३०; ३३, ४०;

-चं आथी १०, ६, ११; काथी

४, १४, १६, २०; आपथी;

-चंत् भाष्ट २, २३ : ३, वैष्ट १,

९ : १६ x x; -चंत् आपथी २१,

१७, १५; द्विथी १६, ६, १३; पाण्ड

३, ८, ११; -चं: वैथी १२, ७ :

१२; आसिष्ट २, ४, ६ : ६; -चं

आपथी २१, १७, १४; २१, ७;

वीथी १६, २० : ४; २१ : ३;

लाथी ३, १२, ६; वीष्ट १, २, ६.

कूप-त्रय- न्यम् आसिष्ट २, ६, ६ : २.

कूप-फलक- के द्विथी १६, ६, १२.

कूप-स्थान- ने काथी ४, १४, २८.

कूर्वा(वे-अ)श्वत्-सुवर्ण-रत्न- ज्ञानि

वैष्ट ४, ११ : २.

कूर्वा(वे-अ)दि- वीनि गौष्ट १०,

५८.

कूप- पाउभो २, २, २०८; पाग ५,

१, २०.

कूपर- पाउभो २, २, ३९; -रम् याति

१, २०.

कूर्पास- पाउभो २, ३, १७८.

कूर्म- पाउभो २, २, २४७; -मं:

आपथी १६, १३, १०; वैथी;

-मंम् काथी १७, ४, २७;

आपथी १६, २५, १; वीथी;

-मंथ्य आपथी १, २५, ४; माथी

१, २६, २; वाथी, -मं: अप

६२, ३, २; वृद्ध ७, ७९; वीष्ट

२० : २; -मं वीथी २, ५ : ३९.

कूर्म- मीं उनिष्ठ ४ : ३५.

कौर्म- न्यम् गुञ्ज २, १६३.

कूर्म-चित्- विष्ठ वीथी १७, २० :

६, ९, -चिगम् वीष्ट २० : १.

कूर्म-चित्- चत् पाण्ड १, १४, ५

कूर्म-गुण- न्यन्तम् आपथी १७

१३, ६; वीथी १०, ५० : २३९,

२४, वैथी १९, ६ : ७२; द्विथी

१२, ४, ९.

कूर्म-प्रकार- न्यम् वीथी १, ९ : १४.

कूर्म-प्रवेश- दो काष्ट २७६ : ७.

कूर्म-प्रकार- वीं अप ३९, १, १०.

कूर्म-व्यस- न्यम् चव्यु २ : ३२.

कूर्म-वत् काथी १७, ९, ६.

कूर्मा(मं-अ)कृति- -विष्ठ माथी

१, २, ३, २२; ३, ६, १६.

कूर्मा(मं-अ)ज्ञ- ज्ञानि नाति १, ६,

१२.

२कूर्म- मं: अष्ट २, २, २७; गुञ्ज ३,

२११; ४, ३६.

✓कूल पाया. भा. पर. अक्षरयो,

कूलवत् आथी ६, ६, १.

१कूल- पाग ५, २, १३६; -लम् वीष्ट

४, ३, ७; विष्ट ६३, ४८०; या ६,

१९; -लस्य आपथी ११, २०,

८, द्विथी ७, ८, ५१; -लात् वैथी

१२, १४ : १३; वाध ६, १६;

-लानि या ६, ४; -लेन आथी

२३, १२, २३, १३, १३.

कूल-कय- पा ३, २, ४२.

कूल-तीर-नूल-मूल-शाला(ला-अ)स-

सम- नम् पा ६, २, १२१.

कूलम् उद्वहन, उद्वह-पा ३, २,

३१; पाया १, ३, १०.

कूल-मृत्तिहा- का: अप १, ४३,

७.

कूल-वत्- पा ५, २, १३६.

कूल-शातन- नः या ६, १७.

कूल-सूत्र-स्थल-कय- पा: पा ६,

२, १२९.

कूला(ल-आ)दि- दोनाम् पावा ६,

२, १२१.

कूलिन्- पा ५, २, १३६.

कूल्य>क्या- कया आसिष्ट २,

६, ४ : १०; ११; १२; १३; ३, १,

२ : ६; २, ५, १२९; ७ : ५, द्विष्ट

२, ११, १, १५, ७.

a) वैष १३. b) = स्थेया-। c) = शालग्रह-विशेष-। द्यु. ?। d) कर्ष्यः द्यु. च ?। e) दु-  
पागम्. = देव-। f) = सतीपात्र-। कुरोषि-। द्यु. ?। g) = छन्दो-विशेष-। h) विर-। सास्वदेवनीयः  
व्यम् प्र. वसं. (पा ४, २, ३०)। i) = स्थण्डिल-विशेष-। j) = उद्वह-शराव-। द्यु. ?। k) विप-। वस-।  
l) = परिदिष्टा-न्यतम-। समासः ?। m) व्यप-। द्यु. ?। n) कूपम् इति जीर्ण-। o) = अस्या-कृत्रिमा-सरित्-।

२कूल- (> कौलक- पा.) पाग ४, २, १२७.

कूलास- (> कौलास- पा.) पाग ४, २, ७५.

कूकूल्यजम् अत्रा ३, ४, १; वंवि २, ५.

कूचाचर- (> कौ) कुचवाट-टि. द्र. कूमाण्ड- पाठगो २, २, १७७;

-ण्डम् शंघ ११६:२८; -ण्डानि वीथी २, ११; २३; वीथ २, ९, ५; भाय ३, १५३; वाघ २८, ९; ११; वीथ १९, १३; -ण्डैः वीथ २, १, ५८; ३, ७, १; वीथ २०, १२; २२, ३८; २४, ११.

कूदमाण्डो- ण्डव्यः आग्रिण २, ६, ५; ९; वीथ २, ९, ५; ११; भाय ३, १५; ६; १८; वीथ ३, १०, ११; ७, ५.

कूदमाण्ड-दोम- सम् वैप ३, २१ : २; -मन् वीथी १, ४; ५.

कूम्माण्ड- ण्डैः वाथी १, ४, १, ६; आग्रिण २, ४, ४; १; वाघ २३, २१; शंघ ४४३; सुधय ८६: ६.

कूम्माण्डो- ण्डोः विध ८६, १२; शुभ २, ४१४; -ण्डोभिः शंघ ३७२; विध ८, १६; -ण्डव्यः आग्रिण २, ४, ५; ८; अघ ४६, ७, ४; शंघ १०५; वीथ ४३, ७;

विध ५६, ७. कौम्माण्डिक- कम् अघ ४२, २, १०.

कूम्माण्ड-राजपुत्र- अघः वैप ६७:६; भाय २, १४, २; २९; -त्राय भाय २, १४, २७.

कूम्माण्ड-वत् अघ ५२, १२, ४. कूष्ठः कथ २, ५, ७४.

✓कूष्ठ<sup>१</sup> पाषा. खा. तना. उभ. करणे, करते श्रमा ७. २२; करति आथी ५ २०, ६; आपथी १६, ७, ४; हिथी ११, २, २; अघ १९, १६; श्रमा ४, ४५; पा ८, ३, ५०; ककरतः आपथी १४, २९, १; या ३, १५; करन्ति या ३, १०; ककरति वीथी १८, ५: १; आग्रिण ३, ६, १; ४; वीथि १, ८; ४; कथः श्रमा ४, ६०; करामहे वीथी ११, ६; १८; ककरत् आथी ३, ४, १५; आपथी ४, २, १; वीथीः भाथी ४, २, ३; हिथी १, २, ५; आपमं १, ४, ५, ५, ७; वीथ १, ४, १८; पा ८, ३, ५०; करन् माथी ५, २, ९, ६; श्रमा ९, ४९; कर. श्रमा ४, ६३; करामः वीथू ९६, ३; कराय वीथू २, ३६; करते काथी २५, ११, २१, ककरत् आग्रिण ३,

७, १; ९; वीथि १, १७; ९; करताम् माथी ५, २, ९, ६; कर > रा<sup>१</sup> श्रमा ४, ६२.

कृषे या ५, २५; कृषः श्रमा ८, ८; कृष् > वा श्रमा ७, ३३; कृषि आथी ३, ८, १, ११, ११; वाथी ३, २०, २१; ८, ४, ३; काथी २५, ११, २१; आपथी ३, १२, १; ४, १५, १; १९, २४, ८; २२, २६, ७; वीथी; भाथी ३, ११, १; माथी ३, २, १; वाथी १, ३, ७, १२; हिथी २, ६, १२; आपमं १, ४, ६; १५, २५; २, ४, २; वीथ १, १९, १०; शाय १, २७, ७; आग्रिण १, १, २, ५, ३; हिथ १, ४, ११; अत्राय २, ४; पा ८, ३, ५०; कर्त्त (>)ना श्रमा ८, ३३.

कृष्णुने<sup>१</sup> पाय ३, २, २; भाय; जंघ २, ३; ५; या ३, १५, ५, १९; कृष्णोति<sup>१</sup> भाय २, १७, १; अत्राय; या ९, १४; १७; कृष्णतः आपमं १, ११, ११; कृष्णतः हिथी ११, ३, २४; कृष्णते आपथी १६, १८, ७; वीथी; कृष्णवति आपथी १२, २६, १७; वीथी; कृष्णोपि

a) = देश-विशेष-। व्यु. १। b) अर्थः व्यु. च १। c) वैप १, ११३३ B द्र.। d) = विनायन-विशेष-। व्यु. १। e) = मन्त्र-विशेष-। व्यु. १। f) = सक्त-विशेष-। g) मत्तो. कम.। h) वैप १ द्र.। i) कत ४, १, १, ५, ५ वीथ ४, ५८ या २, ८ वा १, ३, ३२; ६३; ७१; ७९; ४, ५३; ७२; ९८; २, ३, ५३; ४, ८०; ३, १, ५९; ४, ७९; ४, १, ४३; ५, ४, ५०; ६, ४, १०२; ७, २, १३; ८, ३, ४६ पावा १, ३, ६२; ७९; ४, ५३; ३, १, २५; ६, १, १२; ४, ११०; ७, २, १०; १३; ४, १० परामृष्टः द्र.। j) पामे. वैप १, ११३४ h द्र.। k) पामे. वैप १, ११३६ f द्र.। l) पामे. वैप १, ११३५ B द्र.। m) पामे. वैप १, ११३८ j द्र. (तु. टि. स्थवे)। n) पामे. वैप १, ११३४ i द्र.। o) वैप १, ११३५ f द्र.। p) वैप १, ११३५ g द्र.। q) पामे. वैप १, ११३५ j द्र.। r) पामे. वैप १, ११३६ f द्र.। s) पामे. वैप १, ११३६ d द्र.। t) पामे. वैप १, ११३५ k द्र.। u) पामे. पुरा (कृष्णे) वी ७, १०, १ टि. द्र.। v) पामे. वैप १, ११३६ d द्र.। w) पामे. वैप १, ११३६ h द्र.। x) पाठः १ श्रुत [मपुत्र] ति शोषः (तु. वैप २, ३: ५ प्र.)। y) पामे. (३, १, ८०) वैप १, ११३६ h द्र.। z) पाठः १ श्रुत [मपुत्र] ति शोषः (तु. वैप २, ३: ५ प्र.)। w) पामे. (३, १, ८०) वैप १, ११३६ h द्र.। x) पामे. वैप १, ११३७ p द्र.। y) सपा. वै २, ७, ७; ३, १, ९ कृष्णतः इति पामे.।

आपमं १, ५, १२<sup>०</sup>; वायुः ऋण्युष,  
 > या अक्ष ६, २२; ऋष्या ७, १०;  
 ८, २०; ऋण्योमि आधौ ३, १२,  
 १४; आपधौ ७, १०, ५<sup>०</sup>; बीधौ  
 ४, ६; ४<sup>०</sup>; ११, ४; २४<sup>०</sup>; १५,  
 २९; २०<sup>०</sup>; माधौ ७, १२, ८<sup>०</sup>;  
 माधौ; वैधौ १०, १४; २<sup>०</sup>; हिधौ  
 ४, ४<sup>०</sup>; आपमं १, ५, १०<sup>०</sup>; १०<sup>०</sup>;  
 कृणमसि कौसु १२, ११<sup>०</sup>; ऋण्यवत्  
 काधौ १०, ९, ८; बीधौ ८, १८ :  
 २; माधौ २, ५, ४, ४<sup>०</sup>; आपमं  
 २, ११, २८; कृणवत् शोधौ १२,  
 १८, ११<sup>०</sup>; ऋण्यवत् आपधौ  
 १६, १२, १; या ४, २०; २५;  
 कृणवत् आधौ ३, ४<sup>०</sup>; ऋण्योतु  
 आधौ १, ६, ५<sup>०</sup>, २, ११, १२<sup>०</sup>;  
 शोधौ १, ९, २; ३, ६, २<sup>०</sup>, ९, २८,  
 ३<sup>०</sup>; आपधौ ६, ३०, १०<sup>०</sup>, बीधौ  
 ३, १२ : १०<sup>०</sup>, माधौ ६, १७,  
 १७<sup>०</sup>; माधौ १, २, ४, ५<sup>०</sup>, ६, ४,  
 २६<sup>०</sup>; वाधौ १, १, २, १९; हिधौ  
 ६, ८, १<sup>०</sup>; वैताधौ १७, ७;  
 आपमं १, ८, १०<sup>०</sup>; २, ४, ४<sup>०</sup>;  
 कौय ५, ८, ५, पाय ३, १, ४<sup>०</sup>;  
 ३, ६<sup>०</sup>; आपय ११, ६<sup>०</sup>; माय २,  
 ८, ६<sup>०</sup>; हिद्य १, ७, ११<sup>०</sup>; कौसु  
 ४२, १७<sup>०</sup>; ऋण्युनाम आधौ २,

१०, १६; आपधौ; ऋण्यवत्  
 आपधौ १६, ४, ५; बीधौ;  
 ऋण्यवत् आधौ ४, ६, ३; शोधौ;  
 आपमं १, ६, ४<sup>०</sup>; माय १, १३,  
 ६<sup>०</sup>; या १२, ८<sup>०</sup>; कृणु बीधौ  
 १, २० : २५; जैधौ; ऋण्युहि  
 आधौ ४, ४, २; शोधौ ३, १९,  
 ३<sup>०</sup>; माधौ ६, २, ३, ८<sup>०</sup>; वैताधौ  
 २५, १४<sup>०</sup>, कौय २, ५, १२<sup>०</sup>; वायु  
 ५, ९<sup>०</sup>; या ५, १५; ६, १०; ८,  
 ६; ऋष्या ८, ४२; कृणुनाम आधौ  
 ४, १३, ५<sup>०</sup>, बीधौ; ऋण्युष्वम्  
 आपधौ १४, १७, १××; वाधौ;  
 या ५, २६, १२, ४३; ऋण्युत्  
 शोधौ २, ८, ८<sup>०</sup>; काधौ ७, १, १५<sup>०</sup>;  
 आपधौ २, २, ६; ६, १०<sup>०</sup>; १०,  
 १२, ४<sup>०</sup>; बीधौ; कौपि ३, २,  
 १०<sup>०</sup>; ऋण्युत्वात् आधौ ३, ३,  
 १<sup>०</sup>; शोधौ ५, १७, ५; माधौ २,  
 ५, ५, २१<sup>०</sup>, ऋण्योतु बीधौ १७,  
 ४२ : १२<sup>०</sup>, वैताधौ १०, १७;  
 आपमं २, ९, ६<sup>०</sup>; आपिद्य १, ३,  
 ५ : १४<sup>०</sup>; माय २, २२ : १५<sup>०</sup>;  
 ऋष्या ५, ५९<sup>०</sup>; ७, ४२; कृण्यवत्  
 या ४, १६<sup>०</sup>; ऋण्यवाम शोधौ  
 १२, ४, १३, आपधौ, ऋण्यु-  
 ण्योत् बीधौ १, १५ : २१; वायु

१४, १<sup>०</sup>; या ५, ३; ६, २;  
 तैषा ११, १७; ऋण्युनाम पाय  
 २, ६, १२<sup>०</sup>; ऋण्यवत् अय १,  
 ५१, १; या २, २५; ५, २५;  
 ऋण्यवत् आपधौ १२, ७, १०;  
 हिधौ ८, २, ९; कौसु ५, ६; ५९,  
 ११; या ७, २८; अयं २ : १७८;  
 ऋष्या २, ७२; ऋण्योः शोधौ १२,  
 १६, ११<sup>०</sup>; ऋण्युनाम शोध ३, ४,  
 १७<sup>०</sup>; ऋण्युनाम हि भाधौ १०,  
 १८, १०<sup>०</sup>.  
 कुरुते शोधौ ७, ७, ४; काधौ,  
 कुरुते आधौ १, ११, ४; शोधौ;  
 बीधौ २७, २ : २०<sup>०</sup>; पा  
 ४, ४, ३४; पावा ३, १, २६;  
 कुरुतः काधौ १५, ७, १३;  
 आपधौ; कुरुते आधौ ३, ६, २५;  
 शोधौ; कुरुन्ति आधौ ६, १०,  
 १; शोधौ; हिधौ २४, ५, ५<sup>०</sup>;  
 कुरुते आपधौ ९, १८, ९<sup>०</sup>;  
 कुरुतः या ३, १५; ऋण्योमि  
 आपधौ २, ८, ६; १०, ६<sup>०</sup>; ७,  
 १७, ६<sup>०</sup>; बीधौ १, १४ : ४<sup>०</sup>××;  
 भाधौ; माधौ १, २, ६, १९<sup>०</sup>;  
 आपमं १, ५, १६<sup>०</sup>; १३, १<sup>०</sup>; कौय  
 १, १०, ३;<sup>०</sup> शोध १, २८, १<sup>०</sup>;  
 आपमं २, १२, ६<sup>०</sup>; १४<sup>०</sup>, ५-९;

- a) पामे. वैप १, ११३८ ० द.। b) पामे. वैप १, ११३८ n द.। c) पामे. वैप १, ११३९ 1 द.।  
 d) पामे. वैप १, ११३९ p द.। e) पामे. वैप १, ११४० g द.। f) पामे. वैप १, ११०९ f द.। g) पामे.  
 वैप १, ११४५ k द.। h) पामे. वैप १, ११४० l द.। i) पामे. वैप १, ११४० m द.। j) पामे.  
 वृ ४४७ j द.। k) सपा. कृण्योतु <> दधातु इति पामे.। l) पामे. वृ २६२ g द.। m) पामे. वैप १,  
 ११४१ ७ द.। n) पामे. वैप १, १७१० b, परि. वेदि मै १, ४, ३ टि. द.। o) पामे. वैप १ पिपुहि ते २-  
 ५, १, १ टि. द.। p) पामे. वैप १, ११४५ q द.। q) सपा. शौ २, १३, २ कृणुत् इति पामे.। r) सपा.  
 कृणुत् <> करिष्यत् <> मकारे इति पामे.। s) पामे. वैप १, ११४२ j द.। t) कुरुत् इति भैत्।  
 u) पामे. वैप १, ११३९ n द.। v) पामे. वैप १, ११३५ ० द.। w) पामे. वैप १, ११४३ g द.। x) वैप  
 १, २९८ ० द.। y) क इति पाठः १ यनि. शोधः। z) पामे. वैप २, ३६. कुरुमि तैषा ३, ७, ५, २ टि. द.।  
 a') पामे. वैप १, ११३८ 1 द.। b') पामे. वैप १ परि. अस्तु मा ३, ६२ टि. द.। c') पामे. वैप १, ११३८ B  
 द.। d') पामे. वैप १, ११४५ b द.।

गाय१, १६, ६<sup>०</sup>; गाय११, ७<sup>०</sup>; हिण  
१, २५, १<sup>०</sup>; २, ३, १०<sup>०</sup>; तैसा ८,  
३०; कुम्हे शांती १५, २६,  
१<sup>०</sup>; कुम्हे-वीथी १०, ५१; १०<sup>०</sup>;  
जिथीप; नृकरवत् काथी १२, २, ८;  
दिधी १६, १, २६; कौव १७, ७;  
नृकरवः<sup>०</sup> आसिण ३, ६, १, २; २;  
वीथि १, ८; २; नृकरोत् आथी  
२, ७, ११; शांती ७, १३, १<sup>०</sup>;  
आपथी २, ११, १०<sup>०</sup>; ६, ११, ५<sup>०</sup>;  
१५<sup>०</sup>, २, २; ६; नृकुरतात् काथी  
६, ८, १; आपथी; नृकुर्वताम्  
अप १, ११, ४; ३९, ४; असा १,  
४; नृकुर्वन्तु आसिण २, ५, ११;  
२४; गायः कुरुव्य आपथी १२,  
२६, ४<sup>०</sup>; वीथी; नृकुर आथी  
२, १६, १९; ६, ३, २२<sup>०</sup>, शांती;  
माथी १, २, ५, १०, ६, ३, ७<sup>०</sup>; २,  
१, ३, ४<sup>०</sup>; आपां १, ४, ६<sup>०</sup>, २, ६,  
१२<sup>०</sup>; ८, ७<sup>०</sup>; हिण १, १०, ६<sup>०</sup>;  
२०, २<sup>०</sup>; कुरुकुरु अप ३६, १,  
१४<sup>०</sup>; नृकुरताम् आपथी ६, २१,  
१; वाधूथी १, ५, ४; २; कुरुव्यम्  
वीथी ७, १३; ६×४; वीथी;  
या ५, २६; १२, ४; कुरुत शांती  
७, २१, २३; आपथी १०, १६,  
१६<sup>०</sup>; वीथी, नृकरोत् वीथी २,  
१, ३४; ७, २, ११; कुरुत निष  
७, १<sup>०</sup>, या ७, ७; कुरुतात् हिथी

१४, १, २५<sup>०</sup>; नृकरवै वीथी  
२८, ९; २०; आण; करवाणि  
आथी ६, ५, ३; वीथी; विष  
७३, १२<sup>०</sup>; करवाणवै वीथी  
१८, ४४; २०; अकुरुत वीथी  
८, १९; १२<sup>०</sup>; अकरोत् वाथी  
३, ४, १, ३०<sup>०</sup>; हिथी; या ५, ३;  
६, ३; ८, १४; अकुरुत वीथी १४,  
८; १<sup>०</sup>; २; ४<sup>०</sup>; ५; ६; आसिण  
३, २, ४; १२; गाय २, ८, ४<sup>०</sup>;  
या ५, २५; तैसा ५, ७<sup>०</sup>; अकुरुवन्  
या ७, २८; नृमकुरुताम् शांती  
८, ११, १३; अकुरुवन् आपथ  
१, १३, २०<sup>०</sup>; हिथि १, ४,  
३३; कुर्वन्त आथी ६, ९, १;  
शांती; कुरावत् आथी १, ३,  
२२; शांती; कुरावताम् जैथीका  
३९२; दाथी; कुर्वन्तु शांती  
१३, २०, ४; काथी; कुरुतः आथी  
६, ११, ६; शांती; कुरावत्  
आपथी १२, १५, २×४; हिथी.  
चके वीथी १२, ९; ९<sup>०</sup>; वाधूथी;  
नृचकार आथी २, २, ३; शांती;  
नृचक्रतुः शांती २, ६, २१;  
आपथी; चकिरे नृवापथी ५, ६,  
३; १९, ३; वीथी, चक्रुः सु ७,  
४; हिण, चक्रुषे कौट २, २१<sup>०</sup>;  
चक्रुषे वीथी १८, २६; १६,  
५; नृया ३, २१; ६, ३; नृचक्रतुः

या ६, २६; २, ४१; नृचक्रुः<sup>०</sup> का  
आपथी १४, १६, १; हिथी;  
नृचक्रुः<sup>०</sup> मा आथी ६, १२, ३;  
शांती; नृकर्तास्मः दाथी ७, ३, ६;  
लाथी ३, ३, १०; करिव्यन्ति  
शांती १, ४, ५<sup>०</sup>; आपथी; या १,  
४<sup>०</sup>; ५<sup>०</sup>; करिव्यन्ते शांती ३, ८,  
२३; करिव्यन्ति या ४, २०;  
करिव्यन्ति सु ६, ४; १४, ५;  
करिव्यन्त आथी २, २, १५<sup>०</sup>;  
करिव्ये आपथी ७, ४, १<sup>०</sup>; माथी;  
आण ७, ७, १८<sup>०</sup>; करिव्यामि  
शांती १, ४, ५<sup>०</sup>; काथी; कौव ३,  
५, १<sup>०</sup>; गाय ७, २, ३८<sup>०</sup>; वीथ  
२, ८, ७<sup>०</sup>; हिण २, ५, ४६<sup>०</sup>;  
करिव्यामहे पाण ३, १०, १३;  
करिव्यामः वीथी २, ४; १७;  
२०; जैथी; क्रियात् आसिण ३,  
१०, ४; ९; नृक्रियासम् आथी  
१, ११, १; शांती; नृमकुर आथी  
१, ९, १; शांती; या ७, १६; नृच-  
करवत् आपथी १४, ३१, ३; हिथी;  
आपथं १, १, ९<sup>०</sup>; अकारवत्  
आपथ १, २६, १३<sup>०</sup>; हिण;  
नृमकः आथी ३, १३, १२;  
शांती; आपथी ९, ४, १<sup>०</sup>; माथी  
९, ४, २२<sup>०</sup>; वीथी २०, ९; ४<sup>०</sup>;  
हिथी १५, १, ७५<sup>०</sup>; पा ३, १,  
४२; नृचक्रुः आपथी १२, १५,

- a) पांमे. वैप १, ११४५ b) द्र. । b) पांमे. वृ ११२० d. । c) पांमे. वैप १, ११३८ f. ।  
d) पांमे. वैप १, ११३८ d. । e) = सपा. तैसा ६, १, ४। ऋ १०, १६, १ शौ १८, २, ५ तु कृणवः इति पांमे. ।  
f) पांमे. वैप १, ११४० i. द्र. । g) पांमे. वैप १, ११४०-1 द्र. । h) पांमे. वैप १, ११२४ m. द्र. ।  
j) पांमे. वैप १, ११४५ q. द्र. । j) सपा. कुरु <> कुरु इति पांमे. । k) पांमे. वैप १, ११४१ h. द्र. ।  
l) पांमे. वैप १, ११४१ o. द्र. । m) पांमे. वैप १, ११४१ p. द्र. । n) पांमे. वैप १, ११४० m. द्र. ।  
o) सपा. करवाणि <> करिव्ये <> करिव्यामि इति पांमे. । p) पांमे. वैप १, ११४५ f. द्र. । q) = अकारवत् ।  
r) अकुरुवन्ति इति पाठः ३ यति. शीघ्रः ( द्र. हिण १, ४, ३३ ) । s) पांमे. वृ ८९८ r. द्र. । t) सपा.  
करिव्यामि <> क्रियात् इति पांमे. । u) पांमे. वैप १, ११४३ g. द्र. । v) पांमे. वैप २, ३४. अकः तैसा ३,  
७, २, ६ इति. द्र. ।



६; वीथी ९, ९: ११<sup>b</sup>; हिथी; वीथ २, १, १०<sup>b</sup>; पा ८, ३, ५०; अक्षानाम् आथी १, १, ३; शोथी; फुनकृत्य वीथी ११, ४: २१ xx; अकृत आथी १, ९, ३; शोथी; आपमं २, २०, ३४<sup>b</sup>; आमिष्ट ३, २, २: ४<sup>b</sup>; भाष्ट २, १५: ६<sup>b</sup>; द्विष्ट २, १४, ४<sup>b</sup>; फुवा ४, ९; १२, ७; फुनकृत्य काथी ५, ५, १२; आपथी; फुनकृत्या: वीथी २८, ६: ५<sup>३</sup>; वैथी; कृषा: आथी ५, ५, २१; काथ, फुनकार्पा: वैथी २, १०: १६; द्विथी ६, ७, ८; कार्पा: वा १, ५; अकर: अप १<sup>३</sup>, १, ३<sup>३</sup>; अकार्थ आथी २, ३, ९<sup>३</sup>; फुकार्थ वीथ ९२, २५; २८; फुनकृत्य शोथी १५, २७, ११<sup>३</sup>; अकृत्य शोथी १५, २७, ११<sup>३</sup>; हिथी; अकि आपमं १, १६, ४<sup>३</sup>; अकृत्य वीथी २४, १२: १५, फुनकारिपम्<sup>०</sup> आथी २, १२, ५: ६, १२, १२; शोथी, फुनकार्यम् आथी ८, ३, ३२<sup>०</sup>, आपथी; फुनकरम् आथी ६, ४, १०; आपथी, फुनकरम् काथ २५, ५; ऋषा ४, ४३; फुनकरम् आथी ३, १०, ३१<sup>३</sup>; काथी २५, ९, १५<sup>३</sup>; आपथी ३, १२, १<sup>३</sup>; २, १८, १२<sup>३</sup>; वीथी ८, २०: १७<sup>३</sup>; माथी; माथी ३, ५, १४<sup>३</sup>; हिथी १५, ८, १२<sup>३</sup>; या १२, ४२<sup>३</sup>; फुनकार्यम् द्राथी १२, १, २; लाथी ४, ११, ५;

अकरिन्वत् निम् २, ९: २८ xx. क्रियते शोथी १५, १३, १४; काथी; आपथी ३, १२, ११<sup>b</sup>; क्रियते द्विथी ४, ४, ७१; ८, ६, ४; क्रियन्ते शोथी १२, ७, ४; आपथी; फुनक्रियाते वीथी १, १२: २२; २, ७: ४; क्रियताम् आपथी १४, ३३, ८<sup>३</sup>; द्विथी; आपथ २, १७, १८<sup>३</sup>; क्रियते शोथी ४, ५, १३; आपथी; क्रियेरन् आथी ६, ८, ३; वीथी; अकारि शोथी १८, १९, ९; द्विथी. कारयते आपथी १०, ५, ११; माथी; कारयति आपथी १०, ४, १४; वीथी; कारयते द्विपि ११: ६; कारयन्ति शोथी १७, २, १; माथ; कारय द्राथी १३, १, १४; लाथी, कारयष्वम् अप ३१, २, २; कारयते माथी १, ४, १, ४; २, १, १, २, ९; कारयते द्विपि १, २, ९, १<sup>३</sup>, कारयते शोथी १३, २, १; आपथी; आपथ १, ८, ३<sup>३</sup>; कारयेताम् निम् ७, १०: ३; कारयेयु: वैथी २१, ११: ३ द्राथी १०, २, १४<sup>३</sup>, निम् ८, ७: १५, कारये: लाथी ३, १०, १८<sup>३</sup>. कारयिष्यामि वीथी १८, २०, १०. विकीर्षन्ति आपथी ६, ६, ८<sup>३</sup>; निम्; विकीर्षन्ते आष्ट १, १२: १३; विकीर्षन्ति विप ५४, २७; विकीर्षन्तु अप १, १०, ६; अविर्षन्तु निम् ३, ११: १६;

विकीर्षन्तु माथी ११, १५, १<sup>३</sup>; वैथी; विकीर्षन्तु आथी ८, १३, २२. अविर्षन्तु निम् ३, १२: ४७ xx. विकीर्षन्ते मीन् २, १, ८; ४, ७; ४, १, ३. विकीर्षयन्ति या १३, ४४. चर्हुन्ति शोथी १२, १५, १<sup>३</sup>; चर्किराम ऋषा ८, २<sup>३</sup>. रकर- पाग ५, २, ३६; -रः कप १, १, ८; -रम् आमिष्ट २, ६, १: ३; कप २, ५, १७; अप २७, २, १; विष ९७, १; वैष २, ९, ६; माशि २, १०, ११; याशि १, ५२; ५३; -रयो: विष ११, ३; १०; -रस्य कप २, ५, १७; -रात् कप २, ८, १८; अप ४१, ४, ३; -रायाम् अप ६८, ३, १०; -३ वैष ४, ३: ११; ७, ८: ३; अप ६७, १, २; वाष ६, १८; विष ६०, २५; ९७, १; वृदे ७, ५६; -रेण कप २, १, ९; -री वैष १, २: १३; ९: १०; ५, ४: २७<sup>३</sup>; विष १, २५; ११, १०; वैष २, ९, ६. रकार- दर-भू- द. कर-रूप- -पम् द्विपि १७: १४; १८: १२; १८. कर-ग- -गम् सुषप ८७: ९. कर-च्छेद- -दः विष ५, १३४; १३६. कर-तल- -लम् कप ३, ९, १८.

a) पांमे. वैप १ पटि. अकः मा ३८, ५ टि. द्र.। b) पांमे. वैप १, ११४९ f द्र.। c) पांमे. वृ ८९८ वृ द्र.। d) पांमे. वैप १, ११४९ m द्र.। e) पांमे. वैप १, ११५० b द्र.। f) पांमे. वैप २, ३ खं. अक. तैसा ३, ७, ३, ६ टि. द्र.। g) पांमे. वैप १, ११३८ p द्र.। h) पांमे. वैप २, ३ खं. क्रियते तैसा ३, ७, ११, ५ टि. द्र.। i) पांमे. वृ ८९९ f द्र.। j) सपा. कारयेत् <> कारयेयु इति पांमे.। k) परस्परं पांमे.। l) = हस्त-। m) स्तार्थे अण् प्र.। n) विप.। उत. उप. <✓> गम्।

-सैः विद्य १, ४३.  
 कर-द्वय-सहित- -तानि विद्य  
 ११, ४.  
 कर-पाद-दन्त-भङ्ग- -ज्ञे विद्य  
 ५, ६८.  
 कर-पृष्ठ- -एम् माशि १, ५४.  
 कर 1, १ कार-भू- पावा ६, ४,  
 ८४.  
 कर-मण्डल- -लम् माशि २, ७.  
 कर-संयु(ण)र्गा- -र्गाः वैष्  
 १, १४ : २.  
 कर-स्थान- -नान् आश्रित २, ३,  
 ३ : २३.  
 कार(र-अ)मा (म-अ)प्रपवि-  
 शक- -कम् कप्र १, २, १.  
 कार(र-अ)मा(प्र-अ)कुलि- -वी-  
 द्वि(त>)सा- -ताम् अय ३६,  
 ८, १.  
 कार(र-अ)कुला(प्र-अ)म- -मेण  
 वैष् २, १८ : १२.  
 कार(र-अ)वपर्यण- -णम् विद्य  
 ७३, २२०.  
 करित- पा ५, २, ३६.  
 करण- -कृणः<sup>०</sup> द्राश्री ११, १, ५,  
 लाश्री ७, १, ५; -णम् आश्री १,  
 ११, ११<sup>१</sup>; शाश्री १, १५, १२१<sup>१</sup>;  
 वीश्री १, ११, २५<sup>१</sup>, ७, २ : २६, ५.  
 २ : २६ x x; माश्री, पाश्री १, १, ७,  
 १६<sup>१</sup>; आपशु ७, ४<sup>१</sup> x x; ऋषा  
 १३, ८; पाशि २२; याशि  
 २, ९४; पा १, ४, ४२; ३, १,  
 १०३; ६, १, २०२; पावा १, ४, १;  
 -णस्य शौच १, १८; आज्यो ७,

१५; १७; -णात् निम् ५, १३:  
 ७; अ ३०<sup>१</sup>, २, १०; पावा ५,  
 १, ३७; -णानि वैश्री १८, १६ :  
 ७२; अय ७८, ६१; तिद्य २, १;  
 आपशु ७, ११; १२, ४; द्विष् ३,  
 ३०; ७, २६; आज्यो ७, ३; -णे  
 वीश्री २०, २ : ३५ x x; वैष् ६७ :  
 १२<sup>१</sup>; कप्र; गीध १८, ३६<sup>१</sup>; शुषा  
 १, ११; याशि १, ३७; पा २, ३,  
 ३३; ५१; ६३; ३, १, १७; २, ५६;  
 ८५; १०२; ३, ८२; ४, ३७;  
 पावा ३, ३, २०; ९५; ४, ३७;  
 ६, ३, ६९; -णेन पावा ३, १,  
 ८७; आज्यो ७, १३; १४;  
 -णेष्यः आपश्री १७, २३,  
 ११<sup>१</sup> १०, -णेषु<sup>१</sup> शाश्री १, २, २६;  
 मीस् ३, ८, २५; -णैः आज्यो  
 ७, ४<sup>१</sup>.

करणी- -णी काशु २, ७;  
 ३, १; १४; ६, २; -णीनाम्  
 काशु ७, ५; आपशु ११, १४;  
 २०, ९; -णीम् काशु २, १३;  
 वीशु २ : ९; १२; द्विष् ७, १७;  
 -णवा काशु २, २२; आपशु २,  
 ७; ८; वीशु २ : १; ३; ८; द्विष्  
 १, २८, ३०; -णयाः आपशु  
 १२, ३ x x; वीशु; -णयोः आपशु  
 १२, ८; द्विष् ७, २९; -ण्यो  
 द्विष् ६, १६.

करणी-शुवीच- -यम्  
 काशु २, १७.

करणी मध्य- -भ्ये काशु  
 ७, ५; -भ्येषु काशु २, ९; ७, ६.

करण-अल्प-कर्म- -अपु पा ७,  
 ४, ९७.

करण-पूर्व- -र्वात् पा ७, १, ५०.

करण-भाव- -वयोः पा ३, २,  
 ४५.

करण-मध्य- -ध्यम् तैप्रा २,  
 ४५.

करण-वत्- -वत् तैप्रा २३, ६.

करण-वर्ण- -र्णाः निम् ८, ७ :  
 १०.

करण-विज्ञान- -नम् अय ६८,  
 १, ५०.

करण-विन्यय- -यात् तैप्रा  
 २३, २.

करण-स्थान-भेद- -दे ऋषा ६,  
 २७.

करणा(ण-आ)दि- -दिषु ऋषा  
 ७, २१.

करणा(ख-थ)धिकरण- -णयोः  
 पा ३, ३, ११७; पावा १, ३, १०;  
 ४, २३.

करणा(ख-थ) निमर्शन-इलङ्घ्य-  
 धूपन-प्रदहनो(न-द)करण(ण-अ)  
 वसेचन- -नानि काश्री २६,  
 १, २९.

करणा(ख-थ) र्थ-त्व- -त्वात्  
 मीस् १२, ३, ३५.

करणा(ख-थ) वस्या- -स्यया  
 ऋषा १७, ६५.

करणीय, वा- -यः आश्रित ३,  
 ३, १ : १०; ११; -यम् वैष् ७,  
 ४ : २०; -यया द्विष् १५, ४,

८; -या वाधुश्री ७, १०४ : ८;

a) विद्य. । पस. > वस. उप. = पवित्रस्याऽप्र. । b) विप. । पस. > कस. > वस. । c) करण<sup>०</sup> इति  
 जीसं. । d) वैप १ द्र. । e) = धान- । f) पागे, वैप १, १०४ x ० द्र. । g) = मन्त्र-विशेष- । h) = इष्ट्या-  
 निमाह-वाचन- । i) = प्रयत्न-विशेष- । j) = कर्म-नामन्- । k) अर्थः ? । l) मकरणे इति जीसं. ।  
 म) = यज्ञ-वाचन- । n) = तदाख्या-विशेष- । o) = रज्जु-विशेष- । p) उप. = विन्यास- वा  
 विविधसार्ध- वा । q) स्वार्यिकः व्युत्पृ. ।

-याम् वीथी ९, १ : ३; १०, १ : ३.  
 करणि- पाउभो २, १, २१२.  
 ककरत्- -रत् आपथी ६, ८, ३;  
 वाधुथी ४, ९८ : ५; हिथी ३,  
 ७, ४७; वैताथी १, ६; काण ३०,  
 ५; माण १, १४, १७; कौस् ९१,  
 ११; -रत्ता अत्रा ३, ४, १.  
 ककर(त् >)न्ती- -न्ती अप ४८,  
 ६१; निघ २, १.  
 ककरत्- -रांसि अप ४८, ६१;  
 निघ २, १.  
 ककरिक्त्- पा ७, ४; ६५; -प्रत्  
 अप ४८, ६१; निघ २, १.  
 करिव्यन्- -व्यतः वाधुथी ४, १०३ :  
 १११; द्राण २, ३, ७; -व्यत्सु  
 द्राथी १४, ४, १०; लाथी ५, ८,  
 १०, -व्यन् वाथी १७, १७, ११;  
 काथी; -व्यन्तः आथी ४, ५, ३;  
 द्राथी.  
 ककरिव्यन्ती- -न्तीम् शाथी  
 १७, १७, १, द्राथी ११, २, ११;  
 लाथी ४, २, १०.  
 करिव्यद्-वचन- -नाह् मीस्  
 ११, ४, ५७.  
 करिव्यमाण- -णः आप्रिय ३, २,  
 १ : १; अप १, ९, १.  
 करोति- > करोति-कर्मन्- -मणः  
 वा ८, १३; -मार् या ४, १९.  
 करोति-शब्द- -व्दाह् मीस्  
 १, १, ८.  
 ककर्मवे काण २५, २७; वाण १४,  
 १३; अप ४८, ६१.  
 ककर्मवे माण १, १०, १५; निघ  
 २, १.  
 ककर्मव्य-व्या- -व्यः वाथीत् ३३ :

३; ३५ : ७; निस्; -व्यम् वीथी  
 ३, १ : २; ३; वीथीप्र; -व्या  
 निस् ८, ११ : ८; जण; -व्याः  
 वीथी २७, ४ : ११; निस्;  
 -व्यान् निस् ७, १३ : १९; ८,  
 ७ : २१; -व्यानि आपथी ९,  
 १, ५; भाथी; -व्ये व्ता ६, ५;  
 -व्यौ वैण ६, १२ : १३.  
 ककर्मव्य-काल- -लाः अप १८,  
 २०, १.  
 ककुम् वाधुथी ३, १९ : १८xx;  
 निस्.  
 ककुम्- पाण ५, १, १२९; -तैरि  
 आपथी २४, ३, १; माथी १, १,  
 १८; वीथ; -तां आपथी १८,  
 २१, ४; वीथी; या ३, ६१; ६;  
 ११, ५, २१; ६, ५; ३५; १०, २५;  
 पा १, ३, ६७xx; -तैरिः शाथी  
 ७, ४, १३; आपथी २४, २,  
 १३, वाथी, -तैरिस् आपथी २४,  
 १, २४, वीथी; -री या ८, १२;  
 -तुं आपथी १६, २१, १०; माथी,  
 वीथि ३, ११, २; पा १, ४,  
 ४९xx; -तुंभिः निस् १०,  
 १० : १०; व्दे ३, ४९; -तुंषु  
 पावा ३, २, १५, -तुंणाम् वाथी  
 १, १, १४, -तुंन् वीथी २५,  
 २० : ६; भाथी १०, २०, ९;  
 -तुं वीस् ७०, १५; -तुं आपथी  
 १६, ४, ३, वीथी; -तुंः पा ३,  
 ४, ४३.  
 ककुम्-कर- पा ३, २, २१.  
 ककुम्-करण- -णयोः पा २, ३,  
 १८; -णे पा, पावा २, १, ३२.  
 ककुम्-कर्मन्- -मणोः पा २, १,  
 ६५; ३, ३, १२७; पावा १, ३,

१०xx.  
 ककुम्-कर्म-ग्रहण- -णम् पावा  
 ३, ३, १२७.  
 ककुम्-गुण- -णे मीस् ३, १, १८.  
 ककुम्-ग्रहण- -णम् पावा १, ३,  
 १४; ७८; २, ३, ७१.  
 ककुम्-तस् (: ) मीस् ३, ३, २६.  
 ककुम्-त्व- -त्वम् व्दे ४, ४५;  
 पावा ३, १, ८७; -त्वाम् पावा १,  
 ३, ६७; ३, १, ४८; ७, ३, ६१.  
 ककुम्-दात्- -तारौ कौस् ६७, १३;  
 अप ३९, १, ११.  
 ककुम्-देश-काल- -लानाम् मीस्  
 ४, २, २३.  
 ककुम्-धर्म- -र्मण मीस् १, ३, २३.  
 ककुम्-नियम- -मः मीस् ६, ६,  
 ३६.  
 ककुम्-निर्देश- -शाः पावा २, ३, ९.  
 ककुम्-परिमाण- -णम् मीस् ३, ७,  
 २७.  
 ककुम्-प्रत्यय- -यम् माथी ५, २,  
 ८, ३.  
 ककुम्-भाव- -वः पावा १, ४, २३.  
 ककुम्-भूमन्- -म्ना मीस् १, १,  
 ११.  
 ककुम्-भेद- -दः मीस् ११, २,  
 ४२; -द्वार मीस् ११, २, ४८.  
 ककुम्-भेद-वत् मीस् ११, ३,  
 २३.  
 ककुम्-वचन- -नेन पावा २, २,  
 २४.  
 ककुम्-वण् मीस् ३, २, ३७; ३,  
 २८.  
 ककुम्-विधि- -धेः मीस् ११, १, ९.  
 ककुम्-वेदना- -नायाम् पा ३, १,  
 १८.

a) वैप २, ३ सं. द. । b) वैप १ द. । c) पाभे. वैप १, ११५२ b द. । d) वृ. पावा. । हर्त्-  
 अति भाण्डा. । e) संस्कारकृतेः इति इ. । f) विप. । वस. ।

कर्तृ-सावदा (व्-घ)नुपपत्ति-  
-सिः पावा १,४,२२.  
कर्तृ-संयोग-मात् मीस् ३, ३,  
३३; ४,२,१७; १०,३,६६.  
कर्तृ-संस्कार-रः मीस् १०, ६,  
५३.  
कर्तृ-सं(ज्ञा)त्-इत् पावा  
१,४,१०.  
कर्तृ-संज्ञा-ज्ञायाम् पावा १,  
४,५४.  
कर्तृ-संयन्ध-धात् मीस् ११,  
४,२.  
कर्तृ-सामान्य-न्यात् पावा ८,  
१,५१; मीस् १,३,२.  
कर्तृ-स्व-स्वे पा १,३,२७.  
कर्त्रं(त्)-भिप्राय-ये पा १,  
३,७२.  
कर्तो(ऽ) विप २,११; या ४,१११;  
पा ३,४,१६.  
कर्त्रे-अस्मि अत्रा ३,२, ९, आपर्यं  
२,६,१०.  
कर्मे-सिः दाधौ ११, १,५, लाधौ  
४,१, ५.  
कर्मेत्-पाठ ४,१४५; पाप २, ४,  
३१; ४,४, ६२; ५, २, ११६;  
पावाग ८, २, १०; -सिं आपधौ  
१, १, ११××; शाधौ; आपधौ  
१३, १६, १२०; दौधौ २५, २९;  
७१; अत्राय ३, ८११; -मेऽसं  
कीस् ६३, १३; या १२, १०; पा  
१, ३, ६७××; -संज्ञः शाधौ १,  
२, २६; आपधौ २, २१, १××;

३, १३, १; दौधौ; कौ ११९,  
२६; सिध २, १; या ५, २४××;  
-संज्ञः-संज्ञः काधौ ११, १, ८;  
आपधौ १८, २, १०; दौधौ  
२, २ : १७; ११, २ : १२××;  
पा ३, १, ७××; पावा; -संज्ञा  
आधौ ६, १, २××; शाधौ; वीध २,  
६, ३२<sup>१</sup>क; या २, ४<sup>१</sup>; २२××;  
पा; -संज्ञाम् आधौ १२, ४, १०;  
शाधौ; -संज्ञि आधौ १, १२, ३१;  
शाधौ; -संज्ञिऽ-संज्ञि आपधौ  
३, १८, १; द्विधौ २, ८, ७;  
गोय; -संज्ञो आसिध ३, ७,  
३ : २; वीधि २, १, १; गोय ४,  
८, ११; -संज्ञे काधौ २, २,  
२१<sup>१</sup>क××; आपधौ; वीधि १, १;  
११; -संज्ञोः विध ३०, ३;  
मीस् १०, ८, ४०; -संज्ञ् आपधौ  
१६, १, ३<sup>१</sup>; आसिध १, ५, २ : ३५;  
या ३, १; -संज्ञिः आधौ २, ३,  
२०; वीधौ, मीस् १०, ३, ५७<sup>१</sup>;  
-संज्ञ् दाधौ १, १, १३; १३,  
१, १०; लाधौ १, १, १३; ५, १,  
८; गोय; -संज्ञ् शाधौ १, १, २५;  
काधौ; -संज्ञि आधौ २, १९,  
४; शाधौ.  
कर्मा-पा ४, ४, ६२<sup>१</sup>; ६,  
४, १७२.  
कर्माण-पा ५, ४, ३६.  
२कामुके-पा ५, १, १०३;  
-कम् शुभ ३, ११६; -कणि  
शाधौ १४, २२, १०.

कर्मे-कम्-कम् कत्र १, ६, ७.  
कर्मे-कत्र-पा ३, २, २२; -रः  
गोध २०, ४; मीस् ६, ३, २४;  
-रेयु शंघ २५१.  
कर्मे-कत्रम्-जम् वीध २, २,  
७५; -णाः आधौ १, १, २१.  
कर्मे-कर्त्-तैरि पा ३, १, ६२;  
पावा ३, १, ४८××; -र्तुः पावा  
३, १, ४८; ८७.  
कर्मे-कर्त्-न्यात् पावा  
१, ३, ६७.  
कर्मे-कर्त्(र्तु-व्यै)-र्यम् पावा  
२, ३, ६५.  
कर्मे-कर्मा(न-अ)नुपूर्व-वेण  
गोत् ६३, १३.  
कर्मे-कल्प-लयाः पुन १, ११ :  
३२.  
कर्मे-कात्-रः वैध ३, १५, ४.  
कर्मे-कात्-निपाद्-नज्ञावतारि-  
वेण-शास्त्रविक्रिदित्-रिणागम्  
विध ५१, १४.  
कर्मे-कातिन्-रिणागम् कथ १,  
३, १; -रिणिः कथ १, ५, १; -रि  
वैध ३, १५, ४.  
कर्मे-कार्य-र्यात् मीस् ३, ७,  
३२; ४, २, ३१.  
कर्मे-कार्य-समवाय-न्यात्  
मीस् १२, ४, १६.  
कर्मे-कृत्-पा ३, २, ८९; -कृत्  
काय १०, २; माय १, ७, १; वाय  
८, १२; -कृताः आपधौ ८, ६,  
२५<sup>१</sup>; वीधौ ५, ८; ६<sup>१</sup>क××; शाधौ;

a) विप.। बस। b) वैप १६.। c) विप. ( [ वीष्ठा-विशेष- ] वाण- )। d) पाशुके  
कर्म इत्यस्य स्थाने सपा. वैधौ १६, २० : ९ पाशुकेन इति पाठे.। e) कर्म इति पाठः ? यति. शोधः। f) सकृत्  
कर्म इति पाठः? यति. शोधः ( द्व. पूर्व स्थलं मूले. च )। g) पाठे. वप २, ३ सं. तैमा ३, ७, ११, ५ टि. द.।  
h) सकृत् पाठे. वैप १, ११५२ k द.। i) सपा. कर्मणे <> कर्मण्यः इति पाठे.। j) \*दिक्र्म\* इति काशे.।  
k) कर्मण- इति BEG.। l) = घनुस्.। m) = कर्म-कट-। घट इत्यस्मिन्नर्थे कः प्र. उत्सं. ( पा ५, २, ३५ )।  
\*भक्तः इति जीवे. १, \*पैक्य इति BI.। n) उप. भावावर्षे कृत् प्र.। o) = [ वषण्ड- ] जाति-विशेष-। उत्स.।

कर्म-कृत- -त्तम् वीथ ३, ६, ६;  
विध ४८, १९.  
कर्म-गण- -णः कप्र १, ५, ५.  
कर्म-गर्हा (र्हा-श) लुपात्मन्-  
-म्भः मीम् १, २, ४५.  
कर्म-गुग- -गैः वृदे ६, ७०.  
कर्म-गुग-स्व- -स्वात् काथी ८,  
१, ७.  
कर्म-ग्रहण- -णात् पावा ३, १,  
७.  
कर्मग्रहणा(ण-ग्रा)नर्थक्य-  
-वयम् पावा १, ४, २७.  
कर्म-प्राप्त- -प्तः वाथी ३, २,  
५, ४३<sup>१</sup>.  
कर्म-चोदक- -कः काथी १,  
१०, १.  
कर्म-चोदना- -नाः आपथी २४,  
१, २१; मीत् २, १, ६; ४, २४;  
-नायाम् आथी १, १, १४, पावा  
६, १, ८३.  
कर्म-ज- -जम् वाथ २७, २;  
वृदे २, २३; -जे मीत् ७, ३, २७;  
-जैः वृदे ३, ६; ४१; ४३.  
कर्मज-त्व- -त्वात् मीत् १०,  
४, ३३.  
कर्म-जन्मन्- -न्मानः या ७, ४.  
कर्म-जोविन्- -वितः विध ३,  
३२.  
कर्म-ज्ञ- -ज्ञः वैथी १२, १ : ६.  
कर्म-ठ- -पा ५, २, ३५.  
कर्मण्य- -वा ५, १, १००; -ण्यः  
वीथी ६, २४ : ३१; आथि ३,  
५, १ : १२; कौत् ९४, ९;  
वीथ २६, २०; -ण्यम् वैताथी

४, १, ६; माथि ४४; -ण्यः  
वाथी ४, २, १२; -ण्यौ कौत्  
६७, १७; १४०, ४; अर १९,  
१, ३.  
कर्म-तवि- -तियु या ११, २४.  
कर्म-तर् (ः) थापथी ३, ११,  
२५; वीथी.  
कर्म-तादर्थ्य- -र्थ्यम् मीत् ६,  
१, १३.  
कर्म-स्व- -स्वात् मीत् १०, ३,  
७१; ४, ४८; -स्वे पावा १, ३,  
६७; ३, १, ७.  
कर्मत्व-निर्देश- -शात् मीत्  
५, ३, २८.  
कर्म-दर्शन- -नात् पावा ३, १,  
८७.  
कर्म-देश- -शास्य जैथीका ३८.  
कर्म-द्वष्ट- -ष्टा या १४, १.  
कर्म-धर्म- -र्मः मीम् १, ३,  
२२; २, ४, १; ३; ३, ४, ४.  
कर्म-धारय- -य- वृदे २, १०५;  
पा, पावा १, २, ४२; -यात्  
पावा ६, १, २; -ये पा, पावा २,  
२, ३८x४.  
कर्मधारय- -पा ६, ३, ४१.  
कर्मधारय-त्व- -स्वे पावा  
१, ४, १.  
कर्मधारय-वत् पा ८, १,  
११.  
कर्मधारयवत्-त्व- -त्वे  
पावा ८, १, ११.  
कर्म-नञ्प्र- -प्रम् अप ७२, १,  
२, आथ्यो ९, ५.  
कर्म-नामन्- -म या २, १३, ५,

१२; -मनिः भाथी ८, ३, १८;  
-मानि विध २, १; या ३, १.  
कर्मनामिक- -कः या  
१, १३.  
कर्मनाम-तन्मानि-श्रेयु-  
-श्रेयु मीव ४, २९.  
कर्म-नामधेय- -यम् आपथ १,  
२९, १; द्विध १, ७, ५७; -यात्  
काथी ८, ९, ४; -येन आपथी  
८, ३, १३; १२, २४, १५; १५,  
११, ११; द्विथी १, १, २३;  
२४, ५, २.  
कर्म-निबन्धन- -नम् विध २०,  
५०.  
कर्म-निवृत्ति- -त्तिः आपथ १६,  
१०.  
१कर्म-नि (प्या >) ष- -ष्ठे  
आथि १६, १०, ४ : ३१.  
२कर्म-निष्ठा- -ष्ठाम् अथा ५,  
४८<sup>१</sup>.  
कर्म-निष्पत्ति- -त्तिः मीत् १, २,  
१७, १२, ४, १०.  
कर्म-न्यास- -से आपथ २, २८,  
२; द्विध २, ६, २.  
कर्म-पगण- -गणः विध २०,  
२९.  
कर्म-पृथक्त्व- -स्वम् शाथी १,  
२, २४; -स्वात् अथ १, २, १३;  
या ७, ५; मीत् ६, ५, ५६; १३,  
२, १४; २०; ४, १६.  
कर्म-प्रयोग- -गः कौत् ७,  
२९.  
कर्म-प्रवचनीय- -यः अथा १,  
१, १०; १२; -या. पा १, ४, ८३.

a) समूहे प्राम् प्र. (पावा ४, २, ३७) ।

b) सप्र. कर्मप्रामोऽवहन्द्वा <> क्षमे वृद्धे प्रामेण

<> क्षेमाप्यवश्यमे प्रामे न इति विशिष्टः पार्थ. । c) विप. १ पत्. । d) वैप १ इ. । e) पार्थ.

४१०२ k प्र. । f) =समास-विशेष- । g) मलो. कल. । h) विप. १ तत्रगवौषण् ट् प्र. उर्ध. (पावा ४, ३, ६०) ।

i) = [कर्मोक्तताम् । संज्ञा-विशेष- (तु. पाम.) । उच. उप. कर्तिर <प्र/वृत् ।

कर्मप्रवचनीय-प्रतिषेध- -धः  
पावा २,२,१८.  
कर्मप्रवचनीय-युक्त- -क्  
पा २,३,८; पावा २,३, ८; ४,  
८३.  
कर्मप्रवचनीय-योग- -गात्  
पावा २,४,८३.  
कर्मप्रवचनीय-संज्ञा- -ज्ञा  
पावा १,४,१.  
कर्म-प्रमय- -वाय शांथी ४,६,  
१७.  
कर्म-प्राधान्य- -भ्यात् काथी  
१०,२,२३.  
कर्म-पल्ल- -लम् गौध ११,३१;  
आश्वो १,११; -लैः आश्व २,  
२४,१०; हिध २,५,१७५.  
कर्मफल-विशेष- -वेण शंघ  
३७६.  
कर्मफल-शेष- -येण आश्व  
१,५,५; २, २, ३०; हिध १,  
१२,५.  
कर्मकला (ल-अ) सम्भव-  
-वान् काथी २५,१४,२.  
कर्म-मेद- -दः मीत् २, २,  
१; २१; ४, ४; ८४४; -दम्  
मीत् ६, ३, ४; -दान् मीत्  
३, ४, ३०४४; १०, ६, ६३०.  
कर्म-मद् (ल) > ला० -लाः वीत्  
३,१३,८.  
कर्म-मप- -भ्यात् अण ३७,  
४,१.  
कर्म-मात्र- -त्रम् मीत् ४,३,९.  
कर्म-युक्त- -क्तः आश्व १, ६,  
११; वीध १, ५, ७५; हिध १,  
२,३४; -क्तम् मीत् २,२, २५;

-कि मीत् ४,२,१८.  
कर्म-योग- -गाः द्राथी १२,२,  
१९; लाथी ४,१०,२०; -गात्  
वाथी १,६,१२; द्राथी १२, २,  
११; लाथी ४, १०, ११; -नो  
आश्व १,१२,९; हिध १,४,९.  
कर्मयोगिन्- > णिन्-त्व-  
-त्वात् मीत् २, २, २५; ६,३,  
२१.  
कर्म-लिङ्ग- -ज्ञाः कौत् १,४.  
कर्म-लिङ्ग-विधान-विद्-  
-विन् अश्व १,४२,५.  
कर्म-यचन- -नेन पावा २, २,  
२४.  
कर्म-यन् पा ३,१,८७; पावा.  
कर्म-यन्- -यतः या १४, २५;  
-०यत् या ५,११; -यन्तः या  
१०,२२; -यन्ति या १४, २५.  
कर्म-यत्न-कारित- -तम् वीथी  
२५,२९ : १३.  
कर्म-यत्न- -नुः ना ११,२६.  
कर्म-वाद- -द्ः निस् ५,९ : ८;  
वीध २,६,११; ३१.  
कर्म-विधान- -नय हिथी १,  
१,८.  
कर्म-विषय- -सि काथी ५,  
१०,१३; १३,९; काथी ३ ३ :  
३; वीथ ४,११,१, आश्व २,  
७,४ : ४, अश्व ३,४.  
कर्म-विशेष- > णिन्-विशेषापन-  
विवासना ( न-अ ) छुरण-  
-णानि गौध १२,४८.  
कर्म-विशेष- -यम् अथा १३,  
४७; -येण विध ४५,३२.  
कर्म-विशेषक-त्व- -त्वात् पावा

३,१,७.  
कर्म-वृद्धि- -द्वया मीत् ६, ६,  
११६.  
कर्म-वैषम्य- -भ्यात् मीत् १०,  
३,५४.  
कर्म-व्यतिहार- -रे पा १, ३,  
१४; ३, ३, ४३; ५,४, १२७; ७,  
३,६; पावा.  
कर्मव्यतिहार(र-आ)दि-  
-द्विपु पावा १,३,१४.  
कर्म-संज्ञा- -त्वा वृदे ५,६.  
कर्म-शब्द- -भ्यः काथी ४,३,१;  
मीत् ४,२,६६; ७,२,१३; -भ्याः  
मीत् २, १, १; -भ्यात् काथी  
२२,१,१९; -भ्ये मीत् २,२,२४.  
कर्म-शेष- -यः मीत् २,२, २०;  
-यम् अश्व २,५; अश्व ३७,४,  
१; -येण गौध ३, ६; हिध २,  
१,२५.  
कर्म-श्रुति- -तेः मीत् ११,२,६.  
कर्म-संयुक्त- -गतानि द्विथी ३,  
८,४१.  
कर्म-संयोग- -गात् द्राथी १,३,  
१; लाथी १,२,२४; मीत् ६,१,  
४५४४; -ने पावा २,३, ३६६;  
मीत् ६,१,१; ४,४०; -नेन काथी  
१,१,२४.  
कर्म-संस्कार- -रम् मीत् १०,  
४,१.  
कर्म-संस्तर- -रे वीथी २७, ४ :  
२०; २९,८ : २२.  
कर्म-संस्था- -स्थायु वृदे ३,८२;  
५,९३.  
कर्म-संकर- -रम् अश्व ७०,११,  
३; ७२,४,२.

a) रापा. कर्मफलशेषेण <> कर्मशेषेण इति पाठे. । b) °दः इति जीवे. । c) = महल-कर्मत्-  
-लक्ष्याः । d) वित्र. । वस. । e) नाप. । उल. । f) = वाचय. । g) कर्मवत् इति पाठे. । h) करोति-  
-शब्दः इति जीवे. । i) कर्म-योग- इति पाठे. ।

१कर्म-सं(शा>)व- -सः पावा  
१,४,५१.  
२कर्म-संवा- -स्य पावा १, ४,  
५१; -शायाम् पावा १,४,५१.  
कर्मसंज्ञा-धसङ्ग- -ङ्गः पावा  
१,४,२३; २१; ४६.  
कर्म-संतान- -तः मीम् १२, ३,  
२७.  
कर्म-संनिपात- -तः माय १, ११,  
१; -ते काथौ २२, १, ४२.  
कर्म-समवाय- -यात् लाथौ १०,  
९, ३.  
कर्म-समाप्त- -सम् आप्त १,  
२४, २४; द्विप १, ९, ७२.  
कर्म-समु(य >)था- -थाः  
वृदे १, २९.  
कर्म-संपत्ति- -तिः या १, २.  
कर्म-संबन्ध- -न्धात् मीम् २,  
३, १४.  
कर्म-समानकर्म-क-प्रहणा (ए-  
शा)नर्थक्य- -क्यम् पावा ३,  
१, ७.  
कर्म-साक्य- -क्यम् मीम् ६,  
८, ३६.  
कर्म-साधन- -ने वीष ४, ८,  
१८.  
कर्म-सामान्य- -न्धात् मीम् ३,  
७, ३८; ८, २४.  
कर्म-सिद्धि- -द्धये मृक्ष १, ३७,  
२; ३; ५; ३९, ३; ४०, ३; ४१,  
५; मृक्षार्थ ७, २; ३, ५; ९, २; १०,  
२; ११, ५; याति १, ४२; -दिः  
क्ष १, ४६, ३; -दिम् कय २,  
४, ११; क्ष २१, ३, ४; ३६, ३,  
२; ७०, १२, १; ७०<sup>१</sup>, ४, ४; विष  
७८, ११.  
कर्मसिद्धि-विनासि(व >)

नी- -नी अप २६, २, ५.  
कर्मसिद्धय(दि-अ)र्थ- -र्थम्  
अप ३१, ५, ५.  
कर्म-स्य- -स्यः कय ३, ७, १६;  
कृत ५, ३, २.  
कर्मस्य-कृ(य >)या-  
-याणाम् पावा ३, १, ८७.  
कर्मस्य-भात्रङ्ग- -ङ्गानाम्  
पावा ३, १, ८७.  
कर्मा(र्म-अ)कुल- -ले अप  
७२, ५, ३.  
कर्मा(र्म-अ)ङ्ग- -ङ्गम् काथौ २,  
१, १३; आग्निम् २, ३, ३; २.  
कर्मा(र्म-अ)ङ्गभूत- -तम् शुभ्र  
३, ७९.  
कर्मा(र्म-अ)चार- -रः आथौ  
४, ३, १६.  
कर्मा(र्म-अ)तिरेक- -के द्विथौ  
२२, ३, ६.  
कर्मा(र्म-अ)स्मन्- -स्तानः या  
७, ७.  
कर्मा(र्म-अ)दि- -दिः काथौ  
१, ३, ५; -दिम् माथौ १, १,  
१, ४; -दिषु काथौ १२, १,  
१४; लाथौ ४, ९, ८; आग्निम्  
२, ४, ४; २३; कय १, १, १३;  
वीष ३, ७, १६<sup>१</sup>; पावा २, ३,  
५२<sup>२</sup>; -दीन् आपथौ २४, २, १;  
माथौ १, ३, २; -दी शोथौ ४,  
९, ७; माथौ १, २, ३.  
कर्मादि-संनिपात- -तः मीम्  
१२, ३, २५.  
कर्मा(र्म-अ)धिक्य- -क्यम्  
माथौ ५, २, १०, ५.  
कर्मा(र्म-अ)धिरति- -तये जैम्  
१, २; २३<sup>१</sup>.  
कर्मा(र्म-अ)मन्तर्यमात्र-

-यम् लाथौ १०, १६, ४.  
कर्मा(र्म-अ)तुकीर्तन- -नम्  
वृदे ४, ३८.  
कर्मा(र्म-अ)नुवाद- -दः वीथौ  
२४, १; ४.  
कर्मा(र्म-अ)न्त- -न्तः वीथौ  
२४, १५; १२x४; वायु; -न्तम्  
वीथौ २, ७; २१; वीथु ४, २,  
१६; ४, ११; -न्ते गौमे १, ७,  
१०; कय २, ५, १; -न्तेन वीथौ  
२०, २; ८; २४, १५; १३;  
१४.  
कर्मा(र्म-अ)न्तर- -रम् काथौ  
४, ४, २; मीष् २, ३, १; -रे  
आग्निम् २, ७, ८; ३.  
कर्मान्तर-त्व- -त्वात् काथौ  
१, ४, १४; १४, १, १३.  
कर्मा(र्म-अ)न्वित- -ताः शोथौ  
१२, ३, ६.  
कर्मा(र्म-अ)पवर्ग- -र्गं काथौ  
२, ३, २१; १५, १०, २३; शोथु  
१, २, १; -गांश्च काथौ २५, १३,  
३६.  
कर्मापवर्गिन्- > -वर्गिन्-  
-त्वात् मीष् ४, ३, ३०.  
कर्मा(र्म-अ)माव- -वात् मीष्  
९, १, ४२.  
कर्मा(र्म-अ)भिधान- -ने पावा  
२, १, ५२.  
कर्मा(र्म-अ)भिसंबन्ध- -न्धात्  
मीष् १०, ७, १९.  
कर्मा(र्म-अ)भ्यावर्तिन्- -र्ति  
वीथौ २४, ६; १; २.  
कर्मा(र्म-अ)भ्यावृत्ति- -त्तीं  
वाथौ १, १, १, ८०.  
कर्मा(र्म-अ)भ्यास- -सः मापथ  
१, २६, ७; २९, १८; वीष २,

a) विप. । बस. । b) वप. = वात्- । c) उप. = आधय- । d) = कर्म-विशेष- ।

२,३,३६.  
 कामको(क-उ)पादान- नम्  
 पावा ३,१,२६.  
 कारण- नम् शांभी २, १४, ८;  
 लाश्री; -गत्य काश्री ९, ११,  
 १५; मीस् ४, ४, ३४; -पात्  
 काश्री ९, १३, २४; वैश्री,  
 पावा १, २, ७१; २, १, २६;  
 -गाति ऋषा ११, ५१; मीस् १,  
 ४, २२; -गे मीस् ४, ३, १६;  
 -गेत शांभी ३, १९, १७; -गै:  
 आपश्री २४, ४, २; कौश्र ३, १२,  
 १; अय ५२, १५, १.  
 कारण-कारित- -तम् निस् ९,  
 १३ : ३३.  
 कारण-द्रव्य- -व्याणि शेष  
 २६२.  
 कारण-भासि- -ति: मीस् ६,  
 ४, २०.  
 कारण-भाव- वात् मीस् ३, ५,  
 ३५.  
 कारण-भूमि- -ति: मीस् ४, ४,  
 ३६; ४०.  
 कारणा(ण-ञा)भाम- -मात् मीस्  
 ३, ५, ४६.  
 कारणा(ण-ञ)ग्रह- -हे मीस्  
 १२, ३, २२.  
 कारणा(ण-ञ)ग्रहण- -णे मीस्  
 १, ३, ७; ४, १, ५.  
 कारणा(ण-ञ)नुपह्वय- -न्यन्  
 मीस् ३, ५, ४०.  
 कारणा(ण-ञ)न्तर- -रात् ऋष  
 २, ११, १३.  
 कारणा(ण-ञ)न्वय- -यात्  
 ऋषा ११, ४५.  
 कारणा(ण-ञ)विदोष- -पात्  
 मीस् ३, ४, ४४.

कारणे(ण-ए)कत्व- -वात् मीस्  
 ११, १, ३०.  
 कायत्- -यन् अय १, १०, ३;  
 शेष ४०५.  
 कारयमाण- -ण: कौस् ४६, ८;  
 -णम् कौस् ५३, ९.  
 कारयाम्/मस्, कारयामास अय  
 ४, १, २१.  
 कारयित्- -ता कौश्र ३, ३, ६<sup>१</sup>/<sub>१</sub>;  
 -तु: अय ७०, १२, २.  
 कारयित्वा भाश्री ११, २२, ९; द्वाश्री.  
 कारयिष्यत्- -यन् अय १, २४,  
 ३१; कौश्र.  
 कारयिव्यमाण- -ण: आय १, १७,  
 ३; भाय २, ३ : १, -गत्य आय  
 १, १७, ६.  
 कारि- पाठ ४, १२९.  
 कारिका- > <sup>१</sup>का-शब्द- -न्दस्य  
 पावा १, ४, ६०.  
 कारित,ता- -तम् वीश्री २, १२ :  
 २१x, वैश्री, या १, १३; -ता  
 वीश्री ६, १ : १; १०, १२ : १०;  
 १२, १७ २; -ता: वीश्री १०,  
 १५ : १०; १२, २० : ४.  
 कारिता-कायिका-शिक्षा(ला-ञ)  
 विभोग- -गा: गौध १२,  
 ३२.  
 कारिता(त-ञ)न्त- -न्तर्य शीश्र  
 ४, ९१.  
 कारित्- -रिग: कय १, ६, ६;  
 -रिति पा ५, २, ७२; पावा ५,  
 २, १४; -रिभ्य: पावा ४, १,  
 १५८; -री वाधूश्री ३, ७० :  
 ८१.  
 कारि-नागध- -घनाम् वाधूश्री  
 ३, ९० : ८.  
 कार- पाठ १, १; -नूरव: द्वाश्री

४, ७, ४<sup>३</sup>; शांभी ५, १०, ८<sup>३</sup>  
 आपश्री १७, ८, ७; १९, २३, १;  
 माश्री ५, २, ३, ९; ११; वैश्री  
 १९, ५ : ५०; द्विश्री २२, ४,  
 १७; वैश्र २, १० : ५; अय १,  
 ८, ८९; ऽशेष २४८; २६२; ऽश्वे  
 २, २१; २८; -<sup>१</sup>णव: द्वाश्री ३,  
 ७, ५; वैश्री १८, ५ : १२; ऋष  
 २, ३, ६; -रु: अय ४८, १७;  
 निघ ३, १६; या ६, ६४; -रम्  
 शांभी १२, १५, ११; -रु या  
 ८, १२<sup>१</sup>/<sub>१</sub>; -रुगाम् विध २२,  
 ५१; -०तो या २, २७<sup>१</sup>/<sub>१</sub>; -तो:  
 शांभी १४, ५०, ३<sup>१</sup>/<sub>१</sub>.  
 कार-कर्मत्- -मैगि विध २२,  
 ५१.  
 कार-कुशीलव- -वान् कौध १,  
 ५, ८०.  
 कार-प्रवादन- -नम् नाति १,  
 ४, १२.  
 कार-विश- -शा: वीश्री १५,  
 ३ : ३; १८, १८ : ८.  
 कार-हस्त- -स्त: शेष १४६;  
 कौध १, ५, ४८; विध २३, ४८,  
 वैध ३, ४, ६.  
 कार-य- -य: शांभी ११, १२,  
 १; काश्री; -यम् शांभी १७,  
 ६, २; आपश्री; पा १, ४, ३; ५,  
 १, १६; पावा १, २, ३२; -यां  
 वीश्री ६, १, २x; वैश्री; जैश्रीका  
 २२०<sup>१</sup>/<sub>१</sub>; -यां: वीश्री २४, २५ :  
 १x; वैश्री; -यां: आपश्री १६,  
 ८, ६; वैश्री १८, ५: १७; -यां: व  
 अय ५१, ५, १; -यां: आपश्र  
 १, २; अयाय; -यां: ऋषा १३,  
 १४; -यं आपश्री १०, २१,  
 १६; वीश्री; पावा १, १, ४४

a) वैष १ द. । b) ऋत, वा द्रुल. वा (द्र. सूची) । c) काय हति पाठ. ? यति. शेष: ।



-यैव अप ३०<sup>१</sup>, २, ११; विप ५७, १४; कौलि ६८; -र्यो लिम् ५, ८ : २४; काण्ड ४१ : १.   
 फार्य- -यैम् पात्रवा ५, १५.   
 फार्य-वृहत्सव- -न्यात् पावा ६, १, १०६; ४, १०४.   
 फार्य-ग्रहण- -गम् पावा ५, १, ९६.   
 फार्य-ज्ञ- -ज्ञः शंष २७०.   
 फार्य-न्व- -न्यात् काश्री १, ६, १९; मीत् १०, २, ६७; ४, ४६; १३, १, २१.   
 फार्य-निरोध- -न्यात् गौष ६४, ४३.   
 फार्य-निष्पत्ति- -न्तिः आञ्जो ७, ११.   
 फार्य-वन्- -न्यात् कप्र २, १०, १.   
 फार्य-वश- -शात् विव ८, ११.   
 फार्य-विनाश (न >) नी- नी आञ्जो ५, १३.   
 फार्य-विपरिणाम- -न्यात् पावा १, १, ५६.   
 फार्य-विपर्याप्त- -सः कौश्री २८, १० : १०; -से कौश्री २८, १० : ८.   
 फार्य-शब्द- (> इन्द्रक-वा.) पात्राम ४, ४, १.   
 फार्य-संप्रत्यय- -न्यात् पावा १, २, ६९; ३, १, १.   
 फार्य-सत्य<sup>२</sup>- पा, पाग २, १, ४०.   
 फार्य-सिद्धि- -द्विन् अप ६८, ५, ३१<sup>३</sup>.   
 फार्य(र्य-अ)कार्य- -र्ये कौण्ड ३, १२, ८.   
 फार्य(र्य-अ) तिदेश- -नः

पावा ७, १, ९०; -न्यात् पावा १, २, १.   
 फार्य(र्य-अ)भाव- -न्यस्य पावा २, ४, ४९; ७, १, १.   
 फार्य(र्य-अ)र्य- -र्येः पावा १, २, ९.   
 फार्य(र्य-अ)र्यिन्- -र्यिनिः विप ३, ७४.   
 फार्य(र्य-अ)र्यव- -न्यात् मीत् १०, २, ५७.   
 फार्यिन्- -र्यो पावा ६, ३, २५.   
 कुर्वत्- -र्वत्तः काश्री २३, ३, १४; आपश्री; पावा ३, १, २६; -र्वति आपश्री २, १८, ९<sup>४</sup>; काश्रीते २२, ५; -र्वते वाध १, ३१; -र्वसु कौश्री १३ ४६; -र्वन्तः काश्री ६, ६, २१; आपश्री; -र्वन्तः काश्री २, २, १६; कौश्री १४, ६ : २१; द्वित्री ९, ४, ५२; द्वाश्री; -र्वन्तम् वैप १, २ : २०; अम ९, ५, अर्ध १ : २१; ३ : ७०.   
 कुर्वतो- -तो कौम् ७७, २३; या ११, ४०; -तोम् विप १, २९.   
 कुर्यांग,णा- -गः आपश्री ५, १, ७<sup>५</sup>xx; वैश्री; -णा कौण्ड २, ६, ९<sup>६</sup>; -णाः शाश्री १३, १९, ५; द्वित्री २, ४, २८; या ४, १९; -णाम् विव १, २७; २८; -णे माश्री ५, २, १५, ९; या २, २०; -णोप काश्री १३, ५, १९; ३०; -णो वापश्री ४, ३० : १२.   
 कृणु- पात्रो २, १, ७४.   
 कृण्वत्- -ण्वन् आश्री ३, १०, ६; शाश्री; आपश्री ७, ६, ७<sup>७</sup>; -ण्वन्तः आपश्री १, ६, ७; माश्री;

-ण्वन्तम् आपश्री ७, १६, ६; माश्री.   
 कृण्वती- -ती आश्री ३, ११, २; शाश्री.   
 कृण्वान्,ना- -नः<sup>८</sup> काश्री १०, ५, ३; आपश्री xx११, १२, ३; द्वित्री ७, ६, १८xx; कौम्; -ण्वाने माश्री ५, २, ८, २०; आपर्मा २, २०, ३१<sup>९</sup>.   
 कृत्- -कृत् पा १, १, ३१, xx; ६, १, १८२; कृतः या १, १४; २, २; पावा; कृतम् कौण्ड १, १६, १२; शार १, २४, ४; पाण्ड १, १७, २; वैप; कृता पा २, १, ३२xx; पावा; कृति पा २, ३, ६५xx; पावा.   
 कृत्-वदित-न्तमान- -न्ताः पा १, २, ४६.   
 कृत्-त्व- -न्यात् पावा २, ४, ८१; ३, २, १२४.   
 कृत्-प्रयोग- -नी पावा २, ३, २२.   
 कृत्-संज्ञा- -ज्ञा पावा ३, १, ९१.   
 कृत्-स्थ- -स्थस्य पावा ८, ४, २९; ३२.   
 कृत्-स्वर- -रः, -न्यात् पावा ६, २, ५२.   
 कृत्स्वर-निवृत्त (ति-अ)र्ये- -र्येन् पावा ६, ३, ९४.   
 कृत्स्वर(र-अ)वाचक-त्व- -न्यस्य पावा ६, २, ५२.   
 कृद्-अन्व- -न्तस्य पावा ५, १, १३; -न्तात् आप ३, २, ४; पावा ४, १, ४८; -न्ते अर्ध १, १, १०; २, ३, ८.   
 कृद्-अन्व-कृतिस्वर-त्व- -त्वम् पावा ६, १, ८४; -स्वात्

a) ष्वेकि इति जीतं. b) तु. पागम. c) पामे. वैप २, ३८. कृण्वन्तु तैत्र २, ५, ८, १२ टि. द्र. d) पामे. वैप १, ११५५ ८ द. e) पामे. वैप १, ११११ ८ द. f) =प्रत्यय-संज्ञा, तदन्त-

पावा २,४,८१.  
 कृदन्त-प्रतिषेधा(घ-ञ)थे-  
 थैम् पावा ६,१,३३.  
 कृदन्त-प्रातिपदिकत्व- स्वे  
 पावा ६,१,८४.  
 कृदन्त-दाढा(व्-ञ)मि-  
 हित- -तः वृदे १,४५.  
 कृद्-अर्था(थै-ञ)नुपपत्ति- -तिः  
 पावा ३,२,६०.  
 कृद्-भाष्यात्- -तयोः शुभा  
 ६,४.  
 कृद्-ङकार- -रात् पावा ४, १,  
 ४५.  
 कृद्-उपदेश- -सो पावा ६, २  
 ५०.  
 कृद्-प्रहण- -णम् पावा ६, २,  
 १३९; -सो पावा १,४,१३.  
 कृद्दण(ण-ञ)नर्थक्य-  
 -चयम् पावा २, ३,६५; ६, २,  
 ५०; १३९.  
 कृद्-यो(ग>)ण- -गा पा २,  
 २, ८.  
 कृन्-निवृत्त्य(ति-ञ)थै- थैम्  
 पावा १,२,४८; ७,४,१३.  
 कृल्-लोप- -वे शुभा ५, ३०;  
 पावा १,४,१.  
 १कृत्,पा- पाग १,४,५०<sup>०</sup>; २,१,  
 ५९; -तः आथी १, ११,  
 १३<sup>०</sup>; शीथी ३, १९, ३१<sup>०</sup>;  
 वीथी; ऋथी ५, १३<sup>०</sup>; ९७,  
 ४<sup>०</sup>; या ६,१८<sup>०</sup>; ८, १८; १२,  
 १८<sup>०</sup>; -तम् ऋथी २, २,३;  
 ३,१,४<sup>०</sup>××; शीथी; आपथी १४,  
 ३०, ३१<sup>०</sup>; १९,७,३१<sup>०</sup>; हिथी  
 १५,७, २०<sup>०</sup>; २३,१,२६<sup>०</sup>;

या १,५; ५,२२<sup>०</sup>; -तम्-उ-  
 वीथी २,१:२५; -तयोः नित् ४,  
 ६:१६; ५,१२:५; -तस्य शीथी  
 ३, २०, १७; गीथ; -ता  
 आथी ६,१४, १०; आपथी;  
 -ताः लाथी ९,५,१२××; उ;  
 -तात् माथी २,५,५,२०; विष  
 १८,१२; -तात् वीथी ३,२० :  
 १२<sup>०</sup>; वैथी; -तानाम् नित् ३,  
 १:१५; वीथ १,१,३२; -तानि  
 आथी ६, ४, १०<sup>०</sup>; ऋथी;  
 -ताम् माथी ४, ७, २; वैथी;  
 पावा ३, २, १; -तैताय काथी  
 २,२,२१; माथी ३, १८, १०;  
 वाथी १,१,४,२१; अथ ४३,५,  
 ५०; -तायाम् आपथी १०,  
 २१,६; आथिथ ३,१०,२ : १;  
 माथ २, १, ७; -तासु आपथी  
 १६, १३, २; वैथी १८, ११ :  
 १९; हिथी ११, ५, १३; -ते  
 आपथी १३, १, १६××; वाथी;  
 पा, पावा ४, ३, ८७; ११६;  
 -तेऽ-ते वैथीका ७०; ११७; -तेन  
 आपथी ८,३,११; वीथी; -तेषु  
 वैथ ७,८ : १२, पा ८,३, ५०;  
 -तैः कथ ३, ३, १०; -तौ नित्  
 ६,१३ : ३५; अथ १,४,१, ७<sup>०</sup>.  
 १कृत्-क,का- पाग ५,१,१३०<sup>०</sup>;  
 -कम् मीम् २, ४, १२; -काम्  
 वंथ ३, १४, ३; -केषु शेष  
 ३६७.  
 कार्तक- पा ५,१,१३०.  
 कृत्-काल- -तानाम् मीम् ५,  
 १,२५.  
 कृत्काल-थ- -त्वात् मीम्

१०,६,२८;३०.  
 कृत्-काष्ठ-> >ष्टा(घ-ञ)स्म-  
 कौलाल-धर्म-वेन्द्रदल-भाण्ड-  
 -ण्डेषु शेष ३२४.  
 कृत्-कौतुकमङ्गल(>)लार्-  
 -ला काथ २८० : २.  
 कृत्-गोदान- -नः भाथ १,  
 १० : १३.  
 कृत्-प्र- -प्रः शेष ४०३,४०४;  
 ४२४; विष ५४, १५; -प्रान्-  
 विष ५४,३२.  
 कृत्-चक्र-धातिन्- -री काथ ७  
 ४६ : १६.  
 कृत्-चू(डा>)ङ- -डे विष  
 २२,२०<sup>०</sup>.  
 कृत्चूड-क- -के शेष ३६०<sup>०</sup>.  
 कृत्-वौड- -डः वैथ ५,९ : १;  
 -डम् वैथ ७, २ : ४; -डस्य  
 वैथ ५,९ : ११; -डौ वैथ ७,  
 २ : ६.  
 कृत्-ज(डा>)ङ- -डस्य गीथ  
 १४,३२.  
 कृत्-जप्- -प्यः शेष ११६:१.  
 कृत्-जातिभ्रंश-करण- -राणाम्  
 विष ४४, ६.  
 कृत्-जातिभ्रंश-करण- -णाः  
 विष ४३, २८.  
 कृत्-ज्ञ- -ज्ञः आज्यो १३, ९;  
 -ज्ञाः अथ ६८,१,२३.  
 ऋकृत-जव- -याय वीथ ३,९,  
 ५; आथिथ १,२,२ : २१; भाथ  
 ३,१० : ६, दिथ २,१९,६.  
 कृत्-तन्त्र- -न्त्रम् नित् ९,  
 २ : ४.  
 कृत्-श्व- -श्वत् वाथी १, ७,

a) वृ. पागम. । b) पाथे. वैष १,१५६ ङ द. । c) पाथे. वैष १,१५६ ० द. । d) पाथे. वैष-  
 १,१५६ ङ द. । e) अर्थ १ । f) विष. । वस. । g) परस्परं पाथे. । h) विष. । वस. > पस. उप. भाप.  
 = वरण । i) व्यप. । वस. सज्जन्तम् ।

८५५; पावा १,१, ३६; ४,७४;  
 २,१,५१; ३,१,१३१; ४,३,३९;  
 ५, १,१२; ९६; ६, ३, ७८; ४,  
 १३२; १७४; ७,३,१५.  
 कृत-द्व- -रम् या ३,२०.  
 कृत-दा(रा)>र- -रः क्य ३,  
 १,५.  
 कृत-द्व(घ)>पा- -पा मीस्  
 १२,१,९.  
 कृत-देश- -मात् मीस् ५, २,  
 २१.  
 कृतदेश-व- -व्यात् मीस्  
 १०,५,७०; ६,१३.  
 कृत-भूति- -तिः चाञ्च १६;६.  
 कृत-नापित-कृय- -व्यम् जैय  
 १,१२; ४.  
 कृत-नामन्- -मा आम्नि २,  
 ७,११; १२.  
 कृत-नियम-व्यन्- -व्यः  
 आम्नि २,७,५; ३.  
 कृत-निर्गोजन- -नान् विष ५४,  
 २१.  
 कृत-निर्देश- -सौ पावा ४, ३,  
 ६६.  
 कृत-र(त)>र-डीच- -चान्  
 व्याय ४,७,२.  
 कृत-परिमाण- -व- -व्यात् मीस्  
 १०,५,३०.  
 कृत-पातक->किन्- -किनः  
 विष ४३,३२.  
 कृत-पाप- -पालात् काथ  
 २८०; ९.  
 कृत-पुण्य- -पुण्यस्य अय २४,  
 ४,२.  
 कृत-पुण्याद->दि(र)>नी-  
 नीम् आम्नि १,६,१; ११.

कृत-पुष्पोपहार- -राणि अय  
 ६८,१,३५.  
 कृत-प्रमाण- -णाः निसू १०,  
 ७; ११.  
 कृत-प्रसन्न- -ङ्गः पावा १,३,९.  
 कृत-प्रस्थान-च्छि- -ञ्जः  
 आम्नि २,७,१०; ४; शेष १५८.  
 कृत-प्राणायाम- -माः वैष २,  
 १३,४.  
 कृत-प्रावराश- -शास्य कौष्ट २,  
 ७,१८; शान्ति २,१२,१.  
 कृत-प्रायश्चित्त- -त्तः आपध १,  
 २७,९.  
 कृत-भूमि- -मी आपध १,१७,  
 ८; द्विष १,५,४०.  
 कृत-भ्रमल, ला- -लः आम्नि  
 २,४,५; १३; -लम् कौष्ट १,  
 ८, १; शान्ति १, १२, १; -लाः  
 काय १४, २५.  
 कृतमङ्गल-विरचितोष्णी-  
 पित्- -पी अय ८,१,३.  
 कृत-मङ्गलस्वस्वययन- -नः  
 आम्नि १,६,१; ८.  
 कृत-मलापक- -र्षः विष ६४,  
 १८.  
 कृत-मलिनो-वरण- -णाः विष  
 ४३, ३०.  
 कृत-मलिनो-करण-कर्मन्-  
 मीणाम् विष ४४, ९.  
 कृत-यजुस्- -जुः वीथी ३,  
 १; १.  
 कृत-यशस्- -शाः ऋम २,  
 ९,१०८; शाञ्च १,५८२.  
 कर्तव्यश- -शम् जुग ३,  
 ९; ५; शाश्री ७, ३, ११; -शे  
 शाश्री ७,१०,१३.

कृत-याम- -माः अय १९,  
 ५,९.  
 कृत-यान- -नः या ५,१५.  
 कृत-याम- -मम् कौष्ट ७६,  
 ६५.  
 कृत-र(क्षा)>र- -रः अय  
 १९,५,९.  
 कृत-रौद्रश(व्)>व्या- -व्याः  
 अय ७०,११,२०.  
 कृत-रक्षण- -णाः शाश्री ९,  
 ११, १४; -णान् काय १४, ६;  
 गोय २,१,५.  
 कृतलक्षण-ग्रहण- -णान्  
 मीस् ८,३,९.  
 कृत-रन्ध्र-क्रीत-कुशल- -लाः  
 पा ४,३,३८.  
 कृत-वय निसू २,१३; २२.  
 कृत-व(त)>ती- -त्यः निसू  
 २,११; १४.  
 कृतवन्मन्त्र- -न्त्रान् भाय  
 १,४; ३.  
 कृत-वापन्- -नः शेष ३२०  
 विष ४६, २४; ५०, १६.  
 कृत-विषहन-हेमपत्र-किञ्च-  
 चूर्ण- निश्चर(र-अ)णवा(ता-  
 अ)मर्ल(ल-अं)शु- -शुः  
 अय २४, ५, ४.  
 कृत-वीर- (>कार्तवीर्य- पा.)  
 शय ४, १, १०५.  
 कृत-वीरासन- -नः अय ४१,  
 ३, ८.  
 कृत-वैषदेव- -वः वीथ २, ३,  
 १८.  
 कृत-व्यथ(न)>नी- -नि  
 कौष्ट ३९, ११.  
 कृत-वापन्- -वान् विष ८, १९.

a) विष. 1 वस. 1    b) व्यप. 1 ध्यु. 1    c) विष. 1 वस. > वस. 1    d) = ऋपि-वितोष-1  
 e) = साय-विशेद-1    f) पाठः ?! कृतवन्, मन्त्रान् इति संस्कृत्यः पदस्योः 1    g) तु. पापम. 1    h) वैष १ द. 1.

कृत-धाम्नि<sup>०</sup>- न्तव्यः शायु द, २, १०.

२कृत-सौच, घा<sup>०</sup>- घः आग्निष्ट २, ४, ५ : ३; -चा शंघ ३३५; -चानाम् विध २३, ३४.

कृतसौचा(त-अ)वधि(ष्ट>)

घा- एा वाध ६, १७.

कृत-श्मश्रुकर्मन्<sup>०</sup>- म्निगः विध १९, १८.

कृत-संयुक्त- च्चान् शंघ २०९.

कृत-संहि(ता >)न- तानाम् ऋषा ६, १७.

कृत-संकुही-करण- णाः विध ४३, २७.

कृत-संकरी-वरण-कर्मन्- म्निगाम् विध ४४, ७.

कृत-सं(यथा>)व्य<sup>०</sup>- न्त्येषु वाधौ १, १, १, ८०.

कृत-सं(ज्ञा>)म<sup>०</sup>- ज्ञाः वैताधौ ३३, २५.

कृत-संघोपासन<sup>०</sup>- नः विध २८, १४.

कृत-मुकृत-दानि<sup>०</sup>- विः विध ८, २६.

कृत-मनाल<sup>०</sup>- नः वैध २, १, ४.

कृत-स्वर<sup>०</sup>- रम् लाधौ ७, ११, १९.

कृत-स्वस्ययन<sup>०</sup>- नः ऋष ४, २, १३; १९, ५, १; -नम् आग्निष्ट २, २, ३ : २; -नस्य ऋष ४, १, १.

कृता(त-अ)कृत, ता- नः आपधौ १, ९, ३; १३, १, १५;

माधौ २, ५, १, ४८; द्विधौ २, ७, २९; ८, ६, १५; ९, ४, २१; निम् २, १२; १४; १३; १७; ३, १३; ५;

४, ७ : ३; ९, ५ : ३७; धाम्निष्ट ३, १, ३ : ८; द्विष्ट २, १२, ३;

-तम् आधौ ३, ६, २३; द्विधौ ६, ६, २०; आयु १, ३, ४; २२, २५; कप्र ३, ५, २; ३; आपध २, १८, १८; द्विध २, ५, ७१;

-नस्य वृदे २, १७; -ता आधौ २, १७, १७; -ताः आपधौ ५, २७, ७; द्विधौ ३, ६, ९; ९, ६, ७;

-ताः माधौ २, ५, ५, २०; -तौ आधौ ३, १, १२; माधौ १, ८, ४, ३०; द्विधौ ४, ४, ३६.

कृताकृत-यमन्- म्निगाम् भाधौ १०, १, ८.

कृता(त-अ)कृति- तिः निम् ४, ६ : १६.

कृता(त-आ)गम- मः निम् ७, ३ : ३५.

कृता(त-आ)गस<sup>०</sup>- गसः वीधौ १७, ४६ : १.

कृता(त-अ)शिकार्य<sup>०</sup>- यंः आग्निष्ट ३, ४, १० : २.

कृता(त-अ)ङ्क<sup>०</sup>- ङ्कः विध ५, २०; -ङ्कम् विध ५, ३.

कृता(त-अ)चमन<sup>०</sup>- नः आग्निष्ट २, ४, ५ : ३.

कृता(त-अ)ञ्जलि<sup>०</sup>- लिः वैष्ट ५, ५ : २; २८; कप्र २, १, १२; वृदे ५, ७६.

कृता(त-अ)ञ्जलिपुट- ष्टः कप्र २, ४, ९; -ष्टम् आग्निष्ट १, २२,

१ : २६.

कृता(त-अ)नुकर- नः वाधौ ५, ४, ३२.

कृता(त-अ)गार- नः वीधौ २५, २ : १२; १३.

कृता(त-आ)घा(त-अ)ना<sup>०</sup>- नाः आयु ३९ : १.

कृता(त-अ)नुवात<sup>०</sup>- स्वस्य आयु ३, ९, ४.

कृता(त-आ)नुपत्यं- स्व- न्वात् मीम् ५, २, २, ३, ३.

कृता(त-अ)नुबन्ध- स्व- न्वात् मीम् २, २, १७.

कृता(त-अ)न्त<sup>०</sup>- न्तात् आपधौ १४, २५, २; १५, २, १३; वीधौ २०, २ : १०; २५, १६ : ११; भाधौ ११, २, २१;

वीधौ २१, १० : ५; द्विधौ १५, ६, २; २२; २४, १, १४; कप्र ६, ४<sup>१</sup>; वीधु ५ : ६; -न्तात् वाधौ ३३ : १६; -न्तेन वीधु ४, १, ४.

२कृता(त-अ)न्त<sup>०</sup>- न्तम् वैष्ट २, १९ : ६; -न्ताय ऋष २६, १, ५, ४३, ५, ५१; -न्ते नाग्नि १, १, २; -न्तेन ऋष ५८, १, २.

३कृतान्त<sup>०</sup>- (> कार्तान्तिक- पा.) पाय ४, २, ६०.

कृता(त-अ)वृ<sup>०</sup>- वृम् आपधौ २०, ५, १७; २२, ७, २३; १७, २१; द्विधौ १७, ३, २२; ६, ४०; लाधौ ८, ८, ४२; ऋष २६, ५, ८; वाध २, २६; आपध १, १७, १७; वीध २, ३, २०; विध

a) विप. । घम. । b) ष्वन्वि इति वासं. । c) = कर्मान्त- । d) कृताम्वात् इति पाठः? इति.

बोधः (त आपधौ १४, २५, २) ।

e) = यम-, दैव-, विद्वान्त- प्रम्. ।

f) तु. पापम. । = मुहूर्त-वारस- ।

g) = पकाज- ।

१८, ४४; छष्ट, ३३; हिष १,  
५, ४९; गौष ५, २३; -ग्रह्य  
आषष १, १८, ४; हिष १, ५,  
७४.  
कृतास-दक्षिण<sup>०</sup> - गः काश्री  
२२, ६, १.  
कृता(त-अ)पकृता(त-आ)दि-  
-दोनाम् पावा २, १, ६०.  
कृता(त-अ)रसव्य<sup>०</sup> - व्यः शंघ  
११६ : ७०.  
कृत(त-अ)पाश्री-करण- ग्याः  
विष ४३, २९.  
कृत(त-अ)पाश्रीकरण-कर्मन्-  
-र्मणाम् विष ४४, ८.  
कृता(त-अ)आय- न्वः पावा  
२, ४, ८१.  
कृता(त-अ)भिषेक<sup>०</sup> - कः अष  
१९, ५, ९.  
कृता(त-अ)ह्य<sup>०</sup> - ह्याः कौय  
३, १०, ३३; शाय २, १५, १०;  
पाय १, ३, ३१.  
कृता(त-अ)र्थ- यान् गोय ३,  
१, ५.  
कृतार्थ-व- न्वार आश्री  
५, ६, २४; मीत् ४, २, १६; २०;  
२७; ११, ११; २२; १९; ४,  
४४.  
कृता(त-आ)लय<sup>०</sup> - यानि विष  
१८, २.  
कृता(त-आ)वसव<sup>०</sup> - यः आषष  
२, ८, १; हिष २, १, १०२.  
कृता(त-अ)शय-कृत-व-  
-न्म् लंश्रीस्य ४.  
कृता(त-आ)हिक<sup>०</sup> - कः अष  
१९, ५, ९.

√कृति पा ३, १, २१.  
कृतिन्- -वी आपम् १, १६,  
४०.  
कृतो(त-उ)न्यान<sup>०</sup> - नः अष  
४३, १, ८.  
कृतो(त-उ)वृक<sup>०</sup> - कम् जैय २,  
५ : ९; -काः पाय ३, १०, ४४;  
अय ३, ३, ३.  
कृतो(त-उ)पकार<sup>०</sup> - नान् विष  
५८, १०.  
कृतो(त-उ)पचार<sup>०</sup> - नः अष  
६९, २, ४.  
कृतो(त-उ)पवास<sup>०</sup> - नः  
आमिष २, ७, ५; ३.  
कृतो(त-उ)वीत- > कृतिन्-  
-वी जैय ३, ७ : १५.  
रकृत<sup>०</sup> - तम् शाश्री १५, १९, १;  
आश्री ५, २०, १; वीश्री १२,  
१५ : २०; माश्री ५, १२, ७;  
वाधूरी ४, ५९ : ३; काश्री १,  
४, ४, १४; ३, ३, २७; वैश्री  
१, १५ : २; हिथी ३, ५, ७; ६,  
५, १७.  
कृत-छन्दस्य- न्द्रसि निम्  
१, ५ : ७; ८  
कृत-युग- -गम् विष २०, १.  
कृत-स्तोम- -माः निम् १, ९ :  
१०; २१-२३.  
कृत-संघ- -घान् कौम् १७,  
१७.  
कृत(त-आ)दि- न्वयः वाधूरी  
४, ५९ : ४; -दि काश्री १५,  
७, १८.  
कृति<sup>०</sup> > कर्त- > कर्त-कौमव-  
पा, नाम ६, २, ३७.

फालि- पावा ८, २, ४२.  
कृतवन्- -यान् अष ३१, २, ३;  
वृदे ४, ५९; ६, ४१; ७, ५८;  
८, १८; या ५, २२.  
कृति- पा ३, ३, १००; -तिः वृदे  
२, ६; ३, ३०.  
कृति<sup>०</sup> - न्वयः अष २०, ६७;  
-तिः निम् १, ५ : ९; कस्य १,  
९, ३; २, १, १२०; अय २, ८१;  
४, १८४; ५, ३४; अय ४, ३४;  
१२-१३, ३; १७, १; शया १६,  
३८; ८९, ९२; अनिम् २ : १८;  
पि ४, ३; -तिम् अय ३, १०;  
-वी अष १०, ५.  
कृति-धृति-वष्या-पदस्य(दित्त-  
था)दि- दि अय ११, ३,  
(२).  
कृति-प्रकृया(ति-आ)कृति-वि-  
कृति-सङ्कृत्य (ति-अ) भिकृत्यु  
(ति-उ)कृति- न्वयः अय  
५, २.  
कृति- -तिः अय १, ४.  
कृत- > कृतिव्य<sup>०</sup> - य<sup>०</sup> वीश्री  
२८, १ : २१; २:२६; वैश्री २०,  
३३ : ११.  
कृत्य<sup>०</sup> - पाउना ३, ३०; -कृत्यः  
आश्री २, १८, १५; वीश्री १८,  
३१ : ५; कस्य २, ८, ७९; ६;  
वृदे ६, ९७.  
कृत्य- पा ३, १, १२०; -न्यम्  
वाधूरी २, ११ : २; लाश्री १०,  
११, १२; गोय १, १, ३; ३, ७,  
३; ४, १, ५; ३, १; दाय १, १,  
१७; -न्यम् पा ३, १, १५४; ४;  
-न्यानाम् पा २, ३, ७१; ४;

a) विप. । वस. । b) सपा. ऋ १०, १५९, ४ कृत्वो इति पाने. । c) = कृत-पावः; युग-, छन्दस्-, स्तोम- प्रम्. । d) व्यप. । व्यु. ? । e) = छन्दो-विशेष- । f) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । g) वैप १ द. । h) पाने. वैप १, ११५८ छ द. । i) विप., व्यप. (ऋषि-विशेष- ) । j) = प्रायव-संज्ञा- ।

पावा; -त्यानि गोष्ट ३, ६, ८;  
अप ३६, १०, १; -स्व\* पावा  
६, १, १४०; -स्वै\* पा, पावा २,  
१, ३३; ४३.

कृत्य-मुल्या (त्य-आख्या >)  
ख्य- -ख्या: पा २, १, ६८.

कृत्य-नामन्- -मभ्य: पावा ५,  
१, १२.

कृत्य-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा ३,  
१, १५.

कृत्या (त्य-अ) नुदशीन्- -शीं  
शेष २४५.

कृत्या (त्य-अ) र्थे- -र्थे पा ३, ४,  
१४.

कृत्वा<sup>१</sup>- -त्या कौस् ३९, ११<sup>३</sup>;  
-त्या आपमं १, १७, ७<sup>४</sup>;

-कृत्या: कौस् ७२, २३; अत्र ५,  
१४; ८, ५; १४, २; -त्याभि:

अत्र ८, ५<sup>४</sup>; -त्याम् काथी ८,  
५, ९<sup>४</sup>; कौस् ६, २२<sup>४</sup>; अत्र ४,  
१७, ५, ३१.

कृत्या-कृत<sup>२</sup>- -कृतम् अप ४६,  
४, १; ५, ५; अत्र ५, ३१; -कृते

अत्र ५, १४.

कृत्या-वस् (: ) अर २०, ७, ५.

कृत्या-वृषण<sup>३</sup>- -ण: अप ३३,  
६, १; अत्रा २३, १; अत्रम् १;  
-णम् अप १८, १, १४; अत्र

५, १४.

कृत्या-वृषण-वानन- -नी अप  
३३, १, ६.

कृत्या-वृषण-देवता-> -स्य-  
-स्यम् अत्र २, ११; ५, ३१; ८,  
५; १०, १.

कृत्या-वृषण-मन्त्र- -मन्त्र: अप

३३, ५, ५.

कृत्या-नादान- -नम् वेरे ८, ४५.

कृत्या-परिहरण-सूक्त- -क्तम्  
अत्र २, ११.

कृत्या-प्रतिहरण<sup>४</sup>- -ण: अप  
३२, १, २; -णम् अत्र ४, ४०;  
५, १४; -णानि अत्र ३२, १, २.

कृत्या-प्रतिहरण-नाण- -णस्य  
अत्रम् १.

कृत्या-प्रशमन- -नाय अत्र ५,  
३१.

कृत्या (त्या-अ) मकि- -क्ति:  
आपमं १, ६, ८; काय ३२, ४;  
वीय २, ५, १०.

कृत्रिम, मा<sup>५</sup>- -म: कौस् ७६, ५<sup>४</sup>;  
वीष २, २, २१; अत्र २, १, २४;

सात्र १, १५; अत्रा ३, ४, ५<sup>४</sup>;

-मायाम् शेष १९२; -मे शैशि  
२४२, ३०३; पावा ६, ३, १२१.

कृतवस्<sup>६</sup> (: ) आपथी १२, १०, ४;  
वीथी, पा ५, ४, १७; पाय १,  
१, ३७.

कृत्यो (त्वम्-अ) र्थे- -र्थे पा ८, ३,  
४३.

कृत्यो-र्थे-प्रयोग- -ने पा २,  
३, ६४.

कृत्या आपथी १, २, १०; शोथी;  
आपथी १, १०, १४<sup>४</sup>; माथी १,  
१०, १<sup>४</sup>; हिथी २, ७, ५६<sup>४</sup>;

पाय ३, २, २<sup>४</sup>; वीथि ३,  
७, ३<sup>४</sup>.

कृत्या (त्या-अ) वृहत्- -वाडा २,  
१, ६६.

कृत्या-व्य काथी १६, ४, ४; आपथी  
१६, ५, ३; वीथी १०, ५, २१;

माथी ६, १, २, १२; वैथी २, १०,  
१, ३९; १८, १: ७२; हिथी  
११, १, ५८; अत्र २, ६२.

कृत्यो निप २, १; या १२, १०<sup>४</sup>.

कृवि- -वाउ ४, ५६.

कृत्वा<sup>७</sup>- -णा अप ४८, ११५;  
अत्र २, ९, १०२<sup>४</sup>; निष ४, १;  
या ४, १९<sup>४</sup>.

क्रियमाण, णा- -ण: निस् ९, २;  
३; -णम् भाथी १, ६, १३;

आमिथ; या १, १६<sup>४</sup>; -णयो:  
निस् ४, ६: १६; -णा: निस्  
८, ७: १५; -णानाम् या ४,  
११; -णानि भाथी ४, ५, ३;

-णाम् आपथी ४, ५, ५४<sup>४</sup>;  
माथी, -णाय आपथी ७, १५,  
१<sup>४</sup>; वीथी, -णायाम् आपथी  
१४, ८, ५, १९, १, १५; हिथी  
१०, ३, २४; ८, १०; हिथ १,  
१३, १३; अत्राय ३, १; -णे  
वाथी ३, १६, १५; आपथी,  
-णेषु-णे माथी १, ४, १, १३;

-णेषु वाथी ९, २३, १३; १२,  
७, १<sup>४</sup>; आपथी.

क्रियमाण-वृत्तम्- -मार्  
निस् ९, ५: ३.

क्रियमाणा (ण-अ) नुवादि- -स्व-  
-स्वात् मीस् १२, ३, ३७.

क्रिया- -पा ३, ३, १००; -यया विष  
५५, १४; पावा २, १, ३५; -ययो:  
पावा २, ३, १; मीस् १, ४, ७;  
-या आपथी २, ६, १८<sup>४</sup>;  
वाथी; काथो १०, ४; पा ४,  
३, ५८; ५, १, ११५; पावा १, ४,  
३१; -या: वाथी ४, ३, २५;

a) प्रत्यय-संज्ञा- । b) वैप १६. । c) विप., नाप. (गण-विशेष- ) उम. । d) = गण-विशेष-  
सूक्त-विशेष- । उम । e) पाने. वैप १, ११५६ i द. । f) पाने. वैप १, ११५६ k द. । g) बुधार्थ इति प्र. ।  
h) पाने. वैप १, ११५६ a द. । i) पाने. वैप १, ११५६ m द. । j) क्रिया इति पाठः ई यनि. शेष ।

वीथी; -यागम् वीथ ३, १३,  
१; मीत् ६, ३, ११; ११, १, २७;  
-यामि: या ६, ३२; -याम्य:  
वीथ १, २, ५७; -याम् व्राथी  
५, १३, १०; जैथीका १६५;  
निम् ७, ११ : २४; कायुठ ७३:  
९; ७५ : ९; वीथ ७, ८, १; २;  
-याया: वीथ १, १६; १; पा, पावा  
३, २, १२६; पावा ८, १, ६९;  
मीत् ७, २, ३; -यायाम् व्राथी  
७, ५, ५; श्रुत ३, ५, ४; पा ३, २,  
१०; पावा ३, २, १३, मीत् ७,  
१, ३; -यासु क्रम १, ८, २०;  
अप ३७, १२, १; शंघ २६१;  
वृदे १, ४४.  
क्रिया-काल-विरुद्ध- -वेषु वैष्ट  
७, १४ : १५.  
क्रिया-मुस्सन- -ने पावा ८, १,  
६९.  
क्रिया-गणन- -ने पा ६, २,  
१६२.  
क्रिया-गुण-त्व- -त्वात् शाथी  
२, ६, १७; काश्री २५, ११, ७.  
क्रिया(या-अ)ङ्ग- -ङ्गम् शंघ  
१००.  
क्रिया(या-अ)तिपति- -तौ पा  
३, १३९.  
क्रियानिमिष-त्व- -त्वात् मीत्  
६, २, १४.  
क्रिया(या-अ)न्त- -न्ते वैष्ट १,  
२१ : १२.  
१ क्रिया(या-अ)न्तर- -रम् मीत्  
१०, ३, १८.  
२ क्रिया(या-अ)न्तर- -रे पा ३,  
४, ५५.  
क्रिया-पूर्व- -वार्त् आमिष्ट ३,

११, १ : ११.  
क्रिया-पृथक्त्व- -त्वे पावा १,  
४, १०८.  
क्रिया-प्रतिषेध- -घ: पावा २,  
२, १९.  
क्रिया-प्रधानत्व- -त्वात् पावा ३,  
४, २१; ५, ३, ६६; ६७.  
क्रिया-प्रत्यय-सामीप्य- -प्ययो:  
पा ३, ३, १३५  
क्रिया-प्रवन्धा(न्य-अ)र्थ- -र्यम्  
पावा ३, ३, १३६.  
क्रिया-प्रभ- -ने पा ८, १, ४४.  
क्रिया-प्राधान्य- -न्यम् शंघ ६८.  
क्रिया-फल- -ले पा १, ३, ७२.  
क्रिया(या-अ)भिधान- -नम्  
मीत् ७, ३, १; ४, -नात् पावा  
२, २, २७.  
क्रिया(या-अ)भिवृद्धि-वस्त-  
-नेन वृदे १, ४४.  
क्रियाभिवृद्धित्वयो(श-उ)  
पञ्जात्- -न: वृदे १, ४५.  
क्रिया(या-अ)भिल्लस- -स: वीष्ट  
३, १३, १  
क्रिया-भेद- -दात् पावा १, ४,  
२३.  
क्रिया(या-अ)भ्यावृत्ति-गणन-  
-ने पा ५, ४, १७.  
क्रिया-भय- -न्यम् वीष्ट २, १३, ९.  
क्रिया-युक्त- -नम् वैष्ट ३,  
२१ : ८.  
१ क्रिया-योग- -ने पा १, ४,  
५९; पावा १, १, १४; ४, ६०;  
-नेन वृदे २, ६४.  
२ क्रिया-योग- -गात् वृदे २,  
९५.  
क्रिया(या-अ)रम्भ- -म्भ: विष्ट

३७, २७; -ग्ने वीथ २, ३, ५७.  
क्रिया(या-अ)र्थ- -र्थान्  
मीत् ७, ३, ७; -र्थानाम् पा ३,  
३, १०; -र्थेन मीत् १, १, २५.  
क्रियार्थ-त्व- -त्वात् मीत् १,  
२, १; ३, ३३; ९, ४, २८; ११, १,  
३३; ३५.  
क्रियार्थो(र्थ-उ)पपद- -द्वस्य  
पा २, ३, १४; पावा ३, ३, १०.  
क्रिया-लोप- -वे वैष्ट ६, १ : ५.  
क्रिया-यचन- -ने पावा १, ३, १.  
क्रिया-वर्द्ध- -वन्तम् शंघ १, २,  
६.  
क्रिया-वाचय- -न्यम् शंघ ५.  
क्रिया-वाचक- -नम् प्रया १२,  
२५.  
क्रिया-विधि- -धि: क्रम ३, १०,  
११.  
क्रिया-विशेष- -ने पावा ३, १,  
२२.  
क्रिया-विशेषक- -क: पावा १,  
३, १.  
क्रिया-व्युपगम- -ग: अप ६७,  
५, ५.  
क्रिया-वाच्य- -व्य: भाति ३९.  
क्रिया-सम्भित्वात्- -रे पा ३,  
१, २२; ४, २; पावा ३, १, २२;  
४, २; ८, १, १२.  
क्रिया-समाप्ति- -प्ते: पावा ३, २,  
१२०.  
क्रियासमाप्ति-विशेषित्व-  
-त्वात् पावा ३, ३, १४२.  
क्रिया-सातत्व- -त्वे पा ६, १,  
१४४, पागवा २, १, ७२.  
क्रिया-साधारणत्व- -त्वात् शंघ  
२५१.

a) वृ. पावा. पाप्. । b) =स्नान-विशेष- । c) तस. (पा २, १, ७२) । d) उत. उप. <√मन्त्रदि

<√मन्त्र- । e) विप. । वस. ।

क्रिया-स्नान- नम् शेष १००<sup>३</sup>;  
१०३.  
क्रिया-हीन- नाः अथ ४१, ३,  
३; -ने वैयु ६, ३ : १; १२ : ४;  
७, ४ : १७.  
क्रियो(या-ई)पित्त-म्ब- न्वात्  
पावा १, ४, ४९.  
क्रियो(या-उ)व्यति- -त्तिम् मौस्  
२, १, २२.  
चक्रवृत्त- नांसः शोथी ३, १८, ५;  
-रूपः भावि १६.  
चक्रवृत्- -क्रत् निष २, ११.  
चक्रि- पावा ३, २, १७१.  
चक्रु- पाठभो २, १, २०.  
चक्रोत्त<sup>३</sup>- > षत-वन् अथा ३, २,  
१७.  
चक्रोत्त-वृत्त- -तम् या २, २८;  
६, २२.  
चिकीर्षत्- पाग ५, ४, ३८; -र्षतः  
काथी २५, ८, ६; -र्षतोः वृद्धे  
४, ६८; -र्षन् आपथो १०, १३,  
९, वैथी.  
चिकीर्षत- पा ५, ४, ३८.  
चिकीर्षा- -र्षया मौस् ३, ७, ७,  
-र्षा निस् ६, ५ : २३.  
चिकीर्षित- पाग ५, ४, ३८<sup>०</sup>, -तः  
शोथी २५, १६ : ११; या ७,  
२३; २४; -तम् निस् २, ११;  
१६; ६, ४ : ४; ६ : २३; ७ :  
४१; ८ : १८; ८, ४ : १८, वृद्धे  
४, ५८; -ताः निस् ६, १३;  
८, ४ : ७; -तानि निस् ८, ३;  
२९; ४ : १२.  
चिकीर्षित- पा ५, ४, ३८.

चिकीर्षित-ज- -जः या ६, १.  
चिक- पाठभो २, २, ५.  
चिकण- पाठभो २, २, १२६<sup>०</sup>; पाग ४,  
३, ७६,  
कार्कण- पा ४, ३, ७६.  
चिकणोय- पा ४, २, १४५<sup>०</sup>.  
चिकणह<sup>१</sup>- (> कार्कण्डेय- पा.) पाग  
४, १, १२३.  
चिकण्द- दम् वाथो ३, १, ५, ४०.  
चिकण्दयस्- -रे वाथो ३, २, ५, ३८.  
चिकला- (> कार्कण्डि- पा.) पाग  
४, १, ९६<sup>०</sup>.  
चिकलाश- कृत्लास- टि. इ.  
चिकलास<sup>१</sup>- पाग ४, १, १२३<sup>०</sup>; ६, ३,  
१०८<sup>०</sup>; -सः अथ ६८, २, ५३;  
५, ८; शय ३७८; वृद्धे ६, १०६;  
-सम् कौस् ४७, ३९; -साः अथ  
६७, ७, २.  
कार्कलासेय- पा ४, १, १२३.  
कृत्लास-शिरस्- -रः कौस् ८, १८.  
कृत्लास-सर्प-नकुल-विडाल-गो (गो-  
श्र)जा-यथ- धे वाथ २७२ :  
११,  
कृत्वाकु<sup>१</sup>- पाठ १, ६; -कुः अथ १,  
३४, ३, या १२, १२१<sup>०</sup>; -कुम्  
शोथी १२, २४, ५१; -कोः या  
१२, १३; -को अथा ३, ४, ११.  
कृत्क(>)गा<sup>१</sup>- -गायाः पाथ १, १९,  
१०.  
कृत्कसा<sup>१</sup>- (> कार्कसेय- पा.)  
पाग ४, १, १२३.  
कृत्काट<sup>१</sup>- -टम् अथा ३, ४, ११.  
कृत्किलास- कृत्लास- टि. इ.  
कृत्कण्ठपात् अथ ४८, १११.

कृच्छ्र, कृच्छ्रा<sup>१</sup>- पाठभो २, ३, २८;  
पाग ३, १, १८; ५, २, १३१; ६,  
२, १७०; -च्छ्रः कृत्वाथ २१,  
१६; २०; २४, २; ३; शंथ  
४३२; ४४८; शोथ १, ५,  
१३८; २, १, ६०; ६४; ६५;  
२, ४९; ४, ५, ६; ७; १३;  
१५; शोथ २३, ३; -च्छ्रम्  
आमिथ २, ४, ४ : ७; ३, १२,  
१ : ११; १३; काथ ७, ३; वैयु  
२, ८ : ८; ३, ६ : ४; ६, १३ :  
१; अथ ४८, ६५१; ६९, ८, ३;  
७०, ३, ३; वाथ १९, ४२; २०,  
६; ७; ९; १२; २१, १३; १८;  
२४; २५; २७; २९; ३३; २३;  
११; १९; २७, २०; ३०, ८;  
शंथ ४११; ४१५, ४३०; ४३९,  
आथ १, १३, १०; शोथ २, १,  
७<sup>१</sup>; शोथ ४, ५, ११; १६; विष  
३८, ७; ५२, ५; ५४, २०; वैयु  
२, १, २; दिथ १, ४, २४; ६, ७, ७,  
७, ५; वाथ २७१ : ६; २७२ :  
९; सुध ५३; ६२; वृद्धे ६,  
१४०; या २, ८; शोथ ६९१;  
-च्छ्रा आमथ २, २९, १३;  
-च्छ्रागाम् वाथ २४, ४; -च्छ्राणि  
शंथ ४१४; विष ४६, १; २४;  
-च्छ्राण् कथ २, १, १३; -च्छ्राण्  
कथ २, १०, ११; वाथ २३,  
१०; शोथ २, १, २२; विष  
५४, २६; शोथ २६, १; २३;  
वाथ २७५ : ६; -च्छ्राम् शोथ  
३, ३, २१; -च्छ्रु शोथ २, १,  
६८; शोथ २७, २; -च्छ्रोग

a) = कर्न-नामन् । b) = यद्बहुपन्त- इति कैयटः ( तु. पाग ६, १, ६ ) । c) तु. पागम. ।

d) = सुनि- । e) भारद्वाजदेव-भाषिणश्च प्रः प्र. । f) स्कण्ड- इति [पक्षे] पाका., स्कण्ड- इति भाषाया.  
प्रय. । म्यप. । म्यु. । । g) विप. ( चर्कन्- ) । म्यु. । । h) म्यप. । म्यु. । । i) वैप १ द. । j) पक्षे ष्यात्-  
चिकलास- इत्यपि । k) = पश्चि-विशेष- । म्यु. । । l) नाप. । दैप १ द. ।



आज्यो ५, ११; -च्छ्रः शोध  
१५९; १३; छधरे; विष ५४,  
२५.

कृच्छ्र-गहन- -नयोः पा ७, २, २२.  
कृच्छ्र-प्रय- -यम् सुध छध; सुधप  
छधः १२.

कृच्छ्र-प्रय- -यम् सुध ५८.

कृच्छ्र-द्वादशरात्र- -यम् आपध १,  
२७, ६; वीष ३, ७, १०; द्विष  
१, ७, २१; -त्रय्य आपध १,  
२७, ७; द्विष १, ७, ३२; -त्रेण  
वीष २, १, ३९.

कृच्छ्रद्वादशरात्र(त्र-अ)भ्यास-  
भ्यः आपध १, २८, २०; द्विष  
१, ७, ५६.

कृच्छ्र-पाद्- -रः शोध ३६२; सुध  
छध; -दे शोध छध६.

कृच्छ्र-भूयस्य- -स्त्वम् कप्र २,  
१, १३.

कृच्छ्र-विधि- -भिः वाध २३,  
४२; -धिम् काय ५, १.

कृच्छ्र-संयत्सर- -रः आपध १, २७,  
८; द्विष १, ७, ३३; -स्व  
आपध १, २५, ९.

कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)र्ध-  
-धेयु पा ३, १, १२९.

कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)तिकृच्छ्र- -च्छ्रः  
वाध २४, ३; वीष २, १, ६७;  
छ, ९, ९; विष छध, १३; गौध  
२६, १९; -च्छ्रम् आश्रित ३,  
१२, १; ९; विष ३९, २; छ३,  
५; ५४, २०.

कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)तिकृच्छ्र- -च्छ्री  
वाध २०, ८; १०; १९; २२,  
१६; वीष २, २, ६५; ३, १०,  
१८; गौध १९, २०.

कृच्छ्रातिकृच्छ्रा(च्छ्र-आ)दि-  
-दीन् वीष २, २, ५१.

कृच्छ्रा(च्छ्र-आ)दि- -दि कप्र ३,  
५, ५.

कृच्छ्रा(च्छ्र-आ)पति- -तिः या  
२, ७.

कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)द- -दः गौध २३,  
३३.

कृच्छ्राद-पाद्- -दम् वाध २०,  
१६; वीष २, १, १८; ३८.

√कृच्छ्राय पा ३, १, १८; कृच्छ्रा-  
येत आश्री १०, २६, १६;  
द्विषो ७, २, ८०.

कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)र्ध- -धे शोध छध६.

√कृच्छ्र पाधा. तुदा. पर. घनते.  
कृच्छ्र<sup>०</sup> (> कश्चि- , कृडिमन्, कुडुर्य-  
पा.) वाग ५, १, १२२.

कृष्ण- √कृ द.  
√कृष्ण<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. हिमा-  
करणयोः, कृष्णति निघ २,  
१९१<sup>०</sup>.

कृष्णत्- , कृष्णान- √कृ द.  
√कृष्<sup>०</sup> पाधा. तुदा. पर. छेत्ते, कृष्णति  
सु ५, ४; अण छ८, १९१<sup>०</sup>; निघ  
२, १९१<sup>०</sup>; कृष्णति वाधूरी  
छ, ५९<sup>०</sup>; ७; कृष्णामि वीषो  
१७, ४४; ५, वीष १, २, ३६;  
कृष्णत गोय २, ७, २०<sup>०</sup>.

कृष्यते या छ, ३; कृष्यताम्  
आपश्री ३, १, २; वीषो १, १७;  
२८; भाषी ३, २, ७; द्विषो २,  
३, १.

१ कर्त्तव्य- -तः निघ ३, २३; -तम्  
वीषो १८, ४४; ४; वाधूरी  
२, २०; ४; छ, ९०; ६; अण  
छ, १२१; -तानि आपश्री २१,  
१२, ३; द्विषो १६, ४, ३५<sup>०</sup>;  
-तं वाधूरी छ, १८; ३०; ताधो  
८, ८, ३; -तैर्न आपध २, १७,  
३१<sup>०</sup>.

कर्त्तव्यत्- -यम् आपध १, ५, ३;  
वीष १, १०, ३८; द्विष १, २,  
३१<sup>०</sup>.

कर्त्तव्यो<sup>०</sup>- पाठभो ३, १, २३०;  
-रि मासि ९, ६१<sup>०</sup>; नासि १,  
६, १९<sup>०</sup>; -री यासि २, ८.

कृष्ण- पाठ २, ३७.

कृष्ण- -स्त्वम् छुदे ३, २३.

कृष्ण-द्विष<sup>०</sup>- -तो या ३, ३०.  
कृष्ण-द्वन्त<sup>०</sup>- -न्त्वम् वा ६, ३०.  
कृष्ण-नख<sup>०</sup>- -खम् कीच ५४, ४.

कृष्णि- -ति. अण छ८, ८९<sup>०</sup>; निघ ३,  
४; छ, २; या ५, २२७<sup>०</sup>; -सिम्  
वीषो १५, २८; २३; २५; या  
५, २२१<sup>०</sup>.

कृष्णि-वासम्<sup>०</sup>- -सम् गौध  
२६, १३; -साम काश्री ५, १०,  
१९; आश्री ८, १८, ९; वीषो  
५, १७; ७; गाश्री ८, २२, ५३  
द्विषो ५, ५, २; दाधो १३, ३.

a) तु. जीर्ण. । b) तु. पागन. । = मन्तु- । ध्यु. ई । c) या ३, १, ८० पराश्रुटः द. । d) वधे वृत्तिः ।  
e) या १, ९; ३, ११; ५-६, २२; ९, ३२ पा ७, १, ५९; २, ५७ पराश्रुटः द. । f) द्विषामा वृत्तिः । g) वैष १ द. ।  
h) कर्त्तव्यिश्च इति पाठः ? यति. शोधः (तु. आपश्री.) । i) वाधे. तु २०० ई द. । j) उच. < √कृष्ण(मती) ।  
k) कर्तृण इति पाठः ? यति. शोधः (तु. आपध.) । l) नाप. । मरिः प्र. उल्ल. (तु. अंशतः पाठभो.) ; वैतु. अभा.  
वैष ३ व) । m) णि इति पाठः ? यति. शोधः । n) वैष १, १०९५० द. । o) वि. १. वम. । p) = गृह-  
नामन्- । q) = यरन्, अण- प्रय. । वैष १ द. ।

१; लाथी ५, ३, १२; आमिष्ट २, ५, ३: १५; वीष्ट ३, ७, १४; या ३, २१; ५, २२.

कृत्य(ति-अ)धि<sup>१</sup>, धीवास-सम्  
आपथी १२, ८, ११; १८, १८,  
६; २०, १७, ८; वाधूथी ३, ७६:  
३६; द्विथी १०, ४, १४; १३, ६,  
१७; -से द्विथी १४, ३, ५६.

२कृत्या- पाउभो २, ३, ३.

कृत्य<sup>२</sup> > कृत्य-विचक्ष(ण) > णा-  
पा, पाग २, १, ७२.

कृत्यत्र<sup>३</sup> - पाउ ३, १०९; -त्रम् या  
२, २२६; -त्राय वृदे २, ५९;  
या २, २२१; -त्रेण निष् ७,  
११: १२.

✓कृत<sup>४</sup> पाया. रुधा. पर. वेष्टने, कृत्तित्ति  
वीष्ट १, ७, ३२; कृत्यन्तन्  
आपथी १४, १२, ४; माथी ५, २,  
१४, २०, द्विथी १०, ६, ९; शथी  
५, ४, २३; लाथी २, ८, २३१,  
आपमं २, २, ५१; पाष्ट १, ४, १३;  
आमिष्ट, वाष्ट ५, ११; या ३, २१.  
विचक्षुः काष्ट ४१, ५१६.

कृत्यन्त<sup>५</sup> आपमं २, २, ३१६.

२कर्त्त<sup>६</sup> > कर्त्त-संसर्ग- -र्त्त माष्ट  
२, १५, ६.

कृत्य(त् >)न्ती- -न्त्योः कौश्  
१०७, १११.

कृत्ति > कृत्ति<sup>७</sup> - विचक्ष(ण) >

णा! - पा, पाग २, १, ७२.

कृत्य, १-३कृत- प्रथ., १कृतक-  
✓कृद.

२कृतक- ✓कृत (छेदने) द.

३कृतक- -कानि या ५, ११.

कृतद्वचसु<sup>८</sup> - स्य आपमं १, ११,  
१११.

कृताद्<sup>९</sup> - तात् माथी २, ५, ५,  
२०१.

१-३कृत्ति- कृत्य- ✓कृद.

कृत्यन्, कृत्ति- ✓कृत (छेदने) द.

कृत्तिक<sup>१०</sup> - पाउ ३, १४७; पग ६,  
२, ११३; फि २०; -का वाड्यु  
७, ३५; -का: आपथी १७, ५,  
४; ६, ५१; वीथी; अय १, ३३,  
१११; -कानाम् आपमं १, ९,  
७१; कृत्यामिष्ट; -काभिः वाधूथी  
२, १८: २; अय; -कृत्याम्यः वीथी  
२८, ३: ११; २०; शीष्ट १,  
२६, ५, वीष्ट ३, २०: ३; अशा  
१२, १; -कृत्या अशा १, १; २;  
-कृत्य आपथी २, १, १०;  
आपथी.

कर्त्तिक (>) की<sup>११</sup> - की विध  
१०, १६; गौध १६ ३७; -कृत्या:  
कौश् ७५, २; -कृत्याम् शथी ३,  
१५, १; काथी ५, ६, १; काथीमं  
२८: २१, वाधूथी ३, ६९.  
१०, वीथी १, १: १; द्विथी ५,  
३, १, ४४; वैताथी १, १; वीष्ट  
३, ६, २; शीष्ट ३, ११, २, पाष्ट  
३, ६, ३; आमिष्ट १, ७, ४: २,  
काय ५२, २; माय २, ७, ९;  
द्विथि १७: ५-७; वीष्ट ३, ३,  
२२; अय १८, ९, १, १८, १,

२; ५०, ९, ५; विध ८६, ३; वीष्ट  
१, ७, ६.

कर्त्तिक<sup>१२</sup> - पा ४, २, २३;

-क: विध ८९, १; -कम् विध  
७८, ५३; ८९, ३; ४; -के  
वाधूथी ४, ४०: १; लाथी १,  
१२, १३; अय ५५, २, १.

कर्त्तिकि<sup>१३</sup> - पा ४, २, २३.

कर्त्तिके<sup>१४</sup> - य: अय २०,  
२, ९.

कृत्तिका( वा-आ )कृत्या- -कृत्या फि  
२०.

कृत्तिका(का-अ)जि<sup>१५</sup> - -जिम् काथी  
२०, १, ३२.

कृत्ति( का-आ )कादि- -शीनि अय  
३०, १, १४; अशा १, १.

कृत्तिका-पुत्र- -त्रम् अय २०, ६,  
४; -त्राय अय २०, ६, ५१.

कृत्तिका-प्रभृति- -तीनि शथी २,  
१, ९.

कृत्तिका-सु(त >)ता- -ता विध  
१०, १६.

कृत्तिका(का-अ)रोका(क-अ)रोधा  
(ध-अ)वाप्य<sup>१६</sup> - -न्येषु कौश्  
४७, ११.

कृत्तिका-रोहिणी-मप्य- -न्येषु अय  
१, १, ७.

कृत्तिका-रोहिणी-मृगशिरः-कप्य-  
नी- -नीषु काथी ४, ७, २.

कृत्तिका-रोहिणी-कृत्याकृत्या(त > )  
ता- -ता: अय १८, १९, ४.

कृत्तिका-रोहिणी-सौम्य<sup>१७</sup> - -न्यम्

a) धि<sup>१</sup> इति वाधूथी. b) लोटि मनुष्य अनुकरणम्. c) वीष्ट १ द. d) पा ७, २, ५७ पराष्टयः  
द. e) सकृतन् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पाष्ट. प्रथ.). f) पाठः? चकृतुः इति शोधः (तु. संस्कृतां)।  
g) परशरं पत्ने. h) पाठः?। लुकि प्रश् इति संस्कृतां [भू. XXIII]। i) भाष. (वेदन-) वा नाप. (वलां। नभा.) वा।  
j) तु. भाषा. प्रथ. l) द्विभ्दिवि इति पाका., 'त्रिभ्दिवि' इति शाकटायनः (तु. पागम.). k) पाठः? = चकृत-  
> नाप इति. l) उत्तरेण संघार्याः। m) = वीष्टमाती-। n) = मान-नामन्-। o) वीष्ट २, ३१, द.।  
p) आभिवारिष्ठकर्मैषुपुत्राणां कालानां दस.। प्रतिशब्दम् रूप्यः?। q) समाहारे दस.। सौम्य- = मृग-विरसु-

अप ५६, १, १.  
 कृत्तिका-रोहिण्या (पी-आ) दि-  
 -दीनि अप १८<sup>३</sup>, १९, १.  
 वृत्तिका-स्वाति-पूर्वे- -ः वायु  
 १४, २; माघ १, ७, ४; वायु १०,  
 ३.  
 शतनु- १ कृत्वा- प्रम. ✓कृ द.  
 रकृत्या- ✓कृत् (छेदने) द.  
 कृत्रिम- ✓कृ द.  
 कृत्रिरासदिवादरभूतदिवा  
 आश्रयो ५, १८.  
 कृत्वस्, ष्या, ष्याप, ष्यी ✓कृ द.  
 कृत्स्- पाठ ३, ६६.  
 कृत्स्न, रस्ना- पाठ ३, १७; -स्नः  
 भाश्री ८, १०, ७; निम् ३, २२, १०;  
 शाश्री १२, १२, १०; आश्री;  
 -स्नस्य द्विथी २१, २, १; मीत्  
 ११, ३, ३१; -स्ना द्विथी ७, २,  
 १२; ९, ६, ११; लाश्री ७, ८, ११;  
 वप्र ३, १०, ३; -स्वाः मेष २१;  
 -स्नाम् निम् ८, ७; २३;  
 -स्नानाम् भाश्री ९, ८, ३;  
 -स्नाम् आपश्री ७, २०, १;  
 वैश्री; -स्नावाय् आपश्रु ११,  
 १२; वीथ २, ५, ४०; -स्ने निम्  
 २, ५; १; -स्नेन वाधूथी ४,  
 ११; ५; १; निम् २, १०;  
 १२; -स्नैः शाश्री १३, १०, ७;  
 -स्नी निम् २, ५; १६; ९, १३;  
 २३.  
 कात्स्न्य- -स्न्यम् या १, १५;  
 मीत् ९, ४, २५; -स्न्ये पा ५,  
 ४, ५२; -स्न्येन अप ५२, १६,

४, ५८<sup>३</sup>, १, २; ७०, ११, ५; मीत्  
 ६, १, ५.  
 कृत्स्न-क- -के शाश्री १६, २१, ८.  
 कृत्स्न-प्रास- -सम् वाध १२, १९.  
 कृत्स्न-त(म>)मा- -माः निम् ८,  
 १३; ७.  
 कृत्स्न-तर- -रः निम् ८, ११; २३.  
 कृत्स्न-ता- -तायै निम् ८, ११; ६.  
 कृत्स्न-व- -वदात् मीत् १०, ८, ३७.  
 कृत्स्न-वचन- -नात् मीत् ९, ४, ८.  
 कृत्स्न-वत्- लाश्री १०, १६, २; या  
 २, ५.  
 कृत्स्न-विकार- -राद्य निम् ७, ५;  
 २०.  
 कृत्स्न-विधान- -नम् मीत् ५, ४,  
 १८; -नात् मीत् ८, १, ५; १०,  
 ५, ३४.  
 कृत्स्न-विधि- -धिः मीत् १०, ६,  
 ७५.  
 कृत्स्न-शब्द- -शब्दः मीत् ३, २, १८.  
 कृत्स्न-वास (ः) वृदे २, ५; ८, १३०.  
 कृत्स्न-संयोग- -नात् मीत् ६, ६,  
 १०; ७, २७.  
 कृत्स्न-संस्था- -स्था वैश्री १०,  
 १८; ३; -स्थाम् आपश्री १३,  
 २४, ११.  
 कृत्स्ना(स्न-अ)श्वित- -श्वानि निम्  
 ६, ५; २०.  
 कृत्स्ना(स्न-अ)भाव- -वे द्विथी ३,  
 १, २५.  
 कृत्स्नी ✓कृ > कृत्स्नी-चिकीर्षन्-  
 -र्षन् निम् ६, १२; ३; ७, ९;  
 १८.

कृत्स्नी ✓कृ > कृत्स्नी-मर्वाति निम्  
 ६, ६; १५.  
 कृत्स्नी(स्न-अ)पदेस- -नात् काश्री  
 १, ७, ५; २, ७, १३; मीत् ३, २,  
 १५.  
 कृत्स्न- पाठ ५, ४१; -रः निघ ३,  
 ४; -रम् आपश्री २०, १७, ३;  
 वीश्री १५, २८; ८; वाधूथी ३, ८९;  
 १; द्विथी १४, ३, ५४; अप ४८,  
 ८०; निघ ३, २९; मा ३, २००.  
 कृत्स्नु- -शु शाश्री १२, २४, २<sup>१</sup>;  
 निघ ३, २<sup>१</sup>; या ६, २०<sup>१</sup>.  
 कृत्स्न-कः- अर ४८, ६७<sup>१</sup>.  
 कृन्त-, कृन्तव- ✓कृत् (छेदने) द.  
 कृन्त(त >)न्ती- ✓कृत् (वेष्टने) द.  
 कृन्धि ✓कृत् (छेदने) द.  
 ✓कृष् पापा. भ्ना. श्वात्. सामर्थ्ये;  
 भ्रुत्. उभ. श्वशक्ने, दीर्घत्वे.  
 कृष्- कृवा आश्री ४, ६, ३; वाश्री  
 ५, ९, ७; वीथी ६, १४; १६;  
 निघ ४, ३; या ६, ८०<sup>१</sup>; अमा २,  
 २, १५.  
 कृष्ण- पाठश्री २, २, १२४; पाग  
 २, १, ५९, ३, १, १८; ४, १, ४५<sup>१</sup>;  
 ५, २, १३१; ६, २, १७०; -णम्  
 शाश्री १५, १७, १<sup>१</sup>.  
 कृष्णा-, कृष्णी- पा ४, १,  
 ४५.  
 कृष्ण-काशिन- -नां वैथ १,  
 १८; ११.  
 कृष्णा(ण-आ)द्वारा (र-अ) नाथ-  
 व्यङ्ग-विषयवा-वाल-वृद्ध- -द्वार  
 शंथ २४७.

a) वैप १ द. । b) तदर्थीयः वतिः प्र. (पा ५, १, ११७) । c) व्यु. पाठे. च वैप १, ११६२  
 p. १ द. । d) = सिध- । व्यु. ? < ✓कृष्(यश्री) इति मतम् । एतदनु वैप १, ११६२ q प्रदर्शितोऽर्थो नः  
 (वृ. टि. अंहु-भेदि, श्री- > -याम्) । e) विप. (हस्त-) । f) सग. कृष् <> कृष्कः इति पाठे. ।  
 g) = ✓कृष् । = ✓कृष् इति DRP. । शोच १, ६४; ४, ८६ या ६, ८ पा ८, २, १८ परामृष्टः द. । h) कृष्णा-  
 इति वाद्य. ।

√कृपणाय पा ३, १, १८.  
 कृपणित्- पा ५, २, १३१.  
 √कृपण्य<sup>१</sup>, कृपण्यति अय  
 ४८, १; निघ ३, १५.  
 कृपण्यु- -ण्यवः वृदे २, २७;  
 ३३; -फण्युः आ ४८, १७;  
 निघ ३, १६.  
 कृपयत्- -यत् या २, १२, १३.  
 कृपा- पाग ३, १, १३<sup>०</sup>; ३, १०४<sup>०</sup>;  
 -पया बौध ४, ५, ३२.  
 कृपा(पा-आ)दि- -दीनाम् शौच  
 १, ६५.  
 √कृपाय, कृपायति निघ ३,  
 १४<sup>०</sup>.  
 कृपायमाण- -याः या २, १२.  
 कृप(√)पा<sup>०</sup>- -याः आपथौ १०,  
 १४, १<sup>०</sup>.  
 कृपाण<sup>०</sup>- पाउमो २, २, १२७; -णः  
 आपथौ १८, १०, २१.  
 कृपीट<sup>०</sup>- पाउ ४, १८५; -फटम् अय  
 ४८, ७५; निघ १, १२; ऋदा ७,  
 ४५.  
 कृमि<sup>०</sup>- पाउ ४, १२३; पाग ५, २,  
 १००; ८, २, ९, -मयः अय ४६,  
 ५१<sup>०</sup>; ६७, २, २; -मिः वाध  
 ४, ३२; १८, १६; शंघ ३७७ :  
 १६; विघ ४४, ११; या १४,  
 ११; -मिमिः विघ ४३, ४०;  
 -मीणाम् अय ४६, ५, ५१<sup>०</sup>.  
 कृमि-कीट- -यानाम् विघ ४१, २.  
 कृमि-केज-कीट-युत- -तम् वैध २,  
 १५, ३.  
 कृमि-जम्भन- -नम् अय २, ३१.

कृमि-ण- पा ५, २, १००.  
 कृमिण-त्व- -त्यम् अय ६८, २,  
 ३९.  
 कृमि-द(√)था- -थाः अय २६,  
 ४, ५.  
 कृमिदट-चिकित्सा- -स्तायाम्  
 अय १, ५, ९.  
 कृमि-भूत- -तः वाध २, ३०.  
 कृमि-मन्- पा ८, २, ९.  
 कृमि-मोनि- -मयः विघ ४४, ३.  
 कृमुक<sup>०</sup>- > वायुं(क>)की- -कीम्  
 काथौ १६, ४, ३५  
 कृमुक-शकल- -लम् कौस् २८, २.  
 कृवि- √कृ द.  
 √कृद् पाया. दिवा. पर. तनुकरणे,  
 कर्णेत् भाथौ १०, ८, १६.  
 कर्शयति वैथौ १२, १२ : ९;  
 कर्शयेत् आपथ २, २७, १०;  
 २८, ५.  
 कर्शित्वा वा १, २, २५.  
 कृश, ता<sup>०</sup>- पाउना ४, ११६; पा ८,  
 २, ५५, पाग २, ४, ६३<sup>०</sup>, ५, १,  
 १२३; -शः काथौ ६, ७, १२;  
 फाणथौ १०, १४, ८-१०; २१,  
 १, ९; द्विथौ १६, १, ७; वाथः  
 ऋम २, ८, ५५; -शम् अय १,  
 ३७, ४१; ३, २, ३; अशौ ७, ४;  
 -सा तु १०, ४; अय २६, २, ५;  
 ३, १; ५८<sup>०</sup>, २, ४; -साः भाग्य  
 १, ७ : ११<sup>०</sup>; -शासः वीप १,  
 ५, ८६.  
 कार्श्यं- पा ५, १, १२३;  
 पावा ५, ३, ९१.

कृश-कृशल- (> काशकृशल-  
 पा.) पाग २, ४, ६९.  
 कृश-मण्य<sup>१</sup>- -म्यः चव्यू ४:  
 १५.  
 कृश-दृति<sup>१</sup>- -तयः वैध ५,  
 १३ : २.  
 कृश-हारीत<sup>१</sup>- -तः गीपि १, ४,  
 २२.  
 कृशाध<sup>०</sup>- (> कृशाधक-कृशा-  
 चिन्- पा. यक.) पाग ५, ३,  
 ६२; ४, ३, १११.  
 कृशो(क-उ)द<sup>१</sup>- -नम् यापि  
 २, ८६.  
 कृशित्वा वा १, २, २५.  
 कृशान<sup>०</sup>- -न गीपे २, १०, २६<sup>०</sup>;  
 -नम् कौस् ५८, ९; फण्य ४८,  
 ७९<sup>०</sup>; ९१; अय ४, १०; फण्य  
 १, २; ३, ७<sup>०</sup>.  
 कृशाम<sup>०</sup>- -मः अय ४८, ६७<sup>०</sup>.  
 कृशार<sup>०</sup>- -त्यम् कौस् ६६, १६; ८४, ३;  
 अय १, २८, १; शंघ १३६.  
 कृशाकु- (> कृशाक्यक- पा.)  
 कृशानु- टि. द.  
 कृशानु<sup>०</sup>- पाउ ४, २; पाग ५, २, ६२<sup>०</sup>;  
 -फण्य<sup>०</sup> आपथौ ११, १४ : १०;  
 वीथौ ६, २९ : १६; वैथौ १४;  
 १३ : ३; द्विथौ १०, ३, ४२;  
 जैथौ १३ : ५; -तुम् माथौ ४,  
 २, ३४; शंघ ११६ : ३७;  
 -फण्यो शाथौ ६, १२, १०; वीथौ  
 ६, १५ : १५; श्वाथौ ५, ४,  
 १२; लाथौ २, ८, १२; -नोः  
 या ११, ८<sup>०</sup>.

a) अर्वास्तुत्योर श्रुतिः । b) तु. पागम. । c) < √कृद् इति पावा. । d) अर्वावा श्रुतिः ।  
 e) = जल-विशेष- । कर्त्तिक क. प्र. । f) पामे. वृ ८४० 1 द. । g) वैप १६. । h) व्यप. । व्यु. ? ।  
 i) = शयन-विशेष- । j) विप. 1 पस. । k) = रूप-नामन्- । l) = हस्त-नामन्- । व्यु. ? । m) कृसर-  
 शयनेन स-न्यायता द. । n) तु. भाष्य. प्रथ. । कृशाकु- इति [पयो] पाति., कृशानु- इति पाका. । o) पामे. ।  
 वैप १, ११६ ४ १ द. ।

कृशानुषक- पा ५, २, ६२.

✓कृष्ण<sup>१</sup> पाधा. अथा. पद., तुदा. उभ.  
 विलेखने, कर्षेत् आपथी ११, २,  
 १; १८, ५; माथी १२, २, ४;  
 कर्षेति वीपि १, १५; १८; कौसु  
 ३९, २९; कर्षन्ति वीध १, ५,  
 ८४; कर्षेत् आपथी ११, ९, १०;  
 वीथी २०, ७; १७; २७; २०;  
 शंप ८२; श्रम १५, १३१;  
 कर्षेत्: वाधुथी ३, ४४; १३;  
 लाथी १०, १५, १५.  
 कृपति काथी १७, २, ११; २१,  
 ४, १; आपथी; कृपति काथी  
 १७, २, १८; वाधुथी ७, ७४; ६;  
 हिथी ११, ६, ३५; दपतु आमिष्ट  
 ३, ८, २; ६१; कृपेत् वीथी २२,  
 ५; २४; २५; पाग २, १३, ४.  
 कक्षयति वाधुथी ३, ४४; १६;  
 अक्षयत कौस २०, १६१; अक्ष-  
 धाम कौस २०, १७१.  
 कर्षयति वीथी १८, २०; ५;  
 कर्षयेत् हिथ २, ५, २२९; ६,  
 ५.  
 अचकृषु. वाथी १, ५, ५, ८१<sup>१</sup>;  
 अचकृषु: आपथी ६, ३०, २०<sup>१</sup>,  
 वीथी ३, १२; २८<sup>१</sup>; माथी ६,  
 १८, ७<sup>१</sup>; माथी १, ६, ४,  
 २४<sup>१</sup>; पाग ३, १, ६<sup>१</sup>; जैथ १,  
 २४; ७<sup>१</sup>.  
 कर्ष- पा ६, १, १५९; पाग २, ४,  
 ३१; ५, १, ६४; -र्षे आपथ २,  
 १६, १४; हिथ २, ५, १४.  
 कार्षिक- पा ५, १, ६४.

कर्षिक- -का: श्रप ६३, ३, ३; वाध  
 ११, ४२; -काणाम् श्रप ५८<sup>३</sup>,  
 ४, ४; श्रप २६२; -काय आमिष्ट  
 २, ५, १२; ५; -कै: गौध १०,  
 २३.  
 कर्षिक-वशिक-पुपाल-कुमीदि-  
 -कार- -व: गौध ११, २३.  
 कर्षिण- -ण: शौच २, ३९; -णम्  
 श्रप १, ४४, ५; श्रप १६६; वीध  
 १, ६, १७; नाशि १, ६, १९;  
 -णम् कौशि २०; -णे वीथी  
 २२, ५; २५.  
 कर्षिण-करणा(ख-श)र्ष- -र्षम्  
 वाध १९, १२.  
 कर्षिण-वपन- -नान्वाम् वीथी  
 २६, २८; ८; -ने वीथी २६,  
 २८; ८.  
 कर्षिण-शुभ्रुपा(पा-श)धिकृत-  
 -व- -वाम् वीध १, ११, १५.  
 कर्षिणा(श-आ)दि- -दीति  
 आगो ५, ९.  
 कर्षित- -र्षम् आथी २, ३, ८;  
 आपथी.  
 कर्षिमात्र- -णम् वेताथी २८, ३१६.  
 कर्षिथरा वेग २, १३; ८; कौस  
 ८३, १८.  
 कर्षित्- -र्षी वीध २, २, ७३; वाध  
 २, ३२.  
 कर्षु- पाठ १, ८०; -र्षु काथी  
 २१, ४, १९; -र्षु वीथी १०,  
 १९; ११; १८; १९, १; १८;  
 आमिष्ट ३, ४, १; १९४; कार  
 ६५, ३; ५; ६६, ४; वीपि १, ८;

१८४; -र्षुणाम् गौध ७, २,  
 २३; ३, ३; कष २, ८, ४; -र्षुधक:  
 आमिष्ट ३, ७, ३; ३१; वीपि २,  
 ३, ५; -र्षुम् काथी २५, ८, ३;  
 माथी; -र्षुपु आथ २, ५, ६;  
 पाग; -र्ष्या: गौध ७, २, १८;  
 -र्ष्याम् माथी १, १, २, १०;  
 कारुत; द्राष्ट ३, २, ३१<sup>१</sup>.  
 कर्षु-श्रय- -यम् विध २१, १०१;  
 ७४, ७.  
 कर्षुवय-मूल- -के विध  
 ७४, ४<sup>१</sup>.  
 कर्षुवय-संनिकर्ष- -र्षे विध  
 २१, १८.  
 कर्षुवीरणा-पत्- -वति काथी  
 २१, ३, २५.  
 कर्षुसमन्वित- -वम् कष ३, ५,  
 १४.  
 कर्षु-मयीप- -ने विध २१, ५.  
 कर्षुर्वा(र्षु-आ)दि- -दि हिपि ९:  
 १३; १६; १४.  
 कार्षिक- पाठ २, ३८.  
 कार्षिक- पाठ ७, १२७; -र्षि: १  
 काथी ९, ३, ५; आपथी १२, ५,  
 १०; वीथी ७, ३; १६; माथी  
 २, ३, २, १७; वैथी १५, ९; ६<sup>१</sup>;  
 हिथी ८, १, ६७; श्रम १,  
 ४२२<sup>१</sup>.  
 कार्षिक- -र्षे वीपि ७७<sup>१</sup>.  
 १३कृष- -यम् वाथी २, १, ५, २२.  
 २कृष- (>कृषी-पा.) पाग ७, १,  
 ४१<sup>१</sup>.  
 कृषक- पाठ २, ३८.

a) वा २, २०; ९, १९ [अणुभावे वृत्तिः], पा ७, ४, ६४ पावा ३, १, ४४ परागृहः द्र.। b) पाभे. वैप १, ११६४ ब द्र.। c) 'क' इति पाठः? यनि. शोधः। d) चकृषुः इति पाठः? यनि. शोधः। e) = वृषीवल्-। f) करणे भावे च ह्युद् प्र.। g) कृष्यं इति O. शोधः। h) = लेखा-, नाडी-, गर्त-। i) का इति पाठः? यनि. शोधः। j) 'थीति' इति शोधः। k) वैप १ द्र.। l) पाभे. वैप १, ११६५ b द्र.। m) 'र्षीः' इति पाठः यनि. शोधः। n) अर्थः व्यु. च?। o) ह. पाषम.।

कृपन्-पन् वीथी २५,३० : १.  
 कृपि- पाठ ४, १२०; पाग ४, ४, ६२०; ५, २, ११२६; -विः  
 †भापथी १०, ११, १; १६, २८, १; वैथी; -पिम् †भापथी २, १, २, ११; १३; वीथ; -†पीः  
 अप ३७, १, २; दुप्रा ३, ३३;  
 -क्षी पा ५, ४, ५६; -प्या काथ २, ३१; वीथ १, ५, ८४; अम ११, ३(२)†, -प्याम् कप्र ३, ७, १०; -†व्ये आपथी १०, १०, १××; वीथी.  
 कार्य- पा ४, ४, ६२.  
 कृपि-कर- नाणाम् माष्ट २, १४, २१.  
 कृपि-कर्मन्- माणि वीथ ३, १३, १; चाष्ट ४, १३, १.  
 कृपि-गो-पाल-> -पाल-क्षे-  
 त्रिक-परिचारक-नापित-निवेदि-  
 त्वात्मान्-मानः सुधप ८४ : ३.  
 कृपि-गोरक्ष-वागिज्य-कुसीद-यो-  
 निपोषण-गानि विध २, १३.  
 कृपि-गोरक्ष-वागिज्या(ज्या-रु)  
 धिक-कम् आपथ २, १०, ७; हिष २, ४, ७.  
 कृपि-गोरक्ष-वागिज्यो(ज्य-उ)  
 पञ्जीविन्-वी वैध १, ५, २.  
 कृपि-वीथ-वान् वृदे ५, ९.  
 कृपि-पशुपाल्य-रत-ताः अप ५१, ४, ५.  
 कृपि-प्रशंवा-सा या ७, ३.  
 कृपि-वजिक्-पाशुपाल्य-सुसीद-  
 -उम् गीप १०, ४८.  
 कृपि-वल् मीष्ट ११, १, २०.

कृपि-वागिज्य-उदे वीथ १०, ५.  
 कृपि-विनाश-शाप वीथ १, ५, ८५.  
 कृपि-मन्त-भान् वप्र १, ६, ५.  
 कृ(पि>)पी-वन्->कार्पी-  
 वण-णाः अप्रा ३, ४, १†.  
 कृ(पि>)पी-यल-पा ५, २, ११२; -ल-, -लम् अप ६९, ५, ३.  
 कृप्या(वि-आ)रम्भ-म्भे कप्र ३, ७ २.  
 कृपिक-(कार्पिक-पा.) पाठ २, ४०; पाग ५, १, १२८.  
 कृष्ट,ष्ट-पाग ५, १, १२३०; -ष्ट-  
 लाथी ७, ८, ५; -ष्टस्य हिपि १५ : ८; -ष्टम् वाथी २, १, ५, १६; वैध ३, ५, ३; -ष्टे आपथी १६, १९, १०; १४; वाथी, अप्रिष्ट २, ६, ८ : ६†.  
 काट्य-पा ५, १, १२३.  
 कृष्ट(ज>)आ-जानाम् विध ५०, ५०.  
 कृष्ट-पच्य-च्यस्य पा, पावा ३, १, ११४.  
 कृष्ट-मात्र-त्रे काथी १७, ३, ५.  
 कृष्ट-राधिक-कम् भाष्ट १, १११२.  
 कृष्ट-दाद्-दः भाशि ३४.  
 कृष्टा(ष्ट-अ)कृष्ट-ष्टयोः काथी १७, ३, ४.  
 कृष्टिमन्-पा ५, १, १२३.  
 कृष्टि-पाठभो २, १, १८९; -†ष्टयः  
 लाथी ९, ११, २१; अप ४८,

७८; निप २, ३; या १०, १२३†  
 -ष्टिः वीथी १८, ४७ : २२;  
 -†ष्टीः आपथी २, १२, ५;  
 ६, १४, १६; आपथी ९, २, ६;  
 भाथी ९, ३, ८; माथी ३, २, ८;  
 द्विथी १५, १, ४५; अप्राप ४, ३;  
 कृया १०, २२; २९; ३१;  
 -†ष्टीनाम् अप्रान् २, ३, ७;  
 पाष्ट १, ४, १२३; आप्रिष्ट १, १, २ : ३१; ५, १ : २३; वीष्ट २, ५, १२; भाष्ट १, ५, १०†;  
 १३ : ७; द्विष्ट १, ४, ३; -ष्टेः  
 वीथी १८, ४७ : २२.  
 कृष्ट्या वाधुथी ४, १९ : ४४; ४५.  
 कृष्ट्यमाण-णाः विध ४३, ३३;  
 ४३; -गे आपथी १४, ८, ५-  
 द्विथी १०, ८, १.  
 शुक्या, ण्णा-पाठ ३, ४; पाग ४, २, ७७; ५, २, ९७; पागवा ५, ४, ३; कि ११; -णाः आपथी ९, २०, १०; १४, ३४, २; १६, ३४, ५; १९, २५, २०, २७, १२; २०, २, ९; वीथी १५, १ : १५××; या १२, १३; -ण्यम्  
 †आथी २, १३, ७†, ८, ८, ९;  
 शाथी; आपथी १०, ९, ६†;  
 माथी ५, २, ६, २०†;  
 वैताथी ९, ५†; अम ६, २२†; १३, १†; अं  
 ३ : ६८†; या २, २०†;  
 २१†; ७, २४†; -ण्यवा  
 वीथी २५, ८ : १५; गोष्ट ४, ७, २५; -ण्यस्य वीथी २२, ८;  
 ३६; कीष्ट १, १६, १६; चाष्ट

a) वैप १ द. । b) पृ ७०९ j द. । c) वृ. पागम. । d) उव. उव. कर्तरे अक्ष प्र. । e) माहृष्ट-  
 टि. द. । f) ञ्जे इति पाठः ? यनि. शोचः । g) पाभे. वैप १, १२४ ७ द. । h) आकृष्टीनाम् इति  
 अयरागमदाधरी ? । i) ष्टीणाम् इति पाठः ? यनि. शोचः । j) वृ. पाका. । कृणार्ण- इति भाष्य. ।  
 k) पाभे वैप १, ११६६ h द. । l) कृणानाम् इति C. शोचः (वृ. भाथी १०, ६, ७) ।

१, २४, ६; अप ६८, २, ५४;  
 -ष्णा दाश्री ३, ५, १०१;  
 काश्री; या २, २०११;  
 -ष्णा: काश्री १७, १, २३;  
 आपश्री; -ष्णाम् आपश्री १९,  
 २०, ८; वीश्री १३, २१: १०;  
 द्विश्री २२, ३, २६; वाघ २८,  
 १८; -ष्णानाम् आपश्री १९,  
 २०, १९; २६, १३; वीश्री;  
 माश्री १०, ६, ७; -ष्णानि  
 वाश्री ३, १०१: ३; अप  
 ६४, ८, ३; -ष्णाम् आपश्री  
 १०, २६, १३२×; वीश्री;  
 -ष्णाय आपश्री २०, ६, ४;  
 ११, १३; वीश्री १५, ७: ११;  
 द्विश्री १४, २, ३; गौष २६, १२;  
 -ष्णाया: काश्री १८, ४, ३;  
 माश्री २, १, ४, १४; ४, ६, ३;  
 ६, २, ५, ११; दाश्री ५, ५, ६;  
 अप ३८, १, ५; ४६, ६, ५१;  
 -ष्णाय आपश्री १७, १५, २××;  
 वीश्री; -ष्णाम्: प्रशा ४, १८१;  
 -ष्णे काश्री १२, ६, १××;  
 वीश्री; ××२१, ९: ५९, जेष्ठ;  
 -ष्णेन आपश्री १९, २६, १;  
 वीश्री १३, ३७: ५; वाश्री ३,  
 ३, ७, २; द्विश्री २२, ६, ६; विष  
 ५८, ५, कुम्भ ३, २०२१; -ष्णेषु  
 आपश्री १७, ५, ३; वीश्री १२, ५:  
 १२; द्विश्री १२, २, १७, -ष्णी:  
 वीष २, १, ५७.  
 कृष्णी-ष्णी वाश्री २, १, ५,  
 २२.  
 कृष्णक-ष्णी-ष्णी वा ५, ४, ३.  
 कृष्णक-तण्डुल-ष्णानाम् वीष्  
 ८०, २६.

कृष्ण-कर्म- (>कार्यकर्म- पा.)  
 १ कृष्ण- वि. द.  
 कृष्णकेश-ष्णी-ष्णी वीध १, २, ६.  
 कृष्ण-स्त्र-ष्णी-ष्णी वाघ २१, १.  
 कृष्ण-सु(र<)>ष्णी-ष्णी-ष्णी हिपि  
 ४: ५.  
 कृष्ण-नाव-ष्णी-ष्णी हिपि २: १०.  
 कृष्ण-वीध, वा-ष्णी-ष्णी-ष्णी वाश्री ३, ४,  
 ३, १३; द्विश्री १४, ३, १४; गुञ्ज  
 ३, १३१; -ष्णी आपश्री १४,  
 ६, १३; २०, १३, १३; वीश्री १०,  
 ५७: ८; अप ६१, १, १४;  
 -ष्णी: ऋषि आपश्री २०, १४, ७;  
 ८: ११; १५, २; माश्री ५, २,  
 १०, ४६; द्विश्री १४, ३, १६;  
 -ष्णी आपश्री २०, १३, १३;  
 वीश्री १५, २३: ६, २६: ७.  
 कृष्ण-सुदृशी-ष्णी आपश्री ४, ७.  
 कृष्ण-सुदृश्य-ष्णी-ष्णी अप ६८, २,  
 ४३.  
 कृष्ण-सैल-परिहिन-ष्णी-ष्णी वीष्  
 १८, १.  
 कृष्ण जन्म-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 जेष्ठ १: १४.  
 कृष्ण-जाति->ष्णी(य<)>ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 -ष्णी वा १२, १३.  
 कृष्ण-तिल-ष्णी-ष्णी आपश्री १२, ५;  
 -ष्णी: गौरी १, ३, १०.  
 कृष्ण-तिल->ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 १, ५०, ८.  
 कृष्ण-वृष्णी-ष्णी आपश्री १८, ८,  
 १८; १९, २५, १७; वीश्री १२,  
 १: १२; १८; १३, ३७: २; ५;  
 १०; १८, २४: ५; २६, १: ५;  
 द्विश्री २२, ६, २; आपश्री २, ५,  
 १०: २; ७.

कृष्ण-योदशी-ष्णी विष ७६, १, ३.  
 कृष्ण-स्त्र-ष्णी-ष्णी-ष्णी वाश्री ३, ७, १३.  
 २१; -ष्णी वीश्री १५, १५, ३.  
 कृष्ण-दन्त-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री २७९: ३;  
 -ष्णी-ष्णी आपश्री १, १२, ४.  
 कृष्ण-द(शा<)>ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री २२, ४, १५; वीश्री २६, १: ६;  
 द्विश्री १३, ३, २१; वाश्री ८,  
 ६, १३.  
 कृष्ण-द्विदशी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री २०.  
 कृष्ण-धान्य-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री २, १८, २; द्विश्री २, ५,  
 ५४.  
 कृष्ण-मोहार-तिमिर-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री २, १.  
 कृष्ण-पक्ष-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री ४, ५, १;  
 अप ३१, ८, ६; विष ७३, २;  
 द्विश्री २, ५, ७; -ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री १५, १, १६; -ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री ४२: २२; अप ४३, ६,  
 १; आपश्री ७, २०.  
 कृष्ण-पक्ष-द्विदशी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री २०, १९.  
 कृष्ण-पक्ष(क्ष-आ)दि-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री २३, ४५.  
 कृष्ण-पक्ष-द्विदशी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री ७, ११.  
 कृष्ण-पक्ष(दु<)>ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री ५, ४,  
 १३९.  
 कृष्ण-पक्ष-द्विदशी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री ५, २,  
 ३, ४.  
 कृष्ण-पक्ष-द्विदशी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री ४, ७, ७.  
 कृष्ण-पक्ष-द्विदशी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री ७, २,  
 १०, २.  
 कृष्ण-पक्ष-द्विदशी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी-ष्णी  
 आपश्री २,  
 १०, २; ७.

a) प्रकृतः कृष्णजित् - > ऋ इति प्रतिभाति । b) = दृष्टका-इ । c) = तिल- । a) विष ।  
 दस । e) पाने. दृ २५३ k द. । f) द्र. पाका. । कृष्णाप इति भाषणा. ।

६, ८ : ३६; अय ७०, १०, १.  
 २कृष्ण-पिङ्गल<sup>०</sup> - पाठ २, ५, ६९.  
 कृष्ण-पिपीलिका - कानाम् कौत्  
 ११६, ३.  
 कृष्ण-पिशाङ्ग - इम् वाधौ ३, ५, १,  
 १४.  
 कृष्ण-पुष्प - -प्यैः अशां १५, ३.  
 कृष्ण-पृष्ठ-शिरस्<sup>०</sup> - -रः अय २३,  
 ४, ३.  
 कृष्ण-बाल<sup>०</sup> - लज्ज - श्रे काधौ २२,  
 ४, १९; आपधौ २२, ५, ५;  
 द्विधौ १७, २, ३३; लाधौ ८, ६,  
 १५.  
 कृष्णबलक्षी - -र्यौ वीधौ ६,  
 १० : २; १४ : १; १८,  
 २४ : ५.  
 कृष्ण-भक्ष<sup>०</sup> - अयः निस् ४, ३ : २;  
 गोर ३, २, १०; दाण २, ५, २४;  
 कौत् ३३, २८.  
 कृष्ण-भूम - पावा ५, ४, ७५.  
 कृष्ण-भौम<sup>०</sup> - -मम् बांध ११६, ४.  
 कृष्ण-मण्डल<sup>०</sup> - -लम् लाधौ ९,  
 १, ४.  
 कृष्ण-मधु - -धु वीधौ १३, ३० :  
 ३; ६; २६, ६ : १७; आमिष्ट  
 २, ५, १०-११ : २.  
 कृष्ण-मधुसूत - -धुवा आपधौ १९,  
 २६, १; द्विधौ २२, ६, ६; आमिष्ट  
 २, ५, १० : १८.  
 कृष्ण-ल<sup>०</sup> - वा ५, २, १७; -लम्  
 आपधौ १९, २१, १० : वीधौ  
 १३, ९ : ११; १३, २४ : ५;  
 ६; माधौ ५, १, ९, ३; द्विधौ  
 २२, ४, ३; अय ४, २, ५; विष

४, ६; काशु ७, २८; लम् ५-  
 लम् आपधौ १८, ५, ४; वैधौ  
 १७, १४ : ४; द्विधौ १३, १,  
 ६२; -लान् विध ५, ८५;  
 -लानाम् वीधौ १३, २३ : ५;  
 -लानि वीधौ ११, १ : ३; ९ :  
 २×४; माधौ ५, १, ९, ६; वाधौ  
 ३, १, २, ९; -ले विध ४, ११;  
 -लेन वाशु ७, २७; -लेणु द्विधौ  
 ३, ८, ४२; मीत् १०, २, १.  
 १कृष्णली - -लीम् अशां  
 २२, १.  
 कृष्णली (ल-ऊ) न - -ने विध  
 ९, ४५.  
 कृष्ण-ललाम<sup>०</sup> - -नम् वीधौ १५,  
 २३ : ५; २६ : ६.  
 कृष्ण-लोहित-रश्मि - -श्मयः अय  
 ५२, ५, ५.  
 कृष्ण-वर्ण, णी<sup>०</sup> - -णीः अय २१,  
 ७, ५; २४, ३, ३; वयू ४ : १५,  
 -णीम् आमिष्ट २, ५, ६ : ४;  
 द्विध १, ७, ३६, -णीं वाध १८,  
 १८; या २, २०.  
 १कृष्ण-वर्णि<sup>०</sup> - -ने आपधौ १६,  
 ११, ११; वैधौ १८, ८ : १३;  
 द्विधौ ११, ४, ११?  
 १कृष्ण-वर्मे<sup>०</sup> - १वर्मे आपधं  
 २, १४, २; आमिष्ट २, १, ३ :  
 २५; भाण १, २३ : १८; द्विष्ट  
 २, ३, ७; -रमां अय १, ३७, ११;  
 ७०, ५, १, अशां ७, ११.  
 कृष्ण-वसन, ना<sup>०</sup> - -नः कौत् ३३,  
 २८; -नम् कौत् ४७, ४०; -नाः  
 आपधौ १९, २६, १५; -नायै

वीत् ३४, ३.  
 कृष्ण-वस्त्र, द्रवा<sup>०</sup> - -स्त्रः निस् ४,  
 ३ : २; गोर ३, २, १०; दाण  
 २, ५, २३; -द्रवाम् अशां १५, २.  
 कृष्ण-वाल (>) ला<sup>०</sup> - -लाम् द्विधि  
 ४ : ५.  
 कृष्ण-वासस<sup>०</sup> - -साः अय ३३, ४,  
 ४; अशां १५, १.  
 कृष्ण-वासस<sup>०</sup> - -सैः अय ७०, ७,  
 १७, ७१, ११, ४.  
 कृष्ण-वीहि - -हयः आमिष्ट २, ५,  
 १ : २; -हीगाम् काधौ १५,  
 ३, १४; आमिष्ट २, ५, १० :  
 ३९; ११ : १३.  
 कृष्ण-वा<sup>०</sup> - -नाम् काधौ २२, ४,  
 १४; आपधौ २२, ५, ५; लाधौ  
 ८, ६, १२.  
 कृष्ण-वाकन<sup>०</sup> - -नः वीधौ १४,  
 १ : २.  
 कृष्ण-वाकुनि<sup>०</sup> - -निः आपधौ ९,  
 ११, २४; १४, ३१, १; वैधौ  
 २०, १९ : ३; द्विधौ १५, ३,  
 २५; ८, ३१; अय १९, १, १०;  
 काध २७६ : ५; -निना कौत्  
 ४६, ४७; -नेः कौत् १८, १६;  
 -नौ वीधौ २, ५ : ७.  
 कृष्णवाकुनि-मुखा (स-अ) वसु<sup>०</sup> -  
 -ष्टम् शंघ १८०.  
 कृष्णवाकुन्य (नि-अ) वसु<sup>०</sup> -  
 -ष्टम् आपधौ ९, १७, ४.  
 कृष्ण-शब् (ल >) ली<sup>०</sup> - -र्याः  
 माधौ ५, २, १, ३४.  
 कृष्ण-शिरस्<sup>०</sup> - -रसम् माधौ ५,  
 ३, १२, १७.

a) व्यय. । व्यु. ? । b) विप्र. । बस. । c) 'व' इति काधौ. द्विधौ. लाधौ. । d) = पाताल-  
 भिरोप- । e) वै १ द. । f) 'वर्मे' इति पाठः ? यनि. बोधः (द्व. शी १, २८, २ आपधौ. वैधौ) । g) पाठः  
 'वर्मे' (सं१) इति बोधः (द्व. संस्कारां [भू. XXV]), यदा 'वर्मे' (सं१) इति स्यात् । h) कत. समासान्तपू ट् ५.  
 (पा ५, ४, १०३) । i) स्वार्थे षः प्र. उसे. [पा ५, २, १००] (द्व. आमित्स्वामी [लाधौ ८, ६, १४]) ।



कृष्ण-शीर्ष- -पम् बाधौ ३, २, ६,  
३२.

कृष्ण-शीर्षन्- -र्षा बाधौ ३, २,  
२, ४४.

कृष्ण-शुक्र, क्वा- -कृयोः माधौ २,  
१, ४, १३; -क्वानाम् माधौ ५, १,  
६, १५; -क्वे माधौ २, १, ३, ४.  
कृष्णशुक्र-संज्ञत- -ते बाधौ ३,  
२, ५, ३८<sup>b</sup>.

कृष्ण-श्रेय- -तः हिधौ ७, ३, २१.

कृष्ण-मारुत- -ऋः प्रापधौ १०,  
२९, ५; वैधौ १२, २० : १४;  
-ऋम् काधौ ७, ९, १८; २०, १,  
३४.

कृष्ण-सीर- -रेण कौसू ३९, २९.

कृष्ण-सुन्दर- ( < > ) कार्ण-  
सुःशरि- ( वा ) पाग २, ४, ६९.

कृष्ण-सूत्र- -ऋम् हिधि १७ : २०;  
-ऋण कौसू ३६, १७.

कृष्ण-स्फाना(न-आ)सन-रन्ध-भक्ष-  
-श्रेय गोए ३, २, २५.

कृष्ण(ष्ण-अक्ष >) शी<sup>a</sup>-  
-शीम् हिधि ४ : ५.

कृष्ण-गोमय- -यम् आम्रिध २,  
७, ७ : ६.

कृष्ण(ष्ण-अ)अना( न-अ)अ<sup>a</sup>-  
-अम् अप ६४, ८, ९.

कृष्ण(ष्ण-अ)त<sup>a</sup>- -तानि काधौ  
२२, ४, २२.

कृष्णा-प( ष् >) शी- कृष्णादी-  
टि. द.

कृष्णा(ष्ण-आमा >) म- -माः  
अप ५२, ३, ४.

कृष्णा(ष्ण-अ)भाव- -जे दाधौ ७,  
१, ६; लाधौ ३, १, ६.

कृष्णा(ष्ण-अ)म्वर-धर- -रः अप  
३१, ९, ३.

१ कृष्णा(ष्ण-अ)यस<sup>a</sup>- -सम् जैय २,  
९ : ३४; शेष २७७; श्यायध  
२, १६, १८; हिधि २, ५, १८.

कार्णावस- -सम् वाध  
१७, ४५; -सेन घोए १, ३, १८.

कार्णावसो- -सीम् विध  
५०, ३४.

कृष्णावस-स्वर<sup>a</sup>- -रवः वाधुधौ  
३, ७६ : २९.

२ कृष्णा(ष्ण-अ)यस<sup>a</sup>- -साः वाधुधौ  
३, ७६ : ३०.

कृष्णा(ष्ण-अ)ध- -धः आम्रिध २,  
५, १० : १.

कृष्णा(ष्ण-अ)ष्ट(क >) का- -कासु  
विध ७३, ८.

कृष्णा(ष्ण-अ)ष्टसी- -न्याम्  
आम्रिध २, ५, ४ : २; अप ३६,  
२१, १.

कृष्णो(ष्ण-अ)ष्ट- -ऋः आम्रिध  
२, ५, १० : २.

कृष्णोरञ्जी- -ञ्जीः आम्रिध २,  
५, १० : ३१.

कृष्णो(ष्ण-अ)र्णा- -र्णया कौसू  
७२, १७; ८६, २०; -र्णाभिः  
कौसू ३५, १०.

कृष्णोर्णा-ज्य<sup>a</sup>- -ज्वेत कौसू  
३२, ८.

कृष्णो(ष्ण-अ)गोप<sup>a</sup>- -पाः आपधौ  
१९, २६, १५.

२ कृष्ण<sup>b</sup>- -पायवा ५, ४, ३८; -ऋणः  
काधौ १, ७, १६; आपधौ १, ६,  
१, २; २, ८, १; वीधौ १, २ : २६;  
१३ : ५; माधौ १, ५, १३; १४;

२, ७, १३; माधौ १, २, ५, २३;  
वाधौ १, २, १, ३२; ३३; ३, ३, ३६;  
वैधौ ३, ५ : १; २; ५, ५ : ३;  
जैधौ १३ : ९; हिधौ १, २, ६६;  
६७; ७, ५२; वैय १, १० : २;  
वाध १, १५; ऋध २, ८, ८५;  
शुध १, १५; शुया २, २५; वीध  
१, १, २८.

कार्ण- पा ५, ४, ३८.

का(ष्ण >) र्णा<sup>1</sup>)- -र्णा<sup>1</sup> आपधौ  
१७, १३, २; वैधौ १९, २, २; ३=  
१; ६ : ६६; तैत्रा ४, १२;  
-र्णा<sup>1</sup>विद्यम् लाधौ ९, १, २४.

कृष्ण-मार्ग<sup>k</sup>-ज- -जम् वाध २८,  
२०.

कृष्ण-स्य- -साः वीधौ २७, २३ :  
२; ऋध ३, ८, ११; वाध १, १३;  
शेष ७, ८; -गस्व वैय २, ४ : २.

कृष्णस्य(ष्ण-अ)जिन- -जम्  
विध ८७, १.

कृष्ण-रुक्-बन्ध- -रत्तानि शेष ३५.

कृष्णरुक्बन्धा(स्त-अ)जिन-  
-नानि वीध १, २, १५; वीध  
१, १८.

कृष्ण-विपाण, णा- -णम् माधौ १०,  
८, २; लाधौ ९, १, २३; -णया  
काधौ ७, ४, ३१; आपधौ १०,  
२३, ३; १८, १६, ९; वीधौ;  
-ण वीधौ ६, ५ : १५;  
२२, ११ : २४; शुध १, २५२;  
-णाः आपधौ २१, ५ १३;  
हिधौ १६, २, २१; -णाम् काधौ  
७, ३, २५; आपधौ १०, ९,  
१७, १३, ३; १३, ७, १६ x x;  
वीधौ; -णयाः आपधौ १३,

... a) विप. । बस. । b) सप्त. आपधौ २१, १९, ९ विकिष्टः पाधे. । c) व्यप. । द्यु. ३ । d) विप. ।  
कत. > यत. । e) कम. रामायन्तप् उच्च प्र. (वा ५, ४, ९४) । f) स्वार्थे लङ्कितः प्र. । g) विप. । यत. उप.  
= ज्या. । h) वप १, ११६८ ङ प्र. । i) विप. (उपानह-). । j) विकारे षञ् प्र. । k) कस. उप. = मृग- ।

१८, ७; वीथी २१, ७ : २०, ९ :  
१४; २१ : २२; २४ : १६.

कृष्णविपाणा-ग्रन्थि- -ग्रन्थिम्  
वीथी १६, ८ : ८.

कृष्णविपाणा-मेखला- -ले काशी  
१०, ८, १५.

१कृष्णा(ष्ण-अ)जिन- -न्म् दाथी  
३, ११, १४; ४, १४, ३०; काथी;  
-नयोः वीथी १८, २४ : ६;

२१, ९ : १; -नस्य दाथी  
१५, १३, १५; आपथी; -नात्

आपथी १०, १५, ११; वीथी;  
-नात्ताम् वीथी २१, ७ :

१८; वीथ १, ५, ३२; ६, १३;  
-नानि आथी ५, १३, १२,

दाथी; -ने आथी २, ६, ७;  
काथी; -नेन आपथी १०, ८,

११x४; वीथी.

कार्णाजिन<sup>१०</sup> -नानि  
आपथी १५, ५, १२; वीथी ९,

५ ४; वैथी १३, ७ : १८; द्विथी  
२४, २, ६.

कार्णाजिनी-नी वीथी  
१०, ३७ : २; वैथी १९, ४<sup>०</sup> : १;

८; ६ : ५८<sup>०</sup>; -नीः वीथी १०,  
२१-१४; ३७ : ९; ३९ : ३; ४१ :

३, ४४ : ३, ४९ : २; वैथी १८,  
१४ : ३१; -नीताम् वीथी २२,

५<sup>०</sup> ६.

कार्णाजिनी-प्रभृति-  
नीम् वीथी २६, २८ : ७.

कृष्णाजिन-बहय- -रुपः वैथी  
४, ८ : २; द्विथी १, ५, ७, ७.

कृष्णाजिन-कण्ठ<sup>०</sup> - -ष्टाः निस्

५, १३ : ६.

कृष्णाजिन-दीक्षा- -शा काथी  
२०, ४, ३.

कृष्णाजिन-दति- -नौ वीथि २,  
७, ७<sup>०</sup>.

कृष्णाजिन-निव्यूत- -तम् काथी  
१६, ५, १.

कृष्णाजिन-पाद- -दम् माथी  
२, १, २, ३; ताथी ९, १, २, ३.

कृष्णाजिन-पुट- -टानि माथी  
४, २, २; -टेन आपथी १७, २०,

१३<sup>०</sup>; वीथी २२, १० : २१;  
२४, ८ : १२; माथी ६, ३, ५,

३४; द्विथी १२, ६, २, १.

कृष्णाजिन-पुष्करपर्ण- -मै वैथी  
१८, १ : ३७, शुभ २, ३, ३.

कृष्णाजिन-प्रभृति- -ति वीथी  
२५, २९ : १२.

कृष्णाजिन-प्रासन- -नात् वीथी  
२१, १० : १.

कृष्णाजिन-मात्र- -ग्रम् वीथी  
१८, ७ : ४

कृष्णाजिन-सोम<sup>०</sup> -मै<sup>०</sup> वीथी  
९, ३ : ८; १०, ५ : ४.

कृष्णाजिन-सोमन्- -मनिः<sup>०</sup>  
आपथी १६, ४, १; काथी २, १,

१, ३४, द्विथी ११, ४४;  
-मानि आपथी १५, २, १, वीथी

९, १ : ५, १७; १०, १ : ५, १६;  
माथी ११, २, ७, वैथी १३, २ :

३; द्विथी २४, १, १०.

कृष्णाजिन-वाचन- -नात् वीथी  
२९, ६ : १०; वैथी २१, १७ : ६.

कृष्णाजिन-शेष- -वेण आदि

३, ४, २ : १४.

कृष्णाजिना(न-अ)दान- -न्म्  
काथी २, ४, १.

कृष्णाजिना(न-अ)दि- -दि  
काथी ७, ४, १०; २०, ४, ११;

-दीनाम् वीथ ३, १, १४; -दीति  
काथी २४, ७, ३.

कृष्णाजिनादि-क- -कः क  
३, ४, १.

१कृष्णाजिना(न-अ)स्त- -न्तम्  
काथी १०, ९, ४; -न्ते माथी

४, १, १०; -न्तैः वीथी २३,  
११ : ६.

२कृष्णाजिना(न-अ)न्त<sup>०</sup> - -न्तम्  
काथी २०, ४, ५.

कृष्णाजिना(न-अ)वकृत- -सैः  
काथी २६, ४, २.

कृष्णाजिना(न-अ)वपवन- -न्म्  
वीथी २५, ३१ : ५; -नात्

वीथी २०, ६ : २६; -नेन वीथी  
२५, ९ : १४.

कृष्णाजिना(न-अ)स्तरण- -न्म्  
आपथी १०, ३१, ३; ११, १७,

१०; माथी ६, १६, २०; वैथी  
१४, १६ : ५.

कृष्णाजिनो(न-अ)त्तरीय<sup>०</sup> - -यः  
आदि २, ७, १० : ४; शेष  
३६९.

कृष्णोत्था<sup>०</sup>-( > )स्यक- (पा.),  
कृष्णोत्थाखरेष्ट<sup>०</sup>-( > )कृष्ण-

(पा.) पाग ५, २, ६२.

३कृष्ण<sup>०</sup>- पाग ४, १, ९६; १०५;  
पागवा ४, १, ९९; -०ष्ण विष

१८, ९६; -ष्णः ऋथ २ १०.

a) विप. ( घटित्र- [व्यजन-] ) ।

b) विकारे अन् प्र. ।

c) कृष्णा इति पाठः यनि शेष ।

d) उच्यते संविर्षयः । e) विप. । वस. । f) तु. मैस. [१९२०] । ङुत्तौ इति मैस. [१९०४] । ङिने ष्टे इति  
B. । g) वस. समासान्तम् ट्ठ् प्र. (पा ५, ४, १०३) । h) पररपरं पाठे. । i) तु. पावम. । j) <कृष्णः,  
असि, वाखरेष्टः (मा २, १) । k) = अवि-विशेष- । वैप १ द. ।

४२; साध १, ३७८; अथ २०, १५; ८६; ६४; -प्या. ० वीथीप्र ४८ : २; १३.  
 कार्णाथन- पा ४, १, १६.  
 कार्णि- पा ४, १, १६; -णिः अम २, ८, ८६.  
 कार्ण्ये- पा ४, १, १०५.  
 कृष्ण-द्रैपायन- नम् संघ ११६ : ४१; -नाय आमिष्ट १, २, २ : १८; वीथ ३, १, ५; भाग ३, १० : ३; शिष्ट २, ११, ६.  
 कृष्णा(प्य-ञ्)त्रेय- -याः वीथीप्र २७ : ५.  
 कृष्णक- प्रभ. १कृष्ण-द्र.  
 कृष्णाङ्गहृमिधम् लाथी ८, ६, १२.  
 कृष्ण-मार्ग- , ष्टम- प्रभ. २कृष्ण-द्र.  
 कृष्णल- प्रभ. १कृष्ण-द्र.  
 कृष्ण-विपाणा- २कृष्ण-द्र.  
 कृष्ण-वीहि- प्रभ. १कृष्ण-द्र.  
 कृष्णार्जिन- २कृष्ण-द्र.  
 कृष्णा(प्य-ञ्)जिन- पाग २, ४, ६९; -ना. ० वीथीप्र ४८ : ९.  
 कार्णाथिनि- निः काथी १, ६, २३; मीथ ४, ३, १५; ६, ७, ३६.  
 कृष्णाञ्जनाम- , प्रभ. १कृष्ण-द्र.  
 कृष्णोरध- प्रभ. १कृष्ण-द्र.  
 कृष्णोस्या, ०खरेष्ठ २कृष्ण-द्र.  
 कृष्णमाण- √कृष् प्र.  
 कृष्णा- -प्या कौश ५, ५, ६१.  
 कृत्सर, रा- पाठ ३, ७३; -रः गोर

२, ७, ९, ९, ५; ७; शिष्ट २, २, २६; ३, १८; -रम् शाय २, ४, ४; ५, २; अथ १, ४८, ३; अर्ग १३, १; १५, ४; -राम् अथ ६८, ५, १.  
 कृत्सर-पायसा(स-ञ्)श्व- -वैः संघ २१८.  
 कृत्सरा(र-ञ्)ज- -नम् विध ५०, ३१.  
 कृत्सरा-पायस- -से अथ ७०, ६, २.  
 कृत्सरा-पायसा(स-ञ्)श्व- -वैः अथ ४४, ३, १०.  
 √कृ(स्तुती) > कीर्ति- पाठ ४, १११<sup>h</sup>; पा ३, ३, १७; -तिः पाठ २, ५, ३१; आमिष्ट २, १, ४:१८; वीथ; -तिम् आथी ८, ७, २३<sup>†</sup>; शार्थी १०, १०, ६१; शार्थी १०, ३, ४<sup>†</sup>; लाथी ३, ११, ३<sup>†</sup>; पाथ; -र्या आथी १, ७, २२; कौथ ३, १०, ३५; शाय २, १०, ४; आमिष्ट; -तिं शार्थी १, ३, २३<sup>†</sup>, ५, १३, १२; शार्थी १३, १४, ६; आथी २१, ५, १०; वाथी ३, २, १, ३६<sup>†</sup>; शिथी १६, ३, १९<sup>†</sup>.  
 √कीर्ति, कीर्तयति धैथी १२, १२ : १३; वृदे ४, २५; कीर्त-यन्ति वृदे ५, १७१; अकीर्तयत् वृदे ४, ६८; कीर्तयत् आथी १०, १५, १५; १६, १०, ६; वीथी.  
 कीर्तयिष्यामि अथ ४ : १६;  
 कीर्तयिष्यामः अथ २१, १, १.  
 कीर्तयेते अथ २२, ४, ४; वृदे;

कीर्तयन्ति वृदे ५, १७२.  
 कीर्तन, ना- -नम् वृदे ४, ३१;  
 ३२; -ना वृदे ५, ११४; -नाथ तु ३१, ८; वृदे ४, ११९; ८, १२३.  
 कीर्तयत्- -यत् कौथ १९, ३१; वृदे ७, ५८; १०३; -यन्तः आपथी १४, २२, १; वीथी.  
 कीर्तयाम् √अस (भुवि),  
 कीर्तयामास वृदे ६, २४.  
 कीर्ति, ता- -तः आमिष्ट २, ४, १२२; अथ २२, ७, ४४४;  
 संघ ४५७ : १०; वृदे ३, ६१;  
 -तम् आमिष्ट २, ५, ६ : २१;  
 अथाथ २, १; अथ ६३, ५, २;  
 वृदे; -त कथ ३, ७, ४; अथ २२, ५, ३; संघ ६५; -तः अथ ६८, ५, १७; वीथ २२४;  
 वीथ; -तानि अथ ४७, ३, ४;  
 -तेन वृदे ४, १२०.  
 कीर्तयमान- -गन् अथ ५८, १, १; ६४, १, ४.  
 कीर्ति-मत्- -नम् अथ १, १८, १; ३; ४; २१, १; विव ११, १४.  
 कीर्ति-पुक्त- -क्त. विव ३, ९८.  
 कीर्ति-राज- -जानम् चास ४० : १६.  
 √कृ<sup>१</sup> पाषा. तुदा. पर. विधेये.  
 ३कर- पाग ५, ४, २८.  
 ४कार- पा ५, ४, २८.  
 कार-नामन्- -शि पा ६, ३, १०.  
 करा (र-ञ्) दान- -नम् विध ३, २६.

a) बहु. <कार्णाथन- वा कार्णि- वा । b) = कृष्णाम् । पाठः ? । c) = कृष्ण-विशेष- । पस. ? ।  
 d) बहु. <कार्णाथिनि- । e) पाठः ? । तथा. वी १८, ३, ६० पुष्ठा इति, तैसा ६, ४, १ पुष्ठा इति च पागे. ।  
 f) नाथ. (L तिलोदन- विचकी जना.) । व्यु. ? । g) <√कृ इति । h) वैष १ द. । <√कीर्ति इति ।  
 i) = देव-विशेष- । j) या २, ८; ११, १२ अथ ४, ६, ९ पा ७, २, ७५ पाठा ३, १, ८० परागः द. ।  
 k) = राज्याङ्ग-भाग- । अथ प्र. (पा ३, ३, ५७) ।

द्वि- पा ३, १, १३५.

कीर्ग- मीं का ६३, २, १.

कीर्ग-गामस्ति- -रिषु रूप  
६८, १, ३३.

✓कृ पाषा. क्म. पर. उम. हिवायाम्.

✓कृ पाषा. सुरा. पर. संशन्दने.

✓कल्पू पाषा. भ्या. आत्म. सामर्थ्ये,

कल्पते शीघ्रं १०, १८, ८;

वीथी; माथी ६, २, ५, २६<sup>१५</sup>;

वाथी २, २, ५, ५<sup>१५</sup>; निष ३, १४;

कल्पते वीथी १३, १९, १३<sup>१</sup>;

वाथी; कल्पयाम् कापथी १,

९, १३; १०, १३; १३, १०; ४,

१०, ९<sup>१</sup>; १८, ५, १३<sup>१</sup>; वीथी १,

३; २०××; ११, ११; १५<sup>१</sup>;

भाथी; वैथी १७, १५; १<sup>१</sup>;

द्विथी १३, २, १<sup>१</sup>; वाषा १४;

१<sup>१</sup>; कल्पेजाम् कापथी ४, १०,

९, ५, २०, ४; वीथी, कल्पयाम्

वाथी ४, ९, २<sup>१</sup>××; कापथी,

काप ३, ६, ८<sup>१</sup>, द्विथ १, १७, ४;

कल्पयाम् कापथी ७, ४, ५, १९,

३, वैथी. कल्पयाम् कापथय ६,

८, कल्पयाम् वाथी १०, १८, ८;

कल्पयाम् वाथी ५, १, ७, १६, कल्प

२; ३४; वीथी १, २, २४;

कल्पेजाम् कापथी १२, १४, ४××;

वीथी.

कल्पते निष ७७, ७, कल्पयाम्

वाथी १०, ९, १०; द्विथ ३, ७४.

कल्पयाम् वीथी १, १५; १९, २,

११; २१<sup>१</sup>; कल्पयाम् वाथी

२, ७, १५; कापथी २, ९,

७××; ९, २, १<sup>१</sup>; वीथी;

द्विथी १५, १, ४५<sup>१</sup>; कल्पयाम्:

कापथी १४, ३३, ५; कल्पयाम्

निम् ४, १३; ७; काप १, २३,

६<sup>१</sup>; माप ३, ९; ६; कल्पयाम्

वाथी २०, ७, १; कापथी;

कल्पयाम् कापथी २, १०, ६<sup>१</sup>;

कृवीथी; कल्पयाम्: द्वाथी ८, १,

५; लाथी ४, ५, ६; निम् ४,

१२; १०; कल्पयाम्: कौत्

५, १२; १०१, २; कल्पयाम्

कौत् २०, ५; १२४, ३; ३;

कल्पयाम् कापथी १, १२, १;

वीथ १, १४, १०; वाप १, २०,

१३; कापिथ; कल्पयाम्: माप

१, ३, १; कल्पयाम् वाथी १, ६,

१, २७<sup>१</sup>; कल्पयाम् कापथी ३,

१२, १<sup>१</sup>××; भाथी ३, ११,

१<sup>१</sup>××, वाथी; द्विथी २, ६,

४<sup>१</sup>, १६<sup>१</sup>, कल्पयाम् कापथी

१२, २३, १<sup>१</sup>; वीथी ७, १४, १<sup>१</sup>;

द्विथी ८, ७, १९<sup>१</sup>; कल्पयाम्

कापथी ६, २०, २<sup>१</sup>, कल्पयाम्

वीथी ६, १३; ६, १०, २३; १३;

कापथी, कल्पयाम् वा १२,

२८<sup>१</sup>, कल्पयाम् सु १, ४; वाप

१, १९, १<sup>१</sup>, माप ३, ९; ५<sup>१</sup>,

कल्पयाम् कापथी २१, ११,

७; ८, द्विथी १६, ४, ११<sup>१</sup>;

कल्पयाम् वाथी ४, १०, १;

१२, ३०, २; कापथी; कल्पयाम्

निम् २, ८; २५, ५, २; ५; कल्प-

याम् कापथी ६, ३०, २; वीथी,

कल्पयाम्: सुम् २, १४; २३;

कापिथ ३, ५, १-२; वीथी १, १-२.

कल्पयाम्: वीथी २४, १: ७.

कल्प- पाप ६, १, १९९; -स्व:

काथी १२, ६, १३; कापथी ३,

१४, ७; १६, १६; ५, २६,

२; ६, १७, ११××; वीथी; वा

१६, ६; वीथी २४, १: १; १८:

१७; २९: ११××; वाथी; शेष

११६: ३९; वीथ ३, ५, १; निष

४३६, २३; -स्वस्य सुम् ३, ३:

३; -स्वस्य कापथी १२, २१, १७;

वीथी २३, ११: १५; २६; द्विथी

७, १, २८; निम् २, १: ३४;

५, ५: ९; ६, १३: २५; १०,

९: ३; -स्वस्य द्विथी २, ६, ४६;

काप ३, ३, १-३; कापिथ २,

६, ४: ९; १२; -स्वस्य वीथ

३, ९, १५; का ४६, १, ३; ८, ३;

द्विथ १, ३, ८९; -स्वस्य कल्प

४: ६; -स्वस्य कापथी ६, ४, ३;

७, ९; ज्योतिषा १२३; द्वाथी १२,

१, ३७; लाथी ४, ९, १३; ६, १,

१०; निम् ८, २: ५७; १०, १२:

११; १२; वीथ ३, ९, ४८; वाप

४, ७, ५१; कापिथ ३, ६, २: ३;

का २२, १, १; निष २०, २४<sup>१</sup>;

द्विथ १, ४, १; पाषा ४, १, ६१; ३,

६६; -स्वस्य-स्वस्य कल्प ४: ७;

-स्वस्य कापथी ५, १, ५××, वीथी;

-स्वस्य वाथी १२, २१, २<sup>१</sup>; काप

७, ५०<sup>१</sup>; -स्वस्य: कापथी १८,

५, १३; वीथी ११, ११: १४;

२२, १५: ५, वैथी १७, १५:

१; द्विथी १३, २, ४; -स्वस्य

a) काप १३, ३५ वा ६, ८ वा १, १, १३, ७, २, ६- पराश्रय: द: । b) वामे, वैष १, ११६९ h द: ।

c) शम्भु इति वाप: इति. दोष: (दु. मय. द्विथ १, १७, ४) । d) वामे, वैष १ वापयति का ३, ५९, १ द्वि. द: ।

e) वामे, वैष २, ३, ११. कल्पयाम् वा ७, ११, ५ द्वि. द: । f) वामे, वैष १, ११७-० द: । g) माप, माप.

(वेदाङ्ग- १००, कल्पयाम्- प्रव.) । वैष १ द: ।

भाथी १, ६, ६; छम् ३, १६ :  
१५; वैताथी ४३, ४६.

कल्प्य<sup>०</sup> - ल्यः कौत् १४१,  
३४.

कल्प-कारो (र-उ) क- ऋः  
शुम् १, १७.

कल्प-दृष्ट- दृष्ट् आतिष्ठ २, ७,  
४ : ६.

कल्प-प्रदेश- णाः लाथी १०,  
१०, ५.

कल्प-प्राय<sup>०</sup> - याणि निम् १०,  
१२ : २०.

कल्प-प्राद्वण- णे मेञ्च २, १४.  
कल्प-प्राय- षे पायु २, ६, ७.

कल्प-विचारित- वानि निम्  
९, ११ : २८.

कल्प-विप्रतिषेध- षे ताथी  
१३, १४, ५.

कल्प-विरोध- ष्यात् मीस् ६,  
६, २२.

कल्प-वृत्त<sup>०</sup> - सेन लाथी १०,  
२, १३.

कल्प-व्रत- से अप ४६, ३, ७.  
कल्प-स-प्राय<sup>०</sup> - यम् निम् ६,  
२ : ३१; -याणि लाथी ६, ९,  
१२; निम् ६, २ : २९.

कल्प सुम्<sup>०</sup> ( > काल्पसुम्<sup>०</sup> -  
पा.) पाग ४, २, ६०.

कल्प-रथायित् - यिनः क्षप  
११६ : ६.

कल्पा (क-आ) ल्यात् - से  
निम् ५, ९ : ३.

कल्पा (ल-आ) दि- दिभ्यः  
पावा ३, ३, ५६; -दियु विध १,  
२.

कल्पा (ल-अ) ध्यायित् - षी  
वीष् १, ७, ५.

कल्पा (ल-अ) वृ(ग >) गा-  
णाः वृदे ८, १०४.

कल्पा (ल-अ) ऋत् - ऋत् अप  
७०<sup>३</sup>, ३, ३.

कल्पा (ल-अ) ऋत् - ऋत् अप  
६, ७, २२.

कल्पै(ल-ए) क्वं - न्वात् शाय  
१, १, १४.

कल्पत् - ल्यप्<sup>०</sup> अत्र ११, ५५.

कल्पन - नम् पायडा २, २.

कल्पना - > षै(ना-ए) कदेश्वात् -  
न्वात् मीस् १, ४, ३०.

कल्पमान, ना - नः अप्राय २, ९५;  
-नम् आतिष्ठ १, ५, ३ : ४;

द्विष्ट १, १९, ७५; -नाः वीथी  
१४, १७ : २६.

कल्पयन् - यन् आपथी २, २१,  
१५; ३, ११, २; वीथी; -यन्तः  
वैष १, १०, ९; -यन्तम् कौस्  
९९, २५.

कल्पयन्वी - ऋत् वीथी ६,  
२५ : २; १५, ३० : १४९; भाष्ट  
२, २ : ११; कौस् १०१, २;

तैषा ४, १५.

कल्पयितव्य - व्यः आपथी ६,  
३०, ४.

कल्पयितुम् वीथी २४, १ : ६.

कल्पयित्वा काथी २१, ४, ८;  
आथी.

कल्पयित्वात् - ष्यन् छम् २,  
९ : ९.

कल्पित - लम् वीथी २७, ३ : २.  
कल्पिता (त-अ) ऋ - ऋम् वाट

६३, १०.

कल्प्य - पाठयो २, ३, १६४.

कल्प्य - ल्यः वाध १९, ९; -ल्य्यात्  
तैषा १४, २५.

कल्प, सा - सः वीथी १९, ७ : २५;  
छम्; या १४, ५; -सम् वाथी  
१७, ८, १४; १८, २१, १३;

द्विथी १८, २, १; वैताथी;  
-साः शीथी १०, १८, २; ८;

छम्; आतिष्ठ ३, ७, १ : ११५<sup>०</sup>;  
वीथि १, १७ : १०५<sup>०</sup>; -सात्  
आपथ २१, ७; -सात् शीथी  
४, ९, १५; -से द्विथी २१,  
१, २; -सेषु शीथी १०, १८,  
२; ८; लाथी ८, ८, ३५; -सी  
क्षु १, ४ : १.

कल्प - केश-दमधु - ऋ अप  
११, १, २.

कल्प - केश-दमधु-रोम-नल -  
-र्त्वा अप २२, १, २.

कल्प-प्रमाण - णानाम् ऋपा  
१७, १

कल्प-सन्द् - ऋदे याधि २६.

कल्पि - सयः शीथी १२, २०, १;  
-सिः शीथी १०, ९, ७; शीथी  
४, ९, २; आपथी ४, १०, ९३;  
भाथी; -षिम् आपथी १०, १,  
४; वीथी २, ४ : २३; आयु १,  
२३, १५; -सीः माथी ६, २, २,  
६; -ष्या वृदे २, १४; -ष्याम्  
निम् १०, १० : १२; -ष्यै  
वाथी १, ३, ७, ७५.

कल्पि-सामनसी - सीष्याम्  
आपथी ५, २०, ४; वाथी १, ४,  
४, २२; द्विथी ३, ५, ९.

a) विप्र. । प्राग्दीव्यतीयः पयः प्र. । b) विप्र. (सर्ष-सामन्) । यय, उप, = बाहुल्य- वा तुल्य- वा ।

c) अर्थः ? । पत्, वा समाहारे द्वय. वेति क्रमिनस्त्वामो । d) विप्र. । वस. । e) तु. पागम. । f) अण् प्र. (तु. पाका. प्रम्.) । g) वष १, ११७१ f. d. । h) पथे, वैष १ साकम् शौ १२, २, २५ टि. द. ।

केकय<sup>०</sup>- पाठो २,३,७; पाग ४, १, १७६.

केकय<sup>०</sup>- अ: अण ५६, १, १०.

केकय- पा ४, १, १७८; ७, ३, २; पावा १, १, ५७.

केकर- पाठो २, ३, ६४<sup>०</sup>; पाग ४, १, १९६, -र: अण ३, ३, २९.

केकरायण- पा ४, १, १९९.

केका<sup>०</sup>- (>केकिन्- पा.) पाठो २, २, ६; पाग ५, २, ११६.

✓केत् पाधा. चुरा. आत्म. धावणे निमन्त्रणे च.

केत- क्तिट् ड.

केतफ- (>केतकी- पा.) पाठो २, २, ४३; पाग ४, १, ४१<sup>१</sup>.

केता- केतु- प्रष्ट. ✓किट् ड.

केदार<sup>०</sup>- पाठो २, ३, ४५; पाग २, ४, ३१; -रे विष ८५, १७.

केदारक-, केदार्य- पा ४, २, ४०.

✓केप् पाधा. भ्वा. आत्म. कम्पने गती च

केपि<sup>०</sup>- अण: अण ४८, ११५<sup>१</sup>; निष ४, २<sup>१</sup>; या ५, २, ४४<sup>१</sup>; २५<sup>१</sup>.

केरल<sup>१</sup>- पाठो २, ३, ११; पावा, पाशग ४, १, १७३.

केरा<sup>१</sup>- >केरा(रा-अ)क- कौं कौट् ३८, ६.

केर<sup>१</sup>- >केर-गुल्युड<sup>१</sup>- लु वाधौ १, ६, १, ३६.

✓केल् पाधा. भ्वा. पर. चलने.

१केलि- पाठ ४, ११८.

केला (>✓केलाय<sup>०</sup>- पा.) पाग ३, १, २७.

रकेलि<sup>०</sup>- लिम् यासि २, ४८.

रकेयट<sup>०</sup>- अ: अण ४८, ७७; निष ३, २३.

रकेवल, ला<sup>०</sup>- पाठो २, ३, ९७; -ल: वीथौ २५, १७:८; वैताथी;

-लम् आथौ ६, ३, १६; काथी;

-लस्य पा ७, ३, ५; पावा १, २, ४५;

-ला वृरे ३, १०८; -ला:

वृदे २, ८१; -लात् अया २, ३, ७; पा ५, ४, १२४; -लान् या

८, २२<sup>१</sup>, -लानि संघ ४२८;

विष ५१, ४२; आज्यो ७, २३;

-लाम्याम् पा ७, १, ६८;

-लाया: पावा ५, १, ३३<sup>१</sup>; -ले

या ८, २२<sup>१</sup>; मीत् २, ३, २०;

-लेन पावा १, ३, ४५; -लेषु

वीध ४, १, ६; -लै: वृदे १, ८६.

केवली- पा ४, १, ३०; -ली:

फुगौथी ८, १५: १२; १३.

केवल-प्रदण- णम् पावा ७, १, ६८;

-णात् पावा ४, १, १.

केवल-ष्टल- ण्वात् पावा ३, १, २.

केवल-दु- पाठना १, ३७.

केवल-वेदि<sup>०</sup>- दि. काथीसं २९:९.

केवला(ल-आ)शेष<sup>०</sup>- अ: कण ३, १, १५;

-यम् वाधुथी ४, ५: ११; १४: १६.

फकेवला(ल-अ)व<sup>०</sup>- अ: कौट् ३,

१०, ३०; वीध २, ७, १६; या ७, ३.

फकेवला(ल-आ)दि<sup>०</sup>- श्री कौट् ३, १०, ३०; वीध २, ७, १६; या ७, ३.

केवला(ल-आ)पाल- जे वैथीसं १६.

केवला(ल-अ)शन- नम् मीम् ९, ४, ३६.

रकेयल<sup>०</sup>- > कैवल्य- ण्या: वीथीप्र १९: ५.

केवाल<sup>०</sup>- (>केवाली- पा.) पाग ४, १, ४१.

केवाली, ंली (> ंली, ंसी ✓कृ पा.) पाग १, ४, ६९.

१के(क-री)दा- २४- ड.

रकेदा<sup>०</sup>- पाठ ५, ३३; पाग ५, २, २४; -दा: आप्य १, १६, २३; दिष १, ५, २२;

-दा: आप्यौ ६, २०, २१; वीथी: या १२, ३५<sup>१</sup>;

-दात् आथौ २, १६, २३; आपथी: फुकायं २, १, १<sup>१</sup>, ७<sup>१</sup>;

फुआय १, १७, ७<sup>१</sup>, १६<sup>१</sup>; फुआय २, १, ६<sup>१</sup>; १९<sup>१</sup>;

काय ४०, १२<sup>१</sup>;

वीथ २, ४, ८<sup>१</sup>; फुआय १, २१, ३<sup>१</sup>; ६<sup>१</sup>; ७<sup>१</sup>;

फुआय ४, ८<sup>१</sup>;

१०<sup>१</sup>; जैय १, ११: ९<sup>१</sup>;

-दाताम् शौथी १८, २४, २३;

शेष ३९१; आप्य १, १६, १४;

दिष १, ५, १३; -शेन कौट् ५१-

११; -शेषु वैथी १२, ६: ४;

a) = दात्रिय-विशेष, तद्-देश-। व्यु. ?। b) स्वार्थे णम् प्र.। c) = वक्रदृष्टि-। व्यु. ?। < ✓कि इति। d) वृ. पागम.। व्यप.। e) = मयू-वाणी-। व्यु. ?। f) वृ. पागम.। g) = क्षेत्र, तीर्थ-। व्यु. ?। < ✓कृ इति पाठो.। h) वैष १ ड.। i) = जमद-, तद्द्राजन्-। j) = कनस्पति-विशेष-। ल्हेरक-। व्यु. ?। k) अर्थ: व्यु. च ?। l) समाहारे द्वल.। m) विलासि इति: (वृ. पासि.)। n) = उष्म-विशेष-। व्यु. ?। o) विष.। वस.। p) = अय्याय-, सृक्-। q) = शयि-विशेष-। व्यु. ?। r) = बाल-। वैष १ ड.। s) = ररिम-। t) पाधे. वैर १ इन्द्राय शौ ६, ६८, २ डि. ड.। u) पाधे. वैष १ परि. केदाशनयु शौ ८, २, १७ डि. ड.। v) पाधे. वैर १ इन्द्राय शौ ६, ६८, ३ डि. ड.।

हिथ्री ६, ८, ८; १०, १, ३३;  
 माय २, १४, २६; कौम् ३३,  
 १३; पावा ६, १, ११; -नैः द्राय  
 २, ३, २४; अय ६९, २, १.  
 १केशिक-, केशय- पा ४, २,  
 ४८.  
 -केश-कर्मल-शैवाल- -लाः शंघ  
 ३७४.  
 -केश-कीट- -द्यान् माघ १४, २३;  
 -ः शंघ ४३१; विघ २३, ३८.  
 केशकीट-युत- > एत-प्रात-  
 वाससाहृत- -तम् सुष ६०; ७.  
 केशकीट(ट-अ)वपत्र,घा- -रम्  
 शोध १७, ९; -सा अय ३७,  
 ७, १.  
 -केश-कीट-क्षुत-यचो( च-अ)भि-  
 हृत- -तम् सुषय ८८; ३.  
 केश-आह- पा ५, २, २४.  
 केश-तुप-कपाला(ल-अ)स्थि-भस्मा-  
 (रम-अ)हार- -रान् विघ ६३,  
 २४.  
 केश-नख- -रान् शंघ ४४३.  
 केश-नख-कीट-पतङ्ग- -ः आथी  
 ३, १०, २०.  
 केश-निधान- -रान् आय १२, ३;  
 १६, ८.  
 केश-पत्र- -राम् कौट १, २१, ८;  
 शाय १, २८, ९; -लघोः आय  
 १, ७, १६; -अश्व कौम् ५३,  
 २०; २३; -क्षान् आथी १०, ८,  
 ८; आथी १४, २३, १; २०,  
 १७, १३; वैथी २१, ८; ५,  
 हिथ्री १४, ४, २; १५, ४, ३५;  
 हिथि २; १३; १४; १०; -खे

आय १, १७, ८; -की कौट  
 ३१, ४.  
 केश-प्रतिग्रहण- -णम् कौट १, २१,  
 ६; -णाय शाय १, २८, ७.  
 केश-प्रतिग्रह- -हाय गौट ३, १,  
 ७; द्राय २, ५, ५.  
 केश-प्रसाधन- -नम् वाय १६, ९.  
 केश-प्रावरण- -गेषु अय ७०,  
 २१, ४.  
 केश-मण्डल- -रानि कौट ३६,  
 १७.  
 केश-यरत- -रान् वाय ४, १८.  
 केश-रोम-तुपा( प-अ)हार-कपाला  
 ( ल-अ) स्थि-विण्-मूल-पूय-  
 शोणित- -रैतः-इलेभो (अ-उ)  
 च्छिद्य- -द्यान् वैष ३, ३, २.  
 केश-ललाट-वक्त्रा (क-अ)न्त-  
 -न्तः शंघ ३६.  
 १केश-य- पा ५, २, १०९; -वान्  
 काथी १४, १, १४.  
 केशवा(व-आ)रय- -रये काथी  
 १५, ५, २२.  
 केश-यत्- पा ५, २, १०९.  
 केश-वपन- -नम् आय १, २२, २५;  
 आय ३, ७, ४; ७, -नान्  
 आयथी १०, ६, १०.  
 केशवपन-वर्जम् वीष २, १, ७१.  
 केशवपना(न-अ)धे- -धे काथी  
 १५, ८, २४.  
 केशवपनीय- -यः काथी १, ३,  
 २४, काथी १५, १६, १; काथी  
 १५, ९, १५; २१; वीथी १२,  
 २०; १७; २६, २; १०; ३;  
 ९; १६; हिथी १३, ७, ३०; -यस्य

लाथी ८, ११, १०; -याय वीथी  
 १२, २०; ६; २६, २; १४;  
 वाथी ३, ३, ४, ४०; लाथी ९, ३,  
 १; -ये आयथी १८, ८, ४; विपु  
 ७, ७; १६; लाथी ९, ३, १४;  
 -येय आयथी १८, २२, ९; हिथी  
 १३, ७, २९; लाथी ९, ३, ३.  
 केशवपनीया(य-अ)न्त-  
 -न्तः वीथी २६, २; २५.  
 केश-वर्जम् आयथी ५, ४, ९; १०, ६,  
 ३; वीथी २, १२, २६; कौम्  
 ६७, १६.  
 केश-वर्जन-काम- -नः अय ६,  
 १३६.  
 १केश-वाप- -वाय आयथी १८,  
 १५, ६; वाथी ३, ३, ३, ४५;  
 हिथी १३, ५, २७; काय ४०,  
 १२; १८; माय १, २१, ७; १२;  
 वाय ४, १७, २३.  
 २केश-वाय-> ए-विधायक- -कः  
 भाशि ८.  
 केश-वेत- -शान् आय १, १७, १८.  
 केश-वल्ग- -न्दे आय १, १८, ३.  
 केश-शेष-करण- -णम् पाय २, १,  
 २१.  
 केश-इमधु- -पाय २, २, ३१; -धु  
 काथी २, १, ९; ७, २, १३;  
 आयथी; आय १, २, २;  
 १०; १; हिथि १, ९, १६; १;  
 -धु माय ३, ६; २; -धुणि  
 शाय १८, २४, १९; आयथी;  
 -धु वाय ९, ३, ११.  
 केशइमधु वापन- -ने कौट ३,  
 ९, ३७.

a) समाहारे इत्स । b) 'ः इति पाठ ? यनि. शोधः । c) = केशग्रहण-नायन- ।  
 उस. उप. करणे वा भाषे वा ल्युट् प्र. । d) परस्परं पाठे । e) = नापित- । लम. अणन्तम् ।  
 f) फल. उप. = रचना- ? । g) निघ. । इत्स. > यस. । h) वं १ इ. । i) विर. । यस. । :  
 j) पाठे. पृ १३० प. १ ।

केश-शमधु-नख- -गन्नाम् अत्र  
६८, २, ३८.  
केश-शमधु-नख-लोम-निहन्तन-  
-नामि वाथी २५, ७, १८.  
केश-शमधु-रोमन्- -म कौम् ५४,  
११; -सागि वैथी १, ४ : ६.  
केश-शमधु-रोम-नख- -नामि गोय  
३, ४, २३; कौम् ६७, १५; ८०,  
१३.  
केश-शमधु-लोम-नख- -नामि  
आथी ६, १०, २; आथी १५,  
२१, ७; वीथी २८, ८ : १२;  
आय १, १८, ६; ४, १, १६; ६, ४;  
वीथ ३, १, २; आमिथ; वीथ २,  
१०, ११; ३, १, ८; ७, ६; ८, २.  
केश-शमधु-लोम-नख-कर्मन्-  
-सैम्यः गोपि १, ७, २.  
केश-शमधु-लोम-नख-नापन- -नम्  
आपथ २, ३, ६; वीथ १, ३, ७;  
२, १, ७०; ३, १, २१; द्विथ २, १,  
३७; -नेन वीथ २, ६, १.  
केश-संमित- -नाः आय १, १९,  
१३<sup>०</sup>; आय २, १, २३; पाथ २,  
५, २८; वाथ ११, ५५.  
केश-स्तुक्- -कात् कौम् ३३, ४,  
४२, १९.  
के (श) शा-केशि- -> फि-संम-  
हण- -णात् शंघ ३२८.  
केशा(श-अ)म- -मागि कौय १, २१,  
१२; शोय १, २८, १५.  
केशा(श-आ)दि- -दि वाथी २५,  
७, १९; -दीमि वैथ २, १३ :  
१२.  
केशा(श-अ)त्- -> फि-क- -कः  
वीथ २, १, २३; कथ ३, ८, १२.

रकेशा(श-अ)त्- -नाः पाथ २,  
१, ३; वैथ २, ४ : १; -न्तम्  
वीथी २, ८ : ६; २१, ९ : १६;  
वाथ ४, ८; १५; वैथ १, ७ : ६;  
११ : १०; -नाः कौय १, १,  
९; शोय १, ५, ८; -न्तम् कौय  
१, १०, ६; शोय १, १६, ६; गोय  
३, १, ३; -न्ते माथी २, १, १,  
२१; कौय १, १, ५; शोय १, ५,  
२; पाथ १, ४, २; २, १, ७; १७;  
१९; २३; २४; काय ४०, ११;  
माथ १, २१, ४; वाथ ४, ९.  
केशान्त-करण- -नम् गोय ३,  
१, २; वैथ १, १८ : ३; -नेन वैथ  
१, १९ : ६.  
केशान्त-कलट-नासा-देश-  
-तुष्य- -स्याः विध २७, २२.  
केशान्त(न्त-आ)पत- -नम्  
वैथ २, ३, २.  
केशा(श-अ)त्पथ- -स्वम् शंघ  
३७८.  
केशा(श-अ)त्पथि- -> फि-कलट-  
नाम-तुष्य- -स्याः शंघ ३६.  
केशिन्- -शिन आथी १८, २२,  
१०; २२, २८, २१; वीथी १८,  
१९ : ४१; २६ : १०; वाथी ३,  
३, ४, ४२१; द्विथी २३, ४, ४२१;  
वीथ ७२, ३०१; वीथ २, ४,  
३१; वाथ ४, ५१; वाथ २, २८;  
श्रम २, १, १६४<sup>१</sup>; वृदे १, १४;  
९५१; फंम २, १०; १४, २;  
निय ५, ६१; या १२, २, ०१;  
भाशि २७१; -शिनम् वृदे २,  
६५; -शिन वाथी ६, ११, ९;  
-शिनम् वृदे १, १५; -शिनो

या १२, २६; -शी वीथी १४, ७;  
२३१; १७, ५४ : ५; १८, ३८ :  
१६१; वाथुथी ३, ४६ : २१;  
१४ : ४१; ४, ३७ : ३१; १०२ :  
१२<sup>१</sup>; १; अत्र ४८, १४२१; श्रम  
२, १०, १२६१; वृदे १, १४;  
८, ४९; निय ५, ६१; या १२,  
२५४; २६१; -०शोश्  
वाथुथी ४, ३७ : ७.  
केशिन्- -पाथ ४, १,  
१५१; -नी वाथुथी ४, ३७ :  
३०; ३१; कापथं २, १३, १०१;  
आमिथ २, १, ३ : १६१; काय  
३५, ११; माथ १, २३ : ५१;  
द्विथ २, ३, ७१; -नीः वाथुथी  
३, ४६ : १६; वैथ ३, १५ : ५;  
-नीम् आथी १०, १०, ६;  
द्विथी १०, ३, १४  
केशिन्- -पाथ ४, १,  
१५१.  
केशिन्- -पाथ ६, ४, १६५;  
-नम्<sup>१</sup> श्रम २, १०, १३६; वृदे  
८, ४९.  
केशिन्-गृहपतिक- -कानाम्  
वाथुथी ३, ४६ : १.  
केशिन्-पत्न- -नाः वीथी १७,  
५४ : ४.  
केशिन्-साध्य- -स्याः वृदे २,  
१२.  
केशिन्-माह्व- -नम् अत्र ४६-  
२, ८.  
केशार- -पाथ २, ४, २१.  
केशरिन्- -रिणः विध १, २, ६.  
केशायाल- -ले दंभि २, ९.  
रकेशा-व- -रकेश- ६.

a) समाहारे द्वस. । b) तु. आन. । c) पा ५, ४, १२७ । d) विप., नाप. (शिरो-भाग, घृदा-  
[मंस्तर-विशेष-]) । वस. । e) वि. । द्वस. > कथ. । f) व्यप. । g) = घृप-विशेष- । h) = दीक्षा, प्रजा,  
राक्षसो- प्रभृ. । i) विप. (सूक्त-), । j) विप. । वस. । k) कौपि इति मूत्रो. । l) तु. पापम. । = केसर-



२केशव<sup>०</sup> - अम् आगिण् २, ४, १० :  
३९; ५, ७ : ९१; वीथ १, ११,  
७१; वीथ ३, १३ : ३; वीथ २,  
५, २४१; विथ १, ३३; ४२, ८;  
-प्राय आगिण् २, ४, १० : ८;  
३, ११, ४ : ९३; १४.

केशवा(व-आ)दि-दीनि आगिण्  
२, ७, ९ : १७.

केशवादि-द्रादनामन्-नभिः  
आगिण् २, ४, १० : ३५.

केशवादि-नामन्-भभिः  
आगिण् २, ४, १० : १६.

केशवा(व-आ)घ-सैः वैष ३,  
१०, १.

केशवा(व-आ)ख-अम् विथ १,  
३९.

केसर<sup>०</sup> - पाठभो २, ३, ९८.

केसर-पा(श>)भा<sup>०</sup> - द्वा आषधौ  
१८, १०, २१; द्विधौ १३, ४, १०.

केसर-पुच्छ-च्येत् काशौ २०, ५,  
१६.

केसर-प्राच(गध>)वा<sup>०</sup> - न्वायाः  
अथा ३, १, ७; वीथ ४, ९६.

के(वधा.) पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.

केकायमान<sup>०</sup> - न<sup>०</sup> कैधौका पदः  
अप्राय ६, २; अत्र ४८, ११५;

राष १, ५३; निष ४, ११; या  
४, १४४.

केकाल-नः आधौ ६, ३, १;  
वाधौ ९, ५, २.

केकय-केकय-द.

केकरायण-केकर-द.

केकस-सी-२कौकप-द.

केकय-केकय-द.

केकरायण-लायन-१किङ्कर, ला-  
द.

केतकायनि-कितक-द.

केतय-१कितव-द.

केतघायन-घनि-२कितव-द.

केतायन-कित-द.

केतर्मा-किर्म-द.

केदारक-केरार्थ-केवार-द.

केन्दर्भ-किन्दर्भ-द.

केन्द्रास-लायन-किन्द्रास-द.

केधर-किधर-द.

केरणक-२किरण-द.

केरव->०विन्->१वी-पा.)

पाठभो २, ३, १३५; पाण ५, १,  
१३५.

केरात<sup>०</sup> - ०त अय ५, १३५.

केमदुर-पा, पाण ४, ३, ९३.

केलात-किरात-द.

केलालप-लायन-मिलालप-द.

केलास<sup>०</sup> - ०स-मैवाक-मुल-लात्  
शंघ ११६ : ११.

केयर्त<sup>०</sup> - >०र्ता(वै-आ)दि-दि अय  
३६, १४, १.

केकेशिक-केक-द.

केकेशिक<sup>०</sup> - कम् नाशि १, ४, १;  
११.

केकेशिक-मप्यम<sup>०</sup> - मः नाशि १, ४,  
१०.

केशिनि, केशिन्य-२केरा-द.

केशिघायन<sup>०</sup> - नाः वीथीर १७, १५

केशोरि-२केशोर-द.

केशोरियेय-१केशोर-द.

केशोर्थ-२केशोर-द.

केशय-२केरा-द.

केपिकिन्य-किपिकिया-द.

कोक-पाठभो २, १, ४.

कोकण<sup>०</sup> (>०कणी-पा.) पाण ४,  
१, ४१.

१कोकिल, ला<sup>०</sup> - पाठ १, ५४; पा, पाण  
४, १, ४; -लः माशि १, १०;

याशि १, ९; नाशि १, ५, ४;  
-कम् शंघ ४२६; -कस्य अय  
७०<sup>०</sup>, ३, ४; -क्याः अय ७१,

३, ३; -कान् आगिण् २, ४,  
८ : ६.

१कोकिल-पाधा ४, १, १२०.

२कोकिल-कस्य चाश ३८ : १२.

कोकुवा<sup>०</sup> - वा या ५, २६५.

कोकृयमाना-√कृ द.

कोट->(>१कोट-पा.) वृ ८५५  
द.

२कोटर<sup>०</sup> - पाठभो २, ३, २० पाण २,  
४, ३१<sup>०</sup>, ६, ३, १११.

कोट(र>)रा-व(न>)ण-पा ६,  
३, ११६; ८, ४, ४.

कोटव-पाठभो २, ३, १३५.

कोट->कोटाय<sup>०</sup> पाधा ३, १, १७.

१कोटि<sup>०</sup> - पाठ ४, ११८; -टिम् अय  
२, ३, १; ३१, ६, १; -क्यः शंघ  
८०; या १४, ७; -अम् अय  
२५, २, ५<sup>०</sup>; ३०<sup>०</sup>, ३, १.

कोटिभात-नाम् अय २, ३, २.

- a) वैप १ द. 1 b) विप. 1 वप. 1 c) धा. कान्ती वृत्तिः । d) पभे. वैप १, ११७३ । इ. 1  
e) < √पाय वा √कम् वेति वा. दे. । f) = देश-विशेष- । व्यु ? । कौमदुरे- इति पाधा. ।  
g) = धीवर- । व्यु ? । केवर्त->(<क-अल-। + √वृत्) + कालर्षीयः प्र. (द्र. अभा.) । h) = राग-विशेष- । व्यु ? ।  
i) = कवि-विशेष- । व्यु ? । j) अर्थः व्यु. व ? । काकण- इति [१३३] भाण्डा., कण- इति पाधा. । k) = पवि-  
विशेष- । व्यु ? । < √बुद्ध इति अभा. प्रय. । l) = जिह्वा- । व्यु ? । m) < √कृ । n) व्यु. ? ।  
o) द्र. पागम. । p) = संख्या-वचन- । व्यु. ? । < √बुद्ध इति अभा. ।

कोटि-मध्य- -प्यात् अण ३, १, १५.  
 कोटि-संमित- -तः अण ३१, ४, २.  
 कोटि-होम- -मः अण ३०, १, १, १;  
 २; -मम् अण ३०, २, ९; ३१,  
 २, २; ३, ३; ४, ५; ५, ३; ७, २;  
 ८, ३; १०, ३; -मस्य अण ३१,  
 ४, १; ५, ४; १०, १; -मे अण  
 ३१, ७, ५; ३४, १, १; -मेषु अण  
 ७०, ४, ५.  
 कोटिहोम-फल- -लम् अण ३१.  
 १०, ४.  
 कोटिहोम-सनन्वित- -तैः अण  
 ७०, ४, २.  
 रकोटि- -ट्याः वीथी १९, ९ : ८,  
 धापशु १६, १०; हिशु ५, ३१;  
 -क्याम् वाप २, ४२; वीथ १,  
 ५, ७९; धापशु ३, २; १५; हिशु  
 १, ४१; ५५; -श्योः धापशु १५-  
 १६, ९; हिशु ५, ११; ३०.  
 कोटीर- पाठमो २, १, ४८.  
 कोण- -णेषु अण ६, १, १४.  
 कोट्ट- पाठमो २, ३, १३५.  
 कोट्ट-व-वगद-भाप-मसूर-कुल्यो-  
 (य-उ) हालक-वर्जम् दीप  
 १३२.  
 कोट्ट-व-चीन-रांजमाप-मसूर-कुल्य-  
 परक-वर्जम् धामिण २, ९, ४ :  
 १७.  
 कोट्टवो (व-उ) दार-परक-वर्जम्  
 वीथी २८, १२ : २.  
 कोप- ✓कुप् द.  
 को(क-उ)पध- प्रम्. १४-६.

कोपन-, कोपित- ✓कुप् द.  
 ?कोमागिनसत्र- -श्रेषु वैथी २१,  
 ६ : ५.  
 कोम्\* माथी ५, २, ३, ११.  
 कोमल- पाठ १, १०९.  
 कोपष्टिक- पाठमो २, १, १८७.  
 कोरक- पाठ ५, ३५; पाग ५, २,  
 ३६.  
 कोरकित- पा ५, २, ३६.  
 कोरण्ड- पाठना १, १२०.  
 कोरदूष- पाठमो २, ३, ११७.  
 कोलाहल- पाग २, ४, ३१.  
 ?कोलोप्टाः वीथी २६, १७ : १२.  
 कोविदार- पाठमो २, ३, ४५; पाग  
 ४, २, ८०; -रम् वैष ३,  
 ५, ८.  
 कोविदार्य- पा ४, २, ८०.  
 कोविदार-वट-पिप्पल-ताण-शाक-  
 -कम् विष ६८, ३१.  
 कोविदार-शमी-पीलु-पिप्पल (ल-२)  
 कुट्ट-गुग्गुल-ज- -जम् विष  
 ६१, ४.  
 कोश- पाठमो २, १, १४०; पाग २,  
 ४, ३१; -शः वाथी १, ९, ५,  
 १०, वीथ २, ५, ४१; अण ४८,  
 १००; विष २, १०; २३;  
 १४, १, अण ११, २; विष १,  
 १०; या ५, २६; -शम्  
 वीथी १४, १४ : १४; १९, ७ :  
 ३३; ?कोश १, ५, ४; ३, १०, ३,  
 धामिण २, ५, १० : २८; जैश  
 १, ३ : ५, वीथ ३६, १५; अण  
 ४६, ५, २; ६३, ३, ९; विष ९,

१५; सुधप ८८ : १०; -शाह  
 वीथ १३२, २५; २१; अण ४१,  
 ३, २; ६, ७, ६, ५; वीथ १०, ४७;  
 अण १९, ७२; -शम् धापथी  
 २, १९, २; वैथी २०, ३८ : ५;  
 हिथी १५, ८, २४; अणयो ७,  
 ५; -शे धापथी ९, ११, १;  
 वीथी २, ५ १०; १४, १४; १९;  
 वैथी २०, ३८ : ४; वीथ ४७,  
 ४५; ४६; अण ७१, १९, ७;  
 विष ३, ५७; पावा ६, ४,  
 १४४; -शेन जैश २, ५ : १३;  
 वीथ २८, ९; -शेयम् अण ७०,  
 २१, २.  
 कोशी- > श्री-धान्य-  
 -न्यम् वीथ ३, १२, १.  
 वीथीधान्य- -न्यम्  
 वीथी २, २० : ४; २४, २१ : ९;  
 २८, ८ : ४.  
 कोशिय- पा ४, १, ४२; पा, पाग  
 ५, ३, ११७, -न्यम् वाप ११,  
 ९६; विष ४४, २६.  
 कोशिया (य-था) विक-  
 -कयोः विष २३, १९; -कानि  
 वैष ३, ४, २.  
 कोश-का(र->)शे- शीम् धामिण  
 २, १, १ : १२; हिश २, २, ६.  
 कोश-धय- -न्यम् अण ३, ३, २.  
 कोश-परिपालन- -नम् दीप २५.  
 कोश-विल- -ले धापथी ८, २, १९;  
 वैताथी ३२, २५.  
 कोश-मिध- -धम् वीथी १४, १४ :  
 ३५.

o) = अणभाग- कोण-विशेष-। धु ! < कुट्ट इति अभा। b) वैष ३ द.। c) = अण-विशेष-।  
 धु.।। d) पाठः। कृष्णाहोमसत्र-> श्रेषु इति शेषुः ? ईश्वरान्। e) कुशाशु (मा २७, ३७) इत्यश्वत्थस्य  
 सद् भोम इत्यस्य भोगः द.। f) = कटिगा-। धु. ! < ✓कुट्ट इति पाठ.। g) = अण-विशेष-। धु. !।  
 h) नाप.। धु. !। i) द. पागम.। j) ✓कम् इति पाठमो., < कु- [भूमि-] + वि ✓दृ इति अभा.।  
 k) अर्थः !। l) वैष १ द.। m) = येष-नामन्। n) को- इति इ.। o) र्वापे प्र.।

कोशयी<sup>a</sup> -यीः ऋदा १४, ४३३.  
 कोशन्व(व>)ती -न्यः निस् २,  
 ११: १५.  
 कोश-नर्वम् विष ९, १५.  
 कोश-वाहन-संज्ञय - न्यः अण ३,  
 ३, ५.  
 कोश-स्थान -ने विष ९, १७.  
 कोशस्थानीय -यानि या ५,  
 २६.  
 कोशा(श-अ)पिधान -ने द्विधौ ५,  
 ५, ६; -नेन आप्रथौ ८, १७, ७५;  
 भाथौ ८, २१, ४.  
 कोशल - कोशल -द्र.  
 कोशात(क>)क्षि<sup>b</sup> - पाठमो २, २,  
 ४३; पा, पाग ४, १, ४१; पाग  
 ४, २, १६७; -ययाः कौट १, १५,  
 १; शांठ १, २३, १.  
 कोशोप्यौः वेताथौ ३५, १.  
 कोप -√कुप् द.  
 कोष्ठ<sup>c</sup> - पाठ २, ४; -इम् आशि  
 ८, ७; -छान् आणयो ७, ५;  
 -छान्नाम् कौस् १८, १५; -उ  
 औथौ २०, ६: ४; अण ७०<sup>d</sup>,  
 २, ५; आशि ८, ७.  
 कोष्ठा(ष्-आ)गार-पति -तिन् अण  
 ५, ५, २.  
 कोष्य -√इप् ऋदा १३, १.  
 कोष्ण - किम् -द्र.  
 कोसाल<sup>e</sup> - पाठ १, १०६<sup>f</sup>;  
 पाठमो २, ३, १८.  
 कौसल<sup>g</sup> -ल्यः अण १, ८, १००.  
 कौसल्य - पा ४, १, १७१; -न्यः  
 साथौ १६, १, १३; -न्यस्य  
 साथौ १६, २९, ६.

कौसलपायिन- पा, पाया ४, १,  
 १५५.  
 कोसल-कौशाथी-तीर - नम् अण  
 ५६, १, २.  
 कोसल-तोसल-वेणतट-सम्भपुर -रा:  
 अण ५६, १, ४.  
 कोहड<sup>h</sup> - (>कोहड- पा.) पाग ४,  
 १, ११२; -दाः वीथीप्र ४३: १.  
 कोहल<sup>i</sup> - पाठमो २, ३, १९.  
 कोहलि->कोहली-> छ्ळी-ध्वन्  
 -न्यः तौत्रा १७, २.  
 कोहलीय -याः गोट ३, ४, ३३.  
 कोहलीय-मया (त-अ) सु  
 (ग>)गा -नाम् कौशि १.  
 कोहित<sup>j</sup> - (>कौहित- पा.) पाग  
 ४, १, ११२.  
 कौकशि<sup>k</sup> -शयः कौथीप्र १७: १६.  
 कौकितल - कौकितल -द्र.  
 कौकिल(>)ली<sup>l</sup> - लो आप्रथौ  
 १९, १०, १३; द्विधौ २३, १,  
 ६०; दाथौ १३, ४, १४; लाथौ  
 ५, ४, २०; -लीम् आप्रथौ १९,  
 ५, १; द्विधौ २३, १, १; -न्याः  
 माथौ ५, २, ११, १; -न्याम्  
 वाथौ ३, २, ८, १; दाथौ १३, ४,  
 १५; लाथौ ५, ४, २१.  
 कौकिली-यावया -न्याः मैत्र ८.  
 कौकिली-सूक -तानि वीथ ३, १,  
 १४.  
 कौकुषडेय<sup>m</sup> -न्याः वीथीप्र ४३: २.  
 कौकुशालि<sup>n</sup> -ल्यः वीथीप्र ४८: ७.  
 कौकुल्य<sup>o</sup> -न्याः वीथीप्र ३५: २.  
 कौकुटाशिक- , टिक- कुक्कुट -द्र.  
 कौकपायन- कुक्कुट -द्र.

कौकुलक- , कौकुषेय- प्रम्. , कौकुषेयक-  
 कुटि -द्र.  
 कौकुसुम- कुक्कुसुम -द्र.  
 कौकुचवार- कुक्कुचवार -द्र.  
 कौकुचधार- कुक्कुचवार -द्र.  
 कौकुचचार्य- कुक्कुचवार -द्र.  
 कौकुचचार्य- कुक्कुचवार -द्र.  
 कौकुसुक- कुक्कुसुक -द्र.  
 कौकुज- कुक्कुज -द्र.  
 कौकुजायन- , न्य- कुक्कुज -द्र.  
 कौकुटजभारिक- कुक्कुटज -द्र.  
 कौकुट-तक्ष- कुटि, टी- द्र.  
 कौकुटभारिक- कुक्कुट -द्र.  
 कौकुटसाक्ष- कुट -द्र.  
 कौकुटायन- कुक्कुट -द्र.  
 कौकुटि<sup>p</sup> - (>कौकुटि- पा.) पाग ४,  
 १, ८०.  
 कौकुटिक- कुट -द्र.  
 कौकुटिलिक- , कौकुटिल्य-√कुट् द.  
 कौकुटिल्य- कुक्कुटिल -द्र.  
 कौकुटीगय- , न्य- कुटि, टी- द्र.  
 कौकुटीय- कुट -द्र.  
 कौकुटीर- कुक्कुटीर -द्र.  
 कौकुड्व्य- कुक्कुड्व्य -द्र.  
 कौकुड्व्य- कुट -द्र.  
 कौकुड्व्य- कुट -द्र.  
 कौकुटप<sup>q</sup> -पाः वीथीप्र २२: २.  
 कौकुटार- कुक्कुटार -द्र.  
 कौकुटारिक- कुक्कुटारिक -द्र.  
 कौकुड्वेयक- कुक्कुड्व्य, व्या- द्र.  
 कौकुणप- कुक्कुणप -द्र.  
 कौकुणपतन्त्रि- कुक्कुणपतन्त्र -द्र.  
 कौकुण्येय- कुक्कुण्येय -द्र.  
 कौकुण्डपायिन- प्रम्. , कुक्कुण्ड -द्र.

a) वैप १ द्र. । b) = वनसति-विशेष- । व्यु. ? <कोश- + √सत् इति अभा. । c) नाप. ।  
 व्यु. ? < √कुप् इति पाठ. । d) = ननपद-विशेष- , तद्राज- । e) आ<sup>०</sup> इति पाठः स च वाकि, द. ।  
 f) स्वार्थे प्र. । g) = अपि-विशेष- । व्यु. ? । h) = माग-विशेष- (तीव्रमणी) । व्यु. ? । i) संस्कृतः  
 टि. भूयान् पाठे. ।

कौण्डल-, शिक- २कुण्डल- द.  
 कौण्डायन- ३कुण्ड- द.  
 १कौण्डिन- १कुण्डिन- द.  
 २कौण्डिन- २कुण्डिन- द.  
 कौण्डिनेयक-, १कौण्डिन्य-  
 १कुण्डिन- द.  
 २कौण्डिन्य- कुण्डिनी- द.  
 कौण्डेयक- कुण्ड्या- द.  
 कौण्डोपरध<sup>१०</sup>- (> शीय- पा.)  
 पाग ५, ३, ११६.  
 कौतप- कुतप- द.  
 कौतस्कुत-, श्वादि- निम्- >  
 कुतम् द.  
 कौतस्त- कुतस्त- द.  
 कौताल<sup>११</sup>- (> लृक- पा.) पाग ४,  
 २, ५३.  
 कौतुक- प्रथ. कुतुक- द.  
 कौतुहल-, हृष- कुतुहल- द.  
 कौतोमत<sup>१२</sup>- लेन गोप ४, ५, १८;  
 दाप ४, १, १११.  
 २-२कौतस्त-, वसायन-, वस्य- कुतस्त-  
 द.  
 कौथुम- प्रथ. कुथुमिन्- द.  
 कौदामिक- निम्- > कुदामन्- द.  
 कौदाली- कुदाल- द.  
 कौद्रा. न्द्राण्य<sup>१३</sup>- (> णक<sup>१४</sup>-)  
 पाग ४, २, ८०.  
 कौद्रेय- कुदि- द.  
 कौनामि-, कौनामिका-, की-  
 निम्- > कुनामन्- द.  
 कौन्त- कुन्त- द.  
 कौन्तायनि- २कुन्ती- द.  
 ?कौपन<sup>१५</sup>- नम् आण्यो ३, १०, ४ :  
 १७.

कौपिञ्जल- कुपिञ्जल- द.  
 कौपीन<sup>१६</sup>- पा ५, २, २०.  
 कौपीना(न-श्वा)च्छादन<sup>१७</sup>- नाः वीध  
 २, ६, २१.  
 कौपीना(न-श्वा)च्छादन-मात्र- प्रथ  
 विध ९६, १३.  
 कौपीना(न-श्वा)च्छादन(न-अ)र्थ-  
 शैम् गोप ३, १८.  
 कौपुत्रक- निम्- > कुपुत्र- द.  
 कौयाह<sup>१८</sup>- ह्याः वीधोप १० : ३.  
 १, २कौवेर-, शेरक- कुवेर- द.  
 कौवेरिकेय- कुवेरिका- द.  
 कौवेरी- कुवेर- द.  
 कौभोजि<sup>१९</sup>- जिः वीधोप ४५ : ४.  
 कौमण्ड- प्रथ कुमण्ड- द.  
 १, २कौमार- १कुमार- द.  
 ३कौमार- २कुमार- द.  
 कौमारचत्य<sup>२०</sup>- स्याः वीधोप १० : २.  
 कौमारपयण- २कुमार- द.  
 कौमारिक- १कुमार- द.  
 कौमारिकेय- २कुमारिका- द.  
 कौमारी- २कुमार- द.  
 कौमुदगन्धि- कुमुद- द.  
 कौमुदादि<sup>२१</sup>- नयः वीधोप ४८ : ३.  
 कौमुदिक- कुमुद- द.  
 कौमुदुर- कैमदुर- टि. द.  
 कौम्भ-, कौम्भकारक-, कौम्भायन-,  
 कौम्भायनि- कुम्भ- द.  
 कौम्भेयक- २कुम्भी- द.  
 कौम्भय- कुम्भ- द.  
 ?कौरयाण<sup>२२</sup>- णः श्व ४८, ११५;  
 निप ४, २, या ५, १५; -नय्य  
 ऋ २, ८, ३६.  
 कौरव-, वक्-, श्वायनि- प्रथ.

१३७- द.  
 कौरुपथि- कुरुपथ- द.  
 कौरुपाञ्चाल- १कुर्- द.  
 कौरुर्थ- १कुर्- द.  
 १कौल- १कुल- द.  
 २कौल- २कुल- द.  
 ३कौल- ३कुल- द.  
 कौलक- २कूल- द.  
 कौलटिनेय-, श्वेय-, श्वे- १कुल- द.  
 कौलत्य- कुलय- द.  
 कौलनामिका-, की-, कौलयत-,  
 कौलयक- १कुल- द.  
 कौलय<sup>२३</sup>- नम् आण्यो ४, ५; -नय्य  
 आण्यो ५, १६; -वे आण्यो ५, ५.  
 कौलायन- ५कुल- द.  
 कौलाळ-, लृक- कुलाळ- द.  
 कौलाभ्य- कुलाभ- द.  
 कौलास- कुलास- द.  
 कौलि- ५कुल- द.  
 कौलिशायनि- २कुलिश- द.  
 कौलिशिक- १कुलिश- द.  
 कौलून- कुलून- द.  
 कौलूत- कुलूत- द.  
 कौलून-, नक- कुलून- द.  
 १कौलेयक- १कुल- द.  
 २कौलेयक- २कुल- द.  
 ३कौलेयक- ३कुल्या- द.  
 कौस्मलवाहिण- कुस्मल- द.  
 कौस्माप-, पिक- कुरमाप- द.  
 कौस्मुद- कुस्मुद- द.  
 कौस्य- कुस्य- द.  
 कौवाचर- कुवाचर- द.  
 कौविट्यासीय- कुविट्यास- द.  
 कौविदार्य- कौविदार- द.

a) तु. पागम. । b) षडो इति शाब्दायनः । c) = [कुतोऽमत इतिशब्दवत्-] मन्त्र-विशेष- ।  
 d) अर्थ. ध्यु. च ! । e) = देश-विशेष- ? । f) पाठः ? कौपी इति संभाव्येत । g) = पुर-लिक, तदाच्छादन- ।  
 ध्यु. ? । h) विप. । भव. । i) = ऋषि-विशेष- । ध्यु. ? । j) यप १ द. । k) < कुहयाण- इति वङ्गुरादिभ्यः ! ।  
 l) = [ज्योतिःशास्त्र-प्रसिद्ध-] करण-विशेष- । ध्यु. ? ।

कौविधासीय- बुविधास-द्र.  
 कौविशाल- -लम् अण २६, ५, ३.  
 कौवेणिकेय- कुवेणिक-द्र.  
 कौश- १कुश-द्र.  
 कौशल- ,लक- २कुशल-द्र.  
 कौशल्लि- ३कुशल-द्र.  
 कौशल्य- २कुशल-द्र.  
 कौशाम्बी- १, २कौशाम्बेय-  
 कुशाम्ब-द्र.  
 कौशिक- ,किन्- ,की- कुशिक-  
 द.  
 कौशी- १कुश-द्र.  
 कौशीधान्य- कोश-द्र.  
 कौशीरकेय- कुशीरक-द्र.  
 कौशीलच- कुशीलच-द्र.  
 कौशेय- कोश-द्र.  
 कौशेरिकेय- कुशेरिका-द्र.  
 कौथि- कुथि-द्र.  
 १, २कौथीतक- ,कायत- किन्-  
 किन्- ,केय- कुथीतक-द्र.  
 कौष्ठचित्क- १कुष्ठचित्-द्र.  
 कौष्ठचित्क- १कुष्ठविद्-द्र.  
 कौष्ठ चाश २८ : १५५.  
 कौष्ठचित्क- २कुष्ठ-द्र.  
 कौष्ठय- १कौष्ठय- १६, ६, ४; माथी  
 ६, १, २, २६; वापुथी ३, ४९ :  
 ११; वाथी २, १, १, ५०; वैथी  
 १८, ३ : १०; २२, ८ : ३; द्विथी  
 ११, १, ६१; द्विथि १८ : ११.  
 कौष्माण्डिक- कूष्माण्ड-द्र.  
 कौसल- , कौसल्य- , क्वायनि-

कोसल-द्र.  
 कोसित- कुसित-द्र.  
 कोसुरुविन्द- कुसुरुविन्द-द्र.  
 कोस्तुम- -भाम् आग्यो ४, ६; ५,  
 १; -भरय आग्यो ५, १५.  
 कोस्य- किम्-> कुस्ती-द्र.  
 कोहक- -कम् आ २६, ५, ३.  
 कोहड- कोहट-द्र.  
 कोहलि- ,ली- ,लीप- कोहल-द्र.  
 कोहित- कोहित-द्र.  
 √कनस् पाधा. चुरा. पर. मापायाम्.  
 √कनस् पाधा.दिवा.पर. ह्यरुहदीप्योः.  
 √कन् पाधा. क्वा. उभ. शब्दे.  
 √कन्स् पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे  
 उन्दने च, कोपयति वा ७, १४.  
 √कम् पाधा. भ्वा. पर. ह्यर्जने.  
 क्वयाकु- -कु आण्य १, १७, २८;  
 द्विथि १, ५, ६०.  
 क्वयाम्बु- -न्द् द्विथी १५, ४, २१.  
 √क्वु √ह्यु टि. द.  
 √कम्  
 क्वकल्- पाठो २, २, ७६; पाय २,  
 ४, ३१<sup>m</sup>; -वे: विध ४३, ३५.  
 क्वकर- पाठो २, ३, ३९.  
 क्वतु- पाठ १, ७६; पाय ६, २, ११८;  
 -तः आथी ५, १८, ५; वीथी;  
 -त्वे आथी १४, २४, २०;  
 वीथी ९, ६ : २७<sup>m</sup>; द्विथी १५,  
 ६, २०; -ह्यु आथी ४, १२,  
 ८x; ५, १२, ६<sup>m</sup>; श्वाथी ७,  
 १६, ८<sup>m</sup>; वीथी; पृथिवि २, १;

३, ९; -नुता आथी ९, ११, १४;  
 आथी; वा १०, १०<sup>m</sup>;  
 -पृथुभिः आथी ५, १४, १७;  
 श्वाथी; -नुम् आथी ६, ५,  
 १८x; श्वाथी; वथी २५,  
 १२, ४<sup>m</sup>; शंख ११६: ५५<sup>m</sup>; वा  
 २, २८<sup>m</sup>;  
 -ह्यु आथी ४,  
 १, २१; आथी; -न् द्विथी १५,  
 ७, १२<sup>m</sup>; वेग्यो ११; -ह्यु श्वाथी  
 १५, १५, ६<sup>m</sup>; आथी १०, २५,  
 ११<sup>m</sup>; वीथी; -नुताम् वथी १,  
 १, १, १८; द्विथि १९, ६६; अण  
 ४१, २, १३; मीस् ५, ३, २२;  
 -०<sup>m</sup>तो शुभ ४, १२८; -तोः  
 आथी २, ८, १४<sup>m</sup>; आथी;  
 -ती आथी ८, १२, २x;  
 आथी; पा ३, १, १२०; ६, २,  
 १७; पावा ४, २, ४३; -पृथा  
 आथी ३, ८, १; श्वाथी; -पृथ्वे  
 आथी ४, १२, २; श्वाथी; -लोः  
 श्वाथी १४, ५१, ८.  
 क्तु- पा ४, २, ६०.  
 क्तु-करण- -गः द्विथी ९, ७, २६;  
 १३, १, १६; -णम् आथी १२,  
 ६, ५<sup>m</sup>, १४, १, ५; वीथी २४, ४ :  
 १०; २६, २२ : ४; वैथी १५,  
 ८ : ३<sup>m</sup>; १७, २३, ४, ४; द्विथी  
 ८, १, ८<sup>m</sup>; २, ७, ५; १७; ३६;  
 -णानि वीथी २१, १७ : ४;  
 २२, ११, २४; -णे वीथी २१,  
 १७ : ३; २२, ११ : २४; १३:

a) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। b) वैप १ द.। c) शोचः वैप १, ११७५ h द.। d) वृ ६३६  
 1 द.। e) किंस्तुन्नम् इति शोधे प्रस्तावुक- शिवदत्तः ?। f) √कुंस् इति पाठे.। g) पा ७, ३, ३६  
 परामृष्टः द.। h) = क्षुमारु-। व्यु. ?। i) विर. (शु-). व्यु. ?। j) सप्र. क्वाम्बु श्ये  $\langle \rangle$  कम्बुश्ये इति  
 पाठे.। k) प्रसारणे श्रुतिः। वा २, २५; १२, ८ परामृष्टः द.। l) = करपत-। व्यु. ?  $\langle$  क- + √क्व इति  
 अभा.। m) ह. पागम.। n) पाठे. वैप १, ११७६ & द.। o) दोषार्थं वैप १, ११५६ f द.। p) क्तुं  
 वसुम् इत्यस्य स्थाने अणु २१९, २४ क्तुध्रवसम् इति पाठः। q) शोषार्थं वैप १, १०१३ 0 द.। r) = मन्व-  
 विनेन, सत्कृन्द्म-विशेष-। कास.। s) सप्र. श्रमम्  $\langle \rangle$  श्रमिम् इति पाठे.।

२१; -जेव वैध्री १७, १ : ३.  
 कृत्करण-यत्सु- -ञुः वैध्री  
 १७, ३ : १०.  
 कृत्-करणि- -जिम् माध्री २, ३,  
 २, २६<sup>b</sup>.  
 कृत्-काम- -मः निस् २, ४ : ८;  
 २३; -मम् आपथ्री २४, ४, १०;  
 वीथ्री २, १ : ११; निस् २, ४ :  
 ५; -मे निस् २, ४ : २५.  
 कृत्-कव (:) मीस् ३, ३, २७.  
 कृत्-दक्षिणा- -णाः वाथ्री १३, ६,  
 ५; आपथ्री १९, १५, १३; द्विथ्री  
 २३, ३, ३३; निस् १०, १० :  
 १२.  
 कृत्-दन्त- -न्तः विध १, ३<sup>d</sup>.  
 कृत्-दोष- -यः निस् २, ४ : १५.  
 कृत्-धर्म-त्व- -त्वात् मीस् ४,  
 ३, ७<sup>e</sup>.  
 कृत्-नामधेय- -येन वाय ४१,  
 १९.  
 कृत्-निर्देश- -शम् माध्री २, १,  
 १, ११.  
 कृत्-पशु- -शवः आपथ्री ५, ३, ४; १२,  
 ७, २; आपथ्री १४, १, ५, ५, १;  
 वीथ्री २३, १९ : २७; द्विथ्री ९,  
 ८, १; -धत् आपथ्री १८, २,  
 १३; २१, २३, १३; माध्री ६, ३,  
 ६, ११; द्विथ्री १३, १, २०;  
 -दानम् वाथ्री १५, १, २१;  
 वीथ्री २३, १९ : २७.  
 कृत्-पा- -पाम्यात् वीथ्री ७, १२;  
 २०; ३७; ५०.  
 कृत्-पथाव- -नम् मीस् २, ३, ३;  
 ४, ३, १.  
 कृत्-पथान-व- -त्वात् मीस्

१०, ३, ७३.  
 कृत्-प्रवा(द>)दा- -दाः निस् २,  
 ११ : ९.  
 कृत्-यस- -वेम्यः पा ४, ३, ६८;  
 पावा १, ३, १०.  
 कृत्-युक्त- -कस्य मीस् १०, ५,  
 ६१.  
 कृत्-योग- -गम् वीथ्री २६, ३३ :  
 २४; -गात् वाथ्री २२, ३,  
 १५.  
 कृत्-राज- -राद् विध ५५, ७; वृदे  
 ८, ९२.  
 कृत्-वत् मीस् ११, १, ५; २९.  
 कृत्-विद्- -वित् आपथ्री ३, १२,  
 १; वीथ्री ३, ३१ : ४; आपथ्री ३,  
 ११, १; द्विथ्री २, ६, १७;  
 आपथ्री १, ५, ४ : २०; -विद्म्  
 आपथ्री ५, १०, २८; वाथ्री ७,  
 १२, ४; अत्र २०, ६.  
 कृत्-शब्द- -ब्दः मीस् २, ३,  
 २१.  
 कृत्-संयुक्त, का- -कम् मीस् ३, ४,  
 १२; -काः द्विथ्री १०, ७, १५;  
 २६; -काम्य. द्विथ्री १०, २,  
 १८.  
 कृत्-संयोग- -गात् मीस् २, ३, १;  
 २३६, ५, ३, ४३; १०, ३, ५७;  
 ६, १५.  
 कृत्-स्तामान्य- -न्यात् मीस् ११,  
 २, ५०.  
 कृत्-स्य(ल>)दा- -दा शुभा ३,  
 ८११.  
 कृत्-सृष्ट- -सृष्ट् आपथ्री ५,  
 १९, ५१.  
 कृत्, ल-दस- -शाम्यात् शुभा २,

४७१; -क्षी शंघ २१०.  
 कृत्, कृत्यमित् कृत्वा ९, १९१.  
 कृत्(तु-ञ)मि-शेर- -यः मीस् ५,  
 ३, १६.  
 कृत्(तु-ञ)न्त- -न्तम् वैध्रीवा  
 ३६; -न्ते आपथ्री ३, ९, ३ :  
 २७; वीथ्री २, ७, २१, मीस् ५,  
 ३, २७.  
 कृत्(तु-ञ)न्तर- -रे मीस् १०,  
 ७, ६९; -रेषु मीस् ६, ३, ५, ११-  
 १, ११; १८.  
 कृत्(तु-ञ)न्त- -न्तम् मीस् ५, १, ११.  
 कृत्(तु-ञ)न्तराल- -लेषु द्विथ्री  
 १७, ३, ३५.  
 कृत्(तु-ञ)भाव- -त्वात् मीस् ६,  
 ८, ५.  
 कृत्(तु-ञ)भिधान- -नात् मीस्  
 ७, ४, १५.  
 कृत्(तु-ञ)र्ध, र्धा- -र्धः मीस् ४,  
 ३, १८; -र्धम् आपथ्री ७, २, ५  
 मीस् १०, २, ४८; -र्धाणम्  
 मीस् ११, ४, ११; -र्धे मीस् १०,  
 ३, ६९.  
 कृत्(तु-ञ)स्व- -त्वात् मीस् ८, १,  
 २५; १०, ३, ७१.  
 कृत्(तु-ञ)सुलार्थ- -र्थवोः मीस्  
 ४, १, १.  
 कृत्(तु-ञ)दि- -द्वी आपथ्री  
 २४, ४, १०; वीथ्री २, १, ११.  
 कृत्(तु-ञ)दि- -द्वयः पा ६,  
 ३, ११८.  
 कृत्(तु-ञ)द्वि- -द्विषु वय १,  
 ८, २४; ९, ९१.  
 कृत्(तु-ञ)दका- -काः वीथ्री १९,  
 ३ : ३६.

a) = कृत्करण-। काश. उप. ✓ह + कतिः प्र. उत्सं. (पाठ २, १०२)। b) पाठे. वृ ९१७ B द.।  
 c) विघ.। बस.। d) चक्रः इति जीमं. ?। e) नैः इति जीमं.। f) वैप १ द.। g) वासवो इति जीमं.।  
 h) वस.। i) सोमा इति B.L.। j) कृत्वा इति B.L.।

कृत् (कृ- ) कृत्- -त्वे मीत् ५, १, ४, ६.  
 कृत्यास्थिर- -रः बाधुषी ३, ८८ : ४.

✓कृत्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. हितायाम्, क्राययेत् माशि ५६१.  
 कृत्- पा ६, १, २१६.

✓कृत्, कृत्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. आहानि रोदने च, आत्म. वैह्वये, कृन्वति वृदे २, ५६; या २, २७; ऋक- कृन्वत् आश्री ३, १३, १२; काश्री; ऋककृन्वः आश्री १०, ८, ५; शाश्री, कृन्वेत् आपश्री १९, २५, २२; द्विथी २२, ६, ४. ऋककृत्<sup>०</sup> निस् ३, १० : २०; गोवि २, ४, ८; जेष्ट २, १ : ३५; ८ : १५; साध १, ५२९; २, ६०३; या १४, १६६. अकृन्वयत् अश ८, ११. ऋकचिकृदत् काश्री २६, ७, १२; वैश्री; अश ३, ३१.

कृत्कृद- (< ऋकृदत्- >) कृद- वादि- -दिना वैष्ट ३, २:४; १०; २२ : ५.

कृत्कृदत्- -वत् आपश्री ८, १, ४; १६, ३, १२; वीथी; या ९, ४६; पा ७, ४, ६५.

कृत्कृद- -न्दः आप ४८, १०५, -न्दाय अश ११, २.

कृद-व (त् >) ती- -तीम् माश्री ६, १, ४, ११; -त्या माथी

६, १, ४, ३०.  
 कृदत्- कृदति साष्ट ४, ७, २०६; -न्द्व वृदे २, ५७; -न्द्वत् वृदे ६, १२.  
 कृद्वी- -याम् कौष्ट ३, २, ३२६.

कृद्व- -न्द्वी तैत्रा ४, २००.  
 कृद्विष्ट- -ष्टानाम् चाष्ट १६ : ७.  
 कृद्वि- -न्दः अश १, ७, १०.

✓कृत्<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. कृषाय गती.

✓कृत्<sup>२</sup> पाधा. भ्वा. पर. पादविक्षेपे, क्रमते वाश्री ४, ११, ६; काथी; क्रामति आपश्री ४, १४, ६××; या २, २७; क्रामतः ऋषा ६, १५; क्रामन्ति वाश्री ३, २, १, २४; क्रामताम् वीथी २०, ५ : ३११; क्रामस्व वीथी २६, १२ : १४; ऋकमध्यम् काश्री १८, ४, १; वीथी; क्रामेत् वीथी २०, ५ : ३०; क्रमेत् वीथी २६, १२ : १३.

कृक्रेत् आश्री १, १७, ८; याश्री १, १९, ७; वैथी ४, ४ : ४; द्विथी १, ५, १०; अक्रमीत् वैथी २१, ८ : २; अक्रमिष्यत् निस् ८, ११ : २५

क्रामयति द्विथी १६, १, ८; ३८; द्विष्ट १, २०, १०, क्रामयन्ति ऋषा १४, ५०; क्रामयेत् उस् ४, १५; ७, १६; ८, ७; २२.

चकृकृम्यते बाधुषी २, १३ : ३; वैथी; चकृकृम्यते माश्री ३, २, १३; बाधुषी.

कृम- पाप ४, २, ६०; ६१; -मः काश्री १, ५, १७; ऋषाश्री; -मम् जैथीका १७१; आमिष्ट; -मस्य ऋषा ११, ६३; कौलि ५५; -माः माथी ६, १, ४, २३; -मागाम् वाथी २, १, ३, १०; -मात् काश्री १, ५, ६; वैथी; -मान् वीथी १४, २० : २७; माथी; -से निस् २, १३ : ७××; ऋषा; -सेण आपश्री १३, १८, ९१; ऋषीथी; -सेषु ऋषा ११, २४; ५८; -सेः ऋषाश्री २०, १६, १५××; वीथी.

क्रामिक- पा ४, २, ६०.

कृमक- पा ४, २, ६१.

कृम-काल- -ल उस् ८, २७; ३०; वीथी १५१.

कृम-काल-संयु(क< >)का- -का मीत् ५, १, २०.

कृम-कोप- -यः मीत् ५, ४, १०; ११, १, ५४.

कृम-ज- -जः नाशि २, २, १५; -जन् शुभा १, १०४.

कृम-ज(ता< >)ठ- -ठः, कृम-दण्ड- -ण्डः चव्यू १ : ५.

कृम-पद- -दः चव्यू १ : ५;

-दम् शौच ४, ११०.

कृम पाट- -रः चव्यू १ : ५;

a) व्यप. १. व्यु. १। b) पा २, २, ५६ परामृष्टः द्र.। c) पाभे. वैप १, १७७ c d द.। d) पाभे. वैप १, ११७ c f द.। e) वैप १ द.। f) विप. (कृत्- )। g) परसरं पाभे.। h) पाठः। कृत्- > कृथिष्टा- इति संभाव्यत। i) = देस-विशेष- ?। व्यु. १। j) ✓कृत् इति च ✓कृत् इति च [२३] BPO.। k) या ४, २७, ६, १२ वा १, २, ३, ८; ४३; ३, १००; २, ६७, १५०; ४, ६५; ६, ४, १८; ७, २, २६; ३, ७६ वावा १, १, ६३; ७, २, ३६ परामृष्टः द्र.। l) पाभे. वैप १, ११७ g द.। m) सप्र. क्रामयति <> प्रकृमयति इति पाभे.। n) भाष., नाप. (कृम-पाट- [पाप. ऋषा. याशि. प्रमु]।) वैप १ द.। o) पद-, कृम- इति पाका., पदकृम- इति आश्टा.। p) द्रमको वः इति जीर्ण.। q) = संहितापाठ-प्रसारविशेष-। पच.।

२: १९.  
 क्रम-प्रवक्तृ-क्ता क्रमा ११,  
 ६५.  
 क्रम-योग-गात्र काथी १६,  
 ६, २५.  
 क्रम-वत् शौच ४, १२३.  
 क्रम-वास्तव-प्रम् माथी ६,  
 १, ४, ४०; -प्रे वाथी २, १,  
 ४, ४.  
 क्रम-विक्रम-सकृत-तः विष  
 १, ५.  
 क्रम-विक्रम-संप(न्)धा-  
 -नाम् तेषा २३, २४; कौशि  
 ६७.  
 क्रम-वियु (क्त)का-क्ता  
 नाशि २, ६, ६.  
 क्रम-शस्त्र (ः) वीथी १२, १: १८;  
 शंघ २८; १५८; कौष ४, ५,  
 ६; उनिश ३: ६.  
 क्रम-शास्त्र-स्यम् क्रमा ११,  
 ६४.  
 क्रम-संयोग-गात्र मीम् २, ४,  
 ३१; -गे क्रपा ३, २, ८.  
 क्रम-संधि-समाशौर्ण-गी:  
 याशि १, ३१.  
 क्रमा(म-आ)गत-तम् विष  
 ५८, ९.  
 क्रमा(म-अ)प्ययन-नम् दौच  
 ४, १०८.  
 क्रमा(म-अ)र्थ-र्थम् काण्ड  
 ४१: २३.  
 क्रमा(म-अ)वमान-नम् द्रुपा  
 ४, ११०.

क्रमा(म-आ)हित<sup>०</sup> -तः द्वि  
 १, ३.  
 क्रमे(म-इ)तर-(> क्रमेतरिक-  
 पा.) पाप ४, २, ६०.  
 क्रमो(म-उक्त)क्ता-क्ता द्रुपा  
 ४, २१.  
 क्रमो(म-उ)दित<sup>०</sup> -सौ भाशि  
 ६४.  
 क्रमण<sup>०</sup> -णः या १०, २२; -णम्  
 वाथी २, १, ३, २०; क्रपा १४,  
 ५८; शैशि २५; -गे पा ३, १,  
 १४.  
 क्रमणीय-यम् काशु ७, ११.  
 क्रममाण-गाय आपथी ५, २४,  
 ४१.  
 क्रममाण-धा<sup>०</sup> -धाः या ६,  
 २०.  
 क्रमय-यन्तः क्रपा १४, ४१.  
 क्रमित्वा वीथी १, ५: ११; २२,  
 ४: १४; १८; २६, २८: ४.  
 क्रान्त-र्णन्तम् वीथी १०, ५६:  
 १०, ११, ७: २५; १२, १२:  
 ६; वाथी; -न्तान् अप ४७, १,  
 ६; -न्तानि या १०, २६; १४,  
 १९.  
 क्रान्त-क-कानि या ५, ११.  
 क्रान्त-दुर्शन<sup>०</sup> -नः या १२, १३.  
 क्रान्ता(स्त-आ)घ(दि-अ)थे-  
 -थे पावा २, २, १८.  
 क्रान्तु-पाठ ५, ४३.  
 क्रान्त्वा या २, १५<sup>१</sup>.  
 क्रामन्-मामु वाधुथी ४, १०८: ५.  
 चङ्कमा-नवा कौम् ३१, १८<sup>१</sup>.

चङ्कम्यमाग-णः जैष्ट २, ८:  
 १५.  
 क्रिमन्तरिक्षकम<sup>०</sup> -मस्य चाप ४२८  
 ११.  
 क्रमुक<sup>०</sup> - पाठभो २, २, २५; -हः  
 हिथी १५, ६, १०; -कम् हिथी  
 ११, २, ५.  
 क्रमुक-ताम्बूल-शाक-काष्ठा (ठ-आ)  
 दि-कपयिकविन्-थी तैष  
 ३, १३, ५.  
 क्रमेलक-पाठभो २, २, ३१.  
 क्रय-कयण-प्रम्. √की द.  
 क्रिक्वी<sup>१</sup> कापथी १८, १३, २२; वीथी  
 १२, ११: १४; हिथी १३, ५.  
 ३७; तेषा ३, १३.  
 क्रय्य-√की द.  
 क्रिविवा:<sup>१</sup> कौम् ११७, २.  
 क्रविस्<sup>०</sup> -विषा कौम् ११२, ११.  
 शक्रव्य<sup>०</sup> -व्यम् या ६, ११४; -व्ये वा  
 ६, १२; -व्येण शौथी ३, ४, ६.  
 कय-वाहव<sup>०</sup> -नः आथी २, ११-  
 २५<sup>१</sup>.  
 क्रव्या(व्य-अ)मि-> १मि-व्याल-  
 र्(प>)पाम<sup>०</sup> -पा. अप ५८<sup>१</sup>,  
 ४, ११.  
 क्रव्या(व्य-अ)म्<sup>०</sup> -पा ३, २, ६९;  
 -र्णव्यात् वीथी २, १०: ८;  
 आद्रिय; -र्णव्याः शौथी ४;  
 १९, ८; आद्रिय १, ५, ३:  
 ५; काण्ड ४५, ७<sup>१</sup>; हिष्ट १, १९;  
 ७; कौम् ७१, ६; आपथ १, १५-  
 ३७<sup>१</sup>; ३८; हिष्ट १, ५, ७<sup>१</sup>;  
 -र्णव्यात् काथी २१, ४, २५-

a) = सुक्त-विशेषः । पूष. = विष्णु-कर्म- । b) विष. । वत्. । c) उप. < √वृ. । d) भारे  
 वरणाधिकारणे च ल्युट् प्र. । e) = द्विवे-या- । उक्त. । f) पाठः ? ष्टुषिभ्या इति या. (शी Lभू ६, ८१) ।  
 g) ध्वय. । प्राति. ध्व. च ? । h) = पूष- । काष्ठ-वाकल- । वु. ? < √क्रम इति आमा. प्रम्. । i) वैष १.  
 ११८० C, d द. । j) स्वरूपं प्राति. च ? । k) वैष १ द. । l) पामे. वैष १, ११०३ म द. । m) विष ।  
 द्र. > वत्. । n) वप्र. शी १२, २, २० माण्ड २, १, १० विशिष्टः पाथे. । o) तग. क्रव्यात् <> क्रव्यात्वा इति पाथे ।



आपथी; -व्यादि कौ० ७१, १; -पञ्चादे वीषि १, ५, २०; या ६, ११; -व्यादिः अप ६१, १, ११; विष २३, ५०.  
 कव्याद्- -दाः कौ० ८२, २१; -दाः अप ६४, ७, ९; वीषि १, ५, १२८; विष ४४, १०; हिष १, ५, ६५; -दात् अशा १५, २; -दात् वीष ११६; २४; -दानाम् अप ७१, १५, ९; -द्वैः अप ६४, ७, १; ६८, २, २९; ७०, १४, २; विष ४३, ३४.  
 कव्याद्-सुग-पक्षि-मांसा (स-  
 क)शन- -ने विष ५१, २८.  
 कव्याद्-पुग-वध- -ये विष ५०, ४०  
 कव्याद्(व्य-अ)दस- -दताम् आपथ १, २१, १५; हिष १, ६, ४५.  
 कव्ये-अरुण- -णम् पावा ३, २, ६९.  
 २१ क्रय- -व्याः वीथी १०, ५० : २३; आपथं २, १७, २५.  
 क्राण- ✓कृ द.  
 क्राण्त- प्रभृ. ✓कृ द.  
 क्रिमि- - पाठ ४, १२२; -सयः आपथी ९, २०, २; वीथी ९, १८ : २०; अत्र २, ३१; या ६, ४; -पिः गोष्ट ४, १८; वीष १, ५, १२३; २, १, ५२; या ६, १२४; -मीणाम् वैष्ट ३, ७ : २२; अत्र ५, २३; -मीन् आपथी १५, १९, ५; भाथी ११, २०, १; -पि०से० आपथी

१५, १९, ५; वीथी ९, १८ : २०; भाथी ११, २०, १.  
 क्रिमि-जगन्- -नाय अत्र ५, २३.  
 क्रिमि-प्रा- -ण. आपथी ९, २०, २१; वैथी २०, ३९ : ४; -णा आपथी १५, १९, ५; भाथी ११, २०, ११.  
 क्रिमि-दष्ट- -ष्टः वीष १, ५, १२२.  
 क्रिमि-पत्- -मन्तम् गोष्ट ४, ९, १८; द्राष्ट ४, ४, ३.  
 क्रिमि-लेप-वर्ज- -जान् वैथी १, ७ : ११.  
 क्रिय- पाठो २, ३, १२.  
 क्रियमाण- , क्रिया- प्रभृ. ✓कृ द.  
 क्रिमिचि- -विः अप ४८, ७७; निष ३, २३; -विम् काथी १८, १३, ५; कथा ८, ३२.  
 क्रिमिचि- > क्रिमि-ष्ट(ह >)ती- -ती निष ४, ३; या ६, ३०.  
 ✓क्री१ पाचा. कथा. लभ. द्रव्यविनि-  
 मये, क्रीणानि काथी १५, ९, २३; आपथी; क्रीणन्ति आपथी ४, ४, १; १२, ४, ३; काथी, क्रीणामि काथी ४, ८, ११; पञ्चापथी १०, २५, ४; ११; पञ्चाथी ६, १५ : १; २; ५; पञ्चाथी १०, १९, १६, १७, १; पञ्चाथी १२, १८ : ८, १४; पञ्चाथी ४, ३, ६०; ६५ x x; पञ्चाथीहि काथी ४, ८, ५; भाथी २, १, ४, ८; क्रीणानि काथी ४, ८, ४; ६; आपथी; भाथी २, १, ४, ८; अक्रोणन्

लाथी ८, ४, ८; क्रीणीयात् आपथी १०, २०, १२ x x x; वीथी; क्रीणीयुः आपथी ११, ४, १०; लाथी ८, २, १६; १०, ११, ७.  
 चिक्राय वाघ १७, ३२; पञ्चव्यामः आपथी १०, २५, १; भाथी.  
 क्रय- -यः काथी ७, १, २५; वीथी; -यम् आपथी १८, २०, १७; वाथी; -यस्य वीथी ६, १० : १; १०, १९ : १; मीत् ६, १, १६; -यात् काथी ७, २, २; ११, १, ३; आपथी; -ये भाथी २, ३, ४; द्विथी, -येण विष २४, २४.  
 क्रय-क्री(त >)ता- -या काथ २८२ : १.  
 क्रय-धर्म- -मैः आपथ २, १३, १०; हिष २, १, १०.  
 क्रय-परिकय-संस्कार- -रैषु आपथी २४, २, ८.  
 क्रय-प्रतिकर्ष- -पञ्च गोष् ११, २, ५५.  
 क्रय-प्रवृत्ति- -वि लाथी ८, ४, ४, १२.  
 क्रय-वत् आपथी १२, ९, ३; वैथी १५, ११ : ६.  
 क्रय-विक्रय- -यम् आपथी ५, ८; -याभ्याम् मीत् ६, १, ११; -वौ आथो ८, ७.  
 क्रयविक्रयि- -पा ४, ४, १३.

a) विप., नाप. । उस. उप. अजन्ता ( तु. असाद्- [वैष ३] ) वा अणन्त वा ? । कैयट-नामैतौ अदन्तं प्राप्ति. नाद्रियेते । यत्तु पक्षमांस-वाचिनः कव्य-शब्दाद् उपपदाद् धा. णम् प्र. इति नेपाद्विदग्भिमतं तदवोधाच्चित्त्यम् ( तु. नागैतः ) । b) पाथे. पृ १४० B डि. इ. । c) विप. । बस. उर. भाप. । d) वैष १ इ. । e) पाथे. वैष १, ११८ 1 a इ. । f) मत्पथे नः प्र. उत्सं. ( पा ५, २, १०० ) । g) क्रिष्णः इति पाठः ? यनि, शोषः । h) शीणा इति पाठः ? यनि. शोषः ( तु. आपथी. ) । i) विप. । इत्त. > उत्स. । j) पा ३, १, ८१ पाठा १, १, ३९ पारान्धः इ. । k) पाथे. वैष १, ११८ 1 B इ. ।

क्रयविक्रयिन्- -यो विघ  
 ५१, ७४.  
 क्रय-विक्रय-दुष्टभोजन-प्रतिग्रह-  
 -हेतु शंघ ४५०.  
 क्रय-शब्द- -रुद्रः आपय २,  
 १३, ११; हिघ २, ३, ११.  
 क्रय-धृति- -तेः काथी १३,  
 १, ८.  
 क्रया(य-अ)क्रव- > 'क्र  
 (यक>)यिका- पावा, पावाय  
 २, १, ६०.  
 क्रयै(य-ए)कत्व- -त्वात् काथी  
 १५, ८, १०.  
 क्रयण- -णात् हिथी ११, ४, ८;  
 लाथी ८, ४, ५, -णेषु मीत् १२,  
 ४, ५<sup>०</sup>.  
 क्रयण-प्रभृति- -ति काथी १०,  
 ९, २९.  
 क्रयण-वत् मीत् ३, ३, २४.  
 क्रयण-वेद्यारम्भण-प्रवर्गोन्मिादना  
 (न-अ)सिप्रणयन-हविर्धाना-  
 (न-अ)सीपोम- -माणाम् काथी  
 १४, १, १३.  
 क्रयण-अपण-पुरोह-उपयाम-  
 प्रहणा(ए-आ)मादन-वासोपन-  
 हन- -नम् मीत् ८, २, ४.  
 क्रयणोय-> 'वा(य-आ)दि-  
 -न्ती काथी १६, ६, २३.  
 १क्रयिक- पा ४, ४, १३.  
 २क्रयिक- पाठ २, ४, ४.  
 क्रयण- -पा ६, १, ८२; -ऋयः  
 काथी ७, ८, २, ३; आपथी १०,  
 २५, २, ३; वीथी; -ऋयः काथी  
 १९, १, १८; माथी १०, १६,  
 १५.  
 मीत्, पा- -तः काथी ७, ८, ११;

वीथी; अत्राय ३, ११<sup>०</sup>; -रुम्  
 आपथी १०, २४, ३; १४, २४,  
 १०; वीथी १४, २९, १६; हिथी;  
 पा, पावा ५, १, ३७; -ता वाघ १,  
 ३७, वीथ १, ११, २०<sup>१</sup>; -नात् पा  
 ४, १, ५०; ५, १, १; -ताय काथी  
 ७, ९, १३; आपथी १०, २८, ४<sup>१</sup>;  
 वीथी; -ते आथी ६, ८, १; साथी.  
 क्रीत-त्व- -त्वात् मीत् ६, १,  
 १९; ३, २४.  
 क्रीत-लक्षणा(व्य-अ)शन- -नाः  
 विघ १९, १४.  
 क्रीत-वत् पा, पावा ४, ३, १५६.  
 क्रीत-पति- -तिम् या ६, ९.  
 क्रीतो(त-उ)पक्ष- -क्षेन आथ  
 ४, ४, १५; वाघ ४, १५.  
 क्रीतव्य- -व्यः कप्राय ६, ४.  
 क्रीत्वा शार्थी ५, ६, १४४; काथी.  
 क्रीयमाण- -णः भादि १२<sup>१</sup>;  
 -णस्य हिथी १०, ३, २२;  
 -णात् काथी १४, १, १४.  
 क्रीत्- -ता विघ ५, १६६; काथी  
 ५, १०; -तुः विघ ५, १२७;  
 १२९.  
 क्रीय- -यः हिथी १५, ६, १२.  
 क्रीयत्व- -व्यन्तः शार्थी १४, १, ११;  
 लाथी ५, ५, ८.  
 √क्रीइ, ल्, ल् पाथा. भ्वा. पर.  
 विहारे. √क्रीइत्. आथी १०,  
 ८, १०; ११; शार्थी १६, ४,  
 १; क्रीइत् विघ ७१, ७८.  
 √क्रीइ- -रुम् आथी २, १८, १६;  
 ८, १०, ३; शार्थी ३, १५, १५;  
 काथ २२, १; कथ २, १, ३७;  
 वृदे ३, १०७.  
 क्रीइत्- -रुम् अथ ४६, ३, ६<sup>१</sup>;

क्रीत्वा १६, ७३<sup>१</sup>; वाघ १५, १८;  
 -रुन्ती या १, १६.  
 √क्रीइन्ती- -न्तीः क्रीत् ३, ६,  
 ९; वाग् ३, ११, १४; पाथ ३, ९,  
 ६; काथ ५९, ५; विघ ८६, १६.  
 क्रीइमान- -नैः कप्र ३, ८, १८.  
 क्रीइ- -रुम् वैघ ३, ३, १;  
 -टायात् पा ४, २, ५७; ६, २,  
 ७४.  
 क्रीइ-जोविका- -कयोः पा २,  
 २, १७.  
 क्रीइ(डा-अ)ई- -ईम् वीथ १,  
 १, १४; वृदे ३, १४३.  
 क्रीइत्- > क्रीइत्वा(त-आ)वास-  
 दशन- -नम् अथ ६, ८, २, ४९.  
 क्रीइत्- -दिताम् वैताथी ९, ५;  
 -दिभ्यः काथी २, १८, १४;  
 शार्थी ३, १५, १४; काथी ५,  
 ७, १; आपथी ८, ११, २२; २०,  
 १४, १०<sup>१</sup>; वीथी ५, १० =  
 २६<sup>१</sup>; १८, ११ = १०; भाथी  
 ८, १३, १०; माथी १, ७, ५, ३१;  
 वाथी १, ७, ३, २३; वैथी ९, ३ =  
 १०; हिथी ५, ३, ३९;  
 १४, ३, १७; -ऋदी आपथी  
 १७, १६, १८; वैथी १९, ६ =  
 १०९; हिथी १२, ५, ३०.  
 क्रीइन्- -नः शार्थी १४,  
 १०, १६; आपथी २२, ८, १८;  
 वीथी १५, १० = १९; १७, ५७ =  
 १३; १४; ६० = ६; ६१ = ९;  
 -नम् आथी ९, २, १५; वीथी  
 १५, १० = १८; १९; -नस्य वीथी  
 १७, ५७ = १४; २१, ३ = १३;  
 माथी ८, १३, १; -नात् भाथी  
 ८, २२, १२; -नाय वाथी १, ७,

a) तु. पाठा. । b) 'येपु' इति टी. । c) 'अप' इति जी. । d) विघ., नाप. [पा.] ।  
 e) पाठे. वैप १, ११८२ g. परि. च द. । f) वैप १ द. । g) नाप. (मत्-). । h) सा. अर्थेदक्षीयः कण् प्र. ।

३,२१<sup>०</sup>; -ने वीथी २१, ६ : १८.  
 क्रीडिन-प्रभृति- -ति  
 वीथी १,०,४,०,८<sup>०</sup>.  
 क्रीडिन<sup>०</sup> - नस्य माथी ५, १,४,०  
 ✓कुघ् पाषा. भ्वा. पर. क्रीडित्वाल्पो-  
 भावयोः.  
 कुघ्<sup>०</sup> - पा ३,२,५५; ६,१,१८३;  
 वाग ४,१, ४; ५, ४, ३८; कुघ्  
 मासि १६.  
 कुघा<sup>०</sup> - पा ४, १, ४; वाग  
 ४,१, ११२<sup>१</sup>; २, ११; ६, ४,  
 १५३; ८, २, ९; पावा ८, २, २२.  
 कुघकीय- पा ४, २,  
 ११.  
 क्रीडक- पा ६,  
 ४, १५३.  
 १क्रीड<sup>०</sup> - पा ४, १,  
 ११२.  
 क्रीडा(घ-आ)-  
 किरस- -तस्य वाअ ३८: १११<sup>०</sup>.  
 कुघा-मव- पा ८, २, ९.  
 २क्रीड<sup>०</sup> - पा ५, ४, ३८; -अः  
 विघ ४४, २८; नासि १,  
 ५, ३; -अन् आपथी २४,  
 १४, ५<sup>१</sup>; हिथी २१, १, १०; २,  
 ४४<sup>१</sup>; विघ ५०, ३९; -आः  
 यासि १, ८.  
 क्रीड-नाकुल-भियवृक्ष-पैर्य-  
 -न्यानाम् अ १, ३२, ४.  
 क्रीड-नाद- -दः मासि १, ९.  
 कुघ<sup>०</sup> > ३क्रीड<sup>०</sup> - अम् दाथी ८,  
 ३, ११, लाथी ४, ५, १; जुम् १, ५:  
 २०; ३, १७; १०: २२; -अस्य

लाथी ६, ११, ३; जुम् २, ६ :  
 १८; २४; ३, १०: २४; -अ  
 लाथी ७, ८, ८; जुम् २, ८: ७.  
 कुघ-क्रीड-नाप्रार्णस-खड्गमण-  
 वज्रम् आपथ १, १७, ३६; हिघ  
 १, ५, ६७.  
 ✓कुड्<sup>०</sup> पाषा. तुदा. पर. निमज्जेते.  
 ✓कुघ्<sup>०</sup> पाषा. दिवा. पर. क्रोधे,  
 कुघ्यमित अय ६८, १, २४; अकु-  
 प्यन् या ४, २५; कुघ्येत् वैथी  
 १२, ११: २; वीष १, ५, ३०.  
 कुघः वापथी ४, ३०: १०; वृदे  
 ५, ७८.  
 क्रोधयति अथ ४, ३६<sup>१</sup>;  
 क्रोधयेत् आपथ २, १८, ३;  
 हिघ २, ५, ५५.  
 १कुघम् या ६, २४; नासि २,  
 ३, ११.  
 कुड- -अः आथी २, १०, १६<sup>१</sup>;  
 आपथी ५, २७, १२<sup>१</sup>; आथी;  
 -दम् आपथ २३, २; हिघ १,  
 १५, ३; -दस्य विघ ७१, २२;  
 -आः वैताथी ५, १३<sup>१</sup>; सु २,  
 ४; कौस् ७०, ६<sup>१</sup>; अय ६८, १,  
 २४; अय २, १०, ५६; अय  
 १२, २<sup>१</sup>.  
 कुड-दृष्ट-भोता(त-आ) तं-लुङ्-  
 बाल-स्थपिर-भूड-मपो(त-उ)  
 न्मत्त-वापथ- -वयाति वीष ५,  
 २५.  
 कुडा(द-अ)शनि-मुत्त- -लम्  
 अय ४०, २, २.  
 कुड्वा काथी ७, ५, १.

कुघ्यति- > ०ति-कर्मन्- -मांगः  
 निघ २, १२; या ३, ९.  
 क्रोध- -अः आपथ १, २३, ५; विघ  
 ३३, ६; हिघ १, ६, १३; अय ९,  
 ७<sup>१</sup>; -अम् आथी १२, ८, ८;  
 दाथी ७, ३, ८; आपथ २, २२,  
 २<sup>१</sup>; पाय ३, १३, ५; हिघ १,  
 १५, ३<sup>१</sup>; शंघ २५८; आपथ २,  
 १८, ३; हिघ २, ५, ५५; -<sup>१</sup>घस्य  
 पाय ३, १३, ५<sup>१</sup>; अय ४८, १८;  
 निघ २, १३; -आत् सु १०, १;  
 अय १२<sup>१</sup>, ५, ६; ५२, १२, ५;  
 वृदे ५, १६; -भाव आसि १,  
 २, २: २४; हिघ २, १९, ६;  
 -धे वैताथी १२, १३<sup>१</sup>; अय  
 ४८, १८<sup>१</sup>, -धेन सु २३, ६.  
 क्रोध-कर्मन्- -मंगः या १०, २९  
 क्रोध-लम् (ः) वीष ४, ५, ४.  
 क्रोध-नामन्- -मानि निघ २,  
 १३; या ३, ९.  
 क्रोध-लोभ-मान-अप-दोषो-  
 (प-उ)वहत- -ताः शंघ २५१.  
 क्रोध-वश- -तो वीष २, ८, १५.  
 क्रोध-वितयन- -नम् हिघ १,  
 १५, २.  
 क्रोध-विवर्जित- -ते विघ २९  
 २०.  
 क्रोध-संभव- -धे अय १, २, १४.  
 क्रोधा(घ-आ)दि- -वीन् आपथ  
 १, ३१, २३; हिघ १, ८, ४२.  
 क्रोधा(घ-म)कृत- -ने दाथी ७,  
 ३, २४; लाथी ३, ३, २५; मोए  
 ३, १, १४.

a) ०वीषाय इति पाठः। यति. शोधः। b) ०किन् इति पाठः। यति. शोधः। c) साड्यदेवतीयः अच् प्र. उत्सं.। d) वैप १ द.। e) <हृड्-इति [पक्षे] पान ४, १, १। f) तु. प.ग.म.। g) व्यप.। h) ०वां अ इति पाठः। यति. शोधः। i) < हृड्-इति भाष्य.। j) नाप. (कुघ्-व्यप. च। k) = साम-विशेष-। l) ✓कुड् इति BFG.। m) पा १, ४, १; २८ परावृष्टः द.। n) पौमे. वै २, ३६. ब्रूत तैमा २, ५, १, १. द.। o) एषा. आपथ २, २२, १ स्यस्य इति, हिघ १, १५, ३ हृडस्व इति च पाठे.।

क्रोधन- पा ३,२,१५१.  
**कृमुक**<sup>क</sup>- कः आपथी १४, २४, ५;  
 -कम् आपथी १६, १, ६; वीथी  
 १०, १२: ७; १३: २१; १४,  
 २८: १२; माथी ६, १, ३, २८;  
 वाथी २, १, २, २२; वैथी १८,  
 ६: ८<sup>०</sup>; मासि १७.  
 कृमुक-शकल- -कम् वीथी १४,  
 २८: १३.  
**✓कृष्** (यथा.)<sup>०</sup> पाषा. अना. पर.  
 आह्वाने रोदने च, क्रोशन्ति  
 अय ७२, ४, ४; क्रोशतु कौस्  
 ५८, ११<sup>०</sup>; क्रोशेत् लाथी ९, ८,  
 १५; माप १, ३, ४.  
 अक्रुक्षत् भासि १७.  
 कुर्वन्- पाठ ४, ११४.  
**कृष्ट**<sup>०</sup>- टः वृदे ८, ११२; ११६;  
 मासि १, १, १२; ७, ३; १३;  
 -टम् वृदे ८, ११४; मासि २,  
 १, -टस्य मासि १, ७, १; -टे  
 कासि १, ७, १०, -ट्टेन आपथी  
 २४, १, १४; मासि १, ७, ६.  
 कृष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-  
 मन्त्रा(द्र-अ)निसर्वाय- -याः  
 तैमा २३, १४.  
**क्रोश**<sup>०</sup>- -नाम् लाथी ७, १, १,  
 निस् ८, १०: ३३.  
 क्रोशा(श-अ)नुक्रोश- -थे  
 आपथी १४, २०, १; द्विथी १५,  
 ५, २१.  
 क्रोशन्- -दान्तम् कौम् ५८, १.  
 क्रोशन्- -नाम् वृदे ७, २११<sup>०</sup>.  
 क्रोष्टु<sup>०</sup>- पाठ १, ६१; पाग ४, १,

४१; ९९; -ष्टुः पा ७, १, ९५.  
 क्रोष्टवायन- पा ४, १, ९९<sup>०</sup>.  
 क्रोष्टु-कण<sup>०</sup>- (> क्रोष्टुकण-  
 वा.) पाग ४, ३, ९३.  
 क्रोष्टु-पाद- पाग २, ४, ६३<sup>०</sup>.  
 क्रोष्टु-मा(या>)य- पाग २, ४,  
 ६३<sup>०</sup>.  
 क्रोष्टु<sup>०</sup>- -ष्टे अय ११, २.  
 क्रोष्टु<sup>०</sup>- पा ४, १, ४१.  
**क्रूर**<sup>०</sup>- पाठ २, २१; -फरः वैथी १८,  
 १४: २; वीथ; -रम् काथी ६,  
 ६, ५<sup>०</sup>; आपथी, आपथं १, १७,  
 ९१<sup>०</sup>; या ६, २२<sup>०</sup>; -फरस्य  
 काथी २, ६, २४; वीथी; -रा-  
 अय ३३, ७, ५; ६८, १, ४; ४०;  
 वृदे ३, १३२; -राणि वीथी ९,  
 १८: ७; निस्; -फरे आपथी  
 १६, १५, ९; वीथी १०, २२:  
 १५. द्विथी ११, ६, ७; -फरेण  
 आपथी १४, १४, १; वीथी १४,  
 १८: १४.  
 क्रूर-कर्मन्- -मां शंघ ३७७: ६.  
 क्रूर-कल- -कृताम् वीथी १४, २७:  
 २; वैथी २१, ७: १०.  
 क्रूर-कर्मन्- -मंगा वीथी १६, २०:  
 १०.  
 क्रूर- (सम् >) क्रो-भूत-गण-  
 -गाः आपथि २, ५, ११: २१.  
 क्रूर-गि, नि, जन- -नम् निस् ७,  
 ११: ६; १२: १०.  
 क्रूर(र-घ)वहन- -नाथ वीथी  
 २०, २: १८<sup>०</sup>.  
 क्रोणि- पाठ ४, ४८.

क्रोत्, क्रेय-, क्रेष्यत्- ✓क्री द.  
**क्रौडिन**- ✓क्रौट् द.  
**क्रौड**<sup>०</sup>- पाठमो २, २, ११९; पाग  
 ४, १, ४५; ५६; -टः अय ९,  
 ७<sup>०</sup>; -टम् काथी ६, ७, ६; ८,  
 १२; वीथी १५, ३०: २१; क्य  
 ३, १०, ४; -टस्य वाथी १, ६,  
 ७, १; वाधुथी ३, १७: १; -टार  
 आपथी २०, १८, ७<sup>०</sup>; वीथी  
 १५, ५: १४; २४: १९; २१;  
 ३०: १३; १६; २३; माथी १,  
 ८, ५, १८; -ट्टेयः वीथी १५,  
 २४: ११; -टो अय १०,  
 १२<sup>०</sup>.  
 क्रौडो- पा ४, १, ४५.  
 क्रौड-लोमन्- -मानि कौस् २६, २१.  
**क्रौड**<sup>०</sup>-> क्रौडायण- -गाः वीथी  
 १७: ११.  
 क्रौडि- (> क्रौड्या- वा.) पाग ४,  
 १, ८०.  
**क्रौडुनि**<sup>०</sup>- -गिः वीथी १६, २७:  
 २२.  
 क्रोध-, प्रम्. ✓कृष् द.  
 क्रोधा<sup>०</sup>- -घा वृदे ५, १४४.  
**क्रोशा**- ✓कृष् द.  
**क्रोशा**<sup>०</sup>- -राः आपथ २, २६, ७; द्विथ  
 २, ५, २०२; -शम् वीथी १८,  
 २०: २०; -शात् अय १, २७: ३०,  
 ४<sup>०</sup>; वैथ ३, ७, ५; -शानि द्विथी  
 १७, १, ३६; -शे आपथी २२,  
 २, २०; द्विथी १७, २, १७.  
 क्रोश-मयवाय- -येन-येन वाथी  
 २२, ३, ३३.

a) = कृमुक- । b) कौम् इति इतरसर्ता । c) या २, २५; ९, ११ परासृष्टः द. । d) = हर-विशेष- ।  
 e) = सान-विशेष- । वै १ द. । f) वैप १ द. । g) = श्याल- । h) अय. । ष्टु- (> क्रौष्टु) इति पागम. ।  
 i) = देश-विशेष- । ष्टुकर्ण- इति भोक्तृमते, ष्टुकतत्- इति वामनमते इति पागम. । j) क्रौष्टुमान- इति केचित्  
 इति पागम. । k) द्र. पागम. । l) पाप. < क्रोष्टु- । m) पाभि. वैप १, १४९० । द. । n) = ऋषि-विशेष- ।  
 श्रु. । । o) = दत्त-मुता- । श्रु. । । p) = अथपरिमाण-विशेष- । श्रु. । ।

क्रोश-शत-> क्रोशनातिक- पावा  
५, १, ५४.

क्रोशात्- शान्त- ✓कुम् ६.

क्रोश- -घा: वीथीप्र ४१ : ९.

क्रोशु- ✓कुम् ६.

क्रोशुकि- -कि: अत्र ५०, ४, ५;  
-के: अत्र ६८, १, २, २, ८;  
३९.

क्रोशु- क्रोशु- ✓कुम् ६.

१-३क्रोश- ✓कुम् ६.

४क्रोश- > क्रोश-द्वीप- नम् वीप  
११६ : ४.

क्रोशापन- -ना: वीथीप्र ४ : २.

क्रोशापन- -नया: वीथीप्र ४६ : २.

क्रोशापन- , क्रोश- , श्वा- २क्रोश-  
६.

क्रोशित- -श्या: वीथीप्र १७ : १२.

क्रोशापन- , क्रोशुकर- ✓कुम् ६.

१क्रोशुकि- -नय: वीथीप्र १९ : २;

-कि: श्रुं ४, ११५; वा ८, २;

-के: नि ३, २९.

२क्रोशुकि- (> शीय- वा ) पाग

५, ३, ११६.

क्रोशुपान- (> शर- पा.) पाग

४, २, ६०.

✓कुम् पावा. भ्वा. पर. हिवायाम्.

✓कुम् पावा. भ्वा. आत्म. वैकलभे.

कुम् २- -मु: वीथी २, ५ : ११५.

✓कुम् पावा. भ्वा. पर. आहाने

रांने न, आत्म. वैकलभे.

कुम् (>) न्दा- -न्दा अत्र २, ३५

✓कुम् पावा. वुरा. पर. श्वाया वावि.

✓कुम् पावा. दिवा. पर. म्वावी,  
कामयन्ति अत्र ६८, १, १९.

कुम् वा ३, १४१.

शान्त- न्तम् वाष ६, २०.

✓कुम् पावा. दिवा. पर. आर्त्ताये,  
श्रुयन्ति विम २०, ५१.

कुम्, श्वा- -सम् आपथी ५, २५, ७;

माथी ५, १६, २०; माथी १, ५,

६, १६; वीथी १, १८ : ४; द्विथी

६, ५, २७; वीथ १, ७, २०;

-अस्य पावा ५, २, २३; -या

अत्र २२, १, २; १; २३, ३, ५;

-घाया: वीप १, ६, १८; -चेन

वीप ३, ५, २.

कुम्-काहा(ए-अ)भ्याधान-

-नम् वाथी १, ४, ३, ४२.

कुम्-वात- -मा: वीप ४,

२, ८१.

कुम्- -न: वीथी २, ५ : १३५.

कुम्-न- -नताम् अत्र ६५,

२, ४.

कुम्-विद्या आथी १०, २६, १४;

द्विथी ७, २, ७८; भाग १, २५ :

१७.

✓कुम् पावा. भ्वा. परिदेवे

✓कुम् पावा. दिवा. आत्म. उपनये,

अत्र. पर. विवापने, कुम्-वत मु

८, २.

कुम्- -न-व- -श्या वा ७,

२, ५०.

कुम्- -न-व- वाथी ३, ९४ :

१६; १९.

कुम्- -नम् अत्र २९, २, ५.

कुम्-भाजन- -न: श्वावी १३,  
५६.

कुम्(श-अ)व- पा ३, २, ५०;

-हम् आसि ३, २, १ : ४.

कुम्(श-अ)व- -नम् द्वि २,  
१४, ३.

कुम्- पा ३, २, १४६.

कुम्-क, का- -नाभिः आपथी १५,

३, १६; माथी १६, ३, ५;

-के: मो २, १, ९.

✓कुम् पावा. भ्वा. आत्म. अघाद्यं.

कुम्- -म अत्र ६, १३८.

-न: वीथी १२, १० : ९×४;

वीथी; -नम् वीथी १२, १० :

१६; १७, ११ : २; अत्र;

-अस्य वीथी २२, १९ : १; शंथ

४३४; -या: शंथ १३; नासि

२, ८, २६; -यात् काथी १५, ९,

२; १९, १, ११; आथी; -यात्

द्विथी १३, ५, २८; -वे अत्र ३,

२, ५; -चेन द्विथी १३, ५, २८.

कुम्- -नयात् वीथी १३,

२६ : १२.

कुम्-कुम्-काम- -म: अत्र ६,

१३६.

कुम्-ता- पावा २, ४, १७.

कुम्-पर- -ने वीथ ३६, ३६.

कुम्-व्यापित- -तयो: वीप २,

२, १७.

✓कुम् पावा ३, १, ११.

कुम्(व-उ)भ्रमन्त- -न्तात् वाष

a) = कवि-विशेष- । ध्रु. ? । b) अत्र. । ध्रु. ? । c) = द्वीप-विशेष- । ध्रु. ? । d) = कवि-  
विशेष- आचार्य-विशेष- । ध्रु. ? । e) = क्रोशु- इति अत्र. । f) = कुम्. पाणि. पागम्. । g) = देव-विशेष- ।  
h) = देव १ द. । i) वा ३, १, ७०; ७, ३, ७४ परामुः द. । j) उत्तरेण  
संधार्याः । k) = जिनः इति पाठः ? बनि. शो. १. । l) = यति-मनुक- (तु. यदरतः) । m) विप.  
[[उदकनिस्त- [= नृ(शिन-दवीधून-)] यव-माय- l तु. अन्तरायणः अत्र. अत्र. च]], नाप, (विनिधित-अत्र- l तु. Old. l  
n) < कुम्- इति पावा ३, १, ११ ।

१९, ३५; -तानाम् वाघ १७, ५४.  
 ह्रीवो(व-उ)न्मत्त-पतिव- -ताः  
 वाघ १७, ५३.  
 √कु पाधा. भ्वा. आत्म. गती.  
 कुद- √ङिद् द.  
 कुदन्- पाठ १, १५९.  
 फलदयित्वा √किल्द् द.  
 कलेद्- पाठ १, १०.  
 √फलेव् √फलेव् टि. द्र.  
 √फलेद् पाधा. भ्वा. आत्म.  
 अन्वत्तायां वाचि.  
 फलेद्- प्रत्य. क्लेशक- √किल्द् द.  
 फलेव्य- √कलीव् द.  
 फलोक<sup>१</sup>- के वौथी २, ५: ८.  
 फलोमन्- पाठभो २, १, २८५; -म  
 अत्र १, ७, ३; -मा आधौ  
 १२, ९, १३; विप्र ९६, ११;  
 -पमानम् आधौ ७, २३, ६;  
 २४, १२; माधौ ७, १७, ६, १९,  
 ११, वाधौ १, ६, ७, १०; वैधौ १०,  
 १७: ८; १९: ६; द्विधौ ४, ४,  
 ५९, आपर्ग २, १४, २; आमिष्ट  
 २, १, ३: २५, माष्ट १, २३:  
 १८; द्विष्ट २, ३, ७; -मनः गोष्ट  
 ४, १, ४; दाय ३, ४, १६.  
 शोम-ह्रीहा(ह-अ)ध्युत्ती-पुरीतम्-  
 -ततम् काधौ ६, ७, ११.  
 क किम्- द्र.  
 √कम् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे,  
 कम्नि या ५, १८.  
 कण- पा ३, ३, ६५.  
 कणव्- गन् अत्र ४८, १००<sup>१</sup>.

कण- पा ३, ३, ६५.  
 √कम् पाधा. भ्वा. पर. निष्पाके,  
 काययति कौस् २६, २५.  
 काप्यन्ते विघ ४३, ३८.  
 कय- पा ३, १, १४०.  
 कयव्- यन् भाशि ५६<sup>१</sup>.  
 कयन्- > कयन्ते(न-इ)एका- काः  
 वौथी २९, ६: १८; वैधौ २१,  
 १८: ३.  
 कयित- नस्य विघ ४६, २३.  
 कय- पा ३, १, १४०.  
 काथयित्वा वाघ २७, १२.  
 कल<sup>२</sup>- लाः आपधौ १, १४, १; -लैः  
 वैधौ ३, ८: ८; द्विधौ १, ३, ५३.  
 कल-सक्तु- कुभिः आपधौ १९,  
 २, १०; वौधौ १७, २४: ६;  
 द्विधौ १३, ८, २३; -कूर्त् वैधौ  
 ११, ४: १.  
 काङ्क्षित्यतुर्गतिवचन- किम्- द्र.  
 कादि- रकु- द्र.  
 कित्त्<sup>३</sup> पाग १, ४, ५७.  
 किोसन्<sup>४</sup> अत्र ४८, १७०<sup>१</sup>.  
 √कशा, कवशत्<sup>५</sup> माधौ ३, ३, ६;  
 ६, १, १, १४.  
 क्ष<sup>६</sup>- क्षम् क्त ५, ३, ७.  
 √क्षञ् पाधा भ्वा. आत्म. गति-  
 दानयोः  
 √क्षण् पाधा. तुदा. उभ. हिंसायाम्,  
 क्षणोति या ४, १८; ६, १.  
 क्षण- पाग ५, २, ३६; -ण आमिष्ट  
 ३, ३, २: ९<sup>१</sup>; ११; १२<sup>२</sup>; १३;  
 १४<sup>३</sup>, १५<sup>४</sup>; १६; वौष्ट २, ११,  
 १८<sup>५</sup>; गोति २, २, २२; या २,

२५<sup>६</sup>; -णम् आमिष्ट ३, ३, १ =  
 ७; १६; २: ९; वौष्ट २, ११, १७;  
 -णात् वाघ २६, १; ६; २८, १९;  
 वौध ४, ६, ५; -णम् सु १५, ५.  
 क्षणित- पा ५, २, ३६.  
 क्षणि<sup>७</sup>- णिः या ६, १<sup>१</sup>.  
 क्षणे > णे-पाक- पा, पाग ७, ३,  
 ५३.  
 क्षन्- पा ६, ४, ३७; पाग २, ४,  
 ३१; -तम् सु ३, २.  
 क्षत्-ज-प्र(भ>)मा- भ्वा अत्र  
 ५८<sup>२</sup>, ४, १४; १५.  
 क्षत्-वद्- दानि अत्र ६२,  
 २, ७.  
 क्षिण्वा कर्णवा वाधुधौ ३, ३१: ७.  
 क्ष(त>)त्ता-, क्षुत्- √क्षद् द्र.  
 क्षिण्<sup>८</sup>- पाठ ४, १६७; पाग २, ४,  
 ३१; -त्रम् आधौ ४, १२, १<sup>१</sup>;  
 वाधौ ३, ७, ४<sup>२</sup>; वाधौ ५, १२,  
 १२<sup>३</sup>; १७, ११, ११<sup>४</sup>; अत्र  
 ४८, ९०<sup>५</sup>; कृनिष्ट १, १२<sup>६</sup>;  
 २, १०<sup>७</sup>; -पुत्रस्य काधौ १५,  
 ५, १४×४; आपधौ; -प्रा वृते  
 ७, ९६<sup>८</sup>; -पुत्रागाम् काधौ  
 १५, ५, ३२; आपधौ; -पुत्रागि  
 आपधौ १५, ११, २<sup>९</sup>; वौधौ ९,  
 ११: १<sup>१०</sup>; माधौ ११, ११, २<sup>११</sup>;  
 कौस् २, ४१; १३७, ३०<sup>१२</sup>; अत्र  
 ४६, २, १; या ३, २०; -शाव  
 आपधौ १४, ६, ९; १७, १७, ४<sup>१३</sup>;  
 वाधौ ३, २, ६, २०; द्विधौ ९,  
 ८, २६; -पुत्राय काधौ १७,  
 ११, ११; आपधौ, -पुत्रे वाधौ

a) < √ङिद् । b) नाप. । कर्थः ध्यु. च ? । c) वैप १ द. । d) तु. पागम. । तदत्र च  
 अर्त्तनपाद्वृत्तयोः । e) स्वरुपे ? । = स्तोत्र-विशेष- । णः इति संज्ञकता ? । f) पागे. वैप १, ११८५ f द. ।  
 g) = अत्रर- । h) या २, २५; ६, १ पा ७, २, ५ पताम्यः द. । i) क्तेरि कुर. । j) पागे. वैप २, ३६.  
 क्षत्रम् माथा ११, ४, ३, ७ टि. द. । k) पागे. वैप १, ११८५ l द. । l) = पन- । m) = उदक- ।  
 n) पागे. वैप १, ११८५ k द. । o) पागे. वैप १, ११८६ b द. ।

४, १०, ३; काशी; -पुत्रिण  
 आप्तो १७, १७, ७; वीथी ८,  
 ३: १८; हिथी १२, ५, ३४;  
 गौध ११, २९; अक्ष २, ६;  
 -पुत्रिण्यः आप्तो १६, ३०, १;  
 वैथी १८, २० : ३४; हिथी ११,  
 ८, ४.  
 शक्षत्र- -प्रः वाध १, २९;  
 ३४.  
 पात्र-कर्मन्- -मं वैध ३,  
 १२, १२.  
 क्षत्र-हानि- -तिः अय ७०<sup>३</sup>,  
 ११, २८.  
 क्षत्र-धर्म- -र्मः वीध २, २, ७०;  
 -र्मन् वीध २, १, १६; -र्मण  
 वीध २, २, ६९  
 क्षत्रधर्मा(र्म-त्र)नुगत- -ती  
 वीध १, ११, १२  
 क्षत्र-एति- -तिः काथी १५, ९,  
 १९; वैताथी ३६, १२.  
 पुक्षत्र-पति- -तिः काथी ६, १३, १;  
 १५, ५, १३; आप्तो १८, १६,  
 ८; वीथी १२, ११ : ६; हिथी  
 १३, ५, ३४.  
 क्षत्र-प्राय- -ये निम् ९, १० : ३९.  
 क्षत्र-बन्धु- -न्धून् वृद्धे ५, १२६;  
 -न्धोः विध २७, २६.  
 पुक्षत्र-भृत्<sup>३</sup> -भृत् आथी ४, १,  
 २३४; १२, २; आभिर २, ३,  
 ५ : २१; -भृत्तः आप्तो १६,  
 ३३, १; वैथी १८, १६ : ६१;  
 हिथी ११, ८, ११; अत्राय ३,  
 २; -०भृत्तः वीथी १३, ३८ :  
 ९; -भृत्तै शोधो ९, २२, २;  
 वीथी २३, ९ : ११; वाधुथी  
 ४, १०८ : ८.

पुक्षत्रमूल-तम- -मः आप्तो  
 २२, १२, २०; वीथी १८, ७ :  
 ७; हिथी १७, ५, २३.  
 क्षत्र-मार्ग- -मार्ग निम् ७, ५ : ३४.  
 क्षत्र-कर- -करवै शोधो ९, २२, २;  
 वीथी २३, ९ : १०; वाधुथी ४,  
 १०८ : ८; -वान् आथी ४,  
 १, २२.  
 क्षत्र-वध- -वधः अय ५०, ७, २.  
 पुक्षत्र-वधि<sup>३</sup> -निम् आप्तो ७,  
 १०, १२; वीथी ४, ४ : ३३; ६,  
 २७ : ८; आथी ७, ८, १४;  
 माथी १, ८, २, २०; २, २, ३,  
 १७; वैथी ६ : ११.  
 क्षत्र-विद्-सूद्र- -द्रेषु विध २२,  
 २२.  
 क्षत्र-विद्-सूद्र-गो-वध- -वधः विध  
 ३७, १३.  
 क्षत्र-विवा- (>क्षत्रविध- वा.)  
 पाग ४, ३, ७३.  
 क्षत्र-वृत्ति- -तिः गौध ७, ६०;  
 -तिम् वैथी १७, १८ : ८; १०;  
 लाथी ८, १३, १०.  
 क्षत्र-वृद्धि- -द्धिम् आप्त १, ३, ९;  
 हिथ १, १, ८१.  
 क्षत्र-संयमा(म-य)वं- -यं निम्  
 ७६ : २१<sup>९</sup>.  
 पत्र-सामन्- -म निम् ५, १ :  
 १९; ८, ७ : ३८.  
 क्षत्रस्थ-एति<sup>३</sup> -तिः आप्तो ९, ३,  
 २७. वीथी २६, ३ : ११; १७;  
 निम् ७, ६ : २०; -तिना शोधो  
 १५, १६, ८; ११; वीथी २६,  
 २ : २३; लाथी ९, ३, ११;  
 -निम् वाथी ३, ३, ५०; -ती  
 आप्तो १८, ८, ४.

क्षत्राणां-एति<sup>३</sup> -तिः आप्तो १८,  
 २२, १८; हिथी १३, ७, ३४.  
 क्षत्रा(न-या)यवन- >पु(य>  
 या<sup>३</sup> -या लाथी ६, ६, ८, १८;  
 निम् १, १० : २५; -याम् लाथी  
 ६, ८, ३.  
 क्षत्रिन्<sup>३</sup> >पुत्रिणो- -थो आथो  
 १२, १.  
 क्षत्रिय, या<sup>३</sup> -पाग २, १, ५९; -यः  
 शोधो १४, २९, २××; काथी; -यम्  
 शोधो १६, १०, ९; काथी; कौत्  
 १७, २८<sup>३</sup>; पु<sup>३</sup>; अय १८<sup>३</sup>, १, ४<sup>३</sup>;  
 -यस्य आथो ४, १, २३; शोधो;  
 -या शोध ६५<sup>३</sup>; गौध ४, १९;  
 -याः शोधो १४, २३, १२; वाथो  
 ३, २, ५, ४६; अय ३५, १, ८;  
 -याणाम् आप्तो २४, १०, ११;  
 वीथीप्रः -यात् शोधो १५, २०,  
 १; वीध; पा ४, १, १६८; पावा  
 ४, १, १६६; -पान् शोधो २,  
 २४, ३; वीथी १३, २१ : १२;  
 माथी ५, १, ८, १६; हिथी २२,  
 ३, २७; अय ५४, १, ३; ५८<sup>३</sup>,  
 ४, १५; -याम् वैध ६, १२ : २;  
 -याय शोधो १५, १६, ७;  
 पु<sup>३</sup>वीथी; -यायाम् वीध १, ९,  
 ६; ७; शोध, -ये शोधो १६, १७,  
 २; गौध १२, ८; पागवा ४, १,  
 ८०; १५१; १७२; -वेण माथो  
 १०, ७, १६; शोध ७५; -येषु  
 शोधो १४, २३, १२; -वी नाथि  
 १, ४, २.  
 क्षत्रिवा, याणी- पावा ४, १,  
 ४९.  
 क्षत्रिय-कन्या- -न्यया निध २४,  
 ६; -न्यायाम् वैध ३, १२, ४.

a) विध. १ वस. १ b) वैध १ द. १ c) पत्रियवृत् इति कथित्तः पाभे. १ d) = एकाद-निधेय-१  
 e) = विपुत्ति-विधेय-१ f) = क्षत्रिय-१ g) पाभे. वैध १, ११८० ई. द. १

क्षत्रिय-ग्रहणा (य-आ) गंधकय-  
वयम् पावा ४, १, १६६.

क्षत्रिय-नाशन- नम् अप ७१,  
१६, २.

क्षत्रिय-प्रभृति- सौनाम् आपय  
१, १८, १; द्विध १, ५, ७८.

क्षत्रिय-वत् आपय २, १०, ७;  
द्विध २, ४, ७; पाग १, १, ३७.

क्षत्रिय-वध- धे वीध १, १०,  
२१; विध ५०, १२; -धेन वीध  
१, १०, २७.

क्षत्रिय-वज्रम् विध १८, ९.

क्षत्रिय-वैदय- द्ययोः काथी  
३, २, ११, ६, १०; वैध १, १, ६;

गौध १, १३; -इयानाम् वीध्रीप्र  
५४ : ३; -इथी वैथी १२, १० :

११; वैपु ६, १२ : ११; विध  
१८, १९; गौध १२, ११.

क्षत्रियवैदय-वध- धे सुधप  
८५ : १.

क्षत्रियवैदय-गो-प्र- ता-  
ता सुधप ८६ : १.

क्षत्रियवैदया (स्य-अ) तुलोमा-  
(म-अ) नन्तरो (र-उ) मय्य-

ज- -जः शोध ७६.<sup>६</sup>

क्षत्रियवैदयो (दय-उ) मय्य- -धा'  
आथी २, १, १३.

क्षत्रिय-शुद्ध- -त्री विध १८, २२.

क्षत्रिय-श्रीकाम- मयोः काथी  
४, ७, ६.

क्षत्रिय-समान-शब्द- -व्दाव्  
पावा ४, १, १६६.

क्षत्रिया (स-आ) द्वि- -ईनाम्  
वीध १, १०, १९.

क्षत्रिया-पुत्र- -त्रः विध १८, ३;  
-त्री विध १६, ५.

क्षत्रिया (य-आ) र्वं पा२, ४, ५८.

क्षत्रिया-वैरया-शुद्धा-पुत्र- -त्रेपु  
विध १८, ११.

क्षत्रिया (स-आ) शौच- -चे विध  
२२, ११; १४.

क्षत्रियो (य-उ) च्छादक- पाग  
२, २, ९, ६; २, १५१.

क्षत्रियो (य-उ) च्छिष्टा (ध-अ)  
शन- -ने शंध ३९६.

रक्षत्र- (> क्षात्रायण- पा. ) पाग  
४, १, ११०.<sup>६</sup>

✓क्षद् (> क्ष(त) >) ता- -त्तायाम्  
वीध १, ९, ११.

क्षत्-संमद्रीव- -तारः वीध्री  
१५, ३ : ३; ५ : २६; १८, १८ :

७; २५, ३४ : १०; -तारो  
वीध्री १२, १५ : १८; २२; १८ :

६; -तृणाम् वीध्री १५, १ : १९;  
५ : १२, २५ : ३; ९, २९ : २८,

३० : १९; -तृणाम् वाधूथी ३,  
७९ : ६; १० : ८; -तृन् वाधूथी  
३, ९२ : ५

क्षत्- पाठ २, १४; पा ६, ४, ११;  
पावा ३, २, १३५; -०त्तः

वाधूथी ३, ७० : १; ९९ : ७;  
-त्ता शोध्री १६, ९, १६१.<sup>६</sup>

आपथी ५, २३, १५, वीध्री १२,  
१५ : ७; २३; वीध १, ९, ६;

-तारम् आपथी १८, १९, ६;  
वीथी १२, १५ : ६; द्विथी १३,

६, ३१; अम ९, ६ (५)†; -तुः  
काथी १५, ३, ९; वीथी १२, ५ :

२७; -तृन्म्यः वीथी १०, ४८ :

६; वैथी १९, ६ : ३७.

रक्षत्र- > क्षात्र-संमद्रीव-  
-तृणाम् काथी २०, १, १६.

क्षत्-वैदेहक- -कयोः वीध १,  
९, १०.

क्षत्-संमद्रीव- -तृभिः आपथी  
२०, ४, ४; द्विथी १४, १, ३८;

-तृणाम् शोध्री १६, १, १६१.<sup>६</sup>;  
वाथी ३, ४, १, ७.

पक्षमन्- -अ अत्र ४८, ७५; निध  
१, १२; २, ७.

चक्षदान- -नम् या ५, २१†.

✓क्षप् पाधा. जुग. पर. क्षान्त्याम्-  
उभ. प्रेरणे, क्षपेत् वीध १४१, ५

पक्षप्- क्षपः अत्र ४८, ७५<sup>७</sup>;  
निध १, १२<sup>७</sup>; क्षपा १८, ५३

क्षपा माघ २, ९८१.

क्षप- पा ३, १, १३४.<sup>६</sup>

क्षपण- -गात्र कीट ३, ७, १३;  
शाट ४, ५, १७; पाण २, १२, ४;

गौध १८, १५.

क्षपणी- -म्यः वीध्री १९, १० :  
५१.

क्षपण-क- -कः शंध ३७७ :  
७.

पक्षपा- पाग ३, ३, १०४<sup>६</sup>, -पा  
अत्र ४८, ७४; निध १, ७; -पाः

a) इस. > उम. । b) विप. । घ. > यम. > सस. > उम. । c) 'मान्तरो' इति पाठः? यनि. शोधः  
(तु. भाष्ये [वाज १, १५]) । d) तु. पागम. । e) व्यप. । व्यु. ! । f) तु. पाका., ३क्षान्त- इति भाषणः ।  
g) वै १ द. । h) = क्षत्- ( तु काथी २०, १, १६ ) । i) पाभि. वै २, ३६. क्षत्ता माघ १३, ५, ४,  
६ डि. द. । j) समुद्रार्थे शब्दार्थे वा अण् प्र. ( तु. क्षत्-संपृदीव- ) । k) क्षत्रयं इति पाठः? यनि. शोधः ।  
l) ✓क्षम् इति पाठः ३, १, १३४ । m) = उदर- । n) क्षम- इति पाठः । o) घा. उपरमे घृतिः ।  
p) = शक्य-विशेष- । q) = मित्रु- ।



वीथ ४, २, ७; -पाणाम् वीथी  
१२, ३ : ९; २०.

क्षपा-शय- -यः काय ५, ७.

क्षपा-हास- -सः वैज्यो ८.

क्षये(पा-इ)टका<sup>०</sup> - -काः वीथी  
१२, ३ : ७; १८.

✓क्षम्<sup>०</sup> पाधा. म्ना. आत्म., दिवा. पर.

खद्मे, क्षमिति पा ७, २, ३४;

क्षमन्त्वाम् जैथीका २१५;

क्षमस्व वृदे ५, ७८; क्षम वैताथी

३७, ३; अमेत विध ३, ६३.

क्षम्येत भाण्ड ३, ८ : १०.

क्षन्तुम् अप ४०, ६, १२.

क्षम्<sup>०</sup> - क्षमि वीथी १८, ४१; ३१.

क्षम- पावा ३, २, १.

क्षम- पा ३, १, १३४; -मम् अप  
७०, २, २.

क्षमा<sup>०</sup> - पाग १, १, ३७; -मा

विध २, १६; -सायाम् पावा १,

३, २१; ३, १, ५.

क्षमा(मा-अ)न्वित- -तः विध

३, ९६; -ते विध २२, २०.

क्षमा-पर- -रम् सु १६, ३.

क्षमा-वेद- -न्विति अप ५८<sup>०</sup>, १,  
३; -यान् शंघ २४४.

रक्षमा<sup>०</sup> - म्ना अप ४८, ७२; निघ  
१, १.

क्षमा-शय- -यः वाय ९, ६.

क्षम्<sup>०</sup> - आणित्य १, २, १ : ७; २ :

४२; हिय २, १८, ७; २०, ९.

१क्षान्त, न्ता- पाग ४, २, १०<sup>०</sup>; ६,

३, ३, ४; -न्ताः अप ३८, १, ३;

वैध ३, ५, ७; -तम् वाच ६, ३०.

क्षान्तीय- वा ४, २, १०.

क्षान्ति- -न्तिः गौध ८, २१, -न्तिम्

शंघ ११६ : ३०; -न्त्या विध

२२, ९०.

क्षान्त्या(न्ति-आ)हुति- -तिः

वाच ३०, ८.

क्षान्तु- पाठ ५, ४३.

क्षाम्<sup>०</sup> - म्मत् माधि २१; -मा

आपन २, ११, २४; ऋवा ७, ३३;

शुभा ३, १२९<sup>०</sup>; तैमा ३, १०.

१क्षय- ✓क्षि द्र.

२क्षय- ✓क्षि(निवासगत्यो) द्र.

३क्षय- ✓क्षि(ऐधये) द्र.

क्षयण- क्षि(निवासगत्यो) द्र.

क्षयस्- प्रस्. ✓क्षि(ऐधये) द्र.

क्षयि- पाठभो २, १, २२३.

१क्षयिन्- ✓क्षि द्र.

२क्षयिन्- ✓क्षि(निवासग<sup>०</sup>) द्र.

क्षय्य- ✓क्षि(ज्ञेये) द्र.

✓क्षर<sup>०</sup> पाधा. म्ना. पर. संचलने, क्षरति

वीथी १७, ३६; १०; वृदे २, ५८;

या ५, ३; ११, ४१<sup>०</sup>; १३, १२;

क्षरिति पा ७, २, ३४; क्षरन्ति

वीथी १८, ९ : ३६; आणित्य

३, ३, २ : १; कौत् २१, १; २८,

२; विध ५५, १८६; क्षरन्तु<sup>०</sup>

आपन २, २०, २८; आणित्य ३,

१, २ : ६; २, ५ : १०; ७ : ५;

भाण्ड २, १५ : १३; १६ : १४,

१७ : ९; हिय २, ११, १; १५, ७;

क्षर > रा ऋवा ७, ३३<sup>०</sup>;

अक्षरम् आपथी १२, १९, ५.

अक्षरः साधु ७, ९, ८; १०; निस्.

१, १ : १६; निघण्ट, २१, वा ५, ३<sup>०</sup>;

क्षरन्त्या १, ७९; ४, ४०; क्षरः

गोय १, ३, १९; द्राण्ड १, ५, २०.

क्षरयति वैताथी १२, ६.

क्षर, रा<sup>०</sup> पा ३, १, १४०; -रम्

पायवा ८, १; विध १७, १२;

-राः अप ४८, ७५.

क्षर-क्षाम-मदीहद- -हाः अप

७२, १९, ३.

क्षर, रोज- , पा ६, ३, १६.

क्षर(>)न्ती- -न्तीः गाथी ५,

२, ४, ३१.

क्षरति-> ति-निगम- -मः वा

५, ३.

क्षर, रा<sup>०</sup> पा ३, १, १४०; पाग ४, २,

९०<sup>०</sup>; -रम् हिय १, ८, १०;

-राभिः वीथ १, ५, १४; -रेण

शंघ ११६.

क्षर-नदी- -घः शंघ ३७४.

क्षर-मात्र- -त्रम् वीथी २६,

३३ : १५.

क्षर-लवण- -णम् हिध २, ५,

१४५; -णे माण्ड १, १, १२; २,

२१; द्राण्ड १, ४, ९.

क्षारलवण-वर्जन- -नम्

आण्ड ८, ८; ११, २१; भाण्ड

३, १२ : ५; आपथ २, १, २<sup>०</sup>.

क्षारलवण-वर्जम् वीथ २,

५, ५५

क्षारलवण-वर्जित-भोजन-

-नम् आण्ड ३, ६, २ : ५.

क्षारलवण-वर्जित्- -र्जी

काय १, ८.

a) = ह्यका-विशेष-। मञ्जो. कस.। b) ✓क्षप् ति. द्र.। वा ७, ३, ७४ परामृष्टः द्र.। c) वैप १ द्र.।

d) = क्षान्ति-। e) पा ७, १, ३८। विधम्य इति उ०। १८। ५२, ८७। शोऽनुकः ?। f) क्षान्त- इति पाका.।

g) या २, ५ परामृष्टः द्र.। h) पाभे. वैप १ लवन्तु मा ३५, २० टि. द्र.। i) विप., नाव. (उदक-)

j) विप., नाव. (रस-विशेष-).। k) क्षोच- इत्यन्ये इति पागम.। l) सवा. 'वर्जनम्' <> 'आमयुनीसव'

इति पाभे.।

क्षारलवण-होम-अः आपय  
२, १५, १४; द्विप २, ३, ४८.  
क्षार-लवण-द्रुग्य-अधम् द्राय  
२, ४, ३३.  
क्षार-लवण-मधु-मांस-साभि  
वीधि ३, १२, १; आपय १, २, २३;  
४, ६; द्विप १, १, ५६; १२५.  
क्षारलवणमधुमांस-वर्जन-  
नम् द्विप ८: ११; द्विप २,  
१, ४४.  
क्षार-लवणा(ए-अ)प्रसन्न-  
संयुक्त-एतस्य आपय ८, ३;  
वीध २, ८, ४.  
क्षार(र-भ)वा-वाः कप्र ३,  
८, ६.  
क्षारीय-पा ४, २, ९०.  
रक्षर<sup>०</sup> (> क्षर्यं-पा.) पाग ५, १, २.  
√क्षर<sup>०</sup> पाया. वृत्ता. पर. शौचकर्मणि,  
क्षारलयः वीथी १६, २६: ६;  
क्षारयेत् वीथ ३, ४, १.  
क्षारन-नम् कण्डूय ४६: १४,  
कप्र ३, १०, १; द्विप २, ५, ११;  
-नाम् वीथ ३, १, ११.  
क्षारित-> एत-वाद्-दाय  
आमिष्ट २, ३, ३: ५.  
क्षय-√छ द.  
क्षयक-पात्रमो २, २, ५.  
क्षययु-√छ द.  
क्षि<sup>०</sup>-क्षा अग ४८, ७२; निघ १, १;  
या २, ६६; क्षाः काथी ३, ८,  
१; आपथी २४, १३, ३; क्षाम्  
माथी ८, ११, १३; या २, ६६.

क्षिप्र-१क्षत्र-द.  
रक्षत्र-√क्ष द.  
क्षाम्राण<sup>०</sup>-णाय कौत् ५६, १३.  
क्षाम्रायण-२क्षत्र-द.  
क्षान्त-√क्षम् द.  
रक्षान्त<sup>०</sup>-न्तम् या २, १०.  
रक्षान्त-(> क्खान्तायन-पा.)  
२क्षत्र-दि. द.  
क्षान्ति-क्षान्तु-√क्षम् द.  
क्षान्ति-प्रः आमिष्ट २, ४, ५;  
८<sup>१०</sup>; -अम् वीथ ४, ७, ५.  
क्षाम-√क्षे द.  
क्षामन्-√क्षम् द.  
क्षामा<sup>०</sup>-(> क्षामा-प्रत्य-पा.) पाग  
६, २, ८८.  
क्षाम्रायण<sup>१</sup>-णाः वीथीप्र १७: १.  
१-२क्षार-प्रथ. √क्षर द.  
क्षाम्र-पात्रमो २, २, ७.  
क्षारहृत्तरायम् वीथी २१, ३: १०.  
क्षारीय-√क्षर द.  
√क्षि<sup>०</sup> पाया. भ्ता. पर. क्षये; स्वा. पर.  
दिगायाम्, क्षयति अग ४८,  
११११; अयन्ते अग ६८, १,  
१९.  
क्षिगोति निघ २, १४१<sup>१</sup>.  
क्षिगति या ६, ६१.  
क्षिपेत् ज्य २, १: २८; २:  
१२<sup>१</sup>, क्षिप्याः काथी १, ११,  
६; १३, ४, काथी ४, ५, ४; ११,  
३; काथी ३, ४, २०; वीथी २,  
१०: २१; २५, २८; ३, २०:  
१२; माथी १, ४, २, १२; वाथी

१, १, ३, १६; वीताथी ३, २०<sup>१</sup>;  
आपथं.  
क्षीयन्ते वीथी १४, ४: १०;  
वाधुथी; या १३, १२; क्षीयन्ते  
वाधुथी ४, ५२: ७; ९; आमिष्ट  
२, ६, ५: २४; वीथ २, ९, २३<sup>१</sup>;  
आपथ २, ४, १४; द्विप २, १,  
६७.  
क्षीयति आपथी ४, १०, ९<sup>१</sup>;  
वीथी ३, १०: ३०<sup>१</sup>; माथी ४,  
१६, १<sup>१</sup>; द्विथी ६, ३, ३<sup>१</sup>; आपथं  
२, १०, १५; वीथ १, ३, ५४;  
भाय २, २५: १६; ३, १२:  
११; द्विप १, १३, १५; आपय  
२, ३, ११.  
क्षय<sup>०</sup>-अः कप्र ६४, ८, ५४×;  
शंथ-अम् निम् ७, १२: ७;  
कप्र: या १३, १२; -अस्य अग  
७२, २, ५; -अे अग ४८, ४२<sup>१</sup>;  
७२, ३, ५; आउथो ७, ७.  
क्षय-अ-रः अग २७, ३, ३.  
क्षय-नाया(श-अ)ग्विदाह-  
द्वेषु वप्र ३, १, १.  
क्षया(य-अ)न्त<sup>०</sup>-न्ताः कप्र ३,  
३, ८<sup>१०</sup>.  
क्षया(य-अ)मय-> अविद्-  
न्थी शंथ ३७६.  
क्षया(य-अ)र्थ-अर्था वा ७,  
२३.  
क्षयिन्-या ३, २, १५७; -थी शंथ  
३७७: ७; १८; कथ २७८: ७<sup>१</sup>.  
क्षय-पा ६, १, ८१.

a) पाथे. वृ १४१ न द. 1      b) कर्ष्यः व्यु. च 1      c) √क्षर परि. दि. द. 1  
d) वीप १ द. 1      e) = रक्षो-विशेष-इति उपप. 1 व्यु. १!      f) वीप १, २१० b द. 1      g) = अन्वयण-  
विशेष-1 कप्र. वृत्. < प्राम् त्रिमा २, ८, २, ४!      h) क्षमाय इति पाठः 1 यनि. शोधः (द्र. सप्र. वीथ.) 1  
i) = अवि-विशेष-1 व्यु. १!      j) पा ६, ४, ५९; १०; ८, २, ४६ पराम्प्यः द. 1      k) लघुकोटीयः पाठः 1  
l) पाथे. वीप १, ११० ० द. 1      m) माय., नाप. 1      n) विर. 1 ष. 1      o) अन्व- इति पाठः 1 यनि.  
शोधः 1      p) कर्ष्यः 1 इति संस्कृता 1

क्षित- पा ६, ४, ६१; -तः वैश्री  
२१, १४ : ८.

क्षिति- पावा ८, २, ४२.

क्षिया- पाग ३, ३, १०४; -यायाम्  
पा ८, १, ६०.

क्षिवा(वा-आ)शी-श्रैप- -पेवु  
पा ८, २, १०४.

क्षीण- पा ६, ४, ६१; -णः सु १०,  
४; गौष १०, ६०; कप्र २, ६, ५;  
-णम् अप ७०, ११, ४, ५; -णे  
अप ७०, १, ८; विध २०, ४३;  
कप्र २, ६, १; ३; ८; आउयो  
१३, ४.

क्षीण-कोव<sup>०</sup> -यः वाप ६९, ७.

क्षीण-सु(व्य >)ण्या<sup>०</sup> -म्या  
वाप २१, ११; आपध २, १७, ८;

द्विध २, ५, ३७.

क्षीण-मनुष्य-कोदा<sup>०</sup> -शाः अग  
७०, ११, १५.

क्षीण-मेघा-जननी- नी याति  
१, ३८.

क्षीण-स्ववे(र-ई)ङ<sup>०</sup> -ञम् निवृ  
७, १२ : ७.

क्षीणा(श-आ)युम्<sup>०</sup> -युः वाप  
१३, ३८; -युपः वीथी १८,  
४४ : ११.

क्षीयमाण,णा- णा कप्र २, ६, २;

-णेषु आसिण्ट २, ७, ११ : १८.

√क्षि<sup>०</sup> वाधा. तुदा. पर. निवासगर्वाः,  
क्षयति वीथी २, ८ : २६१;  
आसिण्ट २, ७, ४ : ११; वीथि  
२, १, ११.

क्षेति वृदे ५, ७५१; पृक्षेय  
शाथी १४, ५३, ७; वृदे ५,  
१०५.

क्षियति वृदे २, ५८; निघ २,

१४१; या ५, ३; १०, २७;  
पृक्षियन्ति आपथी ११, ९, १;  
वीथी २०, १६ : ११.

रक्षय,चा<sup>०</sup> - पाग २, ४, ३११; -यः  
या ८, १८; पा ६, १, २०१;

-ण्यम् आथी ४, ४, ४; ७, ४;  
८, १, २; आपथी १४, १०, १;

१७, १, ५; वीथी १०, ४५ : ८;

१४, २० : ७; माथी ५, ३,

१६, १४; दः ३, ३, ३; वाथी;

-या अप ४८, ८११; -०ण्यः  
आपथी १२, ३, २; वैथी १५,

३; ८; द्विथी ८, १, ४१; -ण्यय  
आथी ५, १९, ३; शाथी ८, ४,

३; आपथी १४, १०, १; १७,

३, ५; वीथी ४, १ : ११ x x;

-ण्ये आथी २, ११, १४; १७,

१५; ५, ५, १८; शाथी २, ११,

६; आपथी २, १९, १३; १३,

१८, ९; वीथी ३, ८ : २२ x x;

वैथी.

चयण<sup>०</sup> -गत्य या ६, ६.

रक्षयिन्- पा ३, २, १५७.

क्षिति<sup>०</sup> - ण्तयः अप ४८, ७८; निघ  
२, ३; या ४, २४; -तिः द्विथी

१०, २, १४१; वाप २८, १७;

अप ४८, ७२१; निघ २, ११;

-निम्बः वृदे २, ४१; -तिम्  
अप ६८, २, १; ४; विध १, ३५;

वृदे २, ५०; ६३; -तेः अप ६४,

६, ४; ९, ५; -नी सु ९, १; अप

५८, १, ५; ४, १६; दृष्ट, १, २;

वृदे २, ४१; -स्या वैताथी १२,

१; -न्ये वाधुथी ४, ३७ : २.

पृक्षेय<sup>०</sup> -> क्षेत्-व्य<sup>०</sup> -व्य  
आथी ४, १३, ७; १०, २, ५;

वाथी ६, ४, ३; १०, ३, ३; ११,  
१३, १८; १५, ३.

क्षिति-मो-घन-धान्य-रत्ना (ल-  
आ) द्विक-कम् अप ३, १, १७.

क्षिति-प्राण- -णम् निघ २, १२.

क्षिति-पति- -तयः अप ५१,  
४, १; -तेः अप ७०, ५, १.

क्षिति-पाल-लक्ष्मी- -क्ष्मीः अप  
२४, ६, ४.

पृक्षिति-मृज्- -मृजे अप १, ३९,  
२; अशा ९, २.

क्षिति-(रय >)स्या- -स्याः  
वाप ३, ४७.

क्षित्य (ति-अ)न्तरिक्ष-सु-स्या  
(न >)वा- -नाः कप्र १, २, ८.

पृक्षियत्- -यतः या ९, १००;  
-यन्तः शाथी १८, १५, ५; गीपि  
२, ४, ७; -यन्तम् आथी ३, ८,  
१; या १०, १२.

क्षियति-> ण्ति-विगम- -तः, माः  
या ५, ३.

क्षेत्र<sup>०</sup> - पावलो २, ३, ८५; वाप ४,  
२, ३८; -०प्र विध १, ५९; -त्रम्  
आपथी १८, १९, ७; वीथी; अप  
४८, १०१; या १०, १४०; १४,  
३; -त्रम् आथी ९, ११, १४१;  
शाथी; विध ५, ४१; या १०,  
१४; १५; वाथी ३, २, ५, २१;  
आपथी २, १८, ४८; या १०, १६;  
-ण्प्रणि काथी १०, ५, ३;  
आपथी १६, २, १०; द्विथी ११,  
१, २२; १५, ७, ८; -प्राण लाथी  
२, ११, ११; आथ १, ५, ५; आपथ  
३, १५; वीथ ६३, ५१; -त्रे  
आपथी १६, १, ३१; वीथी; वैथी

a) विप.। वस.। b) विप.। वस. > वस.। c) विप.। कर. > वस.। d) या २, ६; १०, १४ परामृष्टः द.। e) वैप १  
द.। f) वृ. पादम.। g) = वृद.। h) वैप १, ११९१ h द.। i) = घन-। j) वीथार्थं वृ २२५ ० द.।

२०, २९ : ८<sup>१</sup>१; पा ४, १, २३;  
 ५, २, १; पावा ५, २, २९; -त्रेण  
 आपध १, ९, ७; द्विष १, ३, ७;  
 -त्रेषु बौध ३, २, ९; ११; १२.  
 †क्षेत्री<sup>०</sup> - त्रियै<sup>०</sup> आपमं  
 २, १२, ६; आसिण्ड २, १, ४ : ५;  
 बौध २, १, ३; ५, ३०; वैध ३,  
 १५ : १२; द्विण्ड २, ३, १०.  
 क्षेत्र- पा ४, २, ३८.  
 क्षेत्र-कर- पा ३, २, २१.  
 क्षेत्र-हरण- -णम् बौध्री १९,  
 ५ : ३१; ६-९ : १.  
 क्षेत्र-कर्मविशेष- -ये आपध २,  
 २, ४; द्विष २, १, २६.  
 क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विज्ञान- -णम् विध  
 ९६, १८.  
 क्षेत्र-ज<sup>०</sup> - -जः वाप १७, १४;  
 शंघ २९१; बौध २, २, १७, विध  
 १५, ३; -जम् बौध २, २, ३१.  
 क्षेत्रज्ञ-पुत्रिका-पुत्र- -प्रयोः  
 शंघ २६९, २९१.  
 क्षेत्र-ज्ञ- पाग ५, १, १२४;  
 १३०; -०ज्ञ विध १, ५२; -ज्ञ<sup>०</sup>  
 वैध १, १०, ५, वृदे ४, ४००<sup>०</sup>;  
 या १४, १०; -ज्ञम् विध ९६,  
 ९७; ९८; वैध १, ११, १३; या  
 १४, १, १०, -ज्ञस्य चाप १६:  
 २५.  
 क्षेत्रज्ञ- पा ५, १, १३०.  
 क्षेत्रज्ञ- पा ५, १, १२४.  
 क्षेत्रज्ञ-दार- -रेण वैध १,  
 ११, १.  
 †क्षेत्रज्ञ-परमात्मन्- -रामनोः  
 वैध १, ९, १५; ११, १, ४.  
 क्षेत्रज्ञ-पृथक्त्व- -क्त्वाय

या १४, ३.  
 क्षेत्रज्ञ-योगा(ग-ञ)न्त-  
 -न्तम् वैध १, ११, ४.  
 क्षेत्रज्ञान- -णम् वाशु २,  
 ११; वृदे ४, ३६.  
 क्षेत्र-दार-हर- -रः वाप ३,  
 १६.  
 क्षेत्र-द्रव्या(व्य-ञ)वहरण-  
 -णम् शंघ २५५.  
 क्षेत्र-पति- पाग ४, १, ८४;  
 -तये कौसू ५१, २१; -तिः वृदे  
 १, १२३.  
 क्षेत्रपति- पा ४, १, ८४.  
 क्षेत्रपती<sup>०</sup> - -त्या आपध्री  
 ११, १०, १८.  
 क्षेत्रपत्य,त्या<sup>०</sup> - -त्यम् बौध्री  
 १२, १९ : २०; १३, २ : ११;  
 द्विध्री २२, २, ८; आपठ १९, १३;  
 २०, १८; भाण्ड २, १० : १७;  
 द्विण्ड २, ९, ८; अप ७०<sup>०</sup>, ६, ४;  
 -त्यस्य द्विध्री २२, २, ८, भाण्ड  
 २, १० : १३; द्विण्ड २, १, १२;  
 -त्याः शश २, ४, ५७; वृदे  
 ५, ७.  
 क्षेत्र-बीज-भक्त-भो-कष्ट-वर्ष-  
 द्रव्य- -व्याणि शंघ २६२.  
 क्षेत्र-मध्य- -म्ये आसिण्ड २, ६,  
 ८ ६.  
 क्षेत्र-मर्यादा- -दायाम् आपध्री  
 ९, १२, ६; वैध्री २०, २५ : ८;  
 कौसू ३, ११, २; वाण्ड ४, १३, २.  
 क्षेत्रमर्यादा-भेद- -रे शंघ  
 ३११.  
 क्षेत्र-विहृ(ण्)>ण्णी<sup>०</sup> - -ण्णीम्  
 आसिण्ड ३, ८, १ : ७; ११; ३ :

३१; वीण्ड १, १४ : ७; १५ :  
 ३६; १६ : १७; -ण्णयाम्  
 आसिण्ड ३, ८, २ : २८.  
 क्षेत्र-साधस<sup>०</sup> - -धाः या २, २१<sup>०</sup>.  
 क्षेत्र-सारथि- -थिभिः कौसू  
 १०६, ७<sup>०</sup>.  
 क्षेत्रा(त्र-ञा)पण-गृहा(ह-ञा)  
 सक्त- -क्तम् विध २०, ४२.  
 क्षेत्र(त्र>)त्रा-सा<sup>०</sup> - -साम् कप्र  
 ९, २४.  
 क्षेत्रिक<sup>०</sup> - -कस्य शंघ २८७<sup>०</sup>.  
 क्षेत्रिन्- -त्रिणः वाप १७, ६;  
 -त्रिणाम् शंघ २८८.  
 क्षेत्रिय,धा<sup>०</sup> - पा, पावा ५, २,  
 १२; -यः पावा ५, २, १२; -यम्  
 आपध्री १३, ७, १६; १८, ८,  
 १२<sup>०</sup>; †वाध्री ३, ३, १, ११;  
 १२; द्विध्री १०, ५, १; १३, ३,  
 २४<sup>०</sup>; †वाय<sup>०</sup> आपध २, १२,  
 १०; आसिण्ड २, १, ४ : १०;  
 द्विण्ड २, ३, १०; कौसू २७, ७;  
 अप ३२, १, ७; कप्र २, १०;  
 अप २ : २०.  
 †क्षेत्रिय-नाश(न>)नी<sup>०</sup> -  
 -नी कप्र १ : ११.  
 क्षेत्रो(त्र-उ)क्का(क-ञा)हरण-  
 -णे शंघ ३११.  
 †क्षेत्री(प्र-ञो)पधि-वनरपति-  
 -तयः अप ४३, २, ३०.  
 क्षेत्री(प्र-ञो)पधि-वनरपति-  
 गणधवा(ध-ञ)प्सरस- -सः  
 वायु ३, ४, १; कौसू २, ५, १;  
 वाण्ड ४, ९, १.  
 क्षेत्र<sup>०</sup> - पाठ १, १४०; पाग २, ४,  
 ३१; -मः आपध्री ११, ४,

a) पाठः † क्षत्रे इति श्लेषे. (सु. म. तैत्ति ३.७.१०.३)। b) वैप २, १११. द.। c) पाठे. वैप १, १११ k. द.। d) = पुत्र-भेद-। e) = क्षेत्रपतिशब्दक्री-१ आन्-। f) वैप १, ११९२। द.। g) = कष्टोत्प-। h) वैप १. द.। i) मत्स्यीय<sup>०</sup> इन् प्र.।

१०१; माधी; -१मम् शाधी  
 १२, १७, ११; अय; -मस्य  
 पाण ३, ४, ४; -१माय काधी  
 ४, १२, २२; आपधी; -१ये  
 आपधी २१, २०, ३; वीधी.  
 क्षेम-कार- पा ३, २, ४४.  
 क्षेम-कुव- -कुव आपध २, २५,  
 १५; द्विध २, ५, ११५.  
 क्षेम-धुनिन्- पाण ४, १,  
 १६०.  
 क्षेमप्रति- पा ४, १, १६;  
 (> क्षेमप्रतीय- पा.) पाण ४,  
 २, १२०.  
 क्षेम-प्रायण- -जम् आपध २,  
 २१, १४; १६; वीध २, २, ७६;  
 द्विध २, ५, १२३; १२५.  
 क्षेम-म्-कर- पा ३, २, ४४.  
 क्षेम-वृत्तिन्-> क्षेमवृत्ति<sup>०</sup>-  
 (> क्षेमवृत्तीय- पा.) पाण ४,  
 ३, १३१.  
 क्षेम-वृत्तिन्- पाण ४, १, १६;  
 २, १३८.  
 क्षेमवृत्तीय- पा ४, २,  
 १३८.  
 क्षेमवृद्धि- पा ४, १, १६;  
 (> क्षेमवृद्धीय- पा.) पाण ४,  
 ३, १३८; ३, १३१.  
 क्षेमा(म श्वा)चार- -रे आधी  
 ४, १०, ५.  
 क्षेमा(म-अ)व्ययस्यन्- -स्यतः  
 वीधी १६, २३ : ८.  
 क्षेय<sup>०</sup>- पावा ५ ४, ३६;

-१म्यः आधी ३, १२, ७;  
 आपधी ९, ७, ६; माधी ९, ९,  
 १७; माधी ३, ३, ६; वैधी  
 २०, १३ : ५; द्विधी १५, २,  
 २३; सुपाण ३, ६-७, ४; अत्राय  
 ४, ४; -म्यम् आज्यो ९, ७;  
 -म्ये आज्यो १०, ६; ११, १.  
 √क्षि ( ऐक्ष्ये ), १क्षयति अय ४८,  
 २१; निघ २, २१; १क्षयसि  
 आपधी ५, २३, ९; १क्षय्य>या  
 आधी ४, १३, ७; ७, ११, ७;  
 वैधी १५, ४ : २; पाण ३, ५, ३.  
 क्षेति वीधी १८, ४१ : ३१<sup>०</sup>.  
 ३क्षय- -यस्य आपधी ६, २३, ११.  
 १क्षयत्- -यन्तम् या ५, १०१;  
 -यन्ता आधी ८, ११, १; शाधी  
 १०, ११, ५  
 १क्षयन्-वीर- -रस्य आपधी  
 १७, २३, १; द्विधी १२, ६, २६.  
 √क्षिण् पापा. लता. उग. द्विगायाम्.  
 क्षित- √क्षि(क्षये) ढ.  
 क्षिति- √क्षि (निवासगत्योः) ढ.  
 क्षितिकाम्<sup>०</sup> कीत्. ३२, १२.  
 क्षित्यन्- पाठ ४, ११४.  
 √क्षिण्<sup>०</sup> पाथा. दिवा. पर., तुसा.  
 उभ. प्रेरणे, १क्षिण्यन्ति<sup>०</sup> विध  
 ४३, ४२  
 क्षिणि वीधी ११, ७ : ३३;  
 वैधी; क्षिणन्ति अय १, ८, ५;  
 क्षिणन् वीधी २, १८ : १५५.  
 वैधी; क्षिण्युः विध १९, ९.  
 १क्षिणिव- आम्र ३, ९, १२;

वीधि १, ८ : २.  
 १क्षिण्- क्षिणः आधी ५, १२,  
 १५; शाधी ७, १५, ७; आपधी  
 १४, ३०, ५; द्विधी १५, ७, २१;  
 १६, ८, १९; निघ २, ५.  
 क्षिणक,का- पाठयो २, २, १०;  
 पाण ४, ३, ८०<sup>m</sup>; पावा, पावाण  
 ७, ३, ४५.  
 क्षिणकिन्- पा ४, ३, ८०.  
 क्षिणिन्- पाठ २, १०७; -णिम्  
 या २, २८<sup>०</sup>।  
 क्षिण्यु- पाठ ३, ५२; -णोः  
 आपधी १७, १८, ११,  
 क्षिण्यु- पाठ ३, ५१.  
 क्षिवा- पा.पाण ३, ३, १०-४.  
 १क्षिपित- -तः आपधी ४, ११, ५;  
 आधी ४, १७, २; द्विधी ६, ३, ८.  
 क्षिप्त, सा- -सः याधि १, ३४;  
 -सम् शैशि ९९; १०५; -सा  
 या ६, ४१; -से याधि १, ४६;  
 -सेः वृदे २, ४३.  
 क्षिप्त-योनि<sup>०</sup> -नेः आष्ट १  
 २३, २०.  
 १क्षिप्त-सर्वसाधन-संयुक्त<sup>०</sup>-  
 -तम् आम्र १६, १०, ४ : १८.  
 क्षिप्या वैध २, २ : १४; कय ३,  
 ३, ५; शंघ ४३९.  
 क्षिप्यु- पा ३, २, १४०.  
 क्षिप्र- पाठ २, १३; पाण ५, १,  
 १२२; -प्रम् आधी १२, २३,  
 ४१५; आपधी; आपध १, १,  
 ८१; या ३, ९०; ५, ३; ३;

a) व्यय.। व्यु. १। b) तु. पाणम.। c) विप.। उभ.। d) अर्थ. म्. व. १। e) क्षेमवृद्धि-  
 इति भाष्ये.। पाणि. BPG. व। f) तु. पावा.। क्षेमवृद्धि- इति भाष्ये.। प्रमृ.। g) वैप १, ११९३ ऋ.।  
 h) पाणि. वैप १, ११९४ c. अत्रत्यं स्थलमपि तत्र योज्यम्। i) वैप १ ऋ.। j) = अक्षतमैपय्य- (तु. दारिद्रः)।  
 व्यु.।। k) पा ३, ३, ८० परामृष्टः ऋ.। l) पाठः ? ऋते। कर्मणि। इति शोचः। m) अर्थः ?। n) = वैश-  
 निशेषः।। o) विप.। बस.। p) विप.। कय. > तुस.। q) ऋत्वाऽभावः (पा ८, ४, ३९)। r) पाणि. वैप १  
 पूषन् वी १४, १, ३९ टि. ऋ.।

८, १३; ११, ५०; १२, ४४;  
-प्रमु०-प्रम् अय ६८, १, ३८;  
-प्रप्रत्य अय ४८, १०६; निघ२,  
१५; -प्रा: भाशि ६<sup>३</sup>; -प्राणि  
आज्यो ५, ३; -प्रीमे आपथी  
२२, १६, ९; वीथी १६, २७:  
२०; वाधुथी २, ९: ५; ३,  
४४: १५; हिथी १७, ६, ३३<sup>३</sup>;  
-प्रीण सु २३, २.

क्षेप्र<sup>०</sup> - या ५, १, १२२;  
-प्र: ऋपा ३, ३४; शुपा; -प्रस्य  
माशि ७, ६; याशि १, ८०;  
नाशि२, १, २; -प्रा: ऋपा२, २३.  
क्षेप्र-नित्य- न्ययो: तैप्रा  
२०, ९.

क्षेप्र-वर्ण- -र्णान् ऋपा  
१७, २३.

क्षेप्र-संयोगौ (ग-ए) का-  
क्षरीभाव- नान् ऋथ १, ३,  
६; शुथ ५, ६.

क्षेप्रा(प्र-थ)भिनिहित-  
-लेवु ऋपा ३, १३; -लौ ऋपा  
३, १८.

क्षेप्री√म् > क्षेप्रीभाव-  
> व्य- -थ्ये ऋपा ७, १०.

क्षिप्रं-मुचन<sup>०</sup> - नम् आपथ १४,  
१३, भाथ १, २२: ८.

क्षिप्र-कर्म-प्रसाधक- -०क ऋपा  
४, ५.

क्षिप्र-काम- -म: गौथ २६, ६.

क्षिप्र-कारिद्- -रिण. या २, ९;  
आज्यो ७, ३

क्षिप्र-जग्मन्<sup>०</sup> - न्मा अय १७,  
१, ५<sup>३</sup>.

क्षिप्र-सा- पा ५, १, १२२.

क्षिप्र-स्व- या ११, १६; -स्वने  
पा ५, १, १२२.

क्षिप्र-द्रावि(रु>)णी- णी या  
२, २६.

क्षिप्र-पञ्चन्<sup>०</sup> - न्वा सु २३,  
१; २.

क्षिप्र-नामन्- म् या ५, ३; १७;  
६, १२; १२, २२; -मनी या  
६, १; -मानि निघ २, १५; या  
३, ९.

क्षिप्र-प्रसवन<sup>०</sup> - नम् हिथ २,  
२, ८.

क्षिप्र-प्रहारिन्- णी या ५, १२.

क्षिप्र-यत्न<sup>०</sup> - श्चै शैशि २०१.

क्षिप्र-वचन- -ने पा, पावा ३,  
३, १३३.

क्षिप्र-वादिन्- -ही अय १,  
४३, ७.

क्षिप्र-विपाक- > ँकिन्-  
-कीनि अय ७२, १, २.

क्षिप्र-इयेन<sup>०</sup> - न: अय १, ३३, ३.  
क्षिप्र-संस्कार<sup>०</sup> - रम् वीथी २७,  
१: ९.

क्षिप्र-संस्कार-तम- -मम्  
वीथी २४, ९: ३.

क्षिप्र-संज्ञक<sup>०</sup> - कम् अशा २, १.  
क्षिप्र-संधि- -धि: वीथी १२,  
१३, ५, नित् १, ७: ३२.

क्षिप्र-हन्- -न्वारी वा १३, ५.

क्षिप्र-होम<sup>०</sup> - मा: कप्र ३, ८, २०  
-मेयु कप्र १, ९, ५.

क्षिप्रहोम-यन् कप्र ३, १०,  
१७.

क्षिप्रा(प्र-थ)भि- -भिम् माथी  
१, ५, ३, १; ६, १, ३, २३.

क्षिप्रे(प्र-द)पु<sup>०</sup> - पथे या १०, ६.  
१क्षेप<sup>०</sup> - प: वृदे १, ३९; ४९; याशि.  
१, ६८; -पम् याशि १, ७२; -वे  
विघ ५, ११; ३३<sup>३</sup>; पा २, १,  
२६; ४२; ४७, ६४; ५, ४, ७०; ६,  
२, ६९; १०८; पावा ५, २, १३१:  
६, १३, ७४.

क्षेप-संज्ञक<sup>०</sup> - का. माशि १३, ५.  
२क्षेप<sup>०</sup> - > क्षेपिमन्<sup>०</sup>, क्षेपिष्ठ<sup>०</sup>,  
-क्षेपीयत्<sup>०</sup> - पा ६, ४, १५६.

क्षेपण- -णम् या २, २८.

क्षिपस्ति<sup>१</sup> - स्तो निघ २, ४.  
क्षियत्, क्षियति- √क्षि(निवास-  
गयो:) द.

क्षिया- प्रम्. √क्षि(क्षये) द.  
√क्षिप्<sup>३</sup> पाथा. भ्वा. पर. निरवने.  
√क्षिप्<sup>०</sup> पाथा. क्वा. पर. हिंसायाम् -  
√क्षीञ् पाथा. भ्वा. पर. क्त्वत्ये शब्दे.  
क्षीण- प्रम्. √क्षि(क्षये) द.  
√क्षीष् पाथा. भ्वा. आत्म. नदे.  
क्षीब<sup>०</sup> - पा ८, २, ५५.  
क्षीयमाण- √क्षि(क्षये) द.  
क्षीर<sup>०</sup> - पाठ ४, ३४; पाण २, ४, ३१;  
-रम् माथी ५, १, ९, १९;  
वाधुथी; अय ४८, ७५<sup>३</sup>; निघ  
१, १२<sup>३</sup>; या २, ५६; -रस्य

a) = [रिपयकारसहितैकाक्षरवर्त] संज्ञा-विशेष-। b) भाप, नाप. (स्वतितस्वर-भेद- संधि-विशेष-।)

c) = कर्म-विशेष-। उल.। d) विघ.। वल.। e) व्यय.। वल.। f) = पक्षि-विशेष-। g) = होम-  
विशेष-। उम.। h) वैप १ द.। i) = निन्दान-, विमोह- प्रम्.। j) ऋत्वेपे इति जीवै.।

k) पात्र. < क्षिप्र- इति। l) = बाहु-नामन्-। व्यु. १। m) = √क्षीव् इति भाष्या. प्रम्.,  
1१६] BFG. च। n) √क्षीष् इति भाष्या प्रम्., [१६] BFG. च। o) वैप ३, २९१ ज द।

p) = अन्त-।

अप ३६, १६, ३; ३८, २, १; शंष  
 ४०५; बौष ४, ५, १३; -राणि  
 शंष ४२८; ४२४; -रे श्रापथी  
 ३, २, १२-४; बौथी; -रेण वैथी  
 १, ४ : ४; हिथी; पावा २, १, १;  
 -रेषु शंष १५५, ४१८.  
 क्षीरय- पा ४, २, २०.  
 क्षीर-क्षार-लक्षण-विक्रय- -ये सुष  
 ५८.  
 क्षीर-दधि-मधु-पूउ-रूगै- -र्णानि  
 विष ८७, ६.  
 क्षीर-भारा- -रा: वाध ११, २२.  
 क्षीर-धेनु- -नुम् अप ९, ३, २.  
 क्षीर-प- -प: बौथी १८, ४५ : ६.  
 क्षीर-पाव- -नम् बौथी २, ९, १६.  
 क्षीर-प्राशन- -ने शंष ४२५; सुष  
 ३४.  
 क्षीर-भक्ष- -क्ष: कौम् २२, ८.  
 क्षीर-भक्षिन्- -क्षिग: अप ३५,  
 २, ६.  
 क्षीर-भाण्ड-भेदन- -ने काथ  
 २७६ : ११.  
 क्षीर-मध्वा(धु-आ)ज्य- -ज्यै: अप  
 ३५, १, ११.  
 क्षीर-यव-पिष्ट-विकार- -रान् वाध  
 १४, ३८.  
 क्षीर-लेह- -हम् कौम् ३०, ५.  
 क्षीर-ज्व- -ज्वान् आमिष्ट ३, ८,  
 २ : ६३; बौषि १, १५ : ६७;  
 अप १८, ४.  
 क्षीर-विक्रय- -यान् वाध २, २७.  
 क्षीर-विवर्जि(त)वा- -वा: सु  
 ४, १.  
 क्षीर-वृक्ष- -क्षा: बौथी २८, १२ :  
 १०; -क्षानाम् अप ७०, २२, १.

क्षीरवृक्ष-निषेवण- -जाम् अप  
 ६४, ७, ५.  
 क्षीरवृक्षा(र-अ)हुर- -रा: अरा  
 १२, ५.  
 क्षीर-धी- -थी: अप्राय ३, ११.  
 क्षीर-समायुत- -नम् अप ६५, ३, ८.  
 क्षीर-सर्विस- -र्वि: वाथुथी ४,  
 १६ : ८; ९.  
 √क्षीरस्य पा, पावा ७, १, ५१.  
 क्षीर-स्रव- -वे अप ७०, ८, ३.  
 क्षीर-हारिन्- -री शंष ३७७ : २०.  
 क्षीर-होम्- -पाग ६, २, ८१; -र्णवा  
 काथी ४, १४, ३१; आपथी ६,  
 १५, १६; माथी ६, ७, ३.  
 क्षीर-होम- -नाम् अप ३६, १०, ३.  
 क्षीरहोमिन्- -मी काथी ४, १०,  
 १६.  
 क्षीरा(र-अक्ष)का- -का अप  
 २६, ३, ३.  
 क्षीरा(र-अ)र्णय- -वे धामिष्ट २, ४,  
 १० : ३८.  
 क्षीरा(र-आ)सिचत- -नम् काथी  
 २५, १२, १३.  
 क्षीरिन्- -रिण: आमिष्ट ३, ५, ५ :  
 २; बौषि १, ४ : ६; भाष्ट २,  
 ३०:४; हिषि १ : ६; अप २६,  
 ५, ५, वाशि १, ३७; नाशि २,  
 ८, ४; -रिणाम् आपथ ६, ५;  
 अप ५३, १, ५, ६८, २, १५.  
 क्षीरिणी- -णी: काथी २५, ७,  
 १६; आपथी १४, २४, १२;  
 हिषि १३ : ६; -णय: आमिष्ट  
 ३, ५, ५ : ८; बौषि १, ४ : ८.  
 क्षीरो(र-उ)सिनक्त- -क्ते माथी ५,  
 १, ६, १७; कौम् ४८, ४१; -क्तेन

हिषि ९ : १; कौम् ८२, २७.  
 क्षीरो(र-उ)द- -दम् विष १, ३३;  
 -दे विष १, ३२.  
 क्षीरोदनमस्- -मसि अप  
 ५२, १३, ४.  
 क्षीरोद-मुक्तिपुटगर्भ-विकीर्ण  
 मुक्तसंघात-पाण्डुररज- -ज:  
 अप २४, ५, ५.  
 १क्षीरो(र-उ)दक- -क्तेन आष्ट ४,  
 ५, ४; नीषि १, ५, २२; २, १, ३;  
 -क्ते: कौम् ५, ५, ५.  
 २क्षीरो(र-उ)दक- -काम्याम्  
 काथी २१, ४, १९; -क्ते काथी  
 १८, ५, ८; पाथ ३, १०, २६;  
 जैष्ट २, ५ : १२.  
 ३क्षीरो(र-उ)दक- -कम् शंष  
 ११६ : ७.  
 ४क्षीरो(र-ओ)दन- -नम् दाथी  
 १३, १, १५४; कौम् १, ११, ८;  
 अप २०, ३, ४; वाध २१, ६;  
 -नस्य दाथी १३, १, १३; -नेन  
 बौष् २, ११, ५४.  
 क्षीरोदन-हृषिस- -वि.पु अप  
 ७०, ६, ४.  
 २क्षीरो(र-ओ)दन- -न: अप ४६,  
 ७, ४.  
 क्षीरो(र-उ)दधिद- -धिद्व कौम्  
 ३१, २४.  
 १क्षीरो(र-ओ)दन- -नम् दाथी  
 १४, १६, ४; लाथी ५, १, १३४;  
 आमिष्ट २, ५, १ : ३५; जैष्ट;  
 -नस्य हिथी ६, ८, १; लाथी ५,  
 १, ११; कौम् ४३, १३.  
 क्षीरोदन-पुरोडाश-नस- -सान्  
 कौम् ७, ६.

a) उप. <√पा(पामे)। b) मलो. कस.। c) वैप १ द.। d) = क्षीर-सागर-।  
 e) विष.। हस.>वस.। f) हस.। g) तीहतायां वृद्धिविक्रमः। h) सपा. 'शोदनम् <> श्रौदनम् इति  
 पामे.। i) सपा. क्षीरोदनस्य <> क्षीरोदनस्य इति पामे.।

क्षीरीदना (न-धा) दि- -त्रीनि  
कौस् ४२, २२.

क्षीरीदनी (न-उ) लुचन्मन्व-  
पाय-विज्ञान- -नानि कौस्  
३७, १.

रक्षीरी(र-ओ)दन- -नः कौस्  
१२७, २; १३८, २.

क्षीरफला, ल० म्म- -म्माः बीश्रीप्र  
११ : १.

क्षीरकलमि- -मिः लाधौ १०,  
१०, २०; १३, १८.

क्षीरहृद- (> क्षीरहृद- पा.) पाग  
४, १, ११२.

✓क्षीम् ✓क्वि टि. इ.

✓क्षीम् ✓क्षिप् टि. इ.

✓क्षु पाधा. अदा. पर. शब्दे.

क्षव- -वम् अप १, २६, ५१.

क्षवपु- -पुः बीश्री २, ५ : १६१;

-युम् आपध २, ३, २; हिष २,

१, ३३; -थौ आपध १, १६,

१४, हिष ३, ५, १३.

क्षुप्या क्षाण ३, ६, ७; गोष्ट.

क्षु- १ क्षु अर ४८, ८८; निष २, ७.

क्षु-मन्- -मति अथ १८, ३;

-मन्तम् आधौ ५, १२, १; ६,

४, १०; शोशौ ७, १५, ३; २,

१२, १; अथ ३, २८.

क्षुमती- -तीः आपधौ २४,

१२, ३१.

क्षुच्छरप्रमरण- प्रम्. ✓क्षुप् इ.

✓क्षुद् पाधा. द्या. उम. संपिण्णे,

क्षोदनि निष २, १४.

क्षुद्र, दा- पाउ २, १३; पाग ४,

२, १०<sup>३</sup>, ५, १, १२२; -द्रः अथ

१०, १०; -द्रम् या १०, ४२१;

-द्रस्व या १३, ९; -द्राः बीश्री

१८, १५ : १३१; -द्राणि बीश्री

१७, ३१ : १७; -द्रात् आपध

१, ३२, १८; हिष १, ८, ६०;

-द्राम्यः पा ४, १, १३१;

-द्रैभ्यः अथ ४६, ९, ६; १०,

२१; अथ १९, २२; २३; -द्रेषु

अथ २ : ४, पावा ६, १, ६२.

क्षुद्र-कर्मन्- -र्मा चव्यु ४ :

१९.

क्षुद्र-काण्ड- > ष्टा(रु-अ)धे-

सूक्त-मन्त्र- -न्त्राणाम् अथम्

८.

क्षुद्र-कोट- > ० ट-मक्षिका-

पिपीलिका-यजम् बीश्री २७,

९ : २.

क्षुद्र-गन्तु- -न्तवः पा २, ४, ८;

-न्तनाम् शंथ ४०९.

क्षुद्रजन्तु (गु-उ)पताप-

-पयोः पागवा ५, २, १७.

क्षुद्र-ता- पा ५, १, १२२.

क्षुद्र-गुम्- -णानि बीश्री १४,

२९ : १७

क्षुद्र-स्व- पा ५, १, १२२.

क्षुद्र-धमनि- -धीनाम् विष ९६,

८४.

क्षुद्र-धान्य- -न्यम् अथ ६३,

३, ३.

क्षुद्र-पद- -दम् बीश्री १ : ३;

-दानि बीश्री ६, २२ : १४, १६;

१७.

क्षुद्र-य(द>)दा- -दाउनिम्

७ : २२.

क्षुद्र-पशु- -पशवः शंथ ३०७.

क्षुद्रपशु-काम- -म. गोष्ट ४,

९, १३; द्राष्ट ४, ३, १६.

क्षुद्रपशु-मन्- -माम् आपध

२, १६, ११; हिष २, ५, १०.

क्षुद्रपशु-स्वसययन-काम-

-मः गोष्ट ४, ५, ३०; द्राष्ट ४,

१, १५.

क्षुद्रपदव(शु-अ)वृत्त- -तेगोध

१३, १५.

क्षुद्र-मिध- -धैः क्षामिष्ट ३, ६,

३ : २२; वीपि १, ११ : १८.

क्षुद्र-संज्ञा- > णिच्- -ज्ञिताम्

अथ ६४, ५, ४.

क्षुद्र-सविध- -मिषाम् बीध १,

६, २३.

क्षुद्र-सूक्त- -केषु वीष्ट २, ४,

१८; शोष्ट २, ७, २१.

क्षुद्र-सूक्त- -क्ताः क्षाण ३, ४,

२; वीष्ट २, ५, १.

क्षुद्रसूक्त-महासूक्त- -ताः

शोष्ट ४, १०, ३; वृदे ३, ११६;

अथ १, २, २; -क्ती अथ ४३,

४, १२१.

क्षुद्रा(द-आ)चरित- -तार आपध

१, ३२, १८; हिष १, ८, ६०.

क्षुद्रा(द-अ)न्य- -न्यम् विष

९६, ११.

क्षुद्रो/क > ङी-चिकी(प>)

पी- -य्या निष् ६, ११ : १२.

क्षुद्रोप- पा ४, २, १०.

क्षुद्रो(द-उ)पदव- -वः अथ ३५,

२, ११.

क्षुद्रोपदव-नागत- -नम् अथ

७, १, ३.

क्षु(द>)दा- > क्षोद्र- पा

४, ३, १११; -द्रम् अथ ६४, ८,

a) इय. > फल. । पायम् इति संतर्ह्यैः टि. । b) विर. । वत्. । c) ष्ट् इति लाधौ. ।  
d) = ऋषि-विशेष- । घ्यु. ! । e) व्यप. । घ्यु. ! । f) वैप १ इ. । g) संपिण्णे णि दे. । h) घृ ८९७ S  
टि. इ. । i) = प्रमाण-सिधेय- । j) = उणिष्-भेद- । वत्. । k) = मयु-मन्त्रिक- ।



१; ७०<sup>०</sup>, ७, ६; ७१, ९, ३; १४,  
१; -त्रे अत्र ७०<sup>०</sup>, ७, ११; ७१,  
१०, ४; विध ९२, १४; -देज  
वाध २८, १८.

क्षीर-क्षीर-गन्ध-धूम-दूर्वा-  
रत्न-कनक-विट्ठम-प्र(भा > )  
म-मेवु अत्र ६५, १, ५  
क्षीर-युक्त- -कैः विध ९०,  
१०.

क्षीर- पाठ २, १४.

क्षीर->क्षीरिन्- वा ५, १,  
१२३; ६, ४, १५६.

क्षीरिन्- वा ६, ४, १५६; -छाः  
वाधो ३, ३, १, ५१; अत्राय ५,  
३; -छात्र आपधो १८, ११,  
१४; द्विधो १३, ४, १२.

क्षीरीयत्- वा ६, ४, १५६.

क्षीरिन्- नः अत्र ४८, ७५;  
विध १, १२; -दमा आधो ३,  
७, ६; ८, ९, ३; शोधी १०,  
३; १०, ९, ४; ११, ५; अत्र २,  
७, ९५.

क्षुद्रक- -कान् अत्र ५०, ३, ५.

क्षुद्रक-माल्य->क्षीर-माल्यो-  
पावा.) पागवा ४, ३, ४५.

√क्षुष्- पाथा. दिवा. पट.

क्षुष्पायाम्, क्षुष्पे आमिष्ट २,  
७, ८ : ३.

क्षुष्- पाग ४, १, ४<sup>०</sup>; ५, ३, ३६<sup>०</sup>,  
पागा ३, ३, १०८; ऋक्षुष्  
काधो १८, २, ३, आपधो १७,  
१२, ५; वीधो २, ५ : १×४;  
वाधुधोः ऋक्षुष्; आपधो ५, १, ७;  
१०, १३, ११<sup>०</sup>; वीधो २८, ९ :

२२<sup>०</sup>; वाधुधो ३, ९ : १४; द्विष्ट  
१, १७, ४<sup>०</sup>; ऋक्षुष्म् आपधो  
१९, १३, २०; वीधो १९, ५ :  
१६; वाधुधो; क्षुष्पा आपधो ९,  
२०, ७<sup>०</sup>; द्विष्ट २, ५, ११०;  
ऋक्षुष्पे गोष्ठ ४, ९, १४; द्राष्ट  
४, ३, १५.

क्षुष्-छत्र-भरण- -कैः अत्र  
७०<sup>०</sup>, ९, ३.

क्षुष्-छत्र-भ्याधि-वर्ग- (वा-अ)  
मि-क्षुष्-सत्यानिलानयोः अत्र  
६३, ५, ६.

क्षुष्-क्षमा(स-घ)मि-भय-  
-भम् अत्र ६३, ३, ५.

क्षुष्-मृगा(ष्णा-छ)वनोदन- -ने  
विध ६३, १८.

क्षुष्-वाग्ध- -ग्ना माधो ५,  
२, १०, १६.

क्षुष्-विशाम- -साम्याम् गोष्ठ  
४, ९, १४.

क्षुष्पासा-राष्ट- -हाः अत्र  
६८, १, २९.

क्षुष्पासित- -तः वाध  
१६, ३३.

क्षुष्-विशामा-भय- -भम् अत्र  
२२, १०, ५.

क्षुष्-वहन- -ने अत्र ४८, ५३.

क्षुष्-भय- -भम् अत्र १९, १,  
८; ५३, ३, ५×४; श्रे ६, ९०.

क्षुष्-यु(क >)का- -कामु  
वीधो १६, ३१ : १०.

क्षुष्-रोग- -गः अत्र ७०<sup>०</sup>, ७,  
६; ७१, ९, २.

क्षुष्पा- वा ४, १, ४; -पथा

विध ४३, ३६; -था अत्र २३,  
१४, ६; वाध १२, ४; आपध  
२, २५, ११.

क्षुष्पा-काल- -के अत्र २३,  
७, ४.

क्षुष्पा-परीत- -तः वाध १२,  
३.

क्षुष्पा-रोग-क्षुष्पा-राष्ट-  
(स-अ)मि-क्षेपन- -नाः अत्र  
५८, १, १०.

क्षुष्पा(धा-आ)र्त्- -तैः विध  
३, ७६.

क्षुष्पित- वा ५, २, ३६; -तः अत्र  
२, २, ९<sup>०</sup>; श्रे २, १५, ९; -तस्य  
वैध २, १५, ८.

क्षुष्प- पाठ ३, ५५.

क्षुष्प(र्त्)न्तो- -न्तो वाधो २,  
१, ५, १४.

क्षुष्पक, -कः आपधो १६, ३६,  
१०<sup>०</sup>; वीधो १८, १८ : १५<sup>०</sup>;  
द्विधो ११, ७, ५०<sup>०</sup>; गोष्ठ १, ६,  
३; -का माधो ६, १, ६, ५; वीधि  
१, २, ७<sup>०</sup>; द्विष्ट ४, ३<sup>०</sup>; -काः  
आमिष्ट ३, ५, १ : २१<sup>०</sup>.

क्षुष्प- पाठभो २, ३, २०१.

√क्षुष्- पाथा. अत्र. आत्न. दिश.  
कथा. पर. संचलने, क्षुष्पते वा  
५, १६.

क्षुष्प- वा ७, २, १८; -न्भय श्रे  
४, ५३.

क्षुष्प-दुष्पुमि-दिनाद- -देपु  
अत्र ६५, १, ६.

क्षुष्प- -भम्, -भे अत्र ६८, ३, १८  
ऋक्षुष्मन्- -णः तैत्र ९, ३.

a) वाध. < क्षुष्- । b) वैश १ द. । c) = सद्रिय, जनार्द-विरोध- । द्यु. ? । d) गेतायाम्,  
अन्यम् एवम् - इति । e) वा ७, २, ५२ परामृष्टः द. । f) दृ. पागम. । g) क्षुष्पा- इति पासा. । h) पासे.  
वैश १, सद्रियान्युते वी ७, १०६, १ दि. द. । i) सुदितम् इति पाठाः ? सवि. शोधः । j) पासे. वैश २, ३ सं.  
क्षीरुका दि. द. । k) वा ८, ४, १९ परामृष्टः द. ।

शुमा<sup>१</sup>- पाठभो २, २, २४२.  
 क्षौम, क्षौ<sup>२</sup>- पाग ६, २, ८८०; -मम्  
 वाथ्री ४, ६, १९; ७, २, १५; १५,  
 ५, ८; आपथ्री १०, ६, ४; २४,  
 ७; वीथ्री १८, १६: ३; १९:  
 २; माथ्री; निस् १, ११: ८;  
 कौथ १, ८, ८; गांथ १, १२,  
 ८; गोथ २, १०, ११; जैथ १,  
 १२: ५०; विथ ४४, २७;  
 -मागाम् वीथ १, ५, ३५; विथ  
 २३, २२; -मागि वीथ १, ६,  
 १०; -मे वाथ्री ४, ७, १२; १५,  
 ९, २३; आपथ्री ५, ४, १०; १९,  
 १, १; ५, ७; माथ्री ५, २, २२;  
 माथ्री १, ५, १, १२; २, १, ४, ३;  
 ५; वाथ्री; -मेण आपथ्री १०,  
 २४, १४; १६, ३, ७; २०, १७,  
 ९; १८, ३; माथ्री १०, ६, ८; १६,  
 ११; हिथ्री ७, १, ४८; २, ४४.  
 क्षौमी- मी थाथ्री ९, ४,  
 १७, लाथ्री ९, २, १५.  
 क्षौम-ज- जानाम् वाथ ३, ५५.  
 क्षौम-दशा- शाम् गोथ ४, २,  
 ३०.  
 क्षौम-वन् वीथ १, ५, ४०.  
 क्षौम-शाग-कम्बल-वञ- चम्  
 कौम् ५७, १३.  
 क्षौम-शाग-कार्पास [क्षौ<sup>३</sup>]-  
 -सानाम् द्राथ्री ५, २, ४; लाथ्री  
 २, ६, १.  
 क्षौम-शाग-कार्पासौ (स-थ्री)-  
 -जाति गोथ २, १०, ७.  
 क्षौमा (स-थ)न्- -न्तेन काठथ्री

७७, ७८.  
 क्षौमि(क>)की- -कीम् कौत्  
 ५७, ३.  
 ✓क्षुम्प, क्षुम्पति निघ २, १४५.  
 क्षुम्प<sup>१</sup>- -क्षुम्प अप ४८, ११५; निघ  
 ४, २; या ५, १६५६; १७.  
 ✓क्षुर् पाधा. जुदा. पर. विलेखने.  
 क्षुरि(क>)का<sup>१</sup>- पाठना २, ४४.  
 क्षुर<sup>२</sup>- पाठ २, २८; -र: शाथ्री १२,  
 १५, १५; वीथ्री; -रम् काथ्री  
 ७, २, १२; वीथ्री, -रस्य वैथ  
 ३, २३: ४; -रे वैथ्री १२, ६: ३;  
 -रेण काथ्री ७, २, ९; आपथ्री.  
 १ चौर<sup>३</sup>- -रम् दुन्न १, २२७.  
 २ क्षौर<sup>४</sup>- -रम् आग्यो १०, ३.  
 क्षुर-कर्मन्- -ने आग्यो १०, १.  
 क्षुर-कर्म(र्म-धा)दि- -दिना वैथ  
 ३, १८: ४.  
 क्षुर-कृय- -र्यम् गोथ ३, १, २०.  
 क्षुर-वान्त<sup>५</sup>- -न्ते अप ६३, १, ९.  
 क्षुर-तेजस्- -ज: आथ १, १७, १६.  
 क्षुर-धा(रा>)र<sup>६</sup>- -रान् अप १,  
 ५०, ८.  
 क्षुर-पवि, वी<sup>७</sup>- -वि सु २५, ३; २७,  
 २; -वि: वापूथ्री ४, १५: ४; सु  
 २५, १; भाथ १, १५: १२५;  
 हिथ १, २४, ५५; माति १०३५.  
 -विना या ५, ५५; -र्य: सु  
 २५, ५.  
 क्षुर-पाणि<sup>८</sup>- -गि: गोथ २, ९, ४.  
 क्षुर-वपि<sup>९</sup>- > ँवि-शीर्षच्छिद्र-  
 -च्छिद्रौ वाथ्री १४, २२, ४.  
 क्षुर-संस्पर्श<sup>१०</sup>- -शौ कौत् १४१, १५.

क्षुल<sup>१</sup>- > क्षुल-क<sup>२</sup>- -क: निघ ३,  
 २; -का: अया २, ३, १३.  
 क्षुलक-तापथित<sup>३</sup>- तम् आथ्री  
 १२, ५, ९; शाथ्री १३, २५,  
 ६; निस् १०, ९: १; -ते वाथ्री  
 २४, ५, ८.  
 क्षुलक-वैधदेव<sup>४</sup>- पा ६, २, ३९;  
 -रस्य वीथ्री २५, २१: १६.  
 क्षुलक-वैद्यम्<sup>५</sup>- -मम् निस्  
 ५, ७: १८.  
 क्षुलको(व-उ)पस्थान- -मम्  
 शुथ १, १९९.  
 क्षुवका<sup>६</sup>- (> क्षुवका-वव, क्षुवकिल-  
 पा.) पाग ५, २, १००.  
 क्षुण- पाठभो २, २, १२३.  
 क्षेत्र- , ँत्रिक- , ँत्रिन्- , ँत्रिय- प्रम्.  
 ✓चित् (निवात्म<sup>०</sup>) द्र.  
 १-२क्षेप- प्रम्. ✓क्षिप् द्र.  
 क्षेम- प्रम्. ✓क्षि (निवात्म<sup>०</sup>) द्र.  
 ✓क्षेक् पाधा. ३भा. पर. निरस्तने.  
 ✓क्षौ पाधा. भ्वा. पर. क्षुये, क्षायति  
 आपथ्री ९, १५, ६; ७५; वीथ्री  
 २७, १२: २; माथ्री ९, १७,  
 ६; हिथ्री १५, ४, २६; क्षायेत्  
 माथ्री ९, १७, १०; हिथ्री १५,  
 ४, २८.  
 क्षाम<sup>७</sup>- पा ८, २, ५३; -म: अयाय  
 २, १; -मयो: माथ्री ३, १, २२;  
 -मा: अप ६८, १, ४२; -माय  
 आथ्री ३, १३, ४; काथ्रीसं ३२:  
 ५; -मे<sup>०</sup> आथ्री ३, १४, २; काथ्री  
 २५, ८, १७; वीथ्री २७, २:  
 १२; वैथ्री २०, २६: ८; वीथ

a) = अतसी-। व्यु. १ < ✓क्षु इति प्रायिकम् । b) = वस्त्र-विशेष-। विशदरे ण् प्र. । c) अर्थः ।  
 d) लाथ्री. पाठः । e) वैथ १ द्र. । f) = क्षुरिका- [क्षुरी-]। क्षुर->क्षुरक-> रवी. यति. इति Pश्व. प्रम्. ।  
 g) विर. । साङ्ख्यदेवतीयः ण् प्र. । h) = संस्पर्श-विशेष-। i) विप. । पस. । j) = एहाह-विशेष-। व्यु. १ ।  
 k) = सप्त-विशेष-। कस. । l) = ताम-विशेष- । m) अर्थः व्यु. च १ । तु. पाद्य. । धुवक- इति भाष्य. ।  
 n) वैथ १ निर्दिष्टयोरिह समावेशः द्र. । o) धा. दहने इतिः ।

४,१,४; आमिष्ट २,७,९ : ६;  
 १३; भाष्ट ३,१८ : १,१८; मीस्  
 ६,४,१८.  
 क्षाम-काप<sup>०</sup>-पम् वीथी २,१४;  
 ११; ५, १० : १६; २०; २१,  
 २५ : ८.  
 क्षाम-नष्ट-हृत्-दृग्-व (व >)  
 ती-ती: आथी २,१४,२३.  
 १क्षाम-वत्-पुंलते शोथी ३,४,  
 १३; आथी; -०वत् आमिष्ट  
 २,७,९:२०; -वान् वीथी २०,  
 १ : १३; भाष्ट ३,१९ : ५; कम्  
 २,९,१५.  
 क्षामवती-नीम् आपथी  
 ९, ३, २३; भाथी ९, ५, २१;  
 वैथी २०, १:१; द्विथी १५, १,  
 ७३; अथाव ४, ५; -वत्यः द्विथी  
 २२, २, १३.  
 क्षामा(म-अ)भाव-वे आथी  
 ३,१३,१२.  
 २क्षामवत्-पा ८,२,५२.  
 क्षैतयत्<sup>०</sup> (>क्षैतयतापनि-पा.)  
 पाग ४,१,१५४.  
 क्षैतयत्-क्षि (निवासग<sup>०</sup>) द.  
 क्षैति-क्षि(क्षये) द.  
 क्षैत्र-प्रज्ञ-प्रम्-क्षि(निवासग<sup>०</sup>) द.  
 क्षैत्र-प्रम्-क्षिप् द.  
 क्षैमवृत्ति-प्रम्-क्षि (निवासग<sup>०</sup>) द.  
 क्षैमिति-ति: वीथीप्र ४८ : ८.  
 क्षैरकर, लक्षिमि-क्षैरकर, लक्ष्मि-द.  
 क्षैरहृद-क्षैरहृद-द.  
 क्षैरैय-क्षैर-द.  
 √क्षोट<sup>०</sup> पाषा. चुरा. उभ. क्षेप.

क्षोण<sup>०</sup>-गस्य निष् ४, ३; या ६, ६.  
 क्षोणि, णी<sup>०</sup>-पाठ ४, ४८; -णि: निष्  
 १, १; -णी अथ ४८, ६०<sup>०</sup>;  
 ७२; निष् ३, ३०<sup>०</sup>.  
 क्षोचू-क्षोदस्-क्षोदिमन्, क्षोदिष्ट-  
 क्षोदीवस-√क्षुद् द.  
 क्षोधुक-√क्षप् द.  
 क्षोम-, क्षोमण-√क्षुम् द.  
 क्षोम-पाठ १, १४०.  
 क्षोणी<sup>०</sup>-णी विध ५, १८३; -णीम्  
 विध १, ६२.  
 क्षौद्र-प्रथ. √क्षुद् द.  
 क्षौद्रकमालव-क्षुद्र-द.  
 क्षौम-, क्षौमिकी-, क्षौमी-क्षुमा-द.  
 १, २क्षौर-क्षुर-द.  
 √क्षुण्<sup>०</sup> पाषा. अदा. फ. तेजने.  
 क्षमा<sup>०</sup>-पाठ ५, ६५; पृक्षमया आथी  
 २, १५, २; शोथी १०, १०, ८; या  
 १०, ७७; पृक्षमा अथ ४८, ७२  
 निष् १, १; या १०, ७७.  
 √क्षमा<sup>०</sup> पाषा. अदा. आरत. विधुने.  
 √क्षमील् पाषा. अदा. पर. निमेषे.  
 √क्षिवह्<sup>०</sup> पाषा. अदा. पर. अन्त्येके  
 शब्दे.  
 क्ष्वेड->क्ष्वेड-वण्टा-वाच-कर-  
 >>कर-नट-वृषाप्रवृत्त-वृक्ष-  
 वैताल-वेखन-वीचक-देवलक-नक्ष-  
 त्रवीचक-प्रागपाजक-परिहित-  
 पर्याधारक(?)-परिपन्न-रुचीन-मं-  
 व-दिविष्णुति-राजतेवक-तसुरो-  
 हित-ता: काप २७९ - २.  
 क्ष्वेडन<sup>०</sup>-नम् श्या १४, १०.  
 क्ष्वेदि(व>)ग-पाग २, ४, ११.

क्ष्वेदिता(ता-आ)स्फोटितो(ता-उ)  
 ल्(ह>)दा-दा: अथ ५८<sup>०</sup>,  
 ४, १२.  
 √क्ष्विद् पाषा. अदा. अरत.,  
 दिवा. पर. स्नेहनमोचनयोः.  
 क्ष्वेदितव-, क्ष्वेदितवन्-पा १, २,  
 १९.  
 √क्ष्वेल् पाषा. अदा. पर. चलने.

ख

ख>खकार-रे श्रया ६, २१.  
 खकार-यकार-रौ श्रया ६,  
 ५५.  
 ख-पा(क-आ)दि-दय. पाशि  
 २४.  
 ख-य-यौ श्रया ४, १६७.  
 ख-सवर्ण-र्णम् याशि २, ३६.  
 १ख-ख<sup>०</sup> वेजो १८; खे<sup>०</sup> कव ३,  
 ८, ५.  
 २ख<sup>०</sup>-पाठो २, २ ५१<sup>०</sup>; सम्  
 आपथी २, १० ४<sup>०</sup>; ४, ४, ४;  
 भाथी ४, ५, ५; भाथी १, १, ६,  
 १८<sup>०</sup>; आथी १, १, १, १६; ३, ३,  
 २८<sup>०</sup>; द्विथी १, ८, ११<sup>०</sup>; ६, १,  
 ५१; द्राथी ५, ४, ८; शेष ११६;  
 ६०<sup>०</sup>; विध ८, ३३; वृदे ७, १३;  
 श्रथ १, १२<sup>०</sup>; ४, १३२; या  
 ३, १३<sup>०</sup>; पाग १, ४, ५७;  
 खस्य तेषा २२, ९; १०; खान्  
 श्रया १, ६; खानि वाट ६, ३६;  
 अथ १, ३९, ३<sup>०</sup>; अथा १, ३;  
 वाप ३, २८; वीध १, ५, २१;  
 विध २२, ५१; ६२, ४; ७३.

a) = [भाडसंलग्न-] दम्पारा-। कस. । b) व्यप-। व्यु. ? । c) = श्रवि-विशेष-। व्यु. ? ।  
 d) = √खोद् इति [पक्षे] BFG. । e) वैप १ द. । f) वृषिनी-नामन्-। g) वावावृषिनी-नामन्-।  
 h) = वृषिबी-। व्यु. ? । i) पा १, ३, ६५ परामृष्ट-द. । j) पा ७, ३, ३६ परामृष्ट-द. । k) = √क्ष्विद् इति [पक्षे]  
 BFG. । l) = खनिशेष-विशेष-। m) = √खिद् इति [पक्षे] BFG. भाष्टा. पाशि. । n) निर्विकल्पिकः पाठः ।  
 = विशाखानध-। o) दुष्-इत्यस्याऽन्तिमाक्षरस्य सहा । p) <√अश (व्याप्तौ) । q) = एकादशरत्नव्यन्तम-।

७९; गीध १, ४१; अन्न १०, २१; या १०, ९१; फले आपमं १, १, ९१; कु ८, १; कीय १, ९, ७; शांय १, १५, ६; काय २५, ९; २६, ३; माय १, ८, ११<sup>१</sup>; वाय १४, १<sup>१</sup>; कौसू ३५, ७; अय ५८, २, ८; या १, ९; अया २, ४५; १३ १; गैति २२९; वासि २, ६८; खेन कौसू १५, ४; ७२, १६; खेभ्यः या ३, १३.  
 ख-कोटि-टिपु अय ६५, १, ७.  
 ख-ग-गैः वाय ३, ४५.  
 ख-गम- > खगमा(म-अ)गमय-म्यम् विध १, ३७.  
 ख-वर-राः अय ५२, १२, ३.  
 ख-च्छ-च्छ-दः या ४, १८.  
 ख-द्योत-न्तः शंघ ३७७ : १६; -तानि अय ६५, २, ४.  
 ख-मूर्ति-मन्-मान् विध ५५, १६  
 ख-र-पावा ५२, १०७  
 ख-ना(य>)ना-या या ९, १९;  
 -या. या १, ४.  
 ख-दासीर- > श्रीरिन्-रिणः कय १, १०, ९<sup>६</sup>.  
 ख-चर-ना अय ५७, ३, ५, -राणि अय ७०<sup>१</sup>, ११, १३.  
 ख-गाल- -त्यम् आपमं १६, १८, ४; वैधौ १८, १५ : १२; द्विधौ ११, ६, २६.  
 ख-च- पाधा मया. पर. मूत्रप्रतुमवि.

ख-ज- पाधा. भ्वा. पर. मन्वे. फलज- -जे अय ४८, १०५; निघ २, १७.  
 ख-न-कर- -रम् वीधौ १८, १७ : १३१.  
 ख-ज-पाठ ३, १४२.  
 ख-जाक- पाठ ४, १३.  
 ख-जापो(वी)जा- -जा आपमं२, १३, १०; आमिष्ट २, १, ३ : १६; भाय १, २३ : ५.  
 ख-जूर- (> खजूरायण-) २खजूर-टि द.  
 ख-ज- पाधा. भ्वा. पर. गतिवैक्ये. १खज- पाग २, २, ३८; -जः कौशि ३, ५, २.  
 ख-ख- (> खजा-गिरि- पा.) पाग ६, ३, ११७.  
 ख-जन- (> खजन- पा.) पाग ४, १, ११२  
 ख-जर- पाग २, २, ३८.  
 ख-खरीट- पाठमो २, २, १०४.  
 ख-खरीट-क- -कम् शंघ ४२६.  
 ख-जाक- पाठमो २, २, १२.  
 ख-जाजेर- पाग ४, १, ११०<sup>१</sup>, ११२  
 ख-जा, जेर- पा ४, १, ११२.  
 ख-जायायण- पा ४, १, ११०.  
 ख-जाल- -ल<sup>१</sup>, -ल<sup>२</sup>, -ल<sup>३</sup> (> खा<sup>१</sup> पा.) पाग ४, १, ११२.  
 ख-जूल- (> खजूलायन- पा.) पाग ४, १, ११०<sup>१</sup>.

ख-द- पाधा. भ्वा. पर. काल्जायम्. ख-द<sup>१</sup> वीधौ ९, १८ : ७.  
 ख-द- पाधा. जुवा. उम. संवरणे. ख-द<sup>२</sup> - (> खाद्वोरय- पा.) पाग ४, १, १२३.  
 ख-द<sup>३</sup> - पाठ १, १५१; पाग ५, १, ५०; -द्वामिः पावा ६, १, ८४; -द्वायाम् आपध १, ६, ४; १५, २१; द्विध १, २, २९; ४, ८०.  
 ख-द<sup>४</sup> (द्वान्-अ)द- -कम् अय ४०, ३, २; आपध १, २९, १; द्विध १, ७, ५७.  
 ख-द<sup>५</sup> (द्वान्-आ)द- -णिः गीध २२, ३.  
 ख-द<sup>६</sup> (द्वान्-आ)द- -को शंघ ३७९; ३८९; वीध २, १, ३.  
 ख-द<sup>७</sup> (द्वान्-आ)द- -पा ५, १, ५०.  
 ख-द<sup>८</sup> (द्वान्-आ)द- -पाग ६, २, १४७.  
 ख-द<sup>९</sup> (द्वान्-आ)द- -णन्तधावन-प्रक्षालना( न-अ)म्यजनो(नन्ड) पानन्-उग्र-वर्जिन्- -जीं वाय ७, १५.  
 ख-द- पाधा. जुवा. उम. भेदने. ख-द<sup>१०</sup> (द्वान्-आ)द- (> खद<sup>१</sup>, खान्-व- पा.) पाग ४, २, ८१.  
 ख-द<sup>११</sup> - पाग ४, १, ११०.  
 ख-द<sup>१२</sup> - पाग ४, १, ११०, २, ५४<sup>१</sup>; ८०; १३८<sup>१</sup>; ३, १०६.

a) = ख-ग- उय. अच् प्र. उयं. (पा ३, २, ४७) । b) विप. । उत. उय. < ख-द (आच्छादने) । c) = [म्योमरिष्यत-] वायुनय-रारी- । d) अतरीरिणः इति Br. । e) व्यु. पाठे. च वैग १, १३०३ R, S द. । f) = ख-व इति [पक्षे] पाणि. प्रसू. । g) वैग १ द. । h) भाय. पाठः । i) तु. टि. विद्यावोज- । j) तु. पागम. । अर्थः व्यु. च १ । k) व्यप. । व्यु. ? । l) = पक्षि-विशेष- । व्यु. ? । m) भोजमते (तु. पागम.) । n) तु. भायडा. । o) तु. पाणि. । p) तु. पाचा. । ख-द- इति भायडा., ख-द- इति पागम. । q) = पयङ्- । व्यु. ? । r) तु. पक्षा. पागम. च । = वृणुजाति-विशेष- । व्यु. ? । s) खादायन- दयन्मः इति पागम. । t) खादायनि-, खादायनी- इति पाधा. ।

साहायनक- वा ४, २, ८०<sup>३</sup>.  
 साहायन-भग- वा ४, २, ५४.  
 साहाययिन्- वा ४, २, १०९.  
 साहाययि- वाग ४, २, १२८.  
 साहायनीय- वा ४, २, १३८<sup>३</sup>.  
 सखण्ड<sup>३</sup>- (> साखण्डक- वा.) वाग ४, २, १२७.  
 सखडि<sup>३</sup>- (> साखडि<sup>३</sup>- वा.) वाग ४, २, ८०<sup>४</sup>.  
 साडिम<sup>३</sup>- (> साडिम- वा.) वाग ४, २, ८०<sup>३</sup>.  
 खडू- पाउ १, ८२.  
 †खडूर- पाउभो २, १, ५७; -रे कम ११, १; कर्षे ३: ४९.  
 खडूर- (> साडूरे- ) खडूर- रि. द.  
 खडूरक-> खडूरक-) खडूरक- रि. द.  
 खडूम(क>)सा<sup>३</sup>- (> साडूम- सेय- वा.) वाग ४, २, १२३.  
 खडू<sup>३</sup>- पाउ १, १२५; -द्वगः बीडू २, ११: १५; -द्वगः का ४, १, १२<sup>३</sup>; १३<sup>३</sup>; १४; २३, २, १; १, १; २; १३, २; -द्वगः का १, ४४, ४; ४५, १; -द्वगः का १, ८६; १७, १, ५; ७<sup>३</sup>; ४, ८; ७<sup>३</sup>; १, ५; रिग ८०, १४; -द्वगः का ७<sup>३</sup>; ११, १३; -द्वेन बीडी २, ५; ६<sup>३</sup>; वाग १४, ४७; रिग २७, १३; -द्वेन संय ११६; ८<sup>३</sup>; २८१.

साहूग- -द्वेन रिग ७२, २४<sup>११</sup>.  
 साहूग-कच- -यः का: १ १४, १३, २०.  
 साहूग-द्वय-द्वेनाग्नि-तिष्ठ-निष्ठा- धंका(द-म)क्षत्र- -गानि रिग ७२, ११.  
 साहूग-वाच- -गानि रिग ७२, २२; -द्वेन संय ११६; ७१; ११७.  
 साहूग-प्रभृति- -नीति का १८<sup>३</sup>, १९, १.  
 साहूग-नीय- -द्वेन कागच २, १७, १; द्विष २, ५, २८.  
 साहूग-द्वग-सहित-मेघ-वराह-द्वयग- तास-बोदिग-साहं-पितृति- कयोप-कविज्ञ-क-वाधाय- -नाताम् बीडू २, ११, ५३.  
 साहूग-यंत्र- -गानि बीडू १, ५, १३१.  
 साहूगे(द्वग-३)सगद- -ले कागच २, १७, १; द्विष २, ५, २८.  
 साहूडू- पाउ १, ८२.  
 साण<sup>३</sup>- (> साण- वा.) वाग ४, १, ११२.  
 ✓खण्ड<sup>३</sup> वावा. ध्वा. काय. गये. गुरा. उम. मेरुदे.  
 खण्ड<sup>३</sup>- वाग २, ४, ११; ४, २, ८०<sup>१०</sup>; १०; १२७<sup>३</sup>; १३३<sup>३</sup>; १३४; ५, १, १२३; २, १६; -यः तांभी १६, १८, १८; गीवि २, ४, १०; -ण्डम् काण्ड २, १६; बीडू २: १०; द्विष १, ३७; वा

३, १-४<sup>३</sup>; -गंवा: कागपी १७, २२, ५; ६२, ४, १४; गीडी १७, १: १४३; रिग १२, १, २६; -यः कागपी १६, ११, ९; बीडू ७: १; -द्वेन कागपी ३, २४, १४; द्विष १, १, ११.  
 साडी- वा २, ४, ११<sup>३</sup>.  
 साण- वा ४, २, १३३.  
 साणक- वा ४, २, १३४.  
 साणक- वा ४, २, ८०<sup>३</sup>; १२०.  
 साणक(व>)नी-> नीय- वा.) साणक- रि. द.  
 साणक- वा ४, २, ८०<sup>३</sup>.  
 साणक-द्वग-वर्धम् सापी ६, १, ४, १६.  
 साणक-ग-> साणक-व- वा ५, १, १२३.  
 साणक-वाणु<sup>३</sup>- -गो रिग ९८, ७३.  
 साणक- वा ४, २, ८०<sup>३</sup>.  
 साणक-वाणु (:) वेग ८.  
 साणक(व-क)गिन्-> नीय- वा.) साणक- रि. द.  
 साणक- वा ५, २, १६.  
 साणकम्- वा ५, १, १२३.  
 साडीय- वा ४, २, १०.  
 साणक-> वा. काक- क: दीप ३७३: ८.  
 साणक<sup>३</sup>- वाग २, ४, ११.

- a) = देव-विभोर-१।  
 पाणि. । c) कर्षे: भु. वर १।  
 खण्डिय- इति भाष्य।  
 (द. वागम.) । h) = कवि- विष्टे वेन १ द. ।  
 f) खण्डेन इति बीडू । k) द. वाका. । खण- इति भाष्य।  
 m) कर्षा. । = साण- । n) कर्षे: । साण साण- बीडू- इति वावा., साणकीय- इति वागम. ।  
 o) वृ २०० । द. । p) द. वागम. । q) विर. । वग. । r) = साण- इति वागम. ।  
 b) = देव-विभोर- । भु. ! । खण्ड- इति (७०) पाठ., खण्ड- इति भाष्य।  
 d) खण्डक- इति वागम., खण्डक- इति पाठ. । e) द. वाका.,  
 f) वेन १ द. । g) खण. । भु. १ । खण्डेन इति कनकतडी  
 h) खण. खण्डेन <> खण्डेन इति पाणे. ।  
 i) वा ३, १० पराण्ड: द. ।  
 j) वा २, १० पराण्ड: द. ।  
 k) द. वाका. । खण- इति भाष्य।  
 l) वा २, १० पराण्ड: द. ।  
 m) कर्षा. । = साण- । n) कर्षे: । साण साण- बीडू- इति वावा., साणकीय- इति वागम. ।  
 o) वृ २०० । द. । p) द. वागम. । q) विर. । वग. । r) = साण- इति वागम. ।

खण्डिक- पाग ४,२,३८०; ४५०;  
 ८००; ५,१,१२८; -कः बाधूथी  
 ३,४६ : ३०; -कस्य बाधूथी ३,  
 ४६ : १५०.  
 १ खण्डिक- पा ४,२,३८; ४५.  
 २ खण्डिक- -कम् वीथी १७,  
 ५४ : ५; -केचः गोष्ट ३,३,८.  
 खण्डिकीय- पा ४,३,१०२.  
 खण्डिकेय- -याः चव्यु २:१४; १५  
 खण्डिकेयौ (य-औ) खिय-  
 -यानाम् माम् ३,३,६.  
 खण्डिक्य- पा ५,१,१२८.  
 ईखण्डित- ✓खण्ड् द्र.  
 रखण्डित- (> खण्डित्य- पा.)  
 खडिव- टि. द्र.  
 खण्डिन- (खण्डिनि- पा.) पाग  
 ४,२,८०.  
 खण्डिमन्- ✓खण्ड् द्र.  
 खण्डिल- -कस्य माष्ट १,६,३३.  
 खण्डीय- ✓खण्ड् द्र.  
 ईखण्डु- पाठो २,१,१११; पाग ४,  
 २,७७,८०.  
 १ खण्डव- पा ४, २, ७७; -वे  
 वीथी १७,१८ : ८.  
 खण्डवक- पा ४,२,८०.  
 रखण्डु- > २ खण्डव- -वम् विप  
 ५१,३५.  
 १ खण्डवला- -० ला ३६ इ अन्न ४,  
 १५; शीव १,१६; १०५.  
 ✓खद् पाधा. भ्वा. पर. ईधैँ हिंसाया  
 भक्षणे.  
 खद् (> खद्य-पा.) पाग ५,१,२.  
 खदा- -दायाम् कौष्ट २४,२५; ३८.

७; ४५,१.  
 खदाशय- -यस्य कौष्ट ४६,३३.  
 खदिर- पाठ १, ५३; पाग ४, १,  
 ११००; २,८००; ९०; ३, १३१;  
 ५, २, २४; ६, ३, ११८; -रः  
 बाधूथी ४,६४<sup>१</sup> : २; वैथी; -रम्  
 अता २१, ४; -रस्य द्राथी ५,  
 २,२; लाथी २, ६, १; वीष्ट १,  
 ९, ३१; शाष्ट १,१५,१०१; अष्ट  
 ३६,२,४; माति ४,१.  
 खादिर- पा ४, ३, १३९; -रः  
 काथी १, ३, ३३; आपथी; -रम्  
 आपथी १, ५, ६××; काठथी;  
 -राः शाथी १६, ३, २××;  
 आपथी; -राणि आपथी १,१५,  
 १३××; भाथी; -रान् वीथी  
 १५, १४ : २××; गोष्ट; -रे  
 आपथी १९, २२, १३××; वीथी;  
 -रेण काथी ८, ३, १२××;  
 बाधूथी; -रैः आपथी २०, १०,  
 ५; वाथी ३,४,२,४; हिथी १४,  
 ३, २; -रौ अष्ट २२,६,५  
 खादिरी- पाग ४, २,  
 १७; -री वीष्ट १,३,१३; -रीः  
 निष्ट १,११ : ७; अता २१,३१;  
 -रीम् काथी १५,७,१; आपथी,  
 -र्यां माथी ४,१,१०.  
 खादिरेय- पा ४, २,  
 ९७.  
 खादिर- -य (त्रि-अ) क-  
 समिध्- -मिधाम् अष्ट ३६,  
 २४,२.  
 खादिर- पालामा(श-अ)

खाम- -भे गोष्ट १,५,१६.  
 खादिरा(र-अ)धि- -औ अष्ट  
 ३१, ९, ४.  
 खादिरी(र-औ)दुग्धर- -रान्.  
 काथी २, ८, १.  
 खादिरक- पा ४,२,८०<sup>३</sup>.  
 खादिरायण- पा ४,१,११०.  
 खादिरक- पा ४, २, ८०<sup>३</sup>.  
 खदिर-कुण- पा ५,३,२४.  
 खदिर-बिल्व-रौहितक- -काथी  
 ६, १, ९.  
 खदिर-व(त् >) खी- पा ६, ३,  
 ११८.  
 खदिर-वद्-वत- -वम् गोष्ट ४,  
 ८, १२.  
 खदिरा(र-अ)दि- -दीनाम् अष्ट  
 ३६,७,१.  
 खदिरा(र-अ)भाव- -वे काथी ६,  
 १,१०.  
 खादिरीय- पा ४,२,९०.  
 खदुर- (> खादुरेय-) खदुर- टि. द्र.  
 खदुरय- (> खा-पा.) कदुरक- टि. द्र.  
 खद्योत- रख- द्र.  
 ✓खन् पाधा. भ्वा. पर. अन्तराणे,  
 खनति काथी २, ६, १××;  
 आपथी; खनन्ति शाथी १३, २९,  
 ६; १७, ५, ८; काथी २४, ५,  
 २९; आपथी, १ खनानि आपथी  
 ११, ११, ६; वीथी ६, २८ : ११,  
 वैथी १४, ७ : ९; हिथी; १ खना-  
 मसि कौष्ट ३३, ९<sup>३</sup>; ४०, १४;  
 खनन् वीथी १०, ६ : ९१; खन  
 वीथी ४, २ : ३३; ६, २६ : ६१;

a) वस्रा. । नाप. । व्यु. ? । b) तु. पागम. । = कलाय- । c) \*का- इति पाका. । d) पृ ९६१ d  
 द्र. । e) व्यप. । f) व्यप., नाप. । g) अर्थः व्यु. च ? । h) खण्डित- इति भाष्यम् ? ।  
 i) तु. भाएज. । रकण्डु- इति [पक्षे] पाका. । j) = वन-विशेष- । k) = देश-विशेष- ? । l) वैप १ द. ।  
 m) = हितक- (तु. पागम.) । n) = गर्त- । व्यु. ? < ✓खद् इति MAW. । o) अर्थः ? । p) विप., व्यप-  
 (नगर- [पाग.]) । q) या ३, १३ पा ३, २, ६७; ६, ४३; ४३; ९८ परागृहः द्र. ।

१३१; २२; वैश्री; खननवात्  
आश्री ३, ३, १; शाश्री ५, १७, ७;  
आपश्री ७, १६, १; वीश्री;  
कखनत् कीम् ३३, १; ४०,  
१४१; अर्प २ : ३२१; खनेत्  
आपश्री २, ३, ६; वीश्री २२, १ :  
१३; २४, २४ : १४; २६, २४ :  
२; भाश्री; खनेयुः साश्री १०,  
१५, १७.

खन्वात् दाण ३, ५, ६.  
खावत् वापुश्री ४, २६ : २६.  
खानयति वीश्री ४, २ : ३४; ६,  
२५ : १३-१६××; वैश्री १८,  
१ : ८०; खानयति वीश्री  
१०, १९ : ११; १८; १२, १ :  
१८; आश्रित ३, ८, १ : ३२;  
वोषि १, १५ : ११; खानयेत्  
शाश्री १७, १०, २; ४; आश्र ४,  
१, ६; गोश्र ४, २, १६; औश्र.

खनक-पावा ३, १, १४५; -कः वैष  
३, १५, ८; -फाल वैष ३, १५, ९.

खनन्-नन् वैष ३, ४, ३; माशि  
१६, ७; याशि.

खनति-> शक्ति-कर्मन्-मां या २,  
२६.

खनत-नः याश्री १, ६, १, २५;  
-नम् वैश्री १४, ४ : १३, वैश्र  
५, १३ : १३; -नात् आपश्री २,  
३, ६; वीश्री २०, ६ : ३०; वैश्री;  
-ने वीश्री २२, १ : १२; अर्प  
४८, ४६.  
खनन-लोविन्-व्यो वैष ३, १५,  
८.  
खनन-पुरी(प>)या<sup>०</sup>-प्याम्

भाश्री २, ३, १.  
खनन-मन्त्र-न्त्रम् भाश्री २,  
३, २.

खनना(न-ञ)न्यसृत्पूरण-नोवास्-  
का(क-रशा)स-व्यैः वैष ३,  
४, ३.

खनना(न-ञ)र्थ-र्थम् वैश्री  
११, ७ : १३.

खनातक-केन आपश्री १७, २६,  
१७.

खनि-पाठ ४, १४०; -निः वीश्री  
२२, १ : १०१; -निम् आपश्री  
२, २, ३१.

खनित्व-ना कीम् ३३, ९; -तारः  
कीम् ४०, १४.

खनित्व-पा ३, २, १८४; -त्रेण  
आपश्री १७, २६, १५; हिश्री १७,  
१, १३; लाश्री ८, २, ४१; माशि  
१६, ७; याशि २, १११; नाशि  
२, ८, २७.

खनित्वि(य>)मा<sup>०</sup>-माः  
अप्रा ३, ४, ५.

खनिषा वैश्री १३, १ : १०; वैश्र.

खनित्व-व्यन्तः आपश्री १५,  
१, ७××; हिश्री ११, १४.

खन्-पा ३, १, १२३.

खत्-रः वाश्री ३, २, ७, १३;  
काश्र ७, २१; २२; ३८; शाश्र ४,  
१७; -रम् आश्री ४, ६, १; ७, ४;  
५, ३, १७; काश्री ८, ५, २५; १४,  
१, १८; १२, २, ७; आपश्री १३,  
१३, ८××; -रयोः काश्री १२,  
२, १६; -रस्य वीश्री ७, २ :  
८××; -राः काश्र ६५, ४;

-रात् भाश्री ५, २, ४, १०; -रम्  
आपश्री १५, ६, २०; भाश्री ११,  
६, १५; वैश्री; -रात् आपश्री  
११, ७, ८; -रे काश्री १०, ६, ४;  
२५; १४, १, २६; २५, १२,  
१०××; वाश्री ३, १, १,  
४१; -रभ्यः आपश्री १५,  
५, २०; वीश्री २, ५ : ९;  
१३ : ३; भाश्री; -री शाश्री ५,  
१, ४; काश्री १२, २, ३; २६, २,  
३०; ७, ३०; आपश्री १५, १३,  
७; १४, ५; वीश्री २, १३ :  
७; १४ : १४; भाश्री.

खर-काल-ले आपश्री १८,  
१, ११; वैश्री १७, ७ : ९.

खर-देश-ने भाश्री ४, १, २१;  
६, १, २, १४.

खर-पाशु-सूत्र पैताश्री १६,  
२३; हिश्री २, ५, १२.

खर-सत्य-प्ये काश्री १४, २, ६

खर-श्रोणी-प्याम् वीश्री ७,  
२ : १३; १४.

खर-स्थान-मयूख-कृष्णातिना-  
(न-ञ)भ्युपशाय(य-आ)सन्दी-  
न्दीनाम् काश्री २६, ६, २७.

खर-होम-मात् हिश्री ३, ३, १७.

खर(र-ञ)स-से वैश्री १५,  
२ : ११.

खरा(र-ञ)न्त-न्ते वैश्री १५,  
२ : १४.

खरा(र-ञ)र्ष>यां-याः  
काश्री २६, २, २३.

खरो(र-ञ)खर-पूर्वा(वै-ञ)-  
र्ष-वै काश्री २, २, २.

a) क्लृप्ति भवेत् स प्र. b) विष. । वत. । c) = खनित्र- (दृ. तां १६, ९, ५) । आकृषः प्र. उच्यं.  
(पाठ ३, ८२) । d) वैष १६. । e) = रण्डिल- । खरः प्र. (पावा ३, १, २५) । f) खरे इति पाठः ? यनि-  
नोवाः ( दृ. सप्र. काश्री १४, १, १८ इदंरुद्धैः टि. च ) । g) पय. > दस्य. > पय. सूय. = स्थण्डिल, उग्र-  
= ईशान-लोण-१

खतो(र-उ) चरा (र-ञ)ध-  
काथी ८,७,१३.  
खतो(र-उ)परवो(र-उ)तवेदि-  
दिम् माथी २,२,४,१२.  
खात,ता- -ता: निप ३, २३<sup>१</sup>०;  
-तम् लाथी ३, ११, ११<sup>१</sup>; कप  
१, ८, १३; -ता थापथी ८,  
१३, ४; -ते शीथी ४, १५, ८;  
काथी १६, ८, १९; माथी; -नेन  
अप २३, २, २.  
खात-क- -कम् अप ३१, ५, ४.  
खात-द्व-न-डिवा (स-अ)वहन-  
पिष्ट-दुध-दग्ध- -धेषु काथी  
१, १०, १२.  
खात्र- पाठ ४, ११२.  
खात्वा काथी १०, २, ७; २१, ४, १९;  
आपथी २५, ८, ३४; काठथी.  
खानयित्वा औथी ११, २ : ९; १६,  
२० : १०; कौथ  
खान्य- पा ३, १, ११३; -न्यम्  
लाथी ८, २, ४.  
खान्या(न्य-अ)मात्र- -ने लाथी  
८, २, ५  
खेय,या- पा ३, १, १११; -या  
बौथी २४, २४ : १०; ११<sup>१</sup>;  
-याम् बाथी १, ३, १, ४५.  
खासायितुम् पावा ६, ४, २२.  
खासायित्- -ता पावा ६, ४, २२.  
खन्- > खन-खन्- -ननाय अप  
३६, १, १७; २४, १.  
खनन- प्रथ. ✓खन् द.  
खपुर- > ख- (त >)थी- पाग ६,  
३, ११८.

खमूर्तिमत्-, १ख-२- २ख- द.  
खखर- ✓खन् द.  
खखर- > खर-ता- -ता वैष्ट ३, १० :  
२.  
खखर,रा- पाग ५, १, २; पावा ५, २,  
१०७; -रात् काथी १६, २, १०;  
-रेण विध ५४, २३; -रैः अप  
६१, १, ७; ६४, ७, ५.  
खरी- > ख(री>) रि-धम-,  
ख(री>) रि-धय- पावा ३, २,  
२९.  
खर-कण्ट- -ण्टः सु २३, ४.  
खर-कर्म-महिप- -पाः अप ६७,  
७, ३.  
खर-कर्म-सु( ख > )खा- -खा  
अप ७०<sup>१</sup>, ११, २६.  
खर-कुटी- पा, पाग ५, ३, ९८.  
खर-णस-, -स- पावा ५, ४, ११८.  
खर-नादिन्- पाग ४, १, ९६.  
खाना,णादि- पा ४, १, ९६;  
-द्वयः बौथीय १७ : १३.  
खर-पान- -नम् शोध ३२५<sup>१</sup>; सुध  
५१.  
खर-वध- -धे विध ५०, २७.  
खर-वृषो( प-उ)ट्टा( ट्ट-अ)ध-  
-आम् अप ७१, ७, ५.  
खर-शाल- पा ४, ३, ३५.  
खर(र-अ)त्रिग- -नम् आपध १,  
२८, १९; २१, द्विप १, ७, ५४;  
५७.  
खर(रा-अ)भिगमित्- -मी शोध  
३५८ : ७.  
खर(र-अ)रोहण- -णम् शोध ३१३.

खतो(र-उ)ट्ट- -ट्टम् शोध ३०५<sup>१</sup>;  
-ट्टाः अप ७१, ३, ५.  
खतो(र-उ)ट्ट-काक-मांसा(स-अ)  
धान- -ने विध ५१, २६.  
खतो( र-उ)ट्ट-द्वय-मात्र- -ताः  
अप ७०<sup>१</sup>, ११, ४.  
खय- पा ५, १, २.  
खखर- -रे अप ४८, १०६.  
खरप- पाठमो २, ३, २१२; पाग २,  
४, ६३; ४, १, ९९.  
खारपायण- पा ४, १, ९९.  
खरीखन्<sup>१</sup>-, खरीजह<sup>१</sup>- पाग २,  
४, ६९.  
खर- पाठ १, ३६.  
खर-संयोगोपध-प्रतिषेध- -धः  
पावा ४, १, ४४.  
खरोम- -नाः बौथीय ४१ : १५.  
खरग( ल > )ट्टा- -ता अप ४८,  
११६; -लाः कौम् १०७, २.  
✓खजूर पाधा. अत्रा<sup>१</sup> पर. पूजने,  
खजूत् माथी ६, १, ४, ३०.  
खजूत्- -जैति काथी ८, ४, ४; १६-  
६, २०.  
खजू- पाठ १, ८०.  
खजूर- पाठ ४, १०.  
खजूर- > ख-मानस- -से विध  
२२, ८३.  
खजूर-कर्म- (> खजूरकर्म- पा. )  
पाग ४, १, ११२.  
खजूर-सकु- -सचः आपिथ २, ५-  
१० : ३; ११ : ३; १६; -तूत्  
आपथी १९, २६, १; बाथी १,  
७, २, २३; द्विथी २२, ६, ६;

a) वै १ द. । b) = कृन्-नामन्- । c) पामे. वृ ४८४ क द. । d) = चानिन्- । e) = शब्दानुकरण- ।  
 व्यु. ! । f) = कृन्-ध- । व्यु. ! । <ख- + ✓पृ इति अना । g) = क्योर- । व्यु. ! । h) वै १, १२०१ f द. ।  
 i) = सर्व-विशेष- । वस. । j) = नाभित-शाला- ( तु. पागम. ) । k) बौथी. पाठः । l) व्यप. । उस. ।  
 m) = द्विप- । व्यु. ! । n) व्यप. । व्यु. ! । o) तु. पागम. । p) व्यप. । ख<sup>१</sup> इति पाद्य. । g) = कृपि-विशेष- ।  
 व्यु. ! । r) कृजने शृतिः । s) विप. । विकारायं प्र. । t) व्यप. । वस. ।



आमिष्ट २,५,१० : १७.  
 २खञ्जूर<sup>१</sup> - (> खञ्जूरायण- पा.)  
 पाग ४,१,११०.  
 ✓खर्द<sup>२</sup> पाषा. भ्वा. पर. दन्धशक्रे.  
 ✓खर्च<sup>३</sup> पाषा. भ्वा. पर. गती.  
 ✓खर्च<sup>४</sup> पाषा. भ्वा. पर. द्वे.  
 १खर्च<sup>५</sup> - भे: बौध १,७,३६; -बेण  
 बौध १,७,३५.  
 ख(र्ष-क>)विष्का<sup>६</sup> -काम् आपभ्रौ  
 २४,२,२३१.  
 खर्षि (त>) पा<sup>७</sup> -नाम् कय २,  
 ६,१०.  
 ✓खल्<sup>८</sup> (बधा.) पाषा. भ्वा. पर.  
 संचये.  
 १खल्<sup>९</sup> - पाग २, ४, ३१; ५, १,  
 १०८; पाषाग ४, २, ५१; -लः  
 आभ्रौ ७, ७, १४; काभ्रौ २२,  
 ३, ४३; आपभ्रौ २२, ३, ४;  
 ४, ९; अथ ११, ३१; या ३,  
 १०४; -लम् वापृथौ ४, ६४<sup>१</sup>;  
 ६; -ले हिप्रौ १७, १, ४२; २,  
 १८; लाभ्रौ ८, ३, ५; पाठ २, १७,  
 १६; अथ ४८, १०५<sup>१</sup>; निघ २,  
 १०<sup>१</sup>; या ३, १०<sup>१</sup>; -लेपु  
 अथ ५८<sup>१</sup>, ४, ४.  
 खालिक- पा ५, ३, १०८.  
 खल-क्षेत्र- त्रेपु बौध १, ५, ५५.  
 खल-माला-> खलि(रु>)मी-  
 नीम् पाग २, १७, ११<sup>१</sup>.

खल(ल-श)जिन<sup>२</sup>- (> नीय पा.)  
 पाग ४, २, १०.  
 खलि(रु>)नी- वा ४, २, ५१;  
 पावा १, ३, १०; ४, २,  
 ५१.  
 खले-बुल, त<sup>१</sup> स<sup>१</sup> - पाग २, १,  
 १७.  
 खले-यव- पावा, पाग २, १, १७.  
 खले-वाली<sup>३</sup> - लो आभ्रौ ७, ७, १५;  
 काभ्रौ २२, २, ४७; आपभ्रौ २२,  
 ३, ७; बौधौ २६, ३२ : १६, १७;  
 हिप्रौ १७, १, ४५; २, १८; लाभ्रौ  
 ८, ३, ६<sup>१</sup>; -लीम् बौधौ १८,  
 ३१ : ४; -लया काभ्रौ ३८ :  
 २.  
 १खलय- पा ४, २, ५०; ५, १, ७.  
 २खल<sup>४</sup> - पाठना ५, ८३.  
 ३खल<sup>५</sup> -> खली<sup>६</sup> - पागम ५७.  
 खले (ल-रु)टका- का: अथा १३,  
 २.  
 खलकुल<sup>७</sup> - लान् बौध ८२, १८;  
 -लै: अथ १, २१, १.  
 खलत- पाठ ३, ११२; पाग २, २,  
 २८; ३, ४, ७४; -ति: राभ्रौ  
 १६, १८, १८; बौधौ १५, ३७ :  
 २; १८, १ : ५; शंष ३७७ : १;  
 -तिम् आपभ्रौ २०, २२, ६,  
 हिप्रौ १४, ५, ४; -ते: वाभ्रौ ३.

४, ५, १७.  
 खलतिन्<sup>८</sup> - तिन: अथ ६८, १,  
 ११.  
 खलतिक<sup>९</sup> - पावा १, २, ५२.  
 खलतुल-प(खं >) जी<sup>१</sup> - जीम्  
 बौध २२, १५.  
 खलीन<sup>२</sup> - पाठभ्रौ २, ३, १५७<sup>१</sup>; पाग  
 २, ४, ३१.  
 खलु<sup>३</sup> आपभ्रौ ८, १, १३; २१, ५, ४४;  
 बौधौ; या १, ५<sup>१</sup>; १३, १३; पाग  
 १, ४, ५७.  
 २खल्य<sup>४</sup> - ल्यका- (यक. > खलया-  
 यनि- खल्यकायनि- पा.) पाग  
 ४, १, ५४.  
 १खल्य<sup>५</sup> - पाठभ्रौ २, १, २९<sup>१</sup>; -ल्यन्  
 बौध ८२, १८.  
 खल्य (ल-शा) दि- श्नीनि बौध  
 २७, २६.  
 २खल्य<sup>६</sup> -> खलयायनि- नयः  
 बौधौ ४८ : ५.  
 १खल्यका<sup>७</sup> बौध ८२, १८.  
 खल्यका- खल्य- (> खल्य-  
 कायनि- खलयायनि- यक.)  
 खल्य- टि. प्र.  
 खल्यङ्ग<sup>८</sup> - ज्ञान् बौध २७, १४.  
 खल्यटा<sup>९</sup> - पाग ५, १, १२७<sup>१</sup>; -टः  
 शंष ३७८ : १०; विघ ४५,  
 २८.  
 ✓ख्व ✓खच् टि. प्र.

a) व्यप.। व्यु.। खञ्जूर- इति [पक्षे] भाष्ये। b) वैप १, १२७१ इ.। c) वैप १ द.।  
 d) = अमाताया-। e) खर्षिकाम् इति जीम. P.W. च। f) या ३, १० परासुष्टः प्र.। g) = संग्राम-नामन्-।  
 h) खलयायनि- इत्यन्याः इति पागम.। i) तु. पागम.। j) = काल-विशेष-। k) वैप २, ३६. द.।  
 l) = दुर्वन-। m) = तिल-कण, पिण्याक- [खल- नमा.] इति। व्यु.। n) तु. पा. ४, १, ४२।  
 o) = धान्य-विशेष-। व्यु.। p) मलयीयः इति प्र. उक्तं ( पा. ५, २, ११६ )। q) = पर्यत- वा वन-  
 वा। व्यु.। r) = भोषधि-विशेष-। व्यु.। पाठः ? खलुल इति बौधः ( तु. दादिलः )। s) = कविका-।  
 व्यु.। खलीन-इति अमा. श. ३, खलिन-इति शाकटापनः इति पागम.। t) < ✓खल् इति। u) व्यप.। व्यु.।  
 तु. पाका.। का- इति भाष्ये, ल्यका-, ल्यका- इति पागम.। v) अग्नि-विशेष-। व्यु.। w) अर्थः व्यु च ?।  
 = खल्य- ( खल्यङ्ग- [क्षुध्-नयण-] ) इति संस्कृतां ( तु. मूल )। x) पृ ४४६ इ.। y) = खलति-। व्यु.।

खश<sup>a</sup> -> खश-भद्र- -द्राः अय ५६,  
१,४.

ख-शया-, खशरीरिन्- २ख-द्र.

✓खपू पाघा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.

खष्प- पाठ ३,२८.

खस<sup>b</sup>- पा, पाग ५, १, १७३.

फूखा<sup>c</sup>- खाः अय ४८, ७६; निप १,  
१३; खाम् ऋषा ४, ६०.

खाजुरायण- खजूर-द्र.

खाजन- खजन-द्र.

खाज्जार-, खाज्जारायण- खज्जार-द्र.

खाज्जाल-, ख- , ह- खज्जाल-, ख- ,  
ह-द्र.

खाज्जुलायन- खज्जूल-द्र.

खाट<sup>d</sup>- -टः अय ४८, ७७फं.

खाटि- पाठ ४, १२५.

खाटूर- नाटूर-टि. द्र.

खाट्वरेय- खट्व-द्र.

खाट्वामारिक- खट्वा-द्र.

खाट्ण्डक- खट्ण्ड-द्र.

खाटायन- प्रय. २खड-द्र.

खाटायनि- (खाटायनीय- पा.)  
२खड-टि. द्र.

खाडिकि- खडिक-द्र.

खाडिव्य- खडिव-द्र.

खाडूरक- खडूरक-द्र.

खाडूरैय- २खडूर-द्र.

खाडोन्मत्तेय- खडोन्मत्ता-द्र.

खाड्ग- प्रय. खड्ग-द्र.

खाण- खण-द्र.

खाण्ड-, १-२खाण्डक- खण्ड-द्र.

१खाण्डय- १खण्डु-द्र.

२खाण्डय- २खण्डु-द्र.

खाण्डयक- १खण्डु-द्र.

खाण्डवीरण- (>खाण्डवीरणक-

पा.) खण्ड-टि. द्र.

खाण्डायनी-, नीय- खण्ड-द्र.

१-२खाण्डिक- प्रय. खण्डिक-द्र.

खाण्डित्य- २खण्डित-द्र.

खाण्डिनि- खण्डिन-द्र.

खात- प्रय. ✓खर-द्र.

✓खाट्<sup>e</sup> पाघा. भ्वा. पर. भक्षणे,

खादति आपथी १४, २९, ३१;

बौथी १०, ५९ : २४; भाथी;

खादति वाधुथी ४, ११८ : ९;

बौथि ३, ११, २; खादेव बौथी

२५, ३२ : ३६; २९, ५ : २१;

२३; वाधुथी ४, ११८ : ११;

आमिष्ट.

खादयति शंथी १४, २, १११;

खादयेव शंथ ३३१; शंथ २४,

१४; खादयेयुः आमिष्ट २, ५,

९ : १२; जैय २, ६ : १०.

खाद- -द्रम् आपथी २०, ५, १६;

हिथी १४, १, ४७,

खादक- वा ३, २, १४६, -कः विध

५१, ७४.

खादन्- -द्रतः विध ५१, ६२; -दन्

कौम् ३८, १७.

खादत > ०ठ-मोदता-, ०त-

वमता-, ०ता (त-श्चा)वमता-

पाग २, १, ७२.

खादति-> ०तिकर्मन्- कर्मा वा

४, १९.

खादस-> ०दोअ(र्ण)र्णो-

-र्णोः अय ४८, ७६; निप १,

१२.

खादित-> ०ता (त-श्च)र्ध- -र्धम्

शेष २२६.

खादितवद्- -वन्तः वा १२, ४२.

खादित्वा आपथी १५, २१, ७; बौथी  
२६, ३३ : १५; भाथी ११,  
२२, ९.

खादायन- खादायन-टि. द्र.

खादि-> ०खादिन्- -दिनम् आपथी  
२, १६, ७; भाथी ३, १३,  
१७.

खादिर- प्रय. खदिर-द्र.

खादूरक- खदूरक-द्र.

खानयित्वा, खान्य- ✓खर-द्र.

खाय-सेन<sup>f</sup>- -ने अय ४८, १०५फं.

खार- पाग ४, १, ४१.

खारी<sup>g</sup>- पा ४, १, ४१; -फ्रीम्

बौथी ९, ४ : ५; १०, ७ : ६;

आमिष्ट ३, ५, ७ : १८; -याम्

बौथी ९, ४ : २७; १०, ८ : १०; वैथी

१८, २ : ८; आमिष्ट.

खार(री>)रि-धम्-, धय-

पावा ३, २, २९.

खारीक- पावा ५, १, ३३.

खारी-विवध- -धम् बौथी

१६, ३० : ७.

खारीविवधिन्- -धी

बौथी १६, ३० : १.

खारी-होम<sup>h</sup>- -नः बौथी

१५, २० : ७; -मम् वाधुथी ३,

७८ : ४; ८३ : ६-८; १२; १५;

१६<sup>i</sup>; -मेन वाधुथी ३, ८३ :

८.

खारीहोमा(म-श्च)नुवाक-

-कान् वाधुथी ३, ८३ : १७.

खार-शत-> ०तिक- पावा ५, १,

५८.

खारणा, नादि- खर-द्र.

खारपायण- खरप-द्र.

a) = जनपद-विशेष- वा तद्वसिन्- वा । व्यु. १ । b) तु. पागम्. । c) वैप १ द्र. । d) = शव-  
शय्या- । व्यु. १ । e) पावा १, ४, ५२ पतायुष्टः द्र. । f) खारम् इति C. । g) संपाम-नामन्- ।  
h) = शवहोन- वा तन्मन्त्रानुवाक- (तेव ७, ५, १२) वा ।

खारित्रीवि<sup>०</sup> - अयः वीथीय १७:४.  
 खारी(री-र)ण्डव<sup>०</sup> - ण्डवम् वीथि १,  
 ६ : १३.  
 खार्जूर- , खार्जूरकण- १खार्जूर- द.  
 खार्जूरायण- २खार्जूर- द.  
 खार्दमायण<sup>०</sup> - णाः वीथीय ४१ : ७.  
 खार्दमायन<sup>०</sup> - नाः वीथीय ९ : १.  
 खार्दमायन<sup>०</sup> - नाः वीथीय ४३ : ४.  
 खालिक- १खल- द.  
 ✓खिद पाथा. भ्वा. पर. प्राप्ते.  
 ✓खिद ✓खिद टि. द.  
 ✓खिद<sup>०</sup> पाथा. दिना. रुपा. आत्म.  
 देव्येः तुदा. पर. परिपाते, खिदिनि  
 वाधुथी ४, ६४<sup>०</sup> : १२; कखिदन्  
 वाधुथी ४, ६४<sup>०</sup> : ११.  
 खिद- णाः कृते ४, २१.  
 खिद- दः वीथी २, ५ : ७<sup>०</sup>.  
 खिदा(द-क)नुकम्पा- ण्ययोः वा  
 ६, १७.  
 खिदन- नम् वा ११, ३७.  
 खिश<sup>०</sup> - वा ३, ३, १०४<sup>०</sup>; -दया  
 शेषि २२९.  
 खिशे<sup>०</sup> - दयः अय ४८, ११३;  
 निप १, ५.  
 खिदिर- वाउ १, ५१.  
 खिद्र<sup>०</sup> - वाउ २, १३; -नृम्य आपमं  
 २, १८, ९; वा ११, ३७.  
 खिल<sup>०</sup> - (> खैलायन<sup>०</sup> - वा.) पाग  
 ४, २, ८०.  
 खिल<sup>०</sup> - लः अय २०, १२७;  
 -लानि नम्र ३, ७; -ले आपथी

१५, २०, २; ८; २१, २; १०;  
 वीथी ९, १९ : ३; २४; २० : ५;  
 माथी ११, २१, २; ८; २२, ६;  
 १३; हिथी १०, ७, ६; भाय ३,  
 ६ : ३; १५; ७ : ८; -लेपु  
 कौय १४१, १८; नम्र ३, २६;  
 -ले अय २०, ४८.  
 खैलिक- कानाम् नम्र ३, १७;  
 -कैः नम्र ३, ३९.  
 खिव- (> खैवायन - ) पाग ४, १,  
 ११०.  
 खील<sup>०</sup> - लः आपथी ४, १२, ८;  
 माथी ४, १८, ४; वैथी ७, ६ :  
 १४; १२ : २; हिथी ६, ३,  
 १७; ४, १०; -लाः आपथी  
 २१, २०, ३; हिथी १६, ६,  
 ४१.  
 ✓खु पाथा. भ्वा. आत्म. गन्ते.  
 खुं शुभ ८, २४; कशि २, १८.  
 ✓खुज पाथा. भ्वा. पर. खेयकणे.  
 ✓खुइ पाथा. तुदा. पर. संकरणे.  
 ✓खुण्ड पाथा. तुदा. पर. खण्डने.  
 ✓खुद्<sup>०</sup> (= ✓खुर्द) > वनीखुदन्-  
 दन् आथी २, १०, १४<sup>०</sup>.  
 खोदन- नम् शांथी १२, २४,  
 ८<sup>०</sup>.  
 खुम् पाग १, ४, ५७.  
 ✓खुद् पाथा. तुदा. पर. छन्दने.  
 खुर्- > खुर्-खुर्- > ✓खुर्खुर्वाय  
 > ष्यमाण- णः वेष्ट ५, १, १६.  
 खुर्- वाउ २, २८<sup>०</sup>; पाग ४, १,

४५; ५६; -रैः काथी १९, ४,  
 १२.  
 खुर्- वा ४, १, ४५.  
 खुर्ण- (< न)म्, ष्य- पावा ५,  
 ४, ११८.  
 खुर्- > खुर्- - वीं वीथी  
 १८, २४ : १०.  
 ✓खुर् पाथा. भ्वा. आत्म. कीडायाम्.  
 खेचर- २ख- द.  
 ✓खेद पाथा. तुदा. पर. भवणे.  
 ✓खेइ ✓खेद टि. द.  
 खेड- (> खैडायन- वा.) पाग ४,  
 १, ११०.  
 खेय- ✓खय द.  
 ✓खेल् पाथा. भ्वा. पर. चलने.  
 खेल्- (> ✓खैलाय पा.) पाग  
 ३, १, ३७.  
 खेल्<sup>०</sup> - पाग २, ३, ३८.  
 ✓खेय पाथा. भ्वा. आत्म. सेवने.  
 ✓खै पाथा. भ्वा. पर. खन्ते.  
 खैम (य >) खा<sup>०</sup> - ष्यमाण अय  
 ४, १५; शीव १, १६; १०५.  
 खैलायन- १खिल- द.  
 खैलिक- २खिल- द.  
 खोः पाग १, ४, ५७<sup>०</sup>.  
 ✓खोद ✓खेद टि. द.  
 खोड<sup>०</sup> - पाग २, २, ३८.  
 खोदन- ✓खुव द.  
 ✓खोद, ल पाथा. भ्वा. पर. गति-  
 प्रतिपाते.  
 दिना शेषि २१३.

a) = अर्थ-विशेष- । व्यु. ? । b) अर्थः ? । द्रस. १, पृ. = [संभारार्थ-] पित्रक- इति, उप. 1 परि-  
 वेचनोपयोगिन्-] जाल- इति O. [डि. भू. XI] । c) वा ६, १, ५२; ७, १, ५१ पावा ६, १, १११ पताम्यः द. । d) वैप १ द. ।  
 e) तु. पागम. । f) = ररिन्- । g) अर्थः व्यु. च ? । h) = देश-विशेष- ? । i) वैप १, १२०-३ ई, ७ द. ।  
 j) पागे. वैप २, ३ खं. खीलः तेजा ३, ७, ९, १९ टि. द. । k) पागे. वैप २, ३ खं. कुनीखुव तेजा २, ४, ६, ५ टि.  
 द. । l) = शान्तावृत्ति- । व्यु. ? । m) = शक- । व्यु. ? । n) < ✓खुइ (छन्दने) इति । o) = खुराकति-  
 लोहमय-रथ- । व्यु. ? । p) निप. (उपागह- ) । g) = ✓खिद, ✓खिइ, ✓खोद इति MPD. । r) व्यप. १  
 व्यु. ? । खेट- इति MPD. । s) = खड- । व्यु. ? ।

✓ख्या<sup>१</sup> पाषा. अदा. पर. प्रकथने,  
 फलपत्र<sup>२</sup> काशी १६, २, १४;  
 २५, ३, १५; आपशी ९, १, ११;  
 ७, ६; १, १; १६, ३, ८; वीथी २,  
 १३: ९४४.  
 ख्यायते उतिस् ८: ३६; ख्या-  
 यन्ते या ३, २०.<sup>१</sup>  
 ख्यापयन्ति अर ६८, १, २५.  
 ख्यात- पा ८, २, ५७; -तम् वृदे  
 ६, १४६; आश्रयो ५, १; -जात्  
 अप ६४, १, ६.  
 ख्यातवत्- पा ८, २, ५७.  
 ख्याति- -ति: विध ९९, ५; -तौ  
 अत ३, ८, ६.  
 ख्याति-मरुत- -शेषु क्रमा ६,  
 ५६.  
 फूलगच्छ- -त्रे आपशी २०, १, १७;  
 वीथी १५, ३: ७; वाशी ३, ४,  
 १, ७; द्विथी १४, १, १२; पाषा  
 २, ४, ५४६.  
 ख्यात- -न्य या २, २; १२, १६;  
 -नेन या १२, २२.<sup>०</sup>  
 ख्यापयत्- -यत् अर ६९, ७, ५;  
 शंष ३७२: २; वृदे ५, ५१.

ग

ग<sup>१</sup> वि १, १०.  
 ग<sup>०</sup> > ग-क-घा(घ-घ)क्षर- -रा: शैशि  
 २५४.

ग-न्दा- -न्य या ७, १५.  
 गकार-लोप- -पम् निस् २, १०:  
 ११.  
 गकारा(र-ञ)न्त<sup>१</sup>- -न्त: निस्  
 २, १०: १०; -न्तात् अया २,  
 २, ५.  
 ग-ञ-ड-द-न्व- -या: वाशि २, १४.  
 ग-ड-द-न्व- -या: नाशि २, ४, १०.  
 ग-न- -नौ भाशि ६०.  
 ग-अतिविध- -भात् पावा ८, ४, ३.  
 ग-म- -मौ अया ३, २, १५.  
 ग-न्- -रौ माशि ८८.  
 र्गा<sup>१</sup>- -ग: वेजयो १८.  
 र्गा<sup>१</sup>- -नाशि १, ४, १२.  
 गगन<sup>१</sup>- पाठ २, ७७; -नम् निस् १,  
 ५: ६<sup>१</sup>, सु ४, २; अप ५०, ७,  
 १; ५८<sup>१</sup>, २, ४; ६८, १, ४६; -ने  
 विध ९९, ९.  
 गगलनस्<sup>१</sup>- -गा: वाधूथी २, १३:  
 ५.  
 गगला<sup>१</sup>- -न्ता: द्विथी ५, २, ६२<sup>क</sup>.  
 गङ्गा<sup>१</sup>- पाठ १, ५२३; पाग ४, १,  
 ११२: १२२; १५४; ५, १, २१<sup>०</sup>;  
 -द्वा शंष ४<sup>५७</sup>: ९; विध २३,  
 ६१; या ९, २६, याशि १, ३४;  
 -द्वाम् अर ४२, २, ४; शंष  
 ११६: ११; -द्वाया: काशी  
 १३, ३, २६; आपशी २१, २०,  
 ३; वीथी १६, २३: ४; वाशी

३, २, ५, ४३; द्विथी १६, ६, ४७;  
 वैताथी ३४, ९; विध २०, २३६;  
 -द्वायाम् जैथीका १९५; विध  
 ८५, १०; -द्वां अतिवृ २,  
 १, २: १२<sup>०</sup>; द्वि २, १, ३<sup>०</sup>; या  
 ९, २६; वीथि १३१.  
 गाङ्ग<sup>१</sup>- पा ४, १, ११२<sup>०</sup>; -द्वाम्  
 विध ६४, १७.  
 गङ्गायन<sup>१</sup>- -ना: बौधाय ९: २;  
 ४३: ४.  
 गङ्गायनि- पा ४, १, १५४.  
 गाङ्गिक- पाग ५, १, ३९.  
 गाङ्गेय- पा ४, १, २३<sup>०</sup>, -०य  
 वेष्ट ५, २: ५<sup>०</sup>; -या: बौधाय ३:  
 १२; -यै: वेष्ट १, ५: ३<sup>०</sup>.  
 गङ्गा-द्वा<sup>१</sup>- -रे शंष १९४; विध  
 ८५, २८.  
 गङ्गा-प्रवाह-वत् जैथीका ३.  
 गङ्गा(श-श)म्भस्व- -म्भसि विध  
 १९, ११; १२.  
 गङ्गा-रमुना- -नया अर ४०, ४,  
 ४<sup>१</sup>; -नयो: वाघ १, १२; वीथ  
 १, १, २६.  
 गङ्गा-सागर-सङ्गम- -त्रे विध ८५,  
 २८.  
 ✓गच्छ<sup>१</sup>, गम्<sup>१</sup> पाषा. भा. पर. गती,  
 गच्छते बौधाय २८, १३: २१;  
 गरुडति आशी २, ७, १७; शापी;  
 द्वि २, ३, ७<sup>०</sup>; गच्छत: बौधाय

a) = ✓गता, ✓क्ष, ✓चध् । या २, ३; ४, ३ क्रमा ६, २१ शुभा ४, १६७ अया ३, २, ११ पा ३, १, ५२ परावृत्त: द्र. । b) पाठे. वेष्ट १, १०८५ द्र. । c) 'येन इति शिव. १ । d) = गुल्-मावा- । e) = वरुण-विशेष- । f) वि. । व. । g) = मन- । h) गन्वर्धे- इत्यस्याय-वरुण- । री) वेष्ट १ द्र. । j) = इत-ल-दो-विशेष- । k) व्यप. । श्रु. १ । l) = पशदा- । m) सया, गला: <> यला: <> गला: <> यला: इति पाठे. । n) सङ्ग- इति पाठा. । o) सया. आपर्मे २, ११, १२ यमुने इति, आपर्मे २, ११, १२ पाए १, १५, ८ विकिरवच पाठे. । p) वि. (जटा-). तरुमेदमीय: प्र. । q) व्यप. । r) कक् प्र. उत्तं. (पा ४, १, ११०) । s) = तीर्थ-विशेष- । t) मलो. अ. । u) या ११, २४: २५ पा १, २, १३; २, ४, ४६; ४७; ४, १, ८५; ५, १, ७४; ६, ४, ४०; ६८; ७, २, ५८ पावा २, ३, १२; ३, १, ८६; ४, ४, १; ५, १, ७४; ६, ४, ४०; ७, २, ५८ परावृत्त: द्र. । v) 'येन इति पाठ: । मनि. शोष. (द्र. शैरुर्ध्व: टि., सया. गच्छति <> सर्पति <> गच्छन्ती इति च पाठे) ।

२४, ४ : १२, ४; गच्छन्ति शशी  
 ६, १२, १३; काशी; आपमं  
 २, १३, ११; गच्छथः अत्राय  
 ६, १; गच्छामि वीथी ३,  
 ५ : २१; गच्छति वीथि १,  
 ८ : ४; गच्छन् अत्र १, ३२,  
 ७; अत्रा ४, ७; गच्छासि<sup>७</sup>  
 आपमं २, २, ७; आसि १, १,  
 २ : ३०; ५, १ : २२, ४; वीथि;  
 गच्छतु आपथी ४, १२, ३;  
 वीथी १, १७ : २१; माथी;  
 गच्छताम् या १२, ४; गच्छतु  
 वीथी २, ८ : २७; वाथी; गच्छ  
 आथी ८, १३, १०; काथी;  
 आपथी ३, १४, ३०; पाथ १, ४,  
 १२; गच्छतम् आपथी ७,  
 २१, ३; ११, ७, २; वीथी;  
 गच्छतु शशी ७, १८, ९; आपथी  
 १३, ६, १४; वीथी; गच्छात्  
 मु ६, ५; अगच्छत् शशी १४,  
 १२, ३; वीथी २, ७ : २१, ४;  
 अगच्छत् वाथी ४, २६ : ८;  
 ५५ : ४, ७; निथ; अगच्छः भाथ  
 २, ७, १३; अगच्छतम् या १२,  
 २; अगच्छत् शशी १४, १२, २;  
 गच्छेत् अत्र १, ४९, ३; गच्छेत्  
 काशी १६, ६, ११; काशीसं, माथी  
 २, १, ४, ६; पाथ ४, १८;  
 गच्छेत्तुः काथी २, १, ४, २, ६,  
 ७; आपथी; गच्छेत्तुम् आपथी  
 १०, २०, १०; वीथी १८, ३० :  
 १०; १२, ४; गच्छेत्तु वीथी

१४, २१ : २, ४, ९, ११, १६.  
 गच्छि निथ २, १४; गच्छन्त  
 न्ता आप ३, ५, ७; वीथि ३, ७,  
 १०; पाथ ४, ५, ८.  
 गच्छि निथ २, १४; गच्छाम  
 हिथी १४, ५, ४; जैथीव १२;  
 आपमं २, ७, १५; गमेः अत्र ४८,  
 २; गमेय आथी १, १२, ५; ग  
 गमेयम् आपथी ४, १०, १;  
 वीथी; माथी १, ४, ३, १; शशी  
 २, २, ३; लाथी ३, ६, ३;  
 गमेय हिथी ६, ६, १७; वीथि  
 ७०, १.  
 जगति, जगन्ति निथ २, १४; ग  
 गच्छन्त माथी ३, ८, १; हिथी  
 १२, ६, ६; अत्राय ६, २; निथ  
 २, १४; वा ४, १४; ग  
 गच्छन्त आथी ८, ३, ३०;  
 अजगन्त या १३, ३; जगन्त्याम्  
 अत्राय ६, १.  
 गच्छाम आपथी ७, १८, ८;  
 वीथी; जगन्तुः वीथि ४, ७६; या  
 २, १; जगन्तुः आपथ २, १६, १;  
 वैथ; गच्छन्त आथी १०, ९, २;  
 शशी १६, ६, १; वेताथी;  
 गच्छन्ति आपथी २, २०, ७;  
 लुम्; गच्छन्ति वीथी १४,  
 ४०, १; गच्छन्ति पाथ ३, ७, २;  
 गच्छन्ति वीथी १४, ४५ : ६;  
 गच्छन्ति वीथी १६, १६ :  
 १०; गच्छन्त आपथी ४, १२,  
 ६; माथी १, ४, २, १७; गच्छन्त्या

हिथी १२, ६, ६; गच्छन्त  
 आपथी २०, १६, १६; वीथी १४,  
 ६, १५, ४; हिथी, गच्छन्त आपथी  
 ३, १३, १५; शशी २, ९, ७;  
 काथी; गच्छन्त काथी ३, ६,  
 १५; आपथी ३, ७, ९; वीथी;  
 गच्छन्त वीथी ७, १०, ९; गच्छन्त  
 शशी १५, ४, ७; लाथी ५,  
 १२, १५; अत्रायः या ४, १४;  
 गच्छन्त वीथि ३, २, ६; गच्छन्त पाथ  
 २, १४, ११; गच्छन्त आपथी  
 १०, ९, ४; हिथी १०, २, ७;  
 गच्छन्त आपथी २, ५, १२; शशी  
 ४, १२, ७; काथी ३, ८, १३;  
 १०, ९, ७; २५, ९, १५;  
 आपथी १८, ५, १४; माथी  
 २, ५, ४, ७; वैथी १७, १५ :  
 २; पाथ १, १०, १०.  
 जगन्त या १३, ३.  
 गच्छन्ति हिथी ३, ८, २६; वृथे;  
 गच्छन्ति या २, २; गच्छन्तम्  
 वृथे ८, १३५; गच्छन्त आपथी  
 २४, ३, ४०; तैथ; गच्छन्त  
 वीथि ८, ४, २५.  
 गच्छन्ति वीथी १४, १८ : २७;  
 माथी; या १४, ३०; गच्छन्तः तैथ  
 ४, ५, २; गच्छन्ति आपथी ६, १०,  
 २३; वीथी १८, १५, १८; वीथी;  
 गच्छन्त आपथी ३, ७, ३, १२,  
 ७, वीथी; गच्छन्त वीथी ६, ८, १;  
 आपथी ३, ७, २; वीथी; गच्छन्त  
 ताथ आथी ३, ३, १; शशी ५,

a) पामे. वृ ५८१ ज. १

b) पामे. वैप १, १२०६ ०८. १

c) पामे. वैप १, १२०५ ८८. १

d) पामे. वैप १, १२०५ ज. १. e) सप्र. गच्छन्त <> गच्छन्त इति पामे. f) पामे. वैप १, १२०७ ८८. १

g) सवा. आपथी ४, १३, ३; भूयासम् इति पामे. h) लघुतात्वीयः पाठः. i) पामे. वैप १, १२०५ [ ८. १

j) पामे. वैप १, १२०७ ज. १. k) पाठः ? l) पामे. वैप १ परि. आ... अतुः शी ३, १२, ७ डि. ८. m) पामे. वैप १, १२०८ ८८. १

n) पामे. वैप २, ३३३. अत्रः तैथ ३, ७, ३, ६ डि. ८. o) पामे. वैप १, १२०८ ८८. १

p) पामे. वैप १ परि. अतुम् सि २, ११, १ डि. ८. q) पाठः ? गच्छन्ति इति शोधः संभाव्यते. r) पामे. वैप १, १२०५ ८८. १

१७, ३; गमयन्त या १२, ४३; अगमयन् वाधूयो ४, ८८ : ७; गमयेत् आपयो ९, ११, १९; बीधो; बीधे ३, ९, ५८; गमयेयुः आपो ६, १०, २९. गमयिष्याथः वाधूयो ४, ७५ : १७. ऋगामय आपयो ९, ३, ७; माथी ३, २, १०; ऋग ९, ५०. तिगमियेत् दाथी ५, २, २४; लाथी २, ६, १७. अतिगामयन् तीग १६, १३१. जद्रन्ति निघ २, १४१.

गच्छ्-च्छतः दाथे १, ६, १; आप्रिष्ट २, ६, ५ : १०××; च्छताम् आपथी १४, ८, ६; १०, १२; द्विथी १०, ८, २४; च्छतोः निष् ६, ३ : १; च्छसु दाथी १३, १, ८; लाथी ५, १, ८; च्छत् आपथी ९, ३, २; १२, ५, १९××; च्छन्तः वृद्धे ५, ७१; या १३, ८; च्छन्तम् वृष्ट २, १८ : १५; गोवि १, २, १०१; वाध. ऋगच्छन्तो-न्ती आप्रिष्ट २, १, ३ : २३; न्तोः द्विथी १०, ४, ४५.

गच्छ्- पा ६, ४, ४०. गत, ता- नः आपथी ६, २, ९, दाथी; नम् आपथी ५, १९, ५; बीधो; तयोः काथीलं ३२:११; तस्य चाग्र ३०:१८; अग्र ९, २८; ऋता आप्रिष्ट २, ५, ६:१; विध १, ४५; वा २, ५, १४; न्ताः आपथी ५, ७, १०; वाधूयो; तानाम् बीधो २८, १०:४; अग्र ८, ११; तानि विध २३, ५३; या १०,

२६; १४, १९; -ताभिः बीध १, ५, १८; -ताम्याम् अग ६२, २, ६; -ताम् वृष्ट ५, १५:१७१; -ते दाथी २, ६, १३; बीधो; पावा ४, २, १०४; -तेन गु ८, ४; -तेषु दाथी १५, ४, ८; लाथी ५, १२, १५; बीधे १, ८, १०. गत-तम- नम् या ७, १३. गत-जाषोष्व- स्व्ये पावा १, १, ११. गत-अ (अ >) ता- जा बीध २, ३, ६३. गत-प्रयागन्, ता- पावा २, १, ६०; -ता बीध ४, १, १८. गत-भय- येन या ६, १२. गत-भाम- नम् या ६, ३५. ऋगन्-मनम्- न्ताः आपथी १३, १४, ४; बीधो ८, १४:१३. गत-मात्सर्व- यम् अग ६९, १, १. गत-श्री- श्रियः आपथी २, १, ३६; दाथी २, ६, ५; काथी ४, १३, ५; आपथी; -श्रीः आपथी २, १९, ३; ६, ४, १; १६, ९, ७, बीधो ३, ४ : १८; १०, १३ : १७; माथी. गग (त-अ) गत- पाग ४, ४, १९; तम् अग ५८, ४, १३; -तैः नाशि १, ४, ७. गातागतिक्- पा ४, ४, १९. गता(त-अ)घ (दि-अ) र्थ- यं पावा २, २, १८. गता(त-अ)ष्व- > ष्व- ष्वा गोष्ट १, ५, १०; -ष्वाम् अग २, ६, ९.

गगा(त-अ)गुगत- (> गातागु- गतिक्- पा.) वा ४, ४, १९. गगा(त-अ)भ्यस्त- र्त्तम् वेद्यो ४३. गगा(त-अ)गुष्ट- -युः अग ८, १; -युगाम् अग १७, १. गगा(त-अ)र्ध- पाग २, २, ३७. गगा(त-अ)गु- -मुम् आपथी १५, २०, १९; अग ७२, ६, ६; -ती वृद्धे ७, ८९. गगानु-र्धाम- नम् अग ३५, १, १३. गगो(त-अ)र्य- -रः वेधीका १६५. गतवत्- व्यन्तम् या १३, ८. गति- पाग ४, १, ४५; -तयः आपथी १२, ६, २५; -तिः आपथी १, ९, ५१; दाथी १, १४, १९; बीधो; ऋग १८, ५९; ऋग २, ३, ९; ३, ५, १०; -तिम् आपथी २, ७, १७; १०, ५, १६; वाधूयो; -तिषु दाथी ४, ६, १२; -तो वृष्ट ५, १:१२; -ती आपथ २, ४, २७; दुग २, ५८; या ३, १, २३; ७, २, ६३; ८, ३, ११३; गोष् ६, ५, ४६; १०, २०, ५५; -त्या माथी ४, ४, ४; मुष ६५. गती- पा ४, १, ४५. गति-र्यम्- -मैगः या १, ७; २०××; -मैगम् या १४, १२. -र्मा या २, २××; -मैगः निघ २, १४; या ३, ९. गति-कथ- स्व्यो दाथी १५, १, ११; लाथी ५, ९, ८. गति-कुम्भना- न्ता या २, ३.

a) पाठे. पृ १६९ ० द. 1      b) पाठे. पृ १६८ ४ द. 1      c) पूव. = वृत्त- (तु. पाठिवा.)  
 d) विघ. 1 वस. 1      e) = [चतुर्दशविद्धा-] अमावस्या- 1 वस. 1      f) अर्थः १!      g) पाठे. पृ १५४ द. 1

गति-चला-कर्मन्- -गिणः या  
 ४,३.  
 गति-चैष्ट-भाषिका(त-२आ)-  
 घ- -घम् विष २८,२५<sup>०</sup>.  
 गति-नुदि-प्रत्ययसामा (न-अ)  
 र्थ- > र्थ-प्रत्ययकर्मा (म-अ)  
 कर्मक- -काणाम् पा १,५,५२.  
 गति-नुदया(दि-आ)दि-  
 -दीनाम् पावा १,५,१.  
 गति-मत्- -मान् कौष ३, १२,  
 १२.  
 गति-युक्त- -केषु पावा १, ४,  
 २४.  
 गति-हिंसा(ता-अ)र्थ- -र्धेभ्यः  
 पा १,३,१५.  
 गति-दीन- -नम् अथ ६४,  
 ३,३.  
 गत्य(ति-अ)र्थ- -र्थस्य या १,  
 १७; -र्धेभ्यः पा ३, ३, १२९;  
 -र्धेषु पावा १,४,५२.  
 गत्य(ति-अ)र्थ- वा १, ४,  
 ६९; ८,१,५१.  
 गत्यर्थ-कर्मन्- -र्मणि वा २,  
 ३,१२.  
 गत्यर्था(र्थ-अ)रथैकं पा ३,  
 ४,७२.  
 गत्य(ति-अ)र्थैवाद्- -दात् मासु  
 ७,२,२४.  
 गत्या(ति-आ)नुपूर्व- -र्वेण  
 दात्री ३, ३, १७; दात्री १,  
 ११,९.  
 २गति- -तिः पा १,४,६०; ६,३,  
 ४९; ८,१,७०; पावा ६,२,४९;  
 ८,१,७१; -तेः पावा ६,२,४९;  
 ८,१,७०; -त्तौ वा ८, १, ७०;

पावा ६,२,४९; -त्योः वा ८,३,  
 ४०.  
 गति-कर्मप्रवचनीय-प्रतिषेध-  
 संप्रत्यया(य-अ)र्थ- -र्थैः पावा  
 ६,१,७३.  
 गति-कारक-पूर्व- -र्वस्य पावा  
 १,४,१३; -र्वे पावा २,१,४७.  
 गति-कारके(क-इ)तर-पूर्व-  
 पद्- -दस्य पावा ६,४,८२.  
 गति-कारको(क-उ)परद-  
 -दात् पा ६,२,१३९; -दानाम्  
 पावा ४,१,४८.  
 गति-ग्रहण- -णे पावा ८,१,५७.  
 गतिग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य-  
 -वयम् पावा ८,१,७०.  
 गति-व्य- -व्यात् पावा ६, २,  
 १३९.  
 गति-विद्यःकर्म-वैतुमत्- -मसु  
 पावा १,४,१.  
 गति-संज्ञा-संनियुक्त- -कम्  
 पावा १,४,७४.  
 गत्या(ति-आ)दि- -दिष्यः पावा  
 ६,२,१३९.  
 गत्यु(ति-उ)पसर्ग-सं(ज्ञा > )  
 झ- -ज्ञाः पावा १,४,६०.  
 गत्यु(ति-उ)पसर्ग-संज्ञा- -ज्ञे  
 पावा १, ४, १.  
 गत्यु- पाठना ४,११२.  
 गत्यर- पा ३,२,१६४.  
 नगत्या साधौ २, १४,४××; काधौ;  
 आपधौ १७,१४,९<sup>१</sup>; हिष २,१,  
 ९६.  
 गत्याय साधौ १२, २०, ५<sup>१</sup>; गु  
 ३१,९.  
 गन्तव्य- -व्यम् वैष ३, ७, ४;

आज्यो १०, ९.  
 गन्तव्य-व्यय- -व्यम् .पा ६,  
 ३,१३.  
 गन्तु- पाठ १,६९; -न्तुः वा ५,  
 १८.  
 गन्तुम् वाध २५, ७; वीध २, २,  
 ७७; आज्यो २,९.  
 गन्तु- -न्ता वा ५,१८.  
 गन्त्री- -त्री क्य ३, ३, ६.  
 गिगन्तोस(ः) आपधौ १४,१६, १;  
 वाधुधौ ३,४ : १२; हिधौ.  
 रगम्- पा ३,३,५८.  
 रगम्- पाठ ३,११३.  
 रगप्ये भाधौ ७,८,१०<sup>१</sup>.  
 रगप्ये वा २,७<sup>१</sup>.  
 रगन्- -न्तु काधौ १९, ५, ११;  
 कौधु; -नात् पाठ ३, १०, १०;  
 या ९, २६××; -नानि या ४,  
 ७; -नाय या २, ७; -ने काधौ  
 २५, ४, १७; कौधु ३, ९, ६०;  
 वीधु; -नेषु जेधौवा ४२; -नी  
 आपधौ १, ५, १; हिधौ १,  
 २,५४.  
 रगन्-यातिन्- -तिनी या ६,  
 ३३.  
 रगन्-वेधिन्- -धिनी या ६, ३३.  
 रगन्-स्युक्त- -कम् हिधौ ५,  
 ३,४८.  
 रगन्(न-अ)गमन्- -न्त् वीध  
 १,११,२१.  
 रगन्नागमना(न-अ)योग-  
 -मात् काध २८१ : ७.  
 रगन्वत्- -वत् अथा २,४,१५<sup>१</sup>.  
 रगन्वित्ता आपधौ १४, २१, ९;  
 वीधौ.

a) विच.। मलो. वस. > वस.। b) स्वादिबम् इति जीते.। c) मलो. ध्य.। d) = परिमाणक-  
 संज्ञा-। e) द्व. पाति.। इस. > वस. > वस.। f) धमे. द्व ५८१ h) द.। g) धमे. द्व ३२४ k) द.।  
 h) धमे. वैष १,१२१० i) द.।

गमयिष्यत्-स्वप् श्राथी ११, २,  
११; लाथी ४, २, १०.  
गमयिष्यन्ती-न्तीम् श्राथी  
११, २, ११; लाथी ४, २, १०.  
गमिन्- पाठ ४, ६; पाग ३, ३, ३.  
गमिन्-गाम्या(मि-आ)दि-  
-दीनाम् पावा २, १, २४.  
गमिष्यत्-स्वप् श्राथी ३, ४, ९;  
वैशु ६, १६: १२.  
गम्यन्त्या-म्य: ऋपा १४, ६३;  
-म्या: वैशु ३, ९: ८.  
गा- पा ३, २, १५.  
गामिन्- पाठमो २, १, २८५;  
-मिनम् विध २०, ४०.  
गामिनी-नीम् आज्यो १, ९.  
गामुक-पा ३, २, १५४; -क: वीथी  
१८, १५: २०.  
गामन्ता ऋपा ८, २०१.  
जमिन्- पा, पावा ३, २, १७१;  
-जम्य: आथी १४, १६, १;  
दिथी १५, ५, ११<sup>०</sup>; अथाप ६, १;  
-मिम: या ५, १८१.  
जमिष्यत्- पा ७, २, ६८, -मुष्य: वा  
१२, ४३; -मुष्ये या २, १४१.  
जमु- म्भवे आथी १४, २९,  
२१<sup>०</sup>.  
जङ्गम-मम् छु १६, १<sup>०</sup>, १७, ३;  
अप ७०<sup>०</sup>, १२, ४; ७१, ६, १;  
या ५, ३, ९, १३; -मस्य या १२,  
१६; -मे अप ७०<sup>०</sup>, १२, ४.  
जङ्गम-स्थावर-रस्य वृदे १,  
६१; ८, ११६.  
जिगत्- पाठ ३, ३१.

जिगत्- पाठमो २, १, ७१.  
जिगमिषु-पो: वृदे ४, १३.  
जिगिषांस्व-स्वप् कौशु १३५, ९.  
गच्छ- पाठमो २, २, ८३.  
गच्छत्-न्ती- ✓ गच्छ द.  
✓ गज् पाथा. भ्वा. पर. शब्दे मरुते  
च; चुरा. पर. शब्दे.  
गज- -ज: अप ७०<sup>०</sup>, ७, ९××; वृदे ५,  
१२३; यासि १, ९; -जम् अप  
१, ३१, ३; ७××; विध ४४,  
३८; ५०, २५; -जस्य वैथी  
११, ७: ५; अप १, ४४, ४;  
-जा: अप २०, २, २; ५७, २,  
६××; -जान् अप ६८, ३, ११.  
गज<sup>०</sup> > गज-वाज- गज-  
वाज- टि. द.  
गज-क्षय-ये अथा १७, ५.  
गज-ता- पावा ४, २, ४३.  
गज-दैवत-वाजिन्- -जिनाम् अप  
६४, ६, १.  
गज-पुरोहित-ने अप ७०<sup>०</sup>, ११,  
३५.  
गज-यन्त-नम् आज्यो ८, ८.  
गज-भग्न-कृत-ने विध ७०, ८.  
गज-रोहण-णम् आज्यो ८, ७.  
गज-वाज<sup>०</sup>- पाग २, २, ३१.  
गज-वाजिन्- -जित: अप ६७, १, ४.  
गज-विपाण- -णेत अप १, ४५, ४.  
गज-वीथी<sup>०</sup>-थीम् अप ५०, ४, ४.  
गज-व्यवेपिन्- -पी मासि १२, ६.  
गज-संसित- -जम् आमिषु ३, ४,  
५: १०; वीथि ३, १०, ३.  
गजा(ज-अ)ध्वक्ष- -क्षम् अप ५,

५, ३.  
गजा(ज-अ)नन्- -नाय वैथि १.  
गज(ज-अ)ध- पाग २, २, ३१<sup>०</sup>;  
-धस्य शेष ३९५.  
गजा(ज-अ)ध-मरीचि- -व्यय: विध  
२३, ५२.  
गजा(ज-अ)धो(ध-उ)ष्ट-गो-धाति-  
न्-ती विध ५, ४८.  
गजे(ज-उ)न्द्र<sup>०</sup>- -न्द्रे विध ९९, ११.  
गजेन्द्र-न्द्रनाद्य-कपित-महा-  
णववीचि-शु(क्ष >)आ<sup>०</sup>-  
-क्षाम् अप २४, ६, २.  
गजेन्द्र-बलाहकौ(क-ओ)घ-  
स्वन-हुन्दुभि<sup>०</sup>- -भीनाम् अप  
२४, ५, १.  
गजेन्द्र-मद-लंबुक्- -कम् अप  
३५, २, १.  
गजो(ज-ओ)घ<sup>०</sup>- -ष्टम् अप २३,  
३, १.  
गजोष्ट-महासा(घ-आ)आ(र<);  
रा- -रा अप ३०<sup>०</sup>, १, १२.  
✓ गह् पाथा. भ्वा. पर. सेवने.  
गडिक- (> गडिकि- पा.) खडिक-  
टि. द.  
गडु- पाठमो २, १, ५४; पाग ५, २,  
१७.  
गडु-कण्ठ- पावा २, २, ३५.  
गडु-ज- (> जी- पा.) गडुल-  
टि. द.  
गडु-मन्- पा ५, २, १७.  
गडु-र- पा ५, २, १७; पाग २, २,  
३८; ४, १, ४१<sup>०</sup>, ५, १, २४.  
गडुली- पा ४, १, ४१.

a) शु: इति पाठ? यत्नि. शेष: (तु. ऋ १, ८९, ७)। b) पाथे. वैप १, १२१० p द.। c) वैप १ द.। d) मनुहार्ये अन् प्र. इति पागम.। e) तु. पाका.। गोजवाज- इति भारुदा., गजवाज- इति पासि., पागम.। f) = व्योममार्ग-विशेष-। g) विप. (अथेत्-). उप. ऋष: ३। h) व्यप.। वस.। i) तु. पागम.। j) विप.। पथ.>तृ. >वस.। k) दस.>वस.>कम.। शेष- = वलीप-। l) विप. (यज्ञपाठ-). वस.। m) गडुज- इति पाका.।



गङ्गुल- पा ५, १, १२४.  
 गङ्गुल-गालव- पा २, २, ३८.  
 गङ्गु-तिरस्- पावा २, २, ३५.  
 गङ्गुवा(ङ्-आ)दि- दिग्भ्यः पावा २, २, ३५.  
 गङ्गुक- पाग २, ४, ६९.  
 गङ्गेर- पाउ १, ५८.  
 गङ्गेर-क-> गङ्गेरक-द्रोशक- पाग २, ४, ६८.  
 गङ्गोल- पाउ १, ६६.  
 ✓गण- पाधा. सुरा. पर. संख्यानि,  
 गणयेत् शंष १०७.  
 गण- पाग ४, १, ९८; २, ६०; ३, ५४; ४, १०२; ५, १, ३९; -णः  
 आपथी १४, ३, १०; १५, १९, १;  
 बौथी; अप ३२, १, २१; २३-२५;  
 निष १, ११; सा ६, ३६; १;  
 -णम् आपथी १४, २, ३; १७,  
 १६, १५; बौथी १०, ५३; १५, ६;  
 १०६; -णस्य द्विथी १२, ५, ३२;  
 ३७; घृदे ५, ४७; -णाः आपथी  
 २१, १५, १९; बौथी ७, ५;  
 ४५; आपथि; -णात् बौथी  
 २: ५; यासि २, १०; नाशि २,  
 ८, २५; मीत् ८, ३, ११; -णात्  
 आपथी १७, १७, ४; बौथी;  
 मत्थी २, ४, १, २५; १; पैताथी  
 १२, १८; -णाताम् आपथी ४,  
 ६, ३; ऋथी ५, १, १८; १४,  
 १९; काथी २०, ६, १३; आपथी;  
 पाय १, ५, १०; -णाभ्याम्  
 आपथी १४, ३, १४; -णाय

आगिष्ट, ४, ५, ६; -णे आपथी  
 १४, १, १०; २, १३; ऋथी  
 १७, ३; ३; ६; द्विथी; पावा  
 १, १, २४; -णेन आपथी १७,  
 १६, १५; बौथी १०, ५३; ९;  
 माथी; -णेन-णेन आपथी १७,  
 १६, १६; वैथी १२, ६; १०६;  
 -णोभ्यः बौथ २, ८, ९; अप  
 ४६, १, १६; अथा २४, ६; -णे  
 आपथी १६, २१, ९; वैथी; -णैः  
 आपथी १७, ३६, १५; ५; बौथी;  
 -णौ वैथी १५, ३७; १४;  
 आपथि २, ४, ५; ८; अथा २३,  
 २; बौध ४, ७, ५.  
 गाणायन- [ > ण्य- पा  
 ५, ३, ११ ] पा ४, १, ९८.  
 गाणिक- पा ४, २, ६०; ४,  
 १०२.  
 गण-कर्मन्- -भभिः कौम्  
 १३२, ७; -र्मा अप ३२, १, २४.  
 गण-काम- भम् कौम् २, २,  
 ८; -मात् शांठ २, २, ३३.  
 गण-गणिका-स्तेन-गायना (न-  
 अ)त्- -स्तानि विष ५१, ७.  
 गण-चोदना- -नायाम् मीम् ८,  
 ३, ३.  
 गण-तिथ- पा ५, २, ५२.  
 गण-त्व-> -णा- ऋथीयै ऋथि  
 २४, २०; अप १८, १, ११.  
 गण-द्रव्या(व्य-अ)पहर्- -र्ता  
 विष ५, १६७.  
 गण-ना(अन् >) -न्नी- -भ्यः  
 लृम् ३, ७; ५.

गण-निधन- -भम् निम् १०,  
 १२; २२; -नाः निम् ८, ९; २२.  
 गण-गति- पाग ४, १, ८४; ५,  
 १, १२४; -तिथ्या बौथ २, ८,  
 १; -णित्म् आपथी २०, १८,  
 १; बौथी १३, २६; १५; काथी  
 ३, ४, १३; द्विथी १४, ४, ३;  
 २२, ४, १०; आगिष्ट १, १, ३;  
 ५४; २, ६, ३; २८; वाय ५,  
 २२; द्विष्ट १, ६, ११.  
 गणपत- पा ४, १, ८४.  
 गणपत्य- पा ५, १, १२४;  
 -णैवात् तैसा १३, ९०.  
 गण-पाद- पाग ६, २, ८१.  
 गण-प्रदीप्ता- -सयोः पा ३, ३,  
 ८६.  
 गण-वलि- -लिम् अत्र १९,  
 ५, ४.  
 गण-मध्य- -भ्ये काथी १७,  
 ११, ६.  
 गण-सुष्य- -भ्यम् वैथ २, ६;  
 १७.  
 गण-मज- -शः काथी २२, ११,  
 ११.  
 ऋण-मज- -वते बौथी १८,  
 २८; १४; -वान् आपथी २,  
 ११, ८.  
 गणवती- -ती बौथी १३,  
 २६; १४.  
 गणवत्सवनमुखीयेषु ऋथी १४:  
 १५.  
 गण-प्राध- -द्म् वैथीका  
 १४५.

a) तु. पागम. । b) व्यप. । व्यु. ? । c) पा ७, ४, ९७ पावा ७, ४, ८२ परामृष्टः द. । d) मन्त्र-  
 गण-विशेष- [अभ्यभू., अप ३२ प्रसृ.] । वैष १ द. । e) व्यप. । f) वाट-नामन्- । g) पागे, वैष १,  
 १२११० द. । h) पागे, वैष १, १२१११ द. । i) = गण-पाठ- । j) = मन्त्रगण-विशेष-, भैष्य-गण-  
 [अप.] । वस. । k) परतरं पागे. । l) विष. । वस. । m) वस. पुष. अर्थाः ? । n) पागे, वैष २, १२१११ i.  
 द. । o) पागे, वैष १, १२१११ j द. । p) गणपाद- इति पावा. । q) अर्थाः व्यु. ज ? ।

गण-वासः(ः) आधौ ९,९,१६;  
धीधौ.

गण-अधि-धी- -अधिभिः पा ८,  
२; -अधये आपधौ १४, २५,  
११; -अधियै द्विधौ १५, ६,  
२९.

गण-संवरसर- -राणाम् निस्  
१०,१:१६.

गण-समय-धेणी-पूग-चरण-व्य-  
वहार-निष्ठा- -ष्टा शंघ  
२५५.

गण-सामन्- -भानि निस् ६,  
११:१०.

गण-स्थान- -नम् निस् १०,  
८:२१; -नाम् वृदे ५,  
१७२.

गण(ण-आ)देश- -शे वाधौ १,  
१,१,७१.

गण(ण-अ)धिपति- -तिम्  
बोध ३,६,२०.

गण(ण-अ)स्त- -स्तेषु अप ३,३,  
६,३; अगा २४,५१.

गणान्त-ख- -खान् पावा  
७,४,७५.

गण(ण-अ)ध- -धम् वाध १४,  
१०; शंघ ४३४; विघ ४८,  
२१; बोध ३,६,१०.

गणिका<sup>१</sup>-> गणिक्य- पावा  
४,२,४०.

गणिका-भृतचारिणी(णी-ई)  
क्षणिका-भायाविनी-हुडुकनीला-  
विष्णुना- -नाभिः शंघ ७२.

गणिका-धूर्ता-भ्यभिचारिणी-  
प्रयजिते(ता-ई)क्षणिका-भाया-

मूलकुडुककारिका-दुःशीला(ला-  
आ)दि- -दिभिः शंघ ७७.

गणिका(का-अ)ध- -धम्  
वाध १४, १०; शंघ ४३४;  
बोध ३, ६, १०; विघ ४८,  
२१.

गणिका-पाद- पाग ५,४,१३८.

गणिन्- पा ६,४,१६५, -गिनः  
धीधौ ७,७:१०१.

गणिन- पा ६,४,१६५.

गणी/कृ>गणी-चिकीर्षा-  
-र्षया निस् ६, ११:१०, -र्षा  
निस् ६,६:२१; ८:३५.

गणे(ण-इडा)>इ- -डा: निस्  
८,९:२१.

गणे(ण-ई)स- -साम् भाशि १;  
-सानाम् अप ७०<sup>१</sup>, १०, ५;  
-शन क्प्र १,१,१२.

गणेश-रूप- -पाथ शैशि २.  
गण्य- पा ४, ३, ५४; ४, ४,  
८४.

गणक<sup>२</sup>- -का: अप ५२,४,२.

गणन- -नान् या ६,३६.

गणना- -ना अप ४:२०.

गणपितृम् विघ २०,२३.

गणित<sup>३</sup>- पाग ४, २, ६०<sup>१</sup>; ५, २,  
८८; -सम् वेज्यो ४.

गणित-, गणितिक- पा  
४,२,६०.

गणितिन्- पा ५,२,८८.

गणकारि- (>गणकार्य- पा.)  
पाग ४,१,१५१<sup>६</sup>.

√गण् पाधा. भ्वा. पर. वदनेकदेशे.  
गण्ड<sup>४</sup>- पाठ १, ११४; पाग ५, २,

१७; ४, १३८; -ण्टी विघ ९६,  
१२<sup>१</sup>.

गण्ड-पाद- पा ५,४,१३८.

गण्ड-माला<sup>१</sup>->गण्डमालिन्-  
-ली शंघ ३७७:५.

गण्ड-ल- पा ५, ३, ९७.

गण्डयन्त- पाठ ३, १३८.

गण्डयित्नु- पाठो २, १, ८३.

गण्डु- पाठ १, ७; पाग ५, २,  
१७<sup>६</sup>.

गण्डु-ल- पा ५, २, ९७.

गण्डु<sup>१</sup>- [>गण्डय- (>गण्ड-  
व्याथान>]नी-) पा. मक. पाग  
४, १, १०५; १८.

गण्डूप- पाठ ४, ७८.

गण्डोल- पाठ १, ६६; पाग ५, ४,  
१३८.

गण्डोल-पाद- पा ५, ४, १३८.

गण्डोलक- (>गण्डोलक-पाद- पा.)  
पाग ५, ४, १३८.

गत्-, गत-, १-२गति- प्रमु. √गच्छ  
इ.

गति(ल>)ला- पाठ १, ५७.

गद्-, गवर-, गव्वा, गव्वाय  
√गच्छ इ.

गद्युनस्<sup>५</sup>- -नसः वाधुधी २, १३:२.  
√गद्<sup>६</sup> पाधा. भ्वा. पर. व्यकाया  
वाचिः चुरा. उभ. देवगदेशे,  
गदति अप ४८, ११<sup>१</sup>.

जगद् वृदे ३, १२६; १२७; ४,  
३; ९५x४.

गदित- -सम् अप ७, १, १३;  
वृदे ७, १५; -ता: अप ६९, ६, १.  
गत- पा ३, १, १००.

a) इस.>पस.>इस.>सस.। b) नाप.। मत्वर्थे ठन् प्र.। c) विप.। वस.। d) =पानावन्व-  
प्रह-विशेष-। e) शास्त्र-विशेष-। f) द्व. पागम.। g) गणकार- इति पागम.। h) व्यु. ? <√गम् इति  
पाठ., √गण् इति क्भा.। i) = गण्ड-स्थल-। j) = व्याधि-विशेष-। पू. = गण्ड-प्रस्थि-। k) पाठे. पृ ८११  
d इ.। l) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। m) व्यप.। व्यु. ?। n) पा, पावा ८, ४, १७ परावृत्तः इ.।

१ गद्- -दाय आपम २, ३, १९;  
 आमिष्ट १, १, ३: ४३; द्विष्ट १,  
 ६, ५.  
 गदा (द-अ) वसुति- -त्वे वैताथी  
 ४३, २.  
 १ गद्- -पाग ४, १, ९६; १०४;  
 -०द् वीथी १८, १७: २२;  
 आमिष्ट २, ७, ३: ३; ३, १०,  
 ३: ११.  
 गद्- > गद्वायन- यक. पा ४,  
 १, १०४; १००.  
 गद्- -पा ४, १, ९६.  
 गद्दियस्तु- पाठ ३, २९.  
 १ गद्- -पाग ५, २, १३६; -द्वया अम  
 ३६, १, १; -दा अम ७०, ५, २.  
 गदा-रूप- > रुविन्- -रि विभ  
 ९८, २.  
 गदा-वत्- , गदिन्- पा ५, २, १३६.  
 २ गद्- > गदा-कर्म- -थे माथी  
 ५, २, ६, ८.  
 गदिक- (> गदिकि- -वा.) पावा  
 ४, २, ८०.  
 १ गदित- ✓ गद् द.  
 २ गदित्वा, वी<sup>क</sup>- (> गदित्वा<sup>क</sup>  
 [व्यभि- -वा.) पाग ४, २, ८०.  
 १ गद्द- -पाग ३, १, २७, ५, २, ६४.  
 गद्द-क- पा ५, २, ६४.  
 ✓ गद्द- पा ३, १, २७.  
 गद्द- -द- शेषि १६१, पाति  
 २७; माति १५, २; वाति १,  
 २७; नाति २, ८, १२.

गद्- ✓ गद् द.  
 ✓ 'गद्' > 'गुधिता' निव ४, २.  
 १ गद्- -व्यन् निघ ४, २; या  
 ५, १५६.  
 गद्दति- > ग्दस्तु (ति-उ) तरवद-  
 -दम् या ५, १५.  
 गद्द- -आयाम्<sup>क</sup> आपथी १९, २६,  
 ४; वीथी १३, ३८: १२.  
 गन्तव्य- , गन्तु- प्रथ. ✓ गच्छ द.  
 गन्दिफा<sup>म</sup>- (> गान्दिफ- -वा.) पाग  
 ४, ३, १३.  
 ✓ गन्ध पाथा. चुरा. आत्म. अर्द्धने.  
 गन्धन- -ने पा १, २, १५.  
 गन्धना (न-अ) वक्षेपण-सिचन-  
 साहसिचय-प्रतिवक्ष-प्रकथनो-  
 (न-उ) पयोस- -गेषु पा, पावा  
 १, ३, ३२.  
 गन्ध- -पाग ५, २, १५; ४, २६;  
 -१न्ध: वीथी २, ५: ८; ११××;  
 -न्धम् आपथी २०, २१, ८१;  
 द्विथी १४, ४, ५३; आसृ २, ६,  
 ७; आमिष्ट; -न्धस्य वीथी २६,  
 १०: २४; पावा ५, ४, १३५,  
 -१न्धा: वीथी २, ११: १; वीथी  
 १, ४: ११; आमिष्ट; -न्धान्  
 वीथी १५, २४: १८; २३, १: ३१;  
 पागृ १, १९, ४; भागृ १, १०:  
 १२; भागृ; -न्धानाम् आपथ १,  
 २०, १५; -न्धे आपथ २, २८,  
 १०; द्विष्ट २, ६, १०; -न्धेन  
 द्विथी १७ ६, ४; या १४, ४;

-न्धै: आपथी १४, ११, १;  
 लाथी २, ६, १; निगृ.  
 गन्ध-क- -वा ५, ४, ३.  
 गन्ध-नोद- -न्धै: वैष्ट ४, १०:  
 १८.  
 १ गन्ध-द्वा (र>) रा<sup>०</sup>- -रा आमिष्ट  
 २, ७, ७: १३; अय दे८, २, २;  
 वीष्ट ४, ५, १३; -राम् आमिष्ट  
 २, ४, १०: १८; ६, १: २९;  
 भागृ २, १३, ६; वैष्ट ४, १४: ८.  
 गन्ध-पाल- -न्धम् भागृ २, १४, २८.  
 गन्ध-पुष्प- -व्याणि अय १, ३४, ५;  
 -न्धै: आमिष्ट १, ६, ३: ४७;  
 वीष्टि २, ९, ११; भागृ १, १६, १.  
 गन्ध-पुष्प-धूप-वीप- -न्धै: आमिष्ट  
 १, ३, २: ३६; ७, १: ८××.  
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नैवेद्या (य-आ)  
 दि- -द्विभि: विध ९०, ३.  
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-माल्य- -न्धम्  
 द्विष्टि १७: १९.  
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-वासस्-  
 -नसाम् वीष्टि २, ३, २७.  
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीपा (प-य) व-फलो  
 (ल-उ) दक- -कै: भागृ ३, ११: ७.  
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीपी (प-ओ) दन-  
 पावस-पावक-लाजा (ज-आ)  
 दि- -द्वि अय ४०, १, १०.  
 गन्ध-पुष्पा (प-य) अत-धूप- -वात्  
 आमिष्ट २, ४, ६: १९.  
 गन्ध-पुष्पा (प-र) य- -न्धै:  
 आमिष्ट २, ३, ३: ९.

a) = रोम-। व्यु. ? < ✓ गद् इति अभा. । b) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । c) = आसुध-विशेष-।  
 व्यु. ? < ✓ गद् इति अक. । d) = रमावयव-विशेष-। व्यु. ? । e) पम. उव. = प्रान्त-। f) सवा.  
 गद्दकर्म <> पूर्वेषां गद्दयाम् <> प्रथमायां गद्दयाम् इति पामे. । g) तु. पागम. । अर्थ: व्यु. व ? ।  
 h) = देश-विशेष- ? । i) तु. पाका. । j) कर्तरी अचि यन्धोयः (पा ६, ४, ४९) । k) वैष १ द. । या ५, १५  
 परागृष्टः द. । l) = ग्दित्- > -त्वा इति संभाव्यत । m) = जनपद-विशेष-। व्यु ? । गदिक- इति  
 पाका. पागम. । n) वैष १ द. । इह गन्धकल्पि इतिरिति विशेषः । वा. शिद्धने इति: तु. वैष ३ । o) = धातु-  
 विशेष-। p) मत्तो. कस. । q) निघ. । वस. ।

गन्ध-प्रवा(द>)दा<sup>१</sup>- द्वाभिः  
 वैताश्री १०, ५; कौम् १३, १३;  
 ५४, ५.  
 गन्ध-सादन<sup>२</sup>- नम् शंघ ११६: ९;  
 -नात् माण १, १०, १००.<sup>३</sup>  
 गन्ध-मालय- न्यम् अय ७०<sup>४</sup>, ९,  
 ४; आमिण २, ५, १: १३;  
 -ल्यानाम् कौण्ड, १, १; -ल्यानि  
 अय ४, १, १५; -ल्यान अय ४,  
 ३, १; -ल्याः अय ७०<sup>५</sup>, ९, १;  
 आमिण ३, १०, ४: ४.  
 गन्ध-मालय-निल- नैः अय ४४,  
 ३, ३.  
 गन्ध-मालय-धूप- नैः शंघ २१५.  
 गन्ध-मालय-धूप-दीप- -पानाम् वीण  
 ३, १३, ४.  
 गन्ध-मालय-धूप-दीप( प-आ)च्छा-  
 दन- -नानाम् आण्ड ४, ७, १७.  
 गन्ध-मालय-धूप(प-आ)रुदादन-  
 सिद्धोपहार- नैः शंघ १२६.  
 गन्ध-मालय-धूप(प-आ)अना(न-आ)  
 दर्श-प्रदीप- न्यस्य अय ४४,  
 ३, ६.  
 गन्ध-मालय-वस्त्रा(त्र-अ)लङ्कारा(र-  
 आ)दि- दिभिः विध २१, १.  
 गन्ध-मालया(ल्य-आ)भरण- -णानि  
 शंघ ७८.  
 गन्ध-रस- -साः वाघ २, २६.  
 गन्ध-रस-कृताञ्ज-तिल-भाग-क्षौमा-  
 (म-अ)जिन- -नानि गीघ ७, ९.  
 गन्ध-रस-नुष्ट- -ष्टम् वैश्री १११,  
 ११: १३.  
 गन्ध-लिप्त- -सः आपण्ड ८, ९.  
 गन्ध-शेष-क्षय-क- -रम् आभिण्ड

२, ६, ८: ८; विध ६०, २४.  
 गन्ध-नत्र- पा ५, २, ९५; -वन्तः  
 वीश्री २३, १: ३१; -वन्तम्  
 वीण्ड १, ६, २२.  
 गन्ध-वती- -तीभिः द्राश्री ५, २,  
 ४; गीण्ड ३, ४, १०; -त्यः जैण्ड  
 १, १: १३.  
 गन्ध-वर्ग-रसा(म-अ)म्वि(त>)  
 ता- -ताः वीध १, ५, ५७.  
 गन्ध-वह- -हः नाशि १, ५, ९०.  
 गन्ध-वारि- -रिणा कप्र ३, ४, ११.  
 गन्ध-शुक्र-पुष्प- -प्यैः आमिण्ड २,  
 ५, ६: १४.  
 गन्ध-शेष- -पैः आमिण्ड २, ५,  
 १२: ५.  
 गन्ध-स्रज- -स्रजः अय ११, १, ९.  
 गन्ध-स्रग्-दामन्- -मभिः माण्ड २,  
 ६, ६.  
 गन्ध-स्रग्दामन्-व(त् >)ती-  
 -स्याम् माण्ड २, ६, ४.  
 गन्धा(न्ध-आ)प्राण- -गौ गीध २३,  
 ७.  
 गन्धा(न्ध-आ)च्छादन- -ने वाण्ड  
 १२, २.  
 गन्धा(न्ध-आ)मक<sup>६</sup>- -कम् वैण्ड ५,  
 १: १७.  
 गन्धा(न्ध-आ)दि- -दि आमिण्ड २,  
 ५, १२: ५, ३, ११, २: ६;  
 -दिना आमिण्ड १, ६, १: २२.  
 -दिभिः आमिण्ड २, ५, १२: ४;  
 ३, ३, १: १२; २: ७; १८;  
 -दीन् कप्र १, ४, ३.  
 गन्धा(न्ध-आ)घ- -घैः वैण्ड ४, ३:  
 १०.

गन्धा(न्ध-अ)मुल्लिप्त, सा- -सः वीण्ड  
 १, १, २४; ५, १५; -हाम् वीण्ड १,  
 १, २४.  
 गन्धा(न्ध-अ)पहारिन्- -री शंघ  
 ३७८.  
 गन्धा(न्ध-आ)भरण(ण-आ)दि-  
 -दीनि वैण्ड २, १४: १.  
 गन्धा(न्ध-आ)मलका(क-आ)दि-  
 -दिभिः वैण्ड २, ९: ४.  
 गन्धा(न्ध-आ)हुति- -तिभिः काण्ड  
 १२, ७.  
 गन्धो(न्ध-उ)सादन<sup>७</sup>- -ने माण्ड  
 १, ९, २६: १.  
 गन्धो(न्ध-उ)दक- -कम् कप्र २,  
 ८, ८; अय २०, ३, ३; -केन  
 काण्ड १७, २; विध ७३, १, २; -कैः  
 वीण्ड ३, १०, ४; गीध १, ४, १९;  
 २, ३, १६.  
 गन्धो(न्ध-ओ)पथी- -थीभिः जैण्ड  
 २, ५: १३.  
 गन्धक- प्रन्. गन्ध- द.  
 गन्धन- प्रन्. ✓गन्धू द.  
 गन्ध-पान- गन्ध- द.  
 गन्धपिङ्गला<sup>८</sup>- (> गान्धपिङ्गलेय-  
 पा.) पाण्ड ४, १, १२३.  
 गन्ध-पुष्प- प्रन्. गन्ध- द.  
 गन्धरायण<sup>९</sup>- -गाः वीश्रीप्र १२: १.  
 गन्धर्व<sup>१०</sup>- पाठो २, ३, १२६; पाण्ड  
 ५, ४, ३८<sup>१</sup>; -०र्व पाण्ड १, ११,  
 २; -०र्वैः आश्री ४, ७, ४; वाश्री  
 ५, १०, २५; १२, २०, २; काश्री  
 २, ८, १; आपश्री २, ९, ५; १५,  
 १६, ९; वीश्री १, १३: २०; ३,  
 १३: १२; ६, १६: ७; ९, १६:

a) विप.। वस.। b) = पर्वत-विशेष-। उल.। c) मासां गन्धर्वः इत्यस्य स्थाने नासा गन्धावहः  
 इति सात्व.। d) विप. (वासव्-)। इत्स. मत्स्ये अच् प्र.। उप. = उद्वर्तन-। e) ञञोत्पन् इति पाठः इति. शीघः  
 [ द्र. मूढे., भाष्यकारः, Knauer (पद्मानन्देन्द्र. परसची)]। f) व्यप.। व्यु.। शुद्धपिङ्गला- इति पाठः।  
 g) = ऋषि-विशेष-। व्यु.। h) पैप १ द.। i) द्र. पाण्ड.।

१६; ११, २ : ३; १८, ४६ : ६९;  
 माध्री २, ९, ३x५; माध्री १, २, ६, ८; वाधुश्री ४, ४० : ३९; वाध्री १, ३, ३, १५; वैवी; या २, ६; चैम् वीथी ८, १४ : ४०; १८, ४६ : ८; वैथ्री १६, १८ : १७; काय २५, ३५; वैय ३, ४ : ३; अप १, ४५, ५; वृदे ७, १३०; -र्षव्य आध्री ४, ७, ४; वाध्री ५, १०, २३; कीय १, १२, २; वाय १, १९, २; अय १४, २; नासि १, ४, १२; -र्षाः आध्री १०, ७, ३; वाध्री १६, २, ८, आपध्री २२, १९, ८; नवीथी १२, ६ : २२; २४, २७ : १२; वाधुश्री ४, ४० : ९; २; १३६ : १; दिथ्री १७, ५, ५; वैताध्री ३६, २७; आपध १, ७, ८; माय २, १८, २; अप ३३, ७, ५; ४८, १३७; ७१, १८, ३; दिथ १, ६, २०; वृदे ७, १८; अय १२, १; या ३, ८; अया ३, ४, १; नासि १, २, १३; २, ७, १२; -र्षाणाम् शुभ १, १६४; -र्षान् वैथ्री २१, १५ : ७; नृहिथ्री ७, १, ६०; १५, ७, १०, आसि २, ५, ३ : ३१; वाय २, १२, २; वीथ ३, ७, २१; वीत् १०६, ७; कय २, २, ३०८, नासि १, २, १५; -र्षाणाम् वाध्री ४, १०, १; -र्षाविक द्राध्री ३, ४, ३०; लाध्री १, १२, १६; आपध १, ३, २, ४, २, कीय १, ७, १; वाय १, ११, ४; वाय १, ८, १६; आसि २, ११, ४; वाय १, ८, १६; आसि २, ११, ४; -र्षे काय १९, ३; -र्षेण वृदे ८, ५२; -र्षेण्यः माय २, १२,

१७; अप २०, ७, ३; -र्षवैव वीथ्री १७, ४१ : २; आपध २, ४, ६; ७, २४; आसि १, १, ४ : ३७; काय ४१, १८; माय २, २० : ५; माय १, २२, ११; वाय ५, ३०; दिथ १, ८, ४; १०, ४; वैय १, १२ : ४२; अप ७१, १७, १९.  
 गन्धर्वाणी<sup>०</sup> -णी काय २०, २.  
 गन्धर्व,र्षा<sup>०</sup> -र्षः आय १, ६, ५; वैय ३, १ : २; १०; वाय १, २९; ३३; आपध २, ११, २०; वीथ १, ११, ६; विथ २४, १८; २३; २८; दिथ २, ४, ३५; वीथ ४, १०; -र्षम् अप ७०, १, १०, ५; वीथ १, ११, १६; -र्षाः नासि १, ७, १८; -र्षाव् वैय ६, १२ : १०; -र्षे वैय ६, १२ : १०; -र्षेण वैय ६, १२ : ७; विथ २४, ३७.  
 गन्धर्वर्षि<sup>०</sup> -र्षी अप ४८, १०२; अशा १६, १; विथ १, ११०; -र्षीम् अशा १७, ५; -र्षीम् अशा १८, ७; १९, ८.  
 गन्धर्व-वेत्- -वः चव्यु ४ : ११; -वम् वीथ ११६ : ३८; -वे वासि १, ६.  
 गन्धर्व-वाग- -गाः वीथ्री ११, १० : २६.  
 गन्धर्व-नगर- -रम् अप ६४, २, ८; ७२, ३, ६.  
 गन्धर्व-नामन्- -नभिः माध्री ४, २६.  
 गन्धर्व-पद्- -वम् अप ७०, १२, ५.  
 गन्धर्व-पुत्र- -पुत्रि वीथ्री ९, १६ : १५.

गन्धर्व-राज- -जस्य वाय १४ : १; -जाय काय १७, ११.  
 गन्धर्व-श्लोक- -कम् वीथि १, ७ : १५; विथ २४, ३७; ९१, १२.  
 गन्धर्व-सेना- -नया सु २६, २.  
 गन्धर्वा (र्व-श्) प्लत्- -रत्नः आपध्री २२, ११, ६; वाधुश्री ४, ११६ : २; दिथी १७, ५, ४; वैताथी ७, २२; निम् ७, ७ : २६; नृवा ४६, २, ३१; ४५, २, १०; वीथ ११६ : १६; वृदे ७, ७१; ८, ११४; शुभ २, २३३; अय २, २; ८, १० (५) नासि १, ७, ६; -रत्नाम् वीथी १४, १८ : ३; वाय ३९ : ११; -रत्न्यः वाध्री ६, २, २; वाधुश्री ४, १०४ : १०; वीथ ४९, १२.  
 गन्धर्वाप्लतो-देवता- > ण्य- ष्यम् अय २, २.  
 नृगन्धर्वा (र्व-श्) प्ल (र) रा- -रत्न्यः आपध्री १४, ११, ३; वीथी १९, ७ : ५७; दिथी १०, ६, ९.  
 गन्धर्वा (र्व-श्) प्लती (रा-श्च) पधि- -धीः अय ४, ३७.  
 गन्धर्वा (र्व-श्) लुति- -तिः आसि २, ५, ३ : ४६; वीथ ३, ७, १८; -तीः वीथी १०, ५० : १५; वीथी १२, ६ : १३४.  
 गन्धर्व (र्व-श्) वरजत- -नेत्यः माध्री १, ६, १, ४.  
 गन्धर्व-ष्टा<sup>०</sup> -ष्टाम् माध्री २, ५, २, २१.  
 गन्धर्वो (र्व-श्) रा-राष्ट- -राः वृदे ५, १४५; ७, ६८.

a) पाठः ? गांध इति शोधः (वृ. लासं.) । b) रवी. डी प्र. जालुम्-आगम्य वसं. ( पा ४, १, ४६ ) । c) विप., नाप. (विवाह-विशेषः) । तस्येदमीयस् तत आगतीयो वा अम् प्र. । d) = शान्ति-विशेषः । e) = वाच- । f) णिः इति पाठः ? यनि. शोयः । g) वैप १ द्र. ।

गन्धर्वाद्यण<sup>a</sup> - गः बीध्री १८, २६ :  
 १३; -गाः बीध्री १८, २६; २०.  
 गन्धर्वाहुति- प्रयु. गन्धर्व- द.  
 गन्धार<sup>b</sup> - पाण ४, २, १३३; १३४; ३,  
 १३.  
 गान्धार<sup>c</sup> - पा ४, २, १३३; ३, १३;  
 -राः का ५६, १, ४; ५७, २, ५.  
 गान्धारि<sup>d</sup> - पावा ४, २, ५२;  
 -रयः बीध्री १८, ४४; २३;  
 -रिन्त्यः का ४६, ५, ५१.  
 गान्धार- पा ४, १,  
 १६९; पावा ४, २, ५२; -रा<sup>e</sup>  
 बीध्री १८, १३ : १.  
 गान्धार-कलिङ्ग-  
 मागध- धात् दिधी १७, २,  
 ६२.  
 गान्धारि-कलिङ्ग-मगध-  
 -धात् कापथी २२, ६, १८.  
 गान्धारक<sup>b</sup> - पा ४, २, १३४.  
 गन्दिक्वा- (> गान्दिक्- वा.)  
 गन्दिक्वा- दि. द.  
 गगम<sup>f</sup> - भे कापथी १०, ८, १०;  
 कापथी १६, ४, १.  
 गमस्ति<sup>g</sup> - पाठभो २, १, १८५; पाण  
 ६, ३, १०९; -रुक्थयः का ४८,  
 ११२; निघ १, ५, २, ५; -रुक्थी  
 का ४८, ८१; निघ २, ४; -रुक्थी  
 कापथी १२, १४, १५; दिधी ८,  
 ४, १७; -स्तयोः वा ५, ४१.  
 गगमस्ति-पृ-नः बीध्री ७, ५ :  
 ३३; वा ५ ६.  
 गमस्ति-माला-> ०लिन्- कलिनि

का ६५, २, २.  
 गमीर<sup>h</sup> - पाण ४, ३, १६०<sup>h</sup>.  
 गमीर, रा<sup>i</sup> - पाठ ४, ३, ५; -रः का  
 ४८, ६८; निघ ३, १; वा ११,  
 २०; -रम् निघ १, १२;  
 वा १४, ११; -रा का ४८,  
 १०२; निघ १, ११; -राः  
 कापथी ३, ८, १; -रे का ४८,  
 ६०; निघ ३, २०.  
 गगम् गगम् द.  
 गगम- ग द.  
 गगम- गगम् द.  
 गगमन्<sup>j</sup> - जम् कापथी १७, ५, १०;  
 शुभ २, १११.  
 गगमिह- इम् बीध्री १०, ५६; १२.  
 गगमर<sup>k</sup> - रम् निघ १, १२१.  
 गगमीर, रा<sup>i</sup> - पाठ ४, ३, ५; -रः  
 रोप २४४; -रम् कापथी १६,  
 २५, २१<sup>h</sup>; बीध्री ७, ५, ७<sup>h</sup>; बीध्री  
 १८, १७; ५३<sup>h</sup>; दिधी ११, ७,  
 ४२<sup>h</sup>; का ३, १, १३; ४८,  
 ७५<sup>h</sup>; ६२, ४, ३; ७०<sup>h</sup>,  
 ४, ३; का २, ४, ६; -र<sup>l</sup>  
 बीध्री ८, १९ : १४<sup>h</sup>; का ४८,  
 १०२; निघ १, ११; -र<sup>l</sup>रे का  
 ४८, ६०, निघ ३, २०; -र<sup>l</sup>रेभिः  
 कापथी २, ७, १<sup>h</sup>; -र<sup>l</sup>रेः  
 बीध्री ३, ११ : २२; कापथि  
 ३, ११ : ८, ३ : ३४; बीधि २,  
 १, १३<sup>h</sup>; माण २, ११ : ५, १४ :  
 १४; दिधि २, १०, ५<sup>h</sup>; १३, २.  
 गगमीर्य- पा ४, ३, ५८.

गमीर-कर्म<sup>m</sup> - मांगः वा ११,  
 १७.  
 गमीर-व(का >) म<sup>n</sup> - गः वा  
 ११, १७.  
 गमीर-वेर<sup>o</sup> - रयः वा ११,  
 १७<sup>h</sup>.  
 गगमीर<sup>p</sup> - (> गगमीर- वा.) पाण  
 ४, २, ७५.  
 गगय<sup>q</sup> - पाठभो २, ३, ७; पाण ६,  
 १, २०३; -यः बीध्री ११;  
 १८<sup>h</sup>; का ४८, ८०<sup>h</sup>; का २,  
 ५, ९; १०, ६३; इरे ३, ५५;  
 शुभ २, ४५३; गग १, ८२; ८४;  
 निघ २, २, १०; ३, ४; -रम्  
 सु १९, ६; बीधि २, २, १०<sup>h</sup>.  
 -रय वा ४२ : ६; -रे इरे  
 २, १३०.  
 गगयान<sup>r</sup> - नम् का ७, ५३<sup>h</sup>.  
 गगयान<sup>s</sup> - पावा ६, १, ६५; -र<sup>t</sup>  
 कापथी २, १, २७; ४, ८, ८; कापथी  
 ३, ७, ३; १५, ८; कापथी ५, १२,  
 १०; बीध्री.  
 गगय, या<sup>u</sup> - पाण ४, २, ८२; -यान्  
 का ४२, २, ४; निघ ८५, ६५,  
 -यायाम् काण्ड ४१ : ६; इरे  
 १९४.  
 गगय-दिर<sup>v</sup> - रमि वा १२, १९.  
 गगय(वा-या)दि- -रौ का ३-  
 १०, ९.  
 गगय-दीर्घ<sup>w</sup> - रम् दीघ ११६ :  
 १३; -र्ये निघ ८५, ४, ६६.  
 गगय-स्थ- स्थ वा ११, ४२.

a) व्यप. १) व्यु. ? १) b) = देश-विशेष- १) व्यु. ? १) c) = तद्देश-वाहित- १) d) = [गान्धारि-प्रजाया] विषय-देश- १) वैप १ द. १) ग इति आश्रय, काप. १) e) = तद्-राज- १) f) = गान्धारि- १) g) परस्परं पामे. १) h) = गान्धार- १) i) वैप १ द. १) j) < गगम् इति १) k) द. पाणम. १) < गो- [शुभिवी-] + गगम् [दीर्घी] इति १) l) = वृह-विशेष- १) व्यु. ? १) m) गगमिह- इति पावा. १) n) पामे. वै १, १२१४ p द. १) o) पामे. वै १, १२१४ k द. १) . p) पामे. वै १, १२१५ g द. १) q) 'रः इति पाठः ? इति. कोषः १) r) विप. १) वत. १) s) कर्मः व्यु. च ? १) t) = नगरी-विशेष- १) व्यु. ? १) u) = स्थान-विशेष- १) व्यु. ? १)

ग-र- ग द.  
 ग-र- पाग ३, १, १३४.  
 ग-र- पाग ५, २, ३६; ६, १, १६०;  
 पाताग ८, २, १८०; -रः अग  
 छट, ७५१; -रन् वीथी १८,  
 ४०; १, २; २३; -रस्य निम् ७,  
 ७; ३२.  
 ग-र-गि- गीः काशी २२, १०,  
 १६; आपथी २२, ११, १; हिथी  
 १७, ५, ७; वीथ ४, ८, १.  
 ग-र-गी- गीम् आथी २, ५, १.  
 ग-र-द- दः वाघ ३, १६; शंघ  
 २०१; विघ छ५, १६; -दाः शंघ  
 छ४०.  
 ग-र-द-द-अ)मि- दौ शंघ  
 ३७७; २.  
 ग-र-द-द-अ)मि-द-प्रसङ्गतस्कर-  
 -रान् विघ ५, ११.  
 गरित- पा ५, २, ३६.  
 ग-र-ण-वत्- गृम् (निगरेण) द.  
 ग-र-भ- पाठना ३, १२१.  
 ग-र-भा-ग-रोहि- गृम् (निगरेण) द.  
 ग-र-जि- जि- आउवी ४, ५, १७,  
 -जिना आउवी ५, ८.  
 गरि- (> गारेय- पा.) पाग ४, २,  
 १७.  
 गरित्- गृम्, गृ (गच्छे) द.  
 गरिमन्- गुह- द.  
 गरिण्ड- गुह- द.  
 गरी- पाग ४, १, ४१.  
 गरीयस्- गुह- द.  
 गरीर- पाठना ४, ३१.  
 गरुड- पाठ ४, १५६; -दः छ १३.

१; १४, ४; १७, ५; २०, २; ४;  
 २१, ४; २२, १; २५, २; २६,  
 ५; ३४, ३; -दम् सु ४, ४; ५,  
 १; ३१, १; शंघ ११६; ३३;  
 -दस्य सु ४, १, २२, ३; २४, १.  
 गरुड-दं-वत्-माशि १५, ८; माशि  
 २, ८, २४; माशि २, १०२.  
 गरुडे(द-द)द-> द-द-ताद्व-  
 -द्विः सु १, ५.  
 गरुत्- पाठ १, १४; पाग ८, २, १.  
 गरुत्-मत्- ग-मतः वीथी ३, २५;  
 ४; माथी ३, १७, ७, माथी; वाअ  
 १६; १४९; -मलि सु २२, २;  
 -मन् सु ७, ३; ११, २; ४; १३,  
 ५४४; -मन्त् सु ३१, १; कप्र  
 २, १, १६; वीथ २, ५, २४१; या  
 ७, १८; -तमान् शाथी १७, १७,  
 १; आपथी १६, १०, १२; १७,  
 १५, ४; वीथी; ९ अत्र ४, ६;  
 ५, १३; ६, १२; १००; ७,  
 ८८; १०, ४; या ७, १८६.  
 गरुमती- वी सु ११, २.  
 गरुम( त ) वी- वी  
 छुम २, ८१.  
 गरुमत्-संभव- वे गु ४, ५.  
 गरुथ- गृम्, गृ (गच्छे) द.  
 गर्ग- पाठ १, १२८; पाग ४, १,  
 १०५; १५१; -गीः अग ५१,  
 १, २, ६२, १, १; अत्र; -गीस्य  
 अग ५०, ४, ४; ५१, ५, ६४४;  
 -गीः वीथी ११; १२; ११; ६;  
 -गीणाम् आथी १२, १२, २;  
 आपथी

गार्ग- पा ४, १, १०५; १५१;  
 -०४१ आथी १२, १२, २;  
 अगथी; -गीः वीथी १६, २७;  
 २३; साथी ७, ६, १४; वीथ;  
 -गीम् वीथ २, ५, ३; वाथ;  
 -गीस्य अत्र ६, ३६; ११, २६;  
 पा ८, ३, २०; -गीणाम् वीथ ४,  
 ३, ३; -गीण अग ७०, २३, १.  
 गार्गी- गी आग ३,  
 ४, ५१; वीथ २, ५, ३; वाथ ४,  
 १०, ३; अग ४३, ४, २२.  
 गार्ग-वालव- वयो. पा ७,  
 ३, ११.  
 गार्ग-गार्गवस- वी वीथ  
 १७, २७.  
 गार्ग-पार्थवस-भागलि-का  
 डावनी(न-उ)वरिवध्व-कौशिक-  
 जाटिकायन-कौरपयि- अयः  
 वीथ ९, १०.  
 गर्ग-त्रिराग- पाग ६, २, ८१;  
 -यः शाथी १६, २, २; वीथी  
 १६, २७; २६; -तं अथी  
 १०, २, ६; -त्रेण आपथी २२,  
 १५, १; १८, ७; वीथी २६,  
 १८; १०; हिथी १७, ६, ११;  
 ७, २.  
 गर्ग-त्रिराग-सस्य- स्याः आथी  
 १०, २, ३५;  
 गर्ग-वेद-गच्छेमा( म-अ )वर्षसु-  
 पराक- आः काथी २३, २, ८.  
 गर्ग-भार्गव- > विका- >  
 विका-प्रहण- गम् पाता ४,  
 १, ८९.

a) वै १ द. । b) तु. पागम. । c) = जल- । d) = [विदाव्य-] गरण-वशीप- ।  
 ध्यु. । e) वै १ गारु-मत्- टि. द. । f) = कपि-विशेष- । g) विघ. (गच्छे) । h) वीथी इति पाठः ।  
 यनि. शोषः (तु उ. (मा १२, ४)) । i) तु. पाठः । गर्ग- इति भाष्य. पागम. । j) बहु. < गार्ग- ।  
 k) गर्गी इति पाठः । लजि. शोषः (तु. वीथ. प्र. ) । l) = धहीन-विशेष- । m) मधुनिके अर्थे तुक् प्र-  
 (पा ४, ३, १२५) ।

गर्ग-वत् आपथी २४, ७, ९; १०;  
 बोधोय १९ : ८; ९; द्विथी.  
 गर्ग-वत्स- पाग ६, २, ३७.  
 गर्गर<sup>०</sup> - पाउतो २, ३, ३५; पाग ४,  
 १, १५१०; -रस्य द्विथी १, ७,  
 २५.  
 गर्गर्थ- पाग ४, १, १५१.  
 गर्गरिका- गभीका- टि. द्र.  
 ✓गर्जू, पाधा. भ्वा. चुरा. पर. शब्दे,  
 गर्जने अय २२, २, २; ७१, १४,  
 ३; गर्जनित् अय ७०<sup>३</sup>, २१, ५.  
 गर्ज<sup>०</sup> - (> १गर्जित- पा.) पाग  
 ५, २, ३६  
 गर्जन- नम् अय ६१, १, १९; २१;  
 ७०<sup>३</sup>, २, २; -ने अय ६१, १,  
 २४; ७१, १, ४, ५; २, १.  
 गर्जमान- नः अय ६२, ४, २;  
 -नेयु अय ६१, १, २१.  
 २गर्जित- नम् अय ७०<sup>३</sup>, १७, ३.  
 गर्त<sup>०</sup> - पाउ ३, ८६; पाग ४, २, ७७;  
 ८०<sup>३</sup>, १०; १२७<sup>३</sup>; -तं: माथी  
 ४, १, २१९; अय ४८, ८१<sup>३</sup>, निष  
 ३, ४<sup>३</sup>; या ३, ५६; -तम् छाठथी  
 ६३, ९८; वीथी ६, ८ : ६×४;  
 माथी, या ३, ५१; -तः वज्र  
 १, १०, ६; -तान् वीथी ६, २५ :  
 १६; -तं माथी १, ८, ४, ४१;  
 अय २, ८, १५; ४, ५, ७; कौय;  
 कौय ४९. २३; -तंयु अय २,  
 ८, १४, -तौ वीथी १७, ३५ : ३.  
 गर्त<sup>०</sup> - पा ४, २, ७७.  
 गर्तक- पा ४, २, १२७.  
 गर्तकूल- (> गर्तकूलक- पा.)

पाग ४, २, १२७.  
 गर्त-प्रखण- न्ये अय ४२, १, २.  
 गर्त-मित्<sup>०</sup> - मित् वीथी १७,  
 १३ : ३; २६, २३; १७; -मितम्  
 आपथी १४, ६, ७; वीथी १७,  
 १३ : १; २६, २३ : १५; द्विथी  
 ९, ८, २१.  
 गर्त-सद्<sup>०</sup> - सद्म् अय ३, १०,  
 १०<sup>३</sup>.  
 गर्त(त-आ)रू<sup>०</sup> - रूक् या ३,  
 ५६.  
 गर्त(त-आ)रोहि(त् >)थी - णी  
 या ३, ५.  
 गर्तक<sup>०</sup> - पा ४, २, ८०.  
 गर्तन्<sup>०</sup> - पा ४, २, ८०.  
 गर्तय<sup>०</sup> - पा ४, २, ९०.  
 गर्त-छा- छा: या ३, ५१.  
 गर्त(त-उ)त्तर-पद्- दात् पा, पावा  
 ४, २, १३७.  
 ✓गर्तु पाधा. भ्वा. चुरा. पर. शब्दे.  
 गर्दन<sup>०</sup> - नम् अय ४८, ८०<sup>३</sup>.  
 गर्दम<sup>०</sup> - पाउ ३, १२२; -म. आपथी  
 ९, १४, १४<sup>३</sup>; वीथी २४, ५ :  
 ११, २५, २६; ४<sup>३</sup>; माथी ९, १६,  
 १७; वाधुथी; -मम् आपथी ९,  
 १५, १×४; वीथी; -मस्य  
 आपथी १६, २, २, ३, १०; द्विथी  
 ११, १, १३<sup>३</sup>, ३७; -मान् लाथी  
 ९, ८, १६, -मान् माय २, १४,  
 ११; वैय ६७ : ११; -तं मे  
 वीथी २, ५ : ३; १०, ४ : १२;  
 माथी, -मेन आपथ १, २६, ८;  
 द्विथ १, ७, १९; गौध २३, १७;

-भी वीथी १२, २४, ३१.  
 गर्दनी- न्नी कौय ११०, १.  
 ?गर्दनी-मुख<sup>०</sup> - > गर्द-  
 भीमुख- न्ना: वीथी ३ ४३ : ५.  
 १गर्दम<sup>०</sup> - मम् आपथ १, ३२,  
 २५; द्विथ १, ८, ६६.  
 २गर्द(म>)थी<sup>०</sup> - भीम् अय  
 २, १७.  
 गर्दम-अदय-मास- सानाम् अय  
 ७०<sup>३</sup>, ६, ६.  
 गर्दम-चर्म-वासस्<sup>०</sup> - सा: वीथ २,  
 १, ३.  
 गर्दम-अयम- मा: आपथी १६,  
 २, ४.  
 गर्दम-अवेश- न्ये काय २७६ : ८.  
 गर्दम-मन्त्र- न्त्र: वीथी २२, १ :  
 २०.  
 गर्दम-मुख- खेन अय १, ३२, १०-  
 गर्दम-रदाना- नाम् वीथी १८, १ :  
 १७<sup>३</sup>; -नाया: वीथी २२, १:६-  
 गर्दम-सुमीव<sup>०</sup> - व: भाय २, २१ :  
 ८; १<sup>३</sup>.  
 गर्दभा(म-अ)जिन- नम् विष २८,  
 ४१.  
 गर्दभाजिबिन्- न्नी शंथ ३७९-  
 गर्दभे(म-अ)ज्या- ज्या काथी १,  
 १, १३.  
 गर्दुल<sup>०</sup> - ल: वाधुथी ३, ६९ : ३८.  
 ✓गर्धु पाधा. चुरा. पर. अमिकादा-  
 याम्.  
 गर्ध- गर्धन- गर्धित- ✓अय ८.  
 गर्भ<sup>०</sup> - पाउ ३, १५२; -भं: शीथी  
 १५, ७, ८; १७, ११; काथी २६,

a) = राजर्षि विशेषः, कलसः। b) वैप १ द्र.। c) पृ १७९ j द्र। d) जर्ग- इति पागम.।  
 e) वैप १ निर्दिष्टयोः सन्निवेशः द्र.। f) अर्थः?। सङ्घट्ट ह. पागम.। g) चर्चतल- इति पाका.। h) = गृह-।  
 i) तं इहमी इत्यत्र संश्रियः (तु. संस्कृतः टि., मू. LVIII च)। j) = देश-विशेषः?। k) = उदर-। व्यु. ?।  
 l) व्यप.। वस.। m) विप.। तरवेदमीयः अण् प्र.। n) विप. (आयु-).। o) विप.। पस. > वग.। p) नम्  
 इति पाठः? यनि. दोषः। q) विप. (मयि-).। वस.। r) अर्थः व्यु. च?।



४, १३; आप्तो २, ११, २; १४, २९, १; १६, ३, ९; ३२, ४; बौधो ५, ९; ११५; माथी; आप्तो १, १२, ५; ८; २, ११, १०; १०; २६; पाण्डु ३, ३, ५; हिण्ड १, २५, १; या २, ११; १०, २३; ६; १६, ३०; ३९; १४, १६; -कर्म आप्तो २, ७, १३; ३, १०, २१; १०, ९, ५; शोभी; आप्तो ५, ८, ८; ९, ४, १; १८, १२; आप्तो १, १२, १; ६; ७; पाण्डु १, १३, १; माण्ड २, १८, २; हिण्ड १, २५, १; या ३, ६; ४, २१; ६, १३; -संघ शोभी १३, १, ५; काथी २५, १०, ६; आप्तो १, ११, ८; १२; बौधो; काण्ड २: १४; या १०, ३९; -मा: शोभी १४, ४९, ३; काथी २५, ११, १९; बीधी २, १०: ३२; १०, ४२: ६; माथी; या ४, २१; १४, २९; -०मा: आप्तो १२, ३, ०; शोभी १५, ३: ९; हिण्ड ८, १, ४१; शोभी ९: ८; -माण्ड वीण्ड ३, ६, २; वृद्धे ५, ८६, ८, ६६; -कर्म वीधी १०, ३४: १५; वाण्ड ११, ५०; ५१, अत्र १०, १३; पाण्डु ५, २, ३६; -कर्म शोभी ३, १८, १४; आप्तो ६, ११, ५; १६, ९, ११; माथी; -कर्म आप्तो १, ७, ३; शोभी १२,

३, ११; आप्तो १, ८, ७; २०, २०, ९; हिण्ड १४, ४, ३६; कौण्ड १, १२, ६; शोण्ड ११, १२; आप्तो; -कर्म: आप्तो ६, ११, ५; शोभी ६, १३, ६; आप्तो १, ५, २, ४५; हिण्ड ३, ७, १३; -संघ कौण्ड १२४, ३; -मा: शोभी २६, ८: १२. गर्भ-कर्तृ-ता अत्र २, १०, १८४. गर्भ-कर्म-मैणि वृद्धे ५, १२. गर्भ-का( म )मा-मा कौण्ड १, १०, २४; शोण्ड १, १७, ६; पाण्डु १, ९, ५; -माथि शोभी ५, १४, १२.  $\sqrt{\text{गर्भकाम्य}} > \text{गर्भकाम्या-न्यया वृद्धे ७, ५. गर्भ-कारम्} \text{ आप्तो १, ११, ४; वैशाथी २७, १८; निम् ८, २: २५. गर्भ-वृद्ध-वृद्धे आप्तो २, ६, ४: २३; शोण्ड १३२. गर्भ-ज-ज: अत्र १३, ४, १. गर्भ-मृतीय-ये शोण्ड १, ११: १. गर्भ-वृत्त-मेण्ड कौण्ड २, १, ०; शोण्ड २, १, ३. गर्भ-दह्य-गानि कौण्ड ३५, १२; -पाण्ड अत्र ६, १५. गर्भ-दह्य-नेयता > अत्र-न्यम् अत्र ६, १०. गर्भ-द्वार-नीं विण्ड २७, १७; -मेण्ड कौण्ड २, १, ४; शोण्ड २, १, ५; आप्तो १०, ३; शोण्ड २, ५,$

२; माण्ड १, १: ५; पाण्डु ५, २; शोण्ड २, १०, २; आप्तो १, १, ११; हिण्ड १, १, २१. गर्भ-घ-घम् शोभी १५, २१: ३५. गर्भ-नयन-मेण्ड माण्ड १, १: ६. गर्भ-निदान( न )नी-नीम् या ३, ६. गर्भ-पतन-ने वाण्ड ४, ३४. गर्भ-पुरोडाश-शम् आप्तो ९, १९, ६; ७, १३; शोभी २०, ३८: ५; शोभी १५, ८, १९; २६; २८६ -नेन आप्तो ९, १९, ७. गर्भ-भर्तृ-संयोग-ये वाण्ड ४, १, ३२. गर्भ-भूत-ता: अत्र ६५, १, ७; -तामि निम् ८, २: ५१. गर्भ-मास-स्वयं शोण्ड २, ६, १; -शे आप्तो १, ३, २; १४, १; वाण्ड ३३, १; माण्ड १, १५, १; १६, १; वाण्ड १६, ५, ७; -मेण्ड काण्ड ३२, २. गर्भ-मास-सुख-न्या: सुधण्ड ८४: २; -न्यामि सुधण्ड १२. गर्भ-मास-स( म )मा-मा: शोण्ड १४, १६. गर्भ-मास-स( म )मा-ता: शोण्ड १, ५, १११. गर्भ-शरण-शम् कौण्ड १, १३, १; शोण्ड १, २१, १. गर्भ-शरण( श-क )नी-नीम् अत्र ८, ६. गर्भ-रत्न-नम् आप्तो १, ११, १;

a) लघा. गर्भ: < > गर्भे इति पाठे. b) पाठे. वैप १, १३०० ह. द. c) पाठे. वैप १, १२१७ ह. द. d) पाठे. वैप १, १२१७ ज. द. e) पाठे. वैप २, ३४. गर्भम् तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द. f) पाठे. वैप २, ३४. गर्भम् तैत्रा १, २, १, १४ टि. द. g) पाठे. वैप १, ११८५ ०. द. h) पाठे. वैप १ शुद्धम् लि ४, १३, ३ टि. द. i) पाठे. वैप १, १२१८ त. द. j) = अवि विद्येय- k) गर्भम् इति पाषाणानिति C. (व. तैत्रा २, ४, ५, ७). l) म: इति पाठ: १ पत्रि. शोष: (त. शोष, पाण्ड. वा). m) = अस्त-विद्येय- इति MW. n) परपरं पाठे. o) वैप १ द. p) विप. 1. उत. उप. अविचरये कृ. 1

-साय आपथी ९, १९, ५.  
 गर्भ-लम्भन- -नम् काण्ड १, १३, १.  
 गर्भ-वत् वैश्व ६, ३ : २; वृदे ५, ८५.  
 गर्भ-वत्- -वन्ति निम् ८, २ : २६;  
 २७; ४४.  
 गर्भवती- -ती वीथी २४, १८ :  
 १६.  
 गर्भ-वास- -से शीघ्र ३७०.  
 गर्भ-वामिन्- -स्ती शीघ्र ३७७ : २३.  
 गर्भ-विधान- -नम् निम् ८, २ : ४७.  
 गर्भ-विनिःसृत- -नानाम् काथ  
 २७४ : २.  
 गर्भ-वेदन-> -न-सुंसवन<sup>०</sup>- -नै.  
 वंताथी १२, १४.  
 गर्भ-वेदि(न<sup>०</sup>)नी<sup>०</sup> -न्यः माण्ड  
 २, १८, २.  
 गर्भ-शासन- -नम् आपथ १, २१,  
 ८; हिष १, ६, ३८.  
 गर्भ-संस्कार- -राः वैश्व ६, ३ : १२;  
 -रान् वैश्व ६, ३ : ९.  
 गर्भ-संस्त्राव- -वे ऋष २, १०,  
 १६२; अथ २०, १६१<sup>१</sup>.  
 गर्भ-सङ्ग- -जे वैश्व ३, १४ : ४.  
 गर्भ-स्पन्दन- -ने शीघ्र १५.  
 गर्भ-स्त्रयन- -ने सुव १९; सुषप  
 ८४ : २.  
 गर्भ-स्त्रयन- -ने वीथि ३, ६, २.  
 गर्भ-स्त्राव- -वे वीथ १, ५, १७;  
 विष २२, २५.  
 गर्भस्त्रावि(न<sup>०</sup>)नी- -णी ऋष  
 २, १, १०१; ५, ७८.  
 गर्भा(भे-आ)दि- -दिः वीथ १, २,  
 ८; गौष १, ९; -दिभिः वैश्व ३,  
 ९ : १२.

गर्भा(भे-आ)धान<sup>०</sup>- -नम् काण्ड ३०,  
 ८; वैश्व ६, ३ : ४; कथ १,  
 ५, ५.  
 गर्भाधान-काल- -ले वैश्व ६,  
 ३ : १.  
 गर्भाधान-सुंसवन-सीमन्तोद्भयन-  
 जातकर्म-नामकरणो(ण-उ)पनि-  
 प्तामणा (ण-अ)ध्यादान-वौलो-  
 (ल-उ)पनयन-प्रवचर्था (या-अ)  
 ध्ययन-समावर्तन-विवाह-पञ्च-  
 दाना (न-आ)दि- -दीनि  
 सुष ५.  
 गर्भाधान-सुंसवन-सीमन्तोद्भयन-  
 जातकर्म-नामरक्षण (ण-अ)ध्यादा-  
 न-वौलो(ल उ)पनयन- -नम्  
 गौष ८, १३.  
 गर्भाधान-सुंसवन-सीमन्तोद्भयन-  
 विष्णुवलि-जातकर्म-नामकरणो  
 (ण-उ)पनिष्पामणा(ण-अ)स-  
 प्राशन-वौलो, ल-उ)पनयना (न-  
 आ)दि- -दि गौष ४, ६, १.  
 गर्भाधान-वत् वैश्व ६, ३ : ६.  
 गर्भाधाना(न-आ)दि- -दि वैश्व  
 ६, ७ : ४; -दिषु शीघ्र २८,  
 -दीन् वैश्व ६, ६ : ७.  
 गर्भाधानादि-क्रिया- -याम्  
 वैश्व २, १, २.  
 गर्भाधानादि-चतुर्थे- -र्थे वैश्व  
 ३, ११ : १.  
 गर्भाधानादि-वौडका(क-अ)  
 न्त- -न्नेषु वैश्व ६, ६ : ३.  
 गर्भाधानादि-वर्षे- -र्षे वैश्व  
 २, ३ : ९.  
 गर्भाधानादि-संस्कार- -रम्

वैश्व ६, ७ : ६; -रान् वैश्व २,  
 ३ : ८; -रेषु वैश्व ६, २ : १०.  
 गर्भाधानाद्य (दि-अ)धम-  
 -ने वैश्व ३, १२ : १.  
 गर्भा(भे-आ)धानक<sup>०</sup>- -कम् आज्यो  
 ९, ५.  
 गर्भा(भे-अ)र्थे- -र्थम् वृदे ५, ८२;  
 ८५; ८, ८३; अथ ५, २५.  
 गर्भार्था(र्थे-आ)दिस- -तीः  
 ऋष २, १०, १८४.  
 गर्भा(भे-अ)धम- -मे<sup>०</sup> आण्ड १, १९,  
 २; पाण्ड २, २, १; शीघ्र ३१-३३;  
 विष २७, १५; -मेषु<sup>०</sup> कौण्ड  
 २, १, १; शीघ्र २, १, १; आपथ  
 १०, २; वीथ २, ५, २; भाण्ड १,  
 १:५<sup>१</sup>; वाण्ड ५, १; गौष २, १०,  
 १; वाध ११, ४९; आपथ १, १,  
 ११; हिष १, १, २१.  
 ✓गर्भि, गर्भयेत् अण्ड ७०<sup>०</sup>, ७, १.  
 गर्भित- पा ५, २, ३६.  
 १गर्भिन्<sup>०</sup>- -भिणः लुन् २, ६ : १.  
 २गर्भि(न्<sup>०</sup>)गो<sup>०</sup>- -गाम् २, १, ७०;  
 ४, २, ३८<sup>१</sup>; -जयः<sup>०</sup> आपथी १९,  
 १६, १०<sup>१</sup>; -णी आपथी २२,  
 १०, १८; वीथी १२, १९:७; १८,  
 ३० : ६; वाथी ३, ३, ४, ४४<sup>१</sup>;  
 निम् १, १० : २५, आपथं, दिण्ड  
 १, २५, १<sup>१</sup>; -णीः हिथी १०,  
 ४, १४, -णीनाम् काथी २४, ५,  
 २८; काथीसं २१:२२; २२:२०;  
 २२; माण्ड १, ४, १५; -णीभिः  
 वीथी १२, २ : १४; -णीभ्याम्  
 शीथी १५, १४, १३; वाथी १५,  
 ९, १२<sup>१</sup>, -णीम् वाथी २५, ११,

a) = कर्म-विशेष-। उच.। b) = मन्त्र-विशेष-। द्वस.। c) = ऋष-विशेष-। उच.। d) = नान्ये  
 इति पाठः ? यनि. शोषः। e) = संस्कार-विशेष-। f) विष.। बस.। g) परस्परं पाभे.। h) अर्थः ?।  
 i) विष. (योपिद- प्रसू.)। वैष १ द्व.। j) = क्षेत्रमक्षि- (द्व. पाण्ड.)। k) वैष १, १२११। द्व.। l) पाभे.  
 नैष १ पुण्यम् शौ ३, २३, ४ टि. द्व.। m) = याम् इति पाठः ? यनि. शोषः (द्व. वीथे.)।

१९; आपथी १८, २१, १३;  
 वीथी १२, १९: ६x४; द्विथी;  
 -णीयु लाथी १०, १७, ३; -ण्यः  
 काथी २, ५, १५; काथी १२, ५,  
 १५; वीथी २४, ३८: ४; -ण्यया  
 पा २, १, ७१; -ण्ययाः आप्रिय  
 ३, १०, २: १; वैथ ६, ३: ११;  
 ७, ५: ६; -ण्ययाम् वीथि ३,  
 ९, १; -ण्यै वीथ २, ३, ५७.

गभिन्- पा ४, २, ३८.

गभिन्नि-प्रायश्चित्त- -तम्

आप्रथी २, १९, १४.

गभे-तृप्त- , गभे-दृप्त- , गभे-  
 धीर- , गभे-धूर- पाग २, १,  
 ४८; ६, ३, ८१.

गभे(भे-दे)कादश- -के० विध २७,  
 १६; द्वि १, १, २१; -शेषु०  
 वीथ २, १, १३; गीथ २, १, ४;  
 आपथ १०, ३; वीथ २, ५, २;  
 भाथ १, १: ५; काथ ५, २;  
 गोथ २, १०, २; आपथ १,  
 १, १९.

गभे(भे-उ)नय- -वाः अय ६४, ८,  
 १०.

गभे(भे-उ)पपत्ति- -चित्तः नित् ८,  
 २: ४८.

गभुत्- पाठ १, १५.

गभुत्- -वाः द्विथी २२, ५, २३;  
 -तम् वीथी १३, ३६: १; ३;  
 -ताः वीथी २४, ५: १८; -ते

माथी ५, १, ९, २४; २५.  
 गभुत्-तृप्त- -माः आपथी  
 १६, १९, १५.

√गर्भ- पाथा. भ्वा. पर. कर्षः, सुरा.  
 आत्म. माने.

गर्भ- पाठ १, १५५; पाग ३, १, १३<sup>७</sup>;  
 ५, २, ३६; -र्भम् मासि १२, ६.

√गर्वाय पा ३, १, १३.

गर्वित- पा ५, २, ३६.

गर्वर- पाठ २, १२१.

√गर्ह पाथा. भ्वा. आत्म. वृत्तायाम्;

सुरा.उभ.विनिन्दने, गर्हते आपथी  
 २०, १८, ४; ६; वीथी; गर्हन्ते  
 आपथ १, ३०, ७; द्वि १, ६,  
 २१.

गर्हते विध १३, १२.

गर्हण- -णाम् विध ५५, १४.

गर्हमा(ण >)ण- -णाम् वीथी  
 १५, २९: ३१.

गर्हा- -र्हायाम् या २, २; पा ३,  
 ३, १४२; १४९; ६, २, १२६;  
 पावा ३, १, १४२.

गर्ह-प्रभृति- -ती पावा ३, ३,  
 १४१.

गर्हित, पा- -तः कप्र २, २, १२;  
 वाथ २, ४१; वीथ १, ५, ७१;  
 -तम् आपथ २, ८, ३; ५; भाथ,  
 -ताः आपथ ३, १२; -तेन विध  
 ५४, २८.  
 गर्हित(त-थ)प्रापक-यानक-

-त्रः वाथ २३, ३६.  
 गर्ह- -र्हाः या १, १४; -र्हम् पा  
 ४, ४, ३०; -र्हाय पावा ४, ४,  
 ३०.

गर्हा-पणितस्या (व्य-त्र)निरोध-  
 -शेषु पा ३, १, १०१.

√गल्- पाथा. भ्वा. पर. अदने; सुरा.  
 आत्म. लवणे.

गलन्, ता<sup>०</sup>- -नम्, -नाः या ६, २४<sup>०</sup>.

गालन्- -नेन या ६, २४.

जलाल्पमान- -नः या ७, १३<sup>०</sup>.

गल्- पाग ४, १, ४५; ५६; २, ४९<sup>०</sup>;  
 पावा ८, २, १८<sup>७</sup>; पागवा ५, २,  
 ९७; -ले गोथ १, २, २६; वीथि  
 ३.

गली- पा ४, १, ४५.

गल-विल- -लस्य आशि ८, ७.

गल-ल- पावा ५, २, ९७.

गल-शु(षडक >) णिडका<sup>०</sup> - -के विध  
 ९६, ९२<sup>०</sup>.

गले-शेषक<sup>०</sup>- पावा २, १, ३३.

ग(व्य >)लवा- पा ४, २, ४९.

गलडा<sup>०</sup> (> गालडि- पा.) पाग  
 ४, १, १६.

गाल्गा<sup>०</sup>- -लगाः आपथी ८, ७, १०<sup>०</sup>.

†गल्दा<sup>०</sup>- -लदा<sup>०</sup> निप ४, ३; या  
 ६, २४<sup>०</sup>; शीथि १२; -लदा  
 निध १, ११.

†रगल्दा- -न्दा<sup>०</sup> माथी १, ७, २,  
 १८; या ६, २४<sup>०</sup>.

a) पू. हसः (तु पाग ७, ३, १०७) । b) तु. पागम. । c) परस्परं पागे. । d) वैप १ द. । e) विप. ।  
 वस. । f) = र्भ- । व्यु. ? < √गु (शब्दे) इति पाठः, √गर्व इति अग. MW. । g) वैप ३, २७१ h द. ।  
 h) = रस- । सोवे कर्तारि च प्र. । i) वृ ५५६ p द. । j) भाप. (क्षरण- ) । k) = कण्ट- । व्यु. ? । l)  
 = मन्स्यन्वन्त-विशेष- इति पागम., = वनस्वतिर्विशेष- इति MW. । m) = शरीरान्धय-विशेष- । पम. । n) 'लघु'  
 इति जीव. । o) = आत्मन-विशेष- (तु. नागेयः) । उभ. । p) व्यप. । व्यु. ? । q) = रगल्दा- । वैप १ द., ।  
 r) पाभि. वृ ९३८ पा द. । s) = वाच्- । व्यु. ? < गल- + √दा इति दे. । t) वैर १, १२१९ t द. । u) कर्षः  
 व्यु. च ? । गल- + धा- (< √धा कश्चिच्छे) > नैप. यनि. घमनि-न्याय इति ( तु. कैथि वृक्षो., SEX १०९ च ) ।  
 आ गल्दाः (आगलमाः) इति या. प्रमु. पदमेकं बुवाणादित्याः (तु. रररः, वृ ५५६ p, RNM च) ।

√गल्म् पाधा. भ्वा. क्त्वम्. घाट्ठ्वे.  
√गल्म् पाधा. भ्वा. क्त्वम्. कुत्वात्वाम्.  
ग(ल्ह् >)ल्हा- -ल्हा अग ३, २,  
१३१.

गव्- गो- द.  
गव्य<sup>०</sup>- पाउमो २,३,७; पाग ४,१,  
४१; -यः वाधी १६, ३, १४;  
१२,१३; वाधूथी ४, १९ : १९;  
३० : ८; -यम् वीथी १०,३४ :  
१०१; -याः क्व १, ८, ६; -ये  
वीथी २,५ : ९१.  
गवधी- पा ४, १, ४१; पावा  
४, १, ६३; -वी वाधूथी ४,  
३० : ८.

गादय<sup>०</sup>- ध्येन विध ८०,९.  
गदल- पाउमो २,३,९८.  
गदाप्र- प्रसृ. गो- द.  
गदाद्न-( > नी- पा. ) पाग ४, १,  
४१.  
गदाद्दिदक्षिणा- प्रसृ. गविनी-  
गविष्- गविष्टि- प्रसृ. गो- द.  
गविष्-पुन- -नाय क्व १, ४१, ५;  
कता ११, ५.  
गवीडा- गो- द.

गवीपुक.का<sup>०</sup>- -काः कापथी १६,  
१९, १३; वीथी २४, ५ : १०;  
माति ५०१; -केः कापथी १५,  
३, १६; माथी ११, ३, ९.  
गवीपुक<sup>०</sup>- -कम् कापथी १७,  
१२, १; १८, १०, १०; वीथी  
१०, ४० : १५५५; माथी ६, २,

४, ६; वीथी १९, ६ : ४०;  
वाधी २, ३, ९; दिथी १२,  
३, ८; १३, ४, १०; माति  
५२१.

गवीपुक-यवाग्- -वा कापथी  
१७, ११, ३; वीथी १९, ६ : ३४;  
दिथी १२, ३, ४.  
गवीपुक-यवतु- -तुभिः कापथी  
१७, ११, ३; वीथी १९, ६ : ३५;  
दिथी १२, ३, ४.

गवीपुका-प्रहण- -णम् पावा ४,  
३, १३४.  
गवीपुका-सक्तु- -क्तु माथी ६,  
१, ४, ३; वाधी २, ३, ३, ३६.

गवीपुनी<sup>०</sup>- -व्याम् कापथं १, १०,  
६; माण २, १८, ४; -न्वी  
वीथी १४, १४ : २११.

गवेषु(क >)का<sup>०</sup>- पाउमो २,२,२६;  
पाग ४, २, १३६; -काः वाधी  
२६, १, ३; ११; -कानाम् वाधी  
१५, ३, १२, -वाभिः वाधी  
२६, १, २३.  
गवेषुक- पा ४, ३, १३६;  
-कः वाधी १५, १, २६; -कम्  
पाण ५, ९, २; -के वाधी १,  
१, १२.

गवेषुका-सक्तु- -क्तु वाधी १८,  
१, ३.

गवैर- पाउमो २,३,६०.  
√गवेषु पाधा. वृग. उभ. मार्ल्ये.  
गवैय- ( > गवैय- पा ) पाग ४,

२, ७५.  
गवैयण- , १, २ गव्य- प्रसृ. गो- द.

√गह्<sup>१</sup>  
गहन<sup>०</sup>- पाउमो २,२,११२<sup>म</sup>; पाग  
३, १, १८; ६, २, १००; ८, ४,  
३९; -नम् कापथी २१, १२,  
९१; वाधी ३, २, २, ३६१; दिथी  
१६, ५, ३१; वैताथी ३४, ११;  
क्ये ४८, ७५, निघ १, १२; या  
१४, ११; -ते<sup>०</sup> कापथी २;  
११, १०; वीथी १, १० : १६,  
माथी २, ११, ११; दिथी १,  
८, ३१.

√गहनाय पा ३, १, १८; पावा  
३, १, १४.

गृगहन्<sup>०</sup>- -हन् माथी ६, १, ७,  
२२; वाधी २, १, १, २६; -ह्यम्  
कापथी २२, २६, १२; वीथी  
१८, ९, ३८; दिथी २३, ४, २७.

गण<sup>०</sup>- -ण वीथी १०, ४ : १०१.

गणद्वर<sup>०</sup>- पाउ ३, १; -रः कापथं  
२, १७, २२१; -रम् क्व ४८,  
७५१; या १४, ११; माति २,  
९०; -ते<sup>०</sup> कापथी २, ११,  
१०; वीथी १, १० : १६; माथी  
२, ११, ११; माथी १, २, ४, ४;  
वाधी १, १, २, १९; दिथी १,  
८, ३१.

गृगद्वर-(ह >)का<sup>०</sup>- -हा<sup>०</sup> वीथी  
६, २१ : १९; वाधूथी ४, ६० :  
७, वेण १, २१ : २.

o) हारुपे पाधे. च देव १, १२६९ j ड. । ग. (वी ६, २२, ३) तु = (१२१११) तुल्यपण- वाच्. इति कृया  
<√गल्म् [गल्मयाम्] + कर्त्तृणि कृदिनि । गिहर्त्तुः टि. क्वि ड. । b) वेप १ ड. । c) घोरिकाडय (गमनम्) दस्तेनि  
कृत्वा वय. नेर. > क्वि. इति पाउठ [२, ९०] । d) विप. (माय-). विचारे कण प्र. । e) = इन्द्रवारुणी-  
[कान-विद्ये-] इति पागम. । म्यु. १ । f) पाठः १ । क्वि-पु ( < पु ) न- इति धरुका [काल]। गोपुकाः । g) 'वेपु'  
इति गिहर्त्तुः टि. । h) पाधे. वेप १, १२१० f ड. । i) पाधे. वेप १, १२२०, e ड. । j) = गवीपुका- । l) टु.  
पाठः । क- इत्यदि मार्ल्या. । l) वेप १, १२१० j ड. । m) = वन- । n) वग. कठ ३१, १४ माथी  
१, २, ४, ४ विटिः पाधे. । o) पाधे. वेप १, १२१४ p ड. । p) पाधे. वेप १, १२२० m ड. ।

१३; -प्रथमऽत्रम् आश्री ३, ३;  
 १; शाश्री ५, १७, ६; -प्रत्य वृदे  
 ४, ३०; आशि ८, २०; २१; -प्रमा  
 आपश्री १२, २४, १३; माश्री  
 २, ४, १, १५; तिथी ८, २,  
 २३; जैश्री १४: १८; वेताश्री  
 १२, १८; कौश ६२, १७; क्षपा ३,  
 १, ७; -त्राणाम् शौश्री १४, १५:  
 १६; अप ६८, ५, ११; -त्राणि  
 शश्री १०, १७, ४; काश्री ९,  
 १२, ४; आपश्री; -त्रे कौशि  
 ३; -त्रैः अप ७०, १, १; ७१,  
 ६, ४.  
 गात्र-प्रहरण-ध्वज- -जान् अप  
 ७०, ८, ४.  
 गात्र-भान्- -भानः शौश्री १४,  
 १५: १७.  
 गात्र-शोद- -दः अप ३, ३, १.  
 गात्र-शुद्धि- -द्विम् वैश १, ३: २.  
 प्रगात्र-शुभ- -भाः आमिष्ट ३, ४,  
 २: १६; नौषि ३, २, ३, नौषि  
 १, २, ४, १.  
 गात्रा(प्र-आ)दि- -देः कौशि ४.  
 गात्रा(प्र-अ)बुलेपन- -न्म् शेष  
 १९७.  
 गात्रो(प्र-उ)स्तादन- -न्म् कप्र ३,  
 ६, १५.  
 गात्रोस्तादना(न-अ)जन-वेदा-  
 संयमन-पादप्रक्षालना(न-आ)  
 दि- -दीनि विष ३२, ६.  
 रगात्र<sup>०</sup>->गात्र-वीणा<sup>०</sup>- -गा नाशि  
 १, ६, १३; २.  
 गायक-, गाय- √गै द.

१ गायिन्<sup>०</sup>->यिनि वृदे २, १३१; -मी  
 शअ २, ३, १; १९.  
 गायिन<sup>०</sup>- पा ६, ४, १६५; -०न  
 आश्री १३, १४, ६; -नः शअ  
 २, ३, १; साअ १, ५४; ६२;  
 ७९x४; -प्रनाः शाश्री १५, २७,  
 १६.  
 गायिन-भागव- -वौ वृदे  
 ८, ७०.  
 गायिन-सामन्- -स जैश्री  
 २२: ६; जैश्रीका २१.  
 गायिनः (सामन्-) आपश्री  
 ५, १०, ११.  
 गायिनौ(न-श्री)वंश- -शौ  
 वृदे ३, ५६.  
 गायि-शुत्र- -त्रः वृदे ४, १५.  
 गायि-सूनु- -न्वे वृदे ४, ११२.  
 रगायिन्- √गै द.  
 गाद्-, गादायन-, गादि- रगद- द.  
 गादिकि- गदिक- द.  
 गादित्या, इया- रगदित्, व- द.  
 गार्ध (= गार्ह) पाषा. भ्वा.  
 आत्म. प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च.  
 गाण, घा<sup>०</sup>- -घः या २, २; -प्रथम्  
 आश्री २१, २०, ७; पाण ३,  
 ३, ५; नाशि ४८; -घाः या  
 २, २४; -घे आपश्री ६, ४,  
 ७.  
 गाण-लक्षण- -णयोः पा ६, २,  
 ४.  
 गाधेर- (> धेरकायनि- पा.)  
 पाण ४, १, १५८.  
 गान- प्रथ. √गै द.

गान्नु- पाठ ५, ४३.  
 गान्त्र- पाठ ४, १६०.  
 गान्दिक- गन्दिका- द.  
 गान्धपिङ्गलेय- गन्धपिङ्गला- द.  
 गान्धर्व्ये-, श्वी- प्रथ. गन्धर्व- द.  
 र, रगान्धार- गन्धार- द.  
 रैगान्धार- -रः नाशि १, ११; १३;  
 २, १; नाशि १, २, ५; ७, १५;  
 ४, १; ४; ६; ८; ५, १; ५; ९;  
 १३; १६; ७, ३; साम् ३, २१;  
 -रम् याशि १, ८; नाशि १,  
 ५, ३; -रस्य नाशि १, ४, ७;  
 -रे नाशि १, ९; नाशि १, २,  
 ११.  
 गान्धार-धाम- -मम् नाशि १,  
 २, ८.  
 गान्धारक-, गान्धारि- गन्धार-  
 द.  
 गान्दिक- गन्दिका- द.  
 गामि<sup>०</sup>- (> गामि-शाला- पा.)  
 पाण ६, २, ८६.  
 गामिन्-गामिनी-, गामुक- √गम्ह  
 द.  
 गाम्मीर- रगम्मीर- द.  
 गाम्मीर्ये- रगम्मीर- द.  
 गायत्-, श्वी-, गायत्र-, श्री- प्रथ-  
 √गै द.  
 गारिच- पाठ ४, १७१.  
 गारुमती- गरु-मत्- द.  
 गारेट- पाठभो २, २, ११०.  
 गारेटकायनि- गाधेर- दि. द.  
 गारेध->धेरकायनि-गाधेर- दि.  
 द.

a) पाणे. वैप १, १२२२ c द.। b) पाणे. वैप १, १२२२ h द.। c) अर्थः व्यु. च ?। d) = वीणा-  
 विशेष-। e) = श्वनि-विशेष-। वृ. ?। f) = विश्वामित्र-। g) पाणे. वैप २, २३. गायिनाम् ऐना ७, १८  
 -दि. द.। h) वैप १ द.। i) वृ. पाणम.। व्पर.। व्यु ?। गारेव- इति पाका., नौधेर- इति भाष्या.,  
 गारेट- इति [७७] पाणम.। j) = स्वर-विशेष-। व्यु. ?। k) ग<sup>०</sup> इति लातं.। ?) = आचार्य-विशेष-। व्यु. ?  
 गौमि- इति पाका., गोमि- इति पाशि.।

गारेय- गरि- द.  
 गार्ग्य- गार्ग- द.  
 गार्गी-, गार्ग्य- प्रत्य. गार्ग- द.  
 गार्त-, गार्तक-, गार्तकूलक- गार्त- द.  
 गार्त्साम्द- गृसमद- द.  
 गार्दभ- गर्दभ- द.  
 गार्भिण- गर्भिणी- द.  
 गार्मुत- गर्मुत- द.  
 गार्हपत- प्रत्य. √गृह्, द. द.  
 गालडि- गलडा- द.  
 गालन- √गल्, द.  
 गालव- -वः वृदे १, २४; ५, ३९;  
 ६, ४३; ७, ३८; दृष्ट २, ३४०;  
 या ७, ३; वैशि ५; -वत्य पा  
 ६, ३, ९; ७, १, ५४.  
 गालव-गडुल- पा २, २, ३८०.  
 गाघव- गघव- द.  
 गावामयनिक- गाविष्टर-, वापण-,  
 गाविष्टल-, ल्ययन- गो- द.  
 गावीधुक- गवीधुक- द.  
 गावेधुक- गवेधुक- द.  
 गावेश- गो- द.  
 √गाह्, पावा. भ्वा. आत. विलोचने,  
 गाहेते द्विथी १०, ५, २९.  
 गाढ- ङम् कप्र १, ८, २.  
 गाढ-तर- ऱम् काथी ८, २, ४;  
 वैथी १२, २४; १<sup>प्र</sup>.  
 ग्राड- (> ग्री- पा.) पाग ३, १,  
 १३४<sup>०</sup>; ७, १, ४१.  
 ग्राहन- ङम् माथी २, १, २,  
 ३२.  
 ग्राहमान- ङः कौत् २६, ३१.  
 ग्राहि- (> राह- गोह- टि. द.

गृगिद्- -द प्राथी ५, ४, १०;  
 लाथी २, ८, ११.  
 गृध्र- पावाग ३, २, ५.  
 गृह्- √गृह् ( गृह् ) द.  
 गृरण-, गृरति-कर्मन्- √गृ  
 ( निगरणे ) द.  
 १ गृरस्योः वाग्न ३० : २३.  
 १ गृरि- पाठ ७, १४३; पाग ७, २,  
 १००<sup>०</sup>; ५, २, १००; -रयः  
 वीथी २५. १० : ३; आग्य ३,  
 ४, १; कौष्ट २, ५, १; ३, १५,  
 ५<sup>प्र</sup>; शंष्ट ३, १३, ४<sup>प्र</sup>; ७, ९,  
 ३; अणः -रिः आपथी १७,  
 २०, ४<sup>प्र</sup>; वैथी २१, ६ : ४; अण  
 ७८, १०१; निय १, १०<sup>प्र</sup>;  
 या १, २०<sup>क</sup>; -रितिः सु ९,  
 ३; -गृरिन्त्यः या ६, ३३; उम्  
 २, २३; -रिम् माथी ५, १, १०,  
 ६४; पाग्य २, १५, १२; आगिष्ट  
 ३, ९, ३; ११; वीथिः -रिषु वीथी  
 १५, १६ : ८; वैताथी ३०, १३<sup>प्र</sup>,  
 अण ३२, १, ७<sup>प्र</sup>; ६५, १, २; ऋष्य  
 ५, ४, ९, १; अण २ : ४१; -रिणाम्  
 सु ९, ३; या २, २४; -रिन्  
 आपथी २१, १२, ३<sup>प्र</sup>; वीथी २५,  
 १० : २; द्विथी; -रेः आपणं  
 २, २२, ५<sup>प्र</sup>, पाग्य ३, ७, २;  
 वीथिः या ५, १६<sup>प्र</sup>; पा ५,  
 ४, ११२; -री आथी १०, ८,  
 १२; १३; शाथी १६, ४, २<sup>प्र</sup>;  
 काथी; आपथी १७, २९, ३<sup>प्र</sup>;  
 द्विथी १५, ७, १६<sup>प्र</sup>;  
 गैरिक् > का(क-आ)दि-

-यम् वृदे ७, ८०.  
 गैर्य- पा ७, २, १७; -यन्  
 वीथी १५, १६ : ८.  
 गैर्यी- थ्यी वीथी १८,  
 २ : ५.  
 गैर्य-कविमती- थ्यी वीथी  
 १८, ३९ : २.  
 गिरि-क- पाग ५, ४, २९<sup>०</sup>.  
 गिरि-गडर-कानन- -वाः अण ६८,  
 १, ४७.  
 गिरि-गुहा- -हायम् अण ७०,  
 १, ६.  
 गिरि-ज- -जाय आथी १२, ९,  
 १८.  
 गिरि-ण, नृण- पावा ८, ४, १०.  
 गिरि-ण, नृथी- पावा ८, ४, १०;  
 पा, पाग ८, ४, ३९.  
 गिरि-ण, नृद्, गिरि-णि, नि-  
 तन्व- पावा ८, ४, १०.  
 गिरि-नगर- पा, पाग ८, ४, ३९.  
 गिरि-निकाय- -ययोः पा ६, २,  
 ९४.  
 गिरि-निलया( य-ङ ) शि-जीविन्-  
 -यिनः अण ५१, ४, १.  
 गिरि-निद्- -निव काथी २५, १४,  
 २२; आपथी १७, २०, ४<sup>प्र</sup>;  
 द्विथी १५, ५, २३; -निदाम्  
 आपथी ११, २०, ५.  
 गिरि-नाग( न-ङ ) द्र- -पुत्री->  
 थ्यी-महेश्वर-प्रियसुनु- -नुम्  
 ऋथ ३, १.  
 गिरि-वर-पतन- -नम् अण ७०<sup>०</sup>,  
 ११, १४.

a) = आचार्य-विशेष-। न्यु. १। b) तु. पागम.। c) या २, २ परात्पठः द.। d) सप्र. गाढतरम्  
 <> संज्ञारम् इति पठि.। e) तु. पाति.। गाह- इति भाण्डा.. ग्राह- इति पाका.। f) वैप २, ३३. द.।  
 g) अर्थः न्यु. न १। h) वैप १ द.। i) सप्र. गिरयः <> पर्यतेः इति पठि.। j) पाठः १ गिरिः इति शेषः  
 ( तु. शी ६, ४९, २ )। k) = धातु-विशेष-। तत्रप्रविचम् ङम् प्र. उचं. ( पावा ७, ३, ६० )। l) = कुमार्यः।  
 मीडनक-विशेष-, पापाण-। m) = दिमाचल-। n) = गणेश-।

गिरि-वर्मन्- -मां कप्र २, ९,  
-१६.  
गिरि-व्यङ्ग-ज- -जः अत्र ५१,  
-१५.  
गिरि-दृष्टि- -दाः आश्री २, १०,  
१४; आपथी ११, ९, १; द्विथी  
७, ५, ३५; अत्र १, १६, ४; या १,  
२०; उम् ५, १.  
गिरि-स्थायिन्- -वी या १, २०.  
गिरि-वि- (रि-ञो)पदि- -व्योः पावा  
३, ३, १०४.  
रगिरि-> गिरि-त्र- -०प्र शुभ्रा  
५, १०५.  
गिरि-श- पा ५, २, १००; पावा ३,  
२, १५; -१००श शुभ्रा ५, १०५.  
गिरि-वृद्ध- -वदे पाठ ३, १५,  
१२.  
रगिरि- (> गैरायण- पा) पाग  
४, १, ११०.  
गिरि-ददाय वाश्री ३, ४, १, ५.  
गिरि-वर्णस- √गृ, गृ (शब्दे) द.  
गिरि- , गिरि-गिरि- √गृ (निगारेण)  
द.  
गिरि-कोशोप्यौ- वैताश्री ३४, ९.  
गीर्त्वा √गृ (निगारेण) द.  
गृ, गृ पाधा. भ्वा. आत्म. अन्वये,  
शब्दे गती [निघ.] तुदा. पर.  
पुरीषोत्सर्ग, शब्दे निघ २,  
१४५.  
गूल- पावा ८, २, ४४.  
गुण- -गुणम् आश्री १९, १०,

-१३; वीथी ३, ३०। १३; अपाय  
१, ३.  
गुं वाधि-२; ९४; शुभ्रा ८, २४.  
गुग्गुल- -लम् वैष्ट ६७ : १४; अत्र  
१९, १, २; विघ ७२, १०; वैघ  
२, ४, २.  
गुग्गुल-गन्धि- -व्यव- वाश्री ३,  
२, ५, ४२.  
गुग्गुल-सुगन्धितेजन- -वे वैथी  
१०, ६ : ११६.  
गुग्गुलि- -दिः वीथीप्र ४६ : १.  
गुग्गुल- -पाग ४, ४, ५३; -लु अत्र  
३३, ७, १; -लुः वृदे ७, ७८;  
-लुम् अत्र ४०, २, ४; ६६, २, २;  
अश्री २०, ५५; शेष १२७.  
गुग्गुल- पावा ४, १, ७१.  
गौग्गुल- (> वी- पा.)  
पाग ४, १, ७३.  
गुग्गुल-क, की- पा ४, ४, ५३.  
गुग्गुल-कुष्ठ-धूप- -पम् अत्र ४, ४,  
७, ५, १०, ६, २, ३; १७, २, १४.  
गुग्गुल-गन्धि- -व्यव- वीथी  
१६, २३ : १; वैताश्री ३४, ९.  
गुग्गुल-लवण- -गे कौसू १९, १५;  
२०, २५.  
गुग्गुल-सुगन्धितेजन- -नम् आश्री  
७, ५, २, द्विथी ४, २, १५  
गुग्गुल-सुगन्धितेजन-वैतुदास-  
-रभि. आश्री ११, ६, ३.  
गुग्गुल-सुगन्धितेजन-वृत्त्येस्तुका-  
-काः काश्री ५, ४, १५.

गुग्गुल-होम- -मा अश्री २४, ६५.  
गुग्गुल- पाधा. भ्वा. आत्म. अन्वये  
शब्दे, शब्दे-व.  
गुग्गुल- (>) हृग्- -हृग्ः वैष्ट १, ६ :  
११०; वृदे ८, १२५.  
गुग्गुल- (हृग्-२आय) > पा-  
-धाः वृदे ४, ८७.  
गुग्गुल- पाउमो २, २, ८३.  
गुग्गुल- पाधा. तुदा. पर. शब्दे.  
गुग्गुल- पाधा. भ्वा. पर. अन्वये शब्दे-  
गुग्गुल- (>) टिका- -काम अत्र ३६,  
१७, १.  
गुग्गुल- पाधा. तुदा. पर. रक्षायाम्.  
गुग्गुल- पाउ १, ११५; पाग  
४, २, ८०; ४, १०३; ६, २,  
१९४; -टः शेष १८४; वीथ  
१, ५, १४; -टम् विघ ४४, ३०.  
गौग्गुल- पा ४, ४, १०३.  
गौग्गुल- (>) डी- -डी विघ २२,  
८२.  
गुग्गुल-कापस-धान्य- -न्यानि शेष  
३९५.  
गुग्गुल-तिल-हिरण्य-वस्त्र-गो-धान्या-  
(न्य-धा)दि- -प्रतिग्रह- -इष्टु  
शेष १७.  
गुग्गुल-धेनु- -नुम् अत्र ९, ३, १.  
गुग्गुल-पावस- -सम् आश्री २, ५,  
७ : १५; ३, ११, ४ : १३; वीथ  
१, ११, ११.  
गुग्गुल-मिश्र- पावा २, २, ३५.  
गुग्गुल-मिश्र- -अम् द्विपि १७ : ८.

a) = काचार्य-विशेष-। b) वैश्व ६.। c) वैश्व १, १२२४ ई. द.। d) पागो. वैश्व १, ११६१ क. द.।  
e) व्यर.। व्यु. ?। f) पाठः ? ( तु. पामि. पृ ४७५ h)। g) = यम-विशेष-। h) विप.। बम.।  
i) सप्त. गुग्गुल- <> गुग्गुल- <> गुग्गुल- इति पाठे.। j) सप्त. लसुगन्धितेजने <> लसुगन्धितेजनम्  
<> गुग्गुलसुगन्धितेजनम् इति पाठे.। k) अग्नि इति पाठः ? यति. शोषः। l) = कपि-विशेष-। व्यु. ?।  
m) = गुग्गुल-। व्यु. ?। n) प. अत्रुद् द. o) ङुः इति पाठः ? यति. शोषः ( तु. प्र २, ३२, c)। p) = वटिका-।  
व्यु. ?। q) आश्रीनष्ट वीथ. वैघ. पाठः। r) < √गृ इति पाठः ?। s) अर्थः ?। t) तु. पाका.। गुग्गु-  
इति भाष्य. प्रमृ.। u) = सुता-। v) दस. > वस. > वस.।

गुह-र- पा ४, २, ८०.  
 गुहा(ड-कृक->)का- कया अय  
 ३५, १, ८.  
 गुहा(ड-आ)अय-कल-युक्त- -कम्  
 वैध ३ १०, ३.  
 गुहा(ड-आ)दि- -दीनाम् विध २३,  
 ३१.  
 गुहो(ड-ओ)द्वन्- नम् आसिष्ट २,  
 ५, १ : ३४; अय २०, ३, ४.  
 गुहूची- पाठमो २, २, ८००; पाग ४,  
 १, ४१.  
 गुहुर- पाठ १, ५८.  
 ✓गुण पाथा. सुरा. उभ. क्षामन्त्रणे.  
 १गुण- पाग ४, २, ६००; ६३; ४, १०२;  
 ५, २, १५; ६, २, १०६; -णाः क्रप्राय  
 ४, २; अय ६८, २, ५६; वृदे २,  
 १०८; या ३, १४; ६, ३६; आशि  
 ४, ५; याशि १, ४८; मौस् २, १,  
 ८; १८; २, ५××; -णम् माथी १,  
 ४, ८; ७, १, ३; द्विथी ४, २, ६६;  
 वैध ५, १ : १०; अय ६३, १,  
 ६; शुभ ३, ११०; -णय पा ५,  
 २, ४७; पावा; -णाः शांश १,  
 २, २; वीध ४, १, २७; वृदे २,  
 १०८; या १०, २३; शैशि;  
 -णात् पावा २, २, ९; ६, २,  
 ९३; मौस् १, २, ४७××,  
 -णात् शंघ २२६; आपप २,  
 १०, २; द्विध २, ४, २; वृदे ८,  
 ६३; या १०, २३; १४, ५,  
 -णाताम् काथी १, ५, ९; ८, १,  
 मौस् १, ४, १६; २, २, ६; ३, १,  
 १५; २१; ४, ४, ४०××; -णे  
 वीथी ४, ४ : ४०; माथी १, ८,  
 २, २८; वैथी; पावा १, ४, ५१;

३, २, १२६; -जेन वीथी  
 ४, ४ : ३६; वैथी १०, ९ : ९;  
 या ३, १३; पावा १, २, ४५;  
 मौस् १०, ३, ६; -णेषु काथी १,  
 ६, १०; आपथी १२, २८, १५;  
 काठथी ३; १२; -थैः द्वाथी १,  
 १, ८; लाथी; पावा २, २, ८; ९;  
 -णो शीय १, १.  
 शीण- -णाः मौस् ३, २, १५; ८,  
 २४; १०, ३, ७१; -णाः वैथी  
 ११, १० : १४; ११ : २.  
 १गौण-मुख्य-> पथ्य-  
 मथेद-तस्य (:) शंघ  
 १००.  
 १गौणिक- पा ४, २, ६०; ६३; ४,  
 १०२.  
 गुणकर्मन्- -मणि पावा १, ४, ५१;  
 २, १, ६५.  
 गुणकाम- -मेषु मौस् ८, १, २३.  
 गुणकात्कर्त्तव्य- -कर्त्तव्यं वा ६, २,  
 ६३.  
 गुणकाल-विकार- -रात् मौस्  
 १२, १, २.  
 गुणकाम- पावा ४, २, ३७.  
 गुणतस्य (:) अय २, १०, १०५;  
 वृदे ५, १५६; साय १, १६७;  
 २३१.  
 गुणस्व- -स्वम् मौस् १०, ४, ५४,  
 -स्वात् काथी १५, ९, २८; २२,  
 ८, १४; मौस् ३, ८, १२××;  
 -स्वे मौस् ३, ८, ६; ९, १, १,  
 -स्वेन मौस् ६, १, १; ६, ११; ८,  
 १, ३४.  
 १गुण-लोप- -यः अय ५८, १, ७;  
 ६३, १, ६.

२गुण-लोप- -पान् अय २२, १, १;  
 शंघ २१८; -पौ विध ३२, १, ३;  
 कौशि ४१.  
 गुणब्रह्म- -ब्रह्मोः काथी १, ४,  
 १७.  
 गुण-य(द->)दी- -पाग ५, ४,  
 १३९.  
 गुण-प्रधान- -निष् मौस् ११, १, ९.  
 गुणप्रधान-स्व- -स्वात् पावा ५,  
 ३, ५७.  
 गुणप्रधान-भूत्- -जानि मौस्  
 २, १, ६.  
 गुण-भाव-> भवि-> भवि-स्व-  
 -स्वात् मौस् ९, ४, २६.  
 गुणभूत्- -ताताम् काथी ३, १४,  
 ५; -तेषु वृदे ५, ६६.  
 गुणभूत्-ता- -ता मौस् ४, १,  
 २०.  
 गुणभूत्-स्व- -स्वात् मौस् २,  
 १, १४; ३, २०; ४, ७; ६, ४, ४०;  
 ४३; ४, १, ११; ७, १, २××.  
 गुणभूत्-विकार- -राः मौस् १०,  
 १, २०; -रात् मौस् १०, १, २२.  
 गुणभेद- -दात् वृदे ५, ४६.  
 गुणभोक्त्- -वत् विध १७, १७.  
 गुणमात्र- -त्रम् मौस् ६, ३, २; ४२;  
 ९, ३, २०.  
 गुण-मुख्य-> ( > २गौणमुख्य-  
 पावा.) पावाग ४, ३, ८८.  
 गुणमुख्य-विशेष- -पाव मौस्  
 १०, १, २१.  
 गुणमुख्य-व्यतिक्रम- -ये मौस्  
 ३, २, १.  
 गुण-युक्त- -जाः शुभ ३, ४२.  
 गुण-योग- -सात् काथी १, ५, १३.

d) = देव-विशेष- ? L b) = शेष-विशेष- c) < ✓गुह [रखणे] इति । d) वप्रा. । = गौण, भाग-,  
 धर्म-, रज्जु-प्रसू. । वैप १ द्र. । e) गण-; गुण- इत्यस्य स्थाने गुणगुण- इति पाका. । f) गुण-, चरम- इति  
 द्विपदस्य स्थाने चरम-गुण- इति [पक्षे] पागम. । g) मल्लो. कस. । h) पूष. = तन्दु- (ह. पागम.) । i) तु. पागम. ।



गुण-होप- वे शीघ्री ३, २०, १७;  
मीस् १०, २, ११; ४, ३४.

गुण वचन- नम् पावा १, ४, १; ६,  
४, ५५; -नस्य पा ८, १, १२;

पावा २, १, ५५; ४, १, ३; ६, ३,  
३४; -नात् काथी २०, ७, २०;

पा ४, १, ४४; ५, ३, ५८; पावा  
४, १, ४४; -नेन पा २, १, ३०;

पावा २, २, ७; -नेभ्यः पावा ५,  
२, ९४; -नेषु पा ६, २, २४;

पावा २, २, २४.

गुणवचन-स्व- स्वात् पावा ८,  
१, १२.

गुणवचन-ब्रह्मणादि- दिभ्यः  
पा ५, १, १२४.

गुणवचन-वत् पावा १, २, ६४.

गुण-वत्- वत् विष ७७, ९; पा ५,  
२, ९५; -वतः माण्ड १, १६, २;

वाध ११, १८; -वति आमिण्ड  
२, ७, १० = ३; शंघ १५८, -वते

शंघ १३५; बौध २, ३, १२; ४,  
१, १२; विष २४, १९; ९२, ३२;

-वत्सु विष २८, ९; -वत्तः  
शंघ ४२, -वन्तम् गौष १५,

२१; -वान् शंघ ७; बौध २, २,  
१२; १३.

गुणवत्-ता- तया शंघ ८५.

गुणवत्-सहायो (य-उ) पाय-  
संप्रश्न- झः गौष ११, ४.

गुण-वर्जित- तः प्राज्यो १३, ५.

गुण-वाच्य- क्वात् मीस् २, ३, २७.

गुण-वाद- दः मीस् १, २, १०.

गुण-विकार- ताः आपथी १४, १,  
१; द्विथी ९, ७, १; आपथ्य १२,

१; द्विथ्य ४, २१; -रे मीस् १०,  
३, ३०.

गुण-विकृत- तम् आपथी २१,  
२४, १.

गुण-विमह- दः घृते २, १०२.

१गुण-विधान- नम् काथी ४, ४,  
३.

१गुण-विधि- धिः मीस् ७, ३, १७;  
११, ४, ४८.

गुण-विशेष- यात् मीस् ३, ६, ४६;  
-ये काथी १, १०, ११.

गुणविशेष-योग- नात् क्रपा  
१३, १३.

गुण-वृत्ति- ततिः नाशि १, ३, १.

गुण-दाब्द- द्दः मीस् ९, १, ३७;  
-द्वेन मीस् १०, ३, ५६.

गुणदाब्द-स्व- स्वात् मीस् १०,  
५, १५.

गुण-शासन- नम् मीस् १०, ४,  
२६०.

गुण-शास्त्र- स्त्रम् आपथ्य १३, ७;  
१४, ११; द्विथ्य ४, ५०; मीस्

१०, ६, ६४; ७, ६४.

गुणशास्त्र-स्व- स्वात् आपथ्य  
१२, १; द्विथ्य २, २१, मीस् १०,  
४, ५८.

गुण-श्रुति- तिः मीस् ३, १, २६;  
६, ४०; ४, २, २५; -तेः मीस्

१, ४, ६; -तौ मीस् १०, ४, २४.

गुण-संयुक्त- कः मीस् ३, १, २५.

गुण-संयोग- नात् मीस् ७, ३, ४;  
१०, ३, २१, ६, ६८.

गुण-संस्कार-विधि- धीन् गौष  
१५, ६.

गुण-संप्रश्न- झः गौष २८, ३६.

गुण-संमित- ताः रूप ५७, २, ७.

गुण-स्थान- ने मीस् १०, ४, ३४.

गुण-हादि- नौ काथी १, ६, ५;

-याम् आपथ्य २, १७, ५; द्विष  
२, ५, ३४.

गुण-हीन- नः वाध १५, १२;

-नम् बौध ४, १, १६; -नाय  
बौध ४, १, १२.

गुण( व-अ)गुण- (> गौणागु-  
गिक)- गुण- टि. ६.

गुण(ए-अ)चार-परिहरा- शार्द  
वाध १८, ७.

गुण(ए-आ)दि- द्यः पा ६, ३,  
१७६; -दिभ्यः पावा ४, २, ३७.

गुण(ए-अ)नुषह- हात् काथी १,  
४, १९; ६, १.

गुण(ए-अन्त)>न्ता- न्तायाः  
पा ५, ४, ५९.

गुण(ए-अ)न्वित- तः कप्र २, ५,  
८; -तम् वैश्रीका ७; -ताय  
कप्र २, ५, ८.

गुण(ए-अ)पाय- यात् मीस् ९,  
३, ४२०.

गुण(ए-अ)भाव- यात् मीस् ३,  
२, ७.

गुण(ए-अ)भिधान- नम् मीस् ८,  
४, ५; -नात् मीस् ३, २, २६; ७,  
१०.

गुण(ए-अ)भिधायक- कानि घृते  
५, १५.

गुण(ए-अ)र्थ, र्था- र्थः मीस् २,  
१, ४१; -र्थम् काथी ५, ४, ६;

घृते ८, १७; मीस् २, १, १५; ६,  
१, ४८; ७, ३, २२; १०, ५, ७७;

-र्था मीस् २, ४, २९; ३, ६, २०;  
७, ३, ५; -र्थायाम् मीस् १०,  
८, ४२; -र्थे मीस् १, ४, २३६;

८, ४, २१; २३; १०, ४, ५६;

-र्थेन मीस् १, २, ४१; २, २, १६;

a) विष. । कस. > दस. > वृष. । b) ष्यस्वात् इति जीसं. । c) ष्दास्त्र- इति जीसं. । d) वत्.

पूष. = आपथित- । e) ष्यावपा इति जीसं. । f) र्थेन इति जीसं. । g) र्थः इति जीसं. ।

१७; ३, ६, २७.  
 गुणार्थ-ता- वा मीस् ६, २, ५.  
 गुणार्थ-त्व- त्वस् मीस् ६, ४, ६;  
 १०; ७, ६; -त्वात् मीस् ६, १,  
 १४; १०, ४, ४०x; -त्वेन  
 मीस् ६, ४, १२७.  
 गुणार्थ-वत्- मीस् ४, ३, १२.  
 गुण(ण-आ)वेश- -शः मीस् ८, ३,  
 २६.  
 गुण(त>)वा- वा मासि १६, २;  
 मासि २, १०४; १०५.  
 गुणिन्- -गिनः पावा १, २, ४५;  
 -गिनि पावा ५, २, ४७; -णी  
 मीस् ६, ७, ३८.  
 गुणि-द्वेष- -धे विष ८, ३९.  
 गुणी/मृ > गुणी-भाव- -यः  
 मीस् ४, १, २०.  
 गुणो(ण-इ)दन्त-विकार- -रः मीस्  
 १०, ३, ६४.  
 गुणो(ण-उ)कृष्ट- -ष्टात् विष ८,  
 ३९.  
 गुणो(ण-उ)द्विक- -कात् वैष्ट ५, १ :  
 १९.  
 गुणो(ण-उ)पदेश- -शः मीस् १,  
 ४, ३; -शात् मीस् १०, ८,  
 ११.  
 गुणो(ण-उ)पबन्ध- -त्वात् मीस् २,  
 ३, ११.  
 २गुण- -यः पा १, १, २x; -णयोः  
 पावा १, २, ३१; -णस्य पावा १,  
 ३, ६४; ३, ३, ४५; -णात् पावा  
 १, २, ५x; -ण्ये पा ६, १, ६६;  
 पावा.  
 गुण-द्वान- -नात् पावा १, १, ६.  
 गुण-निमित्त-त्व- -त्वात् पावा ३,

१, ४५.  
 गुण-पर-त्व- -त्वात् पावा ७, २,  
 १००.  
 गुण-प्रतिषेध- -यः पावा ३, २,  
 १३६x; -धे पा ६, २,  
 १५५.  
 गुणप्रतिषेध-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा  
 ७, ३, ८५.  
 गुण-भूत- -तस्य पावा ७, ३, ८१.  
 २गुण-विधान- -न्यत् पावा ७, ३,  
 ८५; -ने पावा ७, ३, १११; ४,  
 १०.  
 २गुण-विधि- -धिः पावा ७, १,  
 ६.  
 गुण-शुद्धि- -द्धी पा १, १, ३; पावा  
 ६, ४, १४८; ७, १, १०२; पाय  
 २, २, ३१; -द्धयोः पावा १, १,  
 ५१.  
 गुणशुद्धि-प्रतिषेध- -धः पावा  
 १, १, ५६; ५७; -धे पावा १, ३,  
 १०.  
 गुणशुद्धि-प्रसङ्ग- -ङ्गे पावा १, १,  
 ५०.  
 गुणशुद्धि-विषय- -ये पावा ६,  
 ४, ८.  
 गुण-शुद्धि-दीर्घत्व- -त्वेभ्यः पावा  
 ६, ४, ४८.  
 गुण-शुद्धि-द्विर्बन्धन(न-अ)होप-  
 स्वर- -रेभ्यः पावा १, ४, २.  
 गुण(ण-आ)माम- -मात् ऋभा ११,  
 १०.  
 ✓गुण्- पावा. नृरा. पर. वेष्टने  
 रक्षणे च.  
 गुणित- -वाः अत्र ५२, ६, १.  
 ✓गुण् ✓गुण् टि. द.

गुल्- पाठ ३, ६८.  
 ✓गुद्- पावा. भ्वा. धातु. ऋजयाम्.  
 गुद्, द्वा- पाठो २, २, १६५; पाग ४,  
 १, ४५; ५६; १२३; २, ८०; -दः  
 आपथो २०, १८, १४; द्विभौ ४,  
 ४, ५८; कौत् ४५, ४१; -दम्  
 राशौ १६, ३, ३६; आपथौ  
 ७, २२, ७१; २४, ६; बीशौ;  
 -दस्य आपथौ ७, २४, ३;  
 बीशौ ४, ८ : ६; ९ : ९; १० :  
 ७; भाशौ; -दात् भाशौ ७,  
 १९; १०; -दानाम् भाशौ  
 ५, २, १२, ३२; -दान्यः  
 आपथं १, १७, ३१; -द्रे काशौ  
 ६, ७, १२; विष ६०, २५; वैष  
 २, ९, ५; -द्रे द्विभौ ९, ८, ४१.  
 गुदो- पा ४, १, ४५.  
 गौदेय- वा ४, १, १३३.  
 गुद-काण्ड- -ण्डम् आपथौ ७,  
 २६, १११; भाशौ ७, १९, ४;  
 भाशौ १, ६, ७, २३; कौशौ १०,  
 २० : १५; द्विभौ ४, ५, ८; १२;  
 ३७; -ण्डयोः द्विभौ ४, ५, ९;  
 -ण्डस्य काठशौ ७०; -ण्डानि  
 भाशौ ७, २१, ११; -ण्डैः आपथौ  
 १४, ७, ११.  
 गुद-कोष्ठ- -ष्ठम् विष २६, ११.  
 गुद-आघनी- -नी माशौ २, २,  
 ५, २३.  
 गुद-तृतीय- -यम् काशौ ८, ८, ३;  
 आपथौ ७, २२, ६१; वाशौ;  
 -यस्य काशौ ६, ९, १०;  
 -यानि बीशौ ११, १३; १५x;  
 -ये काशौ ६, ८, ९; बीशौ २०,  
 ३० : १९; २२, १५ : १६; -येत्

a) णिन् इति जीसे. b) येन इति जीसे. c) द्व. जीसे. d) उप. इदम् + ता।  
 e) = पारिभाषिक-संज्ञा-। म्यु. १। f) = ✓कृष्ण, गुण् इति [पक्षे] भाषणा. g) चूर्णिकरणेऽपि इति BPG.।  
 g) वैष १ निर्दिष्टोरस्य समावेशः द. h) व्यप. वा नाप. वा ? i) अर्थः ? j) = गुद-द्वेषः।

बौध्री ४, १० : ५; ८, १६ : ४;  
 -वेपु बौध्री २२, १५ : १६;  
 २३, १३ : ३५; -वैः बौध्री  
 ११, १३ : ३५; १७, १० : २४.  
 गुदवृत्तीया(य-ञ)णिष्ट- ष्टम्  
 काथी ६, ७, ७.  
 गुद-मध्य- -म्यम् काथी ६, ७, ६.  
 गुद-भेदस्- -दसोः वैथी १०,  
 ११ : ५.  
 गुद-र- पा ४, २, ८०.  
 गुद-वनिष्पु- -पु काथी ६३.  
 गुद-भोगि- -णि कौस् ४५, ३१.  
 गुद-हीन- -नः विष ५, २२.  
 गुदा(द-भा)दि- -दीनाम् वाथी  
 ३, २, ६, ५४.  
 √गुप् वाधा. दिवा. पर. परि-  
 वेष्टने, क्वा. पर. रोपे.  
 गुधिक्वा पा १, २, ७.  
 गुध- गुद- टि. द्र.  
 गुधेर- पाठ १, ६१.  
 गुन्द्र- पाठमो २, ३, ३०.  
 √गुप् वाधा. ध्वा. आत्म. गोपने, पर.  
 रक्षणे, दिवा. पर. व्याकुलये,  
 जुरा. उम. भाषायाम्, गोपायति  
 आपथी ११, २१, १४<sup>३</sup> × ×; १३,  
 २०, ११<sup>६</sup>; माथी; कौष्ट ३, ५,  
 ९१<sup>६</sup>; गोपायन्ति बौध्री ६,  
 ३४ : ११; १५, ८ : ९; वाधुथी;  
 गोपायताम् माथ २, १५, १<sup>६</sup>;  
 गोपायतु हिथी ६, ६, १०<sup>१६</sup>;  
 या ११, ४६; गोपायन्तु बौध्री  
 ३, २८ : २; हिथी ६, ६,

१७; पाष्ट; गोपायस्व शाष्ट  
 २, १८, ३<sup>६</sup>; आसिष्ट; कौस्  
 ५५, १५<sup>६</sup>; गोपाय काथी १,  
 १२, १ × ×; शाथी; आपथी  
 ५, १८, २<sup>१</sup>; ६, २४,  
 ६<sup>३</sup>; बौध्री २, १८ : १५;  
 १७; १८; २०; २२; ३, १४ :  
 ११; ११<sup>६</sup>; १३<sup>६</sup>; माथी ५, ११,  
 ७<sup>१</sup>; माथी १, ६, ३, ७<sup>३</sup><sup>३</sup>;  
 वैथी १, १४ : १५<sup>३</sup>; हिथी ६,  
 ५, १६<sup>६</sup>; आपमं २, ३, ३१<sup>६</sup>;  
 ४, १४; आथ १, २०, ७<sup>६</sup>;  
 कौष्ट २, ८, ९<sup>६</sup>; या २, ४<sup>१</sup>;  
 गोपायतम् आथी २, ५, २;  
 आपथी ६, २४, ४; माथी  
 ६, ४, ११; माथी; गोपायध्वम्  
 काथी २५, १३, २५<sup>६</sup>; गोपायत  
 आपथी ६, २१, १; १४, २०, ७<sup>६</sup>;  
 बौध्री; गोपायेत् पाष्ट २, ७,  
 १८, आपथ १, ४, २३; विष;  
 गोपायेताम् हिथी ६, ६, १७;  
 पाष्ट ३, ४, १०-१३; १४<sup>६</sup>; १५<sup>६</sup>;  
 १६<sup>६</sup>; १७<sup>६</sup>.  
 जुगुप्सुः अस् १२, २७<sup>१</sup>; गो-  
 प्स्वाम वाधुथी ४, ६१; ३; ८६; ५  
 गोपयेत् अथ ६२, २, ४; आथ्यो  
 १०, ६, गोपयः शाथी २,  
 १५, २<sup>१</sup>; ४<sup>६</sup>; ५<sup>६</sup>; माथी १, ४,  
 ३, १७; ६, ३, १४<sup>६</sup>; वाथी १, ५,  
 ४, ३६<sup>६</sup>; हिथी ६, ७, ७<sup>१</sup>; गोपय-  
 गुः आथी १, १३, ६; आपथी ६,  
 २५, १० × ×; २६, ५<sup>६</sup>; माथी;

अजुगुपः अजुगुपः वाधुथी २, ७;  
 १; गोपयतम् वाथी १, ५,  
 ४, ३७; हिथी ६, ७, ७; जुगुपतम्  
 माथी १, ६, ३, १५<sup>६</sup>; गोपयतम्  
 आथी २, ५, १३; ६, २६, ३;  
 माथी ६, ६, १.  
 जुगुप्स्वे माथी ४, ४, ५; जुगुप्स्वे  
 आपथी ८, ४, ८; माथी, जुगुप्स्वे  
 वाधुथी ३, १०-१४; जुगुप्स्वेताम्  
 गोष्ट १, ६, ७; जुगुप्स्वेत् दाथी ३,  
 ३, १४; जुगुप्स्वीत् काथी ३, ३, ५.  
 गोपयित- -सः कौष्ट १, १६, ७; शाष्ट  
 १, २४, ४.  
 गुपिष्ट- पाठ १, ५६.  
 गुप्त, सा- -स<sup>३</sup> पाष्ट २, १७, ४; -सः  
 आथ १, १५, ११<sup>३</sup>; हिथ १, १६,  
 ६<sup>१</sup>; अथ ४१, ३, ७; बुदे ७, १९;  
 -सम् बौध्री १, २, २४; २; वैथी  
 ३, ८ : १२; हिथी; -सा गौष  
 २२, ३७; -सा आपथी ५,  
 १८, २<sup>१</sup>; हिथी ६, ५, १६<sup>१</sup>; या  
 २, १७; -साम आपथ ३, ११;  
 -सायाम् शंथ ४००; -साथु  
 बौष्ट २, ७, ३.  
 गुप्त-तम- -मे वाध ६, ९.  
 गुप्त-तीया(य-ञ)यतन- -नेपु  
 अथ ४१, १, २.  
 गुप्ति- -सिः वैथी २०, १ : ३;  
 -सिम् आपथ १, ३१, १९; हिष  
 १, ८, ३८; -पव्यै आपथी ५,  
 १२, २; १३, ८; १५, ६; बौध्री  
 २, १६ : ४०; १७ : ३७; हिथी.

a) = देस-विशेष-ः ।

b) मलो. कस. ।

c) पा ३, १, ५; २८ पाठा १, ३, ६२ परामृष्टः द्र. ।

d) पामे. वैष १, १२६२ f द्र. । e) सपा. गोपायति <> गोपायन्म् इति पामे. । f) पामे. वैष १, १२३५ g द्र. । g) पामे. वैष १, १२२५० द्र. । h) पामे. वैष १, १२२५ f द्र. । i) पामे. वैष १ पाहि मा ३, ३७<sup>६</sup> टि. द्र. । j) पामे. वैष १, १२२५ t द्र. । k) सपा. गोपायध्वम् <> गोपायत् इति पामे. । l) पामे.

वैष १, १२२६ c द्र. । m) सप. गुपितः <> गुप्यः इति पामे. । n) = वैश्य-वंशा-ः । ऋविभक्तियो निर्देशः ।

o) सपा. बी ६, १२४, १ सिष्टः पामे. ।

गुण्य आष १, ४, २४<sup>०</sup>.  
 गोप- पाग ३, १, १३४.  
 गोप- ने अष ४८, ३४.  
 गोपवाष<sup>०</sup>- रयम् या ५, ११<sup>०</sup>०.  
 गोपावत्- यन् वीथी १०, १ :  
 ११; वैथी १४, २० : १०; अष ३, ४, ११<sup>०</sup>.  
 गोपावत्- यम् हाण्ड ३, १०, २१<sup>०</sup>.  
 गोपावत्मान, ना- यम् पाण्ड ३, ४, १५<sup>०</sup>; माण्ड २, १५, ११<sup>०</sup>; -नाः वायुथी ३, ७९ : १३.  
 गोपावित्त्य- न्यम् या ५, १.  
 गोपावित्- ता या ३, १२<sup>०</sup>; ७, ९; -तारः या ५, १.  
 गुण्य- यत् वीथी २०, ६; ११; द्राथी १०, २, ७; लाथी ३, १०, ६; आपर्भ, अष १७, १<sup>०</sup>; -पारः आपथी २०, ५, १४; वीथी १२, १८ : १०; वायुथी; -सारम् आपथी ५, १२, २४; वीथी; -पुण्यम् वीथी १५, १ : १७; ७ : १९; -पुणि या १२, ३८; -पुन् वायुथी ३, ७५ : २; -पु वीथ २, ८, ९<sup>०</sup>; हाण्ड २, १८, ३०.  
 गुण्य- न्त्रि वीथ २, ८, ४; हाण्ड २, १३, ५; -पुत्रि आपर्भ २, २, १०, काण्ड ४२, ११; वीथ २, ५, १४; माण्ड; -पुत्रः आपथी ६, २१, १.  
 गुण्य- गुण्य(य-अ)र्थ- यर्था काण्डो १०, ६.

गुण्य- यत्सा-विराम-प्रमादा- (द-अ)र्थ- यर्थात् पावा १, ४, २४.  
 गुण्यित- यम् विष २७, १.  
 गुण्य- यम् हाथी ३, २०, ५.  
 गुण्य- यम् पाधा. तुदा. पर. प्रये.  
 गुण्य- यम् हा. हा. अतम. उचमने.  
 गुण्य- यम् पा ८, २, ६१; -यर्थाः या १०, ४७०.  
 गुण्य- यत् > गुण्यित- यम् हाथी २१, ३, १४; वैष ४, १, २. गुण्यित- यम् हाथी २१, ३, १४; वैष ४, ३, ७१.  
 गुण्य- यत् पाठ १, २४; या ६, ४, १५७; पाग ५, १, १२२; -यवः जैथ २, ८ : १८; आपष १, १४, ७; वीथ ३, ९, १०; द्विष १, ४, ४०; -यवः आपथी १५, २०, १०, २१, २; माथी ११, २१, १२; २२, ६; माथी ४, ७, ५; आण्ड ३, १०, १; वीथ २, ३, १९; आण्ड १, १, ४ : ९; २, ३ : २५४; आण्ड ११, १८; वीथ ३, २, ५६; वीथि ३, ४, ९; भाण्ड; -रु आपथी ६, १२, ३१; माथी २, ५, ४, ९१; वैताथी २३, १२१; निरु ४, ९ : २, ११; काण्ड २, ४, १८; अषा; या १, ४, ११; पावा १, ४, १; -रुः वीथी १८, ४७ : १; २; २३; वैथीसा १७२; वीथ २, ४, १९; ७, १४; हाण्ड २, ७, २२; ११, १०; काण्ड; अष ७, १,

७<sup>०</sup>; -रुणा आण्ड ४, ६, १; वीथ २, ३, १७; हाण्ड २, ६, ७; पाण्ड; -रुभिः वीथ २, २, ६३; -रुम्भः वीथ ३, ११, ७; हाण्ड ४, १२, २; आण्ड ३, ११, ४ : २९१; वीथ २, ११, ३४१; वैथ २, १२ : १०; अष ४३, १, २६१; अष ३, ३; -रुम् आण्ड ३, ९, ४; पाण्ड २, ६, ९; गोथ २, ३, १३; ३, २, ३६; १०; गोथि १, १, ३; जैथः या २, ४१; -रुपु द्विषि ८९; वाष २२, १५; आपष १, १०, २; वीथ; -रु निरु ४, २; १६; १८; २१; १०, ११; ४; वृद्धे ४, ६०; -रुणाम् वीथी २०, १२ : २९; वैथ ३, २२ : १३; ५, १३ १२; वाष ३७; ११६ : ७६<sup>०</sup>; ११८<sup>०</sup>; आपष १, १५, १; विष ३२, ८; द्विष १, ४, ६०; वीथ २, ५७; -रुणि वाष २२, १५; वीथ ३, १०, १७; वीथ २२, १९; अषा १, २०; तीप्रा २२, १४; -रुम् आण्ड २, ६, ३ : ५२; माण्ड १, २, १८; वाण्ड ९, १८; गोथ २, ४, १०; हाण्ड; -रुः वीथी १, ९, ५; आण्ड २, ६, ५ : २०; काण्ड ३, १६; वीथ; अष ५१, ४, २<sup>०</sup>; ५२, १६, ४<sup>०</sup>; या २, ४१; या ३, ३, १०३; ८, २, ८६; पावा ८, २, ८६; -रु आण्ड ४, ४, १९; पाण्ड २, ११, ७; अष; आण्डो ६, १२.

a) सप्त. गुण्य <> गुह्य इति पाठे. b) वैप १ द्र. c) पाठे. पु ९९२ ८ द्र. d) पाठे. वैर १, १२२६ k द्र. e) पाठे. वैप २, ३६. सविष्टे मास ११, ५, ४, ३ टि. द्र. f) विप. (मेलला, स्वति-प्रष्ट). g) या ३, ५ पराम्युः द्र. h) गुरु इति क्विक्कः पाठः. i) = अवि-विशेष-। व्यु ३. i) सप्त. गुरि <> गौरि इति पाठे. j) गुरु इति पाठः यनि. गोथः (वृ. तत्रैव गौरि). k) = पारिभाषिक-संज्ञा- (अप्रा. वा. प्रष्ट). l) = गृहपति- (देवगुरु). m) = गृहपति- (प्रष्ट). n) = गृहपति- (आचार्य-).  
 वैप-प्र-३०

गुर्वी- > गुर्वी-सखि, स्त्री-  
-सिम्ह आप्य १, २१, १; -स्त्रीम्  
वाध २०, १६०; बौध २, १,  
४४; हिध १, ६, ३१६.

गौरव- पा ५, १, १२२; पाग ५,  
२, ३६; -वम् निम् १, १: २५;  
आप्य १, ६, ३५; हिध १, २,  
५७; -वेण वाध १३, ४८.

गौरवित- पा ५, २, ३६.

गरिमन्- पा ५, १, १२२; ६, ४,  
१५७; -जा बौधो ३, १४: १.

गरिष्ठ- पा ६, ४, १५७; -ष्ठम् शेष  
११६: ६१.

गरीयस्- पा ६, ४, १५७; -यः  
शेष ४, ११, १४; विध ३२,  
१६; गौध; -यस्सु बौध ४,  
१, ३; २, २; -मांसि बौध  
४, १, १; २, १; -वान् वाध १३,  
५७; १७, ७१; विध; हिध २,  
४, ५५१; पावा ४, २, २१;  
-वान्-वान् आप्य २, १२,  
२२१.

गुरु-कर्मन्- -मंसु आप्य १, ५,  
२४; हिध १, ३, २५.

गुरु-कुल- -ले बौध २, १, ४७;  
विध २८, ४३; शेष १, ३, ३, ६;  
-लेषु माशि १६, ४.

गुरुकुल-वर्जम् विध २८, १.

गुरुकुल-वास- -सः बौधो २९,  
८: २; विध २८, १.

गुरु-कूल- -सम् माशि १४, १०.

गुरु-ग(त)- -ना- -नाम् माशि  
१६, ७; याधि २, १११; माशि  
२, ८, २०.

गुरु-ग(>)- -ना- -ना वाध २१, १०.

गुरु-गौति- -तीनि निम् २, ३: ३;  
१; १३.

गुरु-गौरव- -वात् वाशि २, ११७.

गुरु-तल्प- पावाग ४, ४, १; -ल्पम्  
वाध १, २०.

गौरुल्लिपक- पावा ४, ४, १.

गुरुल्लिप-य- -ना: वाध २०, १३;  
४४४४; शेष ३, ७८; ३, ८५४४;

बौध २, १, १२; विध ४५, ६;  
५५, ६; गौध २३, १.

गुरुल्लिप-गमन- -नम् बौध ३,  
५, ६; १, ८; -ने विध ५, ७.

गुरुल्लिप-गामिन्- -मी आप्य  
१, २५, १; २८, १५; हिध १, ६,  
७५; ७, ५०.

गुरुल्लिप-न्- -स्वी बौध २, २, ६८.

गुरु-ख- -खम् काष्ठ ४५: १८;  
विध ४२, २; तैत्रा २४, ५.

गुरु-दक्षिणा- -या वाध १७, ६१;  
-णाम् बौध ३, ३, ३१.

गुरु-दर्शन- -ने गौध २, २०; ३३.  
गुरुदशान(न-अर्थ)- -र्थ: हिध  
१, २, १०५.

गुरु-दार- -रम् आप्य १, २५, ११;  
हिध १, ७, ७; -रेषु विध २८,  
४५; ३२, १५.

गुरुदार-गमन- -नम् विध  
३५, १.

गुरुदारगमन-सम- -मम्  
विध ३६, ४.

गुरुदारा-निवेशन- -णम् आ ९,  
३, ५.

गुरुदारा(रा-घ)भिगामिन्- -मी  
शुध ५६.

गुरु-दुह- -धुकु शम ८, १.

गुरु-नियोग- -गात् बौध ३, ३, १६-

गुरु-निवासिन्- -सिनाम् शेष ५३.

गुरु-पत्नी- -स्त्री विध ३२, १३;

-नी: आमिष्ट २, ६, ३: ५२;  
बौध २, ५, २११; -स्त्रीनाम् बौध  
१, ३, ३४; विध ३२, ५; ६; १४;

-नीकीभ्य: आमिष्ट ३, ११, ४:  
२९; बौध; -स्त्रीम् काध २७५; ४-

गुरु-पर-वश्यता- -णाम् विध २६,  
३४.

गुरु-परिचारक- पाग २, २, ९१.

गुरु-पुत्र- -द्रस्य वाध १३, ५४; -ने  
विध २८, ३१; ४४१; पावा १, १,  
५६.

गुरु-पूजन- -मात् शेष ४१.

गुरु-पूर्व- -र्वात् पावा ६, ४, ५६.

गुरु-प्रयुक्त- -क्त: वाध २३, १०;  
बौध २, १, २२.

गुरु-प्रसाद- -द: वाध २४, ७;  
बौध ४, ४, १०.

गुरु-प्रसादन- > -नीय- -यानि  
आप्य १, ५, ६; हिध १, २, ९.

गुरु-प्रस् (त >) -ता- -ता गौध  
१८, ५.

गुरु-पुत्र- -पयो: शेष ४, १४: ७.

गुरु-भार्या- -र्वाणाम् बौध २, ५०.

गुरु-मत्- -मत: पा, पावा ३, १,  
३६.

गुरु-मद्-वचन- -नम् पावा ३,  
१, ३६.

गुरु-सप्य- पावा २, ३, १५.

गुरु-रुधु-संज्ञा- -ले पावा १, ४, १.

गुरु-वन् वाध १३, ५५१; विध; पावा  
१, १, ५६.

गुरु-वर्- -व: गाए १, ३, १८.

a) = भाट्-। b) गुर्वी सखीम् इति पाठे.। c) परस्परं पाठे.। d) विर.। घट.। सारा. आप्य  
१, ८, १७ गुर्वी दर्शो इति पाठे.। e) कप. > पठ.। f) वृ. पागम.। g) विर. (कर्मन्-).। h) उप. < √म्  
(भिरथे)। i) बन्धू इति बडोदाह.।

गुरुवर्ण- -श्रीः नासि २,६,५.  
 गुरुविधि- -धिः पावा १,१,५७.  
 गुरुवृत्ति- -रितः बौर ३,३,२५;  
 ऋषा १८,१०; -श्री निम् १,१;  
 २६.  
 गुरुवृद्ध-श्रीशिव- -शानाम् वैष  
 १,३,१०.  
 गुरुशासन- -नात् आमिष्ट १,६,  
 १:२.  
 गुरुनित्य- -न्ययोः विध ३०,  
 ३०.  
 गुरु-निष्प(ब-रु)विन्- -विन्ः  
 वैष्ट ७,१:६.  
 गुरु-मुष्प- -न्या विध ३१, १०;  
 नासि २, ११३; -या बौर २,  
 ३,१८; शौर २, ६, ८; पाय;  
 -पाम् बौर २, ७, २१; शौर  
 २, १२, ६.  
 गुरु-मुष्पिन्- -श्रीवैष २, ६, १५.  
 गुरु-नखि, शी- -नित्म् आप १,  
 २१, ९; -श्रीम् बाय २०, १६;  
 बौर २, १, ५४; द्विप १, ६, ३९.  
 गुरु-सद- > -रिम्- -रिगः बौर  
 २, ३, ९.  
 गुरु-संवक- -रम् मासि १२, ५.  
 गुरु-संश- -जा पावा १, १, ८; ५७.  
 गुरु-संविधि- -श्री आप १, १०,  
 १५; द्विप १, ३, ४३; नासि २,  
 ६, १६.  
 गुरु-संनवाप- -ये आप १, ७, १५;  
 द्विप १, ३, ७१.  
 गुरु-संनौर- -ये शौर ४, ८, ५;

बाय १३, २४.  
 गुरु-स्तप- -वा वृदे ४, १०३.  
 गुरु(रु-उ)द- -रः सु १७, २.  
 गुरुदरी- -श्री सु ३, १.  
 गुल(रु-उ)शोतम- -भयोः पा ४, १,  
 ७८; -मात् पा ५, १, १३२.  
 शुर्व(रु-अ)शर- -राणाम् ऋषा  
 १८, ६०.  
 शुर्व(रु-अ)शर- -रम् ऋषा १८,  
 ६०.  
 शुर्व(रु-अ)शोच- -रः बाय ७, १०;  
 -नात् बाय ९, १८.  
 शुर्व(रु-अ)शुजाव- -रः विध २८,  
 ४२; ऋषम् ८; -रम् विप २८,  
 १०८.  
 शुर्व(रु-अ)शुव- -पावा २, ३, ३५.  
 शुर्व(रु-अ)भाव- -ये वैष १, ३, ११;  
 गौर ३, ७.  
 शुर्व(रु-अ)निवादन- -रम् विप  
 २८, १४.  
 शुर्व(रु-अ)शं- -शंन् बाय १४,  
 १३.  
 शुर्व(रु-अ)शोच- -शुक्तिश्रीन-  
 यक्ष्यमाणा(उ-अ)प्यपनाप-  
 संयोग-वैषशिव- -नेषु बौर २,  
 ३, १९; गौर ५, २२.  
 शुर्व(रु-अ)शं- -शंन् गौर २३,  
 ११.  
 शुर्व(रु-अ)शम्- -रमा पा ७,  
 १८.  
 शुर्व(रु-अ)शं- -शौ ऋत ५,  
 २, ७.

शुर्व(रु-अ)शाम-संयु(त->)शं-  
 -राम् अप ६९, ६, ३.  
 शुर्व- -पाठमो २, ३, ३७.  
 शुर्व- -पावा. भा. आम. क्रीडापाम्  
 सुरा. पर. पूर्वनिष्कने.  
 शुर्व- (> शं- पा.) पाग ४, १,  
 ४१.  
 शुर्व- -पावा. भा. पर. उपमने.  
 शुर्व(रु->)श्री- -पाठ २, ५४; -श्रीम्  
 विध ५०, ८; ६७, २९; ६९,  
 १७.  
 गुल- -गुल-रु.  
 गुलगुघा. ला। ( > पर. ला। शु  
 पा.) पाग १, ४, ६१.  
 गुल- (> गौलव्य- > न्यायनी-  
 पा.) पाग ४, १, १८;  
 १०५.  
 गुलगुघा (> न्या शु) गुलगुघा  
 दि. ३.  
 गुलगुल- -पाठमो २, १, १०६.  
 गुलुल- -पाठमो २, २, ८५.  
 गुलगुघा (> न्या शु) गुलगुघा  
 दि. ३.  
 गुलगुल- -रु आप ७, ६, १;  
 बौर ४, १:२:३:१५.  
 गौलगुल- -नेन आप १, २०,  
 १५, १३; १३; २३, ७, ९; बौर  
 १५, २५:१; द्विप १, ४, ३,  
 २३; १८, ३, ३; बाधो ३, ४,  
 ३, ४४.  
 शुर्वगुल-गन्धि- -न्यपः बाधो  
 १३, ३, २६; आप १, २१, २०.

a) विर. (एनदित्तः) द्विम्- )। b) विर.। वस.। c) नः इति जसं.। d) तु. पागम.।  
 e) विर.। वस. > वृ.। f) र्धः शु. वं! शुर्व- इति पाद्य.। g) = गभिरु-। शु. ?  
 < शुर्व इति पाद्य., < मुक- इति P.W. प्रष्ट., उमवयेति कना.। h) पीडाये अन्व.। तु. पाद्य.।  
 शुलगुघा, गुलगुघा इति पागम., गुलगुघा इति मागदा.। i) = कृति-विधेय-। शु. ?। तु. पाद्य.। गुलुल-  
 इति मागदा.। j) वै १६.। k) विर.। तेन संकृतमित्ये अन् प्र. उत्सं. (पा ४, ४, ४)। l) = शुभव-गन्धि-।  
 म) पमे. पृ १८० i ३.।

३; हिथी १६,६,४१.  
 गुल्गुलु-सुगन्धितेजन- नम् आपथी  
 ७,६,१<sup>०</sup>.  
 गुल्गुलुवा ( लु-आ )दि- दयः शुभ  
 १,३१६.  
 गुल्फ<sup>०</sup>- पाठ ५,२६; पाग ४,१,५६;  
 ५, २, २४; -रुफः अय ४८,  
 ११९५; -रुफात् शंघ ७७;  
 -रुफान् कौस् ३९,१३; -रुफेगु  
 विघ ९६,६२.  
 गुल्फ-जाह- वा ५,२,२४.  
 गुल्फ-द्वज- भ्रम् वीथी १७, ३० :  
 ५<sup>३</sup>; हिथी ४, १, २२; आसिप  
 ३,८,१ : ३०<sup>३</sup>, वीपि १, १५ :  
 ९<sup>३</sup>; -त्वे आगथी ७, २, ६;  
 वीथी १०, ४८ : १३; भाथी  
 ७,३,१४, वैथी १९, ६ : ४३;  
 हिथी ४,१,२०.  
 गुल्फ-देन- न्ने वीथी २१, ८ :  
 १८.  
 गुल्फ-मात्र- न्ने वैथी १०, १ :  
 १५.  
 गुंयुक्वित- नम् आपथी १०,  
 १०, ३<sup>१</sup>; १३, ७, १६<sup>३</sup>; भाथी  
 १०, ६, १७<sup>३</sup>; हिथी १०, २,  
 १२<sup>०</sup>.  
 गुस्म<sup>०</sup>- पाठभो २, ३, २४३<sup>०</sup>; पाग  
 २,४,३१<sup>०</sup>; ५,२,२४<sup>०</sup>, -रुस्म  
 अय ६८,२,२२<sup>०</sup>.  
 गुस्म-हृत्,ता- -ताः वीथी १०,  
 ४५ : २३; ११, २ : २९; वैथी

१९,५ : १६; -तान् वीथी ११,  
 ३ : ११.  
 गुस्म-वल्ली-लता- -तानाम् विघ  
 ५०, ४८; -तासु अय ७०<sup>०</sup>,  
 ८,५.  
 गुस्मवल्लीलता-युक्न- -क्ते अय  
 २१,४,१.  
 √गुल्माय, गुल्मायते अय ७०<sup>०</sup>,  
 ११,९.  
 गुवाक<sup>०</sup>- पाठभो २,२,१४.  
 गुवेर- पाठभो २,३,६०.  
 गुस्पित<sup>०</sup>- नम् अयाय १,५<sup>०</sup>.  
 √गु, गूह्<sup>१</sup> पाया. भा. उभ. संवरणे,  
 गूहते वा ५,१९<sup>०</sup>; गूहति वाथी  
 १,६, ६, १९; गूहत > ता अया  
 ७,३३<sup>०</sup>.  
 गूहयति कौस् ४८, १९, गूहवेत्  
 वैथी १२,६ : ९; वैथ २,१३ :  
 १२.  
 गुंयुचतः क्रमा ४, १८<sup>०</sup>; उस्  
 ६,६<sup>०</sup>.  
 गुहा<sup>०</sup>- पाग ३,३,१०४; ५,१,६६;  
 ६,१,२०३; -गूहा आगथी २,  
 ११,१०; ५,१,७; १०,२०, ८९<sup>०</sup>,  
 वीथी, कौस् ११७, ४<sup>०</sup>; या  
 १३,९<sup>०</sup>; -हायाम् गु ११,१;  
 १२, १, वा १३, ९; -हासु  
 आगथी ५,१,७<sup>०</sup>.  
 गुहा-कारम् आपथी ५, १,  
 ७<sup>०</sup>.  
 गुहा-शय- -यम् आपथ १,

२२, ५; हिथ १, ६, ५; आथि  
 १,२; -यस्य आपथ १, २२,४;  
 हिथ १, ६, ४; -याः अय १,  
 ८, ५<sup>०</sup>.  
 गुंयुहा-हित > )ता- नम्.  
 माथी १, २, ४,४; वाथी १,२,  
 १९.  
 गुहा,हा<sup>०</sup>- वा ५, १,६६; पावा ३,  
 १, १०९; -हम् शीथी १८,  
 १, ८<sup>०</sup>; आपथी; -गूहा आथी  
 २,८,३; शीथी; -ह्याः थेट,१८;  
 -ह्यात् हिथ १,१४३<sup>०</sup>; -गूहानि  
 शीथी २,४,३<sup>०</sup>.  
 गुहा-क<sup>०</sup>- -कम् कय १,७,९.  
 गुहा-प्रदेश- न्ने वैथ ३,८,३.  
 गुहा-स्थान- न्ने आसिप ३,१०,  
 ४ : १६.  
 गुहो(ह-उ)पनिषद्-आसन-  
 -नः विघ १,९.  
 गुह्यक- -कस्यः माय २,१२,१७<sup>०</sup>.  
 गुह्यमान- नम् आपथी १७,१८,  
 १<sup>०</sup>.  
 गुह्य,ह्य<sup>०</sup>- -हः कय ३,६,६; -गूह्यम्  
 अयाय ६, ९; या ७,३; -हात्  
 वैथ ३, १२, १३; १३, ६; १२;  
 -हे विघ १, २५; शुभा ४,  
 १७६<sup>०</sup>.  
 गूह-ज<sup>०</sup>- -जः वीथ २,२, २२;  
 -जम् वीथ २,२,२१.  
 गूह-मन्त्र- -मन्त्रस्य वासु ७,  
 ३९.

a) पामे. पृ १८८ j द. । b) वैथ १ द. । c) पामे. वैथ १,१२२७ p. द. । d) इम् इति पाठः  
 यनि. शोषः । e) = सेनाङ्ग- । f) = छुण- वा आयस्यान- वा । < √गुह् इति पागम. । g) तु. पागम. । = गुल्फ- ।  
 h) = छुण- । i) गुयाक्- इति पाठनाह. । j) वा ११, १२; १३, ९ वा ६, ४, ८९; ७, १, १३; ३, ७३ पावा १, १, ४९  
 पराम्शः द. । k) छुष् इति पवा. । l) स्र. गुहा वने <> गुहाव्ये इति पामे. । m) पामे. वैथ १, १२२८ c  
 द. । n) गूहा इति पाठः ? यनि. शोषः ( तु तैत्ति १, २, १, २ ) । o) उत्तरेण संथिरार्यः । p) पामे. पृ १९३ d  
 द. । q) पामे. वैथ १, १२२८ d द. । r) = शरीराङ्ग- । s) विघ. । यथ. पूष = तदाव्योपनिषद्- ।  
 t) = देवमोनि-विशेष- । यु ? । u) = पारिभाषिक-संज्ञा- । v) = अथल-विशेष- ।

गृह-मन्त्र-प्रचार- > २-ति-  
 वृत्त-मन्त्र- -मन्त्रः शंष २४४.  
 गृहा(ठ-आ)चार- -रात्र वैष ३,  
 १४,२.  
 गृहो(ठ-उ)पञ्च- -अः वाप  
 -१७, २४; शंष २९१; वीष २,  
 २,२२; विष १५, १२; वैष ३,  
 ११,६; १२,६.  
 १गोष्ठा- -ह्यः पाय २,६,१०.  
 गृह- पाठना ५, ५२; पाग ४, २,  
 ८०<sup>१</sup>; ५, २, १००<sup>२</sup>; -हृत्स्य  
 वैष्ट ३, २२ : ६<sup>३</sup>; ७; -हाः<sup>४</sup>  
 वीश्रीप्र १४ : २.  
 गृह-र- पाग ४, २, ८०.  
 १गृहिल- पा ४, २, ८०; ५, २,  
 १००.  
 गृहलु- पाउभो २, १, १०६.  
 गौह-र-र- > न्यायनी- तुनु-  
 टि. इ.  
 गृहाक्य- -क्ये द्विथी १०, १, २७<sup>१</sup>.  
 २गृहिल- पाठ १, ५६.  
 गृहेर- पाठ १, ६१.  
 √गृ-√गु द.  
 गृह- √गृह द.  
 गृह- पाठ २, १२; पाग २, ४, ३१.  
 गृह- √गृह द.  
 √गृह पाथा. दिवा. आत्म. हिसान्त्यो;  
 चुरा. आत्म. उदयने.  
 गृह- पाठना ३, १२२.  
 गृह- √गृह द.

१गृह- -पुं: आपथी १६, ३०,  
 १; वैथी १८, २० : ३२; द्विथी  
 ११, ८, ४; लाथी ७, १, १<sup>१</sup>;  
 -रंथ लाथी ७, १, २<sup>१</sup>; -पुं:पि,  
 -पुं:दं, -पुं:द्विथ्यः आपथी १६,  
 ३०, १; वैथी १८, २० : ३२;  
 द्विथी ११, ८, ४.  
 २गृह- (> गृह- ) गृह- टि. इ.  
 √गृह, गृहयति अथ ४८, १; निघ  
 ३, १४; गृहय, > पा ऋष २,  
 ८, १९; ऋष ८, १३; १८, २.  
 गृह- (> गृहिल- ) पा. पाय ४, २,  
 ८०.  
 √गृ पाथा. भ्या. पर. सेचने, चुरा.  
 आत्म. विज्ञानि.  
 √गृ > जागृ(अवबोधने) पाथा. अदा.  
 पर. निराक्षये, जगर्गि आपथी ४,  
 ३, १३; ५, ८, ३××; भाथी; आसिष्ट  
 २, १, ३; २४<sup>१</sup>; द्विष्ट २, २, ७<sup>१</sup>;  
 जागृतः भाथी १, ५, २, ६; माष्ट  
 २, १, ४; पा २, ३७<sup>१</sup>; जगारत्  
 आसिष्ट १, १, २; ४६; ४७; ४९;  
 काथ; अथा २, १, १९<sup>१</sup>; जगारत्  
 द्विष्ट १, ४, ८; जैष्ट; जगारथ<sup>१</sup>  
 आपथी १, १४, ३; भाथी १,  
 १४, ९; द्विथी १, ३, ५५; पाष्ट  
 १, १६, २२<sup>१</sup>; द्विष्ट २, ४, ५<sup>१</sup>;  
 जगारत्<sup>१</sup>; आसिष्ट २, १, ४;  
 २२<sup>१</sup>; २३<sup>१</sup>; वीष्ट २, १, १२<sup>१</sup>; माष्ट  
 १, २५; १३<sup>१</sup>; द्विष्ट २, ४, ५<sup>१</sup>.

जगृहि आपथी ५, १४,  
 ५; १०, १८, १; २२, १२,  
 २०; वीथी; जगृत्, > ता  
 आपथी १, १४, २<sup>१</sup>××; वीथी;  
 भाथी १, १४, ९<sup>१</sup>; माथी  
 १, १, ३, ३७<sup>१</sup>; वाथी १, २, २,  
 ३४<sup>१</sup>; द्विथी १, ३, ५५<sup>१</sup>; अजागः  
 ऋषा १, १०३<sup>१</sup>; जागृत्पा  
 गो १, ७; अथाय १, ५.  
 जगारत् कौष्ट ३, १२, ३३<sup>१</sup>;  
 अथा ३, १, ७; वीच.  
 जागरयन्ति आपथी ५, ८, २;  
 ११, २१, १२; २०, १, १५;  
 भाथी; जागरयोत् काष्ट ४६, २;  
 जागरयेत् का २, ९, १६; जागर-  
 येत्: माष्ट २, १, २.  
 जागरण- -ण्य आपथी ४, ३, १६;  
 १०, ४, १२; वैथी; -णात् वा  
 ९, ८.  
 जागरण-धारण- -जे काथी ४,  
 ८, ११.  
 जागरण-नंतति- -तो पावा ३,  
 २, ११०.  
 जागरयन्- -यन्तः वीथी २, १५ :  
 १७; १५, ३ : ५; १८, १८ : ९;  
 वाथी ३, ७० : ९<sup>१</sup>.  
 जागरा- पावा ३, ३, १०१; -राथै  
 वाथी ३, ७० : ९.  
 जागरूक- पा ३, २, १६५<sup>१</sup>-कः या  
 १, १४.

a) विप. 1 बस. > दस. 1 b) कत. वप. बस. 1 c) = अथय-विशेष- 1 d) = अति-विशेष- 1 वैप २, ३४. इ. 1  
 e) = स्कन्द- 1 कौरि कः प्र. (द्र. अभा.) 1 f) तु. भायवा. पासि. 1 सवृह गृह- इति भायवा. 1 अर्थः ? 1  
 g) तु. पागम. 1 अर्थः ? 1 h) = शशि-विशेष- 1 i) पागे. वृ १९९ इ. 1 j) = देश-विशेष- 1 व्यु. ? 1  
 k) वैप १ इ. 1 l) = साम-विशेष- 1 m) वैप १, १२२९ इ. 1 n) अर्थः व्यु. व? 1 तु. पाका. 1 अद-  
 इति भायवा. 1 o) = देश-विशेष-? 1 p) पा ३, १, ३८; ६, १, ६; १९२; ७, २, ५; ३, ८५ पावा १, ३, १, ६,  
 १, ८; ७, २, १० परागृष्टः इ. 1 q) सप्र. जागर्गि (> बोधयति इति पागे. 1 r) पाठः ? जागार इति बोधः  
 (द्र. संस्कृतः टि.) 1 s) Böht [ZDMG ५८, ८९] जागृत्, जागृत इति यक. शोधकः ? 1 लेटि अजागमे यनि. ह्ये  
 स्वाताम् 1 t) पागे. वैप १, १२२९ इ. 1 u) रुपा. जागृत् [लोरेथें लेटि इ.] (> जागृत इति पागे. 1



जागर्या- पावा ३, १, १०१.  
 जागृत- अम् अय ४८, ८०.  
 √जागृवच्- वञ्चिः आधौ ४, १३,  
 ७; १५, ८; ऋध २, १०, ११.  
 जागृवि- पाठ ४, ५४; पावा ६,  
 १, ६६; -फि आपधौ १२, ८,  
 ३; ११, ११; बौधौ; -फिः  
 आपधौ १४, १२, १; बौधौ २,  
 १४ : १८; द्विधौ; वा ९, ८.  
 जाग्र- अत् काधौ ९, १, १३;  
 माधौ २, २, ५, ३; अय १६, ७, १;  
 -अतः वैताधौ ५, ८; आसिध  
 ३, १२, २ : १०; अय; -अतम्  
 काधौ २५, ३, ११.  
 जाग्रद्-दुष्पञ्च- -प्यम् अय  
 १६, ६१.  
 जाग्रन्-मिध- -धौ गोध १, ६, ६.  
 √गृ, गृ पाषा. घ्या. पर. रुन्दे.  
 गृणाति निघ ३, १४१; या ४,  
 २४; √गृणन्ति अय १, ३७, ४;  
 असा ७, ४; गृणीये या १०, ४४१;  
 √गृणे आधौ ६, २, ६; ८, १२,  
 २४; ९, ५, ५; शोधौ ९, ६, ६;  
 १४, ३, १२; साम १, ३९१;  
 √गृणामि या ५, १४; गृणीमयि  
 आधौ ७, ८, २; घृम् १, ६ :  
 १५; २३; √वैताधौ ३९, २; ४१,  
 १; ५.  
 गरित- -वा या १, ७.  
 गरुष्- -यम् या ६, १७.  
 गिर- पाठभो २, १, ३०३;  
 गिराः आधौ २, ८, ३४४;

शोधौ; या १, १०; ५, १७;  
 १०, ६; १२, ३६; पावा ८, ३,  
 २२; गिरा वाध २८, ६; बौध  
 २, २, ५, ८; गिरा आधौ ६, ४,  
 १०; ८, १२, २४; ९, ५, ५;  
 शोधौ; या ६, २४४; १०, ५४;  
 गिरागिरा आपधौ १७,  
 ९, १; वैधौ १९, ६ : १;  
 गिरौ शोधौ ८, २५, ११;  
 गिरौ पावा ८, २, २२; गिरौ  
 बौधौ ५, ८ : २; वाधूधौ ४,  
 ११५ : १५६; वैताधौ ३४, ९;  
 अय ६, ९; अय ४८, १०२;  
 निघ १, ११; ऋध ७, २६;  
 गिरौभिः आधौ १, ५, ३५; ६,  
 १४४; ३, ७, १३; शोधौ;  
 या ६, १४; १४, ३२.  
 गिरा- पाठ ४, १, ४.  
 गिरा-वण- -णः आधौ ४,  
 ६, ३; ९, ६; ६, १, २; शोधौ  
 ५, ९, १२; १३, १०; आपधौ  
 ११, ८, ४; बौधौ ६, २७ : २१;  
 माधौ २, २, ३, २६; ४, २, २८;  
 वैधौ १४, ६ : १४; द्विधौ ७,  
 ५, २९, ७, २१; वैताधौ ३९,  
 ७; ४०, ४; आपधौ १, २, ११;  
 आसिध १, २, ३ : ८; साम १,  
 ११५; घृया २, १०; शैशि २३६;  
 नाशि २, १, ९; -णसे वा ६,  
 १४१; -णः अय ४८, ११५;  
 निघ ४, ३; या ६, १४४.  
 गीः-पति- , गी-पुत्र- , गी-

पति- , गीर-पुत्र- पावा ८, २,  
 ७०.  
 गृण- -णन्ते आधौ २, १६, ११;  
 ७, ११, ७; शोधौ ९, १६, ३;  
 आपधौ १३, १८, १; माधौ २,  
 ५, ४, १२; वाध ३, ५, ३; -णद्  
 बुदे ४, ७८; -णन्तः आधौ  
 २, ८, १४; ९, ९, ७.  
 गृणाति- > पति-कर्म- -र्ता या  
 ६, ८.  
 गृणात्य- (ति-अ) - -र्थे या ९,  
 ४; १०, २३.  
 √गृणन्, ना- -नः आधौ १, २, ७;  
 शोधौ १४, ११, ९; काधौ २५,  
 ११, ३४; बौधौ १३, २७ : ८;  
 निम् २, १३ : ३०; आपधौ २,  
 २, १; आसिध १, १, २ : ४;  
 बौध २, ५, ९; माध १, ५ : ९;  
 द्विध १, ३, ५; अय २, ७;  
 अय ४६, ३, ५; ऋध ७, २६;  
 -ना आधौ ५, ५, १२; शोधौ  
 ७, २, ७; आपधौ १६, २९, २;  
 वैधौ १८, २० : २८; द्विधौ ११,  
 ८, ४; वाध ३, ५, ७; कौध ३,  
 ७, १०; शोध ४, ५, ८; या ११,  
 ४९; -नाः आसिध ३, ७,  
 १ : ८; बौधि १, १७ : ८.  
 √गृञ्, ऋञ् पाषा. घ्या. पर. रुन्दे.  
 गृञ्- > गृञ्-क- -कम् वैध ३,  
 ५, ८.  
 गृञ्ज- पाठभो २, ३, १९२; -अम्  
 वैध २, १५, ५.

a) = उदर-। पा. अर्थः १। b) वैध १ द.। c) या १, १०; २, २८; ३, ५; ६, १७, ९, ५८ परामृतः द.। d) = स्तोत्र-। क्यम् प्र. उत्तं. (पाठ २, ९। द्व. स्क.)। e) पाभे. वैध १, १२३३ द.। f) 'अस्य (लोमस्य) मदे (मदाय) गिरि (स्तुती सत्यां) तद्वत् कालमेवा' इन्द्रः षडपस्यात् (उपतिष्ठेत) इति वा. द. (वैधु. १८. गिरि-ध्याः इति)। g) पाभे. वैध १, १२३३ ० द.। h) द्व. पागम.। i) गीपति- इति केचित् (द्व. पागम.)। j) पाभे. वैध १, १२४४ i. d.। k) पाभे. वैध १ गृणानुः ऋ १०, १८, ६ टि. द.। l) = गृजन-। घृ. १। m) मन्त्रकल्पि इति ८, वृञ्क- इति मूढे.। n) = छन्द-विशेष-। घृ. १।

गृणत्- प्र. √गृ (सन्दि) द्र.  
 गृत्स- पाठ ३, ६९; -स्तः अथ ४८,  
 ८५<sup>१०</sup>; निघ ३, १५<sup>१०</sup>; या  
 ९, ५६.

गृत्स-मद्- -दः काण्ड ३, ४, २;  
 कौट २, ५, १; शांठ ४, १०, ३;  
 अथ ४३, ४, ३<sup>१</sup>; शक्य २, २,  
 १; ९, ८६; वृदे २, ५५××;  
 शुचि; अथ २०, २०; ३४<sup>१०</sup>; या  
 ९, ५६; -दम् वृदे ४, ७०;  
 या ९, ४; -दस्य वाच १६: २;  
 -दा: वृदे ४, ९८; -दे वृदे २,  
 १५५; ३, १२८; -देन वृदे ३,  
 २७.

गासीमद्- -०द् आधी  
 १२, १०, १३<sup>१०</sup>; आपथी २४,  
 ६, ४; बौधाय ९: ४; द्विथी  
 २१, १, ७; वैष ४, १, ८; -दा:  
 शोथी १०, ३, ४; शक्य २, २,  
 २७; वृदे ४, ७८<sup>१०</sup>; छम ३,  
 २११; ४, ३६; -दम् आधी  
 ७, ६, ३; ८, ८, ८; या  
 ८, २२; -दा: आपथी २४,  
 ६, ३; बौधाय ९: १; द्विथी  
 २१, ३, ७; -दानाम् शोथी ११,  
 १०, ५; वैष ४, २, ८; -दाणि  
 शोथी ११, १०, ४; -दे शोथी  
 ११, ७, ३; वृदे ३, ३६.  
 गृत्समद-नत् आपथी २४, ६, ४;  
 बौधाय ९: ४; द्विथी २१, ३.

७; वैष ४, २, ८.  
 गृत्स-मदन- -नः या ९, ५.  
 गृद्- -दम् आपथी २०, १८, ४;  
 द्विथी १४, ४, १०.

√गृष्, पाथा. दिवा. पर. अग्नि-  
 कक्षायाम्, चागृषुः श्राप्रा ९,  
 ५२<sup>१</sup>.

गर्ष- (>गर्षित- पा.) पाठ ५,  
 २, ३६.

गर्षन- पा ३, २, १५०.

गृषु- पाठ १, २३.

गृष्- -ञः शेष २४३<sup>१</sup>.

गृष्- पा ३, २, १४०; -ष्टुः  
 आधी ६, ३, १<sup>१</sup>.

गृष्-परिवार- -रः शेष  
 २४३<sup>१</sup>.

गृष्- -ञ्यैः अथ १२, २<sup>१</sup>.

गृष्- पाठ २, २४; -शः आपथी  
 १५, १९, ४; बौधाय ९, १८: ११;  
 माथी; वाच १६, २३<sup>१</sup>; या १४,  
 १३; -शः आपथी १, ३६, ५, १<sup>१</sup>;  
 १, ७; ५१, ७××; -धाणाम्  
 अथ ७०<sup>१</sup>, ११, २६; निघ ४८,  
 ६<sup>१</sup>; या १४, १२<sup>१</sup>; -धाणि या  
 १४, १३.

गृष्-भोग्याय-वापस- -सैः अथ ६१,  
 १, ११.

गृष्-परिवार- -रम् वाच १६, २१;  
 २२; २३<sup>१</sup>.

गृष्-दयेवा(न-श्च)रोहण- -ञो काप

२७६: ७.  
 गृष्-सह- -हैः अथ ७०<sup>१</sup>, ११, २९.

√गृष्, ह्, प्रस्, ह्<sup>१</sup> पाथा. अना.  
 सुरा. आत्म. प्रहयो; कया. उम.  
 उपादाने, गृष्वे कौस् ८२, २१.  
 गृष्णामि आपथी १, ३, ३<sup>१</sup>; १५,  
 ४<sup>१</sup>; काण्ड १, ७, ३<sup>१</sup>; कौट  
 १, ८, १७<sup>१</sup>; शांठ १, १३, २<sup>१</sup>;  
 पाठ; प्रभव आधी ६, ५,  
 १८<sup>१</sup>; श्राप्रा शोथी ९, २०,  
 २६<sup>१</sup>; गृष्णाय वाथी २, १, १,  
 ३८<sup>१</sup>; गृष्भाव शांठ १, १९,  
 ६<sup>१</sup>; श्राप्रा ८, २; गृष्गृष्णत या  
 ७, २६<sup>१</sup>; गृष्गृष्णत् आपथी  
 १६, ३, १; २०, ३, ३; बौधाय;  
 गृष्गृष्णम् शेषि ६६.

जम(भ>)भा श्राप्रा ८, १३<sup>१</sup>;  
 गृष्गृष्म > म्मा शक्य २, १०,  
 ४७<sup>१</sup>; वृदे ७, ५६<sup>१</sup>; श्राप्रा ७,  
 ३३<sup>१</sup>; शेषि ६६<sup>१</sup>; पा ७, २,  
 ६४<sup>१</sup>; गृष्गृष्मत् आधी ३, ४,  
 १५; शोथी; गृष्गृष्मत् २, ३, ३<sup>१</sup>;  
 ५<sup>१</sup>; ८<sup>१</sup>; काण्ड १, २०, ५<sup>१</sup>; कौट  
 २, ३, ११<sup>१</sup>; शांठ २, ३, १<sup>१</sup>;  
 भाण्ड १, ७: १०<sup>१</sup>; वैष २, ६:  
 ३<sup>१</sup>; द्विथी १, ५, १<sup>१</sup>; गृष्गृष्  
 १, १२: २८<sup>१</sup>; २९<sup>१</sup>; अम-  
 भीष्टाम् माथी ५, २, ९, ६; अम-  
 भीष्टुः शोथी ६, १, ५; माथी ५,  
 २, ९, ६; गृष्गृष्मत् कौट ७१.

a) वैष १ द्र. । b) मेधावि-नामन्- । c) द्वा इति पाठः । यनि. शोषः । d) तस्यापत्नीयम्  
 तेनच्छीषो वा णष् प्र. । e) सहृत् गृत्सो इति पाठः । यनि. शोषः । f) पाथे. वैष १, १२२५ । द्र. । g) या  
 १४, १३ पा १, ३, ६९ परामृष्टः द्र. । h) निघ. । न (कृ) प्र. उल्लं. (पाठ ३, १२) । i) सय. गृष्मः <> गृष्मः इति  
 पाथे. । j) निघ. । वता. । k) शक्य. गृष्णपरिवारः <> गृष्णपरिवारम् इति पाथे. । l) या २, २८; ५, १५; ९,  
 ८; १०, २३ पावा ८, २, ३२ परामृष्टः द्र. । m) पाथे. वैष १, १२३६ । द्र. । n) पाथे. वैष १, १२३६ । द्र. ।  
 o) पाथे. वैष २, ३ खं. प्रमत् एसा ४, १० टि. द्र. । p) पाथे. वैष १, १२३६ । द्र. । q) सय. पथितो गृष्णाय  
 <> प्रति रेतो गृष्णाय इति पाथे. । r) पाथे. वैष १, १२३६ । द्र. । s) पाथे. वैष १, १२३६ । द्र. ।  
 t) पाथे. वैष २, ३ खं. अमदीव मना १, ६, १५ टि. द्र. । u) पाथे. वैष १, १२३६ । द्र. ।

६; ऋग्रमैवम्\* वीथी १७, ४१:१६; आपर्न २, ८३; माण्ड २, २१ १७; अग्रमिपम् द्विष्ट १, १०, ६१<sup>३</sup>; अग्रमम् अश्व १९, ३८<sup>१</sup>; ऋग्रमहम् आग्निष्ट १, ३, ४:२<sup>३</sup>; १०.

जग्रमम् पाण्ड १, १३, ११<sup>३</sup>.  
गृह्णति आपथी १६, २१, ८;  
वीथी १, १२: ५०, ५२; ५४;  
५५x; माथी; गृह्णाति दाथी  
३, १७, ८x; वाथी; आपथी  
१८, २, १<sup>३</sup>; द्विष्टी ८, २, ३२<sup>२</sup>;  
आग्निष्ट १, १, ३: ६<sup>१</sup>; द्विष्ट १, ५, ६;  
या १०, २३; गृह्णते भाथी  
५, ४, ११; गृह्णीतः वाथी  
१, १३, ५; वीथी; गृह्णन्ति  
शाथी १८, २४, ९; आपथी;  
ऋगृह्णे कौत् ३, ११-१५;  
ऋगृह्णामि आथी २, १, ९, काथी;  
आपथी १२, ७, १८<sup>२</sup>; २१, २१,  
४<sup>१</sup>, माथी १, ४, १, १५<sup>६</sup>; २,  
२, १, २<sup>३</sup>; आपर्न २, ५, २२<sup>१</sup>;  
माण्ड १, ७: ८<sup>१</sup>, बाण्ड ५, १९<sup>१</sup>;  
द्विष्ट १, २०, १<sup>३</sup>; गृह्णातु ऋगृगृथी  
१, १६, ३; ८, ६, २१; १५, ३,  
४<sup>१</sup>; १६, ५, ३<sup>१</sup>; काठथी; वीथी  
१, ३: १९<sup>१</sup>x; ऋगृह्णीव्य आपथी  
१, २५, ७, वीथी १, १०: ६<sup>१</sup>;  
माथी, माथी १, २, ३, ३०<sup>३</sup>;  
वाथी १, ३, १, २६<sup>३</sup>; ऋगृहाण

वीथी ७, १६: ४६; ८, ७: ७;  
आण्ड; अगृह्णत आथी ८, १३,  
१०; वाधूथी ४, २६: ३; या  
७, २६; अगृह्णन् आपथी १८,  
१३, १९<sup>१</sup>, वीथी; गृह्णीत वीथी  
२५, ११: १६; द्विष्टी; आपर्न  
२, १३, १२<sup>१</sup>, माण्ड १, २३:  
११<sup>१</sup>; गृह्णीयात् आथी १, १०,  
३x; वाथी; गृह्णीयाताम् भाथी  
८, ७, ५; वीथ २, २, ७१;  
गृह्णीयात् वीथी २३, ८: २५;  
कुम्; गृह्णीयुः आपथी १९, २,  
१४x; वीथी.  
जग्राह वाथी १५, १८, १; वीथी;  
जगृह्णः वृदे ३, १३६; जगृह्ण  
कुम् ३, १०: ३८; साश १,  
३१७<sup>१</sup>; अहीव्यसि सु १३,  
१; अहीव्यामि वीथी ७, ६:  
३५x, वैथी; अग्रहीत् आग्निष्ट  
१, १, ३: १३<sup>१</sup>x; काण्ड ४१,  
१६<sup>१</sup>; माण्ड १, १०, १५; २२,  
५<sup>१</sup>; ऋग्रहीः कौत् ८७, १२;  
अग्रहैवम् सु १४, १.  
गृह्णते वीथी १४, २६: १९x;  
वाधूथी, गृह्णते आपथी १२,  
२७, २; वीथी; गृह्णते आपथी  
१२, १८, ११x; वीथी; या १,  
२३; गृह्णत क्य ५७, १-४, ३;  
गृह्णान् आपथी १२, २१, २२.  
ग्राहयति आपथी ८, ६, १२; ९,

१५, ७<sup>१</sup>; वीथी; ग्राहयतु वृदे ३,  
२१; ग्राहयेत् वीथी २६, ५:  
१४; वीथ; ग्राहयेयम् वाधूथी  
४, १०: २४.  
निगृहीयेत् वाधूथी २, १०:  
६; ९.  
ऋगृमीत-तः या १४, २३; -तान्  
कौत् ५, १.  
गृह्-पा ३, १, १४x; पाण्ड २, ४,  
३१; ४, २, ७५; -ऋहः आथी ३,  
६, २४; अण्ड ३२, १, ५; अश्व ५,  
६; -ऋहम् आपथी ११, ७, २;  
वाथी; या १३, ३<sup>१</sup>; -हम्-हम्  
पाण्ड ३, १, ९<sup>१</sup>; -हस्य द्विष्टी ३,  
८, १; ६, ७, १; बाण्ड; -ऋहः  
आथी १, ११, ७x; गाथी;  
वीथ ३, २२<sup>३</sup>; या ३, १३<sup>१</sup>;  
-ऋहः आथी २, ५, १७; काथी;  
-ऋहाणम् आपथी ५, १८,  
२x; वैथी, -हाणि अण्ड ५५,  
६, ३x; -हान् वाथी ४, ५,  
१; आपथी ५, ७, ६x; वीथी;  
-ऋहान् आथी २, ५, २; १२;  
१७<sup>१</sup>; वाथी; आपथी ६, २७,  
३<sup>१</sup>; १६, १६, ४<sup>१</sup>; वैथी  
१८, १४: १२; १५; द्विष्टी  
६, ७, ८<sup>१</sup>; दाथी ७, ३, ११<sup>१</sup>;  
लाथी ३, १, १<sup>१</sup>; आपर्न १,  
८, २<sup>१</sup>; कौत् ३, ४, ३<sup>१</sup>, ५<sup>१</sup>;  
बाण्ड ३, ५, ३<sup>१</sup>, ७, २<sup>१</sup>;

- a) पांमे. वैप १, १२३६ p द.      b) पांमे. वृ ५९९ ० द.      c) पांमे. वृ ३११ d द. ।  
d) निगृह्णाति इति पाठः २ यमि. शोषः (g. द्विष्ट १, ५, ६) ।      e) पांमे. वैप १, ६५४ m द. ।      f) पांमे. वैप १,  
१२३८ b द. ।      g) पांमे. वैप १, ६२७ ० द. ।      h) पांमे. वैप १, १२३७ l द. ।      i) सपा. गृह्णामि <>  
प्रतिगृह्णामि इति पांमे. ।      j) पांमे. वृ ६९५ ० द. ।      k) पांमे. वैप १, १२३६ f द. ।      l) पांमे.  
वैप १, १२३६ j द. ।      m) पांमे. वैप १, १२३६ k द. ।      n) पांमे. वैप १, १२३६ n द. ।      o) सपा. द्विष्ट २,  
३, ७ कधीत इति पांमे. ।      p) पांमे. वैप १, १२३६ q द. ।      q) पांमे. वैप १, १२३८ h द. ।      r) वैप १ द. ।  
s) पाठः १ ग्राहः इति शोषः । सपा. गृह्णा दाक्षिणाणि <> ग्राहदाक्षिणाणि इति पांमे. ।      t) पांमे. वैप १,  
१२४० n द. ।      u) पांमे. वैप १, १२४१ b द. ।

लाभ्री ८, ६, १; पात्रा ६, २, ४२;  
मीम् ६, ६, २१.

१ गार्हपत्यम् - पा ४, ४, १०;  
-फ० ल्य आपथ्री २, ५, १; वीथ्री  
१, १२: ३१; माथ्री; -न्यः आथ्री  
२, २, १३; ५, १२ फ० xx; काथ्री;  
-रयम् आथ्री २, २, १; १, १५;  
१०; ५, २; ७, ११; १६, ३५;  
३०; साथ्री; काथ्री १७, १, ३;  
वेताथ्री २८, २४; -न्यस्य आथ्री  
१, १०, ४ xx; राथ्री; -त्यात्  
आथ्री १, ११, ४; १; २, २,  
१; १४; वाथ्री २, ६, २ xx;  
१५, ५ फ०; काथ्री; -फ०त्वानि  
वाथ्री ४, १२, १०; माथ्री;  
-त्यात् माथ्री १, ५, २, १;  
आपथ्रं ११, ३, ३; १, ४; पाथ्रः  
-त्ये आथ्री १, १२, ३२ xx;  
शाथ्री; -न्त्येन वाथ्री २, ८, ८;  
आपथ्री ६, ५, ६; आम्भि.

गार्हपत्य-धर्मन-  
-र्मन्यः द्विथ्री ७, ८: १३; -र्मणि  
माथ्री १, ६, २, ५; द्विथ्री ७, ८: १३.

गार्हपत्य-ब्रह्म्याद्-  
-न्यस्यौ कौत् ७०, १०.

गार्हपत्य-चिति-  
-ति: वाधुथ्री ४, ११५: २, १४;  
-निम् आपथ्री १६, १५, ५;  
वैथ्री १८, १२: २६; -नी:  
वाधुथ्री ३, ७१: १४; -ते:  
आपथ्री १६, १४, १; ४; वैथ्री  
१८, १२: ७; ११; द्विथ्री; -ती  
आपथ्री १६, १४, ५; वीथ्री २२,  
४: ४; वैथ्री, -त्याम् वाधुथ्री  
४, ११५: १६; -त्ये वाधुथ्री  
४, ११५: ६.

गार्हपत्य-दक्षिणाभि-  
-न्नी आपथ्री ९, ३, २१; द्विथ्री  
३, ६, २८ xx; -न्यो: वाथ्री १,  
३, २, २६; द्विथ्री १, ८, १९ xx.

गार्हपत्य-दक्षिणा-  
भि-स्थान- > वीय- यम्  
नाथ्री १, २, ३, ३८.

गार्हपत्य-देश- -शाम्  
आपथ्री १, १०, ८; -ते वैथ्री  
३, ४: २२; ८: ११; द्विथ्री १,  
२, ५० xx; कौत् २२, १४.

गार्हपत्य-यथात् अप  
४५, २, १०.

गार्हपत्य-प्रवाद- -दः  
द्विथ्री २, ७, ६८.

गार्हपत्य-लक्षण-  
-णस्य माथ्री १, ५, २, १; ३, १;  
अपथ्र ५, १; -ने माथ्री १, ५,  
२, २०; वाथ्री १, ४, २, १०.

गार्हपत्य-स्तोक-  
मृष्ट्या- -णा: वाथ्री १७, ७,  
२६.

गार्हपत्य-विधान-  
तस्रः (ः) अप २३, १०, ४.

गार्हपत्य-शब्द-  
-श्रः आपथ्री १, १०, २१; माथ्री  
१, १०, १५; -श्रम् वैथ्री ४,  
६: १२.

गार्हपत्य-श्रुत- -शम्  
कौत् २२, १४.

गार्हपत्य-श्रोणि-  
-निम् वैथ्री २, २: १८.

गार्हपत्य-संयुक्त-  
-कानि द्विथ्री ५, २, ४.

गार्हपत्य-सकाश-  
-शास्त्र वीथ्री २६, ५: १; -दे

वीथ्री २५, ११: २०.  
गार्हपत्य-स्थान- -ने

काथ्री ४, ११, ८; माथ्र १, ६, २.  
गार्हपत्यस्थानीय-  
-यम् भाथ्री १, १०, १३.

२ गार्हपत्य (>) य्वा-  
-त्या: वाधुथ्री ४, ११९: २.

गार्हपत्या (त्य-थ)-  
माथ्र- -रे काथ्री ४, ७, १४, ८;  
१; आपथ्री ४, ३, १०; भाथ्री.

गार्हपत्या (त्य-अ)-  
भि- -निम् वैथ्री ४, १०: १२;  
-सौ वैथ्र २, ६, ३.

- गार्हपत्या (त्य-आ)-  
ज्य- -ज्यम् अपथ्र २, ३.

गार्हपत्या (त्य-आ)-  
दि- -दीत् वैथ्र २, ३, ४; ४, ३;  
७, ५.

गार्हपत्या (त्य-अ)न्त-  
-न्ते नाथ्री १, २, ५, २०; ७, ४,  
११; ६, १६; २, ३, १, ४ १ xx.

गार्हपत्या (त्य-अ)  
न्वाहार्यपचन- -नौ आपथ्री १,  
७, १३.

गार्हपत्या (त्य-अ)न्वा-  
हार्यपचना (न-आ) हवनीय-सम्प्या  
(अ-आ) वसस्य- -न्यानाम्  
वैथ्री १, ८: ९.

गार्हपत्या (त्य-अ)वतन-  
-न्यम् काथ्री ४, ८, २१; आपथ्री  
५, ४, २; १२ xx; वीथ्री; -नात्  
माथ्री ५, २, १८; द्विथ्री ३, ३,  
१; -ने आथ्री ३, १२, २५;  
आपथ्री.

गार्हपत्या (त्य-अ)-  
चिन्- -चिन् वैथ्री २, ४: ३.

a) = तत्स्थान- (काथ्री १७, १, ३ मृष्ट) शिष्टं वैथ्र १ द. 1 b) पाथे. वैथ्र १, १२४२ प द. 1 c) चस.

उप. = कुशुड-चिह्न- 1 d) मलो. वस. १५. = चिति-, उप. = इत्का- 1 e) विप. (इत्का- 119. C. 1)

गार्हपत्या (त्य-आ)  
 ह्वनीय- -ययोः आश्री ३,  
 १०, १५; १३, ६; आपृष्ट ४, १;  
 ५<sup>३</sup>; काष्ठः -यो आश्री २, ५,  
 २; १२; ४, २, १२; शशी २,  
 १२, ६; काश्री १, ८, २३; २६,  
 २, ३०; आपृथी.  
 गार्हपत्याह्वनीय-  
 संघ (घ >) न्या<sup>१</sup> - न्याम्  
 वैश्री १, २ = १२.  
 गार्हपत्ये (त्य-इ)  
 ष्टका- -काः वैताश्री २८, २५.  
 गार्हपत्यो (त्य-उ) ष-  
 स्यात् - नात् भाश्री १, १०,  
 १२.  
 गार्हपत्योपरधाना-  
 ना (न-अ) न्त<sup>२</sup> - न्तम् भाश्री  
 ८, २०, ६.  
 गार्हपत्यो (त्य-उ)  
 रुमुक् - काद् शशी ३, १९, १४.  
 गृहपति-गोत्रा (श-अ) न्यव-  
 -याः आश्री १२, १०, ३.  
 गृहपति-मत्त- -फम् अप  
 १, २७, २.  
 गृहपति-भरण- -जे आश्री  
 १२, ६, ३४<sup>३</sup>; काश्री २४, ६, १८.  
 गृहपति-महात्म- -सात्  
 गोप १, ४, २४.  
 गृहपति-मुक्च- -न्यात् वाश्री  
 ३, २, १, १२.  
 गृहपति-व्यधिष्ठ- -ष्टयोः  
 ऋष २, ८, १०२.  
 गृहपति-वत् मीत् १०, ६,  
 ५५.  
 गृहपति-वदन- -मम् शशी

१०, २०, १.  
 गृहपति-वज्रम् काश्री १२,  
 १, १८.  
 गृहपति-सप्तदश- -याः  
 आश्री ४, १, ८; शशी १३,  
 १४, १.  
 गृहपत्य (ति-अ) न्यारम्भ-  
 -म्भः काश्री १२, १, १३.  
 गृहपत्या (ति-आ) ह्वनीय<sup>४</sup>-  
 -ये काश्री १२, १, १६.  
 गृह-पोषण- -जे आज्यो ४, ८.  
 गृह-प्रद- -दः वाप २२, १४.  
 गृह-प्रपदन- -न्तम् आट २,  
 १०, १.  
 गृह-प्रवेश- -याः आज्यो ८, ८.  
 -दाम् आज्यो ५, ९.  
 गृह-प्रवेशन- -पाग ५, १, १११<sup>५</sup>;  
 -नम् कौट ३, ३, ८.  
 गृहप्रवेशनीय- पा ५, १,  
 १११.  
 गृह-तू-कुट्या (त्य-आ) सु (दि-  
 व) वभेचु- -त्ता विष ५, १०८.  
 गृह-मन्व- -व्ये माप २, १२,  
 ६; वैप ३, ७ = ११.  
 गृह-मन्व्य (म >) मा- -नायाम्  
 माप २, १२, ५.  
 गृह-मही-रय- -याः अप १४,  
 १, ८.  
 गृह-मेघ<sup>६</sup> - -धम् आपृथी ५,  
 २६, ५; भाश्री ५, १८, १; -धात्  
 माश्री १, ७, ५, २३<sup>६</sup>; -०घात्तः  
 आश्री २, १८, ४; भाश्री ३, १५,  
 ९; -थे आपृथ १, ४, २६; २,  
 २५, ७; दिघ; -थेय्यः आश्री  
 २, १८, ३; शशी; भाश्री १,

७, ५, ११; २२<sup>७</sup>.  
 गृहमेधीय<sup>८</sup> - पा ४, २, ३२;  
 -या शशी १४, १०, १६; शशी  
 ५, १० = १५; २९, २ = १७;  
 भाश्री; -धम् शशी ५, १० = ९;  
 हिश्री ३, ६, ५<sup>८</sup>; -यस्य आपृथी  
 ८, ९, ९; शशी २१, ३ = १४;  
 १६ × ४; भाश्री; -यात् भाश्री ८,  
 १२, १७; -याप भाश्री ८, ११,  
 ९; भाश्री १, ७, ५, १०; हिश्री  
 ५, ३, २; -ये शशी २१, ६ =  
 १८; भाश्री १, ७, ५, ५; -येन  
 आपृथी २२, ८, १६; काश्री ४  
 २२ = ७; शशी.  
 गृहमेधीय-प्रमुक्ति-  
 -तीनि शशी १७, ९० = १०.  
 गृहमेधीय-नम् मीम् १०,  
 ७, ५०.  
 गृहमेधो (घ-उ) षदेशन-  
 -नम् आपृथ १, २, ७; दिघ १,  
 १, ४०.  
 गृहमेध- पा ४, २, ३२.  
 गृह-मेधिन<sup>९</sup> - -धिनः आश्री  
 १०, ७, १; शशी १६, २, ३;  
 आपृथी; -धिनम् कौट ३, १०,  
 ३५; शंय २, १६, ६; -धिनम्  
 वैताश्री ९, ३; आज्यो ५, ८;  
 -धिनोः आपृथ २, १, १; १५; दिघ  
 २, १, १; १४; -धिन्यः आपृथी  
 ८, ९, ८ = २०, १४, १०<sup>१०</sup>;  
 काश्री ५, ६, ६; शशी; -<sup>११</sup>थो  
 आपृथी १७, १६, १८; वैश्री १२,  
 ६ = १०८; हिश्री.  
 गृहमेधिनी- -नी  
 आपृथी ३, १०, ९; भाश्री ३,

a) विप. । बत. । b) मलो. कप. । c) द. पागम. । d) = शीपासन-दोम- । वैप १ द. ।  
 e) पाभे. वैप २, ३४. गृहमेधिनः टि. द. । f) पाभे. वैप २, ३४. गृहमेधिन्यः टि. द. । g) वैप १ द. ।  
 h) पाभे. वैप १, १२, ४३ i) द.

१२,८; नीलाम् वाघ २१,१४.  
 गृहमेधि-मल- -नाम् गोप १,  
 ४,१८.  
 गृहमेधि-स्विहृत्- -कृतौ  
 काथी ५,६,१०.  
 गृह-यु- -पाठना १,३०.  
 गृह-वाज- -जाय वीथ २, ८,  
 १९१.  
 गृह-स्वाम- -मः वाघ २९,१३.  
 गृह-वल्- -वान् आपथी १,  
 २,११; भाथी १,३,४.  
 गृह-वृद्धि- -द्विम् आमिष्ट २,  
 ५,९:१; जैष्ठ २,६:१.  
 गृह-शयना(न-अ)लङ्कार-  
 वासम्- -संसि शंघ २६२  
 गृह-शान्ति- -न्तिम् आमिष्ट २,  
 ५,९:२; जैष्ठ २,६:२.  
 गृह-संकाश- -सो कौसू २४,  
 ११; ७७,१४.  
 गृह-संप- -पाग २,१,४८.  
 गृह-स्य- -स्यः आमिष्ट ३, १०,  
 १:६××; वीथ; -स्यम् वीथि ३,  
 १,१०; वैश्र ७,१:१४; गौपि;  
 -स्यस्य आमिष्ट २, ७, ३:१;  
 ३, १०, ४:३०; वीथ; -स्याः  
 वैथ १, ५, १; -स्यान् आमिष्ट  
 ३, ११, १:११; वाघ ११,  
 १०; -स्थानाम् अप ५३, ५,  
 २; वाघ ६, १९; शंघ; -स्ये  
 वाघ ८, १५; -स्येन आमिष्ट २,  
 ७, ११:१.  
 गार्हस्थ्य- -स्यरथ गौष  
 ३, ३६.  
 गार्हस्थ्य- -स्यम् वैश्र

३, ४: १४; ४, २: १०; आपघ.  
 गार्हस्थ्य-जैयमिक-  
 -केपु वाघ १९, ३.  
 गार्हस्थ्य(स्य-अ)  
 ङ- -ज्ञानाम् वाघ १९, १३.  
 गार्हस्थ्य(स्य-अ)  
 मुमरण- -गम् वैथ १, ३, ३.  
 गृहस्य-धर्म- -सर्गि वैश्र ६,  
 १८: ८; -सर्गि आमिष्ट ३, ७,  
 ४: ३२. वीथि.  
 गृहस्यधर्म-वृत्ति- -सो  
 शंघ ४६१.  
 गृहस्य-वल् वैश्र ५, ७: १३.  
 गृहस्य-साधु- -धृत् गौपि  
 २, २, १०.  
 गृहस्या(स्य-आ)धम->  
 धिन्- -मी वैथ ३, १, १.  
 गृह(ह-आ)गत,ग- -सम् वैथ  
 १, ४, १; -गः गौपि १, ७, ९;  
 -गान् गोप २, ४, ६.  
 गृह(ह-आ)तन्- -नी तु २, ३.  
 गृह(ह-आ)वश्यक- -कानि शंघ  
 ३३५  
 गृह(ह-आ)धम- -मान् विघ  
 ५९, २७.  
 गृहधमिन्- -मिणः विघ  
 ३३, २; ५८, १; -मी विघ ५९,  
 १; २८: २९.  
 गृह(ह-अ)ध-रथ-सूर्य(मि-अ)  
 र्थ- -स्ये शंघ १४४  
 गृहिन्- -ही आमिष्ट ३, १०, ४:  
 २३; कप ३, २, २; शंघ.  
 गृहिणी- -णी वीसू ७३, ११;  
 -णीम् अप २०, ७, १०.

गृहिणी-भक्त- -क्तम्  
 अप १, ३०, २.  
 गृहो(ह-उ)सर्ग- -गः शीघ्र ५,  
 ११, १.  
 गृहो(ह-उ)वकरण- -गानि वाघ  
 १७, ४५.  
 गृह, घा- -घः शीघ्र ५, २, ४:  
 गोप १, १, २१; ३, १६; द्राघ;  
 -घम् अप १, ९, १; कौश्र  
 ३, ४, ५; शीघ्र; -घः आपथी  
 ८, ११, २; वीथी ५, १६:  
 ६; भाथी; -घानि वीथी २९,  
 १२: ६; अप १, १, १; आमिष्ट  
 २, ७, २: १××; द्विष्ट; -घान्  
 शीघ्र ३, २, १; -घान् काथी ४,  
 १२, २३; वाघ ११, ८; -घानि  
 वीथ २, ६, १७; -घाम्यः पाप २,  
 १, २; कप ५४, ४; वीथ; -घ  
 अप १, २३, २५; कौश्र; -घेपु  
 कौसू ८९, १६.  
 गृह-पुर- -पः वाप १, १.  
 गृह-आयश्चित्त- -त्तानि  
 आमिष्ट २, ७, ४: १; भाप ३,  
 १८: १.  
 गृह-स्वालीपाठ- -कानाम्  
 पाप १, १, १.  
 गृ(ह >)घा-कर्मन्-  
 -सर्गि गोप १, १, १; द्राघ १,  
 १, १.  
 गृह(ह-अ)धि- -मिन् वीथ  
 ३, ५, ९; अप २२, १, ३; -धी  
 कौश्र १, १७, ७, वाघ ११, ३;  
 वैथ ३, १, २.  
 गृहबल- पा ३, १५८.

a) = गृह-वति । b) वैथ १ द्र. । c) तु. पागम. । d) = आपधम-विशेष. । e) ष्वल् इति  
 मिलाक्षर (वाघ ३, २९०/१ । f) विघ. (आपि) । वम. । g) विघ., नाप. (वाल., देवता., कर्मन्-प्रयु.) ।  
 h) = परिशिष्ट-विशेष. । i) कस. पूव. छान्दसो वीथि: (तु. श्वातंसप्रह: ११, ३३-३८ ), भट्टनारायण:, भाप. ;  
 वैश्र. छन्दः-द्वे पदे इति) ;

गृहीत, वा- पाय ५, २, ८८; -तः काथी १०, ७, ८; वीथी; -तम् आपथी १, ४, १२; १६, ९; भाथी; -तम्-तम् वीथी ३, १६; १९, ९; -तस्य आपथी २, ७, १२; भाथी; -ताताम् आपथी १०, १, १७; -ताम् अपाय २, ५; -तायाम् अप ३७, ६, १; वैष ३, ११, ३; -ते शाथी ३, २०, २०; ७, १५, १७; द्विथी; -तेन अप १, ३, १, ७; ३५, २; विष ६६, १; ७२, १; -तेषु जैथी ९: २५; वेताथी ३०, १०.  
 गृहीत-नामा-लिङ्ग- -नामि वैष ३, १०: १.  
 गृहीत-प्रत्यय- -ज्यः नासि १, ६, २२.  
 गृहीत-दर्भ- -भः अप १८<sup>२</sup>, ८, १.  
 गृहीत-घन-प्रवेश- -वे विष ६, ९.  
 गृहीतघनप्रवेश (श-अ)थं- -थम् विष ६, ९.  
 गृहीत-पाणि- -पावाग २, २, ३६.  
 गृहीत-पा(द>)दा- -दाम् विष २९, १.  
 गृहीत-मधुपक- -कः आपथि १, ६, १: ९.  
 गृहीत-मूष्य- -म्यम् विष ५, १२७.  
 गृहीत-शिम- -शः विष ६०, २४.  
 गृहीत-सोम- -सम् काथी ७, १, १.

गृहीत-स्तोत्र- -त्रः जैथी ३ १८०.  
 गृहीता (त-अ)नुगमन- -ने काथी २५, ३, १५.  
 गृहीता(त-अ)स्तमित- -तयोः अप ५३, ६, ४.  
 गृहीतिन्- पा ५, २, ८८.  
 गृहीत्वा काथी १, ११, ९××; शाथी; गृहीत्वाऽगृहीत्वा काथी ९, ५, ९××.  
 गृह्ण- -ह्वन् वीथ १, ८, ६; -ह्वता जैथी ३ १०४; -ह्वसु जैथी ८: ४; -ह्व् आपथी ३, ६, १६; आपथी; -ह्वन्तः वीथी २६, १२: २३; -ह्वन्तस्य वेताथी ५, ७; ३०, १०.  
 गृह्णी- -नीम् काय १४, ८.  
 गृह्णन्ती- -न्तीम् गोय २, १, ७.  
 गृह्णति->°ति-कर्मन्- -मर्गा ६, ८.  
 गृह्णान- -नाः वीथी १, १२: ५××; -नाः काथी ८, १, १८; वीथी.  
 गृह्ण आपथि २, ६, ६: २०; द्राय ३, १, १४; वीष १, ४, ९××.  
 गृह्ण- पा ३, १, ११९.  
 गृह्णमाण, णा- -णाः अप ५३, २, २; शुभ १, ४१०; -णम् निम् १०, ८: ३६; -णाम् माथी ५, २, १६, १२; -णानि माथी ५, २, १६, १०; द्विथी ६, २, ९; -णाम् गाथी १, ४, १, १२; छे ५, १५४; -णे आपथी ३३, ९, ४; जैथी ३; -णेषु शाथी ७, १५, १५; आपथी १४, ९, ४; वीथी.

गृह्णन्- -भाय या ३, २४.  
 गृह्णन्- पाठो २, २, १९४; -णम् काथी ३, ६, १८; ५, ४, ६××; ९, ५, १५६; आपथी; पा ५, २, ७७; पावा १, ४, ५१××; -णस्य तैषा १, २२; मीसू १०, ७, ३३××; -णाः माथी २, ४, २, २; -णाम् काथी ७, ५, २४; १२, ६, २४; आपथी; -णानि आपथी १३, २, ५; द्विथी ८, ४, ६; -णे आपथी १८, १३, १९; वीथी; पावा २, ४, ७७; -णेषु द्विथी ९, ७, २१; पावा १, १, ५७.  
 गृह्णी- -णीम् वीसू २९, २; -न्वीथी आपथी १८, २, ६; द्विथी १३, १, ८.  
 गृह्ण-काल- -ले अप ११, १, २; १३, १, २.  
 गृह्ण-निर्वाप- -वे वीथी २७, ४: २१.  
 गृह्ण-प्रतिषेध- -घात्र पावा १, ३, ९.  
 गृह्ण-प्रदान- -ने आपथी १२, २७, २.  
 गृह्ण-भेद- -दान काथी ९, ४, २३.  
 गृह्ण-मन्त्र- -न्त्रः वीथी २५, २३, ६.  
 गृह्ण-कथन-स्तरण(वा-अ)ज्य गृह्ण- -णेषु काथी १, ७, ९.  
 गृह्ण-विशेषण- -स्व- -स्वात्र पावा १, १, १२.  
 गृह्ण-विसर्ग- -मर्गं वैष २, १३: १७.

a) विष. 1 वस. 1    b) तु. पागम. 1    c) वैष १ द. 1    d) माप., नाप. ( उपराम- [अप.]) 1  
 e) गृह्णमन्त्र इति षष्ठी. 1    f) = मन्त्र-विशेष- (तु. मै १, १, १६ प्रसू.) 1    g) = कथन-व्यव- 1    h) = कथ- विशेष- (तु. मै १, ११, ४) 1

ग्रहण-साकि- -किः मासि १६, ४.  
 ग्रहण-संयुक्त- -के आपथी १८, १३, २०.  
 ग्रहण-सादन- -नाः आपथी १२, १५, १०; -नौ आपथी १२, १५, ११; १८, १०××; वैथी.  
 ग्रहण सादन-प्रत्यसन- -नाः आपथी १६, ३३, १; वैथी १८, १६ : ६८.  
 ग्रहण-सादन-स्तोत्रोपाकरण- होम-अक्षारण-भक्षण- -णानि काथी १२, ४, १५.  
 ग्रहण-सादना ( न-अ ) वदान- प्रदान- -नेपु काथी १, ५, १२.  
 ग्रहणा ( ए-आ ) प्लादान- -ने अय ६१, १, २४.  
 ग्रहणा ( ए-आ ) दि- -दि काथी २५, ७, ७; -दिभिः शंघ ११५.  
 ग्रहणा ( ए-आ ) नर्थक्य- -न्यम् पावा १, १, ३४.  
 ग्रहणा ( ए-अ ) त्- -न्तम् आण्ड १, २३, ३; माण्ड ३, ५ : २; बौध १, २, ४; गौध २, ५४.  
 ग्रहणा ( ए-अ ) र्थ- -र्थम् मीत् ९, २, १३; -र्था मीत् ७, २, १५.  
 ग्रहणा ( ए-आ ) सादन- -ने आपथी ८, १४, ७.  
 ग्रहणा ( ए-आ ) सादन-प्रोक्षण- -णानि शाण्ड १, ३, ४.  
 ग्रहणो ( ए-उ ) पाधि- -धीनाम् पावा १, १, ७२.

ग्रहणि- पाठ ५, ६७.  
 ग्रहिन- पाठनो २, २, १९४.  
 ग्रहीतव्य-व्या- -व्यः आपथी १२, ८, १२; वीथी २४, २५ : १××; या ३, ३; -व्या जेथीका १७०; -न्य्याः वीथी १४, ११ : २८; २९××; भासि ८८; -व्यौ आपथी १२, ८, १३; १४.  
 ग्रहीतुम् आपथी १२, ८, १०; हिथी ८, ३, ३२१<sup>१</sup>; वैथी १५, ९ : ७.  
 ग्रहीतु-काम- -मः अय ५३, १, २.  
 ग्रहीव्यत्- -व्यतः द्राथी १५, २, ७; लाथी ५, १०, ७; -व्यन् आपथी १, १६, ४; वीथी.  
 ग्रहीव्यमाण- -णः वीथी २९, ४ : १; -जेपु द्राथी १५, २, ११; लाथी ५, १०, ११.  
 ग्राह- पा ३, १, १४३; पाग ३, १, १३४.  
 ग्राहक- -कः अय ४७, १, १४.  
 ग्राहम् माथी २, ३, ८, २××.  
 ग्राहयित्वा वीथी ५, १ : ३१; ५ : १९××; वाण्ड १४, ३.  
 ग्राहि- -हिम् कौत् ६१, २२; -द्या अय २, २, १९<sup>३</sup>; -द्याः आपथं २, १२, १०; आसिण्ड २, १, ४ : ९; हिय.  
 ग्राहिन्- पा ३, १, १३४.  
 ग्राहुक- -कः भासि ६४<sup>१</sup>; -काः हिथी ११, ३, १९.  
 ग्राह्य- -ह्यः आपथी १२, ८, ६; १४, २६, ११××; हिथी; -ह्यम्

कय २, ५, २१; अय ३८, १, ६; यासि २, ११७<sup>१</sup>; -द्या कय १, ८, १७; -द्याः वैथी ११, १० : ६; १४××; कय ३, ७, ३; अय; -द्याणि वैथी ११, ११ : ८; -द्याम् विध ५७, ११.  
 ग्राह्य- -कम् आसिण्ड २, ७, ७ : ९.  
 ग्राह्य-लोक- -कः वीथी २१, २१ : ४.  
 निगृह्यत्- -क्षन् गोण्ड १, १, ८; २०.  
 गृष्टि- पाठनो २, १, १८८<sup>१</sup>; पाग ४, १, १३६; -ष्टिः माथी ५, २, १०, १३; अय १, ५०, ३; -ष्टेः जैण्ड १, ५ : १; कौत् १९, १५; -ष्टै वीथी २८, ४ : ८.  
 गार्ष्टव- पा ४, १, १३६.  
 गृष्टि-नामन्- -म कौत् २४, ७.  
 गृह- प्रय. √गृम्, ह् द.  
 √गृ ( शब्दे ) √गृ द.  
 √गृ<sup>१</sup> पाषा. तुदा. पर. निगरणे, गितति या ९, ४; १०, २३; १४, १८<sup>१</sup>; २१<sup>१</sup>; गिलति या ९, २४.  
 गृज्गार वीथी १४, ७; माथी ६, १, ९; या १४, १८<sup>१</sup>; भगतीः या ६, ८.  
 गृज्जीव<sup>१</sup> निघ ४, ३; या ६, ८<sup>१</sup>; क्रपा १, १०३; श्रपा १, १६; तैपा ८, ८.  
 गरण- > गरण-वत्- -वत् या ७, १८.  
 गरमाण- > ण-तोहिन्- -दि या ६, १७.

a) तु. वीथे. web. च; वैदु. कासं. 'णप्रदानस्तो' इति। b) विच.। वस.। c) = [शरीरस्य-] कला-विशेष- (द. अष्टाशुद्धये शारीरसयानम् [३, ५०]) तात्पर्यात् = ग्रहणी- (रोग-]। d) गृही<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोधः। e) तु. पाषा.। ग्राह- इति माण्डा.। f) वैप १ द.। g) सहृद् पाभे. वैप १, १२४५ अ द.। h) <√गृ [ निगरणे]। i) या २, २८; ६, ८; ९, ४ पा ८, २, २०; २१ पावा १, ३, ५१; ७, २, ११४; ८, २, २१ पराण्डः द.।



गिरण-मे अय ४८,४९१.

गिरति-> गति-कर्मन्- भाँ या ६, ८.

गिल-ले पावा ६,३,७०.

गिल-गिल-ले पावा ६,३,७०.

गीर्वा वीथी १८,४७ : १,२१; २४;

आयण ७,१९,७.

✓गेष् पाधा. भ्वा. आत्म. वम्पने गतो व.

✓गेष् पाधा. भ्वा. आत्म. सेपने.

✓गेष् पाधा. भ्वा. आत्म. अन्वि-  
प्यायाम्.

गेय- गेय- ✓गौ द्र.

गेह- पाग २,४, ३१; कि ३: -हृष्  
पावा १,४, १; -हाय वाण ४,  
२१; वैण ५,२ : १; -हे वैण ६,  
१८ : ३; पा ३,१,१४४.

गेहा(ह-अ)भि- भ्री काण्ट ४० :  
११.

गेह-दाह- हे काथी २५,४,३६.

गेह-हार- रम् हाण ४,२,१३.

गेहा(ह-अ)न्तर- रम् आग्रिण २,  
४,६ : ४२.

गेहे-द्वेदिन्- गृह- , दादिन्-  
दृह- , दृह- , नन्दिन्-  
नन्दिन्- , नन्दिन्- , नृह-  
, पण्डित- , अग्रहन्- , भैलि-  
न्- , भेदिन्- भिचिदिन्-  
विभिदिन्- , प्याह- , धूर-  
पा, पाग २,१,४८; ६,२,८१.

✓गौ पाधा. भ्वा. पर. शब्दे, गायते  
गाथी ४, ४, ३२; वीथी,  
गायति शांथी ५, १२, ३; १३,  
१७,४; काथी; गायत. वीथी

१५, ९ : १०; हिथी १४, २, ६;  
१८; १६, ६, ४०१; वीथ;  
गायति आथी ७, ८, ३१;  
गंथी ११, ११, १२; १२,  
२६, २२×; काथी; गायसि  
आयमं १,१३,११; वीथ; गंथये  
जैथी ८ : १६; द्राथी २,४,११;  
गंथायत् शांथी १०,११,६; ११,  
११, ९; शथ २, १, १७३;  
गायात् द्राथी २,९, ८; १७,७,  
९; शाथी; गंथायत् आयथी  
२१, २०, २; हिथी; गंथाय  
आथी ८,१, १८; ९, ११, २१;  
शांथी; वेताथी १७, २१; कीथ  
२३, २१; ५०, १३१; ५९,  
२५१; शथ ६,११; गंथायत्  
भायत् १४, ४; वीथ १,९०,  
१०; गंथायत्, > ता आथी  
७,३, २×; शांथी; अगायत्  
वाथी ४, ४७ : १,६; गायत  
नाथि १, ६, १५; गायन्  
आथी १५, १९, ११; माथी;  
जैथी २२ : १६१; २५ : ३१;  
गायेताम् आयथी २०,७,१,२१.  
२०,११; गायसुः आयथी २१,  
१९,१११; जैथीका १८५.  
जगो वृदे २,३८; ४०×; जसुः  
वृदे ७,१०१; गायामि वाथुथी  
४,४७ : ६; पाठ १,७,२१४,  
गंथायाम.३ माथ १, १०, १५;  
वाथ १४, १२.  
गीयते द्राथी १६,८,२××, वीथी  
८,१४; ३; हिथी; गीयन्ते माथि  
१,७, गीयताम् जैथीका ५४.

गायते द्राथी २,१, ११; साथी  
१,५, ८१; वीथ.  
गातव- अथम् जैथीका ४०,५४.  
गायक- पा ३,१,१४६.  
गा(थ)>था- पाठ २,४; -थया  
वीथी १६, ६५; निष् २, ११ :  
३०१; अय-या भाण २,२१ :  
१०; अय ४८,१०२१×; विष  
८०,१३; ८वे, २०; ८८, ३; निष  
१, १११; -थाः काथी २०,२,  
७१; वीथी; -थानाम् काथी  
१५,६,३; -थयम् शांथी १८,  
१५, ५१; वाथुथी ४,४७; ५; ६;  
१२; पाठ; -थायाः आथी ९,  
३,११; काथी; -थाम् काथी ३,  
३,३,३; ४,१,३६; शत २,४,  
८; -थे विष ७८,५१.  
गाथा-कार- पा ३,२,२३.  
गाथा-मिथ, आ- -अम् या ४,  
६; -थाः आयथी १८,१९,१०;  
हिथी १३,६,३५.  
गाथिक- कम् नाथि १,१,२.  
गंथायिन्- -थिनः आथी ६,  
४,१०; ७, २, ३; शांथी; या ७,२.  
गान- नम् काथी ४,९,५; जैथीका  
१११; १५९; द्राथी; -नत्थ  
नाथि १,३,१११; -नेषु कथ ३,  
८,२१.  
गान-काल- लम् जैथी २२:१;  
२३ : १; जैथोप १; -ले द्राथी  
१५,४,१२.  
गान-नाति- -तिषु निम् १,६:१.  
गान-संयोग- गा २ नीष् ९,१,  
५५.

a) वष २ द्र. । b) तु. पाका. । c) तु. पागम. । d) या १,६; ७,१२ पराण्टः द. । e) सज.

गायतः <> गायताम् इति पाठे. । f) सोपार्थं वेष १,६२६ । द. । g) गं इति पाठः ? यति. शोधः ।  
h) परस्परं पाठे. । i) गायत् इति पाठः ? यति. शोधः (तु. द्राथी. अन्वित्वात्मा च) । j) अथम् इति पाठः ? यति.  
शोधः (तु. ऐथा ५,२,१०) । k) अथम् इति पाठः ? ।

गायत्र- अतः आधौ ८, ७, २३;  
 बाधूथी ४, ४० : ९; द्राधौ;  
 -यसु कौस् ९३, १३; अय ७२,  
 २, २; -यन् माधौ ६, १, २, २०;  
 लाधौ १०, १६, १०; -यन्तः  
 पाए ३, १०, ९; -यन्तम्  
 बाधूथी ४, ४० : ९.  
 गायन्ती- अयः आपधौ २१,  
 १९, १८; बौधौ.  
 गायत्र- पा ५, ४, ३८<sup>०</sup>; -प्रः  
 आधौ ४, १२, १; शाधौ,  
 वैध १, ३, १; २; -त्रम्  
 आधौ ४, १३, ७××; शाधौ;  
 या १, ८<sup>०</sup>कृ; ऋत्रस्व बौधौ १३,  
 ३२ : १०<sup>०</sup>; द्राधौ ९, ३, ४;  
 लाधौ; -त्राः आधौ ६,  
 ४, १२; निस् ४, १० : ३; पि  
 ३, २६; -त्राणाम् शाधौ ७,  
 २६, १२; -त्राणि शाधौ १२, २,  
 १०; वैधौ ११ : १३; सुस् २,  
 ९, २; निस्; -त्राद् शाधौ ९,  
 २०, ८; ऋवीधौ १०, ३५ : ५;  
 १४, २२ : १०; निस् २, ७ :  
 २४; -त्राद् आधौ ८, ८, १;  
 बौधौ १०, ५६ : ९; ५८ : ६××;  
 -ऋत्राय शाधौ ९, २७, १; १७,  
 १३, १; आपधौ २०, ९, २,  
 बौधौ १५, १० : ११; माधौ,  
 शुभ ३, १३२<sup>०</sup>; -ऋत्रे आधौ ८,  
 २, १२; आपधौ ५, १६, ४; बौधौ;  
 -वेग आधौ १, ३, २, २; ६, ५, २;  
 शाधौ ४, १२, ४××; काधौ, -ऋत्रे  
 वनिस् १ : ५३; ५६-५८, पि

३, २३; ४८; -ऋ आधौ ६,  
 १३, ५; आपधौ २२, ६, ३;  
 बाधूथी ४, ९८ : ८; १३; हिधौ.  
 गायत्री- पा ४, १, ४१<sup>०</sup>;  
 ५, ४, ३८<sup>०</sup>; -अत्रि माए १,  
 २, २; -त्रियः बाधूथी ४, ९१ : ३;  
 ११५ : ११; १२; -त्रिया ऋत्राधौ  
 १, ६, ८; ५, २, ४; ऋवीधौ १३,  
 ७ : १८<sup>०</sup>, १४, २४ : ३५<sup>०</sup>;  
 २८ : १५<sup>०</sup>, १७, १७ : १०; २७,  
 १० : ६<sup>०</sup>; बाधूथी ४, १०५ : १;  
 हिधौ ३, १, ११××; -ऋत्रियाः  
 आपधौ १४, १९, १<sup>०</sup>; बौधौ  
 १६, ४ : १७; हिधौ १५, ५,  
 १६; -ऋत्रिये आपधौ ३, १८,  
 ४<sup>०</sup>; बौधौ ३, २३ : १८<sup>०</sup>; १४,  
 २२ : १०; माधौ ३, १४, २<sup>०</sup>;  
 बाधूथी, हिधौ २, ८, १<sup>०</sup>; -त्रिवौ  
 बाधूथी ४, ८५ : ३, -ऋ आधौ  
 २, १४, १९; ४, १२, २; शाधौ  
 ७, २७, १××; काधौ; या ७,  
 १२कृ; -ऋः शाधौ १८,  
 १३, १; ८; काधौ; आपधौ  
 २२, ११, २२<sup>०</sup>; हिधौ १७, ५,  
 १४<sup>०</sup>; २३, २, १<sup>०</sup>; -ऋणाम्  
 शाधौ ९, ६, ११; निस् ४, ९ :  
 २; ७, २ : ६; -ऋभिः आपधौ ५,  
 ६, २××; बौधौ; -ऋम्य. काधौ  
 १७, १२, १२; -ऋम्याम्  
 माधौ ६, १, ४, २०; बाधौ;  
 -ऋत्रम् आधौ १, ४, ९; शाधौ  
 १४, ३३, ७; १८, ७, २; १६, २;  
 आपधौ १०, ९, १; १३, २२,

१<sup>०</sup>××; बौधौ; या ७, १२; -ऋपु  
 आधौ १०, २, २०; बौधौ १८,  
 १ : ८; लाधौ; -अयः आधौ  
 ६, २, ३; ३, ५; शाधौ; -अया  
 आधौ ३, १२, २२<sup>०</sup>; १४,  
 १०; आपधौ ९, १३, ८<sup>०</sup>××;  
 बौधौ; माधौ ९, १२, १२<sup>०</sup>;  
 कौस् १३३, ६<sup>०</sup>; -ऋत्र्याः  
 आपधौ १४, २६, २; वैधौ;  
 -अयाम् सुस् २, १४ : ६; द्राधौ  
 ८, ४, १२; लाधौ ४, ८,  
 १२; ६, ३, १८; निस्; -अयै  
 शाधौ १३, ५, ४<sup>०</sup>; ऋकाधौ  
 २, १, १८<sup>०</sup>; २५, १४, १५<sup>०</sup>;  
 बौधौ; -अयोः ऋस् २, १०,  
 १०-१; -अयौ शाधौ १६, २२,  
 १२; आपधौ ५, २८, २××;  
 माधौ.  
 गायत्रि-या(मन्)ऋी-  
 ऋी वैधौ ५, ७ : ८; हिधौ  
 ६, २, १७.  
 गायत्री-ग(भि)ऋी-  
 भौ अय १०, ८.  
 गायत्री-अप-नित-  
 -तः विघ ८३, १४; ८९, ३.  
 गायत्री-तृतीय-सवत-  
 -नः बौधौ १६, १० : ८.  
 गायत्री-त्रिष्टुम्-  
 -ष्टुभोः लाधौ ७, १३, ११;  
 -ष्टुभौ शाधौ १, १७, ९; शुभ  
 २, ६९××.  
 गायत्री-त्रिष्टुब्-उ-  
 विगह- -गिगहः शुभ २, १३७.

a) वैप १ द. 1 b) तु. पागम. 1 c) = द्रष्टाचारि-विशेष- 1 d) पाभे. वैप १, १२४० B D. 1  
 e) अयाय इति पाठः? सवि. शोध. ( तु. मा २९, ६० ) : f) वैप १ द. 1 g) पाभे. वैप १, १२४० C  
 द. 1 h) पाभे. वैप १, १२४० F D. 1 i) पाभे. वैप १, १२४० I D. 1 j) गायत्रीः संख्याः > गायत्री-  
 संख्या इति शोधः ( तु. C. तु. लाधौ ९, ४, ३१ ) k) ग इति पाठः? सवि. शोधः 1 l) पाभे. वैप १,  
 १२४० I D. 1 m) सपा. अत्रियाम्नी <> अत्रियाम्नी इति पाभे. 1 n) विप. 1 पद्य. > अय. 1

गायत्री-त्रिपुञ्जसती-  
-सीमिः वीथ १,२,१२; -तीषु  
हिथौ २१,२,५५.  
गायत्री-दश-सावक-  
जप- वेन विष ५५,५.  
गायत्री-पाद- इम्  
लाथौ १०,६,९.  
गायत्री-प्रतिपाक-  
-कम् जुम् १,१ : २३.  
गायत्री-प्रालःसवन-  
-नाः वीथौ १६, १० : ५; -ने  
वीथौ २६, १५ : ४.  
गायत्री-बृहती- -वी  
जुम् ४, १०१.  
गायत्री-बृहस्पति-  
-पुम् -पुम्सु मीथू ५,३, १४.  
गायत्री-भाष्यमिद-  
-नः वीथौ १६, १० : ७.  
गायत्री-या (मन् >)  
थौ- -थौं आयथौ ४, ७, २.  
गायत्री-सप्तम् शोधौ  
१८, १६, १.  
गायत्री-शत-पञ्चक-  
-कम् विष २२, १४.  
गायत्री-संघ (ज >) था-  
-आः काथौ २२, ११, १७;  
लाथौ ९, ४, ३१.  
गायत्री सामम्- -म  
दाथौ २, २, २४; लाथौ १, ६,  
१२; ६, १२, १४; निम्;  
-मनो लाथौ ७, ३, १; निम्  
७, ५ : २९; -मसु लाथौ  
७, ६, ८; -मानि जुम् २, ९ :  
४; ७; -मनोः लाथौ ६, १२, ५.  
गायत्रीसामा (म-आ)  
पन्न- -अम् निम् ७, १ : १८;

८, ६ : ५०.  
गायत्री-स्थान- -मम्  
निम् ७, ८ : ८; ११ : ३२.  
गायत्र्य (त्री-अ) छ-शत-  
-अम् आसि ३, १२, १ : ४;  
अन ६७, ६, २; संघ २२६; विष  
२२, १५.  
गायत्र्य (त्री-अ) छ-  
सहस्र- -अम् विष २२, १०;  
६३; सुष २२; २५; २६; ३५.  
गायत्र्य (त्री-अ) गपसा-  
-आः काथौ १७, ११, ६.  
गायत्र्या (त्री-आ) दि-  
-दम् आयथौ १७, १०, ५; -दि  
अशौ १८, ३; अथम् १-३; अथ  
१११, ३, ४९; अथ १६, ११;  
-दिः अथ १८, ५; -दीपि सुष १, ४.  
गायत्र्यु (त्री-उ) चर-  
-रः निम् ४, १० : ७.  
गायत्र्यु (त्री-उ) गिम्-  
अनुपुञ्ज-बृहती-पञ्चि-  
-कृत्यः अथम् ३.  
गायत्र्यु (त्री-उ) गिम्-  
अनुपुञ्ज-बृहती-पञ्चि-त्रिपुञ्ज-  
जगम्य (ती-अ) तिनगनी-शकर्व-  
(री-अ) तिशकर्व (री अ) थ (दि-  
अ) थिथि-अति-कृति-अकृथा (ति-  
आ) कृति-विहृति-संकृष ( ति-  
अ) थिथिथु (ति-उ) कृति- -ति  
अथम् १.  
गायत्र्यु (त्री-उ) गिम्-  
अनुपुञ्ज-बृहती-पञ्चि-त्रिपुञ्ज-  
जगम्य (ती-अ) तिनगनी-शकर्व-  
(री-अ) तिशकर्व (री-अ) थ (दि-  
अ) थिथि-अथ ( ति-अ) तिथिति-

-तयः अथ १, ३, २; सुम् ५, २.  
गायत्र्यु (त्री-उ) गिम्-  
-गिन्दी शोधौ ७, २७, ३०.  
गायत्र्यु-अथकर्म- -अः अथा  
१८, ६.  
गायत्र्यु-अथकर्म- -अदसः शोधौ  
१४, ३३, ८; ९; अथौ २५,  
१२, ५५; वीथौ; -अदसम्  
काथौ १२, ५, १६५; -अदता  
वीथौ २६, १५ : १०; ११; २८;  
दाथौ; -अदताः शोधौ ६, ८, १०;  
काथौ १३, १, ११; आयथौ.  
गायत्र्यु (ति >) गिथन- -नेम्  
निम् ३, ३ : २; -नानाम् निम्  
३, ३ : २६.  
गायत्र्यु-तया- -तया निम् १,  
१२ : ३.  
गायत्र्यु-तया- -तयाः  
उनिम् १ : ३६.  
गायत्र्यु-तया- -तयां निम् २,  
७ : २२.  
गायत्र्यु-तया- -तयां दाथौ ८,  
४, १४; लाथौ ४, ८, १२; ८,  
५, २०; २२; निम् ८, ६ : ७.  
गायत्र्यु-तया- -तयाः अथा १८,  
५.  
गायत्र्यु-तया- -तयां निम् ३, ५ :  
११.  
गायत्र्यु-तया- -तयां निम् १,  
४ : ८; कौम् ५, ७.  
गायत्र्यु-तया- -तयां अथा १७,  
२७.  
गायत्र्यु-तया- -तयां जुम् १,  
८ : ३२; २, ९ : ६.  
गायत्र्यु-तया- > थित- -अम्  
वीथौका १०४.

a) विप. 1 पत्त. 1 b) पाने. पृ १००८ III द. 1 c) मलो. कव. पू. = प्रगाय. 1 d) विप. >

गायत्रा(प्र-आ)महीयव-वे  
 लुम् २,१:४.  
 ऋगायत्रिन्- -त्रिणः आश्री ७,  
 ८, ३; शोश्री १८, ६,२; वीश्री.  
 गायत्री/कृष्णी-कारम्  
 आश्री ७,२, १६; द्राश्री २, ४,  
 १४.  
 गायन-पा ३, १, १४०<sup>०</sup>; -नम्  
 काण्ड ३, १७; अण्ड ६८, ५, १३.  
 गायन-ग्रहास- -सैः अण्ड ६८,  
 ४, २.  
 गायमान- -नः आपश्री १२, ८, ५;  
 वीश्री १४, १२: २५; वैश्री.  
 ऋगायिदे<sup>०</sup> आश्री ७, १२, ७; ऋष्या  
 १८, २.  
 गीत,ता- -तः निम् २, ८: २९;  
 नासि १, ५, १३; १४; -तम्  
 लाश्री ७, ७, ३३; ८, ५; निम्  
 ३, ८: ६; पाण्ड; -ता आपश्री  
 २१, २०, २<sup>१</sup>; हिश्री १६, ६,  
 ३९<sup>१</sup>; वृदे ३, १५५; -तागाम्  
 काश्री १०, ९, ८, निम् ६, ७:  
 ५४; अण्ड ६४, ४, २; -तानि  
 शंघ १०५, विघ ५६, २७;  
 -तायाम् हिश्री १२, ७, ६; -ते  
 जैश्रीका १९३; पाण्ड २, ७, ४;  
 -तौ नासि १, ५, १४.  
 गीत-क- -कम् अण्ड ७०<sup>१</sup>, ३, ३.  
 गीत-कारिन्- -री निम् ३, ८:  
 १७.  
 गीत-गान्धर्व-निस्त्वन- -ना  
 अण्ड ७०<sup>१</sup>, २, ४.  
 गीत-गुण्य- -यम् अण्ड ७०<sup>१</sup>,  
 ९, ३.  
 गीत-नादित-रुदित(त-अ)नि-  
 वत- -वेपु गोण्ड ३, ३, २७.

गीत-नादित-निघोष- -यः अण्ड  
 ६४, ९, ८.  
 गीत-नादित-निस्त्वन- -ना:  
 अण्ड ५८<sup>१</sup>, ४, १२; ७१, १५, ५.  
 गीत-नादित-शब्द- -ब्दाः अण्ड  
 ७१, २, २.  
 गीतिन्- -ती शैशि २०२; नासि  
 २, ८२.  
 गीति- -तिपु मीम् २, १, ३४; -स्या  
 छम् ३, १०: ४६; निम् २, ३:  
 ११; या ६, २४; १०, ५  
 गीति-तम्(:) निम् ५, ५: ६.  
 गीति-शेष- -याः नासि १, ३,  
 ११; १२.  
 गीति-विकार- -रः लाश्री ७,  
 १२, १.  
 गीत्वा जैश्रीका ३०; १७९; १९५;  
 द्राश्री २, १, २६××; लाश्री.  
 गीयमान- -ने आपश्री ५, ११, ६;  
 १३, ८; १५, ६; वीश्री २, १७:  
 ३८; भाश्री.  
 गेय- -यम् जैश्रीका ४६; ८१××;  
 लाश्री, -यानि जैश्री २४: १;  
 २; २६: ९; जैश्रीका ८३, १०३;  
 लाश्री ४, ७, १.  
 गेया (य-आ) दि-निघोष-यु-  
 क्त- -कैः आश्रिण्ड २, ४, ६: ३९.  
 गेष्यु- पाण्ड ३, १६  
 गैरायण- शंशिरि-द्र.  
 गैरिक्- , गैरेय- प्रम्. शंशिरि-द्र.  
 गो<sup>०</sup> - पाण्ड २, ६७; पाण्ड ४, २, ४९<sup>०</sup>;  
 ५, १, २; गवा आश्री १२, ६,  
 ३४; शोश्री ४, १७, १; १६, २२,  
 १९; काश्री, गवाम् आश्री ९, ९,  
 १४; १२, ६, ३३; ३४; शोश्री  
 ७, १७, १७××; वाश्री; या ६,

२; ९, २३<sup>१</sup>; २४<sup>१</sup>; गवि शोश्री  
 ५, १०, १<sup>१</sup>; काश्री २५, २, ३;  
 आपश्री १७, १८, १<sup>१</sup>; वीश्री; पाण्ड  
 ६, ३, ४५; ऋगवे शोश्री ९, २८,  
 ५; १७, १२, ३; आपश्री; गवो:  
 माश्री ३, २, ११; ३, ६; वाश्री  
 १, ५, ३, ५; अण्ड ४, ४;  
 गाः आश्री १, ७, ८; ४, १२, ३;  
 ८, १, ८; शोश्री ७, १८, २××;  
 काश्री; माश्री ६, १, २, २९<sup>१</sup>; ऋया  
 ६, २<sup>१</sup>; १४, २५<sup>१</sup>; गाम्  
 आश्री ३, १०, १३××; वाश्री;  
 आपमं १, ९, १०<sup>१</sup>; हिण्ड १,  
 १८, ५<sup>१</sup>; पावा १, ४, १;  
 ऋगावः आश्री १, ७, ७<sup>१</sup>; ३,  
 ११, ६; ४, ७, ४<sup>१</sup>; ५, ७, ५;  
 शोश्री १, ११, १<sup>१</sup>; ५, १०,  
 ८<sup>१</sup>××; काश्री; अण्ड ४, २१<sup>१</sup>;  
 या १, १७, २, ७; १७, ६, ५;  
 ८; ३२; १०, २१; १२, ७; १४,  
 १४; १५<sup>१</sup>; ऋगावः शोश्री  
 ९, २८, ८××; आपश्री; गावा  
 या ९, ३९<sup>१</sup>; ऋगावो काश्री ७,  
 ८, १४; आपश्री ५, २०, ११××;  
 वीश्री; या ९, ३९; ऋगो:  
 आश्री ३, ५, ९; ९, ८, ३××;  
 शोश्री, या २, ६; ४, २५; ६, २;  
 १९; २०; पा ४, ३, १४५××;  
 गोनाम् शोश्री १२, १४, ३<sup>१</sup>;  
 ऋगोभिः आश्री २, ११, ३;  
 शोश्री ३, ७, ४; वाश्री; या  
 २, ५××; ऋगोभ्यः शोश्री ९, २८,  
 ५; वीश्री २८, १: २; पाण्ड;  
 गोभ्याम् हिश्री ७, २, ७०<sup>१</sup>; वृदे  
 ५, ३१; गोपु शोश्री १३, २९,  
 १६; काश्री ४, १५, ५; आपश्री;

a) वैप १ द. । b) नाप. । c) =स्तोम-विशेष- इत्यपीह द. । d) तु. पाणम. । e) पाभे. वैप १, १२५० e द. । f) पाभे. वैप १, १८५५ h द. । g) सकृन् पाठः ? ।

द्राथी ७, ३, ४<sup>१</sup>; लाथी ३, ३, ४<sup>१</sup>; तंगी: आथी १, ७, ७<sup>१</sup>; साथी; वाथी ३, २, २, १५<sup>१</sup>; या १, १; १२; २, ५<sup>१</sup>; १५<sup>१</sup>.  
 गव<sup>०</sup>-वस्य अप ६८, २, १४.  
 गव<sup>०</sup>-मत्- नाम् द्राथी १२, २, ५; लाथी ७, १०, ५; लुप १, ३: ११, २२.  
 गवा(व-अ)प्र-मे पावा ६, १, १२१.  
 गवा(व-अ)घात-मम् शंघ ७३१; वैघ २, १५, ३.  
 गवा(व-अ)जिन-नम् काण ५, ९.  
 गवा(व-अ)दि-दक्षिण-गाम् वैघ ३, २३: १५.  
 गवादिदक्षिणा-करण-गम् वैघ ३, २३: ६.  
 गवा(व-अ)धिपत्य-न्यम् विघ २०, ११.  
 गवा(व-अ)तुगमन-नम् विघ ५०, १६.  
 गवा(व-अ)वृत्<sup>०</sup>-ते वाघ १६, ३४; वीघ १, १०, ३५.  
 गवाम्-अयन-नम् आथी ११, ७, १; २०; १२, ५, ७; साथी १३, २८, १; काथी २४, ४, ४५; आपथी २१, २४, १; २३, १४, १०; २४, ४, ५; वीथी; -नस्य आथी १२, ५, १०; साथी १३, १९, १; १७; २४, १९७, २५, ४; २७, ५; २८, १; वीथी; निम् १०, ९: ४७; -गानाम् निम् १०, १३: १४; -मानि वीथी २४, ५; १२<sup>१</sup>; -नाव काथी १३, १, २<sup>१</sup>; -ने साथी १२, ९, ८;

वीथी २४, १०: १८xx; लाथी; -नेन आथी १२, १, १५, १२: १, २२; काथी २४, ५, २; आपथी.  
 गवामयविक-कः  
 काथी २४, १, १६.  
 गवाम् (अयन-)काथी १०, १३, १२.  
 गवामयन-न्याय-येन लाथी १०, ३, १२.  
 गवामयन-पक्ष-क्षयो: काथी २४, ५, ९.  
 गवामयन-प्रकृति-नीनि काथी २४, ४, ३; द्विथी १८, १, २.  
 गवामयन-विकल्प-रूपा: काथी २४, ७, २२; द्राथी ८, १, १; लाथी ७, ५, १.  
 गवामयन-शस्य-स्या: आथी १२, ५, १३; १४.  
 गवामयनो(न-उ)ष्वा<sup>०</sup>-द्वी निम् १०, १२: ७.  
 गवा(व-अ)धुस-धुपी वैयाथी ३१, १४.  
 गवा(व-अ)धे-धे शंघ १४४; वीघ २, २, ७१; विघ १६, १८.  
 गवा(व-अ)विक-पाग २, ४, ११.  
 गृगवा(व-अ)शिर<sup>०</sup>-शिर: आथी ७, ६, २; द्विथी १२, ६, ६.  
 गवा(व-अ)घ-पाग २, ४, ११; -धम् वृदे ५, ६४; -घस्य वाघ १७, ४३.  
 गवाध-प्रकृति-लितु पावा २, ४, ११; -रीनि वा २, ४, ११.  
 गवा(व-अ)आ(व-अ)ज-महिव-मण्डल-न्येयु वैघ ५, १५:

१६.  
 गवा(व-अ)आ(व-अ)जा(आ-अ) विक-हृति-दासपुर-सीहि-गव-माप-विल-वृणो(ण्ड-उ)पतत्-उत्त-रुमण्डल-याता(व-अ)सन-शयनो(न-उ)पघान-नै: वीघ २, ११, ४४.  
 गवा(व-अ)द्विक-कम् शंघ ३९०.  
 गवि(र>)पी-पावाग ७, ३, ५१.  
 गवि(गो-इ)र<sup>०</sup>-शिये आण १, १, ४<sup>१</sup>.  
 गवि(गो-इ)रि<sup>०</sup>-रुये<sup>०</sup> आथी ३, १३, १२; आपथी १९, २५, १२; -रुौ साथी ८, १६, १; द्रुपा ३, १२९<sup>१</sup>; अथा ३, १, १५; सौच २, २३.  
 गवि-रि(र, ल<sup>१</sup>)<sup>०</sup>-पा ८, ३, १५; पाग ७, १, १००; १०४; पावा ६, ३, ८; -र: द्रुपा ५, ३, ७<sup>१</sup>; -रम् अथा ३, ४, १५; -रस्य<sup>१</sup> लाभ १६: ३; १९; -रानाम् आथी १२, १४, १; आपथी २४, ८, १२; वीथी २९: १; द्विथी २१, ३, ११; वैघ ७, ५, ३.  
 गाविरि(र, ल<sup>१</sup>)<sup>०</sup>-पा ७, १, १०४; -वर आथी १२, १४, १; आपथी २४, ८, १२; वीथी २९: २; द्विथी २१, ३, ११; वैघ ७, ५, ३; -रा: वीथी २७: ५.  
 गाविरि(लायन- वा ७, १, १००.  
 गाविरि-वम् आपथी २४, ८, १२; वीथी २९: २; द्विथी २१, ३, ११; वीघ ७, ५, ३.

a) पाथे, वैघ १, १२५३ a द. । b) पाठः ! गोः इति सोपः (तु, बी १, ५८८) । c) साथे<sup>०</sup> अच् प्र. लसं. (वा ५, ४, ३८) । d) न्यसाम-विशेष- । e) मत्तो, कस. । f) तु, वीथे. । g) विघ. । बल. । h) वैघ १ द. । i) पाथे, वैघ १, १२५४ b द. । j) पाथे, वैघ १, १२५४ d द. । k) तु, पयम. । l) ष्टर इति पाठः ! यनि. सोपः । m) बहु. < गाविरि- ।

इगवीडा<sup>०</sup> - डाम् वैताथ्री ७, २;  
 ४३, ६.  
 गवीडा(डा-आ)दि-अप-ये  
 वैताथ्री ७, २५.  
 गवे(व-इ)द्-पा ६, १, १२४.  
 गृगवे(गो-ए)गण<sup>०</sup> - गणः क्रपा ३, १,  
 १५; -णे शौच २, २३.  
 √गम्य> गृगम्यत्- न्यता शांथ्री  
 १८, ९, ४; -न्यन्तः आथ्री २,  
 २०, ४<sup>१</sup>; आथ्री १४, ११, ८;  
 ९; आथ्री.  
 गग(व्य>)ग्या<sup>०</sup> - न्या साअ  
 १, १८६<sup>१</sup>.  
 गव्यु<sup>०</sup> - न्युः या ६, ३१<sup>१</sup>.  
 गम्य, ग्या<sup>०</sup> - पा ४, २, ५०; ३,  
 १६०; ५, १, २; ३९; पाता ४,  
 १, ८५, -न्यः वापृथ्री ४, ९६ :  
 ५; अम २, ७; -न्यम् आथ्री  
 २, १०, ४; शांथ्री १४, ११, ९;  
 आथ्री १७, १८, १; वीथ्री;  
 -न्यस्य मीत् ८, १, १८<sup>०</sup>; -न्या  
 या २, ५<sup>१</sup>६; -न्याः आथ्री १९,  
 १६, १६; -न्यात् वीथ १, ५,  
 १३८; -न्यात् आथ्री २०, २२,  
 ४, २१, २३, ४, १०; वीथ्री;  
 -न्यानि आथ्री २०, १३, २;  
 वीथ्री १५, ३७ : १२; वीथः  
 -न्याम् शुष १, १८५;  
 -न्यायै वीथ्री १५, २६ : १<sup>१</sup>;  
 -न्ये आथ्री ४, ७, ४; वीथ १,  
 ५, १३१; अम, शुपा २, २०<sup>०</sup>.  
 -न्येन काथ्रीसं ३६ : ९; वीथः  
 २, १, ४; शाए २, १, ५; कय;  
 -न्यैः अथ १, ३०, २.

गव्य-ए-१-पूर्ण-कुम्भ-अनेन  
 विष ९०, १.  
 गव्य-मांस-तस्रः(ः) अय ३६,  
 १७, १.  
 गव्युति<sup>०</sup> - पावा ६, १, ७५; -तिः  
 अया ३, ४, १<sup>१</sup>; आथय १, १८,  
 १; हिष १, ५, ७१; -तिम्  
 वीथ्री १८, २० : १९.  
 गो-म(प्र>)मा<sup>०</sup> - प्राः आथ्री  
 २, ११, १८<sup>१</sup>.  
 गो-अय<sup>०</sup> - अयम् तैत्रा ११, १६<sup>१</sup>.  
 गो-अय-अयम् वीथ्री ११, ६ :  
 ३१; १२, ७ : ४२××; माए  
 १, २७:८<sup>१</sup>; -आः वीथ्री २८,  
 ६ : १५; वैथ्री; -अनाम्  
 आथ्री १९, ६, ८; हिथ्री २३,  
 १, १८.  
 गो-अथा(अ-अ)वि-मिथुन-जानि  
 द्राए २, ५, ३.  
 गो-आयुस<sup>०</sup> - युस्याम् आथ्री  
 १२, ६, २०<sup>१</sup>; आथ्री २४,  
 ७, १७; वीथ्री २६, १६ : ३;  
 १८; -युपः निम् ६, ३ : १६;  
 -युपि आथ्री ९, १, ४; ११,  
 १, ११××; शांथ्री, -युपोः द्राथ्री  
 ८, ३, ३५; लाथ्री ४, ७, १३; ८,  
 १, १८; शुष ४, १८५.  
 गृगो-कज्जीक<sup>०</sup> - कम् वाथ्री ३, ३,  
 ३, १; क्रपा २, ७४.  
 गो-ओप(श>)दा<sup>०</sup> - दा क्रपा  
 २, ७४<sup>१</sup>.  
 गो-कडाल(ल-अ)पिरोहण-गम्  
 अय ३६, ३, १.  
 गो-कर्ण-वर् वैथ्री ११, ८ : १०;

वैथ १, २ : ६; नादि १, ६, १३.  
 गो-कर्णा(र्ण-आ)कृति-वर्  
 आथय २, ६, १ : ३.  
 गो-कुल-ये अय ६६, ३, ४; ७०<sup>०</sup>,  
 २३, ९.  
 गोकुला(ल-अ)न्तिक-के अय  
 ६६, १, ५.  
 गो-क्षीर-रम् शंष ४१८; वैथ २,  
 १५, ५.  
 गो-क्षीर-कुमुद-प्रणय-न्याः  
 अय ५२, २, १.  
 गो-नाज(ज-अ)धा(ध-आ)दि-  
 एष्ट-हेषु शंष १९२<sup>०</sup>.  
 गो-नामन-ने विष ५, ४२;  
 ५३, ३.  
 गो-नामिन्-मी शंष ३७७ :  
 २२.  
 गो(गो-अ)म्य(मि-अ)र्थ-ये गीप  
 १२, २५.  
 गो-महग-गे पावा ६, १, ९३.  
 गो-मास-सम् कौए ३, १५, ५,  
 शंष ३, १४, ४; वीथ २, ११,  
 ५७; गोए ४, १, २०.  
 गो-प्र<sup>०</sup> - पा ३, ४, ७३<sup>१</sup>; -प्रः शंष  
 ३७५; ३७७ : २××; विष ४५,  
 १९; -प्रस्य शुष ३६.  
 गो-वरा-पा ३, ३, ११९; -रः अय  
 ७०<sup>०</sup>, २३, १०; वाप ६, ४२;  
 -रम् वैथ्री ३, ३ : ५; हिथ्री १,  
 २, १६; -राय आथ्री १,  
 २, ४.  
 गोवरा(र-आ)दि-दीनाम् पाता  
 ३, ३, ११९.  
 गो-वर्मन्-र्म वैथ ६, १ : ३<sup>१</sup>;

a) = अग्निहोत्री-। व्यु. १। b) वैथ १ द्र.। c) वैथ १ निर्दिष्टमोरिद्वैकृत समावेशः द्र.।  
 d) = गवामवन-। e) पाभे. वैथ १, १२५५ d द्र.। f) 'गुपीध्याम् इति पाठः? यनि. शोषः। g) 'दिव्येषु  
 इति पाठः? यनि. शोषः (द्र. स्पृतिचन्द्रिकायां आडकाण्डम् [१ १४३]। h) उत. उप. कर्त्तारि कः द्र.  
 (पाता ३, २, ५)। i) = अग्निधि-। संप्रदाने टक् प्र.। j) = वज्र, विषय-। k) = प्रमाद्य-विशेष-।

गोपि १, ७, ५; -मैणा शंघ  
३९३.  
गोचर्म-भात्र,त्रा- -त्रम् आसिष्ट  
१,७,१ : ५; २,४,५ : १३×४;  
गोपि; -त्रा विष ५, १८३;  
-त्राम् अप १०, १, ८; विष  
१२, ४; -त्रेण वाध २९,  
१६.  
गोचर्ममात्रा (त्र-अ)धि-  
(क>)का- -काम् विष ५,  
१८१.  
गोचर्ममात्रो(त्र-उ)पलित-  
-से वैष्ट ६, १ : ३.  
गो-धिति<sup>१</sup>- -तिम् आपधो १७, ४,  
११; वैधो १९, ५ : ११; द्विधो  
१२, १, ४५.  
गोच्छरणल<sup>२</sup>- -लाः गोपि २, ३,  
१४.  
गो(गो-अ)त्र- -त्रयोः काधो १७,  
५, १६.  
गो-जा<sup>३</sup>- -जाः या १४, ३११.  
गो(गो-अ)जा-मद्विधो-वर्जम् विष  
५१, ३८.  
गो(गो-अ)जा(जा-अ)अ-सृग्-  
पक्षिन्- -क्षिपु अप ६४, ८,  
१०.  
गो-जिन्<sup>४</sup>- -जिन् आपधो १६,  
१८, ६; २१, ४, २, माधो ६, १,  
५, ३८; वैधो.  
गो-तर्पण- -णम् अप ४, ६, ५; ६९,  
७, ४.  
गो-तृप्ति- -तिः बोध १, ५,  
५७.  
गोतृप्ति-कर- -रम् वैध ३, ४, ४.  
गो-व,त्रा<sup>५</sup>- -पाठ ४, १६७; पाग  
८, १, २७; -अः अप ४८,

१०११; निध १, १०१; -त्रम्  
आपधो १७, २१, ७१; वौधोप  
५४ : १४; माधो १, २, ५, ४१;  
२, १, २, २३; ३, ३, ६; द्विधो  
१२, ६, २६१; आष्ट ४, ४, १०;  
काष्ट ४२ : २०; कौम् ४,  
२१; अप ४१, ५, २; वैध ४,  
१, २; चव्यू ४ : २५; वाधि  
१, १८; पा ४, १, १६३; पावा  
४, १, १६३; -त्रय्य अपा ३,  
४, ११; पावा २, ४, ६२; ४,  
१, ८९; -त्रा आपधो ३, १२,  
१; माधो ३, ११, १; द्विधो  
२, ६, १४; अप ४८, ७२६;  
निध १, १९; -त्राणाम् आपधो  
२१, २, ५; ७; २४, ११, १५;  
१६; वौधो; -त्रामि साध २,  
१२०५; पि ३, ६६; -त्रात् वैधो  
६, ५ : ३; द्विधो २, १, ५६; पा  
४, १, ९४; ३, ८०; पावा; -त्राय  
वाष्ट ५, १३१; -त्रे वैध ४, १, २;  
पा २, ४, ६३; ४, १, ७८; ८९; १३;  
९८; २, १११; ८, ३, १११; पावा  
४, १, ८९; ९३; -त्रेण गोष्ट २,  
३, १३; ४, १०; अप ४१, ६, ५;  
आपध १, ६, ३०; द्विध १, २,  
५३; गोपि १, २, ७; ४, ९,  
द्विष्ट १, ४, ५.

गौत्रक- पा ४, २, ३९.  
गोत्र-कल्प- -ल्पः वैष्ट १, ११ :  
२२.  
गोत्र-कृत्रिया (य-आख्या >)  
क्य- -क्येभ्यः पा ४, ३, ९९;  
पावा ४, २, १०४.  
गोत्र-महणा(ण-आ)नर्थक्य-  
-न्यम् पावा ४, १, १६३.

गोत्र-व्राण- -व्रात् पा ४, ३,  
१२६; ५, १, १३४; पावा ४,  
२, १०४.  
गोत्र-ज- -जे. शंघ २८०.  
गोत्र-तद्य(ः) शंघ ३६१; ३६६.  
गोत्र-नामन्- -म वैष्ट १, ७ : ८;  
क्य ३, २, २; -मभिः क्य १,  
२, ७; -मानि शोष्ट १, ६, ४.  
गोत्रनाम-पूर्व- -वैम् वैष्ट  
५, ६ : ११.  
गोत्रनाम-युक्त- -कम् वैष्ट  
३, १९ : ७.  
गोत्रनामा(म-आ)दि-  
-दिना वैष्ट ५, १३ : १५.  
गोत्रनामा (ग-अ)नुवादा  
(द-अ)न्त- -न्ते क्य ३, ३, २.  
गोत्र-पूर्व- -वैम् वैधो १२,  
१० : १०.  
गोत्र-शक्ति- -ती पावा ८, ३,  
९१.  
गोत्र-भाग-विनागा (ग-अ)  
र्थ- -र्थे शंघ २८०.  
गोत्र-भाज्- -भाजः बोध  
२, २, ३२; गौध २८, ३४.  
गोत्र-भाव- -वे पावा ४, १,  
९६.  
गोत्र-भिद्<sup>६</sup>- -भित् वौधो  
१०, २४ : ११.  
गोत्र-मूल- -लापि वौधोप ५४:  
१८.  
गोत्र-मैथुन<sup>७</sup>- -नः गोपि ३, ४,  
१६.  
गोत्र-वचन- -नम् पावा ५, ३,  
११८.  
गोत्र-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा ४,  
१, १६३.

a) मलो. कत. । b) पाठः १ गौः, छ इति द्विपदः सोवः (तु. गोपि १, २ : १४, B. व) । c) वैष्ट १  
द. । d) नाप. (अपत्यसामान्यं, वौत्र-प्रवृत्ति- (पा. १) इतीह विशेषः । e) = पृथिवी- । f) विप. १ वस. ।

गोत्र-स्त्री- -स्त्रियाः पा ४, १, १४७.  
 गोत्रा(त्र-आ)द्विरस-वासिष्ठ<sup>१०</sup>-  
 -ष्टम् अप ३, ३, ६.  
 गोत्रा(त्र-आ)दि- -द्विषु पावा  
 ८, १, २७; -दीनि पा ८, १,  
 २७.  
 गोत्रादि-ग्रहण- -गे पावा  
 ८, १, २७.  
 गोत्रा(त्र-अ)न्त- -न्तात् पावा  
 १, १, ७३.  
 गोत्रा(त्र-अ)न्तेवासि-मानव-  
 ब्राह्मण- -येषु पा ६, २, ६९.  
 गोत्रा(त्र-अ)वयव- -वात् पा,  
 पावा ४, १, ७९.  
 गोत्रा(त्र-आ)वयव<sup>११</sup>- -यम् गोष्ट  
 २, १०, २१.  
 गोत्रिन्- -त्रिगः श्चाय ३, ७.  
 गोत्रो(त्र-उ)त्तरपद- -दस्य  
 पावा १, १, ७३.  
 गोत्रो(त्र-उ)त्पञ्च- -ञ्चात् वैध  
 ३, ११, ३.  
 गो-त्व-वत् मीत् ६, ३, १२; ८,  
 ३, १८.  
 गो-दक्षि(गा)>ग<sup>१२</sup>- -गः धीश्री  
 १३, १:१८; २४, २९: १०.  
 गो-दक्षिगा- -गाम् वीत् ६३,  
 २७.  
 गो-दशक- -कस्य विध ८, १७.  
 गो-दान- -नेन विध ९०, १४.  
 गोदान-फल- -ष्टम् विध ५२,  
 १५; ९१, १७.  
 गोदान-सम- -मम् विध ६४,

४६०.  
 गो-दुह<sup>१३</sup>- -दुहे माश्री १, १, ३,  
 १६; -धुक् द्विशी १, ३, ३६;  
 या ११, ४३१; -<sup>१४</sup>धुक् आश्री  
 ४, ७, ४०; शश्री ५, १०, १०;  
 आपश्री.  
 गो-देव-गृह-वासिन्- -सी  
 आसिन् २, ७, ११: १५.  
 गो-दोह- -हात् वीष्ट ३, १०, २१.  
 गो-दोह-आत्र<sup>१५</sup>- -अत्र शंघ १३२.  
 गो-दोहन- > -न-काल-मात्र-  
 -अयम् वैध ३, ७, १.  
 गो-दोहन-आत्र<sup>१६</sup>- -अत्र शंघ  
 १३३; वीध २, १०, ४४.  
 गो-दोहन<sup>१७</sup>- -नाः पावा ३, ३,  
 १२३; -नेन आपश्री १, १६, ३;  
 माश्री १, १७, १२; माश्री १, २,  
 १, ८; वैश्री ४, २: ९.  
 गो-दोहनी- -नीम् वीश्री ९,  
 ५: २; १४, ३०.  
 गो-दोहन-संवेजन- -नेन द्विशी  
 ३, ७, ३२.  
 गो-द्विजोत्तन- -सी शंघ ४११.  
 गो-धायस्<sup>१८</sup>- -यसम् मासि ४७१.  
 गो-धेनु- -न्वाः अप १, ५०, ५६.  
 गो-नाम<sup>१९</sup>- -मेषु माष्ट १, ४, १२.  
 गो-नामद- -म कौष्ट २७, २१; या  
 ४, १९, -मभिः द्विशी ९, ८,  
 ४८, शश्री ९, ३, ३; लाश्री ३,  
 ६, ३; गोष्ट; -मसु क्य ३,  
 ६, ५<sup>२०</sup>; -मानि लाश्री ९, ६, १७,  
 माष्ट १, ४, १५; निष २, ११;  
 या ३, ९.

गो-विहति-मुक्त<sup>२१</sup>- -जानाम् विध  
 ४८, १६<sup>२१</sup>.  
 गो-विद्याल-प्रवेस- -शयोः क्य  
 १, ५, ६.  
 गो-विष्यन्त- -न्तानाम् वीध ३,  
 ६, २०<sup>२२</sup>.  
 गो-न्याम-प्रमृदित- -तानाम् वीशी  
 २२, १७: १६.  
 गो-य<sup>२३</sup>- > गोप-शौण्डिक-शैल्य-  
 रजक-न्याय-स्त्री- -स्त्रीणाम्  
 विध ६, ३७.  
 गो-यज्ञ<sup>२४</sup>- -ज्ञः काश्री २३, ५,  
 २९.  
 गो-यज्ञि-शब्द- -वृद्धि- -द्विः  
 अप ६४, १, २.  
 गो-यति<sup>२५</sup>- -स्ये आपश्री ४, ३, ६;  
 माश्री ४, ५, ४; द्विशी; -विः  
 आश्री २, ५, १७; ८, २, २१; १२,  
 २०; शश्री; -तिना अप १६, १,  
 १३, -विम् आश्री ६, ४, १०;  
 शश्री ९, १३, १; १८, ७, १५;  
 आपश्री १, १३, ११; माश्री;  
 -तेः कौष्ट ३, ५, ४<sup>२६</sup>; शौष्ट ३,  
 १, १; -तौ आश्री ३, ११, ६<sup>२७</sup>;  
 आपश्री १, २, ९; वीशी.  
 गो-यत्पत्य<sup>२८</sup>- -स्यः गोष्ट ४, ५,  
 १७<sup>२८</sup>; -स्यम् धीश्री ७, १४: २३;  
 १४, ५: २७; -स्येन शश्री २,  
 १२, १; वीशी ३, ८: २४; १३:  
 १४.  
 गो-यद<sup>२९</sup>- -ये कौष्ट २, १, ८<sup>२९</sup>.  
 गोपद-मा(प्र)>त्री<sup>३०</sup>- -श्रीम्  
 आपश्री ७, ५, १.

a) विष. 1 बस. 1 b) गोत्र-द्वयस्य पूर्वनिपातः उक्तं. (पा २, २, ३७)। c) गोमदा इति जीर्व.।  
 d) वैष १ द. 1 e) द्व. श्वान. 1 f) = पाद-विशेष. 1 वात्, उप. अथिहरणे ल्युट् प्र. 1 g) निर्दिष्टार्थः पाठः कनि.  
 श्लोकः। h) पस. > तुष. पृष. = गोमय-। i) सप्र. मुक्तानाम् <>°निष्कान्तानाम् इति पाठे.। j) = जाति-  
 विशेषः। k) पृष. = गो द्योम-। l) 'ये इति पाठः ? यनि. शोधः। m) पमि. वैष १, १२५७ p. d.। n) विष.  
 प्रारदीप्यतीयः पयः प्र. (पा ४, १, ८५)। o) = गोष्ट-। p) सप्र. गोपदे <> गोष्टे इति पाठे.। q) पृष. = गोसक-।



गो-पयस्- -यः आपधौ १५, १०,  
१; १४, १०; गोधौ १, ४ : ४;  
१: २६; १०, ७; ५; माधौ; -यसा  
गोधौ १, ४ : १६; १०, ८ : ३;  
गोधौ १३, ६ : ५; १८, २ : ७.  
गो-यशु- -शुः कौश ३, १५, ७;  
शौश ३, १४, ३; -शुम् कौश ३,  
१०, ३१; शौश २, १५, १; -शुम्  
गोधौ २१, २६ : १.  
गोवा-ल- वा ६, ३, ७८; -लः  
दिए १, १८, ११.  
गोपाल- -व्यम् निम् १०,  
११ : ३, ४.  
गोपाल-धानी- > गो-पू-  
स- पाग २, २, ३१०.  
गो-वा(लक- >) लिका- पाग ४, १,  
४; ११२.  
गोपालिक- वा ४, १, ११२.  
गोपालिका (का-आ) दि-  
-दीनाम् पावा ४, १, ४८.  
गो-पितृ- -आ वा ६, १५.  
गो-वीट- -डे अर १, ४३, ५.  
गो-वीथ- -पाठ २, ९; -गोवाय  
कौश १२७, ७; वा १०, ३६०.  
गो-गुरु- पाग ५, ३, १०७; -गुरुम्  
माधौ १, ८, १, १४; वाधौ १,  
६, १, १५; दियो ४, १, ३१.  
गोपुण्ड- वा ५, ३, १०७.  
गोपुण्डिक- वा ४, ४, ६.  
गोपुण्ड-व्यम् वेधौ १०, २ : ७.  
गोपुण्ड-सदश- -आः अर २१,  
२, ५.  
गोपुण्डा (व्य-आ) मा(न-आ)कृ-  
ति- -तिः अर २७, ३, ४.  
गो-पुरीय- -पाग शंघ ४४८.

गो-गोप- -यम् आधौ १, १२,  
३७; आपधौ १, ३, १; माधौ.  
गो-प्रकाण्ड- पाग २, १, ६६.  
गो-प्रकृति-निष्ठा(ति-अ)र्थ-  
-यम् पावा १, १, ६१.  
गो-प्रद- -दः आ १६, २, १.  
गो-प्रदान- -नेन विध ९२, ५.  
गो-प्रयुक्त- के वाध २९, ११.  
गो-प्रद्वल- -नैः वाध १०, १०.  
गो-प्रमद- -द्वाग् निम् ७, ८ :  
३८.  
गो-यलीय-सहिष-पूर्वा(र्थ-अ)  
विक-हिंसा(या-अ)वाति-  
-सौ काध २७१ : ३.  
गो-बाल- गो-नाल- द.  
गो-विशाल-सिंह-सैन्य- -वेपु वा  
६, २, ७२.  
गो-वीत-कायन- -नैः विध ८, २२.  
गो-माह्वन- -गम् शौश ४, १, ३;  
अर ६८, २, १९; गुणप ८४ : ९;  
-गाम् आ ४३, २, ५१; -गाम  
अर ७, १, ९; -गोम्यः गुणप  
८४ : ६; -गोपु शंघ ३९४.  
गोब्राह्मण-क्षव- -यः अर ६४,  
८, ६.  
गोब्राह्मण-परिमाण- -गम् शंघ  
२५१.  
गोब्राह्मण-हारीर- -रे गुण ५०.  
गोब्राह्मण-हृत्- -दानाम् गोध  
१४, ९.  
गोब्राह्मणो(ण-उ)पराग- -गं  
विध ६८, ४.  
गो-ब्राह्मण-नृप-मित्र-घन-दार-जीवि-  
स-रक्षण- -गाम् विध ३, ४५.  
गो-ब्राह्मण-विषय-पठित- -वेपु

आमिष्ट ३, ११, ४ : ४३.  
गो-ब्राह्मण-सूत-संघ-सर-सैव-  
-दानाम् अर ७२, ४, १.  
गोभानसः गोधौ २, ११ : १६.  
गो-भू-तिल-मुपार्थ- -गम् अर  
३०, २, ६.  
गो-भू-तिल-हिरण्य- -गवानि  
आमिष्ट २, ४, ५ : २६.  
गो-भूमि-कायना (न-अ) व-  
-दानाम् अर ७०, ३, २.  
गो-भूमि-तिल-हेम- -मानि गोध  
४, ७, ९.  
गो-भू-हिरण्य-वसा(ल-अ)स- -धैः  
अर ६९, ६, ३.  
गो-भू- (> गोभूत-पा.) पाग  
४, २, ७५.  
गो-मख- -नेन विध ३७, ३५.  
गो-मख-विका- पाग २, १, ६६.  
गो-मद- -मम् आधौ ४, १५, २;  
शोधौ ६, ६, ३; १०, ८; आपधौ;  
-मतः आधौ १०, २, २२;  
आपधौ १४, ३३, ६; १७, २१, ७;  
माधौ; -मता आधौ ३, ८, १;  
८, ९, २; शोधौ; -मताम् काय  
५८, १९; या ६, १७; -मम् गुण  
३, ५९; -मतम् शोधौ ११, ८,  
२; आपधौ; -माग् शोधौ ४,  
१२, १०; आपधौ.  
गोमती- -तीति कौश ३, २, ६;  
शौश ३, ३, १; पाग २, १७,  
९; ३, ४, ४; आमिष्ट; -तीः  
आपधौ १, १४, ७; -तीम्  
आपधौ ४, १६, १३; २०;  
माधौ ४, २२, १४.  
गोमती- पाग ४, २, ८३

a) वैर १६. b) = गोपाल-स्थान. c) गोपालिधान-पूवास- इति पागम. d) = गो-पाल-।

e) द्र. पागम. f) = गो-स्थान. g) लुक्. वा चक्र. वा. h) तत्र. भूतिलहिरण्यानि <> भूमितिल-  
हेमनि इति पागे. i) ध्वय. उत्स. ३. j) = गो-व्येव-।

११०; -स्वाम् विध ८५, ४३.  
 गोमल- पा ४, २, ११०.  
 गो-मलहिका- पाग २, १, ६९.  
 गो-मधुपर्का(र्क-अ)र्ह- -र्हः आप्य  
 २, ८, ५, विध २, १, १००.  
 गो-मय<sup>१</sup>- पा ४, ३, १४५; पाग २,  
 ४, ३१; -०य अप ४२, १,  
 ८१; -यः गोष्ट २, ९, ५,  
 द्राष्ट २, ३, १८; -यम् भाष्ट १,  
 १०, ३; ४, ४, १३; ६, ४; कौष्ट  
 १, २१, ६; ५, ४, १; द्राष्ट;  
 -यानि भाष्ट २, २९ : १६;  
 अा २६, ५, ७; -ये शोथी  
 ४, १५, ५; द्राष्ट १, १०, ११;  
 आमिष्ट २, ६, ८ : ६; गोष्ट; -येन  
 शोथी १८, २४, २७, आप्यथी  
 १, ६, १३; भाथी; -यैः गोष्ट ४,  
 ८, १५; द्राष्ट ४, ३, ३.  
 गोमयी<sup>२</sup>- शीः वैथी २०,  
 ११ : ११; १९ : ६.  
 गोमय-गर्त- -र्तं वाध २१, ८.  
 गोमय-गौरमर्षय- -यम् गोपि  
 १, ४, १६.  
 गोमय-परिवय<sup>३</sup>- -ये कौस् १५,  
 १; १९ ८; २२, १२.  
 गोमय-पर्युषित<sup>४</sup>- -ये वाध १३,  
 १२.  
 गोमय-पायस- >(०यमी<sup>५</sup>-)  
 पाग ५, ३, १, १०६.  
 गोमय-पावक- पाग २, २, ९.  
 गोमय-पिण्ड- -पदम् पाष्ट २,  
 १, २२; भाष्ट १, २८ : ८; १९;  
 -पदात् वाष्ट १०, १४; -पडे

पाष्ट २, १, १२; भाष्ट १, २८ :  
 ९; १८.  
 गोमय-लोष्ट- -ष्टम् भाष्ट १,  
 ११ : ९; ११; भाष्ट १, ७, ९;  
 वाष्ट १०, ९.  
 गोमया(य-अ)भि- -भिना  
 वाध २०, ४२.  
 गोमया(य-अ)जुलेपन- -नम्  
 शंघ ३१३.  
 गो-महिषी-रत्न- -गम् वीध २,  
 १, ४४.  
 गो-महिव्य(पी-अ)जा- -जानाम्  
 वाध १४, ३५.  
 गो-महिव्य(पी-अ)जा(जा-अ)वि  
 (क>)का- -कानाम् सुध ३४.  
 गो-मांज-सुख्य- -स्यम् वैध ३,  
 ५, ९.  
 गो-मांस-भक्षण- -जैः वाध १४,  
 ३०.  
 गो-मात्र- -त्रम् वाध २१, २५.  
 गो-मायु<sup>६</sup>- पाठो २, १, १;  
 -ययः आप्यथी ९, १२,  
 ४, वैथी २०, १५ : ३; -युः  
 अा ५३, २, १; ६४, ७, २; -यु  
 ऋकौस् ९६, १; ३.  
 गोमायु-लोक- -का वाध २१,  
 १४.  
 गोमायु-वदन<sup>७</sup>- -नेकौस् ९३, ४.  
 गो-मार्ग- -मार्गं अप १, ४३, ५.  
 गो-मिथुन- -नम् द्राष्ट १, ६, ४;  
 १८, ८; भाष्ट १, ७, १२; वाष्ट,  
 -येन वैष्ट ३, १ : ७; वाध १,  
 ३२; शंघ ६७, -जौ शोथी ३,

१४, १७.  
 गोमिथुन-प्रहण- -येन विध २४,  
 २१.  
 गो-मिन्- पा ५, २, ११४; पाग  
 ४, १, ११०; -मिनः अप ५७,  
 ३, ४; -मिनाम् अा ५८, ४,  
 ४; वाध १७, ८.  
 गोमादन- पा ४, १, ११०;  
 -नाः वीथीय ४१ : १५.  
 गो-मुख<sup>१</sup>- पा ६, २, १६८; -ॠंख  
 वाष्ट १७, २; वाष्ट १३, ४.  
 गो-मूत्र- पागवा ५, ४, ३; -प्रम्  
 आमिष्ट २, ७, ७ : ६; १३; वाष्ट  
 ७, ३; अा; -प्रत्य माथी ५, १, ६,  
 ३९; ९, २५; वाथी ३, ३, २, २२;  
 -प्राः वीथीय ४३ : ६; -त्रे  
 वीध १, ६, ३८; ४, ६, ५; -त्रेण  
 वीथी २९, ११ : २; वीपि २, ८, ७;  
 वीस् ४१, १९; विध ५०, २२.  
 गोमूत्र-क- पा ५, ४, ३.  
 गोमूत्र-गोमया-क्षीर-स्थि-सर्पिः-  
 कुसोदक- -कानि विध ४६,  
 १९; सुध ६४.  
 गोमूत्र-गोमया(य-आ)दार->  
 रिन्- -रिणः वैध १, ९, ४<sup>१</sup>.  
 गोमूत्र-भाग- -गः वीध ४,  
 ५, १३.  
 गोमूत्र-मिश्र- -श्रेण वाथी २५,  
 ११, १७.  
 गोमूत्र-वावक- -कम् शंघ ३९०;  
 ४२३.  
 गोमूत्र-वर्जक<sup>२</sup>- -काः अप ९,  
 १, १.

a) तु. पागम. । b) = गो-सुरीय- । c) विप. (।गोमयस्यमिधिता-। २अप- ) । d) उप. = राशि-  
 e) उप. = उपलित- (तु. आप्यथ १, ९, ५) । f) महिपाजा<sup>३</sup> इति पाठः । यनि. शोघः (तु. वाध १४, ३५) ।  
 g) = शृगाल- । विप. (मरुदक-। कौस्.।) । h) उप. = दल- । i) व्यप. । j) = वाय-विशेष- । उपमाने वस. ।  
 k) = ऋषि-विशेष- । l) = ।गोमूत्र-वर्णक-। आच्छादन-विशेष- । मूत्रिका- इति पागम. । m) \*मयद्वा<sup>४</sup> इति  
 पाठः । यनि. शोघः (तु. O.) । n) विप. (तिल- ) वस. ।

गोमूत्र(प्र-आ)दि- दि वीथी  
 २८, ११ : १८; २९, ११ : १६;  
 ३०; -दिभिः वीथ ४, ५, १६;  
 विष ४६, २०.  
 गोमूत्रे(प्र-ए)कल्प- कल्प  
 आसिद् २, ७, ७ : १०; अण  
 ३८, २, १.  
 गोमूत्र- वाः आधी १०, ९, ५;  
 गाथी १६, ३, १३; १२, १२;  
 आपथी १९, १६, १६; वीथी  
 २६, ११ : ५; वाथी ३, ४, ३,  
 १२; -नाम् आथी २०, २०,  
 २; वीथी १५, १४ : १३x४;  
 माथी; -नाम् आथी २०,  
 १९; १<sup>५</sup>; ९; काथी २६ : २;  
 वीथी १५, ३० : २५x४;  
 वाथी.  
 गोमूत्र-कण्ड- कण्ड आथी  
 २०, १९, ११; वीथी १५, ३१ :  
 २५; हिथी १४, ४, ३५; -कण्डे  
 वाथी ३, ९६ : ४; -कण्डे  
 आथी २०, २२, १; वीथी १५,  
 ३४ : ७; २४, ८ : १५; वाथी  
 ३, ४, ५, १३; हिथी १४, ४,  
 ५८.  
 गोमूत्रकण्डा(एड-अ)द्व-  
 द्वाप- पाथोः काथी २०, ८, १.  
 गोमेघ- येन वाथी ४, १९ :  
 ३१.  
 गोमघ- अः पाथ ३, ८, १५;  
 -अथ वाथ ७१, १; -ये गोथ  
 ३, ६, ९; -येन पाथ ३, ९, २;  
 गोथ ३, ९, १२.  
 गोमघ-नर्मन्- नर्मन् कथ ३, ७,

८; -मंगि कथ ३, ७, १.  
 गो-यवाग्- नवोः पा ४, २,  
 १३६.  
 गो-यान- ने विथ ५३, ४.  
 गो-युक्त- कम् गोथ ३, ४, ३०;  
 दाथ २, ५, १४; ३, १, २७;  
 -कानि हिथी १३, १, ३१;  
 -केन आथ ४, २, ३.  
 गोयुक्ता(क-आ)सिद्- गम्  
 गोथ ३, १, २२.  
 गो-युग्- पाथा ५, २, २९; -गानाम्  
 वीथी २२, ६ : १; -नेन आथी  
 ६, १, ६, ७.  
 गो-यस्य- कान् वीथ १, ५,  
 ८०.  
 गो-यथ- येः वाथी ३, ७५ :  
 १२.  
 गो-यत्- नम् वीथ ३, ५, २; -सस्य  
 वीथ १८३; -सिः विष ५०,  
 २३; ९०, २५.  
 गो-युग्- यम् वीथ ११३, २५.  
 गो-युग्- पाथ २, ७८.  
 गो(गो-यथं)- नम् पाथा ७, २,  
 ११५.  
 गो(गो-यथं)- गोथिन्- थी  
 था १, ४३, ५.  
 गो-दादपाद्- हः लुथ २, १६ :  
 १४.  
 गो-दादल- शानाम् था ७०<sup>२</sup>,  
 ३, १.  
 गो-लोठ- कः वीथीका १४२;  
 -कान् विष ९२, ६.  
 गो-लोमन्- गोलोमन- पा.)  
 पाथ ५, ३, १०७.

गो-यत् गोथ १३, २१.  
 गो-यथ- अः वीथ १, १०, २३;  
 -ये वीथ ३९४; विष ५०,  
 २४.  
 गो-यवाह-अ-नर्मन्-मण्डूक-मात्राता-  
 (२-२आ)थ- सैः वीथ ६, १ :  
 १६.  
 गो-यथल- सम् गो २, ३४.  
 गो-यथन् वीथ ४०८; वीथ २२,  
 २८.  
 गो-यथा- नाम् वीथी ११, ३ :  
 ३०.  
 गो-यथा(स्व-थ) वा (जा-अ)वि-  
 -वीनाम् वाथी १४, २, २९.  
 गो-यामि-यथ- जयोः कथ ३,  
 ७, ७.  
 गो-यत्- अथ ६६, १, ५.  
 गो-यथ, पाथल- लेन हिथ २,  
 ९, ७; कः कथ १, ७, ७; पाथ ३,  
 ४४; वीथ १८३; वीथ १, ६,  
 ४१; विष २३, २८; सुप ३३३.  
 गो-यथ-नर्मन्- अथा वीथ १,  
 ५, ३१; सुप ८७ : १३.  
 गो-यामन्- ( > गौवासनि-  
 (क)का, की- पा.) पाथ ४,  
 २, ११६.  
 गो-यिकल- नर्मन् आथी १८,  
 १०, २०१.  
 गो-यिकन्- > कथं (तं-अ) अ-  
 वाप- वी हिथी १३, ४, ८.  
 गो-यिद्- विथ माथ २, ३०५;  
 ३२९; -विद्म वाथी १२,  
 १४, ५.  
 गो-यिन्- पाथा ३, १, १३८;

a) वैप १६.१ b) पुन = शक्य-। c) पन.। पाथ. = प्रत्यय-विधान-। d) = दुग्धादि-। e) = श्रोत्रधि-  
 विशेष-। f) = वाग-विशेष-। g) वप. = मार्ग-। h) विष. पाठः। i) गोपलैः इति पाठः १ वनि. शोषः  
 (द्व. विष.)। j) = धान-विशेष-। गोदान- इति पाठा., गौवासन्- इति [पथे] पाथम्.। k) पाथे. वैप १,  
 १२५९ ० क.। l) = गो-विद्यते-।  
 वैपथ-१३

-०न्द् जैश्रीका ११११; विध  
१,५१; -१न्द्म आमिष्ट २,५,  
७: १; कौष्ट १,११,७; वैष्ट ३,  
१३: ४५; कौष्ट २,५,२४.  
गो-विप्र-पितृ-देव- न्येयः कौष्ट ४,  
५, ५.  
गो-विप्रो(प्र-उ)त्का(क-अ)मि-वायव  
(सु-अ)कं-नारे(रा-इ)न्तु- न्दुन्  
वैष्ट २,१,४.  
गो-विराट्-भर्यायम्-देवता->  
एव- स्वम् अथ १,१०.  
गो-विपाण- ण्णात् अथ ६४, ८,  
६.  
गो-विसर्ग- नै अथ ६८,२,५१.  
गो-वीथी- थि, -थीम् अथ ५०,  
४,४.  
गो-वृन्दारक- पाग २,१,६०.  
गो-वृष- षः कौष्ट २८, ५; -यम्  
अथ ३०, २, ७; ६८, २,  
३४.  
गो-वृज- जे विष ६०,११.  
गो-वृत्र- त्तम् विष ५०, २४;  
५३, ३.  
२गो-वृत्र- तः द्विथी १७, ५,  
२४.  
गो-व्यथि(र>)नी- नी आपथी  
१८, १०, २३; द्विथी १३, ४,  
१०.६  
गो-शकृत्- कृत् वैष्ट ३,२३: ३;  
कौष्ट १,६,३६.  
गोशकृत्-सुवर्ण(र्ण-अ)पो(प-अ)  
मि-गौरसपं- ण्णात् कौष्ट ३,

४,२०.६.  
गोशकृत्-सुद-भरमन्- त्तमभिः  
कौष्ट १,५,२६.  
गोशकृत्-सुक्त- के वैष्ट २,  
५: ८.  
गो-शक- कः आथी ८, ३, २३;  
शाथी १२, २३, ३; वैताथी ३२,  
२५; -के शाथी १२, २४, २१;  
लाथी १,१०,५.  
गो-शब्द- द्दः प्रथ ३,२,१.  
गो-शरष्य- ष्यम् वाप ६,३०.  
गो-शान्ति- न्तिः अथ ६६, ३, ३;  
-न्तिम् अथ ६६, १, ३; -न्ते:  
अथ ६६, ३, ३.  
गो-शाल, ला- पा ४, ३, ३५;  
-लाम् कौष्ट २४,१०; ८१,२८.  
गो-शिरस्- सः वाथी २, १, ७,  
११.  
१गो-शृङ्ग- ङ्गम् अथ ३६, २९, १;  
-ङ्गेण जैष्ट २, ५: १३; कौष्ट  
३१,६; अथ ३६, ११, १; शंघ  
१७८.  
गोशृङ्ग-नसः (: ) अथ ३६, ३, २.  
२गो-शृङ्ग- > गोशृङ्ग- -ङ्गम्  
सुव ३,१०. ४३, लाथी ७, २, १.  
गोशृङ्ग-सजय- यदो:  
लाथी ६,१०,११।<sup>म</sup>  
गोशृङ्ग-हारायण-कौलमल-  
यर्हिप-वैतह्वय- व्याताम्  
लाथी ७,२,१३.  
गो(गो-अ)श्व-पुरप-भूमि- मिपु  
कौष्ट १३,१६.

गो(गो-अ)श्व-वाल-वाल- -लेन  
काथी ११, २, ९.  
गो(गो-अ)श्व(श्व-अ)जा(जा-अ)वि-  
-वयः कौष्ट २, २, ९; -थोनाम्  
कौष्ट ६९,१६.  
गो(गो-अ)श्व(श्व-उ)श्व-नामा(उ-अ)-  
पदातिन्- नी विष ५,७७.  
गो-<त)श्व- > ए-नम- माः  
अथ ५,३०.१.  
गो-या(<सा)ए- याः अथाव  
६,३१.  
गोपु-श्व- -रे पावा ६,३,१.  
१गोपु-सु-सु-क- -कैः कौष्ट ४,  
१,१०.  
गोपु-किन्- -फी साभ १,१२३;  
१२४; ३८२; ३८३; २, १९५.  
गोपु-क- -कम् लाथी  
७,२,१.  
२गोपु-सु-सु-क- -कम् जैथी  
२२: १६; निस् ८, ९: ३३;  
वाप २८,१४; शंघ १०५; विष  
५६,१८; -तेन आपथी ६,१९,  
९.  
गोपु-का(क-अ)श्व-सु-क-  
-के जैथी २२: १५; निस् १०-  
१३: १.  
गोपु-तय(हि-अ)श्व-सु-किन्-  
-किन्तौ श्व २, ८, १४; साभ  
१, २१२; अथ २०, २७; ६१;  
६४, १०६.  
गो-हो-ल-स्तो-म- माः द्विथी १८,  
४, ३२; लाथी १०, १६, १२

- a) व्यप. (पुरप-). b) = रात्रि-याम-विशेष-। यम.। c) = आकाश-मार्ग-विशेष-। d) तु. पागम.।  
e) विप.। बस.। f) नाप. (गो-हन्त्री- रज्जु-). उत. उव. <व्यच्छ् [व्ययने]। g) 'युष्क' इति पाठः!।  
h) 'पठितान् इति B.। i) 'कृद्म' इति मे.। j) = गोशाल-जान-। k) = ऋषि-विशेष-। ल्यु.।  
l) = साम-विशेष-। m) गो इति पाठः? यनि. सौघ.। n) दस. > यम. > यम. उव. = पवित्र-।  
o) वैष्ट १ द.। p) 'सु' इति पाठः। q) = ऋषि-विशेष-। r) पृ ४३३ ० द.। s) पृ ४३३ f द.।  
'सु' इति वाप. शंघ. विष.। t) इति आथी.।

लुम् २, १६, १४; -मम् आपथी  
 २३, १२, १८; -मे लाथी १०,  
 १६, १; ६; -मेन आपथी २२,  
 १३, २२; हिथी १७, ५, ४२.  
 गोस्तोम-भूमिस्तोम-यनरपरि-  
 सव<sup>०</sup> - न्यानाम् आपथी १, ५, २.  
 गो-ष्ट<sup>०</sup> - पा ८, ३, १७; -ष्टः शोथी  
 ८, ४, १३; लाथी; -ष्टम् काथी  
 ८, ४, ४; आपथी; -ष्टम् आपथी  
 १५, ११, १०; भाथी; -ष्टा<sup>०</sup> माथ  
 २, १८, २१; -ष्टाय शोथी २६,  
 ५; २७<sup>०</sup>; वाथी १, ४, २, ८; शायः  
 -ष्टे वाथी २, ११, ६; आपथी  
 ७, १७, १४; वाथी, शाय २,  
 १०, ६<sup>०</sup>; कौम् ८९, १<sup>०</sup>; -ष्टेन  
 कौम् १२, १४; अप १६, १, ६;  
 -ष्टेय हिथी १७, ६, ३८; अप  
 ४, ६, ५; ५८<sup>०</sup>, ४, ४; ६२,  
 ७, ४.  
 गो-ष्टो - पा ४, १, ४२६.  
 गोष्ट-कर्मन् - माणि कौम् १९,  
 १४.  
 गोष्ट-क्षेय-परिऋन्<sup>०</sup> - न्दाः  
 वीथ ३, १०, १३.  
 गोष्ट-गव, हा - नम् वीथ १,  
 ५, ५५; -ताः वीथ ३, ५, ७;  
 हिथ १, १८, ४.  
 गोष्ट-ज - कि ७०.  
 गोष्ट-देवताः - कम् अथ ३,  
 १४.  
 गोष्ट-मप्य - अथ अप २६, २, ३;  
 ६६, १, ५.  
 गोष्टमवीथ - न्यम् अथ २:

११.  
 गोष्ट-श्च - पा ५, ४, ७७.  
 गोष्ठा(ष्ट-या)दि - न्यः पावा  
 ५, २, २९.  
 गोष्ठीन - पा ५, २, १८.  
 गोष्टे-क्षेदिन् -, न्दिन् -,  
 ष्टन् -, ष्टिन् -, ष्टन् -,  
 ष्टिन् -, ष्टिन् -, ष्टन् -,  
 ष्टिन् - > ष्टिन् -,  
 ष्टन् -, ष्टन् - पा २, १, ४८.  
 गोष्टे-शय - न्यः वीथ ३९३.  
 गोष्-यद् - पा ६, १, १५७<sup>०</sup>;  
 -यद् कन ४, ६, ६; पा ६, १,  
 १४५; -यै सु २, ४.  
 गोष्-यद्-मा(श्च>)शो - शोम्  
 हिथी ४, १, ६३.  
 गो-स्वस्तय - न्ये शोथी १४, ११, ९.  
 गो-सखि<sup>०</sup> - लायम् ऋषा ५, २०<sup>०</sup>.  
 गो-सनि<sup>०</sup> - पा ८, ३, ११०; -नि  
 त्प्रा ६, १२; -निः आपथी ६,  
 १२, २; ११; शोथी; -निम् काट  
 ३२, ३; अप ४६, ५, २; अप्रा  
 ३, १, ७.  
 गोमन्या(नि-आ)दि - दीनाम्  
 वीथ २, १०३.  
 गो-समानाशर-गान्त्व - न्तात् पावा  
 ३, १, ८.  
 गो-समाय-निष्ठा(ति-श्र)थं -  
 थंम् पावा १, २, ४८.  
 गो-सव<sup>०</sup> - न्यः काथी २२, ११, ६;  
 आपथी २२, २५, १८; वीथी,  
 -वस्य शोथी १४, १५, ६; -वे  
 शोथी १४, ११, १०; शाय,  
 -वेन शोथी १४, १५, १;

आपथी.  
 गोसव-विवध - शो आपथी ९,  
 ८, १२.  
 गोसव-विवध-वैद्यस्तोम - मैयु  
 वेताथी ३९, १०.  
 गोसवा(य-श)भिषेचनीय -  
 न्ययोः वेताथी ३९, ४.  
 गो-सहस्र - लम् अप १६, २, ३;  
 ४, ४; शंथ ३७९; ३८२; वीथ  
 १, १०, २१; सुष ४८; ५९.  
 गोसहस्र-यद् - न्यः अप १६,  
 २, २.  
 गोसहस्र-विधि<sup>०</sup> - धिः अप  
 १६, १, १.  
 गो-साद्, गो-सादिन्, गो-सात्वि-  
 पा ६, २, ४१.  
 गो-स्तेन - न्ताः अप ५०, ५, २.  
 गो-स्त्री - स्त्रियोः पा १, २, ४८.  
 गोष्ठी-जन्मन् - न्यम् अप ६७,  
 ३, २.  
 गो-स्थान<sup>०</sup> - नम्<sup>१</sup> आपथी २, १,  
 ५; वीथी १, ११ : ८; १३; १८;  
 भाथी.  
 गो-स्थायिन्<sup>०</sup> - यी अप ५०, ६, १.  
 गो-स्पर्शन - न्यम् अप ६८, २, ६१.  
 गो-स्तोत्र<sup>०</sup> - तांसि कप ३, १०, २.  
 गो-स्वामिन् - मिने काथी १५, ६,  
 १२.  
 गो-हृत् - > न्यम् शोथी-तन्मन्-  
 हृत्-अयकोणि-भतित्माविश्रीक-  
 केयु वीथ २१, ११.  
 गो-हृत् - तां शंथ ३७७ : १७.  
 गो-अग्र - प्रथ. गो- द.

a) एसाहविशेषायां दम. । b) वैप १ द. । c) = [ तस्य- ] रको-विशेष- (दु. Knauer) ।  
 d) गो इति पाठः ? यनि. शोथः । e) पाभे. वैप १ परि. गोमे स्त्रि ४, १२, २ टि. द. । f) पाभे. वैप १  
 शोके मा १९, ४६ टि. द. । g) तु. पागम. । h) परिष्कृत- = देवालय- । i) विष. । यस. । j) यस. ।  
 उदकमाने (कन. ), सेवितापेवितप्रमाणेयु (पा.) सुद् आगमः । k) = परिष्कृत-न्यविशेष- । l) पाभे. वैप १,  
 १२६१ f द. । m) उत. एप. = रश्मि- । n) यस. । उप. = छिद- ।

गोकर्ण- पाग ४, १, १०५; १५४०.  
 गोकर्णायणि- पा ४, १, १५४०.  
 गोकर्ण- पा ४, १, १०५; पाग ४,  
 १, ८०; १५४; पावाग ४, १, ७८.  
 गोकर्ण- पा ४, १, ८०; पावा  
 ४, १, ७८.  
 गोकर्ण-पति-, पुत्र- पागम  
 ३७  
 गोकर्णायणि- पा ४, १,  
 १५४.  
 गोख- गोखा- टि. द.  
 गोखा- पाग ४, १, ५९.  
 गोज-वाज- गज-वाज- टि. द.  
 गोण- > गोणी- पा ४, १, ४२; ५,  
 ३, १०; पाग ५, ३, १०८; -गया:  
 पा १, ३, ५०; पावा १, २, ४९.  
 २गौणिक- पा ५, ३, १०८.  
 गोणीज(>)री- पा ५, ३, १०.  
 गोल्- गो- द.  
 गोल्तम- पा, पाग २, ४, ९३; ९५;  
 -मः दाधो १४, ९१, १; ९३, २;  
 ऋष २, १, ३१; ९७; वृदे; -मस्य  
 दाधो १४, ९१, १; १५, १, ८; १६,  
 ३, ७. -मा-<sup>१</sup> दाधो ६, ४, ११;  
 लाधो ४, ७, १५; वृदे ४, ९८; पा  
 २, ४, ९५. -मात् वृदे ३, १२५;  
 -मानाम्<sup>१</sup> लाधो १२, ११, १,  
 -मे वृदे १, ५८; २, १२१; ऋष  
 २, ९३; -मभि-<sup>१</sup> लाधो १४,  
 ५७, १५१.  
 गोल्तम- पाग ४, १, ४१,  
 -मः लाधो १२, ११, १<sup>१</sup>; ३;  
 लाधो २४, ६, ११; १३; वौध्री

१०: ६xx; हिधो; -मः दाधो  
 १, ३, ३३xx; व्युपधो; -मम्  
 दाधो ८, २, २३; लाधो ४,  
 ६, १६; वैय; -मस्व वौध्री  
 १८, ५२: ११; दाधो १, ४,  
 १७; लाधो १, ४, १३; -मा:  
 व्युपधो २४, ६, १०xx; वौध्री;  
 निस् ५, १०: १२!; -मात् ऋष  
 ३, २१; -मानाम् वौध्रीय १६:  
 ५; -माय आमिष्ट १, २, २:  
 १६; २१; वौय; -मे लाधो  
 १०, ४, ६.  
 गोल्तमी- पा ४, १, ४१;  
 ७३; -मी व्यु १, ३, १.  
 गोल्तम-धानश्रव्य- रवौ  
 लाधो ६, ३, ६; ७, १०, ९; ९,  
 ३, १४; १०, २, ७; निस् ३, २:  
 २४; ४: ९; ४, १: ४.  
 गोल्तम-पुत्र- व्रत्य चात्र  
 ५: २.  
 †गोल्तम-दुवाण- --णदाधो  
 १, ३, ३; लाधो १, ३, १.  
 गोल्तम-भरद्वाज- नौ शुभ  
 ४, ११८.  
 गोल्तम-भारद्वाज-वाज-  
 वल्लव-दासीत-प्रभृति-  
 -नीनाम् वैय १, १, २.  
 गोल्तम-वर्ष वैय ४, ४, १-७.  
 गोल्तम-वार्कलविह- षटी  
 गोष्ट ३, १०, ६.  
 गोल्तम-शाण्डिल्य- रवौ  
 दाधो २, ३, १६xx; लाधो १,  
 ७, १४; ३, १, २; ४, २, ३;

व्यु २, ८, २१.  
 गोल्तम-शाण्डिल्यायन- नौ  
 दाधो ५, ३, २; लाधो २, ७, १.  
 गोल्तम-सार्दागव- नौ लाधो  
 ७, ९, १३.  
 गोल्तमे(म-इ)च्छा- न्दापा:  
 वैय ४, ८, ८.  
 गोल्तमीय- यम् दाधो १,  
 ४, ४; २, ३, २०; लाधो १, ४, २;  
 ७, १८; ९, १, २; वृष ४, १६२;  
 -ये दाधो २, १, २५; लाधो १,  
 ५, १९; -येन लाधो ८, २, २०-  
 गोल्तमि- मिम् वाष्ट १, ०, ३.  
 गोल्तम-गौर- पाग २, २, ३८.  
 गोल्तम-च्युष्टोम- मयो: व्युपधो  
 २०, १, १२; हिधो १४, २, ४३,  
 -माग्याम् व्युपधो २२, ११-  
 १५; हिधो १७, ५, ८.  
 गोल्तम-व्यु व्युपधो २४, ६, ११;  
 १३; वौध्रीय १०: ९<sup>१</sup>; ११:  
 ४xx; हिधो २१, ३, ९<sup>१</sup>.  
 गोल्तम-स्तोत्र- -मः दाधो १०,  
 ४, १; ८, २; -मम् व्युपधो ९,  
 ६, १; -मेन दाधो ९, ५, १४-  
 गोल्तमा(म-आ)दि- -दिभि:  
 व्यु ३, ७, १४.  
 गोल्तमापु(दि-उ)क- -क्त: व्यु  
 २, ४, ८.  
 गोत्र- प्रम्., गोल्- गो- द.  
 रगोल्- पाउना ४, ११६.  
 गोद्- पा, पाग ४, २, ८२.  
 गोदन्त\* - (> गोदन्तेय- पा.) पाग  
 ४, १, १२३.

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) तु. पाणि.। गोकर्ण- इति पागम., गोकर्ण- इति पावा, भाग्य. च, गोकर्ण- इति [पक्षे] भाग्य.। c) गोकर्ण- इति पावा.। d) = पञ्च-विशेष-। व्यु. ?। e) गोल्- इति पागम.। f) = धान्यादायन- [वाण-नीर- प्रभृति]। व्यु ?। g) वैप १ द.। h) तु. पागम.। i) बहु- गोल्तम-। j) पाठः ? गोल्तमः इति ऋषेः (द्र. संस्कृतः टि.)। k) वैप २, ३ सं. द.। l) सत्र. गोल्तमवत् <> गोत्रमवत् इति पाणि.। m) गोल्तमगौर- इति [पक्षे] पागम.। n) = ऋषि-विशेष-।

शुभो-दान-गो-द. १, १४; -नम्  
 २गोदान- पात्राग ५, १, १४; -नम्  
 काश्री ५, २, १४x; आश्री;  
 -नयोः वीथी २५, १० : २;  
 -नस्य वीथ २, ७, १५; -नात्  
 पाण्ड ३, ६, २; -ने गोष्ट १, ९,  
 २४; द्राष्ट २, ५, १; -नेन वीथ  
 ५४, १५.  
 गोदानिक- पात्रा ५, १, १४;  
 -कम् आष्ट ३, ८, ६९; -कैः  
 द्राष्ट १७, १.  
 गोदानिक-मातिकौ(क-श्री)  
 पनियद- द्वाः ज्येष्ठ १, १६ : १.  
 गोदान-करण- णम् ज्येष्ठ १,  
 १८ : ३.  
 गोदान-कर्मद- मं वीथ १, २१,  
 १७; शाष्ट १, २८, १९; आश्रित  
 २, २, ५ : २१; द्विष्ट २, ६, १५;  
 -मंशः माष्ट १, ९ : १३; १० :  
 १३; -मंशिक वीथ १, २१, १६;  
 शाष्ट १, २८, १८.  
 गोदान-सत- -नम् आश्रित १६,  
 १४.  
 गोदान, निरु-मातिका (क-श्री)  
 शिवमती( त-श्री)पनियद-  
 ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, हसामिक- काः गोष्ट  
 ३, १, २६; द्राष्ट २, ५, १७.  
 गोदाना(न-या)दि- दि गोष्ट २,  
 १५.  
 गोदानिक- कः माष्ट १, २१,  
 १३.  
 गोदावरी- -याः पात्रा ५, ४, ७५;

-याम् विष्ट ८५, ४२.  
 गोघ- -घाम् अष्ट ५०, २, ४.  
 रगोघा- पात्र ३, १, २७; ३, १०४;  
 ४, १, १२३; -घा अष्ट १, ३०, २;  
 ६८, ५, ८; वृष्टे ६, १०६; श्रुपा  
 ५, ३७५; अमा ३, ४, १५; -घाम्  
 विष्ट ४४, २९; -घायाः वीथी  
 १८, १९ : २१; -घायाम् वीथी  
 २, ५ : ७५.  
 गोघार- पा ४, १, १३०.  
 गोघेय- पा ४, १, १२३.  
 गोघेर- पा ४, १, १२९.  
 गोघा-कच्छ-शवाविष्ट- (< ग)वंक  
 [, शलक] -नङ्ग-शवा-पूति-  
 [, वीक] खप-वर्जम् आश्रित १,  
 १७, ३७; द्विष्ट १, ५, ६८.  
 गोघाय (द<) वी- पात्र ५, ४,  
 १३९.  
 गोघा-योगा- (क<) का- -काः  
 काश्री १३, ३, २१.  
 गोघा-शालन-शालयक-नस्य-कूर्म-  
 दिशुमार- न्नाणम् सुष्ट ३९.  
 गोघो (घा-उ)रुद्र-काक-शप-व-व-  
 -धे विष्ट ५०, १२.  
 रगोघा- -पा अष्ट २, १०, १३४;  
 वृष्ट २, ८१; माष्ट १, १७७; २,  
 ७५७.  
 गोघाशान- (> गोघाशानि- )  
 गो-वामन- दि. ६.  
 रगोधुकसा- सा अष्ट ४८, १३१५.  
 गोधूम- पात्र ५, ३; पात्र ४, ३, १३६;  
 १५२६; -मम् काश्री १४, ५, ९;

वीथी २२, १३ : १८; -साः  
 आश्री १६, १९, १३; वीथी;  
 -मात् आज्यो ३, ३; -मात्  
 द्विष्टो १७, २, १८; -मैः विष्ट  
 ८०, १.  
 गोधूम- पा ४, ३, १३६; १५२;  
 -मम् वीथी २२, १३ : १८;  
 भाति ५२५.  
 गोधूम-घयाल- -लः काश्री  
 १४, १, २२.  
 गोधूम-कलापि, पी- -पिः शशी  
 १४, ४१, ८; -पी आश्री १८,  
 १, ८; -पीम् वीथी ११, १ : ५;  
 २ : १७.  
 गोधूम-कुवल्-वृण- -गादि काश्री  
 १२, ३, १७.  
 गोधूम-खल- -लः काश्री १४, ४१,  
 ७.  
 गोधूम-वमाल- -लः काश्री १५,  
 १, १६; वीथी १७, २ : ६.  
 गोधूम-विष्ट- -शानम् वीथी २२,  
 १३ : १८; काश्री ३, १, १, ८;  
 -ष्टैः द्विष्टो १४, ४, १८.  
 गोधूमविष्ट-घयाल- -लः  
 आश्री १८, १, ८; द्विष्टो १३,  
 १, ७.  
 गोधूम-सतु- -नृनिः आश्री  
 १९, ७, १; माश्री ५, २, ११, १६;  
 काश्री ३, २, ७, ६३; द्विष्टो २३,  
 १, २५.  
 गोधूमो (म-उ)वंरा- -सा शशी  
 १४, ४१, ६; द्विष्टो १७, २, १८.

a) = (पात्रः [केसाः] शेषते [ < √दो अवसाएने] अत्र) शिरोभाग, [तस्य-] केववन्त- (तु.  
 काश्री. प्रम्.), = [तदधिहतवर्मद-] संस्कार-विशेष-। b) विष्ट. । तदस्य प्रवोजनमित्यर्थे तु प्र. (पा ५, १,  
 १०९) पठे बुद्धयन्तावध उक्तं. (पा ७, २, ११७)। c) विष्ट. । तद्वेदनीयः प्र. । d) गोष्ट. पाठः। e) = नदी-  
 विशेष-। यु. ?। f) = देव-विशेष-। यु. ?। g) वै १६. । h) द्विष्ट. पाठः। i) = वीणा-विशेष-।  
 हस्ते प्र. । एष. = गोघा-वर्मद-। j) = रुद्रिशा-विशेष-। यु. ?। k) तु. पात्रम्. । l) विष्ट. । वत्. ।  
 m) उप. = मुष्टि-। n) सप्त. गोधूमच- <> गोधूमविष्ट- इति पठे. ।

गोनर्त- (> गोनर्तिक- पा.) पाग  
५, १, ६४\*

१गोप- √गुप् द.

२गोप- गो-द्र.

३गोप<sup>०</sup> - ०प वंताश्री १०, १७\*

गोपायन<sup>०</sup> - नः साध १, ४४९-५०;  
२, ४५९; -नाः ऋष २, ५, २४;  
वृदे ७, ९०; -नान् ऋष २, १०,  
५६; वृदे ७, ८७; ९७; -नानाम्  
निस् ९, ९: २६; -नैः वृदे ७,  
१००.

४गोप<sup>१</sup>, ४ > पा-गिरि- ऋत ४,  
७, १०.

गो-पय<sup>०</sup> - यः अय २८, १, २; अय  
१२, २५, ४७; -या<sup>१</sup> अय ३१,  
१०, ५; -येम अय २७, २, ५.

गोपयो(ध-उ)क- -कैः अय २०,  
६, २

गोपन- गोपयत्य- √गुप् द.

गो-पयस्- गो-द्र.

गोपयन<sup>०</sup> - पाग २, ४, ६७, ४, १, १०४;  
-नः ऋष २, ८, ७३; साध १,  
२९, ८९, -ना<sup>०</sup> बौध्रीप्र २७: ८.  
गोपयन- पा २, ४, ६७; ४, १,  
१०४.

गोपयना(न-अ)दि-प्रतिषेध- अयः  
पादा २, ४, ६७.

१गोपा<sup>०</sup> - पा आश्री ८, १०, १; आप्रमं  
१, ७, ११; अप्र २, २, १३\*  
-पाः आश्री ४, १२, २, १३, ७४\*

शश्री; या ३, १२; ७, ९६; १२,  
३८; -०पाः आप्रमं १२, ३, २;  
हिश्री ८, १, ४१; -पास् आश्री  
४, ६, ३; आप्रमं; या १४, ३.

गोपानसि<sup>१</sup> - पाठभो २, १, २३८.

गोपायत्- प्रभु. √गुप् द.

१गोपाल- गो-द्र.

२गोपाल<sup>०</sup> - > गोपालयन<sup>०</sup> - नः  
बौध्री १८, २६: ७, १५.

गोपालि<sup>१</sup> - लिः बौध्रीप्र ४८: २.

गोपि<sup>१</sup> - पयः बौध्रीप्र ४८: ५.

गोपिका<sup>०</sup> - (> गोपिक- पा.) पाग  
४, १, ११३\*

गोपिल- (> गोपिलेय<sup>०</sup> - पा.) पाग  
४, २, ८०<sup>m</sup>.

१गोपीय- गो-द्र.

१२गोपीय<sup>०</sup> - यः अप्र ३, ४, १.

१३गोपीय<sup>०</sup> - याय आप्रमं १, २०,  
११, बौध्री १, १४: १९; वाश्री  
१, २, ४, ३०; हिश्री १, ५, २०;  
बौध १, ७, ३६.

गोपीय<sup>०</sup> - ज्याय ऋषा ८, ४७.

गोपुर<sup>०</sup> - रे अय ७०<sup>१</sup>, ११, २६.

गोपुरा(र-अ)हल-शैल-प्रासाद-  
वैरुन्- -रुमनाम् अय ६४,  
३, ९.

गो-पुरीय- प्रभु. गो-द्र.

गोपु- गोपु- गोपु- √गुप् द.

गोफिल- (> गोफिलेय<sup>०</sup>) गोपिल-  
दि. द.

गोफि, मि, लि, लि, क<sup>०</sup> - (> गोफि-  
लि, मि, लि, लि, क<sup>०</sup> - पा.) पाग ४,  
१, ११२<sup>०</sup>.

गोवल<sup>१</sup> - > गोवल-दसारात्र- -यः  
बौध्री २३, १३: ८.

गोभिल<sup>१</sup> - (> गोभिलेय- पा.)  
पाठभो २, ३, १०८; पाग ४, २,  
८०<sup>m</sup>; -ल्य प बौध्रीप्र ४३: ४;  
-लेन कप्र ३, ७, ६.

गोभिल-गौतम- -नी कप्र २, ८,  
२४.

गोभिलो(ल-उ)क- -कानाम् कप्र  
१, १, १.

√गोम् पाधा. जुरा. उम. उपलेने.

गोमड- (> गोमडिक-), गोमय-  
(> गोमयिक-)-२गोमय-दि.द्र.

१गोमय- प्रभु. गो-द्र.

२गोमय- (गोमयिक- पा.) पाग.  
४, २, ८०<sup>१</sup>.

१गोमहः भैष १.

गोमहिपी- प्रभु. गो-द्र.

गोर- (> गौर- पा.) पाग ५, ४,  
३८<sup>०</sup>.

गो-रथ- प्रभु. गो-द्र.

१गोर्मायुक्<sup>१</sup> - कस्व चाय ४०:  
१७.

गोल<sup>०</sup> - > गौलावन- गोलाइ- दि.  
द्र.

गोल-वन्- वय ५८<sup>१</sup>, २, ९, ४, ९.

गोलक<sup>१</sup> - कः वैष ३, ११, ४<sup>०</sup>, -का:

d) तु. पागम. ।

b) वैष १, १२११ ४ ४. ।

c) अयत्ये कृष्. उरु. (पा ४, १, ११) ।

d) = पर्वत-विशेष. । e) = [आयर्वण-] ऋषि-विशेष. । व्यु ? । f) = [तल्लोक-] प्राद्वणप्रभु-विशेष. । g) वैष १

द्र. । h) बहू. < गोपयन- । i) = सौधाप्र-हृदिस्- । व्यु. ? < √गुप् वा गो- + √वा [पाने] इति वा

अभा. । j) = ऋषि-विशेष. । व्यु. ? । k) व्यय. । व्यु. ! । l) = देश-विशेष. ? । व्यु. ? m) गोहित-, गोहिल-

इति पादा., गोफिल-, गोभिल- इति पागम. । व्यु. ! । n) = पुर-दार- । o) तु पागम. । णि<sup>०</sup> - इति भाट्टा.,

भिमिलिक- इति पादा. । p) < √गुम् (सथे [तु. MWA]) । q) बहू. < गोभिलेय- । r) गोमय- इति

पादा., गोमड इति पागम. । s) = मण्डलावार-, व्यय. च । व्यु. ? < √गुह [रत्नायाम्] इति अभा. प्रभु. ।

t) वया. । व्यु. ? । u) = (विषयाया) जारज- ।



शर्य ४, १९, ४<sup>०</sup>; काय ७०, ५<sup>०</sup>;  
कप्र ३, ९, १८<sup>०</sup>; -कानाम् गोय  
४, ४, १५.

गो-लक्षण- गो- द.

गोलक्षिक- का छत्रा ५, ३७.

गोल, लु<sup>०</sup>न्द- (> गोल, लु<sup>०</sup>न्ध-  
पा.) पाग ४, १, १०५.

गोलाङ्क- (> गौलाङ्कयन्- पा.)  
पाग ४, १, ११०<sup>१</sup>.

गोलाङ्कल- प्रय. गो- द.

गौगोपद् (> गोपदक- पा) माथी  
१, १, १, २४; वाथी १, २,  
१, १३; चाथ १:२; पाग ५, २,  
६२<sup>०</sup>.

गोव्द पाथा भ्वा. आत्म. सहाते.

गो-ष्टोम- प्रय., १गोष्ठी- गो- द.

२गोष्ठी- (> गोष्ठ- पा.) पाग ४,  
३, ११०.

गोपू-पद्- प्रय. गो- द.

गोह- (> गौह- पा.) पाग ४, २,  
७७.

गोहन्तृ- प्रय. गो- द.

गोहित- (> गौहितेय-), गौहिल-  
(> गौहिलेय-) गोविल-  
दि. द.

१गोह- √गुह द.

२गोह- (> गौह-), गोह- दि. द.

गौकक्षायणि-, गौकक्षी<sup>०</sup>-, गौकक्ष्य-,  
गौकक्ष्या-, गौकक्ष्यायणि-  
गौकक्ष- द.

गौकुक्ष्य- (> गौकुक्ष्यायणि-) गो-  
कक्ष- दि. द.

गौगुलव- गुगुलु- द.

गौड-> उचुर- पा ६, २, १००.

गौडिक-, गौडी- गुड- द.

गौण-, १, २गौणमुख्य-, गौणयुगिक-,  
३गौणिक- गुण- द.

२गौणिक- गोशी- द.

गौतम- प्रय. गोतम- द.

गौतमगौर- गोतमगौर- दि. द.

गौदन्तेय- गोदन्त- द.

गौदानिक- प्रय. १गौदान- द.

गौदेय- गुद- द.

गौघार- १गोघा- द.

गौघाशनिक- गोघाशन- द.

गौधूम- गोधूम- द.

गौधेय-, गोधिर- १गोधा- द.

गौधेय- गो- द.

गौधन- गोवन्- द.

गौपायन- ३गोप- द.

गौपालायन- २गोपाल- द.

गौपालिक-, गौपाल्य- गो- द.

गौपिक- गोपिक- द.

गौपिलेय- गोपिल- द.

गौपुच्छ-, गौपुच्छिक- गो- द.

गौपिन्, गौपिलिक्- गोपिन्, गौपि-  
लिक्- द.

गौफिलेय- गोफिल- द.

गौभिलेय- गोभिल- द.

गौमूल- गो- द.

गौमतायन- (> ञक<sup>०</sup>- पा.)  
पाग ४, २, ८०.

गौमायन- गो- द.

गौमि- (गौमि-शाला-) गामि- दि.

द.

१गौर- गोर- द.

२गौर, रा<sup>०</sup> पाठ २, २८; पाग ४,

१, ४१; ६, २, १९४;

-प<sup>०</sup>२<sup>०</sup> वैथी ३: १५, प्राथी

१, ३, ३; चाथी १, ३, १; -२:

आथी ७, ४, ४; वाथी; या ११,

३५; -२म् वीथी १०, ३४: ६१;

-२ः वनिम् ८: ९; -२ाय हिय

२, १६, ४१; -प<sup>०</sup>२ वीथी २, ५;

६; प्राय ४, २, ६; -२: अप ३६,

८, ३; १२, १.

गौरी<sup>०</sup> पा ४, १, ४१; -२ी

वीथी १२, १०: २६१; वाथु<sup>०</sup>वीथ

२०: ७; हिथी १७, ५, २६; वैथ ६,

१३: ३०; कप्र; या ११, ३५१;

-प<sup>०</sup>री: वीथी १२, १०: २६१;

आमिष्ट २, ५, १: २४१<sup>०</sup>; संघ

११६: २२४; ऋग ३, १, १६४;

या ११, ४०; -२ीम् वैथ ६, १२:

१; वृत् २, ८१; ४, ३६; -प<sup>०</sup>यम्

आपथी ६, २२, १; आमिष्ट १,

१, ४: ३२; ३४; हिय १, ८,

३.

गौर-खर- २म् वाप २१, २.

गौर-नय-दरभ- -भा: वाप १४,  
४३.

गौर-को १, गौगम- पाग २, २,  
३८.

गौर-वीव, वि<sup>०</sup> (> गौरवीवीव-  
पा.) पाग ४, ३, १३१.

गौर-पुंसु<sup>०</sup> -सु गोय ४, ७, ५.

a) = यथादिभय-विषयः । b) = पलाशइल- । c) वैष १ द. । d) तु. पाक. । e) व्यप. । व्यु. ? ।

f) गोलाङ्कय- इति पाका., गोल-, ऋङ्- इति १पक्षे। पागम. । g) रक्त्पम् ? वैष १, १२६३ ऋ; १२८१ ऋ

द. । h) प्पद- इति पाका. । i) तु. पाका. पागम. य. । गौष्ठी- इति भाष्य. प्रय. । j) गौहि-

२गोह- इति पाका. । k) अर्थ: व्यु. न ? < गौमत- इति पागम., < गो-न्त्- इति Pw. प्रय. । गोमतायन-

इति पाका. । l) = देश-विशेष- ? । m) < √गु इति । n) गौरावरकम्पिद्- इति Bw. ? ।

o) = कन्भावस्या-विशेष- । p) श्री इति पाठः ? यति. शोधः । q) व्यप. । वस. । r) विप. । यस. ।

गौर-भृग- -गः कप्र ३,८,११.  
 गौर-वर्ग- -गैः अप ७०<sup>१</sup>, २३, १.  
 गौर-सर्प- -पः विध ४, ४; -पाः  
 अप १, ३१, ४; ४३, १०; अशो  
 २२, १; -पाणाम् आपध २,  
 १९, १; द्विध २, ५, ७३; -पान्  
 पाण्ड ३, १०, २४; वीण्ड; -वैः  
 अप १, ४३, ६; विध २३, २२.  
 गौरसर्प-कल्क- -क्लेन वाध  
 ३, ५, ५; वीध १, ५, ३५; -क्लेः  
 वीण्ड ४, १, १.  
 गौरसर्प-कल्को(क-उ)द्विर्ति-  
 त-शरीर- -रः विध २०, ३.  
 गौरसर्प-दूर्वा-वीहि-यव- -वान्  
 वीण्ड ४, १, १.  
 गौरसर्प-मर्षि-पयस- -बोभिः  
 अप ३७, ८, १.  
 गौरा(र-आ)त्रेय- -याः वीधोत्र  
 २७ : ५.  
 ३गौर- -रः साध १, ४५९; -राः  
 वीधोत्र ३१ : ४; ४८ : ४; १३.  
 गौर-खर- प्रघ. २गौर-द्र.  
 गौरध- , गौरवित- गुरु-द्र.  
 गौरवीति- -तिः द्विधो १८, ४, १८<sup>१</sup>.  
 गौरवीत- -तम् द्विधो १५, ५,  
 ४०<sup>१</sup>, १६, २, १६६; -तेन द्विधो  
 १५, ५, १२<sup>१</sup>, १५<sup>१</sup>.  
 गौरव्य- -न्याः वीधोत्र ४५ : ६.  
 गौरपकथ- गौरिपकथ- द्वि. द्र.  
 गौराङ्गिरस- -सत्य लाधोद, ११, ३.  
 गौरात्रेय- २गौर-द्र.

गौराङ्गिभ- -भिः वीधोत्र ५ : २.  
 गौरिकि- -कयः वीधोत्र ३० : २.  
 गौरिप्रीवि- -वयः वीधोत्र २७ : ४.  
 गौरिमत्- (> गमती-पा.) पावा  
 ४, १, ७३.  
 गौरिवायण(, <न)- -याः वीधोत्र  
 १७, ५; ४१ : ९.  
 १गौरिवीत- गुरिवीत- द्र.  
 गौरिवी(त<sup>१</sup>, ति<sup>१</sup>) - -तिः आपधो  
 २३, ११, १४<sup>१</sup>; ऋध २, ५, २९;  
 १, १०८<sup>१</sup>; १०, ७३.  
 २गौरिवीत- -त आधो १२,  
 १२, ५; ६; आपधो २४, १०, ८;  
 वीधोत्र २३:५; -तम् आपधो  
 २१, १३, २२<sup>१</sup>; वीधो १४, २५;  
 २६<sup>१</sup>; वीधो ३, २, ५, ९; -तेन<sup>१</sup>  
 आपधो १४, १८, ६; १०<sup>१</sup>; १४<sup>१</sup>;  
 वैधो २१, ४ : १०<sup>१</sup>.  
 गौरिवीत-सामन्- -मा  
 वैधो २१, ९ : ४<sup>१</sup>.  
 गौरिवी(त<sup>१</sup>, ति-व्य<sup>१</sup>) आपधो २४,  
 १०, ८; वीधोत्र २३ : ५.  
 गौरिधवस- -माः वीधोत्र ४५ : २.  
 गौरिपकथ- पागवा ८, ३, ९८<sup>१</sup>.  
 गौरी- २गौर-द्र.  
 गौरीचिति- -तिः शुभ ३, १८६;  
 २२७, साध १, ३२०; ३३१;  
 ५७९; २, ३०२.  
 गौरिवित- -तः निम् ९, १ : १९;  
 -तम् लुम् २, १५:८xx; लाधो;  
 -तय लाधो १०, ३, १२; ८, ६;

निम् ९, १० : २२; -तानि निम्  
 १०, ८ : २५; -तेन काधो २५,  
 १२, ६; १३, ८; माधो ३, ७, १०<sup>१</sup>;  
 लुम् १, १० : ९; १६; निम् ९,  
 ९ : ६; अपाय ६, ६.  
 गौरीवित- -व्यः निम् २,  
 १२ : ३६.  
 गौरीवित-गृह- , -हृती द्राधो  
 ८, २, १८; लाधो ४, ६, १४.  
 गौरीवित-लोक- -कम् लुम्  
 ३, २ : २४.  
 गौरीवित-दवावाध- -वयोः  
 लाधो १०, ८, ९.  
 गौरीवित-स्वर्- -रः लुम् २,  
 १० : ४; ८; -राः लुम् २, १६ :  
 ४; ७; १०; ३, १ : १३.  
 गौरीविता(त-अ)पाय- -यात्  
 निम् ८, ११ : २७, ९, ५ : २२.  
 गौरीविबो(त-श्री)दल- -ले  
 लाधो ७, ९, १३.  
 गौरीपित- -पितः वीधोत्र ३० :  
 २.  
 गौरुण्डि- -ण्डिम् जैण्ड १, १४ : ९.  
 गौरुतल्पिक- गुरु-द्र.  
 गौरुग्लवि- -विम् जैण्ड १, १४ : ९.  
 गौरुद्वय- (> गौरुद्वया-) गोध-  
 द्वि. द्र.  
 गौरुल, लुज्य- गोल L, लुन्द-द्र.  
 गौरुद्वय-, व्यायति- गुरु-द्र.  
 गौरुद्वय- गौरुद्वय-द्र.  
 गौरुद्वय- गौरुद्वय-द्र.  
 गौरुद्वय- गौरुद्वय-द्र.

a) विप.। घस.। b) = ऋवि-विशेष-। व्यु. ?। c) = गौरिवीति- (वैप १ द्र.)। d) सप्र. गौरिवीतिः <> गौरिवीतिः इति पाभे.। e) = गौरिवीत- (वैप १ द्र.)। f) सप्र. गौरिवीतम् <> गौरिवीतसामा इति पाभे.। g) सप्र. गौरिवीतम् <> गौरिवीतम् इति पाभे.। h) सप्र. गौरिवीतेन <> गौरिवीतम् <> गौरिवीतेन इति पाभे.। i) सप्र. गौरिवीतेन <> गौरिवीतेन इति पाभे.। j) = साम-विशेष-। व्यु. ?। k) व्यु. ?। l) वीधो. पाठः। m) वैप १ द्र.। n) = साम-विशेष-। वैप १, १२६४ g द्र.। o) पाभे. पृ ५९३ i द्र.। p) = सुनि-विशेष-। व्यु. ? < गौरी-सकथ- (घस.) इति पाका. पागम.। q) 'पय' इति [पयो] पागम.। r) वैप १, १२६४ f द्र.। s) उप. = साम-। t) = आचार्य-विशेष-। व्यु. ?।

गौलोमन- गो- द्र.  
 गौलुलघ- गुलुलु- द.  
 गौवासन- (> गनिका-, की-) गो-  
 वासन- टि. द्र.  
 गौशुद्ध- गौशुद्ध- गो- द्र.  
 गौशुद्धयण- ग्ना- बौधाय ३: ५.  
 गौशुद्धी- (> गौशुद्ध-) २गौशुद्धी- टि. द्र.  
 गौहलन्ध- ग्वायनि- गुहलु- द.  
 गौहितय- गौहित- द्र.  
 गौहितलेय- गौहित- द्र.  
 गौगता- ग्ना- गौशुद्धी १. १५, ४; ८,  
 २१, १; आपशुद्धी १४, १२, ४;  
 काठशुद्धी १३०; बौधाय १०, ७;  
 १; माशुद्धी ५, २, १४, १०; वाशुद्धी;  
 अशुद्ध ८, ८६; १०२; बुद्धे ८, १२८;  
 निप १. ११; ३, २९; या ३,  
 २१४; १०, ४७४; १२, ४६;  
 भाषि: कृपा ८, ४४.  
 गौग्राव- ग्ना- वाशुद्धी ४, ८४: ८;  
 -गौ(शुद्ध)° आपशुद्धी ९, ८, १२;  
 आपशुद्धी ११, १९, ८; बौधाय ७,  
 ९: ११; २५, २१: १०; माशुद्धी  
 २, ३, ६, १७; हिथी ७, ८, ४२९.  
 गौग्रास-पति- ग्ना- ति: कृपा १३, ३०;  
 उरु ८, १९.  
 गम्नन्ति- ग्ना- द्र.  
 गम्ना- ग्ना- अप ४८, ७२; निप  
 १, १.  
 गम्नन्ति- ग्ना- पापा. ग्ना. आप्त.  
 बौधाय १, १९, ८; वाशुद्धी ७,  
 ११; २५, २१: १०; माशुद्धी  
 २, ३, ६, १७; हिथी ७, ८, ४२९.  
 गम्नाति- गौशुद्धी ६, ५: ८; बौधाय;

गम्नन्ति- वाशुद्धी ३, ४, ३, ४५;  
 गम्नन्ति- आपशुद्धी १, ४, १३;  
 बौधाय १, २: २०; माशुद्धी;  
 गम्नन्ति- आपशुद्धी ११, ८, ७.  
 गम्नन्ति- माशुद्धी १, ३, ५, १७;  
 वाशुद्धी १, ३, ७, १७; माशुद्धी १, ११,  
 २०.  
 गम्नन्ति- > गम्नि(गु) गौशुद्धी- गौ-  
 काशुद्ध ७, १२.  
 गम्नन्ति- ग्ना- अप २०, ७, १; -तम्  
 बौधाय ११, १०: ३; माशुद्धी २, १४,  
 २८; वैशुद्धी १, ८: ६; -ते वैशुद्धी १,  
 ६, ४.  
 गम्नन्ति- ग्ना- कृपा ३, ६, ७.  
 गम्नन्ति- ग्ना- अप ३१, १०, ५;  
 -तम् वा १, २०; -गम्नन्ति- वाशुद्धी  
 ३, ४, ४, १३; -गम्नन्ति- आपशुद्धी ३,  
 १७; बुद्धे ५, २३; भाषि १०७;  
 वा ४, ३, ८७; ११६; पाता ४,  
 ३, ८७; १०१; ११६; -गम्नन्ति-  
 बुद्धे २, १०; १२; या १, ९.  
 गम्नन्ति-परिणामाति- ग्ना- अप १,  
 ३२.  
 गम्नन्ति-सकथा- ग्ना- ग्ना- अप ३;  
 १.  
 गम्नन्ति-गम्नन्ति- ग्ना- ग्ना- पावा ६,  
 ३, ७८.  
 गम्नन्ति-गम्नन्ति-गम्नन्ति- ग्ना- ग्ना-  
 पा ६, ३, ७९.  
 गम्नन्ति-गम्नन्ति-गम्नन्ति- ग्ना- ग्ना-  
 कान् नाति १, ६, २२.

गम्नन्ति- पाठ ४, १४०; पाप ५, २,  
 ९७; -गम्नि: बौधाय ३, ५, २१;  
 हाप २, २, ३; ३, ८, ५१;  
 आपशुद्धी; -गम्नि: वाशुद्धी ३, २,  
 ५, २५; अप २३, ३, ५; -गम्नि-  
 काशुद्धी २, ७, ३; ८, ४, १९;  
 गौशुद्धी १, ४, १३; ४४; १०,  
 १०, ३६; १३, ७, १६; काठशुद्धी;  
 माशुद्धी १०, ६, १७; हिथी १०,  
 २, १२१; -गम्नि- वैशुद्धी १४, ६, १६;  
 ११: १; हिथी ७, ५, १८; ३३; ७,  
 २१; -गम्नि- आपशुद्धी ११, ६, ३;  
 १३, २४, १४; काठशुद्धी ९०;  
 बौधाय; -गम्नि: वाशुद्धी ८, ३, १९;  
 वैताशुद्धी ३२, २५.  
 गम्नन्ति-करण- ग्ना- आपशुद्धी ११,  
 ८, ६; बौधाय २१, ९: ११; -गम्नि-  
 बौधाय २०, ३: १; १०: १५.  
 गम्नन्ति-केद- ग्ना- अप ५०, ५,  
 २.  
 गम्नन्ति- ग्ना- ग्ना- आपशुद्धी ३,  
 १२, १: १५.  
 गम्नन्ति-भेदक- कानाम् विप ५,  
 १३६.  
 गम्नन्ति-ग- पा ५, २, ९७.  
 गम्नन्ति-संयु(क) ग्ना- ग्ना-  
 अप २६, ४, १.  
 गम्नन्ति-समन्वि(त) ग्ना- ग्ना-  
 अप २६, १, ४.  
 गम्नन्ति-ही(न) ग्ना- ग्ना- अप  
 २६, ४, २.  
 गम्नन्ति- ग्ना- द्र.

a) वेप १. द्र.। b) = एव-देव-। ग्ना- + (गम्नन्- > [गैर-]) \*व- (भाप. [पति-]) > यत्.  
 यनि.। पाप. मतवर्षयः वपु प्र. उरु.। c) पाठः? यनि. शोधः (हु. वैप १, १२६८ f, सन्नाथ- > स्वयं इत्यत्रापि  
 टि. द्र.; वैपु ८. ग्ना-वत्- > प्र ३ इति [वाशुद्धी.], टि. वा सं. वेति [आपशुद्धी.] च)। पाप ३, १, ३४ वा गो नेहाय इत्यस्य  
 स्थाने भाव- नेहाय इति शोधः। d) इमा इति पाठः? यनि. शोधः। e) = वृषि-। व्यु. ? < ग्ना-  
 इति दे.। f) भाप.। वपुर्धे कः प्र.। g) विर. (रज्जु-).। h) = स्तवक-। कर्मणि नरु प्र. उरु. (पाठ ५, ३)।  
 j) = गम्नि-। j) पामे. वैप १, १० x १० द्र.। k) = गम्नि-योग्युक्त। मत्वर्थे इति: प्र. (पा ५, २, ११६)।  
 वैप-प्र-३४

✓ग्रस् पाषा. भा. आतम. अदने,  
 बुरा. उम. ग्रहणे, अमने अण  
 ५०, ५, १; ६४, ८, ८; ६८, ३,  
 १०; १२; अमति अण १८, ३,  
 ७; ५३, ३, ५; ६७, ६, १;  
 अमन्ति वैष्ट ५, १ : १८; अमेत  
 वाध १२, १९; असेत् माशि १०,  
 ७; नाशि २, ६९.  
 असीत आपध २, १९, ५; दिध  
 २, ५, ७७.  
 अस्थन्ते वा ४, २७; ६, १९.  
 आसयेत् काश्री २५, १, १८;  
 आपथ्री ९, ५, ४; वैथ्री २०, १ :  
 ८; हिथ्री १५, २, ३.  
 अस्- > असिष्ठ- अ- या ६, ८९.  
 अस्त- अस्तः अण ६२, ३, ३.  
 असिन, ता- पा ७, २, ३४; -ताम्  
 आपथ्री १५, ८, १२९; वीथ्री.  
 अस्मिन्- > असिन्-तम- अ- या  
 ६, ८.  
 असिष्णु- ण्यु विध ९७, १९.  
 अस्त- अस्तः आ ३६, २४, १९;  
 -स्तम् अण ७२, १, २; ऋषा  
 १४, ८.  
 अस्त-दोष- अम् वीमि ११८,  
 १८७, नाशि २, १७; नाशि  
 २, ६, ९.  
 आस- अ- वीध ३, ८, २४; ऋषा  
 १४, १२; २२; -सम् आपध  
 २, १९, ५, वीध ४, ५, ८; विध  
 ८, १७; दिध २, ५, ७७, -साः  
 शोध ४५२; वाध, -सान् वाध  
 २३, ४५; शोध १५९ : ७; वीध,  
 -से आपध २, २८, १०; दिध २,  
 ६, १०.

आस-कर्म-कर्तृक- कर्त्तृ पावा  
 ८, २, ४४.  
 आम-प्रदान- -नेन विध २३, ६०.  
 आम-प्रमाण- अम् वीध २७,  
 ११.  
 आस-मात्र- अम् विध ५९,  
 १६.  
 आस (स-अ) वराध्व- -ध्वम्  
 आपध २१, ९; आपध २, १७,  
 १६.  
 आस-संसृष्ट- अम् सुध ६१.  
 आस(स-आ)च्छादन- नम् वाध  
 १९, ३३; -नैः वीध २, २, ३८.  
 आसा(स-आ)च्छादन-स्ताना  
 (न-अ)नुलेपन- नेषु वाध १७,  
 ६२.  
 आसा(स-अ)नुसन्त्रण- अम्  
 वीध २७, ९.  
 आसा(स-अ)वराध्व- -ध्वम्  
 वीधि २, ५, १८.  
 आसो(स उ)वचय-भोजिन्-  
 -जी वाध २३, ४५.  
 आसयित्वा आपथ्री ६, ३०, १४.  
 जमसान- नः सु १७, २; -नात्  
 ऋषा ४, ६६  
 ✓ग्रह ✓ष्ट द.  
 ग्रह- पा ३, १, १४३; ३, ५८; पाग  
 ४, २, ८०; ५, २, १००; ६, १,  
 २०३; -हः आथ्री ५, ५, २१;  
 शार्थ्री १, १४, ५४४; आपथ्री,  
 माथ्री २, १, ४, २९; -हम्  
 अथ्री २, १, ९९; ५, १७, ३; ८,  
 १३, १०; २०; शार्थ्री ८, ५, २४४;  
 काथ्री, आपथ्री १९, १४, २०;  
 -हयो आथ्री ५, ५, ६; वीथ्री

२१, २० : १; आ ६३, ३, ६५  
 -हस्य आपथ्री १२, २८, ३;  
 वीथ्री ७, ५ : ४६४४; हिथ्री;  
 -हाः शार्थ्री १३, ११, ७; आपथ्री  
 १२, १९, ५९; १८, १२, १६, वीथ्री  
 १०, ५७; ६४४; माथ्री; -०१हाः  
 शुभ १, ५५६; -हागाम् आथ्री  
 ३, ९, ३; शार्थ्री ७, ४, १५;  
 काथ्री; -हान् काथ्री २५, १२,  
 १२; वीथ्री १०, ५७; ६४४;  
 -हान् शार्थ्री १३, ११, २;  
 काथ्री ९, ७, ६४४; आपथ्री;  
 -हाम्याम् आथ्री १२, २१, ७;  
 -हाय आपम २, ७, २१; वैष्ट २.  
 १४, २९; दिष्ट १, १०, ४९; -हे  
 शार्थ्री ७, १५, १७; वीथ्री; -हेऽहे  
 वीथ्री २२, १८ : १३; २३, ५;  
 २०; -हेण आथ्री ५, १४, १;  
 १८, १; ६, ५, २३, आपथ्री १२,  
 २६, १६४४; काठथ्री; -हेम्यः  
 काथ्रीम ३३ : ९; माथ्री; -हेषु  
 शार्थ्री ७, १५, १५; १४, ५७,  
 १६; आपथ्री १४, १, ४४४;  
 वीथ्री; -हेः आपथ्री १४, २४,  
 ७४४; काथ्री; -हौ आपथ्री १२,  
 २२, ९; ८९; वीथ्री ७, १२  
 २१४४; माथ्री.  
 ग्रह-कस्त- शगिणि अण ४, ६, ४;  
 ६९, ७, ३.  
 ग्रह-काल- काल् हिथ्री १०, ८,  
 ४१; -के आपथ्री १३, १०, ११;  
 १८, २, १.  
 ग्रह-कल्पि- अ- आपथ्री २१,  
 १३, ६; २१, २; -सेः वीथ्री १६,  
 १० : १, १६ : ७.

a) = उच्चारणशेष-विशेष-। b) = कदल-। c) विघ्न-। द) तन्मात्रम् इति जीव-।  
 e) छान्द्रनो ह्यसः इति हरदत्तः। f) वैष १ द.। पात्र. < ✓ग्रह इति। g) तु. पागम-। h) पागे. वेन  
 ३, ११६५ इ.। i) प्रतिग्रहम् इति. ९. शेषः (तु. ZDMG 1907, ७४२)।

ग्रह-गण- -गान् अय ३१, ७, ५;  
 ७०, ९, ५.  
 ग्रहगण-लचित- -ताः अय ७०,  
 ११, २९.  
 ग्रहगण-मिह-भूमिकम्-  
 -याः, -म्यान् अय ५१, ५, ४.  
 ग्रह-गृहीत- -तम् वाधुधौ ४, २९: ४;  
 -साताम् आसित् २, ५, ३:  
 ४३; वीथी ३, ७, २७.  
 ग्रह-ग्रहण- -गम् काशी १३, २,  
 १४; -णात् आशौ ५, १२, ११;  
 ६, १०, १२.  
 ग्रहग्रहण-प्रतिगर-होम- -नेषु  
 काशी ३, ८, १८.  
 ग्रहग्रहणा( ग-आ)दि- दि  
 काशी २४, ३, ३९.  
 ग्रह-ग्रहा(ह-अ)न्त- -न्ते जैथौका  
 १०५.  
 ग्रह-ग्रामस- -नेषु वैथी २१, १४ :  
 ४; -सैः वाथी ३, १, २, ३८.  
 ग्रह-जात- -तः जैथु २, ९ : २१<sup>१०</sup>.  
 ग्रह-जात-क- -कम् अय ५१, १, ४<sup>७</sup>.  
 ग्रह-स्व- -यम् वाधुधौ ४, ८३ : ४.  
 ग्रह-दाक्षिण<sup>१</sup>- -णानि आसित् १, २,  
 १ : १०<sup>०</sup>.  
 ग्रह-देवता- -ताः जैथु २, ९ : १७.  
 ग्रह-देवत-पूजा- -जाम् अय १,  
 ४२, १.  
 ग्रह-नक्षत्र-ज- -जाः आज्यो १४,  
 ९.  
 ग्रह-नक्षत्र-तारो- -राणाम् अय ६४,  
 ९, ७.  
 ग्रह-नक्षत्र-पीडा- -डायाम् अय  
 २६, ५, ९.

ग्रह-नक्षत्र-माला- > लि(व् >  
 नी- नीम् अय ४, ३, ५.  
 ग्रह-नारायंस- -साः आपशौ १२,  
 २८, ९; १३, ८, ३; ६; १३,  
 १३; वैथी १५, ३६ : १७,  
 -सानाम् वैथी १५, ३६ : ९;  
 हिथी ८, ८, ३४; ३९; ९, २,  
 २७.  
 ग्रह-पात्र<sup>१</sup>- -त्रम् आशौ ५, ५, ७;  
 -त्रे वाथी ३, २, ५, ९.  
 ग्रह-पुत्र- -त्राः अय ५२, १, १.  
 ग्रह-पूजा- -जाम् वैथु ४, १४ : १७.  
 ग्रह-प्रभेदन- -ने काप २७६ : १.  
 ग्रह-मोक्ष- -क्षी यासि १, ४७.  
 ग्रह-न्याग- -गाः अय १८<sup>१</sup>, १९, ३.  
 ग्रह-मुद- -दम् अय ५१, २, ३.  
 ग्रहमुद-लम्बा- -न्त्रम् अय ५१,  
 १, २.  
 ग्रह-रूप- -रुपेण आसित् २, ५, १ :  
 ५६.  
 ग्रह-वृत् मीत् १०, ७, २.  
 ग्रह-वृत्- -व्वात् निम् २, १३ : १३.  
 ग्रह-वर्तम् आसित् ३, ४, १ : ३०.  
 ग्रह-वर्ण- -र्णानि आसित् २, ५, १ :  
 १२; जैथु २, ९ : ६.  
 ग्रह-वैषम्य- -म्यम् अय ७२, ३, ६.  
 ग्रह-वत्सप्र( ह-अ)भाव- -वात्  
 आशौ २, ४, ६.  
 ग्रह-शान्ति- -न्तिम् वैथु ४, १३: १.  
 ग्रह-क्षेप- -यम् वाथी ९, १४, १४;  
 वाथी ३, २, २, ३१; वैथी १५,  
 ३७ : ९; ३८ : १२.  
 ग्रहक्षेपान् वाथी ३, २, ९, २८.  
 ग्रह-लंछादन- -नम् अय ६१, १,

१९.  
 ग्रह-संपाद- -तम् हिथी ८, ८, ४८;  
 ५५; ६१.  
 ग्रह-सावन- -नम् काशी ९, ५, २३.  
 ग्रह-स्थ- -स्थान् वीथी २३,  
 ११ : ८.  
 ग्रह-स्थाली- -लीः काठश्री ११७.  
 ग्रह-स्थिति- -तिम् वैथु ३, १४ : ७.  
 ग्रहा( ह-आ)गम- -नम् अय ५८,  
 १, ११.  
 ग्रहा(ह-अ)म- -मम् गाथी २, ३,  
 ५, २; -म्राणि आपशौ १२, १४,  
 ४; माथी २, ३, ५, १; वाथी ३,  
 २, ३, ३३; -मै हिथी १५, ५,  
 ४०; -मैः वीथी २६, १५ : १.  
 ग्रहाम-तस(ः) वैथी २१, ९ : ४.  
 ग्रहा(ह-आ)तिथ्य- -थ्यम् जैथु २,  
 ९ : ३; अय ७०, २, ४.  
 ग्रहातिथ्य-बलिक्तमो( र्म-उ )  
 पदार्- -तात् आसित् २, ५,  
 १ : १.  
 ग्रहातिथ्य-विधि- -धी अय २४,  
 १, २.  
 ग्रहा( ह-आ)दाल-प्रवृत्ति- -तिः  
 माथी २, ४, ३, ४१; ५, १, ४५.  
 ग्रहा(ह-आ)धाम<sup>१</sup>- -नेषु वीथी  
 २३, ११ : १३.  
 ग्रहा( ह-अ)न्तर-उक्त्य<sup>१</sup>- -क्त्यः  
 आशौ ९, ६, २; -क्त्ये शाथी  
 ११, २, १४.  
 ग्रहा( ह-अ)न्तर्गत-स्तनित-  
 गम्भीरनिश्चल- -नेषु अय ६५,  
 १, ६.  
 ग्रहा(ह-अ)भाव- -ये मीत् १०,

a) विप. । संन. > वस. । b) परस्परं पामे । c) पाठः ? 'ताः इति शेषः । 'हाः, जागाः इति ०.  
 शेषः ! । d) कापविकिषेपयोः दस. (=ति १, ४, १-४२; ४३) । e) पामे. वृ १००० ६ ऋ. । f) वृ. = सोम- ।  
 g) पाठः ? प्रहान् इति शेषः । h) उस. उप. अधिकरथो हृत्. (तु. संवत्सर्वां) । i) विप. । तुस. > वस. ।  
 j) विप. । वस. > कप. > वृत्. > वस. ।

ब्रह्म(ह-आ)म्नान- नम् मीत् ३,  
६,३०; १०,४,२<sup>६</sup>.

ब्रह्म(ह-आ)यवन- > न-भूता-  
यतना(न-अ)म्नयायवन- नेषु  
आमिष्ट २,६,७: ३७.

ब्रह्म(ह-आ)य(त>)ता- ता वैष्ट  
४,१३: १.

ब्रह्म(ह-अ)यै- यैम् मीत् १२,१,  
२४.

ब्रह्म(ह-अ)यकार- नैः आधौ  
१३, २, ७; १४, १०, ६; वैथी  
१५, २१: १३×४; द्विथी ८,५,  
१५, ९,१,१७; ३,३४.

ब्रह्मि- पा ४, २, ८०<sup>६</sup>; ५, २,  
१००.

ब्रह्मे(ह-द)टका- का: वीथी १९,  
७: ५०.

ब्रह्मे(ह-द)टका- > क- कम्  
मीत् ५, ३, १५.

ब्रह्मे(ह-उ)न्य-नान्या-पृच्छ-द्विण्य-  
वर्णाय- नेषु तेषा ९, २०.

ब्रह्मे(ह-उ)च्छेपन- णस्य द्विथी  
१३, ६, २८.

ब्रह्मे(ह-उ)दय- यम् आमिष्ट २,  
७, ६: २८.

ब्रह्मेदय-निमित्त- कम् क्व  
६३, ५, ४.

ब्रह्मे(ह-उ)परधान- > न-दल-  
सोपस्थाना(न-अ)न्त- न्तम्  
वाथी १, १, ६, ६.

ब्रह्मे(ह-उ)परदृष्ट- दानाम् वैष्ट  
२, १: ३६.

ब्रह्मे(ह-उ)पदव- न्तम् अण ७२,  
१, २.

ब्रह्मे(ह-उ)कका(कका-अ)तनि-  
निर्वात- तैः आज्यो ११,  
१.

ब्रह्म- प्रष्ट. ✓यम्, ह द.  
✓आम्<sup>१</sup> पाषा. तुपा. पर. आमन्त्रणे,  
उम. संपाते.

ब्राम<sup>१</sup>- पाठ १, १४३; पाण ४, २, १५;  
-मः वीथी १८, २५: १५, २४,  
१४: ५; वैथी १: ८; निम् ३,  
३: १०; वीथ. पा ६, २, ६२;  
-मम् शीथी १५, १८, १: १९,  
१<sup>१</sup>: २०, १; आधौ १५, २०, ६;  
२०, २२, ९; २४, १७; वीथी ९,  
१९: ३१; २०: २६; माथी;  
आधौ २, १३, ११<sup>१</sup>; आमिष्ट २,  
१, ३: १८<sup>१</sup>; या ९, ३०<sup>१</sup>; नाशि  
१, ५, १७<sup>१</sup>, -मस्य माथी ११,  
२२, ११, माथी, पावा १, ४,  
२३; -मा: निम् ७, ७: ९; गोष्ट  
४, ८, १६; प्राय ४, ३, ४; अण  
५७, १, ४, अण १२, १; नाशि  
१, २, ४<sup>१</sup>, १<sup>१</sup>; -मात् आथी ८,  
१४, ३; वाथी २१, ३, १८;  
आधौ १२, १५, २<sup>१</sup>; वीथी;  
या ९, २९; -मात् लाथी ९,  
१, २१; द्विष्ट २, ३, ७<sup>१</sup>; कौत्;  
-मीय कौष्ट ३, ४, २; गोष्ट ३,  
५, २, अण ३२, १, १२; अण ६,  
४, -मीमे वाथी ५, ५, १०; २१,  
१, १८; आधौ, पा ६, २, ८४,  
-मेऽमे विष ५०, ३; -मेण

आधौ २१, २०, ३<sup>१</sup>; वीथी १८,  
२५: १५; द्विथी; -मेय-  
आध २, २६, ७; द्विष्ट २, ५,  
२०२; -मेषु वीथी १५, १६:  
७; द्विथी; -मी या ३, ९.

ग्राम-काम- मः आथी ९, ७, २८;  
वाथी ४, १५, २१; आधौ ८,  
२२, ५×४; वीथी; -मम् आधौ  
२२, ६, १०; माथी ५, १, ५,  
१६×४; द्विथी १३, ८, ४४; १७,  
४, २४; गो १, २६; -मस्य काथी  
२२, ५, ९; ८, ७; आधौ ६, १०,  
३; १५, १; वीथी; -मा: आष्ट  
४, १, २<sup>१</sup>; -माय वीथी १४,  
१७: १०<sup>१</sup>.

ग्रामकाम-तन्त्र- न्त्रेण माथी  
५, १, ५, ६.

ग्रामकाम-भूतिकाम- मयो:  
माथी ५, १, ५, ५.

ग्रामकाम-भूतिकाम-यशुकाम-  
मानाम् माथी ५, १, ५, ४.

ग्रामकाम(म-क)वायकामे(म-द)  
न्द्रियकाम-तेजस्काम- मानाम्  
आथी २, ३, २.

ग्राम-कुक्कुट- टम् विष ८, ९.  
ग्राम-कुक्कुटा- (> कुक्कुटवक-पा.)  
पाण ४, ३, १५<sup>१</sup>.

ग्राम-कुमार- (> एक- पा.),  
ग्रामकुल- (> लक- पा.),  
ग्राम-कुलाल- (> लक- पा.)  
पाण ५, १, १३३.

ग्राम-खण्ड- (> षड- पा.)  
पाण ५, १, १३३.

a) \*सम् इति वास. । b) पय. उय. = मन्त्र-विधेय- । वस. वा (तु. भाष्यकारः [द्विथी ८, ५, १५]) ।  
c) = देव-विधेय- । d) मलो. वस. । e) विष (वीपातुवाक्य- ) । द्वय. > मत्वेषु अच् प्र. । f) द्वय. । प्रह-  
= तै १, ४, १-४२ । g) रि. । वग. । h) विर. । द्वग. > वस. । i) ✓आम् इति [पक्षे] B.P.G. । j) वैष १  
द. । k) सव. ग्रामम् <> ग्रामान् इति पाठे । l) = सामन्त्र-वेद- । m) तु. पाणम. । n) 'रिका- इति  
पाणम. । o) \*डिका- इति पाणम. । p) तु. पाषा. । 'पण्ड- इति भाष्य. । q) 'ण्डिका- इति पाणम. ।

श्राम-भवा(व-ख)आ(घ-झ)दि-  
-दि श्रम ४, २२.  
श्राम-गो-दुह- वाय ६, २, ८१.  
श्राम-चतुष्-पय- -ये माण २, १४,  
२८.  
श्राम-च(घे>)वां- -याम् आश्री  
१२, ८, ३.  
श्राम-चारिद्- -दिगः वाच १४, ४८.  
श्राम-जनपद-समुप्य- -प्येभ्यः पावा  
४, ३, १२०.  
श्राम-जनपदा(व-झ)प्यात- -वान-  
राट्- -रेपु वा ६, २, १०३.  
श्राम-जनपदै(व-ए)कदेश- -सात्  
वा ४, ३, ७.  
श्राम-निवृ- -नित्तः आश्री २, १३,  
७१.  
श्रामट-> (टी- वा.) पाग ४, १,  
४१.  
श्राम-शी- -पाग ४, ३, १२०; पावा  
३, २, ६१; -णीः शाश्री २, ६, ५;  
काश्री १५, ७, १२; वीश्री १७,  
४९ : १; २३, १७ : ८; भाश्री  
१, १५, ११; भाश्री १, ६, १, ६;  
वाश्री १, २, २, ३८; ३, ३, ३,  
२२; वेश्री ३, १ : ६; हिश्री  
१, ४, ९; माण २, २३ : ७;  
१३; अण १२, ३११; पा ५, २,  
७८; -नप्यः काश्री ४, १, ३, १५,  
३, ८; आश्री ५, ११, ७; वीश्री  
२, १६ : ४७; १२, ५ : २६;  
भाश्री ५, ६, ७; हिश्री ३, ४,  
१०; तैपा ७, २; -प्ये वाश्री  
३, ३, २, २२.  
श्रामण- वा ४, ३, १२.

श्रामि(ि-कुल- -उम् पावा ३, १,  
३९.  
श्रामि(ि-पुत्रा(घ-झ)दि- -दिपु  
पावा ३, १, ७०.  
श्रामणी-सख- -यः शाश्री १४,  
२२, ३; वीश्री १८, ४ : १३.  
श्रामण्य- -वाय जैश्री ११ : ७.  
श्रामण्य(णी-अ)प्रविचार-वस(ः)  
अत्र ७०, ६, ७.  
श्राम-लक्ष- वा ५, ४, १५.  
श्राम-लस(ः) काश्री २१, ३, २६.  
श्राम-ला- वा ४, २, ४३.  
श्राम-देश- -शात् कौत् ८६, १४.  
श्राम-देश- -दायोः विष ५, ३२.  
श्राम-दोष- -पाणाम् विष ३, ११.  
श्राम-द्वा- -रे अण ७०, ६, ८.  
श्राम-धर्म- -मार्गः आण १, ७, १;  
-मंग वेत् ५, ६ : ३.  
श्राम-नगर- -नाणाम् वा ७, ३, १४.  
श्रामनगर-वृद्ध-> ष्ट-श्रेणि-  
विरोध- -ये शंघ ३०९.  
श्रामनगरवृद्ध-श्रे (णि', ङी)-  
प्रत्यय- -यः वाच १६, १५;  
शंघ ३०९.  
श्राम-पाप- -यम् वीश्री २४, १ :  
१४.  
श्राम-मण्ड- -श्रुताम् वाच २, २८.  
श्राम-विष्ट- -शानाम् काश्री २६,  
४, ७.  
श्राम-पुत्र-> (प्रक- वा.) वा ५,  
१, १३३.  
श्राम-प्रतिवेध- -ये पावा २, ४, ७.  
श्राम-सद्विष्कृत- -तः वैध १, ७, ३.  
श्राम-सप्य- -प्ये अण ३६, १६,

१; वीध ४, १, २१; -प्येन अण  
७०, ७, ५.  
श्राम-मयादा- -दाः हिपि २३ : ६;  
-दाम् वीश्री २९, १२ : १७;  
आश्रिण ३, १, १ : २०; वीधि  
२, ६, ८; १; हिपि २३ : २; ७;  
-दायाम् वीश्री २०, २३ : ५;  
आश्रिण ३, १, १ : १८; वीधि २,  
६, ७; हिपि २३ : १.  
श्राम-पाजन- -नम् वीध २, १, ४४.  
श्राम-याजिद्- -जिनः विष ८२,  
१३.  
श्राम-योनि- -निः वीश्री २०, १ :  
२२; २६, ४ : २१; १९ : १९.  
श्राम-याम- -यामः नाशि १, २, ७.  
श्राम-नचन- -नम् पाण १, ८, ११.  
श्राम-यथ- -यः अण ७०, ६, ८.  
श्राम-यत्- -यः कौत् १७, १०;  
-यत् कौत् ९४, १७; १२०, १३;  
१२६, १३; अण ११, १, १३ x x.  
श्राम-वासिन्- -सी अण ७०, ११,  
२६.  
श्राम-वमशाता(व-अ)स्वर- -रे  
काश्री २१, ४, २४.  
श्राम-वप- (> षडक-) श्राम-  
खण्ड- टि, द.  
श्राम संकर- -यम् शंघ १०२.  
श्राम-खण्ड- , शण्ड-> (षडक-  
> षडका- वा.) पाग ५, १,  
१३३.  
श्राम-खट्- -खट्टे माण १, १३, १०१.  
श्राम-समीप- -यम् काश्री २१, ३, ७.  
श्राम-सांपद- -दानाम् कौत् ५९,  
८; -दानि वीत् ११, ७.

a) द्रव. । पूष. दस. > पस. । b) वैप १ द. । c) = श्रामटिका- । d) तु. पाणम. ।  
e) = नगर-निसेप- । f) हस्यः (वा ६, ३, ६१) । g) = द्वाहाद-विरोध- । h) भावे दक् प्र. उलं (वा ५, १;  
१२७) । i) उप. = स्थल- । j) शंघ. पाठः । k) पूष. = लौकिक- [= प्रमन्त्रक-] । l) त्रिक- = त्रि  
पाणम. । m) विष. । वस. । n) पूष. = रर-भेद- ।

ग्राम-सीमा(मा-अ)न्त-न्ते वीथी  
 २९,९:१३; वीथ २,१०, १३;  
 ३, १, १३.  
 ग्राम-सूकर-रः काथ २७८: ८.  
 ग्राम-सुव-न्वः अथ ३६,३०,१.  
 ग्रामा(म-अ)मि-मिना काथी २५,  
 ४,३०; वीथी २२,२: १९; पाण्ड  
 ३,१०,१२; -मिम् काथी ४,८,  
 १०; -मिः वीथी २०, १०:  
 १०x; -मि वीथी २१, ३:  
 ३०.  
 ग्रामा(म-अ)दि-दीनाम् कि ३८:  
 -दी वैथ ३,१४,७.  
 ग्रामा(म-अ)ध्वक्ष-क्षः विथ ३,  
 ११.  
 ग्रामा (म-अ) ध्वयना (न-अ) मन्त-  
 र्हित-नानि शोण ६, १, ८.  
 ग्रामा(म-अ)न्त-न्ते वीथी २९,  
 ९: १३, पाण्ड २,११, ६; वैथ.  
 ग्रामा(म-अ)न्त-रम् पाण्ड २,७,  
 ५, गोण्ड ३,५,३२; जैण्ड १,१९:  
 ३५.  
 ग्रामा(म-अ)भिमुख-खेल आमिण्ड  
 ३,४,१: ११.  
 १ ग्रामा(म-अ)रण्य-ण्ये कौण्ड ३,  
 १,२१; शोण्ड ४,७,२३.  
 २ ग्रामा(म-अ)रण्य-ण्ययोः आपथ  
 १,११,९, हिण्ड १,३,६६.  
 ग्रामा(म-अ)गल-नम् वैथ २,४,५.  
 ग्रामिक- > ग्रामिक्य-पा. पाण्ड  
 ५,१,१२४.  
 ग्रामिन्-मिणाम् माथी ५,२,१,  
 ११; -मि वीथी १४, १०:

१३१; अथ ३६,१६,२; तैप्रा ४,  
 ५३१.  
 ग्रामीण- पा ४, २, ९४; -णेभ्यः  
 कौण्ड ११,९.  
 ग्रामीण-घात-न्तम् अथ ७०,  
 ६,७.  
 ग्रामेभ्य-व्यः लुण्ड ३,१०: १५;  
 -व्यम् द्राथी ७, ४,१६; लाथी  
 ३,४,१५; गोपि १,३,१५.  
 ग्रामेभ्य-दयेन-न्तः लाथी ७,  
 ४,१.  
 ग्रामे(मे-अ)नुवाक्य-क्यस्य  
 आपथी १७,१७,११; हिथी १२,  
 ५,३२; ३३; -क्येन हिथी १२,  
 ५,३५.  
 ग्रामेयक- पा ४,२,९५.  
 ग्रामो(म-उ)घाल-न्तम् आण्यो  
 २,२.  
 ३ ग्राम्य,ग्या- पा ४, २, ९४;  
 -ग्य वैथी १९, ६: १०-९;  
 कौण्ड १३३, १; वाथ ६, २७;  
 -ग्यम् जैण्ड २,४: ११; -ग्यस्य  
 आपथी १५, २१, ८; वीथी;  
 -ग्याः आपथी २,२,१७, आपथी  
 ६, ५,७x; वीथी; -ग्याणाम्  
 वीथी १५,२६: १३x, वैथी;  
 -ग्याणि वाथी २, २, ४, ९;  
 -ग्यात् आपथी ४, ३, ६१;  
 -ग्यान् वीथी १५, १६: ८;  
 भाथी ४, ५, ४१; वाथी; -ग्ये  
 हिथी १२, ५, ३२; कौण्ड २७,  
 ३२; ९३, ४०; -ग्येण आपथी  
 ३, १३, ७; लाथी, -ग्येन

हिपि १: २०; -ग्येभ्यः वाधुथी  
 ४, १०-४: ३; ११; -ग्यैः  
 आण्ड ३,९,१; काण्ड ४१,२३.  
 ग्राम्य-कुक्कुट-सूवर-रयोः  
 गोथ २३, ६; -री गोथ १७,  
 २७.  
 ग्राम्य-घट्ट-पाण्ड २,१,५३.  
 ग्राम्य-पशु-द्वानाम् वाथ १०,  
 १६.  
 ग्राम्यपशु-घातिन्-वी विथ  
 ५,५०.  
 ग्राम्यपशु-मीढा-कर-नाः  
 विथ ५, ७६.  
 ग्राम्यपशु-संघ-खेणु पा १,  
 २,७३.  
 १ ग्राम्यमङ्गीरदादाकी-आपथी  
 २१, २०, ३; वीथी १६, २३:  
 ७१; हिथी १६, ६, ४१.  
 १ ग्राम्यमभिरस्ताकसे-वाथी ३,  
 २,५,४३.  
 ग्राम्य-व्यदिन्-दिनः माथी ५,  
 १,८, १२; -दी आपथी १९,  
 २०, ७; वीथी १३, २१: ९;  
 माथी ५,१,८, ११.  
 ग्राम्या(म्य-अ)भोजन-न्तम्  
 काथी २२,१,३०.  
 ग्राम्या(म्य-आ)रण्य-ण्यान्  
 थाथी ११, २, १८; -ण्यानाम्  
 हिथी १३, २, २१; आपथ २,  
 १६,२८; विथ ३९,१.  
 ग्राम्यारण्यो(ण्य-को)पथि-  
 वीज-जाति वैथी १, ११:  
 १५.

a) =द्वी.। b) पू. = लौकिक.। c) विप. (अहन्).। सप्त. > तुप्त.। d) पस.। e) तु. पाण्ड.।  
 f) विप. (खेन-। गाम-विशेष-।)। g) विप. > नाप. (सामन्-).। h) = मन्त्राण-विशेष-। i) ष्ये इति पाठः इ  
 यनि. शोषः। j) वैप १ द.। k) अथग्रहः? ग्राम्यमङ्गीर-दा [द्वम.] इति C.। ग्राम्य-मङ्गीर-दा (कय-  
 > द्वस) इति संभाव्येत। लपा. श्वापं मङ्गी (यद.) इति पाठे.। l) ग्राम्यं मं इति पाठः इ यनि. शोषः  
 (तु. C. आपथी.)। m) पाठः? शोषः (द्व. k टि.)। n) शोषः वैप १, २१७० d ट.।



शाम्या(म्य-अ)लंकरण- -शाम्य  
 वैष् ५, २: २.  
 २शाम्य- पाग ४, १, १५४.  
 शाम्यायग- -गा: वीथीप्र ५: १.  
 शाम्यायगि- पा ४, १, १५४.  
 शाम्यन्- पाउमो २, १, २७८; -नेणि  
 काथीमेरे: १३; -वमि: आपथी  
 १२, १२, ३; वीथी; -नैवम्य:  
 वीथी २, ११: ८; वैथी १३, १३:  
 १०; वा ५, १; -वायाम् अप  
 १३, १, ७; -वमु आपथी १२,  
 ३, १३; काठथी १४६; वीथी;  
 -नैवा काथी २, ४, ४; आपथी  
 १२, १, २४४; वीथी; -वाण:  
 आपथी ५, १२, २१; २४; वीथी  
 ४, १४, २६; आपथी; वा ९,  
 ८५; -०वाग: आपथी ५, १२,  
 १०; काथी २३, ३, १५; आपथी;  
 -वाणम् आपथी ५, २, ३; आपथी  
 १२, १, १४४; वीथी; -नैवाया  
 आपथी ४, ६, ३; १५, २; वीथी  
 ६, ६, ६; नम २, ३, ३६; -वाकी  
 वैथी ११, १: ६; नैवै ६१,  
 १८; ११; नम ११, १५; -नम:  
 आपथी ५, १२, ७; वीथी ८,  
 ५, २४४४; आपथी; -नैवा  
 आपथी १३, २०, ८; वीथी ६,  
 २८; ४५४४; वीथी; -न्याम्  
 वीथी ७, ५: ५; हिथी ८, १,  
 ४०; वृदे ७, ११६; ८, ७४;  
 -निग वीथी १३, १२, ३;  
 लुम् १, ११: २७; अणाय ६, ३.  
 शाम्यी- -वणी नम २, ७,

१०४; वृदे ६, २०.  
 शाम-पोष- यम् वीथी ७, १५, २.  
 शाम-द्वोगच्छत-नोमपाय- -न्यागि  
 वीथी ८, ७, ५; ८.  
 शाम-मुल- -साम्य: वीथी ७, ६:  
 १७; ८, १: २१.  
 शाम-न्यायम्- -न्यागि काठथी  
 १०५; माथी २, २, ४, २६; २९.  
 शाम-स्तुम्- पा३, २, १७७; -स्तुम्  
 आपथी ४, १, ६, ५, १२, १; वीथी  
 ७, १५, २; १३, १४, १; २४,  
 १०; आपथी २३, १०, १२; वीथी  
 २, ३: ११४४; माथी; -०स्तुम्  
 वैथी १६, १: २५; -स्तुत:  
 वीथी २, ४, २०; १२, १, ११;  
 वीथी १०, १३, ५; वीथी ८,  
 ६: ११; १६, २: ५; वीथी ३,  
 ३, ४, २०; मीव ३, ५, २८;  
 -स्तुम् आपथी १०, १, १५;  
 वीथी ७, १: ४; ८, १: ३५;  
 ११, ६: ५; १६, १: १५; वैथी  
 १६, १: १; हिथी १६, १, ३६;  
 -स्तुने काथी १०, १, २; आपथी  
 १३, १, ५; १८, २१, ७; काठथी  
 १४६; वीथी ८, १: ९; माथी  
 २, ४, ४, २; वैथी १६, १: ७;  
 हिथी ९, १, ६; ३, २८; १३, ७,  
 १५; माथी ९, ६, १.  
 शाम-स्तुगि- -नि. वा ७ ७.  
 शाम-नोत्रि, श्री( य > ) वा-  
 -वा: माथी २, ४, ४, ३;  
 आपथी १३, १, ६; वैथी १६,  
 १: ८.

शाम्य-हस्त- -स्तास: वा ८, २५.  
 शाम्यन्- > शाम्यो-वायम्- -वयम्  
 वीथी ६, ३०: २८; २५, १४:  
 ११; १५: १४४; -वयम् वीथी  
 २१, २४: २१; -न्यागि वीथी  
 २५, १२: ३; ४; -वयन वीथी  
 २१, २४: १९.  
 शाम्याणकी वैष् ५, ४: २९.  
 शाम- , शामयित्वा- ✓मम् द.  
 शाम- , शामक- प्रम्. ✓एम्, ह्. द.  
 श्री(व>)वा- पाउ १, १५४; -वा  
 वैथी १, १: १८; १३, १७: ५;  
 अय २२, ४, ५; विष ९६, ७०;  
 वा २, २८५; -नैवा: काथी  
 ४, २, १२; ७, १, ९; आपथी १०,  
 २६, १४; वीथी, -वाणम् आपथी  
 १५, १५, १; माथी ११, १५, ८;  
 हिथी २४, ६, १२; -वाण्य:  
 आपथी १, १७, २५; वा ३, ३, ५७;  
 -वाम् आपथी ९, ११, २३;  
 वीथी; -वायाम् वीथी ४,  
 १५, १२; वीथी २०, १७: १५;  
 वैथी; वा २, २८५; -वाणु  
 आपथी ७, १७, ६; २०, १३,  
 १३; १३, ४, १२; वीथी.  
 श्र- वा ४, ३, ५७; -वम्  
 वीथी १८, ३, १.  
 श्रैव- वा ४, १, ५७.  
 श्रैवन्- वा ४, २, ९६.  
 श्रै(व>)व्या- -स्या: अप  
 ७, ७५५.  
 श्रै-नि(ल>)वा- -वा: सु २५,  
 ६.

a) वयम्. । व्यु. १ । b) वैष् १ द. । c) विष्. (कम्) । माड्यदेवनिडगि प्रकृतिभावऽभावः  
 उमं. (वा ६, ४, ११७ [उ. पदुगुकिवाग]) । d) इग. उप. = वाहवा- (तु. १००. [माउ ३, १, ३, १०]) ।  
 वैष् १, १२६० d टि. परिहर्नव्यम् । e) = श्रैवन्-विशेष- । f) वय. । उप. = कम्- । 'शि' इति माथी. ।  
 g) = माय- । व्यु. १ । h) रवहम् ? = मावाणी । व्यु. १ । i) = धननी- (तु. पाहा.) । j) वामे. वैष् १,  
 १२६० h द. । k) = चरन्-कार-विशेष- ।

श्रीव-वृत्- -प्रम् बौधो १७, २०: ३; २२, ४: १०; आसिष्ट ३, ८, १: २६; बौधि १, १५: ८; -हे बौधो १०, ४८: १५; २०, १७: २.  
 श्रीवा-भक्त (: ) बौधो २०, ७: ११; माधो १, २, २, ५.  
 श्रीवा-व्याघ्र- -आ: वा १४, ६.  
 २श्रीवा<sup>०</sup> - (> वैवायव- पा.) पाग ४, १, ११०.  
 श्रीवात्त<sup>०</sup> - (> वैवायव- पा.) पाग ४, १, ११२.  
 १श्रीवा<sup>०</sup> - पाठ १, १४६; पाग ४, १, ८६; २, ६३६; पायवा ४, १, ८६; -आ: काधो ४, ७, ६; आपधो; वा ४, २७५; ७, १०; -नैवम् बौधो ३, १८: ८; माधो १, ४, १, २७; वाधो १, १, ३, १; -आस्य बौधो ११, १: १३२; माधो; -नैवम् आधो २०, १४, ५; २०, ६, दिधो १४, ४, ४६; -आ: वाधो २, १, २; १६, ९, २८; काधो.  
 प्रैवम्<sup>०</sup> - पा ४, १, ८६; -आ: काधो ४, १२, १; -आ: आपधो २०, २३, ११; बौधो १५, ३८: १२१; वाधो ४, २९: ७; -नैवम् वाधो २, २७, १; -नैवो वैधो १२, २: १०; अय १५, ४.  
 प्रैव्मी- पावा ४, १, ८६; -नैवो माधि ३३.  
 प्रैवक- पा ४, १, ४६; ४६

प्रैविक- पा ४, २, ६३; -आनि, -कै: बौध २, १०, ३.  
 श्रीव-अतिवृ- -यदि अय १८, १३, १.  
 श्रीव-वर्षा-शरद्- -रस्तु आधो २, १, १३.  
 श्रीव-वसन्त- पाग २, २, ११.  
 श्रीव-हेमन्त- -नवो वृदे १, १३१.  
 श्रीव्मा (ध-आ)दि- -दौ बौध २, १०, ३.  
 श्रीव्मा (ध-अ)त्- -नवे वा ६, २६.  
 २श्रीवम्<sup>०</sup> - (> वैवायव- पा.) पाग ४, १, ११०.  
 √श्रुच् पाधा. भ्वा. पर. स्तेयकरणे.  
 श्रु-मुष्टि<sup>०</sup> - -दि: भाशि २२; -दिम् बौधो १, १२: २; १६: ९; १०, ५०: ५; १२; २४.  
 श्रुच- १श्रीवा- द.  
 श्रुवाह- श्रीवाह- द.  
 श्रुवायण- २ श्रीवा- द.  
 श्रुवेय- प्रच. १श्रीवा- द.  
 √श्लस् पाधा. भ्वा. आत्म. अदने.  
 √श्लद् पाधा. भ्वा. आत्म. प्रहणे.  
 √श्लह ( 'देवने ') > श्लह- पा ३, १, ७०.  
 श्लवा<sup>०</sup> - -व: बौधो १७, १८: २; बौध ३, १०, ६.  
 √श्लुच् पाधा. भ्वा. पर. स्तेयकरणे.  
 √श्लुक् पाधा. भ्वा. पर. गतो.  
 √श्लप् पाधा. भ्वा. आत्म. दैव्ये.  
 √श्लेष् पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.  
 √श्लेष पाधा. भ्वा. आत्म. अन्विच्छायाम्.

√श्ले<sup>०</sup> > पाधा. भ्वा. पर. हर्ष- दये, श्लायते अय ६८, १, १२; श्लायति पाठ १, १६, २५; श्लायेत प्राधो ४, ४, १६; ५, ४, १६; लाधो २, ४, ९; ८, १६; श्लायेरत् शिष्ट ६, ३, ८.  
 श्लान-> श्वा(न-आ)व(दि-अ)र्ष- -र्षे पावा २, २, १८.  
 श्लानि- पाठ ४, ५१; पावा ३, ३, १५; -नि: अय ५५, ४, २.  
 श्लायत्- -यत् काधो ६, १०, ४; -यत्त: मा १, २०.  
 श्लान्तु- पा ३, २, १३९.  
 श्लौ<sup>०</sup> - पाठ २, ६४; श्लौ: बौधो २, ५: १९; कौस् ३१, २०.  
 श्रिवा<sup>०</sup> - वाधो २, १, १, ३५.

घ

घ<sup>०</sup> > पा आधो २, १, १४; ३, ७, १४; १६, २; वाधो; या ४, २०: १; पाग १, ४, ५७.  
 √घंपृ.त् पाधा. भ्वा. आत्म. कानिकरणे.  
 √घम् पाधा. भ्वा. पर. हसने.  
 √घट् पाधा. भ्वा. आत्म. चिदायाम्, सुरा. उभ. संपाति, आयाम्.  
 १घट<sup>०</sup> - पाग ५, २, ११७; ४, २१: ६, २, ८५; -ट: अय ३, १, १; -टम् वंश ५, ५: ८; अय ७०, २; विध २२, ५७; -टम् आपधो १२, २, ११; वैधो १५, ३: ७, ६: २; काठ ५७, २; -टे जंश २, ५: १५; अय १८, २.

a) वेप १ द.। b) ध्व.। म्यु. ?। c) 'वा-अ' > वस. इति आश.। d) = प्रत्य-विशेष-। e) वि. (अनु-), मान- (पु-), प्र-। f) ट. पागम.। g) पा ३, १, ५८ परामृष्ट: द.। h) = मर्ष-विशेष-। म्यु. ?। i) √श्लेष् इति [पयो] पाति.। j) पा ३, ४, ६५ परामृष्ट: द.। k) = नन्द- गणद्वय्याधि-। म्यु. ?। l) पाठ: ?। बसाम् इति संस्कृतं टि. (शु. माधो ६, १, २, १)। m) दिवा-शानिदोम्य-नादपरुषेयु इति पागम.। n) शु. प्र.। o) = इम्म-। वेप ३ द.। p) अट- इति [पयो] भाष्या. प्र-।

१५, १; -टेन वीपि २, ७, ५<sup>०</sup>;  
 -येपु जैपु २, ९ : २०; -टै वैश्री  
 २५, ७ : १.  
 घटी- पा ४, १, ४१.  
 घटि-घम-, घटि-घय-  
 पावा ३, २, २९.  
 घटी-ग्रह- पावा ३, २, ९.  
 घट-क- पा ५, ४, २९<sup>०</sup>.  
 घट-ग्रह- पावा ३, २, ९.  
 घट-वत्- पा ५, २, ११७.  
 घट-शाखा(व-आ)दि- वीनि  
 वैपु ५, २ : ८.  
 घटा (ट-आ) तिक्त-हुम-ज-  
 -जे विध ७०, १२.  
 घटिक-, घटिन्-, घटिल- पा  
 ५, २, ११७.  
 घटो(ट-उ)दक- -कम् अप ३७,  
 १८, १.  
 २घट- -टः पा ५, २, ३५.  
 घटा- पाग ५, २, १२७; पागवा  
 ५, २, १७<sup>०</sup>.  
 ३घट- पा ५, २, १२७.  
 घटा-ल- पा ५, २, १७.  
 घटि, डी<sup>०</sup>- पाठ ४, ११८.  
 घटिका<sup>०</sup>- -काः काण्ड ४४ : ८;  
 आश्रयो ५, १४.  
 घटप्रत्ययपण<sup>०</sup>- -गत्य नाप्र ३० : ४.  
 ✓घट्ट पाषा. भ्वा. आत्म., सुरा. पर.  
 चलने, घट्टपति काश्री १७, ५,  
 २.  
 घटना- पावा ३, १, १०५.  
 ✓घण् ✓घण् टि. द.

✓घषट पाषा. सुरा. उभ. भाषायाप्.  
 घ(षट्)ण्टा<sup>०</sup>- पाठमो २, २, १९६.  
 घाण्टिक<sup>०</sup>- -कः शेष २०१; विघ  
 ४५, २५.  
 घण्टा-निर्द्वाद-वत् आशि ८, १२.  
 घण्टा-पताका- > ०कि(न्- > )  
 नी- नी अप २०, २, ५.  
 घण्टा-पताका-खन्- -खनः अप  
 २०, १, ३.  
 घण्टा(एटा-आ)भरण-मूषित- -तम्  
 अप ६८, ५, ३०.  
 घण्टा(एटा-अ)वसान->सा-  
 विक<sup>०</sup>- -के वैपु ५, १ : १३.  
 घतन- पाठना ५, ५०.  
 १घन, ना<sup>०</sup>- -नः अप ७०<sup>०</sup>, २, ५; या  
 २, १; २, २३; १४, ६; -नम्  
 वैश्री ११, ७ : ४; ६; ९; ८ : ९;  
 विघ १, २६; -ना शैशि ३२०<sup>०</sup>;  
 -नाः कप्र ३, ९, १०; अप ६१,  
 १, ६; ६५, २, ३; -नामाम् वाप  
 १४, २६; -नायाः वीपि १, ६,  
 १६; -नैः कप्र २, ८, ४; अप  
 ६४, १, ८; ६८, १, ४६; काशु ७,  
 १८.  
 घन-निचय- -यम् अप ६५, १, ९.  
 घन-यचक<sup>०</sup>- -न्याः शैशि ६४.  
 घना(न-अ)नुवा (त>)ता- -ता  
 अप ७०<sup>०</sup>, ११, ८.  
 घना(न-अ)रिप(क>)का<sup>०</sup>- -का  
 विघ २६, ७५.  
 २घन<sup>०</sup>- -नः अप ५२, ५, ३.  
 घनघन<sup>०</sup>- -नाय अप ३६, ९, १८<sup>०</sup>.

घनाघन- ✓ह्र. द.  
 घर्घर- पाठमो २, ३, ३५.  
 १, २, घर्म-, घर्म- ✓घृ. द.  
 घर्ष-, घर्षण- ✓घृ. द.  
 ✓घष् पाषा. भ्वा. पर. कान्तिकरणे.  
 ✓घस्<sup>०</sup> पाषा. भ्वा. पर. अन्ते,  
 षसत् माश्री ३, ४, १५; ८,  
 ८; माश्री ५, २, ९, ६; या १२,  
 ९; घसत् माश्री ५, २, ९; ६;  
 घस्तु शाश्री ६, १, ५; घस्ताम्  
 माश्री ५, २, ९, ६; घस्तु शाश्री  
 ६, १, ५.  
 जयिष निष् १, २ : ५.  
 जघुः शाश्री १४, ७, १; शाश्री ७,  
 ३, २०; वृदे ६, ५८; अघसत्  
 शाश्री ६, १, ५; माश्री ५, २, ९, ६;  
 अघत् आश्री ३, ४, १५<sup>०</sup>; शाश्री  
 ६, १, ५; अघस्ताम् माश्री ५,  
 २, ९, ६; अघसत् शाश्री ६, १, ५;  
 माश्री ५, २, ९, ६; षसत् शाश्री  
 ३, १७, १; ६, १ ५६; काश्री ५,  
 ९, १६; १९, ३, २१; आपश्री  
 १, १०, १४; ८, १६, ९; वीश्री.  
 षघति<sup>०</sup>- -सिः वीश्री २, ५ : २;  
 -सिना काश्री २, २, १८; आपश्री  
 ३, २०, ११५; माश्री ३, १८, ११७;  
 वैश्री ७, १ : ७<sup>०</sup>; दिश्री २, ८,  
 ३१.  
 घस्तर- पा ३, २, १९०.  
 घस- पाठमो २, ३, २१.  
 घास<sup>०</sup>- पा २, ४, ३८, -साः कौषु  
 २१, ११<sup>०</sup>; -सत् आपश्री १२,

a) ष्टम् इति ङ. । b) ड. पाठम. । c) कर्तार ह्र. । d) षघाश- इति पाठम. । e) वैप ३,  
 २८६ ङ. द. । f) = ष्टपि-विशेष- । व्यु. ? । g) = वाच-विशेष- । व्यु. ? । h) विघ. । तेन जीवनीत्यर्थे प्र. ।  
 i) विघ. > नाप. (काल-) । मत्स्यविधिं उद्. प्र. । j) विघ., नाप. (या., वैश्री., अप. प्रथ.) । व्यु. ? ।  
 k) विघ. । वस. । l) = ष्टह-विशेष- । व्यु. ? । m) = द्वाणाम् अन्त्यतम- । व्यु. ? । n) = च्छुर इति BFG.,  
 [पक्ष] भाष्य. । o) या २, ५ पा २, ४, ३७; ६, ४, ९८; १००; ८, ३, ६० पा २, ४, ३७; ७, २, ६३ परावृष्टः द. ।  
 p) वैप १ द. । q) षी<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शेषः ।  
 वैप-प्र-३५

१२, १११; वीथी २२, ८: ४;  
 वाथी १,७,२,२०; माथ १,२३,  
 १६; वाथु ७,१५.  
 घासदान- नम् निस् २,४:१७.  
 घासे-अत्र- -आगम् शुभा ४,  
 ८५१.  
 घासे(स-उ)क- -क्ता: वीथी  
 २१,२: २७.  
 घाति- पाठ ४,१२०; -सि: अथ  
 ४८,८८१.  
 जक्षिवस्- पा ७, २, ६७; -वास:  
 या १२,४२; तैमा १६,१३१.  
 जग्घ,ग्घा- -ग्घ: आपमं २, १६,  
 १५१; १६१; १७१; हिय २,  
 १६, ५१; -ग्घम् या ४, ७;  
 माशि १५,५; नासि २,८,११;  
 -ग्घ्या आपमं २, १६,१५;१७;  
 हिय २, १६, ५.  
 जग्घ-याप्पन्- -प्पा अत्र ९,  
 ६(२)१.  
 जग्घ-सारङ्ग- पाग २, २,३७.  
 जग्घि- -ग्घिम् विष ६७,४०.  
 जग्घ्या (ग्घि-आ) दि- -दिपु  
 पात्रा १,१,५७; २,४,३५.  
 जाक्का वीथी १३,९:५;४३:१;माथी.  
 शघाट- १घाटा- द्र.  
 २घाट- २घाटा- द्र.  
 घाटकर्बोरी- -री: शोथी १७,३,१२.  
 घाटरी- -री शोथी १७, ३, १६;  
 -री: शोथी १७,३,१५.  
 शघाटा- (> १घाट-) घटा- टि. द.  
 २घाटा- (> २घाट- पा.) पाग ५.

२,१२७.  
 घाण्टिक- घण्टा- द्र.  
 घात-, घातक- ✓ह्व द.  
 घातकि- (> शक्य-पा.) पाग ४,  
 १,१५१.  
 श,२घातन-, घातयित्वा-, घाति-,  
 घातित-, घातुक-, घातिन्-  
 ✓ह्व द.  
 घातैय- पाग ४, १, १७१, ५, ३,  
 ११७.  
 घातैयी- पा ४,१,१७६.  
 घास- प्रथ. ✓पम् द.  
 घासकुन्द- (> प्दि- पा.) पाग  
 ४,२,८०.  
 ✓घिष्णु पाया. भ्वा. आत्म. प्रह्ये.  
 ✓घु पाया. भ्वा. आत्म. धन्दे.  
 घुँ शुभा ८,२४; यासि २,१४.  
 ✓घुष् ✓पम् टि. द.  
 ✓घुद् भ्वा. आत्म. परिवर्तने, तुदा.  
 पर. प्रतिघाते.  
 ✓घुण् भ्वा. आत्म., तुदा. पर., भ्रमणे.  
 घुण- -ण: जैय १,३: २.  
 घुण्ड- पाठ १,११५.  
 ✓घुष्णु पाया. भ्वा. आत्म. प्रह्ये.  
 घुम् पाग १,४,५७.  
 ✓घुर् (यथा.) पाया. तुदा. पर.  
 भीमायंशन्दयोः.  
 घुरण- पाठ २,८३.  
 ✓घुष् पाया. भ्वा. पर. श्विशन्दने,  
 उरा. उम. विशन्दने, घोषन्  
 आपथी ३,१६,२.  
 घोषयेत् अत्र १९, ५,६.

घुष्ट-, घुष्टवन्- पा ७,२,२३.  
 शोष- पाग ४, २,१२७; ६, २,  
 १८५; -या: वाथी ३,१४: ८;  
 ११; ४, ३३: १; २; दाथी;  
 आपमं १, ४, १११; आश्रित १,  
 ५,२:५४११; वीथ १,४, २२११;  
 माथ १,१४: १११; हिय १,१५,  
 ७११; जैय १,२०: १२११; अत्र,  
 ४८, १०२११; निष १, ११११,  
 या ९, ९; -यम् शोथी १७;  
 १४, १२; १७, ७; आपमं  
 २, २०, ३४११ सु २२, ५;  
 आश्रित ३, २, २: ४११; माथ २,  
 १५: ६११; माथ २,८,४११; हिय  
 २,१४,४११; अत्र, या ९,११११;  
 १३; -या: आपथी २१, २०,६;  
 वीथी ११, ८: १६४४; हिथी;  
 -यागम् अत्र ४७, २,९; -याव्  
 शैदि २१७; -याव् आपथी २०,  
 १६,१०१; वाथी ३,४,३, ३४;  
 हिथी; -ग्घ्या अथी ५,९,२६;  
 वाथी; -ये ऋत ३, ६,५; -वेण  
 आपथी १२,३,२१; हिथी ८,१,  
 ४११; इदे २,६०.  
 घोषक- पा ४,२,१२७.  
 घोष-कृत्- -कृत: शोथी १७,  
 १४,१२,१७,७.  
 घोष-प्रहण- -णम् पात्रा ४, ३-  
 १२७.  
 शोषदा- (> श्क- पा.) पाग  
 ५,२,६२१.  
 घोष-ञ्(द>)दा- -दा दंति २,

a) वैप १ द.। b) सव. वृष. वरुणप्रधाम- ह्यस्पाडववः। c) विप.। वस.। d) तु. पागम.।  
 e) =वीणा-। व्यु. ?। f) सप्र. वीथी १६,२०: ५ आपाटी: इति पागे.। g) अर्थ: व्यु. व ?। h) व्यप.।  
 व्यु. !। i) = आशुपनीविशंप-विशेष-। व्यु. ?। j) तु. माण्डा. (पक्षे)। घातैय- इति पाक. पासि., धौतैय- इति  
 आपटा. पाति. व। k) = [वर्ण-विशेष-] यम-। l) घुण, अम्बुका इति O. पदच्छेदः; वैतु. श्रीनिवासार्थिकः सुणरथी,  
 अ इति?। m) या ९,९ पराश्रुतः द्र.। n) भात्र., नाप.। o) = देह-विशेष- ?। p) पागे. वैप २, ३ खं मंत्रा १-  
 ३,१३ द.। q) वाङ्नामर-। r) पागे. वैप १, ११४९ f द.।

०५.  
 घोष-वत्- -वत् अण ४७, १,  
 १७; उच् १, ८; आशि ८, १५;  
 शैशि २४; -वताम् ऋषा १३,  
 १५; १४, १८; -वति शौच २,  
 ११; ४३; ५४; याशि २, १८;  
 -वन्तः वीथी ८, १ : १२;  
 आशि ४, ४; -वान् आपथी  
 १३, १, ८; सु १३, २; आपथ.  
 घोषवत्-पर- -ः ऋषा ४,  
 २४; तैप्र २, ८; -ःः ऋषा ४, २.  
 घोषवत्-सं(ज्ञा >) स-  
 -ञम् अण ४७, १, १६.  
 घोषवत्-स्वर- -रेपु शौच १,  
 १३; २, २.  
 घोषवद्-आदि- -दि आथ  
 २, १५, ४; कौट १, १६, ९; पाण  
 १, २४, ४; पाण १, १७, २; वैश्व  
 ६४ : ५; आश्रित २, १, ५ : २९;  
 आपथ १५, ९; काण ३६, २; वीट.  
 घोषवद्-युक्त- -ऋः भाशि  
 ५१.  
 घोष-सं(ज्ञा >) व- -वे शैशि  
 १०२.  
 घोष-स्थल- -ः, षी- (> घोष-  
 स्थल- वा. ) पाण ४, २, १२७.  
 घोषा(प-आ)दि- -दिः ऋत ५,  
 ३, २.  
 घोषा(प-आ)नासिक्य-नासिक्य-  
 -ऋथाः शैशि ३६४.  
 घोषिन्- -विणः ऋषा ६, ४७;  
 १२, ६; १२; १४, ३५; -विणा  
 ऋषा १३, १७; -विणाम् ऋषा

१३, ६; १७.  
 घोषो(प-ऊ)णन्- -व्याणः अण  
 ४७, २, ९; -व्याणो अण ४७,  
 २, १०.  
 घोषयित्- पाठभो २, १, ८३.  
 घोषयित्वा आश्रित २, ४, ३ : १८.  
 रघो(व >) वा० -वा ऋष २, १०,  
 ३९; वृदे २, ८२; ७, ४२; -पाम्  
 काश्री ६, ६, १२; -पायै वृदे  
 ७, ४८.  
 घोषिये० -वः ऋष २, १०, ४१.  
 घोषि० -धि आश्री ४, १, २३१.  
 घोषित- -त्म् आश्रित ३, १०,  
 ४ : ६.  
 ऋ२घोषिर्- -०विणः, -विभ्यः  
 आप्तम् २, १८, ३५; माण २, ९ :  
 ११; हिर २, ९, २.  
 ऋ०घोषिणी- -०णीः काण ४, ८,  
 २७; २८; -णीम् अण ३२, १,  
 १२; ४६, ६, ७; अण ११, २; अण  
 ३ : ४८; -ण्य. २ कौट ३, ५, ४;  
 शंशु ३, ९, १.  
 घृसुसुसु- -साय अण ३६, ९, १९१.  
 घृसृण- पाठभो २, २, १२३.  
 घृक- पाठभो २, २, ३.  
 √घृ पाधा. दिवा. आश्रम. हिंसा-  
 वयोहन्त्योः.  
 √घृष् पाधा. भ्वा. आश्रम., तुदा. पर.  
 भ्रमणे.  
 घृष्- -णम् माश्री ७, १, ९.  
 घृष्(री-अ)ञी- -ञी कम्  
 १, ७, १४.  
 घृष्णि- पाठव ४, ५२.

√घृ (वपा.) वापा. लृ. पर. क्षरण-  
 दीपयोः; तुता. पर. प्रखण्डे,  
 ऋजिषति अण ४८, ३२; ४९;  
 ऋजिषिभि आश्री १६, ३, १;  
 वीथी २, १४ : १७x; वैथी.  
 घारयति वीथी ११, ५ : १२.  
 १मं०- पाठ १, १४९; -१०मं  
 आश्री ४, ७, ४; शांथी ५, १०,  
 ३१; काथी; आपथी १५, १७,  
 १०५; १७, २०, १६१; वीथी ९,  
 १० : १८५; माथी ११, १८, १६६;  
 माथी ४, ४, ३१६; -१मं आश्री  
 ३, १४, १०; ४, ७, ४०x; x;  
 शांथी ५, ९, २५; १०, २३x; x;  
 १३, १२, १३३; काथी; आपथी  
 ११, २०, १०१; या ११, ४३;  
 १४, २०; ११; -१मं आश्री  
 ४, ६, ३१; ७, ४०; ८, १६; ८,  
 १०, ३०; शांथी; वा ६, ३२६;  
 ११, ४२६; -मंत् आश्री ४, ७,  
 ४२१; ऋशांथी ५, १०, १७x; x;  
 काथी; -१मं ऋष २, १०,  
 ११४; वृदे ८, ३८; -१०मं  
 आपथी ६, २१, १; वापथी ३,  
 ५४ : १; -मंः वैथी ९, ५ :  
 ३१; -मंत् हिथी ३, ८, २३;  
 -१मंय काश्री २६, ५, ४x; x;  
 आपथी; -१मंयः आप्तम् २, २०,  
 ३२; तैप्र ११, ५; -१मं आश्री  
 ४, १, २७x; शांथी ५, १०,  
 १०१; काथी; -मंय काश्री ५,  
 १३, २; आपथी; वैताश्री १३,  
 २७.

a) = देश-विशेष- । तु. पाणम. । b) वैप १, १२७२ c) द. । c) अण. । दृक् प्र. (पा ४, १, १२१) ।  
 d) वैप १२. । e) वैप १, १२७२ h) द. । f) नाप. (सर्प-). । g) नाप. (तेवा-). । h) = ददाणामन्यतम- ।  
 ध्यु- । i) विप. । घा. । j) या ७, २४ पराण्डः द. । k) पामे. वैप १, १२७२ q) द. । l) पामे. वैप १, १२७२ r  
 द. । m) सङ्गत पामे. वैप १ यज्ञः वी ७, ७७, २ टि. द. । n) पामे. वैप १, १२७२ s) द. । o) पामे. वैप १, १२७२ t  
 द. । p) सङ्गत पामे. वैप १, १२७२ u) द. । q) पामे. वैप १, १२७२ v) द. । r) पामे. वैप १ प्रवर्षेण मे ४, ९, २ टि. द. ।

घर्म-कपाल- ले माथी ४, १, १४.

घर्म-कार्य-विपर्यास- से बीथी ९, १० : ३१.

घर्म-दुग्ध- -दुग्धः बीथी ९, ५ : ३२; ५ : ७; वैथी; -दुग्धम्

आपथी १५, ९, ३×४; बीथी; -दुग्धि माथी ११, १८, ५.

घर्म-दु(घ>)या- -या अत्राय २, ४<sup>३</sup>; -घाम् आथी ४, ७, २; काथी २६, ७, ४२; वैताथी १४, ४; -घे बीथी ९, ५ : ७.

घर्मदुघा (घा-अ)र्थ- -र्थः वैथी १३, ७ : १३.

घर्म-दुह- -दुहः काथीसं ३६ : ६; वैथी १३, ८ : १३; -दुहि आपथी १५, १८, २; -दुक् काथी २५, ६, ८; आपथी; या ११, ४३; ४३.

घर्म-पुग्-घ्वा (<हा)ल- -ले काथी २५, ६, २१९.

घर्म-पुग्-दोह- -हाय वैताथी १४, ३११.

घर्म-देवता-> ण्य, स्या- न्यम् शुभ्र ४, १४; -स्या शुभ्र १, ५४८; -स्याः शुभ्र ४, ८१; -त्यानि शुभ्र ४, ७७; -त्ये शुभ्र ४, ८६; ९२.

घर्म-दैवत- -तम् शुभ्र ४, ११२.

घर्म-घ- -घान् बीथी ९, १० : २३; २४; १९ : १८<sup>३</sup>; वीथ ३, ४, ११; १२; -वेण्यः बीथी ९, ११ : १४; १९ : ९; १०; वैथी

१३, १३ : ११; वीथ ३, ४, ५; ६.

घर्म-घ(र>)ता- -ताः वृदे ८, १५,

घर्म-पात्र- -ग्रम् वैथी १३, १४ : १०; -त्राणि माथी २, २, २, २×४; द्राथी.

घर्म-भावन्- -वन्त्यः माथी १, २, ५, २७; वाथी १, २, ३, ६.

घर्म-आपश्चित- -त्तानि आपथी १५, १७, ४; बीथी ९, १२ : २; १७ : १; ३१; माथी ११, १७, ४.

घर्म-भेद- -दे काथी २६, ७, ४६.

घर्म-रुचि- -रुचिः आपथि २, ५, ३ : १८; वीथ ३, ७, १५.

घर्म(र्म-अ)विज्- -विजः काथी १०, १, २३.

घर्म-वत् वैताथी २१, १९; २५, १५.

घर्म-वत्- -वते बीथी १३, ११ : ४; ९; माथी ५, १, १, ३८.

घर्म-वृदि- -द्विः वेज्यो ८.

घर्म-वत्- -वते जैथी २३ : ८; जैथीका ५२

घर्म-वत्-दुह- -दुहोः काथीसं ३६ : ८.

घर्म-तिर- -तः बीथी २४, १९ : १; -रसा आपथी ५, ११, ६×४; माथी; -रांसि आपथी ५, १३, १; ३; १६, २; द्विथी ३, ४, १२.

घर्म-शेष- -पस्य द्राथी १४, ३, ७; लाथी ५, ७, ६.

घर्म-संस्तव- -वः वृदे ६, १३४.

घर्म-सद्- -सत् माथी १, २, ४, २१; वाथी १, ३, १, ४४; वाथ १, ७.

घर्म-सादन- -ने जैथीका ६१.

घर्म-सूत- -वत्तम् अथ ७, ७३; अथ २ : ८९; -वतेन वैताथी १४, ५.

घर्म-स्य-धनु- -न् जैथी २३ : ८; जैथीका ५२; -न्वो द्राथी २, २, २७, लाथी १, ६, २५.

घर्म-स्य-रोचन- -नम् द्राथी २, २, २८; लाथी १, ६, २६; जैथी २३ : ९; जैथीका ५५.

घर्म(र्म-अ)दि- -दि आथी १, १२, १८.

घर्म(र्म-अ)घन- -नानि आपथी १५, ५, ११; माथी ११, ५, १५; द्विथी २४, २, ५; -ने जैथी २३ : ८.

घर्म(र्म-अ)टका- -काः वाथी २, १, ६, १५<sup>६</sup>; -काम् आपथी १५, ३, १३×४; बीथी; माथी ६, १, ७, २०<sup>६</sup>.

घर्म(र्म-अ)च्छिष्ट- -ष्टम् बीथी २५, १६ : २; -ष्टे बीथी १६, २ : १०; वीथ १, ६, ३०.

घर्म(र्म-अ)पसद्- -सदी वैताथी १५, ५.

घर्म- -र्म्यम् काथी २५, ५, ३०; २६, ६, १६.

२घर्म- -र्मः अथ २, १०, ११४; १८१.

a) वैप १ द्र. ।  
 शोधः (द्र. बीस) ।  
 निशेष- ।  
 g) वैप २, ३ खं द्र. ।  
 निशेष- । <घर्मं शिरः शैत्रा १, १, ७, ११ ।  
 निशेष- । घा. अर्थः ? ।

b) पय. उप. भाप. <√हृल् ।  
 d) शोहाय इति पाठः ? यनि. शोधः ।  
 h) विप. । अत. > उत. । वत- = दुग्ध- ।  
 j) = इष्टका-निशेष- ।  
 k) परापरं पामे. ।

c) 'दुग्धवा' इति पाठः ? यनि.  
 e) विप. । वस. ।  
 f) = साम-  
 i) = अन्त-  
 l) = अवि-

घृण,णा- पाठभो २, २, १२३;  
 पाय ५, २, १२१<sup>b</sup>; -णः निप  
 १, १<sup>१</sup>; -णा वाध ६, २३.  
 घृणा(ण-व्य)-विधम् कृत्र  
 ३, १.  
 घृणा-वम्- पा ५, २, १२६;  
 -वन्तः वैष्ट ५, १२ : २.  
 घृणिन्- पा ५, २, १२६; -णिते  
 गीध २६, १२<sup>१</sup>.  
 घृणि- पाठ ५, ५, २; -णिः आधो  
 २, १९, ३३; शांथी ३, १७, १;  
 व्याधो २५, ६, ७; आश्रित.  
 ऋषि (घि >) णी-व्य- -वात्  
 दुम्रा ३, १७<sup>०</sup>; तैत्रा ५, २१).  
 घृत- पाठ ३, ८९; पाय २, ५, ३१;  
 कि २१; -णितम् आधो २, ५,  
 १७<sup>०</sup>; ८, ३; १०, ४४४; शांथी;  
 आपथी ६, २७, ५<sup>०</sup>; आपसं १, ८,  
 २<sup>०</sup>; आण २, ९, ५<sup>०</sup>; कौश ३, ४,  
 ३<sup>०</sup>; शाण ३, ५, ३<sup>०</sup>; काण २७,  
 ३<sup>०</sup>; बाण १, ५, ६<sup>०</sup>; माण २, १४,  
 ६<sup>०</sup>; २, ११, १७<sup>०</sup>; वाण १५, १७<sup>०</sup>;  
 अत्राय ६, ६<sup>१</sup>; अण ४८, ७५<sup>०</sup>;  
 निप १, १२<sup>०</sup>; पावा ६, ४, ६६;  
 -णितम् आधो २, ८, ३४४;  
 शांथी; काथी १३, ३, २६<sup>०</sup>;  
 आपथी ४, ७, २<sup>१</sup>; २१, २०, ३<sup>०</sup>;  
 माथी १, ८, ४, ३६<sup>१</sup>; वैताथी ३६,  
 ९<sup>०</sup>; आण १, १५, १<sup>०</sup>; माण २, ४,  
 ५<sup>१</sup>; कौश ४५, ११<sup>१</sup>; वा ७, १७<sup>०</sup>;  
 -तात् माथी १०, १५, २; वैथी;  
 -ते आथी ५, १९, ३; काथी;

द्विथी ७, १, १७<sup>१</sup>; -णितम् आधो  
 २, ५, १४४४; बाथी; आपथी  
 ४, १३, ४<sup>०</sup>; ७, ६, ५<sup>१</sup>; माथी १,  
 ४, ३, २<sup>०</sup>; ७, २, ४<sup>०</sup>; वा ७,  
 २४<sup>०</sup>; ८, १७; १८६; १०,  
 ४<sup>०</sup>; १४, २७; -णितेभिः आधो  
 ७, ८, १; शांथी १२, ११, १९;  
 -णितैः आपथी ५, ६, ३; १४,  
 १७, १; बाथी.  
 घृत-कदला(ल-व्य)गार-  
 -राणाम् सुधप ८७ : १८.  
 घृत-कम्बल- -लः अण ३१, ८,  
 १; ३; ३३, १, १०; ३, १; -लम्  
 अण १९, १, ११; ३१, ७, ५; ३३,  
 १, १४४; -लम् अण ३३, १, ९.  
 घृतकम्बल-शु(घृ >) णा-  
 -हा अण ३१, ८, ३.  
 घृतकम्बल-संलु(त >) ता-  
 -ता अण ३१, ८, १, २.  
 घृत-कुण्ड- -ण्डे बाधि ३, ७, ४.  
 घृत-कुम्भ- -म्भम् अण ३३, १,  
 ७, ५, ७; विध ५०, ३६; सुध  
 ३८; -म्भान् द्विपि २३ : ३२.  
 घृत-कुदा-द्विरणदी(म्य-उ)दक-  
 प्राधान- -नम् सुध १८.  
 घृत-क्षीर- -रम् वैध ३, ८, ४;  
 -राम्याम् वैष्ट ५, १० : ३, ५.  
 घृत-क्षीर-कला(ल-व्य)साव-  
 -ये अण ६४, ८, ५.  
 घृत-क्षीरा(र-व्य)मत्त- -मत्ताम्  
 अण ६४, ८, ५.  
 घृत-क्षीरमय- -मैः शेष ३४५.

घृत-घट- -टः गीध २२, २६.  
 घृत-चर्मर- -र्मगाम् बाथी १५,  
 १९ : २; -मणि बाथी १५,  
 १६ : २.  
 घृत-तिल-तैल-पत्र-पुष्प-मूल-  
 फल-केशा-गु-रक्तवाय-पकाश-  
 विक्रय- -ये सुध ५८.  
 घृत-तिल-मिश्र- -श्रम् बाधि २,  
 १०, २.  
 घृत-मूला- -लात् विप ९०, २१.  
 घृत-तैल- -लम् विध ६६, ११;  
 -लाताम् शेष १८३.  
 घृत-दधि- -ध्या अण २६, ३, ५.  
 घृत-दधि-पय-ल-ताक- -क्राणाम्  
 शेष १८२.  
 घृत-दान- -नम् वैष्ट ५, ४ : २०.  
 घृत-द्रोण-वात- -तेन अण ३३,  
 ३, ६.  
 घृत-धारा-पातना(न-व्य)र्ध-  
 -धेम् वैथी ११, ७२५.  
 घृत-धेनु- -नुम् अण ९, १, १.  
 ऋषि-निर्णि- -र्णिक आपथी  
 ५, ६, ३; द्विथी ३, ३, ५५.  
 घृत-पक- -कान् बाधि ३, १०, ४.  
 घृत-पट- -टम् बाध २३, ८.  
 घृत-प(द्र >) दी- -पाण ५, ४,  
 १३९; -णदी आथी १, ७, ७;  
 शांथी १, १९, १; वाण १३, २;  
 -दीम् आपथी ३, १, ७; बाथी  
 १, १८ : ३; माथी ३, १, १;  
 द्विथी २, ३, ८.  
 घृत-पात्र- -त्रम् शेष ४०१.

a) वैण १ निर्दिष्टावन्न उमाविष्टो द्र. । b) हु. पायम. । c) वैष १ द्र. । d) पामे. वैष १, १२७४ ० द्र. । e) घृ ६२४ k घृतमु० इत्येवं द्र. । f) राहव. पामे. वैष १, ६२२ a द्र. । g) = उदक- । h) पामे. वैष १, १२७५ f द्र. । i) पामे. वैष २, ३ सं. घृतमुण तैना ३, ७, ६, ११ टि. द्र. । j) पामे. वैष १, १२७५ ० द्र. । k) सत्र. गीष्ट १, २४, ४ मलाय इति पामे. । l) घृतेचकम् इति समस्तं व्याचक्ष्णो गोपीनाथद्विन्दयः (तु. सप्त. वाठ २२, १३ चर्दते, आपथी १०, ४, २-४ प्रष्ट. च) । m) पामे. वैष १ मतेन रि ४, ८, ४ टि. द्र. । n) द्रव. कदल- = तक- अगार- = अर्वाः । o) = महाभिषेक- । मलो. कम्. १ । p) विप. । वत. । q) उप. = [चर्मवय-पत्र-विशेषः । र) पाठः शुड- ।

घृतपात्र-स्थ- -स्थम् अत्र ८, १, ८.  
 घृत-पायस- -मः अदा १२, १; २; -सम् आसिष्ट २, ५, १; ३४; त्रिष्ट २, ९; २६; अत्र १, २७, २.  
 †घृत-पायस्- -०घानः काशीदे, ८, १६; आपथी ७, २५, १०; वीथी ७, २५; भाथी; पावा ६, ४, ६६.  
 घृत-पिण्ड- -ण्डम् पाण्ड २, १, ८; -ण्डान् आपथी १७, ५, ८<sup>१०</sup>; वीथी २२, ८ : २३; वाथी २, २, २, ११; कौस् ५२, १९; ५४, १४.  
 घृत-वीथ- -पाग २, २, ३७.  
 घृत-वृ- -वृषः वीथी ६, २ : ८<sup>१०</sup>.  
 घृत-पूर्ण,र्णा- -र्णम् अत्र ८, १, ५; विष ९०, १५; -र्णान् अत्र १२<sup>१</sup>, २, ३; -र्णाम् काथी १७, ४, १२; २५, ७, २१.  
 †घृत-वृष्ट,ष्टा- -ष्टः आथी ५, १९, ३<sup>०</sup>; आपथी १४, १७, १<sup>०</sup>; आपमं २, २, १<sup>०</sup>, आसिष्ट १, १, २ : ४<sup>०</sup>, वीष्ट २, ५, ९<sup>०</sup>; भाष्ट १, ५ : १०<sup>०</sup>; द्विष्ट १, ३, ५<sup>०</sup>; वृदेष्ट, ३३, या ७, २६; ५, ७; -ष्टा आपथी १, १६, ८; भाथी १, १८, ६; द्विथी १, ४, ५४.  
 †घृत-प्रवीक,का- -कः आथी २, १०, ४<sup>०</sup>; आपथी ५, ६, ३; १४, १७, ७<sup>०</sup>; वीथी, आपमं २, २, १<sup>०</sup>; कौष्ट १, १७, ६<sup>०</sup>; शाष्ट १, २५, ७<sup>०</sup>; द्विष्ट १, ३, ५<sup>०</sup>; -कम् आपथी ५, ६, ३; द्विथी ३, २, ५६; -का आपथी ७, ५, १××; भाथी; -कै

आपथी ७, ५, १; भाथी ७, ४, १; द्विथी ७, १, ६२.  
 घृत-प्रदीप-मालय- -स्थैः अत्र १२<sup>०</sup>, ३, २.  
 घृत-प्रमाण- -णम् अत्र ३३, ३, २.  
 घृत-प्रस्तावि(न् >)नी- -न्यः या १२, ३६.  
 घृत-प्रस्तावि(न् >)णी- -ण्यः या १२, ३६.  
 घृत-प्रार्ता- -ताः वाध २३, ३०; विध ५०, ४९.  
 घृत-प्राशन- -मम् शंघ ४०२; वीध ३, १०, १२; विध; -मेन शंघ ४१२.  
 घृतप्राशना ( न-अ ) न्त- -न्तम् वृष्ट ३, १५ : १५.  
 †घृत-मुष्ट- -मुष्टः काथी ५, १९, ३; आपथी ५, ६, ३; १४, १७, १; द्विथी ३, २, ५५; १५, ५, १; भाशि २१.  
 घृत-मुत्त- -न्तम् विध १३, ४; ७३, १२.  
 †घृत-शोधन- -नः अत्र १<sup>१</sup>, १, ५.  
 †घृत-भाग- -नी अत्र ३३, ५, ७.  
 †२घृत-भाग- -गाः आसिष्ट ३, ८, २ : ५८; वीपि १, १५ : ६३.  
 घृत-मधु-तैल-प्रदान- -नेन विध २२, १६.  
 घृत-मांस- -सम् काण्ड ६६, ४.  
 घृत-मात्रा- -त्रा अत्र ३३, २, ५; ३, ५.  
 घृत-मिश्र- -श्रम् वैथी १, ४ : ४; आसिष्ट २, ५, ७ : १५, ३, ११, ४ : १३, वीष्ट १, ११, ११;

-श्रान् कौस् २७, १४.  
 घृत-वा( उय >) ज्या- -ज्या आपथी ५, १९, २; -उपायाम् आथी ७, १, १४; -उये आथी ९, २, १७.  
 घृतवाज्या-स्थान- -ने काथी ८, १२, ७.  
 घृत-युक्त- -क्तम् शंघ १२७; -क्तैः शंघ ४४१.  
 †घृत-योनि- -निः आथी २, १०, ४<sup>०</sup>; आपथी २, १०, ४××; भाथी; कौष्ट १, १७, ६<sup>०</sup>; शाष्ट १, २५, ७<sup>०</sup>; -निम् आपथी ५, ६, ३; द्विथी ३, २, ५६; -०ने आथी ५, १९, ३; शाथी ८, ४, ३; वीथी ७, १ : ११; ६, ३० : ३०.  
 घृत-ल्लि- -ल्लि अत्र ३३, १, ९; -ल्लौ अत्र ३३, ६, ३.  
 घृत-ल्लि(त्त >)सा- -साः वैथी १५, ६ : ७.  
 †घृत-वन्- -वन् आथी २, २, १७, ६, १४, १६; शाथी ५, १३, ५××; आपथी; या १०, २२; -वता माण्ड १, २३, ११; वाण्ड ७, १०; -वति आपथी २, १७, १××; वीथी; -वन्तिः माण्ड १, २३, १२९; -वन्तम् आथी १, ११, १; शाथी; -वन्ति शाथी ३, १८, १५; आपथी ८, २०, ५; वृदे २, ५१९; -वान् आथी १, १२, ३७<sup>०</sup>; काथी; आपथी ९, ३, १<sup>०</sup>; भाथी ९, ४, २<sup>०</sup>; द्विथी १५, १, ४९<sup>०</sup>; -वान्ति ऋद्रा ९, ४९<sup>१</sup>.

a) वैष १ द.। b) शोधः घृ ५१६ m द.। c) पामे. वैष १, १२७७ k द.। d) पामे. वैष १, १२७७ n द.। e) पामे. वैष १, १२७७ p द.। f) उप. भाप.। g) विप.। वस.। h) = ऋग्-विशेष-। i) पामे. वैष १, १२७८ j द.। j) = मन्त्र-विशेष-। वस.। k) पामे. वैष १, १२७८ o द.। l) पामे. वैष १, १२७८ n द.।



घृतवती- ऋषी आश्री ४,  
१२, २४; शाश्री; विष ३, ३०<sup>६</sup>;  
-तीभिः आपश्री ५, ६, ३;  
-ऋषीम् आश्री १, ४, ११; शाश्री  
१, ६, १६; काश्री.  
घृत-वर्ण-निम्- -म्: अण ७०<sup>३</sup>,  
५, ३.  
घृत-व्यञ्जना (त-ञ्जा) दि- दि  
विष ७९, १३.  
घृत-व्यत<sup>६</sup>- -तः आपश्री २२, १,  
१३; हिश्री १७, ४, ७; काश्री ८,  
१, ८.  
घृत-वाद्- -द्: काश्री १०,  
६, १०.  
घृत-श्चुत्- -श्चुतः आपश्री  
१४, २८, ४<sup>६</sup>; वैश्री २१, १५:  
१२; हिश्री १५, ७, १२; आपश्री  
१, २, ५; या १०, २४.  
घृत-श्च्युत्- -श्च्युतः कप्र ३,  
७, १५.  
घृत-श्च्युन्-विधत्- -न्म्  
वैश्री २५: ७.  
घृत-श्री<sup>०</sup>- -श्रियम् माश्री ५,  
१, २, १७<sup>५</sup>.  
घृत-सियु(त)>त्ता- -ता: अण  
३१, ६, ३; ६५, २, ५.  
घृत-संस्कार- -रः अण ३३, ५, १.  
घृत-सानि(व)>वी<sup>०</sup>- -व्यः या  
१२, ३६.  
घृत सानि(व)>गी- -व्यः या  
१२, ३६.  
घृत-सूक्त<sup>६</sup>- -तेज वीथ ३, ७,  
२७; आश्री २, ५, ३: ४३.  
घृत-सूदन<sup>०</sup>- -तः आपश्री ९,  
१७, ४; ५; माश्री ३, ५, १५;

हिश्री १५, ७, २४; २५.  
घृत-स्तुति- -ति: कप्र २, ४,  
५८; शुभ २, ३२१; चात्र ४०:  
१२; -तिम् बुदे ५, ११.  
घृत-स्तोम->श्रीय- -यम्  
शाश्री १५, १, ३३.  
घृत-स्तु<sup>६</sup>- -स्तु: आश्री ३, ८,  
१; -स्तु: आश्री ३, ८, १; या  
१२, ३६<sup>६</sup>; शैशि ७७.  
घृत-होम- -मः वीथ २२, ३८<sup>३</sup>.  
घृत-इ (इ)>दा<sup>०</sup>- -दा: अण  
४, ३४. ५.  
घृत(त-अ)क, का- -क्तः वाष  
२०, ४२; -कम् माश्री ६, १, ३,  
२८; वाश्री २, १, २, २२; आण;  
-क्या अण ३५, १, ८; -क्ता:  
काश्री ४, ८, ३; वैश्री १९, २:  
१२; वाश्री १, ४, ४, ४; वैश्री;  
-कान् काश्री १३९; पाण २,  
१४, ८; अण ८, १, ४; -कानि  
काश्री १६, १, ३०; पाण ३, ७, ३;  
वैथ २, ७: ६; -काम् माश्री ६, १,  
४, २०; २१; वाश्री २, १, २, २१;  
अण २६, ३, ४.  
घृत(त-अ)घत्- -ता: अश्री  
१२, ४.  
घृत(त-अ)घ् > शी<sup>०</sup>- -शी  
आश्री ४, १२, २; काश्री २, ८,  
१२; ३, ६, १८<sup>३</sup>; आपश्री २, ९,  
१५×४; वैश्री; -घी: आपश्री  
५, ६, ३; ७, १७, १<sup>३</sup>, वैश्री  
२, १४: १४; ४, ६: ३५<sup>३</sup>;  
११, ४: ११<sup>३</sup>; हिश्री ३, २, ५३;  
५४; -०घी: आपश्री २, ४, २;  
वैश्री ५, २: १२; हिश्री १, ७, ५;

-चीनाम् आपश्री २, १०, ३;  
वैश्री १, १४: २७; माश्री २,  
९, १६; हिश्री १, ८, १६; -च्य:  
आण २, १०, ६; कौण्ड ३, ५, ६;  
शाण्ड ३, ९, ३; -च्यो हिश्री ३,  
२, ५३; -च्यो<sup>३</sup> माश्री १, २, ४,  
२८; ७, २, १२.  
घृत(त-अ)दि- -दीनि वैथ ३,  
४, २.  
घृतदि-दान- -ने विष ७९,  
२२.  
घृतदि-द्रव्य-सर्व<sup>६</sup>- -ध्वं  
अण ३५, १, ५.  
घृत(त-अ)दुषिक्त, क्त<sup>६</sup>- -क्तम्  
वैश्री ७, १: ३१; -काम्  
आपश्री १६, १२, ८; १०; वैश्री  
१०, १७: १०; वैश्री १८, ११:  
८; ११; हिश्री ११, ५, ६.  
घृत(त-अ)घ्न- -घ्नो आमिण्ड  
२, ४, ५: ७.  
घृत(त-अ)घ्न<sup>६</sup>- -घ्नः आपश्री  
१४, १७, १; हिश्री १५, ५, १.  
घृत(त-अ)न्वक्त, क्त<sup>०</sup>- -क्तम्  
वैश्री १२, १७: २; -क्तः  
आपश्री ५, १७, ४; १५, २०, २;  
वैश्री; -क्तानाम् आमिण्ड २, ५,  
१: ३२; -क्तौ अण १८, १, ८.  
घृत(त-अ)ग्वीक्षण- -णम् शेष  
२५०.  
घृत(त-अ)म्बक्त, क्त<sup>०</sup>- -क्तः वाष  
२०, १४; -क्तः वीथ ३७, १५; ३१  
घृत(त-अ)मृगौ (त-ओ)य-  
हृदया- -व्यामिः कप्र २, ४, १३.  
घृत(त-अ)म्बम्- -म्बयो:  
अण ३८, २, १.

a) = यावा-पृथिवी-। b) विप.। मस.। c) वैप १६.। d) पाभे. वैप १, १२७५ क द.।  
e) = साम-विशेष-। f) उप. <√सानि <√सन्। g) = सुहृ-विशेष-। h) वैप १, १२७५ उ द.।  
i) पाभे. वैप १, १२८० क द.। j) पाभे. वैप १, १२५३ क द.। k) कय. > कस. उप. परनिपातः।

√घृ>

घृता(त-अ)चित्- -तम् अप  
३३,७,५.  
घृता(त-अ)चिम्- -०चिः विघ  
२८,७२.  
घृता(त-अ)थि- -थे अप ३३,  
१, १.  
घृ(त>)वा-मृष- -मृषा ऋप्रा  
९,२३१.  
घृता(त-अ)वेक्षण- -णम् अप ८,  
१,१; -णस्य अप ८,२,१.  
घृता(त-आ)शित्- -शो अप ५,  
३,३.  
घृता (त-आ) सुति- -तिः  
आधौ ८,१२,७१.  
घृता(त-आ)द्वचन- -नः आधौ  
१,३,६,५,१९,३०; शोधौ १,४,  
१९; ८,२४,१.  
घृता(त-आ)हुत- -तः माधौ  
३,१,२८६.  
घृता(त-आ)हुति- -तिभि.  
आधौ ३,३,३; -तिम् ऋ २,१,  
१३.  
घृता(त-आ)हुति- -तिः,  
-तिम् ऋ ७२,३२१.  
घृते(त-इ)ष्टका- -काः आपधौ  
१६,१३,१०; १७,५,७; वीधौ  
१०,४५: २८; वैधौ; -कानाम्  
वीधौ २२,८: २१.  
घृतो(त-उ)दक- -कम् शेष  
११६: ७.  
घृतो(त-उ)ष,आ- -षम् वाधौ  
१५,५,१०; -आम् वाधौ १६,  
४,३५.

घृतो(त-उ)पि(त>)वा- -वाः  
काधौ १८,३, १४; आपधौ १७,  
१४,५; माधौ ६,२,५,३; द्विधौ  
१२,५,१.  
घृतो(त-ओ)दन- -नः काय २४,  
२१; -नम् आय १, १६, ४;  
कौय १, १९, ५; शौय १, २७,  
५; आमित् २,५,१: ३५; -नेन  
वीध ४,७,६.  
√घृण् पाषा. तना. उभ. दीप्तौ.  
घृण,णा-, घृणि- √घृ ढ.  
√घृण् पाषा. भ्वा. आत्म. प्रहणे.  
घृत- प्रम्. √घृ ढ.  
घृताचि- -चे: जैधौ २२: ४;  
जैधौका १९.  
घृता(घृ>)ची- प्रम्. √घृ ढ.  
√घृण् पाषा. भ्वा. पर. संघे,  
घर्षवेत् शेष १६७.  
घर्ष- -र्षत् वाघ ३,५७.  
घर्षण- -णम् काध २७७: ८.  
घृषि- -पाठ ४,५६.  
घृष्वचमस- -माय वाधौ ३,  
१८: १.  
घोट- >घोट-अकार- -रे आपधौ  
१५,३,१२; माधौ ११,३,७.  
घोणा- पाग ४,१,५६.  
घोर,रा- -पाठ ५, ६४; पाग ८,  
१, ६७, -रः काय २८. ४११;  
फौसू; -रम् वाधौ १, २, ३,  
२९१, आमित्, -र्षा शोधौ  
१०, ३, ५; ६, ७; वीधौ १७,  
४४: ५; वीय; -र्षाः आपधौ  
५, १५, ३; १७, ८४४; वीधौ;

-राणि सु ५, ४; वीय १, ६: ६१;  
वीय; -र्षात् आमित् २, ५,  
३: १९; वीय; -रान् वीध ३,  
१५, १२; -राभिः माधौ ५, १०,  
१३; वैधौ; -र्षाम् द्राधौ १०,  
३, ४; लाधौ ३, ११, ३; -र्षात्  
आधौ २, ७, ७१३; शोधौ ४, ५, १;  
वीधौ; -रे अप ९, ४, १; वीय;  
-र्षे माधौ ५, १, ८, १३;  
अशा १५, ५; -रेभ्यः अप ४०,  
३, ३१; -रेव् अप २४, १, ५;  
३१, ८, ५; ६९, ४, ३; -रेः विघ  
४३, ३३; ३६.  
घोर-यान- -नाय या ६, ११.  
घोर-वक्ष- -क्षते या ६, १११.  
घोर-तारक- -काः अप ५२, ७, ४.  
घोर-रूप- -रूपम् वीधौ २, १५:  
४०; २०, १६: ३; -वाः अप  
३, ३, ७.  
घोर-रुक्ष- -क्षाणाम् अप ३१,  
१, २.  
घोर-स्तमित-दीर्घता- -ता अप  
६४, ७, २.  
घोरा(र-आ)चार->रि- -कः  
वैध १, ५, १, ५.  
घोरा(र-अ)न्त- -न्तम् वीय ३,  
४: ३.  
रघोर- -रम् आधौ १०, ७, ४, शोधौ  
१६, २, १२.  
रघोर- -रः ऋ २, ३, ३६; -रम्  
आधौ १२, १३, १; -राणाम्  
वाघ ३: ३; ४२: २.  
घोर- -र आधौ १२, १३, १;

a) विप. 1 बम. 1 b) वैप १ द. 1 c) पाभे. वैप १, २२७७ p ढ. 1 d) पाभे. वैप १, १२७८  
० द. 1 e) विप. >नाप. (समुद.) f) वृष. उप. <√वृद्. g) उप. <√वक्ष [निवासे] h) =√घण्  
इति BFG. 1 i) व्यप. 1 व्यु. 1 j) नाप. (अरन्-) व्यु. 1 <√घृद् इति अभा. 1 k) पाभे. वैप २, ३ खं.  
षोकः संज्ञा १, १, ३ टि. ढ. 1 l) पाभे. वैप १, ११८३ B ढ. 1 m) अघोराय इति पाठः 1 यनि. लोषः  
(घ. मा. २, ३२ मे १, १०, ३) 1 n) वा. द्विवि. 1 o) =मन्त्र-विशेष- 1 p) =मन्त्र-विशेष- 1 व्यु. 1 !

-रः अक्षर १, ३६; ८, १; वृद्धे ६, २१; शुभ्र ४, ३९; साम १, ५४; ५६; १२६; १८६; २२९; ५४०.

घोर-धुव- -औ वृद्धे ३, ३५.

१-२घोष- प्रस्. ✓धुव् द.

घीघोषत्\* आपश्री १, ३, ३; ९, १, ६; वीथी १, २; ३; भाषी.

घोषि- प्रस्. ✓धुव् द.

घौर- ३घोर- द्र.

घोषक- घोषस्पलक-, घोषेय- ✓धुव् द.

घनत्- प्रस्. ✓हृत् द.

घिंघ्रित\* -सः अक्षर ४८, १११<sup>b</sup>; निघ १, ९<sup>b</sup>; या ६, ११६; -स्त्व या ६, ४६; ३६६; -न्ते या ६, १९६.

घिस-विद्योत- -नेन कौम् ४८, ३९.

घिस-मृत- -न्त् कौम् ४८, ३९.

घिंघ्रन्\* वैताथी ४, ६<sup>f</sup>.

✓घ्रा<sup>c</sup> पाथा. भ्वा. पर. गद्योपादाने, निघ्रति वैप ३, २२; ९; निघ्रिक् शोथी ७, ८, १२.

घ्राण<sup>d</sup> - पा ८, २, ५६.

घ्राण<sup>e</sup> - भम् कप्र १, ६; २, १, ९;

शंथ ९७; चञ्च् २; २६; शैशि ३५८; -गयो. आशिष् ३, ४,

२; १०; -जे अक्ष ९, १, ४;

-जेन वैष १, ११, ८.

घ्राण-नम कप्र १, ८, १३.

घ्राण-संमित- -जेः पाण् २, ५,

२८; नाथ ११, ५७.

घ्राणा(ण-अ)न्त- > ण्तिक-

कः कौम् २, १, ११.

घ्राणवत्\* - पा ८, २, ५६.

घ्रात<sup>f</sup> - पा ८, २, ५६; -न्त् शंथ

१८३; विध २३, ३८; ५१, १७.

घ्रातवत्\* - पा ८, २, ५६.

घ्राति- -तिः विध ३८, २.

घ्रात्र\* - पा ३, १, १३७; -घेण

वीथी १, १८; ८.

ङ

ङ\* शुभा ८, ८.

ङकार- -रः अक्षरा ६, १५; तैप्रा

९, १८; -रस्य याशि १४, २;

-रे अक्षरा ४, १६; माशि १४, २.

ङकार-णकार-नकार- -रेवु द्विथी

२१, २, ३३.

ङकार-परिवर्जित- -तः याशि

२, ७०; -तः माशि १०, ९.

ङकार-धवण- -णम् शैशि ३०२.

ङकारा(ङ-अ)न्त\* -न्त् कौम्

३०३; ३११; माशि ५९; -न्ते

याशि २, ४१.

ङकारा(ङ-अ)न्तवद्\* -हाणि

अप्रा २, ३, २४.

ङ-अ-ण-न-अ- -माः याशि २, ९४.

ङ-ण- -जे याशि १, ६२.

ङ-ण-न- -नाः शौच ३, २७;

-नानाम् शौच १, ४७; -नेभ्यः

शौच २, ९.

ङणना(ङ-अ)न्त- -न्ते माशि

४, ११.

ङ-ण-न-अ- -भम् माशि १४, ६.

ङ-न- -नी शैशि २९३; २९४.

ङ-वत्- -वस्वौ चम् ७, १६.

ङ-पूर्व- -यैः तैप्रा ५, ३२.

ङ-श- -नायोः शैशि ३१३.

✓ङु पाथा. भ्वा. आत्म. शब्दे.

च

च<sup>a</sup>, > पा शोथी १, १, ९; काथी १, १, ७;

आपश्री; आपमं २, २, ८<sup>f</sup>; अ

१, ४; अक्षरा ८, ३२<sup>f</sup> पाग १,

४, ५७; पात्रपा ८, १; कि ८४;

वे शुभा ४, ७; ऋत ४, २, ४.

चन्कार- -रः शैशि २६३; २७३;

३१९; -न्म् अक्षरा ४, ११; १८;

तैप्रा ५, २३; ऋत ४, ५, ७;

-रेण शुभा ४, २५.

चकार-काण- -णम् पावा ५, १,

१२०.

चकार-प्रतिषेध- -घः पावा १,

१, ७.

चकार-वर्ग- -र्णम् शुभा ४,

१६; -र्णे शुभा ४, १६.

चकार-वर्गीय-> ष्विथि(श-

द)दय\* - न्यौ अक्षरा ५, १३.

चक्ररा(र-आ)दि- -दयः याशि

२, १.

च-उ- -धुयोः शुभा ३, ७; १३४.

च-ञ- -जेवु शैशि ३०२.

च-उ-न-य- -र्णेषु शौच २, २६;

-र्णेः शौच ३, १४.

च-उ-र्वा- -र्णयोः शौच २, १४.

च-पर\* -रः तैप्रा ५, ४; २०;

-रे उल् ६, २; अक्षरा १, १, १४.

च-योग- -भात् अक्षरा १, १, २१.

चयोत-वाचचपा( न-था)र्ण-

क- -क्यम् पावा २, १, १.

च-ल-भो(म-उ)दय- -यम् ऋत

४, ४, १.

च-वर्ग- -र्णैः शुभा ८, ९; शौच १,

७; -र्णे तैप्रा २, ३६; शौच २,

a) वैप १ द.। b) अक्षर-नामन्-। c) पा २, ४, ७६; ३, ७६; ४, ६; ११ परासुहः द.। d) निष्ठायां वा नत्वम्। e) = नास्तिका-। f) निघ.। बस.। g) पा. कर्त्तारि, वीथी. भावे इत्। h) = चर्ण-विशेष-। i) = वर्ण-विशेष-। तमुच्चयार्थे अर्थः। j) पाठे. वैप १, १३१८ j द.।

३९; शशि ९७; याशि २,३५.  
 चवर्गीय- ये शौच २,११.  
 चवा-योग- गान् अत्रा १,१,१४;  
 मे अत्रा १, १, १५, पा ८, १,  
 ५९.  
 चवा-हा( ह-अ) है( ह-ए)व-युक्त-  
 -के पा ८,१,२४.  
 ? चवैवाव्यक्तानि<sup>०</sup> अत्रा १,१,१४.  
 चा( च-आ)दि-दिभिः पावा २,  
 १,१; -दिपु पा ८,१,५८.  
 चादि-लोप- ये पा ८,१,६३.  
 चा(च-अ)नुवन्ध<sup>०</sup> - न्धः पावा ८,  
 १,६९.  
 चा(च-अ)ह-लोप- ये पा ८,१,६२.  
 ✓चक् पावा. भ्वा. आत्म. तृती प्रति-  
 पाते च.  
 चकित<sup>०</sup> - तः कप्र २,१,१६.  
 चकद्र- , चक्रद्राति ✓कदा द.  
 चकन<sup>०</sup> - पाग ६,२,१३४.  
 चकमान- ✓कम् द.  
 चकान- ✓के द.  
 च-आर- प्रभृ. च द.  
 ✓चकास् पावा. अदा. पर. दीप्तौ,  
 चकासति सु ४,२.  
 चक्रवत्- ✓कृ द.  
 चक्रकोर- पाउ १,६४.  
 चक्रकोर<sup>०</sup> > चक्रो-भीमां(गं)रय<sup>१</sup>-  
 -याः अत्र ५६,१,५.  
 ✓चकक् पावा. सुरा. उभ. व्ययने.  
 चकन- चकन- टि. द.

चक्रा<sup>१</sup> - पाउना ५, ५३; पाग २, ४,  
 ३१; ४,१,११०<sup>१</sup>; २, ८०<sup>३</sup>; ३,  
 १०४<sup>३</sup>; ५, १, १२३<sup>०</sup>; पावा ६, १,  
 १२; -क्रः वीथे, १०, ६१<sup>०</sup>; -क्रम  
 आधौ ९, ९, ८; आधौ ७, १५, २;  
 आधौ ५, १४, ६; १८, ४, १०;  
 वीथी १४, १२: ३११<sup>०</sup> x x; माथी;  
 कप्र २२, ११<sup>०</sup>; आ११५, २२<sup>०</sup>; १०;  
 या४, २०<sup>०</sup>; -कयोः वीथे १, ९,  
 ४; हा१ १, १५, ४; -क्रम्य आधौ  
 ४, ९, ३; अत्र ७२, २, ६; -क  
 आधौ ५, १३, ३; वीथि १, १० :  
 १८; -कणि आधौ ११, ७,  
 २<sup>०</sup>; माथी २, २, १, ३; द्विथी  
 ७, ५, ११<sup>०</sup>; लाथी १०, ५, १३<sup>०</sup>;  
 -काम्याम् आधौ ९, ३, ५; अत्र  
 २३, ५, २; -के आधौ १, १७,  
 ८; वीथी; या ४, २०<sup>०</sup>; -क्रेण  
 अत्र १३, ३, ९; विप ८६, १०.  
 १चकी<sup>०</sup> - क्रिया या ३,  
 २२<sup>०</sup>.  
 चक्रीवत्<sup>१</sup> - पा ८, २,  
 १२; -वत् आधौ ३, १०, १०;  
 आधौ १३, २९, ३; आधौ १५,  
 २०, १८, माथी ११, २१, १८;  
 माथी २, ४, ५, १२; -वति आधौ  
 ३, ४, २; काथी २५, ४, २०;  
 -वती वीथी १६, २९: ७, द्विथी  
 १७, ८, ५; -वन्तम् भा१ ३, ६,  
 २२; -वन्ति आधौ १२, ६, ५;

काथी २४, ३, २६; ५, २६; आ१थी  
 २३, १२, १३; द्विथी १८, ४,  
 २८; लाथी १०, ५, १३.  
 चकीवत्-आ- आ  
 लाथी १०, १५, ९.  
 २चक्री<sup>०</sup> - श्री भा१ १, १४,  
 १२<sup>०</sup>.  
 चाक- पा ४, ३, १०४.  
 चाक्रायण- पा ४, १, ११०.  
 चाक्रेय- पा ४, २, ८०.  
 चाक्र- पा ५, १, १२३.  
 चक्र-काल-वृद्धि- द्विः वीथि १२,  
 ३१.  
 चक्र-कृत<sup>०</sup> - तान् वीथि ८३, २.  
 चक्र-चर-त्व- -त्वम् वीथि ३, १, ३१<sup>०</sup>.  
 चक्र-ण(, न)दी-, चक्र-णि(, नि)  
 तस्या- पावाग ८, ४, १०<sup>०</sup>.  
 चक्र-नुष्ट<sup>०</sup> - ष्टः सु २३, ४.  
 चक्र-नुष्टुभि- > ष्य<sup>०</sup> - ष्याः  
 काथी १४, ३, १३.  
 चक्र-घर- पाउवृ २, २२.  
 चक्र-ध्वज-वेदमा ( रम-आ) वस्य-  
 प्रास्तादा(द-अ)प्र- मे अत्र ७२-  
 २, २.  
 चक्र-पाणि<sup>०</sup> - णिः अत्र ६७, ६, ७.  
 चक्र-पाल<sup>०</sup> (> चाक्रपालेय- पा.)  
 पाग ४, २, ८०.  
 चक्र-पिसाक- श्री वीथी १७, १८-  
 ५.  
 चक्र-नुक्त- -वते या ३, २२.

a) पाठः ? च-वै-वाव-युक्तानि इति संस्कृतः टि. शोधः । b) विप. । वस. । c) या ४, २७ परामृष्टः  
 द. । d) = भीत- (= परिवर्तु-क- [तु. अकर्म- इति वाचित्कः मूलो.]) । e) अर्थः व्यु. च ? । तु. पावा.;  
 चकन- इति भाष्यः; चक्रन- इति [पक्षे] पावा. । f) पा ६, १, ६ पावा ३, १, ३५ परामृष्टः द. । g) = पक्षि-  
 विशेष- । व्यु. ? । h) = देश-विशेष- । व्यु. ? । i) दस. उप. स्वरूपम् ? । j) वप्रा. । k) वैप १६. ।  
 l) = ऋषि-विशेष- । m) अर्थः ? । चक- इति पावा. । n) तु. पागम. । o) तु. पावा., चक्र- इति भाष्यः ।  
 p) = तर्पण-विशेष- । q) सपा. चकमिवानुदुष्टः < > चकीवानुदुष्टो इति पावे. । r) वैप १, १२९५ b द. ।  
 s) विप., नाप. ( रासम-, शकट- प्रभृ.), व्यप. [पा.] । t) = चक- । u) पू. = [पना.] चकी । v) = ष्व-  
 इति भाष्यः । w) विप. (मन्त्र- ) । x) अर्थः व्यु. च ? ।

चक्र-रूप- -यम् रूप ७०<sup>१</sup>, ५, २.  
 चक्ररूपिन्- -पी विप ९८, २.  
 चक्र-वन्- -अप ५८<sup>२</sup>, २, ७; ६४, १, ५;  
 आपप २, २, ३; द्विप २, १, २५;  
 वृदे ४, ३५.  
 चक्र-वन्- -वस्तु बोध १, २, ३५.  
 चक्र-वर्तिन्- -तिनाम् वृदे ५, १२३.  
 चक्र-वर्धन्- -रमनी द्राश्री ५, ४, ११.  
 चक्र-वर्मन्- -> चाकवर्मण- -गण्य  
 पा ६, १, १३०.  
 चाकवर्मायण- -णाः बोश्रीत्र  
 ३२ : १.  
 चाक-वाक- -पाग ४, २, ८०<sup>०</sup>; ६, ३,  
 ११८; -कम् शंघ ४२६.  
 चाकवाक- -कम् आग्रिष्ट  
 १, ५, ४:४०; काष्ट २९, १; बौध;  
 १, ४, ५; भाष्ट १, १०:१४; माष्ट  
 १, १४, १२; वाष्ट १५, २२; द्विष्ट  
 १, २४, ६; २५, १.  
 चाकवाक्ये- -पा ४, २, ८०.  
 चाकवाक-व(त्)>तो- -पा ६, ३,  
 ११८.  
 चाक-वाल- (> चाकवाक्ये- -पा.)  
 पाउमो २, ३, १०५; पाग ४, २,  
 ८०.  
 चाक-संस्था(त)>ना- -नाः अप  
 ५८<sup>२</sup>, ४, ७.  
 चाक(क-अ) द्वित- -तः शंघ १२२.  
 चा(क)>का-वत्- -वस्तु वाश्री १,  
 ५, ४, ४०<sup>१</sup>.  
 चाका(क-अ)द्वय- -वैः मासि ४, ५.

चक्रिन्- -क्रिणः<sup>०</sup> द्विष्ट २, ७, २६;  
 -श्री<sup>०</sup> आपमं २, १६, ९६; माष्ट  
 २, ७ : २४६.  
 चक्रि-रसमीस्वा(स्व-अ)नुमाह-  
 वधु-खातक-राजन्- -जम्पः गौध  
 ६, २५.  
 चक्रत्- ✓कृ द.  
 चक्रति अप ४८, ५२१.  
 चक्रि- ✓कृ द.  
 चक्रिक- -कः वैप ३, १४, ९.  
 रचक्रिन्- -श्री वैध ३, १३, १२.  
 चक्रो-वत्- -कक- द.  
 चक्रु- ✓कृ द.  
 चक्रन- -चक्र- टि. द.  
 ✓चक्र<sup>१</sup> पाथा. अदा. आत्म. व्यक्त्या  
 वाचि, दर्शने, वष्टे अप ४८, २१;  
 निप ३, १११.  
 चक्र- पाउ ४, २३३; -तलसा  
 आश्री ३, ८, १; राश्री ११, १४, ४;  
 वा १२, २२-२५; ऋप्रा १, १००;  
 -तलसे<sup>०</sup> आश्री ८, ६, ८; बौश्री  
 ६, १६ : १३; माश्री १०, २०, ४;  
 द्विश्री १०, ३, ३०; जैश्री ६ : ४<sup>६</sup>;  
 १२ : ३; द्राश्री २, ३, ५<sup>६</sup>; लाश्री  
 १, ७, ५<sup>६</sup>; आपमं २, ७, १३; वा  
 २, २७<sup>६</sup>.  
 चक्रु- -शोः आग्रिष्ट २, ७, ८ : १२१.  
 चक्रु-निरोध- -धः आपप २, २७,  
 १७.  
 चक्रु-निष्पत्ति- -त्तिः आग्र्यो  
 १२, ११.

चक्रवा(लु-आ)दि- -दि आग्रिष्ट  
 ३, ६, ३ : १४.  
 चक्रुत्- -पाउ २, ११९; पाग ५, ४,  
 ३८<sup>१</sup>; ५१; -तलुः आश्री १, ४, ३;  
 १३, १; ३, १<sup>१</sup> x x; राश्री १, ६,  
 २ x x; ४, १७, ३<sup>१</sup>; काश्री; आपश्री  
 ५, १३, १; ६, १९, १; ७, १, २<sup>१</sup>;  
 १६, ३३, ३<sup>१</sup>; बौश्री २, १० : ३९<sup>०</sup>;  
 द्विश्री ३, ४, १२<sup>०</sup>; ४, १, ५<sup>१</sup>; ६,  
 ६, १७<sup>१</sup>; वैताश्री २६, १<sup>१</sup>;  
 आग्रिष्ट ३, ६, १ : ६<sup>१</sup>; वा ४,  
 ३<sup>१</sup>; -श्रुमिः अप ४८, ३५१;  
 -श्रुम्याम् आपश्री १२, १८,  
 २०<sup>१</sup>; बौश्री; -श्रुपः शाश्री ८,  
 १४, १८; काश्री; -तलुपा आश्री  
 १, १३, १ x x; राश्री, माश्री १,  
 ६, ३, १८<sup>१</sup>; आपप २, ५, ११<sup>१</sup>;  
 -श्रुपाम् वैताश्री ९, २७<sup>१</sup>;  
 -श्रुपि वाक्यौ ४, ३० : १८;  
 जैश्री १२ : ५; आग्रिष्ट १, १, ३;  
 ३१<sup>१</sup>; द्विष्ट १, ५, १३<sup>१</sup>; -श्रुपी  
 आश्री ६, ९, ३; राश्री; पावा ५,  
 २, ३३; -तलुपि आश्री ६, ९, १;  
 काश्री; -श्रुपोः आपश्री १०,  
 १४, ९<sup>१</sup>; १२, २५, १; माश्री;  
 -श्रुपि शक्ति २७८<sup>१</sup>.  
 चक्रुप- -पा ५, ४, ३८;  
 -०प अप्रा ३, १, १३<sup>१</sup>; -पः  
 वृदे ८, १११.  
 चक्रुः-श्रोत्र- -त्रे वाश्री १, १,  
 ३, १६; वाष्ट १२, २.

a) व्यप. । b) वैप १ द. । c) अर्थः व्यु. च? । d) विप. । वस. । e) पाठः 'श्री' इति  
 संस्कृतमिमतः शोषः । f) = चक्रवाक. । वस. । g) परतरं पाठे. । h) [= 'जोर्मि' ] श्रुदायां जात- । व्यु. ? ।  
 i) = [ गृह ] श्राद्धायामुत्पन्न- । व्यु. ? । j) वा १, ९, ४, ३ पा, पावा २, ४, ५५ पराष्टः द. । k) पाठे. वैप १,  
 १२९६ c द. । l) सपा. 'श्रुमि' <> 'श्रुमि' इति पाठे. । m) यशस- इति [ पठे ] पाठ. । n) पाठे.  
 वैप १, १२९६ j द. । o) पाठे. वैप १, १२९७ d द. । p) पाठे. वैप १, १२९६ d द. । q) पाठे. वैप १,  
 १२९७ b द. । r) पाठे. वैप १, १२९६ m द. । s) पाठे. वैप २, ३६. ज्योतिषा वैवा १, २, १, २७ टि. द. ४.  
 t) सपा. चक्रुपा तक् <> चक्रुस्तक इति पाठे. । u) पाठे. वैप १, १२९६ d द. ।

चक्षुरा(र-आ)दि-विनाशि(व>) नी- नी श्य २३, ३, ५.  
 चक्षुर-णो-कर्म-वक्त्र- -व्राणि जैत्रिका १४१<sup>१०</sup>.  
 चक्षुर-दा- -दाः श्रापथी १७, ५, १६; वैश्री १८, २१ : १६<sup>१०</sup>; हिथ्री ११, ८, १०.  
 चक्षुर-निमित्त, ता- -ता बौथ्री २०, २५ : ३१; -ते बौथ्री २, १२ : २४; माथ्री ५, २, १७.  
 चक्षुर-निरोध- -धः हिथ २, ५, २३६<sup>१०</sup>.  
 चक्षुर-मुख- -खी सु २४, २.  
 चक्षुर-विषय- -ये शौथ्री २, १४, १०; विथ २८, २३.  
 चक्षुर-श्रोत्र-व्यग-प्राण-मनो-म्यतिक्रम- -नेषु बौध ४, १, ५.  
 चक्षुष-काम- -मः श्रापथी ७, १, १६; ८, १९, ५; बौथ्री १३, ६ : ११; १५ : ९; ३० : २; -मस्य माथ्री ५, १, ६, २७; २, २, १९; हिथ्री २२, ३, ५, १९; माथ १, ४, १६.  
 चक्षुष-पा- -पाः श्रापथी ५, ६, ७, शौथ्री ४, ७, १२<sup>१</sup>; ८, ४, ६<sup>१</sup>; काथी ३, ६, १४; बौथ्री १, १९, ३२x; माथ्री; -पान्याम बौथ्री ७, १२ : ३७.  
 चक्षुष-मन्- -मते<sup>१</sup> श्रापथी

२१, ४, १; आथिण २, ४, २ : ५; माथ २, १८, २; या ११, ७; -मान् श्रापथी ४, ९, ९; ११<sup>१०</sup>; बौथ्री ३, १८ : १२<sup>१०</sup>; माथ्री ४, १३, ७<sup>१०</sup>; १४, १<sup>१०</sup>; २<sup>१०</sup>; माथ्री १, ४, २, १<sup>१०</sup>; वाथ्री १, १, ३, २<sup>१०</sup>; हिथ्री ६, ३, २<sup>१०</sup>; विथ २१, १५<sup>१०</sup>.  
 चक्षुष-वक्-शिको( श-उ) दरा- (र-आ)रम्भण<sup>१</sup>- -णान् हिथ २, १, १०<sup>११</sup>; १०, १५८.  
 चक्षुष<sup>१</sup> -क्षुः ऋथ २, ९, १०६.  
 चक्षुष- -क्षुः ऋथ २, ९, १०६; -यः साथ १, ५६७; २, ११२; ११७६; -क्षुपम् शेष ११६; ४५<sup>१०</sup>.  
 चक्षुस्, चक्षु-, चक्षुस्- ✓चक्षु द.  
 चक्षुकुण<sup>१</sup>-> चाक्षुर्ण- -णस्य चाथ ३८ : १३.  
 चक्षुकुर- पाठ १, ३८.  
 चक्षुक्रमा-, -म्यमाण- ✓कम् द.  
 चक्षु-चक्र- च द.  
 ✓चक्षु पाथा. भ्वा. पर. गतौ.  
 चक्षु- (> चक्ष-क- पा.), चक्षु- (> चक्ष-क- पा) पागवा ५, ४, ३.  
 चक्षुरीक- ✓चर् द  
 चक्षुलीक- ✓चल् द.  
 चक्षु<sup>१</sup>- पाठमो २, २, ८२<sup>१०</sup>; -ञा

पा ५, ३, ९८.  
 चक्षु- पाठमो २, १, ७.  
 ✓चक्षु पाथा. चुरा. उभ. भेदने.  
 चक्षुका<sup>१</sup>- पाठमो २, २, ७; पा, पाग ४, १, ४; पागवा ७, ३, ४५.  
 चाक्षु- पा ४, १, १२८.  
 चक्षु-विषु-वक्त्र-निर्वात-प्रयत्न- -ने काथ २७५ : १०.  
 चक्षु- (> चाक्षुयन- पा.) पाग ४, १, ९९.  
 चक्षु- पाठमो २, ३, ३८.  
 चक्षुवर्ग-, चक्षुवर्ग- च द.  
 चक्षु- पाठमो २, ३, १७३  
 चक्षुकु- पाठमो २, १, ४०.  
 चक्षु<sup>१</sup>- पाठमो २, १, ७<sup>१०</sup>; पाग १, २, ५७<sup>१०</sup>; ५, २, ९७.  
 चक्षु- पा ५, २, ९७.  
 चक्षु<sup>१</sup> पाग १, ४, ५७.  
 ✓चक्षु पाथा. भ्वा. पर. गतौ दाने च.  
 चक्षुक- (> चाक्षुय- > चाक्षु- पा. यक.) पाठमो २, २, ७; पाग ४, १, १०५<sup>१०</sup>; २, १११<sup>१०</sup>.  
 ✓चक्षु पाथा. भ्वा. आत्म. कोपे.  
 चक्षु- पाठ १, ११४<sup>१०</sup>; पाग ४, १, ४५; ५, १, १२२; ४, २९; -ञाः श्य ६४, ३, १०; माथि १६, ५; याथि २, १००; नाथि २, ८, १४; -पडात् चक्षु ३ : १२.  
 चक्षु- पा ४, १, ४५<sup>१०</sup>.

a) = नम्-। शोचते छान्दसं द्र.। b) च्छाणि इति पाठः? यनि. शोचः। c) द्वा इति पाठः? यनि. शोचः ( तु. हिथ्री. )। d) पाथे. पृ १०४३। द्र.। e) पस.। f) पाथे. वैप १, १२९८ ह द्र.। g) पाथे. वैप १, १२९९ ० द्र.। h) पाथे. वैप १ परि. अक्षुः तै १, ६, २, ३ टि. द्र.। i) विप. (आसाव-). दम. > पस.। j) पाथे. पृ १०४३। द्र.। k) च्छाणि इति पाठः? यनि. शोचः। l) = श्राप-विशेष-। व्यु. ?। m) = मन्त्र-नारायणतम-। n) तु. पागम.। o) = लृणमैय-पुण्य-। व्यु. ?। p) < ✓चि इति। q) = पक्षि-विशेष-। व्यु. ? < ✓चक्षु इति श्रमा. प्रमृ.। r) = धन्यनुकरण- [चक्षु]। s) ध्यव.। व्यु. ?। t) = प्रियाऽऽलाप-। व्यु. ?। u) < ✓चक्षु इति। v) तु. पाका.। चाक्षु- इति भाष्य.। w) अथ.। चक्षु इति पाठित.। x) ✓चक्षु इति विभाष्येति पागवा ७, ४, ३। y) चक्षु- इति पाका.। चक्षु- इति [पक्षे] भाष्य.। z) विर., नाप.। a') < ✓चक्षु इति ?।

-ण्डि सु ३,४.  
 चण्ड- पा ५,१,१२२.  
 चण्ड-क- पा ५,४, २६.  
 चण्ड-वा-, चण्ड-व्य- पा ५,  
 १,१२२.  
 चण्ड-वचन- ने विष ३०,५.  
 चण्डिमन्- पा ५,१,१२२.  
 रचण्ड- (> रचण्ड- पा.) पाग ४,  
 १,११२.  
 चण्डातक- पाठमो २, २, ४२;  
 -कम् काशौ १४, ५, ३.  
 चण्डाल- पाठ १, ११७; पाग ४,  
 १,७३; ३, ११८; -लः वीथ १,  
 ६, ६; वैष ३, १४, ७; -लम् कौय  
 २, ७, २३; शीघ्र २, १२, १०; ६,  
 १, ३; वीथ १, ५, ५२; १२२;  
 -खात् वैष ३, १५, ११;  
 -खानाम् विष १६, ११; १४;  
 -लैः सुध १६  
 चण्डाली- पा ४, १, ७३;  
 -लीम् शंष ४४९; वीथ २, २,  
 ६७.  
 चण्डाली-नामन- ने विष  
 ५३, ५.  
 चण्डाली-न्यवाय- यः  
 वीथ २, २, ६६.  
 चण्डाल्य (ली-अ) वकी-  
 मिन्- नीं शंष ३७८  
 चण्डाल- पावा ५, ४, ३६;  
 -लः वाध १८, १; आपध २,  
 २, ६; हिण २, १, १२८.  
 चण्डाली- > ङी-  
 पुकसो-गमन- ने शंष ३७७ :

१८.  
 चाण्डाली-न्यवाय-  
 -यः वाध २३, ४१.  
 चाण्डाल-ल-समापण-  
 -ने विष २२, ७६.  
 चाण्डाल-संयुत- ने कौय  
 १४१, ३८.  
 चाण्डाला (ल-अ) मि- -दौ  
 श्य ३१, १, ३.  
 चाण्डाल-पतिता (त-अ) स-  
 भोजन- नेपु वाध २०, १७.  
 चाण्डाला (ल-अ) ता (अ-अ)  
 द- -दः श्य २, ६, ३.  
 चाण्डालो (ल-उ) पस्पशन-  
 -ने हिण २, १, ३०.  
 चाण्डालक- पा ४, ३, ११८.  
 चाण्डालकि- पावा ४, १, ५७.  
 चण्डाल-दर्शन- ने सुधय ८६:  
 १४१.  
 चण्डाल-पतित-स्पष्ट- -दृग् वीथ  
 १, ५, ५४.  
 चण्डाल-पतिता (त-आ) दि- -दौ शंष-  
 -नीं श्यापिठ २, ७, ८ : ९.  
 चण्डाल-प्रेक्षित- -तम् सुध ६१.  
 चण्डाल-वत् वैष ३, १५, ११.  
 चण्डाल-वैदेह्य-मूल- -ताः विष  
 १६, ६०.  
 चण्डाल-न्य-यूपा (प-आ) दि- -दि  
 शंष १०७.  
 चण्डाल-सूतेक-पतिता (त-उ) दशया-  
 श्य-स्पशन- ने सुध ३२.  
 चण्डाला (ल-आ) दि-स्पष्ट- -धानाम्  
 वाध २७८ : ५.

चण्डाला (ल-२आ) य- नीः शंष २३, ५०.  
 चण्डाला (ल-अ) न्त- -नीः वैपु ७,  
 ४ : १०.  
 चण्डाला (ल-अ) वा- -तम् विष ५१,  
 ५७.  
 चण्डाला (ल-अ) वैक्षित- -तम् सुधय  
 ८८ : ४.  
 चण्डालो (ल-उ) पस्पशन- -ने श्यापध  
 २, २, ८०.  
 चण्डाला- पाठ १, ५७.  
 चण्डाल (पधा.)<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. लभ. श्यच्चे,  
 नाशने श्वा. श्चतति निघ२, १४<sup>२</sup>  
 चातयसि या ४, २५; चाव-  
 यामः या ६, ३०; चातया-  
 मसि या ६, ३०<sup>३</sup>; पाचात  
 यत्<sup>४</sup> श्यापधौ १२, ३, ३; हिथौ  
 ८, १, ४१.  
 चत्, चा- पा ७, २, ३४; -पात्ता  
 वृदे ८, ६०; -पात्ताव श्यापधौ  
 २१, १२, ९; वाधौ ३, २, २, ३६;  
 वैताथौ ३४, १.  
 चय्य- पावा ३, १, ५७.  
 चातन- -नः श्या ३२, १, ३; ३३,  
 ६, २; श्या २३, १; श्याभू २;  
 श्या १, ६; २८×१; -नम्  
 श्या १९, ४, २; -नानाम् कौय  
 २५, २२; ८०, १२; -नाति कौय  
 ८, २५; १३६, ६; श्या २२, १,  
 ३; -नेन श्या २१, ६, ८; श्या  
 २१, १; -नेः वैताथौ ५, १०;  
 श्या ३३, ५, ६.  
 चातन-नाय- -णस्य श्याभू २.

a) व्यय. । व्यु. ? ।      b) = [ श्यापधक- ] वस्तु-विशेष- । व्यु ? ।      c) नाय. । व्यु. ? ।  
 d) चा इति जीर्ण. ।      e) यथा. चाण्डा <> चण्डा इति पाठे. ।      f) पाठे. घृ ४२४ d द. ।  
 g) दस. > वस. > पस. उप. = दर्शन- ।      h) विप. । पत. ।      i) वैष १ द. १ या द, ३० परास्पष्टः द. ।      j) गती  
 वृत्तिः ।      k) पाठे. वैष २, ३६. चातयत् तैत्रा ३, ७, ९, १ टि. द. ।      l) वैष १, १२९९ k द. ।      m) = श्याप-विशेष-  
 श्या, गण- सङ्ग- प्रस. [ श्या. श्या. कौय. ] ।

चतुर- > चतु- पा ७, २, १९;  
 पाग ७, १, १०; -सिरी पावा ७, २,  
 १९; -सृणाम् काशी १७, ७, १५;  
 वीथी ८, १० : १४x; माथी;  
 पा ६, ४, ४; -सृभिः काशी २,  
 १३, ९; दाथी ४, ११, ६x;  
 काथी; -सृभिः-सृभिः कापण्ड  
 २०, २; हिद्यु ६, ३९; -सृम्यः  
 कापथी १३, १०, ११; १९, ६;  
 वीथी; -सृपु दाथी १४, ६१,  
 २; कापथी; -सृपु-सृपु काथी  
 १७, ३, ३; काय ४, ८, २२;  
 -सृः काथी २, ४, १३x; काथी;  
 -सृः-सृः काथी १०, २, २४;  
 वीथी १५, २२ : १६x;  
 माथी ६, २, ५, २७; हिथी.  
 चतुर- पाउ ५, ५८; पाग ५, ४,  
 १०७; -सुरः काथी २, १६,  
 ९; ११, ७, १०; दाथी ५,  
 १, २x; काथी; -सुरः-सुरः  
 कापथी १७, २६, ४; २३, ११,  
 ३; वीथी; -सुरांम् काथी ७,  
 ५, ९x; दाथी; -सुरभिः काथी  
 ८, १, ११; १०, ३, २२; काथी;  
 -सुरभिः-सुरभिः वीथी २१, १ :  
 ३३; वेताथी १६, ६; -सुर्याः  
 काथी २, १०, १८; कापथी;  
 -सुर्यांम् हिद्यु ६, २४; -सुर्यु  
 काथी १०, २, ३०; दाथी;  
 -सुर्यु-सुर्यु वीथी २८, ८ : १३;  
 वेथी.  
 चतु-शृणालो (ल-उ)न- जे  
 विष ९, ८.  
 चतु-मारापण- -सृम् चयु  
 १ : ६.  
 चतु-ममम (य>)गा- गा  
 काय ३, ९.

चतु-प्रत्य- -स्यम् अप ३३,  
 ३, ३.  
 चतु-प्रत्यो (स्य-उ) दक-पू-  
 (र्ये>)गा- गा वेथी ११,  
 ९ : ८.  
 चतुर-अच- -क्षः वीथी १५,  
 १ : १५; वापूथी ३, ६९ : ३८;  
 -क्षम् काथी २०, १, ३६;  
 कापथी; -क्षो हिपि १८ : ८.  
 चतुरक्षी- -क्षी अम ५,  
 १९.  
 चतुर-अक्षर- -रम्-रम्  
 निवृ ४, १० : ५; -राणि काथी  
 ६, ४, ६; दाथी ९, १८, २; जुव  
 १, ५ : ५; २५; ६ : २६; -राव  
 श्रमा १७, १९, ४४.  
 चतुरक्षर-दाव (ः) लाथी ७,  
 ७, ९; ९, ११.  
 चतुरक्षरा (र-अ)थिक-  
 -कानि उनिवृ १ : ४.  
 चतुर-अक्षर, रा- -रः लाथी  
 ६, १०, २; श्रमा १६, ३३; -रम्  
 काथी ६, ३, ८; ७, १, १२;  
 वापूथी; -रा वापूथी ४, ५० :  
 १; निवृ १, ५ : ९; -राः काथी  
 ७, १०, ६; -रे दाथी ९, ५,  
 १३; -रेण दाथी ९, ६, ७-१०;  
 वापूथी ४, १०० : २३; निवृ  
 २, १० : १६.  
 चतुरक्षर-ता- -तायाः निवृ  
 १, १ : ७.  
 चतुर-अक्ष, का- -क्षम् अप २६,  
 २, १; -क्षाम् अप ६८, २, २.  
 चतुर-अक्ष, ला- -लः काय  
 ७, २२; -लम् दाथी १७, १०,  
 ४; आपथी; -लम्-लम् काथी  
 १६, ८, १८; -लाभ्याम् दाथी

१७, १०, ४; -लाम् कापथी २,  
 २, ७; हिथी १, ६, १४; -ले  
 दाथी १७, १०, ४; वीथी ९,  
 ३ : १८; १०, ५ : १७; हिथी  
 ४, ४, १३; -लेन वीथी ४, २ :  
 ३३; ६, २६ : २३; वेथी.  
 चतुरकुल-पृथ्वी- -पृथ्वीः  
 काय ६५, ३; गोय ४, २, १७;  
 विष २१, ४.  
 चतुरकुल-मात्र- -प्रम् माथी  
 १, २, ६, १२; -प्रेण वीथी २६,  
 २३ : ७.  
 चतुरकुल-मान- -नेन अप  
 २५, १, १२; ३०, १, ९.  
 चतुरकुल-विस्तार, रा- -रम्  
 वेथी ११, ८ : ९; -राम् वेथ  
 १, ८ : ११.  
 चतुरकुलविस्तारो (र-उ)  
 ष (त>)ता- -ता वेथ १, ६, ५.  
 चतुरकुल (ल-अ)प्र-  
 -प्रम् वेथ १, ८ : ६.  
 चतुरकुलो (ल-उ)स्य (य>)  
 या- -या अप २२, २, २; -याः  
 माथी १, २, १, ६.  
 चतुरकुलो (ल-उ)से (य>)  
 या- -या वेथ १, ६, ५.  
 चतुरकुलो (ल-उ)ष (त>)  
 ता- -ता वेथी ११, ८ : ४;  
 -ताम् वेथी १, १ : १६.  
 चतुर-अक्षुलि- > -लि-वि-  
 रत्ता- -रम् वेथी १, २ : ५.  
 चतुरकुलविस्तारो-  
 (र-उ)ष (त>)ता- -ताः वेथी  
 १, ३ : ७; -ताम् वेथी १, २ :  
 ७; १२; वेथ १, ८ : १२.  
 चतुरकुलि-विस्तारो (र-अ)  
 यन- -रम् वेथी ११, ८ : ७.



चतुर-अञ्जलि-मात्र- -यात्  
गोष्ठ २, १, १४.

चतुर-अनीक- -कः श्रमा ५,  
५३१.

चतुर-अनुतोद<sup>०</sup> -दम् निम् ३,  
१२: १३: १७.

चतुर-अनुवाक<sup>०</sup> -कम् अत्र  
१८, १.

चतुर-अनुष्टुप्-अन्त<sup>०</sup> -न्तम्  
श्रम २, ४, ३७; ६, ५९; ९, ५;  
१०, १६; ८७.

चतुर-अन्त,न्ता<sup>०</sup> -न्तम् माथी  
१, ३, ३, २०; -न्ता विष  
८७, ९.

चतुर-अपलाप<sup>०</sup> -यम् आपथी  
१८, १८, ५; वीथी १२, १४: १५.

चतुर-अभिज्ञव<sup>०</sup> -वाद् आथी  
११, ७, २: १०.

चतुर-अरवि,वीथ<sup>०</sup> -विः काथी  
५, ३, १२; ६, १, २४; आपथी  
७, २, १७; वीथी; -विम् द्विथी  
४, १, ४०; -विम् वीथी ९, ४:  
२; -वी वीथी १०, २: ६.

चतुर-अवत्त,सा<sup>०</sup> -त्तम् काथी  
३, ३, ११; आपथी ११, १, १;  
वीथी; -त्तस्य वीथी १३, २३:  
१; २३, ३: १६; -त्तम्  
आपथी ३, १, ६; वीथी ६, ११:  
२; द्विथी २, १, ७.

चतुर-अवत्त-यज्ञावत्त- -त्तै  
काथी १, १, १, ४४.

चतुर-वत्तिन्- -त्तिनः आपथी  
२, १८, ९; ७, २०, ११;  
वीथी ६, ८: ६; ९, ७: ११;

१२; -त्तिनाम् आपथी ८, १५,  
५; वीथी २०, ५: २२; माथी  
८, १८, ३; वीथी ९, ७: ८;  
-त्ती माथी ७, १६, ५; गोष्ठ  
१, ८, ७; मीथ १०, ७, ७०.

चतुर-अवदान<sup>०</sup> -नस्य माथी  
२, १८, १२; १९, ३×४; वाथी.  
चतुर-अपर<sup>०</sup> -वात् वाग् ११,  
२२.

चतुर-अवराध<sup>०</sup> -वार्त् गोष्ठ  
४, ३, ६.

चतुर-अवराध<sup>०</sup> -वर्षाः द्राथी  
३, ४, १; -वर्षात् साथी १, ११,  
२५.

चतुर-अवसा(न>)वा<sup>०</sup> -ना  
शुभ १, ३०४; २, ८१; अथ  
१०, ५; १३, ३; -नाः अथ १३,  
३; १९, ३९; अर्थ ३: ६९.

चतुर-अवसाव<sup>०</sup> -वग् द्विथी  
१३, ६, १७.

चतुर-अकील- -तिः अर ५२,  
२, २; श्रमा १६, ९०.

चतुर-अश्र,आ- पा ५, ४, १२०;  
-श्रः राथी १५, १, १६; आपथी;

-श्रम् काथी १६, ४, ९;  
आपथी; कौष्ठ १, २, ४; -अश्रोः  
आपथ्य २, ६; द्विष्ट १, २६;  
२७; -अश्रस्य आपथ्य १, १०;

७, ९; १३, ३; द्विष्ट २, ५९;  
४, ३५; -आ वीथी ११, ८: ५;  
अथ; -आः आपथी १७, २१, ५;  
माथी ६, १, ४, ३९; वाथी;  
-आणाम् वीथ्य १८: ६; २१:  
६; -आण्य वीथी २७, ४: २९;

द्विथी १२, ८, ९; आपथ्य; -आन्  
आपथ्य २, ८; वीथ्य २: ३; द्विष्ट  
१, ३०; -आन् वीथी १४, १२:  
४; द्विथी ७, ७, २७; वीथ्य १२:  
१; -आण्यः वीथी १८, १६:  
३७, ७६; आपथ्य; -आम् आपथी  
१६, ४, ७; ५, ४; वीथी;  
-आण्य वीथ्य ६: २१; -श्रे  
वीथी २०, २५: ११; आपथ्य  
८, ३.

चतुर-अ-करणी<sup>०</sup> -णी वीथ्य  
२: २४.

चतुर-अ-कृत,ता- -तस्य  
वीथी २६, १०: ३; -ताः वीथ्य  
८: २३.

चतुर-अ-वपा(ल>)ला<sup>०</sup>-  
-ले वीथी २०, २५: ११.

चतुर-अ-पा(य>)या<sup>०</sup>- -याः  
वीथ्य १०: १९; २२; १२: १३;  
१३: ६.

चतुर-आ(अ-अश्र>)श्री<sup>०</sup>-  
-श्रयम् काथी १६, ५, ५.

चतुर-आ(अ-आ)अम्<sup>०</sup>-  
-त्ता वीथ्य ८: २१<sup>m</sup>.

चतुर-ओ(अ-अ)पलित- -ते  
वेध २, १४, ७.

चतुर-अ-वि<sup>०</sup>- -विः वीथी २५,  
३४: १; वीथी १७, ७: ६;  
-विम् वीथी ४, १: ३०; ११,  
१: ५.

चतुर-अ-ए(का>)क<sup>०</sup>- -कः गोष्ठ  
३, १०, ३.

चतुर-ए(अ)एदत- -ताः द्विथी  
१७, ३, ४.

a) वेध १३. b) विप. । वत. । c) उप. अनु/तद् + घम् प्र. । d) विप. । कत. > वत. ।

e) सपा. चतुरत्वम् <> चतुर्था इति पाठे. । f) सपा. चतुरत्वम् <> चतुरत्वम् इति पाठे. । g) विप. ।  
तदित्यायं द्विष्ट. । h) मलो. कस. । i) तु. जीतं. । j) च्वं- इति MW. । k) सपा. अश्रम् <> अश्रम् इति  
पाठे. । l) मलो. कस. उप. अश्रु-विशेष. । m) आश्रा इति पाठः ३ यति. शोधः ।

चतुर्-अक्ष,घा- -स्यः वाथी ३,  
१,१,७; काशु ७, २१; -स्यम्  
काथी ८, ५, २५; १७, ५, ३०;  
आपथी १६, १४, १; माथी;  
गाथु १, ७, २०; -त्राणि कौम्  
८५, ८; -घान् काशु ३, १;  
-स्यम् माथी १,७,३, २१; ६,  
११; -स्ये काथी १६, २, २०;  
कौम् १३७, १७.

चतुर्-अह- -हः काथी २४,  
३, २५; ५, ११; वाधुथी;  
-हम् आपथी २१, ४, १३;  
बौथी १८, ३२: ५x५; वैथी;  
-हम्-हम् आपथी २१, ४,  
१०; माथी ४, ३, ५१; -हस्य  
धुम् २, १२: १०; -हाः आथी  
१०, २, २६; काथी २३, २,  
११; -हागम् वैनाथी ४१, १०,  
-हान् आथिय २, ७, ४: १०;  
-हे शाथी १३, १९, ५; काथी  
१३, १, ५; आपथी ८, २०, १, २,  
८, ५; २१, १५, ५; बौथी; -हेण  
बौथी १८, २३: १६; -हौ वाथ  
२३, ४३.

चतुर्ह-तन्त्र- -त्राणि निम्  
८, ९: ६.

चतुर्ह-पञ्चाहा(ह-अ)हीन-  
दशाह-छन्दोमदशाह- -हेषु  
वैताथी ४०, ४.

चतुर्हा(ह-अ)थ- -थे आथी  
११, १, ११; वाथी १३, १५, ७;  
काथी २४, १, १०; निम् २, १०:  
८.

चतुर्हो(ह-ऊ)- -नान् बौथी

२६, २६: १२; १३; -नान्  
नान् बौथी २६, २६: ७.

चतुर्हो(ह-उ)पजन- -नाः  
आथी ११, ६, १५.

चतुर्-भाग(व>) वा- -वा  
याथि १, ११.

चतुर्-आवृत्- -वृताम् निम् १०,  
१: ३३.

चतुर्-आवृत्त- -त्तः बौथी २६,  
१६: ९.

चतुर्-आश्रम- -पावा ५, १,  
१२४.

चानुराश्रम्य- -पावा ५, १,  
१२४; -स्यम् वैष १, ९, ८.

चानुराश्रमी-> -श्रमि-  
म्- -मिगाम् वैष १, २: १.

चतुर्-आहाव- -वाः शाथी ७,  
१४, ४; -वानि आथी ५, १०,  
११.

चतुर्-उकृष्य- -कृष्यम् वाथी  
२४, ७, २३.

चतुर्-उत्तर- -रः अरे ४: २९;  
-रम् ऋद्रा १६, ८; १७, १९;

-राः निम् १, ५: १५; ९:  
७-१०; -राणाम् शाथी ७, २७,  
३०<sup>३</sup>; -राणि शाथी १८, ६, १;

बौथी; -रे रूप ५२, ४, ३;  
-रैः लाथी १०, ६, १२; निम्  
५, ३: २८; -रौ निम् १, ५:  
२; ऋद्रा १६, ७९.

चानुरुत्तय- -यम् निम्  
५, ४: १.

चतुर्हत्त-च्छन्दस्- -न्दः  
निम् २, १३: ७.

चतुर्हत्त-प्रयोग- -गः लाथी  
१०, ७, ४.

चतुर्हत्त-संपन्न- -स्ये लाथी  
८, ५, २५<sup>१६</sup>.

चतुर्हत्त-न्तोम- -मः शाथी  
१५, १, ८; १६, ३, ७; -मम्  
शाथी १४, ६१, ११.

चतुर्हत्तीय- -त्यः बौथी २६,  
१०: २६<sup>११</sup>; ३३: ९.

चतुर्-उद्वृत्त- -म्मान् माथु  
२, १४, २४.

चतुर्-उद्व- -यः बौथी २६,  
१६: ९.

चतुर्-अक्ष- -क्षः वृदे ६, १८;  
-क्षम् शाथी १२, ८, ३; निम्;  
-चान् रूप २: ४५; -चानाम्  
लाथी ६, ४, १०; -चानि अथं  
२: ६०; ८०; -चे अथ १९,  
३; -चेन अथ १, १<sup>३</sup>; -क्षेभ्यः  
अथ ४६, १०, १; अथ १९, २३.

चतुर्क-अहृति- -तिः अथ  
२, १.

चतुर्क-स्य- -स्ये निम् ६,  
३: १६.

चतुर्-भौदुम्बर- -रान् अथ १८,  
१, १३.

चतुर्-ग(ण>)गी- -गीम् अथ  
३१, ५, ५.

चतुर्-गव- -वाणि काथी २२,  
११, २; -वानि लाथी ९, ४, १९.

चतुर्-गाप्य(शी-अ) स्त-  
-स्तम् ऋद्रा २, ३, ५९.

चतुर्-गुण,णा- -णाः रूप ३६,  
१५, १; -णम् काथी ७, ७, ९;

- a) \*अम् इति चौसं. । b) पाठे. पृ १०४७ k द्र. । c) \*अ इति चौसं. । d) पृ ८०५ b द्र. ।  
e) विप. । बघ. । f) विप. (होत्रक-स्यन्त-). बघ. । g) \*ओ इति पाठः? यदि. शोधः । h) = एकाह-विशेष- ।  
बघ. । i) \*व्री- इति पाठः? यदि. शोधः ( द्व. उत्तरं स्पष्टम् ) । j) विप., नाप. । वैष १ द्र. । k) समाहारे  
द्विष. । l) विप. । बघ. अक्ष प्र. उत्सं. (पा ५, ४, ७५) । m) विप. । कस. > बघ. ।

चतुर्था(धी-आ)-  
दि- दि ऋअ २,८,६३.

चतुर्था(धी-२आ-  
य>)या- -घा: ऋअ २, १,  
१३५; ३,६२; ७, ६६; ८, ६९;  
१०, ५६; अअ २०, ६४, ९५.

चतुर्थिक- -कम् निस्  
५, २: २९; -कस्य लाप्रौ ७,  
७, २९.

चतुर्थ्य- -स्वाद् निस्  
३, ६: ३५.

चतुर्थ-क- -क याशि २,  
१४; माशि ४३; नाशि १, १,  
१२; -कम् याशि २, २१.

चतुर्थ-काल- -ले आपघ  
१, २७, ११; वीष २, १, ४२;  
द्विष १, ७, ३६.

चतुर्थकाल-पान-भक्ष-  
-क्ष: कअ ४, १०.

चतुर्थकाल(ल-आ)द्वार-  
-र: शंघ ४०१.

चतुर्थकालिक- -क: शंघ  
१५९: १२.

चतुर्थ-काल- -ला: आपघ  
१, २५, ११; वीष २, १, ४१;  
द्विष १, ७, ७.

चतुर्थ-नवम- -मयो: काथी  
१२, ६, २२; -मे आथी ४,  
१३, ७.

चतुर्थ-पञ्चम- -मयो: निस्  
९, २: १३; -माम्याम् काथी  
३, २, ६; -मे आथी ८, ९, ४;  
निस् ३, ७: ११; ८, १०: १८.

चतुर्थ-प्रतिपद्- -पदम् निस्  
८, ९: ८.

चतुर्थ-प्रभृति- -विषु वैथी  
१८, १२: ३; द्विथी ४, ५, ४०;  
आपशु १०, १३.

चतुर्थ-प्रभृत्या ( ति-आ )  
द्वार- -रेषु द्विषु ३, ५३.

चतुर्थ-भाग-भागिन्- -मी  
वाघ १५, ९.

चतुर्थ-भागो(ग-ऊ)न-कला  
(ला-अ)वशिष्ट- -ष्ट: कप्र २,  
६, ७.

चतुर्थ-विसर्ग- -मी: वीषु ३,  
१४, १८; शांघ ४, २, ८.

चतुर्थ-वेला- -लायाम् वीषु  
१६: १८.

चतुर्थ-व्या(स>)सा- -सा:  
वीषु १९: ७.

चतुर्थ-यष्ट- -ष्टयो: शांघी  
१२, ३, १९; लाप्रौ ७, ४, १९;  
ऋप्रा ११, १२; -ष्ठे निस् ८, ३:  
२८; -ष्ठौ आथी ५, १५, ६.

चतुर्थ-यष्टा (ष्ठ-अ)ष्टम-  
काल- -भोविन्- -जी वाघ  
७, ८.

चतुर्थ-सप्तम- -माम्याम्  
आपशु १९, ८; द्विषु ६, २८.

चतुर्थ-सविशेष- -येण  
आपशु १९, ३; ४, द्विषु ६, २०.

चतुर्थ-सविशेष-सप्तम-  
-माम्याम् आपशु १९, ८; द्विषु  
६, २८.

चतुर्थ-सविशेषा(प-अ)र्थ-  
-धाम्याम् आपशु १९, ५; द्विषु  
६, २२.

चतुर्थ-स्वर-जीविन्- -विन:  
नाशि १, ७, ७.

चतुर्था(र्थ-अ)दा- -नाम्  
आप्रिण २, ४, १०: ३९.

चतुर्थाशिन्- -शिन: गौष  
२८, ३५.

चतुर्था(र्थ-आ)दि- -द्वौ  
भाष १, २२: १.

चतुर्था(र्थ-आ)दि- -दि  
नाशि २, २, १०.

चतुर्था(र्थ-अ)नुवाक- -के  
वैथी १९, ६: ३७.

चतुर्था(र्थ-अ)ष्टम- -मयो:  
आपथी ७, १४, ८; वीथी ४, ६:  
१५; ५, ३: ८; ८: १२, ११, ४:  
८; १५, २८: १०.

चतुर्था(र्थ-अ)द्वन्->चातु-  
र्थाद्विक- -के शांघी १५, ७,  
१; ८, १.

चतुर्थो(र्थ-उ)त्तम- -मौ  
शांघी ३, १३, १९; आपथी ८,  
२, १५.

चतुर्थो(र्थ-उ)त्पाद- -दम्  
निस् २, १३: ४.

चतुर्-द्वन्- -द्वान् अअ ११,  
१५.

चतुर्-दशान्- -श आथी ८, ३,  
८; ११, ६, १५; शांघी; -शभि:  
आपथी १६, १९, ११; २०,  
२१, ९; वीथी; -शतु आपथी  
१२, २७, ४; द्विथी ८, ८, १.

चतुर्दश- -घा: शांघी १४,  
७२, २; ऋप्रा १७, ३६; -शम्  
अप ४१, ५, ७; अज्यो ९, ७;  
-शस्य वेज्यो २७; -शो वीथी  
१२, २: ६××; वीषु; -शोन वीषु  
१९: १०; -शै: काशु ७, ३७.

a) विप. । भवार्थे ङ् प्र. । b) भवार्थे ण्य. प्र. उत्सं. (पावा ४, १, ८५) । c) विप. । वस. > वस. ।  
d) विप. । वस. । e) पामे. षु ५७९ ० द. । f) वस. (द्व. Old.; वैतु. भवत्रातः तुस. इति) । g) पाम्याम्  
इति पाठः? यनि. शोयः (तु. सत्र. आपशु.) । h) विप. (सूक्.) । i) वैप १ द. ।

४,६; -भाभिः वैधौ १८, १६ :  
८१; आप्तु ११,८; बौधु १० :  
२४; ३३; २० : १९; २५; हिद्य  
४,११; -ये बौधु १७ : १३.

चतुर्मागीया(या-ञ)

ह्यणयो(या-ठ)मयतो-भेद- नः  
आप्तु १६,११; हिद्य ५,३२.

चतुर्मागीया-मात्र- ग्रन्

आप्तु १६,६; हिद्य ५,२७.

चतुर्मागीया (मा-ञ) चं-

-थंम् आप्तु १६, ७; हिद्य ५,  
२८.

चतुर्मागी(ग-ञ)न,ना- नः  
आप्तु १२, १; हिद्य ६, १६;

-नाः आप्तु १५, ८; हिद्य ५,  
१३; -ने बौधु १ : १८.

चतुर्-मुञ्च- -जम् वैधु ४,११ :  
४; विष १७, १०; आम्नि २,  
४,१० : १३.

चतुर्-महात्तजिक- -०क विष  
१८,४१.

चतुर्-मात्र,त्रा- -त्रः आधौ १,  
२,१४; शाधौ १, २, १३; शैधि  
३४६; ऋमा १५,५; -त्रा शाधौ  
१,२,२.

चतुर्-मत्स- > चातुर्मा(स>  
सी- पावा ५, १, १४; -सीः  
द्राष्ट ३, २, २८; -सीपु आप्तु  
१,१०,१; हिद्य १,३,३०.

१ चातुर्मात्- पावा ५,

१, १४; -स्यम् आम्नि २, ४,  
४ : २१; शेष २५२; वैधु २,५,४;

३,६,८; -स्यात् वैधु ३, ६, ७;

-स्यात् वैधौ १,१८ : १; -स्या-  
नाम् शाधौ ३, १३,१; काधौर्ष  
२८ : १४; २४; २९ : ११;

बौधौ ३, २६ : १४xx; माधौ;

-स्यानि आधौ २, १५, १;

२०,६<sup>३</sup>; ९, २, १; ३,३; शाधौ;

-स्यानि-स्यानि वैधौ ९,१२ :

१५; -स्येभ्यः वाधूधौ ४,

१०३<sup>३</sup> : ७; -स्येषु आधौ २,

१५, ७; शाधौ; -स्यैः आप्तु

८,२१,२; बौधौ.

चातुर्मात्क- पावा

५,१,१४.

चातुर्मात्किक-

-कानाम् बौधौ २१, १ : २८;

२६,१० : १८; -कानि बौधौ

२१,१ : ८.

चातुर्मात्सिन्- पावा

५,१,१४.

२ चातुर्मात्स्य- -स्याः

आधौ २२, ७, १; आप्तु २०,

१५, ३; बौधौ १५, १२ : ९;

१७, ६२ : २२<sup>३</sup>; -स्यात् हिथौ

१४,३,१८.

चातुर्मात्स्यक- -काद्

वाधौ १,७,५,१३.

चातुर्मात्स्य-पञ्च-

-श्लाम् बौधौ २४,१० : ११.

चातुर्मात्स्यपञ्च-

दक्षि(णा>)ग- -शैः शाधौ

१४,१०,२३.

चातुर्मात्स्य-दक्षिणा-

-णाः बौधौ २१,६ : २०.

चातुर्मात्स्य-देवता-

-ताः शाधौ १४, १०, ४; १६,

३, १६; १२, १५; काधौ २०,

७, २२; -ताम्यः शाधौ १६,

३,१५; १२,१४.

चातुर्मात्स्य-यवद्-

-वैगाम् शाधौ १३, २४, ४;

-वैभिः काधौ २४, ४, ३०;

-वैसु माधौ ५,१,७,२८.

चातुर्मात्स्य-युक्तव्य-

सौत्रामणी- -णीपु वैधौ २०,

२२ : ९.

चातुर्मात्स्य-प्रयोग-

-यः काधौ ५,१,१; १५,१,१५-

चातुर्मात्स्य-मध्य- -स्यै

हिपि २१ : १.

चातुर्मात्स्य-मन्त्र-

-न्याः शुभ,१, २२९.

चातुर्मात्स्य-याजिन्-

-जिनः आप्तु ८, १, १; २२-

८,१; हिथौ ५, १, १; १७, ३-

२५; -ञी आप्तु ८, ४, १२;

१३; वैधौ ८, ८ : ७; वैधु १-

५,२.

चातुर्मात्स्य-वत्

आप्तु २२,९,४.

चातुर्मात्स्य-वैधुदेव-

> प्व-गर्ग-वैद-पञ्चोमवद्-

पराका(क-ञ)ज्वर्षस्व(मु-ञ)धमे-

धम्यद्- -हागाम् वैताधौ ४१, २-

चातुर्मात्स्य-यत्-

-तानि आधौ २,१६,२२.

चातुर्मात्स्य-संयोज-

न- -नः बौधौ २६,२९ : ९.

चातुर्मात्स्य-दक्षिण-

-धीरि शाधौ १४, ५, ५.

चातुर्मात्स्य (स्य-ञ)

न्तराल- -लेपु माधौ ८, ३, २९-

चातुर्मात्स्यन्तराल-

ल-यत्- -तानि बौधौ २८, ८; १-

चातुर्मात्स्य-शस्त्र (ः) काधौ

२४, ५, ८.

1. a) विप. 1 बस. 1 b) = वीर्यनाही. c) = शिटि, मत-विरोध. 1 वैप १ द. 1 d) विप. 1 भवेड्यै. 1  
उत्प्र. (पा ४, ३, ११) 1 e) विप. 1 तस्तेदनीयः ऋष् प्र. 1 f) विप. 1 तस्तेदनीयः कुष् प्र. 1 जसै. (पा ४, ३, १३) 1.

चतुर्मांसी(स-उ)पसक्त\* - के  
-काश्री १७,७,१२.

चतुर-सुहृ\* - खम् आश्रित २,  
५,६ : ४; वीथ २,५,२०.

चतुर्मुखी - शीम् अथ ६,१,  
१४.

चतुर-सुहृते\* - शीम् वीथ १६,  
४५.

चतुर-मेघ\* - घः आपथ २,१७,  
२२९.

चतुर-मेघ\* - वाः वाथ ३,  
१९९.

चतुर-यम - मम् तैत्रा २३,२०;  
२३.

चतुर-युक्त - कः नाति २,  
४,७; -वत्स्य अथ १,३२,१.

चतुर-युग - नाम् विघ २०,  
१०;४३,२६९; -गानाम् विघ  
२०,११.

चतुर्भुग-सहज - छम् विप  
२०,१२.

चतुर्भुगा(ग-थ)न्त - न्ते अथ  
५२,१४,१.

चतुर-युञ् - युक् काश्री २२,  
५,१०; १०,३०; आपश्री २२,  
१३, ४; वीथी १८, २० : ६;  
१९; लाथी ८, ७, ३; -युक्त  
काश्री १४, ३, ११; धृदे ३,  
१४७; १४९; -युजा आपश्री  
२२, २, २०; द्विथी १७,१,३६;  
-युजाम् वाधुथी ३, ७९ : ३;  
-युती लाश्री २,४,१३.

चतुर-व(कत्र)वत्रा\* - कत्रा  
वाथ २८,३१.

चतुर-वर्षी\* - शीम् वैथ ३,  
१९ : ६.

चतुर-वर्षी\* - पावाग ५, १,  
१२४.

चतुर्वर्षिक\* - काः वैथ ३,  
१२,२.

चतुर्वर्ष्य\* - पावा ५, १,  
१२४, -ष्यम् वाप ४,१; मीम्  
६, १, २५; -ष्यस्य विघ १,  
६१;६३.

चतुर्वर्ष्य-स्थवस्थान -  
-न्म् विघ ८४,४.

चतुर्वर्ष्य-संकर - र्ण  
वैथ ३,११,१.

चतुर-वार - नम् आश्रित २, ३,  
२-४,

चतुर-विंशत्\* - शत् अथ ५२,  
८,४.

चतुर-विंशति - तिः आश्री ४,  
८, १५; शश्री; -तिःऽ-तिः  
शश्री १६, १५, १८; -तिम्  
शश्री १०,१२, ९; १४,७७, ९;  
काश्री; द्विथी १६, १, १११;  
-तेः विघ २७, २६; -स्या  
आपश्री १०, २६, ५; द्विथी;  
-स्याम् आपश्री ५,४,४; भाश्री  
५, २, १५; आपशु ४, ३; द्विथु  
२,२.

चतुर्विंशति - तिः आश्री ४,  
८, १५; शश्री; -तिःऽ-तिः  
शश्री १६, १५, १८; -तिम्  
शश्री १०,१२, ९; १४,७७, ९;  
काश्री; द्विथी १६, १, १११;  
-तेः विघ २७, २६; -स्या  
आपश्री १०, २६, ५; द्विथी;  
-स्याम् आपश्री ५,४,४; भाश्री  
५, २, १५; आपशु ४, ३; द्विथु  
२,२.

चतुर्विंश - वाः भाश्री १०,  
३,११; आपश्री २३, ४, २; ७,  
१३; ८, १०; वीथी १०, ४२ :  
५x; द्विथी; -शम् आश्री ८,१३,  
३१x; शश्री; -शस्य द्वाश्री ११,  
४, १; लाथी ४,४,१; निम् ४,

५;५; -साः शश्री १४,४२, ३;  
वीथी १६, २८ : ३; ३४; ७; ३६ :  
२०; द्विथी १७, ७, ८; -शात्  
शश्री ११, ५, ७x; वीथी;  
-शानाम् आश्री १२, ५, १२;  
-शानि आपशु ५,१३; द्विथु २,  
२४; -शे आश्री ७, २, १x;  
शश्री; -शेन आश्री ७,६,१; ८,  
७,३; ९,१०,१; आपश्री; -शेषु  
आश्री १०, ८, २; -शो शश्री  
१४, ३३, २; वीथी १८, २३ :  
५; २५, ३३ : ३; द्विथी १७, २,  
५; निम् ७,६ : १३.

चतुर्विंशति - शी  
शश्री १८, १४, ४; -शीम्  
वाधुथी ३,५८ : ७.

चतुर्विंशिक\* - कम्  
आश्री ७,६,६; ८,५,९; -कानि  
शश्री १२, २७, ४.

चतुर्विंश-चतुश्चवारिंशा-  
(श-अ) द्वाचवारिंश - वाः  
वैताथी ३५, २०.

चतुर्विंश-प्रिणव - शी  
निम् ७, ९ : ४.

चतुर्विंश-बहिष्प्रवमान\* -  
-नः द्विथी १७, २, ४.

चतुर्विंश-महाप्रव - शे  
शश्री १६, २०, १८.

चतुर्विंश-महाप्रव (त-थ)  
भिजिद्-विषजिद्-विषुयन्त -  
-वस्तु आश्री ७, २, १०.

चतुर्विंश(श-क)वं\* -  
-वंम् अथ ४, १७, २, १.

a) विप.। वष.। b) समाहारे द्विस.। c) परस्परं पामे.। d) चा इति जीसं.। e) उप.  
= अक्षर-। f) कष. उप. = जाति-। g) तत्रजातार्थे ढक् प्र. उंसं. (पा ४,३,२५)। h) उप. = विंशति-  
(ह. वैप ३)। i) पाठः १ षतिः इति शोधः (ह. सप्र. काठ ३४,५ तां १०,३,३)। j) विप. (सूक्त- [अथ ८,८]),  
नाप. (लोम- , एकाह- प्रथ.)। कृ ७१४ C द.। k) विप.। तेननिर्गुतमित्यर्थे ढक् प्र. (पा ५,१,७१)।

१; ३७, ४.

चतुर्विंश-पठ<sup>१</sup>- -पठान्  
निस्र ७, ९ : २.चतुर्विंश-स्तोम<sup>१</sup>- -मम्  
शाथी १०, ९, १; १२, १; ११,  
२, १.चतुर्विंश (श-अ) क्षर-  
-रम् अप ३१, ४, २.चतुर्विंश (श-अ) ह्युल,  
ला<sup>१</sup>- -लः काशु ७, २५; -ला  
अप २२, २, २.चतुर्विंश (श-ए) क्विंशत्-  
-शद्व्याम् अयं ४ : १९.चतुर्विंशक<sup>१</sup>- -कम् अयम् २, ४.चतुर्विंशिका<sup>१</sup>- -का श्रम  
२, ६, ४६.

चतुर्विंशति-कृत्वस्व ( : )

शाथी १८, १४, ९; आपथी १५,  
१२, ५; भाथी ११, १२, ५; हिथी  
२४, ५, ६.चतुर्विंशति-भाव- -वम्  
आपथी १६, १८, ५; हिथी ११,  
६, २७; हिपि १५ : १.चतुर्विंशति-परम<sup>१</sup>- -माः  
आपथी २३, १, १.

चतुर्विंशति-पारवै-भाग-

-माः काशु ७, ३७.

चतुर्विंशति-पिण्ड- -पण्डान्  
वैपि २, ११, ८;चतुर्विंशति-भाग- -मेव हिपि  
१५ : ५चतुर्विंशति-माल<sup>१</sup>- -मम्  
वैथी १८, ३७ : ८; -मानाम्  
वैथी १८, ३७ : १२; लाथी ८,

१०, २; -मे वैथी १८, ३७ : ८.

चतुर्विंशति-राय- -त्रः शाथी  
१३, १६, ५; वैथी १६, ३४ : १; ४;  
-अम् काथी २४, २, १३; -त्रेण  
आपथी २३, ४, १; हिथी १८,  
२, १; -त्रो आथी ११, ३, ६;  
आपथी २३, ३, १४; हिथी १८,  
१, २९.चतुर्विंशति-वर्ग, गां<sup>१</sup>- -गां  
काथी २२, १०, २७; -गांम्  
लाथी ९, ४, १२.चतुर्विंशति-वर्ष- -र्षाणि  
आमिष्ट ३, ९, ३ : १६; वैपि २,  
७, १५.चतुर्विंशति-स्तोत्रीय<sup>१</sup>- -येण  
हिथी १७, २, १८.चतुर्विंशत्य (ति-अ) क्ष (र > )  
रा- -रा शाथी १४, ४२, ११;  
वापथी ४, ५८ : ५×४; निस्र;  
-राम् वापथी ४, १००<sup>१</sup> : ७.चतुर्विंशत्यक्षरा (र-अ)  
दि<sup>१</sup>- -दीनाम् शाथी ७, २७,  
३०; -दीनि श्रम १, ३, ३; शुभ  
५, ३.चतुर्विंशत्य (ति-अ) ह्युल-  
-रम् वैथी ११, ७ : १; अप २३,  
३, ४; ५, ५; -रस्य वैथी ११,  
१० : १५.चतुर्विंशत्य (ति-अ) ह्युला-  
(ल-अ) यत्, ला<sup>१</sup>- -तम् वैथी  
११, ८ : ११, -ताम् वैथी १,  
१ : १५.चतुर्विंशत्य (ति-अ) ह्युलि-  
-रस्यः आपथु १५, ७; हिथु ५,

११.

चतुर्विंशत्य (ति-अ) ह- -र्यः  
वाथ २२, १३; वैपि ३, ७, ७;  
१०, १६; गौथ १२, १८; -हे  
पाथ २, ३, ६; शुभ ४, १७८.  
चतुर-विद्या- ( > ) चतुर्विंश-  
पा.) पाथ ७, ३, २०.चतुर-विल<sup>१</sup>- पागवा ५, १,  
१२४<sup>०</sup>.चतुर्विंश, वै<sup>१</sup> च<sup>१</sup>- पा  
५, १, १२४; -चम् वाथ ३, २०<sup>०</sup>.चतुर-विष<sup>१</sup>- -षः काथ १३, २;  
माथि २, ५, ५, ५; याथि २,  
८; -षम् शाथी १६, २३, १;  
४; २६; कथ; -षस्य अप २,  
१, ७; गौथ ८, २; आजवी ७,  
१७; -षाः वैपि १, ३, १; ५,  
१; ७, २, ९, १; १०, २; -षानाम्  
वृदे २, ३५; -षे अप ३, ३, ६; ६१,  
१, २०; -षेः अप ३६, १, ३.चतुर्विंश- -व्यात् निस्र ८,  
९ : २३.चतुर-वीर<sup>१</sup>- -रः निस्र ८, ९ :  
१; -रे निस्र ९, ४ : २८.चतुर-वृत्<sup>१</sup>- -वृत् वीथ १, २,  
१२.चतुर-वृत्<sup>१</sup>- -वृत् अय ५, १६.चतुर-वेद<sup>१</sup>- -दात् वीथ १,  
७, ७.चतुर्विंश- -चम् चव्वु  
१ : २.चतुर्विंश- पागवा ५, १,  
१२४.

चतुर्विंश- पा ५, १,

a) विप. १ बस. १ b) विप. १ तदितरेषु द्विस. १ c) वृ ७५४ ई. द. १ d) अर्थीतार्थीयस्य प्र. लुक् १

e) वृ. पाथि. १ f) स्वार्थे व्यभि प्र. उप. वा वृद्धिः उत्सं. (पा ७, ३, २५) १ g) सपा. चतुर्विंशत् &lt;&gt;

चतुर्विंशत् इति पामे. १ h) = इहीन-विशेष-१ बस. उप. = पुन-१ i) = मपुण्ड-विशेष-१ उप. उप. अधिहरणे

विप् प्र. १ j) वैप १, ५०२ ई. द. १ k) समाहारे द्विस. १

१२४; -चम् वीथ १,१,८.  
 चतुर्वेदा (द-आ) दि-मन्त्र-  
 म्याद् वृष्ट ६, ११ : ३; वैथ २,  
 १३, ६१<sup>b</sup>; -न्त्रीः वैथ ६, १७ : ४.  
 चतुर-दक्षिण- -विः वीथी  
 १७, ५३ : ५; १०; माथी ५,  
 १, १, ३२; १०, ३८; २, २, १५;  
 द्विथी १३, ३, ३०; -विणः माथी  
 ५, १, १, ३४; २, ३; १०, १;  
 -विणम् वीथी १८, ६ : ७;  
 -विवा आपथी १८, ९, ६; माथी  
 ५, १, १०, १०.  
 चतुर-दक्ष, स्वा- -स्तम् वैथी  
 ११, ९ : १; वैथ ६, १३३; कायउ  
 ४५ : ४; अय ३०<sup>a</sup>, १, ३; ४;  
 -स्ताम् अय १८, १, १०.  
 चतुर्हस्ते (स्त-र) दा- -दाम्  
 वीथी १, २० : १५.  
 चतुर-दक्षो(स्त-उ)स्त्रि-  
 न्तः विथ १०, २.  
 चतुर-दक्ष्य(न>)णी- णीम्  
 माथी ५, २, १०, २.  
 चतुर-दक्ष्यन्- पाय ८, ४, ३९;  
 -नाः वाथी ३, ४, ३, १९.  
 चतुर-दोष- -रि शाथी १०,  
 १५, १; -ता वीथी १७, २१ :  
 ८; माथी ५, २, १४, २;  
 द्विथी २१, १, २१; -पुवारः  
 आपथी १४, १३, २, ४, ५, वीथी;  
 -ताम् शाथी १०, १५, २;  
 आपथी ४, ९, ७; ५, २४, ७, ४, ४;  
 वीथी; -तुः आपथी २१, १०,

७; वीथी १९, ७ : ५३; २६,  
 २१ : १; द्विथी १६, ४, २४;  
 -गुभिः काय ४३, ६; -पुणाम्  
 आपथी १४, १३, १; वीथी १९,  
 ७ : १४; द्विथी १०, ७, १;  
 चाय १० : ३; -तुम् आपथी ८,  
 १३, ६; आपथी ५, ११, १, ४, ४;  
 वीथी; -त्र आपथी २, ११, ५;  
 ४, ८, ७, ४, ४; काथी, १.  
 चातुर्दोष- -कम् काय  
 ४३, १.  
 चातुर्दोष, दोष-  
 -की माय १, २३, १<sup>b</sup>; वाय ७,  
 १<sup>b</sup>.  
 चातुर्दोष- -त्रः आपथी  
 १२, १४, १८; २७, १५, ११;  
 द्विथी २३, ३, १६; २१; २१;  
 -त्रम् अय २३, १०, ७<sup>c</sup>; ११,  
 २४.  
 चातुर्दोष-विधान-  
 -नेन अय ५, ३, २.  
 चातुर्दोषीय- -यम्  
 आपथी १, २, १ : १२; वीथ  
 ३, १, २३.  
 चातुर्दोष-न्यायान- -नम्  
 काथी ३२, ४, १६.  
 चतुर-दो(ना>)य- -त्रम्  
 वैथ ५, ४ : २; ४.  
 चतुर्दोष(प्र-इ)क- -काः  
 वीथी १९, ७ : ११.  
 चतुर्दोष-क- -कः वीथी १७,  
 ५३ : १; ५४ : १, ३; -काणि

वीथी १५, १४ : ७; -के वीथी  
 २३, १७ : २८; वीथ १, ६, ३०.  
 चतुर्दोष-प्रकारित- -त्रम् काथी  
 १२, २, १७; वाथी ४, ४६ : ५;  
 ६५<sup>d</sup> : ५; अय १०, १०; ११;  
 निप ३, १४; या ३, १९; काय  
 १६, ६४; -नयम् आपथी २१,  
 १, १४<sup>e</sup>; वीथी २६, ४ : ९;  
 द्विथी १६, १, ११<sup>f</sup>.  
 चतुर्दोष-प्रकारित- -वाः आपथी  
 १७, ३, २; वीथी; -चम्  
 आपथी २१, ८, ११, ४, ४; वीथी;  
 -वाः वीथी १६, ३४ : १४;  
 २६ : २०; -वी आपथी ७, ५,  
 ११; १२, ७, १३; काथी ६, २,  
 २१; -नेन काथी ६, ७, १९.  
 चतुर्दोष-प्रकारित-स्वो-  
 -मम् काथी १०, १०, १.  
 चतुर्दोष-प्रकारित-अच(र>)\*  
 रा- -ना वाथी ४, ६५<sup>g</sup> : ६;  
 १००<sup>h</sup> : १; निम् १, ४ : १.  
 चतुर्दोष-प्रकारित- -वी  
 माथी ६, २, २, १; वाथी २, २,  
 १, २०.  
 चतुर्दोष-प्रकारित- -त्रम् काथी  
 १८, १३, १; ८; वीथी; -ताम्  
 आपथी १८, १९, ५; द्विथी १३,  
 ६, २९; -ते काथी १०, ७, ११.  
 चतुर्दोष-प्रकारित-अच(र>)  
 रा- -ना निम् १, ५ : २.  
 चतुर्दोष-प्रकारित- -ताः आपथी  
 २०, ५, २.

a) पाठे. १ १०५४ पु. द.। b) अत्रम् इति पाठः? यति. शोधः (तु. C.)। c) विप.। वर.। d) विप.।  
 लक्षितार्थे द्वि.। e) कथ. पू. समाहारे द्वि.। f) वैथ १ द.। g) विप.। मन्त्रार्थे अच>कः प्र. (पा ४, ३, ७२)  
 ल. अक्षिप्तो उत्स. (पा ७, ३, २५)। h) चोँ इति वाय.। परस्परं पाठे.। i) = यत्, अग्निययन-। तस्येदमीयः  
 कृष् प्र.। j) = मन्त्र-विशेष-। तैत्ता ३, १२, ५। सार्थे छ > इयः प्र.। k) = शरत्-विशेष-। तु. आपथी ८,  
 १३, ८। l) = मन्त्र-विशेष-। वर.। m) = इष्टका-विशेष-। n) विप., नाप. (यत्)। धस.। o) शोधः  
 पु ४३९ व. द.। p) = १०४। मलो. कट.। q) वस. समासान्तपु अच प्र. (पा २, २, २५, ५, ७३)।

चतु-नामी<sup>a</sup>-मीम् कौस् १३७,  
५.  
चतु-ना(य<)वा<sup>b</sup>-याम् माथी  
१,७,३,१३.  
चतु-ना(य<)वी<sup>c</sup>-न्या  
काठथी ९२.  
चतु-श-शाराव<sup>d</sup>-नः वीथी  
१४,१८ : २८; माण २, १५ :  
११; हिण २, १४, ४१; -वम्  
आथी ३,१४,१; आपथी ५,५,  
१××; वीथी, -वस्व आण २,  
४,५.  
चतु-शाराव-वैः वैथी १,५:  
१०.  
चतु-शख<sup>e</sup>-खाः आथी ६,  
४,७.  
चतु-शित्त (ण्ड<) ष्ठा<sup>f</sup>-  
-ष्ठा<sup>g</sup> आपथी ४, ५, १; ६,  
२; ११, ५, ३; माथी ४, ६, ४;  
८, ३; वैथी ४, ११-४, ५, ६ : ३;  
१४, ४ : १३; हिथी ६, २, २;  
१०; -ण्डे आपथी ७, ५, १;  
माथी ७, ४, १, वैथी १०, ४ :  
१३; हिथी ४, १, ६२.  
चतु-शिल(ला<)ल<sup>h</sup>-ले कौस्  
३६, १८१.  
चतु-शुल<sup>i</sup>-कम् वैण २, १ :  
८; -ह्रात् जैण १, ६ : ४.  
चतु-श्रद्ध<sup>j</sup>-श्रः आपथी ५,  
१७, ४; हिथी ३, ४, ४८.  
चतु-शक<sup>k</sup>-काः लाथी ६, ७,  
१; श्रथः -कम् लाथी ६, ७,  
३; वाध २, ४८; विध ६, २;  
श्रथ २, १, ४५××; अश्र.

चतु-शक-प्रमृति-ययः निस्  
१, ९ : ३; १०; २१.  
चतु-शक-प्रमृ-शकाम्याम्  
उनिस् १ : ५२; -शकौ पि ३,  
४७.  
चतु-शक(दं<)श<sup>l</sup>-श<sup>m</sup>  
उस् ५, ६०.  
चतु-शकपाल<sup>n</sup>-लः आपथी  
२२, १८, १८; हिथी १७, ७,  
१०; -लम् वीथी १६, २८ :  
१४; अणाय ४, १; -लाः वीथी  
१३, ४१ : ११; -लान् वीथी  
१३, ३३ : १××; माथी.  
चतु-शक(ण<)णी<sup>o</sup>-णी  
वाण ३, ६४; आण २, १२;  
हिण १, ३२.  
चतु-शक(ल<)ल<sup>p</sup>-ला श्रत  
२, ४, २.  
चतु-शकाल->चतु-शकालक<sup>q</sup>-  
काः वैण १, ८, १.  
चतु-शकौण->ण-वनस्पति-  
शाखा-शायाम् माण २, ६, ४.  
चतु-शकौणा (श-श) धवीत<sup>r</sup>-  
-तम् अण २३, १, ५.  
चतु-शकौण-शाम् अण ३०,  
१, ५, शंथ १४१.  
चतु-शक-म-मः श्रथा ११, १९.  
चतु-शक(<ल)न<sup>s</sup>-ने वाथी ३,  
२, ५, २१.  
चतु-शक(<त)थ-थः वीथी  
१७, ४४ : १७; -थम् वीथी १,  
१, ३९; काथी ८, १, ११; आपथी;  
-था. वीथी १६, २३, २; -थानि  
वीथी ५, १ : ४; ५ : ३; १० :

२; -थे कौण १, १६, १६; शण  
१, २४, ७; -थेन वीथी १३,  
२५ : १७; २४, १ : १६; निस्  
१, ६ : ७.  
चतु-शकौ-वीः वीथी १५,  
२ : १××; -वीनाम् वीथी १८,  
१८ : १०; -वीणु वीथी १५, ३;  
१२; वाथी ३, ४, १, ११; -व्यः  
आपथी २०, २, ३; ९, १०.  
हिथी १४, १, १६; २, ४, १.  
चतु-शकौ<sup>t</sup>-मः वीथी १५,  
१२, ४××; आपथी; -मम्  
आपथी २२, ६, ८; १०; वीथी;  
-मयोः लाथी ६, ८, १; ९, ४, ८;  
-मस्व वीथी १६, २४, ९;  
-माः आपथी २२, १८, १४;  
वीथी १६, २८ : ८; -मात्  
वाथी १६, २९, १२; -मात्  
वीथी १६, ३५ : ८; १८, ४९ :  
११; १९; -मे वीथी १८, ४८ :  
१८; १९; निस् ८, ७ : ३२;  
-मेन वीथी १४, ५१, ३××;  
वीथी; -मेणु निस् १०, ५ : २३;  
-मौ वाथी २२, १०, १८;  
आपथी २२, ११, १४; वीथी  
१८, ४८ : २७.  
चतु-शकौ-कारि(त<)वा-  
-वाः निस् ८, ८ : ७.  
चतु-शकौ-त्रिककुम्-कुम्  
आथी १०, ३, २२.  
चतु-शकौ-न्याय-येन निस्  
९, १ : ३५.  
चतु-शकौ-सर्वस्तोम-मयोः  
लाथी ९, ११, १३; १४.

a) विण. १४ ४३९० द. b) वैण १ द. c) विण. १ बस. उप. <✓> संश [स्तुतो]। d) पथि.  
वैण १, १३०३ द. e) विण. १ बस. f) विण. १ तद्वय परिमाणे कम् प्र. (पा ५, १, ५८)। g) श्रः इति  
पाठः इ यनि. वीथिः। h) = रण्ड-विशेष-। i) = वानप्रस्थ-विशेष-। j) विण. (श्रु-). कथ. k) हिथी  
१७, २, ५३; ५८ 'श्रु-यो' इति पाठः। l) = अहीन-विशेष-।



चतुष्टोम-स्तोम-संपद्—  
 अतिरिक्त- कान् द्राथी २, ४,  
 ६.  
 चतुष्-द्व (<त)- द्वयम् या  
 १, २.  
 चतुष्-सहस्रकय (द्वि-श)न्त-  
 -न्तम् क्रम २, ८, ३१.  
 चतुष्-सप्त-शृण्वत् (: ) शोभी २,  
 ८, १७.  
 चतुष्-पथ- -यः वीथी ५, १६ :  
 ८; -यम् भाषी ८, २१, ९;  
 वैथी ९, १० : १५; द्विथी;  
 -यात् आर १, ५, ५; काण १४,  
 ५; गोण २, १, ४; कौम् ३७, ९;  
 -यान् गोण २, ४, २; -ये वाथी  
 ५, १०, ७; आपथी ८, १७, १२;  
 वीथी २, ८ : १४; २४, ८ : ३;  
 भाथी; -येत् काण २६, ७; क्व  
 ४, ६, ५; ६९, ७, ४.  
 चातुष्पथ- -यम्  
 आपथी ८, १८, १.  
 चातुष्पथ-सद्- -सदे माण १,  
 १३, १३; वाण १५, १.  
 चतुष्-पद्- -पद् आपथी १८,  
 १९, ७<sup>६</sup>; वाथी ४, १०० :  
 ३०; वीण ४, २, ९<sup>६</sup>; -पद-  
 शोभी ४, २०, १; आपथी;  
 -पदाम् आपिण २, ५, ९ : १५;  
 जण २, ६ : १२; गौण २८, ७;  
 -पदे आपथी २, ९, १०;  
 शोभी.  
 चातुष्पदा- -दया आपथी  
 ३, १४, ४; -दा शोभी ७, २७,

६; वीथी; -दा: निव् १, ३ :  
 २२; ७, ८ : ६; ऋष १, ३, १२;  
 शुभ ५, १३; ऋष २, २४; क्रमा  
 १७, ५०; -दानाम् क्रमा १८,  
 ४७; आज्यो ४, १०; -दात्वाम्  
 निव् १, ७ : ७; -दे अश १८,  
 ४; १९, १६; उनिव् १ : ५४.  
 चातुष्पदा (दा-श)ति-  
 शब्दी- -यं: क्रम ५, २४.  
 चातुष्पदी- -पदी वीथी  
 १४, १४:३१; काण १, ७, १९<sup>६</sup>;  
 वीण १, ८, २८<sup>६</sup>; वाण १, १४,  
 ६<sup>६</sup>; या ११, ४०; -दीम् उव्  
 ५, ६<sup>६</sup>; -दा: आपथी १८, २०,  
 ५; वाथी ३, ३, ४, ४; द्विथी १३,  
 ६, ४६.  
 चातुष्पद-गक्षि-सुनगा- -गान्  
 अण ७०<sup>६</sup>, १२, ३.  
 चातुष्पद-पक्षि-मातुप- -पा:  
 अण ७०<sup>६</sup>, २१, ३.  
 चातुष्पद-गक्षि-सदश-  
 -दानि अण ७०<sup>६</sup>, १०, ४.  
 चतुष्-पद- -दम् आज्यो ४, ६;  
 ९; -दे निव् ६, १ : १०; आज्यो  
 ५, १५.  
 चातुष्पद- -दो निव् ५,  
 ८ : ५.  
 चतुष्-पूर्वाय- -यः वीथी  
 १७, ९ : १७; -या: लाथी ६,  
 ८, १; -यान् निव् ७, ८ : २.  
 चतुष्-पद्य- -द्य वीथी १७,  
 ३२ : ८.  
 चतुष्-पाणि- -णि अण २५,

२, ५.  
 चतुष्-पाय- -यम् वीथी २९,  
 १० : १९.  
 चतुष्-पाद्- -पाद् आपथी ४,  
 ११, ११<sup>६</sup>; वीथी १२, ७ : ४; १६;  
 ५; भाथी; वीम् ३३, ९<sup>६</sup>;  
 -पाथु माथी ५, ३, १, ३; वीण ३,  
 ५, १३; -पाद्: वीथी १४, ९:३;  
 माथी १, ८, ३, १<sup>६</sup>; आपिण २, ५,  
 ५ : १<sup>६</sup>; मैश १०; अण ८, १०  
 (३, ४<sup>६</sup>); पा २, १, ७, १; -पादि  
 वीथी २८, ११ : ५; -पाद्व्यः  
 या १२, १३; या ४, १, १३५.  
 चातुष्पाश्-श (<श)कृति-  
 -निव् पा ६, १, १४२.  
 चातुष्पाद्-दा- -दा: विव ८६,  
 १५; -दा: शोभी १६, ३३, ३;  
 निव् ७, ८ : ३; वीथी २७, ४ :  
 १; -दाव्यः निव् १, ४ : २५;  
 -दे वाण १७, १.  
 चातुष्पा- (द<>) दी- -दी  
 वेज्यो ३०.  
 चातुष्-पुट- -टम् आपथी १२,  
 २, १४.  
 चतुष्-पुण्य- -यः आपथी  
 १६, १७, ११; माथी ६, १, ५,  
 ३१; वाथी; -पम् जैथी ७ : ५.  
 चतुष्-पुण्य- -यः अण ७०,  
 १०, १; -यम् अण ४४, १, २.  
 चतुष्-पादय-> चातुष्पादय-  
 पावा ५, ४, १६; -इयम् वाथी  
 ४, ६, ११; ८, २, १०; द्राथी १२,  
 १, १६; ४, ८; शोभी ४, ९, १०;

a) वि.। कम्.>पव.। b) वि.। तत्रमवीयः कम् प्र.। c) वेण १ द.। d) पाणे. वेण २, १३.  
 चातुष्पात् वेण ८, २० डि. द.। e) पाणे. वेण १, १३-३ क द.। f) कम्.। एतद्वत् पृ ९० अतिरिक्तः इत्यत्र  
 चि. शोषः। g) पाणे. वेण २, ३३. चयुगि तैत्रा ३, ७, ७, ११ डि. द.। h) वि.। तत्पदेमीयः कम् प्र.।  
 i) वि., नाम. (मदिरान-). बड.। j) वि.। वण.। k) तदितार्थे दिव.। l) पाणे. वेण १,  
 १३-३ न द.। m) समाहारे दिव.।  
 वेण-प-२८

१२,८; -दयात् वीथी २०,६ :  
३; २३, २-३ : ३; -दयात्  
वेताथी ६,९<sup>०</sup>.

चातुःप्यादय-यचन-वर्

पाण्ड १,२,४.

चातुःप्यादय-प्रादान-वर्

द्राथी १२, २, ११; लाथी ४,  
१०, ११.

चतुःपष्टि- -ष्टिः वीथी २१,  
६ : २०; अण्ड ३३, ३, २, निध;  
-ष्टिम् वीथी १८, ३७ : १२;  
१७; विष ५, ६७; वीथु १६,  
१० : १६; ११.

चतुःपष्ट- -ष्टम् काथी २४,  
५, ११; लाथी १०, १४, १३<sup>०</sup>.

चतुः, प्त-योऽसिन्- -दी  
आपथी २२, ५, १४; द्विथी १७,  
२, ४२.

चतुस् (ः) पा ५, ४, १८; ८, ३,  
४३; आथी ७, ११, ११; १६;  
वाथी, जैथी २६ : १२<sup>०</sup>; चतुः-  
ऽचतुः माथी ७, २२, ११; निम्  
७, ८ : ४; अण्ड ३, ६, २.

चतुस्-प्रिसान्- -नान् काथी १६,  
३, २४, वापूथी ३, ८२ : ३,  
द्राथी, -ततम् काथी २३, ४,  
४<sup>०</sup>, २५, ६, १; वाथी, -ततम्  
काथीसं २९ : २३.

चतुस्त्रिन्- -न. वीथी १०,  
४२ : ८; -तान् निम् १०, ७ :  
१; -नानि लाथी ८, १२, १४.

चतुस्त्रिन्-पयमान- -नः

वीथी १२, १६ : २८; -नाः  
वीथी १६, २८ : १९.

चतुस्त्रिन्-अण्ड ( > ) रा-  
-ना निम् ३, ४ : २९; -नाः निम्  
२, १२ : २३; २७, ४, १० : १३.

चतुस्त्रिन्-यो ( < हो ) म-  
-मः काथी २५, १२, १७.

चतुस्त्रिन्-नात्र- -त्रः

वीथी १६, ३५ : १३; -त्रम् काथी  
११, ४, ५; वाथी २४, २, ३२;  
आपथी २३, ५, १२; द्विथी १८,  
२, ११.

चतुस्त्रिन्-वाच्य- > च्य-

त्य- -नवान् मीम् ९, ४, १७.

चतुस्-त्रि-दि-भाग- > गी-

√ह > गी-कृत- -नान् विष  
१८, ७.

चतुस्-त्रि-तुब्-प्रत्य- -नान्  
अण्ड २, १, ५८, १०१.

चतुस् त्र्ये (प्रि ए) क- -कैः वत्र  
१, ७, १०.

चतु-न् ( रथा > ) रथ- -रथः  
वेताथी २६, १५.

चतु-न्त ( क > ) का- -का अण्ड  
१, ५, ८; अण्ड ५, ३१.

चतु-न्तद- -दम् अण्ड ५,  
२७<sup>०</sup>.

चतु-न्ती ( ता > ) त- -तम्  
वीथी १७, २८ : ११; द्विथी  
१२, ८, ५.

चतु-न्तुयगंका- -कः विष ४,  
१०.

चतु-न्सूत्र- -कानि नाथी  
१२, २, ४; -वती अण्ड ३, १५<sup>०</sup>.

चतु-न्भवन, ना- -नम् आपथी  
१७, २६, ७; २१, ४, १४; २३,

११, ६; माथी १२, ४, ५; वेथी  
१२, २४ : ६; द्विथी १०, ३,  
३९; -नानि आपथी १६, ३५,  
१०; वेथी १९, १ : १७; द्विथी  
११, ८, २६; १२, ८, २०; १६,  
१, ४७; वापूथी ४, १०६ : ४;  
६; -ने माथी २, २, १, ४९.

चतु-न्तम- -मम् अण्ड २१,  
६, १.

चतु-न्तोत्र- -त्रः काथी १२,  
६, ६.

चतु-न्वयान- -ने काथी २०,  
४, ९.

चतु-न्गु ( एण > ) ग- -गम्  
आपथी ११, १, ४; माथी २,  
२, १, १२; वेथी १४, १० : १.

चतु-न्कानि- -कित आपथी  
१२, २, १४ : ४; वीथी, -कितः  
काथी २६, ७, १४<sup>०</sup>; आपथी  
१५, १४, ५<sup>०</sup>; २२, ९, १८;

वीथी; -कितना काथी १२,  
५, २; ७; १७, ३, ३; -कितम्  
काथी ५, ३, २१; आपथी ७, ५,  
१४ : ४; काठथी; -कितन् काथी  
१८, ६, ७; -कितो वीथी १२, ६, २.

चतु-न्वर- > चतुस्वर-  
-वर्गं भाग् ३, २६.

चतु ( < दृढ ) नात्र- -त्रः  
काथी १६, २३, ७, द्विथी १७,  
७, ६; निम् ८, १० : १७, वीथ  
४, ८०<sup>०</sup>; -त्रम् काथी १९, १,  
१४; वेथी २०, १५ : ७; आसिण्ड  
१, २, १ : २०; वीथ ३, १, २६;

वीथि १, ५, १; -त्रस्य आपथी

a) = प्रथोद्वानवर्तिका-घेनु- (तु. गो १, २, २१ प्रमृ.) । b) विप. । कथिकार्ये कः प्र. उत्सं. (वा ५, २, ४५, ४६) ।  
c) षमिति पाठः ई यनि. बोधः । d) = मात्य-स्तोत्र-विशेष- । वस. । e) तु. भाष्यम्; वैतु. सस्कृतं सूची उत्तरेण  
समस्तम् इति । f) = सत्र-विशेष- । g) विप. । कस. > वस. । h) वै १ द. । i) विप. । वस. ।  
j) चतुष्कौ इति संस्कृतं: टि. द. । k) समाहारे दस. ।

२२, १४, ५; द्विती १७, ६, ३;  
-प्रा: आपथी २२, १८, ११;  
बोध २, १, ६५; -प्राणम् निम्  
३, ७: ८; -प्राय वीथी १६,  
२८: १; ६; १०; -त्रे बोथी  
२६, २८: १२-१४; -त्रेण शांथी  
२६, २३, १; २६; निम् ८, १०:  
१४; २१; -त्रेय्य लाथी २,  
५, ६.

चतुरात्र<sup>१</sup> - त्राय निम्  
८, ४: २९.

चतुरात्र-प्रभृति- -तय: निम्  
९, ८: १९; -विषु आपथी २२,  
१४, १५; द्विथी १७, ६, ५.

चतुरात्रा (त्र-त्रा)दि- -दियु  
काथी २२, १, ७.

चतुरात्रो (त्र-त्र)पजन<sup>१</sup> - नम्  
आथी ११, २, १४; ३, ४; ११;  
४, ५: ८.

चत्वार<sup>२</sup> - पाठ ५, ५८<sup>३</sup>; पा ७, १,  
९८; -त्वार: आथी ४, १, ४××;  
वाथी; माथी १, ६, ४, २१<sup>४</sup>;  
वाथी १, ५, ५, ७<sup>५</sup>; पाठ ३,  
१, २<sup>६</sup>; काय २६, ७<sup>७</sup>; वैय  
४, २: ५<sup>८</sup>; बोध २६, १३<sup>९</sup>;  
अत्र १६, ८<sup>१०</sup>; या १, ४; ३,  
८: १०<sup>११</sup>; ११; १९; -त्वारि  
आथी ३, ८, १<sup>१२</sup>×; साथी;  
आपथी १०, २२, १२<sup>१३</sup>; आपथं  
१, ३, १०<sup>१४</sup>; पाय १, ८, १<sup>१५</sup>;  
आमिष्ट १, ५, ४: ४३<sup>१६</sup>; काय  
२५, ४२<sup>१७</sup>; भाय १, १०:  
२<sup>१८</sup>; माय १, ११, १०<sup>१९</sup>; काय  
१४, २३<sup>२०</sup>; द्विष्ट १, २१, १<sup>२१</sup>;

वैय १, २१: २८<sup>२२</sup>; या १,  
१; १२; ३, ११; १३, ७<sup>२३</sup>;  
९<sup>२४</sup>; -त्वारिऽत्वारि आथी ९,  
४, ५; काथी २२, ११, १; बोथी  
१३, २३: ८; २३, ३: १५;  
माथी १, १, १, ३; २, १, १, १७;  
५, १, ६; ६; लाथी ७, ५, १३;  
१३, १<sup>२५</sup>.

चत्वारिन् - > परि-शात्<sup>२</sup> - पा ५,  
१, ५९; फि ७; -शात् साथी  
४, १५, ११××; आपथी; -शात्  
आपथी १७, ३, ४; २३, १, १४<sup>३</sup>;  
बोथी; द्विथी १६, १, ११<sup>४</sup>;  
-शतम्-शतम् साथी १६, ८, ९;  
-शता आपथी ९, ११, २३; निम्  
५, १२: १४; आमिष्ट ३, १०, ५:  
५; बोधि ३, ८, १; द्विपि २३:  
२१; गौपि २, १, ८; गौय ८, ८;  
-शते तैत्रा १६, २४<sup>५</sup>.

चत्वारिंश<sup>३</sup> - पा ५, १,  
६२.

चत्वारिंश- -शम् आपथी  
२३, ९, ८; १४; द्विथी १८, ३,  
१६; -शा: बोथी १६, ३४:  
१३; -शे लाथी ६, ६, १९; -श्री  
बोथी १८, २३: ९.

चत्वारिंशच्-चतु.पञ्चाशत्-  
-शतम् निम् ५, १२: ६.

चत्वारिंशच्-छ (<श)त-  
-शतनाम् बोथी १६, २५: १९.

चत्वारिंशत्-कर(ण)>णी<sup>४</sup>-  
णी काय २, ९.

चत्वारिंशत्-प(द)>दा-  
-शम् काथी १७, ३, १४.

चत्वारिंशत्-प्रभृति- -तो पा  
६, ३, ४९.

चत्वारिंशत्-अच (<श)थी<sup>५</sup>-  
-रा वापथी ४, १००<sup>६</sup>: ८; ११५:  
१०; निम् १, ३: १.

चत्वारिंशत्-अन्त<sup>६</sup> - न्तानि  
काथी २४, १, २.

चत्वारिंशत्-दिवस- -साय  
वैय ३, १९: १.

चत्वारिंशत्-शत्रु<sup>७</sup> - शत्रु  
आथी ११, ४, ८; काथी २४, २,  
३६; -शत्रु साथी १३, १४, ९;  
काथी २४, २, ३१; निम् ९, १०:  
११; -त्रेण आपथी २३, ६, ११;  
द्विथी १८, २, १७.

चत्वारिंशत्-चर्प- -र्प: बोथी  
२६, ६: १२.

चत्वारिंशत्-भान<sup>८</sup> - नम्  
आपथी ५, २१, ९; वाथी १, ४,  
४, २६; वैथी १, १६: १३;  
द्विथी ६, ५, १८.

तुरीय, पा<sup>९</sup> - पाठा ५, २, ५१; -र्षय:  
आपथं १, ३, १<sup>१</sup>; पाय १, ४,  
१६<sup>१</sup>; काय २५, २२<sup>२</sup>; बोध १,  
४, ७<sup>३</sup>; भाय १, १६: २<sup>४</sup>; द्विष्ट  
१, २०, २<sup>५</sup>; वैय १, २१: ६<sup>६</sup>;  
अपं ४: ४<sup>७</sup>, -यम् वापथी ३,  
१७: ८<sup>८</sup>××; कोय: या ६,  
२१<sup>९</sup>; १३, ९<sup>१०</sup>; णं; कृ, -या  
आपथी १९, १७, १०<sup>११</sup>; बोथी  
१४, १५: ११; द्विथी २२, १,  
२१<sup>१२</sup>; पाय ३, १, १३; अत्र ५,  
६; १३, १; -ये काय २, ६, १;  
वृं ६, १२६; -येण शांथी १५.

a) स्वांभं अण् प्र. । b) विप. वत्त. । c) वैप र्द्र. । d) <√चर्। e) पांभ. वैप १,  
१३०५ j द. । f) चत्वारः इति पाठः इति यति. शेषः । g) पांभ. वैप २, ३६. चत्वारि तैत्रा ३, ५, ७, ११ द्वि. द. ।  
h) बोधः पृ ४३९ w द. । i) = ब्राह्मणप्रत्यय-विशेष. । j) चतुष्करणी - इत्येतेन सन्वयायत्वा द. । k) = धक्-  
विशेष. । l) पांभ. वैप १, १३०६ c द. ।

३, ७; ऋषा १८, ४५.  
 तुरीय-क- नम् शंष २७३.  
 तुरीयो(य-ऊ)न- नम् कप्र २,  
 ५, १५.  
 तुर्य- पावा ५, ३, ५१; -यः  
 आमिष्ट १, ५, ३ : १५१; वायु  
 १४, १०१; अयं ५ : १७; -यैम्  
 माथ्री २, ४, ५, ७; -यै माशि  
 १०२; -यैण जैथ्री ९ : २०.  
 तुर्य-सुर्य- नम् माथ्री ६, १,  
 ५, ३३.  
 तुर्य-वाह- वाहः वाथ्री ३, ४,  
 ३, १९१.  
 तुर्योद्दी- ही शुभा ५, ४०१.  
 चतुर- पाठ १, ३८; पा, पाग ५, २,  
 १२७; पाग ५, १, १२४.  
 चतुर्य- पा ५, १, १२४.  
 चित्तुपानर्तनम् कौय १, ७, ३; राण्य  
 १, ११, ५  
 चित्तुपेनर्तनम् काय २२, १.  
 चतुस्र प्रम्. चतुर- द.  
 चत्त- चय- √चत् द.  
 चत्र- नम् कप्र १, ७, २, ५, ८, ४.  
 चत्र-नुच- न्ने कप्र १, ८, २.  
 चत्रा(त्र-अ)प्र-कीलका(क-अ)प्र-  
 (स्य)स्या- स्याम् कप्र १,  
 ८, ३.  
 चत्रौ(त्र-ओ)वीलीक- नम् कप्र ३,  
 २, ११०.

चत्वर- पाठ २, १२१; -रे अया  
 १५, १.  
 चत्वार्यभ्याम् वैथु ६३ : ४.  
 चत्वार- चतुर- द.  
 चत्वार्यभ्याम्- नो कौशि २.  
 चत्वारम् जैथ्रीका २०२.  
 चत्वारिंशत्- प्रम्. चतुर- द.  
 √चद् पाषा. भ्वा. उभ. याचने.  
 √चन् (वधा.) पाषा. भ्वा. पर.  
 हिसायाम्, चुरा. उभ. अक्षोपह-  
 ननयोः.  
 चन्- पाठ ४, २००; पावा १, ४,  
 ६०; -नः आपथ्री १६, ७, ४;  
 वैथ्री १८, ४ : २१; हिथ्री ११, २,  
 २; निघ ४, ३१; या ६, १६७;  
 -नसि वाथ्री ४, १४ : ३; ४.  
 √चनस्य > चनसित- -त्  
 आपथ्री १०, १२, ८; भाथ्री १०,  
 ७, १५; माथ्री २, १, २, २९;  
 -तम् आपथ्री १०, १२, ७, भाथ्री  
 १०, ७, १४, हिथ्री १०, २, ३७.  
 चनसिन-य (त >) ती-  
 तीम् कौथ्री ६, ६ : ७; १९; वैथ्री  
 १२, ११ : २.  
 चनसिता(त-अ)न्त- न्तम्  
 वैथ्री १२, ११ : ३.  
 चनसितो (त-उ) चर- नम्  
 वैताथ्री ११, १९.  
 चनो-हित- न्तः वाथ्री ४,

१४ : ५; ८; -तम् वाथ्री ४,  
 १४ : ६.  
 चन- आथ्री १, ३, १३××; वाथ्री-  
 थाथ्री ६, १७, १०१; भाथ्री ६,  
 ४, ४१; या २, १४; ११, ३८; १-  
 ३३, १; ४८; पा ८, १, ५७;  
 पाग १, ४, ५७; आण्यो ५, १२.  
 चनीखुदत्- √खद् द.  
 √चन्द- पाषा. भ्वा. पर. आहादे.  
 चन्द- पाठ २, ७८; पाग २, १,  
 ५६; -नम् आमिष्ट १, ३, १ : ३-  
 भाय २, १८ : ३; हिथ्र १, १०, ४;  
 अय ९, २, १; ३६, २८, १; या  
 ११, ५७; -नस्य आमिष्ट १, ३,  
 ३ : १५; -नेन आपथ्र १२,  
 ८; भाय २, २० : ७; अय १८,  
 ३, १; विघ ९६, २३; -नै-  
 जैथ्रीका १२; अय १, ४५, २.  
 चान्दन- नः अय २१,  
 ३, ३.  
 चान्दन-मणि- -मिम् हिथ्र  
 १, १०, ६.  
 चान्दन-सुरोदका(क-अ)-  
 क्षताक्षत-मोमय-नृवास्तम्वो(म्व-  
 उ) दुम्बर-पलाश-शामी-वैकटका-  
 (त-अ)अय- -त्येन हिथ्र २,  
 ९, ७.  
 चान्दन-कानन- नम् अय ६८,  
 १, २९.

a) = तुरीय- । b) वैप १ द. । c) पाभे. वैप १, १३०-९० द. । d) विप. । तद्विधये द्विस. । e) विप.

> नाप. (प्रवीण- ) व्यु. ? । f) < √चर् । g) तु. पागम. । h) पाठः ? चतुरम्, नर्तनम् (चत्त > रा न° वा  
 'पे न°' वेति वावि.) इति शोधः । काय. ? कुर्वात् > कर्तुः इति शोध (तु. सक्षं गायेयुः इति; वैतु. Old. [शोध.] चतुर,  
 आन° इति) । i) = मन्थन-दण्ड- । व्यु. ? । चात्र- इति BI. । j) विप. । पस. > सन. > पस. > उस. । k) प्रावः  
 की° इति जीर्ण., चात्रोर्ध्वकी° इति BI., चक्राथः की° इति अस्तु. पाभे. । l) समाहारे द्वस. । m) 'विलीकम्'  
 इति अस्तु. । n) = अन्नन- । = चतुष्पथ- [अशा.] । व्यु. ? । o) स्वहृत्पम् ? सप्र. आपथ्र १४, ११ विशिष्टः पाभे. ।  
 p) तु. BPG. । q) वैप २, ३३. द. । r) विप. । वस. । s) पाभे. वैप १, १३०७० द. । t) तु. पाहा. ।  
 वन इति भाण्ड. । u) या ११, ५ पराण्डः द. । v) विकारायै अण् प्र. । w) 'नम्, म° इति Bōht  
 LZDMG ५२, ८२] । x) चन्द° इति Bōht [ZDMG ५२, ८०] ।

चन्द्रन-कुङ्कुम-करुण-शुगमद-  
जातीफल-वर्जम् शंभ १२८.  
चन्द्रन-कुङ्कुम-करुण(र-अ)गुह-  
पत्रक-कानि विष ७९, ११.  
चन्द्रन-शुगमद-दारु-करुण-कुङ्कु-  
म-जातीफल-वर्जम् विष ६६,  
२.  
चन्द्रना(न-अ)गुह-रु शंभ ३६,  
१५, १; -रु शंभ ६६, २, २<sup>b</sup>.  
चन्द्रनागुह-संयुत- -रु  
शामिष्ठ २, ४, ६ : २४.  
चन्द्रना(न-अ)दि-प्रदीपान्त-  
-न्तैः शामिष्ठ २, ४, १० : ९.  
चन्द्रना(न-अ)दि-विलेपन-  
-नम् कप्र २, ८, ५.  
चन्द्रतो(न-उ)खित-सर्षाङ्ग-  
-नम् कप्र ३, २, ४.  
चन्द्र, चन्द्रा<sup>१०</sup> - पाठ २, १३; पाग ५,  
२, ३६; -चन्द्र वीथी ८, ६ :  
६; पाठ; -चन्द्रः शीथी ६, ३, १<sup>१</sup>;  
जैथीप ९; तु; या ११, ५<sup>१</sup>;  
-चन्द्रम शीथी ६, ३, १<sup>१</sup>; चन्द्रा<sup>१०</sup>  
७, ८, १४; २६, ४, १; आपथी २०,  
१८, १०; -चन्द्रस्य अय ५०, ४,  
५; वीथ ७, ५, २०; वृदे १, ८८;  
आज्यो ७, २३; -चन्द्रा वीथी ६,  
१३ : १<sup>१</sup>; भाति १२०<sup>१</sup>; नासि  
१, २, १०<sup>६</sup>; -चन्द्राः वीथी १२,  
९ : ७; भाति ११५; -चन्द्राणि  
आपथी १०, २६, १०; वीथी ६,  
१५ : ३; वैथी १२, १९ : ३;  
हिथी ७, २, ७४; -चन्द्रात् वाथी  
२५, ६, ८; अथाय २, १;

-चन्द्राय आपथी १७, २५, ११;  
कौस्तुभ १२; १००, ३; १३५,  
९; -चन्द्रे अय ६८, २, ४; ७०<sup>१</sup>,  
११, २३; विष १, ३६; शुभा  
३, ५४<sup>१</sup>; कल ७, ७, ३<sup>१</sup>;  
-चन्द्रे द्राथी ९, ३, ३; जाथी  
३, ६, ३; -चन्द्रेण वीथी ६, १५;  
३; १२, ९ : ७; कौष्ट १, १०,  
१; हाष्ट १, १६, ३; अय १, ५,  
६९.  
चन्द्र<sup>b</sup> - चन्द्रम् अय २, १९;  
या १२, ५; -चन्द्रे विष ७८, २.  
चन्द्र-क- (> चन्द्रकित्- )  
चन्द्र- दि. द.  
चन्द्र-कला(ला-अ)भिवृद्धि-  
-न्तौ विष ७७, ३.  
चन्द्र-मद<sup>१</sup> - च्छे शामिष्ठ २, ५,  
१ : ६.  
चन्द्रमद-निमित्त- -सानि  
अय ५३, २, २.  
चन्द्र-चार-विद्- -विदः कद  
२, ६, ६.  
चन्द्र-दक्षि(सा>)व<sup>१</sup> - ग्नाः  
वीथी ८, ५ : २१; वैथी १६,  
७ : ३; हिथी १०, ४, ४५.  
चन्द्र-दर्शन- -नम् काष्ट ३८, १;  
-ने कप्र १, ९, ७.  
चन्द्र-निर्णय<sup>१</sup> - निर्णय कद्रा  
१७, ४५; तसु ५, १.  
चन्द्र-पर- -रः तेषा ५, ५.  
चन्द्र-प्रमाण<sup>१</sup> - ग्नाः वाथी १०,  
१६, १३.  
चन्द्र-वृहस्पति- -वी विष ४९, ९.

चन्द्र-भात<sup>k</sup> -> ग्ना<sup>१</sup> - पाय ७,  
१, ४५; -गायाम् विष ८५, ४८.  
चन्द्रभागी<sup>१</sup> - पा ७, १, ४५.  
चन्द्र-माम<sup>१</sup> - -सः अय ५२,  
१०, १.  
चन्द्र-माहवर- -नी अय ६२, ३,  
३; ६७, ३, ८.  
चन्द्र-मस<sup>१</sup> - पाठ ७, २२८;  
पाग ६, २, ४३; -मः शीथी  
७, ८, ४<sup>१</sup>; -ममः वीथी १८,  
५२ : १५; निम् २, ५ : ३०;  
कौष्ट ९३, ८; कप; या ७, २५<sup>१</sup>;  
११, ३; ४; १७, ८; पावा ७, २,  
३; -मसम् शीथी ३, ८, १५<sup>१</sup>;  
आपथी १, ७, १; वीथी; या २,  
६; ११, ४; १७, ८; १८; २३;  
-मसा शीथी ३, १३, १३; वाथी  
२५, ४, ३७; आय ३, ११, १<sup>१</sup>;  
अथाय ५, ६; या ७, ११; १३,  
३६; १७, २३; -मसि चन्द्रापथी  
५, ९, ७४४; वीथी; -मसे  
आपथी ६, ८, १<sup>१</sup>; १०, १०, ६<sup>१</sup>;  
वीथी; -मसौ अय १, ४१, ६;  
अथा ११, ६; -माः चन्द्रापथी  
५, १३, १४; १०, ९, २; चन्द्रापथी  
५, १, ३; १६, ५, ४; आपथी;  
वैथ ५, ४ : २६<sup>१</sup>; या २२,  
५७.  
चन्द्रम<sup>१</sup> - -नः निम् ५, १२ :  
१९.  
चन्द्रमम<sup>१</sup> - -सः द्राथी  
८, ४, ६; वाथी ७, ८, ६; निम्  
५, ११ : ७; साथ १, १४७;

a) 'मदागुहक' इति जीसं. । b) मलो.कम. । c) विप. । वस. > वस. । d) = प्रह., द्विष्य., भेवस्.,  
साम-विशेष- प्रस. । e) वेप १ द. । f) तु. पाका. । चन्द्र-क- इति भाण्डा. । g) = मूर्च्छना-विशेष- ।  
h) विप. । साक्ष्यदेवर्ताथः तस्येदमीस्य अणु प्र. । i) टप. = टपताग. । j) विप. । वस. । k) = पर्वत-  
विशेष- (तु. पागम.) । व्यु. ३ । l) = नदी-विशेष- । चान्द्र<sup>१</sup> इति केचिदिति पागम. । m) = प्रह-विशेष- ।  
n) 'मा इति पाठः ! यनि. शीवः । o) = चान्द्रमस- । टणु प्र. उर्स. इति विशेषः ।

-सम् वीथी १८, ३७ : ५; २६,  
३३ : ६; वैष्ट ५, १ : ११; अत्राय  
३, ४; अत्र; -साः निम् ५,  
११ : ३१; -से या १३, ५,  
-सिन आमिष्ट ३, ९, ३ : २४;  
वीथि २, ७, १९; -सी वृदे ७,  
१२५.

चन्द्रमसी<sup>३</sup> - सी शार्थी  
१४, ३२, ३; अत्र १८, ४;  
-सीभिः वीथि ३, ९८; -सीम्  
वीथि ३, ८, ९; शब्द १, ८६,  
-स्यः निम् ४, ९ : ५; या ५,  
११; -स्या आश्री ९, ८, २;  
-स्यौ अत्र ६, ६८.

चन्द्र-रथ<sup>४</sup> - यम् आपथी ५,  
१०, ४; माथी १, ५, २, १४;  
वाथी १, ४, २, ५, द्विथी ३, २,  
३६.

चन्द्र-रश्मि-मनोहर - रम् विध  
१, ३४.

चन्द्र-राहु - पाग २, २, ३१<sup>०</sup>.

चन्द्र-रुल्लट<sup>५</sup> - टाय वीथि २६,  
१२१<sup>०</sup>.

चन्द्र-वन् अप ४, २, १२.

चन्द्र-वपा - पयोः आपथी २०,  
१९, ३<sup>१</sup>; द्विथी १४, ४, २७<sup>११</sup>;  
-पालाम् वाथी ३, ४, ४, २२<sup>१</sup>.

चन्द्र-वहण-विशेदेव - वाः  
अत्रम् ३.

चन्द्र-वाह (म>) मा<sup>६</sup> - भाम्  
अशा १, ३.

चन्द्र-वाह - न्ये ऋषा ४, ८४;  
उस् ६, ५.

चन्द्र-सामन्<sup>७</sup> - म विध ५६, १४.

चन्द्र-सालोचय - चयम् विध

९२, १२.

चन्द्र-सूक्त - क्ते विध ५६,  
२०.

चन्द्र-सूर्य - र्ययोः अप ६७, ६,  
४; ७०<sup>२</sup>, ३, १; वृदे ६, १२६.

चन्द्रसूर्य-ग्रह<sup>८</sup> - हे ऋष १,  
१०, ७; अप ५३, ६, ५.

चन्द्रसूर्यमहो (ह-उ)

पाग - गान् विध ९०, २९.

चन्द्रसूर्य-तला (ल-आ) अत्रय -  
या<sup>९</sup> अप ५२, ७, ५.

चन्द्रसूर्यो (य-उ) पराग - नो  
वाध १३, ३४.

चन्द्रा (न्द्र-अप्र>) मा<sup>१०</sup> - माः  
या १२, १८<sup>१</sup>.

चन्द्रा (न्द्र-अ) दर्शन - ने काथी  
४, १, १; माथी १, १, २, १;  
-नेन वाथी १, १, २, १.

चन्द्रा (न्द्र-आ) दिव्य - पाग २,  
२, ३१<sup>०</sup>, -स्यौ आमिष्ट २, ६,  
१ : १७.

चन्द्रादित्य-गत - तम्  
आज्यो १, २.

चन्द्रा (न्द्र-आ) न (न>) ना -  
-ने विध ९९, ३.

चन्द्रा (न्द्र-अ) वण - > १ चन्द्रा-  
यण<sup>११</sup> - पाग ४, २, ५४<sup>१</sup>; -णः वाध  
२३, ४७; २७, २१<sup>१</sup>; विध ४७,  
३६; वीथि २७, १६; -णम्

वीथी ५४ : ५; आमिष्ट ३,  
१२, १ : ७; वैष्ट, -णेन शंघ  
४४२; सुध ४४, -णैः विध  
९५, १३.

चन्द्रायण-कल्प - ल्यम्  
वीथि ३, ८, १.

चन्द्रायण-द्वय - न्यम्  
विध ५३, ६.

चन्द्रायण-भक्त - पा ४,  
२, ५४.

चन्द्रायण-विधि - विधिः  
वाध २३, ४४.

चन्द्रायण-व्रत - तम्  
वाध २३, १६; वैध १, ७, ८.

चन्द्रायणा (ण-अ) ल्द -  
फल - लम् शुभ ४, २२१.

चन्द्रायणिक - पा ५, १,  
७२.

चन्द्रायणो (ण-उ) सर -  
रम् वाध २१, १३.

चन्द्रा (न्द्र-अ) कं - पाग २, २,  
३१; -कंयोः अप ७२, ३, १५;  
शंघ ४६; -कौ अप ६७, ९, १;  
७२, २, १.

चन्द्राकं-सैनिकर्ष-विप्रकर्ष -  
र्ययोः विध ५९, ४.

चन्द्राकौ (कं-उ) पराग - नो  
विध ६८, १.

चन्द्रा (न्द्र-अ) कं-सार (क >)  
का - काः विध ६८, ३७.

चन्द्रा (न्द्र-अ) कौ (कं-उ) ल्का -  
प्रभेद - दाः अप ६४, ६, ६.

चन्द्रा (न्द्र-म) र्थ - र्थः कायु ७,  
२१.

चन्द्रित - पा ५, २, ३६.

चन्द्रे (न्द्र-इ) म्द्रवज-सूर्य -  
-र्षणाम् अप ६८, २, ३७.

चन्द्रो (न्द्र-उ) सरपद् - दे पा  
६, १, १५१.

चन्द्रो (न्द्र-उ) द्य - ये विध  
९०, १.

a) विर. (इष्टि, ऋच्-प्रष्ट)। b) वेग १ द्र.। c) तु. पागम.। d) विप.। वस.। e) ऋत्स्य  
अपयो. इति पाठः इति मिति. शोधः (तु. सपा. आपथी.)। f) = सान-विशेष-। g) उप. = उपराग-। h) विप.।  
पस. > वस.। i) = व्रत-विशेष-। j) = राज-विशेष-।

चन्दन- ✓चन्द द.

चन्द्रि- पाठ १, ५११.

चन्द्र-, चन्द्र-मस- ✓चन्द द.

रचन्द्रमस<sup>b</sup>- पाग ४, १, १५४.

रचन्द्रमस- -सा: वीथी ३: १२.

चन्द्रमसायनि- पा ४, १, १५४.

✓चम् पाधा. म्वा. पर. सान्ख्ये,

सुरा. पर. परिकल्पने.

च-पर- च द.

श्चपल, लल<sup>a</sup>- पाठ १, १११; पाग

२, १, ४०; ५९; ७०; ३, १, १३;

५, १, १२४; १३०; ६, २, २४; ३,

३४; -ल: काण्ड ३५, १<sup>१</sup>१.

चापल- पा ५, १, १३०; -ले

पावा ८, १, १२.

चापल- पा ५, १, १२४.

चापल-मध्य<sup>d</sup>- -प्ये विप ७०, १४.

✓चपलाय पा ३, १, १२.

रचपल<sup>b</sup>- (> चापलायन- पा.)

पाग ४, १, ११०.

चपेट- पाठभो २, २, १०९.

चपेटक<sup>c</sup>- (> चापेटक- पा.)पाग ४, १, १५१<sup>०</sup>.चफटक<sup>b</sup>- (> चाफटकि- > चाफट-

कायन- पा.) पाग २, ४, ६१.

चिच्याम् बाधुथी ४, २६: १.

✓चम्<sup>a</sup> पाधा. म्वा. पर. अदने, स्वा.

पर. मञ्जुषे, चमन्ति या १०,

१२; चमताम् बाधुथी १, १, २,

३१६.

चमस<sup>b</sup>- पाठ ३, ११७; पाग २, ४,३१; ४, १, ४१<sup>०</sup>; १०५<sup>०</sup>; -स:

नीमाथी १, ३, ६××, शीथी; नीया

१०, १२४, १२, ३८; -सम्

आथी ५, ७, ७; ९, ३, १८; शीथी;

वीथि १, ५: १८<sup>१</sup>; १; या १०,

१२१; -सत्य आपथी १२, २४,

५; वीथी १४, २: २५; हिथी;

या ११, १६; -सा: आथी ५, ६,

२३; ६, १२, ६; काथी १, ४, ६;

२४, ४, ४०; आपथी; -सात्

वीथी ३, २९: १५; त्याथी ९, ३,

४; -सात् आथी ५, ६, १२××;

शीथी; -सानाम् वीथी २१, १९;

२६××; माथी; -साय-साय

वीथी ८, १२: ४२; २५, २३:

७; -से शीथी १३, १२, ११;

काथी ११, ४, ९; २५, ११, ३३;

आपथी; -सेन काथी १०, ५, १;

आपथी ८, ३, ८; वीथी; -सेभ्य:

आथी ५, १७, ५; ६, १२, ७;

वीथी; -सेषु आथी ६, ४, १०;

१२, ११; काथी; -सै: काथी

१०, ५, ८××; आपथी; -सै

आपथी १२, २६, ८; वीथी ५,

९: १०; माथी.

चमसी- पा ४, १, ४१;

पाग ६, २, १३४.

चामर- पा ४, १, १०५

चमस-गण- -गा: वीथी १७,

१: १६; माथी २, ५, २, १३;

वीथी १७, ५: ५; हिथी ९, ७,

५९; -गाम्याम् वीथी १७, ९:

१५, -गाय आपथी १४, २, ३;

२१, १०, ३; वीथी १५, ३८: ३;

२, २८; १६, ४, १५; -नेभ्य:

हिथी ८, ८, ५४; ९, ७, २२; १३,

२, २८; १६, ४, १५; -नेभ्य:

आपथी १४, १, ६; ३, ८; ४, १२;

हिथी ९, ७, ८; ३८; ५६; -नेषु

वीथी १७, ४: ६; -नी वीथी

१७, ७: १४.

चमस-ग्रह-पात्र- -त्राणि अत्र

२३, १, २.

चमस-दूर्वा- -दूर्वा गोष्ठ ३, ७,

११; १५.

चमस-निधान- -नात् काथी

१०, १, २६.

चमस-पात्र- -त्राणाम् वीथ १,

५, ४४.

चमस-नस- -नम् आपथी १३,

१७, ९.

चमस-वत् काथी १८, ५, ४;

शंभ १६७; मीत् ३, ५, ८.

चमस-श्रुति- -ति: मीत् ३, ५, ३१

चमसा(स-शा)हृति- -ति काथी

१, ३, ४०.

चमसा(स-म)ध्वयु<sup>e</sup>- -ध्वय:

काथी २, ११, ३; २२, १०,

६; आपथी १०, १, १४<sup>१</sup>××;वीथी; -<sup>१</sup>०र्धन: काथी ९,

११, ३; आपथी १०, ३, १;

१२, २३, ४<sup>२</sup>; वीथी; -<sup>१</sup>वै

आपथी १४, २८, १; वीथी १५,

३०: ११; हिथी ८, ७, ३३;

-<sup>१</sup>यु: वीथी १५, ६: १; -<sup>१</sup>युभ्य:

आपथी १३, ६, ६; हिथी १०,

४, ५९; ६१, -<sup>१</sup>युत् आपथी १०,३, १; वीथी; -<sup>१</sup>०र्वा काथी

९, ३, ३; आपथी १२, ५, २;

२६, ४; वीथी.

चमसाध्वयु<sup>e</sup>-नसपंक-सदस्य-

-न्येभ्य: आपथी १३, ६, ७.

a) = चन्द्र- ना दृष्टित्- वा । b) व्यप. । व्यु. ३ । c) विप., नाप. (वालपह- [वाद्य-]) । व्यु. १ । &lt; ✓सुप्

इति अथा. प्रत्यु., ✓कम् इति अथ. । d) व्यु. = दुर्व्यसित्- । e) द्व. पागम. । f) वृदे ७, १२९ या ११, ५

परायुः द. । g) पाभे. वैप २, ३ सं. रमताम् तैत्रा ३, ७, ४, ३ टि. द. । h) वैप १ द. । i) पाभे.

वृ ५८६ i द. ।

चमसिन्- पाग ४, १, १९९;  
-मिनः आधौ ५, ९, २७;  
आपधौ; -मिनाम् वैधौ १५,  
३१ : ८; द्विधौ ८, ७, ३८; मीत्  
३, ५, ३०; -सि वैधौ १५, ३१ :  
९; द्विधौ ८, ७, ३९.

चामसायन- पा ४, १, १९९.

चमसो(स-उ)चयन-काल- ले  
काथौ १०, ९, ३०.

चम्- पाठ १, ८०; -फंम् शाभौ  
१०, ४, ५; आपधौ १९, ३, २१;  
शुभा १, १६; -म्वा कौत् ४८,  
४, -फंम्बोः शाभौ १५, २३, १;  
या ४, २१६; -फंम्बौ अप ४८,  
६०; निघ ३, ३०.

चम्-पाल- -लान् अप ६३, ३, ९.

✓चमकुटिल- -लानि या १४, ३१.

चमर- पाठ ३, १३२; पाग ४, ३,  
१५०.

चामर-पाठ, ३, १५०; -रन् विघ ६५,  
१४; -रैः आसिष्ट २, ४, ६ : ३८.

चामर-आह- (> षिङ्-पा.)  
पाग ४, १, १४६.

चामर-छत्र-संयुक्त- -कम् अप  
५, ४, ४.

चमरू- पाठभौ २, १, १०४.

✓चम्प- पाधा. चुरा. पर. गल्बाम्.

चम्पा- पाठभौ २, २, २०९; पा, पाग  
४, २, ८२.

चम्पू- पाठभौ २, १, १२४.

✓चय पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

श्चय- (> षचाय- पा.) पाग ४,  
३, १५२.

श्चय- चय-क-, चयन- प्ररु.

✓चि द.

चयमान- > षचायमान- -नः वृदे  
५, १२४; -नस्य ऋथ २, ६,  
२७; -नेन वृदे ५, १३८.

च-योग- व द.

✓चर् पाधा. भ्वा. पर. गतौ भक्षणे

च, चुरा. उभ. संशये, चरते  
माष्ट १, २२, २०; वीध २, १०,  
३०; या ६, ११; चरति षचाथौ  
८, १४, ४; १०, ९, २; शाभौ;  
वीधौ १०, ४ : ५; पा ४, ४,  
८; ४१; पावा ५, १, १४, चरतः  
शाभौ १५, १९, १; काथौ;  
चरन्ति आथौ १, ५, १००;  
शाभौ १५, १७, १; या १४,  
१०; चरते वाथौ १, २, १,  
३३; चरसि वाथौ ५, ५,  
५; विघ, चरथः या १२, २; ष  
चरथं शाष्ट ३, ११, १४; पाष्ट ३,  
९, १६; विघट ६, १६; षचरामि  
आपधौ ५, २५, २०००; वीधौ;  
षचरावः आथौ २, ५, १०;  
वीधौ, माथौ २, ५, ५, १८;  
षचरति शाभौ १५, १९, १,  
आपमं २, १, ५; जैष्ट १, ११ :  
१७; चरान् कौत् १०४, २.

षचरतात्- आपमं २, ३, १;

आसिष्ट १, १, ३; २; द्विष्ट १, ५, १;

कौत् ५६, १४; जैष्ट १, १२ : २७;

चरन्तु अप १, १, ७; षचर, >

रा शाभौ १५, १९, १; द्विधौ;

चरतम् माथौ २, ३, ७, २; ष

षचरत, > ता माथौ २, १, २,

२७; कौत् ३, ६, ९; माष्ट १,

२२, २; वाध ३०, १६; चरामि

कप्र २, २, १०; चराम द्विष्ट १,

१५, १; षमचरत् आपधौ ४,

८, ३; वीधौ १८, ४७ : ८;

भाथौ, मचरः आपधौ ५, १, ७; ष

वाथौ १, ७, २, २७; चरत् शाभौ

९, २८, १८; काथौ, द्विष्ट १, ८,

४३; या १४, ३१; चरेयाताम्

शाष्ट १, १७, ५; आसिष्ट; चरेयुः

आथौ ३, ५, ५००; काथौ.

चचार शाभौ १४, ५०, १००;

आपधौ १, ९, १; वीधौ;

चरिष्यति शाभौ १४, ५०, १;

षचरिष्यामि आथौ ८, १४,

६; शाभौ ४, ८, ३; आपधौ

४, ३, २०००; वीधौ; मचारीत्

वीधौ २४, १२ : ६; षमचा-

रिष्यत् शाभौ ४, १२, १०; ष

आपधौ ४, १६, ११; वीधौ.

चरते वाधुथौ ४, ७४ : ७;

षचर्यताम् कौत् १७, १९; वीध

१, ११, ३; गीध ४, ७.

a) व्यर. । b) वैष १ द. c) पाभे. वैष १ परि. चर्चिष्ठ ऋ १०, ११, १५ टि. द. । d) = प्लु-  
विशेष-। व्यु. ? < ✓चम् इति पाठ. । e) द. पागम. । f) = ✓छम् इति BFG. । g) अर्थः  
व्यु. च ? । h) चर्ग- (द. भावडा.), चाप- इति पाका. । i) या २, ५, ४, २७; ६, ११; ८, १५ पा ३, १, २४, ७, ४,  
८० पावा ६, ३, ५३ पराचुष्टः द. । j) पाभे. वैष १, १३११ d द. । k) पाभे. वैष २, ३३. मिथुनीभवन्ति  
ऐरा ७, १३ टि. द. । l) पाभे. वैष १, १३१२ q द. । m) चरत इति Jolly । n) शोधार्थं वैष १,  
१३१२ k द. । o) सपा. चरतात् ( मंत्रा १, ६, १४ ) <> चरता इति पाभे. p) पाभे. वैष १,  
१३१२ j द. । q) सपा. न चरेत् <> चर्चिष्ठ इति पाभे. । r) चरत् इति BN. । s) सपा. चचार <  
> चरती <> चिचरन्ती इति पाभे. । t) पाभे. वैष १, १३१३ a द. ।



चारय> या शुभा ३, १७१;  
 चारयैव आपथी १०, १९, ५१;  
 १३, ७, १२; द्विथी १०, ३,  
 १०.  
 चञ्जरीक- पाठ ४, २०.  
 चर<sup>०</sup>- पाग ३, १, १३४; ४, १, ४१;  
 ६१, ५, ३८०; -रम् विध ९७,  
 १८; -राः शुभा ६, २८; -राणि  
 अप ४, ३, ६.  
 चरो- पा ४, १, ४१.  
 चार<sup>०</sup>- पा ५, ४, ३८.  
 चार-चक्षुस्<sup>०</sup>- -क्षुः विध  
 ३, ३५.  
 चार-प्रतिचार- -री शंघ  
 २५१.  
 चार-मट<sup>०</sup>- -टे अप ९,  
 ४, ५.  
 चारावण- पा ४, १, ९९;  
 -गाः बौश्रीय २३; २.  
 चारावणीय- -याः चव्यू  
 २; २.  
 चर-कर्मन्- -र्मसु अनां ३, ३;  
 ५, ३१.  
 चरकर्म-प्रसाधक- -०क अनां  
 १, ६; ५, १.  
 चरकर्म-प्रसाधकी- -०कि  
 अनां ५, २.  
 चर-वृत्ति<sup>०</sup>- -त्तिः द्विध १, ७,  
 ५५.  
 चरण<sup>०</sup>- पाग २, ४, ३१; ३, १, २७;  
 ५, ३, १०३; -णम् शार्थी १५,  
 १, २०; १६, ३, ६; १२, ७; काथी  
 ५, ८, १; काथीसं ६; ९; बौथी;

-णस्य काथीसं ६; २०; -णान्  
 जैथीका ९६; -णाय काथीसं  
 ६; १९१; या ४, १९, ६, २०;  
 -जे काथी ५, ११, १५, या ५,  
 ११; -णेन काथी ३, २, ६, ४९;  
 -णी गोष्ट १, २, २७; छेदे  
 ४, २.  
 चारण<sup>०</sup>- -णः आप्य ६,  
 ९६; द्विष्ट २, ३८६.  
 चरण-चारण<sup>०</sup>- -णान् अप ५३,  
 २, ५.  
 चरण-मध्य-रात-भू- -भुवम्  
 विध ९७, १०.  
 चरण-वाच- -न्दे काथी ३,  
 ७, ६.  
 चरण-हव- -तः द्विथी १७, २,  
 ५३; आप्य २२, ६, ८.  
 ✓चरण्य पा ३, १, २७.  
 चरण्य- पा ५, ३, १०३.  
 चरत्- -रतः शार्थी १५, १९, ११; ११;  
 काठथी १३६९; निष्ट; -रताम्  
 नाशि १, ६, १६; -रते या ६,  
 ११२; -रत्सु काथी ८, ६, २६;  
 आपथी १५, १७, २×५, माथी;  
 -रन् शार्थी १५, १९, ११; ११;  
 काथी; -रन्तः अप १, ७, ४; ७;  
 ४०, ५, ३; वैध १, ९, २; -रन्वम्  
 बौथी १४, ५; ३६; १५, १४;  
 २१, १९, ७; ३४; वैताथी.  
 चरन्ती- -ती<sup>०</sup> बौथी २, १०; ७;  
 आपमं २, १९, १; ३; ५; कौष्ट ३,  
 १५, ५; आप्य ३, १, १; २०;  
 द्विष्ट २, १०, ७.

चरन्ती- -न्ती शंघ ३०४;  
 -न्तीः वैताथी ३८, ५; -न्तीनाम्  
 अप ४२, १, ८१; -न्तीम् माष्ट  
 १, ११; ७; विप ७१, ६१; वैध  
 ३, २, १५; -न्त्या या १०,  
 २१.  
 चरति-> चित-कर्मन्- -र्मा या ११,  
 १८.  
 चरथ<sup>०</sup>- -थाय या ४, १९१६.  
 चरथ्यै<sup>०</sup> या ६, २०१६.  
 चरस<sup>०</sup>- -राः पाठ २, १, १६१०.  
 चराचर<sup>०</sup>- पाठा ६, १, १२; -रः  
 अया ३, ४, ५१; -परम् भाथी  
 २, २, १७०; आपथी ६, ५, ७०;  
 भाथी ६, १०, ५०; माथी १, ६,  
 १, १५०; वाथी १, ५, २, १७०;  
 द्विथी ३, ७, २८०; माष्ट २, २ :  
 ४०; द्विष्ट २, १७, २०; शंघ ४५७;  
 १८६; -रे विध ५१, ६७;  
 -परंन्यः वीष्ट २, ८, ३३; शुभा  
 ५, ३०.  
 चराथ<sup>०</sup>- -या या १०, २११.  
 चरि- पाठ ४, १४०.  
 चरित- पाग ३, १, १३; -तम् जैथी  
 १२; १; निष्ट ४, २; ३३;  
 वीष्ट; -ते काथी ५, ५, २०×५;  
 द्विथी; लाथी ९, १०, ८.  
 चरित-निर्वेदा<sup>०</sup>- -नाम् वीथ  
 २, १, ३७; द्विष्ट २, ५, २१९;  
 -रास्य आप्य १, ८, १२; द्विष्ट  
 १, ५, ८१०.  
 चरित-प्रायश्चित्त<sup>०</sup>- -चः द्विष्ट  
 १, ७, ३७०.

a) राधा. ७० < ७० इति पाठे. b) विप., नाप., व्यप. c) तु. पागम. d) रवाये

अण् प्र. e) विर. f) वस. g) कस. उप. = वन्दित्. h) भावे वा करणे वा ल्युट् प्र. i) = रस-  
 विवेद- j) वस. पू. अर्थः? k) पाठे. घृ १०-६४ ब. द. l) वैप १ द. m) = वायु- n) सप्र.  
 आपमं २, १, ५ आप्य १, १७, १३ प्रम्. विशिष्टः पाठे. o) पाठे. वैप १ सतीसपुत्र शी ३, १०, ६ ति. द. 1  
 o) विप. f) वस. उप. = प्रायश्चित्त- p) 'अस्य इति पाठः? q) सप्र. आप्य. कृत्-आ' इति पाठे. 1

चरित-ब्रह्मचर्य<sup>०</sup> - चर्यः काण्ड ४, २२; २३; -चर्यम् आपध १, ८, ३०; द्विष १, २, ११८; -चर्यं कौण्ड २, ७, १७.  
 चरित-व्रत<sup>०</sup> - व्रतः आण्ड १, ८, १२; -व्रतानाम् वाध १५, १७; -व्रतम् आण्ड १, २२, २०.  
 ✓चरिताय पा ३, १, १३.  
 चरिता (त-श्रयं >) यार्थ<sup>०</sup> - यार्थं वप्र ३, १०, ६.  
 चरित्र<sup>०</sup> - पा ३, २, १८४; पाग ५, ४, ३८६; -चरित्राः आपध ७, १८, १०; वीधौ ४, ६ : ५३; माधौ ७, १४, ७; वैधौ १०, १४ : ११; -त्राणि कौण्ड ४४, २४१; -वार्त्त माधौ १, ८, ४, ५.  
 चारित्र- पा ५, ४, ३८.  
 चारित्र्य- अयम् शंघ ७७, ७९; ३४१.  
 चरित्र-वत् - वन्तम् आण्ड ४, ८, १५.  
 चरिता आधौ ३, ५, ५४४; शोधौ.  
 चरिण्यु- पा ३, २, १३६; -चरिण्यु<sup>०</sup> शोधौ १, ११, १; वीधौ ३, २९ : ८; शण्ड २, १, ३०; काण्ड ४१, १३; वाण्ड ५, ९; -चरिण्यु वा ७, २९६.  
 चरिण्य- अयामु आधौ ४, ६, १; शोधौ १३, ३, १६, १५, २, २; लाधौ ५, ४, १; १०, १; -चरिण्यु काधौ ६, ६, २२; काधौतः;

-चरिण्यु- अयम् काधौ २६, २, १;  
 -चरिण्युतः काधौ ५, ९, २; काधौतः.  
 चर्य- पा ३, १, १००.  
 चर्यमाण- अयम् आपध १, २०, ३; द्विष १, ६, १७.  
 चर्या<sup>०</sup> - अय्या आपध १, ३१, १९;  
 -चर्या आपधौ ११, ४, ४; १२, २८, १५; २०, २१, ४; वीधौ;  
 -चर्याम् नित्य २, ८ : १३; -चर्यायाः आपधौ १३, २०, ६; वीधौ २५, २३ : १; ३२ : १; -चर्यायै वीधौ २०, ३० : १३४.  
 चर- -रः कौण्ड १०१, २; -चरम् कण्ड २, ६, ८, आप ५३, ६, ७; -चरम् कौण्ड ५१, २, २०.  
 चरण<sup>०</sup> > ण-दार- -रेषु वीध २, २, ५६.  
 चारयित्वा आधौ ८, १४, १; लाधौ.  
 चारित्र- पा ४, १७२.  
 चारिन्- श्री आपध १, १८, ३०; द्विष १, ५, ९७.  
 चर- प्रसू. ✓चर द.  
 चरक<sup>०</sup> - पा २, ३२, पा ४, ३, १०७, पाग २, ४, ३१९; -काः चर्यु २ : २, ३; -काणाम् भास् ३, २५.  
 चारकीण- पा ५, १, ११.  
 चरक-श्रीत्रामणी<sup>०</sup> - श्री द्राधौ १३, ४, १४; लाधौ ५, ४, २०; श्रुच १, ६३५.  
 चरक(क) > क्त<sup>०</sup> - पावाग ७, ३, ४५.

चरण- ✓चर द.  
 चरणम्<sup>०</sup> - अयम् कौण्ड १४१, ९; -णाम् पावा ४, ३, १२०; -णाम् पा २, ४, ३; -णे पा ६, ३, ८६; -णेभ्यः पा ४, २, ४६.  
 चरण<sup>०</sup> - अणः गीध ६, १७; -अणम् आपध १, १४, १३; द्विष १, ४, ४५.  
 चरण-वत् - वतः वीध २, ८, ६; -वन्तः वाधुधौ ४, १८ : २४; २७; -वार्त्त वाधुधौ ४, १८ : २०; २१; ३१.  
 चरण-विद्या<sup>०</sup> > चरणविद्या<sup>०</sup> - च्याः चर्यु ४ : ३.  
 चरणवैद्य<sup>०</sup> - श्रीः अण्ड २२, २, ४.  
 चरण-चर्युह<sup>०</sup> - अहम् चर्यु १ : १; ४ : २९; ३१; ३३; ३५.  
 चरणचर्युह-श्राद्धकल्प-शुद्ध-स्वानि चर्यु २ : ३०.  
 चरण-संवन्ध- अयेन पावा ४, २, १३८.  
 चरण<sup>०</sup> (> चरण-सं, चरणिल-पा) पाग ४, २, ८०.  
 ✓चरणय प्रसू. ✓चर द.  
 चरम, मा<sup>०</sup> - पा ५, ६९; पाग ४, २, ६३; -माः वैधौ ८, ७, १५; -मम् श्रुण्ड १, १ : ३; विध २८, १३; -मया वीधौ १०, ४८ : २; -मायाम् वीधौ १०, ४८ : १८; १९, ४ : २४; वैधौ १९, ६ : ३२;

a) विप. 1 वत्. 1 b) वैप १ द. 1 c) ट. पायम. 1 d) सवा. चरिण्यु <> जरिण्यु <> जरिण्यु इति पाठे. 1 e) शः प्र. यगागमश् च उरुं (पावा ३, ३, १०१) 1 f) = ह्यं. 1 कर्तरी णः प्र. 1 g) भाप. 1 h) = गोचर-प्रदेश. 1 i) = कुशीलव. 1 गिजन्ताल् ह्युः प्र. (पा ३, १, १३४) 1 j) चाऽऽर्थं इति पाठः 1 क) यनि. च अविधि (पृ ४०९ इ. द.) च बोधः (द्र. आपध.) 1 l) = याग-विशेष. 1 l) अर्थः ह्यु. च 1 m) = शाखा-1 ह्यु. 1 n) = समानशाखा-विधि. 1 o) = अथर्वशाखा-विशेष. 1 p) अणि प्र. (पा ४, २, ५१) उप. वृद्धिर्विभाषया उरुं. (पा ७, ३, २०) 1 q) = परिशिष्ट-विशेष. 1 r) = प्रवरणतः 1 प्रत्य- 1 पृ ९९ इ. द. 1

४८; -मे काठथी ५८; वैथी  
 १४, ४ : १७; काण्ड ५१, ११;  
 -मेण वीथी ६, १५ : ५१.  
 चारमिक- पा ४, २, ६३.  
 चरमगुण-(> चारमगुणिक-)  
 १गुण- टि. द.  
 ✓चरम्य पाग ३, १, २७.  
 चरस्- प्रत्य. ✓चर द.  
 चरु- पाठ १; ७; पाग ३, ४, ७४<sup>b</sup>;  
 -रवः काथी १५, २, १५४;  
 दिथी; -रवे वीथी ५, १ : १९;  
 -रुः आथी २, ९, ८; काथी;  
 काथी १५, १, २९<sup>c</sup>; अप  
 ४८, १०१<sup>d</sup>; निघ १, १०<sup>e</sup>;  
 या ६, ११<sup>f</sup>; -रुणा वाथी ५,  
 ५, १; आपथी; -रुभिः काथी  
 २०, ३, १२; -रुभ्यः आथिण  
 ३, ८, ३, ३; वीथि १, १५ : ७४;  
 -रुम् आथी १२, ६, ९; वाथी;  
 -रुतु माथी १, ७, १, १२; -रु  
 काथी २५, ५, ६; आपथी २२,  
 २, १२; माथी; -रुणाम् वीथी  
 २०, १२ : ११; माथी; -रुन्  
 वीथी ५, २ : १७; २७, १४ :  
 २३; वैथी; -तोः काथी २, ७,  
 ३; आपथी २, ७, ११<sup>g</sup>; वीथी;  
 -री काथी २०, ८, १;  
 वाथी ४, ४४ : ४; वैथी.  
 चरुद- न्याम् वीथी १, ७ : १७;  
 ५, १ : २५; २६; माथी ५, १४,  
 ६; १४; ८, १, २१; माथी १,  
 ७, १, १८; वाथी १, ४, २१.  
 चरुक्पाल- न्यम् माथी १, ७,  
 १, १४.  
 चरुक्त्व- न्यः आपथी १३, १३.

१५; १२, १, ६; आथिण २, ५,  
 ३ : १०; वीथ १, ६, १; ३, ७,  
 ११; -रुणाम् दिथी ३, ८, ५५;  
 -रुवेन वैथी ११, १ : ८; दिथी  
 ५, १, १७; १३, ८, ५.  
 चरुत्तन्य- न्याम् अप ६७, १, ८;  
 २, ४; ७, ५; -न्येण अप ३९,  
 १, ४.  
 चरुत्तय- न्यम् काथी ४ : ६; ७;  
 चरुत्तिकाव- न्यम् माथी २, १,  
 ३, २८.  
 चरुत्तयो- न्यम् गीत् ९, ४, ४१.  
 चरुत्तयु- थोः काथी १९, १, १७.  
 चरुत्तयुपुरोडास- न्यो वीथी १८,  
 २४ : १७.  
 चरुत्तयव- न्यनाम् वीथ १,  
 ६, २; शाण १, १०, ४.  
 चरुत्तयत्र- न्याम् वीथ ५, २, १२.  
 चरुत्तयुरोडास- न्याम् वैथ ३,  
 ५, ७.  
 चरुत्तयुरोडासनाग- न्ये आपथी  
 २४, ३, २०.  
 चरुत्तयुरोडातीय- न्याम् आपथी  
 २४, ३, २०; वीथी १, ७ : १७.  
 चरुत्तयुरोडास्य- न्याम् दिथी ३,  
 ८, १३.  
 चरुत्तयुत्तनु- कण-वावक-ताक-  
 पयो-वृत्ति-पुन-मूल-कलो (ल-उ)  
 दक- कानि गीष २७, १२.  
 चरुत्तयुत्त- न्यानि वीथी २०,  
 २२ : ३; -रुत्तु वीथी २०, ८ :  
 १०.  
 चरुत्तयुत्तवर्हिस्- न्हिः काथी ७,  
 ५, १४.  
 चरुत्तयुत्तव- न्यात्त मीम् ८, १, २८.

चरुत्तयुत्त- न्यम् वाथी ३, ४, ५, ७;  
 -रुत्तयुत्त वीथि २, १०, ३; वैथ ४,  
 ४ : १५.  
 चरुत्तयाली- न्यो वैथी ११, ९ : १२;  
 कप्र २, ५, १२; अप; -न्योः वीथी  
 ५, १ : ५; २३; ५ : ३; १० : ३;  
 १८; ३; २०, ८; ८; भाथी ८, १,  
 १७; -न्योम् आथी २, ६, ५;  
 आपथी १, ७, ५; वीथी; -न्य्य  
 गीत् १, ३, ९; ७, २; द्राण १, ५,  
 १२; अप; -न्य्याः अप ४५, २, २;  
 -न्य्याम् भाथी ५, १४, १२;  
 माथी २, १, ३, ४, २; वीत् ८९,  
 २; अपाव; -न्य्यो माथी १, ७,  
 ३, ८; गीत् ४, ३, २६.  
 चरुत्तयाली- न्युत्त-न्य्यो (सप्र-उ)  
 द्यल-सुसल-न्युत्त-कृत्तयाजित-  
 सद्वादिष्ठे (च-द) न्य-मेष्टन-  
 कमादलु- न्यन् आथी २,  
 ६, ४.  
 चरुत्तयाली (ली-आ) न्य-रुत्तयाली-  
 न्युत्त-न्युत्त (न-उ) न्य-मेष्टने (ए-उ)  
 द्यापान-न्य-न्युत्त (ए-उ) द्यल-  
 सुमला (ल-आ) दि-पाथ-  
 न्याणि वैथ ४, ५, ४.  
 चरुत्तयुत्त- न्याणाम् विष २३,  
 ९.  
 चरुत्तयुत्त- विषाम् वीथी २५, ८ :  
 १२.  
 चरुत्त (र-उ) न्यम् आथिण २, ५,  
 १२ : ७.  
 चरुत्त (र-अ) न्य- न्याम् काथी ४ : ५.  
 चर्क- (> चार्क- ) चक- टि. द.  
 चर्करील- प्रत्य. ✓कृ द.  
 चर्ग- (> चार्ग-) १चप- टि. द.

a) वैथ १ द.। b) चरुत्त- इति [पक्षे] भागदा.। c) च इति वीथे.। d) पर्वत-नामन्.। e) मेप-  
 नामन्.। f) चरु प्र. (पा ५, १, २)। g) = [मलेपा-] चरुत्तयाली- (द्र. सप. वाथी ७, ५, १४)। उच.  
 उप. श्रुतिचरुत्तये चम् प्र.। h) विप.। यस.। i) हरद्वान्दस्य इति गर्मानारायणः।

✓चर्च पाषा. भ्वा. पर. परिभाषणहिंसा-  
तर्जनेषु; तुदा. पर. परिभाषण-  
भर्त्सनयोः; चुरा. उभ. श्रव्ययने,  
चर्चयेयुः श्रुता १५, १६, २०.  
चर्चक<sup>१</sup> - कः चर्वू १ : ५.  
चर्चा<sup>२</sup> - पा ३, ३, १०५; पाग ४, २,  
६०; ३, ७३९; -चां चर्वू १ : ५;  
-चांयाम् श्रुता ३, २०; ४, १८;  
१५.  
चार्च - पा ४, ३, ७३.  
चार्षिक - पा ४, २, ६०.  
चर्चा-पद - नानि ऋभ ३, ४६.  
चर्चा-परिहास<sup>३</sup> - सयोः शौच  
४, ७४.  
चर्चा-गार - पावाग ३, २, १.  
चर्चा-मन्त्र - म्त्रेषु कप्र ३, ८,  
२१.  
✓चर्चाय, चर्चायते ऋभ ३,  
१८.  
चर्चित - नानि ऋभ ३, ४५.  
चर्चट - पाठ ४, ८१.  
✓चर्च पाषा. भ्वा. पर. गती.  
चर्मक - पाठो २, २, ११.  
चर्मन्<sup>४</sup> - पाठ ४, १४५; पाग २, ४,  
३१९; ४, २, ३८; ९०; ५, २,  
११६; -र्म शांश्री ४, १६, २;  
१४, २२, १०; वाश्री, या २,  
५<sup>५</sup>; -र्मणः वीश्री ६, १४ : ९,  
माश्री २, २, ३, ३८; वैश्री;  
पा ५, १, १५; -र्मणा शांश्री  
१४, ३, ५; ५, ६; ९; काश्री;  
-र्मणाम् वीश १, ५, ३७;

-र्मणि काश्री ४, ८, २××;  
आपश्री; -र्मणि द्राश्री १०, २,  
१२; लाश्री ३, १०, ११; -र्मन्  
आपश्री १३, २१, ३१; वीश्री ६,  
२८ : ४५××; -र्मणि काश्री  
१, १०, ४; वीश्री १५, १९ : १;  
आप.  
चार्म - पावा ६, ४, १४४.  
चार्मण - पा ४, २, ३८.  
चर्म-कर्त<sup>६</sup> - तैम् वीश्री १६, २० :  
३; २१ : १, ३; -तैं आपश्री २३,  
१८, ४; १९, १९; वीश्री १६, २२ :  
४९; हिश्री १६, ६, २८; १४.  
चर्म-कर्त<sup>७</sup> - तुं: विध ५१, ८.  
चर्म-कार - रः वैध ३, १५, ५;  
-रस्य शेष ४३४.  
चर्म-चीर-वासस् - सता: विध ९४, ८.  
चर्म-जीव - नात् वैध ३, १५, ६.  
चर्म-जीविन् - वी वैध ३, १५, ५<sup>१</sup>.  
चर्मण्य - ण्यम् वीश्री १५, १४ :  
११; द्राश्री ५, ४, २; लाश्री २,  
८, २.  
चर्मण्य-वत्<sup>८</sup> - वते तैप्रा १३, १३;  
भाशि ६३.  
चर्मण्यती<sup>९</sup> - पा ८, २, १२; पाग  
४, २, १५<sup>१</sup>.  
चार्मण्वतेयक - पा ४, २, १५.  
चर्म-तूणी<sup>१०</sup> - ण्यः वाश्री १५, ३,  
११.  
चर्म-नाद् - दः आपश्री १९, ६, २.  
चर्म-पद्य - श्ते आपश्री १०, २०,  
१३.

चार्मप(सु>) शी<sup>११</sup> - शीग्याम्.  
वीश्री १२, १६ : २३; १८, १९ :  
२; -द्वौ वीश्री १२, १६ : २२;  
१८, १६ : २.  
चर्म-पूरम् पा ३, ४, ३१.  
चर्म-प्रशंसा - सा ऋभ २, १, २८.  
चर्म-मण्डल - ले वाश्री ३, २, ५,  
३८.  
चर्म-मय - यः वाध ३, ११; वीश्री  
१, १, ११; -यम् वैध ३, ४, १;  
-याः आपश्री १८, १०, २७.  
हिश्री १३, ४, १३; -ये: वीश्री  
१८, २४ : ८.  
चर्म-म्न<sup>१२</sup> - म्मम् श्रुता ३, ९२१.  
चर्म-वारवाण-वाणिज्य-कारिन्-  
री वैध ३, १५, ११.  
चर्म-हृविस् - वि: कौत् ६१, ६.  
चर्मा(र्म-अ)न्तूः<sup>१३</sup> वैश्री १५, ३:९.  
चर्मा(र्म-अ)वनद् - दम् विध ९६  
४५.  
चर्मिक - पा ५, २, ११६; पाग ५, १,  
१२८.  
चार्मिक्य - पा ५, १, १२८.  
चर्मिन् - पा ५, २, ११६; पाग ४,  
१, १५८<sup>१</sup>; २, ३८<sup>१</sup>.  
चार्मिकायणि - वा ४, १, १५८.  
चार्मिण - पा ४, २, ३८.  
चार्मिणि - पा ४, १, १५८.  
चार्मिय - पा ४, २, ९०.  
चर्मिदारस्<sup>१४</sup> - रा: वा ३, १५.  
चर्च्य - प्रम् ✓चर्द.  
✓चर्च पाषा. भ्वा. पर. अदने.

a) =संहिता-पाठप्रकार-विशेष-। b) भाष., नाप. (चर्चक-। c) तु. पागम.। d) द्रव. उप.  
=क्रम-पाठ-। e) वैप १ द्र.। f) =चर्म-खण्ड-। उप. <✓हृत् [छेदने]। g) सपा. चर्मकते <>  
चर्ममण्डले इति पाठे.। h) 'त्रे' (श्रुते) इति पाठः इति. दोषः (तु. आपश्री. वीश्री.)। i) =चर्म-वार-, 'जीव-  
'जीविन्-। उस.। j) तु. C. गृह्ये. च। k) =नदी-विशेष-। l) तु. पाका., पागम.। चर्मती - इति  
माह्व.। m) =शु-घात-। n) विप.। विहारे भग् प्र.। o) व्यप.। p) तु. पाका.। q) =ऋषि-  
विशेष-। म्यु. १।

चर्पणि- पाठभो २,१, २१४ऽ;  
-णयः अण ४८, ७८; निघ २,  
३; -णिः निघ ४, २; या ३,  
११; ५, २४कृ; -णिज्यः आश्री  
३, ७, १३; शाश्री १, ८, ११; ६,  
१०, ९; माश्री; -णीः ऋषा २,  
६१; -शीनाम् आश्री ७, ४,  
४; शाश्री.

चर्पणि-प्रा- -प्राः शाश्री १७, ९,  
५; वीश्री २५, २२ : १०; २६,  
१५ : ६; माश्री.

चर्पे (खि >) णी-धन्- -धन्तः  
आश्री ७, ५, ९; शाश्री ३, १७, १२;  
आपश्री; -धन्तः शाश्री ७, १०,  
१४; १०, ९, १६; आपश्री १२,  
२८, ४; वीश्री; या १२, ४०कृ;  
-धन्तम्<sup>b</sup> आश्री ६, १, २; शाश्री  
९, २, ३; ऋषा २, ३, ५१; साध्र  
१, ३७४; -धन्ती अण १, ४१, ८;  
अश्री ११, ८.

चर्पे (खि >) णी-सह- -सहम्  
ऋषा ५, २८; ९, ८; -सहाम्  
शुभा ३, ८३; १२९.

चल् पाधा. भ्या. पर. कम्पने; तुदा.  
पर. विलसने; तुरा. उभ. मृती,  
चलते अण ५७, १-३, २; ४, २;  
६; चलति या ४, ३; चलन्ति  
अण ७०<sup>a</sup>, २, २; चलेत् अण  
५७, ४, ६.  
चालयति वैद्य ४, १ : १७;  
चालयन्ति वीथ २, २, ५६; चाल-  
येत् माश्री १०, १२, १३; माश्री.  
चाल- पाठभो २, ३, १८०.  
चालीक<sup>a</sup> - पाठना ४, २०.  
चल- पाठ ३, १, १३४; -लः क्रामिष्ट

२, ६, १ : ६; -लम् अण ७०<sup>a</sup>,  
२, ५<sup>b</sup>; आपश १, १९, ६; द्विष  
१, ५, १०८; -लाः अण ६८, १,  
३८; -लानाम् अण ६४, ३, ४;  
-लानि आश्री ४, ४; ७, ४.  
चल-व- -लम् अण ६४, ३, ४.  
चल-दशन्त- -नम् अण ५७,  
१-२, ८; ३, ६.  
चल-निकेत- -न्तम् आपश १,  
२२, ४; द्विष १, ६, ४.  
चल-विक्रान्त- -न्ताः अण ६८,  
१, ३८.

चलत्- -लतः गौष ११, १०.  
चलत्-कर्मन्- -मं आज्यो ६, ५.  
चलत्-नुन्द्- > ण्दिन्- -न्दी  
वोध १, ५, ८६.

चलन- > च-पतन-सर्पण-  
-णानाम् गौष ८, २.  
चलन-शब्दा(ब्-ञ्)यै- -य्यात्  
या ३, २, १४८.

चलन-समर्थ- -र्थः या १४, ६.  
चलना- -नायाम् गौष २२, २८.  
चलाचल- -पाधा ६, १, १२; -लासः  
या ४, २७पं.

चलित- -ते अण ७०, ७, २.  
चलित-व( न >) मा- -मा या  
३, १०.  
चलित-दन्त- -न्तम् अण ३७,  
८, १.

चाचलि- -पाधा ३, २, १७१.  
चाल- पाठ ३, १, १४०.  
चालयित्वा वैद्य १, २० : ११.  
चलमोदय- , चरयै- , चवायोग- ,  
चवाहावैव-सुक- -व द्र.  
चर्प- > चम्प-वादिम- -मम् शेष

२२०.  
चर्प पाधा. भ्या. उभ. भक्षणे.

चर्प- -यः वाधूथी ४, १९; २९; ३०.  
चर्पक- पाठ २, ३२; पाठ २, ४, ३१.

चपाल- पाठ ४, १०७; पाठ  
२, ४, ३१; -लः आश्री ९,  
७, १८; -लम् शाश्री १४,  
४०, ९; ४१, ८; धाश्री ६, १, २७;  
२, १४; ३, ३; १२; आपश्री;  
-लस्य वीश्री ४, १ : २८;  
-लात् आपश्री ७, ३, ६; माश्री  
७, २, ११; माश्री १, ८, १, १७;  
वाधूथी; -लानि आपश्री १४, ६,  
११; द्विषी ९, ८, २८; -लय  
वीश्री ४, १ : ३०; -ले वीश्री  
११, २ : १८; २८, ७१३; वैश्री  
२०, २४ : ३; -लेन वाधूथी  
४, ६३ : ९; -लेषु वीश्री १७,  
१२ : ८.

चपाल-भा(ग >) ता- -गा लाश्री  
८, ३, ६; ८.

चपाल-आजव- -नम् वीथी १८,  
२१ : १४; २६, ३२ : १७.

चपाल-सुल- > च-सरगपुरोडा-  
शोर(ङि)क<sup>a</sup> निष्ठुगव-अलसव-अश्र-  
सव-भूमिसवो (व-श्रो) पथिसवो  
( व-श्रो) दन्तव-वन्तस्विसव-  
-नायाम् शाश्री १४, ७३, ३.

चपाल-वर्ष- -र्षवन्तः आपश्री ७,  
२८, २; द्विषी ६, ८, ६; -वार्  
वीथी २०, २५ : ७.

चपाल-र्ममि( त >) ता- -ताम्  
आपश्री १४, ६, १०; वीश्री १७,  
१२:७; २६, २३ : ९; द्विषी ९,  
८, १८.

a) वैष १ द्र. 1 b) पाने. वैष १, १३१७ ० द्र. 1 c) < चम्प इति । d) = चन्वरीक- ।  
e) भावे कर्तारि क च्त् । f) विष. १-वत्. १ g) = श्लोपथि-विशेष-1 ध्यु. ३ । h) = ज्ञान-मन्त्र-विशेष-1  
व्यु. ३ । i) = पात्र-विशेष-1 ध्यु. ३ । j) = एकाह-1 k) वातः ? वात-वर्णि इति शेषः ।

चपाल-होम<sup>१</sup> - > चपालहोमीय-  
 -यम् वीथी १०, ५० : ८.  
 चपाला ( ल-ञ )र्थ- थै काथी २२,  
 ३, ४८.  
 चपाले ( ल-ई )क्षण- -णात् काथी  
 ८, ६, १३.  
 ✓ चह पाषा. भ्या. पर; चुरा. उम.  
 परिक्रन्ते.  
 चाक्रात्<sup>२</sup>, इयमान- ✓ कार् द.  
 चाक्रापान- -नः आपथी १४,  
 २८, ४०; १६, २६, ६०; १२०;  
 वैथी १८, १९ : ११, २१, १५ :  
 १५०, हिथी ११, ७, ५१०.  
 चाक्र- चक- द.  
 चाक्रपाण- -णः हिथी १५, ७, १२१०.  
 चाक्रपालेय- प्रभृ. चक- द.  
 १. २ चाक्षुष- ✓ वच् द.  
 चाखायितुम्, 'यित्- ✓ खत् द.  
 चाङ्कुण- वङ्कुण- द.  
 चाचलि- ✓ वल् द.  
 चाटकायन- रचटक- द.  
 चाटकैर- १चटक- द.  
 चाट्ट- पाठ १, ३; पाग १, ४, ५७.  
 चाडु-कार- पा ३, २, २३.  
 चाणक-, चय- चणक- द.  
 १चाण्ड- ✓ वण्ड द.  
 २चाण्ड- २चण्ड- द.  
 १चाण्डा- -ण्डा अण्ड ४८, ११५१.  
 चाण्डाल-, चक-, चकि-, च्छी-  
 प्रभृ चण्डाल- द.  
 चातन- प्रभृ. ✓ वत् द.  
 चातप- पाठभो २, २, २१२.  
 चातुराधमिन्- प्रभृ. चतुर- द.  
 चातुर्य- चतुर- द.  
 चातुर्वर्णिक- प्रभृ. चतुर- द.

चात्र<sup>३</sup> - प्रभृ अण २२, ७, १; ८, २;  
 १०, १; -त्रस्य अण २२, ८, १;  
 -त्रात् अण २२, ६, ५; -त्रे अण  
 २२, ७, ३.  
 चात्र-पोडक<sup>४</sup> - कौ अण २२, ६, ५.  
 चात्वारिंश- चतुर- द.  
 चात्वाल<sup>५</sup> - पाठ १, ११६; -लः  
 आपथी ७, ४, १; ११२, ५, ४; ५;  
 माथी १२, ५, ५; वाधुथी;  
 -लम् आथी १, १, ६; शाथी ६,  
 १२, ८; काथी, -लस्य काथी  
 २, ३, ९; वीथी ५, ५ : २५××;  
 माथी; -लाः आपथु १४, ३१;  
 -लान् काथी १, ८, ३८; आपथी  
 ११, ५, ४××; वीथी; -लान्  
 वीथु १८ : १०; -ले आथी ३,  
 ५, १; ५, ३, १३; शाथी ५, १८,  
 १२; ६, ११, १७; काथी.  
 चावाल-न ( त > ) ता- -ताभ्यः  
 काथी २५, १३, २३.  
 चावाल-देव ( ता > ) त- -तम् शुभ  
 १, ४६९.  
 चावाल-देश- -शम् प्राथी ३, ३,  
 २७; लाथी १, ११, १८; -शात्  
 काथी १७, १, १८; माथी ६,  
 १, ५, ८, वाथी २, १, ४, १५;  
 -शे वीथी १६, ९ : ११; २५,  
 २४ : २४; प्राथी ६, ३, २२;  
 लाथी २, ११, १६.  
 चावाल-भूमि- -मी वैथीका १२७.  
 चावाल-मार्जन- -नात् आथी ५,  
 ३, ५.  
 चावाल-वद्- -वाम् काथी १, १, ६.  
 चावाल-समीप- -पे प्राथी १५, १,  
 ३; लाथी ५, ९, २.

चावाल-साहि ( न > ) णी- णीः  
 वीथी २५, ५ : ४.  
 चावाल-स्थान- -नात् आपथी १६,  
 १५, १.  
 चावाल ( ल-ञ ) वेक्षण- प्रभृति- -वि  
 प्राथी ३, ४, ३४; लाथी १, १२,  
 २९.  
 चावाला ( ल-ञ ) स्त- -स्ते माथी २,  
 ३, २, ९; १२; १५; ५, २, ३३;  
 ३, ३०; ४, ५, १२.  
 चावाला ( ल-ञ ) वट- -टान् दिष्ट  
 ४, ४४.  
 चावाल ( ल-उ ) कर- -रयोः वैथी  
 १४, १८ : १; -री शाथी ५,  
 १४, २××; काथी.  
 चावाल ( ल-उ ) कर-शामिन्नो ( न-ऊ )  
 वध्यगोहा ( ह-आ ) स्तावा ( व-आ )  
 श्रीश्रीवा ( य-ञ ) घ्वावाकवाद-  
 -दम् वैताथी १८, १३.  
 चादि-, चातुबन्ध- च द.  
 चान्दन-, चान्द्र-, १चान्द्रमस-  
 ✓ चन्द्र द.  
 २चान्द्रमस-, चान्द्रमसायनि-  
 २चन्द्रमस्- द.  
 १चान्द्रायण- ✓ चन्द्र द.  
 २चान्द्रायण<sup>६</sup> - -णाः वीथीप्र ५ : १;  
 २३ : ३.  
 चान्द्रायणिक- ✓ चन्द्र द.  
 १चाप- १चय- टि. द.  
 २चाप- पाग २, ४, ३११.  
 चापल- १चपल- द.  
 चापलायन- २चपल- द.  
 चापल्य- १चपल- द.  
 चापट्टकय- चण्डक- द.  
 चाफट्टकायन-, चकि- चकटक- द.

a) सप्त. पू. = [ उपचारात् ] रपाप्र- ( तु. संस्कृत्युः एषी ) । b) पाभे. वैप १, ११७१ II द. ।  
 c) पाभे. वैप १, ११७१ II द. । d) चत्र- इत्यनेन स-यायता द. । e) = पात्र-विशेष- । f) वैप १ द. ।  
 g) = ऋषि-विशेष- । धु. ? । h) तु पागम. ।

चिामत्त<sup>a</sup> जैष्ठ २, १ : २७.  
 चामर- प्रमृ. चमर- द.  
 चामरज्जु<sup>b</sup> - पा, पाग ५, ३, १००.  
 चामस्तायन- , चामस्य ✓चमृ द.  
 ✓चाप्य<sup>c</sup> पाषा. अ्या. उम. पूजाविशा-  
 मनयोः.  
 चायत्- चय वृद्धे ७, १२९; या ६,  
 २८; ११, ५.  
 चायन- > नीय- चः वृद्धे ७,  
 १२९; -चम् या ७, ४; १२, ६;  
 १६.  
 चायनीया(न-अ)म<sup>d</sup> -आणि  
 या १२, १८.  
 रचायमान- नः या ७, १४.  
 चायित्- ता या ५, २४.  
 चिाच्य- चयः<sup>e</sup> वाण ५, ९; १२,  
 ३; ह्रिण १, ४, ३.  
 रचाय- चय- द.  
 रचाय- ✓चि द.  
 रचायमान- चयमान- द.  
 चिायि अण ७८, २१.  
 र-रचार- प्रमृ. ✓चद द.  
 चारकीण- चरक- द.  
 चारचक्षुस्- , १-२चारण- प्रमृ.  
 ✓चद द.  
 रचारण- , चारणविद्य- चैव-  
 रचरण- द.  
 चारमगुणिक- , मिक- चरम- द.  
 चारयित्वा, चारायण- , चारायणीय- ,  
 १-२चारित्र- , चारित्र्य- ,  
 चारिन्- ✓चद द.  
 चारु- पाठ १, ३; पाग ५, १, १२२६;

६, २, १६०; ८, २, १६; -चरवः<sup>f</sup>  
 आपथी ६, २३, १; भाण २,  
 २० : १२; -चर<sup>g</sup> आपथी २,  
 १०, ४; आपथी १७, २, १३;  
 बौथी; ङ्या ८, १५७; ११, ५;  
 -चरः आपथी ६, ३, १; शोधो, ९,  
 २; आपथी; या ८, १५;  
 -चरम् आपथी २, १३, २;  
 शोधो १, ५, २<sup>h</sup>; आपथी १२,  
 ३, २; २७, १२, ६<sup>i</sup>; वाधुथी; या  
 १०, ३६; -रौ पावा ३, २, ४६.  
 चारिमन्- पा ५, १, १२२.  
 चाह-चामर-ह(रि)ता-  
 -स्ताभिः अण १९<sup>j</sup>, ४, ४.  
 चारुता- , चारुत्व- पा ५, १, १२२;  
 -चरुम् आपथी ३, ८, १; शोधो १३,  
 ४, ३.  
 चारुदशो(न)>पा<sup>k</sup> - नाम् अशा  
 ५, ६; -०ने अशा ५, ८.  
 चारुद्वेण- पाठमो २, २, १२९.  
 चारुनद<sup>l</sup> - पाग ८, ४, ३९.  
 चारुना(न)>सा<sup>m</sup> - सान् विप  
 १, २३.  
 चारुचरै-मनोरम- -नः अण १८,  
 ३, ५.  
 चारुदुहितम्- -मन्तम् आपथिण २,  
 ७, ६ : ३६.  
 चारुमत्- पा ८, २, ९.  
 चारुलोच(न)>मा<sup>n</sup> - ०ने अशा  
 ७, १.  
 चारुसर्वा(र्व-अह)>हा<sup>o</sup> - ०ने  
 अशा १, ५.

चारु- पा ५, १, १२२.  
 चारु(र-अह)>शी<sup>p</sup> - ०दि विप  
 १, ३२.  
 चारु(र-अ)वाट, त- पावा ३, २,  
 ४६.  
 चारुचैव- चरु- द.  
 चारु- चरु- द.  
 चारुचि- , चारुचिका- ✓चरु<sup>q</sup> द.  
 चारु- , चरुण- , चरुवतेयक- प्रमृ.  
 चरुन्- द.  
 चाल्यवाम् अण्य ६, २.  
 चाप- -पः अण १, ३२, ३; ऋषा १३,  
 ५०; भाशि १३, ३; भाशि १,  
 १७; भाशि ९, ६<sup>r</sup>; -पत्य अण  
 ७०<sup>s</sup>, ३, ५; -चे बौथी २, ५ :  
 २२.  
 चाप-काक-कलापिन्- -रिनाम्  
 कौशि ६९.  
 चाहलोप- च द.  
 ✓चि<sup>t</sup> वाषा. स्वा. सुरा. उम. चयने,  
 चिचसे अण ७८, ११५; निष  
 ७, १; या ७, २५७.  
 चिनुते बौथी १०, ३५ : २६x४;  
 वाधुथी; चिनोति काथी १२, १,  
 २५; १८, ६, ७; २५, ७, १५;  
 आपथी; चिन्वते आपथी १९,  
 १४, ४; बौथी; चिन्वति काथी  
 १६, ५, ९; वाधुथी ३, ८१ : ६;  
 वाथी; चिन्वत् हिथी ११, ८,  
 १४<sup>u</sup>; चिन्वन् आपथी १६,  
 ३४, ४; हिथी ११, ८, १५<sup>v</sup>;  
 चिनुष्व अण ११, १<sup>w</sup>; चिनुत

a) स्वधा चामत्त इति पाठः। चाऽऽचामव इति शोवः। वा, जष इति C. !। b) अर्थः स्यु. च ?।  
 तु. पाठा.। वापरज्जु- इति भाण्डा., चामरज्जु- इति पागम.। c) या ३, १३ पा ६, १, ३५ परामृष्टः द.। d) विप.।  
 वस.। e) पाठे. वैप १, १३१८ j द.। f) वैप १ द.। g) तु. पागम.। h) पाठे. वैप १ बहोः वै १९, २८,  
 ११ टि. द.। i) कथित् वा. क्लि.। j) पाठे. वैप १ शुभ्रुपेयाम् तै ३, २, २२ टि. द.। k) पा ६, १,  
 ५४; ७, ३, ५८ पावा १, ४, ५१ परामृष्टः द.। l) पाठे. वैप १, १३१९ g द.। m) चिन्वन् इति पाठः ? यत्नि.  
 बोधः (तु. आपथी.।

वीथी १५, १४ : २; ऋचिचिनुत्  
भाशि ७, १०३; चिन्वीत् आपथी  
१४, २३, १५५; वीथी; चिनुयात्  
वीथी २३, १४ : २१; वाधूथी;  
चिनुयुः वाधूथी ३, ८१ : ७;  
लाथी ८, ८, ४५.

चिकाय वीथी १८, ४५ : ५;  
चेप्ये वीथी २, १ : १५.  
चीयने आपथी १६, १५, ६१;  
१९, ११, २; वीथी.

अचिकीपत् भाशि १०३१.  
२चय- पाग ५, २, ६४; ६, १,  
१९९.

चय-क- पा ५, २, ६४.  
चयन- नम् काथी १६, ७, १२;  
१७, १, ११; आपृष्ट १२, ४;  
हिणु ४, २६; -ने चात्र १७ :  
१७.

चयन-पुरीपनिवपन- ने काथी  
१७, ७, ३

चयना(न-अ)न्त- -न्तम् द्विपि  
१२-१७.

२चाय- पा ३, २, ४०.  
चिकयां/क, चिकयामकः पा ३,  
१, ४२१.

चिकीपमाण- गः काथी १६, १, ५०.  
चिचिन्- चित् वाथी १७, १,  
१२; आपथी १, २२, ३; १६,  
१४, ७; वीथी; चितः काथी २,  
४, ३३५; आपथी, चित् आपथी  
१७, १३, ३; वीथी १०, २३ :  
१४; १६; वीथी १८, १४ : ३२;  
३३; १९, ६ : ६७.

चिन, ता- -त् द्विथी १२, ७, २४;

कीत् ८५, ११; -त्तम् आपथी  
१६, ३४, ४१; वीथी; कीत् ८०,  
५२१; -ता आपथी १४, २३,  
६; -ता. वाथी ३, २, २, १५१; ६;  
या ५, ५; -ताम् लाथी ८, ८,  
१५; आमिष्ट; -तायाः आमिष्ट  
३, १०, २२; -तायाम् आमिष्ट  
३, ४, २; १५५५; वीपि ३, ६, ४५;  
-ते आपथी १४, २३, ९; माथी;  
-तेन अथ १, १०, ५.

चित्त-तूल-भारिन्- -रिपु पा ६,  
३, ६५, पावा १, १, ७२.

चिना(ता-अ)मि- -मौ अथ ३१,  
९, २.

चिता-भूम-सेवन- -ने विध २२,  
६६.

चिता-पूर्व- -न्तम् वैष्ट ५, ३ : १७.  
चिता-प्रमाण- -णम् वैष्ट ५, ३ :  
७.

चिना(ता-अ)रिध- -स्वीनि वैष्ट  
५, ६ : २२; ७, ६ : १०.

चिनो(ता-उ)देस- -दाम् वैष्ट ५,  
३ : ४.

चितवत्- -वति वैथी १८, १२ :  
२४.

चिचिन्- -तयः आपथी १९, १५,  
४; वीथी १९, ८ : ४; १० :  
५४; माथी; -निः आपथी १४,  
२३, ६५५; वीथी; -तिभ्यः  
शाथी ९, २४, ९; -तिम्  
शाथी ४, १४, ९; काथी १७,  
३, २२५५; आपथी; ऋमाथी ६,  
१, ७, ११६, २, १, १४६; ३,  
१५६; ५, १३६; ऋद्विथी ११,

७, २९६; १२, १, ४३६; -तिम्  
ऽ-तिम् आपथी १६, ३५, १; २;  
माथी; -तिपु वीथी १९, ५ :  
१७; ८ : ४; द्विथी १२, १, १;  
द्राथी १४, ४, ९; लाथी ५, ८,  
९; -तीः वीथी १९, ८ : ५;  
१० : ५४; माथी; -तीनाम्  
माथी ६, १, ६, १३; वाथी २,  
१, ६, ५; -तीभ्यम् तैप्रा ३,  
७१; -तेः आपथी १६, २१, २;  
१७, ४, ९; वीथी १९, ५ : १;  
द्विथी; -तेऽ-तेः आपथी १४,  
८, ५; -तौ शाथी ४, १४,  
१२; काथी २२, ६, १५;  
२५, ७, १९; आपथी १६, १५,  
१५५; माथी; -त्या आपथी  
१५, १७, ५; १७, ११, ३;  
वीथी; -त्याः आमिष्ट ३, ७,  
३ : ३१; वीपि २, ३, ५;  
-त्याम् आपथी १६, २४, ४;  
१७, ४, १३; वाधूथी ४, ११९ :  
३; वाथी २, १, ८, ६; वीथी १९,  
५ : १३; द्विथी ११, ७, ३६;  
१२, १, ४६; आमिष्ट २, ६, ८ :  
५; -त्याम्ऽ-त्याम् माथी ६,  
१, ५, ७५५; वाथी.

चित्त-तूल-भारि- -सिः वीपु ७ :  
२०; -त्या आपथी १६, ३४, ३;  
वीथी १०, ३६ : १७५५; वीथी  
१८, २१ : २९; द्विथी ११, ८,  
१४.

चित्ति-पुरीप- -ये काथी १७, ७,  
१०; १४.

चित्ति-प्रणयन- > नीय- -यम्

a) विप. १ बस. १ b) सपा. चयनान्तम् <> चिच्यन्तम् इति पाठे. १ c) "कीपं" इति पाठः?  
यनि. शोध. १ d) वैप १ द. १ e) विप., स्त्री. नाप. (श्व-चित्त्वा-ल लाथी. आमिष्ट. प्रय.) १ f) "चम्" इति  
पाठः? यनि. शोधः (द्र. सप्र. शौ १८, ४, १४) १ g) पाठे. वैप १, १२२० e द. १ h) चित्तायाः इति R. १  
१) भाप., नाप. १ j) सपा. चित्तिभ्यः <> चिच्यन्तिभ्यः इति पाठे. १ k) पाठे. वैप १, १२२० f द. १



वीथी २४, १८ : १५.  
 चिति-भस्मन्- भस्म श्रप ३५,  
 १, १३.  
 चिति-वृत् काथी २१, ३, २१.  
 चिति-स्तोम- भः आपथी २२,  
 ६, १; हिथी १७, २, ४६.  
 चिति-होम- माः वाथी २, १, ८,  
 १५; -मात् माथी ६, १, ८, १५.  
 चि(ति >)ली-मुख- भः विष  
 १, ३.  
 चिप्य(ति-अ)मिन्<sup>b</sup> - फ्रिन्म्यः<sup>c</sup>  
 आपथी १६, २१, ३; माथी ६,  
 १, ६, १४; वाथी २, १, ६, ५;  
 वैथी १८, १६ : २८; हिथी ११,  
 ५, ४; -नीनाम् आपथी १४,  
 ८, ६; हिथी १०, ८, २३.  
 चिप्य(ति-अ)न्त- न्ते वीथी  
 २२, ७ : १८; २०; हिथी ११, ८,  
 २२; आमिथ ३, ६, १ : ८; ५, ३ :  
 ३१; वीपि १, ८ : ७; २, ३, ४.  
 चिप्य(ति-अ)न्त- न्तः  
 आपथी १७, १, १० × ४; हिथी  
 १२, १, ५; २०; २९; -न्तम्<sup>d</sup>  
 आमिथ ३, ७, ३ : २९; वीपि २,  
 ३, २.  
 चिप्य(ति-अ)न्वारब्ध- न्वः  
 काथी १८, ५, ९.  
 चिप्य(ति-आ)दि-लक्षण- जे  
 कम् ३, २, ८.  
 चिप्य- न्वः- न्वः वीथी १४, १९;  
 १२; -न्यम् काथी १८, २, १;  
 १३; ३, १९; ४, १; माथ १,  
 ३, ४; -न्यस्य काथी ९, २५, १;  
 १०, ७, १०; काथी १६, ७, ३३;

१८, ६, ३४; वाथ ४० : ११;  
 -न्ये काथी १८, ५, १४.  
 चिप्य-नामन्- म काथी १८,  
 ६, २२.  
 चिप्य-यूपो(प-उ)पस्पदान- >  
 न-कण्ठोभा(श-अ)क्षिपेपन-  
 न्नेतु गीथ ३, ३, ३२; द्राथ २, ५,  
 ३५.  
 चिप्या(त्य-अ)प्रिक्थिवा- न्ये पा  
 ३, १, १३२.  
 चिप्या(त्य-अ)रोहण- नम्  
 काथी १८, ३, ४.  
 चिप्या(त्य-अ)शक्ति- न्की काथी  
 १८, ६, ३२.  
 चिप्यो(त्य-उ)पस्थान- नम्  
 काथी १७, ६, १.  
 चिप्या- > चैत्य- न्यम् आथ ३,  
 ६, ८; वाथ १५, ४; -न्यस्य  
 माथी १, ५, १, २४; ४, ७, ३;  
 वाथी १, ४, १, १०<sup>e</sup>; -न्याय  
 आथ १, १२, १<sup>f</sup>; -न्येत्तु अप  
 ७०<sup>g</sup>, २१, १.  
 चैत्य-त्रैल-परिचय- वाः  
 अप ६४, ६, ८.  
 चैत्य-द्रुम- म्नागाम् अप  
 ७०<sup>h</sup>, ११, १९; २४.  
 चैत्य-यज्ञ- न्ये आथ १,  
 १२, १.  
 चैत्य-वृक्ष- क्षः अप ७०<sup>i</sup>,  
 ७, १०; १५; ७१, १०, ३; ११, ३;  
 -क्षम् वीथ १, ५, ५२; -क्षाः  
 अप ७१, १०, १.  
 चैत्यवृक्ष-स्वम्न-पतन-  
 न्ने अप ७२, ३, ९.

चैत्यवृक्षा(श-अ)भिवत्-  
 न्नेतु अप ५८, ४, ३.  
 चैत्यवृक्षो(श-उ)न्न-  
 न्मानि श्रप १९७.  
 चैत्य-गुल्क-विरोहण- न्ये  
 थप ७१, १, ४; १६, ३.  
 चिप्या काथी १८, ४, १३; २५, १४,  
 १; आपथी.  
 चिप्यन्- न्यते लाथी ८, २, २३;  
 -न्यन् आपथी १६, २१, ८;  
 वैथी १९, १ : १; हिथी ११, ७, ७.  
 चिप्यान- नाः आपथी १६, १३.  
 ११ × ४; वीथी; अत्राय ६, २१<sup>f</sup>.  
 चोयमान- नम् चैथीप १९; -ने  
 काथी २२, २, १; माथी ५, २,  
 १९, २३; वाथीथी ४, ११४ : ४;  
 द्राथी २, १, ८; १२; लाथी १, ५,  
 ५; ९.  
 चैतन्य, न्या- न्यः आपथी १९,  
 १४, ६; वीथी १९, १ : ११;  
 हिथी २३, ३, ४; -न्या आपथी  
 १७, २६, १.  
 चैत्- नारः वृदे ६, ७<sup>g</sup>; -तुः हिथी  
 २३, ३, ३३.  
 चैत्यन्- न्यतः वीथी १०, २१६  
 १३; -न्यस्तु काथी १४, ४, १;  
 लाथी ५, ८, १; -न्यत् माथी ६,  
 १, ५, ३.  
 चैत्यमान- नः आपथी १६, १, १;  
 १२, ११, ३; वीथी; -न्यस्य काथी  
 ९, २२, १; -न्याः काथी १२, १,  
 १५; हिथी १६, १, ३५;  
 -न्यानाम् काथी ९, २२, ६.  
 चि\* वेजो १८.

a) विप. 1 बस. 1 b) नाप. 1 'आम्यर्था चितिः [= इष्टमा] इति कृत्वा कथं परनिगतः। c) पथि.  
 दृ १०७२ j डि. द. 1 d) पामे. दृ १०७२ b द. e) वैप १ द. 1 f) = चत्तर- 1 g) विप., नाप. 1  
 तत्रभवाद्यर्थे अण् प्र. 1 h) अप् इति पाठः यनि. दोष (तु. नाथी.) 1 i) अर्थस्य कृते तु. Old. डि. द. 1  
 j) पामे. वैप १, १२२० h द. 1 k) विद्या-नक्षत्र-बोधक- 1  
 वैप-अ-४०

चिकियां ✓कृ ✓वि द.  
 चिकार- (> चैकार्य- पा.) पाग  
 ४,२,८०.  
 चिकित्- (> १चैकित्य- 1) १चै-  
 कित-] पा.) पाग ४, १, १०५;  
 २, १११; -ताः<sup>०</sup> बौध्रौ प्र ३१:३.  
 चिकित्-कालवव-मनुतन्तु-बसु-यज्ञ-  
 बलौ (रु-श्री) लोन्वे (न्य-ई)  
 मंगि-बृहदमि-सांशिय-वार्सक-  
 तारकायण-शालावत- -आः.  
 द्विप्रौ २१,३,१२.  
 चिकित्-गालव-कालव-मनुतन्तु-  
 कुशिक- -कानाम् आधौ १२,  
 १४,२.  
 चिकित्-मनुतन्तौ (नु-श्री) लकि-  
 वातुकि-यज्ञवल्को (रु-उ) रु-  
 बृहदमि-बसु-गालवि-शालावत-  
 शालावायन-कालवव- -आः  
 आधौ २४,१,१.  
 चिकित्ज्ञान- , चिकित्- , चिकित्य-  
 , च्वस- , च्वसक- प्रम्. ✓चि० द.  
 चिकित्- पा ५,२,३३.  
 चिकीपत्- प्रम्. ✓कृ द.  
 चिकीपमाण- ✓चि द.  
 चिकुर- पाठमौ २,३,५२.  
 ✓चि।, चु। कर्क् पाषा. जुरा. पर.  
 व्यपने.  
 चिकक- पाषा ५, २, ३३.  
 चिककण- (> ण-कन्ध- पा.) पाग  
 ६,२,१२५.  
 चिककश- -राय बौम् २१, १४.  
 चिककश- -नाम् बौम् ४८, ५१.

चिकयत् ✓चि द.  
 चिकि- -कि: अग ४८, ११६५.  
 चिखल्ल- पाग ६,३, १०९०.  
 चिञ्जा- पा, पाग ४, ३, ११५.  
 ✓चिद् पाषा. भ्वा. पर. परप्रेये.  
 ✓चि० पाषा. भ्वा. पर. संज्ञाने; जुरा.  
 आत्म. संवेतने, चिन्तति आधौ  
 ८, २, २१; ऋषा ८, ४५; अचेतत्  
 आधौ ३, ७, ६५.  
 चिञ्चेति वृदे ६, ८५; साम १,  
 ४४७; उजित् ५: १६.  
 चेतयसे या ५, ५; चेतयध्वम् या  
 ७, २५; चेतयानि बौध्रौ ७, १२: २:  
 ३०; ४३; ५५.  
 २चि०- चि० काधौ ७, ६, १३;  
 आपधौ ४, १०, ४; १०, २२, ८;  
 बौध्रौ.  
 चि० चि०-पति- -ति: काधौ ७,  
 ३, १; आपधौ १०, ७, १०;  
 १२; बौध्रौ ६, २:२०: २०, ८:  
 २१; माधौ १०, ५, १; माधौ.  
 चि० (द-आ) नन्द- -न्दाय शैशि  
 ४.  
 चितपत्- -यन्तम् आमिष्ट २, ५, १:  
 ३१५.  
 चितयम् लाधौ ९, १०, ५५.  
 चितान (>) ना- -ना: बौध्रौ  
 १२, ८: ६; १७: १: ७.  
 २चि०- -तये आधौ १०, १, २;  
 धाधौ १६, ६, १; वैताधौ ३७, १.  
 चित- पाठमौ २, २, १३३; -तम्  
 आधौ ८, १३, ९; शोधौ १०,

१४, ४; आपधौ; चि० १, ६:  
 ९, ३३; -तस्य काट ४१.  
 १३५; -चि० तानि. आपमं १, ३,  
 १४; आमिष्ट १, १, ३: २५.  
 द्विष्ट १, ५, ११; या ९, २३:  
 -चि० ताय आपधौ ५, २४, ३:  
 द्विष्टौ २२, १, ३०; आमिष्ट.  
 १, १, २: १६; ५, २: १८; ६, २:  
 ३; द्विष्ट १, ३, ९; -चि० आमिष्ट.  
 १, ५, ४: ३९; बौष्ट १, ४, १;  
 भाष्ट १, १०: ९; -चि० तानि आमिष्ट.  
 १, १, ३: २३; द्विष्ट १, ५, ११.  
 चित्त-वत्- -वति पा ५, १, ८९.  
 चित्तवत्-कर्तृक- -कात् पा  
 १, ३, ८८.  
 चित्त-विनाशन- पाग ३, १,  
 १३४.  
 चित्त-विराग- -ने पा ६, ४, ९१.  
 चित्त-न्याय- -न्याय ३, ५.  
 चित्ता (त-मा) दि- -दि वेष्ट १,  
 १७: ५.  
 चित्तै (त-ए) कीकरण-काम- -मा:  
 अय ६, ४३.  
 चित्त- -चि० तये द्विष्टौ २२, १, २०;  
 आमिष्ट १, १, २: १६; ५, २:  
 १८; ६, २: ३; द्विष्ट १, ३, ९;  
 -सि: आधौ ८, १३, ९; शोधौ  
 १०, १४, ४; आपधौ; -चि० तानि:  
 अय १, ४१, ७; अया ११, ७;  
 या २, १४; -चि० तानि आमिष्टौ  
 १६, २३, २०; २४, ३, ४; १७, १,  
 १२०; २, ९०; १५, ७९; बौध्रौ:

a) = ऋषि-विशेष-। ए. १। उ. पाका. १ से इति भाष्ये. पादि. च। b) बहु. < चिकित्य-।  
 c) = यव-वर्ण-। ए. १। = स- इति कृत्वा < चिकि इति स. d) अर्थः व्यु. च। e) उ. पागम. f) नाप.  
 (तिन्त्रिणी)। चिम्पा- इति [पक्षे] पादि. भाष्ये. च। ए. १। g) या १, ६ पराष्टः द. h) वैप १ द.।  
 i) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द. j) पाणे. वैप १, १३२२ ० द. k) पाणे. वैप १, १३२२ १ द.।  
 l) पाठः १ उप. = व्यापतिः १। m) पू. < चि० च (तं ३, ४, ५, १) इति। n) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः  
 द.। o) पाणे. वैप १, १३२० १ द.।

बीध ११६: ५०५; शुभ २, ११३; -फ०सि० आप्रथी ४, १०, ४; भाप्रथी ४, १५, २; हिप्रथी ६, ३, २; -न्या कौमु ४२, १०५; -स्व आप्रथी ५, २४, २५.

चेतत्- नतः वाधुथी ३, ५८: ८५.

चेतन०- नस्य० आप्रथी १४, ३०, २; वीथी २२, ५: ३; हिथी १५, ७, १८.

चेतन्य- > न्या (न्य-आ) धार- -०१ विष १, ५६.

चेतना- न्वा-वत्- न्वान् वा २, ११; ८, ५.

चेतनावत्-स्व- न्वान् पावा ३, ११, ७.

चेतनावद्-वद् वा ७, ६; ७.

चेतय- पा ३, १, १३८.

चेतयत् (>) न्वी- न्वी आ ८, १३४.

चेतयमान (>) ना- ना या ८, १३.

चेतय्- -फ०तः अय ४८, ८४; वृदे ४, ११३५; अय २, ७; निघ ३, ६; -तसः वृदे ७, १०१; -तसा बीध ४, ७, २; -फ०तसे कौमु ५४, ११; अत्राय २, ५; अय ६, ४१.

चेतु- -त्ता वीथी ३, १६: २१; २२, २४; १८, १०: १८; १७: १८; -तारम् हिथी २१, १, २.

चित्- √ चि द्र.

चित्- प्रथ. √ चि द्र.

चित, ता- √ चि द्र.

चितयस्- ! चितयम् √ चि द्र.

चितवत्- √ चि द्र.

चितान- √ चि द्र.

चिति- √ चि द्र.

चिति- √ चि द्र.

चिति- > चिति- प्रायश्चित्त-शमी- शमका-सर्वशा-शाम्यशोका-तला- द्या-पलाना-वाशान-सिवापा-सिम्य- ल-सिपुन-दूर्मी (मै-अ) पात्रागारि- (मै-आ) कृत्तिलोष्ट-वल्मीकवपा- दूर्वाशान्त-वीहि-यव- -या: कौमु ८, १६.

चित्वा (ति-आ) दि- -दिभिः पैताथी ५, १०.

चित्कण- (> ण-कन्ध- पा.) पाय ६, २, १२५.

चित्त- √ चि द्र.

चित्ता- > त्ता/कृ चिन्ता- टि. द्र.

चित्तानसि- पाठयो २, १, २३९.

चित्ति- √ चि द्र.

चित्य- √ चि द्र.

चित् चिन् पावा. चुरा. उम. चित्राकरणे.

चित्त्र- पाठ ४, १६४५.

चित्त्र-क- पा ३, २, २१.

चित्त्र-संनिभ- -भः नाशि २, ८, १८.

चित्त्र- (> ञ-क- पा.) पाय ५, ४, ३; -त्रः अय १, ३४, ३१.

चित्त्र- > चित्र-क- -कम् वीध ३, ५, ८.

छचित्त्र- -यम् वीध २, २, २५; -त्राय आग्रि २, ६, ८: ३५; अय ४३, ५, ४७.

चित्र-गुप्त- -सः पैय २, ९: १६; -सम् संघ ११६: २०; वीध २, ५, २५; -साय आग्रि २, ६, ८: ३५; अय ४३, ५, ४८.

चित्र, प्रा- -पला ४, ३, २४; -फ०-त्र आप्रथी ४, १, २३; ७, ८, ३; शंथी ११, ११, १५x; आप्रथी; या ४, ४; -फ०त्रः भाप्रथी २, १७, १५x; शंथी; पैय ४, १४: ४०; या २, १९४; -त्रम् फ०आप्रथी २, १६, ११x; शंथी; गा २, १९; ४, ४४; १२, ६४; १६४; श्या ६, २०५; -त्रया वीथी १३, २६: ७; ५; १५, २: ५; १८, २६: ६; ४०: १८; अय १, २८, २; -त्रा काथी ४, ७, ४; आप्रथी २०, १, २; भाप्रथी १, ५, १, ५; हिथी; नाशि १, २, ९; वेजो ३६; या ४, १९५; -त्रा: शंथी ८, २०, १५; वीध ३, १०, ४; फ०यो २, ९; १०; अय ६४, ८, १०; -फ०त्राणि अय १, ११, १x; अथा ६, ७; १२, ५; चाय १५: ७; अय १९, ७; -त्राम् वीथी १७, २४. १२५; गो २, ९; -त्राभिः शंथी ८, १६, १; १९-२०, १५; -फ०त्राम् आप्रथी ५, १७, ५९, १७, १५, ६९; १९, २५, १४; वीथी १०, ५२: २२९; १५, २: ४; १८, १६१ ५; ४०: १७; भाप्रथी ५, १०, १०९; वीथी १९, ६: १२९; हिथी ३, ४, ४९; ११, ३, १५९;

a) वीतिहोत्रम् इति अय २१९, २६। b) = देवगवी-। c) पैय १ द्र.। d) पांभे. पैय २.

११७१ h द्र.। e) = ओपधि-विशेष-। व्यु. ?। f) वृक्षोपधीना इत्य.। g) = आलेप्य-। व्यु. ?।

h) < √ चि चयने। i) द्र. पागम। अर्थः। j) = पदि-विशेष-। व्यु. ?। k) = लदाप्य-। अमगण-विशेष-। व्यु. ?।

l) = महदेवता-विशेष-। अर्थः। व्यु. ?। वस. उय. भाप. इति शक.। m) = दधि-विशेष-। शिष्टं पैय १ द्र.।

n) ज्ञातार्थं विहितस्य प्र. लुक्। o) उत्तरेण संघर्षार्थः। p) = गुच्छना-विशेष-। q) पांभे. पैय १, १२२५ a द्र.।

१२, ५, १०<sup>०</sup>; माण्ड ३, १ : २६<sup>०</sup>;  
 गो २, ७; अण्ड १, १०, १; ३९, २;  
 अशां ३, २; ९, २; -प्रायः आपण्ड  
 १३, २०; -प्रायाः माथी ५, २,  
 १०, ४२; अण्ड १, ७, ४; -प्रायाम्  
 आपथी ५, ३, १३; वीथी २, १२:  
 १३५x५; माथी; -प्रायै शण्ड  
 १, २६, १२; वैण्ड ३, २० : ६;  
 अशां १२, २; -प्रासु अण्ड ६५,  
 १, ७; -प्रांशे शांथी ८, १९, १;  
 काथी १७, ४, ४; माण्ड १, १२ :  
 १४; अशां ३, २; -प्रेण या ६,  
 १७५; -प्राैः हिथी ८, ६, ३३५;  
 अण्ड ७१, ११, ५.  
 १३(त्र>)थी<sup>०</sup>-प्री काथी १३,  
 १, ६; वैण्ड १, १०, ४, ८; १; विष  
 ९०, ९; गौध ८, १६; मीसू ६,  
 ५, ३१; -प्राया वैण्ड ६, २० : ३;  
 -प्रायाः हिथी १६, ५, १७;  
 वैताथी ३६, १०; ३७, ११; हिण्डि  
 १३ : ३; -प्रायाम् आथी २, १४,  
 ३; शांथी ३, १३, २; काथी; -प्राै  
 आपथी २१, १५, ६; वीथी १२,  
 १ : २; १६, १३ : ७, १७,  
 ५५ : ३.  
 २३(त्र>- पा ४, २, २३;  
 -प्रायस आपथी २१, २, ११,  
 काथी २४, ७, २, -प्राै विष ३,  
 ४०.  
 २४(त्र>पक्ष-क्षस्य वाथी  
 ३, २, १, १०.  
 २५(त्र>वैशास-खयोः  
 लाथी ९, ९, ८; अण्ड ५५, ५, १.

१चैत्रिक<sup>०</sup>-कानि-, कैः  
 वीण्ड २, १०, ८.  
 २चैत्र्य<sup>०</sup>-ज्यागि वैण्ड ४,  
 ८ : ११.  
 ३चैत्रिक- पा ४, २, २३.  
 ४चैत्री-पक्ष-क्षस्य लाथी  
 १०, २०, २; -क्षेण लाथी १०,  
 ५, १८.  
 ५चैत्री-प्रयोग-मास्य शांथी  
 ३, १४-१५, २.  
 ६चैत्री-यज्ञ-विहीन-ने वैण्ड  
 ६, २० : २.  
 ७चैत्री-समापन<sup>०</sup>-नी वाथी  
 १, ७, ५, ९.  
 ८चैत्र्या (प्री-आ)रम्मण<sup>०</sup>-  
 नी वाथी १, ७, ५, ९.  
 ९चित्र-ज्योतिस्<sup>०</sup>-तिः वीथी १०,  
 ५३ : २; माथी ६, २, ५, २३.  
 १०चित्र-तन्तु<sup>०</sup>-न्तवः वीथी ३ ३:  
 ७.  
 ११चित्र-तम-तमः शांथी ११, ११,  
 १२५.  
 १२चित्र-ता-तया वाथी ३, २, १४.  
 १३चित्र-दण्ड-ण्डैः अण्ड १९<sup>१</sup>, ४, ४.  
 १४चित्र-दण्ड-विचर्चिका-काः अण्ड  
 २६, १, ५.  
 १५चित्र-पक्ष<sup>०</sup>-०४ पाण्ड ३, ६, ३;  
 -क्षाः अण्ड २०, २, ३.  
 १६चित्र-भानु<sup>०</sup>-नु वीथी १८, १६ :  
 १०; -नुः शांथी ८, २४, १;  
 आपथी १६, ३५, ५<sup>१</sup>, हिथी ११,  
 ८, २३<sup>१</sup>; कोय १३५, ९; अण्ड  
 ७०<sup>१</sup>, ५, ३; -नुम् वाथी २, १.

८, १६<sup>१</sup>; -०नो शांथी ७, १०,  
 १३; वैताथी ३१, १६; ३३.  
 १४; ४०, ११; छाम् २, १० :  
 २६; ११२ १६; वृदे ७, १५९;  
 छुप्रा ३, १२; अप्रा ३, १, ७.  
 १५चित्र-महसू<sup>०</sup>-पृहसम् आथी ४,  
 १३, ७; शांथी १०, ८, २०; १४,  
 ५७, ४; -हाः ऋथ २, १०,  
 १२२<sup>१</sup>.  
 १६चित्र-माल्य<sup>०</sup>-ल्यैः अण्ड १, ४४, २.  
 १७चित्र-नय<sup>०</sup>-यः अण्ड ८, १०(५);  
 -यम् आथी ४, ५, ३; शांथी ५,  
 ७, ४; -याय कोय ७४, ८<sup>१</sup>.  
 १८चैत्रय<sup>०</sup>-यम् आथी १०,  
 ३, ३; -यने आपथी २२, १४,  
 २२; हिथी १७, ६, १७.  
 १९चित्रय-वा, वा<sup>१</sup>द्धीक- पा,  
 पाण्ड २, २, ३१.  
 २०चित्र-रू(प>)पा<sup>०</sup>-पाम् अशां ३,  
 २.  
 २१चित्र-व(त>)वी<sup>०</sup>-वी नाथि १,  
 २, ९<sup>०</sup>; -तीपु आथी ९, ९, ९;  
 शांथी १५, ३, ३; -वयः निस् २,  
 ११ : २४; -व्या वीथी १०,  
 ५७ : १४.  
 २२चित्र-वर्ण<sup>०</sup>-र्णम् आमिण्ड २, ५, ६ :  
 ४.  
 २३चित्र-वस्त्र-प्रदान-नेन विष ९०, ९.  
 २४चित्र-वासस<sup>०</sup>-ससः वीथ १, ६, ९.  
 २५चित्र-शिलण्ड-ण्ड-०२ विष ९८,  
 ६५.  
 २६चित्र-श्याम-श्यावदन्त-कुनखि-  
 जटिल<sup>०</sup>-लः अण्ड १, ३२, ५.

a) पाणे. वैण्ड १, १३२५ a द.। b) = चैत्रपौर्णमासी, [तत्रविहित] पाकयज्ञ-विशेष-। c) = मास-  
 विशेष-। d) = अन्न-। भवाधीयम् ठक् प्र.। e) भवाधीयः यत् प्र.। f) विप.। यत्.। g) वैण्ड १ द.।  
 h) = ऋषि-विशेष-। i) पाणे. वैण्ड १, १३२५ i द.। j) = सर्व-विशेष-। k) = अहीन-विशेष-। तेनदृष्टीयः  
 अण्ड प्र.। l) द्व. पाका.। m) = ऋन्- (<चित्रं देवानाम् [ऋ १, ११५, १])। n) = मूर्धना-विशेष-।  
 o) दस.>मलो. कथ.।

चित्र-अवस-तम- -०म आश्री  
 १०,६,७; आश्री ३, १५, १०; ५,  
 ५, ६; आपश्री; -मम् वीथी ९,  
 ४ : ७; १०, ७ : ९.  
 चित्र-संवाद- -हम् अप २०, ३, ३.  
 चित्र-सेव- -जा: वीथी ६ : ३;  
 -नाय कौम् ७४, ८६.  
 चित्रसेन-यमुख- -स्तात् शंघ  
 ११६ : १६.  
 चित्रसेमि- -नय: अप ७१,  
 १८, ३.  
 चित्रा-कर्म- -सं कौम् १८, १९.  
 चित्राकर्म-चित्रा- -शाश्याम् कौम्  
 २३, १२.  
 चित्रा-नाग- -जा: अप ३२, १, १८;  
 अतां १८, ३; २४, २१.  
 चित्रा(त्र-अ)न्त- -न्तम् आपश्री  
 १९, २०, २; द्विथी २२, ३, १९.  
 चित्रा-पच- -क्षम् कौम् ७५, ४.  
 चित्रा-पुर्णमास- -से आपश्री १९,  
 २५, १४; द्विथी २२, ५, २५.  
 चित्रि(त्र) > चित्रा-म(घ) > वा-  
 -घा अप ४८, ११०; निघ १, ८.  
 चित्रा-यु(त) > वा- -ता विघ  
 ९०, ९.  
 चित्रा(त्र-आ)युम्- -यु: आश्री  
 २, ८, ३; ३, ७, ६; ५, २०, ६.  
 चित्र(त्र)आ-युम्- -सुनां आपश्री ६,  
 १६, ११; माश्री ६, २, ३;  
 -१०सो शाश्री २, ११, ४; काश्री  
 ४, १२, ३; वीथी; -सो:  
 आपश्री ६, १६, १०.

चित्रा-विशाखा- -खयो: वैग २,  
 १३ : २.  
 चित्रा-विशाखा-स्वाति-यहुला(ला-  
 अ)पादा(डा-आ)द्विदुष्प-  
 याम्य- -स्वस्व अप ६५, २, ५.  
 चित्रा(त्र-अ)मद्- -जा: वीथ ६,  
 ६, ९.  
 चित्रा-स्वाति- पाग २, ३, ३९;  
 -रयो: वीथी २५, ५ : ८; काय  
 ७, ३५.  
 चित्रिय- -यम् आपश्री ९, ३;  
 -परय आपश्री ५, ५, १०; वीथी;  
 -पागाम् वीथ ४, २, १५;  
 -यागि वीथ २, २, १३; -१थात्  
 आपश्री ५, ६, १; वीथी.  
 चित्रिया(य-अ)न्त्य- -न्त्यस्य  
 भाश्री ५, ३, १२.  
 चित्री > चित्री-करण- -गे पा  
 ३, ३, १५०; पाता ३, १, २६; ३,  
 १५१.  
 चित्रीय पा ३, १, १९.  
 चित्री, श्री > (त्र-थो)दन- -नम्  
 आपश्री २, ५, १ : ३६; जैग २,  
 ९ : २८.  
 चित्र- -स्वम् भाग २, ३१ : १९.  
 चित्र- -पाग ४, १, ११०; २, ८०;  
 -त्र: वृद् १, ४८१; २, १३०१;  
 ६, ६०; -त्रम् वृद् २, ५९२;  
 -त्रस्य ऋग २, ८, २१५.  
 चित्र- -त्रस्य वाज ३९ : १८.  
 चित्रागण- पाग ४, १, १९; ३, ८०.  
 चित्रेय- -या: वीथी ३ ३३ : ७.

चित्वां ✓ वि द.  
 चिद् आश्री २, १, ११; शाश्री; या  
 ३, १६; ४, १७११; पा ८, १,  
 ५७; २, १०१; पाग १, ४, ५७०;  
 चिद्-उत्तर- -रम् पा ८, १, ४८.  
 चिदाकोः आपश्री २१, ९, १५;  
 द्विथी १६, ४, १३.  
 चिनुती वैग १, १४ : १३.  
 चिन्त् पाधा. बुता. पर. स्थ्याम्,  
 चिन्तयन्ति वृद् ७, ४६; चिन्त-  
 येत् आश्री २, ४, १० : ५;  
 अप २३, ४, १; ४३, ६, ३; विघ  
 १६, २३, ९, ७, १; गाश्री २, ८, १.  
 चिन्तयद् -यत: वृद् ५, ६७; -यम्  
 आपश्री १, २३, १; द्विथ १,  
 ६, ९; -यन्तम् आश्री ४, १, २३.  
 चिन्तयन्ती- -न्ती वृ ३, ३.  
 चिन्तयाम् ✓ अत्र, चिन्तयामास  
 विघ १, १९.  
 चिन्तयित्वा वैग ५, ६ : २५.  
 चिन्ता- पा ३, ३, १०५; पाग १,  
 ४, ७४; -न्ताम् अप ३३, १,  
 ३; विघ १, २०; वृद् ७, ४३.  
 चिन्ता ✓ कृ पा १, ४, ७४.  
 चिन्तित- -त: वैग ३३; -ता:  
 आज्यो २, १.  
 चिन्ति- पाउरो २, १, ११०.  
 चिन्ति- > चिन्ति-युताम्- -पाग ६,  
 २, ३७.  
 चिन्वत्, चिन्वान- ✓ वि द.  
 चिपिट- पा ५, ३, ३३; -ट: अप  
 ६८, २, ३१.

a) वैप १ द्र. । b) विप. । वस. । c) = ऋषि-विशेष- । d) = सर्प-विशेष- । e) वस. पूष.  
 = गन्धर्व-राज- । f) = गन्धर्व- । इमि प्र. आदिद्वयमानः उत्स. (पा ७, २, ११७) । g) = मन्त्रगण-विशेष- ।  
 h) = वैथी- । i) = मन्त्र- । j) विन. । वस. उप. = उत्तरीय- । k) वैप २, ३, ६. द्र. । l) आश्रित्य. पाठः ।  
 m) वया. । ल्यु. । । n) = वृष-विशेष- । o) वृ. पागम. । p) पाठः ? चिन्ता गोः इति वीथः (वृ.  
 वैप १, १३२००) । q) = सूर्यारि-विशेष- । ल्यु. । । c. टि. अदि द्र. । r) चिन्ता इति भाष्या. ।  
 s) जनपदयोः इत्त. ।

चिबुक- पाठभो २, २, २६; -कम्  
विष ९६, ९२.

चिग्पा- विद्या- टि. द.

चिर- -रम् आप्तौ १३, ९, ९; १७,  
१४, ३१; वीथी; कौष्ट १, ८,  
२३<sup>१०</sup>; शांष्ट १, १४, ११<sup>१०</sup>,  
या १०, ४० × ×; पाग १, १, ३७;  
-रस्य पाग १, १, ३७; -राव  
शांष्टो १४, १४, १; अय; पाग  
१, १, ३७, -राय छु ३१, ३;  
पाग १, १, ३७; -रेण या १४,  
८; पाग १, १, ३७.

चिर-कृष्ण- -च्छयोः पा ६, २, ६.

चिर-जीवि-स्व- -स्वम् वाध २९, २.

चिर-न-पावा ४, ३, २३.

चिरतन- पा ४, ३, २३.

चिर-मन-मात्र-मात्र- -त्रः अय  
६८, ३, १२.

चिर-रात्र- -त्राय पाग १, १, ३७.

चिर-लब्ध- -ब्धः या १०, ३९.

चिर-लोपिद्- -पी आसिष्ट २, ७,  
१ : २.

चिर-स्थान- -ने गौध १२, २८.

चिरा(र-अ)चिर-वचन- -नात्  
पावा १, १, ७०.

चिरा(र-अ)चुस- -युः माष्ट १,  
१२, ३.

चिरन्त- (> चरन्त्य- पा.) पाग ४,  
३, ८०.

चिरस्या आसिष्ट २, ६, १ : १६.

चिरि पाधा. स्वा. पर. हितायाम्.

चिरोणु<sup>१</sup> या १४, ५.

चिल्ल पाधा. तुदा. पर. वसने.

१ चेल- पाग ३, १, १३७<sup>१</sup>.

चिलिचिम- -मः वीध १, ५, १३४.

चिल्ल पाधा. भ्वा. पर. शैषिल्ये

भावकरणे, हावकरणे<sup>१</sup> च.

चिल- पावा ५, २, ३३.

चिश्वा<sup>१</sup> या ९, १४<sup>१</sup>.

चिक्षिपा<sup>१</sup> > पा<sup>१</sup> > पा<sup>१</sup> > कारम्<sup>१</sup>

आप्तौ १३, १७, ६; वैशो १६,

२१ : ४; हिथो ९, ४, ५१.

चिहण- (> चिदण-क<sup>१</sup> >) म्य-

पा.) पाग ६, २, १२५.

चिद्- -द्धम् वाध २७८ : ६; -द्धानि

अप ७०<sup>१</sup>, ११, १३; -द्दः विध

७, १२.

चिह्न-युक्त- -क्तः वैध ३, १५, ११.

चोक् पाधा. चुरा. उम. आमर्षणे.

चीपु-दु- -दुः अय ३, ४, १<sup>१</sup>.

चीप्<sup>१</sup> चोप्<sup>१</sup> टि. द.

शीया, य<sup>१</sup> म्र- -रम् गोष्ट ४, ९, ७;

कय ३, ९, १८.

चीम् पाधा. भ्वा. आत्म. कथने.

चीप्<sup>१</sup> चोप्<sup>१</sup> टि. द.

चीयमान- चि द.

चीर- पाठ २, २५; पाग ४, २, ८०<sup>१०</sup>;

-रम् वीध २, ६, ९; वैध २, २,

२; पा ६, २, १२७.

चैरेय- पा ४, २, ८०.

चीर-वर्म-जल-प्रिय<sup>१</sup> -यः वीध  
३, ३, १९.

चीर-बलकल-वसन<sup>१</sup> -नः वैध १,  
७, ६.

चीर-बलकल-वासस्<sup>१</sup> -मः शंघ  
४४२.

चीर-वासस्<sup>१</sup> -साः जैष्ट २, ८ : २;  
वीध ३, ९, २; विध ५३, १.

चीरा(र-अ)जिन-वासस्<sup>१</sup> -साः

वीध २, ६, १७; गौध ३, ३४.

चीरा(र-अ)जिन-वासिन्<sup>१</sup> -सी

वाध ९, १.

चीर्ण- चि द.

चीवृ<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. उम. आदानस-

वरणयोः; चुरा. पर. भाषायाम्.

शीघर- चीवर- द.

रचीवर- पाठ ३, १; -रम् शांष्टो २,

१६, २; या ११, ४७.

चीवरि पा ३, १, २०.

चीवि-याच्- -याक्<sup>१</sup> विध ४४, २४.

चुक्<sup>१</sup> चिक्<sup>१</sup> टि. द.

चुक्त- -क्ते काथो २५, १२, २<sup>१</sup>.

चुक<sup>१</sup> (> चुक-ता-, चुक-त्व-,

चुकिमन्- , चौक्य- पा. ) पाग

५, १, १२३.

चुक्षा<sup>१</sup> - पाग ४, ४, ६२<sup>१</sup>.

चौक्ष- पा ४, ४, ६२; पाग ५, १,

१२४.

चौहय- पा ५, १, १२४.

चुच्य<sup>१</sup> चि द.

- a) वैप १ द.। b) पाभे. वैप १, १६३९ p द.। c) विप. वस.। d) तु. पाति.। चिरत- इति पावा.,  
चिरत- इति भारडा.। e) अर्थः ध्यु. च<sup>१</sup>। f) तु. पागम.। g) = मत्स्य-विशेष-। व्यु. शि. h) तु. BFG.।  
i) = शब्दानुकृति-। ध्यु. शि.। j) सप्र. चिश्वा<sup>१</sup> <> चुदच् इति पाभे.। k) वैप ३ द.। l) कय. पाठः।  
m) = लोहचूर्ण-। ध्यु. शि.। n) = वस्त्र-भारडा-। ध्यु. शि.। o) चीर- इति भारडा. प्रम्.। p) विप.। दस. >  
वस.। q) विप.। दस. > उम.। r) चोक्, चोप् इति BFG.। s) = वस्त्र-। ध्यु. शि. < चि इति  
पाठः। t) = शिल्पि- (नभा. शिपुरी)। ध्यु. शि.। u) तु. M.V.। वीरी<sup>१</sup> (वस.) इति धृष्णयिदत; चोक् इति  
जोन., वीरी वाक्- इति मनुः (१२, ९३)। v) तु. वीरं.। चुक्तु<sup>१</sup> (द्र. वारं.), चुक्न<sup>१</sup>, चुदक् इति DC.।  
w) = क्मत्- इति पागम.। x) = शीघ- इति पागम.। y) चो इति वामनः (तु. पागम.)।

√बुद् पाधा. बुदा. बुरा. पर. छेदेने.  
 √बुद्, बुद् पाधा. बुरा. पर. अस्तीभावे.  
 √बुद् पाधा. बुदा. पर. संवरणे.  
 √बुद् पाधा. भ्वा. पर. भावकरणे.  
 √बुद् पाधा. बुरा. पर. छेदेने.  
 √बुद् √बुद् टि. द्व.  
 √बुद् पाधा. भ्वा. पर. अस्तीभावे  
 √बुद् √बुद् टि. द्व.  
 √बुद्, बुद् आधी ३, १०, ३१;  
 काथी २५, ९, १५.  
 √बुद् पाधा. बुदा. पर. संवोधने,  
 बुद् वीथी १८, ४१ : ४१.  
 बुदयति वीथी १०, ११ : ५;  
 १६ : ११; द्विथी ४, ३, ३१ × ×;  
 या ७, १३; बुदयतः आधी ७,  
 २७, २; बुदयति या ११,  
 २४; बुदयत् आधी ४,  
 १८, ५, ५, ६, ३; आधी १२, १४,  
 १३; वीथी ७, ६ : ४७; या  
 १०, ३९; बुदयत् वीथी ३, १, ३,  
 २; या ४, २५; ९, २०; बुदयेत्  
 आधी १५, १४, ३; वीथी २,  
 ३ : १८; २९, २ : १; माथी;  
 बुदयेथुः आधी २, ११, १९ : १८,  
 १३.  
 बुदयिष्यामः वीथी १६, ३ : ८.  
 बुदन्ते शाथी १, १७, ७; छाथी;  
 बुदन्ते गाथी १, १, २४; आधी.  
 बुद् -> बुद्-प्रबुद् - द्वः शैथि  
 ३१०.  
 बुद् - कः कथा १०, १५; ११,  
 २७.  
 बुदन् - नम् द्विथी १६, १, ६; -नात्  
 वीथी १, १, १, १८; द्विथी १३, ३,

१; मीत् ४, ३, ३९; ८, ३, ४.  
 बुदना - ना काथी २५, १, २;  
 वीथी १, १, १, ६५; द्विथी;  
 -नाः मीत् ७, ३, ७; -नानाम्  
 मीत् ४, ४, १; १०, ३, ५८;  
 -नाम्. मीत् १०, २, ६४; १२,  
 ३, ८; -नानाम् काथी १३, १५,  
 ५; १४, ३, १३; कौटः पावा १,  
 ३, ६४; -नासु मीत् १०, ५,  
 १३; पावा १, २, ६४.  
 बुदना-गुण - गेथु काथी १, ८,  
 २२.  
 बुदना-गुण - स्व - स्वात् काथी  
 ५, १३, ८.  
 बुदना-तसः (ः) मीत् ४, ४, ४;  
 ९, १, ५; १२, १, १.  
 बुदना(ना-अ)गुणव्यर्थ - व्यर्थ  
 काथी १, १७, २.  
 बुदना(ना-अ)नुबन्ध - न्वः  
 मीत् ९, २, ४०.  
 बुदना(ना-अ)न्तर - नम् मीत्  
 २, ३, ५; -नात् मीत् १०, ४, ३७.  
 बुदना-श्रुत - न्वम् मीत्  
 ११, २, ४९; -स्वात् मीत् ११,  
 ३, ५१; -स्वे मीत् ११, ४, २३.  
 बुदना-प्रकरण - गे काथी १,  
 १७, १.  
 बुदना-प्रतिभाव - स्वात् मीत्  
 ३, ८, ७.  
 बुदना-व्यसुच - स्वात् मीत् १०,  
 ३, ३.  
 बुदना(ना-अ)भाव - वात्  
 मीत् १०, ६, ३८.  
 बुदना(ना-अ)भिसंशब्ध -  
 न्वात् मीत् १०, २, ६५

बुदना-भूत - नात् मीत् ९,  
 १, १.  
 बुदना-भेद - वात् काथी ६,  
 ७, २७.  
 बुदना(ना-अ)र्थ - व्यर्थ मीत्  
 ४, ३, १०.  
 बुदनार्थ-कारण्य - स्वत्  
 मीत् ३, ६, ८.  
 बुदना(ना-अ)विशेष -  
 पत् मीत् ६, ३, १५.  
 बुदना-लक्षण - ग्नाः मीत् १,  
 १, २.  
 बुदना-लिङ्ग-संयोग - गे  
 मीत् १०, ४, २.  
 बुदना-विधि-शेषत्व - स्वात्  
 मीत् ११, २, ९.  
 बुदना-विरोध - स्वात् मीत् ३,  
 ५, ९; द्वः, ४, ९; ८, ३४.  
 बुदना-विशेष - वात् मीत् ३,  
 ८, ४३; ५, ३, ४४.  
 बुदना-व्यवाय - वात् मीत्  
 ११, १, ६८.  
 बुदना-शब्द - न्वस्व काथी  
 २०, ७, २०; -न्दात् काथी १,  
 १०, १.  
 बुदनाशब्द-सामान्य -  
 न्वात् मीत् ७, ४, १२.  
 बुदना-शेष-भाव - वात् मीत्  
 ७, १, १.  
 बुदना-संयोग - नात् द्विथी १,  
 १, ६०.  
 बुदना-संदेह - द्वे काथी ६,  
 १, ७.  
 बुदना-समुदाय - वात् मीत्  
 ९, १, २८.

a) बु. BFG. 1 b) √बुद् इति BFG. 1 c) = √बुद्. 1 d) पामे. वैप २, ३६.  
 बुवबुवपोत् तैत्रा ३, ३, ६७ टि. द्व. 1 e) पामे. वैप १, १३२९ ० द. 1 f) वैप १ द. 1 g) = अथप्रद- 1  
 h) विप. 1 वस. 1 i) बुदना, प्रति, भावात् इति जीसं. 1 j) पस. उप. = व्यवधान- 1

चोदना-सामान्य- न्वात् मीस्  
 ७,३,२७.  
 चोदने (ना-ए)क-काल- लम्  
 मीस् ११,४,५०.  
 चोदने (ना-ए)कत्व- न्वात्  
 मीम् ४, ३, १३; ६, २, ६; ८,  
 १, २६×४.  
 चोदने (ना-ए)क-वाच्य-स्व-  
 न्वात् मीम् ११,२,५३.  
 चोदने (ना-ए)हाथ्य- न्वात्  
 मीस् ३,६,५.  
 चोदयत्- न्वत् लाभौ १०,११,५;  
 -यन्ता अत्राय ६,९१.  
 चोदयन्-न्वत्- न्वति आपभौ ५,  
 ६,३; हिभौ ३,२,६.  
 चोदयित्वा लाभौ १०,५,२.  
 चोदित,ता- नः द्राभौ १,३,२८;  
 -तम् वैभौद्वा ३७, अय २३,  
 ११, ३; माशि ५, ५; ६, ६;  
 आज्यो ११,६; मीस् १,३,१०;  
 -तस्य मीस् १०, ४, ३८; -ता  
 काभौ २२, १, १३; -ताः वृदे  
 ५, २४; -तान् अप २२,१, २;  
 -तानाम् लाभौ ९, ६, २१;  
 -ताम्यः शाभौ ३,२०,२०; -ते  
 काभौ ४,३,२०; अय ७०, ११,  
 २; मीस् २, २, ६; ३, १, १४;  
 ९, १, ३९; -तेन मीस् १०, ४,  
 २६.  
 चोदित-न्व- न्वात् काभौ १,  
 ८,१; ४,३,२४, ५, ८, २०; मीम्  
 ३,२,६; २५×४.  
 चोदित्वा (त-अ)लिक्रम- न्मे वैश

२,८:७.  
 चोदित्वा (त-अ)माव- न्ने काभौ  
 १,४,१.  
 चोदित्वा (त-अ)मिधान- न्नात्  
 मीम् २,१,३६.  
 चोद्यमान- नम् लाभौ ६,१, १;  
 -नानाम् शाभौ ५,१९, ५, १३,  
 २०,११; -नानि द्राभौ ९,२७,  
 ३; आपभौ २४, २,२६; -ने  
 आपभौ ६,१६, २; २४,१, २३;  
 हिभौ ३,८,१६.  
 चुनम<sup>१०</sup> (> चैनमायन- पा.) पाग  
 ४,१,११०.  
 √चुन्द √चुन्द टि. द.  
 √चुप् पाधा. भ्वा. पर. मन्दायां गतो.  
 √चुप् √चुप् टि. द.  
 चुप<sup>१०</sup> (> चोपायन- पा.) पाग ४,  
 १,११०.  
 चुपणीका- न्का विष ६७,७<sup>०</sup>; तैत्रा  
 १३,१२५.  
 चुपणीमुख- न्खः काय ३५,१.  
 चुप्र- पाठना २,२८.  
 √चुयुक्<sup>१</sup> - न्कः दंवि २, ११; -कान्  
 आपमं १,१७,१<sup>६</sup>.  
 चुयुक्-दन्- न्वः आपभौ १०,१०,  
 ५; हिभौ ७, १, ५५; -नम्  
 आपभौ ७,८, ३; बाभौ २,३,२,  
 २१.  
 चुयुक्-प्रतिष्ठित- न्तम् आपभौ १०,  
 २४,४<sup>१</sup>.  
 चुयुक् (क-अ)न्त<sup>१</sup> - न्तम् वैभौ १०,  
 ०:४.  
 दचुयुक्<sup>१</sup> - न्कयोः बौधु १५, ३;

-कात् वीभौ ६,२५: १२; -के  
 वीभौ ६, २५: ६×४; वैभौ  
 १४, ६: ३<sup>१</sup>; बौधु १४: ४;  
 ६.  
 चुव्र- पाठ २,२८.  
 चुमुरि<sup>१</sup> - न्निः वृदे ४, ६७; -रिष्  
 आभौ ९,८,४<sup>१</sup>.  
 चुग्प- (> चोग्पायन- ) चुप-  
 टि. द.  
 √चुग्म् पाधा. भ्वा. पर. वक्त्रसंयोगे;  
 चुरा<sup>१०</sup>. पर. हिंसायाम् चुग्धत्  
 याति २,६३.  
 चुम्युक्<sup>१</sup> - न्काय हिभौ १४, ५,  
 ४<sup>१</sup>.  
 चुम्र- पाठना २,१६.  
 √चुर<sup>०</sup> पाधा. चुरा. पर. स्त्रिये.  
 चुरण- (> √चुरण्य पा.) पाग ३,  
 १,२७.  
 चुरा- पाग ३, ३, १०×४; ४, ४,  
 ६२.  
 चौर- पा ४,४,६२.  
 चोर- पाग ३, १, १३४; ४, १, ४१<sup>०</sup>;  
 ५, १, १२४; १३३; ४, ३८; -०२  
 वाध २०, ३०; -०ः अप ६८, २,  
 ५५; शेष ३२८; -०म् वाध  
 २०, ३०; -०स्य वाध १४, १७;  
 शेष ४३४; बौधु ३, ६, १०.  
 चोरी- पा ४, १, ४१.  
 चौर- पा ५, ४, ३६; -०ः  
 विष ५, १९६; -०स्य विष  
 ४८, २१; -०राम् अय १,  
 ४४, १; -०रे पा ५, १,  
 १११.

a) तु. पासा. । b) व्यय. । व्यु. ? । c) चुग्प- दति पाका. (तु. BPG) । d) चुपदासक- इति [पसे] पागम. ।  
 e) = यत्किंचित्वा-विशेष- । व्यु. ? । क्षिप्रगिका इति जीसे. । f) वप १ द. । g) = बालग्रह-विशेष- । व्यु. ? ।  
 h) पासे. वैप १, ७३७ h द. । i) सप्र. चुयुक्प्रतिष्ठितम् <> मुखेन प्रतिष्ठाप्य इति पासे. । j) विप. ।  
 पस । k) = वैदिभाग-विशेष- । व्यु. ? । l) = हृत्विधानसङ्ख्यामाय-विशेष- । m) = √चुयुक् इति BPG. ।  
 n) = चुयुक्-लु. वै १ । पासे. वैप १, १३८१ p द. । o) पा ३, १, २५ परावृत्तः द. । p) तु. पागम. ।



—र्णानि आपथी १९, ५, ८;  
 हिथी २३, १, ७; हिण १, १४,  
 ७; कौस् ११, १७; आपथ २,  
 १९, १; हिथ २, ५, ७३; —र्णत  
 अप ३५, १, १३; २, ९; —र्णपु  
 कौस् ४१, २२; —र्णैः काथी १९,  
 १, २०; वीथी १७, ३१ : २०;  
 कौस् ४१, २५; अप ३६, ७, ४.  
 चूर्णक- पा ५, ४, ३.  
 चूर्णकृत- -तम् वीथी १७, ३१ :  
 ३; —तैः वाथी २, १, १, ३४\*.  
 चूर्णनेषम् पा ३, ४, ३५.  
 चूर्णमासर- -रैः काथी १९, १,  
 २१.  
 चूर्ण(र्ण-का)दि- -दीनि पा ६, २,  
 १३४.  
 ✓चूर्णि पा ३, १, २५; चूर्णयेत्  
 माथी ३, ८, २.  
 चूर्णयित्वा वैथी १३, ६ : ८.  
 चूर्णित->—त-स्वयण- -ग्रह्य  
 विध ९०, १.  
 चूर्णित्- पा ४, ४, २३.  
 चूर्णी/कृत>चूर्णीकृत- -तैः माथी  
 ६, १, २, ३\*.  
 चूर्णीकृत्य काथी १५, १, २४.  
 चूर्णि- पाठ ४, ५२.  
 ✓चूर्ण पाथा. भ्वा. पर. वाने.  
 ✓चूर्ण पाथा. तुदा. पर. हिंस-  
 धन्वन्थोः.  
 ✓चूर्ण पाथा. तुदा. पर. संदीरने.  
 ✓चूर्ण(समासो)>चूर्ण- -र्णपु वीथ २,  
 ६, ५.  
 चूर्णनिर्णय- -यः वीथि २, ७,

१४.  
 चूर्ण-पितृ-व्रत- -तः वैथ ५,  
 ७ : ५.  
 चूर्ण-प्रायश्चित्त- -तौ कथ १,  
 ६, ३.  
 चूर्ण-व्रत- -तः वीथ ३, ५, ८.  
 चूर्ण-व्रत(त-अ)न्त- -न्तेन वीथ  
 ४, ११, २.  
 चूर्णा(र्ण-अ)न्त- -न्ते काथ  
 २७१ : ७; २७२ : १; ६; १०;  
 १२.  
 चैकित->(>रचैकित-, रचैकिय-)  
 चिकित- टि. द.  
 चैकितस्- ,तान- ✓छिद् द.  
 रचेष्ट- -तः आपथ १, १७, ३८; हिथ  
 १, ५, ६९.  
 चेष्ट-मवय-शिशुमार-नक्ष-तुली-  
 -ताः वाथ १४, ४१.  
 रचेष्ट- (>चेष्टी- पा.) पाग ४, १,  
 ४१.  
 चेष्टत्-, चेष्टन- ✓चित् द.  
 रचेष्टना- वीथ ५, ४, ७.  
 चेष्टना- प्रथ. ✓चित् द.  
 चेष्टन्य- ✓वि द.  
 चेष्टस्- ✓चित् द.  
 चेष्ट- ✓वि द.  
 चेष्टु- ✓चित् द.  
 चेष्ट पाग १, ४, ५७; आथी १, १,  
 ११; वाथी; या १, १११; पा ३,  
 ३, १५४; चेष्टचेष्ट पाग १,  
 १६, ३४.  
 चेष्ट-अर्थ- -र्ष पावा ८, १, ३०.  
 चेष्टि- पाग ४, २, ११६; -दयः अप

१, ७, २१.  
 चेष्टिका-, चेष्टिकी- पा ४, २,  
 ११६.  
 चेष्टा- -ग्रह्य श्रय २, ८, ५.  
 चेष्टा- -रथे आथी ५, १५, ३; वाथी  
 ७, २०, ४; सुम् २, ११ : ४.  
 ✓चेष्ट पाथा. भ्वा. पर. वलने.  
 रचेष्ट- ✓चित् द.  
 रचेष्ट- -लानाम् शंथ १७४; १७५-  
 वीथ १, ५, ३६.  
 चेष्ट- -ले वाथ १०, २३.  
 चेष्ट-वत् वाथ ३, ५३; काथ  
 २७७ : १२.  
 चेष्ट-शिरस्- -रसोः वीथी  
 २७, ९ : २.  
 चेष्ट-वनीपम् पा ३, ४, ३३.  
 चेष्ट-वेष्ट-कुकु-काण्ड- -पठम् पा  
 ६, २, १२६.  
 चेष्ट-पिण्ड- -ण्डात् वीथ १२,  
 २४.  
 चेष्ट-राज्या(जय-आ) दि- -दिभ्यः  
 पावा ६, २, १३०.  
 चेष्ट-वत् शंथ १७४; वीथ १, ५,  
 ३७; वीथ १, ३५.  
 चेष्टो(ल-उ)पमाजन- -नेः वैथ ५,  
 ३ : १.  
 चेष्टक- -काः वीथीप्र १७ : ५.  
 चेष्टकि- -किः सुथ १, १७६.  
 ✓चेष्ट पाथा. भ्वा. आत्म. वेष्टावाम्,  
 चेष्टते वैथी १२, १२ : २१;  
 अप ७०, ७, २०; ७१, १२, ३;  
 चेष्टति वीथी ४, २ : ३५, ५, १६ =  
 १४४; वीथ; चेष्टन्ति वीथी ६,

a) र्णी इति संस्कृता । त्वा. र्णं <> र्णी इति पाठे । b) पा ७, २, ५७ परावृष्टः द. । c) विप. ।  
 बस. । d) = मत्स्य विशेष- । व्यु. ? । e) = नाटकीय-यात्र- । व्यु. ? । f) पाठः ? चेष्ट, जनया (कृत्वा) इति  
 द्विपदः सोधः । g) बप्रा. । व्यु. ? । h) वैदी- इति [पसे] पाठः, रचेष्टि- इति पाठि । i) = चेष्टि-निवासिन्- ।  
 j) वैच १ द. । k) समाहारे द्वयः । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । m) बहु. < वैलकि- । n) पा  
 ७, ४, १६ परावृष्टः द. ।

२७ : १४; ७, १ : २६; २० : ७;  
८, १४ : १४; ११, २ : १८;  
चेष्टाम् द्विष्ट १, २३, १; चंष्टे-  
वाम् द्वाथी १२, २, ३३; २४;  
लाथी ४, ११, ३१; चंष्ट द्वाथी  
१२, २, २; लाथी ४, ११, ५;  
चेष्टेव गोथ १, ६, २१; चेष्टेव  
माथी ३, ६, २२.

चेष्टिपि द्विष्ट १, २३, १.

चेष्टयति शांष्ट ४, १५, ७; चेष्ट-  
यन्ते द्वाथी ८, ३, २.

चेष्ट- चेष्ट- द्वि. द.

चेष्ट- अष्टि आपथ १, ६, २८;  
द्विष्ट १, २, ५१; -ष्टन्तम् वीथी  
२४, ३०; १४; वाधुथी ४, ६९ :  
४; ७६; ८०; ८४; वीथ ८०, ११.

चेष्ट- अष्टा मीथ ३, १, १; -ष्टा-  
आथी १, १, ८; -ष्टानाम् आपथ  
६, ३; द्विष्ट २, ३१; -ष्टाम् वीथ  
४८, १४; वाधि १, २३; नाधि  
१, ६, १२; -ष्टायाम् पा, पावा, २,  
३, १२; -ष्टासु द्वाथी १, १२, ५.  
चेष्ट-अष्टि-पर- रम् माधि २,  
१२.

चेष्ट-भोजन-वाम्-रोध- अष्टे  
विध ५, ६९.

चेष्टित- तम् वाधुथी ४, ३६; ७, ५०;  
१३; द्वाथी ११, २, १०; अष्ट,  
-तानि अथ ६४, १, ६; अष्ट ३, ६.

चेष्टित्वा वीथी २, १८ : ३३; द्वि.  
६ : १३; ९, ११ : २५.

चेष्टित्- चक्ष्यमाण- ✓वि. द.

चेष्टयत<sup>१</sup>- (> अष्ट-विध- अष्ट्या-  
पा.) पाग ४, १, ८०; ३, ५४.

चैकार्य- चिकार- द्वि.

चैकित- चिकित- द्वि.

चैकित- चैकित- द्वि.

चैकित्य- चिकित- द्वि.

चैकित्य- चैकित- द्वि.

चैकित्सित-, अस्तित्- ✓कि. >  
विकित्सित- द्वि.

चैकीर्यत-, अर्यित- ✓कृ. द.

चैकश- चिकश- द्वि.

चैटयत<sup>२</sup>- (> चैटयत-विध-, चैट-  
यतायति-, चैटयत्या- पा.)  
पाग ४, १, ८०; १५४; २, ५४.

चैतन्य- ✓चित्. द.

चैत्य- प्रष्ट. ✓वि. > कित्या- द्वि.

चैत्र- अचित्र- द्वि.

चैत्र- अचित्र- द्वि.

चैत्रय- अचित्र- द्वि.

चैत्रायण- अचित्र- द्वि.

चैत्रयिक-, चैत्री- अचित्र- द्वि.

चैत्रेय- अचित्र- द्वि.

चैत्रय- अचित्र- द्वि.

चैत्रिका-, चैत्री-, चैत्र- चेदि- द्वि.

चैत्रन्य- चित्र- द्वि.

चैत्रन्दि<sup>३</sup>- अदि- वीथी ४४ : ४.

चैत्रेय- चैत्र- द्वि.

चैल- अचल- द्वि.

चैलकि- चैलक- द्वि.

चौटल<sup>४</sup>- पावा, पावाग ४, १, १७३.

चौद-, चौदक- प्रष्ट. ✓बुद्ध. द.

चौपन- ✓बुद्ध. द.

चौर- प्रष्ट. ✓बुद्ध. द.

चौलपल<sup>५</sup>- अला- वीथी ४४ : ४.

चौक्यति-, चौक्यमाण- ✓स्कृ. द.

चौक्रय- चुक्र- द्वि.

चौक- चुका- द्वि.

चौक- अला- वीथी ९ : २.

चौक्य- चुका- द्वि.

चौटयत- (> अष्ट-विध-) चैटयत-  
द्वि. द.

चौट-, चौटक- प्रष्ट. चूडा- द्वि.

चौटकायन<sup>६</sup>- अला- वीथी ४५ : ६.

चौडार्य- चूडार- द्वि.

चौडालि- चूडाल- द्वि.

चौडि-, चौडिक्य- चूडा- द्वि.

चौडित्त्विक्य- चूडित्त्विक- द्वि.

चौडहल<sup>७</sup>- अला- वीथी ३४ : १.

चौनमायन- चुनम- द्वि.

चौपदासकायन- चुपदासक- द्वि.

चौपयत<sup>८</sup>- (> अष्ट-विध-, अष्टायति-,  
अष्ट्या- पा.) पाग ४, १, ८०;  
१५४; २, ५४.

चौपायन- चुप- द्वि.

चौम्पायन- चुम्प- द्वि.

चौचौर- प्रष्ट. ✓बुद्ध. द.

चौल- पाग ६, २, १३४.

चौलि<sup>९</sup>- अलि- वीथी ४८ : १२.

चौलुक्य- चुलुक- द्वि.

चौवल<sup>१०</sup>- अला- वीथी ३३ : ५.

✓च्यु<sup>११</sup> पाथा. अला. आतम. गती,  
अववते अत्राय १, ५; अथ ३७,  
३, १; वाप ८, १०; शंष ११;  
वीथ, चात्र ४० : १८१; निध  
२, १४, अथयन्ते वीथी ८, २१ :  
९; लाथी १०, ८, ८; निध ६, ५;  
१२; १४; भाषि ७०; अथवाम्  
द्विष्ट १, २३, ११; अथवेरन्  
वाधुथी ४, १०० : १३; अथवेरुः  
माथी ९, १४, १५.

a) वृ. पागम. । b) अथ. । च्यु ? । c) चैवयत- (< ✓चित्र) इति पाठिनिः (वृ. पागम.) ।

d) वृ. पाका. । चैट इति ? [अष्टे] भाष्य. प्रष्ट. । e) वृ. पाका. । चौट इति [अष्टे] भाष्य. । f) अष्टि-

विशेष- । च्यु ? । g) = जनपद-विशेष- । च्यु ? । h) पा ७, ४, ८१ परासृष्टः द्वि. । i) अथवेरु इति

पाठः ? यनि. शोधः ।

विच्युते पा ६, १, ३६; च्योप्यते  
वाधुधौ ४, १०१ : ११; १२;  
च्योप्यन्ते शोधौ १५, १६, ११;  
च्योप्यन्तम् हिट् १, १८, ३; भाशि  
१२; च्योपि हिट् १, १८, ३१;  
२३, १.

च्यावयते या ११, ७; च्यावयति  
आपधौ ९, ९, ६; बौधौ; या ११,  
६; च्यावयन्ति नित् ५, ६ : २४;  
च्यावयामि आपधौ १२, १६,  
८५; च्योवयन्तु कौट ५, २,  
६१; हिपि २ : १२; च्यावय  
ऋप्र ९, ३२; च्यावयेत् नित् ९,  
१ : ३४; १०, २ : २४.

ञ्चुच्योत् वेताधौ २४, १;  
चञ्चुच्युः हिधौ ९, १, १०;  
५, ३६.

चञ्च्यवन्- नः आपधौ २, १३, ८;  
१, पाठ १, १६, २३; आसिप  
२, १, ३ : १३; भाट १, २३ : ४;  
हिट् २, ३, ७; जैट् १, ८ : १५.

रञ्च्यवन्- नः काट ४, १५; अप  
४८, ११५; ऋप्र २, १०, १९;  
निप ४, १; या ४, १९; च्युः  
-नम् अप १, ४१, ७; अदा  
११, ७, या ४, १९; -नस्य चाअ  
२ : ८; ४२ : ३; -च्योवय काट  
४, २०; वैट् २, १२ : १३.

च्यावन्- ०न आपधौ १२,  
१०, ६-९; आपधौ २४, ५, १२;  
१५; बौधौ ३ : १६; ४ : ४;

५ : ३; हिधौ २१, ३, ७; वैष  
४, २, ३; -नम् लाधौ ६, १२,  
१४; -ने लाधौ ६, १०, ९.

च्यावनी- भीग्याम्  
वाट् २, २५.

च्यवनञ्च आपधौ २४, ५, १२;  
१५; बौधौ.

च्यवान- नम् या ४, १९; च्युः  
-च्योव अप ४८, ८१; निप २, ४.

च्यावयत्- न्यत् नित् ४, ४ : १०;  
कौस् १३५, ९; ऋप्र ८, ३५.

च्यावयित्- न्ता या ४, १९.

च्युत्- न्तः नाशि १, ६, २०; -नम्  
अप ३७, ११, २; -त्ताः विष  
२३, ५१; -लेषु गौष १, ४६;  
-तैः वैट् १, ५ : ३.

च्युति- तितः ऋप्र १, ८, ४; -तैः  
गौष १, ४५.

च्योत्- पाठ ४, १०४; -न्तः ऋप्र  
४, ७४; -च्योव अप ४८,  
१०३; निप २, ९.

√च्यु पाषा. सुरा. उम. सहने हसने  
च.

च्युक्त- पाठना ४, ११५.

√च्युत् पाषा. भ्वा. पर. आशिचने.  
च्योतन्ति कौस् १०५, १.

च्युत् आपधौ ९, १८, १२.  
च्योतत्- न्तसु कौस् ९३, १३.

च्युत्- पाठ ३, २४.

√च्युस् √च्यु टि. द.  
च्योत्नी- पाठभौ २, २, १८४.

छ

छा- शुभा ८, ९; ऋत ५, ६, २; छम्  
शुभा ४, ९८; ऋत ४, ४, ४.

छकार- नः ऋप्र ६, ३; १२; शौच  
२, १७; १८; -नम् ऋप्र ४, ४;  
१२; तैसा ५, ३, ४; याशि २,  
४१; -रे शुभा ४, २५.

छकार-वत्- वत् ऋप्र ५, ५९.

छकारा(र-आ)दि- दि उस् ८, ७.

छन्य- न्यम् शेषि ३१४; ३१६.

छन्- नम् नाशि २, ६, १०.

छन्द, छ छन्द टि. द.

छगल- पाठ १, ११३; -छः  
आपधौ २०, २२, १३; हिधौ  
१४, ५, ९; -छम् बौधौ ९, ५ :  
३४; -छाः आसिप ३, ५, २ :  
१०; च्युति १, २ : १४; ३ :  
१४; २१; २९; -छान् आसिप.  
३, ५, २ : १०; च्युति १, २ :  
१४; -छानाम् च्युति १, ३ :  
१४; २१; २८.

रङ्गल, ला- पाग ४, १, ९६; २.  
८०; ३, ९३.

छगल- पा ४, १, ११७; ३, ९३;  
-छा बौधौ २७ : २.

छगलि- पा ४, १, ९६.

छगलेय- पा ४, २, ८०.

रङ्गलेय- याः च्युत् २ : ७.

छगलेय-आसिप- नम्  
बौधौ २३, ५ : १५.

a) च्युति इति पाठः इति यनि. शोधः (तु. उत्तरीयं स्थले संस्कृतः टि. च)। b) पाषे. वैष १, १०५ b द.।  
c) च्यावन् इति पाठः इति यनि. शोधः (तु. हिपि.)। d) = बालग्रह-विशेष-। e) = ऋषि-विशेष-। f) = माम-  
विशेष-। g) = ऋषय-विशेष-। h) वैष १ द.। i) = बाहु-। j) शौच ४, ११ परामृष्टः द.। = √च्युस्  
इति BFG.। k) पाषे. वैष २, २ सं. अक्षुभोत् तैसा ३, ७, ३, ६; ७ टि. द.। l) = वर्ण-विशेष-।  
m) शकलाः इति पाठः इति यनि. शोधः [तु. बौधि.]। n) छकलन् इति पाठः इति यनि. शोधः [तु. बौधि.]।  
o) भ्वा.। च्यु.।। p) व्यप.। q) = ऋषि-विशेष-। अपत्यार्थे इक् > एयः प्र. ( पा ४, १, १२० )।  
r) उप. = प्रथम-।

छगलिन्-> छागलेविन्- पा ४, ३, १०९.  
 ✓छञ्ज पाषा. सुरा. पर. कृच्छ्रजीवने.  
 छटा- पाठभो २, २, ९६.  
 छिडत् आषम २, १६, ३; ९; १-११;  
 भाय २, ७ : १२; १०; २३; २४;  
 २७; हिय २, ७, २१.  
 छिड्य-> छात्रि- (> छात्रि-  
 शाला- पा.) पाग ६, २, ८६.  
 छत्राक-कम् आश्रित २, ५, २ : ४;  
 वीथ ३, ६, १.  
 छत्राक-कयका(क-त्रा)शन- नै विध  
 ५१, ३४.  
 छत्य- छ- इ.  
 छत्यर- पाठ ३, १.  
 ✓छद्, न्द<sup>०</sup> पाषा. भ्या. पर. कर्त्तने;  
 चुग. उम. अपवारणे; पर.  
 संवरणे, ऋन्दति अष ४८, ९,  
 निष ३, १४.  
 ऋन्दत् आषम २१, १२, ९,  
 पाथी; अष ४८, ३; निष २, ६;  
 मच्छान् या २, ८१; कच्छान्मुः  
 अष ४८, ३१.  
 छद्यते निष ३, १४; अच्छ-  
 द्यत् वाथी ४, २१ : २०.  
 छन्दयति वेताथी ३८, ५१.  
 छाद्यति काथी १७, १, ५; १, ५;  
 ६, १०; कौथ ३, ६, ३; शाय;  
 ऋदाव्ये हिथी २१, १, १; ३;  
 छाद्यामि अष ३७, १, १११;  
 छाद्येत् काथी ४, ६, ६; पाय ३,  
 ९, ६; काय ५९, ५; अष.

अषच्छद् वा २, ८.  
 छाद्यते वांथु ३, ११, ६; अष ६४,  
 १, १०; वा ४, १८.  
 रछत्र- पाठ ४, १५९; पाग २, ४,  
 ३१; ४, ४, ६२; -अम् आषम १  
 १५, २०, १७; वीथी ९, १९ :  
 ४२; १७, ३९; ६; ४२; ९; माथी;  
 -त्रागि काथी २१, ३, ६; अष  
 ६४, ७, ६; -ने अष ७०, ११,  
 १५; शिव ९९, १२; -त्रेण जैथ  
 १, १६; ४; १७; ७; कौथ ३३, ९.  
 छात्र- पा ४, ४, ६२; पाग  
 ५, १, १२३.  
 छात्रक- पा ५, १, १२३.  
 छात्र-व्यंसक- पाग २, १,  
 ७२.  
 छत्र-दान- न्नात् वाध २९, १३.  
 छत्र-धारिन्- नी काय ३, ११.  
 छत्र-ध्वज- न्नाम् अष ७०, १, २.  
 छा-ध्वज-पताका- का; अष  
 ६७, ४, २; -वासु अष ७१, १९, २.  
 छत्र-मदान- न्नेन विष ९२, २९.  
 छत्र-भङ्ग- न्ने; अष ६४, ६, ७.  
 छत्र-वध अष ५८, २, ७.  
 छत्र-वस्त्र-ध्वज- न्नानाम् अष  
 ६४, ५, ६.  
 छत्र-व्यंसक- पाग २, १, ७२.  
 छात्रा(त्र-आ)का(र>)रा- रा  
 अष ५८, ४, ७.  
 छत्रा(त्र-आ)दर्श-कलो(ल-उ)  
 ल्पीप-कुक्कमालया(व्य-आ)  
 गम- ने अष ६८, २, १२.

छत्रा(त्र-आ)दान- न्नात् वीथ  
 २, ६, ९.  
 छात्रा(त्र-आ)दि- न्नीनि अष ४,  
 २, १४.  
 छात्रा(त्र-आ)पहास्त्रिन्- नी शीघ  
 ३७८.  
 छात्रा(त्र-अ)सि-धनुस्- नुपान्  
 अष ६८, ३, १३.  
 छात्रिक- (> छात्रिय- पा.)  
 पाग ५, १, १२८.  
 छात्रिन्- -त्रियम् कामि २, २,  
 ३ : ३.  
 छात्रो(त्र-उ)वानद्- -इम् कौथ  
 २, ३, १९.  
 छात्रोपानह-प्रदान- न्नेन विध  
 ९०, ११.  
 छद्- न्नेन आषम २२, ११, ९.  
 छदिम्- -दिम् आश्रित २, ७, १० :  
 १२.  
 छद्य(दि-त्र)न्तराल- लेपु  
 वाषम ११, ८, २.  
 छदिस- पाठ २, १०८; -दि; काथी  
 ८, ३, २००; आषम १; -दिपः  
 नित् १, ११ : ११; -दिपाम्  
 हिथी ७, ५, २७; ७, २१; -दिपि  
 आथी ५, १३, ६; हिथी २२,  
 ६, ७; द्राथी; -दिपी आषम १  
 ११, ८, २; वैथी १४, ६ : १४;  
 -दीपि काथी ८, ४, १७;  
 आषम ११, १०, ८; १९, २६, ३;  
 वीथी ६, २६ : ८; माथी २, २,  
 ३, २४; हिथी.

a) = कलाप्यन्तेवाच्यन्तम-। मत्वर्थे इति: प्र. (तु. P.W. प्रश्.)। b) व्यय.। c) = आचार्य-विवेप-।  
 d) नाप.। ध्यु. ! <छत्र- + √अच्छ् इति अना. शक., छात्रा- + √कै इति [परो] शक., ✓छद् इति P.W. प्रश्.।  
 e) वैप १ द.। f) पा ६, ४, १६; १७ परासृष्ट: द.। g) = आतपत्र-। h) व्यु. ?। 'गुह्यछत्रम्, गुह्या विध-  
 रछत्रदद्याद्यः शिष्येभ्य च गुह्यछत्रवत्परिपालयः' इति पाम.। ✓शास्त्र> 'शास्त्र- (= शिष्य-)> नैप. यनि. इति तु मतम्।  
 i) तु. पागम.। j) विप.। वस.। k) समाहारे द्वस. समासान्तपृ ट्च प्र. (पा ५, ४, १०६)। l) = उपच्छद्-।  
 m) = छदिस-। इ: प्र. अर्त्त. (पाठ २, १०८)। n) सप्र. आषम १९, २६, ४ प्रश्. विशिष्टः पाथे. (तु. पृ १७५ f)।

छादिषेय- पा ५, १, १३.  
 छदिर-मन्त- मन्तम् माथी २,  
 १, ४, २९; -न्तेषु माथी २, २,  
 २, २८.  
 छदिर-दशी- -शौं आपथी ६,  
 २५, ६; वैथी २, १० : ७.  
 छदिप्-मन्- मन्-वाथी १, २, ४,  
 १९; -मता आपथी १०, २४,  
 २; हिथी ७, २, ३६; -मती  
 माथी १२, ६, ९; हिथी ७,  
 ५, १.  
 छन्न- पाठ ७, १४५; -ण्व द्राथी  
 २, ३, १७, लाथी १, ७, १५;  
 आण ३, ८, १९; -घना विष ९३,  
 १२; अथ ८, १.  
 छात्रिक- -कः विष ९३, ८.  
 छन्द्याम्/अस्, छन्द्यामासुः वृदे  
 ७, १५७.  
 छन्दस्- पाठ ७, २१९; -न्दः  
 आथी ७, १२, २; ६, २, ९;  
 शोथी; हिथी ९, ५, ४३<sup>१</sup>; या  
 ७, १२; १३; पा ५, २, ८४; पावा  
 ६, ४, १०६; -न्दस. आथी २,  
 १४, २०××, वीथी; पा ७, ३,  
 ७१, पावा १, १, ६; ५, २, ८४;  
 -न्दस-ऽन्दसः शोथी १६,  
 ८, ९; -ण्वन्सा आथी १, ३,  
 २२; ६, ५, २<sup>१</sup>; शोथी, आण  
 १, २४, १८<sup>०</sup>; कौस् ६८, १<sup>०</sup>;  
 २<sup>१०</sup>; -न्दसाम् आथी ७,  
 १२, २; १५, २; शोथी; -न्दमि  
 आपथी ५, १६, ४<sup>१</sup>; वीथी;  
 पा १, २, ३६; ६१; ४,  
 १××; पावा १, ४, ६०; ८०;  
 २, १, २××; -न्दती लाथी  
 १०, ६, ९; निस् ५, ३; २३;

२७; -न्दते शोथी १३, ५,  
 ४-६; वाथी; -न्दमोः निस्  
 ५, ४ : ८; -न्दःसु वापृथी ७,  
 २९ : ४; अशा १८, ३; या  
 १३, १३; -न्दांसि आथी १,  
 २, १<sup>१</sup>; ४, १<sup>१</sup>; ५, १४, ९;  
 शोथी १६, २६, २; आपथी १३,  
 २२, १<sup>१</sup>××; वीथी; या ७,  
 १२<sup>१</sup>; ८, २२<sup>१</sup>; १३, ७;  
 -न्दोमिः आपथी १३, २१, ३;  
 १६, २९, १; वीथी; -न्दोभ्यः  
 वीथी १७, २९ : ३०; ३४;  
 वापृथी; या १, १.  
 छान्दम- पा ७, ३, ७१;  
 पाग ५, १, १३३; -सः निस्  
 ३, १२ : १२; ७, २ : ६; कौस्  
 १७१, ३४; -सम् निस् ३,  
 ११ : २३; जैण २, ८ : १४;  
 वृदे २, १०१; अथ ८, ९; १९,  
 २१; -सस्य निस् २, १ : ३१;  
 -सानि निस् ७, १२ : १५; २१;  
 ५, २ : २३; -सेन निस् २, २ :  
 ४; ११.  
 छान्दसी- -सी निस्  
 २, १० : २२.  
 छान्दसक- पा ५, १,  
 १३३.  
 छान्दस-मडर- पा २, २,  
 ३८.  
 ण्छन्दः-य(क्ष)वा- -क्षे  
 अथ ८, ९; क्रा ३, ३, ५.  
 छन्दः-यवित्र- -त्रैः वापृथी ३,  
 १६ : ४.  
 छन्दः-पाद- -दाः निस् १,  
 १ : २.  
 छन्द पादा(द-अ)शर-

संयोग- -गात्र नाशि १, ३, २.  
 छन्दः-पुरष- -यम् शुभ ७,  
 १९६.  
 छन्दः-प्रायय-ग्रहण- -णम् पावा  
 ६, १, ७.  
 छन्दः-प्रमाण-लिङ्ग-दैवत-  
 -तानि आथी ५, १०, २६.  
 छन्दः-चिन्- -चिन् वीथी  
 १७, २८ : २; -चिन्तम् आपथी  
 १७, २६, २; वीथी.  
 छन्दः-चिति- -तिम् वाथी २,  
 २, १, २९; -तीः माथी ६, २, २,  
 २१.  
 छन्द-संयोग-रूप- -यः निस्  
 ५, ४ : १.  
 छन्दः-समनो(न-उ)पदेश-  
 -नाम् जैथी १७ : १५.  
 छन्दः-सूक्त- -क्तम् वृदे १, १६.  
 छन्दस्-नम् (ः) लाथी ६, १,  
 १९.  
 छन्द-स्तोम-रोह- -हम् निस्  
 ३, १२ : ४६.  
 छन्दस्-त्व- -त्वम् उनिस् ८ :  
 ३५.  
 छन्दस्त्व, स्या- पा ७, ३, ७१;  
 ४, ९३; पावा ७, १४०<sup>०</sup>; -त्यः  
 अण ७८, ९७; -स्यम् लुस् ३,  
 ८ : २; -स्याः वाथी १७, ९,  
 ९; १२, ४; आपथी; -स्यानि  
 निस् ९, ३ : २८; -स्ये निस्  
 ९, ३ : ४०.  
 छन्दस्या-यणु- -यणाम् चाथ  
 १६ : २९.  
 ण्छन्दस्-य(त्)नी- -नी  
 आपम २, २०, ३१; तंप्रा ७,  
 २०.

a) वैप १ द. । b) ठक् प्र. (पा ७, ४, ८) । c) <√छन्द इति । d) पाभे. वैप १, १३३२ b द. ।  
 e) सप्र. शोथी ७, २१, १२ विशिष्टः पाभे. । f) वृ. पागम. । जप. = मूर्खे- । g) पाभे. वैप १, १३३१ g द. ।

छन्दो-ग- -गः आधौ ८, ८,  
३५; अण २, ३, ४; ४, ३; ४४, २,  
४; बाध ३, १६; -गम् आधौ  
१३, १, ४; -गाः आधौ ६, ३,  
२१; १०, १५; आधौ; -गात्  
आधौ ५, २, ४; -गान् वीधौ  
१६, २८ : ४; ५; २१; वीधौ २१,  
१६ : १; -गानाम् वाधौ ३, २,  
२, ४, २; आधौ; -गैः आधौ  
५, १९, ६; आधौ १७, १४, १;  
जाधौ ९, ६, २; -गैः आधौ  
१०, ५, २०.

छन्दो-ग- -पा ४, ३,  
१२९; -ग्ये आधौ ८, १३, ३२;  
आधौ २२, ५, १; ६, २५.

छन्दो-ग-धुति- -तिः  
वैध ४, ८, ८.

छन्दो-ग-गुह- -रुगा अण २,  
५, १.

छन्दो-ग-तत् (:) वीधौ १४,  
४ : २८; ३१.

छन्दो-ग-प्रायय- -यम् आधौ  
८, १३, ३३.

छन्दो-ग-बह्वृच- -चाः वीधौ  
२३, ११ : ४; १८ : १७; -चेयु  
वीधौ १४, २६ : १; २३, ८ :  
२०; २२.

छन्दो-ग-वह्वृच-तत् (:)  
वीधौ १६, १० : ५.

छन्दो-ग-वह्वृचा (च-अ)  
ध्वर्त्-प्रवय- -येन वीधौ २४,  
१ : १३.

छन्दो-ग-आहण- -गम्  
आपधौ १०, १, ३; २, ५; वीधौ  
२, २ : २०, २५, ४ : ६५.

छन्दो-ग-वश- -शन आधौ

१०, ८, २१.  
छन्दो-ग-सूत्र-मानवसूत्र-  
-प्रयोः आधौ २७ : १.  
छन्दो-ग-ग- -गः आधौ १८, ३.  
छन्दो-ग-वृण- -णम् पावा ४, ३,  
१०, ४.  
छन्दो-देव(ता>)व- -गः या  
८, २२.  
छन्दो-देवता- -ताः शुभ ४,  
१३३.

छन्दो-देव(स्य>)या- -नया  
लुक् १, ८ : १८.

छन्दो-देवत-प्रतिरूप- -पः  
वैताधौ ३५, ५.

छन्दो-देवत-सामान्त-योग-  
-गान् लाधौ ६, ९, १.

छन्दो(न्दस्-अ)नन्तर- -रेण  
आधौ ६, ६, १७.

छन्दो-नामन्- -मिन् पा ३, ३,  
२४; ८, ३, १४.

छन्दो-नामानाम् माधौ २, १,  
४, ६५.

छन्दो-विषय- -धाः मीत् ३, २,  
३८.

छन्दो(न्दस्-अ)लुकम->प्रम-  
लक्षण- -गाम् मैथ १.

छन्दो(न्दस्-अ)लुकमण- -गम्  
थाम् १.

छन्दो(न्दस्-अ)लुकान्ति-  
विज्ञान- -नाय अण १८, २१.

छन्दो(न्दस्-अ)न्त- -न्तैः माधौ  
६, १, १, २३.

छन्दो-आह्वयचेल-काम- -मस्य  
आधौ १७, २.

छन्दो-आहण- -णानाम् पावा  
४, २, ६६; -णानि पा ४, २, ६६;

पावा १, ३, १०.  
छन्दो-भक्ति- -क्तिः नित् ३,  
४ : १.  
छन्दो-भाषा- -पाण ४, ३, ७३;  
-पा चल् २ : २९; -पाय्  
तैत्रा २४, ५.

छन्दो-भाष- -पा ४, ३,  
७३.

छन्दो-म- -मम् वीधौ १६, ६ :  
१-२; नित् ९, ६ : ३४; १०,  
६ : २२; -मयोः आधौ १२, ४,  
५××; -मस्य नित् ९, ६ :

३४; -माः आधौ ८, ७, १८××;

शाधौ; -मात् शाधौ ११, १३,  
१२××; -मान् आधौ ११, २, ३;

शाधौ; -मानाम् शाधौ १०,  
११, १०; वीधौ; -मे शाधौ

१२, ३, १७××; आपधौ; -मेभ्यः  
नित् ५, ६ : ६; -मेयु शाधौ

१०, ५, ५××; वैताधौ; -मौ  
शाधौ १४, ३९, २.

छन्दो-म- -मः शाधौ  
१६, २३, ६; -माः शाधौ १५,  
६, १; -मात् नित् १०, ६ : २१.

छन्दो-मिक्- -कम् या  
७, २३; २४; -कस्य आधौ ८, ७,  
२०; शाधौ १०, ९, ६; -कानि  
नित् ५, २ : २०; ७ : १७; -के  
आधौ २२, ६, २३; वृद्धे ६,  
१०-८.

छन्दो-म-चतुरह- -हः नित्  
३, ६ : १३.

छन्दो-म-ता- -तायै नित्  
१०, ७ : ९.

छन्दो-म-त्रिकृद्- -न्ः  
शाधौ १६, २१, १४.

a) वैप २, ३६, ६. b) विप. 1 वष. 1 c) श्लोकः पाठे, च वैप १ द. 1 d) = एकाह-विशेष-  
स्तोम-विशेष-प्रथ. 1 वैप १ द. 1 e) विप. 1 तात्रमात्रिकृद् टक् प्र. 1 f) = प्रथ-विशेष-1

छन्दोम-व्यह- हे निस् ८,  
६ : ७.

छन्दोम-दक्षरात्र<sup>a</sup>- -यः  
आपथी २३, ९, ८; १४.

छन्दोम-दशाह<sup>b</sup>- -हः बाथी  
२३, ५, ३१, २४, ४, १०; १५;  
-हम् बाथी १३, २१, १३;  
-हयोः लाथी १०, १०, १; -हे  
छम् ३, १ : १६; १० : ४१;  
१२ : २३.

छन्दोम-पवमान<sup>b</sup>- -नम्  
आथी १०, ३, १०, आपथी २२,  
२२, १८; द्विथी १७, ८, २२;  
निस् ८, १३ : २५; -नेन आपथी  
२२, १८, ८; २२, १७; द्विथी  
१७, ७, ३; ८, २२.

छन्दोमपवमान-वत्<sup>c</sup>-  
-तम् आथी १०, ३, ६.  
छन्दोमपवमाना (न-म्)  
न्तर्वसु- स् आथी १०, २,  
१२.

छन्दोम-प्रथमा(म-म्)न्व-  
-न्वयोः वैताथी ४२, ७.

छन्दोम-भक्ति- -कथः बाथी  
२६, २१ : ११.

छन्दोम-वृत्- -वत् आपथी  
२२, २४, ३; -वति छुत् ३, १ :  
१३; निस् ९, १३ : ३१; -वन्तम्  
आथी १०, ३, २४; -वात् निस्  
९, ५ : १.

छन्दोम-विशेष- -पः निस्  
६, २ : २१.

छन्दोम-भाट्टय- -इपात्  
निस् ९, १ : ३९; ४६.

छन्दोम-सामन्- -म् निस्  
८, ४ : १९.

छन्दोम-स्तोम- -मम् निस्  
१०, ६ : ११; ७ : ५.

छन्दोमे (म-ऽ)डा- -डाम्  
छुम् ३, १२ : १९

छन्दो-मय- -यम् वाधूथी ४,  
७२ : १; ६; सु १, २; -गौ  
बाथी १८, ३८ : ५; १४.

छन्दो-मान- पाग ४, ३, ७३,  
-नम् द्विथी २१, १, १४<sup>d</sup>, २,  
३२; नासि २, ६, १; -नस्य  
शाथी १, १, १९; -नेन नासि  
२, ६, २.

छन्दोमान- पा ४, ३, ७३.  
छन्दो-योग-पर्यन्त<sup>e</sup>- -वैणि निस्  
९, १० : १९

छन्दो-योग-विकार- -त् निस्  
६, ११ : १०.

छन्दो-न्य- -यः वाधूथी ४,  
२६<sup>f</sup> : १७, -येन वाधूथी ४,  
२६<sup>f</sup> : १८.

छन्दो-रु (<ह)-स्तोम<sup>g</sup>-  
-मस्य बाथी १०, ८, २१.

छन्दो(न्द-म्)थ- -थम् पावा  
४, ३, १०१; ८, १, ७०.

छन्दो-वा-वचन- -नम् पावा ६,  
४, १०६.

छन्दो-विचिति<sup>h</sup>- पाग ४, ३, ७३;  
-तिः आपथ २, ८, ११, द्विथ २,  
१, ११३; -निम् शंभ ११६ १९.

छन्दोविचि- पाग ३, ७३.  
छन्दो-विजिति<sup>i</sup>- (> छा)शोवि-  
जित- पा.) पाग ४, ३, ७३

छन्दो-विद्- -वित् उनिस् ८ :  
४१.

छन्दो-विषय-त्व- -स्वात् पावा  
१, १, ६; २, ६.

छन्दो-व्यतिक्रम- -मात् मीस्  
१०, ५, ८८.

छन्दो-व्यूह- -हे निस् ४, ९ :  
२३.

छद्, छा- पा, पावा ७, २, २७; -<sup>h</sup>षः  
वैथी २०, २४ : १; द्विथी २१,  
१, १; ३; -छम् बाथी १४, २२,  
९; बाथी; -छा काथी ५, ४, १;  
-छाः वाधूथी ४; ५७ : ४;  
-छाम् बाथी १२, ५, १०; वैथी.

छद्-नाप- -न्याः अप ५१, ५, १.

छद्मो(स-उ)पद्म- -छाः वाध  
१८, ७.

छादन- -नात् या ७, १२.

छादयत्- -यन् बाथी १, ३, ३, १३;  
गोत् १, ७, १२; ज्येत् १, १ : २०;  
बौत् १३७, ३६१<sup>f</sup>; अप १, ३२,  
८; -यन्तः शाथी ३, ४, ७.

छादयित्वा गौषि १, ३, १२.

छादित- पा ७, २, २७; -त्ताः उनिस्  
८ : १२.

छिन्दोऽयेन निस् ९, ७ : १६.  
छ-पर- छ- द्.

✓ छम् पाधा. अा. पर. बदने.  
छमण्ड- पाठ १, १२९.

✓ छम्पू ✓ वम्पू दि. द्.  
छम्पद्<sup>h</sup> पाग १, ४, ५७<sup>h</sup>; बाथी  
१७, ५० : १३<sup>h</sup>.

छम्बत् > छम्बत् ✓ छ, छम्बत्तुर्व-  
न्ति बाथी १६, १३ : ८<sup>h</sup>.

a) = अह-विशेष-। b) = अहीन-विशेष-। c) = अक्षरात्र-विशेष-। d) वस. > वस.। e) = याग-  
विशेष-। f) = शास्त्र-विशेष-। g) छादयन्तोश् इति पाठः ! \* वम्, भा, उत्त\* इति वि-पदः शोधः (द्र.  
मू. धे., अप. गोत्, ज्येत्, च)। h) वै १ द्.। i) द्र. पाघा.। छं वद्, \* इति भाण्डा.। j) पाधे. वैप १  
परि. छम्बत्तुर्वन्ति तै ७, ४, ८, २ दि. द्.।

छम्बल<sup>१</sup>- -लः द्वि २,७,२०.  
 छय<sup>२</sup>- -यम् संघ ११६: ५७.  
 ✓छद्, छरनि अण ४८,९१०.  
 ✓छर्द् पापा. चुता. उभ. वमने, छर्द्-  
 वधे कौत् २८,१: छर्द्वति काथी  
 २५, ११, ३२: छर्द्वेत वाधुथी  
 ३, १०४: १: ३: छाथी ८, १०,  
 ९: छर्द्वेत् आप्रिण ३, १२, १: २.  
 : छर्दन- -नम् गीष २३, २७: -ने  
 केष २, १२, ३.  
 छर्द्वित्वा बोधो २८, १: ९: वैधो  
 २१, १: ६: आषय १, १०, २२:  
 द्वि १, ३, ४९.  
 छर्दि<sup>३</sup>- -त्तां काथी २५, ११, ३२.  
 छर्दि-ज्वरा (८-अ)तिसार- -त्ता:  
 अण ५५, ४, २.  
 छर्दि(क>)र्दिका<sup>४</sup>- -का वाधुथी ३,  
 १०४: १.  
 छर्दिन- -नय वाध १३, ३८.  
 छर्दिवा आपथी १०, १३, ११.  
 छर्दिस्<sup>५</sup>- पाठ २, १०८: -र्दि:  
 आपथी ५, १३, १: ६, १७, १०:  
 बोधो: -र्दिवा बोधो १०,  
 ३१: ६: ३९: १५, ४६: ३८.  
 छर्दि-या<sup>६</sup>- -वी शैवि १२५१.  
 छल<sup>७</sup>- पाठ १, १०४: पाठ २, ४,  
 ३१.  
 छल-धूत-स्वपहार- -रे बोध ४,  
 ३, ९.  
 छल्यका- -काम् अण १, ९, ५.  
 छुधि, धी<sup>८</sup>- पाठ ४, ५६: -विम् पाठ

३, १२, ६: -थी निम् ६, ६: ११.  
 छुविका- पाठभोह २, २, १८.  
 ✓छय् वाधा. भ्वा. पर. द्विसायाम्.  
 छुगामा<sup>९</sup>- पाठ १, १२४: -र्ण-ग  
 आपथी ९, १८, ३: बोधो: -ग:  
 बोधो ६, ८: २१: २८, ९: १६:  
 द्विथी ४, ३, १: भीम् ६, ८, ३३:  
 -गम् काथी ६, ३, १८: आपथी  
 ९, १८, २: बोधो: -र्णस्व काथी  
 १६, ३, १०××: आपथी: -र्ण-ग  
 काथी ७, ८, १४: आपथी १०,  
 २६, ७: बोधो: -गः बोधो २६,  
 ११: २३: ३२: १९: -गानाम्  
 आपथी २०, १९, ५<sup>१</sup>: काथीसं  
 २६: ५<sup>२</sup>: बोधो: -गाम् बोधो  
 ६, १०: २: १४: १××: -गाथी  
 बोधो ९, ५: २××: वाधुथी ३,  
 १००: १०: -गेन भीम् ६, ८,  
 ४०: -गी: बोधो १५, २८: १६१.  
 छुगाम्- -गेन विष ८०, ९.  
 छुग-काल- -के माथी २, ५, ५, ८.  
 छुग-पक्ष- -क्षे कप ३, १०, ९.  
 छुग-मित्र<sup>१</sup>- (>०त्रि[क>]का,  
 'की- पा. ) पाठ ४, ३, ११६.  
 छुग-मेष- -गाम्याम् वाध ३, १२.  
 छुग-लक्ष्मण<sup>२</sup>- -गम् वय्यु २: ३०.  
 छुग-वृषभ- -भा: शेष ३०६.  
 छुग-ध्यान- -ने आथी ३, ४, १०.  
 छुग-पयम्- -य: बोधो ९, १:  
 ४××: -यता बोधो ९, ५: १५:  
 १०, ७: १३: वैधो १८, ३: ६:

-यसि बोधो ९, ४: २२: १७:  
 ९: १०, ८: ६.  
 छागो(ग-उ)ख-मेय- -या: काथी  
 २०, ७, १९.  
 रेछुग<sup>३</sup>- (>छाम्पाणि- पा.) पाठ  
 ४, १, १५५.  
 छुगारि<sup>४</sup>- -य: बोधोत्र ४१: १.  
 छुगालं- १छालि- २छगल- ३.  
 रेछुगालि<sup>५</sup>- -लय: बोधोत्र २६: ३.  
 १, २छगलेय- , णिम्- प्रह.  
 २छगल- ३.  
 छुगाल्य<sup>६</sup> अण ३६, २५, ४.  
 छागव्य<sup>७</sup>- -व्या: बोधोत्र ४१: ५.  
 छुगसि- -सय: बोधोत्र ४१: ४.  
 छुगाल्यस्त्व<sup>८</sup> वाधो ३, ३, १, ३८.  
 छात- पाठ ३, ८९.  
 छात्र- , छात्रक- प्रम्. ✓छद् ६.  
 छात्रि- १छत्र- २.  
 छात्रिकय- , छात्रन- प्रम्. ✓छद् ६.  
 छान्दि<sup>९</sup>- -न्दि: बोधोत्र २७: १.  
 छान्दोगि<sup>१०</sup>- -वि: बोधोत्र २७: १.  
 छान्दोग्य- , न्दोग्याय- , छान्दोग्य-  
 णिक- , छान्दोग्यमान- , छान्दो-  
 ग्यवित- , न्दोग्य- प्रम्. ✓छद् ६.  
 छाया<sup>११</sup>- -य: अण ७२, ३, ९.  
 छायाक<sup>१२</sup>- -कात् अण ३, ५, ११.  
 छा(य>)या<sup>१३</sup>- पाठ ४, १०९: पाठ  
 ४, २२: -यया विण ९१, ७:  
 योयु ८: ७: -या आपथी ११,  
 १०, ९१: बोधो: निप ३, ५११.  
 आज्यो १, ८: -यानाम् बोधो

a) = बालप्रद-विशेष-। व्यु. ?। b) कृपा. छम्बल: <> न्बल: इति पाठे.। c) सायदेव-विशेष-।  
 व्यु. ?। d) कृपायम् इति अणु २१२, २६ पाठः। e) अर्थायो वृत्तिः। f) = रोग-विशेष-। हः प्र. उरत्.  
 (पाठ २, १०८)। g) = रोग-विशेष-। णुल् प्र. (पा ३, १, १०८)। h) वैप. १६.। i) पाठे.  
 वैप १, १३१×०६.। j) = छाम्प-। व्यु. ?। <✓छिद् वा ✓जे (छ. क्भा.) वा इति पाठः, <✓स्त्वद्  
 इति इण्. प्रम्.। k) विप. (मात्-).। l) कानि-विशेष-। व्यु. ?। m) = परिशिष्ट-विशेष-। n) प्ररखतः  
 'ली-> -क्या: प१ इति स्यात् ?। o) पाठः ? इप्र. आपथी १८, १०, २५ पाल्यलक्षय इति पाठे.। p) कर्षः  
 व्यु. च ?। q) रह-नामन-।



९,७,११; निम् ५,५: २५.  
 छिन्द्र-प्राणिद्र- नि प्राणश्री  
 ९, १३, १५; १६, ८; भाश्री ९,  
 १५, ८; वैश्री २०, २७: २;  
 द्विशी १५, ४, १.  
 छिन्धि > प्थि-विचक्षण- पा २,  
 १,७२.

छिद्य, द्या- ष: अय ५०, ८, १;  
 -कम् शशी १३, १२, १३१<sup>०</sup>;  
 ऋशीश्री ३, १५: १८; २४;  
 वापुश्री; -स्य आपशु २, ११;  
 वीशु २: ५; द्विशु १, ३१;  
 -स्य द्विशु ४, ४, १५; -सा  
 आपशु २, १२; द्विद्य; -साम्  
 द्विशु ७, ४, ५०; -शे वीशु २७,  
 २: १२; द्विशु ३, ८, ५३; वीशु;  
 -श्री वैश्री १३, ७: १२.

छिद्र-क<sup>०</sup> > क-तरा (र-आ)  
 दि- द्य: पावा ५, ३, ७२.  
 छिद्र-यक्ष<sup>०</sup> -क्षाय शशी १२,  
 १६, १५.

छिद्र-मूल<sup>०</sup> -शेषु अय ६५, १, ९.  
 छिद्र-शीर्ष<sup>०</sup> -पाग २, २, ३०<sup>०</sup>.  
 छिद्र-स्तुक्र<sup>०</sup> -कस्य भाश्री ७,  
 ५, २<sup>०</sup>.

छिद्र-हस्त<sup>०</sup> -स्त: शंष ३७७:  
 १०.

छिद्रां (अ-अं)त-द्रव्य-  
 दशन<sup>०</sup> -नम् अय १८, २, ५१.

छिद्रा (अ-अ)प<sup>०</sup> -अ: वैश्री  
 १३, ७: १९; -अम् वैश्री १०,  
 १५: १४.

छिद्रा (अ-अ)अ- शेषु अय

६५, १, ६.  
 छिद्रो (अ-अ)ह<sup>०</sup> -अ: शंष  
 ३७७: १०.

छेत्तस्य, स्या- न्यम् वीशु २४,  
 ३२: १९; २१; शंष २६०;  
 ३२२; -स्या वीशु २४, २३: ५.

छेत्स्यत्- स्यन्त: द्विशु ४, १, १०.

छेद- पाग ४, १, ४१; ५, १, ६४;  
 -द: शैशि १८१; माशि ९, ६;  
 माशि २, ८; माशि १, ६, ११;  
 -दम् आपशु ५, ९; द्विशु २,  
 १८; -दे भाश्री ६, १, २, २४;  
 वेद ६, १, १८; तुष ४७.  
 छेदी- पा ४, १, ४१.

छेदिक- पा ५, १, ६४.

छेद-नाहो (ह-उ)पयात- शेषु  
 वीशु २७, १: २३.

छेद-संहि (त>)ता- शेषु वीशु  
 २०: २२.

छेदा (द-आ)दि-पविद्र- विन्ध:  
 पावा ५, १, ६७.

छेदन- नम् या ११, ३७; पावा  
 १, ४, २३; -ने विध ५०, ४८;  
 पावा १, ४, २३.

छेदन-ज्ञान- नाय वीशु २६,  
 २३: ४१<sup>०</sup>.

छेदन-भेदन-खनन-निरसन-  
 पित्त<sup>०</sup> वाक्ष्य-नैवेत-रीद्रा (द-अ)-

भिचरणीय- शेषु वीशु ३, १३,  
 ४; वीशु १, ७, ६.

छेदन-भेदन-भोजन-मौमुन-  
 -नाति आ ४१, ३, ३.

छेदन-भेदन-विलिखन-विमर्दना-

(न-अ)वस्तोदन- -नाति गोष  
 ९, ५१.

छेदन-भेदना (न-अ)वदारण-  
 दहन- शेषु अयाय ६, ९.

छेदन-मन्त्र- -न्त्र: द्विशु ३, ८,  
 ५३.

छेदन-संमार्गा (न-अ)वदान-  
 -शेषु गोष ११, १, ३६.

छेदम् लाश्री ८, ५, ४.

छेदयत्- यत् अय १, ९, ८.

छेदयिता शशी १७, १, ८; वैश्री.

छेदि- पाठ ४, ११९.

✓ छिद्र पाया. जुरा. उम. कर्णभेदने,  
 कर्णभेदने इत्येक.

छिन्द्रत्, छिद्र- प्रथ. ✓ छिद्र द.  
 छुच्छुन्द्रि<sup>१</sup> - शि विध ४४, ३१.

✓ छुद्र पाया. तुदा. जुरा. पर. छेदने.

✓ छुद्र पाया. तुदा. पर. संवरणे.

✓ छुद्र पाया. तुदा. पर. स्थौं.

✓ छुद्रुक्त<sup>०</sup> - काठ पाठ ३, ६, २; दंदि  
 २, ९.

✓ छुद्र पाया. तुदा. पर. छेदने.

छुति(क>)डा- पाठनाइ २, ४४.

✓ छुद्र<sup>१</sup> पाया. रथा. उम. दीति-  
 देवनयो; जुरा. उम. संदीपने,  
 ऋणुणु वीशु ९, ४: १७<sup>०</sup>;  
 भाश्री ४, १, २९; ऋणुणु वीशु  
 ९, २१: १८; ४, १८<sup>०</sup>.

✓ छुद्र पाया. जुरा. उम. संदीपने.

छेक- पाठमो २, २, ६.

छेत्तव्य-, छेत्स्यत्-, छेद- प्रथ.,

छेदिक- ✓ छिद्र द.

✓ छे<sup>०</sup> पाया. दिवा. पर. छेदने.

a) पाणि. पृ १०९० k टि. द. । b) पाणि. वेप १, १३३६ c द. । c) कद्र प्र. (पा ५, ४, ४) ।  
 d) विप. । वत. । e) तु. पागम. । f) तत्र. आपश्री ७, ६, १ छलस्य इति पाणि. । g) बस. > कस. > पस. ।  
 h) आयाय इति पाठः ई यनि. शोधः (तु. भवराशिभाष्यम्) । i) ऋणुणु इति पाठः ! यनि. शोधः [तु. वीशु. ] ।  
 j) = प्राणि-विशेष- [छुद्रुद्र इति नमा. ] । न्यु. ? । k) वेप १ द. । l) पा ७, २, ५७ परासुष्टः द. । m) पा २,  
 ४, ७८; ७, ३, ३७; ४, ४१ परासुष्टः द. ।

†छठि आपथी २०, १८, १; वाथूथी ३, १४ : १५; हिथी १४, ४, २०; शुभा ४, १५५.

✓स्यु पाघा. भ्वा. आत्म. गती.

ज

१जू- शुभा ८, १०; पि १, ६०.

२जू- औ वेज्यो १८.

जौ > जावा(जौ-आ)घं(दि-अं)श-  
-थी: वेज्यो १७.

१जू- -ज: शुभा ४, १६६; शैशि २०५; भाशि २.

जकार- -रम् तैरा ५, २३.

जकार-लकार- -रयो: श्रभाउ, १०

जकार(र-आ)दि- -रियु अभा २, ४, १५.

ज-ज- -औ भाशि ६०.

ज-र- -र: तैरा ५, २३.

ज-भाव- -व: पावा ६, ४, २२.

ज-शब्द- -न्द: यशि २, ५२.

२ज- ✓ज्व द.

✓जंस पाघा. सुरा. पर. रक्षणे.

✓जध्र पाघा. अदा. पर. भङ्गहसनयोः,  
जक्षनि अय ४८, ५३१.

जक्षिवस्- ✓षम् द.

†जक्षु: † शोधो १८, २१, ११; काथी १३, २, २४.

जगत्- पाठ २, ८४; पावा ३, २, १०८; -†गत् आथी ४, २, ५; आपथी ९, १०, १४××; वीथी, हिथी १५, ७, २३४; आपथ १, १,

१०; हिथ १, १८, ५; या ५, ३१; ९, १३१; -†गत्: आथी ४, १२, २; शोधो: अय ४८, ७८; निप २, ३; या १२, १६१; -†गति वीथ २, ८, २९; भाथ ३, १३: १०; अय १, ३८, ५; अदा ८, ५, विष २०, २७४; वृदे ४, ३७४. जगत्- पाग ४, १, ८६; शोधो ७, २७, १××; काथी: या ७, ११; १३१; -†थी: काथी १७, १२, ७; आपथी: -तीनाम् शोधो १३, १०, ५; श्रम ४, ५; -तीभि: आथी ६, ३, ९; शोधो ८, ९, २१; आपथी: वीथी १, ९, ८१; -तीम् आथी १, ४, ९१; शोधो, -तीपु जुव ३, ११ : १६; निव ५, ९ : १; १०; -रव: आथी ६, २, ६; शोधो; अय ३, २६; -†र्या आथी ३, १२, २२; ४, १२, २१; काथी; कौत् १३, ६; -र्या: शोधो ७, २७, १७; २६; आपथी, -र्याम् निव ५, ३: ३३; ३७, अय २०, ७, ११; श्रम २, ६, ७५, -र्यै शोधो १३, ५, ६; काथी, -र्यो: निव ९, २ : १३; -र्यो भाथी ९, १६, १४; हिथी.

जगत्- पा ४, १, ८६; -त: शोधो १५, १०, ३; आपथी; -तम् आथी ४, १३, ७××; शोधो; -तस्व शोधो ९, ८, ३××; लाथो ७, १०, १२; निव ८, ४ :

६; -जा: आथी ४, १२, १; -तार शोधो ९, २०, १८; श्रम १७, ४४; -तार आपथी १३, १८, ८; २०, २०, ११; वाथी ३, ४, ५, ६; हिथी; -तानि शोधो १०, ११, ११; १२, १०, २; जुव ३, १० : २८; १२ : १६; निव ९, ५ : २८; -ताभ्याम् पि ३, २४; उनिव १ : ५८; -ते शोधो ७, २६, ६; आपथी; -†तेन आथी ६, ५, २; शोधो; कौत् ३, १०; -†तेभ्य: शोधो ९, २७, ११; -ते: पि ३, ३५; -तो श्रम १, ६, ३××; शुभ.

जगती- -ती निव १, १ : २३; -तीम् अयाय: २, ११; शुभ १, ४४८.

जगत्-गायत्र- -त्राभ्याम् उनिव १ : ४०; पि: ३, १६; -त्री श्रम २, ३, ५१.

जगत्-ता- -तया निव १, १२ : ५.

जगत्-य(द>)दा- -दा श्रम १, १०, १; शुभ ५, ७१-

जगत्(त-अ)जग- -गम् पाशि ८.

जगती-ना(र्भे)>र्भा- -र्भा अय ८, ५; १०, ५; ११, २.

†जगती-छन्दस्- -न्दसा वीथी २३, १३ : ३३; २६, १५ : ११; १८; २७; जैथीका १४६.

a) ✓व्यु, ✓वृत्, ✓वृ, ✓ज्यु, ✓स्यु इति BFG. । b) = बर्ष-विशेष- । c) = ज-नाण- [छन्दो-गण-] । d) = अश्वयुज्- [अश्विन-नाक्षत्र-] । e) पा ६, १, ६; ७, २, ७६; ३, ९८; १९ परामृष्ट: द. 1. f) पाठ: ? चक्षु: इति शोध: (द्र. BC.) । g) वैप १ द. । h) पाभे. वैप १ हृषि: काठ ३५, ४ टि. द. 1. i) पाभे. वैप १ पशुम् शौ ८, ७, ११ टि. द. 1. j) मनुष्य-नामन्- । k) पाभे. वैप १, १३३८ अ द. 1. l) ज्यौ इति पाठ: ? यनि. शोध: । m) पाभे. वैप १, १३३८ द द. 1. n) ज्येते इति पाठ: ? यनि. शोध: (द्र. ते ४, ४, १२, २) । o) पाभे. पृ २०१ अ द. 1. p) = छन्दो-विशेष- ।

२१जगती-छन्दस्-न्द्रसः  
 वीथी ८, १२:३०xx; वैथी १६,  
 १४:१०; -न्द्राः आपथी १२,  
 ४, ९; वीथी; जैथी ११:  
 १८०.  
 जगती-त्रिन्दुस्-न्दुवी  
 शुभ २,४४४.  
 जगतीत्रिन्दु-अन्त-  
 -न्तम् शश्र २,६,६१.  
 जगती-भातः-सवन- -ने  
 वीथी २६,१५:१२.  
 जगती-शंसस् शोथी ११,  
 १५,११.  
 जगती-संप(स)>था-  
 -थाः लाथी २,४,११.  
 जगाय- पा ४,४,१२२.  
 जगाय(ती-अ)श्र- -न्तम्  
 शश्र २, १, ८२xx; अश्रम् १;  
 शश्र १६,११.  
 जगाय(ती-अ)श्र- -थं शश्र  
 २,६,७५; -थं शश्र २,१२०.  
 जगाय(ती-आ)दि- -दि  
 शश्र २,१०,८३; १७७.  
 जगायु(ती-अ)श्र- -रः  
 शश्र १८,२९.  
 जगाय-छन्दस्-न्द्रसः शोथी १४,  
 ३३, १४:१५; काथी २५, १२,  
 ६; माथी २, ५, १,३३;५०;  
 -न्द्रसानिम् ३,६:२९; -न्द्राः  
 शोथी ६,८,१२; काथी १३, १,  
 ११; माथी २,५,१,२२.  
 जगत्-कारग-कारग- -यम् विष  
 १,६१.  
 जगत्-पुतीयसवन- -नः वीथी

१६,१०:६.  
 जगत्-पति- -०ते विष ९८,११.  
 जगत्-परायण- -०ण विष ९८,  
 १००.  
 जगत्-प्रभु- -भुः श्र ४,१,२१.  
 जगत्-भातः-सवन- -नः वीथी १६,  
 १०:६.  
 जगत्-संभूति-संश-संहारे(र-ए)  
 कत्रिनोद्->दिन्- -दिने  
 शैति ३.  
 जगत्-सामन्- -मिन मीम् १०,  
 ५,५८.  
 जगत्-सामन्- -मा आपथी १२,  
 १४,१; माथी २,३,५,२.  
 जगत्-स्वामिन्- -मिनि श्र ७१,  
 १९,६.  
 जगद्-(हि)>थित- -वाय श्र  
 ५१,१,२.  
 जगद्-वीज- -जम् शुभ ३, १३७;  
 शश्र ३,६.  
 जगद्-वृत्ति- -सयः निम् ५,९:४.  
 जगद्-वाय- -०य विष १,५०;५८.  
 जगद्-माप्यंदिन्- -नः वीथी १६,  
 १०:८.  
 जिगता आपमं २,१५,४; आप्रिय २,  
 ४,१,१५; काथ ११,२; माथ २,  
 ३:८ माथ २, ११, १२; हिथ  
 १, २७,४.  
 जिगति निप २, १४१.  
 जिगद्- पाथ ३, ४,४३:८.  
 जिगति निप २,१४१.  
 जगुर्- -निः या ११,२५१.  
 जग्ध- प्रथ्. ✓घम् ६.  
 जग्मि- , जग्मिन्- , जग्मु- ✓गच्छ

द्र.  
 जगत्सान- ✓प्रम् ६.  
 जघन- पाठ ५, ३२; पाग ४,३,  
 ५४; ५,३, १०३; -नम्. वीथ  
 १३९,१५१; श्र ५, २,२००;  
 -नाम् या ९, २०१; -नानि या  
 ९,२०३; -ने वीथि ३, १,१२१;  
 वैथ ३, १४:४; कौत् २५, १७;  
 ८०, ३३; माथि ९, ३; -नेन  
 शोथी १६,१,७; १७,५,८; १०,  
 ४; आपथी; वीथि १, १४:  
 १३१.  
 जग(न->)जी- -नी मीम् ३,  
 ३, २०; -नीः वीथी १७, ५:  
 ८१; २६, २२:१२; -नीनाम्  
 वाथी ३, २, ६, ५४; -नीभिः  
 आपथी १४, ७, ११; हिथी ९,  
 ८,४२; -नीम् आथी १२, ९,  
 १०; काथी; -न्या काथी ६, ९,  
 १४;१९; आपथी; -न्याः माथी  
 ७,२२, १०; वैथी १०, २१:  
 १७; -न्याम् वैथी १०, २१:  
 १९; -न्यै आपथी ७,२७, १०;  
 वीथी ४, १०:१६; १७;  
 २०,३१:५; ७; ८; १०; हिथी  
 ४,५,४६; ५०.  
 जघनी-गुद- -न्म काथी  
 ६,८,१३.  
 जघनी-शोय- -यम् माथी ७,  
 २२,१४; हिथी ४,५,५१.  
 जघन-न्दुभि- -निम् आथी २,  
 १०,१४१.  
 जघन-तम् (ः) कौम् ७५, १३; १८;  
 ८१,२११.

a) विष. 1 दस. 1 b) पाठे. वैष २,१३. जगच्छन्द्राः ता १, ५, १५ टि. द. 1 c) = [जगतीछन्दस्] कर्ष-व. 1 d) यव->दम->कम. 1 e) मलो. कम. 1 f) पाठः ? पति. ?जगत्सा<>?जगद्दे:<>?जायताम् दति. सच्छोषार्थः तु. सयय. टि. यव->नयः 1 g) लघुकारोपः पाठः 1 h) वैष १ द. 1 i) श्वेन इति पाठः ? यनि. शोथः 1 जैथे इति द. 1 j) पाठे. घृ २५३ द. 1 k) = पशु-पुच्छ- 1 l) वल्लरेण संधिरावः (तु. संकतां [LVI, LVIII]) 1

जयन-देश- - दो कौस्तुभ ४४, ७.  
जयन(न-श्र)र्ध- - धाव वाथी १, ६,  
७, ४; आसिष्ट ३, ९, ३: ९; बौध  
२, ७, ६; बौध ३, ४, ७; -र्ध  
आपथी १९, ११, ११; द्विथी  
२३, २, ११; जैथी १९: १४;  
आपथ १२, ४.  
जयन्य, न्या<sup>श्र</sup>- पा ४, ३, ५४; ५, ३,  
१०३; -न्य: आथी १, १३, ७;  
शाथी ३, ६, २६; आपथी; -न्यम्  
शाथी २३, १२, ६; आपथी; -न्यम्  
ऽ-न्यम् आपथ २, ११, ११;  
-न्यस्य शंघ ३३२: -न्या आपथ  
२, १४, ११; आसिष्ट २, १, ३:  
२३१; भाय १, २३: १५१; द्विष्ट  
२, ३, ७१; शंघ ८५; -न्या: वैष्ट  
३, १: १२; -न्यान् गोथ ५,  
२६; -न्यानि आपथ २, १६, ६;  
द्विष्ट २, ५, ६; -न्याम् आसिष्ट  
३, ५, ३: २; कौस्तु ८१, २०;  
-न्याथान् आपथी १९, २६, १०;  
-न्ये द्विथी २२, ६, १०; -न्येन  
वाथी ३, ३९: २३.  
जयन्य-ज- -ज: वृदे २, ६१.  
जयन्य-तर- -रे लाथी ८, ४, ६.  
जयन्य-वाप्य- -न्यान् बौथी  
१८, २०: ५.  
जयन्य-विधि- -धे: लाथी ९,  
७, ७.  
जयन्य-वग्या- -न्याम् लाथी  
८, १२, २.  
जयन्य-संवेदि- -थी हाथ १,

११; आपथ १, ४, २६; बौध १,  
२, २२; द्विष्ट १, १, १४७; बौध  
२, २७.  
जयन्य-सम-ममाना(न-श्र)मना  
(न-श्र)नुचरण- -गानि वैथी  
१७, १८: ९.  
जयन्य-स्तवन- -नम् लाथी  
१०, ९, ४.  
जयन्या(न्य-श्र)द्व- -ह सु बौथी  
११, १: १३; १८, २०: ६; २२,  
१३: ९; २६, ३२: १.  
जयन्यो(न्य-उ)र्क- -के बौथी  
१६, २९: ६; ३०: २.  
जयन्यवस्- , जमि- , जमिवस्- ✓द्व  
द्व.  
जयन्तु- पाठो २, १, २०.  
जयन्तु- प्रय. ✓गच्छ द्व.  
जयन्तु- पाठो २, ३, ९५; -लम्  
आ ५७, ३, ४.  
जयन्तु- -लम् विध ३, ४;  
-लानि आपथ ३, १०; -ले आप  
६२, ३, ४.  
जयन्तु-धेनु-बलजा(ज-श्र)न्त-  
न्तस्य पा ७, ३, २५.  
जयन्तु-यथ->जयन्तुपथिक-  
पावा ५, १, ७७.  
जयन्तु- -द: अथी १९, ६; अथ  
१९, ३४; -दम् अथी १९,  
६.  
जयन्तु-देवताक- -कम् अथ २, ४.  
जयन्तु-मणि- -गिम् अथ २, ४.  
जयन्तु- , जयन्ति- ✓द्व द्व.

ज(क्र- )हा<sup>श्र</sup>-पाठ ५, ३१; पाठ<sup>श्र</sup> ४,  
१, ९६; ५, २, ९७; -हयो:  
वैताथी ३, १४; भाय ४, ३, १४;  
वैष्ट १, २: १२; आप ९, ३,  
१; शंघ १०२; विध ९६, ६४;  
-हा आप २२, ४, ४; -हामि:  
भासि ३९१; -हाम्याम्  
आपथी १९, १०, २; वाथी ३,  
२, ७, ३६; द्विथी २३, १,  
५२; आपथ १, १७, ४४; द्विष्ट ९:  
१०९; -हाम् शाथी ३, ४, १७;  
५, १, २५; लाथी १, १२, ३; २,  
५, २०; -हापा: आपथ २, २०,  
१४; द्विष्ट २, ५, १०१; -ह  
शाथी १५, १९, ११; वैथी.  
जादिक- -कम् शंघ २५५.  
जहा-क<sup>श्र</sup>- पा ३, २, २१.  
जहा-द्वय- -यम् विध ९६, ९०.  
जहा-प्रह- (>जाहाप्रहति-  
पा.), जहा-प्रह<sup>श्र</sup>- (जाहाप्रह-  
ति- पा.), जहा-प्रह<sup>श्र</sup>-  
(>जाहाप्रहति- पा.) पाग  
४, ४, १९.  
जहा-भात्र- -त्रम् अथ ३०, १, ४.  
जहामाथी- -त्रिम् वाथी १६,  
६, २३.  
जहान-य- पाग २, ४, ६३.  
✓जह<sup>श्र</sup> पाधा. भा. पर. युदे.  
✓जह<sup>श्र</sup>, >जह<sup>श्र</sup>(त) ती-  
-ती: निघ ४, ३; या ६, १९.  
१जहान- ✓जन् द्व.  
२जहान- ✓हा द्व.

a) वैष्ट १ द्व.। b) = पथिम- , नीच-। c) विध. (यव- )। उत.। d) तुम्. उप. माप.।  
e) द्वन्. > षष्ठ > इम.। जयन्यसमानना इति नैर्कर्तुं रमिनः ?। f) त्वग.। बम्.। g) = अरण्य-। व्यु. ?  
< ✓गल् इति शक.। ✓जन् इति पाठो.। h) अर्थः ?। i) द्व. पागम्.। j) व्यय.। k) पाथे. वैष्ट १  
प्रासिङ्ग्याम् क्र १०. १६३, ४ टि. द्व.। l) विध. > नाव. (जहाजयदेव-) राजकुन्-। द्व. विवाहरलाकरः  
पृ ६९३।। तस्येदमोयत् रूफ प्र. कर्त्त. (पा ४. ३, १२४)। m) = दूत- (= जादिक-। द्व. राजनरक्षिणी ७, १२४  
अमा. शक. च) इति, जहारिक-। द्व. कौटिल्यार्थशास्त्रम् २, १, १९। इति च)। उत.। n) द्व. पाधा।

जञि- ✓जद् द  
जञ- ज-इ  
✓जञ् पाषा भ्वा पर सुप्ते  
जञ- पाग ६,१,१६०  
जञ्- > जञ्णा ✓भू >  
जञ्णा-भवत्- वद् अप ४८,  
२०, निप १,१७  
जञ्जप- ष्- ✓जद् द  
जञ्जभत्- नान- श्यमान-  
✓जम् द  
✓जद् पाषा भ्वा पर सघते  
जग- पाठ ५ ३०, पाग ५ २,  
१७, १००, १२७, -दा कौशि  
५४, -दा वाग् ४,१, जै ३,  
११ १, रुध १५२ ६, -दाम्  
कौश ५३, ५७, -दाया कौशि  
५५ -दाम् कौशि ५६  
जाञ्- ष्य या १, १४  
अद- पा ५ २, १२७  
जटा-करण- षम् वाग् ५, ४,  
-गेन वाग् ९, २  
जटाकरणीय- यान् वाग् ५,  
१०  
जटा घर- र वेध १, ७, ६  
जटा धारित्- री वाय ३८१  
जटा-स्- पा ५, २, १७  
जटा-शोम-नख- न्वाति पाग् २,  
६, १७  
जटा-दमधु-शोम-नख- न्वाति  
वेध ३, ५७  
जटा-दमधु-शोम-नख- न्वात्  
वाग् ३, ५ -वात् विध ९४ ९  
जटित्- डी आमि १, १, ४

४६, २७, १० ४, वै २, ६,  
११, वि १ ६, १०, अप ४०,  
२, ९, राध ३६९, वैध १, ३, ६  
जटिल, ला- पा ५, २, १००,  
-ल सु १६, ५, काट १, २४,  
वाध, -वात् माग् २, १४, ९,  
अप ५३, २, ३, -वात् अप ६६,  
२, ६, २, २, -वात् अप ३६, १,  
४, १३, -लैत विध २८, ४१  
जटायु- पाठभो २, १, ४  
जटायुस्- पाठव २, ११८  
जटालि- पाठव ६, २२  
जटि- पाठ ४, ११८  
जटिल- पाठव ५, ५३  
जटिलक- पाग २, ४, ६१  
जटिलक- (> जटिलक- वा)  
पाग ४, १, १२२  
जटर्- पाठ ५, ३८, पाग २ २,  
३८ ४, ११, -रम् आधो ६, ३,  
१५, आधो, या ४, ७४, -वा  
आधो ६ २१, १, आधो  
१४, ७ १३, २६, ७ १६,  
वाधो ३, ५४ १, ४, १०२ :  
२, -वा आधो १, १३, १, ६  
३, १६, आधो, वेताधो १२ ८  
आन्- रम् माति २, ६, ७  
जट वत् ( ) आमि ३, १, १ : १०,  
वैपि २, ६, २  
जटल्- पाग ५ १, १२३, -द  
आमि ३, १०, १ ४, वैपि ३  
५ २, राध ३७८, -दम् अप  
३, २, ४, -दम् गौध २८, ४५  
-द अप ३ २, ५

जाञ्- पा ५, १, १२३  
जड शीव- यौ गौध २८, ४४  
जड-सूका(कञ्)ग्ध वधि-वृत्त-  
वामन-वृत्तक- वात् कप्र १,  
६, ५  
जडिमन्- पा ५, १, १२३.  
जडल्- (> जाडायन- वा) पाग ४,  
१, १०  
जडु- वव अप ४८, ११५.  
जट्- (> जाडायन- वा) पाग ४,  
१, १९  
जटु- पाठ १, १८, पाग ४, २,  
६०, -ल वाध २, २६, -तना  
कौस् १३, ३, २६, २१  
जट्- पावा ४, १, ७१  
जटविल- पा ४, २, ६०  
जटु, वृत्त- पाग ४, १, १०५<sup>m</sup>,  
२, १११, -र्णाय आमि १,  
२, २ १८  
जातुकर्ण- णि वाधो ४,  
१०८ ३, ५  
जातुकर्ण- ण्याय वीट् ९, ५,  
जातुकर्ण- पाग ४, १, १०५<sup>m</sup>,  
-र्णम् वाग् ४, १०, ३, -र्णाय  
वौधो ४ ५ ३, -र्णाय भाग्  
३, १० ३  
जातुकर्ण- पा ४ १, १०५ -ण्य  
वाधो १ २, १७, ३ १६, १४,  
२०, १६, १६ २६, ६, वाधो ४,  
१, २६ २०, ३, १७ २५, ७,  
३७, अप १ ३, १, -ण्यम् अप  
४३ ४, ४०, -ण्यम् सुधा ४,  
१२५, १६०, ५ २२, -ण्याय

a) वेप १६ । b) = दीर्घकेश-सघात, आह्वत्तद्-सघात [जटापाठ ]। c) < ✓जन् ।  
d) मत्वर्थाय प्रण प्र उत (पा ५, २, १२०) । e) व्यप । म्यु ३ । f) तु पाका । षिका- इति भाएडा ।  
g) तु पागम । h) पामि वेप २, ३३३ गोमा १, २, ७ टि ६ । i) जडम् इति काञ्चि, लास । j) = मूर्त्त- ।  
क्यु ३ < ✓जल् इति भमा । k) = जलु- । सपा जडव <> जलुह इति पामि । l) = लास- ।  
m) तु पाका । आतुकर्ण- इति भाएडा । n) उत्तरेय सधिरार्थ ।

हिय २, १९: ६.

२जातृक- पा ४, २, १११.

जतुफ- पाग २, ४, ६९<sup>b</sup>.

जतुफक- पाग २, ४, ६९<sup>b</sup>.

जतु- पाठ ४, १०२; -तु: विप २६, ७१; -तुम्य: काथी २५, ५, ३०<sup>f</sup>; काय २७, २<sup>f</sup>; -तुगाम् आपथी १५, १५, १; भाथी ११, १५, ९; -तुगि वैथी १३, १७, ५; -तु: वैथ २, ५: ८.

✓जन्<sup>०</sup> पाथा. उ. पर. जनने; दिवा. आत्म. प्रादुर्भावे, ऋजनिव्य > प्वा आपथी १६, ३, ७<sup>f</sup>; वैथी १८, १: ४३<sup>f</sup>; हिथी ११, १, ३२<sup>f</sup>; ऋप्रा ७, ५६; तैप्रा ३, ८<sup>f</sup>.

जजनत् शांथी १०, १५, ६<sup>f</sup>.

जायते ऋआथी २, १६, १९x; ऋगथी; आपथी २, १, ३<sup>f</sup>; वैथी १, १०: २०<sup>f</sup>; भाथी २, १, ४<sup>f</sup>; हिथी १, ६, ६१<sup>f</sup>; वीपि ३, १२, ३<sup>fb</sup>; जायते वैथी १८, ५०: २६, वाधुथी ४, ८३: ९x; जायन्ते शांथी १५, १८, १<sup>2</sup>; आपथी; ऋजायसे आपमं २, ११, ३३; १४, ३; आय; ऋजायत् आपथी ८, १, ९; शांथी १०, ८, १, १८, २३, ११; ऋथ २, १, १२८; जायते वैथी १८, १५: ५<sup>f</sup>; जायाते वाधुथी ३,

१२: १०; जायाते वैथी १०, २४: १९<sup>f</sup>; ऋजायथा: आपथी ८, ५, १२; १०, २, २२; शांथी; ऋजायताम् शांथी ४, १४, ३६; १५, १८, १; काथी; आय २, ८, १६<sup>f</sup>; आयि १, ५, ५: १४<sup>f</sup>, हिथ १, २५, १<sup>fb</sup>; जायेताम् हिथी १५, ४, १४<sup>f</sup>; ऋजायन्ताम् शांथी १५, १८, १<sup>2</sup>; माय; ऋजायस्व आपथी ५, १०, ९; भाथी; ऋजायत् वैथी १०, २२: ८; वाधुथी; भजायेताम् ऋथ २, १, १६६; ऋजायन्त वैथी ७, ४, २०; सुया ४, ७८; ऋजायथा: आय ४, ३, २७; कौत् ८१, ३०; जायत् शांथी १५, १८, १; काथी; जायेयाताम्<sup>1</sup> आपथी ९, १४, ७, भाथी ९, १६, १३; वैथी २०, ३०: १, ऋप्राय ५, ५; जायेत् काथी २२, ३, २; आय १, ७, ३; आय. ऋज्जे आपथी ३, १२, २२x; शांथी; वाथी १, ४, २, १०<sup>f</sup>; ऋप्राय ५, १<sup>f</sup>; ऋजान आपथी ६, १४, १६; शांथी, ज्जाते वृदे ३, ११; ६, १६३; या १२, १०; जज्जु: आपथी ३, ८, १<sup>f</sup>; जज्जिरे शांथी १५, १८, १<sup>f</sup>; वाधुथी; ऋज्जिषे या १, १५,

अप्रा १, १, १२; ऋजनिवा भाथी ५, २, ४, ६; ११, ५; ऋजनिव्यते काथी १२, २, ८; आपथी; जनिव्ये शांथी १, ५, ९; वृदे ४, १३०; जनिपिय अथ ९, १<sup>f</sup>; ऋजन्<sup>०</sup> आपथी ५, ११, २; वैथी १, ११: १; ऋजनि शांथी १५, १८, १; आपथी; अय १, १७, १९<sup>f</sup>; जानि ऋप्रा ९, ४७<sup>f</sup>; ऋजनिट आपथी ३, ७, ८x; शांथी; या २ १९; जनिटो(ट-उ) या ११, ३९<sup>f</sup>; अजत् शांथी १५, १८, १<sup>2</sup>; माथि ६०; ऋजनिष्ठा: कौत् ६०, २३; ७०, १; गो २, ६, ७; वैथ १, १०, ३२<sup>f</sup>; ऋथ ११, १; ऋजनिष्ठा: आपथी ५, १४, १९; ९, २, ५; शांथी, ऋजनिद्वम्, जनिद्वम् गो २, ९, १०.

भजायि<sup>०</sup> या ६, १५.

जनयते अय ५३, ५, १; ६५, १, ३; पाथि ९; जनयति ऋआपथी ९, ९, ११x; वैथी; कौत् ५९, १९<sup>f</sup>; जनयत: आपथ १, १, १८; हिथ १, १, १७; जनयन्ति वाधुथी ३, १३: १४; ४, ११६: ३; निथ; ऋजनयत: आपथी ५, ८, ६; वैथी २, १५: ९; हिथी ६, ५, १०; ऋजनय > या जेथी १२: ५; आपमं; जनये आपथी

a) व्यप. १ व्यु. १।

b) तु. पागम. १

c) वैप १ द. १।

d) शोध: वैप १, १३४०

m. d. १। e) पा १, ३, ८६; २, ४, ८०; ३, १, ६१; ६, १, १२२; ४, ४२; ४३; ९८; ७, २, ७८; ३, ३५; ७९ पावा ६, १, १९१ पराभृष्ट: द. १। f) पाथि. वैप १, १३४१ d. १। g) पाथि. वैप १, १४५४ ० d. १। h) सकृत् प्रथिव्यते इति R. १। i) पाथि. वैप १, १३४२ d. १। j) पाठ: ? दृ १-९३ d. १। k) सपा. जायताम् <> धीयताम् इति पाथि. १। l) सप्र. थ्येताम् <> थ्येयाताम् इति पाथि. १। m) यजे इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. मै १, ६, १)। n) जाजे इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. तै २, २, ४, ८)। o) पाथि. वैप १, १३४४ b. d. १। p) = ऋजायथि। कर्मणि लुठि रूपम्। q) पाथि. वैप १, १३४४ i. d. १। r) पाथि. वैप १, १३४५ i. d. १।

१२, ३, २<sup>५</sup>; जन्वयामि कौट  
१, १२, १<sup>१</sup>; या ६, ९; जन्वयन्त  
आपथी १४, १६, १; वीथी;  
जनयासि<sup>०</sup> शॉट १, १९, १<sup>१</sup>;  
जन्वयत् आथी २, १०, १<sup>५</sup>;  
आथी ९, १४, १७; अथ ४५, २,  
१<sup>५</sup>; जन्वयन्त आपमं १, १३, २;  
द्वि १, २५, १; जन्वय > या  
शाथी १७, १३, १०; वीथी  
३, २० : १३; कौट १, १२, १<sup>०</sup>;  
शांय १, १९, १<sup>०</sup>; अथाय १,  
३; अथा ८, २०; तत्रा ३, १३;  
जन्वयतम्<sup>०</sup> माथी १, ५, २, ३;  
वाथी १, ४, १, २०; जन्वयतम्  
शाथी ४, १४, ३६×५; आपमं;  
जन्वयतन्त आथी ३, ८, १;  
आय ३, १०, ९; पाय; अजयतम्  
वेताथी ३०, १६<sup>१</sup>; वा ७, २८;  
जन्वयतम् आपमं १, ११, ९;  
वीथ १, ७, ४३; माय;  
जनयेत् आथी ३, १३, १३;  
शाथी; जनयेतुः लाथी ८, ५,  
१७; जन्वयेयम् वीथी १०,  
१३ : १६; १३, १८ : ९; वैथी.  
जनयिष्यति कौट १, १, १०;  
शांय १, ५, १०; भाय;  
जन्वयिष्यतः<sup>०</sup> माथी १, ५, ३,  
४; वाथी १, ४, १, १९;  
जन्वयिष्यतः<sup>०</sup> आपथी ५, ८, ८;  
वीथी २, १५ : १३; द्विथी ६,

५, १०; जनयिष्यामि वैथी  
११ : ३; वृदे ८, १६; जन्वजी-  
जनत् आथी २, १५, ३; ८, ९, ७;  
शाथी; जीजनत् शाथी १०, ९,  
१७<sup>१</sup>; जन्वजीजनत् आपथी  
१६, १५, ५; वीथी २, १६ :  
३५; माथी; अजीजनयाः पाय १,  
१६, १९<sup>१</sup>; जन्वजीजनः अथ ३,  
१०; अथा १६, ४८.  
रज, जा<sup>०</sup>— जाः अथ ४८, ८७<sup>१</sup>; निप  
२, २; या ६, ९; जम् वा ३,  
६; जासु अथा ८, ४५<sup>१</sup>; जे वा  
७, ३, १८.  
जन्वजन— नः आथी ६, ४, १०;  
आपथी १६, ३५, ५×५; वाथी;  
या १४, ३४; —नम् आथी ४,  
६, ३; ९, १, १३; शाथी.  
जन्वि<sup>०</sup>— वा, पाया ३, २, १७१;  
—जन्वि आपथी २०, ८, १३; १२,  
८; वीथी १५, २६ : १५; द्विथी  
१४, २, ३०.  
जन<sup>०</sup>— पाय ४, २, ८०; ६, १, १९९;  
—जन्ः शाथी १२, १५, १×५;  
काथी २२, १, २९<sup>१</sup>; आपथी  
१०, ७, १३<sup>१</sup>×५; वीथी; लाथी<sup>०</sup>  
६८, २, १०-१२; —जन्म् आथी  
१, १३, १५<sup>१</sup>×५; आपथी  
९, १०, १६<sup>१</sup>०, १३, ५<sup>१</sup>०; १०,  
१५, ११<sup>१</sup>०; १४, २८, २<sup>१</sup>०; २२,  
६, ७८; वीथी; आथिण २, ७, ९ :

१०<sup>१</sup>०; माय ३, १८ : १४<sup>१</sup>०;  
वाथ ३० : १२<sup>१</sup>०; या २, १०;  
१२, १४<sup>१</sup>०; —जन्स्य आथी ४,  
१३, ७; ७, ७, ५; शाथी; —जाः  
आथी ७, ४, २<sup>१</sup>; आपथी; वा  
१०, २७, १४, ४; —जन्वाः आथी  
८, ३, १०; शाथी; —नात् कौत्  
३६, २५<sup>१</sup>; अथ ७, ४५<sup>१</sup>; अथ  
२ : ६७<sup>१</sup>; या २, १०; माथि १५,  
१०; —जन्वात् आथी ३, ११,  
२२; आपथी; आपमं १, ६, १<sup>१</sup>;  
वीथ १, ५, २<sup>१</sup>; माय १, १८ :  
५<sup>१</sup>०; या १, १५<sup>१</sup>; १०, २२;  
१२, २२-२५; —जन्वात्मा आथी  
१, ११, १; आपथी; या १०,  
२०; —जन्वात् वीथी १, १० :  
२४×५; वैथी; या ४, २५; १४,  
२६; —जन्वासः आपमं १, ३, ४;  
या १०, २७<sup>१</sup>; —जन्वासः कौत्  
६, १७; ३६, १; ५९, ३; अथ १,  
३२; या १०, १०; —जन्वै आथी  
४, ११, ६; ६, ४, १०; शाथी;  
काथी<sup>०</sup> २२, १, २७; २८;  
आपथी ९, ११, ४<sup>१</sup>; माथी ९,  
१४, १६<sup>१</sup>; वैथी २०, २० : ४<sup>१</sup>;  
द्विथी १५, ३, ३०<sup>१</sup>; ३१<sup>१</sup>;  
आपमं १, १५, ४<sup>१</sup>०<sup>१</sup>; द्विथि २२ :  
८<sup>१</sup>; १२<sup>१</sup>; —जेन वीथी १३,  
२६ : १६; माथी ५, १, ५, १६;  
—नेम्यः वेताथी १७, ७; —जन्वु-

- a) पामे. वैप १, १३४५ a द. । b) पाठः । जनयामि इति शोषः (हु. ८ टि.) । c) जनयांसि इति पाठः इ यनि. शोषः (हु. पामे. वैप १, १३४५ h) । d) पामे. वैप १ रमयत्तु का ३, २, ५ टि. द. । e) सकृत् पामे. वैप १ विन्दस्व वी ३, २३, ४ टि. द. । f) जनयत् इति पाठः । यनि. शोषः । g) पामे. वैप १, १३४५ l द. । h) पामे. वैप २, ३३. जनयिष्यतः तेना १, २, १, १४ टि. द. । i) पामे. वैप १, ११७१ a द. । j) वैप १ निर्दिष्टयोरत्र समथिवाः द. । k) वैप १ द. । l) वमा. । प्रायेण = मनुष्य- । वैप १ द. । m) = वैश्य- । n) पामे. वैप १, १३४७ h द. । o) = राजन्य- जनयद्- प्रयु. । p) शोषः वैप १, १३४७ j द. । q) जन इति पाठः । यनि. शोषः (हु. मै १, ४, ४) । r) पामे. वैप १, १३४८ f द. । s) जाम् इति पाठः इ यनि. शोषः (हु. आपमं, प्रयु. BC. क) । t) पामे. वैप १, १३४८ b द. । u) पामे. वैप १, १३४९ d द. । v) = देशान्तर- । w) पामे. वैप १, १३४९ c द. ।

आथी ३, १२, २०<sup>०</sup>; बाथी ३,  
१९, १६<sup>०</sup>xx; आपथी ९, ९,  
३<sup>०</sup>xx; बीथी; हिथी १५, ३,  
२<sup>०</sup>; अथाय ५, १<sup>०</sup>.  
जन-क (ल्य>) ल्वा<sup>०</sup> - ल्वा:  
शाथी १२, २१, १.  
जनकीय- पावा ४, २, १३७;  
३, ६०.  
जन-घय- यः अय ५१, २, ४;  
३, २; ५८, ४, २; -यम् अय  
६१, १, ९; ७०<sup>१</sup>, ११, ३५.  
जनक्षय-का(रक>)रिका-  
-का: अय ५८, ४, ११.  
जन-ना<sup>०</sup> - पा ४, २, ४३; -ता  
बाधुथी ३, ७९: ११; -ता:  
अप्रा ३, ४, ११; -<sup>०</sup>ता:  
आपथी १८, १२, ७; हिथी १३,  
५, ४; -ताम् बीथी १३, २:  
८xx; माथी; -तायाम् आपथी  
५, २४, ४<sup>०</sup>; माथी; -<sup>०</sup>तायै  
आपथी ५, २४, ४<sup>०</sup>; वाथी ३,  
३, २, ३६४, हिथी ३, ५, २५<sup>०</sup>;  
-०ते वाथी ३, ३, २, ३६<sup>०</sup>.  
जन-धा<sup>०</sup> - धा. आपथी १०,  
१०, ६; १२, २२, १<sup>०</sup>; १८,  
१६, ९; बीथी.  
जन-धावस्<sup>०</sup> - या: बीथी ९,  
१४: ११<sup>०</sup>; माथी २, ४, १,  
६<sup>०</sup>.  
जन-पद- पाय ४, १, ८६; -द:  
लाथी ८, २, १२; कौस् ९४, १;  
अय ३०<sup>१</sup>, १, २: -दम् काथी  
२२, ११, ३०; माथी, -दयो:  
बीथी २३, ५: १३; -दस्य

बीथी १०, ३०: १३; वैथी;  
पा ७, ३, १२; पावा १, १, ७२;  
-दा: बीथी २६, ५: २०; अय  
१, ७, ८; ८, ५; ५, ५, २; -दान्  
हिथ १, २३, १<sup>०</sup>; पावा ४, १,  
१६६; २, १२४; १३७; -दान्  
आपथी २२, २८, २४; बाधुथी;  
-दानाम् पावा ४, २, १०४;  
-दे काथी २२, २, २२; माथी;  
पा ४, २, ८१; पावा ४, २, ५२;  
-देन पा ४, ३, १००; -देभ्य:  
बीथी १५, १६: ७; -देषु  
आपथी २२, २८, १; हिथी २३,  
४, ४१.  
जानपद- पा ४, १, ८६;  
-दम् अय ७१, ३, २; ११, २;  
१४, २; ७२, ४, ५.  
जानपदी- पा ४,  
१, ४२; पा, पाय ४, २, ८२<sup>१</sup>;  
-दी लाथी ८, ३, ९; -दीभि:  
वाथी ३, ४, ३, १७; -दीषु या  
१, १६.  
जानपदिक- -कम् अय  
७१, १७, ५.  
जानपद-तद्वधि- -व्यो:  
पा, पावा ४, २, १२४.  
जानपद-धर्म- -र्मा: आय १,  
७, १.  
जानपद-वन् पा ४, ३, १००.  
जानपद-शब्द- -शब्दात् पा  
४, १, १६८.  
जानपद-खी- -खीणाम् अय  
७०<sup>१</sup>, ११, ३५.  
जानपदा(द-श्वा)ल्वा-

-श्यायाम् पा ५, ४, १०४.  
जनपदिन्- -दिनाम् पा ४,  
३, १००.  
जन-प्रथन<sup>०</sup> - नाय बीथी ८,  
१२: २७<sup>०</sup>.  
जन-मृत्<sup>०</sup> - मृत्: आपथी  
१८, १३, १६; बीथी १२, ८:  
१४; वाथी ३, ३, २, २४; हिथी  
१३, ५, १४.  
जन-भरण- ज्ये काथी २५, ४,  
२४.  
जन-मार- -नेज अय ५०, ७, ३;  
७०<sup>१</sup>, १५, ४.  
जनमारी- >०ती-भय-  
-यम् अय ७०<sup>१</sup>, १८, २.  
जनमार-भय- -यम् अय  
७०<sup>१</sup>, ६, १.  
जनमारभयं-कर- -ना:  
अय ७०<sup>१</sup>, ७, ४.  
जन-मृत्प्रय<sup>०</sup> - य: शाथी  
१६, १, ९; बीथी १७, १८: ७<sup>१</sup>;  
बीथ ३, १०, ६<sup>१</sup>; -यम् शाथी  
१६, ८, २७.  
जामेजय-राज्य- -ज्ये  
बाधुथी ३, ७९: २५.  
जन-मोपन<sup>०</sup> - न: या १३,  
३<sup>०</sup>.  
जन-राज- पाय ५, १, १२४<sup>०</sup>.  
जन-राज्<sup>०</sup> - श: अय १८,  
३०<sup>०</sup>.  
जानराज्य<sup>०</sup> - पा ५, १, १२४;  
-ज्याय बीथी १०, ५६: ५<sup>०</sup>.  
जन(न-क्र)धि- -धिव् बीथ २, ५,  
२७.

a) पाथे. वैप १, १३५२ ई.द. । b) = कच्- । c) वैप २, ३३६. द. । d) वैप १ द. । e) पाथे.  
वैप १, १३५० ० द. । f) पाथे. वैप १, १३५० ० द. । g) पाथे. वैप १, १३५० ७ द. ।  
h) पाथे. वैप १, १३५० j द. । i) अर्थः! जालपद- इति पाठा., जालपदी- इति [पक्षे] भाष्य. पाथि. च।  
j) छर्प-विशेष- । k) द्र. पायम. ।



जन-वाद्- पाग ४, ४, १०२;  
-इम् जै १, १९ : २९.

जानवादिक्- पा ४, ४, १०२.

जजन-विद्- -विद् कौम् ७८,  
१०; -विद्<sup>०</sup> माण्ड १, १०, ८<sup>१</sup>;  
वाण्ड १४, १०<sup>१</sup>; कौम् ७८,  
१०.

जन-दा- पा ४, २, ८०.

जन-धी<sup>०</sup>- -धियम् या ६, ४<sup>१</sup>.

जन-समवाय- -यम् वीण्ड ३,

११, ७; शाण्ड ४, १२, ९.

जिनस्य मद्रं मे चतम्<sup>०</sup> वाधी  
३, २, ५, ४३.

जन-द्विज- -ता: वृदे २, ३८.

जना(न-अ)र्द्धन<sup>०</sup>- पाग ३, १,  
१३४; -नम् विष १, ३१; -ने  
विष १, १९.

जिने(न-अ)च्छ<sup>०</sup>- -च्छम् निस् ८,  
१ : २१.

जने-वाद्-(>जानेवादिक्-पा.)  
पाग ४, ४, १०२.

जन्म-न्या<sup>०</sup>- पा ४, ४, ९७;

-न्यः वाधी ३, २, ४८<sup>१</sup>; वृदे

२, ३८; गा १०, १०<sup>१</sup>; -न्यम्

काधी ४, ४, २; वाधी; -न्याः

छुम् १, ३ : १६; निस् २, ४ :

१२; -न्यानि काधी ५, १,

१७; वाधी ६, ७, १०; -न्याय

वीधी १२, ९ : १३.

जन्म-मिथ- -यम् आपधी

१८, १६, ५<sup>१</sup>; द्विधी १३, ५,

३१<sup>१</sup>.

रजन<sup>०</sup>- पाग ४, १, ९९<sup>१</sup>; ११०.

१जान- -नः ऋभ २, ५, २; वृदे  
५, १४; -नम् वृदे ५, १८.

जानायन- पा ४, १, ११०; -नाः

वीधी ३ : ६.

जजनक<sup>०</sup>- -क वीध २, २, ३४;

-कः वाधुधी ३, ४० : १६;

आपध २, १३, ६; द्विध २, ३,

६.

जानकि<sup>०</sup>- (> जानकीच-

पा.) पाग ५, ३, ११६<sup>१</sup>.

जनक-गोत्र- -ग्रम् शेष ३५०.

जनक-सप्तसप्त<sup>०</sup>- -ग्रः शीधी १६,

२६, ७; काधी २३, ५, ११; वीधी

२३, १३ : ३; -ग्रम् आधी १०,

३, १४; -त्रे निस् २, १ : ४;

-त्रेज आपधी २२, २३, ५; द्विधी

१७, ८, २३.

जजनक<sup>०</sup>- -नम् वाधुधी ४, ९८ : ५;

वेताधी १, ३; १८; २, १ : ८,

३x; आपध.

जनद-यन्- -न्यते शीधी ३,

१९, १५; काधी ९, ९, १; ९;

१३; १४; माधी; -यान् आधी

३, १२, २६; निस् ३, १२ : ३८.

जनद्वी<sup>०</sup>- -यः निस् ६, ९ :

१; -न्याम् निस् ३, १२ : ३८.

रजन<sup>०</sup>- -नतः चाभ ४० : ३.

जनन<sup>०</sup>- -ना काधी ३, ८, १<sup>१</sup>;

-गान् वीध ७, ५ : ३; गोय; -ने

वीध ६, ४ : १; कौम्; -नेन वीस्

६, २, २३.

जननी- -नी शीधी १५, १७,

१<sup>१</sup>; माण्ड १, १४, १८<sup>१</sup>; कष

२, २, ९; -नीम् अप ४, ३,

४.

जनन-मरण- -गयोः वीध १, ५,

१०; १०<sup>३</sup>; ११, ३९; विष २२,

१; -जे विष २२, ३९.

जननमरण(ण-अ)न्तर- -रे

विष ८, २६.

जनन-मारक- -के माण्ड ३, १४ :

२२<sup>१</sup>.

जनना(न-अ)शीच- -घम् विष

२२, ३५.

जननाशीच-मध्य- -ध्ये विष

२२, ३५.

जनमान- पाग ४, १, १०५<sup>१</sup>;

-ने या ६, ८<sup>१</sup>.

जानमान्य- पा ४, १, १०५.

जजनयत्- -यत्<sup>०</sup> आपधी १४, १२,

१; द्विधी १०, ६, ९; -यन् आधी

२, १९, ३२; शीधी; -यन्तः

द्विधी १४, ४, ३८; -यन्ती आपध

३, ११, ७.

जनयन्ती- -न्ती आपध १, ८,

३<sup>१</sup>.

जजनयति<sup>०</sup>- -त्ये काधी २, ५, १४;

आपधी १, २४, ५; वीधी.

जनया<sup>०</sup>/कृ, जनयाचकार वीधी १८,

१३ : ८; वाधुधी; जनयाचकृः

वाधुधी ४, ९७<sup>३</sup> : १.

जनयाम<sup>०</sup>/अस्, जनयामास वृदे

४, २५.

a) वैप १ द्र.। b) धम. जनविदे <> जनिविदे <> वसुविदे इति पागे.। c) पाठः ?  
जना, सा, भद्रम्, पृषति इति बहुवचनः शेषः (तु. शीधी १२, १७, १ वैताधी ३४, ९)। d) = विष्णु-।  
e) = सामन्तः ? ध्यु. !। f) पाठः ? जन्मः, मिथम् इति द्विवचनः शेषः (तु. मै ४, ४, २, ०, व)।  
g) ध्यप.। h) तु. पापम.। i) = पितृ-। j) = दोमयाच-विशेष-। k) = व्याहृति-  
विशेष-। वैप ३ द्र.। l) = प्रति-विशेष-। m) तु. पाका.। ऽजरमाम- इति माण्डा.। n) पाभि.

जनयित्- -त्वा भूदे २,३६; या ४, २१; १०,१०; १४,१२; -तुः सु १३,५; वाच; या ३,१.

जनयित्री- -ऽयः भाशि ६१; -ऽथी या ८,१४.

जनयित्नु- पाठभो २,१,८३.

जनयित्वा हिथी ९,४,५५; कौत् १३३,६.

†जनस्- -नः माथी १,६,१, २६; वैथी १,३ : ५; आमिष्ट २, ६,३ : १३; ८ : २६; कप्र २,१, ६; शंष १०७; वीध २,५, २०; १०,३३.

जनो-लोक- -कम् शंष ११६ : ६६.

२जनस्- > जनो-वाद्- (> जानो- वादिक्-) जनवाद्- टि. द.

जनस्- -स्याद् अष १७, २, १३.

३जना संस्तये वीथी १८,४१ : १४.

जनि, नी०- पाठ ४,१३०; -नय.

वीथी १०, ७ : २; वैथी १८,

१ : ८५; आपमं १, १, ६०;

आमिष्ट ३,७, २ : १०; वीथि १,

६,२६०; ४,१, ११०; वीपि १,

१०३३०; या ८,१०; -नयिन्ऽयः

आपमं १,११,१; कौत् ३०, ३;

वीथि १ ७, ४३; माष्ट १, १४,

१६; -निम् वैताथी ३२,२५१;

-विषु अत्राय ५,१११; -नीनाम्

या १०, २१; १२, ४६; -नीम्

आथी ८,३,१११.

जनि-कर्म- -सुः पा १,४,३०.

†जनि-य- -खम् आमिष्ट ३,

५,६ : १७; वीपि १,५ : ४.

†जनि-मात्- -मन्त्रम् कौष्ट १,

५,२६; शंष १,९,९; काष्ट २५,

३१; ३६; -मान् कौष्ट १, ५,

२६; शंष १, ९, ८; काष्ट २५,

३१.

√जनिष, जनिषन्ति अत्रा ३,

१,१४१.

जनि-वल्- -वत्तः या ३,२११.

†जनि-विद्- -विदे आपमं १,४,

१-३; आपष्ट ५, २; काष्ट.

जनी-मात्- -मान् आथी ८, ३,

१११.

√जनीय > †जनीयत्-

-यन्तः<sup>३</sup> आथी ३, ८,१; शीथी

२,४,५; ६,११,८; वृदे ६, १९;

साप्र २,८१०; ऋषा ९,१६.

२जन्य,न्या<sup>१</sup>- पा, पावा ४,४,

८२; पाग ४,२,९०; -न्याः वाष्ट

१०,१३; १५; -यान् वाष्ट १०,

१३; -न्यानाम् गौष्ट २,१,१२.

जन्य-याथा<sup>२</sup>- (> जान्यया-

त्रिक्- वा.) पावाग ४,४,१.

जन्धीय- पा ४,२,९०.

जनि-त- -तौ अत्राय १, ५१.

जनि-तु- -तः ऋषा १,१०१; -त्वा

आथी ३,८,१; आपथी; या ४,

२१; १४, १२; पा ६,४, ५३;

-तारा आथी ६,७,६.

†जनित्री- -त्रि आपथी १४,

३३, २; हिथी १५, ८, ३५१.

अत्राय ६, १; -त्री आथी ३, ८,

१४४; शीथी; या ८,१४; -त्रीः

माथी ७, १३, ४; -त्रीम् कौत्

८०, २३; ८१, ४५; कप्र २, २, १६;

-ऽयाः गौष्ट २, ८, ४.

जनि-तु- (>) वाथुथी ३, ३० : २.

जनि-त्र-<sup>१०</sup>- -त्रम् शीथी १२, ९,

१७; शीथी ५, १, २२१; आपथीः

-†त्रे आपथी ९, १, १०१;

माथी ९, १, १०१; माथी ३, ४,

१०; हिथी १५, १, १८१; शीथी.

जनि-त्र-न्याय- -नम् शीथी ९,

१३, ८.

२जनि-वल्- पाठ ४, १०४;

-†वल्म् या ४, २३; १०, २१;

अत्रा ३, ४, १; -वैः आपमं २,

११, २९.

जनि-मन्- पाठ ४, १४९; अत्रा ३,

३; १११; -मा ऋषा ८, १०१;

-मानि कौत् ६, १११.

जनि-व्यत्- -व्यत् सु २१, २.

जनि-व्यमाग, णा- -गः या १०, २१;

-†णः आपथी ४, ६, ५; ७, २;

माथी; -†णानाम् जैथी ७ : ६;

शीथी; -णाम् वीथी २, १८१

१५; -†णाय आपथी २०, १-

१७; वीथी; -णे आथी १, २,

११, या ६, ८.

†जनुत्- पाठ २, ११५६; -नुपः

ऋषा २, ४४; -नुपम् आथी ८,

१, २; वाष्ट ३, १०, ९; या ९, ४-

a) = व्याहृति-विशेष-। वैप ३ द.। b) = जनन-। c) = जनता-। समूहार्थे यः प्र. उलं. (पा ४, २, ४९)। d) वैप १ द.। e) पामे. वैप १, १३५२ ० द.। f) पाठाः १। वैप १ पति. ✓आजन्व टि. द.। g) पामे. वैप १, १३५२ १ द.। h) पामे. वैप १, १३५२ ३ द.। i) पामे. वृ १०९९ ० द.। j) कप्र.। = जामात्-वयस्य- कन्या-सातिजन-। गौष्ट. संस्वर्तुः टि.], प्रवृ.। k) तु. पागम.। l) पतिवा वयम् इति पाठः? यनि- शोचः। m) वैप १ निर्दिष्टानां सनादेशः द.। n) श्री इति पाठः? यनि. शोचः (तु. आपथी.)। o) = सामन्- [लाथी. प्रवृ.]। p) पामे. वैप १, १३५३ १ द.। q) पामे. वैप १, १३५४ e द.।

१७, ११, ३; आपथी; -तान्-  
 तान् वीथी १८, ४४ : १६; १८;  
 -तानाम् वीथ १, १२, ६१;  
 शाय १, १९, ६१; श्रय; -तानि  
 आथी ४, ३, २; १०, ६, १; शोथी;  
 आपथ २, २२, १९; आथिम् १,  
 ५, ४ : १३; ३, २, २५; जैथ १,  
 ४ : १३, या ७, १९ : १०, ४३;  
 १२, २३; -तानम् आपथी  
 ५, १, ४; वीथी २, ६ : ३३;  
 १८ : १५; द्विथी ३, २, ३; गो  
 २, २९, या ३, ४; -ताय शोथी  
 ३, १३, १७, काथी; -तासु  
 आथिम् १, २, १ : १; भाथ ३, ८ :  
 २; द्विथ २, १८, २; -ते आथी  
 १, २ ११; काथी; त्था ३, २२;  
 ६, ८; पा ६, २, १७; -तेऽन्ते  
 या १, ८; ७, १९; -तेन आपथ २,  
 ११, २९; काथ ३, २, ३१;  
 शंथ २८, २८; -तेभिः शोथी  
 १८, ९, ७; -तेभ्यः वीथी २०,  
 २० : ३८; ३९; -सेथु द्राथी ६,  
 ३, ११; लाथी २, ११, ५; काथ;  
 -सैः श्रय ११, २, ४; वृदे १, ९२;  
 शैथि १० ११; -सौ आपथी २०,  
 २, ११, द्विथी १४, १, २३; या  
 १२, ३.  
 जात-क<sup>७</sup> -कम् वैथ ७, ४ : ८;  
 -काथ वैथ १, १ : १२; -कौ  
 कौस् १११, ४.  
 जातक-संस्कार- -रः वैथ ७,  
 १ : १.  
 जातका(क-अ)सि- -सिः वीथ  
 ४, १०, २; -सिना वैथ ७, २ :  
 ४; -सिम् वैथ ३, १५ : १; १८ :

१; ६, ४ : १०; ७ : ८; -स्री  
 वैथ ६, ४ : ५; ८; ५ : २; ६;  
 ७, ४ : ८.  
 जात-कर्मन्- -म् वीथ १, १६,  
 १; दाथ; -मंगः वीथि २, ७, ८;  
 -मंगा काथ ३६, १२; ४४, २.  
 जातकर्म-नामकरण- -णयोः  
 आथिम् २, ३, २ : १५.  
 जातकर्म-प्रमृति- -ति आथिम्  
 ३, ९, ३ : १०; वीथि २, ७, ९;  
 द्विथि २३ : ३३.  
 जातकर्म-वत् वाथ ३, १०.  
 जातकर्म(र्म-आ)दि-  
 संस्कार- -रान् वीथि ३, ७, ४.  
 जातकर्म(र्म-उ)प्यान-  
 नयोः वैथ ६, २ : १६.  
 जातकर्म(र्म-उ)वनयना  
 (न-आ)दि- -दि वीथी २०,  
 २३ : ७.  
 जात-नुप- -पेथु माथी १, २,  
 २, १८.  
 जात-न्त- पाग २, २, ३७;  
 -न्तम् वैथ ७, २ : ७; -न्तस्य  
 वैथ ७, २ : ५, ७ : १; -न्ते वाथ  
 ३, ८.  
 जात-नुः(ख>)व्वा<sup>८</sup> - पाग २,  
 २, ३७.  
 जात-घन<sup>९</sup> -नः या ७, १९.  
 जात-पथ<sup>९</sup> -क्षाः वाथ ६, ३.  
 जात-पुत्र<sup>९</sup> -पाग २, २, ३७; -त्रः  
 माथी ४, २१, ७; माथी १, ५,  
 १, ४; वैथी २, ८ : ५; ७, १३ :  
 १२, द्विथी ६, ४, २७, ६, १७  
 जातपुत्र-कल्प- -ल्पः माथी  
 ६, ३, ६

जात-प्रदान<sup>९</sup> -नः या ७, १९.  
 जात-प्रविष- -षः पावा ४, १,  
 ५२.  
 जात-बल<sup>९</sup> -बलः वाथ २७, २.  
 जातवर्क<sup>९</sup> - -र्कः वैथ २, ९ :  
 १८.  
 जात-मात्र- -त्रः वैथ १, १ :  
 १२; वृदे ४, १३१; -प्रस्य गु ४,  
 १; वैथ ६, ७ : १; -श्रेण सु ३, ४.  
 जात-मृत्न- -ने विष २२, २६.  
 जात-मृतक- -मृतक- -कै काथ  
 २७, ३ : ३.  
 जात-रूप- -रूपः शोथी ३, १९,  
 ९; वाथी; -येण वैताथी ५,  
 १६; वीथ १, १६, ७; शाय;  
 -पंथः पा ४, ३, १५३.  
 जातरूप-मय- -यम् द्वय  
 १४, १, २.  
 जातरूप-शकल- -लेन कौस्  
 १०, १६; १९, २३.  
 जात-विक्ष<sup>९</sup> -क्षः या ७, १९.  
 जात-वि(था>)व<sup>९</sup> - -षः वृदे  
 २, ३०; या ७, १९.  
 जात-विषा<sup>९</sup> - -षाम् या १, ८१.  
 जात-वीथ<sup>९</sup> - -थैः वीथ १, २,  
 ३४.  
 जात-वेदम्<sup>९</sup> - पाठ ४, २२७;  
 -वैदः आथी १, २, १५४;  
 शोथी; वीथ ७२, १३७; १४७;  
 -वैदमः कौम् ८१, ४५; ८७,  
 २३; श्रय ४०, ३, ४; या ७,  
 १९४; -वैदसम् आथी ६, ५,  
 १८; शोथी; -वैदमा वृदे ८, ७;  
 -वैदि शोथी १५, १७, ११; कथ  
 ३, १, १९; -वैदी वृदे १, ९७;

a) पाथे. वैथ १, १३५७ h द. । b) = श्रयस्य, संस्कार-विशेष- । c) = संस्कार-विशेष- । d) विष.  
 बस. । e) तु. पागम. । f) पाठः ३ जात, भर्कः इति द्विपदः शोथः । g) वैथ १ द. । h) पाथे. वैथ १  
 परि. अत्रिः मा १२, ८ टि. द. ।

- या ७,२०; -पदसे काथी ५, ५, १९; ७, १, १४; वीथी: -प०दसौ माथी ५, १, ३, २७; कौसू १०८, २; -पदा: आथी १, ६, ५; १२, ३७<sup>५</sup> x x; काथी ८, २४, १<sup>२०</sup>; आथी ९, ३, १<sup>१</sup>; भाथी: माण १, १०, १०<sup>०</sup>; वा ७, ११, १<sup>१</sup> १; -दो३ काथी ७, ९, ३<sup>१</sup>.  
 जानवेदस- सग् या ७, २०; काथ ५, १२; २९; -सनाम या ७, २०; -से अण ७, ३४.  
 जातवेदधी- ली गुम ७, ५६; अण १८, २; -स्वाम या ७, २०; १७, ३३.  
 जानवेदसीय- यग् काथी ८, ६, ६; १०, ८, २० x x.  
 जातवेदस्-व- वग् या ७, १९.  
 जातवेदस्-व- स्वग् आथी ८, १२, २४; अण २, १, १९; १०, १८८; वृदे: -स्वानाम् आथी ७, १, १४; -स्ये आथी ८, ८, ६.  
 जान-शिला<sup>१</sup>- लः कप ३, ९, १०; -लासु गोय ३, ९, ६.  
 जात-इमधु- वाय २, २, ३७.  
 जात-धी- धियग् या ६, ४.  
 जात-भुति- ते: काथी ५, ३, ४.  
 जात-संपस(र>)रा<sup>१</sup>- पाग २, २, ३७.  
 जात-संस्कार- र- रेण वीपि ३, १, ४.  
 जात-सु(स>)सा<sup>१</sup>- पाग २, २, ३७.  
 जा(स>)जा-ज्याल<sup>१</sup>- लेन कौसू

३०, ८.  
 जाता(त-अ)धिकार- र: मीस् ३, ३, १.  
 जाता(त-अ)र्ष- र्थे पावा ७, ३, ३६.  
 जातो(त-उ)अ- पा ५, ४, ७७.  
 जाति- वय: विध १६, १७; वृदे ५, १४६; -वि: अण ५३, ४, ४; अण ७, ६, ५; अण १, २, ५; याशि १, १८; पा २, १, ६५; ४, ६; १, १४३<sup>१</sup>; पावा १, ४, १; ७, १, ४; मीस् १, ४, २४; -तिम् आपथ २, २, ३; ६, १; विध; -तीनाम् द्विथी १०, ३, ३; अप ७०, ७, ३; -ते: काथी १५, ४, १७; पा ७, १, ६३; ६, ३, ४१; ४८; ८, १, ४; पावा ७, १, १४<sup>१</sup>; मीस् ६, ८, ४५; -ते:उ-ते: काथी १७, २, ३२; -ती पा ७, १, १६१ x x, -स्ये द्विपि १७: १६<sup>१</sup>.  
 जानि-कल्प- वय: लाथी १०, १, ९.  
 जानि-काल-मुखादि- दिभ्य: पा ६, २, १७०; पावा २, २, ३६.  
 जानि-महय- यग् पावा ७, १, १३७.  
 जानि-नामन्- अ: पा ५, ३, ८१.  
 जानि-निवृत्त्य(ति-अ)र्थे- यैम् पावा १, २, ५२.  
 जानि-नैमित्तिक- कग् मीस् ९, ३, ३.  
 जानि-परिग्रह- अे पा २, १, ६३; ५, ३, ९३.  
 जानि-पतिवृत्ति- ली आपथ २,

११, १०; ११; द्विप २, ४, २५; २६.  
 जाति-पूग- गानाम् विप ५, ३१.  
 जाति-पूर्व- र्थाद् पावा ७, १, ५२.  
 जाति-भेद- दे आपथी २७, ४, १७.  
 जाति-अंश-अ- रग् विध ३८, ७; -रस्य विध ५, १०३; -राणि विध ३८, ६; -रेषु विध ३३, ४.  
 जाति-मात्रो(त्र-उ)वृत्तीविन्- विनाम् वीध १, १, १०; वाध ३, ५; ७ १८, ३.  
 जाति-वाचक-त्व- त्वाद् पावा १, २, १०; ७, १, १४.  
 जाति-विद्- विग् कौसू ७८, १०<sup>१</sup>; -विदे कौसू ७८, १०.  
 जाति-विशेष- पाग् मीस् ३, ५, ११.  
 जाति-वृद्ध- वृद्: मीस् ६, ८, ४१; -वृदेन पावा १, २, ५८;  
 -वृद्धेय: पावा ७, १, १४.  
 जाति-संहार- र: लाथी ६, ६, १४; -रग् लाथी ६, ७, १०; १७.  
 जानि-संज्ञा- अणो: पा ५, ४, ९४.  
 जाति-स्मर<sup>१</sup>- र: वव्यू ७: ३६.  
 जाति-मर-व- वग् अण ७२, २, १३; वाप २८, १५; अंश १०५; विध ५६, २७.  
 जाति-स्वर-प्रसंग- वा: पावा २, १, २४.

a) पागे. वेव १, १३६० c द. । b) सप्र. जानवेदा: <> वैश्वानर: इति पागे. । c) सप्र. आपथं १, ४, ७ पाय १, ५, ११ द्विप १, १९, ७ विशिष्ट: पागे. । d) प्राग्दीव्यतीकेऽर्थे वग् प्र. अक्षं. (वा ७, १, ८५) । e) = [यकैरा-भिन्न] शिला-विशेष- । f) वृ. पागम. । g) [वृज्जमूर्त्तौ] 'जाताभिः [श्रेयसीभिः] जगालः (वपनं) वरदा' इति कृत्वा विप. > नाप. (वदक-). । h) वृ. पाक्. प्रमु. । 'तौ इति भाण्डा. BPG. च । i) उप. कर्तारि अच् प्र. ।

१जात्य<sup>०</sup> - रयम् अप ४०, १,  
१४; -रयानाम् मासि १५, ९;  
याशि २, १०९; नाशि २, ८, २२.  
२जात्य<sup>०</sup> - रयः श्रापा ३, ३४;  
शुप्रा १, १११; शीघ्र ३, ५७;  
शैशि २३३; २३४; मासि ७, २;  
५; ८, २; याशि १, ७६; ७८;  
नाशि १, ८, १०; २, १, १; ८;  
-रयम् श्रापा ३, ८; -रयस्य  
याशि १, ५६; -त्ये याशि १, ६८.  
जात्य-वत्त श्रापा ३, २६.  
जात्य-वर्ण- -र्णानाम् नाशि  
२, १, १०.  
जात्य-स्वर- -रः शैशि २३४.  
जात्या (त्य-ञा) द्वि- -द्विः  
शैशि २३८, याशि १, ५६.  
जात्या (त्य-ञ) भिनिहित-शैप्र-  
प्रक्षिप्त- -ष्टाः भासू १, १०.  
जात्य (ति-ञ) धिका- -रान्  
पात्रा ४, १, १५.  
जात्य (ति-ञ) ष- -न्तात् पा ५,  
४, ९.  
जात्य (ति-ञ) म्तर- -रात् मीसू  
४, २, २; -रे बौध्री २८, २;  
५४; मीसू ११, ४, ३८.  
जात्य (ति-ञ) ष- > ष-मूक-  
बधिर- -रैः श्रप २३, १२, ४.  
जात्य (ति-ञ) पदार्थिन्- -रिणा  
विष ५, ९९.  
जात्य (ति-ञ) भाव- -चात् काश्री  
१, ४, १०.  
जात्य (ति-ञ) र्थ- -र्थस्य मीसू  
६, १, ८.  
जात्या (ति-ञा) ह्या- -ह्यायाम्  
पा १, २, ५८; पात्रा १, १, ५६;

८, १, ४.  
जात्या (ति-ञा) घा-संदाय- -ये  
- श्रापध २, ६, १; द्विष २, २, १.  
जात्या (ति-ञा) द्वि-निवृत्त-  
( ति-ञ) र्थ- -र्थम् पात्रा ४,  
१, ९३.  
२जान्- -ना या १४, १६१.  
१जानु (क) ष- -ञा श्रापध्री  
१, १०, ११; भाश्री १, १०, ९;  
३, ९, १०.  
जायमान, मा- -नः भाश्री २,  
१९, २४××; श्रापध्री; -नम्  
वाधुश्री ४, ६८; वैश्री १, १०;  
११; -नस्य श्रापध्री १६, १६,  
११; वैश्री १८, १४; ८१; वैश्र  
२, १८; १६; -नः श्रापध्री  
१, ११, १०; ७, १२, ८; बौध्री;  
-नात् वाधुश्री ३, १५; १; या  
८, १५१; -नः कौसू ६६, २;  
श्रम १०, १३; -ने वैश्र ३, १४;  
८; कौसू ७२, ३९; या १०,  
४७१.  
जाया- पाठ ४, १११; -यया  
शाश्री १२, १७, ११; कौश्र;  
-नः शाश्री १०, १, ११; १२,  
१७, १; १५, १७, १; श्रापध्री;  
-याः शाश्री १५, १७, १; बौधि  
२, ४, २; या ७, ६१; ८, १०;  
-यानाम् या १०, २१; १२,  
४६; -याभिः बौध्री १५, २४;  
२१××; वाधुश्री ३, ९०; ५; ९;  
-याम् शाश्री ३, १३, ३०; १५,  
१७, ११; काश्री; -यायाः बौध्री  
१८, ४६; ७; गोर, पा ५, ४,  
१३४; -यायाम् श्रापध्रि ३,

७, ४; २७; बौधि; -याये  
वाश्र १५, २२; कौसू ३६, ३५;  
-ये बौध्री १७, १३; ८१;  
श्रापध्रि ३, ७, ४; १९१; बौधि २,  
४, २; -नः काश्री १४, ५,  
६; श्रापध्री १८, ५, ९; बौध्री.  
जाया-काम- -माः कौसू ५९,  
११; श्रम ३, २५; ६, ८२.  
जाया-प्ल- -पा ३, २, ५२.  
जायान्य- > षान्ये (न्य-इ)-  
श्र-द्वैत- -तम् श्रम ७, ७६.  
जाया-पति- -ती काश्री ५, ५,  
१०; ३०; श्रापध्री; पाग २, २,  
३१; -त्योः बौध्री २९, ९; २;  
श्रापध्रि ३, ७, ४; २२; बौधि.  
जायापति-कर्मन्- >  
र्मन्- -व्यम् जैश्र १, २२; १३.  
जाया (या-ञ) भिवृद्धि- -द्वये  
श्रम ६, ७८.  
जाया-वर्जम् विष २०, ३९.  
जास- > जाश-पति- > जास्पत्य-  
-नः श्रापध्री ३, १५, ५;  
श्रापध्रि; -त्ये शुप्रा ४, ४१.  
जिजनियमाण- -णस्य निस् ७,  
१; ५.  
जैनेय- -न्यः श्रापध्री १६, ३, ७;  
वैश्री १८, १; ९३; द्विशी ११,  
१, ३२.  
१-२जन- , जनक- , १-२जनत्-  
जनन- प्रसू. √जन् ह.  
जनंघर- (> जानंघरायण- ) जलंघर-  
टि. ह.  
जनपलण्डुकुम्भीका- -कः श्रुष २१.  
जनमान- √जन् ह.  
ईजनयीते<sup>०</sup> द्विशी १, ६, ३२.

a) विप. (क्षम- , हय- ) । b) = स्वरिः-निःशर- । c) वैश्र १६. d) ष्ये<sup>०</sup> इति पाठः ई  
यनि. शोषः । e) दैव-व्यम् इति W. । f) पाठः ! लघुनपलाण्डुकु<sup>०</sup> इति संशयः टि. । g) पाठः !  
जनयति- > -त्ये इत्ययैव विकृतं रूपं ह. ।

जन्तु- ✓जन् द.

जन्तुक- पाग २,४,६९.

जन्त्य-जन्म- प्रत्य. ✓जन् द.

✓जप<sup>०</sup> पाषा. ध्या. पर. व्यहारायां  
वाचि, मानसे, जपति आश्री १,  
१,१६××; शाश्री; वीषि २, ५,  
७; जपतः काश्री २०, २, ९;  
शापश्री; जपन्ति आश्री ५, ३,  
२२; ६, १३, १४; काश्री; जप  
काश्री १८, ३, १७; जपेत्  
आश्री २, ८, ८××; शाश्री;  
जपेत् शाश्री ३, ६, ३; जपेत्तुः  
शाश्री १०, २१, १५; द्राश्री.

जेषुः क्रम २, १०, ५८; ५९;  
द्वे ७, ९०; ९१.

जपयेत्तुः आश्री ९, ९, ८.

जजङ्क- पा ३, २, १६६.

जप- पा ३, ३, ६१; पाग ६, १,  
१५६; -पः आश्री १, २, २४;  
५, १०, २२; शापश्री; -पस्  
आश्री १, २, ६२, ९, ९; काश्री;  
-पाः आश्री ४, ८, २; शापश्री  
१४, १५, ४; वीश्री ३, ३० : २३;  
द्विश्री ६, १, ७; ११; १०, ७,  
२६; विष २०, ४५; मीशु १२,  
४, १; -पाव क्रम २, २, १;  
-पान् शाश्री १७, १२, ४;  
-पानाम् शाश्री ३, १६, १९;  
-पे वृदे ८, १२४; -पेन आश्री  
६, ३, १५, -पेभ्यः शाश्री १,  
१, १८; -पैः अप्राय ६, ९; अप.  
जाप<sup>०</sup> -पः आश्री १५, १.  
जप-कर्मन्- मैणि द्विष १, ४,  
६०; अत्र ११, ३ (२).  
जप-वैयर्क- कम् वाष २६,

११.

जप-मन्त्र- न्द्राणि शाश्री ३,  
१६, २०.जप-यज्ञ- ज्ञः वाष २६, १;  
विष ५५, १९; -जस्य वाष  
२६, १०; विष ५५, २०.जप-संस्कार- रम् मीशु १०,  
२, ४७.जप-ह्वना (न-श) घ्ययन-ब्रह्म-  
ध्वयं-पर- रः सुषप ८५ : ५.जप-होम- मः अप ७०<sup>०</sup>, ९,  
४; १०, १; -मैः तु २, २;  
-मौ अप ५३, ६, ४.

जपहोम-तत्(ः) अप ७, १, १.

जपहोमा( म-आ)दि- दि  
द्विष ४, ११५<sup>०</sup>.

जपहोमादि-कर्मन्- मीशु

क्रम १, १, ९.

जप-होम-पितृक्रिया- याः अप  
२३, १०, ७.जप-होम-प्रतिग्रह- दान् वीष  
२, ८, १६.

जप-होमि( म-इ)द्वि-यन्त्र-

न्द्राणि वीष ४, ५, ३.

जपहोमिद्वि-यन्त्र-रथ- रथः

वीष ४, ५, ५.

जपहोमिद्वि-यन्त्रा ( न्द्र-२आ )

र- री वीष ४, ५, २.

जपा(प-आ)दिक- कम् शंष  
१०२.

जपा(प-अ) घ्याय-तपो-दान-

-मैः अप २३, १२, २.

जपा(प-अ)नुमन्त्रया(ग-आ)प्या-  
यनो (न-उ) पस्थान- भानि  
आश्री १, १, २०.जपा(प-आ)वृत्ति- रया अप.  
३६, ८, ४.जपन्- यता वीश्रीका १६९; -यताम्  
वाष २६, १४; -पस्तु काश्री ९,  
६, ३४; -पज्ञिः अप ६८, ४, ५;  
-पन् आश्री २, ५, ४; शापश्री;  
-पन्तः आश्री २, १९, ३६××;  
शाश्री; -पन्तम् जेषु १, २ : १९<sup>०</sup>.

जपन- नम् वैशु ३, २२ : १.

जपित्वा आश्री १, २, ५××; शाश्री.

जस,ज्ञा- सम् अप ३६, २४, १<sup>०</sup>;

-ज्ञा शंष ४५४; -ज्ञानि वाष

२८, १५; -ज्ञैः अप ३६, १२, १.

जतन्य,व्या- व्यम् अप ३६, ८, ५;

-व्याः अप ७०<sup>०</sup>, ३, ५.

जन्तुम् &gt; प्तु-काम- मः शंष

१००.

जन्त्या आश्री २, ५, ६ : २६××;

वैशु.

जन्त्य<sup>०</sup> -व्यम् शाश्री १७, १४, ४;

अर्शा २३, ३; शंष ११४; विष

५०, ४८; -व्याः काण्ड ४१ : ६;

वीष ४, ६, १; -व्ये शंष १०६;

विष ६४, ४०; -व्येन विष २२,  
१०; ५४, २८; ५५, २१; -व्यैः

अप ५४, २, ५.

जन्त्य-कर्मन्- मैणि आपष १,  
१५, १<sup>०</sup>.

जन्त्य-होम-तपस्- पांसि विष

८५, २.

जन्त्या(व्य-अ)प्रिपरिभुजन- मै

द्विष २, १, १७.

जन्त्या(व्य-अ)प्रिह्वना( न-आ )

दि- दिशु शंष १००.

जापिन्- पितम् वाष २६, १२.

a) व्यप.। व्यु. ?। b) पा ३, १, २४, ७, ४, ८६ पराशुदः द.। c) जपेत् इति B.। d) =नय-।

e) सत्वा. जापक <> जपक इति पाठे.। f) विप.। वस.। g) तपः इति पाठः इति. शोषः। h) बर्मणि  
यत् प्र. (पा ३, १, १८)।

जाप्य- -घ्यत वाप २६, ११.

जाप्य-पर- -ः वाप २६, १३.

ज-पर- ज द.

जपा<sup>०</sup>- -पायाः याशि २, ७५.

जपारूप<sup>०</sup>- ><sup>००</sup>प-आकुत्या-भण्डी<sup>०</sup>-  
कुरण्डक-वर्जम् जैप १, १ : १२.

जपित्वा- प्रथ. ✓जप् द.

जज्याव<sup>०</sup>- -रु अप ४८, ११५; निप  
४, ३; या ६, १७; उप् २, ११.

✓जम्, म्स्<sup>०</sup> पाषा. भा. पर. आत्म.  
वात्रविनामे; घुरा. पर. विनाये,  
जज्मम्यामयि आसिप ३, ७, २ :  
६; वीप १, १७ : २७; जज्मम-  
य>या आपमं २, १७, १; या  
३, ११; क्रपा ७, ३१.

जज्मत्- -मत्तौ शांथी ४, २०, ११.

जज्मभा(न>)ना- -ने कौस् ११४,  
२१.

जज्मव्यमान- -नः आपथी ४, ३,  
१२; हिप १, १६, २.

जम्-<sup>०</sup> पाग ४, १, ११२<sup>०</sup>, -जम्मे  
वाथी २, १, ८, १<sup>०</sup>; आपमं १,  
१०, ७×४; याशि २, ९४.

जाम्म- पा ४, १, ११२.

जम्म-गृहीत- -जाय कौस् ३२,  
१; ३५, १३.

जम्मय- -म्यान् तैपा २, १७.

जम्मय<sup>०</sup>- -जम्मेभिः आपथी  
२०, २१, ९<sup>०</sup>; वीथी १५, ३५ :  
५; हिथी १४, ४, ५५.

जम्मक<sup>०</sup>- -कः माप २, १४, २११.

जम्मन-> -न-नर्तन-गान-कृत्य<sup>०</sup>-

-रयः वैप ३, १४, ४.

जज्ममयत्- -यन्तः या १२, ४४;

क्रपा २, ४३; घुरा ४, ६५.

जज्मिन्- -मिन्नः अप ६८, १, ११.

ज-भाव- ज- द.

✓जम्<sup>०</sup> पाषा. भा. पर. अदने,  
जमीत निप २, १४<sup>०</sup>.

जज्मत्<sup>०</sup>- -मत् अप ४८, २०;  
निप १, १७.

जम्द-मसि<sup>०</sup>- पाग ४, १, १०५;

२, १११; -मयः<sup>०</sup> वृदे ४, ११४;

या ७, २४४; -मये आसिप १,

२, २ : १५; वीथी ३, ९, ३१;

माप ३, १० : ११; हिप २, १९,

३१; -मि शांथी १४, ६७, १;

१५, २१, ११; वीथी १७, ४२ :

३१; १९, १० : २८१; वीथीप्र

५४ : १२; आपमं २, ८, १०१;

शांथ ४, १०, ३; पाप २, ६, २३१;

माप २, २२ : ५१; हिप १, ११,

४१, २, १९, २; कौस् ३१, २८१;

मय, -जमिना आथी ५, ५, १२;

शाथी ७, २, ७, आप ३, ५, ७;

कौथ ३, ७, १०; शांथ ४, ५, ८;

-जमिनि<sup>०</sup> आथी ८, ९, ७, शांथी

१०, १०, ८, या ७, २४; -मिम्

वैप १, ४ : १५१; -मीनाम्<sup>०</sup>

काथी १, ९, ३; आपथी २, १८,

३; ६, ८, २; माथी २, १७, ६;

वाथी १, १, २०; वैथी ६, ६ :

५; हिथी २, २, ९; -जमिः वीथी

१७, ७० : ४; १८, ५२ : १०९;

आपमं २, ७, ३; वीथ.

१जामदग्म<sup>०</sup>- -मः काथी

२३, २, १२; -मम् आथी १०,

२, २३; ३, ६; वृदे ८, ३७;

-माप लाथी ९, १२, १.

जामदग्म<sup>०</sup>- पा ४, १,

१०५; -म्य आपथी २४, ५,

१२; १३; वीथीप्र ३ : १६;

हिथी २१, ३, ७; वैथ ४, २, २;

-म्यः आथी ३, २, ८; वृदे ५,

२५; -म्यम् आपथी २, १८,

२; माथी २, १७, ७; माथी १,

३, २, ५; वाथी १, १, १, ३०;

हिथी २, २, १०; -म्यस्य माथी

१, ३, २, ५; ७, ६, ३१; -म्याः

आपथी २४, ५, ११; हिथी २१,

३, ७; -म्यानाम् आप १, ७, ९;

कौथ १, ५, १२; जैप १, ३ : २३;

द्राप २, १, १७; -म्याय निस्

८, ४ : २९१; वीथ ३, ९ : ३;

-म्येन आपथी २२, १८, १६;

हिथी १७, ७, ९.

२जामदग्म- पा ४, २,

१११; -मः आथी १२, १०, ६-

जम्दमि-वच आपथी २४,

५, १२; १३; वीथीप्र ३ : १७;

हिथी २१, ३, ७<sup>०</sup>; वैथ ४, २, २-

जम्दमेप-चतुराप्र- -त्रः

वाथी १६, २३, ७.

जम्दग्म्या(मि-आ)र्ष<sup>०</sup>- -र्षः

मय २, ३, ६२.

जम्-पति- -ती पाग २, २, ३१.

a) विप. । वस. । b) नाप. । व्य. ? । c) दस. (द्र. C.; वैद्र. माध्यम् जपा-रूप- इति) ।

d) चण्डी- इति C. । e) वैप १ द. । f) पा ३, १, २४; ७, १, ६१; ४, ८६ परामृष्टः द. । g) व्यप. ।

h) पाभे. वैप १, १३६३ ० द. । i) = विनायक-विशेष- । j) विप. । दस. > वस. । k) या २, ६ परामृष्टः द. ।

= ✓जिम् इति BPG. । l) गतौ वृत्तिः । m) ज्वलने वृत्तिः । n) बहु. < जामदग्म- । o) = ऋहीन-

विशेष-, [आथी-] स्फ- । p) = ऋहीन-विशेष-, कापि-विशेष- प्रथ. । q) ण्ये इति पाठः ? यनि. शोध-

(द्र. मूको.) । r) नाप. । व्य. ? (द्र. वैप १ दम्-पति- ) ।

जम्ब- पाठ ४, ९५.

जम्बाल- पाठमो २, ३, १०५.

जम्बीर- पाठमो २, ३, ५०.

जम्बु, ज्म्बु<sup>१</sup>- पाठ १, ९३; पा ४, ३, १६५; १६६; पा, पाग ४, २, ८२; पाग ४, २, ८०.

जाम्बव- पा ४, ३, १६५.

जाम्बवक- पा ४, २, ८०.

जम्बु-द्वीप- प्रम् शंघ ११६: ४.

जम्बु-पाल- स्तानि शंघ २३२.

जम्बुक- पाठमो २, ३, २६; -कः श्वप

७०<sup>१</sup>, ६, ८; -कम् श्वप ७०<sup>२</sup>, २,

७, -काय दाधो ३, ४, ५, १०५.

जम्बुक-प्रवेश- -शे काथ २७६: ७.

जम्ब- प्रम्. √जम् द.

जम्बल- पाठ १, १०६.

जम्बिन- १, २जम्ब- √जम् द.

१, २जम्ब- जम्ब- प्रम्. √जि द.

१जम्ब- पाठमो २, ३, १८५.

२जम्ब- १, २जम्ब- प्रम्. √जि द.

१जम्बमे या १३, ५.

१जम्बाहे नाष्ट्ये तु (!) कल्पयते<sup>०</sup>

आश्रित २, ५, ५: १.

१जम्बेते<sup>०</sup> या १४, ७.

जम्ब- जम्ब- जम्ब- प्रम्. √जु

(वयोहानौ) द.

जम्बि<sup>०</sup>- (> जास्तेय- वा.) पाग

४, १, १२३.

जम्बित्- (&gt; जास्तिमेय-) जम्बित्-

टि. द.

जम्बित्- पाठ ३, १२६.

१जम्बमान- पाग ४, १, १०५<sup>६</sup>.

जम्बमान्य- पा ४, १, १०५; -प्वः

बौध्रीप्र ४१: १२.

२जम्बमान- जम्बित्- जम्ब- √जु

(वयोहानौ) द.

जम्बमान- पाठ २, ८६.

१जम्ब- √जु (वयोहानौ) द.

२जम्ब- √जु द.

३जम्बमान- √जु द.

१जम्बाम्य श्व ४८, ११५<sup>५</sup>.जम्बयु<sup>०</sup>- पाठ १, ४; -प्यु आपथो१४, २९, ३; १६, ३२, ४<sup>५</sup>; बौध्री;बौलि १, १७: १३<sup>१</sup>; या १०,३९<sup>१</sup>; १३, ५; -युगा बौध्री १०,४८: ३५<sup>५</sup>; माध्री; -युगि कौत्

३३, १५; -यो बौध्री २६, ३: ४.

जम्बु-गामे-दण्ड- न्द्राम्याम् वृदे

५, ८७.

जम्बु-ज- -पूजः कौत् २६, १;

३८, १; श्व ३२, १, ७; श्वम

१, १२; -जम् या १३, ५.

जम्बु-स्थान- &gt; भीय- -यः या

१०, १५.

१जम्बिताम् √जु (वयोहानौ) द.

१जम्बित्- -ता श्व २, १०, १४२.

२जम्बित्- √जु द.

जम्बित्वा- जम्बित्- √जु (वयोहानौ) द.

१जम्बिमाणेयो<sup>०</sup> आश्रित १, १, २: ४५,

४७; ४६.

जम्बित्पु- √जु (वयोहानौ) द.

जम्बित्- पाठ २, ६; -प्यम् निप ४,

३; या ६, १७.

जम्बु- पाठमो २, ३, १६६.

√जम्बु √जम्बु टि. द.

√जम्बु<sup>१</sup> पाथा. भ्वा. पर. परिभाषण-  
हिंसातर्जनेयुः तुदा. परिभाषण-  
भर्त्सनयोः.

जम्बु- √जु (वयोहानौ) द.

√जम्बु √जम्बु टि. द.

जम्बु- पाठ ३, १०.

जम्बु- पाठना ५, ५८; पाग ४, १,  
१७३<sup>१</sup>.

जम्बु- स्तः आपथो १६, १९,

१३; बौध्री २४, ५: १७; -स्तः

आपथो १७, ११, ३; हिंभो १२,

३, ४.

जम्बु- स्त- स्तम् बौध्री २८, १३: ६

जम्बु- मिश्र- -धान् काथो १८,

१, ३.

जम्बु- यशम्- न्वा आपथो १७,

११, ३; वैध्री १९, ६: ३४;

हिंभो १२, ३, ४.

जम्बु- पाठ ५, ४६.

जम्बु- भ्यः<sup>०</sup> आपम १, ७, १<sup>५</sup>.

√जम्बु √जम्बु टि. द.

जम्बु- √जु द.

जम्बु- -त् बौध्री १७, १८: १०.

जम्बु- पन्त, जम्बु- पाण- √हृष्ट द.

√जम्बु पाथा. भ्वा. पर. घातने; सुरा.

पर. श्ववारणे.

१जम्बु<sup>०</sup>- स्तम् वैध्री १२, ६: १२;जम्बु- वेजयो १०<sup>०</sup>; -स्तम्

a) = वृज-विशेष- , तत्कल- । b) = शृगाल- । व्यु. १ । c) पाठः १ जायन्, होष्यन्, उपकल्पयते

इति नि-पदः शोषः (तु. सप्र. बौध्री १४, १६: १) । d) पाठः १ । जायते इति दु. प्रथु., जायते इति निद २,

५ । e) तु. पागम. । जम्बित्- इति भाएडा. प्रम्. । f) श्वप. । व्यु. १ । g) १०५९ m. d. ।

h) वैप १ द. । i) प्व इति पाठः १ बनि. शोषः । j) पाठः १ सपा. बौ १९, २४, २; ३ काथ ४१, ७२ हिष्ट

१, ४, ८<sup>१</sup> प्रम्. विगिष्टः पागे. (तु. वैप १, १३८८ p, १८४५ g) । k) = √जम्बु, जम्बु इति [पक्षे] BPG. ।

l) तु. पागम. । m) शोषः वैप १, १३४० m. d. । n) = सर्प-विशेष- । o) सपा. जम्बुः (तां २५, १५, ३ च) ।

&lt;&gt; जीर्वः इति पागे. । p) = वारि- । व्यु. १ । q) देवताशेनोपचारः ।



काशु ७, ४; -लानाम् अप ६८, १, १३; -लानि अप ५५, ६, १; -ले आसिण् २, १, १; २; वीनि; या ६, १७; -लेन वैश्री १२, १९; ८; वैणु; -लेपु अप ६५, १, ६; विष २९, १७; -लैः वैष २, १, ५.

जल-कीडा- -डाम् कप्र ३, ६, १५.  
जल-कीडा-रवि-शुभ- -मम् विष १, २६.

जल-किन्न-पाण्डु- -न्वाः गीष २४, ७.

जल-क्षय- -यम् अप ५८, ४, ८.  
जल-गत- -तयोः शंष २८८.

१जलगोपताभूत- -तम् अप ६५, २, ९.

जल-भार- -यम् विष ५०, ४५; या ६, २७; -रागाम् विष ४१, १.

जलचा-गति<sup>०</sup>- -ति. या ७, १३.

जलचा-योनि- -नयः विष ४४, ६.

जल-ज- -जम् विष ६६, ९; ७१, १२; -जाः गीष १७, २७; -जान् शंष ४२६; -जानाम् विष ४१, १; -जानि विष ७९, ६; -जैः अप ६५, २, ३.

जलज-योनि- -नयः विष ४४, ५.

जल-जाति<sup>०</sup>- -तिः अप ६०, १, ३.

जल-जलन-चौर- -रागाम् अप ६३, १, ८.

१जल-ज- -जाः अप ६१, १, ७.

जल-जु(र्गि)<sup>०</sup>र्गा- -र्गाम् या ७, २०; १४, ३३.

जल-धनु- -नुम् अप ९, ३, १;

विष ९०, १३; ऋष २७१ : ८.

जल-पथ- पा, पाण ५, ३, १००.

१जल-यवित्र<sup>०</sup>- -यम् आसिण् २, ४, ६; ८; -त्रे आसिण् २, ४, ९; ९.

२जल-यवित्र<sup>०</sup>- -यम् वीष २, १०, १२, ३२३.

जल-पिण्ड-दाना(न-आ)दि- -दि वैणु ५, १५; १२.

जल-गुरि- -तान् जंभोका २००.

जल-पूर्ण-कुम्भ- -म्भम् वैणु ५, ५; ६.

जल-पूर्ण-पात्र- -त्रे वैणु ४, १० : १२.

जल-प्रद- -दः विष ९१, ३.

जल-प्लव<sup>०</sup>- -वः शंष ३७७; १४.

जल-विन्दु- -न्दवः अप ४१, ४, ३.

जल-वृद्धि-संनिभ- -भे क्य ३, ३, ५.

जल-भय-जल-रक्षय- -नयोः क्यो १७, ४.

जल-भाण्ड- -ण्डैः अप ६८, २, ४१.

जल-वत वीष १, १, १५.

जल-वेग-समादि(त>)गा- -ताः अप ५५, १, ७.

१जल-शयन- > ज-यन्नतो-

(पम्-य)भावकाश- -शान् शंष ३९०.

जल-शयन-यन्नतो<sup>०</sup>(पम्-अ)भावकाश-नयम-पर<sup>०</sup>- -रः शंष ३६९.

२जल-शय(न>)नो<sup>०</sup>- -नी वैणु ३,

१६; ८.  
जल-संनिधि- -धौ अप ६८, ५, २२.

जल-स्थल- -लेपु वैणु १, २; ३.

जल-स्त्राव- -वे अप ७०, ८, ४.

जल-मुक्ति- -नौ अप ७०, १, १.

जल-हारिन्- -नी शंष ३७७; १०.

जल-होमा(म-आ)दि- -कर्मन्- -मैगि कप्र १, ८, २४.

जल-हृद्- (> जालहृद्- पा.)- पाण ४, १, ११२.

जला(ल-अ)जल-ज-संज्ञान<sup>०</sup>- -नान् अप ६५, २, ७.

जला(ल-अ)जलि- -लिम् वैष २, ७-८, ६; -लीन् विष ८५, ६५.

जलाजलि-नय- -यम् शंष १२२.

जला(ल-आ)दिक- -कम् आसिण् ३, ३, ३; १२.

जला(ल-अ)नु(ग>)गा- -गाम् विष १, १.

१जला(ल-अ)न<sup>०</sup>- -न्ते वैष २, १२, ७.

२जला(ल-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्तम् वैणु ५, ७; ३.

जला(ल-अ)भ्याश- -शो वीष ३, २, ३.

जला(ल-अ)र्थ<sup>०</sup>- > र्धिन्- -र्धिनः वैणु १, ४; २३; कप्र १, १०, ८; अप ४२, २, ५.

जला(ल-आ)शय- -यम् विष ८६, १९; -ये आसिण् २, ४, ७; १४x४; वाष २७, १७; विष ८६, १९; -येपु विष २३, ४६.

a) पंच, शुभम् इति जीवैः । b) विर । वर । c) उप. = जीव- । d) = [जलपात्र-] सफिक- ।

e) = जलशयन-वस्त्र- । उरस. उप. करणे कृत् । f) नाग. । उरस. । g) 'प्रासा' इति पाठः ? मनि. शीघ्रः ।

h) विर. । इव. > वर. । i) = व्याहृति-विशेष- । उरस. उप. कर्त्तृ कृत् । j) व्यप. । धु. । k) इव. > उरस. > पय. पूष. = जलचर-नयतवर-, उप. = समूह- ।

ज(ल>)जल-पाह<sup>१</sup>- पाग ८,३,  
१८०.  
जले-वर- नात् शेष ४२६.  
जले-भव- -यम् या ६,२७.  
जले-नाय- -यम् या ६,२७६.  
जलेशय-विलेशय- -यम् शंघ  
४२०.  
जलो(ल-उ)दर<sup>२</sup>-> श्रित्- नी  
शंघ ३७७:९.  
जलो(ल-उ)द्व- -यानिशंघ १९७.  
जलो(ल-उ)पजीविन्- -विनः अप  
५७,३,५.  
जलो(ल-ओ)घ- -घैः अप ७०३,  
११,१६.  
२जल<sup>३</sup>- -लः नाथी १६,२९,६.  
जलडा<sup>४</sup>- (> जालडी- पा.) पाग  
४,१,९६.  
१जल-द- १जल-द.  
२जलद<sup>५</sup>-> द<sup>६</sup>- , -दः अप २,५,२.  
जलदायन<sup>७</sup>- -नैः अप २२,२,५.  
जलद<sup>८</sup>- -दः विधी २१,२,१०.  
जलधर<sup>९</sup>- पाग ४,१,९९.  
१जालधरायण- पा ४,१,९९; पाग  
४,२,५३.  
जालधरायणक- पा ४,२,५३.  
जालधरि- -रिः वीथीप ४३: ६.  
१जलाली अप ४८,११६१.  
१जलाय<sup>१०</sup>- -यम् अप ४८,६४<sup>१</sup>; ७५<sup>१</sup>;  
निघ १,९२<sup>१</sup>; ३,६<sup>१</sup>२<sup>१</sup>.  
१जलाय-भेयज<sup>११</sup>- -भज अप ३२,१,

१७,१८.  
जलिक<sup>१२</sup>- (> जालिक्य- पा.) पाग  
५,१,१२८.  
जलूक(>)का<sup>१३</sup>- पाठभो २,२,२७.  
जलूकान-वन् वैगृ ५,१: २७.  
जले-वर- प्रम. १जल-द.  
जलाल्पमान- /गल् द.  
√जल्प<sup>१४</sup> पाथा. भ्वा. पर. व्यङ्गाया  
वाचि, १जल्पति<sup>१५</sup> अप ४८,९;  
निघ ३,१४; जल्पन्ते अप ७०<sup>१</sup>,  
१२,२; जल्पन्ति अप ७०<sup>१</sup>,९,  
१; ७१,४,१; जल्पेत् ऋए १,  
१९; भाष १,१,९; वाय ६,८.  
जल्प<sup>१६</sup>- पाग ६,१,१५६.  
जल्पत्- -ल्पन् आभिए २, ६, १:  
४; वीथ १,५,१५.  
जल्पन- पाग ३,१,१३४; -ने अर  
७०<sup>२</sup>,८,५.  
जल्पक- पा ३,२,१५५.  
जल्पि<sup>१७</sup>- -ल्प्या या १४,१०१.  
ज(ल्य>)ल्प्या<sup>१८</sup>- -ल्प्या वीथी  
२,५: २२१.  
१जल्लु<sup>१९</sup>- -ल्लुचः निघ ४, ३; या ६,  
२५६, शैशि १३३.  
१जय- (> जामायनि- पा.) पाग  
४,२,८०.  
२जय- /जु द.  
१जयन्<sup>२०</sup>- पावा, पावाग ४,१,१७३.  
२जयन्- जयमान- प्रम. /जु द.  
जयी<sup>२१</sup>/जू, जयीयस- , श्री /जू द.

√जप् पाथा. भ्वा. पर. हितायाम्.  
जप<sup>२२</sup>- -यः मीशि ९६१.  
√जप्त<sup>२३</sup> दिवा. पर. मोक्षणे; वुरा. पर.  
हितायाम्; उम. ताडने, जसति<sup>२४</sup>  
निघ २,१४१.  
जसुरि<sup>२५</sup>- पाठ २, ७३; -रिः अप  
४८, ११५; निघ ४,१; -रिप्  
-या ४,२४१.  
जस्त- -स्तम् या ४,२४.  
जस्यत्यम्<sup>२६</sup> अप ४८,११६१.  
जहा- , जहिजोड- , जहि-स्तम्भ-  
√हर द.  
जह्लु<sup>२७</sup>- पाठ ३, ३६; -ह्लाम्<sup>२८</sup>  
शोधो १५, २७, १.  
जहमन्<sup>२९</sup>- -ल अप ४८, ७५१.  
जा- /जन् द.  
१जांलुक- -कम् वाथो ३, ४, ५, १२.  
जागत- प्रम. जगत्- द.  
जागर- \*ज- प्रम. √ए (विद्रासये)द.  
जाघनी- जघन- द.  
जाङ्गल- , श्लथिक- जङ्गल- द.  
जाह्वाप्रहृष्टिक- प्रम. जहा- द.  
जाहि<sup>३०</sup>- पाग ४, १, ९६१.  
जाह्विक- जहा- द.  
जाहिद्र- जाहि- टि. द.  
जाइमायन<sup>३१</sup>- -नम् कौर ३, २; ६८,  
१७.  
१जाजल<sup>३२</sup>- (> जाजलयनि- पा.)  
पाग ४, १, १५४.  
जाजलिन<sup>३३</sup>-> २जाजल- पावा ६,

a) विप. वा माप. वा । उस. । b) तु. पाका. प्रम. । \*पाटम् इति [पक्षे] भाट्टाः, \*पाटम् इति [पक्षे] पाति. । c) = रोप-विशेष- । d) व्यप. । खु. ? । e) तु. पागम. । f) = तत्प्रोक्तशाखाभ्यामिन्- । g) जलधर- इति पागम., जलधर- इति भोज्यमते । h) वैप १ द. । i) = मुख- । j) = उदक- । k) \*शम् [जु] इति पाठः ? यनि. शोधः । l) कर्म्यं खु. च ? । m) = जलीका- । खु. ? । n) पावा १, ४, ५२ परामृष्टः द. । o) अर्चने वृत्तिः । p) तु. पाका. भाट्टा. प्रम. । तल्य- , बल्प- इति पाति. । q) मावे क्यप् प्र. उसं. (पा ३, २, ९८) । r) तु. पागम. । = देश-विशेष- । s) पा २, ३, ५६ परामृष्टः द. । t) गतौ शोभः । u) बहु. < जाह्व- । v) पाठे. वृ ११-१ d द. । w) < जह- वा जहा- वेति इएव । जाहिद्र- इति पाति. जाग्भि- इति पाका. । x) = जलपात्र-विशेष- इति संस्कृतां [मू. I], जाम्मायन- इति केशवः । y) = शाखाभ्यामिन्- ।

४,१४४; -छैः अत्र २२,२,३.  
 जाज्वल्यमान- ✓ज्वल् द.  
 जाटिकायन<sup>१</sup> - नः अत्र ६, ३५;  
 ११६.  
 जाटिलिक-, जाज्व- ✓जट् द.  
 जाटर- जठर- द.  
 जाडायन- रजड- द.  
 जाड्य- रजड- द.  
 जिाणवत्पलाशाखावन्ति-  
 -सयः बौध्नी १९ : ४.  
 जाणवत्स<sup>१</sup> - स्ताः बौध्नी ४३ :  
 ३.  
 जाण्ट- पाठभो २,२,१५.  
 रजात- ✓जट् द.  
 रजात- (> रजातयन- पा.) पाग  
 ४,१,११०.  
 रजात- (> रजाय- > रजात-)  
 अय-जात- टि. द.  
 रजातमर्क<sup>१</sup> जैव २,९ : १८.  
 रजातायन- जट्- द.  
 जाति- ✓जट् द.  
 जातु<sup>१</sup> वैताथी ३८,९१, काण्ड ४२ :  
 १९, काथ १०,२; विष ९९,२३;  
 या ४,२; पा ८,१,४७; पाग १,  
 ४,५७; पावा ८,१,७२.  
 जातु-यद्- यदोः पा ३,३,१४७.  
 जातुकर्ण-, ष्व- जटु- द.  
 जातुकर्ण- प्रभ. जटु- द.  
 र-रजात्य- ✓जट् द.  
 धजात्य<sup>१</sup> - यम् भाण २, १ : २;  
 ११.  
 र, रजान-, जानकि- प्रभ. ✓जट् द.  
 जानत्- ✓हा द.  
 जानन्तरि<sup>१</sup> - रिः बौध्नी ४३ : ६.

जानन्ति<sup>१</sup> -> न्ति-बाह्वि-गार्ग्य-  
 गौतम-शाकल्य-वाजस्य-माण्ड-  
 व्य-माण्डूकेय- -याः अण् ३,  
 ४,४; कौट २,५,३.  
 जानन्धरायण- जनन्धर- द.  
 जानपद्-, दिक्-, ष्पी-, ष्मान्य-,  
 ष्पाज्य-, ष्पादिक- ✓जट् द.  
 जिाना वाथी ३,४,२,४.  
 जानान- ✓हा द.  
 जानायन- ✓जट् द.  
 जातु<sup>१</sup> - पाठ १, ३; पाग ५,४, २९;  
 -तु आथी १, १२, ३१; २, ३,  
 १५x; शाथी; आपथी २०,  
 ३,९<sup>१</sup>; -तुः बौध्नी १: ५; -तुनः  
 कप्र १,२,६; -तुना शाण्ड २,७,  
 ५; -तुनि आपथ २,२०, १४;  
 हिष २,५,१०१; -तुनो काठथी  
 १५६; माथी १, २, ५, ११;  
 वाथी; -तुनोः अत्र २२,५, १;  
 दासि १, १९; पा ५, ४, १२९,  
 -तुभि. विष ४२,४३, -तुभ्याम्  
 आथी ६, ५, ४, अण्णिण्ड २, ४  
 ९ : १५; गोण्ड ३, १, ३१; अण्;  
 -तुम् हिथी १४, १, ३०<sup>१</sup>,  
 अण्णिण्ड ३, ४, ४ : १९; ११, १ :  
 ५; कौण्ड ४, ८, ९; शंष २१६,  
 २१८, -तुनि अण्णिण्ड ३, ५,  
 ६ : २; बौधि १, ४ : १८;  
 हिषि ५ : २; -नोः वैथी १८,  
 १६ : ७४<sup>१</sup>, आपथ ९, १५;  
 बौध्नी ५ : ९; ७ : ३; -नोः जैव  
 १, १६ : ५, बौध्नी १, २, २८;  
 वैध २, १०, ७.

रजानु-क- पा ५,४,२९.  
 जानु-कपोल- -लथोः विष ९६, ६५.  
 रजानु-जहा- -हथोः जैव २, ४ :  
 ५.  
 जानुनहा(डा-अ)धीवत्- -थतोः  
 शाथी ४, १५, १९; कौण्ड ५,  
 ६,५.  
 जानु-द्वन्<sup>१</sup> - धम् आपथी ७,४,२;  
 १६, १३, ११; वाठथी; -ध्ने  
 आपथी ५, १४, ८x; बौध्नी.  
 जानुदन्वी- -न्वीम् बौध्नी १९,  
 १० : ४; आपथ १०, १०.  
 जानु-प्रहन- (> -तिक- पा.)  
 पाग ४, ४, १९.  
 जानु-म्राण- -त्रम् अण्ड २, ८, २; ४,  
 ४, ८; -थे काथी १८, १, २.  
 जानुमात्र-पा(द< >)थी<sup>१</sup> - -दीम्  
 काथी १९, ४, ७.  
 जानु-शिरस्- -रसा आथी १, ४,  
 ८.  
 जानु-हस्त<sup>१</sup> - -स्तेन अण्ड १, २८, ४.  
 जान्व(तु-अ)क- -क<sup>१</sup> आपथी १०,  
 ९, २१; माथी १०, ५, १५; वाथी  
 १, १, २९.  
 जान्व(तु-अ)स्थि- -स्थि आपथी  
 १, ३, १७.  
 रजानु-क- ✓जट् द.  
 जानेयादिक-, जानोवादिक- ✓जट्  
 द.  
 जाण-, ष्विन्-, ष्व- ✓जट् द.  
 जाबाल<sup>१</sup> - -स्थाः बव्यू २ : ३६;  
 ४ : २.  
 जाबालि<sup>१</sup> - -लयः बौध्नी ३१ : ५;  
 -लिः बौध्नी ३ : १३.

a) = अन्ति-विशेष-। ध्यु. ? । b) पाठः रजानुः इति शेषः (तु. तपा. अण्ड ५१, १, ३) ।  
 c) वैप १ द. । d) = अजान-विशेष-। ध्यु. ? । e) सप्र. 'तु <>' तुम् इति पाठे. । f) 'तु इति पा. ।  
 g) जनोः इति पाठः । इति. शेषः (तु. आपथु.) । h) विप. । यस. । i) पाठे. वैप २, ३६. काश. जान्वण्डः  
 ४, २, १, ३ टि. द. । j) < जवाला- इति संभाव्येत (द्र. वैप ३) ।

जाबालेय<sup>१</sup>-पा, पाग ५, ३, ११७<sup>०</sup>.

१-२जामदग्-अन्व-✓जम् द.

जामलायन्<sup>०</sup>-ना: वीधो प्र ४: ३.

जामालि<sup>०</sup>-> ल्यै (लि-ऐ) तिशासन-

विरोहित-माण्डव्या(व्य-अ) षट्-

मण्डु-वैद-रेतवाह-प्राचीनयोग्य-

-पानाम् द्विधौ २१, ३, ७.

जामाल<sup>०</sup>- पाठ २, १५; -फ०त: षट्पा

१, १०२; श्रुपा १, १६८; -ता

विध ८३, १०; छेदे ५, ५७-५९;

या ६, १६; -तरम् आसिष्ट १,

७, १: १५; -तु: या ६, १.

जामि<sup>०</sup>- पाठमो २, १, १६८; -फ०मय:

आथी ५, ७, ३२; शाथी: अप ४८,

८२<sup>०</sup>, निध २, ५<sup>०</sup>; या ३, ४<sup>०</sup>;

-फ०मे श्रुदे १, ५७; गा ३, ६६; -मि

आपथी ९, ९, ९; माथी: अप ४८,

७५<sup>०</sup>; निप १, १२<sup>०</sup>; -फ०मि:

शाथी १४, ५२, ५; अ; अप ४८,

११५; निध ४, १; या ३, ६६<sup>०</sup>;

४, २०; १०, १६; -फ०मिम्

आपथी ३, १३, ५<sup>०</sup>; माथी<sup>०</sup> २,

८, ६; १२, ३; माथी; -मिपु

श्रुपा ९, ४५<sup>०</sup>; -फ०मी आपथी

१२, ७, १०<sup>०</sup>; शाथी १३, ३,

३३; द्विधौ ८, २, १<sup>०</sup>; वीध ३,

११, ४; -मीनाम् अश १६, ८<sup>०</sup>;

-म्या: शाथी १२, २०, २<sup>०</sup>; या

३, ५; -वै कौष् ३४, १५; २०.

जामि-करण-ण: निम् १, १३: ९.

जामि-कल्प-ल: लाथी ९, ११,

१५.

जामि-कलस-सा: श्रुष्ट २, ६: १४.

जामि-ता-ताया: क्षुष् ३, ११: ३२.

फ०जामि-कलस-साग्न आपमं २,

१२, १०; आसिष्ट २, १, ४:

१०; द्विष्ट २, ३, १०.

जाम्यव-वरु-जम्बु-द.

जाम्यवता.न्त<sup>०</sup>-> वरु-

[, वरु-] पा. पाग ४, १, ८०.

जाम्बि-जाति-दि. द.

जाम्बील<sup>०</sup>-> ल-स्फन्दन-ने

वैताथी १२, ८.

जाम्म-✓जम् द.

जायमान-, जाया-प्रम्. ✓जम् द.

जायु-, जायुक-✓जि द.

जार<sup>०</sup>- पावा ३, ३, २०; -०<sup>०</sup>र

जैथी ३: १५; शाथी १, ३, ३;

८; ४, ७; लाथी १, ३, १; ४, ४;

-र: शाथी १४, ५६, ११<sup>०</sup>;

आपथी ८, ६, २२; वीथी ५, ७:

६; ७; माथी ८, ८, ५; वैथी ८,

१२: ३; माष्ट २, १८, २<sup>०</sup>;

या ३, १६<sup>०</sup>; ५, २४<sup>०</sup>; १०,

२१<sup>०</sup>; -रम् आपथी ८, ६, २२;

वीथी ५, ७: ७; माथी ८, ८, ५;

वैथी ८, १२: २; द्विधौ ५, २,

४६; कौष् ३६, ३५; -रा:<sup>०</sup>

आपथी ८, ६, २०, माथी ८, ८,

४; वैथी; -रत्त वैध ३, १२, २;

११, १३, ४; -रे लाथी १, ३,

८; -रण वाध २८, १; वैध ३,

१३, १०; -फ०रेभ्य: माष्ट १,

१५: १२; द्विष्ट १, २४, ५.

जारना(भे<sup>०</sup>)भां-भां: नासि २,

८, १९.

फ०जार-(हत् >)मी-मी कौष् १,

१०, ३; -मीम् आपमं १, १०,

३; ६; शाष्ट १, १६, ४; पाष्ट १,

११, ४; वीध १, ६, १२; माष्ट

१, १६: १५; द्विष्ट १, २४, ५.

जार-भर-पाग ३, १, १३४.

जार-स्यो-( > जारस्येभ्य- पा. )

पाग ४, १, १२६<sup>०</sup>.

जारीणी-मी या १२, ७<sup>०</sup>.

जारी(र-ञ)पञ-ञ: वैष ३, १३, २.

जारतिनेय-जरतिव-द.

जारतेय-जरति-द.

जारत्कारय-✓जू (वयोहनी) द.

जारयन्ति-✓जू द.

फ०जारयायि<sup>०</sup> निप ४, ३; या ६, १५.

जारी-✓जू (वयोहनी) द.

जाल<sup>०</sup>- पा ३, १, १४०: ३, १२४;

पाग २, ४, ३१; ४, १, १०: १२; ५,

४, १३८; -लम् काथी ७, ४, ७;

काथी; या ६, ५; १२; २७<sup>०</sup>;

-लानि कौष् १६, १६; -लेन

आपथी १६, २५, २; वैथी १८,

१७: ५१; द्विधौ ११, ७, ४३;

पाष्ट १, १६, २४; आपष्ट १८, १;

अन ६३, ३, ६.

जाल-नद-ल: श्रुष्ट २, ८, ६७.

जाल-पाद-पाग ५, ४, १३८; -दान्

शंघ ४२६<sup>०</sup>.

जाल-स्था (स्थ-अ)कं-मरीचि-

गत-तम् निप ४, १.

जाल-दस्त्र<sup>०</sup>-रतेन अप १, २९, ४.

जाला(ल-अ)वाम्य<sup>०</sup>-स: वाधुथी

४, १८: २०.

a) = भायुषजीवितप-विशेष-। व्यु. १। b) तु. पाका.। ज्याषाणेय- इति भाष्यम्। c) = प्राय-  
विशेष-। व्यु. १। d) वैष १ द.। e) = अलुगलि-। f) पागे. वैष १, १३६६। द.। g) = उदक-।  
h) पागे. वैष १, १३१०। j. d.। i) पागे. वैष १, १३६६। j. d.। j) श्रीनम् इति पाठः? यनि. सोचः  
(तु. आपथी.)। k) तु. पाका.। l) पागे. वृ ८४१। ०। d.। m) तु. पागम.। n) पाग. <✓जल्  
(धातने)। o) = पति-विशेष-। p) मलो. वम.। q) = अन्वाखान-विशेष-।

जालिक- पा ४, ५, १०; १२.  
 जालकीट- पा, पाग ४, २, ११०.  
 जालडी- जलडा- द.  
 जालधर- > (२जालधरायण-)  
 जलधर- टि. द.  
 १जालधरायण- णक-; षरि-  
 जलधर- द.  
 जाल-पद- (> षदी-) जानपदी-  
 टि. द.  
 जालमानि- (> षीय- पा.) पाग ५,  
 ३, ११६.  
 जालहृद- १जल- द.  
 जालागत- -ता: बौध्री प्र ४७ : १.  
 जालिकय- जलिक- द.  
 जाल्म- पाठभो २, २, २४७; -समः  
 बाथी १, ६, ५, १००.  
 १जाल्मो- -०लिम बाथी ३, २, ५,  
 ३२, ६ाथी ११, ३, १०, लाथी  
 ४, ३, ११.  
 १जालिम- अय १, ३१, ८.  
 जायन्य- √उ द.  
 १जाचकमद- -दा: अय १, ३६, ५;  
 अय ३, ४, १.  
 जास्पत्य- √जन् द.  
 जाहृपाण- √हृप् द.  
 √जि<sup>१</sup> पाघा. भ्वा. पर. जये, क्रमि-  
 भरे, नुरा. उभ. भाषार्थे,  
 जयति आथी ९, ९, ८; बाथी;  
 या ९, १४०; पा ४, ४, २;  
 जयन्ति आपथी ५, २०, २४४;  
 हिथी, जयथ ५, ५, २६;  
 १जयामि आथी २, २, ४०; ११,

८२; शांथी; जयामः या १०,  
 १५; १जयामि बाथी १, ५,  
 २, ५; आपमं २, १८, ४७; या  
 १०, १५; १जयति बाथी १३,  
 २८ : १६; १७; वैताथी; जयात्  
 बाधूथी ४, १४ : ८; १४<sup>२</sup> : ९;  
 १४<sup>३</sup> : ८, १४<sup>४</sup> : ९; जयाथ या ५,  
 २६; १जयतु आथी ८, १४, ४<sup>३</sup>;  
 बाथी ६, ३० : २४; गोय ३, ४,  
 ३१, या ९, १२; जयताम् आपथी  
 १६, २६, १०; १जय, > या बाथी  
 १, ३, ४, ५; ३, ३, २, ५५; माथी;  
 १जयत, > ता आथी ५, ७,  
 ३<sup>२</sup>; ९, ९, ८<sup>३</sup>; शांथी १६,  
 १७, ६<sup>३</sup>, बाथी; १जयानि<sup>३</sup>  
 शाथी २, ६, ७, आपथी ६, १,  
 ८; माथी, अजयत् शांथी १४,  
 ४३-४८, १; बाथी; या १,  
 १५०; अजयन् बाथी १४, १६ :  
 १३<sup>३</sup>; बाधूथी, १जजयः आथी  
 ५, १९, ४<sup>३</sup>, आपथी ५, ९, ११<sup>३</sup>;  
 माथी १, ५, २, १५<sup>३</sup>; बाथी,  
 जयेत् बाथी १८, ४९ : ५;  
 बाथी १, ४, ४, १७, हिथि २, ५,  
 १७८<sup>३</sup>; अयः जयेत् बाथि २,  
 २, ४८, जयेवहि वृदे ५, १ २६;  
 १जयेम काथी २, १, ३, आपथी,  
 वैताथी २७, १<sup>३</sup>, या ५, २;  
 ९, १७<sup>३</sup>.  
 १ज माथी १, ५, ५, १३०.  
 १जिगाय आथी २, २, ४, शांथी;  
 जिग्युः बाथी १८, ४६ : २००;

१जिग्युः आपथी २२, १६, ४;  
 बाथी, जेयन्ति बाथी १८, ४६ :  
 १६; १जेयन्मि बाथी १५, २७ :  
 २; ८; बाधूथी ३, ८८ : ३; २०;  
 १जेयामः बाथी १२, २, ८;  
 बाथी; जेयथ शांथी ७, ६, ३<sup>३</sup>०;  
 १जेयम् आपथी १८, ४, ८; १७,  
 ५<sup>३</sup>, बाथी ३, १८ : २३४४;  
 १२<sup>३</sup>, १२ : ९; १३ : २४; माथी;  
 हिथी १३, ६, ४<sup>३</sup>, जेय्म बाथी  
 १, ६ : २१०; १जैत् आथी  
 ३, २, १०; शांथी; अजयित्  
 बाथी ११, ८ : १४०; १जैरीय  
 आपथी २२, १६, ९; हिथी १७,  
 ६, ३३; १जैत् माथी १, ३, ४,  
 २; वैताथी ४, २; अजैपीः बाथी  
 १, ३, ५, १६०; १जैर्म कोसुष्ट ९,  
 १९, अय १६, ६, ऋया १४, ४४;  
 अजयित्यन् बाधूथी ३, २२ : १४.  
 जीयते प्रसू. √जी द.  
 जापयत् बाथी ११, ८ : १४०.  
 अजीवित् बाथी ११, ९ : ८०<sup>३</sup>.  
 १जय- पाग ४, २, ८०<sup>३</sup>; ५, २,  
 ६४; -यः अय ५४, २, १; ६३,  
 ५, १; आज्यो ५, १३; पा ६, १,  
 २०२; -यम् अय २४, ५, ४;  
 २६, ५, ५, १, २; ७०<sup>३</sup>, २६,  
 १; वृदे ८, १३; -याः बाथी  
 २६, ९ : ३०; माय १, ११,  
 १५०; वैय १, १७ : ६; -यात्  
 आपथी ५, २४, १; ३; बाथी;  
 -यानात् बाथी १४, १६ : १;

a) = आग्रुषजीविसंवाविशेय-। व्यु. ?। b) व्यप.। व्यु. ?। c) वैय १ द.। d) या ९, १७ ऋया  
 १४, ४४ पा ३, २, ६१; ६, १, ४८; ७, ३, ५७ परामृष्टः द.। e) सप्र. जयामि <> जयानि इति पाभे.।  
 f) पाभे. वैय २, १३६. जयतु तेसा २, ४, ६, १२<sup>३</sup> टि. द.। g) पाभे. वैय २, ३६. जेयथ शांता २८, ६ टि. द.।  
 h) पाभे. वैय १, १३६९ d द.। i) पाभे. २, ३६. आ...अजयत् तां १, ५, १९ टि. द.। j) पाभे. वैय  
 १, ११७० d द.। k) पाभे. वैय १, १३६८ d द.। l) पाभे. वैय १, १३७० l द.। m) वैय १  
 निर्दिष्टयोः एतद्विशेषः द.। n) द्व. पागम.।

१३: आसिण् २, ५, ५ : १; १०<sup>१</sup>;  
 माण् १, १०, ११; वाण् १४, १२;  
 -येण् बौधो २३, ७ : १०; -यैः  
 बाधो १, ४, ४, ४४.  
 जय-क- पा छ, २, ८०; ५, ३,  
 ६४.  
 जय-काम- भेन अप २, ४, २.  
 जय-घोष- -यैः अप २१, ६, ६.  
 जय-त्य- नत्वम् बौधो १४, १६ :  
 १४; आसिण् २, ५, ५ : १०<sup>१</sup>.  
 जय-अभ्युक्ति- -तयः कण् २५,  
 २६; -ति आसिण् १, ७, ३ :  
 ३८; २, ४, ४१०४<sup>१</sup>; बौण्  
 १, ६, १९; ११, १०४४; माण्;  
 -तिभिः काण् २३, २; २८, ४४४;  
 माण्.  
 जय-शब्द- -न्देन आसिण् ३,  
 १०, ४ : ६.  
 जय-होम- -मण् आसिण् २, ७,  
 ७ : २.  
 जया(य-ञा)दि- -दि आसिण्  
 १, ३, २ : ४१; आपण्; -दीन्  
 बौधो २९, १२ : ८.  
 जया(य-ञ)भ्यावान- -न्तः  
 आपथो १९, १७, १८; माण् १,  
 ११, १४; -न्तर् हिथो २२, १,  
 २९<sup>१</sup>; पाण्; वैध २, २, ३७;  
 -नाकाम् वाण् २, ७.  
 जया(य-ञ)र्थ- -भम् अप १,  
 ७, ५.  
 जयाधिन्- -र्धो अप ६८,  
 ४, २.  
 जया(य-ञा)वह,हा- -हा अप

२६, ४, ३; -हाः आज्यो ६, १२.  
 जये(य-ई)प्सु- -प्सुः अप ६९,  
 ५, ३.  
 रजय,या- -यः<sup>१</sup> अत्र २, १०, १८;  
 शुभ २, ३५४; -यर् शंध  
 ११६ : ५४<sup>१</sup>; -या आज्यो ६,  
 ८; १०<sup>१</sup>; कण् १, १, ११<sup>१</sup>; विघ  
 ९९, ४; -याम्<sup>१</sup> आसिण् २, ५,  
 ३ : २२<sup>१</sup>; शंध ११६ : ३७;  
 आज्यो ६, १२<sup>१</sup>; -यावान्  
 आज्यो ७, ३<sup>१</sup>; -यैवै माण् १,  
 १०, ११; २, १३, ६.  
 जय-विजय- -याव अप ६६,  
 ३, २<sup>१</sup>.  
 जया(य-ञ)धिपति- -तये ६६,  
 ३, २<sup>१</sup>.  
 जयर्- -यताम् बौधो १८, ४१ :  
 १३; माधो; या ९, २१; -यते  
 आपथो २०, ७, १६; २२, २१,  
 ७; -यन्तम् बौधो १८, ५ :  
 १२; आसिण् २, ५, ३ : २०;  
 वीण् ३, ७, १६; उन्निम् ४ : ११.  
 जयन्ती- -न्ती आपमं १,  
 १६, ५<sup>१</sup>.  
 रजयन- -नम् या ५, २६; -ताण्  
 या ९, २४.  
 जयन्त- पाठ ३, १२८; -यन्त  
 आपमं २, १८, १३<sup>१</sup>; माण् २,  
 ८-९ : १०; -न्त. हिण् २, ८,  
 ५<sup>१</sup>; -न्तम् आपण् २०, ३;  
 माण् २, ८ : ७, हिण् २, ८ : ४;  
 बौध २, ५, २३; -यन्ताय  
 आपमं २, १८, १३; ३०; वीण्

२, ८, ९; भाण् २, ८ : १०; ९ :  
 ५; १०; हिण् २, ८, ५; ८<sup>१</sup>.  
 रजयन्ती- -न्त्याः बौधो १८,  
 ४६ : १७.  
 रजयन्ती- -न्ती अप ५, २, १.  
 जयिन्- पा ३, २, १५७; -यो विघ  
 ८, ३८.  
 जय- पा ६, १, ८१.  
 जायु- पाठ १, १.  
 ज्ञायुक्- -कम् आपथो १६, ९,  
 ८; माधो ६, ३, २७; वैधो १८,  
 ७ : ११.  
 जि(गि),गीवस्- -वांसः बौधो  
 ११, ९ : ५; तैत्रा १६, १३;  
 -वांसम् आपथो ३, ४, ७; बौधो  
 १, १९ : ६; माधो ३, ४, ८;  
 बाधो १, ३, ५, १६; वैताथो ४,  
 २; -वान् अपा ३, ४, १; तैत्रि  
 २२०; -युवः बौधो १३, २ :  
 १७४; -युवाण् वीण् ४६, ५४;  
 -युवे आपथो १७, ८, ७; वैधो  
 १९, ५ : ५३.  
 जिपीप- -पठः शोधो १४, ४२,  
 १६; -पठ् शोधो १४, ४३, १<sup>१</sup>;  
 ४४, १<sup>१</sup>; ४५-४८, १<sup>१</sup>; माधो ५,  
 १, १, ७.  
 जिपीपमाग- -गी बौधो १८, ५० :  
 ३०.  
 जिपीपु<sup>१</sup> (>जैगीपय->अया-  
 य(पा>)गी-पा.) पाण् ४,  
 १, १८; १०५.  
 जित,ता- -यताम् अप ३२, १,  
 १५; अत्र १०, ६; १६, ८; ९;

a) अत्र इति पाठः ? बनि. घोषः (ब्र. बौध. प्रय. ) । b) जयान्, अयावानान् इति ८. ।  
 c) वयः । ध्रु. ? । d) = कृषि-विशेष- । e) = मरुद्-विशेष- । f) = तिथि-विशेष- ।  
 g) = मातृदेवता-विशेष- । h) = लक्ष्म्यादिताह्वयवाँ । देवी-विशेष- । i) मलो. कण्. । j) पाठः ।  
 विहाय व्यय. । k) सपा. जयन्त <> जयन्तः इति पाठे. । l) = श्लेष-विशेष- । m) वैप १ द. ।  
 n) बौधो. तैत्रा. पाठः । o) व्यय. ।

पा ४, ४, २; -ता सु ७, १; -ते  
शांथी २, ९, ७; -तौ वृदे ५,  
१२४.  
जित-कामनाग-द्वेष-लोम-  
मत्सर-र- शंघ २४४.  
जित-वर-रम् बौधो १८,  
४९: २.  
जित-स्थाना(न-आ)स्त-र-रम्  
अप ३, १, १३.  
जित-स्थाना(न-आ)स्त-हिमा-  
(म-आ)त्प-य- शंघ २४४.  
जिता(त-अथ>)श्री<sup>२</sup>-श्री  
द्वि १, १५, ७.  
जिते(त-र)ग्निद्रव,या-य- कौण्ड  
३, १२, ११; अप ४, ६, ६; ६९,  
७, ५, बौध; -यम् अप ३, ३,  
८; ४, ६, ३; ६९, ७, २; -यस्य  
वाघ १०, १७. -या- वाघ ६,  
२५; -यासु विघ ९९, २२.  
जिति-विम् वाधुथी ४, ३: ५;  
६; १३, १४; -तैवे शांथी २,  
६, ७; काथी १९, ५, ४; आपथी.  
जिति-नामन्<sup>२</sup>-मसु निम् ६,  
६: १४.  
जिति-प्रवाद<sup>२</sup>-दानि निम् ६,  
४: १०.  
जित्व<sup>२</sup>-पा ३, १, ११७.  
जित्व-पाठ ४, ११४.  
जित्व-पा ३, २, १६१.  
जित्वा आपथी १८, १७, ८; २०,  
५, १६; बौधो.  
जित्वा-पा ३, २, १३९; -ज्जवे  
कौस् ४९, ४; -ज्जु: वेताथी  
३७, १; कौस् ९८, २; या  
१२, ३; -ज्जुम् शांथी ८,

१८, १; आपथी ९, ८, ८; बौधो  
१३, ४३: १३; कौण्ड १, ६, १८;  
-ज्जो विघ ९८, १४; -ज्जो:  
अप ४६, ३, ४;.  
जैतव्य-ज्ज्यानि या ९, १२.  
जैतुम् अप २, १, २.  
जैतु-पाग ५, ४, ३८; -ता शांथी  
८, २४, १; गोष १०, १९; वृदे  
२, ३८; या १०, १०; १४, २८;  
जैत्र-पा ५, ४, ३८.  
जैतु-ता ऋष २, १, ११; द्रुष  
२, ११६; मास १, ३४३;  
३५९.  
जैत्व-ज्ज्यानि गोण्ड ३, ४, ३१;  
या ९, १२.  
जैजैमन्-ज्ज्यान् बौधो ३, १८:  
१९; माथो ४, १४, ८; माथी १,  
४, २, ६; वाथी १, १, ३, ५.  
जैजैमन्-ज्ज्यान्, -ज्ज्यान् या १३,  
५;.  
जैजैव-ज्ज्यान् वाधुथी ३, ६९:  
१५, १६; -ज्ज्यान्तः आपथी १८,  
४, १४; बौधो ११, ७: २३;  
कौस् १५, १६; -ज्ज्यान्तम्  
आपथी २, १३, १; बौधो १,  
१५: १३; माथी २, १२, १०,  
वाथी १, ३, ४, ५, द्विथी २, १,  
११, वेताथी २, १३.  
जैजैवन्दी-ज्ज्यान् आपथी ८,  
८, २; वेथी १६, २५: २.  
जैजैव-ज्ज्यान् शांथी १२, १६, १;.  
या ४, ८; वाघ ५, १३;.  
जैत्री-ज्ज्यान् आपथी ४, १३,  
२.  
जैत्रिय-ज्ज्यान् आपथी ६,

२०, २. द्विथी ६, ९, २४; माथ-  
२, २१: १४.  
जैजैव<sup>२</sup>-ज्ज्यान् बौधो १७,  
४१: १४; आपथं २, ८, १;  
आमिह १, ३, ४: ८; द्विथ १,  
१०, ६.  
जिजिका-का अप ३५, १, ५.  
जिगतु-जिगतु-जिगमिपु-  
जिगामत्-√गच्छ् द.  
जि [गि,] गीवत्-पत्-पमाण-  
√जि द.  
जिघांसत्-प्रथ. √हृद् द.  
जिघृक्षत्-√भृद् द.  
जिघ्र-√प्रा द.  
जिजनिपमाण-√जन् द.  
जिजीविसु-√जीव् द.  
जिज्ञास-प्रथ. √शा द.  
जिज्ञास्यि-पाग २, २, ३१.  
जिज्यासत्-√ज्या द.  
जित-प्रथ. √जि द.  
जित्वा, ल्वन् (> जैत्वायनि-पा):  
पाग ४, २, ८०.  
जितन-पाठ ३, २.  
जितन<sup>२</sup>-> न-वचना(न-अ)  
धीन-पाग २, १, ४०.  
जितन्-जितानि-√ज्या द.  
√जिजिन्वा<sup>२</sup> पापा. भ्वा. पर. प्रीषणे.  
जिज्जति द्विथी ११, ३, २४;  
अप ४८, ३१; निघ २, १४; ४;  
३; अथा १, १, १५; जिज्जन्ति  
या ६, २२; ७, २३; जिज्जसि  
शांथी १७, १३, १०; जिज्जय:  
अथा ४, ५३; जिज्जय जैथी  
१२: ५; आपथं २, ७, १५;  
जिज्जन् आपथी ६, २, ११; जिज्ज-

a) वि. १. बल. १ b) = जिन्- [द्व. जनि-जिन्-प्रथ.] १ c) = हृत्- १ d) पाणे. वेप १ परि.  
पुत्र. द्वि. द. १ e) द्व. पागम. १ f) अथ. १ g) वैप १ द. १ h) पृ ६७६ वृ द. १ i) भावे व्यम् प्र. १  
j) द्व. भागम. १ k) = जिन-मुनि. १ l) या ६, २२ परामृष्टः द. १ m) पाणे इति: १ n) गतो इति: १

वाम् हिथ्री ६, ३, २; जिन्वत्  
 वीथ्री २, ४: २५; जिन्वताम्  
 आपथ्री ५, १५, २५ वीथ्री; वाथ्री  
 १, ४, ४, ४१<sup>०</sup>; जिन्व् > न्वा  
 आथ्री १, ७, ८; दाथ्री; आपथ्री  
 ३, २, ११<sup>०</sup>; ६, १२, ४<sup>०</sup>;  
 भाथ्री ३, २, ४<sup>०</sup>; हिथ्री ६,  
 ३, २<sup>०</sup>; लाथ्री ५, ११, ३१<sup>०</sup>;  
 वेताथ्री ३३, २७<sup>०</sup>; जिन्वेयाम्  
 हिथ्री ८, ७, १५; जिन्वतम्  
 आपथ्री १, १३, १<sup>०</sup>; १२, २२,  
 ६<sup>०</sup>; ८<sup>०</sup>; वीथ्री ७, १३:  
 १६<sup>०</sup>-१८<sup>०</sup>; भाथ्री; हिथ्री १,  
 ३, ३६<sup>०</sup>; ८, ७, ११<sup>०</sup>; जिन्वत  
 आपथ्री १६, १, ३; अजिन्वत्  
 दाथ्री ८, २५, १.  
 जिन्निन्वामि वीथ्री १८, ४५:  
 १५.

जिन्वमान- नरय वाथ्री १, ३, १, २४  
 √जिन्वर्- न्वः वीथ्री १३, ३८:  
 ६; आसिष्ट २, ५, ११: १२.

√जिन्व् √जुन्व् टि. द्र.  
 √जिम् √जम् टि. द्र.  
 √जिदि पाधा. स्वा. पर. हिलायाम्.  
 जिन्वि- √जू (बयोद्धानौ) द्र.  
 √जिप् पाधा. भ्या. पर. सेवने.  
 जिण्णु- √जि द्र.  
 जिह्रिपु- √ह्रि द्र.  
 जिहीति- त्वयः वीथीय ३: ७.  
 जिहीरिपु- प्रघ. √ह्रि द्र.  
 जिह्व, ह्व- पाठ १, १४१; पाग ३,  
 १, १३<sup>०</sup>; -ह्वः आपथ्री १२,

११, ९; १३, १८, ५; १६, १, ५;  
 हिथ्री २, ६, २४; ९, ४, ६१;  
 -ह्वम् माथ्री १, ६, २१; आपथ्री  
 २, १४, २; २४, १२, ६१; माथ्री  
 ३, ६, ४; हिथ्री २, १, ३१; या  
 ८, १५०; -√ह्वानाम् आपथ्री  
 १६, ७, ४; वैथ्री १८, ५: २;  
 हिथ्री ११, २, २; या ८, १५.  
 ज्वह्व- ह्वयम् वीथ २, २, ७८;  
 विघ ३८, ३.

जिह्व-(ग>)गा- गाः श्य ५८<sup>०</sup>,  
 ३, ७.  
 √जिह्वन्ता- सौ श्य १, ४१, ४;  
 अशां ११, ४.

√जिह्वाय, पा ३, १, १३; जिह्व-  
 अते वैताथ्री १०, १७.

जिह्वाय (त>) गती- न्वयः या  
 १, ११<sup>०</sup>.

जिह्व(दा-थ)शिन्क्- पाग ४, १,  
 १२३<sup>०</sup>.

जिह्वारिण्य- पा ४, १, १२३;  
 ६, ४, १०४.

जिह्व- ह्वय माथ्री २, ३, २, ३३<sup>०</sup> √  
 जिह्वरतम् √ह्रि द्र.

जिह्व- पाठ १, १५४; -√ह्वय  
 आथ्री ६, १२, ३; वीथ्री; -हा  
 आथ्री २, ८, ३<sup>०</sup>; √गाथ्री; या  
 ५, २६<sup>०</sup> १४, ७; -√ह्वः  
 आपथ्री ५, १८, १४४; वीथ्री;  
 -ह्वम् काथ्री ६, ७, ६; वीथ्री;  
 -ह्वयाः आपथ्री ७, २४, २;  
 वीथ्री; -ह्वयाम् श्य ९, १, ४.

जिह्व- ह्वः सु १७, १.  
 जिह्व(दा-थ)प्र- प्रम् तैत्रा २,  
 १८; वीथ १, २२; २४; -प्र  
 वीथ्री ३, २५: ५; वैथ्री; -प्रय  
 तैत्रा २, १७; ३८; आसि २, ८.  
 जिह्वप्र-करण- गाः शुभ्रा १,  
 ७६.  
 जिह्वप्र-मध्य- न्वेन तैत्रा २,  
 ४१.  
 जिह्वप्रा(प्र-थ)धस्(ः)यासि  
 २, ७.

जिह्वप्रोय- > ष्व-फलिउ-  
 -तम् शैशि ३३२.

जिह्व-च्छेद- दः वीथ १२, ४;  
 -दम् वापथ २, २७, १४<sup>०</sup>.

जिह्व-च्छेदन- नम् हिध २, ५,  
 २३३<sup>०</sup>.

जिह्व(हा-थ)ही (दि-इ)न्द्रिय-  
 -याणि वैट्ट २, १८: ४.

जिह्व(हा-थ)ज्व- न्ताभ्याम् ऋप्रा  
 १४, २७.

जिह्व-प्रथन- नम् ऋप्रा १४, २१.

जिह्व(हा-थ)भिमर्शन- न्नाय शीघ  
 ६२; वीथ १, ४४.

जिह्व-मध्य- न्वयन् तैत्रा २, २२;  
 -न्वेन तैत्रा २, ३६; आसि २, ५.

जिह्व-मध्या(थ-थ)ज्व-  
 -न्ताभ्याम् तैत्रा २, १७; ४०.

जिह्व-मूल- न्वम् श्य ४७, १, २०;  
 ऋप्रा; -ले शुभ्रा १, ६५; ऋत  
 २, १, ४; पासि १७; यासि २,  
 ४५; १३; -लेन तैत्रा २, ३५;

a) पाणे. वैप २, ३३<sup>०</sup>. जिन्वन्तम् तैत्रा ३, ७, ४, १६ टि. द्र. । b) पाणे. वैप २, ३३<sup>०</sup>. जिन्व तैत्रा ३, ७,  
 ५, ७ टि. द्र. । c) सङ्ख्य सप्र. माथ्री १, ६, १, ४८ प्रीणामि दति पाणे. । d) जिह्वा दति पाठः ! यनि. वीथः ।  
 e) पाणे. वैप १, १३३०४ B द्र. । f) पाणे. वैप २, ३३<sup>०</sup>. जिन्वत तैत्रा ३, ७, ५, १६ टि. द्र. । g) वैप १ द्र. ।  
 h) तु. पागम. । i) त्व. < √गम् । j) विप. ९ उत. उय. < √सप्र (वैट्ट. संस्वर्ता [अथौ.]) जिह्व-ग-  
 [=मन्द्गति-] इति । k) ध्वय. । l) शिल- इति पागा. ३ यनि. वीथः (तु. स एव पा ६, ४, १०४) । m) पाणे.  
 वैप १, १३३०४ O द्र. । n) =अभि. । o) विप. । उत. । p) परस्परं पाणे. ।



आदि २, ४.  
 जिह्वामूळ-निग्रह- हे ऋषा १४,  
 ८.  
 जिह्वामूळ-प्रयोजन(>)ना-  
 नाः नाशि १, ८, १.  
 जिह्वामूळीय- पा ४, १, ६३;  
 -यः अर ४७, १, १०; २०;  
 शुभा ८, ११; वैशि २९; आशि  
 २, १; आशि १, ९; -वाः ऋषा  
 १, ४१; शुभा ८, ३८; आशि २,  
 १; १४; -वावात् वीज १, २०.  
 जिह्वामूलीय-नासिक- के  
 पाशि २१.  
 जिह्वामूलीया(य-र)नुस्वा-  
 नाः शुभा १, ८३.  
 जिह्वामूलीयो(य उ)वष्मा-  
 नीय- वाग्वात् शुभा ४,  
 १०५; -वौ शुभा ३, १२.  
 जिह्वो(हा-उ)नाम- मेग आशि २,  
 ६.  
 जिह्वा- ह्यः आशि १, ९; -ह्वाः  
 आशि १, १०; -ह्वागम् आशि  
 २, ४.  
 जिह्वार-तालस्य-मूर्धन्य-दन्त्य-  
 ज्ञानाम् आशि २, २.  
 जिह्वाकान्य- > त्व-कतिकाय-  
 वज्रम् पावा १, १, ७४.  
 जिह्वाम- प्रयः जिह्वा- द.  
 ✓जी, जीवते- आश्री ९, ८, ३; वाश्री  
 ३, ७९; १९; वप ३१, १, ३,  
 ३६, २४, १; जीवन्ते हिथी १८,  
 ४, ३११; साथी १०, १७, ५;

जीवेत आश्री ९, २०, ६; २२,  
 ४, २६; जीवेत्त आश्री २३,  
 १३, ४; वीथी १६, २९; १५;  
 हिथी १७, ८, ११.  
 जीम-, जीमवत्- ✓ज्या द.  
 जीमूत्- पाठ ३, ११; पाय ६, १,  
 १०८; -०त् विष १, ५५;  
 -तृत्वस् आश्री २०, १६, ४;  
 वीथी १५, २४; ७; वाथी ३,  
 ४, ३, २८; हिथी १४, ३, २७;  
 ऋय २, ६, ७५; वृदे ५, १२८;  
 शुभ ३, ११४; -नाः आश्री  
 १७, ५, ३; वैथी १९, ५; १९;  
 हिथी १२, २, १७; वाथ ४० :  
 ५; ऋषा ३, ४, ११; -तृतेषु  
 आश्री १७, ५, ३; वैथी १९,  
 ५; १७; १९; हिथी १२, २,  
 १७.  
 जीमूतस्य वाथ ४२ : ८.  
 जीयान् वाप ५, ९६.  
 जीयाम् वाप १२, १४.  
 जीह ✓जृ द.  
 जीर- पाठ २, २३; पावा १, १, ४;  
 -ः आथी ८, ९, २१; -तृः  
 अर ४८, १०६, निप २, १५.  
 जीर-रातु- पाठ २, २३; -तृः  
 आथी ३, १४, १०; आश्री २,  
 १, १०६, ८, १, ४; ९, १३, ९;  
 वीथी १, ११; ३५०, ३, १५ :  
 १०; आथी ९, १६, २; वैथी २०,  
 २८ : ३; वीथ ४, १, ५; पावा ६,  
 १, ६५; -तृ आथी १, ९, १;

शथी १, १४, ४.  
 जीर्ण- प्रम. ✓जृ (वयोहानी) द.  
 जीर्वर- नः वीथ ३, १०, ६.  
 जीर्वि- पाठ ४, ५४.  
 जील- लः वीथ २२, २८.  
 ✓जीव- पाथा. स्वा. पट. प्राणवाये,  
 जीवति वाधुथी ३, ४५ : ४;  
 काथी; पा ४, १, १६३; १६५;  
 ४, १२; ५, २, २१; पावा ४, १,  
 १६३; जीवताः आश्री १७, २६,  
 १५; हिथी; जीवन्ति वीथी १,  
 ४, १; अर; जीवय वृदे ६, १३७;  
 जीवामि पाप २, ६, २०१;  
 आश्रि २, ६, १ : २६; जीवामहे  
 वृदे ६, १३६; तृजीवादि काथी २, १,  
 २; माप १, ११, १२०, पा ४, २५०;  
 जीवात् आश्री १४, ३९, ११;  
 अश्रय ६, ३१; वा १४, १५;  
 जीवतु वीथ १, ८, २३१;  
 शाय १, १४, २११; वीथि; वा ४,  
 २५; तृजीवात् आश्रम १, ५, २;  
 वीथ १, ४, २६; वाप १६, १०;  
 तृजीवन्तु आश्री २, १२, ४; १४,  
 २९; आथी; तृजीव आश्रम  
 २, २, ७४४; काप; वाप १२,  
 ३०; जीवतात् आश्रि ३,  
 १०, २ : ४१; तृजीवादि वीथ  
 १, ८ : ३; १२ : ६; ८; ११;  
 तृजीवामि आश्री १, ५, ५;  
 आथी १, ५, १; हिथी २, ७,  
 ५; जीवेत् शथी १४, २२, २१;  
 काथी २२, ६, ५; १९; २५-

a) वि. 1 म. 1 b) व्या 1 म. 1 c) वै १, १३७५ हृ द. 1 d) अन्ति इति पाठः 1 म. नि.  
 शोचः (द्र. साथी). 1 e) वै १ द. 1 f) पाठः 1 जीमू- > त्व इति शोचः (द्र. म ६, ७५, १)।  
 ह) सग. औ १२, २४, ६ वै २५, ६, ३ आश्रम २, २, ८ जीवत् इति पाठे. 1 h) पाठे. वै १, १३७६ d द. 1  
 इ) पाठे. वै १, १३७६ c द. 1 j) = सर्-विशेष-1 म. 1; k) म. 1 ११००० द. 1 l) = इति-1  
 म. 1; m) वा ७, ४, ३ परापुः द. 1 n) सप्र. जीवामि <> जीव <> जीवम इति पाठे. 1 o) पाठे-  
 वै १, १३७६ 1 द. 1 p) पाठे. वै १, १३१ p द. 1

७, २; काठरी; जीवेयुः वीथी  
१८, १३: १४; द्राथी १, ३,  
२१; लाथी १, ३, १९; [जीवेत\*  
अप्राय ६, ६]; जीवेव आर्य १,  
७, ६; [जीवेम अपथी ५, १,  
७]; २, ४; वीथी; माय १, ९,  
२०<sup>६</sup>.

जीम्पासम्<sup>०</sup> कौस् २४, १३;  
जीवीत् अम १६, ७<sup>१</sup>, अजी-  
विष्णुत् बाधुथी ३, ७७: ४.  
[जीवयत् आथी ६, ९, १<sup>३</sup>;  
आपथी १४, २०, ८<sup>१</sup>; माथी.  
जिजीवियेत् काथी २२, ६, २०;  
लाथी ८, ८, ४१.

जिजीवियु- न्यः अप १, ९, २;  
विध ६९, १७; ७१, ७६.

जीव, वा<sup>१</sup>- पाद ५, २, ९७<sup>०</sup>; -<sup>१</sup>वः  
आपथी १, १२, १४<sup>१६</sup>; १४, २९,  
१; -वम् माथी १, ८, ३, ३<sup>६</sup>;  
वाथी; आर्य १, ८, ४<sup>१</sup>; कौष्ट १, ९,  
२<sup>१</sup>; साय १, १५, २<sup>१</sup>; कौस् ७९,  
३०<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>वाः आथी २, ७, ७;  
६, ९, १; आपथी; माथी १, १,  
३, १०<sup>६</sup>; ६, ४, २१<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>वान्  
आपथी १४, २९, १; अथाय ६,  
३; या ६, २०<sup>६</sup>; भासि ११७.

१२०; -वानाम् अथ १२, २<sup>१</sup>;  
-वामिः<sup>२</sup> वैताथी १, ११; कौस्  
३, ४, ५८, ७, ९०, २२; -<sup>१</sup>वान्  
आपथी १, १, ६; कौष्ट १, ६,  
२६; ४, १, ११; -<sup>१</sup>वाय<sup>१</sup> आथी  
२, ७, ७; वाथी ४, ५, १;  
वीथी ३, ११: १२; वैष्ट ५,  
३: २१; गोष्ट ३, १८; गोपि  
२, ४, १६; वैष्ट २, २: १८;  
दाष्ट ३, ५, २४; -वे आथी ३,  
१३, ११<sup>१</sup>; -<sup>१</sup>वेम्यः आथी २,  
६, २०; २२; वाथी ४, १६, ५;  
काथी २१, ४, २४; आपथी  
९, १२, ४; १३, २२, ५; १४, २२,  
३; वीथी ४, ११: १५; २७,  
२२; माथी ३, १०, २; वैथी  
२०, ७: १; २५: ६; आपथी  
२, २२, २४; आर्य ४, ६, ९;  
कौष्ट ५, ८, ५; आसिष्ट ३, ७, २:  
१; वीपि १, १७: २२; द्विपि  
११: १०; कौस् ७२, १७;  
वृष्टे ७, ११; वृष्ट ४, ५२;  
अथ ८, १; -वेयु आपथी १,  
१०, १२; वीथी ३, ११: ३;  
माथी १, ८, ७; माथी ५, २, ११,  
३; द्विथी २, ७, ६२; साय ५, ९,

४; भाय १, २७: ५; गोपि २,  
६, २१; वैष्ट २, २: २६; कौस्  
७०, १; ८९, १; अथ ५८<sup>१</sup>, २,  
२६.

जीव-कोप(सु>)मी<sup>३</sup>- न्यम्  
कौस् २६, ४३.

[जीव-गुम्<sup>१</sup>- न्यम्: वा ३, १५;  
शुभा २, ९.

जीव-प्राहम् माथी ५, १, १, ५१;  
वा ३, ४, ३६.

जीव-धाय<sup>१</sup>- न्यम् कौस् ७,  
२४.

[जीवधायायाः<sup>०</sup> कौस् १८, ५.  
जीव-धमे-वृण्ड- ष्टे: संघ  
२३४.

जीव-रूप-यताका-> ष्टकि-  
(रु>)वी- नीम् अयं १८,  
२, २.

जीव-ज- जम् विध ७९, ९.

जीव-जात- नम् विध ६६, १०.

जीव-जीवक<sup>१</sup>- कः विध ४४,  
३७१.

जीव-लण्डुल<sup>१</sup>- ष्टम् आपथी १,  
७, १२<sup>१</sup>; ५, ५, ७; माथी १, ७, ७;  
५, ३, ९; ९, १८, ६; माथी १,  
१, २, ५; ५, १, १; ६, १०: ६,

a) पाठः ? जीवयत् इति बोधः । b) पामे. प्र १११६ n द. । c) पामे. प्र ५३२ f द. ।  
d) वैप १ द. । e) तु. पाका. । थीज- इति माण्डा. प्रम्. । f) तु. C., BC. । g) पामे. वैप १, १३७७ p  
द. । h) पामे. वैप १, १३७७ k द. । i) पामे. वैप १, १३७७ i द. । j) पामे. वैप १ परि. अजीता: तं ५,  
७, २, ४ डि. द. । k) = कृष्ण-विशेष- [श्री १९, ६९, १-४ (तु. B. JAOS ११, ३८०); वैत. Garbo = उदक- इति] ।  
l) पामे. वैप १, १३७७ j द. । m) नाप. [जीवतः (सतः [नर्मैश्चेष्टे ह्यवा-]) कोपवती- (विस्तुधारणार्थमिदितरिक्त-  
स्थानवती-] = स्थाली-स्थानीया-] । पम. उप. = [√हुष् (निर्मथे [सन्ने, रेवने] > कर्मणि) कोप- (= रात-  
रिक्तस्थान- > \*कोप-वती- (= कोपवती-) > नैप. यनि. (तु. [शोषितः सन्] दारिकः = यमोद्वा[ः] स्थ[ः]स्थालिका-  
इति; वैतु. B. तापयान्[ः]प्रदणः [?]) । n) नाप. [सजीव (समर्थ-पशु-)] \*वर्मन्-] । पम. उप. < √हुष् [आच्छादने  
(हृन्त्यते आच्छादतेऽनेन । तु. दारिक-नेश्वरी पूरः; वैतु. B. पूर. = जोवद- इति, सर्वे च ते उप. < √हुष्  
'द्विवायाम्' इति [?]) । o) पाठः ? जीव-धाय-पासत्-> ष्टाः (= अहृताऽन्यजनः संधमेमात्रपसनः) इति  
बोधः । \*व्यवासाः > नैप. \*व्यायाः इति दिक्. (वैतु. अन्येऽसंगतवशाः ?) । p) = पञ्च-विशेष- । q) जीव-  
जीवकः, जीवनीविदः इति पाठान्तरी । r) नाप. ।

आशि २, ४.

जिह्वामूल-निग्रह- द्वे ऋषा १४,  
८.जिह्वामूल-प्रयोज(न>)ना<sup>०</sup>-  
न्नाः नाशि १, ८, ९.जिह्वामूलीय- पा ४, ३, ६२;  
-यः अण ४७, १, १०; २०;  
शुभ्रा ८, १९; शैशि २९: याशि  
२, १; आशि १, ९; -याः ऋषा  
१, ४१; शुभ्रा ८, ३८; याशि २,  
१; ९४; -यानाम् शोच १, २०.जिह्वामूलीय-नासिक- के  
पाशि २१.जिह्वामूलीया(य-अ)नुस्वार-  
-ताः शुभ्रा १, ८३.जिह्वामूलीयो(य उ)पध्मा-  
नीय- -याम्याम् शुभ्रा ४,  
१०५; -यो शुभ्रा ३, १२.जिह्वो(द्वा-उ)पात्र- -भ्रण आशि २,  
६.जिह्वा- -द्वय आशि १, ९; -द्वयाः  
आशि १, १०; -द्वयानाम् आशि  
२, ४.√जिह्वय-तालम्ब-सूर्यन्य-दम्ब-  
-न्यानाम् आशि २, २.जिह्वाकात्य<sup>०</sup> -> एव-इतिकात्य-  
वर्जम् पावा १, १, ७४.

जिह्वाम- प्रत्य. जिह्वा- द्व.

√जी, जीवते<sup>०</sup> आपथी ९, ८, २; वाधूथी  
३, ७९; १९; अण ३१, १, २;  
३६, २४, १; जीवन्ते द्विथी १८,  
४, २११; लाथी १०, १४, ७;जीवत आपथी ९, २०, ६; २२,  
४, २६; जीवत् आपथी २३,  
१३, ४; वीथी १६, २९; १५;  
द्विथी १७, ८, ११.

जीन-, जीनवत्- √ज्या द्व.

जीमूत<sup>०</sup>- पाठ ३, ९१; पाग ६, ३,  
१०८; -०त् विष १, ५५;  
-जित्स्य आपथी २०, १६, ४;  
वीथी १५, २४; ७; वाथी ३,  
४, ३, २८; द्विथी १४, ३, २७;  
ऋष २, ६, ७५, वृदे ५, १२८;  
शुभ्र ३, ११४; -ताः आपथी  
१७, ५, ३; वैथी १९, ५; १९;  
द्विथी १२, २, १७; चाथ ४०:  
५, अथा ३, ४, ११; -जित्से  
आपथी १७, ५, ३; वैथी १९,  
५; १८; १९; द्विथी १२, २,  
१७.जीमूतस्य<sup>०</sup> चाथ ४२: ८.

जीयान् वाय ५, ९६.

जीयाम् वाय १२, ३६.

जीह् √जू द्व.

जीह्<sup>०</sup>- पाठ २, २३, पावा १, १, ४;  
-ः आथी ८, ९, २१; -जिः  
अण ४८, १०६; निघ २, १५.जीह्-दानु<sup>०</sup>- पाठ २, २३; -जिः  
आथी ३, १४, १०; आपथी २,  
३, १०<sup>०</sup>, ८, १, ४; ९, १३, १;  
वीथी १, ११; ३५<sup>०</sup>; ३, १५:  
१४; भाथी ९, १६, २, वैथी २०,  
२८: ३; वीथ ४, १, ५; पावा ६,  
१, ६५; -जिः आथी १, ९, १६;शाथी १, १४, ४<sup>१</sup>.

जीर्ण- प्रत्य. √जू (वयोदानो) द्व.

जीर्वर<sup>०</sup>- -ः वीथ ३, १०, ६६.

जीर्वि- पाठ ४, ५४.

जील<sup>०</sup>- -ः गीथ २२, ३८.√जीव्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. प्राणधारणे.

जीवति वाधूथी ३, ४५: ४;

लाथी; पा ४, १, १६३; १६५;

४, १२; ५, २, २१; पावा ४, १,  
१६३; जीवतः आपथी १७, २६,  
१५; द्विथी; जीवन्ति गीथि १,  
४, १; अण; जीवय वृदे ६, १३७;जीवामि पाठ २, ६, २०<sup>०</sup>;

आश्रय २, ६, १: २६; जीवामहे

वृदे ६, १३८; √जीवाति काय ३१,  
२; माय १, ११, १२<sup>०</sup>; या ४, २५<sup>०</sup>;

जीवात् आपथी १४, २९, ११;

अथाय ६, ३१; या १४, २५;

जीवतु वीथ १, ८, २३<sup>०</sup>;शाथ १, १४, २१<sup>०</sup>; वीथि; या ४,  
२५; √जीवातु आपम १, ५, ३;

वीथ १, ४, २६; वाय १६, १०;

√जीवन्तु आपथी ९, १२, ४; १४,  
२२, ३; भाथी; √जीव आपम२, २, ७४; आय, वाय १२,  
३<sup>०</sup>; जीवतात् आश्रय ३,  
१०, २: ४<sup>१</sup>; √जीवादि जैथ

१, ८: ३; १२: ६; ८: ११;

√जीवानि आपथी १, ५, ५;

भाथी १, ५, १; द्विथी २, ७-

५; जीवेत् शाथी १४, २२, २१;

काथी २२, ६, ५; १९; २५-

a) विप. । वम. । b) अण. । व्यु. ? । c) वैथ १, १३७५ द्व द्व । d) एवन्ति इति पाठः ? यनि.

शोचः (द्व. साथी.) । e) वैथ १ द्व. । f) पाठः ? जीमूत- &gt; -त्स्य इति शोचः (द्व. ऋष ६, ७५, १) ।

g) सपा. शी १९, २४, ६ वैथ १५, ६, ३ आपम २, २, ८ जीवन् इति पाठे. । h) पाठे. वैथ १, १३७६ d द्व. ।

i) पाठे. वैथ १, १३७६ c द्व. । j) = सप-विक्षेप- । व्यु. ? । k) पाठे. पृ ११७७ ० द्व. । l) = इति- ।

व्यु. ? । m) पा ७, ४, ३ परामृष्टः द्व. । n) सप. जीवामि &lt;&gt; जीव &lt;&gt; जीवेम इति पाठे. । o) पाठे-

वैथ १, १३७६ d द्व. । p) पाठे. वैथ १, १६३९ p द्व. ।

७, २; काठश्री; जीवियुः वीथी  
१८, १२; १४; दाधी १, ३,  
२१; लाथी १, ३, १९; ?जीवित<sup>०</sup>  
आप्राय ६, ६<sup>१</sup>; जीवेव आशु १,  
७, ६<sup>१</sup>; ?जीवेम आप्री ५, १,  
७<sup>२</sup>; २, ४; वीथी; माशु १, ९,  
२७<sup>०</sup>.

जीव्यासम्<sup>०</sup> कौसु २४, १३;  
जीवीत् अश १६, ७<sup>१</sup>; अजी-  
विष्यत् बाधूथी ३, ७७ = ४.  
?जीवयत् आधी ६, ९, १<sup>३</sup>;  
आप्री १४, २०, ८<sup>१</sup>; माथी.  
गिजीवियेत् काथी २२, ६, २०;  
लाथी ८, ८, ४१.

गिजीवियु- अः अप १, ९, ३;  
विष ६९, १७; ७१, ७६.

जीव, वा<sup>०</sup> पाग ५, २, १७<sup>०</sup>; -?वः  
आप्री १, १२, १४<sup>१६</sup>; १४, २९,  
१; -वम् माथी ३, ८, ३, ३<sup>०</sup>;  
वाथी; आशु १, ८, ४<sup>१</sup>; कौसु १, ९,  
२<sup>१</sup>; शोशु १, १५, ३<sup>१</sup>; कौसु ७९,  
३<sup>०</sup>१; -?वाः आधी २, ७, ७;  
६, ९, १; आप्री; माथी १, १,  
३, १८<sup>१</sup>; ६, ४, २१<sup>१</sup>; -?वान्  
आप्री १४, २९, १; अथाय ६,  
३; या ६, २७<sup>१</sup>; माथि ११७;

१२०; -जानाम् अश २२, २<sup>१</sup>;  
-वाभिः<sup>०</sup> वीताथी १, १९; कौसु  
३, ४; ५८, ७, २०, २२; -?वान्<sup>१</sup>  
आपमं १, १, ६; वीथु १, ६,  
२६; ४, १, ११; -?वाय<sup>१</sup> आथी  
२, ७, ७; दाथी ४, ५, १;  
वीथी ३, ११; १२; वैथु ५,  
३; २३; गोशु ३, १८; गोपि  
२, ४, १६; जैथु २, २; १८;  
दाशु ३, ५, २४; -वे थाधी ३,  
१३, ११<sup>१</sup>; -?वेभ्यः Sआधी २,  
६, २०; २२; दाथी ४, १६, ५;  
काथी २१, ४, २४; आप्री  
९, १२, ४; १३, २२, ५; १४, २२,  
३; वीथी ४, ११; १५; २७,  
२२; माथी ३, १०, २; वैथी  
२०, ७; १; २५; ६; आपमं  
२, २२, २४; आशु ४, ६, ९;  
कौसु ५, ८, ५; आशु ३, ७, २;  
१; वीथि १, १७; २२; द्विपि  
११; १०; कौसु ७२, १७;  
वेवे ७, ११; शुशु ४, ५२;  
अश ८, १; -वेवु आप्री १,  
१०, १२; वीथी ३, ११; ३;  
माथी १, ८, ७, माथी ५, २, ११,  
३; द्विथी २, ७, ६२; आशु ५, ९,

४; भाशु १, २७; ५; गोपि २,  
६, २१; जैथु २, २; २६; कौसु  
७०, १; ८९, १; अप ५८<sup>१</sup>, ३,  
२९.

जीव-कोप(शु)> जी<sup>०</sup> - अयाम्  
कौसु २६, ४३.

?जीव-शुम्<sup>०</sup> - शुम्मा सा ३, १५;  
शुप्रा २, ९.

जीव-प्राहम् माथी ५, १, १, ११;  
पा ३, ४, १६.

जीव-वाथ्य<sup>०</sup> - त्वम् कौसु ७,  
२४.

?जीवपावायाः<sup>०</sup> कौसु १८, ५.

जीव-चर्म-करण्ड- षडैः शंघ  
२३४.

जीव-छत्र-वताका- > वाकि-  
(रु)> नी- नीम् अं ६८,  
२, २.

जीव-ज- जम् विष ७९, १.

जीव-जाल- -त्वम् विष ६६, १०.

जीव-जीमक<sup>०</sup> - कः विष ४४,  
३७<sup>१</sup>.

जीव-तण्डुल<sup>०</sup> - जम् आप्री १,  
७, १२<sup>१</sup>; ५, ५, ७; माथी १, ७, ७;  
५, ३, ९; ९, १८, ६; माथी १,  
१, २, ५; ५, १, १९; ६, १०; ६.

a) पाठः ? जीवयत् इति शेषः । b) पामे, पृ १११६ n द. । c) पामे, पृ ५३३ f द. ।

d) वैप १ द. । e) तु. पाका. । बीज- इति भाण्डा. प्रस. । f) तु. C., BC. । g) पामे, वैप १, १२७७ p

द. । k) पामे, वैप १, १२७७ k द. । i) पामे, वैप १, १२७७ j द. । j) पामे, वैप १ परि. भुजीताः तं ५,

७, २, ४ टि. द. । k) = ऋग्-विशेष- [श्री १९, ६९, १-४ (तु. B LJAOS ११, ३८०); वैतु. Garba = उदक- इति]] ।

l) पामे, वैप १, १२७७ j द. । m) नाप. [जीवतः (सतः Lचर्मैरेते हला-)] कोपवती- (वस्तुपारणार्थविहितरिक्-

स्थानवती-] = स्थाली-स्थानीया-]] । पप, उप. = [√कुप् ( निष्कर्षे ] [खनेने, रेचने] > कर्मणि] कोप- (= घाल-

रिक्स्थान- ) > \*कोप-वन्ती- (= कोपवती-) > नैश. गनि. (तु. १ शोपितः सत् ] दारिलः = चर्मोद्धारः] स्थाऽस्थाऽस्त्रिका-

इति; वैतु. B. तारपपांअग्रहणः ?]] । n) नाप. [गजीव (समर्थ-पण्ड-)] वर्मान्-] । पप, उप. < √हृत् [ \*आच्छादने

( हन्यते आच्छादयेत्नेन । तु. दारिल-केशयो एव; वैतु. B. एव. = जीवत्- इति, रथे च ते उप. < √हृत्

'हिंसायाम्' इति ?]] । o) पाठः ? जीव-वाथ्य-वासत्- > स्ताः (= अहताऽन्यवसनः संश्रमेमावसनः ) इति

शेषः । ०<sup>१</sup>त्ववासाः > नैश. \*थायाः इति दिव् (वैतु. अन्वेऽसंगतवदाः ?) । p) = पवि-विशेष- । q) जीव-

जीवकः, जीवजीविकः इति पाठान्तरौ । r) नाप. ।

२, ५, २७; काथी १, २, ३, ६; ४,  
१, ७; द्विथी २, ७, १३; कौथ ५,  
१, १०; माथ २, २, ३; वैथ ४,  
५ : १३; गौथि १, ५, १७.  
‡जीव-दानु<sup>०</sup> - नवः काथ ४०,  
१०; वाथ ४, ८.  
‡जीव-घन्य, न्या<sup>०</sup> - न्यः आथी  
२, १४, १२; आपथी २०, २०,  
९; द्विथी १४, ४, ३८<sup>१</sup>; -न्याः  
आथी ५, १, १९.  
जीव-नादाम् पा ३, ४, ४३.  
जीव-वति<sup>०</sup> - त्यः आथ १,  
१४, ८.  
‡जीव-व(जी>)ति<sup>०</sup> - त्तिः  
काथ २५, ३१; ३६; ३८.  
‡जीव-व(ति>)थी - थी  
आपथं १, ४, ९; आथ १, ७, २२;  
आमिथ १, ५, २ : ५५; जैथ १,  
४, २२; भाथ १, १४ : ७; वाथ  
१४, १९<sup>१</sup>; द्विथ १, १९, ७;  
गोथ २, ७, १२; जैथ १, २० :  
२३; -न्याः आथ १, ७, २१.  
जीव-पितामह<sup>०</sup> - हः गौथी २४,  
३२ : ३.  
जीव-पितृ<sup>०</sup> - ता आपथी १, ९,  
८; गौथी २४, ३२ : २; भाथी  
१, ८, १०; द्विथी २, ७, ३२; -तुः  
शाथी ४, ४, ७<sup>०</sup>; गौथी २४, ३२ :  
१०; भाथी ५, २, ९; द्विथी २, ७,  
३५<sup>०</sup>; ३, १, १६; आमिथ ३, ९,  
३ : ६; गौथि २, ७, ५.  
जीवपितृ-क् - कः काथी  
४, १, २३; वाथ ११, ३; -कम्  
वाथ १५, १९; -कस्य काथी ४,

१, २४.  
जीव-पुय, प्रा<sup>०</sup> - प्रः काथ २०,  
२; पाथ २, ४, ३; -प्रा काथ २८,  
४<sup>१</sup>; -प्रायाः आपथ ६, ११.  
जीव-प्र(ज>)जा<sup>०</sup> - जाः आथ  
१, १४, ८; -जायाः आथ १, ७,  
२१.  
जीव-मर्तु(क>)का<sup>०</sup> - कायाम्  
वैथ ३, ११, ४.  
‡जीव-भोजन<sup>०</sup> - नः शाथी १६,  
३, ३६; -नम् वेताथी ३६,  
३०.  
जीव-मातृ<sup>०</sup> > ष्टक - कम् वाथ  
१५-१९.  
जीव-मृत - नानाम् आथी २,  
६, १९; -तैभ्यः आथी ६, १२,  
१०.  
‡जीव-ल, ला<sup>०</sup> - पा ५, २, ९७,  
-ला अथ १९, ३९<sup>१</sup>; -ल्लाः  
आपथी ७, ९, ९; भाथी ७, ७,  
११; अथ ६, ६; अथ १९, ९९;  
-लाम् अथ ८, २.  
२जीवल् - लः शुभ १, १७६.  
‡जीव-लोक - कम् आथ ४, २,  
१८; आमिथ ३, ५, ६ : १५; ७,  
४ : १०; गौथि १, ५ : ३; २, ४,  
१; अथ १८, ३; -के आमिथ  
३, ८, २ : १९, गौथि १, १५ :  
२९; अथ १, ५०, १०६.  
जीव-वत् - वन्तो आपथी ८,  
१४, २३; २४; गौथी २८, ३ :  
९; वैथी ९, ७ : ४.  
जीव-व(स>)सा<sup>०</sup> - ससायाः  
काथ ५९, ५; पाथ ३, ९, ६.

जीव-विषाण - णी पाथ ३, ७, २;  
आपथ २३, ६; भाथ २, २७ : १२.  
जीव-शुभ - ऋम् द्विथ १, १४,  
३; -ऋे द्विथ १, १४, २.  
जीव-संयोग - गाय मीस् १०,  
२, ५५.  
जीव-संचर - रः गौस् ८३, २६.  
‡जीव-सृ<sup>०</sup> - सृः आपथं १, १,  
४<sup>०</sup>; गौथ १, १, २५; भाथ १,  
१५ : १२; द्विथ १, २०, २; गोथ  
२, ७, १२<sup>१</sup>; जैथ १, ५ : २१ : ९.  
जीव-सूचरी<sup>०</sup> - ती माथ २, १८,  
२<sup>१</sup>.  
जीवा(व-अ)दान<sup>०</sup> - नम् विथ  
६५, २.  
जीवा(व-अ)न्त - न्तः आथी २,  
६, १८.  
जीवा(व-अ)न्तर्हित - ताथ  
शाथी ४, ४, ८; -ते काथी ४,  
१, २३; -तैभ्यः आथी २, ६,  
२१.  
जीवा(व-अ)वृत्ति - त्तः वृदे  
७, ८५.  
जीवा(व-ऊ)र्णा<sup>०</sup> - णीया माथ १,  
१२, ४; वाथ १६, ११; -र्णानाम्  
काथी ९, २, १६; आपथी १०,  
९, ६; भाथी १०, ६, ७.  
२जीव<sup>०</sup> - वम् ऋया १७, ५; निस्  
१, ५ : १९.  
३जीव - पाग ४, १, १२३<sup>१</sup>, २, ८०;  
-वम् शंथ ११६ : ४८<sup>१</sup>.  
जैव - वे विथ ७८, ५.  
जैवि - पा ४, २, ८०.  
जैवेव - पा ४, १, १२३.

a) वैथ १ द. । b) ञ्वः इति पाठः ? यनि. शोव. (तु. आपथी.) । c) विप. वस. । d) ञ्वीः इति पाठः ? यनि. शोच. । e) सप्र. ञ्वपि<> ञ्वपि इति पाठे. । f) = वैथ २, सं. द. । g) विप. । वस. । h) पाठे. वैथ १ बीरसु. अ १०, ८५, ४४ टि. द. । i) ञ्वरी - इति सं. ? । j) = प्राणवतिष्ठपन- । k) = छन्दो-विशेष- । द्रापर- । ध्यु. ? । l) ध्यप. । ध्यु. ? । m) = नक्षत्र- ।

जीवन्-वद् आसिष्ठ ३, ८,  
 १: २६!; वीपि १, १५: ५;  
 -वतः शाश्वी ४, १४, १; १५,  
 १७, १; जैश्रीका; या ६, २७;  
 -वता आसिष्ठ ३, १०, २: ५; वीपि  
 ३, १, ३; -ज्वनाम् आपमं १, ४,  
 ८; पाठः -वति वैश्री १०, ११:  
 २; शंष, पा ४, १, १६३: १६५;  
 मीत् १०, २, ५८; -वते माय  
 २, ५: १३; -वतोः आपमं १, ८,  
 ५१; -वन् माथी २, ५, ५, १८१;  
 आपमं २, २, ८१; आसिष्ठ १, १,  
 २: ३४; काय ४१, ७१; वीष्ट  
 २, ५, १२१; वीपि ३, ७, ४; माय  
 १, ६: ३१; द्विष्ट १, ४, ३१;  
 कीत् ८२, २११; आपमय; -ज्वन्तः  
 आपी २, ७, ७; आपथी; आसिष्ठ  
 ३, ८, २: ४४; काय ४०: १;  
 वीपि १, १५: ५१; क्रोत् ८९,  
 १२; आ १८, १, ४; -वन्तम्  
 काथी ४, १, २७; आपथी.  
 जीवती- ज्वती आसिष्ठ १,  
 ५, १: २६; माय १, १३: ११;  
 -व्याम् काय ३९: १.  
 जीवन्ती- ज्वन्तोः आपथी  
 १, १२, १४; आपथी; -न्तीम् माय  
 १, १४, १; मासिष्ठ ४२; -ज्वन्ताः  
 शाश्वी ४, १४, १४; आपमं;  
 -न्याम् काय ३, १, ७.  
 जीवन्-विनासद्- नः वाथी  
 १, २, ३, २२; -दृश्य माथी १,  
 १, २, २१.

जीवत्-पितृ- मुः माथी १, १,  
 २, २१; वाथी १, २, ३, २०.  
 जीवन्पितृ-क- कः माय १,  
 १, ४.  
 जीवद्-आरम्भ- स्मानम् तु  
 १८, ५.  
 जीवद्-व्यस्य- द्यम् पाया ४,  
 १, १६२; -दयात् पाया ४, १,  
 १६३.  
 जीवद्-व्यत्स- रसा- स्वयाः  
 विप ८६, ४.  
 जीवय- पाठ ३, ११३.  
 जीवन्- नः या १, १४; -नम्  
 आपमं १, ९, ९; ज्वमाय २,  
 ३१: ६४; द्विष्ट: -नाय शाश्वी  
 १६, १३, ४; आय; या १,  
 १०१: १०, ४०; १२, ३६: ३९.  
 जीवन्-कर्मन्- मंजः या ११,  
 ४७.  
 जीवन्-क्षय- यात् शंष २७२.  
 जीवन्-व्यत्- व्यन्ती वाथी ३,  
 १६, २४.  
 ✓जीवनस्या- ज्वीवनस्या-  
 स्वयाँ वीथी १३, ३२: ११;  
 ११, १५.  
 जीवना(न-अ)थे- थम् वृदे ७,  
 ११०.  
 जीवना(न-आ)ना- ना पाथ  
 ३०, ६.  
 जीवन्ती- पाठ ३, १२७.  
 २जीवन्ती- न्तीम् काय  
 २५, ४५; माय १, १४, ९; वाय

१५, २९; वीच ३, ६१.  
 जैवन्तायन- पा ४, १, १०३.  
 जैवन्ति- पा ४, १, ९५.  
 २जीवन्त- २जीवन्ती- (> जैव-  
 न्तायनि- पा.) पाग ४, २, ८०;  
 जीविवन्- वन् अप १, ३९, ३;  
 अशा १, ३.  
 जीविवसे आथी २, ५, १०; ३, ८,  
 १; १२, १४; वाथी; आपमं २, १,  
 २; माय १, २१, ३; या १२८,  
 ३९; भासिष्ठ ४३.  
 जीवियात्- पाठ १, ७८६; -त्वे  
 वीथी १३, ३२: ११४४;  
 माथी; या १०, ४०१; -वृ-  
 वृदे ७, २९; -वृम् आथी ६,  
 १४, १६; शाश्वी; या ११, १११;  
 -त्वे आपथी ४, ११, २; ५,  
 ११, ५; वीथी.  
 जीवियात्-मत्- मन्तो आथी २,  
 १०, २; १९, १६; द्विष्टी ५,  
 ४, ४७.  
 जी(वक->)विका- ज्वकाः आथी  
 ६, ९, १; आपथी; -कान् या  
 ११, ११.  
 जीविसा- वृ पा ४, १, ७९.  
 जीविसा(का-अ)थे- थं पा ५,  
 ३, ९९; ६, २, ७२.  
 जीवित- -तम् गु १२, २; कय;  
 -तस्य वीथ १, २, ५; -त्वे आपथ  
 १, २३, ३; द्विष्ट १, ६, ११.  
 जीवित-परिमाण- जे पाया ५,  
 १, ५८.

a) जीवम् इति पाठः इ यनि. शोषः (द्र. वीपि.) । b) सपा. 'वृ' (शी १९, २४, ६) <> 'वृत्ती' इति पाठे. । c) पाठः इ जीवयन्तः इति शोषः (द्र. वैप १ परि. इज्योग्जीवन्तः [काठ ९, ६]) । d) पाठे. वैप १ परि. जीवम् शो १८, ४, ५१ टि. द. । e) विप. । घस. । f) पाठे. ५ १११८० द. । g) भाप., नाप. । h) = इव्-व्य- इति द्र. । i) वैप १ द. । j) नाप., व्यप. । k) = तार-विशेषः, औपधि-विशेष- (शोच. १) । l) पाठे. वैप १, १३७९ क द. । m) अर्थः स्यु. च इ । n) द्र. पाठः । o) पाठे. वैप १ वृषला शो ६, ६८, २ टि. द. ।

जीवित-वन्- -वन्तो माथी ५,  
१,४,१६; ५, ४७; -वान् माथी  
५,१,५, ४५; ४१×४.  
जीवित-विज्ञान- -नम् कौत्  
१५,१२.  
जीविता (त-ञ)वमृथ- -घात्  
गोए १,३,१४.  
जैवात्क- पाठ १,७१<sup>०</sup>.  
जीवति<sup>०</sup>- -तयः बीधौप्र ४१: ७.  
‡जीवितु अय ३७,१४,३.  
जीव्य(वी-ञ)लाफा<sup>०</sup>- -काम्याम् कौत्  
३१,२८.  
जीह्वरतम् √ङ् द.  
√जु. जू<sup>०</sup>, जवते या ३, १८; जवति  
निप २,१४<sup>०</sup>.  
जुना: वीथी ७,४: ३<sup>०</sup>.  
२जव<sup>०</sup>- पावा ३, ३, ५६; -व:  
काथी १४,३, ८<sup>०</sup>; वैताथी ३,  
१४; सु १०, ४; -वम् वीथी  
११,६: २२<sup>०</sup>; -वात् सु २५,२;  
-वानि अय १, ११,१<sup>०</sup>; -ये  
पाए २,१७, १६; पा ६,४,२८;  
-वेन वीथी १६, १, १५; वीथी  
३,११: २२<sup>०</sup>, द्विथी; -वेयु या  
१३,११<sup>०</sup>.  
जवा(व-ञ)र्थे- -थान् अय १,  
१०,२.  
जवी/भू >जवी-भाव-  
-वानाम् या १४,७.  
जवीयम्- -यः सु २५,१; -यान्

सु २५,१; अयाय ६,९<sup>०</sup>.  
जवीयमी- -मी सु २५,१.  
२जवन<sup>०</sup>- पा ३, २,१५०; पाय ३,  
१,१३४<sup>०</sup>; ५,१,१२३.  
जावम्- पा ५,१,१२३.  
जवन-काम- -मः शाए १,२७,  
४<sup>०</sup>; -मस्व<sup>०</sup> कौए १, १५, ४;  
पाए १,१५,९.  
जवमान->जवमान-नोदित- -दि  
या ६,१७.  
जू<sup>०</sup>- पाठ २,५७; पा ३,२, १७७;  
पावा ३,२, १७८; ‡जुवः शाथी  
१०, ७,३; ऋम ३, १९; ‡जु:  
काथी ७,६,७; आपथी.  
‡जुनि<sup>०</sup>- पा ३, ३, ९७; -‡ति-  
लाथी ४,१२,१<sup>०</sup>; अय; या १०,  
२८५;-तिम् माथी ६,१,७,२८;  
वाथी २,१,७,११.  
‡जुगु: अय ४८,११६<sup>०</sup>.  
जुगुप्सा- प्रम् √गृ द.  
√जुङ्ग पाधा. म्वा. पर. वजने >  
जुङ्गित->तो(त-उ)पग(त->  
ता- -ता वाध २१,१०.  
जुजुर्वस्- √जू (वयोदान्) द.  
जुजुयाण- √जुप् द.  
√जुञ्च<sup>०</sup> पाधा. चुरा. पर. भापार्थे.  
√जुद पाधा. तुदा. पर. बन्धने.  
√जुद् पाधा. तुदा<sup>०</sup>. पर. गती. चुरा.  
उभ. प्रेरणे.  
√जुत् पाधा. भ्वा. आत्म. भासने.

√जुम् √जुद् टि. द.  
‡जुम्बक<sup>०</sup>- -काय काथी २०,८,१६;  
आपथी २९,२३,६; वीथी १५,  
३७: ३: २६,११: १६; वाधुथी  
३,९६: ५; द्विथी १४,५, ४<sup>०</sup>;  
वैए ६,८: ४; गुध ३,४७.  
√जुप् पाधा. तुदा. आत्म. प्रीतिसेव-  
नयो; चुरा. पर. परितर्षणे.  
जोप>पा कप्रग ७, ३१<sup>०</sup>.  
‡जुजोपनि काथी १८, १५, ५;  
आपमं १,१,१; वीए १, १,१४;  
जुजोपय पावा ७,३,८७.  
‡जुपते अय ४८,३; निप २,६;  
जुपन्ते कौम् ७३,१८<sup>०</sup>; वीथ १,  
५,६२; ६,१; वृदे; ‡जुपे<sup>०</sup> आपथी  
७,२,२; वीथी; ‡जुपवाम् आपथी  
१,६,५,२,५,१४; ३,४,१५×४;  
शाथी; आपथी २२,१९,१<sup>०</sup>; द्विए  
१,८,४<sup>०</sup>; ‡जुपेनाम् माथी ५,  
१,३,२७; वाथी १,४,४,४<sup>०</sup>;  
भाधि; ‡जुपन्ताम् आपथी १,७,  
७; ३,९, ३<sup>०</sup>; शाथी; ‡जुपस्व  
आथी १,७,८; २,२,१७<sup>०</sup>; १४,  
३१; ३, २, ६; ४, १<sup>०</sup>×४;  
शाथी; आपथी ६, ५, ७<sup>०</sup>;  
‡जुपेयाम् आपथी २, २०, ४;  
शाथी; आपथी १४, ३०; २<sup>०</sup>;  
‡जुपच्चम् शाथी ४, १९, ८;  
आपथी; ‡जुपत्पन आपथी १,९,  
१,५; शाथी १,१४,६×४; वीथी;

a) वैप १ द. । b) = ऋचि-विशेष- । व्यु. ? । c) ओचि-विशेषयोः इत्. । d) गती वेगे च घृतिः (तु. पासि. प्रयु. ३,२,१५०) । या ५,१; ६,४; ८,९ पराष्टम्. द. । e) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द. । f) भावे कर्तरि च इत् । g) तु. पागम. । h) परस्परं पाभे. । i) पाभे. वैप १,१३८१ n द. । j) √जिम् इत्यपि BPO. । k) √जुद् इत्येके । l) ञ्च् इति पाठः ? यनि शोषः । एतदतु वैप १, १३८१ p शोषार्थः । m) पाभे. वैप १,१३८२ e द. । n) पाभे. वैप २, ३<sup>०</sup>. जुहुता ता २१, १०, ११ टि. द. । o) पाभे. वैप १,७०९ f द. । p) जुपेत. इति पाठः ? यनि शोषः (तु. प्रकरणम्, सप्र. तै ३, ५, १, २ जुपेयाश् इति पाभे. च) । q) पाभे. वैप १, १३८२ k द. । r) पाभे. वैप १ मृति...मृगाम् वी ३, १०, ६ टि. द. । s) तु. आन. । BL पाठः ? ।

अजुपत् आपथी १९, २५, १३५;  
 †अजुपेताम् वाथी १, १४, ९;  
 ११; १२; †अजुपन्त आपथी  
 १, ९, ५; वाथी १, १४, १४;  
 वापथी; अजुपन्त श्रमा १३४,  
 ५८५.

जुजोप वीथी ३, ३: ४५;  
 †जोपिपत् आपथी १६, ७, ४;  
 वैथी १८, ५: १!; द्विथी ११,  
 २, २; †जोपि वीथी १६, ५:  
 ११; १२१.

जोपयते आपथी ७, १, ११; वीथी  
 ६, १: १०××; माथी; जोपयतः  
 वीथी २६, १०: ८; जोपयन्ते  
 काथी ७, १, १०; जोपयध्वम्  
 वीथी ६, १२: १८; जोपयेत  
 गोए ७, ७, १; जोपयेत् वीथी  
 २०, २७: ४; आसिध ३, ४, १:  
 १३××; धीणि.

जोपयिष्यन्ते वाथी ३, ८, २२.

जुजुपाण-णासः या ६, १६†५.

†जुजुपाण-णः आपथी ५, १३,  
 ४; वीथी, -णाः आपथी ८, १५,  
 १७.

†जुजुपाण,ण-णः आपथी १, ५,  
 २९; २, १०, ४×××; वाथी;  
 आपथी १३, १९, १०<sup>b</sup>; वा  
 ६, १, ११८; -णा आपथी २,  
 ८, ३×××; वाथी २, ४, ३×××;  
 काथी; -णाः आपथी १, ५, २४;  
 ७, ७, ४, वाथी; या १२, ४२;  
 -णानि वाथी ६, ३, ८; -णे कीट  
 २२, ९; -णो वाथी १, ८, ७.  
 जुपाण-या(ज्या)>ज्य<sup>c</sup>-ज्यो

द्विथी २१, २, ४६!<sup>o</sup>.  
 †जुष्ट,ष्टा- -ष्टः आपथी २, ११,  
 ९××; वाथी; -ष्टम् वाथी ७,  
 १७, ७××; आपथी; -ष्टा वीथी  
 ३, १८: २६; ६, १२: ९;  
 -ष्टाः वीथी ६, २७: २२;  
 आपथं; -ष्टत् आपथी ७, १२,  
 ६; -ष्टान् वीथी ७, ३: १८;  
 माथी; -ष्टम् वाथी १, ४, ५९;  
 आपथी २, २, ६××; वीथी; -ष्टे  
 वीथी २, १२: २१××; वाथी;  
 -०ष्टे द्विथी ६, ३, ३; लाथी ३,  
 ६, ३<sup>o</sup>.

†जुष्टन्तम् -न्तम् काथी ९, ८,  
 १५; वीथी १, ४: ३०; ५: १०;  
 -मात् द्विथी ६, ३, १४.

जुष्टन्(र>)रा-रा आपथी  
 ७, १२, १५.

जुष्टन्(त्>)तो-ती आपथी  
 २, १४, २०.

जुष्टा/हु>जुष्टा-कार->का-  
 रा(र-था)दि-संवापनान्त-  
 -न्तम् वैथ ५, १४: ८.

जुष्ट(ष्ट-अ)रित- -वे पा ६, १,  
 २०९.

†जुष्टि- -ष्टयः वीथी ६, २७: २२;  
 आपथं; -ष्टिः वीथी ३, १८:  
 २५; वैथी ७, १: १२; -ष्टिम्  
 वाथी १, १२, ५; वीथी ३, १८:  
 २६; माथी.

जुष्ट्य-पा ३, १, १०९.

†जुष्टोप- -यम् वीथी १, १९:  
 ३४; माथी १, ३, ४, २६;  
 वाथी; पाय १, १, ३७९.

†जुष्टोप-वाक- -कम् थप ४८,  
 ११५; निप ७, २; ५, २२.

जुष्टण- -णेन वाथी ३, ३, ६, ५.  
 जुष्टण(ण-आ)दि- -दि माथी  
 ५, २, १२, ३.

जुष्टण->जुष्टण-श्रुति- -ते:  
 काथी ५, १२, ७.

जुष्टयमान- -णाः या ६, १६.

जुष्टयितव्य- -व्यम् या ५, २१.

जुष्टयि(त्>)थी- -थी या ९,  
 ४१; ४२.

जुष्टयित्वा द्विपि १०: ६; २३: ८.

†जुष्ट्- -ष्टम् माय १, ४, २<sup>o</sup>;  
 वाय ८, २.

†जुष्टी- -ष्टीम् काय ९, २१;  
 माय १, ४, २<sup>o</sup>; वाय ८, २.

†जुष्टो(ष्टु>)ष्टी- -ष्टीम् वाथी  
 २, १६, १२; वाथी; वृदे १,  
 ११४९.

जुहयां/हु >हु(दाना) ह.

जुहुराण- >हु ह.

जुहुरे अप ४८, ११५†.

†जुह्व- हः श्रम २, १०, १०९; वृदे  
 २, ८२; ३, ५८; ८, ३६.

२जुह्व- पाठ २, ६०; पावा ३, २,  
 १७८; -†-हु आपथी २, १३,  
 २; ७, ७, ९; वीथी; -हु द्विथी ७,  
 २, २७; -हुः वाथी १, ३, ६५†;  
 वाथी १, ४, २१†; ३, १९, ५;  
 काथी; -हुम् वाथी ७, ९, ५;  
 १४, १८; काथी १, १०, ९××;  
 आपथी; द्विथी २, ६, ५४†<sup>b</sup>;  
 -†हुः वाथी २, २, १७; आपथी;  
 -हु वाथी १०, १६, ६†; काथी

a) ज्योतिषम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपथी.) । b) पाठे. वेप १, १२८४ i. d. । c) पाठे.  
 वेप १, १२८५ b. d. । d) विप. । वत्. । e) जुष्टाया वा शतं पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपथी १, ५, २९) ।  
 f) वेप १ निर्दिष्टानां समावेशः द. । g) वेप १ द. । h) माय. । i) श्रुथीयम् इति पाठः ? यनि.  
 शोधः (तु. माय. वाय.) । j) व्यप. । व्यु. ! । k) जुहु इति पाठः ? यनि. शोधः ।



१,८,४४××; आपथी; या १२,  
३६†; -द्वाः आपथी २,१०,२;  
माथी; -द्वाम् काथी २, ७,  
१××; आपथी; -द्वा काथी १,६,  
२,११?; -द्वा वीथी ५,६:६.  
जीहव<sup>०</sup> -वम् मीत् ४,१,४३;  
-वस्य आपथी १२, ३, ११;  
मीत् ४, १, ४७; -वानि काथी  
६,७,६.

उह-दशन-नात् काथी ६,१०,१८.

उह(ह-उ)पष्टत् -मृत. माथी ७,  
२२,३; -मृतम् वैथी १०,२१:

१४; -मृतोः काथी ६, ८, ८;

आपथी ७,२३,११;१२; वाठथी;

-मृतौ काथी ३, १, १६; ५,  
१७; आपथी.

उह(ह-उ)पष्टद्-भुवा- -वाः शुष  
१,१०७.

उह-प्रतिषेध- -धात् मीत् ४, १,  
४५.

उह-वत् काथी २,७,१५; आपथी  
३,१६,१६××; वैथी.

उहवद्-भाया(म>)मा<sup>०</sup>-  
-मा वैथी ११,८:१.

उह-यद्कपाल<sup>०</sup>- -लौ आथी ८,  
१५,३

उह(ह-अ)म- -मे काथी ६,४,१०.

उह(ह-अ)दि- -दीनाम् वैथी ११,  
७:१; मीत् ६,६,३३.

उह(ह-अ)स्व<sup>०</sup>- -स्वः कौस्  
१०८,२; अत्राय २,७.

उहत्- -द्दान- √हु (दाना<sup>०</sup>) द.

√जू,जू- √उ द.

जूटा- पाठो २,२,१५.

रजूति- √उ द.

रजूति<sup>०</sup>- -सिः ऋथ २,१०,१३६.

√जूह पाथा. दिवा. आराम. हिंसा-  
वयोहान्योः.

रजूर्णि<sup>०</sup>- पाठ ४, ४८; -र्णिः अत्र  
४८, १०६, निष २, १३; १५;

४,३; या ६,४६.

रजू(खि>)र्णी<sup>०</sup>- -र्णि अत्र २,  
२४.

√जूप् पाथा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.

जूप- पाठना ४,८१.

√जूम् पाथा. भ्वा. आराम. गात्र-  
विनामे.

जूम्- पाठ २, ४, ३१.

जूम्(ण>)णी<sup>०</sup>- -णी वीथ २,  
१,१९.

जूम्मा(ण>)णा- -णाम् वैष ३,  
१,९.

जूम्मात्वा आथ ३,६,७.

√जू<sup>०</sup> पाथा. दिवा. प्रया. पर.; सुरा.  
उम. वयोहानौ, जीर्णते विष  
१३, ५; जीर्णति वीथी ३,८:  
१५××; जीर्णति वाधुथी ४,  
१०:१; वाध ३०,१<sup>०</sup>.

जूर्णति अत्राय ६,११.

जरयति पाथ ३,३,५१.

जा<sup>०</sup>- पाठ ३, १, १३४<sup>०</sup>, -राय  
आमिथ १,२,७:२४<sup>०</sup>; या ४,  
२०१.

जरट- पाठ १, १००; -टम् काशु

७,७.

जरग- -गम् वाधुथी ४,१०२:२.-

जरत्<sup>०</sup>- पा ३,२,१०४; -रत् अत्रा<sup>०</sup>  
२, ४, १५†; -रत् शीथी १२, .

१५,१†; -रन्वः कौस् ८,१७.

जरतो- पाठ ४, १, १२६;

-तोम् आमिथ ३, ५, ३:१;

वीथि १, ३:१; द्विषि ४:४;

कौस् ७१,५†.

रजारतिनेय- पा ४, १,  
१२६.

जरत्-उत्र- -त्रम् कौस् १८,१०.-

जरत्-कदरय- -यः वीथी १८,  
२५:६;९.

जरत्-कण- -णः ऋथ २,१०,७६

जरत्-कार-सुनु<sup>०</sup>- -नोः अत्र  
१,३८,२†; अशो ८,२.

जरत्-कार<sup>०</sup>- (>जारकारव-  
पा.) पाठ ४, १,११२.

जरत्-कोश-विल<sup>०</sup>- -ले वीथी  
५,१६:३.

जरत्-कोष्ठ- -घात् कौस् १८,  
१३; -हे कौस् ७१,९.

जरत्-खात- -ते कौस् २७,३.

जरत्-पर्वत्- -वंसु सौच ४,  
५३.

जरत्-पूर्(व>)र्वा<sup>०</sup>- -र्वया वीथी  
१५, ५:८†; २६, १०:१२;

-र्वा वीथी १५,१:१६; वाधुथी  
३,६९:३९.

जरत्-प्रयोग<sup>०</sup>- -प्रयाभ्याम्  
वीथी १८,२५:७;९.

a) पाठः ? द्वौ इति शोषः । b) तस्येदमीय. अण् प्र. । c) विष. । वस. । d) उप. = [पद्कपाल-  
संस्कृत-] पुरोडाश- । e) वैष १ द. । f) व्यप. । व्यु. ? । g) वैष १,१३८७ d द. । h) = मान्-विशेष- ।  
धा. अर्थ ? । i) पा ३,१,५६;६,४,१२४ परामृष्टः द. । j) पाठे. वैष १, १३८७ h द. । k) भावे कर्तरि  
च इत् । l) तु. पाका. । रज- इति भारटा. । m) व्यप. । n) वैष १ निर्दिष्टानामेकत्र समावेशः द. ।  
o) व्य. व्यप. । व्यु. ? । p) = जीर्ण-मञ्जूपा- । q) = वन्धन-रज्जु- । व्यु. ? । r) सपा. आपथी २०,३,९.  
वेशसा इति पाठे. । s) क्य. उप. = प्रयुग्य- [बलौर्द-] ।

जल्-संभाव- -यः शांश्री २,  
 ५,२७.  
 जरद्-अदव- -द्वः बाधुश्री ३,  
 ६९ : ३७; -द्वम् बाधुश्री ३,  
 ७५ : २.  
 जजरद्-कष्टि- -द्यः श्राय १,  
 ७,१९; कौट १,८,१८; सांय १,  
 १३, ४; पाय १, ६, ३; -ष्टिः  
 वीश्री १३, ३२ : १८; १८, ९ :  
 ३२; आपमं १, ३, ३; २, १, ३<sup>०</sup>;  
 ४, ३; श्राय १, १७, १०<sup>०</sup>;  
 कौट; पाय २, १, ११<sup>०</sup>; माय १,  
 २१, ६<sup>०</sup>.  
 जरद्-उपागह- -नहा कौट ८४,  
 ९; -नहो आपश्री १८, २२, २;  
 कौट १८, १०.  
 जरद्-दास- -सः श्राय ४, २, १८.  
 -जरमाग- > ण-रोहित्- -हि वा  
 ६, १७.  
 -जरमित्- -ता या ३, १६, ५, २४;  
 १०, २१.  
 -जरत्- वा ७, २, १०१, पागवा ५,  
 ४, १०७; -जरसः श्रायि ३,  
 ५, ६ : ३; वीपि १, ४ : २०;  
 द्विपि; -जरसम् आपश्री १४, १६,  
 १; माश्री २, ५, ४, २०<sup>०</sup>; बाधुश्री;  
 आपमं २, २, १<sup>०</sup>, ४, २; श्राय, काय  
 ४१, ७<sup>०</sup>; वीय २, ५, ९<sup>०</sup>; भाय  
 १, ५, १<sup>०</sup>; द्वि १, २, ५<sup>०</sup>; -रसा  
 वीश्री १७, ४० : ११; बाधुश्री;  
 श्रायि १, ५, १ : २०<sup>०</sup>; काय  
 २५, ४<sup>०</sup>; वीय २, ५, ११<sup>०</sup>;

द्वि १, ४, २<sup>०</sup>; जैय १, २० :  
 १५<sup>०</sup>; या ११, ३८<sup>०</sup>; -जरसे  
 आपमं २, २, १, ५<sup>०</sup>; पाय १,  
 ४, १३; श्रायि; माय १, १०,  
 ८; २२, ३.  
 जरसान- पाय २, ८६.  
 जरत्- -रवा श्रायि ३, ५, १ :  
 १; वीपि; या १०, ३९<sup>०</sup>; ११,  
 ३८; -रा आपश्री १३, ३, २<sup>०</sup>;  
 वीश्री; -जराम् आपश्री २, ९, १०;  
 आपश्री; -रायाः पा ७, २, १०-१;  
 पायवा ५, ४, १०७; -रायाम्  
 वीश्री २, ५ : ७<sup>०</sup>; -रायै जैय  
 १, ८ : ९; अश्र ३, ११<sup>०</sup>.  
 जरा-मरण-भुत-पिपासा-शोक-  
 क्रोध-श्लोम-मोह-मय-मस्तर-हृद-  
 विपदि(द-ई)प्या(ध्या-अ)स्य-  
 (या-श्रा)मक- -कैः या १४, ७.  
 जरा-मर्त्य- -मैम् अप्राय ३, ६;  
 वाप १९, २.  
 जरा-मृत्यु- पाग ६, २, ३७.  
 जरिताम् माय १, १३,  
 १८<sup>०</sup>.  
 जरितम्- -मन् कौट ५४,  
 १३; -मा नेताश्री ३६, १९;  
 श्रायि १, १, २ : ४५; ४७;  
 ४९; द्वि १, ४, ८<sup>०</sup>; जैय १,  
 १२ : ६; ८; १०; अयं ३ :  
 २६; अप्रा ३, ४, १; -माणम्  
 अप्राय ६, ९; अश्र २, २८<sup>०</sup>.  
 जरिमा(स-आ)बुद्-द्वैवत- -तम्  
 अश्र २, २८.

जरिवा पा ७, २, ५५.  
 जरिण्- -ण्यु आपमं २, २, ११;  
 श्रायि १, १, २ : ४१; वीय २,  
 ५, १६; माय १, ६ : १२; द्वि  
 १, ४, ६; -ण्युः पाय २, २, ११<sup>०</sup>.  
 जरिवा- वा ७, २, ५५.  
 जरैर- पाउर ३, १३१.  
 जरैर-प्रह- -हाः अप ५२,  
 १३, १.  
 जा(रि>)श्री- -री बाधुश्री ४,  
 १०२ : १७; -श्री वीश्री १४,  
 ७ : २४; २६, ७ : २१; बाधुश्री  
 ४, १०२ : १६.  
 जि, जीम्जि- पाय ५, ४९; पावा  
 ८, २, ७८; -मयः या ३, २१<sup>०</sup>;  
 -जी आपमं १, ९, ४<sup>०</sup>; जैय १,  
 २२ : ५.  
 जीमं, गा- वा ३, ४, ७२; पाग ५, ४,  
 ३; -गं आपश्री ३, १४, १३;  
 वीश्री ३, १ : ३; या ३, १८;  
 -गीम् आपश्री १९, १७, ३; द्विः  
 -गीम् वीश्री २९, ५ : २०; -गं  
 अप ३७, १७, १; -गीः वीश्री  
 १६, ९ : २; या ३, २१; -गंनि  
 गीघ १०, ५८; -गीम् वीश्री  
 २७, ७ : ६; अयः वीश्री ७ : २;  
 या १४, ३३<sup>०</sup>; -गीय शांश्री  
 १४, १२, २; -गी आपश्री १९,  
 १७, १; वीश्री.  
 जीण-क- वा ५, ४, ३.  
 जीण-पणा(गं-आ)हार- -रः  
 श्रायि ३, ७, १० : ९.

a) क्य. उप. कएणे घञन्तम् = पठ-। b) पामे. वैप १, १३८८ d द.। सपा. शी ६, ६८, ३  
 विशिष्टः पामे.। c) वैप १ द.। d) पामे. वैप १, १३८८ m द.। e) पामे. वैप १, १३८८ p द.। f) पामे.  
 वैप १, १३८८ ० द.। g) वैप २, ३६, ८.। h) पाठः ? जरिणम् इति संस्कृतः द्वि. ?। i) जरिमाणे यो  
 इति पाठः जरिण्ये नयेत् इति शोकः [उ. j द्वि.]। j) पाठः ? जरिण्ये नयेत् इति Böhler [ZDMG ५२, ८१] शोकः।  
 k) पाठः ? जरिण्ये इति शोकः (उ. j द्वि.)। l) पामे. व १०६६ d द.। m) आपमं. जैय. पाठः।  
 n) पामे. वैप १, १३८९ k द.।

जीर्ण-मलयद्-वासस्- -साः विष  
 ७१, ९; गौध ९, ३.  
 जीर्ण-मल-वासस्- -साः वैध  
 ३, २, १६.  
 जीर्णा(र्ण-आ)दार- -रः नाशि  
 २, ८, १.  
 जीयत्- -यतः वाधुप्री ४, १० : १;  
 राघ ३०, ३; १०.  
 जीयद्-रत्नेश्वर- -रम् जैश्रीका  
 १.  
 लुडवस्- -वान् ऋषा ४, ६८.  
 जृ<sup>०</sup>, जृरते आपन् २, ११, २१<sup>०</sup>,  
 अष ४८, ९; निष ३, १४; ४, १;  
 या ४, २४<sup>०</sup>.  
 जृजरमाण- -णः आश्री ९, ११,  
 १४; शाश्री १५, ८, ७.  
 जृरा<sup>०</sup>- -रा या १०, ८.  
 जृरा-बोध<sup>०</sup>- -०ध आश्री ९,  
 ११, १४; शाश्री १५, ८, ७; वृदे  
 ३, ९९, साश्र १, १५; या १०,  
 ८१.  
 जराबोधीय<sup>०</sup>- -यम् वीथी  
 १८, १५ : १६; छप् ३, १२ :  
 १८, निस्- -वस्य निस् ८, २ :  
 ५३.  
 जृजरि<sup>०</sup>- -०तः आश्री ८, ३,  
 ११<sup>०</sup>×; शाश्री, -ता अष ४८,  
 ९७; निष ३, १६; या १, ७,  
 -तारः भाशि ९३; -तारम्  
 आपश्री ७, ६, ७; वीथी; -तृणाम्  
 आपश्री १७, ७, ८; -त्रे या १,  
 ७; ऋषा ७, ३५.  
 जारव(त् >)न्ती- -न्ती ऋषा ९,

४८.  
 जेतव्य-, जेतुम्- प्रय. √जि द.  
 जेव्य- √जन् द.  
 १-२जेमन्- √जि द.  
 √जेप् पाषा. भ्वा. आत्म. गती.  
 जेष्यत्- प्रय. √जि द.  
 √जेह् पाषा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने,  
 जेहते निष २, १४<sup>०</sup>.  
 जेहमान- -नाः आश्री २, १९, २४.  
 √जे पाषा. भ्वा. पर. क्षये, जायति  
 निष २, १४<sup>०</sup>.  
 जैगीपव्य-, जैगीपव्याणी-,  
 १-२जैत्र- √जि द.  
 ३जैत्र- (>जैत्रायणि- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 जैत्रिय-, जैत्री- प्रय. √जि द.  
 जैमिनि<sup>०</sup>- -निः जैथीका १७१; जैथ  
 २, ८ : १७, अष ४३, ४, १४;  
 मीस् ३, १, ४; ६, ३, ४; ८, ३, ७;  
 ९, २, ३९; -निम् जैथ १, १४ :  
 ८; -नेः मीस् १२, १, ७.  
 जैमिनि-वैशम्पायन-पैल-सूय-भाष्य-  
 गार्क्य-बधु-भाष्य-मण्डु-माण्ड-  
 व्य- -व्याः शांथ ४, १०, ३.  
 जैमिनोय- -यैः जैथीका १७२.  
 जैव-, जैवन्ति-, जैवन्तायन-,  
 जैवायुक्-, जैवि-, जैवेय-  
 √जीव् द.  
 जैह्लाशिनेय-, जैह्य- जिह्वा- द.  
 जैह्- जिह्वा- द.  
 जोमु- √गु (शब्दे) द.  
 जोजोवत्का<sup>०</sup>- -काः आपश्री १९, १२,  
 १२; वीथी १९, ३ : ३२; हिथी,

२३, २, २३.  
 जोप- प्रय. √जुप् द.  
 जोहु(व >)घा- -घा या ५, २६<sup>०</sup>.  
 जोह्य- √हे द.  
 जौलायन- (> जौलायन-मत्त-  
 पा.) पाग ४, २, ५४.  
 जौह्य- २जुह्- द.  
 जौह्यत- √हु (दाना<sup>०</sup>) द.  
 झ-, झका- √ज्ञा द.  
 √झप्<sup>०</sup> पाषा. चुरा. पर. ज्ञानि ज्ञापने-  
 च, अजिज्ञपत् भाशि ६०.  
 शीप्सति वाधुप्री ३, ६९ : १७६-  
 शीप्सन्ति वाधुप्री ४, १०८ : २-  
 १५; १९.  
 झपित-, झस- पा ७, २, २७.  
 शीप्समान- पा १, ४, ३४.  
 √ज्ञा<sup>०</sup> पाषा. भ्वा. पर. मारणतोषण-  
 निशामनेषु; क्वा. पर. अत्रबोषने;  
 चुरा. उम. नियोगे, जानाति  
 वीथी ३, २७ : ९; २५; ३१ :  
 १; वैथी, या १४, २०<sup>०</sup>; जानते  
 या ४, १०<sup>०</sup>; जानन्ति शाश्री  
 १५, १७, ११; आपश्री २३, ७,  
 ८; हिथी; जानीये विष १०, १० :  
 ३३, ६; जानामि या २, ८;  
 जानीमः निस् २, ३ : २४; ३, ३ :  
 ३४; १२ : २९××; जानातु गोपि  
 १, १, २७<sup>०</sup>; ज्ञानन्तु आपश्री  
 ६, २७, ३; हिथी; आमिथ ३,  
 ९, १ : ५<sup>०</sup>; वीपि २, ५, १<sup>०</sup>;  
 जानीष्व सु १२, २; ज्ञानीताद्  
 माश्री २, ५, ५, २१; अषा २, ४,  
 १८; जानीतम् या ४, ६; ५, २१;

a) उप. व्यप. । d) वैष १ द. । c) या १०, ८ पराश्रयः द. । b) पामे. वैष १, १३४० n द. ।  
 e) = साम-विशेष. । f) गती इतिः । g) = ऋषि-विशेष. । h) वैष २, ३३. द. । i) = जिह्वा- । व्यु. ?  
 <√हे (द्र. B.E.Y. 1001) वा √हु वेति । j) पा ७, २, ४९; ४, ५५ पावा ७, ४, ५५ पराश्रयः द. ।  
 k) या १४, १० या १, ३, ७६; ३, ४, ६५; ७, ३, ७९ पराश्रयः द. । l) जाय<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. बोधः (द्र. हिपि.  
 २१ : १६; B. [वैपि.] ।

जानीष्वम् आद्य २, १०, ८१;  
जानियेत् साधौ २, ५, ५, २१०;  
जानीयात् वीथी १३, १:१०××;  
वाथी; जानीयत् आधी ११,  
६, ४; काथी २४, ३, १४;  
जानीयुः आपथी २३, ७, ८;  
हिथी १८, ३, ३.

जये या २, ८; जनुः वीथ ३, ११,  
३१; जार्यामि वीथ ३, १२, ८.  
जायते वीथी २४, १४ : ६;  
निम् ९, ६ : ३; अप; पावा १,  
२, ६४; जायते वीथी २०, २२ :  
१०; वृदे ३, ७८.  
जापय अय ७०, १, २; जापयेत्  
आपथ १, ८, १६; हिप १, २,  
१०४; जापयेयुः आधी २, ५,  
१८.

जिज्ञासेत् निम् १, ६ : ७; ८.  
जज्ञान वैथ २, २ : ५१<sup>०</sup>.

जानत् - ज्ञतः<sup>०</sup> आपथी ६, २७,  
३; हिथी ६, ७, ८; दाथी ७,  
३, १; लाथी ३, ३, ११<sup>०</sup>; शाथ  
३, ७, २; काथ २७, ३; माथ  
१, २७ : ५; हिप १, २६, १;  
-ज्ञतवा वीथ २, २, ८; कौम्  
७३, १७; -नते या १, १६१;  
-नत् साथी ३, २, ३; काथी ९,  
६, २३××; वीथी; या १४, २२;  
-नन्तः विप ८, ३७; -नन्तम्  
या १, १५; १६.

जानते - ज्ञवी आपथी १२,  
१५, ६, हिथी ८, ४, २१.

जिज्ञासा - सा मीम् ४, १, १;

-सायाम् पावा १, २, २१.  
जिज्ञासित - नम् भात् २, ११;  
-तयोः भात् ३, २.  
जिज्ञासु - सुः वृदे २, ११६.  
ज्ञ, ज्ञा - पा ३, १, १३५; ७, ३, ४७;  
ज्ञाप अप ६६, २, ६१; ज्ञेभ्यः  
वीथ १, ८, ३७<sup>०</sup>.  
ज्ञ, जि(क>)का - पा ७, ३,  
४७.  
ज्ञ-सम्वाय<sup>१</sup> - ये गीथ ६, ५.  
ज्ञात - पाग ५, ४, २९; -तः वीथ  
२, २, २२; ३, ५, ८; गीथ २६,  
२३; -तम् कप्र २, ९, १२;  
कौसि ५८; -ते मीत् ३, ८, १८;  
-तेषु वीथी २९, १३ : १७.  
ज्ञात-क - पा ५, ४, २९.  
ज्ञात-मिया(य-अ)मूषाल - नान्  
काथी ९, ७, १५.

ज्ञातव्य - न्यः यासि १, ४२;  
-व्यम् जैथीका १३२.

ज्ञाति<sup>०</sup> - तयः शीथी ३, ६, १;  
आपथ; -तये काथी १०, २, ३३;  
आपथी; -तिः वैथ ४, ७ : ७;  
या ४, २१६; -तिभिः माथ २,  
५ : ११; -जृतिभ्यः काथी ५,  
५, ८; वैताथी ३७, १४; १७;  
आपथ २, २२, ५<sup>०</sup>, वीथ, हिप  
१, १४, २<sup>०</sup>; -विम् आपथी ८,  
६, २२; वीथी; -निषु आपथ  
१, १०, ३; हिप १, ३, ३२;  
-तीन् वीथी २८, २ : ५४;  
दाथी; या ४, २१; -तीनाम्  
आपथी १, ८, ७, लाथी; -ती

आद्य ४, ४, २२.  
ज्ञाति-कर्मन् - र्मं गोथ २, १, १०.  
ज्ञाति-कुल - कम् भाथ १, १३:  
११.  
ज्ञाति-पत - नम् आपथ २,  
१४, ९; हिप २, ३, २०.  
ज्ञाति-नामन् - नानि शीथी ६,  
१, ६.  
ज्ञाति-मन्त्री - न्त्रीः आमिथ २,  
६, ३ : ५४; वीथ २, ५, २९१;  
-जृतीभ्यः आमिथ ३, ११, ४ :  
३२; वीथ २, ११, ३४.  
ज्ञाति-मन् - नन्तम् वीथ १,  
५, २६; शीथ १, ९, ९; -नान्  
वीथ १, ५, १६<sup>१</sup>; शीथ १, ९, ९<sup>१</sup>;  
काय २५, ३६<sup>२</sup>.  
ज्ञाति-मरण - नम् विप १४,  
४; -ये विप २२, ३८.  
ज्ञाति-वर्ग - र्वाः वैथ ५, १५ :  
७; -जृतीभ्यः वैथ १, ४ : १६;  
४, ४ : ९.  
ज्ञातिवर्ग-वती - जृतीभ्यः  
वैथ १, ४ : २०; ४, ४ : १०.  
ज्ञातिवर्गपण्य (शी-अ) -  
न्त<sup>१</sup> - न्तेभ्यः वैथ ३, ७ : १४.  
ज्ञाति-विद् - वित्<sup>१</sup>, -विदे  
कौम् ७८, १०<sup>६</sup>.  
ज्ञाति-श्रेष्ठ - श्यम् विप ७८,  
१८.  
ज्ञाति-संभाष - न्नी आमिथ १,  
६, ३ : ४२.  
ज्ञानिय - पा ५, १, १२७.  
ज्ञान्यम् वृदे ३, ३९; ११०.

a) पाभे. वैप १, ११९१ i द्र. । b) नम् (मा १३, ३) इत्यस्य प्रतीकं द्र. । c) पाभे. वैप १,  
१०२६ n द्र. । d) जान इति पाठः ई यनि. शीथः (द्र. दाथी.) । e) सपा. शाथ १, १४, १७ याद्विभ्यः  
इति पाभे. । f) अज्ञत<sup>०</sup> इति sT. । g) वैप १ द्र. । h) कप्र. पाथ ३, ७, २ निविष्टः पाभे. ।  
i) सप्र. शातिमान् <> शातिविद् इति पाभे. । j) विप. । वच. । k) जाति<sup>०</sup> इति पाठः ई यनि. शीथः  
(द्र. BC.) ।

ज्ञातृ-त्ता विध १, ३२, या १४,  
 १०; -त्तरम् आद्य ३, १०, ११;  
 -तुः वीध ४, ८, ८.  
 ज्ञाप्य- -त्रम् गो २, ७; १०†;  
 -त्रेण निम् ५, ९; २३.  
 ज्ञावा काथीस ३३; १६; गु.  
 ज्ञान- -नम् निम् १, ६; ९; कप्र २,  
 ६, ३; वाध; -नस्य गोश १,  
 ५, १३; या ३, १२; आज्यो  
 ७, १७; -नात् अप ४, ३, १०;  
 आपध; -ने शुप्रा ८, २९;  
 पात्रवा ६; -नेन भाश १, ११;  
 १६; वाध ३, ६०; संध.  
 ज्ञान-कर्मन्- -मंगः या १४,  
 १३.  
 ज्ञान-कृत- -तः या १४, १०;  
 -लेभ्यः वीध ३, ५, ५.  
 ज्ञान-नाम्य- -०भ्य विध ९८,  
 ३३, -न्यम् विध ९७, २०.  
 ज्ञान-नम् (ः) विध ३२, १८.  
 ज्ञान-दुष्ये- -लः सुध १३.  
 ज्ञान-नृम्ण- -भ्यः या १४, २४.  
 ज्ञान-पति- (>०त-पा.) पाग  
 ४, १, ८४.  
 ज्ञान-पूर्व- -र्धम् गीध २०, ९.  
 ज्ञान-भद्र- -र्धम् वाध २८२; ६.  
 ज्ञान-प्रशंसा- -सा या १, १७.  
 ज्ञान-मोक्षा(त-श्च)क्षर-प्रशंसा-  
 -सा क्रश् २, १, १६४.  
 ज्ञान-राशि- -शिना वेज्यो ४२.  
 ज्ञान-लोचन- -नः रूप ३०, १,  
 २.  
 ज्ञान-विधूत-पात्रम्- -भ्या या  
 १, १८†.

ज्ञान-विषय- -ये शोभी १३,  
 ५, १.  
 ज्ञान-संस्नव- -वः वृदे ८, ९३.  
 ज्ञानान-अ)ज्ञान- -ने वैशु ५,  
 १; २८.  
 ज्ञाना(न-अ)पहासि- -सी संध  
 ३७७; १८.  
 ज्ञाना( न-अ)भिनिवेश-  
 -शाभ्याम् गीध २८, ५४.  
 ज्ञानो(न-उ)क्त- -क्तानि या १४,  
 ९.  
 ज्ञापक- -कः पावा १, १, ४५; ३,  
 १, ३६××; -कम् पावा १,  
 १, ११; १९××; -कात् पावा  
 १, २, १८.  
 ज्ञापित, ता- -तान आद्य ४, ७, २;  
 -तायाः वाधूथी ३, १५; ४.  
 ज्ञाप्यमान- -ने पावा २, ३, १३.  
 ज्ञाप- (>०प्य-पां.) पाग ४, ३,  
 ५४.  
 ज्ञायमान- -ने आपध १, ९, ८; १४,  
 १४; हिध १, ३, ८; ४, ४६.  
 ज्ञेय, या- -न्यः कप्र ३, ८, ११; रूप;  
 -यम् वंथी १, १; १३; कप्र २,  
 ८, ५, रूप; -या कप्र १, ७, ९;  
 रूप; -याः ऊंथीका १६८; रूप;  
 -यान् आपध १, २, ३, २; हिध  
 १, ६, १०; -यानि आप्यु ५, ७,  
 हिशु २, १६; क्रञ ३, ४६;  
 -यामिः आप्यु १, ९, हिशु १,  
 १४; -ये वृदे ५, ८६; -यौ क्रञ  
 ३, ४०; वृदे.  
 ज्ञेय-नासि- -निम् वेज्यो ४२.  
 ज्ञात- √ज्ञा द.

ज्ञातल- (>०प्य-पां.) पाग ४,  
 १, १२३.  
 ज्ञाति- प्रथ., शिक्का- √ज्ञा द.  
 ज्ञीप्समान- √ज्ञप् द.  
 ज्ञु- > ज्ञु-वाध- -वाधः भासि ५९†.  
 ज्जिम्- -जम् आथी ३, ८, १;  
 आथी २०, ३, १५; वीथी १५,  
 ६; ११; हिथी १४, १, ३६;  
 शुध २, २७३.  
 ज्जय- -याः या १२, ४३††.  
 ज्जिमा- -जमः काथी ४, १५, २;  
 वंताथी ३३, १९; माध १, ५२;  
 ज्जमा आथी २, ९, १४; ३, ७,  
 १०; शोथी ६, १०, ६; रूप ४८,  
 ७२; निध १, १; या १२, ४३S.  
 √ज्या<sup>१</sup> पाधा. क्या. १८. वयोहानौ,  
 जिनासि वाथी ३, ३, ३, २†;  
 हिथी १३, ६, ८; जिनासि आथी  
 २, १०, १६††; जिनासि वाथी  
 १५, ६, २१†, ज्जिजिनाः आपथी  
 २०, ६, १४; वीथी १५, ९; ८;  
 हिथी १४, २, १७, जिनीयात्  
 लाथी १, १, १५; जिनीयुः  
 वाधूथी ३, ७९; १६; १८.  
 ज्यास्यते वाधूथी ३, ७५; ११;  
 ७९; २०; ज्यास्यन्ति वीथी  
 १५, ४; ११; ८; ४; जिज्यासिधि<sup>२</sup>  
 वीथी २४, १२; १५; १८; २.  
 ज्जिज्यासर्- -सतः वीथी ७, ४;  
 १७; अप्रा ३, ४, १.  
 जिन्- -नतम् क्रञ १२, ५(६)†.  
 जीन- , जीनवन्- -पा ८, २, ४४.  
 ज्यानान- -नः वीथी १७, १७; ३.  
 ज्यानि- -पाठ ४, ४८; पावा ३, ३,

a) वैष १ द. । b) विर. । कम्. । c) वृ. पाणि. । ज्याय- इति भाष्यदा. प्रथ. । d) सतल- इति पागम., [पदे] भाष्यदा. च । e) पागे. वैष १, १३९२ ता द. । f) या ९, १७ पा ६, १, १६, ७, ३, ८० पावा ७, ३, ५७ परामृष्टः द. । g) पागे. वैष २, ३६. ज्ञपुं तैसा २, ५, ३, १ टि. द. । h) णिधि इति पाठः ? यनि. बोधः (गु. द्दत्ताः, संस्कृतः [आपथी ५, २९, ३] टि. च) ।

१५; -निम् द्विती ३, ६, २; १८,  
४, ३९; -न्या वीथी १८, ३०;  
८; -न्या: आपथी ३, १५, ७;  
-न्याम् आथी १२, ६, ३४;  
आपथी ५, २६, ३; भाथी ५,  
१७, ५.  
ज्या<sup>१०</sup> - ज्या वीथी २०, ३३ : १११;  
- सु २२, ४; आपथ १, २, ३४;  
द्वि १, १, ६६; काशु ७, ३८;  
शुदे १, १११; अस् ५, १८१; निष  
५, ३१; या २, ५१; ९, १७१;  
पुन्या: या ९, १८; अश्र २,  
५६; शुभा ४, ८७; १५५; तैषा  
१०, १३; ज्याम् आपथी २०,  
१६, ६; वीथी ३, ४, ३, ३०;  
द्विथी १४, ३, २९; वैताथी  
१२, १३१; आपथ २, २२, ३१;  
आमिथ १, १, १ : १७; द्विथ १,  
१, १७; कीत् २६, ३; ६; ३५,  
१३; ३६, २८१; अष ३२, १,  
७१; अश्र २, ६, ७५; अश्र ६,  
४२१; ज्याया: या २, १५१.  
ज्या(ज्या-अ)थिमन्नि(र >)थी-  
थी शुदे ५, १२९.  
ज्या-वीथी- वीथी वीथ २, ५, १३.  
ज्या-नृत्तका-ज्याल<sup>१</sup>- -लेन वीत्  
३२, १०.  
ज्या-दोड<sup>१</sup>- -ड: काथी २२, ४, १२;  
आपथी २२, ५, ५; द्विथी १७,  
२, ३३; लाथी ८, ६, ८.

ज्यानाज- ज्यानि- √ज्या द.  
ज्यावाणय<sup>१</sup> (>थी-पा.) पाण  
४, १, १७६.  
ज्यायम् निम् १०, ११ : १३.  
ज्यायस्<sup>१</sup>- पा ६, ४, १६०; -प:  
आथी १, ३, १४१; ९, १; ५१;  
शथी; -पय: आपथी २४, १३,  
३; वीथी; पावा २, २, ३४;  
-यसा या ३, १३; -यति द्राथी  
९, ३, २०; लाथी; पा ४, १,  
१६४; -य:सु लाथी ६, ६,  
१७; -यांस: आथी १५, २६,  
१२; वीथी; -यांसम् आपथी  
४, १४, ६××; वीथी; आपथु  
१०, १११; -यानि वीथी २४,  
२८ : ८; -यान् वीथी १३,  
२८ : १३××; लाथी; या ३,  
१४; -यान्-यान् आथ २,  
३, ९.  
ज्यायमी- मीम् काथी ८३;  
वाध २, २३; १७, ५८; -मीय्-  
सीम् वीथी २०, १३ : २;  
-रय: निम् १, ६ : ३.  
ज्यायत्-वत्- -वत्त: अश्र ३, ३०१.  
ज्यायु<sup>१</sup>- सुम् कीत् २३, १०.  
√ज्यु पाधा. भ्या. आत्म. गती.  
√ज्युत्<sup>१</sup> पाधा. भ्या. आत्म. भासने,  
पुन्योत्ते अश्र ४८, २०; निष १,  
१६.  
पुन्यो(त >)ना<sup>१</sup> - -ते<sup>१</sup> द्राथी ९,

२, ३; लाथी ३, ६, ३; शुभा ४,  
६५.  
ज्योति<sup>१</sup>- -ते: अष ५२, ८, २.  
ज्योतिम् (>रु, ए)<sup>१</sup>- पाउ २,  
११०; -ति: पुन्याथी २, ३,  
१६; ४, २५; ५, १४××;  
भाथी; काथी २५, १०, २५१;  
आपथी १५, १०, १०१;  
पुन्याथी ६, ४, ९<sup>१</sup>; १२, ४, १०;  
पुन्याथी २, १२, १०<sup>१</sup>; वैताथी  
४, ३१<sup>१</sup>; अश्र १, ५, ८<sup>१</sup>; शुभ  
५, ६७<sup>१</sup>; या २, १; ११<sup>१</sup>; ४,  
१९××; अश्र १६, ७०<sup>१</sup>;  
-तिभि: या २, १४<sup>१</sup>; -तिप:  
शथी ९, २१, ७; वीथी १७,  
२२ : ४××; माथी; कीत्  
१४१, २२५; गीष २, १७; या  
२, १६; १०, ४१××; -तिपम्  
आपथी २१, १५, १०<sup>१</sup>;  
निम् ५, ११:२६; २७; ८, १२ :  
६; ९, ६ : १८; या १४, १;  
-तिवा आथी २, ५, ७<sup>१</sup>; ५,  
१३, ६; ८, १०, ३; द्राथी;  
आपथी ६, २५, २<sup>१</sup>; आपथ २,  
२०, ३२<sup>१</sup>; शुभ २,  
१७२<sup>१</sup>; या २, २१<sup>१</sup>; ६, २६;  
१०, २९<sup>१</sup>; २१<sup>१</sup>; १२, १;  
-तिपाम् काथी २५, ११, २५;  
आथी ४, १, ८××; वीथी;  
या २, १३; १४<sup>१</sup>; १९<sup>१</sup>; २१;

a) वैप १ द. । b) = चतुर्थेण- । c) पामे. वैप १, १३९२ d) द. । d) निष. > नाप. । पस. > वस.  
(तु. जात-ज्वाल-). । e) वैप २, ३४. द. । f) = आपुपजीविष-विशेष- । व्यु. इ. । ब्राह्मणेय- इति पाका. ।  
g) 'यासो इति पाठः' रनि. शोधः । h) = ज्या- (तु. मू. L) । i) तु. BPG. । j) पामे. वैप १, १३९४ e ।  
द. k) = ज्योतिस्- । l) आप. नाप. (छन्दस्, एकाह, स्तोम-प्रश्नः) । m) पामे. वैप १, १३८१ n द. ।  
n) पामे. वैप २, ३४. ज्योतिः तैसा ४, १०, ४ टि. द. । o) पामे. वैप १, १३९४ g द. । p) = अष्टाक्षर-पाद- ।  
q) लक्षणेन तैधिरार्पः, 'तिपः इति वा 'तिपाम् इति वा शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । r) = एकाह- [याग-] ।  
s) पुं. इति संस्कृतः सूची । t) पामे. वैप २, ३४. ज्योतिषा तैसा १, २, १, २७ टि. द. । u) पामे. वैप १,  
१३९६ c द. । v) पामे. वैप १, १३९६ b द. ।

पावा १,३,४०; वेज्यो २; -तिपि  
शांथो १८, १, ८; आपथो; -तिपी  
बीथो २४, ३० : २; ६; निस् ४,  
६ : १३; ऋअ २, ८, २२; या ७,  
१६; १८; २०<sup>२</sup>; २३; ३१; १२,  
२६; -तिपि काथो ३, ८, २३;  
आपथो; -तिपोः द्राप ३, २,  
३०; गीष १६, १६; -तिप्यु  
वृदे ३, १२; -तिपि शांथो ९, ५,  
१; १६, २१, २; आपथो; या २,  
१४; १०, २६; १४, १६.

ज्योतिष-याः निस् ८, ३ :

११.

ज्योतिर्-अतिरात्र<sup>१</sup> - अत्रः बीथो  
१७, ६१ : १; ६२ : ९.

ज्योतिर्-अनीक<sup>२</sup> - अकः ऋप्रा ५,  
५३१.

ज्योतिर्-अथन- नम् बीथो  
१६, ३२ : ८; १७, ५६ : १.

ज्योतिर्-आयतन- नम् कौस्  
१६, ३१, -नस्य कौस् ३८, १६.

ज्योतिर्-उदयन<sup>३</sup> - नः निस् ५,  
२ : १४; १६.

ज्योतिर्-उद्गमन- ने पावा १,  
३, ४०.

ज्योतिर्-गग- गेपु अप ६५,  
१, २.

ज्योतिर्-गणना (ना-आ) दिका  
(क-झ) धिक-वृत्ति<sup>४</sup> - तिः वैष  
३, १२, ८०.

ज्योतिर्-जरायु<sup>५</sup> - युः या १०,  
३११.

ज्योतिर्-भाग- गः या १२, १.  
ज्योतिर्-भाम्<sup>६</sup> - भाः बीथो

९, १४ : २२; वैथो १३, १६ :  
१६.

ज्योतिर्-मध्य- म्ये आमिप २,  
४, १० : ७.

ज्योतिर्-मय- मयम् अप १३,  
५, ६.

ज्योतिर्-लोक- लम् अर्ष १५,  
१, ९.

ज्योतिर्-वर्ण<sup>७</sup> - ञ्गय या ७,  
३१.

ज्योतिर्-विचार- रान् निस् ४,  
७ : २६.

ज्योतिर्-विध- धानि निस् ५,  
८ : ९.

ज्योतिर्-चक्र-विद्- विद्ः फ्र  
२, ६, ७.

ज्योतिः-शब्द- श्दैः आथो ५,  
९, ११.

ज्योतिः-शास्त्र-प्रयुक्त- कानाम्  
आज्यो ७, ६.

ज्योतिष<sup>८</sup> - पाग ४, २, ६०<sup>६</sup>;  
-अम् अप १, १५, १; शेष ११६:  
३९; आपथ २, ८, ११; द्विध.

ज्योतिषिक<sup>९</sup> - अकः अप ७,  
१, १०.

ज्योतिषिक- पा ४, २, ६०.

ज्योतिषि<sup>१०</sup> > ष्यो-> ष्यो-  
मत्<sup>१</sup> - मात् अया ३, १, १८<sup>१</sup>.

ज्योतिषाम्-अयन- नम् चव्यू  
२ : २५, वेज्यो २, -नेन बीथो  
२८, ४ : ३१.

ज्योतिषामयन-विकल्प-

-रथाः लाथो ४, ८, १.  
ज्योतिष्-कृत्<sup>११</sup> - कृत् षीति

१२५१.  
ज्योतिषोम<sup>१२</sup> - पा ८, ३, ८३;

-मः आथो ९, १, ३××; शांथो;

-मस्य लाथो ६, ९, १××; लुस्;

-माः काथो २४, ७, ३०; ३२;

लाथो १०, १३, ४; -मात्  
द्राथो २, ४, २३; लाथो; -माय

लाथो ९, १, २; -मे आपथो १४,  
८, १; द्विथो; -मेन काथो १४,  
१, ३; २२, ११, ३२; आपथो;

-मैः वाथो ३, २, २, ४७; -मौ  
लाथो ८, ११, ११; निस् ८, ९ :

१६.  
ज्योतिषोम- मस्य निस्  
६, ८ : २६; ७, ४ : ३२; ८,  
३ : १०.

ज्योतिषोमी- म्यः  
मीम् १०, ६, ६५.

ज्योतिषोमिक<sup>१३</sup> - कात्  
मीस् ७, १, १६; -कानि मीस् ७,  
३, ६; -कैः काथो २४, ५, १६.

ज्योतिषोम<sup>१४</sup> - मानाम्  
निस् ३, १० : ४०; ४, १२ : १२;

-मानि निस् ३, ९ : ३××.

ज्योतिषोमी- मीमिः  
निस् ६, १२ : १; -मीम् निस्  
४, ७ : २७.

ज्योतिषोम-तन्त्र- त्त्रे  
लाथो ४, ५, १७; ८, ११, ६.

ज्योतिषोम-तन्त्र<sup>१५</sup> - त्त्रः  
निस् ९, ६ : ३४; १०, १३ : २१.

ज्योतिषोम-दक्षि (णा > )  
ण<sup>१६</sup> - णाः बीथो २३, १९ : १२.

a) = महायज्ञ- । मलो. कत्. । b) वैष १६. । c) विप. । बस. । d) विप. । पस. > बस. > बस. > बस. । e) ष्का घृत्तिः इति रंगा. । f) वैष २, ३६. द. । g) = वेदाङ्ग- । क्व प्र. (वा ५, २, १२७) । h) द्व. भाएडा. प्रय. । षि- इति पादा. । i) = ज्योतिषिक- । j) वैष १, १२९० ई. द्व. । k) = ज्योतिः-शास्त्र- । l) = क्यु-विशेष- । m) विप. । तस्यदेमीयः प्र. । n) विप. । तस्यमविश्य प्र. लुक् (वा ४, ३, ६६) ।

ज्योतिष्टोम-दशाह--हाम्याम्

नित् ४, १२ : ११.

ज्योतिष्टोम-धर्म--मां: काश्री  
१२, ११.

ज्योतिष्टोम-मन्त्र ( शक > )-  
शिक्ष-काम् वैश्रीका प.

ज्योतिष्टोम-प्रदेश--वाक्  
काश्री ९, १२, १७.

ज्योतिष्टोम-प्राय--वाणि  
लाश्री १०, १, १६.

ज्योतिष्टोम-विचार--रेभ्यः  
नित् ६, २ : २२.

ज्योतिष्टोम-विधि--विः  
लाश्री ९, ६, १८.

ज्योतिष्टोम-विशजित्-शिवृत्-  
पञ्चदश-नसद्वै ( श-ए ) कर्बिता-

-शा: काश्री २३, १, १८.

ज्योतिष्टोम-सर्वल्लोम--मौ  
नित् ८, ३ : २६.

ज्योतिष्टोमा ( म-आ ) द्वि--  
-दिभिः लाश्री ८, ११, ६.

ज्योतिष्टोमा ( म-अ ) यत-न्मम्  
नित् १०, ९ : १४.

ज्योतिष्टोमायन-विकल्प--  
-रुपा: काश्री ८, ४, १९.

ज्योतिष्टोमो ( म-उ ) पाद--  
-दम् नित् २, १३ : ११.

ज्योतिष्टोम-स्यम् नित्  
९, २ : २८.

ज्योतिष्टो-त्व > द्व-द्वम्  
वीश्री २८, ४ : ३१; शौच ४,  
१०२.

ज्योतिष्टोम-प्रायण--णः नित् ५,  
२ : १४; १६.

ज्योतिष्टोम-पुंमत्-पुंमत्-  
९, ८, ८; वीश्री: -पुंमत्: आपश्री  
१०, १६; २२, ९, १९; १२,  
१०; वीश्री: -मति आपश्री २,  
१२, ७; १४, १; १८, ६; वीश्री:  
-मते शाश्री ३, १९, १०; काश्री:  
-पुंमत्तम् आपश्री ९, ८, ८; १२,  
७, ७; वीश्री: -मान् आपश्री ३,  
१२, २८; आपश्री १६, १२, ६;  
वीश्री.

ज्योतिष्करी--ती नित्  
१, ४ : २, ५; पाण्ड ३, ३, ५१.

काण्ड; -ती: आपश्री १७, ६, ४;  
वीश्री: -तीभिः आश्री ३, ७,  
३ : २२; वीश्री २, २, २; द्विषि  
१९ : ९; -तीन्वाम् वीश्री १०,  
१८ : ६; २७, ११ : ८; वैश्री  
१८, ११ : १५; -पुंतीम् आपश्री  
१६, २४, ७x४; वीश्री: -त्यः  
उनिम् १ : ६०, ६१; -त्या  
आपश्री १६, ७, ७; माश्री: -त्यौ  
उनिम् ५ : १४.

ज्योती-रथ-प्रवाद--दम् उस्  
६, ९.

ज्योत्स्ना-- वा ५, २, ११४;  
पाश्र्वा ५, २, १०३.

ज्योत्स्ना-पावा ५, २,  
१०३; -स्ना: गोष्ट २, ८, १;  
-स्नस्य काश्री १३, १९, ६;  
-स्ने माश्री १, ६, २, ४; ४,

७, १; ८, १; माष्ट १, २१, ११.  
२, १, २; -स्ना: गोष्ट २, ८, ६.  
ज्योत्स्न--स्ने द्राष्ट २, ३, १

ज्येष्ठा अप ४८, ११९१.

ज्येष्ठ, घ्रा-- वा ५, ३, ६१; ६२; पाण  
४, १, ४; १२६; कि २२; -घः  
आश्री ४, ११, ५१; वीश्री १२,  
२०, ३१ x ४; वीश्री: अप ४८,  
१०-५१; -घः-घः आपण्ड  
१९, १०; -घम् आश्री ७, ४,  
३१; वीश्री: या २, १०, ३, ५;  
१४, २४; -घवा पाण्ड २, १३,  
१; आपण्ड २३, १०; माण्ड २,  
१५ : २; अप १, ५, २१, २;  
४०, ११; अशा १०, ११; विष  
२६, १; -घस्य वीश्री २, १२,  
१०; काश्री: कण्ड २, ६, ६६; -घा  
कण्ड ३, १, ४, अण्ड; -घा: काश्री  
२२, ४, ६; माश्री ४, २६, ५;  
१२; नित् ६, १२:२; अप १, ७,  
८; -घानाम् वीश्री १४, ७२, १;  
आपश्री: पाण्ड १, ५, १०१;  
-०घानाम् वीश्री ४, १०, १०१;  
-घानि अप १, २८, २; -घा-  
म्याम् वीश्री २, ८, ३०१; -घाम्  
अश्री १; वृदे ६, ७७; -घाय  
आश्री ९, २६, २१; काश्री: शाण्ड  
१, २६, १६६; -घायाम् आश्री  
३, २, ५ : १; कण्ड ३९ : १;  
अण्ड १, ४, ४; १०, ४, ३३, ९, ४४,  
६; ४९, ५; अशा १३, ३; -घावै  
वैष्ट ३, २० : ८०; अशा १२,

ज्योतिष्करी--ती नित्  
१, ४ : २, ५; पाण्ड ३, ३, ५१;  
काण्ड; -ती: आपश्री १७, ६, ४;  
वीश्री: -तीभिः आश्री ३, ७,  
३ : २२; वीश्री २, २, २; द्विषि  
१९ : ९; -तीन्वाम् वीश्री १०,  
१८ : ६; २७, ११ : ८; वैश्री  
१८, ११ : १५; -पुंतीम् आपश्री  
१६, २४, ७x४; वीश्री: -त्यः  
उनिम् १ : ६०, ६१; -त्या  
आपश्री १६, ७, ७; माश्री: -त्यौ  
उनिम् ५ : १४.

ज्योती-रथ-प्रवाद--दम् उस्  
६, ९.

ज्योत्स्ना-- वा ५, २, ११४;  
पाश्र्वा ५, २, १०३.

ज्योत्स्ना-पावा ५, २,  
१०३; -स्ना: गोष्ट २, ८, १;  
-स्नस्य काश्री १३, १९, ६;  
-स्ने माश्री १, ६, २, ४; ४,

७, १; ८, १; माष्ट १, २१, ११.  
२, १, २; -स्ना: गोष्ट २, ८, ६.  
ज्योत्स्न--स्ने द्राष्ट २, ३, १

ज्येष्ठा अप ४८, ११९१.

ज्येष्ठ, घ्रा-- वा ५, ३, ६१; ६२; पाण  
४, १, ४; १२६; कि २२; -घः  
आश्री ४, ११, ५१; वीश्री १२,  
२०, ३१ x ४; वीश्री: अप ४८,  
१०-५१; -घः-घः आपण्ड  
१९, १०; -घम् आश्री ७, ४,  
३१; वीश्री: या २, १०, ३, ५;  
१४, २४; -घवा पाण्ड २, १३,  
१; आपण्ड २३, १०; माण्ड २,  
१५ : २; अप १, ५, २१, २;  
४०, ११; अशा १०, ११; विष  
२६, १; -घस्य वीश्री २, १२,  
१०; काश्री: कण्ड २, ६, ६६; -घा  
कण्ड ३, १, ४, अण्ड; -घा: काश्री  
२२, ४, ६; माश्री ४, २६, ५;  
१२; नित् ६, १२:२; अप १, ७,  
८; -घानाम् वीश्री १४, ७२, १;  
आपश्री: पाण्ड १, ५, १०१;  
-०घानाम् वीश्री ४, १०, १०१;  
-घानि अप १, २८, २; -घा-  
म्याम् वीश्री २, ८, ३०१; -घाम्  
अश्री १; वृदे ६, ७७; -घाय  
आश्री ९, २६, २१; काश्री: शाण्ड  
१, २६, १६६; -घायाम् आश्री  
३, २, ५ : १; कण्ड ३९ : १;  
अण्ड १, ४, ४; १०, ४, ३३, ९, ४४,  
६; ४९, ५; अशा १३, ३; -घावै  
वैष्ट ३, २० : ८०; अशा १२,

ज्योतिष्करी--ती नित्  
१, ४ : २, ५; पाण्ड ३, ३, ५१;  
काण्ड; -ती: आपश्री १७, ६, ४;  
वीश्री: -तीभिः आश्री ३, ७,  
३ : २२; वीश्री २, २, २; द्विषि  
१९ : ९; -तीन्वाम् वीश्री १०,  
१८ : ६; २७, ११ : ८; वैश्री  
१८, ११ : १५; -पुंतीम् आपश्री  
१६, २४, ७x४; वीश्री: -त्यः  
उनिम् १ : ६०, ६१; -त्या  
आपश्री १६, ७, ७; माश्री: -त्यौ  
उनिम् ५ : १४.

ज्योती-रथ-प्रवाद--दम् उस्  
६, ९.

ज्योत्स्ना-- वा ५, २, ११४;  
पाश्र्वा ५, २, १०३.

a) पाठः ? ( वृ. सप्र. लाश्री ४, ८, १; धन्वी च ज्योतिषाम् इति ) । b) ष्माष्वा इति पाठः ? वनि.  
शोधः । c) वि. । दन. । d) = छन्दो-विशेष- ( ऋग्न. ऋग्न. प्रष्ट. ), = ऋग्न-विशेष- ( वीश्री १०, १८ : ६ प्रष्ट. ) ।  
शिष्टं वैष १ द. । e) पांशे. वैष १, १३५० ० द. । f) वैष १ द. । g) = शुक्ल-पठ- । मत्वर्थकः कश्च प्र. ।  
h) अण्ड. । वैष १ निर्दिष्टानामेकत्र समविशः द. । i) पांशे. वैष १, १३१८ [ द. । j) = संप्रान- । k) = ज्येष्ठ-  
मास- । l) पांशे. वैष १, १३१८ h द. । m) पांशे. वैष २, ३३. ओजस- > -०जसम् तैका ३, ११, ४, २ टि. द. ।  
n) वृ ८४६ p द. । o) सपा. घाय <> घावै इति पांशे. ।



३; -ष्टे आश्री ३, ८, १; ८, ८, ६; वैष्ट ६, १३ : ६; १४ : १; ४; शंघ २७०; -०ष्टे अश्री १, २; ४, १; -ष्टेन षोडश ८०, ४६.  
 ज्येष्ठिनेषु- पा ४, १, १२६;  
 -यः आपश्री २२, १३, २१;  
 द्विशी १७, ५, ४१; -यस्य वाश्री २३, १, १५; आपश्री २, १९, ३; ६, ४, १; वीशी ३, ४ : १८;  
 माश्री ६, ९, १; २; वाश्री १, १, १, ४०; ५, २, १२; वैश्री २, २ : ७; द्विशी २, १८; ३, ७, १९; गौष २८, १५.  
 ज्येष्ठ(ष्ठ)ष्टी- -ष्टी विष ९०, ११; -ष्टया वैनाश्री ३६, १२.  
 ज्येष्ठ- -ष्टे अय ५५, ६, १.  
 ज्येष्ठ- -ष्टम् दाश्री १४, ३१, १; ऋकाश्री; -ष्टया द्विशी १०, ५, २५; -ष्टया शशी १०, १६, २; ६; १५, २६, १, आपश्री, -ष्टये शशी १५, २७, १.  
 ज्येष्ठ-काम- -मः आपश्री १९, १४, ११, द्विशी २३, ३, ९; -मम् अय १, ४४, ६; -मस्य सुपु १, ६ - १०.  
 ज्येष्ठ-ज्यन्त्य- -न्याः व्याष्ट ४, ४, १२.  
 ज्येष्ठ-तम- -माय शशी १४, ३१, ११.  
 ज्येष्ठ-तस(ः) आश्री ६, ७, ८; ऋष

११, ३(१)†.  
 ज्येष्ठ-ता- -ताम् वीश्री १८, १४ : १३.  
 ज्येष्ठ-नाति- पा ५, ४, ४१.  
 ज्येष्ठ-दक्षिण- -न्याः वीष्ट ४, ४, १०†; शारष्ट १८, ६.  
 ज्येष्ठ-पुत्र-प्रसूत- -तरय शंघ २८४.  
 ज्येष्ठ-प्रथम- -माः आष्ट ४, २, ९; -माद् माष्ट २, ७, ४.  
 ज्येष्ठ-व्यु- -न्युः वीश्री १४, १८ : २३; २४; १८, १४ : १२; माश्री २, ३, ५, ३†; द्विशी ८, ४, ५†.  
 ज्येष्ठ-आर्या- -र्यां वैष २, ११, २; -र्याम् शंघ ३९७.  
 ज्येष्ठ-भात- > -ष्ट-द्वसुर-विनुष्य-मातुल- -लान् वज २, २, ३-८.  
 ज्येष्ठ-यज्ञ- -ज्ञः निम् ६, १२ : १; -ज्ञम् निम् ६, १२ : ३; -ज्ञे निम् ६, २ : १९; १२ : ४.  
 ज्येष्ठ-रान्- -रान्माष्ट ५, २१†.  
 ज्येष्ठ-लक्ष्मी- -क्ष्मीम् वाधुश्री ३, १९ : ६†.  
 ज्येष्ठ-वन् वृष्ट ४, ११२.  
 ज्येष्ठ-शब्द-त्व- -त्वात् मीम् ४, ४, ९†.  
 ज्येष्ठ-सामन्- -मनः गोष्ट ३, २, ४७; -साम् वीष ३, १०, ११; गौष ६९, १३  
 ज्येष्ठ-साम-ना- -नाः अय ४४,

२, ४; वाघ ३, १९; शंघ १९९; २००; आपघ २, १७, २२; विघ ८३, ४; गौष १५, २८.  
 ज्येष्ठ्यामिष्ट- -कः वीष २, ८, २; द्विष २, ५, ५०.  
 ज्येष्ठ-स्नोम- -मः शाश्री १४, ३१, १.  
 ज्येष्ठां(ष्ठ-शं)त- -शाः वीष २, २, ९; -शम् वीष २, २, १२.  
 ज्येष्ठांश-होन- -नम् गौष २८, ३७.  
 ज्येष्ठानाम्-प्रसिष्टोम- -मः वीधौ १८, २६ : १; २६, ३३ : १.  
 ज्येष्ठां(ष्ठ-श्र)मिष्याहार- -रे शाश्री १४, ३१, ५.  
 ज्येष्ठा-सु(त)ता- -ता विष ९०, ११.  
 ज्येष्ठां(ष्ठ-श्र)वकाम- -दी वीष्ट २, ८, ३०.  
 ज्येष्ठो(ष्ठ-उ)त्तर-कर- -रान् वज १, २, ९.  
 ज्येष्ठ-चघ- द्विशी १७, ९, २७.  
 ज्येष्ठ-, 'ष्टिनेषु-, 'ष्टी-, 'ष्टय-ज्येष्ठ- द.  
 ऋज्योक् आपश्री ५, ८, ८; १०, ८, ९; वीश्री; माश्री १, ६, ४, २१†; वाश्री १, ५, ५, ७†; पाष्ट ३, २, २†; जैष्ट २, ३ : ६†; पाग १, १, ३७.  
 ज्योक्-आमयाविद्- -विनः वीश्री १४, १९ : ३; वाश्री, -ऋवी

a) वैष्ट. ता (ता २०, ५, २), विद्यापरः (काश्री २३, १, १५), अय. <ज्येष्ठिनी- इति । b) = पीर्य-माश्री । c) = ज्येष्ठ-मास । d) वैष १ द. । e) पागे. वैष २, ३६. छ-यै ऐश्रा ७, १८ टि. द. । f) विष. । बस. । g) उप. = शब्धेतर- । h) 'णारा इति पाठः ? 'णः पा' इति द्विपदः शोघः (द्व. शाष्ट). । i) 'शब्दराष्ट इति जीभ. । j) = साम-निषेप- । k) उप <वै । l) सप्र. 'सामयः <> 'सामिकः इति पागे. । m) विष. । तदर्थंति इत्यर्थे ट् प्र उषं. (वा ४, २, ६३) । 'मक- इति Hal. पागे. । n) = एकाह-[याग]- । o) पूर. = अग्राह-इदेश- । p) विष. । द्विपदः बस. । q) पाठः ? ज्येष्ठम्, अय इति द्विपदः शोघः संभाव्येत । r) पागे. वैष १ परि. । अत्रोक्तः तै ५, ७, २, ४ टि. द. ।

आपथी १९, २३, १०; वीथी १३, ६ : ux; माथी.  
 \*ज्योक्ति\* - तथै आपथी १३, ३, १.  
 ज्योता -, णित-, णित्- ✓ज्युत् द.  
 ज्योतिषा - पाथा: विष ८५, ३३.  
 ज्योतिषिक- \*पीभ्- ज्योतिस्-, ज्योत्स्न- ✓ज्युत् द.  
 \*ज्योत्स्नस्य वाथी ३, ५, १, ४३.  
 ज्योत्स्ना- ✓ज्युत् द.  
 ज्योन्ताक- पाउमो २, २, १४.  
 ज्योतिष-, \*षिक- प्रम्. ✓ज्युत् द.  
 ✓ज्जि पाथा. भ्वा. पर. अभिभवे; सुरा. डम. वयोदानी, ज्वयति निष २, १४०.  
 ✓ज्वलू पाथा. भ्वा. पर. रोगे.  
 ज्वर- पाय ५, २, ३६; ६, १, १९९;  
 -रः कीव १३, १३; अय ३६, ८, १; -रम् अय ५३, ५, १; शंथ ११६ : २१; -राय दिष्ट २, १९, ६; -रेण अय ३६, १०, २.  
 ज्वर-पृथीत- ज्ञाताम् घीष्ट ३, ५, २७.  
 ज्वर-द(त>)ना- ज्ञाम् वैथी १२, १४ : ६.  
 ज्वरा(र-श्वा)गम- मम् अय ६८, १, ४०.  
 ज्वरित- पा ५, २, ३६.  
 ✓ज्वरु पाथा. भ्वा. पर. हंती, ज्वलते अय २९, ३, १४४;  
 ज्वरति आपथी १६, ११, ३;  
 माथी: ज्वलन्ते अय ६७, ४, २;  
 ज्वलन्ति अय ७०, २१, २; ७०, ११, ७; ज्वलन्तु जैथीया २, १५५;

भाय २, ३१ : ११; ज्वलेयुः अय ७१, १९, ५.  
 ज्वलिष्यन्ति पाता १, ४, २३.  
 ज्वलयन्ति आपथी १३, १५, ४;  
 अय ५८, १, ४; ज्वलयेत् वीथी २६, १२ : १३.  
 जाज्वल्यमान- जम् वा ५, ३.  
 ज्वल- पा ३, १, १४०.  
 ज्वलम्- लम् द्विथी ३, ७, ४७६;  
 -लतः आथी २, ५, ९; ३, १२, ९; आपथी; -लता आथी २, ३, ७; आपथी ६, ६, ६; आपथ १, २२; -लताम् अय ७०, २०, ५; -लति माथी १, ३, १, ५; वाधुथी ३, ३२ : १; -लसु काथी १६, २, ११; वीथी २३, ९ : ७; -लन् वैथी २, ६ : ९; आपथ २, ६, ३; द्विष; -लन्तम् आथी २, २, १; काथी.  
 ज्वलन्ती- न्नीम् माथी १, ६, १, ३६; वाथी १, ५, २, ३४; वीष २, १, १३; विष; -लन्त्यः आपथ २, १४, १३; द्विष २, ५, १७७; -लन्ताम् आपथी ६, १०, ३; द्विथी ३, ७, ६३; गोष्ट ४, ८, १६.  
 ज्वलन्ति-> \*णिकर्मन्- म्णिगः वा २, २०; ६, १; १३, ८, ११; ११, ३९; -मणिगः निष १, १९, वा २, २८.  
 ज्वलन्- पा ३, २, १५०; -णः अय १, २७, १; अशा ७, १; -नम् अय ६४, ३, ९; ७०, ११, १८; मीव १०, १, ५७; -नानि अय

६४, ६, ३; -ने अय ७१, १, ५; -नेन वा ६, २५.  
 ज्वलन-क्रिया- पाता १, ४, २३.  
 ज्वलन्-वृ(व>)वा- वा अय ५०, १, ३.  
 ज्वलन-मरण-काल-युद्ध-योग- भ्याम् अय ६८, ३, ११.  
 ज्वलन-रवी(वि-इ)न्दीवर करण- नपनीया (म-श) कौट्य-द्विरीतल- मोलीपल-घृत-गन्धु-बन्धुजीवक- जपापुष्प-किंशुक-राशि- संनिका(श>)ता- शा अय ६५, २, १.  
 ज्वलन-वहन- न्नी माष्ट १, १०, ७.  
 ज्वलना(न-श)कै-सम- मः वाध २७, ९.  
 ज्वलयत्- यन्तः वीथी २, १६ : ५; २०, १९ : १४.  
 ज्वलित,ता- तः वा १, १७; -ताम् अय ६८, ५, १; -ताम् आपथ १, २५, २; द्विष १, ६, ७६; -ते द्राय ४, ३, ४; अय ७०, ७, २.  
 ज्वलिता(त-श)द्वार-वृण्ड- -पडाः शंथ ३७४.  
 ज्वलिता(त-श)द्वार-संका(श->)ता- शा अय ५८, ३, ७.  
 ज्वल,ला- पा ३, १, १४०; -ला आनिष्ट ३, ६, ४ : ८; वीषि १, १३ : ८, अय २३, १२, २४४;  
 -लाः अय ७०, ४, ४; -लाम् माथी १, २, ३, २९; काथी १, ३, १, २६; -लाम् वैथी २, ५ : ६; -लैः आपथी १, २५, ९.

a) स्त्री. नाप.। कथं: व्यु. च ?। < ज्योक् इति MW.। b) = नदी-विशेष-। व्यु. ?। c) गती वृत्तिः। d) पा ६, ४, २० परामृष्टः द्र.। e) = रोम-विशेष-। f) = ज्वराधिदेवता-। g) = व्याहृति-विशेष-। -रात्र. आपथी ६, ८, ३ पृथक् इति धामे.। h) भवे वर्द्धि च वृत्। i) विप.। बस. उप. छवि- + समासान्तः अच् प्र. उत्तै. (पा ५, ४, ७५)।

ज्वाल-भार- -रैः अय २४, ४, ४.

ज्वाला(ला-अ)म- -मैः अय ७०<sup>१</sup>, ३, २.

ज्वाला(ला-अ)इकुश-धर- -नाः अय ५२, १३, १.

ज्वाला(ला-अ)दुसुन- -तानि अय ६२, ६, १.

ज्वाला-पिण्ड- -ण्डः याशि २, ९१; -ण्डान् याशि २, ९३.

ज्वाला-भङ्ग- -ङ्गम् अय ३६, ३, २.

ज्वाला-भार-वियर्षि(व्)जी- -ष्यः अय ५८<sup>१</sup>, २, २.

ज्वाला-मा(ला)ल- -लाः अय ५२, ३, ५.

ज्वाला-माला(ला-अ)कुल- -लः अय २४, ३, ४.

ज्वाला-मुख-भयान(क)का- -काः अय ३६, २५, ३.

ज्वाला-रूप- -रूपेण अय ७०<sup>१</sup>, २, ३

ज्वाला-विमु(चि)वी- -वी अय ७०<sup>१</sup>, ११, ३०.

ज्वालविधा अय ३६, २५, १.

ज्वसेन<sup>०</sup> शाप ३, ८, ३.

झ

झगिति झटिति टि. द.

झङ्गा- पाठभो २, २, ९३.

झटिति<sup>०</sup> पाग १, १, ३०<sup>०</sup>.

√झङ्ग<sup>०</sup> पाधा. तुदा. पर. परिभाषण-भर्त्सनयो.

झर्झर- पाठभो २, ३, ३५.

√झप्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. उभ. आदानसव-

रणयोः.

ञ

ञ- -ञकार- -रः शौच २, १०; -रम् ऋषा ४, १.

ट-ठ

ट- -टकार- -नात् शौच २, ८.

टकार-नकार- -रयोः ऋषा ४, १७

टकार-वर्ग- -र्गम् ऋषा ५, ११.

टकारा(र-आ)दि- -द्वयः याशि २०१.

टकारा(र-अ)न्त- -न्तम् उस् ७, २०; -न्तात् शैशि ३०७;

-न्ते माशि १४, ३; याशि १, ६२; २, ३७.

टन-कार-पूर्व- -वंः तैप्रा ५, ३३.

टवर्ग- -र्गैः शुभा ८, १०; तैप्रा १४, २०; -र्गस्य शौच २, ३९; -र्गैः तैप्रा २, ३७, भाशि ४१.

टवर्ग-पर- -रः तैप्रा १३, ११.

टवर्गो-य- -यम् उस् ५, १; -ये शौच २, १२.

टा(ट-अ)न्त- -न्तम् ऋषा ४, ५, ४.

√टङ्क् पाधा. चुरा. पर. वधने.

१टङ्क्<sup>०</sup> - पाग २, ४, ३१.

२टङ्क्<sup>०</sup> -> टाङ्क् - -ङ्क् विध २२, ८३.

√टल् पाधा. भ्वा. पर. वैकल्ये.

√टिक् पाधा. भ्वा. आत्म. गती.

टिक<sup>०</sup> -> टैकेय- (पा.) पाग ४, १, १२३.

टिट्ठिभ- पाठभो २, २, २३४.

√टीक् पाधा. भ्वा. आत्म. गती.

टीकाः द्विधौ २२, ३, १९.

टैक- -कः द्विप २, ७, २१.

टोट- (> टी- पा.) पाग ४, १, ४१.

√ट्यल् पाधा. भ्वा. पर. वैकल्ये.

ट- -टकार- -रेण याशि २, ८८.

ड

ड, ङ- -ङः, ङम् तैप्रा १३, १६.

ड-कार- -रः ऋषा १, ५२; शैशि १४, २०.

-रम् शुभा ३, ४५; -रस्य ऋषा १, ५१.

ड-ड- -डयोः शैशि २२; -डौ शुभा ४, १४६.

ङ-कार- -रः ऋषा १, ५२; -रेण उस् ७, २०.

ङ-ङ- -ङडौ शुभा ४, १४६.

√डप्<sup>०</sup> पाधा. चुरा. आत्म. संघाते.

डमर- पाठभो २, ३, २९.

√डम् √डप् टि. द.

डम्यर- पाठना ३, १.

√डम् √डप् टि. द.

डहर- पाठभो २, ३, २९.

डहल् -> डहल- (पा.) पाग ५, ४, ३८.

डाक<sup>०</sup> -> डाकि(व्)जी- (पाधा.) पावाग ४, २, ५१.

डामर- पाठभो २, ३, २९.

डिकम् पाग १, ४, ५७.

डिण्डिम- पाठभो २, ३, २५१.

डिण्डीर- पाठभो २, ३, ५०.

√डिप् पाधा. दिवा. तुदा. पर. क्षेपे; चुरा. आत्म. क्षेपे, सङ्घाते.

√डिम् √डिप् टि. द.

डिम्प- पाठभो २, ३, २२२.

a) विच.। उस.। b) पाठः ? पाठे. वैपश् अयसम् मा ३, ६१ द.। c) तु. पागम.। d) हागिति इति केचित्.। e) √जम् इति [पक्षे] BFG.। f) √कप् इति [पक्षे] BFG.। g) = वर्ण-विशेष-। ह>ळ इति ऋषा. प्रथ., ङ>ङ इति तैप्रा.। h) = पाषाण-छेदन- (तु. पागम.)। म्यु. ?। i) = कथित्य-विशेष-। म्यु. ?। j) = वात्प्रह-विशेष-। म्यु. ?। k) √डम्, √डम् ह्यल्पिकः BFG.। l) हक्-> हकिनी- इति [पक्षे] भाष्या.। m) √डिम्, √डिम् इति [पक्षे] BFG.।

✓डिम्म् ✓डिप् टि. द.

✓डी पाषा. भ्वा. दिवा. आत्म. विहाय-  
सागतौ, झोवते निप २, १४५.

हुपद<sup>१</sup> - (> डीपदायनि- पा.) पाय  
४, २, ८०.

हुमल- पाउभो २, ३, १२०.

हुल (> हुल्य- पा.) पाय ४, २, ८०.

हुफ (> हुधिन > ली-) डक-टि. द.

ढ

ढ, ङ्ह<sup>१</sup> -> ङ-कार- -रः श्रया २, ५२.

ङ्कार-ला- -नाम् श्रया १, ५२.

ङ्-ङ-निहाम्लीयो (य-उ)पष्मानी-

य-नासिक्व- -क्वाः शुप्रा ८, ३५.

✓दोक् पाषा. भ्वा. आत्म. गतो.

ण

ण<sup>१</sup> -> ण-कार- -रः शीच २, १२;

-रम् शुप्रा ३, ८४; तैप्रा ७, १;

१३, ६; -रस्य माशि १४, ३;

-रे माशि १४, ३; -रेण शैशि

७१; माशि २, ८९.

णकार(र-ङ)कार- -री शुप्रा १,

८८.

णकार-पकार(र-आ)रेसा(स-

आ)दि- -देः पावा ६, १, १; ४,

१२०.

ण-य- -थी श्रया ३, २, २३.

त

त<sup>१</sup> -> त-स-ल- -लाः ऋत २, १, ७

रत्<sup>२</sup> - पि १, ५.

त<sup>३</sup> -> त-कार- -रः श्रया ४, १०;

श्रया ४, १३; तैप्रा ५, २२; ३३;

श्रया; -रम् श्रया ४, १७;

-रस्य शीच ६, १३; -रत् श्रया

१२, २; -रे श्रया ५, ३१; श्रया

३, ८०; याशि १, ६२; पावा ७,  
२, ४८; ३, ३२; -रेण शीच २,  
८; -थी माशि १४, ३.

तकार-नकार- -रयोः श्रया ३,  
१११.

तकार-पर- -रः तैप्रा ६, ५; १४.

तकार-वर्ग- -नीः श्रया १, ४४;

५, ११; श्रया ४, ९६.

तकार-सकार- -राम्याम् शीच  
४, ४७.

तकारा(र-आ)दि- -द्वयः याशि  
२, १; -थी शीच २, ८३; ४, ६१.

तकारा(र-अ)न्त<sup>१</sup> - -न्तः श्रय

३४, १, २; -रत्म् श्रया १, १,

२; -न्तानि श्रया २, ४, १८; ३,

२, ३; -न्ते श्रया २, ४, १५;

माशि ४, १०; १४, ४; याशि २,

३५; ३९.

तकारा(र-आ)वाप- -धे श्रया २,

३, २१; ३, ३, १९.

तकार(र-इ)स्य- -रस्य पावा १,

२, १७.

त-च- -चयोः शैशि २२१.

त-व- -व्ये पावा ७, ४, ४७.

ताव-निपातना( न-आ)नर्विक्य-

-व्यम् पावा ६, ४, १७४.

ताव-प्रतिषेध- -धस्य पावा ६,

४, १७४.

त-य- -ययोः श्रया ३, ८; १२५;

-थी श्रया ३, ७९; शैशि ३०८.

त-पर<sup>१</sup> - -रः पा १, १, ७०; माशि

८२; -रम् पापवा ६, १; -रे

उद् ५, २.

तपर-करण- -णम् पावा ७, १,

९०; पापवा १, १४; -णे पावा

१, १, ७०; ४, १०९.

तपर-निर्देश- -नात् पावा १, १,  
६९; २, २७; ८, ४, ६८.

तपरो(र-उ)वारण- -णम् पापवा  
४, १.

तपरो(र-उ)वदेश- -शः पापवा  
४, १.

त-न- -नी श्रया ३, २, १४.

त-प-कार- -रयोः उस् ८, ३.

त-लोप- -वः शुप्रा ३, ५२; पा ४,

३, २२; पावा ६, १, ६७; -पस्य

पावा ६, ४, १०४; -पे पावा १,

१, ६३.

तलोप-वचना(न-आ)नर्विक्य-

-व्यम् पावा ४, ३, २२.

त-वर्ग- -नीः शुप्रा ८, ११; -गंस्य

श्रय ४७, २, १; -नीं शुप्रा ३,

९३; तैप्रा २, ३८; श्रया ३, ३, ३-

तवर्ग-पर<sup>१</sup> - -रः तैप्रा १४, २०.

तवर्ग प्रतिषेध- -धः पावा १,

३, ४.

तवर्गाधि- -यम् उद् ५, १; -वस्य

शीच २, १५; -यात् शीच २, १७.

त-वर्ग-लोप- -वः श्रया १, २, १६.

त-न- -नी श्रया ३, ३, २१.

त-स-वर्ग- -नीम् याशि २, ४१.

ता(त-या)दि- -देः पावा ६, ४, १७१;

-थी ऋत ५, २, १०; पा ६, २,

५०; पावा ६, २, ५०; ८, ३, ४१;

१०१.

ताव(दि-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६,

३, ५०.

वो(त-उ)व(धा>)ध- -यात् पा

४, १, ३९.

दत्, ता- तद्- द.

✓तंसू पाषा. भ्वा. परः; सुरा. उभ.

दत्तकारे, नृभत्तस्यप्राथम्ये १०.

०) हु. पाका. । हुपद- इति भाष्ये । १) = नर्व-निक्षेप- । २) > ङ्ह इति । ३) = तगण- ।

d) विप. । मस. । e) विप. । पंथ. वा मस. वा । f) हु. BFG. ।

८, १०; दांथी १६, ४, १; तैत्रा १६, १३; भावि ६१.

√तक्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. हसने, तक्ति निघ २, १४<sup>०</sup>; या ६, २२<sup>२</sup>.

तक्त्विम् या ९, ३.

तक्व-पावा ३, १, ९७.

तृत्तञ्<sup>०</sup>-का अघ ४८, ८३; निघ ३, २४.

तक् पाग १, ४, ५७.

तक्वा-तद्-द.

तृत्तकरी<sup>०</sup>-नीम् आपथी ९, १९, ३;

बौथी १४, १४ : २०; बंधी

२०, ३७ : ७; द्विथी १५, ८, १७.

त-कार-प्रथ. १८-द.

तक्लिटा-पाठ १, ५७.

तक्कोल-पाठनाह १, ६३.

तृत्तकमन्<sup>०</sup>-बम अघ ४८, ८७; निघ २, ७; या ११, २५<sup>१</sup> S; -बमन्

अघा ३, ३, ३; -बमा अघ

११, ७, -बमानम् कौस् २९,

१८; अघ ३२, १, ७, अघ ५,

२२, अघ २, ५०.

तक्म-नादान<sup>०</sup>-न अघ ३२, १, ७,

-नम् अघ ५, ४, २२; -मानि

अघ ३२, १, ७

तक्मनादान-गण-गस्य अघम् २.

तक्मनादान-देवगा-> ० पाय-

नयम् अघ ५, २२.

तक्मा(कम-म)पयाघ-घाय

अघ ५, २३<sup>१</sup>.

सक्त्र<sup>०</sup>-पाठ २, १३; पाग ७, ३, ५३<sup>२</sup>;

-बम् अघ १४०; १८१; -कै

पावि १९; -कौ वैसि २२८.

√तक्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. तन्क्वरो,

त्वचने, तक्ति आपथी १४, ५,

८; वाथी १, ६, १, १५; कौस् ८,

१२; तक्ष्व साम १, ५३७<sup>१</sup>;

तृत्तञ् आथी ५, १८, ५; दांथी

८, ३, ४; तक्षत<sup>१</sup> या ४, १९<sup>१</sup>;

अतक्षन् शथी ८, २०, १<sup>०</sup> फ.

तक्वोति द्विथी ४, १, ३०;

तक्वुयुः लाथी ८, ८, १७.

तृत्तक्ष कौस् ७६, ३२; अघ

११, ५; १४, २; तक्वुः वृदे ३,

८७<sup>१</sup> फ, या ६, २७<sup>१</sup> फ, तक्वुयुः

या ४, १९; तक्वुयुः या ४,

१९<sup>१</sup> फ.

तक्वयि वैथी १०, २ : ८; तक्ष-

वेत् अघ १, १, १०.

तक्ष<sup>०</sup> > तक्ष<sup>०</sup> पाठ २, ३३;

-क आपमं २, १७, ९; -तृकः

बौथी १७, १८ : ३, बौथ ३,

१०, ६; वैथ ३, १४, १० S<sup>१</sup>;

अघ ८, १० (४); १४, -तृकाय

कौथ ४, ४, ९; दांथ ४, १८,

३; भाथ १, ८ : २; S कौस् २८,

१; २९, १; ३२, २०, ५६, १३.

तक्षक-देवता-> ० त्व-

-रयम् अघ ४, ६, ५, १३; ७, ८८.

तक्षक-देवत-तम् अघ ६,

१२; १०, ४.

तक्षका(क-म)न्<sup>०</sup>-न्मम्

द्विथ ५३, ८.

तक्ष-सिला<sup>१</sup>-पाग ४, २, ८२;

८६; ३, १३

ताक्षशिल-पा ४, ३, ९३.

तक्षशिला-वप-पा ४, २,

८६.

तक्षो(क्ष-उ)पतक्ष-क्षाम्याम्

काथ ५४, २; कौस् ७४, ८; विघ

६७, ५<sup>०</sup>.

तक्षण-अम् वाथी २२, ६, १०;

बौथ १, ५, २९; सुघ, -आव

शंघ १६४; वैथ १३, ३, ११;

-गानाम् द्विथी ४, १, ३६<sup>०</sup>;

-गेन विघ २३, ४; २७.

तक्षण-शस्त्र-रयम् भाथी ७,

१, ३.

तक्षन्-क्षतः विघ २६, २३; -क्षन्

अघ २, १, १११<sup>१</sup> फ.

तक्षनी-नी या ११, ४०<sup>१</sup> फ.

तक्षन्<sup>०</sup>-पाठ १, १५६; पाग ४;

१, ४१; ११२; १५१<sup>१</sup>;

पागवा ४, २, ११; ६, ४, १५३;

-क्षम्यः आपथी १७, ११, ४;

-क्षा आपथी ७, १, १३; ९, ९<sup>१</sup>;

बौथी; अघ १, १७५<sup>१</sup>;

या १, १४; -क्षानः

बौथी १५, १३ : १४;

-क्षानम् बौथी ४, १ : १३;

-क्षणः आपथी १८, १०, १९;

बौथी; पा ५, ४, १५; पावा ४,

१, १५३; -क्षणम् वाधुथी ३,

७६ : ४; -क्षिण दांथी १६,

११, ११; -क्षणे द्विथी ४, १,

१०.

तक्षणी-पा ४, १, ४१.

१ताक्षण-पा ४, १, ११२;

पावा ४, १, १५३.

a) या ११, २५ परामृष्टः द. । b) गती वृत्तिः । c) वैथ १ द. । d) व्यु. पाथे. च वैथ १, १४-१८, f द. । e) अथो इति पाठः इति. शोधः । f) = उद्विक्त- । व्यु ? < √तक् इति पाठः । g) तक्ष-इति [पठे] भावदा. । h) या ४, १९ पा ३, १, ७६ पावा ३, १, २६ परामृष्टः द. । i) कथे वृत्तिः । j) = कर्णमृष्ट- । कथेय- । k) पूष. = कर्षिक- । l) = नपरी-विशेष- । पूष. कर्षः ? । m) महोपमस्याभ्याम् इति जीशं. ? (द्र. काथ. प्रथ.) । n) = काठ- । o) वृ. पागम. । p) = कथि-विशेष- ।

२ता(घण>)क्षी-  
 -क्षीताम् शीथी २, ३, १४.  
 ताक्ष्य- पा ४, १, १५१.  
 तक्षकीय- पा ४, २, १११.  
 ताक्षक- पा ६, ४, १५३.  
 तक्ष-रथकार- -रथोः आपथी  
 १८, १०, १७; हिथी १३, ४, ८;  
 -रो हिथी १३, ४, ८.  
 तक्षुष्य- -यन् या ५, २१.  
 तक्ष- -रथ्य वाथी १, ६, ३, १४; -छे  
 आपथी ११, १३, १; हिथी ७,  
 ६, २८; -थेषु या १३, १३१.  
 तक्षु- -प्राधा आथी ७, ४, ९; शीथी  
 १२, ५, ३; ऋथ २, ३, ३८; या  
 ५, २१.  
 तक्षर- पाठभो २, ३, ३१०; पाग ४,  
 ४, ५३; -रम् अथ ३५, १, १४;  
 २, ३, ९.  
 तक्षरिक- पा ४, ४, ५३.  
 तक्षरो(र-उ)शीर- -रेण कौम् १६, १.  
 √तक्ष् पाथा. भ्वा. पर. कृच्छ्रजीवने.  
 तक्ष- पाग २, ४, २१.  
 √तक्ष् पाथा. भ्वा. पर. गती.  
 तक्ष्(ण>)मा- पाठभो २, १, १२४.  
 तन्थ- १त- ६.  
 √तक्ष् पाथा. भ्वा. पर. गती;  
 रुथा. पर. संकोचने.  
 √तक्ष् √तन्थ टि. द्र.  
 √तक्ष् पाथा. भ्वा. पर. उच्छ्रये.  
 तक्ष- पाठना ४, ११६; पाग ४, १,

४१; ५, २, १३५.  
 तक्षी- पा ४, १, ४१.  
 तक्षि(व>)नी- पा ५, २, १३५.  
 तक्षाक- पाग २, ४, ४१; -कम्  
 आमित २, ५, ११ : ६; -के वैथ  
 ४, १० : ११.  
 तक्षाक कल्प- -स्पग् आमित २,  
 ४, ३ : १.  
 तक्षित्- पाठना १, १५.  
 √तक्ष् पाथा. बुदा. उभ. आपाते,  
 भाषायाम्, ताडयति आमित  
 २, ४, ९ : १४; या ३, १०;  
 ताडि निप २, १११; ताड-  
 येत् आमित २, ४, ७ : ११;  
 विथ ५, १०५; ७३, ८१.  
 ताडयन्ते विथ ४३, ३८; ४२.  
 तक्षि- पाठ ४, ११८.  
 ताड->ताड-य- पा ३, २, ५५.  
 ताडन- -नम् शेष ३१३; वैथ ३,  
 ३, ७.  
 ताडयमान- -नाः विथ ४३, ३७.  
 तक्ष- रतनु- टि. द्र.  
 १तडाक-(>)ताडाक- पा.)पाग ४,  
 १, ११२.  
 रतडा(क>)का- पाठ ४, १५.  
 तडाग- पाठभो २, २, ५८, पाग २,  
 ४, ३१; -गम् अथ ७३, १२, ५;  
 -गानाम् अथ ७०, ५, २२; -नी  
 अथ ४२, १, २; ३, वैथ २,  
 १३, ८.

तडाग-कम्- -तुः अथ ४२, १, ३.  
 तडाग-कूप- -गन् अथ ६५, २, ५.  
 तडाग-कृत्- -कृत् विथ ९१, २.  
 तडागा( ग-आ)राम-कूप- -याताम्  
 अथ ६८, २, ३०.  
 तडि- √तड् द्र.  
 तडित्- पाठ १, १८; -डित् षथ  
 ४८, १९; ७३; णिथ २, १६;  
 १९; या ३, १०; १११.  
 तडित्-प्रकाश- -रो विथ ९९, ९.  
 तडुल- पाठना ५, ८.  
 तिणाधीतासम् वाथी ३, ३, ३,  
 १३.  
 √तण्ड पाथा. भ्वा. आराम. ताडने.  
 तण्ड- पाग ४, १, १८; १०५  
 ताण्ड्य- पा ४, १, १०५; पाग  
 ४, ३, १०४; १०६; -ण्डयः जैथी  
 १ : १८.  
 ताण्ड- -ण्डम् लाथी ७,  
 १०, १७.  
 ताण्डक- -कम् आपथी २१,  
 १६, ५, १४; हिथी १६, ६, २;  
 ऋथ २, ७, ३२; अथ २०, ७९.  
 ताण्डित्- पा ४, ३, १०४;  
 १०६; -ण्डितः आपथी २४,  
 १०, १८; हिथी २१, ३, १८;  
 उमित् १, ४२; ४९; ८, २१; पि ३,  
 ३६; -ण्डिताम् पीथीथ २६; २.  
 ताण्डिताम्-अथ- -ये  
 वीथी २३, १९ : ३५.

a) = इति-विशेष- । तथेदमीयः कण् । b) = मुण्डिद्वय-विशेष- । व्यु. ? । c) <√तक्ष् इति ।  
 d) √तक्ष् इति [पथे] BFG. । e) = तीर- । व्यु. ? । f) <√तक्ष् इति । g) = जवाशय । व्यु. ? ।  
 वट- + √अक इति अभा. । h) = तडित्- । व्यु. ? । i) <√तक्ष् [आपते] इति । j) वटि मुण्डि इति दे. ।  
 k) अथ, । व्यु. ? । l) = जलाशय- । व्यु. ? । m) वैर १ द्र. । n) पाठः ? मृग- + अक्षी-यास- (भाष.  
 < अथि √धास [धारणे]) > वस. > धा( व >)मा- (विप. [आसन्दी-]) -साम् इति शोषः । o) = ऋपि-  
 विशेष- । व्यु. ? √तण्ड् + अथ् प्र. इति (पाका ६, २, ३७) । p) = ताण्डक- । कण् प्र. उचं. इति ततो विशेषः ।  
 q) = ताण्ड्य-शास्त्र- । तथेदमीयः दुष् प्र. यथोपथ (पा ४, ३, १२६; ६, ४, १५१) । r) = ताण्ड्य-आखिन्- ।  
 s) = तत्र-विशेष- ।

ताण्डि-भाह्विन्-  
 -विनाम् नाधि १, १, १३; भास् ३, १५.  
 ताण्ड्याय(न>)नी- पा ४, १, १८.  
 तण्डक<sup>०</sup>- पाग २, ४, ३१.  
 तण्ड-वतण्ड- पा, पाग ६, २, ३७.  
 तण्डि<sup>b</sup>- -विटः बौध्रौ प्र ३१ : २३.  
 तण्डिन्<sup>०</sup> (>ताण्डिन्य- पा.)  
 पाग ४, १, १०५.  
 तण्डु- पाउमो २, १, ५१.  
 तण्डुल<sup>०</sup>- पाउ ४, १०७; ५, ९; पाग २, ४, ३१; ५, १, ४; -लः अग्रा १२, १; -लम् आसिण्य २, ३, ३ : १८; ५ : २; २४; -लाः आपथी १, ८, ५५५; बौध्रौ; -लान् काथी २, ५, ६; १५, ३, २८; २५, ४, ३८, आपथी १, २०, ११; २१, २१; x x; बौध्रौ; -लानाम् बौध्रौ २६, ६ : ६; भाथी; -लेन वैथ ४, २ : २; -लेषु भाथी १, २१, ८; वैथी, -लैः काथी ४, १५, २२, आपथी.  
 तण्डुल-किण्व- पाग २, २, ३१.  
 तण्डुल-चर्मन्<sup>०</sup>- -मार्गि बौध्रौ १५, १६ : ३.  
 तण्डुल-प्रक्षालन- -न्म् बौध्रौ १, ६ : ३०; भाथी १, २२, १२.  
 तण्डुल-प्रक्षेप- -यः अप ३६, ११, १.  
 तण्डुल-भाव- -व्यात् मौन् ५, २, १५.  
 तण्डुल-भून्- -लेषु आपथी २, ४, ८; ११, मौन् ६, ५, १६.

तण्डुल-मिथ्र- -श्रम् कौस् २२, ७.  
 तण्डुल-मपात- -तान् कौस् २१, २४.  
 तण्डुला(ल-श्रा)दि- -दि कप्र ३, ५, ३.  
 तण्डुला(ल-श्र)पनय- -यः काथी २५, ४, ४१.  
 तण्डुला(ल-श्र)भाव- -वान् अग्राय ५, ३; -वे आपथी १, १४, २.  
 तण्डुलीय-, -दय- पा ५, १, ४.  
 तत्- √तद् द.  
 रित्त<sup>०</sup>- पाग ५, ४, ३८<sup>d</sup>; -फ<sup>०</sup>त आथी २, ६, २४; शाथी; -तः या ६, ५१<sup>f</sup>; -तस्य कौस् ८८, १०, -फ<sup>०</sup>ताः पाण्य १, ५, १०; कौस् ८८, २४; -०ताः आसिण्य १, ५, २ : ३४<sup>f</sup>; -तान् अग्र ५, २४; -फ<sup>०</sup>ताय बौध्रौ २, १० : २१; आसिण्य ३, १, २ : २४, २, २ : १४; -ते आपथी २१, ११, १५.  
 तात- पा ५, ४, ३८.  
 रित्त-, तत्र- प्रथ. √तद् द.  
 तित्त<sup>(०)</sup> तद्- द.  
 तित्तामह<sup>०</sup>- -हस्य कौस् ८८, १; -हाः पाण्य १, ५, १०; कौस् ८८, २४; अप ४६, ५, ५; अग्र ५, २४, अग्र ३, ४, १; -०हाः आसिण्य १, ५, २ : ३४; कौस् ८८, २५.  
 तति- √तद् द.  
 तनुदि- √तु द.  
 तनुपाण- √तु द.  
 तित्तन्त अप ४८, १०७<sup>f</sup>.  
 तत्त्व<sup>b</sup>- -स्वम् पावाग ४, २, ३७;

अप ५१, १, १; ६८, १, ५५;  
 वृदे ८, १३०; मौस् १, ३, २७;  
 ९, ३, २९; १०, २, ७२; -स्वात् या १, २; -स्वेन अप २६, १, १; ७१, २, ३; वृदे ३, ३९;  
 माशि १५, ३; १६, १६; -स्वैः विष ९७, १.  
 तत्त्व-चिन्तक- -कैः विष ९७, १५.  
 तत्त्व-श- -नैः अप ५२, ६, ५.  
 तत्त्व-वस्(ः) अप ३९, १, १; ६८, ३, १; २; वृदे ३, १३४; ४, ४७;  
 आज्यो १४, ११.  
 तत्त्व-दर्शिन्- -विभिः द्विपि १९, ३;  
 अग्र ४, ११; वृदे १, १०.  
 तत्त्वा(स्व-श्रा)ध्यान- -नै पावा ३, २, १२६.  
 तत्त्वा(स्व-श्रा)मन्<sup>१</sup>- -स्मान् विष ९७, १७.  
 तत्त्वा(स्व-श्र)र्थ-चिन्तक- -काः याशि १, ६०.  
 तत्त्य- √तद् द.  
 √तत्त्<sup>२</sup>, तत्रवे अप ४८, ११<sup>f</sup>.  
 तत्र तद्<sup>२</sup> द.  
 तत्रु- पाउमो २, १, २०.  
 तत्त्य- १त- द.  
 तत्त्वप्राप्ति-, तत्त्वाय √तद् द.  
 त-थ- १त- द.  
 तथा तद्- द.  
 तथा पूत ह्यातन वैथ १, ९ : ४<sup>f</sup>.  
 तद्<sup>२</sup>-  
 २त, ता- तम् आथी १, ३, २२;  
 आथी १, १, २१; आपथी १,

a) = प्रत्य-विशेष- (तु. पागम.) । तेन प्रोक्तमित्यर्थे तु प्र. उत्ते. (पा ४, ३, १०१) । b) व्यप. व्यु. ? । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । d) तु. पागम. । e) वैप १ द. । f) तु<sup>२</sup> इति पाठः ? अनि. शेषः । g) उप. = [चर्म-मेष] मान-पात- । h) वैप ३, ३१९ d द. । i) तु. पाका. । j) विप. । वत्. । k) धा. ऋषः ? । l) पाठः ? अक्षान्तो नद्यतन (अ १०, ५३, ७) इति ७. समाधानकः ? ।

३,८; २,१२,१; वीथी १०,१ :  
१२; माथी; हिय २, १३, १<sup>१०</sup>;  
पा ५, १, ८०; तम्बुडतम् वीथी  
२५, ३० : ५; वैताथी ३४, १;  
आपथु ७, २; तथा आथी २,  
२, ४<sup>१०</sup>; ३, २५; शांथी २, ६,  
७<sup>१०</sup>; आपथी १, २, २; ६, १,  
८<sup>१०</sup>; माथी; हिय २, ११,  
१<sup>१०</sup>; तयोः आथी १, ५,  
७; आपथी; पा ५, ३, २०; ८,  
३, १०८; पावा ३, ३, १३३; ५,  
३, २०; तयोः ५ तयोः ऋषा १११,  
५८; तस्मात् आथी २, २, ३<sup>१</sup>;  
आपथी; तस्मिन् आथी १, ७,  
७<sup>१</sup>; काथी; तस्मै आथी १,  
११, १५<sup>१</sup>; शांथी २, २८, ३<sup>१</sup>;  
आपथी; आपथं २, ११, २<sup>१</sup>;  
शांथ १, २२, ८<sup>१</sup>; तस्मै ५ तस्मै  
आथी २, ६, १६; मारु २, ९, २;  
तस्य आथी १, १, ८; काथी;  
हिय २, ११, ७<sup>१</sup>; कौमु ११७,  
४<sup>१</sup>; तस्य ५ तस्य काथी १७,  
५, २१; आपथी १, २३, ४; हिथी  
१, ८, ३८; ४०; ११, ७, ६३;  
अत्र ६८, १, ५१; तस्याः आथी

१, ७, ८; शांथी १८, २२, ७<sup>१</sup>;  
आपथी; या ११, ४१<sup>१</sup>; तस्याम्  
आथी २, १, ३३; आपथी;  
तस्याम् ५ तस्याम् अथ ६४, २,  
६; तस्यै आथी १, १०, ८<sup>१</sup>;  
आपथी; तस्यै ५ तस्यै आथी ३,  
१३, १४; वीथी २७, ३ : १०;  
आथ १, १०, ६; ता आपथी  
१३, १८, २<sup>१</sup>; माथी १, ८, २;  
१८<sup>१</sup>; आपथं १, ६, १२<sup>१</sup>; या  
२, ७<sup>१</sup>; १४, २०<sup>१</sup>; २३; ऋषा;  
साडवा शांथी १२, २१, १-६<sup>१</sup>;  
ताः आथी १, २, ८; आपथी;  
कौय ५, ३, ३१<sup>१</sup>; ऋषाय २,  
९<sup>१</sup>; ताडत् वीथ १, १०-५<sup>१</sup>;  
ताम् आथी १, ३, १५; २, ६,  
२<sup>१</sup>; ५, ५, २१; आपथी, लाथी  
२, १०, १२<sup>१</sup>; वीथि ३, ५, ३<sup>१</sup>;  
तानि आथी २, १०, १६<sup>१</sup>; शांथी;  
ताभिः आपथी ४, ४, ४<sup>१</sup>; हिथी;  
आपथं २, २२, ७<sup>१</sup>; ताम्यः  
आथी ५, १, २; बाथी; ताम्याम्  
आथी २, ४, २१; कठथी; या  
७, २३; पा ७, ३, ३; ताम्  
आथी १, ८, ७<sup>१</sup>; आपथी; पाय

३, २, २<sup>१</sup>; ताडत्ताम् आथी १,  
२, १७; ऋषा १७, २४; ताताम्  
आथी १, ६, १; आपथी; तासु  
आथी ५, १, १५; लाथी; १ते  
शांथी १, ३, ५; १०, १५, २<sup>१</sup>;  
काथी; आपथी ७, १०, ८<sup>१</sup>;  
हाथी ९, १, १६<sup>१</sup>; लाथी ३,  
५, १५<sup>१</sup>; तेन > ना आथी ३, ४,  
१२; शांथी १, १, ८; ५, ८, ४<sup>१</sup>;  
आपथी; वीथी १६, ७ : ६<sup>१</sup>;  
आपथं २, १४, ५<sup>१</sup>; आथ ६,  
१५, १२<sup>१</sup>; पाय १, १६, ६<sup>१</sup>;  
तेन ५ तेन आपथी १३, ६, ४; हिथी;  
कृतेभिः आथी ३, १४, १०<sup>१</sup>;  
काथी; कौय १, १२, ६<sup>१</sup>; शांथ  
१, १९, ६<sup>१</sup>; तस्यः आपथी ३,  
४, ३; काठथी; तेषाम् आथी २,  
१४, ३; काथी; शांथ १, ११, ७<sup>१</sup>;  
तेषु आथी २, २, १६; ६, १७<sup>१</sup>;  
आपथी १, १२, १; ६, २७, ५<sup>१</sup>;  
वीथी; लाथी १, १०, ९<sup>१</sup>;  
१०<sup>१</sup>; आपथं १, ८, २<sup>१</sup>; मारु<sup>१</sup> १,  
१४, ६; २, ११, १७; हिय १, २९,  
२<sup>१</sup>; तेषु ५ तेषु वीथ ४, १, १;  
२, १; तैः आथी २, १, २; आपथी;

a) तथा. तम् <> त्वम् इति पाठे. । b) तथा. तथा <> त्वया इति पाठे. । c) पाठः इ त्वया इति श्लोकः (तु. आपथं २, १९, ७; Old. च) । d) पाठे. वैप १, १४१२ j द्र. । e) द्विः तस्य इति पाठः ? तस्याः इति श्लोकः (तु. C., Böht LZDMG ५२, ८७) । f) पाठे. वैप १, १४१४ f द्र. । g) पाठे. वैप १, १४१५ j द्र. । h) तथा. सत्या. ता <> तस्यादा इति पाठे. । i) पाठे. वैप १, १४१६ g द्र. । j) पाठे. वैप १, १४१७ h द्र. । k) वैप १, १४१६ h द्र. । l) श्लोकः वैप १, १४१७ i द्र. । m) तस्याः इति पाठः ? यनि. श्लोकः (तु. तैसा ६, ३, २) । n) सकृत् ता इति पाठः ? यनि. श्लोकः । o) श्लोकः पृ ३७ e द्र. । p) पाठे. वैप १ इवा मा २३, ५२ टि. द्र. । q) ता इति पाठः ? यनि. श्लोकः (तु. म.) । r) पाठे. वैप १, १४२१ e द्र. । s) पाठे. वैप १ इवा ते ५, ७, २, १ टि. द्र. । t) पाठः ? तम् इति श्लोकः [तु. C.] । u) पाठः इ त्वम् इति पाठः ? यनि. श्लोकः । x) पाठे. वैप १, १४१४ d द्र. । y) तैडभिः इति पाठः ? यनि. श्लोकः (तु. स्या. मै १, ७, १ । ते १, ५, १०, ४ तु तेषाम् इति पाठे.) । z) तैडभिः इति पाठः ? यनि. श्लोकः । d<sup>१</sup>) तथा. त्वि २, १०, ५ तैः इति पाठे. । e<sup>१</sup>) पाठे. वैप १ पुत्राणाम् शो ३, २३, ३ टि. द्र. । c<sup>१</sup>) तथा. शांथ ३, ५, २ अण्येषु इति पाठे. ।



ती आधौ १, ५, २९; आपधौ।  
 ल(क>)का- पा ७, ३, ४५;  
 -का: काधौ १३, ३, २६\*।  
 ल-लस्(ः) आधौ १, ५, ३३;  
 शाधौ; अप्राय २, ५, ११; सतः ३  
 सतः अप ५८, ४, १९।  
 सतो वृहतीक- -कः शाधौ  
 ११, १२, १।  
 तत्र, प्रा आधौ १, १, ३; शाधौ;  
 मीस् ३, ७, २९; तत्रऽतत्र बौधौ  
 १९, ६ : ४; २६, ५ : २५; वैधौ।  
 तत्र-ग्रहण- -णम् पावा ३,  
 १, १२।  
 तत्र-चक्षुर-मनस्- -नाः  
 गीध १, ५३।  
 तत्र-जाता(त-आ)धि- -द्विषु  
 पावा २, १, २४; ४, ३, २५।  
 तत्र-भ्य- -भ्यः शुभ्र ४,  
 १२०; -भ्येन वैध १, ११, २१।  
 तत्र-प्रकरण- -णौ पावा ४,  
 ३, ५३।  
 तत्र-भ्र- -भ्रेन पावा ४, ३,  
 ३९; ५, १, ९६।  
 तत्र-वचन- -नम् पावा ३,  
 १, १२।  
 तत्र-लोक- -कार् हिपि  
 १८ : २५।  
 तत्र-रथ- -रथः जैध्रीका ९;  
 २०३; -स्थाः अप्राय ३, १०;  
 -स्थैः जैध्रीका २१०।  
 तत्र-आधौ १, ३, १९; शाधौ  
 १, ३, २८; आधौ।  
 तत्र-काम- -मः निष् २,

४ : १५।  
 तत्र-कृत- -तेन बौधौ १४,  
 २० : ८।  
 तत्र-आ-आ)कृति- -तिम्  
 कारु ४, ३।  
 तत्र-केतु-वसुधरा-  
 -राम् अप ६८, २, २।  
 तत्र-गत- -तम् विध ७२,  
 ६; -तत् ऋषा ३, १०।  
 तत्र-भुज- -भ्याः आपध २,  
 २६, ५; विध २, ५, २००।  
 तत्र-जात- -तः बौध १, ५,  
 १४२।  
 तत्र-रथ- -रथम् मीस् १, २,  
 २३; ९, १, २८; १०, २, ३१।  
 तत्र-रथ-रथ- -रथात् आधौ  
 १२, ४, ११।  
 तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 आधौ २, १९, ५।  
 तत्र-आ-आ)पवर्ग- -र्गः  
 बौध १, ७, २।  
 तत्र-भाव- -वात् मीस् ९,  
 ४, २५।  
 तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १०) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ११) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १२) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १३) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १४) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १५) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १६) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १७) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १८) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १९) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २०) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २१) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २२) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २३) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २४) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २५) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २६) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २७) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २८) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 २९) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३०) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३१) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३२) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३३) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३४) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३५) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३६) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३७) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३८) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ३९) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४०) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४१) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४२) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४३) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४४) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४५) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४६) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४७) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४८) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ४९) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५०) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५१) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५२) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५३) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५४) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५५) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५६) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५७) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५८) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ५९) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६०) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६१) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६२) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६३) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६४) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६५) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६६) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६७) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६८) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ६९) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७०) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७१) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७२) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७३) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७४) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७५) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७६) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७७) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७८) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ७९) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८०) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८१) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८२) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८३) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८४) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८५) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८६) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८७) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८८) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ८९) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९०) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९१) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९२) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९३) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९४) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९५) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९६) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९७) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९८) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 ९९) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्  
 १००) तत्र-आ-आ)भ्य- -भ्यम्

-नाः मीस् ९, ५, ५३; -नात्।  
 मीस् ६, ३, १; ७, ३, ३४।  
 तत्र-मित- -तम् वैधौ १६,  
 १ : १०।  
 तत्र-मुल- -स्वाः आपधौ  
 ८, ७, २०; वैधौ १६, २, ४ : ७;  
 -स्वैः गोष् ४, ३, ५।  
 तत्र-आ-आ)पव- -तम् गोष्  
 ४, २, ४।  
 तत्र-आ-आ)पव- -तम् ऋषा  
 २, ३६; पा १, ४, ५०; -कान्  
 शाधौ १३, १९, ९, १६;  
 -कान्म्याम् आधौ ३, १, १७;  
 -कान्म्याम् आधौ ५, ९; दिष् २,  
 १८।  
 तत्र-आ-आ)पव- -तम् ऋषा  
 ६, १४; ८, ६२; -पान् बौधौ  
 १५, १६ : ७; शाधौ ९, १२, १२।  
 तत्र-आ-आ)पव- -तम्  
 मीस् ३, ८, २३।  
 तत्र-आ-आ)पव- -तम्  
 ता- -ताः गोष् ४, २, १७।  
 तत्र-आ-आ)पव- -तम्  
 २७।  
 तत्र-आ-आ)पव- -तम्  
 विध ५८, १२।  
 तत्र-आ-आ)पव- -तम्  
 १३।  
 तत्र-आ-आ)पव- -तम्  
 वैष् ३, १९ : ३; -नायाः वैष् ३,  
 १२ : ४।  
 तत्र-आ-आ)पव- -तम्  
 ४१ : १६।

- a) पाठे. पृ ५१४ c द. । b) मत इति पाठः ? यति. शोधः (तु. अप ३७, ५, २) । c) मतप्र इति  
 जीसं. । d) विप. । बस. । e) मकार्ये त्वप् प्र. (पा ४, २, १-४) । f) तत्रत्येन इति C.  
 g) वा. ? । बस. > बस. । h) तत्रा इति जीसं. । i) बस. वा. किवि. । j) स्वाय  
 म्यप् प्र. । k) = स्वरित-विशेष- । मत्वर्थे षष् प्र. (तु. भाष्यम् [याधि १, ८५]) । l) दर्शनार्थ इति कालिचं. ।  
 m) व्यप. ।

तथा-स्वर<sup>१</sup>-न्म् लाघो ७,  
१०,२०; -राः लाघो ७,५,३.  
तदा आपधो २२,७, २५; वैधो;  
पा ५, ३, १५; १९; तदाऽतदा  
भाए १,२५=१७.

सदानीम् आपधो ८, १३, १;  
वीधो; या १३, ४८; पा ५,३,  
१९; पाग १,४,५७<sup>३</sup>.

तमुद्गुहीय<sup>०</sup>-यात् शाधो १०,  
११,१३.

तथा-देव(ता>)न<sup>०</sup>न्-न्म्  
आपधो १६,१४, १०; १५,१०;  
वीधो; -तेन आपधो २४, ३,  
१६; वीधो २२,६=१३;१६.

तथादेवत-सुदबोहस-हसः  
वीधो २२, ६=२०; ८=४;  
-हसै वीधो २२,४=१८.

तद्वि आपधो ६,२,९; वीधो.

तद्-पाठो २,१,२७०; पाग १,१,  
२७०; ४,५७; तत् आधो १,२,  
१; साधो; न आपधो<sup>१</sup> ६,२२,  
१; ९, १३, १०; माधो ५,  
१२, ११३<sup>६</sup>; माधो २,५, ५,१८;  
वीधो ८:३३<sup>३</sup>; द्वि १, ८,३१<sup>१</sup>;  
तज्जत् या ३,१०; १०,१७.  
तच्-चमस-सान् काधो २०,  
४,२९.

तच्चमस-ता-ता आधो ५,  
६,२५.

तच्-चह-न्म् वैध २,२=१५.

तच्-चर्या-र्याः निष् ३, ३:  
३४.

तच्-चिहीपा-र्या मीस् ६,३,  
१७;३७.

तच्-चोदक-केयु मीस् २, १,  
३०.

तच्-चोदना-ना मीस् ८, ४,  
१८.

तच्-छक्ति-विषय-ये आपध  
१,६,२८; द्वि १,२,५१.

१ तच्-छन्दस->छन्दस्य<sup>१</sup>-  
स्वानि निष् ५,५=४;५.

२ तच्-छन्दस<sup>१</sup>-न्दसः शाधो  
१५,९,४.

तच्-छा<sup>१</sup>, छा<sup>१</sup>न्दस<sup>१</sup>-न्दसम्  
जैय २,८=१४; वीध ३,९,९<sup>३</sup>.

तच्-छन्दस(क>)का-कामिः  
कप ३,८,२०.

१ तच्-छन्द-न्दा<sup>१</sup> मीस् ५,  
३,५; -न्दात् काधो २४,४,१७.

ताच्छन्द-न्धम् पावा १,  
२,४३; छ, ३, ६६; मीस् ११,  
१,८; -न्दात् मीस् ८,२,१.

२ तच्-छन्द-न्दात् काधो  
१४,१,२४.

ताच्छन्द-त्व-न्वात् मीस्  
७,३,३२; १०,४,३२.

तच्-छमन-नग् आप ७०,८,५.

तच्-छिष्ट-ष्टम् वैधो १३, ३:  
६; -ष्टेव वैध ३,२२=६.

तच्-छील-लम् शंष ३३३.

ताच्छीलिक-के पावा  
४,१,१५.

ताच्छील्य-ह्ये पा ३,

२,११;७८;६,४,१७२.

ताच्छील्य-व्योवचन-

शक्ति-क्तिपु पा ३,२,१२९.

ताच्छील-तद्धर्म-तस्सायुका-

रिन्-रिपु पा ३,२,१३४.

ताच्छील(व-आ)दि-द्विपु  
पावा १,३,१०.

तच्-छुद्धि-द्धये कप १,६,८.

तच्-छेव-यः द्विधो १, १, ९;

मीस् १,४,१९; -यम् वैधो ९,

२; २; जैय १,१३=९; -येन

आपधो २४, ३, ५४; कौष्ट ३,

१३,९; आश्रित २,४,१०=२०;

वीध २,८,८.

तच्-छमसु-क्षुणा पावा ८,  
४,६३.

तच्-छापिन्-पिणः काधो  
२,५,१८; ७,६.

तच्-छुत्-त्वेन मीस् ६,६,१४.

१ तच्-छुति-तिः मीस् ६, ३,

२०; -तो मीस् ७, ३, १; १०,

१,४०; ३,१६; ७,६८.

२ तच्-छुति<sup>१</sup>->छुतिन्व-

न्वात् मीस् ६,७,२१; १०,८,  
३४.

तच्-छूलोक-केन पावा ८,४,  
६३.

तच्-ज-जम् शंष १६३.

तज्ज-जम्-जनि अप

३६, २६,१.

तज्ज-जयन-नेव वैधो १८,

a) विप.। वस.। b) तु. पागम.। c) = सङ्ग-विशेष-। <तसु वृद्धि (न ६,१८,१)। d) <तया  
वैश्वतया (ते छ,२,४,४)। e) <तम् इति पागम.। f) पाभे. वैष १,१४३८। द.। g) पाठः! तथा  
इति शेषः (तु. माधो १,५,५,१६)। h) तद् (त्वद् मू.) दसुभयविषयः सामासिकः पाठः! तत् (=तथा हि)  
इति वर्षे इति व द्वे षडे प्रत्यक् द.। शेषे सस्य. वर्षेस्त्वत्तः इत्यत्र द.। i) विप.। मकार्ये यत् प्र.। j) विप.  
(सामासान् [सामप्रपाय-])। k) जैय. पाठः। l) तत्. सामासान्तत् तच् प्र. (पा ५,४,१०३)। m) च्च  
इति मीम्.। n) च्चः इति शेषे.। o) विप.। उत. उप. <आ[पाके]।

१७ : २७.

तद्-जप(न्य&gt;)न्या- न्याम्

बौधो १३ : २; द्विपि ४ : ४.

तद्-जपे(प-इ)म्या-होम- माः

बौधो २०, १ : ७.

तद्-जाति- &gt; ज्ञातीय- -यम्

बौधो १८, ११ : २३; २८, ६ :

१३; १५; वैधो १८, १९ : २८;

द्विपि १५, ८, ६; ११; -यस्य

बौधो २४, ३५ : ३; -यानि

नित् २, ४ : १०; -ये द्विपि

१५, ८, ७; ११.

तज्जातीय-विवेक- -कः नित्

१, ९ : २४.

तज्जातीय-व्यवाय- -यान्

पावा १, १, ७.

तज्-जीवन- -नम् विध १६,

१२.

तज्-ज्ञ- -ज्ञाः वैधु ३, १४ : २;

आजयो ७, ७; -ज्ञैः शंष ३७२;

नाशि १, ८, २.

तज्-ज्ञान- -नाम् या १४, ३.

तज्-उपोनित्- -निपम् नित्

१, २ : १५.

तज्-ज्वाला-रूप- -पम् वैधो

२, ६ : १२.

तज्-कर- -पा, पावा ३, २, २१;

-राः या ३, १४७.

तज्-कर(ण&gt;)गो- -यो काशु

२, ७.

तज्-कर- -तां वैधु ३, ८, ३

तज्-कर्मन्- -मं बाधो १५, ६,

२८; बौधो २२, ११ : ७.

तज्-कर्म-जन्म-माहात्म्य-

-स्यम् का ५२, १४, १५.

तज्-कारित-&gt; त-स्व- -स्वात्

द्विपि ३, १, ७.

तज्-कारित-&gt; त-स्व- -स्वात्

मीत् ६, ५, १७; २, ४, ५४.

तज्-कार्य- -यम् शंष ३०२.

१ तज्-काल- -लम् पायु २, ११,

५; ६; बौधु; -लात् बाधो १, ४,

१५; -ले शंष ४६२; मीत् ३,

८, ३९.

तात्कालि(क&gt;)का, की-

पावा ४, २, ११६; -की शंष

२३६.

तत्काल-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा

१, १, ५०.

तत्तत्-काल, ला- -लः मीत्

११, ३, १०; -लम् बाधो १, ३,

२२; २५, १, १; -लस्य पा १, १,

७०; -ला मीत् ५, १, १९; ११,

३, २१; -लाः बाधो १२, ४,

१६; मीत् ११, ३, ५; -लानाम्

पापवा ५, १६.

तत्-काल-रयान- -नम् श्रया

६, ३९.

तज्-कीर्तन- -ने पावा १, १, ४४.

तज्-कुल-&gt; त-कुलीन- -नम्

विध ३, ४७; -नेषु शंष ३२१.

तज्-कृत- -तः विध २३, ३९;

-तैः विध ७, १२.

तज्कृत-व- -स्वात् मीम् ९,

२, ७.

तज्कृत-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ४,

१, ३६.

तत्कृत्वा(त-घ)थै- -थेन पा

२, १, ३०.

तज्-जन्म- -मान् कप्र २, ९, २२.

तज्-क्रिया- -या कप्र १, ३, ६.

तत्क्रिया-परिसमाप्ति- -सैः

वैधु ६, १३ : ५.

तज्-क्षय- -णम् कप्र ६८, २,

२२; -णात् श्रय १६, २, १;

३८, ३, ५; ७०, ७, ६; वृद्धे ७,

३२; -णेन सु ४, ५.

तज्-क्षय-प्रत- -सौ बाधो ७,

४, २०.

तज्-तज्-&gt; तज्-कर्मन्- -मंनि

श्रामित् २, ३, ४ : २.

तत्तत्कर्मा(मं-आ)पत्र-

-घः वैधो २६ : ५.

तत्तत्कर्मा(मं-घ)हं-

-हंनि वैधो ११, १० : २.

तत्तत्-काल- -ले वैधु ६, ५ :

४; वैधु २, १२, ३.

तत्तत्काल-नियन्धन-

-नम् याशि २, ५१.

तत्तत्-प्रसङ्ग- -ङ्गे वैधो २१,

१८ : ६.

तत्तत्-संभार-संप्रहण-

मन्त्र- -न्त्रैः वैधो १, ९ : १३.

तत्तत्-संस्था-चमस-गण-

-णानाम् वैधो १६, १८ : ५.

१ तत्तत्-स्थान- -ये वैधु ४,

१४ : ९; ६, १ : १८.

२ तत्तत्-स्था(त&gt;)ता-

-नाः श्रय १, २, १२.

तत्तत्-आधान-मन्त्र- -न्त्रैः

वैधो १, ११ : १५.

तत्तत्-दिक्-पति- -तिभ्यः

वैधो २०, २९ : ५.

तत्तत्-देवता- -तापै वैधो

९, ७ : १०.

a) विप. । बस. । b) स्तार्थे छ&gt;ह्यः प्र. (पा ५, ४, ९) । c) विप. । पम. &gt;पस. । d) पा.

य प्र., पावा. अन् प्र. इति विवेकः । e) = रज्जु-विरुपेण । f) वयित् वा. क्विति. । g) विप. । बस. &gt;द्वम. ।

h) बस. वा. क्विति. ।

तत्तद्देश्य- -यम् वीधि  
२, ७, १७; -स्याः वीथी २६,  
९: १६.

तत्तद्-ध(<ह)वित्- -वियः  
वैथी १, ७: १०.

तत्तद्-धो(<हो)म-प्रत-  
-तानि वैथी २०, ७: ६.

तत्तद्-यसुल्- -सुपा वैथी  
१४, ८: ५.

तत्तद्-योनि-तस्(ः) वैथी  
२०, १६: १०.

तत्तद्-रूप- -गान् शेष  
११६: २४.

तत्तद्-प्रत- -तानि वैथी २०,  
७: ८.

तत्तद्भवत-भूक्त- -क्तानि  
वैथ ३, २१: ३.

तत्त-त(त्र >) न्या- -न्या  
मीत् १२, २, १७.

तत्तन्-नामन्- -म्ना वैथ ३,  
१३: ६.

तत्त-नीह- -ने वैथ २, १४, २.

तत्त-न्य- -न्यः वा ८, १५.

तत्त-श्रय- -यम् विध ४, ३;  
४: ६.

तत्त-पञ्च- -क्तम् विध ४, ७.

तत्त-पञ्चाह- -हः दाथी ८, ४, ६;  
दाथी ४, ८, ६

तत्त-शनी- -नी वैथ २, ३, १;  
-स्तीनाम् दाथ ४, १, ११;

-स्तीभ्यः वैथ ४, ७: ५; -स्तीम्  
शेष ११६: ३५; ३६<sup>१</sup>; ३७:

-न्याम् वीध १, २, ३८.  
तत्त-पत्र-प्रि-सहस्र- -तस्(ः)  
अप ३५, २, ५.

तत्त-पद- -दानि वैथ ६, १: १७.  
१तत्त-पर, ता- -ना अम ५, ३;  
-सौ माथि १, ८९.

२तत्त-पर- -पाय ५, १, १२४;  
-रः श्रापथी १४, १३, १२;

पावा १, ४, ११०; -रम् प्रत  
४, ४, १४; -रस्य पावा ७, ३,  
५४; -रे पावा ८, ४, ४८.

तत्त-पर्य- -पा ५, १, १२४.  
तत्त-पर-त्व- -त्वात् काथी १,  
४, १६; ५, ५.

तत्त-पर-विज्ञान- -नम् पावा  
१, १, २७.

तत्त-परिग(त >) ता- -त्वा वैथ  
१, ६, ५; -ताम् वैथी १, २: ६;  
वैथ १, ८: १२.

तत्त-परिग्रह- -हात् अय ५२,  
१४, ५.

तत्त-परिष्ठी- -नेत्र-वदुन- -नः  
बोध २, ३, ५३.

तत्त-परिमाण- -णम् काथी १, २,  
२३.

तत्त-परिहार- -रम् शेष २४३.  
तत्त-परिहरण- -णात् वीध १,  
५, १०६.

तत्त-पश्चान् दाथी १७, १०, ४.  
तत्त-पश्चात्परिष्क- -अप ७०<sup>३</sup>,  
२३, १४.

तत्त-प्राप्त- -प्रेण काथी १५, ३,  
२७.

तत्त-प्राप्त-क्षालन- -नेत्र कप्र १,  
३, १४.

तत्त-प्राप्त्रो(त्र-उ)रक- -नेत्र वैथ  
४, ४: १४.

तत्त-प्राप्त्र- -रः प्रप्रा १६, १०.

तत्त-पाप- -यम् वाध ३, ६.  
तत्त-पाल- -लः विध ५, १४०<sup>१</sup>.

तत्त-पावन- -नाय विध ८, १६.  
तत्त-पितामह- -हाय विध २१,  
१२.

तत्त-पितृ- -त्वा वैथ ६, ३: १०;  
-तुः कप्र २, ८, २०; -त्रे विध  
२१, १२.

तत्त-पित्रा(तु-२आ)घ- -घैः  
वैध ३, ३, ८.

तत्त-पुट- -टयोः वैथी ११, ७: ६.  
तत्त-पुत्र- -त्रः वैथी २०, ३:  
११; वैथ ७, ९: २; हिपि २:  
३; २२: ३; -त्राः विध १५,  
३८; -त्रात् वीथी १८, २६:  
१८; विध ८२, ११; -त्रे वीथ  
१, २, ३७; वैध १, २, ११; -त्रैः  
विध १८, ४३.

तत्त-पुत्र-यजैम् वीध १, ५, ९५.  
तत्त-पुत्रा(त्र-आ)दि- -दीन् वैध  
२, १, २.

तत्त-पुत्र-वीत्र- -त्रैः विध ६,  
२७.

तत्त-पुनराधान- -नम् वैथ ६,  
१५: ८.

तत्त-पुरीष- -षे गीध १५, २२.  
तत्त-पुर्य- -यः द्वे २, १०५;  
पा १, २, ४२; २, १, २२; ४, १९;  
दाथ १, ४, १; -पस्य दाथी  
१०, १३, ४; पा ५, ४, ८६; पावा  
५, ४, ७३; -पाः काथी ७, १, ८;  
वीथी २, ३: २१; वाथी ३, २,  
१, ५; -पाय पा ५, १, १२१; ४,  
७१; -पाय चाप १७: १४<sup>१</sup>;  
-पे पा ६, १, १३; २, २; १२३;

a) विप. । बस. । b) वैथ १, ७१२ d) यद् लङ् तद् द्र. मतेन द. । c) पाठः ई तस्यात्परिष्कृत्य इति बोधः (द्र. संस्कृतः टि.) । d) श्लकः इति जीधं. । e) पस. > बस. । f) = समास-विशेष-। ध्रुवे., पा. । । बस. वा कस. वा ।

११३; ३,१३; १०१; पावा २,  
४,६४; ६,२,२; -धेभ्यः आभिय  
२,६,४ : २४५.

सत्पुरप-ग्रहण- -णम् पावा  
१,४,१.

सत्पुरप-त्व- -त्वे पावा १,  
४,१.

सत्पुरप-वचन- -न्वात् पावा  
१,४,१.

सत्पुरप-विज्ञान- -न्वात् पावा  
४,१,२७.

सत्पुरया(य-ञ)न्तोदात्ताव-  
-त्वम् पावा १,४,२.

सत्पुरया(य-ञ)द्वत्त- -त्वे  
जंभ्रीका १०.

सत्-पुष्प- -व्याणाम् ङा ३५,  
३, ६.

सत्-पूर्वै,र्वा- -वैम् वीथी २६,  
३२ : ३; वैथी ४, ९ : ६; भाट  
२, ५ : १; ङा १, १, २८;

-वैस्य वैशि ७९; २५२; -र्वाः  
ऋ २, ८, ४; २६; -वर्णाम्

वीथ ३, ९, १२; शांथ ४, ७, ११.

-वर्णान् द्रुमा ३, ५७; -वै ऋ ३  
२, ८, १९; वृदे ४, ८७.

सत्पूर्व-मृत- -ताः वैथ ५,  
१५ : १.

सत्-पूर्वैक-त्व- -न्वात् मीस्र ७,  
१, ६.

सत्-पूर्वैक-दो(द-उ)सत्पर- -ग्रह-  
ण- -णम् पावा २, ४, २; ६, ३,  
२३.

सत्-शृणु-त्व- -त्वम् मीस्र  
१० ३, २८.

सत्-शृणु- -ष- शांथी १४,  
१३, ६.

सत्-प्रकरण- -णे लाथी १०, २,  
१; मीस्र ३, ४, ६.

सत्-प्रकीर्तन- -न्ने पावा १, १,  
४४.

सत्-प्रकृति- -ति या १, २०;  
१३, १२; -तीनि शांथी १३,  
१९, १८; -वेः मीस्र ५, ३,  
४०.

सत्प्रकृति-त्व- -त्वम् मीस्र  
३, २, २८; -त्वात् मीस्र ७, ३,  
१६x४.

सत्-प्र(व्या>)ष्य- -ष्यम्  
मीस्र १, ४, ४.

सत्-प्रजा- -जाम् शेष ११६;  
३५<sup>१</sup>; ३६<sup>१</sup>; ३७.

सत्-प्रतिनिधि- -धिः काथी  
२५, ५, ४.

सत्-प्रतिपादन(न-ञ)गम-  
-मम् वैथ १, ११, ६.

सत्-प्रतिषिद्ध- -द्धम् या २,  
१४.

सत्-प्रतिषेध- -घः या १, ८;  
९, २६; ११, १८; -धात् पावा  
१, ४, ३; -घे मीस्र ९, ४, ३२.

सत्प्रतिषेध-विज्ञान- -णम्  
पावा ६, ३, ३३.

सत्प्रतिषेधा(ध-ञ)र्ष- -र्षम्  
पावा २, ३, १.

सत्-प्रयय- -यम् आष २,  
१५, १; वीथ १, ५, ११०<sup>१</sup>;

-यस्य पा ७, १, २९; -वात् पा,  
पावा ४, ३, १५५.

सत्प्रयय-त्व- -न्वात् वीथ  
१, ११, १२.

सत्प्रयय-विज्ञान- -न्वात्  
पावा ७, २, ११४.

सत्प्रयया(य-ञ)न्त- -न्वात्  
पावा ४, ३, १५३.

सत्-प्रथम- पा ६, २, १६२.

सत्-प्रदान- -णम् यासि २,  
११५; -न्वात् कप २, ४, १२;  
-नेन विध ९२, २.

सत्-प्रधान,ण- -नाः अप २२,  
४, ३; या १०, २१; -नानि विध  
२६, ७; -नायाम् मीस्र ४, ३, ३;  
-ने मीस्र ३, ४, ७; ९, १, ४०.

१सत्प्रधान-त्व- -न्वात् मीस्र  
३, ४, १; ८, ४; ४, २, ११; २६; ३,  
३५.

२सत्-प्रधान-त्व- -त्वम् मीस्र  
९, १, १०; -त्वात् मीस्र ४, २,  
७x४.

सत्-प्रपितामह- -हाय विध २१,  
१२.

सत्-प्रभव- -त्व- -न्वात् मीस्र  
८, २, १३; २२०.

सत्-प्रभृति- -ति<sup>१</sup> शांथी ५,  
१४, २; छुम् ३, १३ : ८; ९;  
मीथ २, ३, १५; -ति<sup>१</sup> लाथी  
६, ६, १; -तिम् वाथुथी ३,  
८३ : १८; -तीनाम् लाथी ७,  
४, १५; ९, ५, ७; -तीनि द्राथी  
५, १, २९; लाथी २, ५, २४.

सत्-प्रमाण,ण- -णः विध ५,  
३७; -णम् वैथ ५, १० : ३;  
-णा अर २२, ३, ५; -णाः वैथ  
१, ८ : ८; -णेः वैथ ५, ३ : १४.

सत्प्रमाण-त्व- -न्वात् मीस्र  
४, १, १४; ५, १, १.

सत्-प्रमाणा(ण-ञ)कार- -री  
वैथी ११, ८ : १०.

सत्-प्रयाज- -जस्य शांथी ५,  
१४, १.

a) विर. । बम. । b) वा. किरि. (वैत. भाष्यं णमुपन्तम्) ।

d) इचिन् वा. किरि. । e) पय. > दय. ।

c) \*प्रधानवात् इति जीते. ।

१६,७.  
 तत्-प्रयुक्त- -क्तः मीवृ ९, १,  
 १; -कम् मीवृ ९, १, २.  
 तद्युक्त-त्व- -त्वे मीवृ ९,  
 १, १५.  
 तत्-प्रयोग- -गे हिश्री १२, ८,  
 ३; कम् ३, ६, १.  
 तत्-प्रयोजक- -कः पा १, ४, ५५.  
 तत्-प्रयोजन- -त्व- -त्वात् शंघ  
 २५१.  
 तत्-प्रयोजन-माय- -अम् अप  
 २३, १, १.  
 तत्-प्रयोजुग- -गाः कौश्री २८,  
 १२ : २०.  
 तत्-प्रवाद- -द्री आपश्री १९,  
 १८, ४; हिश्री २२, २, ४.  
 तत्-प्रवृत्त- -त्वे विध ९१, १.  
 तत्-प्रवृत्ति- -त्तिः मीवृ ८, १,  
 १५; -त्वा मीवृ १२, २, ३५.  
 तत्-प्रसव-मरण- -गे विध  
 २२, ३४.  
 तत्-प्रसाद- -दः शंघ ३१२.  
 तत्प्रसाद-उत्तर(:) विध १,  
 ३२.  
 तत्-प्रसूत- -तः गौघ ११, १५;  
 वैश्री २१, ६ : ९.  
 तत्-प्राची- -चयाम् वैश्री १,  
 १ : ८.  
 तत्-प्राधान्य- -त्वात् काश्री  
 १६, ६, ७.  
 तत्-प्रायवचना(न-अ)व्यवच-  
 -न्याभ्याम् मीवृ ६, ८, ५५.  
 तत्-प्रेम्णु- -प्युः या ६, १८.  
 तत्-फल- -लम् अप ६८, ३,  
 ५७; वैध १, १, १; -लस्य अप  
 ६२, ४, ७; -लेन शम् १, ११.

तत्-वृत्क- -कम् विध ४, ५.  
 तत्-पोडक- -कम् विध ४, १२.  
 तत्-संयुक्त- -कम् मीवृ १, ३,  
 १५; ३, ४, ६; -क्ताः काश्री १,  
 ३, ९.  
 तत्-संयोग- -गः विध ३५, ३;  
 -गात् हिश्री ३, ८, ४१; मीवृ  
 २, ४, २२ x ४; -शन मीवृ ४, ३,  
 २०.  
 तत्-सितय- -यात् गौघ २८, २०.  
 तत्-संस्कार- -रः मीवृ १०, १,  
 २३; -रात् काश्री ६, १, २१;  
 मीवृ ४, ४, २३; ११, ४, ४६.  
 तत्संस्कार-कृत- -कृतः वैए  
 ५, ८ : ११.  
 तत्संस्कार-श्रुति- -त्वेः मीवृ  
 १०, ८, २१.  
 तत्-संस्तव- -त्वात् मीवृ ३, ४,  
 ४९.  
 तत्-सं(हया >)स्य- -स्यम्  
 हिध २, ३, ३७०.  
 तत्-संस्था-श्रुति- -त्वेः काश्री  
 २५, ७, १.  
 तत्-संकाया- -त्वे वैश्री २, १० : ३.  
 तत्-सख- -खः या ३, ११.  
 तत्-सं(हया >)स्य- -स्यम्  
 मीवृ १०, ५, ५७.  
 तत्-सद- -सदे भाए २, ३० :  
 १; ४; हिष्ट १, १६, १११.  
 तत्-सदसा- -शाम् या ३, १३;  
 -शात् पावा ४, १, १६; -शेषु  
 कम् १, ८, २३.  
 तत्-संधि- -धिः मावृ १, ४.  
 तत्-संधिधि- -धेः मीवृ २, २,  
 १६; -धी मीवृ ४, ४, ३४.  
 तत्-सम- -सम् अप ३१, ७, ४;

४६, ८, २; वाध; -सेन काध  
 २७३ : ७.  
 तत्सम-त्व- -त्वात् मीवृ ९,  
 ३, १७.  
 तत्-सम-काल- -लम् विध  
 १२, ४.  
 तत्-सम(र्व) > -र्षां- -र्षां शंघ ५.  
 तत्-समवाय- -यः मीवृ ६, ८,  
 १४.  
 तत्-समाहार- -रः वैशि १२८.  
 तत्-समिष्- -निषाम् अप ३५,  
 ३, ४.  
 तत्-समीप- -पम् अप ४२, ३, ५;  
 -धे आपश्री १८, १, १३; १५.  
 तत्समीप-वर्ति- -वर्ति-  
 नाम् विध ५, ७४.  
 तत्-समुत्थान- -नम् शंघ ३२७.  
 तत्-समुदाय- -ये पावा ८, ४, २.  
 तत्समुदाय-प्रवृण- -णम्  
 पावा ६, २, १३६.  
 तत्-समुद्- -हम् वेज्यो २१.  
 तत्-संपातिन्- -ती या १२, २२.  
 तत्-संप्रत्यया(य-अ)र्ध- -र्धं रु  
 पावा ४, १, १.  
 तत्-संबन्ध- -न्धात् मीवृ ५,  
 १, २२; -न्धेन या ११, २.  
 तत्-संबन्ध- -न्धे पावा ५,  
 ३, ६७.  
 तत्-संबन्धि-व्यन्धव- -वानाम्  
 शंघ ११८.  
 तत्-सवर्ण- -र्णः शैशि २८२.  
 तत्-स-स्थान- -नम् क्प्रा ४, ३१  
 तत्-सहि(त >)ता- -त्वे काश्री  
 ७, ३, ८.  
 तत्-सामर्थ- -र्थम् मीवृ १,  
 ४, १७.

- d) वस. (द. नागेशः)।  
 a) विप.। घस.। b) सप्त. आपध २, १५, ७ विशिष्टः पाभे.। c) तस. समासान्तपृ ट्च् प्र.।

तद्-न्यामान्य- न्यात् या २, २;  
 मीम् १, २, २३; ४, ३, ३९; १०,  
 ३, ५६; -न्येन मीम् ६, ३, ३२.  
 तद्-साम्य- न्यम् विध ५३, ५.  
 तद्-न्यायुज्य- अयम् वीथी  
 १८, ५३ : २०.  
 तद्-सिद्धि- द्विः मीम् १,  
 ४, २३.  
 तद्-सिद्धि<sup>१</sup>-> ण्वि-ख-  
 न्यात् काथी १, ४, १.  
 तद्-सुन- तः अय ६७, ८, ४;  
 ऋष २, १०, ११०.  
 तद्-सेवा (वा-घ)शक्ति- -तौ  
 विध ९६, ४२.  
 तद्-स्तेय- न्येन कप्र २, ५, ७.  
 तद्-स्तोत्र- न्याय आथी ५,  
 २, ७.  
 तद्-स्थ- पाग ५, १, १२४<sup>७</sup>;  
 -स्थम् या ६, ३३; -स्थस्य पावा  
 ८, ४, १४, -स्थे पावा २, ३,  
 २१; -स्थै. पावा २, २, ८.  
 तद्-स्थ- पा ५, १, १२४.  
 तद्-स्थान- नान् वैष् ५, १५ :  
 २; ऋषा ४, ८०, -ने आथी २,  
 १, २३; ३, १०, २६, आपथी; या  
 १४, ३०.  
 तद्-स्थानीय-> ख-ख-  
 न्यात् मीम् ६, ५, १९.  
 तद्-स्नानो(न-उ)दक- काव्  
 विध १४, २.  
 तद्-स्नेह- हाव ऋष २, १०,  
 ३३.  
 तद्-सृष्ट-प्रपद<sup>१</sup>- दम् वैथी  
 ६, ३ : ७.  
 तद्-स्वामिन्- मिनाम् विध ५,  
 ५९; -मी अय ७१, ४, ३.

तद्-भंग- न्यस्य वैथी १४, ४ :  
 ११.  
 तद्-भ-कर्मन्<sup>१</sup>- नैणि मीव् ६,  
 ३, ३.  
 तद्-भक्ति- प्रयः वैष् २, ७ :  
 १४; -मिना वैष् ७, २, २; -नेः  
 वैष् ४, ५ : १८; -मी वैष् ७,  
 ४ : १९.  
 तद्-भ्रम- भ्रेण वैथी १०, १० :  
 ९; -मैः कप्र २, ८, ४.  
 तद्-भ्र- ऋम् काथी १, २, ३;  
 ४; आथी; -हस्य कप्र १, ३,  
 ६; -ज्ञानम् मीम् ३, ८, ३६;  
 -ज्ञानि वाथी १, १, १, ६२;  
 -हेतु मीम् ३, १, १७.  
 तद्-भ्र- स्वाव् मीम् १०,  
 ३, ३७; ५, ५०.  
 तद्-भ्र-भाव- नेन मीम् ७,  
 २, ३.  
 तद्-भ्र-वन् मीम् ४, ४, २६.  
 तद्-भ्र-ष्ट- -ष्टेन वैष् २, २ : १४.  
 तद्-भ्र-विश्रम- -मे आपथ १,  
 ५, २; विध ३२, ९; द्विष १, २, २.  
 तद्-भ्र-विश्रम(ण>)णी- णीम्  
 विध ५, १८.  
 तद्-भ्र-वस्तव् काथी १७, १०,  
 १४.  
 तद्-भ्र-विकरण- णानाम् पावा  
 १, ४, १०.  
 तद्-भ्र-विकार- राव् मीव् ६,  
 ७, ३३; १०, ३, ६७.  
 तद्-भ्र-विदेवता- -ताः वैष् ३,  
 २० : २; -ताम् वैष् ४, १३ :  
 १०.  
 तद्-भ्र-विध- न्यात् वैष् ४,  
 १४ : १.

तद्-भ्र-विधान- नेषु या ४, १५.  
 तद्-भ्र-धीन, ता- नः वैष् १, २० :  
 १; -नम् वीष् ११, १८; १३,  
 २४; -ना आपथ १, ७, १४;  
 द्विष १, २, ७१.  
 तद्-धीन-वचन- ने पा ४,  
 ४, ५४.  
 तद्-भ्र-व्यक्ष-कर- चिद्धित-  
 -नम् विध ७, ३.  
 तद्-भ्र-व्ययन- नेन विध ३०,  
 ३१.  
 तद्-व्याय- -यम् वीथी  
 ५४ : ८.  
 तद्-भ्र-व्यतर- नम् अय ३३, ५,  
 २; ३६, १६, ३; ४६, ८, ३;  
 याधि १, २२; नाधि १, ६, ४;  
 ७, ३.  
 तद्-भ्र-व्युकारिन्- रि कप्र २, ५,  
 २१.  
 तद्-भ्र-व्युष्ट- -श्रुपः माथी  
 ४, ८, ३.  
 तद्-भ्र-व्युमान-ज्ञ- -ज्ञाः वीष्  
 १, १, ६.  
 तद्-भ्र-व्युपायिन्- -विना अय  
 ५८<sup>२</sup>, ३, १.  
 तद्-भ्र-व्युत्प-गर्भ- -मंम् निव्  
 ८, २ : ३१; ३४; ३७; ४०.  
 तद्-भ्र-व्युत्प-त्व- स्वाव् मीव्  
 १, ३, २८<sup>१</sup>.  
 तद्-भ्र-व्युत्प-वेम्यः ऋषा  
 १५, १.  
 तद्-भ्र-व्युत्प-ने काथी १०,  
 ९, २१×४; कप्र २, ६, ४; ७.  
 तद्-भ्र-व्युत्प- (ः) वीथी २६,  
 २९ : ७.  
 तद्-भ्र-व्युत्प-नता<sup>१</sup>- -तः काथी

तादृश्यं- पावा ५, १,  
१२४; -र्ष्यम् मीस् ९, ४, ४८;  
१०, १, १; ७, २७; १२, १, १;  
-र्ष्यात् पावा १, २, ४३; ४, ३,  
६६; मीस् ६, १, २×४; -र्ष्ये पा  
५, ४, २४; पावा २, ३, १३; मीस्  
६, २, ५; २२; -र्ष्येत् मीस् ५,  
४, १.  
तदर्थ-नाति- -त्ते: पावा २,  
१, १.  
तदर्थ-ज- -जम् जया ११, ६.  
तदर्थ-व- -वम् मीस् ५,  
४, ७; -त्वान् आश्री २, ६, १६;  
आपश्री; पावा ३, १, १३१; ६,  
१, १२; ८, २, ४८.  
तदर्थ-निर्देश- -शात् मीस्  
९, १, ४६.  
तदर्थ-प्रतिषेध- -घ: पावा  
२, २, १९.  
तदर्थ-प्रत्यय-प्रतिषेध- -घ:  
पावा १, ३, १.  
तदर्थ-माघ- -त्रेण पावा २,  
१, ३६.  
तदर्थ-वचन- -नात् मीस् ५,  
४, ७.  
तदर्थ-वत्- -वत् मीस् ४,  
४, २४; ६, ७, २५; ९, १, २२.  
तदर्थ-नाद-वदन- -नात्  
आश्री ५, १३, ९.  
तदर्थ-शास्त्र- -खात् मीस् १,  
२, ३१.  
तदर्थ-सूत्र- -क्तानि अं २:  
९०.  
तदर्थार्थ(र्ष-व्यवसान- -नम्  
पावा २, १, २५.

तदर्थार्थ(र्ष-अ)-वलि-हित-  
सुख-रक्षित- -त्ते: पा २, १, २६.  
तदर्थ-धर्म- -धर्मम् शेष ३८२;  
४१०; ४४०; विध; -धर्मा अत्र  
२२, ३, ५; -धे कप्र २, ३, ८;  
काशु ७, ३३; यौशु १: २८;  
-धेन अत्र २१, ५, २; ३.  
तदर्थ-पूर्व- -णं: वैश्री ११,  
१: १५.  
तदर्थ-भाज- -भाक् अत्र  
६८, २, ५८.  
तदर्थ-विस्तार- -रम् वैशु  
५, ३: ७.  
तदर्थ-न्या(त>)सा- -न्या:  
यौशु १४: २.  
तदर्थ-रहित- -तम् निस् २, १०:  
११.  
तदर्थ-ह- -ह्यम् वैशु ३, १९: ७;  
४, १४: १४; -ह्येण वैशु ४,  
१४: १.  
तदर्थ-अलाभ- -भे आपश्री २२,  
२, १२; ३, १५; वैश्री.  
तदर्थ-भवसान- -नात् द्राष्ट १, २,  
३.  
तदर्थ-अवासि- -सौ विघ ९६,  
२६.  
तदर्थ-असक्ति- -क्ति: मीस् १, ३,  
२८.  
तदर्थ-अना(न>)ना- -ना यौश्री  
१८, ४४: १३.  
तदर्थ-अमन्- -मनि वैशु ७,  
६: ३.  
तदर्थ-अशु-पाठ- -कारित्- -नी  
विघ २२, ६०.  
तदर्थ-अक- -कम् विघ ४, २.

तदर्थ-अधम- -मेणु बीप १, २, ८०-  
तदर्थ-असयोग- -मात् मीस् १०,  
५, ६८.  
तदर्थ-असंभव- -वे वैशु ६, ०: ५-  
तदर्थ-असहन- -ने पावा ५, २,  
१२२.  
तदर्थ-अस्यन्- -स्याम् वैशु ७,  
३: ८.  
तदर्थ-असिध- -सिध विघ २२,  
७०; -सिधभि: वैशु ७, ३: १२;  
-स्योनि वैशु ७, ३: ४; ७.  
तदर्थ-अह(न>)स- -हस्यु  
काप २७३: ८.  
तदर्थ-अनात- -नानाम्  
आश्रित १, ३, २: २९.  
तदर्थ-अन-संभा(र>)रा-  
-राम् बीप ३, १, २१.  
तदर्थ-आहति- -ति अत्र २३,  
३, १.  
तदर्थ-आक्षेपण- -ये विघ ५४,  
१४.  
तदर्थ-आक्य-ख्या- -ख्य: मीस्-  
२, ३, २३; ३, २, २१; -क्यम्-  
काश्री २२, ४, १३; १५; मीस् ७,  
४, १३; ९, ३, २८; १०, ५, ५६;  
-ख्या काश्री १६, ३, २०; -ख्या:  
काश्री २२, ४, ७; -ख्यान काश्री-  
२२, ४, २२; -ख्याम् अश्र ५,  
१७.  
तदर्थ-अक्य- -ख्यम् मीस् ८,  
३, १३; -खात् मीस् ८, ४, २.  
तदर्थ-आपा-मिप- -तसु (: ) अश्र-  
५, १०६.  
तदर्थ-आगम- -मे मीस् ४, १,  
१५; ४, २२.

द) वृ. गङ्गा. । यद्वा 'वत् इति बर्हस्पियः वति: प्र. (पा ५, १, ११७) इति विदुष्यम् । ठ) विप. ।  
बह. । c) विप. । बह. उप. < √अश्र[भोजने] । d) वृ. पाणि. । तत्र सहते इति पात्र. माश्र. ।  
e) सग. माश्र २, १८: ८ एवदह इति पात्र. । f) वस. उप. = छपन्- । g) 'पदा इति पाठः? यनि. शोचः ।



तद्-भाज्य<sup>०</sup>- -ज्यम् शीघ्री ११,  
१३, १८.  
तद्-भासक<sup>०</sup>- -कम् यासि १,  
४३; नाशि २, ७, ११.  
तद्-भादान- -नम् विष ३०,  
४२.  
तद्भा(द्-आ)दि- -दि आश्री १,  
१२, २६; शेष २६७; पा १, ४,  
१३; वेज्यो ६; मीस् ५, १, २४;  
-दिमु भासि ५; मीस् ८, १,  
१८०; १०, ५, ६७; -दीनि वृदे  
८, ९३; -द्वै: पावा ३, १, ३; ४,  
३, ६०; ५, २, ४६; ३, ८३; -द्वी  
पावा १, १, ७२; ६, १, १३; ३,  
११५; -द्यो: वैताश्री ३२, १४.  
तद्भादि-ग्रहण- -णम् पावा  
७, ३, १; -णस्य पावा ७, ३, ८.  
तद्भादि-तदन्त-विज्ञान-  
-नात् पावा १, ४, १३; ७, १, ९६.  
तद्भादि-ख- -खात् मीस्  
१०, ५, ६; -खे पावा १, १, २१.  
तद्भादि-वचन- -नम् पावा  
१, ४, १३.  
तद्भादी(दि-इ)विहस- -सः  
शब्द २, ५, ४०.  
तद्भाद्या(दि-आ)दि-वचन-  
-नात् पावा १, ४, १३.  
तद्भाद्या(दि-आ)चिख्यासा-  
-सावात् पा २, ४, २१.  
तद्भादेश- -शम् द्राष्ट ३, ४,  
२८; -शात् काथी १, ७, २७.  
तद्भाजन्तर्ष- -र्षात् मीस् १०,  
६, १७.  
तद्भाजुग- -गम् शेष ३६३.  
तद्भाषति- -तेः मीस् १०,

२, ६७.  
तद्भाषति-वचन- -नात् मीस्  
१०, ८, २०.  
तद्भाषत<sup>०</sup>- -नानाम् शप  
४८, ७२; ९८; १०८.  
तद्भाषा(य-अ)पाय-व्ययन-  
-नाति शत्रा १४, १.  
तद्भाषुस<sup>०</sup>- -युषाम् मीस् ६,  
७, ३१.  
तद्भाशम्भ- -ग्मात् द्राष्ट १,  
२, ३.  
तद्भाकट- -ठे द्वित्री ७, १,  
४७.  
तद्भाषण-स्रुति- -से: काथी  
२५, १४, १३.  
तद्भाश्रुति- -त्ति: मीस् ८, ३,  
३; -त्तिम् मीस् ८, ३, ७.  
तद्भावेश- -शात् मीस् ९, २,  
४३.  
तद्भाशि( त >)त- -ताया:  
काथी ४, ६, १३९.  
तद्भाशिस- > तद्भाशिस-  
-द्व- -द्व्यात् मीस् ९, ३, ३८;  
१०, २, ५४.  
तद्भाशिस<sup>०</sup>- -शियः शब्द  
२, ८, ३१.  
तद्भाशोच- -व्ययगम- -गे  
विष २२, २१.  
तद्भाधम- > मित्- -मिणः  
वैष १, १, १३.  
तद्भाधय, या- -यम् पावा २,  
४, ८; वै, २, १२४; -या शेष  
३५०; -या: वीषि ३, ७, ३;  
-ये पावा १, १, १.  
तद्भाधय-व- -व्यात् पावा

१, १, ५०; २, ६४.  
तद्भासति- -ति: मीस् १०,  
६, १००; -से: मीस् ११, १, ४५.  
तद्भासत<sup>०</sup>- -न: श्रापथ २,  
११, १; द्विष २, ५, ७३.  
तद्भाहार- -र: शेष ४, ५, १४.  
तद्भाष्ठा- -ष्ठाया विष २२,  
५२.  
तद्भा-द्वि-कर्मव्यता- -तया  
काथीस ३५, ३.  
तद्भा-द्व- (द्-अ) र्थ- -र्था:  
आश्री ६, ४, १०; वैताश्री २६, ५.  
तद्भायोय<sup>०</sup>- -यम् शीघ्री ११,  
३, ६; १५, ८, १.  
तद्भा-ई- -स्ता मीस् ६, ३, ३५.  
तद्भाय- - पा १, १, ७४; -यम्  
षेष्ट ५, १३ : २०; शुक ३, १४३.  
तद्भा-उ- -के मीस् ४, २, ८.  
तद्भा-द्वोष<sup>०</sup>- -पम् मीस् ९,  
२, २.  
तद्भा-प्रतिषेध- -पात् मीस्  
९, ४, ३९.  
तद्भा-संख्या-प्रमाण<sup>०</sup>-  
-णानि वैश्री ११, ९ : १०.  
तद्भा-हेतु- -तु: मीस् ९, ३,  
७; १२, ४, २०.  
तद्भा-कि-व- -व्यात् मीस्  
६, १, ७.  
तद्भा-उत्तर(र >)ता- -रे वृदे ४,  
८८.  
तद्भा-उत्तरपद<sup>०</sup>- -दस्य पावा १,  
१, ७२.  
तद्भा-उत्पान-व्यय- -यम् विष  
५, ७५.  
तद्भा-उत्पति- -से: मीस् ६, ३,

a) पस. उप. = स्तोत्र-। b) विप.। बत.। c) पुतदा इति कार्त्त.। d) एता इति पाठः इ यनि. शोधः (डु. शीघ्र.)। e) एतेः इति जीघं.। f) वैष १ द.। g). < तद्भास (ख १०, १२०, १)। h) कस. > पस.। i) एते हे इति कार्त्त.।

४०; ९, २, ४१; १०, ३, १२;  
१२, ३, २४.  
तद्-उत्पात- -ताः अथ ५४, २,  
५; ५५, १, ६.  
तद्-उत्पत्तौ- -तौ मीम् ४, १, ३.  
तद्-उद्गतौ( त-ऊ)म्- -हृत्-  
-र्त्तौ. कौस् ८४, ७.  
तद्-उपकृत- -ताः निम् ६, ८:४.  
तद्-उपक्रम- -मात् मीम् ५,  
१, ८.  
तद्-उपदेश- -शः मीम् १२,  
१, ४३; -शे पावा ७, १, ५८.  
तद्-उपनयना( न-अ)नि-  
-मिना वैष्ट ७, १ : १५.  
तद्-उपरि मौपि १, ४, १८;  
वैष १, ९, ४.  
तद्-उपरीष्टात् आमिष्ट ३, ८,  
१ : १५, १६; वौपि १, १४:१४.  
तद्-उपलेपन- -नात् विध ९१,  
१८.  
तद्-उपसृष्ट- -ष्टाः निस् २,  
१२ : २४.  
तद्-उपा(  $\langle$ व्या $\rangle$  )व्य- -त्व-  
-त्वात् मीम् ८, १, ३२.  
तद्-ऊन- -नम् श्रमा १३, ३३;  
मीम् १०, ३, २२.  
तद्-ऊर्ध्व- -र्ध्वम् वौपि २, ५, ४.  
तद्-ूर्ध्वो( र्ध्व-उ)पयम- -मम्  
आमिष्ट २, ७, ६ : १२!७.  
तद्-आणु-फल-मिध- -धेण  
आमिष्ट १, ७, ४ : ९.  
तद्-एकदेश- -शाः मीम् ४, २, १.  
तद्-एकदेश-त्व- -त्वात् मीम्  
११, २, ११.  
तद्-एकदेश-विज्ञान- -नात्

पावा १, १, ७२; ४, १३.  
तद्-एकान्त-प्रहण- -णम्  
पावा ४, २, १०; ५, ४, १३५.  
तद्-एव ( $\langle$  एवक- पा. ) पा ५,  
२, ६२०.  
तद्-ऐक्य- -क्यम् वीशि १२८.  
तद्-ओजस्- -जाः वीथी २८,  
२ : ४६.  
तद्-नाग- -णः अण ७०, १३, ३.  
तद्-नाल, ता- -नाः विध १, १३;  
-तानि वृदे ५, ९५.  
तद्-नामिद्- -मी वीथ १, ५,  
९७.  
तद्नामि-त्व- -त्वात् वाथ  
१९, ३६.  
तद्-नीति- -तिः मीस् ९, १,  
५४.  
१ तद्-गुण- -णाः आधौ १२,  
४, १६; -णान् अण ५२, १४, ५;  
-णे पावा १, २, ३१; -णैः वीथी  
२९, ८ : २५.  
तद्गुण्य- -ण्यम् मीस्  
९, १, ५  
तद्गुण-त्व- -त्वम् मीस् १०,  
२, ६; -त्वात् मीस् ५, १, ४४४.  
तद्गुण-दर्शन- -नान् काथी  
१२, १, १; १३, १, १; २३, १, ५;  
२४, ४, २.  
तद्गुण-भाव- -त्वात् आथी  
७, १, ११.  
तद्गुण-विना( $\langle$ रा $\rangle$ )रा- -राः  
वैथी १७, १ : १.  
तद्गुण-व्यतिपन्न- -न्नात्  
काथी १६, १, १.  
तद्गुण-शास्त्र- -शात् मीस्

१०, ६, ४०.  
तद्गुण-संविज्ञान- -नात्  
पावा ६, १, १.  
तद्गुणा(ण-अ)तुरोध- -धात्.  
वैनाथी २८, ४.  
तद्गुणा(ण-अ)भिन- -तम्.  
वैष्ट ३, १४ : ८.  
तद्गुणा(ण-अ)भाव- -त्वे  
काथी १४, २, १४; १५, १०, ४.  
तद्गुणा(ण-अ)वस्त- -वः  
वृदे २, ९६.  
तद्गुणा(ण-आ)धित- -तः.  
उनिस् ८ : ४२.  
तद्गुणी/मू  $\langle$  तद्गुणी-  
भूत- -तः पावा १, १, २०.  
२ तद्-गुण- -णाः मीस् १, ४, ९.  
तद्-गुरु- -रूणाम् मौष ६, ३.  
तद्-गृह- -हम् अण ३६, ६, ३;  
-हे अण ३६, ६, २; वैष्ट ७, ५ :  
१२.  
तद्-ग्रह- -हाणाम् आमिष्ट २, ५,  
१ : ७.  
तद्-ग्रहण- -णान् पावा ७, २, १;  
मीस् ३, ७, ५२; -णे मीस् १०,  
७, ३२; -णेन पावा १, १, २०.  
तद्-ग्राम- -मे वैष्ट ७, ५ : ११.  
तद्-र्- -र्ः या ३, १०.  
तद्-दक्षिण-पार्श्व- -र्ध्वे वैष्ट ४,  
१३ : १०.  
१ तद्-दक्षिणा- -णस्याम् वैष्ट  
४, ४ : १.  
२ तद्-दक्षिणा- -णाम् वैथी  
२०, ३८ : ६.  
तद्-दर्शन- -नाय अण १, ३२,  
११.

a) विप. १ वच. १ b) एमः इति पाठः ? यनि. वीषः । c) भोजमते इति पाठम्. । d) पस. वा  
वच. वा । e) द्रव. पृष. = कर्मन्- । f) उप.  $\langle$  दा [दाने] । g) पस. उप. = दिश- । h) तस. उप.  
= दान- ।

तद्-वात्- वृत् श्रम २, १०,  
१०७.

तद्-दासी- सी द्विप्रौ १, ५,  
७२.

तद्-दिन- ने वैद्य ५, १४ : १.  
तद्-द्विषस- दोष- षः षीध १,  
११, २६.

तद्-द्वी(सा >)क्ष<sup>a</sup>- क्षः काश्री  
१५, ८, ९.

तद्-दुःख- खे विध ३, ९८.

तद्-दूषक- कान् विध ३, २४.

तद्-देव<sup>b</sup>- षः वृदे १, ६.

१ तद्-देवत, ता<sup>c</sup>- ताः आपथी  
७, २२, ४; -तम् कौत् ९२, २१;  
-तया काश ७७, ११; -ता या  
१२, ३०; -ताः आपथी २०,

२४, ११; द्विप्रौ १४, ६, ९; या ७,  
४; -ते शाश्री १, १६, ८; १७, ९;  
१८; काश्री २५, २, २३; -तेन  
काश्री २४, ६, ४०; -तौ आपथी  
१९, १८, ४; द्विप्रौ २२, २, ४.

तद्देवता-त्व- त्वात् मीत्  
९, ४, ५६<sup>b</sup>.

२ तद्-देवता- ताः शाश्री १५,  
९, ४.

तद्देव्य, त्या- त्यः काश्री  
८, ७, २५, वीथी २४, १० : ६,  
वीथी १४, १७ : १५, अत्राय ३,  
३; -त्यम् शाश्री १३, २, ७,

काश्री ६३; निम् २, १३ : २३;  
-त्ये वीथी १३, १० : १६; ऋषय  
१, ३८, ४; ५; ऋषया ८, ५; ५;  
-त्यैः दाथी ११, ४, २२; वीथी  
४, ४, २१; १०, २०, ९.

तद्-देवयन<sup>d</sup>- नः वाथी  
४, १८ : ३१.

तद्-देवत<sup>e</sup>- ताः या ७, १; -तम्  
आथी ७, २, १४; काश्री २५, २,  
२३<sup>c</sup>; आपथी; पाय ३, ११,  
१०<sup>c</sup>; -ताः वृदे ८, १०३; -ते  
आथी ६, ६, १८.

तद्-देव्य, त्या<sup>e</sup>- त्यम् वीथी  
१८, ११ : २३; २८, ६ : १३;  
आथिय ३, ९, ३ : २०; -त्याम्  
अत्राय ६, ८.

१ तद्-देव- खे काश्री २५,  
१३, २२.

तद्देन-धर्म- र्मान् विध ३,  
४२.

तद्देव्य<sup>f</sup>- रयानाम् अप  
५८, ४, ५.

२ तद्-देव्य<sup>g</sup>- खानाम् मीत् ९,  
१, २५; १०, ५, ६६.

१ तद्-द्रव्य- व्यागाम् काश्री  
१४, १, १५; आपथ १, ८, ६;  
द्विध १, २, ९४; -व्याग्नि शंघ  
१७६.

तद्द्रव्य-संस्पर्श- शान्त् शय  
३५, १, १६.

२ तद्-द्रव्य<sup>h</sup>- र्वः मीत् ७, ३,  
१६.

तद्-द्रादत- शम् विप ४, ८.

तद्-द्विगुण(ण-आ)याम- मम्  
वीथी २७ : १०.

तद्-धर्म- र्मः मीत् ३, ४, २०;  
६ ७, १४<sup>i</sup>; २८; १०, ३, ३५;  
-र्मण मीत् १०, ६, ५६.

तद्-धर्म<sup>j</sup>- र्मं मीत् ९, ४,  
३०<sup>f</sup>; -र्मा काश्री १, ६, १२;  
आपथी २४, ३, ५३; मीत् ६, १,

४१; ३, २६; -र्मणः वाप १५,  
१६.

तद्धर्म-त्व- त्वात् मीत् १०,  
५, २९.

तद्-घ (< ह) विस- विपः  
आपथी ८, १५, २१.

तद्-घ (< ह) स्त- स्तम् वैद्य  
२, १६ : ३.

३ तद्-घि (< हि) त<sup>b</sup>- तान् वृदे  
१, ३; -तेषु आपथ २, २९, ४;  
द्विध २, ६, १७.

२ तद्-घि (< हि) व<sup>i</sup>- ताः पा  
१, १, ३८; ४, १, १७; पावा ३, २,  
१५, ६०; -तम् शाश १, २४, ४<sup>i</sup>;  
पाय १, १७, २<sup>i</sup>; ३; वैद्य ६, ६; ६<sup>i</sup>;  
वाश ३, १<sup>i</sup>; -तस्य पा ६, १,  
१६४ x x; -ताः पा ४, १, ७६;  
६, २, १५५; पापवा १३; -ते वृदे  
२, १०६; श्रुता ५, ८; २९; अप्रा  
३, ३, २१; शीघ २, ८३; ४, १३;  
पा ६, १, ६१ x x; पावा ३, १,  
१४ x x; -तेषु पा, पावा ७, २,  
११७ x x.

वाहित- तम् या २, ५;  
६; -तेन या २, ५.

तद्वित-मह्य- णम् पावा ७,  
४, १३.

तद्वित-वृषप- र्वा(र्य-श)-  
प्रतिषेवा( ष-अ )र्ष- र्मम्  
पावा ८, ४, ३.

तद्वित-वृषीयस्त्व- त्वम्  
पावा ४, १, १.

तद्वित-लोप- षे पावा ८,  
३, ५६.

तद्वित-वचन- नम् पावा

a) विप. । यत्. । b) त्वात् इति जीर्ण. । c) देवतम् इति कात्. । d) तत्. । e) मनार्थं यत् प्र. ।

f) र्मा इति जीर्ण. । g) वृ. गङ्गा. (वैद्य. प्रयागं, उत्तरेण रामस्तमिति) । h) तत्. उप. १-२ दित-द्र. ।

i) = प्रत्ययसंज्ञा- वा तदन्त- वा । j) पाठे. पृ ८१ b द्र. ।

४,१,१७.

तद्धित-विधानां (न-ञ)र्थ-  
-र्थम् पावा ४,१,१.तद्धित-समास-सन् या २,  
३; -मेपु या २,२.तद्धिता(त-ञ)नुत्पत्ति- -त्तिः  
पावा २,१,५१; ४,१,१.तद्धिता(त-ञ)न्तम् -न्तम्  
कौट १,१६,१३; अत्रा १,२,१२.तद्धिता(त-ञ)र्थ- -र्थेन पावा  
२,१,५१.तद्धितार्थ-निर्देश- -शे  
पावा ४,१,९२तद्धितार्थ-प्रतिषेधा-  
(घ-ञ)र्थ- -र्थम् पावा २,४,१.तद्धितार्थो(र्थ-उ)त्तरपद-  
समाहार- -रे पा २,१,५१.तद्धितो(त-उ)त्पत्ति- -त्तिः  
पावा २,१,५१.तद्धितो(त-उ)दय- -यः  
अत्रा १,१,११.तद्-उ(<ह्र)त- -सौ माण २,  
४,८.तद्-धे(<हे)तु- -तुः मीम्  
११,२,२८.तद्-धो(<हो)म- -मान् अथ  
३६,१८,१.तद्-अन्धन-त्व- -स्वान् मीम्  
८,१,२०.

तद्-अन्धु- -न्धू शंघ ७७.

तद्-अप्य- -अप्य कप्र १,८,२.

तद्-आज्ञा- -आम् मीम् ३,  
१,९.तद्-आज्ञा- -आम् वैण २,  
८:१४.

तद्-अ- -अम् वेणो २६.

तद्-भ(क>)का- -काः वृदे  
१,७२.तद्-भक्ति- > भक्ति-  
-किनाम् अथ ५८,४,४.तद्-भक्ति- -क्तोनि अथ ४८,  
१२६; १४१; १४६.

तद्-भक्ष- -क्षः कौत् १८,२४.

तद्-भगिनी- -न्यः सुधप ८५:२.

तद्-भय- -यम् अथ ६४, ८,५;  
७१,१८,३.

तद्-भर्तृ- -र्तुः विष १७,१९.

तद्-भस्मन्- -स्म वैण ६, ४:  
८; १५:९; -स्मना अथ ३६,  
२५,४.तद्-भार्या-युत्र- -प्रयोः वैष २,  
१२,१; -त्रेषु गौध २,३८.तद्-भार्या-युत्र-सप्रह्वारि-  
सद्- -सद्भ्यः गौध २,४७.तद्-भाव- -वम् वृदे ४, ५०;  
अत्रा १,५६; -वात् काथी ४,  
३,१३.तद्-भाष्य- -ध्यम् या १३,  
१३.तद्-भावि(त>)ना- -ताम्  
कौथी ९,१:८; १०,१:७.तद्-भूत- -तानाम् मीम् १,  
१,२५; -तेषु मीम् ८,२,२९.तद्-भूत-त्व- -वान् मीम् ५,  
३,२२.तद्-भूत-वचन- -नात् मीम्  
१०,१,२०.तद्-भूत-स्धान- -नात् ११,  
३,२४.तद्-भेद- -दात् मीम् २, २,  
१५; ७,१,३; ११,१,५३; २,१०;  
४; २४; -दे काथी १,७,४.

तद्-भ्रातृ- -तरः सुधप ८५:२.

तद्-वाजिन्- -जिनः विष ८२,  
१७.तद्-युक्त- -क्तम् मीम् १२, १,  
१७; -क्तस्य मीम् ३, ४, १५;  
९, १, १६; -क्तात् पा ५, ३,  
७७; ४, ३६; पावा २, ३, २६;  
३५; ४, २, ३; ५, ३, ७४;  
-क्तानाम् क्रया १, ५८; -क्ते  
मीम् ३,७,९; ५, ४, १९; ६,७,  
२७; १०,५,६६.तद्-युक्त-त्व- -स्वात् आमिण्  
३,१,१:५.तद्-युक्ति-प्रतिरूपक- -क्तेः  
विष ७,१२०.तद्-योग- -गाः आपथी १८,  
१९, २; आपथ २, १०, १०;  
हिष २,४,१०.तद्-योनि-पूर्व- -त्व- -स्वात्  
मीम् १०,४,४२.तद्-रक्षण-धर्म- > ष(मिन्-  
>)मिन्-त्व- -स्वात् गौध १०,  
२७.

तद्-रस- -सान् वैष ३,१४,५.

तद्-(र&gt;)ता- -रा या ५,१३.

तद्-राज- -जः पावा ४, १,  
९५; -जस्य पा २, ४, ६२;  
-जाः पा ४, १, १७४; ५, ३,  
११९; -जात् पावा २,४,५८.तद्-राजा(ज-आ)दि- -दीनाम्  
पावा २,४,६२.तद्-रूप- -यम् साथी १०, ५,  
१३; निम् ३, १२:३२; ४३;  
१०,१३:६; वैण ४, १०:४;  
वैष ३,९,४.

तद्-रूप- -यः निष ३,१३.

a) विष.। बत.। b) उप. = राजाण-। c) उप. = नक्षत्र-। d) युक्तम् इति जीतं.। e) पितृः  
इति जीतं.। f) मत्वर्थीयः रः प्र.। g) = प्रथमर्गज्ञ-। पत. समासान्तत् एषु प्र.।

-पद् शांभौ १३, २, ७; बौध्री;  
-पाः वैष्ट ५, १३ : २५; व्यास  
१ : ८; -पान् व्यप ५२, १४, ५.  
तद्गुण-स्व- -स्वात् मीम् २,  
१, ३८; ६, ५, ३.  
तद्-रूप-वर्ण-व्ययस्- -व्यसम्  
आपथी ९, १८, ५, ८.  
तद्-वैश-विनाश- -शाः वैष्ट ७,  
८ : ११.  
तद्-तच्छ- -च्छ्व पाथ ३, ६.  
तद्-वचन- -न्वात् मीम् १०,  
२, ६८; ५, १, १७; ९, ३, २४.  
तद्बचन-स्व- -स्वात् काथौ  
१, ३, ४; २, ८, ४; ७, १, १०;  
८, ३, २८; मीम् ३, ५, ३५.  
तद्-वचन- -न्वाः आथौ १, ३,  
१५.  
तद्-वत् काथौ १०, ९, ३०; १७,  
१२, १८; आपथौ; पावा १, १,  
६९; ३, १; ७, १, ९५; पात्रवा  
१, १४.  
तद्-अतिदेश- -भो पावा  
१, २, १.  
तद्-वत्- -वत् या १२, ३०;  
-वत्तः पावा १, १, ५९; -वति  
शुभा ५, ८; -वतः या ३, ८;  
-वान् या ३, १९; ७, ८; १२,  
२५; ३०; १४, ४, १२५.  
तद्-वती- -ती या ९,  
२६.  
तद्-अर्थ- -र्थे या ६, २१.  
तद्-वृ-> -वृ-निर्देश- -न्वात्  
पावा ५, २, ७९.  
तद्-वयस्- -व्यसम् काथौ २५,  
९, १; बौध्री १८, ११ : २३;

२८, ६ : १२; माथी ३, ५, २;  
द्विथी १५, ८, ६; ११.  
तद्-वर्णम् काथौ ७, ११, १०;  
पावा ६, १, १५४; मीम् ३,  
६, ३.  
तद्-वर्ण- -र्णः निष ३, १३१;  
-र्णम् काथौ २५, ९, १०; बौध्री  
१८, ११ : २३; २८, ६ : १२;  
माथी ३, ५, २; द्विथी १५, ८, ६;  
११; अत्राय २, ९; ५, ५.  
तद्-वर्ण-वर्ण- -र्णः वैष्ट ७,  
१३ : १४.  
तद्-वर्ण-संहरा(र-अ)मद्य-  
नियम- -मः गौष ७, २४.  
तद्-वर्तन- -न्वात् बौध ३, १, २.  
तद्-वर्ष- -र्षात् व्यप ७१, ५, २.  
तद्-वशा- -शेन निम् ९, २ :  
१६; १०, २ : २९.  
तद्-वस्त्रा(स्त्र-आ)दि- -दीन्  
वैष ३, १५, ११०.  
तद्-वहन- -न्म वैष ३, ८, ७.  
तद्-व्याचक- -कम् मीम् ७, १,  
१६.  
तद्-व्याचक-स्व- -स्वात् पावा  
२, १, ५५.  
तद्-व्याचिन्- -चिनः पावा १,  
१, ६८.  
तद्-वाद- -दः काथौ १२, ४,  
२१.  
तद्-वामिन्- -मिनः काथौ १९,  
२, ११.  
तद्-विकार- -रः मीम् ३, ६,  
१०×४; -रात् मीम् ९, २, ४८;  
-रे मीम् ५, ३, १२; -रेषु द्विथी  
७, ५, ६४; ६५; ६६.

तद्विकार-तत्तः (ः) पावा ३,  
३, २०.  
तद्विकार-स्व- -स्वात् मीम्  
८, १, ५.  
तद्विकारा(र-अ)गान- -भो  
शेष ७१८; ७२७.  
तद्-विपात- -त्स्य पावा १,  
१, ३९.  
तद्-विद्- -विदः विष ९६,  
९७; -विदात् गौष १, २; -विदि  
मीम् ३, ३, ५; -विद्म्यः गौष्ट  
१, ५, ११.  
तद्-विष, घा- -घा बौध १,  
३, ४९; विष २९, ८; -क्षेपु  
बौध ३, ७, १०.  
तद्-विधान- -नस्य पावा ३,  
२, ८४; ३, १३३; -न्वात् पावा  
६, ४, ११४; ८, ४, ३०.  
तद्-विधि- -धिः पावा ५, १,  
११; पात्रवा ७, ९; मीम् ८, ४,  
१८६.  
तद्विधि-निर्णय- -ये द्वि  
१, ३.  
तद्-विन्यास- -सः कप्र २,  
४, १.  
तद्-विपर्याप्त- -सम् गौष्ट ५,  
२, ९; -न्ते पावा २, ३, ३६.  
तद्-विशुष्- -मुषः वैष ३, ४, ९.  
तद्-विनाश- -शीनि निम् ५,  
१ : १३.  
तद्विनाश-पर-पूर्व- -र्वम्  
अत्रा २, ४, ३.  
तद्-विभाग- -भो पावा ३, ३,  
१३७; मीम् १०, ६, ५.  
तद्-विभाषित- -तः विष ६, २०.

a) विप. । वत्त. > वत्स. । b) विप. । वत्त. । c) द्व. वीर्ष. । d) विप. । तस. > वत्स. ।

e) 'दीन्' शब्द इत्यस्य स्थाने 'द्वि' आदिमाही इति C. । f) उप. < > विद् [ज्ञाने] । g) विधिः इति जोत. ? ।

h) समानविभक्तिः परी ना पूर्वो ना वस्माद् इति वत्स. द्र. ।

तद्-विमोह-के मीम् १२, २,  
११.

तद्-विभोग-नात् या ३, १५.

तद्-विबृद्धि-द्धेः लाथी ५,  
११, ११.

तद्-विबृद्ध-हात् कौम् ७५,  
१०.

तद्-विशिष्ट, घा-ष्टम् मीम् ९,  
१, ४१; -घाः मीम् ८, ३, १०.

तद्-विशेष-यः ऋपा १३, ८;  
-यम् आप्तु २, २; द्विगु १,  
२३; -पणाम् पावा १, १, ६८<sup>१</sup>;

-येभ्यः पावा ४, ३, ११६.

तद्-विशेषक-कः पावा ८, ३,  
६५.

तद्-विशेषक-स्व-स्वात् पावा  
२, १, ५७.

तद्-विशेषण-णम् पावा ३,  
४, १०२; -णैः पावा २, २, ८.

तद्-विषय-ये पावा ३, २,  
१०८; ४, २, १०४.

तद्-विषय-यः पावा ४,  
२, ६६; -यम् पावा १, २, ७१;

२, ३, २९; -यात् पा ५, ३,  
१०६; -वाणि पा ४, २, ६६.

-वौ मीम् ९, २, ५८.

तद्-विषय-ता-ता पावा  
१, १, ४४.

तद्-विषय-द्वन्द्व-नात् पा  
१, २, ७१; २, २, २९.

तद्-विषय-प्रसङ्ग-ङ्गः पावा  
४, ३, ६६; ४, ३०.

तद्-विषय-वचन-नाम्, -नात्  
पावा ४, २, ६६.

तद्-विष्णोरो(र-उ)ष्ट्व-  
-यम् वैट् ५, ३ : १५.

तद्-वृत्ति-त्तिः गीष् ८, ७;  
-स्या गीष् १०, १८.

तद्-वृद्धि-द्धेः द्राथी १५,  
३, ११.

तद्-वैद-वर्ण-ङ्-झ-झः शैशि  
३५५.

तद्-वेला-स्वाम् या १२,  
१३.

तद्-व्यञ्जन-नम् आप्तौ  
१७, १७, १०; द्विथी ३, ८, ८६;  
१२, ६, ४.

तद्-व्यतिक्रम-मे आप्तु २,  
२७, ६; द्विथी २, ५, २२५.

तद्-व्यपदेश-दाम् मीम् १,  
४, ५.

तद्-व्यवगृहीत-तानि वीथी  
२३, ३ : १७; १९.

तद्-व्यवेत-तैः लाथी ८,  
११, ६.

तद्-व्यत-तम् काथी ७, ४,  
२२.

तद्-व्यत-स्त-काथी ४, ४,  
१८, ६, २१.

तद्-व्यत-तः काथी २५,  
४, ३७; माथी ३, १, १५, गीष्  
२४, १२.

तद्-नपात्-पातम् वृद्धे ७,  
३५.

तद्-नाद्-यः कौशि ७३.

तद्-नाम्-म वैट् ३, २२ :  
७; -स्ना वैट् २, १ : १०; ५,  
१५ : ३; ७, ६-८ : ४; अत्र  
३६, १७, १.

तद्-नाम्-म वैट् ३, २२ :  
७; -स्ना वैट् २, १ : १०; ५,  
१५ : ३; ७, ६-८ : ४; अत्र  
३६, १७, १.

तद्-नाम्-म वैट् ३, २२ :  
७; -स्ना वैट् २, १ : १०; ५,  
१५ : ३; ७, ६-८ : ४; अत्र  
३६, १७, १.

तद्-नाम्-म वैट् ३, २२ :  
७; -स्ना वैट् २, १ : १०; ५,  
१५ : ३; ७, ६-८ : ४; अत्र  
३६, १७, १.

तद्-नाम्-म वैट् ३, २२ :  
७; -स्ना वैट् २, १ : १०; ५,  
१५ : ३; ७, ६-८ : ४; अत्र  
३६, १७, १.

१२८; -मिन् पा ४, २, ६७.

तद्-नाम्-गोथ-त्राम्याम्  
विथ २१, ३.

तद्-ना(मक>)मिका-काम्यः  
पा ४, १, ११३.

तद्-नात्-नो वैथी १८, १९ :  
२७.

तद्-निकामन-नात् द्राथी  
२५, ३, १२; लाथी ५, ११,  
१२.

तद्-निधान-नात् या २, ७.

तद्-निध-भैः अत्र ७०<sup>३</sup>, १५,  
४.

तद्-निगमन-मन्. विथ २२,  
१०; ६३.

तद्-निमित्त-त्तः आप्तु १,  
६; द्विगु १, १०; -त्तस्य पा ६,  
१, ८०; -से गीष् २२, ६.

तद्-निमित्त-मद्गण-णम् पावा  
१, १, ५; २, १, २; ४, १, ८८.

तद्-निमित्त-स्व-स्वात् वाथ  
४, २२; पावा ५, १, २८; ६, ४,  
५२; ८, २, २; मीम् १, १, २५;  
३, १, ४४.

तद्-नियुक्त-कायस्य-कृत-  
-तम् विथ ७, ३.

तद्-नियोग-गाय निम् ३  
१० : १८.

तद्-निर्दत्त-साः पावा ५, २,  
४८; ६, १, ८४.

तद्-निर्मातृ-ता या ६, ९.

तद्-निर्वृत्ति-त्तः काथी १, ७,  
१७, ४, ३, १०<sup>१</sup>१. -स्या मीम्  
११, १, २७, ४, २.

तद्-निवाम-सात् या १०,  
४४; ११, ४५.

तद्-निवाम-सात् या १०,  
४४; ११, ४५.

तद्-निवाम-सात् या १०,  
४४; ११, ४५.

तद्-निवाम-सात् या १०,  
४४; ११, ४५.

a) धम. उप. = विध्यैद-। b) विप.। वत्.। c) विप.। वत्. > दत्.। d) विवृत्तः इति पाठः ?  
यनि. गोथः (द्र. वीथी.)।

तद्-विमोह- -के मीत् १२, ३, १२.  
 तद्-वियोग- -नात् या वे, १५.  
 तद्-विकृति- -द्वैः साधौ ५, ११, ११.  
 तद्-विग्रह- -हात् कौम् ७५, १०.  
 तद्-विशिष्ट, छा- -एम् मीम् ९, १, ५१; -छाः मीम् ८, ३, १०.  
 तद्-विशेष- -यः ऋप्रा १३, ८; -यम् आप्ठु २, २; द्विशु १, २३; -पापाम् पावा १, १, ६८; -वेग्यः पावा ४, २, ११६.  
 तद्-विशेषक- -कः पावा ८, ३, ६५.  
 तद्विशेषक-व- -त्वात् पावा २, १, १७.  
 तद्-विशेषण- -णम् पावा ३, ४, १०२; -णैः पावा २, २, ८.  
 तद्-विषय- -ये पावा ३, २, १०८, ४, ३, १०४.  
 तद्-विषय- -यः पावा ४, २, ६६, -यस् पावा १, ३, ७१; २, २, २१; -यात् पा ५, ३, १०६; -याणि पा ४, २, ६६; -यौ मीम् २, २, ५८.  
 तद्विषयन्ता- -न्ता पावा १, १, ४४.  
 तद्विषय-वृत्त- -नात् पा १, ३, ७१; २, २, २९.  
 तद्विषय-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ४, २, ६६; ४, २, ०.  
 तद्विषय-वचन- -नम्, -नात् पावा ४, २, ६६.  
 तद्-विस्मारा(र-उ)च्छुत्- -यम् वैश ५, ३; १५.

तद्-वृत्ति- -त्तिः मीध ८, ५; -त्वा मीध १०, १८.  
 तद्-वृद्धि- -द्धैः साधौ १५, ३, ११.  
 तद्-वेद्-वर्ग- -व- -वः शक्ति ३, ५५.  
 तद्-वेला- -लायाम् या १२, १३.  
 तद्-व्यञ्जन- -नम् आप्थौ १७, १७, १०; द्विधौ ३, ८, ८६; १२, ६, ४.  
 तद्-व्यतिक्रम- -मे आप्थ २, २७, ६; द्विध २, ५, २२५.  
 तद्-व्यपदेश- -याम् मीत् १, ४, ५.  
 तद्-व्यवहारीव- -तानि वीधौ २३, ३; १७; १९.  
 तद्-व्यवेत- -तैः साधौ ८, ११, ६.  
 तद्-व्यव- -वम् काधौ ७, ४, २२.  
 तद्-व्यव-धुति- -धेः काधौ १८, ६, ३१.  
 तद्-व्यव- -वः काधौ २५, ४, ३७; माधौ ३, १, १५, मीध २४, १२.  
 तद्-नपाद्- -पावम् रुदे ७, ३५.  
 तद्-नाद्- -दः कौशि ७३.  
 तद्-नामन्- -म वैशु ३, २२; ७; -म्ना वैशु २, १; १०; ५, १५; ३; ७, ६-८; ४; अण ३६, १७, १.  
 तद्नाम(म-आ)दि- -दिना वैशु १, ३; १२; ४; ६.  
 तद्-नामन्- -मा रुदे २,

१२८; -मिन् पा ४, २, १७.  
 तद्-नाम-नाथ- -नाथाम् विष २१, ३.  
 तद्-ना(मक- >)निका- -काम्यः पा ४, १, ११३.  
 तद्-नास- -सै वैधौ १८, १९; २७.  
 तद्-निकामन- -नात् साधौ २५, ३, १२; साधौ ५, ११, १२.  
 तद्-निधान- -नात् वा २, ७.  
 तद्-निध- -धैः अण ७०, १५, ४.  
 तद्-निमग्न- -नः विष २२, १०; ६३.  
 तद्-निमित्त- -सः आप्ठु १, ६; द्विशु १, १०; -सस्य वा ६, १, ८०; -त्ते मीध २२, ६.  
 तद्विमित्त-प्रहण- -णम् पावा १, १, ५; २, १, २; ४, १, ८८.  
 तद्विमित्त-व्य- -व्यात् वाष ४, २२; पावा ५, १, २८; ६, ४, ५२; ८, २, २; मीम् १, १, २५; ३, १, ४४.  
 तद्-नियुक्त-कायस्य- -कृत- -वम् विष ७, ३.  
 तद्-नियोग- -गाय निम् ३, १०; १८.  
 तद्-निर्देश- -शः पावा ५, २, ४८; ६, १, ८४.  
 तद्-निर्मातृ- -ता सा ६, ९.  
 तद्-निर्वाच- -चः काधौ १, ७, १७; ४, ३, १०१. -त्वा मीध ११, १, २७, ४, २.  
 तद्-निवास- -सात् या १०, ४४; ११, ४५.

a) पल. वण. = विच्छेद-। b) विष.। वल.। c) विष.। वल. > वल.। d) निवृत्तेः इति पाठः।  
 यनि. शोषः (तु. वीथे.)।

आमिष्ट ३, ६, १ : १०<sup>०</sup>; वीपि  
१, ८ : १<sup>०</sup>; -१नुवम् आपथी  
१, २५, १<sup>०</sup>; १०, ६, ६; वीथी  
१, १० : १<sup>०</sup>××; माथी १, २६,  
७<sup>०</sup>××; वैथी, हिथी १, ६,  
५२<sup>०</sup>; भाष्ट २, ३० : १४<sup>०</sup>,  
-१नुवा आपथी १०, ३, ८;  
वीथी, -१नुवे आपथी ४,  
१६, ५<sup>०</sup>; ५, १५, ५; वीथी  
३, १२ : २३<sup>०</sup>; माथी ४, २१, ४<sup>०</sup>;  
हिथी ६, ४, २६<sup>०</sup>; पाष्ट ३, १,  
४<sup>०</sup>, जैष्ट १, २४ : ६<sup>०</sup>, -१नुवे  
आपथी ९, १, १७<sup>०</sup>, १४, २९,  
३<sup>०</sup>; माथी ९, १, १७<sup>०</sup>, हिथी  
१५, १, १८<sup>०</sup>; ७, १६<sup>०</sup>; आमिष्ट  
३, ६, ३ : १९<sup>०</sup>, ७, १ : १३<sup>०</sup>;  
वीपि १, ११ : १६<sup>०</sup>; १७ :  
१२<sup>०</sup>; हिष्ट १, १६, ७; -१नुवौ  
आपथी ५, १५, २<sup>०</sup>; वीथी; -१  
जैथी २३ : ८; जैथीका ५२;  
आपम १, ११, २<sup>०</sup>; काष्ट ३०,  
३<sup>०</sup>, वाष्ट १६, १<sup>०</sup>; तैषा ४, ५२;  
-१नुः आथी ३, १०, ६, ८,  
१३, १२; वाथी, या ८, ५,  
-१नुवाम आपथी १४, १६, १,

१७, ९, १; वीथी; -१नुभिः  
आथी २, ११, १२; वाथी;  
-१नुस्यः आपथी ३, ११, २;  
वीथी; -१नुस् आथी २, १९,  
३२<sup>०</sup>; वाथी ३, १७, १<sup>०</sup>; काथी  
५, ३, १४<sup>०</sup>; २५, ६, ७<sup>०</sup>;  
आपथी, वीथी १, १२ : २१<sup>०</sup>;  
वाथी १, ३, २, २१<sup>०</sup>, आपम १,  
२, ७<sup>०</sup>; पाष्ट २, १, ९<sup>०</sup>; -१नु  
वाथी १८, ११, २; आपथी;  
-१नो या २, १२; -१नुवः  
आथी २, ५, १××; वाथी २,  
११, ३<sup>०</sup>, ४, ११, ६<sup>०</sup>; काथी;  
माथी १, ६, ४, २५<sup>०</sup>; वाथी १,  
५, ५, ८<sup>०</sup>; द्राथी ४, १, ८<sup>०</sup>;  
लाथी २, १, ७<sup>०</sup>; कौस् ४६,  
१४<sup>०</sup>; ७४, १९<sup>०</sup>; या ८, ५;  
-१नुवम् आथी ३, ११, ११;  
वाथी; आपथी ७, ६, ५<sup>०</sup>; ९,  
६, ३<sup>०</sup>; माथी ९, ८, ६<sup>०</sup>; माथी  
१, २, ३, २८<sup>०</sup>; ७, ३, ४<sup>०</sup>;  
वाथी १, ६, २, १<sup>०</sup>; ६, ११<sup>०</sup>;  
वैथी २०, ११ : ४<sup>०</sup>; या १,  
८ : १९; ३, २१; १०, १८<sup>०</sup>;  
४<sup>०</sup>; -१नुवा आथी २, ५, १०;

३, ८, १०; वाथी; माथी १, ३,  
५, १८<sup>०</sup>; ८, ३, २९<sup>०</sup>; ४, ३६<sup>०</sup>;  
वाथी १, ५, ४, २९<sup>०</sup>; ६, ४, ३४<sup>०</sup>;  
माष्ट २, ४, ५<sup>०</sup>; कौस् ४४, १४<sup>०</sup>;  
४५, ११<sup>०</sup>; या २, १२<sup>०</sup>; १२,  
३; -१नुवाः पाष्ट २, ४, ७<sup>०</sup>;  
-१नुवाम आथी २, १९, ३२<sup>०</sup>;  
वाथी ३, १७, १<sup>०</sup>; काथी २५,  
६, ७<sup>०</sup>; माथी; -१नुवीइ<sup>०</sup> ऋषा८,  
१५<sup>०</sup>; -१नुवे माथी ३, ४, १<sup>०</sup>;  
या १४, २६; -१नुवै<sup>०</sup> कौष्ट ५,  
५, ६<sup>०</sup>; -१नुवा<sup>०</sup> वाथी १४, २९,  
३; ६; काथी २६, ४, १२<sup>०</sup>;  
वाथी १, ५, ४, ३८<sup>०</sup>.

१तान्व<sup>०</sup> - न्वः या ३, ६<sup>०</sup>क.

तनुकृत्<sup>०</sup> - कृद्भ्यः वैथी १४,  
१४ : १३<sup>०</sup>क.

तनु<sup>०</sup>स्व<sup>०</sup>स्व<sup>०</sup> - स्वक् या ३  
१४; -स्वजः आमिष्ट ३, ४, ४ :  
११; वीपि १, ५, २९<sup>०</sup>क; वीपि  
३, ४, १४; १५; आपथ २, २६,  
३; हिष्ट २, ५, १९<sup>०</sup>; -स्वजा  
या ३, १४<sup>०</sup>क.

तनु-स्वाग-सदश- -शः विष्ट ३,  
४४.

a) सपा. ऋ १०, १६, ४ तन्वः इति पाठे. । b) पाठे. वैप १, १४५५ f द. । c) सपा. शी ६,  
१२४, २ तन्वः इति पाठे. । d) पाठे. वैप १, १४५६ k द. । e) पाठे. वैप १, १४५७ j द. । f) पाठे. वैप  
१, १४५८ a द. । g) संहितायां सानुनासिकत्वं द. । h) = सपा. तै १, ७, १२, २ मै १, १०, ३ ऐसा १, ३, ४ ।  
काठ ९, ६; १४, ३; ४५. १२ तु तन् इति, शी ७, ३, १ तन्वा इति च पाठे. । i) पाठे. वैप १, १४५८ a द. ।  
j) पाठे. वैप १, १४५७ a द. । k) पाठे. वैप १, १४५६ g द. । l) पाठे. वैप १, १४५५ i द. । m) सप.  
शी १०, ५, २३ विशिष्टः पाठे. । n) पाठे. वैप १, १४५५ m द. । o) पाठः ? न्वाय इति शोध. (तु. माथी  
३, २, ५ हिथी १५, २, ११) । p) पाठे. वैप १, १४५८ c द. । q) पाठे. वैप १, १४५६ k द. । r) पाठे.  
वैप १, १४५६ b द. । s) पाठे. वैप १, १४५६ c द. । t) पाठः ? त्व इति शोधः (तु. तै १, ५, १०, १) ।  
u) = सपा. मै १, १०, ३ ऐसा १, ३, ४ । काठ ९, ६; १४, ३, ४५. १२ शी ७, ३, १ तु तन्वम् इति, तै १, ७, १२, १  
तनुवाम इति च पाठे. । v) ण्वि इति पपा. । w) पाठे. वैप १, १४५६ i द. । x) उत्तरेश संघिरार्यः  
y) पाठे. वैप २. ३६ तनुवे तैसा ६, ४, १ टि. द. । z) वैप १, १४६० f द. । a') = तनु-कृत्. । b') सपा.  
ऋ ८, ७९, ३ प्रष्ट. तनुकृद्भ्यः इति पाठे. । c') या. पाठः । d') पाठः ? तनुवच्- > -त्वचः इति शोधः  
(तु. सपा. हिष्ट १, २४, ४ त्वचः इति पाठे.) ।



आमिष्ट ३, ६, १ : १०<sup>०</sup>; वीपि  
१, ८ : १<sup>०</sup>; -तन्वम् आपथी  
१, २५, १<sup>०</sup>; १०, ६, ६; वीथी  
१, १० : १<sup>०</sup> × ×; माथी १, २६,  
७<sup>०</sup> × ×; वैथी; हिथी १, ६,  
५२<sup>०</sup>; माथ २, ३० : १४<sup>०</sup>;  
-तन्वया आपथी १०, ३, ८;  
वीथी; -तन्वे आपथी ४,  
१६, ५<sup>०</sup>; ५, १५, ५; वीथी  
३, १२ : २३<sup>०</sup>, माथी ४, २१, ४<sup>०</sup>;  
हिथी ६, ४, २६<sup>०</sup>; पाथ ३, १,  
४<sup>०</sup>; जैथ १, २४ : ६<sup>०</sup>; -तन्वै  
आपथी २, १, १७<sup>०</sup>; १४, २६,  
२<sup>०</sup>; माथी २, १, १७<sup>०</sup>; हिथी  
१५, १, १८<sup>०</sup>; ७, १६<sup>०</sup>; आमिष्ट  
३, ६, ३ : ११<sup>०</sup>, ७, १ : १३<sup>०</sup>,  
वीपि १, ११ : १६<sup>०</sup>; १७ :  
१२<sup>०</sup>; हिथ १, १६, ७; -तन्वो  
आपथी ५, १५, २<sup>०</sup>; वीथी; -न्  
जैथी २३ : ८; जैथीका ५२;  
आपथं १, ११, २१<sup>०</sup>; काथ ३०,  
३१, पाथ १६, ११<sup>०</sup>, तैथा ४, ५२;  
-तन्वः आथी ३, १०, ६; ८,  
१३, १२; दाथी; या ८, ५;  
-तन्वाम् आपथी १४, १६, १;

१७, ९, १; वीथी; -तन्मिः  
आथी २, ११, १२; दाथी;  
-तन्व्याः आपथी ३, ११, २;  
वीथी; -तन्व् आथी २, १९,  
३२<sup>०</sup>; दाथी ३, १७, १<sup>०</sup>; काथी  
५, २, १४<sup>०</sup>; २५, ६, ७<sup>०</sup>;  
आपथी; वीथी १, १२ : २१<sup>०</sup>;  
नाथी १, ३, २, २१<sup>०</sup>; आपथं १,  
२, ७<sup>०</sup>; पाथ २, १, १<sup>०</sup>; -तन्वु  
दाथी १८, ११, २; आपथी;  
-नो या २, १२; -तन्वः  
आथी २, ५, १ × ×; दाथी २,  
११, २<sup>०</sup>; ४, ११, ६; काथी;  
माथी १, ६, ४, २५<sup>०</sup>; वाथी १,  
५, ५, ८<sup>०</sup>; दाथी ४, १, ८<sup>०</sup>;  
दाथी २, १, ७<sup>०</sup>; वीत् ४६,  
१४<sup>०</sup>, ७४, ११<sup>०</sup>; या ८, ५;  
-तन्वम् आथी ३, ११, ११;  
दाथी; आपथी ७, ६, ५<sup>०</sup>; ९,  
६, ३<sup>०</sup>; माथी ९, ८, ६<sup>०</sup>; नाथी  
१, २, ३, २८<sup>०</sup>; ७, ३, ४<sup>०</sup>;  
नाथी १, ६, २, १<sup>०</sup>; ६, ११<sup>०</sup>;  
वैथी २०, ११ : ४<sup>०</sup>; या १,  
८; १९; ३, २१; १०, १८<sup>०</sup>;  
४<sup>०</sup>; -तन्वा आथी २, ५, १०;

३, ८, १०; दाथी; माथी १, ३,  
५, १८<sup>०</sup>; ८, ३, २९<sup>०</sup>; ४, ३६<sup>०</sup>;  
वाथी १, ५, ४, २९<sup>०</sup>; ६, ४, ३४<sup>०</sup>;  
माथ २, ४, ५<sup>०</sup>; वीत् ४४, १४<sup>०</sup>;  
४५, ११<sup>०</sup>; या २, १२S; १२,-  
३; -न्याः पाथ २, ४, ७<sup>०</sup>;  
-तन्वाम् आथी २, १९, ३२<sup>०</sup>;  
दाथी ३, १७, १<sup>०</sup>; काथी २५,  
६, ७<sup>०</sup>, नाथी; -तन्वी ३<sup>०</sup> ऋषा ८,  
१५<sup>०</sup>; -तन्वे माथी ३, ४, १<sup>०</sup>;  
या १४, २६; -वै<sup>०</sup> कौथ ५,  
५, ९<sup>०</sup>; -वी<sup>०</sup> दाथी १४, २९,  
३; ६; काथी २६, ४, १२<sup>०</sup>;  
वाथी १, ५, ४, ३८<sup>०</sup>.

१तन्व<sup>०</sup> - न्यः या ३, ६<sup>०</sup> कृ.  
तनु-कृ<sup>०</sup> - कृ<sup>०</sup> न्यः वैथी १४,  
१४ : १३<sup>०</sup> कृ.  
तनु-न्<sup>०</sup> न्यन् - न्यक् या ३  
१४; -न्यजः आमिष्ट ३, ४, ४ :  
११; वीथ १, ५, २९<sup>०</sup>; वीपि-  
३, ४, १४; १५; आपथ २, २६,  
३; हिप २, ५, १९३; -न्यजा  
या ३, १४<sup>०</sup> कृ.  
तनु-न्यज-सददा - दाः विथ ३,  
४४.

- a) सपा. ऋ १०, १६, ४ तन्वः इति पामे. । b) पामे. वैप १, १४५५ इ. । c) सपा. शी ६, १२४, २ तन्वः इति पामे. । d) पामे. वैप १, १४५६ इ. । e) पामे. वैप १, १४५७ इ. । f) पामे. वैप १, १४५८ इ. । g) सदितामा सानुनामिकत्वं इ. । h) = सपा. तै १, ७, १२, २ मे १, १०, ३ ऐषा १, ३, ४ । काठ ९, ६; १४, ३; ४५, १२ तु छन् इति, शी ७, ३, १ तन्वा इति च पामे. । i) पामे. वैप १, १४५८ II इ. । j) पामे. वैप १, १४५७ III इ. । k) पामे. वैप १, १४५६ III इ. । l) पामे. वैप १, १४५५ I इ. । m) सप. शी १०, ५, २२ विशिष्टः पामे. । n) पामे. वैप १, १४५५ III इ. । o) पाठः ? न्वाम् इति शोधः (तु. माथी ३, २, ५ हिथी १५, २, ११) । p) पामे. वैप १, १४५८ W इ. । q) पामे. वैप १, १४५९ k इ. । r) पामे. वैप १, १४५६ B इ. । s) पामे. वैप १, १४५६ C इ. । t) पाठः ? वद इति शोधः (तु. तै १, ५, १०, १) । u) = सपा. मे १, १०, ३ ऐषा १, ३, ४ । काठ ९, ६; १४, ३; ४५, १२ दाी ७, ३, १ तु तन्वम् इति, तै १, ७, १२, १ तनुवाम् इति च पामे. । v) न्वि इति पमा. । w) पामे. वैप १, १४५६ i इ. । x) उत्तरेण संभारतः । y) पामे. वैप २, ३४ तनुवे तैषा ६, ४, १ डि. इ. । z) वैप १, १४६० f इ. । a<sup>1</sup>) = तन्-कृ- । b<sup>1</sup>) सपा. ऋ ८, ७९, २ प्रथ. छन्कृत्तवः इति पामे. । c<sup>1</sup>) या. पाठः । d<sup>1</sup>) पाठः ? तनुवच्- > -त्वचः इति शोधः (तु. सपा. हिथ १, २४, ४ त्वचः इति पामे.) ।

आमिष्ट ३, ६, १ : १०<sup>०</sup>; वीपि  
१, ८ : ९<sup>०</sup>; -तनुवम् आपथी  
१, २५, ९<sup>०</sup>; १०, ६, ६; वीथी  
१, १० : ९<sup>०</sup>xx; माथी १, २६,  
७<sup>०</sup>xx; वैथी; द्विथी १, ६,  
५२<sup>०</sup>; भाष्ट २, ३० : १४<sup>०</sup>,  
-तनुवा आपथी १०, ३, ८;  
वीथी, -तनुवे आपथी ४,  
१६, ५<sup>०</sup>; ५, १५, ५; वीथी  
३, १२ : २३<sup>०</sup>; माथी ४, २१, ४<sup>०</sup>;  
द्विथी ६, ४, २६<sup>०</sup>; पाष्ट ३, १,  
४<sup>०</sup>; जैष्ट १, २४ : ६<sup>०</sup>; -तनुवे  
आपथी ९, १, १०<sup>०</sup>; १४, २९,  
३<sup>०</sup>; माथी ९, १, १०<sup>०</sup>; द्विथी  
१५, १, १८<sup>०</sup>; ७, १६<sup>०</sup>; आमिष्ट  
३, ६, ३ : १९<sup>०</sup>, ७, १ : १३<sup>०</sup>,  
वीपि १, ११ : १६<sup>०</sup>; १० :  
१२<sup>०</sup>, द्विष्ट १, १६, ७; -तनुवी  
आपथी ५, १५, २<sup>०</sup>; वीथी; -न्  
जैथी २३ : ८; जैथीका ५२;  
आपम १, ११, २<sup>०</sup>; काष्ट ३०,  
३<sup>०</sup>, काष्ट १६, १<sup>०</sup>; तैषा ४, ५२;  
-तन् आपथी ३, १०, ६; ८,  
१३, १२; शाथी, या ८, ५,  
-तनुताम् आपथी १४, १६, १;

१७, ९, १; वीथी; -तनुभिः  
आथी २, ११, १२; शाथी;  
-तनुम्यः आपथी ३, ११, २;  
वीथी; -तन्म् आथी २, १९,  
३२<sup>०</sup>; शाथी ३, १७, १<sup>०</sup>; काथी  
५, २, १४<sup>०</sup>; २५, ६, ७<sup>०</sup>;  
आपथी, वीथी १, १२ : २१<sup>०</sup>;  
वाथी १, ३, २, २१<sup>०</sup>, आपम १,  
२, ७<sup>०</sup>, पाष्ट २, १, ९<sup>०</sup>; -तनुष्ट  
शाथी १८, ११, २; आपथी;  
-०न् या २, १२; -तन्वः  
आथी २, ५, ९xx; शाथी २,  
११, ३<sup>०</sup>, ४, ११, ६<sup>०</sup>; काथी;  
माथी १, ६, ४, २५<sup>०</sup>; वाथी १,  
५, ५, ८<sup>०</sup>, द्राथी ४, १, ८<sup>०</sup>;  
ळाथी २, १, ७<sup>०</sup>; कौम् ४६,  
१४<sup>०</sup>; ७४, १९<sup>०</sup>; या ८, ५;  
-तन्वम् आथी ३, ११, ११,  
शाथी, आपथी ७, ६, ५<sup>०</sup>; ९,  
६, ३१<sup>०</sup>; माथी २, ८, ६<sup>०</sup>; माथी  
१, २, ३, २८<sup>०</sup>; ७, ३, ४<sup>०</sup>;  
याथी १, ६, २, १<sup>०</sup>, ६, ११<sup>०</sup>;  
वैथी २०, ११ : ४<sup>०</sup>; या १,  
८; १९; ३, २१; १०, १८<sup>०</sup>;  
४<sup>०</sup>; -तनुवा आथी २, ५, १०;

३, ८, १९; शाथी; माथी १, ३,  
५, १८<sup>०</sup>; ८, ३, २९<sup>०</sup>; ४, ३६<sup>०</sup>;  
वाथी १, ५, २, २९<sup>०</sup>; ६, ४, ३४<sup>०</sup>;  
माष्ट २, ४, ५<sup>०</sup>; कौम् ४४, १४<sup>०</sup>;  
४५, ११<sup>०</sup>; या २, १२४; १२,  
३; -न्वाः पाष्ट २, ४, ७<sup>०</sup>; -  
तन्वाम् आथी २, १९, ३२<sup>०</sup>;  
शाथी ३, १७, १<sup>०</sup>; काथी २५,  
६, ७<sup>०</sup>; माथी; -तन्वीश् तामा ८,  
१५<sup>०</sup>; -तन्वे माथी ३, ४, १<sup>०</sup>;  
या १४, २६; -न्वे कौष्ट ५,  
५, ६<sup>०</sup>; -न्वी शाथी १४, २९,  
३; ६; काथी २६, ४, १२<sup>०</sup>;  
वाथी १, ५, ४, ३८<sup>०</sup>.

तान्वम् -न्वः या ३, ६<sup>०</sup>।

तनु-हृत्<sup>१</sup> -हृन्म्यः वैथी १४,  
१४ : १३<sup>०</sup>।

तनु<sup>१</sup>न्<sup>१</sup>न्वम् -न्वक् या ३  
१४; -न्वजः आमिष्ट ३, ४, ४ :  
११; वीष्ट १, ५, २९<sup>०</sup>; वीपि-  
३, ४, १४; १५, आपथ २, २६,  
३; द्विष्ट २, ५, १९३; -न्वजा  
या ३, १४<sup>०</sup>।  
तनुन्वाग-सदवा -वाः विष्ट ३,  
४४.

- a) सपा. ऋ १०, १६, ४ तन्वः इति पाठे. । b) पाठे. वैप १, १४५५ ऋ. । c) सपा. शी ६,  
१२४, २ तन्वः इति पाठे. । d) पाठे. वैप १, १४५६ ऋ. । e) पाठे. वैप १, १४५७ ऋ. । f) पाठे. वैप  
१, १४५८ ऋ. । g) सहितायां सानुनासिकत्वं ऋ. । h) = सपा. तै १, ७, १२, २ मै १, १०, ३ ऐषा १, ३, ४ ।  
काठ ९, ६; १४, ३; ४५, १२ द्व तन् इति, शौ ७, ३, १ तन्वा इति च पाठे. । i) पाठे. वैप १, १४५८ ऋ. ।  
j) पाठे. वैप १, १४५७ ऋ. । k) पाठे. वैप १, १४५६ ऋ. । l) पाठे. वैप १, १४५५ ऋ. । m) सपा.  
शौ १०, ५, २३ विशिष्टः पाठे. । n) पाठे. वैप १, १४५५ ऋ. । o) पाठः ? ण्वाम् इति शोधः (तु. माथी  
३, २, ५ द्विथी १५, २, ११) । p) पाठे. वैप १, १४५८ ऋ. । q) पाठे. वैप १, १४५९ ऋ. । r) पाठे.  
वैप १, १४५६ ऋ. । s) पाठे. वैप १, १४५९ ऋ. । t) पाठः ? स्व इति शोधः (तु. तै १, ५, १०, १) ।  
u) = सपा. मै १, १०, ३ ऐषा १, ३, ४ । काठ ९, ६; १४, ३, ४५, १२ शौ ७, ३, १ द्व तन्वम् इति, तै १, ७, १२, १  
तनुवाम् इति च पाठे. । v) ण्वि इति पपा. । w) पाठे. वैप १, १४५६ ऋ. । x) उत्तरेश संघारार्थः  
y) पाठे. वैप २, ३६ तनुवे तैषा ६, ४, १ टि. ऋ. । z) वैप १, १४६० ऋ. । a<sup>१</sup>) = तन्-हृत्. । b<sup>१</sup>) सपा.  
ऋ ८, ७, १, ३ प्रष्ट. तन्कृद्म्यः इति पाठे. । c<sup>१</sup>) या. पाठः । d<sup>१</sup>) पाठः ? तनुवच् -> -त्वचः इति शोधः  
(तु. सपा. द्विष्ट १, २४, ४ त्वच. इति पाठे.) ।

तनु-हविस्<sup>१</sup> - विभिः माथ्री ५, १३, १५; -विभ्यः माथ्री ५, १४, २; -वीषि माथ्री ५, १३, २०; १४, १.

तनु-हृत्<sup>२</sup> - हृत्तः शांथ्री ७, १०, १४; -हृत्तव्यः आपथ्री ११, १६, १६; बौथ्री ६, ३०; १६; माथ्री २, २, ४, २४; हिथ्री ७, ८, १७; चाथ्र ३: २.

तनु-ज<sup>३</sup> - जम् सु २७, ५.

तनु-स्वर्ण<sup>४</sup> - ऋत्ता या ३, १४.

तनु-वृषि<sup>५</sup> - विः पाथ्र २, ६, १०.

तनु-देवता<sup>६</sup> - ताः शांथ्री २, ३, १०; -ताभिः शांथ्री २, ३, १४; -ताम्यः काठथ्री १७.

तनु-नपात्<sup>७</sup> - पाग ६, २, १४०;

-पात्<sup>८</sup> ऋथ्री १, ५, २१; २, ८, ६; शांथ्री; बौथ्री ५४: ३०;

वैष ४, ८, १३०; अथ्र २, १, १३;

या ८, ५६; -०पात् या ८, ६१;

-पात्मा आपथ्री २, १७, २;

माथ्री २, १६, ७; वैथ्री ६, ७, २४;

हिथ्री २, २, ३१.

१तानूतपा(त>)तो<sup>१</sup> -

-तो निस् ४, ८: २; -तीम्

बौथ्री १०, ११: ८; १; लाथ्री

६, ४, १३; निस् ४, ८: ४; १

२तानूतपात्<sup>२</sup> - तेषु

निस् ४, ८: ४.

तानूतपात्तिन्<sup>३</sup> -

-तीनि निस् ४, ८: ३; ६.

तानूतपात्-वन्<sup>४</sup> - वन्ति या

८, २२<sup>१</sup>.

तानूतपात्<sup>५</sup> - दानाम् वैष

४, ८, ९.

तनु-नप्त्<sup>६</sup> - प्या या १०, १८;

-नप्त्रे काथ्री ८, १, १५; बौथ्री

६, १९: १; माथ्री २, २, १, २;

वाधुथ्री ४, ५४: ५; वैताथ्री

१३, १६; छमा २, ४७; याधि

१, ८५.

तानूतपत्र<sup>७</sup> - पत्रम् आथ्री ४,

५, ३; शांथ्री; काथ्री ८, १, १९;

हिथ्री १०, ३, ३११; -पत्रस्य बौथ्री

१४, २: ५; ९; २१, १३: १९;

-पत्रे अथाय ३, १.

तानूतपत्र-पात्र<sup>८</sup> - त्रे

वैताथ्री १३, १६.

तानूतपत्रिन्<sup>९</sup> - पत्रिणः

आपथ्री ११, १, १११; १३, १८,

२; वैथ्री १२, २२: ६; १६,

२२: ६१.

तनु-प<sup>१०</sup> - ऋपात्<sup>११</sup> आथ्री ५, २,

१४, बौथ्री १४, ९: २९; हिथ्री

१०, ८, ४४; वैताथ्री १७, ४;

कौस् १०८, २.

तनु-पा<sup>१२</sup> - ऋपाः शांथ्री २,

११, ३; ४, १२, ३०<sup>१</sup>; ६, ८, ६६;

आपथ्री; -ऋपी शांथ्री १, ६, ११.

तनु-पावन्<sup>१३</sup> - वातः आथ्री

५, ६, १<sup>२</sup>; ७<sup>३</sup>; ११<sup>३</sup>.

तनु-पृष्ठ<sup>१४</sup> - ष्टं सुम् २, १४:

१५; -ष्टस्य शांथ्री १०, ८, २१;

-ष्ट वैताथ्री ४२, ९; -ष्टो सुम्

२, ९: २४.

तनु-पृष्ठम्<sup>१५</sup> - ष्टवः आथ्री ८, ४, २७.

तनु-शुभ्र<sup>१६</sup> - भ्रम् या ६, १९६.

तनु-शोभयित्<sup>१७</sup> - वारम् या ६, १९.

तनु-हविस्<sup>१८</sup> - वीषि काथ्री ४, ५, ८; १०, ७; बौथ्री २, ७: २३.

तनुस्<sup>१९</sup> - पाठ २, ११७.

तन्ति,न्ती<sup>२०</sup> - ऋन्तिः हिय १, २३,

१; गो २, २०; -न्तिम्

आपथ्री २१, ८, ३; हिथ्री १६,

३, ३७; हिय १, २३, ११; गो

२, २०<sup>१</sup>; -न्ती गोथ्र ३, ६, ७;

श्राथ्र ३, १, ४९; -न्तीम् गोथ्र ३,

६, ७; श्राथ्र ३, १, ४९.

तन्तिन्त्वा<sup>२१</sup> - तः आपथ्री ३, ४,

८; बौथ्री १, १९: ८; माथ्री ३,

४, ९; माथ्री १, ३, ४, ३; वाथ्री

१, ३, ५, १७; हिथ्री २, ३, ४९;

गोथ्र १, ८, २७; श्राथ्र २, १, २६.

तन्ति-पात्<sup>२२</sup> - पा ६, २, ७८.

तन्ती-विहरण<sup>२३</sup> - ऋम् गोथ्र ३, ६,

८.

१तनु<sup>२४</sup> - पाठ १, ६९; -तनुवः

आथ्री ३, १४, १०; शाथ्री;

-तनुत्वे काथ्री ३, ८, २३;

आपथ्री; -तनुः शांथ्री २, १२,

११<sup>४</sup> x x; काथ्री; या ६, १२;

-तनुना अत्र ५८<sup>२</sup>, ३, २;

-तनुभिः श्राथ्री ११, १, ६;

लाथ्री ४, १, ६; -तनुम् आथ्री

१, ११, १ x x; शाथ्री; -त्

a) = तनु-ह<sup>१</sup>. तनु इत्यपि सूको. । b) वैष १ द. । c) = प्रवर-विशेष- । d) = ऋत्- । साङ्ख्यदेवतीयः अण प्रः । e) = तानूतपात्तिन्- । मत्वर्थायः अच् प्रः । f) मत्वर्थायः इभिः प्रः । g) मत्वर्थे अच् प्रः । h) = आज्य-विशेष- । आथ्री. काथ्री. प्रश्नः । रोषे वैष १ द. । i) अन्त इति पाठः ? यनि. शोचः । j) तनु इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. आपथ्री.) । k) पाथि. वैष १, १४६० S द. । l) पाथि. वैष १, १४६१ C द. । m) = सोमयाग-विशेष- । यस. पूष. अर्थः ? । n) = तनुशब्द-सुष्ठु- । हविस्-विशेष- ।

कौस् १०७, १; -न्तु आपथी  
२१, १७, ९; द्विथी; -न्तुनाम्  
आपथी १, १२, ८; द्विथी १, ३,  
२९; -न्तोः शोथी १५, २४, ११;  
-न्वा शुथ १, १६८; -न्वोः  
कौस् ९३, १५.

तान्तव<sup>०</sup> - वम् वाथ २, २५;  
११, ६७; -वे पावा ७, ३, ४५.  
तन्तु-यय- -यम् वप्र १, १, २.  
तन्तु-मव- -मते आपथी ९, ८,  
५; वीथी; -मात् वीथी २७, ६:  
२३; वैथी २०, १५ : १०; ३२ :  
५

तन्तुमती<sup>०</sup> - ती वीथी  
२७, ११ : १८; २०; २९, १ :  
१२; -तीः आथिथ २, ६, ५ :  
५५; वीथ; -तीम् वीथी २७,  
४ : १८; वैथी २०, ३९ : २;  
-त्यः वीथी २८, ११ : १०;  
-स्या वीथी २९, ७ : ६; ८ :  
१६; -स्यौ माथी ५, १, २, १६.

तान्तुमत<sup>०</sup> - त. आथिथ २,  
६, ५ : ७; वीथ २, ९, १०;  
भाथ ३, १५ : १६; २१ : १०.  
तन्तु-वाय<sup>०</sup> - यः वैथ ३, १४, १.  
तन्तु-शब्द<sup>०</sup> - न्दाः वीथीप्र  
३१ : ८.

तन्तु-शुक्लपटो(ट-उ)पम<sup>०</sup> - माः  
आ ५२, १३, २.

तन्त्व(न्तु-अ)प्र- (> तन्त्वमी-  
प्र- पा) पाग ४, २, १३८.

तन्त्र<sup>०</sup> - पाउभो २, ३, ८५; पाग ५,  
२, ३६; -न्त्र<sup>०</sup> काथी १, ७, ७;

-न्त्रम् शोथी १४, ३९, ५५; ;  
काथी; -न्त्रयोः निस् ६, २ :  
२३; -न्त्रस्य आथी १, १,  
३; वीथी; -न्त्राणाम् आथी  
१२, १०, ३; कौसि ७५; -न्त्राणि  
वीथी २०, १९ : ८; २४, ११ :  
९; निस्; -न्त्रात् वीथी २३,  
६ : १२; पा ५, २, ७०; -न्त्राय  
वीथी २०, ३ : २१; -न्त्रे आथी  
४, १, ९; शोथी; -न्त्रेऽन्त्रे  
वीथी २०, ३ : २२; २१, ८ :  
३९; -न्त्रेण काथी १६, ७,  
१७; वीथी २३, ११ : १७,  
निस् ८, २ : ११; -न्त्रेभ्यः निस्  
८, ११ : २३; -न्त्रेषु वीथी २०,  
१८ : ७; निस् ८, ५ : ६.

तान्त्र<sup>०</sup> - न्त्राणि या ८, ७.  
तान्त्री - न्त्रीः आपथी  
१४, १२, ६; -न्त्रीणाम् आपथी  
१४, १२, ५, द्विथी १०, ६, ८;  
मीस् १०, ८, ४९.

तान्त्रिक<sup>०</sup> - कः अत्राय २, ५.

तन्त्र-क- पा ५, २, ७०.

तन्त्र-करण- -ये वीथी २०,  
१८ : १०; १९ : ७, २२ : १४.

तन्त्र-न्त्रा<sup>०</sup> - न्त्रेण निस् ३, ६ :  
३४; ५, ९ : २४.

तन्त्र-तर- -रस् निस् ५, ८ : ७; ;  
६, ७ : ३३; ७, ४ : ४३.

तन्त्र-ता- -ताम् आथी ११,  
१, १५.

तन्त्र-नियम- -मः मीस् १२,  
३, ३.

तन्त्र-भाव- -वः मीस् ११, २  
११; ४, ३१.

तन्त्र-मू(त)>वा- -ताम् अया  
२०, १५.

तन्त्र-भूय- -यम् वीथी २४, ३ :  
९.

तन्त्र-भूयस्-त्व- -स्वात् मीस्  
१२, ३, १.

तन्त्र-भेद- -दः मीस् ११, ४,  
१४; १२, १, २; २, १५.

तन्त्र-मथ- -थ्ये मीस् १२,  
१, ३; २, १७; ३२.

तन्त्र-लक्षण- -णम् शोथी १,  
१६, ६; लाथी ६, ९, १३.

तन्त्र-विकार- -रः आथी २,  
१४, १४.

तन्त्र-विधान- -नात् मीस् ११,  
२, १४; २०.

तन्त्र-विलोप- -यः लाथी ९,  
११, १३; १५.

तन्त्र-शेष- -पम् आथिथ २,  
५, ४ : १५.

तन्त्र-समास- -सः वीथी २०,  
१८ : २३; २२ : १; -से वीथी  
२, ७ : २०; २०, १८ : २३;  
२२ : १.

तन्त्र-स्थ- -स्थः निस् ९, २ :  
३२.

तन्त्र-न्याय- -न्याम् वीथी २४,  
३ : ६.

तन्त्र-स्वर- > तन्त्रस्वर<sup>०</sup>-  
-राणि आथी २, १५, १६.

तन्त्र-हर, श- -रया वीथी २२,

a) विज्ञातार्थे अण् प्र.। b) = आहुति-विशेष-। c) विप.। तस्येदमीयः अण् प्र.। d) नाप.। उक्त.।

e) विप.। मस.। f) विप.। द्वस. > मस.। g) भाप., नाप. (शास्त्र-, सामन्त-, प्रवाणी- (पा ५, २, ७०))।

वैप १६.। h) तन्त्र-, विघ्न- इति भाष्यदा. [पक्षे], पागम., विघ्नतन्त्र- इति भाष्यदा. पासि.। i) = तन्त्रेण।

j) विप.। तस्येदमित्यार्थे प्र.। k) ंद्री इति जीसं.। l) उप. √शा + ष्ट् प्र. (पाउ ४, १५९)। m) शोधार्थं

पृ ८१० b द्व.। n) मत्वर्थीयः अण् प्र.।

१२ : ११; -राणाम् बौध्री २१,  
१ : २९.  
तन्त्रा (त्र-ञ्) कृपार<sup>६</sup> - रम्  
निस् ९, ५ : ३४.  
तन्त्रा (त्र-ञ्) वि- दिषु वाध्री  
१, १, ५, १.  
तन्त्रा (त्र-ञ्) न्तर- रे कप्र ३,  
७, ८,  
तन्त्रा (त्र-ञ्) न्वित- -तानि  
निस् ४, १२ : १४; ५, २ : १९;  
७ : १६; -ते निस् ९, २ : २९.  
१तन्त्रा (त्र-ञ्) पवर्ग<sup>६</sup> - गौ बौध्री  
२०, ३ : २३.  
२तन्त्रा (त्र-ञ्) पवर्ग<sup>६</sup> - गौ:  
मीस् ११, ३, ७.  
तन्त्रा (त्र-ञ्) वेत- -तः निस् ९,  
२ : ३३.  
तन्त्रा (त्र-ञ्) यिन्<sup>६</sup> - यिणे  
शाध्री ८, १५, १२१; द्राध्री १४,  
३, ५<sup>६</sup>; लाध्री ५, ७, ४<sup>६</sup>.  
सन्त्रा (त्र-ञ्) र्थ- -धंस्य मीस्  
१२, १, ३.  
तन्त्रा (त्र-ञ्) विलोप- -यः  
निस् ५, ११ : १९; ८, ८ : २०.  
√तन्त्रि> तन्त्रयिवा वैष्ट ६,  
६ : ४; ७; ७, ४ : ९.  
तन्त्रित- पा ५, २, ३६.  
तन्त्रिन्-> तन्त्रिसमवाय- ये  
मीस् १२, १, १.  
तन्त्री √भू> तन्त्री-भाव-  
-वात् आपध्री २१, ३, २; माध्री  
६, १७, ४; द्विध्री १६, १, ३६.  
तन्त्री (त्र-ञ्) क- -कम् वाध

२३, ४३.  
तन्त्रो (त्र-ञ्) पधि- -धिना निस्  
९, ७ : १६.  
तन्त्र्य, न्त्र्या- न्त्र्यम् निस् ६,  
८ : ६; -न्त्र्याः माध्री १, ५,  
५, ४.  
२त (त्र>) त्त्री<sup>६</sup> - पाउ ३, १५८;  
-त्र्योभिः बौध्री २३, ११ : २९;  
-न्त्र्या कौस् ३२, १२.  
३त (त्र>) त्त्री<sup>६</sup> - त्त्रीम् काध्रीसं  
२८ : १; -न्त्र्यः द्राध्री ११,  
१, २; लाध्री ४, १, २.  
१तन्त्रु- पाउ ४, २.  
१तन्त्रल- न्वन् आध्री<sup>६</sup> १, ११,  
१, ४; शाध्री; आष्ट ४, ६, ७<sup>६</sup>;  
-न्त्रन्त्रम् बौध्री १, ९ : १४;  
नाशि १, ६, १९.  
तन्त्रल-इयामाक- -कम् कौस्  
७४, १६.  
तन्त्रान- -नस्य निस् २, ७ : १७.  
तान- पावा ३, १, १४०; -नः  
काध्री १, ८, १८<sup>६</sup>; मास् ३,  
२७<sup>६</sup>; २८<sup>६</sup>; -नाः नाशि  
१, २, ४<sup>६</sup>; -नात् नाशि १, २,  
८<sup>६</sup>; -नेन वैताध्री ३०, २७<sup>६</sup>.  
तान-राग-स्वर-प्राम-भू<sup>६</sup>ना-  
-मानम् नाशि १, २, २.  
तावमान-> ष्व-रूप<sup>६</sup> -पाणाम्  
आध्री ७, १, ११; -पाणि शाध्री  
१३, २४, १६; १८.  
तितानिपु- मुम् या ६, १९.  
√तन् (=स्वत् [शब्दे])> २तन्ग-  
तु<sup>६</sup> - न्तुः या १२, ३०<sup>६</sup>.

तन्नु<sup>०</sup> - न्ववः या ४, १९<sup>६</sup>.  
तन्- प्रसु, १-३तनु- √तन् द.  
४तनु<sup>६</sup> - [ > तान्व्य- (> ष्याय-  
[न>] नी- ) पा.] पाग ४, १,  
१०५; १८.  
तनुतड- २तनु- टि. द.  
तनुल- पाउना ५, ८.  
तन्तस्- (> √तन्तस्य पा.) पाग ३,  
१, २७.  
तन्ति, न्ती-, १तनु- प्रसु, √तन् द.  
१तन्तु<sup>६</sup> - [ > तान्व्य- (> ष्याय  
[न>] नी- ) पा.] पाग ४, १,  
१०५; १८.  
√तन्त्र पाधा. चुरा. आत्म. कृदन्व-  
धारणे.  
१-३तन्त्र- प्रसु, √तन् द.  
तन्त्री (> तन्त्री √कृ पा. ) पाग १, ४,  
६१.  
√तन्त्र > तन्त्र-> तन्त्रा<sup>६</sup> - पाउना  
२, १५; पाग ५, २, ३६; -न्त्रा  
नाशि २, ८, २९<sup>६</sup>.  
तन्त्रा-यिन्<sup>६</sup> - यिणम्  
बौध्री ९, ८ : २०<sup>६</sup>.  
तन्त्रित- पा ५, २, ३६.  
√तन्त्र > तन्त्रालु<sup>०</sup> - पा ३, २,  
१५८.  
√तन्त्रि, तन्त्रयते शाध्री १५,  
१९, ११<sup>६</sup>.  
तन्त्रि<sup>०</sup> - पाउ ४, ६६; -न्त्रिः बौध्री  
२, ५ : २<sup>६</sup>.  
तन्त्री- पाउभो २, १, २४२;  
-न्त्री आउयो १२, १०; -न्त्रीम्  
बौधि १, ५, ६.

a) माम-विशेष्योः द्वस. । b) विप. । पस. । c) वैप १ द. । d) ष्यणे इति पाठः ? यनि. शोषः  
(तु. मा ३८, १२) । e) = बीषाण, बीषाण-गुण- । < √तन्त्र इति पाठः । f) = स्नायुमपरञ्जु- । g) पाभे.  
वैप १, १४५४ f द. । h) = एकधुति- । i) ततः इति पाठः ? यनि. शोषः । j) = संगीत-स्वर- ।  
k) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । l) पात्र. < त (दु>) नु + √द्रा इति । m) तन्त्रीम् इति काचित्. ।  
n) विधिः प्र. उसं. (पावा ५, २, १२२) । o) पात्र. < √तन्त्रा इति ।

इतन्नोक्तस्यामानोः वाधूथी ४, ६४: ४.

इतन्यतु- √तन् द्र.

इतन्यतु- √तन् (=√त्न) द्र.

इतन्यन्तः अण ४८, ११६.

तन्व- > इतान्व- न्वः ऋञ्च २, १०, १३.

इतन्योपप्लवमध्य- -च्यैः बौशु ६: १०.

√तप्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. संतापि; दिवा. आत्म. दाहे ऐष्ये च, चुरा. उम. दाहे, तपति आध्री ८, १३, १४; शाथ्री १४, २४, ३; १५, २४, ११; १६, ३, १०; बौथ्री; तपन्ति बौथ्री १, ८: २१; मु १७, १; ण्या २, २३; ४, ६; ६, ३३; तपामि वैताथ्री १४, ११; तपन् आथ्री १, १३, ३४<sup>०</sup>; तपः आथ्री १, १२, ३४<sup>०</sup>; ण्वत्तु आपथ्री १४, २९, १०; आप्रिण ३, ६, १: ९; बौषि १, ८, तपन्तु आथ्री २, १२, २१; ण्वत्तु आपथ्री १४, २९, ३; हिथ्री १५, ७, १६; आप्रिण, ण्वत्तु, > पा, पो (पा + उ) शाथ्री ५, ९, १०; आपथ्री १४, २९, ३४; बौथ्री ९, ७: १४<sup>०</sup> x x; माथ्री; माथ्री ४, २, १८<sup>०</sup>; हिथ्री १५,

७, १६<sup>०</sup>; तपञ्चम् वृद्धे ६, १४०; तपत् > ता तैत्रा ३, १२<sup>०</sup>. तेषे शाथ्री १४, १२, ३; ऋञ्च २, १०, ४७; वृद्धे ५, १५५; ७, ४९; तवाप वैताथ्री ४, ८<sup>०</sup>; तेषिरे या १४, ८; ९; तेषुः वृद्धे ६, १४१. तप्यते आपथ्री २१, २०, ३<sup>०</sup>; २३, १४, ३; बौथ्री; तप्यति वाध २७, ५; तप्यामहे कौमु ५७, २३; तप्यताम् वाथ्री १, ३, २, १८<sup>०</sup>; हिथ्री ६, ३, १७<sup>०</sup>; तप्यतु वाध २५, ५; तप्यन्ताम् माथ्री १, २, ५, ८<sup>०</sup>; ण्वत्तु आपथ्री १, १२, ३; बौथ्री; ण्वत्तु आपथ्री १, १२, ३; माथ्री १, २, ३, ८; ण्वत्तु आपथ्री १, २३, ६; बौथ्री १, ८: १८; २०, ८: २३; माथ्री १, २४, ९; हिथ्री १, ६, २१, अतप्यत शाथ्री १६, १५, १; बौथ्री. तापयति कौमु २६, २५, २२, २३; ण्वत्तु आपथ्री १, २, ५, ८<sup>०</sup>; वाथ्री १, ३, २, १८<sup>०</sup>; हिथ्री ६, ३, १७<sup>०</sup>; तापयेत् अण ३१, ९, ५; वैष ३, २, ६. १तप- पाग ३, १, १३४; -पाय<sup>०</sup>

काण्ड ४, २०<sup>०</sup>. ण्वत्तु (प-ञ्च) ण्वत्तु - ण्वत्तु आप्रिण २, ६, ३: ३७; बौध २, ५, २७. ण्वत्तु ण्वत्तु - ० ष आपथ्री १४, २९, ३; हिथ्री १५, ७, १६; अणाय ५, ६; -ष्टैः या ६, १२. तपिह-तम- मैः या ८, १९. तपत् - वतः बौथ्री १८, ५२: १५; -पन्तः बौथ्री ९, ७: ३<sup>०</sup>. १तपन्, ना<sup>०</sup> - पाग ३, १, १३४; -ण्वत्तु आपथ्री ४, ६, ४; माथ्री ४, ९, २; हिथ्री ६, २, १५; -ने मैष २१<sup>०</sup>. तपन्-मन्त्र- -मन्त्रम् बौथ्री २०, ८: २२. तपनीय<sup>०</sup> -यम् अण ११, २, १. तपनीय-व(ण>)गां- -० ण्वत्तु विष ९९, ३; ७. १तपन्- > तापनीय<sup>०</sup> -या: चञ्चु २: ३५. तपन्त<sup>०</sup> -न्ताय काण्ड ४, २०<sup>०</sup>. १तपस्- पाठ ४, १८९; पाग ४, ४, ६२; -पः शाथ्री ४, १३, १ x १<sup>०</sup>; काथ्री; माथ्री २, ३, ७, ४<sup>०</sup>; शंष १०७<sup>०</sup>; बौध २, १०, ३२<sup>०</sup>; -ण्वत्तु: काथ्री ७, ८, १९; आपथ्री; काण्ड ४, ११<sup>०</sup>;

- a) वैष १ द्र. । b) अर्थः व्यु. च। । पम. > पम., तन्व- = तन्, उपप्लव- = अन्त इति द्वारिकानाथयज्वा । c) या ६, ३: ११ पा ३, १, ८८; २, ४६; पावा ३, १, ८७ पराष्ट. द्र. । d) पाभे. वैष २, ३६. तम<sup>०</sup>, तमः तैत्रा ३, ७, २, ७ टि. द्र. । e) पाभे. वैष १, ६३९ g द्र. । f) पाभे. वैष १, १४६६ k द्र. । g) सञ्च तपा इति पाठः ? सञ्च पाभे. वैष १ तुव ऋ ६, ५, ४ टि. द्र. । h) शोषार्थं वैष १, १४६४ a द्र. । i) पाभे. वैष २, ३ खं. शोचतु तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि. । j) ता<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोषः (द्र. वाथ्री) । k) पाभे. वैष २, ३ खं. नाश-याममि तैत्रा ३, ३, २, १ टि. द्र. । l) = देवता- । m) नाप. । कम. । n) भाप. विप. नाप. च । o) पाभे. वैष १ परि. तपनाः वै १३, १०, ९ टि. द्र. । p) अर्थः व्यु. च। = प्रहरण-विशेष- इति संभाव्येत । q) = ध्रुवर्ष- । अर्धार्थं > ह्यः प्र. (वै. अभा. करणे अनीयत् इति) । r) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । s) तेन प्रोक्तमधीत इत्यर्थे ण्वत्तु प्र. कसं. ( पा ४, १, १०२ ) । t) कर्तृनि शब् प्र. ( पा ४, १, २८ ) । u) पाभे. वैष १ मूनसः तै ३, २, ८, २ टि. द्र. । v) = व्याहृति-विशेष- । w) सञ्च तप इति पाठः ? यनि. शोषः (द्र. तपा. आपमं २, २, १० प्र. ) ।

शुभ्रा ३, २०<sup>a</sup>; -पसा आध्री ३,  
१२, २०<sup>b</sup>; शोश्री; आश्रित ३,  
६, १ : ९<sup>b</sup>; माण २, १३, ६<sup>c</sup>;  
-पसाम् श्व ३८, १, १; वीध २,  
५, ९; -पसि शोश्री १६, १५, १;  
आपध्री; -पसे आपध्री १५,  
७, ३; २०, १, १७; काश्रीसं;  
-पांसि वाध ६, २; वीध.

१तापस- पा ४, ४, ६२; ५,  
३, १०३; -सः वीध ३, ३, १९;  
२०.

तापसी- पाग २, १,

७०.

तापसा (स-श) पतद्-  
पाग २, १, ५३.

तपः-कर्मक- -कस्य पा ३, १,  
८८; पावा ३, १, ८७.

तपःक्षय- -ये श्व ४२, २, १३.

तपःक्षय-जन्म-प्रापक-  
-स्व- -स्वात् वीध १, ९, १४<sup>o</sup>.

तपःपूत- -तः विध ८३, ११.

तपस-चिन्- -चित्ते वीश्री १०,  
२३ : १५; वैश्री १८, १४ : ३३.

तापश्चित- -शम् आध्री  
१२, ५, ११; १३; शोश्री;  
-तस्य काश्री १७, ११, १२<sup>b</sup>;  
लाश्री १०, १३, १; -तानि आध्री  
१२, ५, ८; -ते वाश्री १७, ७,  
१४; आपध्री १७, २६, ३<sup>†</sup>;  
वीश्री ९, १२ : २४; लाश्री १०,  
१०, ६.

तापश्चित-विकल्प-

-ल्पः काश्री २४, ७, २७.

तपश्चितान्-अयन- -न्म्  
आपध्री २३, ११, १; -नेन वीश्री  
१७, २३ : १.

तपः, स-श्रु- -स्वः आपध  
१, ५, १; द्विध १, ३, १.

तपः, स-श्रु-नील- -ः वीध  
१, ७ : ५; वीध २, ६, १७; वीध  
३, २६.

तपसादे- काश्रीसं ७ : २.

पुतपस-पति- -तिः वीश्री ६,  
१९ : ५; वैताश्री १३, १८<sup>†</sup>.

✓तपस्य पा, पावा ३, १, १५.

तपस्यमात- -नात् या २,  
११.

१तपस्य, स्या- -स्यम् वीध २,  
३, १; -पस्याः आपध्री १०,  
१४, १; वीश्री २८, ९ : १८;

वीश्री २१, २ : ५; -स्याम्यः

काश्री २५, ११, २१<sup>†</sup>.

तपस्-वत्- -वते शोश्री ३, १९,  
१५; आपध्री; -वात् आध्री ३,  
१२, २६; माश्री १, ४, १, २०<sup>†</sup>;

वाश्री; अत्राय ५, ६<sup>†</sup>.

तपस्वती- -नीम् अत्राय ५, १

तपस्-विद्- पा ५, २, १०२;

-विनः वाश्री ३, २, ५, ३५; शंध;

-विनम् शोश्री १, २, ६; विध ३,

७०; वीध ११, १४; -विनाम्

श्व ५८<sup>†</sup>, ४, ५; विध ९२, १४;

-विने आश्री २, १, ४; या २, ३;

-विनी वृदे ५, १५०; -पवी

आपध्री ४, ५, ३; १०, १२, २;

२१, १, १०; माश्री ४, ६, ६४४;

वाश्री.

तपस्विनाम्-अयन- -ये  
द्विश्री १८, ४, ११.

तपस्-संयोग- -गम् वीध २,  
५, ५.

पुतपो-जा- -जाः आध्री ५, ६,  
१<sup>†</sup>; ७<sup>†</sup>; ११<sup>†</sup>; आपध्री.

तपो-धन, ता- -ना शु ३, ४;

-नैः श्व २२, ८, ३.

तपो (प-श्र) धिका- -कष  
आश्रित २, ७, १० : १४.

तपो-तिधि- -धिः आश्रितो १३,  
९.

तपो (प-श्र) न्वा- -न्तम् विध  
९५, १६.

तपो-बल- -लात् शोश्री ४, ५,  
१५; शश्र ३, ४.

तपो-मप्य- -प्यम् विध ९५,  
१६.

तपो-मथ- -यत् शु २७, २; वाध  
६, २६.

तपो-मूल- -लम् विध ९५,  
१६.

तपो-युक्त- -क्तः आपध १८, १;  
३; श्व ३, ३, ५.

तपो (प-श्र) वै- -धम् शु २, ५;  
६; -धेन शु १, ३.

१तपो-लोक- -कम् शंध  
११६ : ६६.

तपु- -योः श्रया ४, ६३<sup>†</sup>.

तपुषि, वी- -पिः या ६, ३<sup>†</sup>;  
-पिम् या ६, ३<sup>†</sup>; -पी विध  
२, १३<sup>†</sup>.

a) पाभे. वैप १, १४६५ f द. । b) वैप २, १४६५ k द. । c) पाभे. वैप १ मुणिला सि २,

६, ७ डि. द. । d) दु. पागम. । e) श्वान्, श्वस्वात् इति BA. पाभे. । f) = देवता-विशेष- (दु. तां २५, ५, ३) ।

g) = [तपश्चित्पदस्य] सत्र-विशेष- । h) विप. (दु. Pw. प्रदु.) । i) = सत्र-विशेष- । j) आपध पाठः ।

k) वीध. गोध. पाठः । l) विप. । म. । m) <सुपमा देवाः (तैत्ति ३, १२, ३, १) । n) पाभे. वैप १,

१४६६ h द. । o) पाभे. वैप १ वीर्यवान् काठ ४, १४ डि. द. । p) पृ. = व्याहृति-विशेष- । q) वैप १ द. ।

वपुस्- पाठ २, ११७; -पुः या ६, १११६.  
 वपुर-भूर्ध्व- -धां आपथौ १४, १७, ११; द्विधौ १५, ५, ११; ऋध २, १०, १८२७.  
 वस,सा- -सः आथौ ४, ७, ४<sup>१</sup>; आथौ; -सम् आथौ ४, ७, ४; आथौ; -सस्य माथौ २, २, १, ९; -सा वाधूथौ ३, २८ : २; -साः बौथौ १९, १० : १४; -सानाम् काठथौ ८९; -सानि गौष २३, २; -सानिः आपथौ १, २४, ५; माथौ; -साम्यः माथौ १, २, ३, ९; वाथौ १, ३, १, ८; -साम् माथौ ६, १, २, २२; वाथ २०, १४; -सायाम् माथौ ६, १, ३, २३, -से आपथौ ८, २, ५; बौथौ ५, १ : २७; माथौ; -सेन पाथ २, ८, ६; गौष १, १०, १८.  
 वस-करम्म-वालुक- -काः शंष ३७४.  
 वस-कृष्ण- -कृष्णः वाथ २१, २१, गौष २, १, ६३; ४, ५, १०; विथ ४६, ११; -ष्यम् काथ ६, १६; वैथ ६, १६ : १८, ७, ४ : १३; वाथ २१, १८; शंष ३१०, ४१६, ४४७; विथ ४१५, ५१, ५१, २८; ५४, १७; मुथ ४८; ६३, गुथ ८५ : २; -प्येग शंष ४४०, ४४९; विथ २२, ५८, ४०, २.  
 वसकृष्ण-सहित- -नम् वाथ २३, १६.  
 वसकृष्ण(च्यु-क)वमान- -ने

अथ ३३, ४, २.  
 वस-वम- -मैः या ६, १२.  
 वस-वर- -रेण वाधूथौ ३, २८ : ३.  
 वस-रहस- पा ५, ४, ८१.  
 वस-वत- -तः आपथौ ११, २, २; बौथौ ६, १९ : २४; माथौ १२, २, ५, वैथौ १२, २४ : २; द्विधौ १०, ३, ३४; -तौ माथौ २, २, १, ४७.  
 वस-वर्कता- -तमिः बौध्व २५, २६.  
 वसा(स-का)तद्ध- -द्वयम् माथौ २, ५, १, २१.  
 वसानद्वय-शीवालद्वय- -द्वये माथौ २, २, ५, २९.  
 वृत्ता(स-ञ्ज)य(न>)नी- -नीं काथौ ५, ३, २२; माथौ १, ७, ३, १५; वाथौ.  
 वृत्तो(स-उ)दक- -केन भाथ १, २५ : १७.  
 वृत्तो(स-उ)द(क>)का- -का शंष ३७४.  
 तप्या साथौ १४, ६, १ x x; बौथौ.  
 तप्यमान,जा- -नः आपथौ १०, १२ : ३; -नम् थ १, ३८, २१; ऋञी ८, २१; -ना आपनं २, ३०, ३५; पाथ; -नाः बौथौ २६, ९ : २२; माथि २३.  
 ताप- -येन वाथ २५, ६; बौष ४, १, २६.  
 तान- -नम् शंष १६५; विथ ४३, १०<sup>२</sup>.

तापयिन्वा श्राथ ४, १, ३.  
 ताप्यमान- -नम् वैताथौ १३, ३०-  
 तेषान- -नात् वाधूथौ ४, ९४ : २; ९४<sup>३</sup>-९४<sup>३</sup> : १.  
 रतप- √तप् द.  
 रतप- -पाथ बौथौ ७, १६ : ३२१.  
 र-रतपन- प्रम्. √तप् द.  
 रतपवर्गनिमित्ताभावात् अत्रय ४, २.  
 रतपश्चात् वाथौ २, २, १, ५.  
 रतपस्- √तप् द.  
 रतपस- -यः काथौ १७, १२, २१; आपथौ १७, ४, ५; बौथौ १०, ४४ : १४; वैथौ १९, ४ : २०; द्विधौ १२, १, ३४; आपनं १, १०, ८<sup>३</sup>; आमिथ १, ७, ४ : ११६; बौथ २, १०, ७; वैथ ४, ८ : ७; वेज्यो ६६; -पसे माथौ ८, १४, ६.  
 रतपस- > रतापस- -सः बौथौ १७, १८ : १; वाधूथौ ३, ५१ : २; गौष; -नासाय काथ ४, २०; गौष २६, १२.  
 रतपस्य- √तप् द.  
 रतपस्य- -स्यः काथौ १७, १२, २१, आपथौ १७, ४, ५; बौथौ; आपनं १, १०, ८<sup>३</sup>; आमिथ १, ७, ४ : ११<sup>३</sup>; बौथ २, १०, ७; वैथ ४, ८ : ७; -स्याय बौथौ ७, १६ : ३९; माथौ ८, १४, ६; माथौ २, ४, २, १३.  
 तपु-, वपुषि, धी-, १तपो-लोक- √तप् द.  
 रतपोलोक- -काः बौथौ ४७ : २-

a) वैथ १, ३१. b) = ऋषि-विद्येय-। c) = नरक-भेद-। d) = वन-विद्येय-। e) विथ.।  
 वस.। f) पाथे. वैथ १, १४६७ p. ३.। g) पाठ ? न्नाः इति शोषः (वृ. संस्कृतं भवुवादाः)। h) = नरक-विद्येय-। i) = रतपम्-। j) पाठः ? तपस्याः इति शोषः (वृ. सन. माथौ ६, २, १, ६ वपस्याः इति पाथे.)।  
 k) पाथे. वैथ १, १४६८ d. ३.। l) व्यर.। म्यु. ?। m) पाथे. वैथ १, १४६८ f. ३.।



• तिस्रे<sup>०</sup> आपथ्री २१, १२, ३.  
 तित्पना वीथ्री २, ५ : १५.  
 • तित्. ता<sup>०</sup>प्य<sup>०</sup> वाथ्री १, ३, २, १८;  
 हिथ्री ६, ३, १७.  
 -तप्यमान- √ तप् द.  
 • √ तम्<sup>०</sup> (वया.) पाथा. दिवा. पर.  
 काङ्क्षामाम्, ऋतमत्<sup>०</sup> आपथ्री  
 ९, २, १<sup>३</sup>; माथ्री, ऋतमः<sup>०</sup> आपथ्री  
 ९, २, ९; माथ्री.  
 ताम्यति वीथ्री १४, २४ : ९;  
 २५; कौत् ८८, २०; ताम्यन्ते  
 माथ्री १, ७, ६, ४९; वाथ्री १, ७,  
 ४, ५१; ताम्येत् आपथ्री ९, ८,  
 ४; माथ्री ९, ११, ६; वैथ्री २०,  
 १४ : ३; हिथ्री १५, २, ३१.  
 तमयति काथ्री ६, ५, १७.  
 • तम-> ० मी<sup>०</sup>- पाग ४, १, ५१.  
 तमत- पाउ ३, ११०.  
 • तमन- नात् शाथ्री २, ७, ७; ४, ४,  
 १३; काथ्री ४, १, १३.  
 तमयित्वा आपथ्री ५, २, ४<sup>१</sup>.  
 • तमितोष (ः) काथ्री २५, ४, १०;  
 आपथ्री.  
 • तमिन्- पा ३, २, १४१.  
 तान्त- न्तः द्राथ्री ३, ४, १५;  
 वीथ २, ४, ८; गीथ २४, १२;  
 -ऋन्तस्य आपथ्री ५, २, ४;  
 वैथ्री १, ७ : ९.  
 तान्त-मान-विधित्त- न्तः  
 नाथि २, ८, १३.  
 तामि<sup>०</sup>- मीः कौत् ८८, २०.  
 • तामक- पाउमो २, २, ७.

तमङ्क- पाउमो २, २, ५५.  
 तिमतन्वाग्निं वैथ्री २०, १० : २.  
 तमत्<sup>०</sup>- मः आथ्री ८, १०, ३; १२,  
 ३; शाथ्री; अप ४८, ७४<sup>१</sup>;  
 निघ १, ७<sup>१</sup>; या २, १६<sup>१</sup>;  
 ५, १<sup>१</sup>; ९, २९<sup>१</sup>;  
 आथ्री ४, १५, ९; ६, १३,  
 १५<sup>१</sup>; शाथ्री ६, ८, ९<sup>१</sup>; आपथ्री;  
 -मत्ता ऋत्तापथ्री १७, २१, ७;  
 २१, १२, ३; वीथ्री; या ७, ३१<sup>१</sup>;  
 ९, ३३<sup>१</sup>; १४, १०; शीन ३,  
 ६५; -मसि माथ्री २, ५, ४,  
 २४; वीथ ४, ४, १२; कौत् ४,  
 १७; शंष ४४०; काथु ७, १८;  
 ऋषा ८, ४६<sup>१</sup>; श्रुपा ३, १४४;  
 -मसे वीथ ३, ४, ४<sup>१</sup>; -ऋमसि  
 शाथ्री ८, २४, १; वीथ्री; -मोमिः  
 माथ्री ५, २, १०, १६.  
 तामस- न्तः अप २२, ४, १;  
 -सत् शंष ११६ : ४५<sup>१</sup>.  
 तामसी- न्सी अप ३०<sup>२</sup>,  
 १, १०.  
 तामस-कीलक- काः अप  
 ५२, ३, ४.  
 तिम-उक- न्काः निम् ४, ६ : १२.  
 तमः-पर- रम् ऋषा ११, ७.  
 तमत्-काण्ड- पाग ८, ३, ४८.  
 तमत्-व(त् >) वी- वी अप ४८,  
 ७४<sup>१</sup>; वृदे ३, १०; निघ १, ७<sup>१</sup>;  
 -० वीः अत्राय ६, २<sup>१</sup>.  
 ऋतमम्-व(त् >) वी- ० वीः<sup>१</sup>  
 वीथ्री १३, ३८ : ८; आग्नि २,

५, १० : १९.  
 तमस्-वि(त् >) वी- न्याम् क्य  
 २, ३, ९.  
 तमिष, छा- पा ५, २, ११४; पावाग  
 ५, २, १०३.  
 तमिष, छा- पावा ५, २, १०३;  
 -उम् निघ ४३, २<sup>१</sup>; -उस्य वाथ्री  
 ३, २, ३, ३<sup>१</sup>; -छा गोथ ३, १०,  
 ७; -छाः काथ ६१, २; -छागाम्  
 माथ २, ८, २; -छे माथ्री १,  
 ६, २, ४; -छौ गोथ ४, ६, १४.  
 तामिष-प्रथमा- म्मा लाथ्री  
 ९, २, ८.  
 तामिषा(स-आ)दि- वी  
 गोथ ४, ६, १२; द्राथ ४, २, १; ३.  
 तामिषा(स-अ)न्तर- रेपु  
 गोथ ४, ६, १५.  
 तामिषा(सा-अ)एमी- न्यः  
 द्राथ ३, ३, २७.  
 तमो-धूम-रजस्का<sup>०</sup>- रकाः अप  
 ५८, १, ६.  
 ऋतमो-वृद्ध- ० व माथ १, १५, ४;  
 २, १४, ३१.  
 तमो(मत्-अ)पद- पा ३, २, ५०.  
 तमो-भाग- न्तः या १२, १०.  
 तमो(मत्-अ)भिधान- न्ते पावा  
 ७, २, १८.  
 तमो(मत्-अ)भ्यय- न्ते काथ्री ४,  
 १५, १२.  
 तमो-मृद- न्ताः वाथ ३, ६; वीथ  
 १, १, १२.  
 तमो-किङ्ग<sup>०</sup>- न्ताः या १४, ३.

a) पाठः ? तत्, ते इति द्विपदः शोधः ( वृ. हिथ्री १६, ४, ३५; ८. व ) । b) वाथ्री. पाठः ।  
 c) पाठः ? सपा. तैत्रा ३, ७, ६, १९ अहुं शुचम् इति पाठे. अतु तव्ये । उतु ११ इति शोधः विमरः । d) पा ७,  
 ३, ७४ परामुष्टः द. । धा. श्रान्तनिरोधस्य वृत्तिः ( वृ. काथ्री ४, १, १३ ) । e) पाठे. वैप २, ३६. तमत्<sup>१</sup>, तमः  
 तैत्रा ३, ७, २, ७ टि. द. । f) = रात्रि- इति पाठम्. । g) स्त्री. प्राति. । = प्राणायाम- इति केशवः । ११-  
 इति [पेक्ष] एव. । h) वैप १ द. । i) रात्रि-नामन्. । j) = मन्वन्तर-विशेष. । k) पाठे. वैप १, १४६६  
 f द. । l) = नरक-विशेष. । m) = कृष्ण-पञ्च. । n) विप. । वघ. । o) वृ १६६ ४ द. ।

तमस- पाठ ३, ११७.  
 तिमयीवयः अत्र ४८, ११९.  
 तमाल- पाठ १, ११८; पाग २,  
 ४, ३१; ४, २, ८०; ५, २,  
 १३५.  
 तामालेय- पा० ४, २, ८०.  
 तमालि (तु >) नी- पा ५, २,  
 १३५.  
 तमसासमाप्यति० बाधौ ३, ४, १,  
 ४१.  
 तमितोसु प्रथ. √तम् द.  
 तिम्यभ्युका अत्र २०, ६२.  
 त्तम्यल- लः अत्र ३, ८, ११.  
 त्तम्यल- > ल-बीणा- आः  
 आपथी २१, १७, १६; १९,  
 २.  
 √तय पाथा. भा. पर. गती.  
 तय- सुप्त- द.  
 ता, ता'य- पाग ६, १, १९९.  
 त्तर- > तर-तम- पाग ५, १, १२४,  
 -तयोः सुप्ता ५, २, शीव ४,  
 १६.  
 त्तरतम्य- पा ५, १, १२४.  
 त्तर- √तृ द.  
 त्तरतु- पाठमो २, १, १०९; कि ४३,  
 -दुः अत्र ६८, ५, ८.  
 त्तरक- (> तरदित- , द्विद्व- ) जी-  
 (पा.) पाठ १, १२०; पाग ५, २,  
 ३६; १३५.  
 त्तर-व (त >) नी- (> तर-

वतिक- पा. ) पाग ४, २, ६०.  
 तरण-, ष्ति- प्रथ. √तृ द.  
 तरण्ड- पाठमो २, २, ११६; पाग २,  
 ४, ३१.  
 √तरण्य, तर- , ष्ती-, ष्चै- √तृ द.  
 तरन्त- पाठ ३, १२८; -न्तम् वृदे  
 ५, ६१; ८०.  
 तरन्त-पुहमीठ [ ल्ह° ]- दाम्याम्  
 निम् ९, ९; १०; -दौ अत्र २,  
 ५, ६१; वृदे ५, ६२.  
 तरन्त-महिनी- षीम् अत्र २, ५,  
 ६१.  
 तरन्ता(न्त-अ)नुम(त >) ना- वा  
 वृदे ५, ६२.  
 तरन्ती- √तृ द.  
 तरल- पाठमो २, ३, १८९.  
 तरल-व्य-नेमि- षोय- ष्येयु अत्र  
 ६५, १, ६.  
 तरस- √तृ द.  
 त्तरस- -न्तम् बीधौ २८, १३; २;  
 -तेन बीधौ २८, १३. २२.  
 त्तरस- -साः आपथी २३, ११,  
 १३, द्विधौ १८, ४, १६.  
 तरस-पुरोडास- नाः आपथी २३,  
 ११, १४; -नाम् आपथी २३,  
 ११, ११; द्विधौ १८, ४, १४;  
 निम् १०, ५. १८  
 तरम-मय- ष्या- काथी २४, ५, २०;  
 वाप १४, १५.  
 तरसान- पाठ २, ८६.

तरस्यत्- प्रथ. √तृ द.  
 त(र >)रा- -ना याति १, ७१.  
 त्राम- > रा- -राम् याति १,  
 ७२.  
 तरि- पाठ ४, १३९.  
 तरितव्य-, तरिन्-, तरिप्यत्- √तृ द.-  
 र्तरि- -यैः बीधौ १७, ३१; १४;  
 १७.  
 र्तरि- √तृ द.  
 र्तरि- पाठ ४, २६.  
 तर्ह- पाठ १, ७; पाग २, १, ५६; ५,  
 २, १००.  
 तर्ह-वृदे ३, २८.  
 तर्ह- पा ५, २, १००.  
 तरुक्ष- पाग ४, १, १८; १०५; -क्षाय  
 आश्रित १, २, २; १८; शीव ३,  
 ९, ५; भाग ३, १०; ३; द्विध-  
 २, १९, ६.  
 तारुक्ष- पा ४, १, १०५.  
 तारुक्षाय(व >) गी- पा ४, १,  
 १८.  
 तरुण, ण- पाठ ३, ५४; पाग ४, १,  
 ४१; ८६; ५, १, १२३; पानाग  
 ८, २, १८; -णः आपमं २,  
 १५, ४; कु ८, १; आश्र २, ८,  
 १६; कौय ३, २, ६; शीव ३, २,  
 ८; पाय ३, ४, ४; आश्रित २, ४,  
 १; १५, काय ११, २; भाग २,  
 ३; ८; भाग २, ११, १२; द्विध  
 १, २७, ४; -णम् माति १४,

a) = वृक्ष-विशेष- । व्यु ? < √तम् इति पाठः । b) पाठः इति कृत्वा तद्, (मासु-) मामम्, ब्राह्मण्ययति इति षोयः । c) = मृग-न-विशेष- । व्यु ? । d) = तामिल-देश- । व्यु. ? । e) तथा. तम्यलबी० <> वाङ्मयवी० इति पाठोः । f) तु. भाण्डा. । g) < √तय इति न्यासः । h) आश्रितायनिकः प्र. । व्यु ? । i) = द्विस-वन्तु- । व्यु. ? < तर- [गति-] + √ति [दिलायाम्] इति अभा. शक., < √तृ इति पाठमो । j) तथा. । व्यु. ? < √तृ इति पाठः । k) = देश-विशेष- । l) तु. पानम. । m) = त्व- । व्यु ? । n) वंश १ द. । o) वृदे. पाठः । p) विप. । व्यु. ? । g) < √तृ इति । r) = मान- । व्यु. ? । s) मत्स्ये अष् प्र. । t) = नीला- । u) = अम्भृति-विशेष- । v) = तरा- । w) = मञ्जूषा- । x) = अक्रुद्ध-बीधि- (उ. स्तरी-) । व्यु. ? । < √तृ (= √तृ) इति नियमम् । y) = वृक्ष- । व्यु. ? ।

१०; १५, १; -<sup>१</sup>णा वैद्य १, ११ :  
६; -णा: बौधाय २५<sup>०</sup>: २ अथ  
७१, १५, २; -णै: अथ २१,  
४, १.

तरुणी- पा ४, १, ४१; पावा  
४, १, १५; -णी अथ ४६, ८, ३;  
-ण्या कप्र २, ८, २५.

तारुण- पा ४, १, ८६.

तारुण्य- पा ५, १, १२३.

तरुण-गृह- द्वेषु वाथ १६, १२.

तरुण-त्वा-, तरुण-त्व-, तरुणिमन्-  
पा ५, १, १२३.

तरुणे(गु-इ)न्नु- -न्नुम् आमिष्ट २,  
४, ६ : ४३.

तरुन्-, -रुन्- प्रसृ.  $\sqrt{वृ}$  द.

$\sqrt{तर्क}$  पाधा. सुरा. उभ. भाषायाम्.

$\sqrt{तर्क}$ (<sup>०</sup>वधा.)> तर्क- -र्कः पाठ २,  
६, ५; गौष ११, २५; चव्यू २ :  
२८; -र्कम् वा १३, १२; -र्कं  
द्राथी २, ४, १५.

तर्क-लसृ(ः) या १३, १२.

तर्कार-( > <sup>१</sup>री- पा.) पाठ ४, ३,  
१३९; पाग ४, १, ४१.

तर्कु- पाठ १, १६; -कुं या २, १.

$\sqrt{तर्ज}$  पाधा. भ्वा. पर. भर्त्सने; सुरा.  
आराम. तर्जने.

तर्जनी<sup>१</sup>- न्याः याशि १, ६४.

तर्जनि क > )का- -काम् याशि  
१, ६०.

तर्जनी-गुल- -ले विष ६२, ४.

तर्जन्य(नी-ञ)द्गुण- -द्वयोः याशि

१, ६५.

तर्जन्यद्गुण-योग- -गोन शंष  
५७<sup>०</sup>; ४५६<sup>०</sup>; ४५७; ४५८.

तर्जन्यु(नी-ञ)परि याशि १, ५२.

तर्ण- पाठभो २, २, १८२.

तिथ्याः<sup>१</sup> अथ ४८, ८३५.

$\sqrt{तर्द}$  (=  $\sqrt{तृद}$ ) पाधा. भ्वा. पर.  
हिनायाम्.

तर्द-, तर्दन-  $\sqrt{तृद}$  द.

तर्द- पाठ १, ८९.

तर्दन्-  $\sqrt{तृद}$  द.

तर्पण- प्रथ.  $\sqrt{तृप}$  द.

तर्पर- पावाग ८, २, १८८.

तर्पित-  $\sqrt{तृप}$  द.

तर्प- पाठ ३, ६२.

तर्हि तद्- द.

$\sqrt{तत्}$  पाधा. सुरा. उभ. प्रतिश्रयाम्.

१तत्<sup>०</sup>- -लम् वाथी ३, ४, ३, ३७;  
अथ ३, १२, ११.

२तत्<sup>०</sup>- -लम् शंष; या ५, २, २९<sup>०</sup>;  
-लेन कप्र १, १, ७<sup>०</sup>.

तत्-तीर्थ-क्रम- -भेण वैद्य १,  
४ : २.

३तत्<sup>०</sup>- (> तालिन्- पा.) पाग ४, ३,  
१०६.

तत्तत्कार- पाग ४, ३, १०६; -रम्  
जैष्ट १, १४ : ८.

तालवकारिन्- पा ४, ३, १०६.

तत्तादा<sup>१</sup>- -ता अत्रा ३, ४, १५<sup>०</sup>.

तलिन- पाठ २, ५३.

तलुक्ष<sup>०</sup>- [> तालुक्ष्य- (> लुक्षय-

[ए > ]गी- पा.] पाग ४, १,  
१८; १०५.

तलुन<sup>०</sup>- पाठ ३, ५४; पाग ४, १, ४१;  
८६; पावाग ८, २, १८८.

तलुनी- पा ४, १, ४१; पावा ४,  
१, १५.

तलुन- पा ४, १, ८६.

तल्प<sup>१</sup>- पाठ ३, २८; -त्यः माण्ड २,  
७, ८<sup>०</sup>५; -ल्पम् श्रावथी १४,  
११, ३५; १२, १; हिथी;

-ल्पस्य अथ ६, १, २; १०;  
-ल्पान् हिपि १२ : ५; -ल्पे  
श्राथी २१, २, ६; काथी; -ल्पेन  
आमिष्ट ३, ५, ३ : ९; गौषि १,  
३ : ७.

तल्प<sup>०</sup>- -ल्पाः कौत् १७, १४.

तल्प<sup>०</sup>- -ल्पस्य आपर्भ २,  
१५, ३<sup>०</sup>५.

तल्प-ञ- -ञः विष १५, १४.

तल्प-वेज्ञ- -शम् गौष ३, ५, ६; ९.

तल्प-रुप- -यम् गौषी २६, ३३ :  
३.

तल्प-वक्- -वन्तम् गौष १, ६, २२.

तल्प-सम- -मः गौष २३, १२.

तल्प-(स्थ >)स्था- -स्था नाशि २,  
८, १७.

तल्पा(ल-ञ)ञ-वन-ज्ञाम- -वथ<sup>०</sup>-  
-थेयु गौष २२, ३०.

तल्पा(ल-ञ)रोहण- -णम् या ६,  
२७.

तल्प<sup>०</sup>- -ल्प्याः श्रावथी २०, ५.

a) = ऋदि-विशेष-। b) वैष ३ द.। c) नाप.। कर्तु- (<  $\sqrt{कृत्}$  [लेटने]) > नैप. यनि.।

d) = अट्टगुलि-विशेष-। द्यु. १। e) सञ्च सप. कप १, १, ७ कनिष्ठाद्दुष्टयोः इति पाणि.। f) = स्तैन-।

प्राति. द्यु. च ?। g) = पश्चान्तं कण्ठपलटा- इति पागम.। h) = हलाप्र-। द्यु. १। i) = तुला इति नभा.।

j) सप्र. लम् <> लेन इति पाणे.। k) <  $\sqrt{लृत्}$  इति। l) वैष १ द.। m) = तरुण-। n) तु.

पागम.। o) = तल्प-। तत्रजाताथीयः ऋण् प्र.। p) स्वार्थे ष्वञ् प्र.। q) सपा. अथ २, ८, १६

माण्ड २, ११, १२ षोडस्य इति पाणे.। r) विप.। वस.। s) वस. > पठ. > पठ.। तल्प- = (ताल्प्यात्)

भावां.। t) तत्रभवीयः यत् प्र.।

१३१; बोधो; -रुयानाम् बोधो  
१५, १ : १७, ५ : १०.

तल्प- पावाग ८, २, १८.

तय- √तृ द्र.

तयद्- युष्मद्- द्र.

तयद्यावीय- -यानि गौषि १, १, ७.

तयस्-, तविप-, तधीयस्- प्रभृ.

√तृ द्र.

तित्तिने आमिष्ट १, ५, ५ : १२.

तष्ट-, तष्टृ- √तष्ट द्र.

√तस् पाषा. दिवा. पर. उपक्षये.

तसर- पाठ ३, ७५, -रन् निष् ६,

७ : २७; -रेण अपथो १९,

५, ७; दिधो २३, १, ६.

तसर-पद्मन् -श्मणा बोधो ३, २,

७, २.

तस्कर- पाठा ६, १, १५७, -रः आधो

९, ५, २१; अप ४८, ८३१, शंघ

२०१; निष ३, २४१, या ३,

१४६, अप्रा ३, ४, ११; ऋत ४,

७, ७, -रा या ३, १४१; -राः

आमिष्ट २, ५, ९ : १२; जैष्ट २,

६ : १०; अप ५२, ३, १; शुभ्रा

५, ३७, -राणाम् हिष्ट २, ९,

६१; -रान् हिष्ट १, ११, ८२; अप

५३, २, ५; शुभ्रा ३, ५२; -राणाम्

या ३, १४; -रेण्यः

आपथ २, २६, ६; हिष्ट २, ५, २०१

तस्कर-कितवा (व-अ) जगल-गण-ग

णिका-शूद्र-प्रेष्या (व्य-अ) गम्या

गामि-परिवेत्त-परिवित्त-पर्याहि

त-पर्याधान्-पीनर्भवा(व-अ)न्ध-

बधिर-नारण-ह्रीवा(व-अ)वकी

र्णि-वारुणिक-गरदायि-कृदमाभि-

नासिक-वृषलीपत्यु( ति-उ ) पद्

तादो( द-उ ) स्मृशाभि-सोमविक

र्य(यि अ)विकेयविकेत्त-पौस्तिक-

कथक-कुण्डाशि-कुण्ड-गोलक-

यन्त्रकार-काण्डशूद्र-श्रुम-चण्ड-

विद्विशिभ-देवलक-पण्डा(ण्ड-आ)

रुदपतिन-प्रायोस्थित कुनखि-कि

लाशि-ईयावदन्तर्वागक्-शिल्प-

वादिन्नृत्यगी(ईत)नालोपजीवि-

मूह्यसांख्यसरिक-महापथिका

(व-अ)रमकुट्टक-हीनातिरिकाद्-

-ङ्गाः सुषप ८४ : ४.

तस्कर-कीकपा(प १)किटवा(अ)ज

विकयि-पापण्ड-गण-गणिका-

प्रेष्य-परिविण्ण-परिवेत्त-अप्रेदि

बिपु-पर्याहितधेनु-पुनर्भवा( व-

अ )न्ध-बधिर-वा(ईवा)रण-ह्री

वा(व-अ)भिरास्ता(स्त-अ)वकी

र्णि-वारुणिक-कार-गायक-कृद-

साक्षि-स्तेवि-वृषलीपत्यु(ति-अ)

हुताशिगे(!)-विष्ठाशि(ईमि)-

सोमविकयी(ईयि)-कुण्डगोलका-

शियन्त्रकार-ईकान्धवृषुदुकीट-ध-

रवापद-आपणो( ई यि )शिलो

(ईवो)पजीवी(ईवि)-वादिन्नृत-

गानोपजीवी(ईवि)-संयमर-महा-

पथिका(व-अ)रमकुट्टक( ई चर्म )

विक्रमी( ईयिन्-> ईयि )णाम्

सुध ६२.

तस्कर-भय- -यम् आपथ २, २५,

१५, हिष्ट २, ५, ११५.

तस्कर-भापदा( द-आ )कीर्ण- जे

शंघ ४४३.

तस्तमान- √स्तम् द्र.

तस्तुव- -यम् अप ४६, ५, ४१.

तस्थियस्- √स्था द्र.

तित्समे<sup>१</sup> आमिष्ट ३, १, २ : १४ : १७;

२०; २, ३ : ३; ६; ९.

ताक्षशिल- प्रभृ. √तक्ष द्र.

ताच्छय- प्रभृ. तद्- द्र.

ताजक<sup>२</sup> आपथो १३, ९, ११××;

बोधो; पाग १, ४, ५७<sup>३</sup>.

ताजत्- अप ४८, १०६; निष २, १५.

ताड-, षड-, षड- √तड द्र.

ताडाक- १तडा- द्र.

ताड्यमान- √तड द्र.

ताण्ड- प्रभृ. तण्ड- द्र.

ताण्डव- पाग २, ४, ३१.

ताण्डिन्य- तण्डिन्- द्र.

तात<sup>१</sup>- पाठ ३, ९०; पा ५, ४, ३८<sup>२</sup>.

-०त ताथो १५, २४, १; सु

१२, २; १९, २; अश १४, २;

-तः षुड, ४४; -ते कप्र २, ७, ९.

तात-पाद<sup>१</sup>- पाग २, १, ६६.

तातृपाण-, तातृधि- √तृप द्र.

तातृपाण- √तृप द्र.

तात्कालिक-, तात्पर्य-, तात्कथ्य-,

१-२तापामाग्य- तद्- द्र.

तादार्कसहस्रयाजिन्<sup>३</sup>- -जी शिधो

१७, ६, २८.

तादार्थिक-, तादर्थ्य- तद्- द्र.

ताताडु(र>)री<sup>२</sup>- -०ति अप ४८,

११६; या ९, ७; अप्रा ३, १, ७.

तादृश-, -श-प्रभृ., तादृश्य-, -दित-,

ज्ञाय- तद्- द्र.

a) = गजशृङ्गदेश- इति पागम. । b) = साम-विशेष- । घृ. ? । c) या ४, २४ परामृष्टः द्र. ।

d) वैप १ द्र. । e) क्येः ? । f) सप्र. तमरेण, पद्मगा<>तमरपद्मगा इति पागे. । g) पाठः ? तस्य मे

इति द्वि-पदः शोचः (तु. सप्र. बौध २, ८, १२ तस्य वे इति पागे. । h) सोमक इति [पक्षे] पागम., माजक इति [पक्षे]

आप्या. । i) = ताजक (द्र. वैप १, १४०२ ० द्र.) । j) = १तत- । वै १, १४ = ३ C द्र. । k) < १तत- इति

पागम. । l) द्र. पागम. । m) पाठः ? तद्, बर्कस इति संभाव्यते ।

तान-  $\sqrt{\text{तन् द.}}$   
 तानव्य-  $\text{व्यायन- ४तनु- द.}$   
 १,२तानूनपात-,  $\text{पत्र- प्रभु.}$   
 $\sqrt{\text{तन् द.}}$   
 तान्त-  $\sqrt{\text{तप् द.}}$   
 तान्तव-  $\sqrt{\text{तन् द.}}$   
 तान्तव्य-  $\text{व्यायन- २तनु- द.}$   
 तान्तुमत-, तान्त्र-, १तान्व-  
 $\sqrt{\text{तन् द.}}$   
 २तान्व- तन्व- द.  
 ताप- प्रभु, १तापस-  $\sqrt{\text{तप् द.}}$   
 २तापस- ३तपस्- द.  
 ताप्यमान-  $\sqrt{\text{तप् द.}}$   
 १तापुव-  $\text{वन् अत्र ५, १३; वंवि १, १०.}$   
 तामरस- पाठ ३, ११७.  
 तामल<sup>०</sup>->  $\text{ली- ली आपष १, २, ३७; हिष १, १, ६८; लीम् जेष्ट १, १२: ४१.}$   
 तामस- प्रभु. तमस्- द.  
 तामालेय- तमाल- द.  
 तामि-  $\sqrt{\text{तम् द.}}$   
 तामिध- तमध्- द.  
 तामु-  $\text{मु: निष ३, १९१.}$   
 ताम्बूल<sup>०</sup>- पाठ ४, ९०;  $\text{लम् आमिष्ट २, ४, १०: ३८; ३, १, १८.}$   
 ताम्बूल(ल-आ)दि-  $\text{दि आमिष्ट ३, ३, १: १३.}$   
 ताम्र<sup>०</sup>- पाठ २, १६६; पाग ५, १, १२३;  $\text{-घ्र: वैष ३, १५, ७६; अष २३, १, ४; ६, २; २९, २, ४; ५३, ५, १; ६२, १, ४; -प्रम्}$

वाधूथी ४, ६८: ४, आमिष्ट २, ४, ६: ७; वैष्ट ४, १४: १२; अष २१, ३, २; वाध ३, ६३; निष ३, ७१<sup>६</sup>;  $\text{-घ्रा: विष १, २७; -घ्राणि वीथी २६, ५: ३१; -घ्रे अष ६३, ४, ५; -घ्रै: अष ५, १, २; २७, १, १; २; -घ्रौ अष ३९, १, १०.}$   
 ताम्र-कर्ष<sup>०</sup>->  $\text{कृकार्षिक- क: विष ४, १३.}$   
 ताम्र-नीच<sup>०</sup>-  $\text{व: वैष ३, १५, ७६; -वाच वैष ३, १५, ८.}$   
 ताम्र-ता- पा ५, १, १२३.  
 ताम्र-तिल-  $\text{लेन संघ ११६: ७८.}$   
 ताम्र-त्रयु-सीसा (त-आ)यसा (त-आ)व-  $\text{घ्राणि वैष ३, ३, ११.}$   
 ताम्र-त्व- पा ५, १, १२३.  
 ताम्र-धू(स्र->)घ्रा<sup>०</sup>-  $\text{घ्रा: अषा ३, २, २४<sup>१</sup>.}$   
 ताम्र-पट-  $\text{द्वे विष ३, ८२.}$   
 ताम्र-पात्र-  $\text{त्रे अष ३८, १, ४; -घ्रेण अष ३८, ३, १.}$   
 ताम्र-भाजन-  $\text{नम् अष ९, १, ५.}$   
 ताम्र-मय-  $\text{यम् आमिष्ट २, ६, ८: १; -ये अष ४, २, ९.}$   
 ताम्र-रजत-मुषर्ण-  $\text{र्णानाम् वीष १, ५, २७.}$   
 ताम्र-राजत-हैम-  $\text{मानाम् अष २१, २, १.}$   
 ताम्र-नीति-त्रयु-सीस-मय-  $\text{-यानाम् विष २३, २५.}$   
 ताम्र-वत् काप २७८: १.

ताम्र-वर्ण, र्णी<sup>०</sup>-  $\text{र्ण: चव्यु ४: १५; -र्णाया: अष ३८, १, ५.}$   
 ताम्रवर्णी<sup>०</sup>->  $\text{र्णी-पयस्- य: आमिष्ट २, ७, ७: ७.}$   
 ताम्रा(स्र-अ)पहारिन्-  $\text{री शंघ ३७८.}$   
 १ताम्रा(स्र-अ)यस<sup>०</sup>->  $\text{२त<sup>०</sup>- सम् काष्ठ ७, २८; -सेव वीष्ट १, ३, १७.}$   
 ताम्रिमन्-ताम्रव- पा ५, १, १२३.  
 ताम्रप(र्ण->)र्णी<sup>०</sup>-  $\text{वा, पाग ४, २, ८९.}$   
 $\sqrt{\text{ताय<sup>०</sup> पाधा. आ. आत्म. संतान-पालनयो:}}$   
 ताय- पाग ६, १, १९९.  
 १तायत्-  $\text{स्वाम्- दि. द.}$   
 १तायतम्<sup>०</sup> अष ४८, १०७<sup>१</sup>.  
 तायमान-  $\sqrt{\text{तन् द.}}$   
 १तायु<sup>०</sup>-  $\text{सु: अष ४८, ८३; निष ३, २४; या ४, २४; -युम् आधौ ८, १२, २४; या ४, २४<sup>१</sup>.}$   
 १तार-  $\text{तर- द.}$   
 २तार<sup>०</sup>->  $\text{२-पट्ट- ऋ अष ३, ३, ३.}$   
 ३तार<sup>०</sup>-  $\text{रम् पाणि ८; नाशि ४, ६; तैत्रा २३, १२.}$   
 ४तार<sup>०</sup>->  $\text{तार-भाव- व: पावा ६, ३, १०९.}$   
 ५तार, रा<sup>०</sup>-  $\text{पाग ३, ३, १०४; -रा आज्यो ७, १९; -रा: अष ५८<sup>१</sup>, १, ८; ४, १८; ७०<sup>२</sup>, २३, ६; -रान् वैष्ट १, ४: १२१<sup>१</sup>.}$   
 तारा-गणा(स्र-आ)ह्य-  $\text{द्वौ विष ९९, ९.}$

a) वैष १ द.। b) = तमाल-। c) = स्तोत्र-। व्यु. ? <  $\sqrt{\text{तम्। काहक्षायाम्}}$  इति दे.।  
 d) = नागवली-। व्यु. ? <  $\sqrt{\text{तम्}}$  इति श्रमा. प्रभु.। e) विप., नाप. (पातु-विशेष-।) वैष १ द.। f) <  $\sqrt{\text{तम्}}$  इति। g) = जाति-विशेष-। h) = ह्य-। i) उप. = परिमाण-विशेष-। j) तस्येदमीयम् उक् द. उभयपदवृद्धिश्च। k) 'वौ इति ०.। l) विप.। बस.। m) = धेनु-। ह्यौ. टीप् प्र. उर्त्स. (भा ४, १, ६३)। n) पृ १२५ ०, f द.। o) = नगरी-विशेष-। व्यु. ?। p) पा ३, १, ६१ पराष्टः द.। q) अन्तर्हित-नामन्-। r) = धन-। व्यु. ?। s) = वाक्प्रधान-विशेष-। व्यु. ?। t) = तीर-। व्यु. ?। u) = नक्षत्र-। व्यु. ?।

तारा-ग्रह-परिवेप- -पाः अण ६३, ४, ४.  
 तारा-पात- -सैः अण ६४, २, १.  
 तारा-पुञ्ज-प्रतीकात् - -दाः अण ५२, ४, २.  
 तारा-बल- -लम् आज्यो ७, २०.  
 तारा-मण्डल-संवृत- -ताः अण ५२, ४, २.  
 तारा-पथि-समन्वित- -तः आज्यो ७, २२.  
 तारो(रा-उ)क्का-पात-कलुप- -यम् अण ६४, १, ३.  
 तारो(रा-उ)क्का-पात-पिद्मल- -लम् अण ६४, ८, ९.  
 तारफा<sup>१</sup> - पाण ५, २, ३६; पावा ७, ३, ४५, -का कौव १२६, १५<sup>b</sup>, -काः अण ५८<sup>१</sup>, ३, १०; ६४, ७, ४, -काणाम् चाअ ४०: १९<sup>०</sup>, -के अण ३, ७.  
 तारक<sup>१</sup> - काः आपथो २०, १४, ६५  
 तारका(का-आ)सार्<sup>१</sup> - ता अण ५२, ८, ५.  
 तारका(का-आ)हृति- -तौ अण ५२, ७, ५  
 तारका-युक्त- -काः अण ५२, ४, ३  
 तारकित- पा ५, २, ३६.  
 तारकाद्य<sup>१</sup> - -या वीथीप्र ३३: २.  
 तारकायण<sup>१</sup> - -णाः वीथीप्र ३१: ५.  
 तारक्यवतिक- तरङ्ग-द्र.  
 तारङ्गि- (>†दिक्>)का-<sup>१</sup>की-) भारङ्गि, प्री- टि. द.  
 तारण- √तृ द.

तारतम्य- १तर- द्र.  
 तारयितृ-, १पितृम्, तारसिङ्- प्रयु. √तृ द.  
 तारय- १, ५तार- द्र.  
 तारिक- √तृ द.  
 तारुद्वय-, १द्वयायणी- तरुख- द्र.  
 तारुण-, १रुण- तरुण- द्र.  
 तारुर्गाक- तुष्टाक- द्र.  
 रताष्ट्यै<sup>१</sup> - -द्वयैः काथी १०, ७, १६; काथी<sup>१</sup> ११, १४, २८; १६, २, २५; आपथी १४, १६, १५<sup>b</sup>; वीथी १७, १८: ४<sup>१</sup>; द्विथी १५, ५, १५<sup>b</sup>, सु २, ६६; ९, १६; वीण २, २, ११<sup>b</sup>, ३, १०, ६<sup>१</sup>; माय २, १५, ६<sup>b</sup>; अय्य ६, १५<sup>b</sup>, १<sup>१</sup>अण ४८, १३<sup>१</sup>, १३७, १<sup>१</sup>विष १, १४<sup>१</sup>; ५, ४; या १०, २७<sup>१</sup>; अण २, १०, १०८<sup>१</sup>; वृदे १, १२३; साय १, ३३२<sup>१</sup>; -द्वयम् आथी<sup>१</sup> ७, १, १३; ८, ६, १४; सु २, २<sup>१</sup>, ४<sup>१</sup>; १७, ४<sup>१</sup>; १२, ५<sup>१</sup>; ६<sup>१</sup>; वीण २, २, १५<sup>१</sup>, १०<sup>१</sup>; अण २, १०, १०८<sup>१</sup>, वृदे २, ५८<sup>१</sup>; या १०, २८<sup>१</sup>, -द्वयस्य काथी १२, ११, १२<sup>१</sup>, सु ७, ३<sup>१</sup>; -द्वयस्य कौव ७३, ७; -द्वयैण आथी ८, १२, २०<sup>१</sup>.  
 ताष्टी<sup>१</sup> - -द्वयी साय १, ३३२.  
 ताष्ट्यै-द्वैवता-> १व- -रयम् अण ७, ८५  
 ताष्ट्यै-द्वैवत्य- -रयम् वृदे ८, ७७.  
 ताष्ट्यै-पुत्र- -०त्र सु ३०, ४;

-त्रः सु २७, ३; अण २, १०, १४४.  
 ताष्ट्यै(द्व्यै-अ)र्वि- -र्विः वृदे २, ५८.  
 ताष्ट्यै-वर्जम् आथी ९, १, १५.  
 ताष्ट्यै-सामन्- -मनी जैथीका २४; ३९; काथी २, २, २१; ताथी १, ६, १९.  
 ताष्ट्यै(द्व्यै-आ)दि- -दिः आथी ६, १, ५.  
 रताष्ट्यै-, १द्वयायण- प्रयु. तुष्ट- द्र.  
 ताष्टी<sup>१</sup> - -छैम् कौव ४८, २४.  
 रताष्टी- १तृण- द्र.  
 रताष्टी- २तृण- द्र.  
 ताष्टीकण- तृणकण- द्र.  
 ताष्टीयिन्द्वि-, १वीय- १तृण- द्र.  
 ताष्टीयन- २तृण- द्र.  
 ताष्टीय- प्रयु. त्रि- द्र.  
 ताष्ट्यै<sup>१</sup> - -द्वयम् काथी १६, १२, २०; काथी; -द्वयायि माथी ५, २, ५, १; -द्वयै द्विथी १४, ३, ५६; १७, ६, ३१; -द्वयैण वीथी १५, २८: २६; २९: ३३; वाथी ३, ४, ४, ९; द्विथी १४, ४, ९; भाशि ७१<sup>१</sup>.  
 ताष्ट्यै-पांड्वि(द्व-अ)धीवामो(स-उ)ष्णीप<sup>१</sup> - -पाणि शुअ १, ६००.  
 ताष्ट्यै-प्रवृत्ति- -तीनि काथी १५, ५, १४.  
 ताष्ट्यै-युक्त<sup>१</sup> - -लानाम् वीष १, ६, १२.  
 ताष्ट्यै(द्व्यै-आ)दि- -द्वीनि काथी १५, ७, २५.  
 †ताष्टी(व>)वी<sup>१</sup> - -धीः अण ४६,

a) वैप १ द. । b) पाथि. वैप १, १४७३ द. । c) विप. । = तारका-तरुण- । d) विप. । बम. । e) = अवि-विशेष- । व्यु. १ । f) बप्रा. । विवेकः उत्तरेषु टि. द. । g) = गह्वर- । h) पाथि. वैप १, १४७३ द. । i) = सर्व-विशेष- । j) = अरय- । k) = सृङ्ग-विशेष- । l) = अवि-विशेष- । m) = अचु- । वा त्रिपाण- वा घृताल- वा । नृ. काथी १५, ५, ७-१० । p) द्रव. । पांड्वि = रक्तम्वल- इति म. (उ. तत्रयै टि.) ।

५,५; अर्था २१,३.  
 -**ताण्य**- **वृत्** द.  
**रैताल**- पा, पाय ४, ३, १५२;  
 -लान् पाया ४,३,१५२.  
**तालवृन्त**- -न्तैः आगिष्ट २, ४,  
 ६ : ३९.  
**तालवृन्त-चामर-प्रदान-** न्नेम  
 विध ९२,३०.  
**तालवृन्त-चामरा(र-अ)श्व-मात्रा-**  
 (ज-अ)ज-नो-दधि-क्षीर-मधु-  
 मिद्वार्थक- -काम् विध ६३,२०  
**\*रैताल**<sup>०</sup>- -लम्<sup>०</sup> आपथी १६, १८,  
 ४; वैथी १८, १५ : १२; द्विथी  
 ११,६,२६.  
**रैताल**<sup>०</sup>- -लम्<sup>०</sup> वैथी ११,१० : ५.  
**\*धताल**<sup>०</sup>-> **ताल-हीन**- -नम् यासि  
 १,३०; नासि १,३,१२६.  
**\*धताल**- (> **ताली**<sup>०</sup> पा.) पाग ४,  
 १,४२.  
**तालवक्ररिन्-** तलवकार- द.  
**तालव्य-** तालु- द.  
**तालि-** पाठमो २,१,१६८.  
**तालिन-** तल- द.  
**ताली**<sup>०</sup> (> **ताली**<sup>०</sup> कृ. पा.) पाग १,  
 ४,६१.  
**-तालीस-** पाठमो २,३,१८०.  
**-तालु**<sup>०</sup>-पाठ १, ५; पाग ५, ४, २९;  
 -लु अप ४७, २, १; वा ५,  
 २६<sup>०</sup>; ऋप्रा; -लुनि कौष १०,  
 १५; २९, २२; ऋत २, १, ५;  
 -लौ शुभा १,६६; तैप्रा २,२२;

३६; ३,४०.  
**तालव्य,घ्या-** -व्यः वृदे ८, ११२;  
 ११७; मासि ८, १<sup>०</sup>; नासि  
 २,५,५; -व्यस्म यासि २,२०;  
 -व्याः शुभा ८, ३९; पासि;  
 -व्यानाम् शौच १, २१; आसि  
 २,५; -व्याभिः शंघ ९३<sup>०</sup>;  
 -व्ये ऋप्रा ४, ११; १४, ४६;  
 -व्यौ ऋप्रा १,४२.  
**तालव्या(व्य-आ)दि-** -देः ऋत  
 ५,३,६.  
**तालु-क-** पा ५,४,२९.  
**तालु-** (ग >) गा- गाभिः शंघ  
 ९४; वैष २,१०,१.  
**तालु-स्था(स्थ-अ)चल-** जिह्व-  
 -हः विध ९७,१.  
**तालु-स्थान-** -ने शार्थी १,२,४.  
**तालु-स्थान**<sup>०</sup>- -नः ऋप्रा १४,४७;  
 -नाः शुभा १,७९.  
**तालु(लु-उ)दर-** -रम् विध ९६,  
 ९२.  
**तालु(लु-ओ)ह-** -हयोः अप ४७,  
 १,१९; शुभा १,७३.  
**तालुक-धीणा**<sup>०</sup>- -णाः द्विथी १६,  
 ६,२१<sup>०</sup>.  
**तालुष्य-** ,<sup>०</sup>कपायण-,<sup>०</sup>प्यी- तलुस-  
 द.  
**तालुन-** तलुन- द.  
**तालूर-** पाठमो २,३,५८.  
**तालप-** ,<sup>०</sup>ल्प- तहा- द.  
**तावक-** ,<sup>०</sup>वकीन- वुप्पद- द.

**तावत्-** ,<sup>०</sup>तिथ- तद्- द.  
**तायिप-** **वृ** द.  
**तासीर-** पाठमो २,३,५०.  
**ति**<sup>०</sup>-> **ति-लोप-** -ये पावा १,१,५७.  
**वित्** पाथा. भ्वा. आत्म.; स्वा.  
 पर. गतौ.  
**तिक**<sup>०</sup>- पाग ४,१,९९; १५४; २,९०९.  
**तेकायन-** पा ४,१,९९.  
**तेकायनि-** पा ४,१,१५४.  
**तिककितर-** पा, पाग २,४,६८.  
**तिकोय-** पा ४,२,९०.  
**वित्** पाथा. स्वा. पर. गतौ.  
**वित्**<sup>०</sup> पाथा. भ्वा. आत्म.; चुरा.  
 पर. निराणे, तितिक्षते वाधुथी  
 ३,१ : १; तितिक्षेव निवृ २,८ :  
 २५; विध ९६,१९.  
**तेतिके** पा ७,४,६५.  
**तिक**<sup>०</sup>- -कम् विध ६१,१५.  
**तितिक्षा(क-अ)य(न >)नी**<sup>०</sup>-  
**नी**<sup>०</sup> आपथी ७,३,१४; वीथी ४,  
 २ : ७; माथी ७, १, १; द्विथी  
 ४,१,४३.  
**तिग्म**<sup>०</sup>- पाठ १,१४६; -ग्मः निप  
 २,२०<sup>०</sup>; -ग्मम्<sup>०</sup> वैताथी ९, २;  
 कौष १, १९, १०<sup>०</sup>; शंघ १,  
 २७, ७<sup>०</sup>; या १०,६<sup>०</sup>; यासि  
 ११२<sup>०</sup>; -तुग्मेन कथी १८,३,  
 ११; आपथी.  
**तुग्मिन्-ता-** -व्या अप १,३८,  
 १; अर्था ८,१.  
**तिग्म-तेजस्**<sup>०</sup>- -जसाम् वृदे ६,

a) विप., नाप. (चल-विधय-). व्यु. ?। b) = व्यजन-। वस.। c) = ताड-। कशा-। व्यु. ?। < **तल्ल**  
 (ह) इति स्वात्। d) सपा. मै २,७,१२ ताडम् इति पाठे.। e) = द्रापसाहसुल-। प्रमाण-विशेष-। व्यु. ?।  
 f) वैप ३,३६० ई द.। g) तालुदी<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शेषः (दु. कालि. नासि. च)। h) तु, पागम.।  
 = [लोहमयी-] कुधिक-। i) अर्थवित्तरः पागम. द.। j) वैप १ द.। k) विप. (तालुग-। २ चम्पु)।  
 l) विर.। वस.। m) = वाच-विशेष-। व्यु. ?। n) पाठे. पृ ११६४८ द.। o) विंशति- इत्यस्वा-  
 -न्तिगवर्णे-। p) व्यप.। व्यु. ?। q) अर्थः ?। r) पा ३, १,५ परामृष्टः द.। s) = रस-विशेष-।  
 t) पाठे. वैप १, १४६७ p द.। u) पाठे. वैप १, १४७४ g द.।

८४; -तृजाः बोधो १, ११ :  
 ४; माधो २, १, १; यासि २, ८.  
 तृजिम-श्रु- -श्रः आधो ७, ५,  
 २०×४; शाधो.  
 तिममा(म-आ)युध- -घाघ या  
 १०, ६१६.  
 तिममे(म-इ)तु- -भक्: या १०,  
 २०१.  
 तितिल- पाउ १, ५६.  
 तितिक्ष- (> तैतिक्ष- >) तैति-  
 क्ष-] पा. ७, १, १०५; २,  
 १११.  
 तितिक्षा- पाय ७, ४, ६२; -क्षा  
 वाधुधो ३, १ : ८; विध ९२, ५;  
 -क्षायाम् पा १, २, २०.  
 तैतिक्ष- पा ७, ४, ६२.  
 तृक्ष्ण, क्ष्ण- पाउ ३, १८; -क्ष्णः  
 अय ३६, २, ६; ६८, १, ११;  
 वाउ, -क्ष्णम् अय ३६, १६,  
 १×४; आपध; -क्ष्ण काधो १६,  
 २, ५, वाधुधो ७, १५:२; -क्ष्णा.  
 सु ८, ३; -क्ष्णाम् माधो ६, १,  
 १, ८; वाधुधो ७, १५ : ४;  
 -तृक्ष्णाय अय ३६, १, १५; ६६,  
 २, ६, ३, २; गौध २६, १२;  
 -क्ष्णे वैधो १०, १ : १०.  
 तीक्ष्ण-काष्ठ- -छेन बोध ३, २, ३.  
 तीक्ष्ण-तैल- -लम् अय ३६,  
 ३०, १.  
 तीक्ष्ण-शीति-प्रकारा- -ख-  
 -स्वाय नासि १, ५, १५.  
 तीक्ष्ण-श्रेष्ठ- -श्राय अय ३६,  
 १, १५१.

तीक्ष्ण-रूप- > ष्विन्- -पिणे  
 गौध २६, १२१.  
 तीक्ष्ण-शूल-विशाला (ल-  
 अम् >) वा- -मा अय ५८,  
 २, ३.  
 तीक्ष्ण-स्वर- -रेण अय ७०,  
 ६, ८.  
 तीक्ष्ण(क्ष्ण-अ)म- -मा: शंघ  
 ३७४.  
 तीक्ष्ण(क्ष्ण-अन्त)न्ता-  
 -न्ता: कय २, ८, २.  
 तीक्ष्ण(क्ष्ण-अ)र्थ- -स्व- -स्वाय  
 काधो ८, २, १०.  
 तीक्ष्ण(क्ष्ण-अ)सृग्-विप-  
 युक्त- -कानाम् अय ३६, २, ५.  
 तीक्ष्णो/कृ > ष्विन्-करण-  
 -णम् वैध ३, २३ : ५.  
 तीक्ष्णी-कृत्य वैधो ७, ११:७.  
 तीक्ष्णीयस्- -यसो निम् ३,  
 १३ : २७.  
 तैक्ष्णिक- -छम् आपधो २१,  
 १२, ३१.  
 तृक्ष्ण- (> तैक्ष्णायन- पा.) पाय  
 ७, १, ११०.  
 तृज- > तृजेविष्ठ, छ- -हृष्य  
 काधो १, १, २, १४; -छ आपधो  
 ७, ६, ४, माधो ७, ९, २; वैधो  
 ५, ७ : २, दिधो ६, २, १५;  
 -छेन आपधो २, ४, १०; १६,  
 ३२, ५, बोधो १, १२ : ३, माधो  
 २, ४, ११; वैधो १८, १६ : ४६;  
 दिधो ११, ८, ११.  
 तेजोय- -यसा बोधो १३, ५ :

१४१.  
 तेजन- पाय ७, १, ४१; -तृजम्:  
 आपधो १४, २१, ३; दिधो १५,  
 १, १६; आमित ३, ७, १ : १४;  
 बोधि १७ : १३.  
 तेजनी- पा ७, १, ४१;  
 -नी दिधो ७, ५, २५; काधो ९,  
 ३, २७; -नी: आपधो ११, ८,  
 २; २१, १२, ९; दिधो ७, ५, २७;  
 ७, २१; -नीभि: दिधो १६, ५,  
 ३; -नीय काधो २१, ३, २६;  
 वाधुधो; -नीयु वाय १०, १३;  
 -न्याम् माधो २, २, २९; ३१;  
 वाय १४, ५.  
 तेजनि-संघात- -जे  
 दिधो १६, ६, ३३.  
 तेजन्(नी-अ)उ-  
 -न्तो माधो २, २, २, ३०.  
 तेजन- -ज: आपधो १७,  
 १४, ८१; -जे वाधो ३, ४, ५, ९.  
 तेजनी- > ष्विन्-स्वच्-  
 -तृजक् हाधो ११, २, ६; काधो  
 ७, २, ८.  
 तेजन-संघात- -जे आपधो  
 २१, १८, ५.  
 तेजम्- -ज: तृजाधो २, ३, ४×४;  
 शाधो; आपधो १०, २८, ५६;  
 -जस: पाय २, ६, २९; वृदे १,  
 १८; या १४, ५; -जया आपधो  
 ३, १४, १३; काधो; आपधो ८,  
 ४, २; माधो ६, १, ८, १०, १०;  
 -जसाम् वाधो १, १, २, ३१;  
 -जसि नाधो १५, ४, ४; बोधो

a) वैप १ द. 1 b) = अग्नि-विशेष-। व्यु १। c) पूष. = कृष्ण-सर्प-। d) विप.। वम.।  
 e) विप.। वस. > वस. > वग.। f) वस. > मलो. वस. > वृष.। g) वैप २, ३ सं. द. 1 h) = यति- इति  
 गोपीनाथ.। i) वम. ष्विन्संघाते > ष्विन्संघाते इति पामे.। j) विप.। वस. पूष. हृष्यः। k) पामे. वैप २,  
 ३ सं. तेजः सैदा ३, ७, ११ डि. द. 1 l) पामे. वैप २, ३ सं. तेजसा तेना १, ५, ५, १ डि. द. 1 m) पामे. वैप १,  
 १४ ०६ i द. 1



२०, २ : १७; माथी १, ७, २, २३; -जसे आथी ५, १३, १२; शांथी; आपथी १२, ९, १३; आपथं २, ८, ११; -जांसि अप ५८, २, ६; -जोभिः कप्र ३, १, १५.

तेजस<sup>१</sup>- -सः या १२, ३७; -सम् वीध १, ५, २२; या १४, ७; -सानाम् शंघ १७२; वीध १, ५, २६; ६, ३५; विध ९२, १५; सुप ८७ : १६; -सानि विध ७९, १४; २२; ८७, ६; -सैः वृद्धि १, ८८.

तेजस-द्रव्य-संभ(व>) च्वा- -वा कप्र २, ५, १०.

तेजस-मासिक-दारव-दान्तव- -वानाम् वीध १, ३१.

तेजस-सुम्भय-दारव-तान्तव- -वानाम् वाध ३, ५६.

तेजस-वन्त वाध ३, ५०; वीध १, ५, ३८; वीध १, ३२.

तेजसा(स-अ)पहारिन्- -री शंघ ३७६; ३७७ : १.

तेजसा(स-अ)इममयन्तु-न्मय- -येषु आण ४, ७, १०.

तेज-आदि- -दि आपथी २, ६, ४.

तेजस-काय- -यम् आपथ १, २२, ६.

तेजस-काम- -मः शांथी १४, ४, १५; काथी; -मम् वीध २, ५, ५; आपथ १, १, २३; द्विध १, १, २३; -मस्य शांथी १५, ४, २;

आपथी; -माः वीथी ३, १४ : ९; -मानि शांथी १४, ७८, २.

तेजस-कामिन्- -मी आमिण २, ४, ११ : २४.

तेजस-काय- -यम् द्विध १, ६, ६.

तेजस-व्य- -व्यात् मीसू ८, १, ३५.

तेजस(स्य>)स्वा<sup>१</sup>- -स्वा वीथी १३, ३४ : ५; -स्याः आपथी १८, १३, १७; वीथी १२, ८ : १५; द्विथी १३, ५, १४.

तेजस-व्य- -व्यत् आपथी २२, २६, ३; वीथी १८, ९ : ५; द्विथी; -वते आपथी २२, २६, २; वीथी १३, ५ : १२; १४, ११; ४<sup>३</sup>; ५<sup>३</sup>; ५<sup>३</sup>xx; द्विथी; -वन्तम् आपथी २२, २६, २; वीथी; -वान् वीथी १८, ९ : ६; माथी.

तेजस-विन्- -वि अप १, ९, ४; -<sup>१</sup>विन् आपथी १३, ८, ९; वीथी १४, ११ : ६; वैथी १६, ९ : १४; द्विथी २, २, ३२; -विन्तम् अप ३, १, १३; -विना अप १८, १, ११; -<sup>१</sup>वी आपथी ६, २३, १; १९, १४, १३; वीथी ७, १३ : २६; १४, ११ : ६xx; द्विथी ६, ६, २६; ९, २, ३२xx; पाठ.

तेजस्विनी- -नि माण २, १४, ३०; -नी. द्विथी ११, ८, ११.

तेजस्वि-तम- -मः काय

५२, ५.

तेजस-सद्- -सत् आपथी १६, २९, २; वैथी १८, २० : २८; द्विथी ११, ८, ५.

तेजो-दा<sup>१</sup>- -दाः अप्राय ६, ३१.

तेजो-धातु-मय- -याः अप ५२, १२, ५.

तेजो-वल्- -लेन सु २४, १.

तेजो-महवर्षस-पुरोधा-काम- -मस्य काथी २२, ५, ११.

तेजो-मय- -यः शुभ ४, २९६. -वेन वीध १, २, १४.

तेजो-मूर्ति- -र्तिः वैथी २, ६, ९; तेजो-रूप- -पम् शंघ १२३.

तेजोवस्तव<sup>१</sup>- वैध २, १४ : ३; वैध २, २, २.

तेजो-विद्- -वित् आपथी १३, ८, ९; वीथी १४, ११ : ८; वैथी १६, १० : १.

तेजो-विशेष- -येण आपथ २, १३, ८; द्विध २, ३, ७.

तेजो-वत्- -सम् कौत् १८, २३; अप १८, १४, १.

तेजिजान<sup>१</sup>- -नः वीथी ४, १ : २६; भाथी ७, २, ४.

तितउ<sup>१</sup>- पाठ ५, ५२; -उ अप ४८, ११६; निध ४, १; या ४, ९; -उना या ४, १०; ऋषा २, १३; -उनि कौत् २६, २; ३१; ३०, १७.

तितउ-प्रभ<sup>१</sup>- -सौ कौत् २६, ३, ५.

तितनिधु- <sup>१</sup>त्त्वं द.

तितिक्ष-<sup>१</sup>, क्षा- <sup>१</sup>त्तिज् द.

a) पाथे. घृ ११७० I टि. द. । b) पाथे. वैध १, १४७७ ० द. । c) पाथे. घृ ४६७ j द. । d) विध. । स्वाथे विकारार्थे वा अण् प्र. । e) = (संप्रायस्थायाम्) आत्म-स्वरूप- । f) सत्र. जसका <> जसका इति पाथे. । g) वैध १ द. । h) पाथे. वैध १, ६९० h द. । i) पाथे. वैध १, ६८९ d द. । j) पाथे. वैध १, ६९० q द. । k) पाठः १ (सु. संस्कृतः टि.) । l) = घृतायन- (सु. दारिद्र्यः) । m) पाथे. वैध १, १४७४ II द. । n) दत्त. उप. = उष्णीष- वा इण्ड- वा ।

तितिमम्- (> तैत्तिम्य- पा.) पाग  
 ४,१,१०५  
 इतिचिर- रम् ऊष २२३.  
 तैत्तिर- रम् आय १,१६,३; कौश  
 १,११,३; शाण्ड १,२७,३; -रेण  
 आपण १६,२.  
 रतिचिर- नाय<sup>०</sup> आशिष्ठ १,२,२ :  
 २८; हिण्ड २,२०,१०.  
 इतिचिरि- पाठक ४, १४३; -रि:  
 विष ४४, २६; मा ३, १०६<sup>०</sup>;  
 शुभ्रा ३, ८१<sup>०</sup>; -रिम् विष  
 ५०, ३७; -रीम् आपणो २०,  
 १४, ५१<sup>०</sup>.  
 तितिरि-अपिञ्जल-आवक-वर्तिका-  
 मयूर-वर्जम् विष ५१, ३१.  
 तितिरि-कपोल-कपिञ्जल-वर्धोगम-  
 मयूर-वारण- -याः वीष १, ५,  
 १३३.  
 रतिचिरि- पाग ४, १,१०५; २,  
 १११; -ये<sup>०</sup> वीण ३,९,६; माण  
 ३,११ : १; -रिः वृदे ६,१५१.  
 तैत्तिरीय- पा ४,३,१०३; -याः  
 वीधीय ९ : २, निम् ९,३ : १९,  
 २५; नाति १,१,११; -याणाम्  
 देमा २३,१८.  
 तैत्तिरीयक- -आः चयू २ :  
 १३, तैमा २३,१७.  
 तैत्तिरीय-माक्षण- -णम् अत्राय  
 ६,८.  
 तैत्तिरीया (य-आ) द्वाक- -केयु

नाति १,१,९.  
 तैत्तिर्य- पा ४,१,१०५.  
 रतैत्तिर- पा ४,२,१११.  
 तितीरिपत्-, तीपंत्-, पंमाण-,  
 प्या- √गृ ६.  
 तिथ- पाठ २,१२.  
 तितियि- पाठभो २,१,२०३; -ययः  
 शंष ११५; आयो ६, ८; ११;  
 -यये गोष्ट २, ८, १२; -यिः  
 अय २, ५, ५, ३५, १, ४; वीथ;  
 -यिम् माण १, १०, ९; २, २,  
 १५; वाण; -यिषु या ४, ५;  
 -येः कागुड ४४ : ८; आयो  
 ७,१३; १७, २१; -धौ शाण्ड ५,  
 २, २; अय २२, १, ४; ३१, ५, १;  
 आयो ७, ४.  
 इतिथि-अक्षय-अयोरगतसः (ः)<sup>०</sup> अय  
 ३६, २, १.  
 तिथि-करण-मुहूर्त-नक्षत्र-महा(ह-  
 आ)दि-दीनाम् अय ७२, ३, ६.  
 तिथि-हिङ्ग- -द्राणि अय ३१, ५, १;  
 -द्रेषु अय ३१, ८, ६.  
 तिथि-ज्ञ- -ज्ञाः आयो ६, ११.  
 तिथि-देवता- -गाः अय ३, ६, ९;  
 -याम् माण १, १०, ९; २, २, १५.  
 तिथि-द्वय-म्राह्मण-संयोग- -ते अय  
 ४४, १, ६.  
 तिथि-नक्षत्र- -अम् वेज्यो २०.  
 तिथि-नक्षत्र-करण-मुहूर्त- -लैव  
 आयो ७, १२.

तिथि-नक्षत्र-पूर्व-समवाय- -ये गोष्ट  
 १,१,१३.  
 तिथि-निष्ठा- -ष्टाम् वेज्यो २२.  
 तिथि-मा(भ-आ)दान->दानि-  
 (क>)आ<sup>०</sup> -याः वेज्यो २१-  
 तिथि-वारा(र-आ)दि- -दिमिः  
 वीपि २,१०,७.  
 तिथि-विचक्षण- -याः आयो ७, ४.  
 तिथ्यिक- (> तैथ्यिक्य- पा.) पाग  
 ५,१,१२८.  
 तिनिसा- पाठभो २,३,१४७.  
 तिन्तिडोकि- पाठ ४,२०.  
 तिम्रिणीक- पाठना ४,२०.  
 तिन्दुक- पाठभो २,२,२२.  
 तिन्दुक-ज्योतिष- (> तिसीय-  
 पा.) पाग ५,३,१०६.  
 √ति. तोपू पाघा. अ्या. आत्व. धरणे...  
 √तिम् पाघा. दिवा. पर. आद्रांभावे.  
 तिमि- पाठ ४,१२२; पाग ८,२,९,  
 ९.  
 तिमि-निल- पावा ६,३,६९.  
 तिमि-नव- पा ८,२,९.  
 तिमिर- पाठ १, ५१; पाग २, ४,  
 ३१; पावाग ८, ४, ३९<sup>०</sup>.  
 तिमिर-मकर-नग-नाग-नक्ष-म्राह-दी-  
 शुमार-शङ्ख-दुम-कुम्भी(मैन्ड)मि-  
 हाप-महिष-वराह-दिग्विन्द-नव-  
 कुम्भ-अण्डाङ्क-ति-नल-कलदा-  
 कुम्भ-साधोद-नोरणा(ए-आ)वर्ष-  
 स्वस्तिक-वर्धमान-रवीन्द्रजतम-

a) दु. पागम. 1 व्यप. 1 शु. ? । b) = पक्षि-विशेष- । शु. ? । c) = अक्षि-विशेष- । शु. ? । d) सवा.  
 प्राय <> पथे इति पाठे. । e) पायो इति पाठ ? इये ड इति गोषः (द्र. B. 0. 1. 2 DMG ५२, ८८) ।  
 f) वैर १ ६. । g) पाये. वैर १, १४०८ k द. । h) पाये. वैर १, १४०८ । d. । i) दु. पागम. 1.  
 j) = शास्त्रायायिन- । k) = तैत्तिरीयानय- । तस्येवमीयः कुम्भ प्र. (पा ४, ३, १२६) । l) = काल-विशेष- ।  
 शु. ? । < √ लम् इति पाठभो, < √ अम् इति अ्या. । m) पाठः (द्र. संस्कृतः हकी) ? आ(ह-आ)य-यो  
 इति गोषः विपर्ययः । n) मवर्षे ड् प्र. । o) तिन्तिडोकि- इति पाग ४, ३, १५१ । p) = वृष-विशेष- ।  
 शु. ? । q) = मत्स्य-विशेष- । शु. ? । r) उच. उप. क. प्र. 1 s) मया. 1 शु. ? । t) = पावाग ८, ४, ३१ ।  
 तिमिरा- इति भाष्या. नाति, तिमिरिआ- इति पाघा. ।

द्राणिपनाकाशिवतारा-स्थान-  
विविध-जलचर-पक्षि-विरुत-चतु-  
ष्पाद(द-आ)कार- रेणु अत्र  
६५, १, ४.

तिमिर, रा-वन- पावाट, ४, ३९.

तिमिरिका-वन- तिमिर- टि. द.

तिर<sup>२</sup> > तिर/अच् > तिर (इ-अ)-  
च् - रक् वीथी २५, ३: ३१<sup>०</sup>.

३तिरदन्वी<sup>१</sup> - शो: श्रम २, ८, ९५;  
साथ १, ३४९; ३५०; - १<sup>१</sup>दन्वा:  
आथी ७, ८, ३; शायी १२, २६,  
६.

तैरदन्व<sup>२</sup> - इच्यम् जुम् २, १५:  
२४; निम् ५, ७: २७; ८, ४:  
२१; २३; ८: ३२.

तैरदन्व(रन्व-श्र)च् - क्षु  
लाथी ६, ८, १२.

तैरदन्वो(रन्व-ज)त्(म >)  
सा- न्मायाम् लाथी ६, ८,  
१२.

तिरक्षी-दुनान- नौ श्रम २०,  
१३७.

३तिरदन्वी, श्वीन- तिररु द्र.

३तिरदन्वीनर्थे<sup>१</sup> कौस् १२४, ४.

तिरस्<sup>१</sup>(ः) पावना छ, २२४; १<sup>१</sup>आथी  
१, २, ७; २, ५, ७; शोथी ८, २४,  
११; १<sup>१</sup>आपथी ६, २५, ३, ९, १२,  
४<sup>१</sup>; १४, २२, ३<sup>१</sup>; वीथी; १<sup>१</sup>आथी  
३, १०, २<sup>१</sup>; ६, ५, ५; आपनं  
२, २२, २४<sup>१</sup>; आणिय ३,  
७, २: ३<sup>१</sup>; वीथि १, ७७: २४<sup>१</sup>;

कौस् ७२, २<sup>१</sup>; निच ३, २९<sup>१</sup>;  
या ३, २०<sup>१</sup>; ५, ४<sup>१</sup>; ५<sup>१</sup>; १२,  
३२; वा १, ४, ७१; पाग १, १,  
३७; ३, १, २७.

तिर-पवित्र<sup>२</sup> - अम् आपथी १,  
१३, ६; १४, ३<sup>१</sup>; वीथी १, ३:  
३१; ४: २१×४; माथी, द्विय  
१, १, २७<sup>१</sup>.

तिरस्-चर्म<sup>२</sup> - मन् वीथी ६, २८:  
४५; ७, ५, १९; ८, १, ११; २५,  
२२, ६.

तिरस्/क्षु > कृत्य काथी ६, १,  
१३; वीथ १, ५, ६८; पा १, ४,  
७२.

√तिरस्व पा ३, १, २७.

तिरो-भक्षि<sup>२</sup> - नस्व वीथी १७,  
१०: १७<sup>१</sup>; -या: तैमा ११,  
१७<sup>१</sup>; -यान् आपथी १४, ४,  
८<sup>१</sup>; वीथी १७, १०: १३<sup>१</sup>;  
वैथी २१, १५: ९; द्विथी २, ७,  
५३<sup>१</sup>; २५; ७, १०; -नानाम्  
आपथी १४, ४, ७<sup>१</sup>; वीथी  
१७, १०: १०<sup>१</sup>; २३,  
१३: ३०; ३२; द्विथी २, ७,  
५३<sup>१</sup>; -येभ्य: काथी २०, ८,  
१४.

तिरो-अह्ना<sup>२</sup> - ह्यस्व दाथी ६, ३,  
१८; लाथी २, ११, १२; -ह्यान्  
माथी २, ५, ३, २४<sup>१</sup>; -ह्यानाम्  
आथी ६, ५, २४<sup>१</sup>; शोथी ९,  
२०, ३१<sup>१</sup>; काथी १२, ६, १३;

माथी २, ५, ३, २३<sup>१</sup>;  
-१<sup>१</sup>ह्यास: आथी ६, ५, २४;  
शाथी ९, २०, ३०; -ह्येवु  
आपथी १४, २८, ३.

तैरो-अह्ना<sup>२</sup> - ह्ये आथी ५,  
५, २०<sup>१</sup>.

तिरो-अह्ना(ह्य-आ)दि- दि  
काथी २४, ३, ३८.

तिरो(रस्/व)च् > तिरस्-च्<sup>१</sup> -  
-रख: काथी १८, ६, ७; अयाय  
४, ४; -रखा या ६, २०<sup>१</sup>.

३तिरक्षी- श्वी आथी  
८, १४, ४<sup>१</sup>; शोथी ४, १८, १<sup>१</sup>;  
काथी २, ८, ५; आपथी १६, १४,  
६; वीथी; दाथी १७, ४, ७<sup>१</sup>;  
लाथी ३, १२, ६<sup>१</sup>; -श्वी: वीथी  
५, ६: ६; माथी १, २, ५, २;  
द्विथी १, ७, ३; -श्वीम् आपथी  
२, १, २; वीथी; -श्वीणु काथी  
१७, १, १३; -इच्यो काथी १७,  
१, १०; ४, १४.

तिरश्चि(क >)का<sup>१</sup> -  
-का: आथी १, २, १.

तिरक्षीन, ना<sup>२</sup> - न: शुभ ३,  
२३६<sup>१</sup>; -नम् माथी ७, १४, ९;  
वीथी ६, ८: ५; -ना: वीथ  
१३१, २.

तिरक्षीन-निघन<sup>२</sup> - नम्  
लाथी ६, ११, ४.

तिरक्षीन-संनद्ध- -दम्  
वाधूथी ३, ७५: ६; ८.

a) इत्. > वस्. १ पृ. = जल-जन्तु- । b) तिरस् > यनि. । c) सपा. तै १, १, २, १ तैमा ३.  
२, २, ५ आपथी १, ३, १२ तिर्यक् इति पाठे. । d) वेष १ द्र. । e) = साम-विशेष- । f) पाठ: ३  
तिरक्षीनं यत् इति web. शोध: (द्र. संस्कर्तुं: टि.) । g) पाठे. वेष १, १४७९ a द्र. । h) वेष २, ३६<sup>१</sup>. द्र. ।  
i) Bōbt [ZDMG ५२, ८१] १२-द्वयम् इति (द्र. श्र १, १३५, ६) । j) अत्. टक्भावपञ्च: (पा ५, ४, १०९) ।  
k) पाठे. वेष १, १४७९ c द्र. । l) सपा. १<sup>१</sup>ह्यान् <> १<sup>१</sup>ह्यान् इति पाठे. । m) सप. १<sup>१</sup>ह्यानाम् <>  
१<sup>१</sup>ह्यानाम् इति पाठे. । n) विच. (आधिन- [अतिपञ्च-]) । स्वार्थे भण् प्र. । o) चेतरो अह्ये इति पाठ: १ यनि. शोध:  
(द्र. अज्ञ.) । p) सपा. वी १५, ३, ५ इच्ये इति पाठे. । q) नाप. । स्वार्थे कः प्र. ह्रस्व ।

तिरश्चीन(न-अ)प्र,मा<sup>१</sup>-

-म्रात् वीथी ९, १५ : २१;

-म्रात् वीथी ९, १५ : २३;

-म्री वीथी ९, १५ : १०.

तिर(स्>)श्च<sup>१</sup>>श्च-ता-  
-त् सु २३, १.तिरश्च-नाजि<sup>१</sup>- -जिः<sup>१</sup> आपमं  
२, १७, १७<sup>१</sup>.†तिर(स्>)श्च-वि<sup>१</sup>>दिच-  
राजि<sup>१</sup>- -जिम् अश् ३, २६<sup>१</sup>;-जेः कौस् ३२, ५; अश् ७,  
५६; अर्प २ : ८६.तिथि(रि-अ)श्च-श्च- पा ६,  
३, ९४; -यैक् दाथी ४, १२, ५;१७, १, ११, दाथी; आपथी १, ३,  
१२<sup>१</sup>; दिथी ५, ४<sup>१</sup>, ६; -यैक्षुविथ ५, १७, ७, -यैद् वाथुथी  
३, ६ : २<sup>१</sup>; ६९ : ३५; दाथी;-यैचि पा ३, ४, ६०; -यैच्यः  
वाथुथी ३, ६ : ३, दाथी १०,४, ८<sup>१</sup>, दाथी ३, १२, ७<sup>१</sup>;  
विथ ५१, ६३; -यैच्यम् आपथी२, ३, ११×४; वीथी १, ११ :  
३६×४; १२, ९ : २४<sup>१</sup>;-यैचि वीथी ६, २६ : ८; वाथुथी ३, ६ :  
२, -यैचौ आपथी २, १२, ८,

वीथी ५, ५ : ३०.

तिरीच, वी- -चम् वाथुथी  
३, ६ : १; -ची वाथुथी ३, ६ :  
१, २; -चीः वाथुथी ३, ६ : १.तिरीचीन<sup>१</sup>- -नम् आपथी  
२, १८, ९.तिर्यक्-तस् (ः) आपथी १४,  
६, ११; दिथी १, ८, २८.तिर्यक्-स्व- -स्वम् विथ ४४,  
४४; ४५, १ : ५८, ५.तिर्यक्-प्रमाण- -णानि  
आपथी १, ३, १७; -णेन आपथी  
१६, ४, ७.तिर्यग्-भङ्गुति<sup>१</sup>- -रिम्  
कौस् ८७, १४.तिर्यग्-अयन- > तैर्यगयनि-  
क- -कः लाथी ४, ८, ७; दाथी  
८, ४, ७; निस् ५, १२ : १५.तिर्यग्-गा, गा- -गा अर्प  
५८<sup>१</sup>, ४, ६; -गाः अर्प ५२,  
१३, १.तिर्यग्-द्विगुण- -णानि काष्ठ  
६, ७.†तिर्यग्-चिह्न<sup>१</sup>- -हः शुअ  
४, १९७; या १२, ३८<sup>१</sup>.तिर्यग्-भे(द>)दा<sup>१</sup>- -दाः  
वीथु १७ : ८; १९ : ७.तिर्यग्-योनि- -नयः विच  
४४, १; -निपु विथ ९६, ३९;-नी अर्प ७०<sup>१</sup>, १२, २; ४; विथ;  
-न्याम् वाथ ४, ३१.तिर्यग्योनि-गत- -तान्  
वीथी २८, २ : ५३.तिर्यग्योनि-भयावह-  
-ही अर्प ६३, ४, ७.तिर्यग्योनि-व्यवाय- -ये  
वाथ २३, ५तिर्यह-नद्- -दम् दाथी  
२२, ४, १०.तिर्यह-नीच- -च. छाया १,  
१४९.तिर्यह-मान<sup>१</sup>- -नम् काष्ठ  
७, ३२.तिर्यह-मानी<sup>१</sup>- -नी काशु  
२, ७; ९; ११; आपथु; -नीम्  
आपथु ४, ७; वीथु २ : ९; दिथु  
२, ६; -न्या काशु ३, ३; आपथु  
२, १५; दिथु १, ३६; -न्याः  
काशु ७, ५; वीथु १५ : २, -न्यौ  
आपथु ५, १२; दिथु २, २२.तिर्यह-मानी-शेष-  
-यः काशु १, १३; १५, आपथु १, ७

†तिरोधमा वाथुथी ४, १०२ : १५.

तिरो<sup>१</sup>/चा<sup>१</sup>>धा- -धाम् अश्  
८, १०(५)<sup>१</sup>.†तिरो-धाय वीथी १४, ७ : २३;  
२६, ७ : २०; २१; वाथुथी ४,  
१०२ : १४.

तिरो-हित- -तम् विथ ७१, १९.

तिरो<sup>१</sup>/म्, तिरोभवति आपथी  
२३, १३, १५; दिथी १८, ४,  
५२; लाथी १०, १९, ११;निस् १०, ११ : ५; तिरः  
...भवति वीथी १४, १ : २०;तिरोभवन्ति दिथी १८, ४, ४१;  
४२; तिरः (अभवत्) वाथुथी  
४, २६<sup>१</sup> : ४.तिरः...बभूव वाथुथी ४, ७५ :  
३५, तिरौ...भवितास्मि वाथुथी  
४, ७५ : २४; तिरौऽभूव वाथुथी  
४, ७५ : २४; ३६.

तिरो-भूवा वाथुथी ३, २९ : ५.

तिरो-विराम<sup>१</sup>- -मः शैशि २३६६;  
माशि; -मम् माशि ७, ९; नाशि  
२, १, ५<sup>१</sup>.तिरोविराम- -मः शुभ्रा १, ११८;  
-मम् याशि १, ८३<sup>१</sup>.तैरोविराम-क- -कः याशि  
१, ७७.

a) विप.। बस.। b) वैप १ द.। c) वा. किति. इति श्व.। d) पामे. वैप १, १४७९ j द.। e) पामे. ११७३० द.। f) पामे. वैप १, १४७९ ० द.। g) = तिरधीन-। h) पामे. वैप १, १४८० f द.। i) सव. उप. भावहरणोप्युद् प्र.। j) = एङु-विशेष-। k) = स्वरित-विशेष-। l) सप्र. तिरौ<>तैरो इति पामे.।

तिरो-व्यञ्जन-> तैरोव्यञ्जन- -नः  
 शुभा १, ११७; तैमा; नाशि १,  
 ८, १०<sup>b</sup>; २, १, ४<sup>10</sup>; ८<sup>10</sup>.  
 तैरोव्यञ्जन-पादवृत्त- -तयोः  
 तैमा २०, १२.  
 तैरोव्यञ्जन-सं(ज्ञा>)ञ-  
 -सः गाधि १, ७७.  
 तैरोव्यञ्जन-स्वरित- -तः  
 कौशि ८.  
 तिरिन्द्रि- -स्व कञ् २, ८, ९;  
 -रे शांश्री १६, ११, २०; २१.  
 तैरिन्द्रि- -रम् वृदे ६, ५७.  
 तिरीच, ची- प्रच. तिरिस् द.  
 तिरीट- पाठ ४, १८५.  
 तिरोग्रहिय- प्रच. तिरिस् द.  
 तिर्परीक- , तिर्पिरिका- पावाग ८,  
 २, १८<sup>०</sup>.  
 तिरिर्ष- -वैम् अथा ३, २, ३१.  
 तिरिर्ष- -वैम्- तिरिस् द.  
 तिरिष् पाधा. भ्वा. पर. गता; तुदा.  
 पर. सेहो.  
 तिल- पागवा ५, ४, १; -लः द्विथी  
 २१, ३, १०; आर्यः -लम्  
 धामिष् ३, ११, ४ : १८; वैष्  
 ४, ४ : १८; वीष् ३, १०, १५;  
 -लस्य शंघ ४०५; -ला. वैथी  
 १६, ६ : ५; वीष्; -लान् आपथी  
 १३, ५, ४<sup>f</sup>; माथी; -लानाम्  
 वैष् ५, १३ : १३; वैष्, -लस्यः  
 वीथी २, २० : ४, २४, २१ :  
 ९; २८, ८ : ५; वैथी १, १६ :  
 ३; वीष् ३, १२, १; -लेषु  
 वीथी १८, २३ : १६; कौस् ९३,  
 २९; -लैः कौष् ३, १४, २; गाधि.  
 तैल<sup>b</sup> - पाग २, ४, ३१<sup>०</sup>; -लः

कौस् ९२, १०; -लम् वीथी  
 २८, १३ : ५; वीथी; या ६, १७;  
 -लैः कौस् ९३, ३९; अप ७०<sup>०</sup>,  
 ७, १३; ७१, १०, ४; ५; -लैः  
 वेताश्री ४३, १०; अप १, २८,  
 १; विष् ४३, २८.  
 तैल-गुड-शुःकगोमे(य-इ)  
 न्धन-गुण-कुडा-पलादा-भस्मा-  
 (रम-अ)द्वार- -रान् विध ६३,  
 ३७.  
 तैल-द्रोणी- -ण्याम् वैथी  
 २०, २३ : २; द्विष् २२ : १२.  
 तैल-वास- -ना माशि ४,  
 १५; -राम् शैशि ३५०.  
 तैल-परिष्णु(त>)वा-  
 -ताम् अप ६८, ५, १.  
 तैल-पात्र- -प्रम् गोष् ३,  
 ५, ३०.  
 तैल-पाचिन्-> ण्यि-क-  
 -कः विष् ४४, २३,  
 तैल-पीत- पाग २, २, १७.  
 तैल-विन्दु- -न्दुः विष् ३,  
 ९७.  
 तैल-मिश्र- -धम् अप १,  
 ४८, ३; अशा १३, १.  
 तैल-वन् विष् ६४, १२.  
 तैल-संयु(त>)वा- -ताः  
 अप ३२, १, २.  
 तैल-संपर्क- -कैः वैष् ५, १४  
 २.  
 तैल-संपात- -तम् कौस्  
 ३०, १.  
 तैल-सर्विस्- -र्विष् आपथ  
 १, १७, १६; वीष् १, ६, ४८;  
 द्विष् १, ५, ४८.

तैला(ल-अ)क- -कम् अप  
 ३६, १६, १.  
 तैला(ल-अ)रूप- -पस्य काष्  
 ७०, १.  
 तैला(ल-अ)भ्यक्त, का- -कः  
 अप ६८, ५, १; -का अप २६,  
 ३, ५.  
 तैला(ल-आ)मलक-संनिभ-  
 -भाः अप ६३, ४, ८.  
 तैलो(ल-उ)दक- -कयोः  
 विष् ७१, २३.  
 तैलीन- पा ५, २, ४.  
 तिल-क- पा ५, ४, ३.  
 तिल-कट- पावा ५, २, २९.  
 तिल-कर- -रम् विष् ९, ६.  
 तिल-कलक- -लकैः विष् १२, १८.  
 तिल-काल- (> ल-क- पा.)  
 पागवा ५, ४, ३.  
 तिल-मान्ध-पुष्प-भाल्य- -न्यैः वीष्  
 २, १०, २.  
 तिल-गोमय-कईम- -मैः अप ६८,  
 ५, ११.  
 तिल-तण्डुल- -लाः अशा १२, २;  
 -लान् आमिष् ३, ४, १ : २३;  
 १०, १ : ९; वीष्; -लानाम्  
 आमिष् ३, ४, १ : २०; वीष्;  
 -लानि आमिष् ३, ४, ४ : २६.  
 तिल-तण्डुल-द्वि-मधु-धीर-  
 -राणाम् वैष् ५, ४ : १.  
 तिल-तण्डुल-पलाज- -धम् वाष् २,  
 ३९<sup>1</sup>.  
 तिल-तण्डुल-संपर्क- -कैः कप्र ३,  
 ९, ८.  
 तिल-तैल- -लम् अप २३, ५, ४;  
 -लेन शंघ २४२.

a) = स्वरित-विशेष-। b) ण्व्यं इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. गाधि. प्रच.)। c) वैष् १ द.।

d) विष्,। तस्येदमीयः अण् प्र.। e) तु. पागम.। f) वैष् १ निर्दिष्टयोः समावेशः द.। g) = [परोष्पी-  
 नामङ-]पञि-विशेष-। उल.। h) उप. = ३४२-। i) ण्व्यं इति पाठः ? यनि. शोधः।

तिलतैल-मुळा-<sup>१</sup>स्यम् विष ९०,  
२२.  
तिल-द्वि-श्री-द्र-लवण-लाक्षा-मव-  
मांस-कृताह-श्री-गुरुय-हस्य-  
(सित-श) इय-नृपभ गन्ध-रस-  
कृत्मानिन-सोमो(म-उ)दक-  
-काय शंघ १५३.  
तिल-दर्भ-<sup>२</sup>र्भात् आमिष्ट ३, ३,  
१:१५.  
तिल-दान-<sup>३</sup>ने वीप २, ८, १५<sup>३</sup>;  
-नेन अय ४, २, १०.  
तिल-द्रोण-<sup>४</sup>णम् विष ५०, ३७.  
तिल-धान्या(न्य-श)ज-वख-  
-आणाम् शंघ ३९५.  
तिल-धेनु-<sup>५</sup>-नुः अय ९, ३, ५,  
-नुम् आमिष्ट ३, १०, २:१०;  
वीपि ३, ९, ५, अय ९, १, १;  
अशा १३, ५, वाय २७१: ८.  
तिल-मुद्-<sup>६</sup>पावा ३, २, २८.  
तिल-पाव->तैलपा(त->)ता<sup>७</sup>-पा  
६, ३, ७१.  
तिल-पात्र-दान-<sup>८</sup>नम् अय ६८, २,  
६१.  
तिल-पिञ्ज-<sup>९</sup>पावा ४, २, ३६.  
तिल-पिमिल-<sup>१०</sup>नम् वाय ४, २३.  
तिल-पिडल<sup>११</sup>-<sup>१२</sup>रलम् माय १, २१,  
१२<sup>१३</sup>.  
तिल-पिष्ट-<sup>१४</sup>मापो(प-शो)दन<sup>१५</sup>-<sup>१६</sup>नम्  
जैय २, ९: २७<sup>१७</sup>.  
तिल-पिष्टा(ष्ट-आ)दि-<sup>१८</sup>दिमि:  
आमिष्ट ३, ३, १: १३.  
तिल-पेज-<sup>१९</sup>पावा ४, २, ३६.  
तिल-पेडल-<sup>२०</sup>रलम् वाय ४०, १८<sup>२१</sup>

तिल-प्रद-<sup>२२</sup>दः विष ९२, २३.  
तिल-प्रस्य-<sup>२३</sup>स्यस्य द्विपि १७: ८.  
तिल-प्रक्ष-<sup>२४</sup>क्षः आपघ १, २६,  
१५, २७, १; द्विपि १, ७, २५, २६.  
तिल-मयु-<sup>२५</sup>संयु-<sup>२६</sup>ष्टम् वीप २,  
११, ५३.  
तिल-मय-<sup>२७</sup>पा ४, ३, १४९.  
तिल-मात्र-<sup>२८</sup>चित्र-<sup>२९</sup>त्रः या ३, १८.  
तिल-मात्र-<sup>३०</sup>नुष्ठ-<sup>३१</sup>चम् या ४, ९.  
तिल-माप-<sup>३२</sup>पाः आपघी १६, १९,  
१३; जैय १, ११: ६; आपघ  
२, १६, २३; द्विपि २, ५, २३,  
-पाणाम् कौष्ट १, २१, ६; वाय  
१, २८, ६; जैय १, ११: ४;  
-पात्र द्वाभी ५, ४, २८; लाभी  
२, ८, २८; -चैः गोय २, ९, ६.  
तिल-माप-<sup>३३</sup>दीहि-यव-<sup>३४</sup>न्याः वीथी  
२४, ५: १५.  
तिल-माप-<sup>३५</sup>दीहि-यवो(व-उ)दक-  
दान<sup>३६</sup>-<sup>३७</sup>जै. वीप १५, १४.  
तिल-मिध, था<sup>३८</sup>-<sup>३९</sup>अम् आभी ८,  
१४, ३; वीथी २६, ३३: १४;  
आमिष्ट, -थाः आमिष्ट ३, ४, ४;  
२०, ८, १: ६; वीप; -धामि:  
आमिष्ट ३, ८, २: ३८, ६५;  
वीपि १, १५: ४५; द्विपि १५:  
१५, -ध्रेण आमिष्ट ३, ११, २: ४.  
तिलमिध-<sup>४०</sup>गन्धो(न्य-उ)दक-  
-नेन वीपि २, १२, २.  
तिलमिध-<sup>४१</sup>पिष्ट-<sup>४२</sup>मापी(प-शो)  
दन-<sup>४३</sup>नम् आमिष्ट २, ५, १: ३५<sup>४४</sup>  
तिलमिश्रो(ध-उ)दपात्रा(त्र-आ)  
नयन-<sup>४५</sup>नम् द्विपि २, ५, ४५<sup>४६</sup>.

तिल-मुद्गा-<sup>४७</sup>भाप-यव-वीधूमा(म-  
आ)दि-<sup>४८</sup>दीनाम् शंघ १४६.  
तिल-मुद्गा-<sup>४९</sup>मित्र-<sup>५०</sup>अम् पाय १,  
१५, ४; जैय १, ७: २.  
तिल-लाज-<sup>५१</sup>जैः वैय ५, १०: ५.  
तिल-नम् कय १, ३, ९.  
तिल-व(रस->)स्ता<sup>५२</sup>-<sup>५३</sup>स्ता:  
आमिष्ट ३, ८, २: ३९; वीपि १,  
१५: ४६.  
तिल-वर्जम् शंघ २७७.  
तिल-वत-(<sup>५४</sup>> तित्-<sup>५५</sup>पावा.)  
पावाग ५, १, ९४.  
तिल-वीहि-<sup>५६</sup>यवा(व-आ)दि-  
-दीनाम् अय ७०, ४, ९.  
तिल-शण-<sup>५७</sup>गोमय-शान्ता-<sup>५८</sup>ज्वाल<sup>५९</sup>-  
-लेन कौष्ट २७, ३३.  
तिल-सन्धु-<sup>६०</sup>नुभिः वीप २, १, १८.  
तिल-सन्धु-<sup>६१</sup>दधि-लाज-<sup>६२</sup>नम् वैष  
२, १५, १.  
तिल-संवग्ध-<sup>६३</sup>अम् विष ६८, २९<sup>६४</sup>  
तिल-सर्पप-<sup>६५</sup>चैः कौष्ट ३, १, २;  
वाय ३, १, ३; वैय ३, १४: २;  
अय ३१, ८, ५.  
तिला(ल-अ)शत-<sup>६६</sup>नाम् वैय ५,  
१२: ४; -तेपु वैय ५, ६: १०.  
तिलाशता(त-आ)दि-<sup>६७</sup>दीनि  
वैय ५, ४: २२.  
तिला(ल-अ)शतो(त-उ)दक-<sup>६८</sup>कैः  
वैय ५, २: २०; २४.  
तिला(ल-अ)नुप्रकिरण-<sup>६९</sup>नम् द्विपि  
२, ५, ४५.  
तिला(ल-अ)न्तर-<sup>७०</sup>नम् नाशि १, ६,  
९.

a) 'लादा' इति Hultsch । b) यः प्र. (पा ४, २, ५८) । c) पय. । उप. ? = चूर्ण- वा पात्र-  
वेति भाष्यम् । d) सपा. 'पिडलम् <> पेडलम् इति पाठे । e) पय. > मलो. वस. । f) सपा. तिल-  
पिष्टमापो <> तिल-मिधपिष्टमापो इति पाठे । g) उप. कर्तैरि ह्यु । h) द्व. जी. सं. St. । i) विप.,  
आप. [वीथी. प्रष्ट. ] । j) सय. आपघ २, १७, १७ उद्पाधानयनम् इति पाठे । k) विप. । वस. ।  
l) शान्ता- = भोपधि-विशेषः । m) 'संयुक्तम् इति जी. सं. ।

तिला(ल-अ)भ्रमस- भ्रमाः बंधे  
१२१.

तिला(ल-अ)बंध- बंधः आद्य २, ५,  
१५; कौट; -बंधम् बौध १, १,  
२४; -र्थाः अय ४४, १, १०.

तिला(ल-अ)शन- नः बौध ४, ५,  
२६.

तिलो(ल-उ)दक- कम् आमिष्ट  
३, ३, २; २२; ११, ३; २१;  
बौध; -केन आमिष्ट १, ३, २;  
३७; -कैः आमिष्ट ३, ११, २;  
१०; ३; १७; वैश ७, ८; ३.

तिलोदक-दाना(न-अ)न्त-  
न्तम् बौध २, ११, ५.

तिलोदक-पाय- नम् बौध २,  
९, २; १०, ३; -त्रे बौध २, ९,  
५; ११, २.

तिलोदक-प्रदान- नम् बौध  
२, १२, ४; माय ३, १७; १०.

तिलो(ल-ओ)दन- नः अय १, ३४,  
४; -नम् वैश ५, १३; ८;  
-नस्य वैश ५, १४; ६; -नेन  
वैश ५, १३; १६.

तिलो(ल-उ)दुग्धरसप्र-दर्भ- भर्ग्य  
वैश ५, १५; १; २.

तिलो(ल-ओ)दन- नः कौश १३८;  
२.

तिलव- पा ५, १, ७; २, ४; कि ७६.

इतिल-क- तिल- द.

इतिलक- पाग ५, १, १२८; २, ३६.  
तैलक्य- पा ५, १, १२८.

तिलक-वार्- वार् बौधो १५,  
३७; १; १८, १; ६.

तिल(क)>का-बल- नः शांश्री

१६, १८, १८; -लम् आपश्री  
२०, २२, ६; द्विधौ १४, ५, ४.

तिलकित- पा ५, ३, २६.

तिलदा- -दे आपमं २, ११, ११;  
आमिष्ट २, १, ३; ९; माय १,  
२२; १४; वैश ३, १४; १३;  
द्वि २, ३, २.

तिलिका- (>तैलक्य-) तैलक-  
दि. द.

तिलिपि- -अम् अया ३, ४, ११.

तिलिपि- -अयाः कौश ८०, २८.

तिलिपिका- पावाग ८, २, १८.

तिल्ल- वाधा. भ्वा. पर. गतौ.

तिल्व- >तिल्व-क, का- कः आद्य  
२, ७, ६; -काम् आमिष्ट ३, ५,  
५; ६; बौध १, ४; ६.

तैलक- -का काश्री २२, ३, ९;  
आपश्री २२, ४, १५; द्विधौ १७,  
२, २१; -कम् आपश्री १६, १०,  
३; द्विधौ ११, ३, १९; -कानि  
बौधौ १८, ३६; ३; -कौ वैधौ  
१८, ७; १८.

तैलक्री- -कौम् माश्री ६,  
१, ३, २८; २९; वाश्री २, १, ३,  
२८.

तिलियल, ला- न्ना आपमं २, १५,  
३; आद्य २, ८, १६; कौश ३, २,  
६; शांश्री ३, १, १२; माय २,  
११, १२; -ले नया १४, ५, ८.

तिलिय वाश्री ३, ५; १.

तिलियपासम् वाश्री ३, २, १, २४.

तिष्ठत्- प्रम्. √स्था द.

तिव्य- कि २३; -स्यः बौश १, १,  
२९; माय २, १८; ६; -व्यात्

आपय २, २०, ४; द्विध २, ५, ९;  
-व्याय वैश ३, २०; ५, -व्ये

बौधौ १७, ३९; ९; आमिष्ट;  
-व्येन आद्य १, १३, ३; आपय.

तैव- पाग ६, २, १९४; पा,  
पावा ६, ४, १४९; -पस्य शांश्री  
१३, १९, ३; -वे बौश २,  
११, २.

तैवो- योम् गोश ३, ३, १४;

वैश १, १५; १; -व्याः द्विधौ  
१३, ३, २; वैताश्री ३६, २, गोश  
३, १०, १६; -व्याम् बौधौ १३,  
१७; ३; माश्री.

तैवो-पक्ष- -क्षस्य  
आमिष्ट १, २, २; १; माय ३,  
८; ११; द्वि २, १८, ८; द्विध  
१, ३, २.

तैव्य(घो-आ)दि- -दि  
आश्री ८, १४, २२.

तिव्य-नक्षत्र-संयुक्त- -के अय ५,  
४, २.

तिव्य-पुनर्वसु- -स्योः कौश १, २०,  
३; पा १, २, ६३.

तिव्य-पुनर्वसु(सु-अ)पुराधा(धा-अ)  
श्रि-नेवती- -स्यम् आमिष्ट २,  
२, ३; २.

तिव्य-पुन्य- -व्ययोः पावा ६, ४,  
१४९.

तिव्य-शुद्धपति- -तिव्याम् काय  
१८, २.

तिव्य-मूल- -व्योः आमिष्ट २, ५,  
१२; १.

तिव्य-नोहणी- -व्याम् आमिष्ट २,  
५, ६; १२.

a) विप. । वच. । b) = विशेष- । व्यु. ? । c) तिलिका- इति पाद्य. । d) मत्वर्थे  
यलम् प्र. उचं. (पा ५, २, ११२) एव. दीर्घः (पा ६, ३, ११८) च । e) = जरासु- । व्यु. ? । f) वैप १ द. ।  
g) द्व. -पागम. । h) विप. (स्थानं, क्षेत्रः) । वैप १ द. । i) पाठः ! व्यत्यास-> -सम् इति बोधः (दुः  
तादर्थे ३२) । j) = नक्षत्र-विशेष- । व्यु. ? । k) -अर्थः ! । नैव- इति पाद्य. ।

वि(व्य>)ष्या-पूर्णमास- -ते बौध्री  
१३, १७ : २; २३, २ : २२;  
हिथ्री २२, ३, ७.

तिष्यो(व्य-उ)त्तर- -रेषु वैष्ट २,  
१३ : २.

तिस्र- प्रम. त्रि- द.

तिस्रणीभिः<sup>७</sup> अष १, ४०, ३; अशा  
१०, ३.

तिस्तिराण- √स्तृ, लृ द.

√तीक् पाषा. भ्वा. आत्म. गती.

१, २तीक्ष्ण- प्रम. √तिक्ष् द.

√तीद् पाषा. जुदा. उभ. कर्मसमाप्ती.

तीर<sup>८</sup>- -रयोः हिथ्री १०, ३, १७;

-रस्य पावा ६, ३, १०८; -रे

माथ्री ५, २, २, ६; साथ्री;

आमिष्ट २, १, २ : १२१°;

बौष्ट २, १, ३१° -रेण

आथ्री १२, ६, ३; शोथ्री,

पूआपमं २, ११, १२°; १३°;

बौष्ट १, १०, ११°; भाष्ट १,

२१ : ८°.

तीर-रूप्यो(व्य-उ)त्तरपद- दान्

पा ४, २, १०६.

तीर्थ<sup>९</sup>- पाठ २, ७; पाग २, ४, ३१;

४, २, ८०; १२७, ३, ७६; ५,

१, ६४; ९७; -थम् आथ्री १,

१, ७; शोथ्री, या ४, १५,

-थस्य वाथ्री ३, २, ५, ५५; वैष्ट

५, ७ : ९, शंष १०३, -थाक्

काथ्री १४, ३, १६; बौथ्री, -थानि

बौथ्री १५, १ : ४; वाथूथ्री,

-थाय वाथ्री ३, ४, १, २०;

-थं काथ्री १४, ४, ११; आथथ्री;

आपथ २, १६, २५°; हिष<sup>१०</sup> २,

५, २४; १०५; पा ६, ३, ८७°;

-थेड-थे वाथूथ्री २, १७ : २;

-थेन आथ्री १, ११, १४<sup>१</sup>××;

काथ्री ५, ५, १०××; आपथ्री;

वैष्ट १, २ : ६; ५ : ६; ८; १०;

१३ : १; १४ : ४; -थेभिः

या १४, ३१, -थेण जैष्ट २, ५ :

१५, अष; -थेः अष १८, ४<sup>१</sup>;

या १४, ३१.

तैथं- पा ४, ३, ७६; ५, १, ९७.

तैथक- पा ४, २, १२७.

तैथिक- पा ५, १, ६४.

तैथ्यं- पा ४, २, ८०.

तीर्थे-गमन- -ने बौथ्री २१, ८ : १;

वाथ २१, ९.

तीर्थे-देश- -शान् आथ्री ५, २, ६;

८, १३, २३; -ते आथ्री ५, १,

१३; ६, १२, ६; ९, ९, ८; वैताथ्री

२७, ९; ३४, १२.

तीर्थे-गृत- -ञः विष ८३, ९.

तीर्थे-सृष्टयु- -स्ययः अष ४१, ४, ७.

तीर्थे-यात्रा<sup>११</sup>- (-> तीर्थेया [त्र > ]

थ्री- पा.) पावाग ५, १, ११०.

तीर्थे-यात्रा(त्रा-ञा)थ्रित-

-सम् शंष १०४.

तीर्थे-वासिन्- -सिनाम् वाथ २६,

१२.

तीर्थे-व्यतिक्रम- -मे बौष्ट ४, ३, ६.

तीर्थे-सद्- -सदे माष्ट १, १३,

१४<sup>१</sup>.

तीर्थे-स्थाणु-स्रुत्पय-व्यतिक्रम- -मे

आपथ ५, २५; बौष्ट ४, २, १४.

तीर्थे-स्थान- -ने वैष्ट ५, ७ : ९.

तीर्थे-स्नान- -नात् शंष १००.

तीर्थो(र्थ-ञा)ग(त >)था- -ता

माति १५, ७.

तीर्थो(र्थ-ञा)नुसरण- -णम् विष २,

१६; -णेन विष ३६, ८.

तीर्थो(र्थ-ञा)न्त- -न्ते वाथ्री ३, १,

१, ३०; ४, १, २३.

तीर्थो(र्थ-ञा)भाव- -ने शंष १००.

तीर्थो(र्थ-उ)दक- -कम् अष १६,

१, ५; -केन अष १६, १, ६.

तीर्थोदक-पूर्ण- -कलश- -काम्

अष १०, १, १.

तीर्थे<sup>१२</sup>- -थ्यान् बौथ्री ६, १ : २५.

तीर्णं, तीर्णां √वृ द.

√तीष् पाषा. भ्वा. पर. स्थीत्ये.

तीवर- पाठ ३, १.

तीव्र, मा<sup>१३</sup>- पाठमो २, ३, ३०; पाग

३, १, १८<sup>१</sup>; ४, २, ५३<sup>१</sup>; -ञः

शोथ्री १४, २१, २; आशि ८,

२०; -वम् माथ्री २, ५, १, ३२;

अष; -वस्य आथ्री ९, ७, ३२;

शोथ्री; -माः पूआथ्री ६, ५, २४;

७, ६, २; शोथ्री; वृदे ३, ९,

४<sup>१</sup>; या ९, १०<sup>१</sup>; -पूमात्

काथ्री १०, ५, ९; आपथ्री; -माम्

बौथ्री १७, ३२ : १<sup>१</sup>; -त्रेण

बौथ्री १७, ३२ : १<sup>१</sup>; अष ५२,

२, १; वाथ २५, ७.

तैमक- पा ४, २, ५३.

तीव्र-गति-त्व- -स्वात् आशि ८,

२०.

तीव्र-तर, रा- -रम् तैरा १७, १,

४; -रा आपथ २, १६, २४;

हिष २, ५, २४.

तीव्र-न्ता- -ता बौथ्री १८, ३० : ५;

-ताम् बौथ्री १८, ३० : ९<sup>१</sup>;

तीव्र-दारु<sup>१४</sup>- (-> तैमदारु- पा.)

पाग ४, ३, १५४.

७) वैष १ द. ।

८) पाठः इ ति-स्र(णि >)णीभिः इति अशां. संस्वरुग्मिततः सोच. ।

९) तीरे <> तीरेण इति पाथे. ।

१०) द) = दानार्ह-पात्र- ।

११) = गुरु- ।

१२) थै इति आ. ।

१३) वृ. पाका. ।

१४) व्यप. ।

१५) वनेण संभिरावः ।

१६) = कृश-विशेष- ।

१७) = कृश-विशेष- ।



तीव्र-सर्व- -वः शशी १४, २१, १.  
 १तीव्र-सुत्- -सुत् शशी १४,  
 २१, २१.  
 २तीव्र-सुत्- -सुत् काशी २२, ९,  
 १५; -सुत्तम् वीथी १८, ४, १ :  
 १६१; -सुत्तम् आश्री २२, १०,  
 ६; हिथी १७, ४, २३; -सुत्ति  
 काशी ८, ८, २०; वाथी ८, १०,  
 ५.  
 तीव्रसुत्-चतुःपर्याय- -ययोः  
 वैताथी ४०, ५.  
 तीव्रसुत्-उपशब्दो (द-उ)  
 पहस्य- -येषु वैताथी ३९, ९.  
 तीव्र-सोम- -मः वीथी १६, ३१ :  
 १८; -मे वीथी १८, २९ : २१;  
 -मेन आथी २, ७, ३१.  
 तीव्रा(व-अ)न्त- -न्तम् आथी ५,  
 १, १५.  
 √तीव्राय पा ३, १, १८.  
 तीव्रा(म-अ)र्ध-तर- -रम् या ४,  
 २५.  
 तीव्री √कृ > कृ (त >) ता-  
 -गामि- वैथी १६, २२ : २.  
 तीव्री-कृत्य आश्री १३, १७, ५;  
 हिथी ९, ४, ५५.  
 √तु० पावा. अदा. पर. गतिवृद्धि-  
 हितायु, तूत्ताव निघ ४, १;  
 या ४, २५.  
 तूत्तम् ऋषा ७, ४२१.  
 \*तन्->तवीसत्- -वान् अथा  
 ३, ३, ४.  
 तूत्तम् (म् >) स्ती- -स्तीम्

आथी ५, २०, ६; शशी ८,  
 ६, ६; निस् ३, ९ : २०; ऋष  
 २, १, १४३.  
 तूत्तम्- -वः निघ २, ९१; -वसः  
 शशी ८, २३, १; अथ ४८, ६८१  
 निघ ३, ३१३; या ५, १९१;  
 -वसम् आथी २, १३, ९; ४,  
 १३, ७; शशी; या ५, ९; -वसे  
 आथी ७, ४, ८; शशी १२, ४,  
 १७; वांघ ५, ६, २; ऋषा २,  
 ४४.  
 तूत्तम्-तम- -मः शशी ८,  
 १७, १; १८, ३, २.  
 तूत्तम्-न्तर- -न्तम् आथी ६, ४,  
 १०; आथी.  
 तविप, पा- पाठ १, ४८; -पः  
 निघ ३, ३१३; -पाः आथी २,  
 १३, ७१; कौस् ६, ९१; -पेभिः  
 या २, २४७१.  
 तूत्तविपी- -पी अथ ४८,  
 १०३; निघ २, ९; या ९, २५१;  
 -पीभिः आथी ९, ५५; आथी  
 ५, १०, ४; माथी १, ५, २, १५;  
 वाथी १, ४, २, ५; हिथी ३, ३,  
 ३६; -पीम् हिथी १२, ६, ६;  
 या ९, २५१;  
 √तविप, तविप्यते निस् ७,  
 ८ : ३४१.  
 ताविप- पाठो २, ३, १५७.  
 तु, > तू० आथी १, १, ३; २, १८,  
 १९; शशी १, १, ४०; १५,  
 २७, १; १६, १३, १५०; १८,

१३, ४; १५; काथी; पा ८, २,  
 १८; पाग १, ४, ५७०; पावा  
 १, १, १४४; पात्रवा १, ६; ९;  
 ११; ५, १४.  
 तु-तु-पूर्व- -वं तैषा ५, १३.  
 तु-शब्द- -ब्दः उतिस् २ : १३.  
 तु-हि-ह-वै-न(द >) च-छ(< च)  
 ह-विशिष्ट- -ष्टानि ऋष १,  
 १९, ३.  
 तुक्- -कः अथ ४८, ८९.  
 तुक्ष- (> लौक्यायण- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 तूत्तम्- > तूतीव्र- -उयाः शैति  
 ३३०; -अयम् ऋषा ५, ३६.  
 रतुम्->तुमित्य- पा ४, ४, ११५.  
 तूत्त(प्रव >) प्रया- -प्रया निघ १, १३;  
 -प्रयाः अथ ४८, ७५.  
 तु(प्रव >) प्रयावृष्- -वृषः अथा ९,  
 १११.  
 तुग्वन्- -न्व या ४, १५१; -तूग्वनि  
 अथ ४८, ११५; निघ ४, १.  
 तुङ्ग- पाठो २, २, ६६.  
 तुङ्ग- पाठो २, १, २४६; तूत्तु  
 अथ ४८, ८०, निघ २, ३; तूत्ते  
 नाथ १, ३९५.  
 तुच्छ- पाठो २, ३, ८३.  
 तुच्छम्- -च्छान् अथा १४, ५२१.  
 तुच्छुब्दः दंवि २, ११.  
 √तुञ्ज्, ञ्ज् पावा. भा. पर. हिता-  
 याम्; सुरा. पर. हितामन्तादान-  
 निकेतनेषु, तुञ्जते वैताथी ३१,  
 २७; तुञ्जति अथ ४८, १३, १४;

a) = एकाह- [पाग-विशेष-] । उत. उप. अधिकारो प्र. । b) विप. । उत. । c) वैप १ द. ।  
 d) पागे. वैप २, ३३३. तीव्रान्तम् ऐषा २, २० टि. द. । e) या ९, २५ या ६, १, ७; ७, ३, ९५ पराम्पुः द. ।  
 f) बल-नामन्- । g) महत्-नामन्- । h) पागे. वैप १, १८९१ वृ द. । i) वैप १ निदिष्टयोः समावेशः द. ।  
 j) = वज्रवृ- । विशेषः वैप १, ८४३ k द. । k) वैप १, १४२३ d द. । l) पागे. वैप २, ३३३. ह्य ऐषा ७,  
 १८ टि. द. । m) वृ ११४ b द. । n) तु. पागम. । o) रुद्र-नामन्- । p) < √ठ इति । q) या ६,  
 १७ पराम्पुः पा. च दाने वृतिः द. ।

निघ ३, २०.  
 तुज्यते या १४, २६४.  
 तुज्- तुजा लघु २, २५१.  
 तुज्- अजः निघ २, २०१.  
 √तुज्यमान- जासः अघ ४८, १०६; निघ २, १५.  
 √तुज्- अजः निघ ४, ३; या ६, १०४; -जेड-जे या ६, १०४.  
 √तुज्जान- अजः अघ ४८, १०६; निघ २, १५; या ६, २०४; क्क्या ७, २०.  
 तुज्जि- अजः अघ ४८, १०६; निघ २, १५.  
 √तुज्- लाथी १८, ३, २.  
 √तुजि- अजे या १२, ४५४.  
 √तुज् पाया. भ्वा. पर. पाठने; जुष. पर. भाषाये.  
 √तुद् पाया. तुदा. पर. कलहकर्मणि.  
 तुटि- > तुट्या (दि-आ) कर्त्- अस् वेष्ट ४, १३ : ८.  
 √तुह पाया. भ्वा. तुदा. पर. तोडने.  
 √तुण पाया. भ्वा.; तुदा. पर. कौटिल्ये.  
 √तुणह पाया. भ्वा. आत्म. तोडने.  
 तुण्ड- पा. पाग ५, २, १२७; -वडे: अघ ६४, ७, १.  
 तुण्ड- -कः क्क्या ३, ४, ११.  
 तुण्डेल- अस् क्क्या ३, ४, ११.

तुण्डदेव- (> ष्व-भक्त- पा.) पाग ४, २, ५४.  
 तुण्डि- पाठ ४, ११०; पाग ५, २, १०४.  
 तुण्डि-म- पा ५, २, १३१.  
 तुण्डिकेर- -रः माण १, २३; ३१.  
 तुण्डिल- पाठ १, ५४; पा ५, २, १०४; -लः कौष्ट ४, ४, १६; शंष्ट ४, १६, ३१. -लस्य काण्ड ७०, ४९.  
 √तुत् पाया. तुदा. उभ. आवरणे.  
 तुत्- पाठ २, ७.  
 तुत्- नयः शाथी ६, १२, १७; आपथी; माथी २, ४, १, ६५.  
 तुत्- > तुत्था (द्य-आ) शिषेदयो (स्य-क्री) ज्ञेयान- जानाम् हिथी २१, ३, १०.  
 √तुद् पाया. तुदा. उभ. व्ययने, तोटघेते कौष्ट १०७, २१.  
 तुद्- -दस्य या ५, ७.  
 तुदमान- जाः निघ ४३, ३५.  
 तु(ज)ा- अजा या ९, २६.  
 तुस-वद्- वद् या ४, ९.  
 तोत्- पा ३, २, १८२; -ल्येण कौष्ट १४, ६.  
 तौदे- -रः निघ ४, २; या ५, ७४; -दस्य या ५, ७; -देत कौष्ट १०७, २४७.  
 रतुद्- (> लौदेव- पा.) पाग ४,

१, १२३.  
 तुनुपूर्व- तुद्.  
 तुन्द- पाठ ४, १८; पाग ५, २: ११७; १२७.  
 रतुन्द- पा ५, २, १२७.  
 तुन्द-परिमृज- पा, पाठा ३, २, ५.  
 तुन्द-वत्- पा ५, २, ११७.  
 तुन्द- (न्द-आ) दि- दीनाम् पाठा ५, २, १७.  
 तुन्दिक- तुन्दिन्- पा ५, २, ११७.  
 तुन्दिल- पा ५, २, ११७, -लः माण्ड. २, १०, ४.  
 तुन्दि- > अन्दिम- पा ५, २, ११९.  
 तुन्य- -न्यम् अघ १, ७, १.  
 √तुप्, म्, लुक्, लृप् पाया. भ्वा. तुदा. पर. हिंसायाम्.  
 √तुभ पाया. भ्वा. आत्म., दिवा. क्क्या. पर. हिंसायाम्.  
 तुम्य- तुम्यद्- द.  
 तुम् पाग १, ४, ५७.  
 तुमुल- पाठमो २, ३, ११०; -लः. लाथी ४, ३, ३; लाथी २, ३, ३; अघ ७०, २१, ३; ५; -लम् अघ. ५०, ७, १; ७०, ३, १.  
 √तुम् √तुर्, √तुम् टि. च द.  
 √तुम् √तुर् द.  
 √तुम् पाया. भ्वा. पर. अर्धने; तुदा. पर. अर्धने.

a) वैप १ द. 1 b) = वक्र-। कर्त्तरि अच् प्र. (तु. दे.)। c) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द.। d) पाठः शोषार्थे वैप १, १४८६ d द.। e) वैप १, १४८५ B द.। f) विप. (महर्षीठ-। वम. पूर. = मुटि- (कर्मः?) (तु. C. टि.)। g) √तुद् इत्यपि BFG.। h) तुदा. पर. प्रेरणे इति BFG.। i) तु. पागम.। j) = मनुष्यजाति-विशेष- इति MW.। k) = तुन्दि- इति पागम.। l) = बालमह-विशेष-। व्यु. ?। m) स्या. तुण्डिकेर- <> तौण्डुलेवः <> शाण्डिकेरः इति पाठे.। n) < √तुण्ड इति। o) < तुण्डि- इति पागम.। p) कर्म ? = (पियमन्-). तुन्दिल-पुरण- इति नारायणः। q) = पुरोहारगृहति- इति देवपालः। r) < √तुद् इति। s) पाठे. वैप १, १४८६ j द.। t) = कृषि-विशेष-। व्यु. ?। u) पाठे. इ ८०७ p द.। v) या ५९; १०, ७ पराष्टः द.। w) = तोद-। कर्त्तरि क् प्र.। x) = प्रतोद-। y) कर्णे प्र.। z) व्यप.। व्यु. ?। a') = जटर-। व्यु. ?। b') = [पुजा-] नामि-। व्यु. ?। c') कर्मः व्यु. च !। d') पा ३, १, ५५ पराष्टः द.। e') विप.। व्यु. ? < √तु इति क्क्या., √तुम् इति पाठमो.। f') √तुम् इत्यपि BFG.।

तुम्बर<sup>१</sup>- नम् अण ३६, ४, २.  
 तुम्बर-दण्ड- णटः अणो २२, ११;  
 -ण्डेन कौम् ७६, २.  
 तुम्बुरु<sup>२</sup>- पाठभो २, १, १०२; पाण  
 ४, ३, १०६; -रणा नाशि १,  
 ५, १४.  
 तौम्बुरविद्- पा ४, ३, १०६.  
 तुम्बुरु-नारद-वसिष्ठ-विशवावस्वा(सु-  
 आ)दि- द्रयः नाशि २, ७,  
 १२.  
 तुम्भ<sup>३</sup>- अम् आधो ३८, १; शाधो  
 १४, २१, २.  
 √तुर्<sup>४</sup> पाधा. उ. पर. खरखे.  
 तुर्<sup>५</sup>- तुर्म् आधो ६, २३, १;  
 कौम् ९१, १०.  
 तुर्<sup>६</sup>- तु<sup>०</sup>र गोष्ठ ४, ९, १६; द्राष्ट  
 ४, ४, २; -रः आधो ६, १७,  
 १२१; दिधो ६, ६, १६१; आधर्म  
 १, १४, २१; वायु ५, १५; र्था ३,  
 २१; १२, १४१; -रस्य आधो  
 ७, ११, ३४; -राण्यम् कौधो  
 १३, २०, ९१; दिधो २२, ३, १९;  
 अथा १७, ३४; -रात्र आधो २,  
 १६, ११; ३, ७, १२१; शाधो १४,  
 १६, ११; ३१, ५१; ४९, २; दिधो  
 ९, २, २४१; वैताधो ३१, १९.  
 तुर्-ना<sup>७</sup>- नाः अण ७०<sup>१</sup>, ११,  
 ३१; -गे विध ९२, ११.  
 तुर्-ना<sup>८</sup>- नाम विध ५०, २६;  
 ७८, ३४; -नास्य भाण २, ६ :  
 १६.  
 तुर्ग-स्कन्ध- पाठा ४, २,  
 ५१.

तुर्-गम- -मानाय अण ७०<sup>१</sup>,  
 ११, १३.  
 तुर्-ग(न>)ग->तौरयाण<sup>९</sup>-  
 -णः निध ४, २; या ५, १५११.  
 तुर्-श्रवत्<sup>१०</sup>- -वाः सात्र १,  
 २९.  
 तौरश्रवत्<sup>११</sup>- -सम् आपधो  
 १४, २०, १; लुम् १, ८ : ९;  
 १४; लाधो ७, ३, ३; -से काधो  
 २५, १४, १३.  
 तुर्(र>)रा-पा(<सा)ह<sup>१२</sup>-  
 -पाट् आधो ५, १६, २; ६, ३,  
 १; शाधो ९, ५, २; वृदे ४, ७५;  
 अत्र २, ५; अथा ३, ४, १.  
 √तुरीय, तुरीयति निध २,  
 १४१.  
 तुरण- पाठभो २, ३, १२६; पाण ३,  
 १, २७;  
 तुरण्य->√तुरण्य<sup>१३</sup>, तुरण्यति  
 या २, २८११.  
 तुर्ण्यवद्- ण्यतः कौधो  
 ११, ८ : २६; १५, २९ : १७.  
 तुर्ण्यणि<sup>१४</sup>- णिः निध ४, ३; या  
 ६, १४१.  
 तुर्ण- पा ७, २, २८१; -णः काधो  
 १०, १, ८; -ण्य<sup>१</sup> काधो ८, १,  
 ३; २५, १०, २३; भाण २, १० :  
 १६; अण ३५, २, ९; ७०<sup>१</sup>, १९,  
 ६; ७१, ८, ९; वृदे २, ५८; ३, १६;  
 या २, २८; ४, १५; ५, १६; २५,  
 ६, २०, ८, १३; १०, २७; पाण १,  
 १, ३७.  
 तुर्ण-नाति<sup>१५</sup>- तिः या १२, १४.

तूर्ण-यान<sup>१६</sup>- -नः या ५, १५१.  
 तूर्ण-वधि<sup>१७</sup>- तिः या ६, १४.  
 तूर्णा(र्ण-आ)पिन्<sup>१८</sup>- -वि या ६,  
 २१.  
 तूर्णि<sup>१९</sup>- पाठ ४, ५१; -णिः आधो  
 १, ३, ६; शाधो; या ७, २७१;  
 -णिन्म् आपधो ५, १०, ४;  
 माधो १, ५, २, १४; वाधो १, ४,  
 २, ५; दिधो ३, ३, ३६.  
 तूर्ण्य(र्ण-अ)र्थ<sup>२०</sup>- -योः आधो  
 ५, १, १११.  
 तुरुर<sup>२१</sup>->तौर<sup>२२</sup>- नम् निम् १०, ११ :  
 १०; -रेण लाधो १०, २०, १.  
 तुरा(र-म)ण- णम् आधो २,  
 १४, ४; शाधो ३, ११, १५;  
 काधो २४, ७, १; -णेन आपधो  
 २३, १४, १; दिधो १८, ४, ५३.  
 सौरायणिक- पा ५, १, ७२.  
 तुरि- पाठभो २, १, १५९.  
 तुरीप<sup>२३</sup>- -पम् आधो १, १०, ५; ३  
 ८, १; शाधो; या ६, २९१.  
 तुरीय- प्रथ. चवुर- द.  
 तुष्टक- पाठभो २, २, ६.  
 तुर्फरि<sup>२४</sup>- -री या १३, ५१.  
 तुर्फरितु<sup>२५</sup>- -नू या १३, ५१.  
 तुर्मिश्<sup>२६</sup>- -मिंशम् अण १, ११, ११.  
 तुर्य- प्रथ. चवुर- द.  
 तुर्यणि- √हुर- द.  
 तुर्यर्था<sup>२७</sup>- -नाः अण ४८, ७८; निध  
 २, ३; -शाय आधो ९, ५, २;  
 -शे निध २, १६; अण ४८, ७३.  
 √तुल् पाधा. उरा. पर. उन्माने,  
 तुल्यदे विध १०, ११.

a) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। b) व्यप.। व्यु. ?। c) तु. पाणम.। d) वैप १ द.। e) पामे.  
 वैप १, १४८० f द.। f) = अश्व-। उत. उप. <√गम्, पू. भाप. (तु. अथा. प्रथ.)। g) निप.। मत.  
 पू. (तूर्ण-। पा.।) > स्वार्षिकः अन् प्र. (तु. BAY १०९)। h) = त्रयि-विशेष-। बस.। i) = साम-विशेष-।  
 j) वैप १ द. (वैत. पात्र. <तुरण-इति)। k) <√खर। l) वा. किवि.। m) निप.। मत.। n) उत.  
 उप. <√वम्। o) उत. उप. <√भाप्। p) वैप २, ३३६. द.। q) = याग-विशेष-।

तुला<sup>०</sup>- पाग ३, १, १०४<sup>०</sup>; -लया  
 वाघ २, ४२; बौध १, ५, ७९;  
 विघ ८, ३६; -ला विघ २, २३;  
 १०, ३, -लाम् अप ११, १, १०;  
 शंघ ४०५; विघ १०, ९  
 वीत्य<sup>०</sup>- स्वम् अप ११,  
 १, १५.  
 तुला-कृष्ट- -टम् अप २, ३, ४.  
 तुला-भार<sup>०</sup>- -रम् विघ १०, ८;  
 -रस्य विघ १०, ९.  
 तुला-धत्- -तम् वाघ २, ४०.  
 तुला-धुंस्<sup>०</sup>- -पुमात् बौध ४, ५,  
 २२.  
 शतुला-पुरुष<sup>०</sup>- -यः विघ ४६,  
 २९.  
 शतुला-पुरुष- > ष्य-विधि-  
 -धिम् अप ११, १, १.  
 तुला-मान<sup>०</sup>- > ण-कृष्ट-कर्म-  
 -सुं- विघ ५, १२२.  
 तुलामान-प्रतिमान-समुल्य-  
 -भ्यानि शंघ २६२.  
 तुलामान-प्रतीमान-व्यनद्वारा-  
 (-र-श्र)यै-संस्थापन- -नम् शंघ  
 ३२०.  
 तुला(ला-आ)रोहण- -णम् शंघ  
 २६५.  
 तुलित- -तः विघ १०, १२.  
 १ तुल्य-क्या- वा ४, ४, ९१;  
 -स्यः वैश ५, ११ : २; वृदे;  
 -स्यम् बाधौ १२, ३, ७४४;  
 काठश्री; -स्ययोः आप्त्य २, ६;  
 दिश १, २६; -स्वा काठश्री  
 ८८; काशीसं २८ : ६; ३१ :  
 १३; अप, -स्या काशी १५,  
 ८, २१; १६, १, १०; वैश; -स्यात्

माश्री ५, २, १२, ४; अप २६, ४,  
 ५; -स्यानाम् मीम् ११, १, ५५;  
 ६७; -स्यानि मीम् ४, ४, ३९;  
 -स्याम् बाधौ १, १, १, ७०; वैश  
 ५, ९ : ८; -स्ये काशीसं ३ :  
 ४; ऋत ४, ३, ८; -स्येन काठश्री  
 ८८४४; काय; -स्येषु मीम् ५,  
 ३, ४०; २, १, १९; १०, ९, ५७;  
 -स्यैः वाघ १७, ७१; -स्यौ  
 गोश ३, ५, २३; जैश १, १९, ३१.  
 तुल्य-कल्प<sup>०</sup>- -स्वाः मीम्  
 ६, ६, १.  
 तुल्य-कारण-स्व- -स्वात्  
 पावा १, २, ७१; २, २, २९; ३,  
 १, ७; मीम् १०, ७, ३५.  
 तुल्य-काल<sup>०</sup>- -ला आश १,  
 ३, ९; -लानाम् मीम् ५, १, ८.  
 तुल्यकाल-स्व- -स्वात्  
 पावा ४, ३, १०५; मीम् ३, ५,  
 ५१; १०, ८, ८.  
 तुल्य-क्रि(या)>य- -यः  
 वा, पावा ३, १, ८७.  
 तुल्य-मात्रक<sup>०</sup>- -का. अप  
 ६२, ३, ४.  
 तुल्य-गुण<sup>०</sup>- -णेषु आप्त्य २,  
 १७, १०; दिघ २, ५, ३९.  
 तुल्य-बोद्ध- -नात् लाश्री  
 ८, १, १०.  
 तुल्य-तस्रः (ः) वाघ १७, २३.  
 तुल्य-स्व- -स्वात् मीम् १, ४,  
 ७, ३, ६, ७; १०, ७, ३१; ८, ३४.  
 तुल्य-दैन-प्रयत्न- -सम्  
 पावा १, १, १.  
 तुल्य-दोष<sup>०</sup>- -यः वाघ २०,  
 ३०.

तुल्य-धर्म-स्व- -स्वात् मीम्  
 १०, ५, ७१.  
 तुल्य-नामन्<sup>०</sup>- -मानौ वृदे  
 १, ९२.  
 तुल्य-निमित्त-स्व- -स्वात्  
 पावा ३, १, ३१.  
 तुल्य-प्रकृति-ता- -वा अप  
 ६८, १, ६.  
 तुल्य-प्रमाण<sup>०</sup>- -गानाम्  
 काश २, २१.  
 तुल्य-प्रमाणक-स्व- -स्वे क्य  
 ३, ९, १७.  
 तुल्य-बल-स्व- -स्वात् पावा  
 १, ४, ३.  
 तुल्य-बल-विरोध- -धे गीघ  
 १, ६.  
 तुल्य-भाज्- -भाक् गीघ  
 २८, ३६.  
 शतुल्य-योग- -ने वा २,  
 २, २८.  
 तुल्ययोगिन्- > णि-  
 स्व- -स्वात् मीम् २, १, ४६.  
 शतुल्य-योग, ग<sup>०</sup>- -जा  
 नाशि २, ३, ८; -गाय याशि १,  
 १०; ५९.  
 तुल्य-रूप<sup>०</sup>- -गत् वृदे ५,  
 ६७, -धे पात्रवा ४, १३.  
 तुल्य-स्व आप्त्य २४, २,  
 ३७; मीम्.  
 तुल्य-वयस्<sup>०</sup>- -यसः वृदे  
 ५, ६८; -याः पाय ३, ८, १७.  
 तुल्य-वर्षस्<sup>०</sup>- -वसं अप  
 ५२, ८, १.  
 तुल्य-शब्द-स्व- -स्वात्  
 मीम् ३, ५, ५४; ८, २, २६.

a) वैश १ द्र.      b) तु. पागम. ।      c) कर्मणि ष्यञ् प्र. ।      d) नाप. । उच. उप.  
 चर्तते ह्य. ।      e) = (पद्यरशादिघ्) षत-विशेष. ।      f) तुम्. > सस. > षस. ।      g) विघ. । षघ. ।  
 h) उप. = प्राप्सुम्. ।

तुल्य-श्रुति-त्व- -त्वात् मीत्  
२,१,१०; ५,२,१८.  
तुल्य-से(ख्या>)ष्य-  
-स्यानाम् मीत् ११,४,४०.  
तुल्य-संस्फपान- -नात् मीत्  
४,४,१५.  
तुल्य-सनिपात- -ते खाथी  
६,९,८.  
तुल्य-समवाय- -ये काथी  
१,५,१०.  
तुल्य-द्वैत-त्व- -त्वात् मीत्  
९,१,५०; १०,८,३.  
तुल्या(त्व-अ)वृद्ध-वय-  
-ये वीप १,१०,२०.  
तुल्या(व्य-अ)र्ष- -र्षानाम्  
वाथी १,१,१, ६९; कौस्तु ६३,  
१७; -र्षेः पा २,३,७२.  
तुल्यार्षे-नृदीया-सप्तम्यु  
(मी-उ)पमाना (न-अ) द्यय-  
द्वितीया-कृत्य- -त्वाः पा ६,  
२, २.  
तुल्या(व्य-आ)स्य-प्रयत्न-  
-ञम् पा १,१,९.  
तुल्य- -त्यः अप ११,२,१.  
२तुल->२तुल्य- (पा.) पाग ४, २,  
८०.  
तुलभ->भीय- (पा.) पाग ५, ३,  
११६.  
तुलभ्य- -स्याः वीथी ३ ३६ : १.  
तुलसी- > सी-दल-भक्षण-  
-ञम् शेष १२२.  
तुलसी-भू-महादेवी-वृष्य- -रृष्ट-  
-ष्टः अप ३५,२,१०.  
१तुल्य- √तुल द.  
२तुल्य- २तुल- द.

तुल्यल<sup>१</sup>- पाठभो २,३,१२३.  
तौल्वलि- पाग २, ४, ६१; -लिः  
आथी २, ६, १७; ५, ६, २४.  
तौल्वलायन- पा २, ४, ६१.  
तुवि<sup>२</sup>- -वि अप ४८, ६६; निष  
३, १.  
तुवि-कर्मि<sup>३</sup>- -मिः शांथी १८, ७, ५५  
तुवि-क्ष<sup>४</sup>- -क्षम् या ६, ३, ३६.  
तुवि-क्ष(त्र>)त्रा<sup>५</sup>- -त्राम् आथी  
२, १, २९; शांथी २, २, १४.  
तुवि-जात<sup>६</sup>- -तः वैथी १८, १ :  
१५; या १२, ३, ६६.  
तुवि-नृण<sup>७</sup>- -नः आपथी १२,  
१४, १, ५५.  
तुवि-शुभ<sup>८</sup>- -शुभं शांथी १०,  
१३, ९; -शुभः शांथी १५, २, १.  
तुवि-श्रव<sup>९</sup>- > श्र-तम- -मम्  
आथी २, १०, ९; काय ३२, ३.  
तुवि-वृण( <स्वन)स<sup>१०</sup>- -वृणसम्  
माथी ५, १, २, १७.  
तु(वि>)वी-मय<sup>११</sup>- -मयं माशि  
३९.  
तु(वि>)वी-व<sup>१२</sup>- -वम् शत्रा ९,  
२५.  
तुविस्- > तुविष्ट(सू-त)म<sup>१३</sup>- -मः  
शेष ३, ९, ६५.  
तुविष्टम-वर्जम् शेष ४, ५, ९.  
√तुश<sup>१४</sup>>तोश- -शा आथी ५,  
१०, २८; शांथी १२, २, १८;  
साञ २, १०, ५२.  
तु-शब्द तु. द.  
√तुप् पाया. दिवा. पर. प्रीतो,  
तुत्यदि आशि २, ५, १ : ४७;  
वैप २, ९ : ३५; कय २, १०,  
६; अप ७०<sup>१</sup>, २९, २; आप्यो

११, ५; तुप्यन्ति नाशि १, ५,  
१६; तुप्येत् शांथी १, १७, ५;  
तुप्येत् अप १३, ४, ८; तुप्येयुः  
अप ३०, ४, १; ७०, ३, ३; अर्था  
२५, ३.  
अतोपयत् वृद ४, ५, ८.  
तुपित<sup>१५</sup>- -त् विष ९८, ४७.  
तुष्ट- -ष्टः आशि २, ५, ४ : १७;  
वीथः -ष्टाः अप ५, ५, २; १३,  
५, १; विष १९, २, ३; -ष्टे कय  
३, १; -ष्टेयुः विष १९, २, ३.  
तुष्ट-तम- -ताः विष १९, २, ३.  
तुष्टि- -ष्टिः कय १, १, १२; आप्य  
१, २३, ६; हिष १, ६, १४;  
-ष्टिम् अप ६८, २, २५; वीथ  
२, ५, २४.  
तुष्टि-वादि- -दी आशि २,  
३, ३ : २७.  
तोपयित्वा आप्य २, १३, १२; हिष.  
तोपिय- -तः कय २, १०, ७.  
तुप<sup>१६</sup>- पाग ४, २, ८०६; -पम् कौस्तु  
६१, २५; -पाः आपथी ८, ७,  
१५; माथी; -पालाम् आपथी  
८, ८, १३; वीथी २०, ७ : १०;  
-पान् काथी २, ४, १९; आपथी;  
-पैः आपथी ८, ७, १४; वीथी.  
वोपायण- पा ४, २, ८०.  
तुप-केश-पुरीप-भस्मा (म-अ) स्थि-  
श्लेष्म-बल-जोम- -मानि शेष  
८७.  
तुप-धान्य-वर्जम् वीथ ३, ३, ७.  
तुप-निष्कास- -सम् आपथी ८, ८,  
१३; माथी ८, १०, १३; माथी  
१, ७, ४, ३४<sup>१७</sup>; वैथी ८, १४ :  
६; -सस्य माथी १, ७, ४, ४०<sup>१८</sup>.

a) विप. १ मस. १ b) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। c) = औपधि-विशेष-। व्यु. ?। d) वैप १ द. १  
e) पाथे. वैप १, १४११ तु द. १ f) = विष्णुनामाऽन्यतम-। व्यु. ?। g) अर्थः ?। h) ष्काप- (लैवि.) इति  
पाठः ? यनि. शेषः ।

तुप-व(क.)का- -काः काथी  
१७, १, २३; आपथी १६, १५,  
८; बौथी १०, १९ : ३; २२ :  
९; माथी ६, १, ४, २९; वाथी  
२, १, ४, २३; वैथी १८, १३ : ७;  
हिथी ११, ६, ५.  
तुप-प्रतिपादन- -नम् हिथी ५, ३,  
४८.

तुप-विहीन- -नात् बौध ३, २, १०.  
तुपा(प-अ)मि- -मिना आमिष्ट ३,  
१०, ४ : २०; -मिम् आमिष्ट  
३, १०, ४ : ५.

तुपा(प-आ)व(दि-अ)मि- -प्रविष्ट-  
-धानाम् काथ २७४ : १.

तुपा(प-आ)वृत्त- -त्वेन वैथी ४,  
७ : ९.

तुपो(प-उ)वपन- -नम् आपथी  
६, २९, १७.

तुपार- पाठ ३, १३९; -रेण अथ  
६८, १, ३१.

तुपुवस- √सु द.

√तुस पाथा. भ्वा. पर. शब्दे.

तुस्तूर्पमाण- √स्तु, तु द.

√तुह पाथा. भ्वा. पर. शब्देने.

तुहिन- पाठ २, ५२.

तुहिवैतच्छब्द-विशिष्ट- तु, तु द.

तुख- -खानाम् काथ ९ : १; १० :  
२; ३२ : १०; ४१ : १४; १८ :  
१९; २३.

√तुह √दृह टि. द.

√तुण पाथा. सुता. आत्म. वृत्ते.

तुण- पाठमो २, २, १२३; पाग ४, १,  
४१; -णम् शुभ ३, ११९;  
-णाय अथ ६७, ६, ५.

तुणी- पा ४, १, ४१.

तुणी-बन्ध- -न्धः बौथी १८,  
३५ : ८.

तूणकर्ण- (>तौणकर्णं)- तूणकर्ण-  
टि. द.

तूणव- -वम् काथ १७, २; -वान्  
आपथी २१, १७, १७; १९, ४;  
-वे तैप्रा १३, १२; -वेपु या  
१३, ९.

तूणव-वम्- -वम् शुभा ५, ५१.

तूणीर- पाठवृ ४, ३०; -रात् अथ  
७१, १४, ४.

तूतुजान- तूतुमि- √तुज द.

तूतुम- -मा या ५, २५४.

तूतोत् √ठु द.

तूपर- -रः आथी १०, ९, ५; शोथी;

-रम् आपथी १६, ७, १४४;

बौथी; -रस्य तूआपथी २०,

१९, ३; ९; काथीसं; -राः शोथी

१५, १, २२; आपथी; -रात्

आपथी १८, २, १३; वाथी ३,

१, १, २०; -राय बौथी २६,

१० : १९; -रेण विष ८०, ११.

तूपर-गोमृग- -गयोः आपथी २०,

१८, ८; हिथी १४, ४, १७.

तूपर-मिथुन-दक्षिण- -णा काथी

१८, ६, २३.

तूपर-पाठमो २, ३, ७४.

तूय- -यम् अथ ४८, ७५; १०६;

निष १, १२; २, १५; या ३,

२०; ५, २४, ८, १३४.

√तूर पाथा. दिवा. आत्म. गतित्वरणहि-

सनयोः.

तूर्ण- प्रम्. √तूर द.

तूष्णीं(रं-ना)दा- -दाम् निष ४, २;  
या ५, १६४.

तूर्णि- √तूर द.

तूर्य- -र्याणि अथ ५, ४, ३; ७१,  
१५, ४.

तूर्य-बोध- -वेण अथ ४, २, १३;

१९, ५, १.

तूर्य-निर्घोष- -यः अथ ७०, २, ३.

तूर्य-माण, न- पावा ८, ४, १०.

तूर्यन्ती- -तीम् आमिष्ट २, १, ३ :

२; आपथ १४, १४, भाग १, २२ :

१०; वैथ ३, १४ : ९; हिष्ट २, २, ८.

√तू (<तू)वृ पाथा. भ्वा. पर.

हितायाम्, तूर्वति अथ ४८, १९५.

तूर्व->तूर्व-या(न >)ण- -णम्

शोथी १४, ४९, ३१.

√तूल पाथा. भ्वा. पर. निष्कपे.

तूल- -लः आपमं २, १६, ८; हिष्ट

२, ७, २; -लम् अथ ११, २, ४;

आपथ-१, ३२, २४; वीथ २, ७,

१५; हिथ १, ८, ६५; -लानि

माथी १, १, ३, २; -लेपु. -लैः

माथी १, १, ३, १.

√तुल पा ३, १, २५.

तूलि- पाठवृ ४, १२०.

√तूप पाथा. भ्वा. पर. वृष्टी.

तूप- -यम् लाथी ८, ६, २११.

तूष्णीम् आथी १, ३, २९४; शोथी;

पाग १, १, ३७; तूष्णीम् तूष्णीम्

आमिष्ट ३, ५, ५ : १६.

तूष्णीं-शंम्- -सः आथी ५, ९,

११; शोथी ९, २५, १; १८, १,

२; -सम् आथी ५, ९, १; शोथी

७, ९, १; १७, १७, १५; १८, २, १;

d) वैप १ द. 1 b) हिम-। व्यु. ? <√तूर इति प्रायोवाद्:। c) = अथपि-विशेष-। व्यु. ?।

d) = इपु-धि-। व्यु. ?। e) उप- = २२सिणा-। f) वैप १, १४९२ द. 1 g) = काय-विशेष-। व्यु. ?।

h) = कोपि-विशेष-। [अपका-]। व्यु. ?। i) वप्रा-। वैप १, १४९३ द. 1 j) = आगामिनी- संपद्-।

k) = इथीकाप-। l) कृत्म् इति पाठः ! यनि. शोषः। m) शरसम्बद्धसंज्ञा-।

१; -से शाश्री १७, १४, ३.  
 तूष्णीं-स्तोम<sup>२</sup> - मा: बीश्री १६, ८:  
 ७; -मात् बीश्री २६, १४:  
 १०; १४; -माय बीश्री १६,  
 ७: २.

तूष्णीं-क, का- पावा ५, ३, ७२;  
 -क: बीश्री २०, १६: २५x४;  
 -कम्<sup>३</sup> आपश्री २१, ११, ११;  
 बीश्री; -का बीश्री २१, ११:  
 १०x४; -का: बीश्री २१, १:  
 ७x४; -कान् वाश्री १, ७, ४,  
 ११; -कानि बीश्री २१, १:  
 ८; २२, २०: १५; २५, १:  
 १६; -कानि: हिश्री ७, ४, ५८;  
 -काम्<sup>३</sup> आपश्री १४, २३, ७;  
 वाश्री १, १, १, २७; ६, ३, १; पावा  
 ५, ३, ७२; -केन बीश्री २१,  
 १६: १२; वैश्री ३, ८: २;  
 हिश्री १, ३, ४६; ३, ८, १७;  
 २२, ३, ७; -केषु आपश्री ३,  
 १८, ७; १४, २३, ५; भाश्री ३,  
 १५, १; वैश्री २१, १०: ७; हिश्री  
 १, १, २३; २, ८, ८; १५, ६, ४.

तूष्णीं-न्याय<sup>२</sup> - नम् बीश्री ५,  
 ६, ३.

तूष्णीं-√भृ > भावम् वा ३, ४,  
 ६३.

तूष्णीं-भूत - ता: विध ८, ३७.

तूष्णीं-भूत्वा, भूय वा ३, ४, ६३.

तूष्णीं-पाठश्री २, २, १३४; पाग ६, २,  
 १३४..

√तूष्ति पा ३, १, २१.

√तूह, तूह<sup>२</sup> पाधा. दुदा; रघा. पर.

हितायाम्, संज्ञित तैत्रा १६,  
 २६५.

तूष्णोडि अय ४८, १९; निघ २,  
 १९; तूष्णान् अत्रा २, ४, १५५.

तूह्व<sup>२</sup> - ह्व क्रपा ८, २७५.

√तूच् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

तूक्ष<sup>३</sup> - पाग ४, १, १०५; -क्षम्  
 आपश्री २४, ८, ८.

स्ताक्ष्यं - पा ४, १, १०५;

-०क्ष्यं आश्री १२, १२, १;

आपश्री २४, ८, ८; -क्ष्यम् आश्री  
 १२, १२, १.

ताक्ष्यायण- पाग ४, २, ५४;

-या: बीश्रीप्र ७: २.

ताक्ष्यायण-भक्त- पा ४,  
 २, ५४.

तूष्णन्त आपश्री २४, ८, ८.

तूष्णाक<sup>३</sup> (> ताक्षाक- पा) पाग ४,  
 १, ११२.

तूच- त्रि- इ.

तूचि वैश्रीका ५३.

√तूष्ण पाधा. तना. उभ. अदने.

१तृण<sup>३</sup> - पाठ ५, ८; पाग २, ४, ३१; ४,  
 २, ४६; ८०; ९०; ९१; ३, ७६;  
 १४४; ६, २, ८५; पावा  
 २, ४, १२; पावग ८, २, ५१;

-नम् आश्री १, ३, ३१x४; शाश्री;

-याश्च हिश्री ४, ४, १५; पानाम्  
 बीश्री २०, ५: १८; कौम्;

-पाति आश्री १, ३, २२; शाश्री;

-याश्चाम् काश्री ९, १४, ४;

-जे काश्री २, ६, ९x४; काठश्री;

-जेन काश्री ४, १४, ५; आपश्री;

पावा १, ४, २३; -जेषु आश्री  
 ८, १४, १३; १४; बीश्री; -जे:

काश्री २, ३, ६; आपश्री.

१तार्ण- पा ४, ३, ७६.

तूष्ण-काण्ड- पावा ४, २, ५१.

तूष्ण-काण्ड- पाग २, ४, १११; -ष्टम्  
 अय ५०, ९, ३; बीध २, १, ५५६;

-ष्टेषु आपश्री १, १५, १४; हिघ  
 १, ४, ७३; -ष्टै: आपश्री १, २१,  
 २; हिघ १, ६, ३१.

तूष्णकाण्ड(श-अ)पातन- नम्  
 काश्री ७, ७, ८.

तूष्ण-काण्ड-दुग्म-दुग्काण्ड-गुड-वस्त्र-

चर्मा(मं-आ)मिप--पागाम् विघ  
 ५२, ९.

तूष्ण-काण्ड-दुग्म-दुग्काण्ड-दानाम्

विघ २३, १६.

तूष्णीय- पा ४, २, १११,

ताणक- पा ६, ४, १५३.

तूष्ण-कृष्यं-वैश्र लैप १, ३: २४.

तूष्ण-च्छेदन-> न लोडविमर्देन-

[नि]श्रीवन- नाति आपश्री १,  
 ३२, २८; हिघ १, ८, ६९.

तूष्ण-च्छेदिन्- दी विघ ५, ५८;  
 ७१, ४३.

तूष्ण-जम्- पा ५, ७, १२५.

तूष्ण-जय<sup>३</sup> - याय बीश्री ३, ९, ५.

तूष्ण-निरसन- नम् शाश्री ४, ६, ५.

तूष्णनिरसना(न-आ)दि- दि  
 वैश्री १५, २४: ४, ५.

तूष्ण-प(दु >)श्री- पाग ५, ४,  
 १३९.

तूष्ण-पाणि<sup>३</sup> - गि: क्रम २, ५, ४९;.

a) = स्तोम-विशेष-। b) प्रायेण द्वि१ रत्न क्विबि.। c) वा. क्विबि.। d) विप.। वस.। e) अर्थः

व्यु. व ?। = अटीभूत-केश- इति पाति., = घुलि- इति MW.। f) पा ७, ३, १२ पराष्टध: इ.। g) वैप १ इ.।

h) व्यप.। व्यु. इ.। i) 'शु' इति पाठ: इति बनि. शोष: (तु. सप्र. आश्री १२, १२, १; ०. च)। j) तु. पागम.।

k) तूष्णं, का<sup>३</sup> इति चीश्री.। l) हिघ. पाठ:। m) = ऋपि-विशेष-। n) व्यप. (तु. साय. वृदे; वैतु-

पद्गुरुशब्धि: विप. इति)। वस.।

सात्र १,४१.  
 तृणराणि-क-कम् ऋत्र २,  
 ६,४८; -कस्य वृदे ५, ११३.  
 तृण-प्रासन-प्रश्रुति- -ति प्राथी ४,  
 १,१५; लाथी २,२,३.  
 तृण-वि(,वि)न्नु- पाग ४,१,१६;  
 पावाग ४,२,२८; -न्दवः बीधीप्र  
 २७ : २; -न्दवे आसिष्ट १, २,  
 २ : १८; बीष्ट ३, ९, ५; भाष्ट  
 ३,१० : ४; हिष्ट २,१९,६.  
 तार्णशि,वि<sup>१</sup>न्दवि- पा ४,  
 १,९६.  
 तार्णयिन्दवीय- पावा ४, २,  
 २८.  
 तृणयिन्दु-तनु- पाग २, २,  
 ३८.  
 तृण-भूम्य(मि-अ)म्नु(मि-उ)दक-  
 वाक्सूतृता(ता-अ)नसूवा- -याः  
 वाध १३,६१.  
 तृण-मय- पा ४, ३,१४४.  
 तृण-सुष्टि- -ष्टिम् बीधी २, ८ : ४;  
 २४; वैष्ट २,१६ : ७.  
 तृण-वंश- -शम् बीधी २५,४ : ४.  
 तृण-वर्ध- -र्तान् बीधी ६, २७ :  
 २०.  
 तृण-बली-समाडु(उ >)ला-  
 -लाम् अप ७०<sup>१</sup>, २३,१०.  
 तृण-श- पा ४, २,८०.  
 तृण-साधिद्- -यी विध ५०,४.  
 तृण-संवाद- -हः आगप १, ११,८;  
 हिध १,३,६५.  
 तृण-हिरण्य- -ण्यैः काथी १२,  
 ६,१.

तृणा(ण-अ)प्र- -प्रम् काथी ६, ६,  
 १४; काथी १,३, १,३३; ६,५,  
 २१; -प्राणि काथी ३,२,६,४६.  
 तृणा(ण-अ)द्- -दान् अप ७३,  
 ५,३.  
 तृणा(ण-अ)दि- -दि काथी ३, ७,  
 १३; -दीनाम् अप ६४,५,१०.  
 तृणा(ण-अ)द्य- -द्यान् आपथी २०,  
 २,११<sup>२</sup>; हिथी १४, १,२३<sup>३</sup>.  
 तृणा(ण-अ)न्वर्षान- -नेन काथी ३,  
 २,१,१८.  
 तृणा(ण अ)पचयन- -नम् काथी २,  
 १५,३.  
 तृणापल- तृणोलप- टि. द्र.  
 तृणा(ण-अ)र्थ- -र्थं काथी २,८,७.  
 तृणिल- पा ४,२,८०.  
 तृणीय- पा ४, २, ९०.  
 तृणो(ण-उ)ढ- -ढः हिथी १५, ३,  
 ११<sup>४</sup>.  
 तृणो(ण-ए)व- -वः माथी ९,१३,  
 ९<sup>५</sup>, -वे आपथी ९,१,१२<sup>६</sup>.  
 तृणो(ण-उ)दक- -काय बीधी ६,  
 ९ : ७.  
 तृणो(ण-उ)दक-भूमि- -मि बीध ५,  
 ३६.  
 तृणो(ण-उ)लप- पाग २,४, ११.  
 तृणो(ण-ओ)पधि- -धीनाम् बीध  
 ३,२,१५  
 तृणय- पा ४,२,४९.  
 २तृण- पाग ४, १,९९,११२<sup>७</sup>.  
 २तार्ण- पा ४,१,११२.  
 तार्णयन- पा ४,१,९९.  
 तृणकर्ण- पा, पाग २, ४, ६३; ४,

१,११२<sup>८</sup>.  
 तार्णकर्ण- पा ४,१,११२.  
 तृण-क्वाण- प्रष्ट. १तृण- द्र.  
 तृणच<sup>१</sup>- (> ष्वीय- वा.) पाग ४, २,  
 ९०.  
 तृणयः अप १,७,५.  
 तृण- -वे कौम् ४६,२६१<sup>९</sup>.  
 तृतीय- प्रष्ट. त्रि- द.  
 तृण्यम् काथी ३,२,५,२६.  
 तृण्य<sup>१</sup>- -न्यवः या ७,२१.  
 √तृप् वाधा. रथा.उम. हिंसानादरयोः-  
 अतृणय ऋत्रा १,९८<sup>१०</sup>; तृण्यत्र  
 या १,१२.  
 तवर्द या १०,४११<sup>११</sup>.  
 तृवर्द<sup>१</sup>- -वर्द अथ ६, ५०; -वर्दम्  
 कौम् ५१, १७; ११; अप ३२,  
 १,१३; अथ ६,५.  
 तृवर्दापते<sup>१</sup> अथ ६,५०<sup>१२</sup>.  
 तवर्न- -नम् या १, १३.  
 तवर्न<sup>१</sup>- -र्नं काथी ६,१,२८; काय  
 २५,९१<sup>१३</sup>; कौम् ७६,१३; -र्नसु  
 काथी ७,३, १७; काय २६,३१.  
 तृवर्न<sup>१</sup>- -न्य आत्मं १,१,१०<sup>१४</sup>.  
 √तृप्, ऋप् वाधा. दिवा. स्वा.  
 पर. प्रीणने; तुदा. पर. तृती;  
 जुदा. उम. तृती संदीपने व.  
 तृपयि बीधी १०, १० : १;  
 २७, १२ : ९; माथी; तृपयि  
 बीधी २७, १२ : ६,८; काथी;  
 तृपयामि गोष्ट १,९,३; तृपयामहे  
 विध ८३,२१; तृपयु काथी ५,  
 ६,२१; काथी; तृपयाम् अप  
 ४३, २, १५xx; तृपयन्ताम्

a) तु. पागम. । b) = ऋषि विशेष- । व्यु. ? । c) = तृण-सुल- । d) सपा. तृणदः <>  
 तृणयः <> तृणैष इति पाठे. । e) विप. । बस. । f) तृणापल- [पठे] इति भाएज. । g) व्यप. । व्यु. ? ।  
 h) तृण-, कर्ण- इति भाएज. पावा., तृणकर्ण- इति पावि. । i) तृण इति पाका. । j) तु. पाका. । k) पाठः ?  
 त्रिते इति शोधः (तु. शी ६,११३,१) । l) वैप १ द्र. । m) = १तृण- । n) पाठे. वैप १, १४९४ II द्र. ।  
 o) या १०, १० पाग ८, ४, ३९ पावा ३, १, ४४ पराण्टः द्र. ।





कीट २, ५, २३; वैद्य; ऋतुष्यन्तु  
 आपथी ३, ११, २; बीथी;  
 शांथ ४, ९, ३०; ६, ६, १००;  
 नृष्यस्व वीथ ३, १२, ८; वीथि;  
 नृष्य बीथी ८, ९, २११; ऋतुष्यतम्  
 आपथी २, २०, ६०; १४, ३०,  
 २०; बीथी २४, २९: २१;  
 २२, ५: ३; माथी; हिथी १५,  
 ७, १८; ऋतुष्यत आपमं २, २०,  
 २३; २५; आमिथ; ऋतुष्याणि  
 आमिथ १, ५, १: १०; १३;  
 तृष्येव वाथ १०, २५; १४, १३;  
 निथ ५७, १३.  
 तृष्यन्तु ऋथी २, १०:  
 ३३; ३५; ३६; तृष्यन्तु कीट १,  
 १७, ७; ऋतुष्यन्तु आपथी १२,  
 ३, ७ बीथी.  
 नृष्यताम् शांथ ३, ३, ११०;  
 नृष्यताम् आपथी १३, ११, १,  
 ८; बीथी; ऋतुष्यन्तु काथी ९,  
 ११, ९; श्रुथ १, ४५१; ऋतुष्य  
 काथी ७, १०, १५; कथा ७,  
 १६; ऋतुष्यतम् काथी ४, १०,  
 ११; १३, १२, ७०.  
 सानुषु: आपथी २१, १९, १९१;  
 नृष्यताम् बीथी ८, ९: २११;  
 अतुष्य आमिथ १, ५, १:  
 १२१.  
 तर्ष्यते आमिथ २, ५, ७: ९;  
 २, ६, ८: १६; तर्ष्यति काथी  
 ३, ८, २७; बीथी; तर्ष्यन्ति

आथ ३, ५, २१; शांथ; ऋतुष्यामि  
 बीथी ९, १९: १५१; कीट;  
 बीथ २, ५, २७१; तर्ष्यामः  
 आमिथ २, ५, ३: २३; वीथ ३,  
 ७, १७; तर्ष्यतु कीट ५, ७, २१;  
 तर्ष्यन्तु आपमं २, २०, २४;  
 आमिथ; आपथ २, ७, १३१;  
 हिथ २, ३, ३२१; ऋतुष्य,  
 > या आपथी ४, ८, १; माथी;  
 माथी १, ३, ५, २७; ८, ४,  
 ४०; २, ४, १, ५९; पाथ २,  
 ६, १८; तर्ष्यत शाथी ४, ५,  
 ३१; आपथी; अतर्ष्यत् वाथ्यी  
 ३, २१: २; अतर्ष्यत् वाथ्यी ३,  
 २१: ४; आमिथ; तर्ष्येत् पाथ  
 ७, ३; ८, २; आथ; तर्ष्येयु:  
 पाथ २, १२, २; गोथ ३, ३, १५.  
 ऋतुष्यन्तु कीट ३, १५, ३;  
 शांथ ३, १२, ५; अतीतुष्यन्त  
 बीथी ५, १५: १६१; अतीतुष्यन्  
 माथी २, ३, ७, ११; अतीतुष्यम्  
 बीथी १४, ८: २८१.  
 तितर्ष्येयिषेव शांथ १, २, ७; गोथ  
 १, ९, २.  
 तर्ष्य- -गम् वैथ ३, २३: १५४;  
 कथ, -णात् कथ २, ३, ५;  
 -णाय आमिथ ३, २, १: १६;  
 हिथ २, १४, ४; -णेत पाथ ३,  
 ३, ११; -णै: आथ्यो १४, ९.  
 तर्ष्य-विधि- -धि: शंथ ११६:  
 २; -धिम् अथ ४३, १, १.

तर्ष्य-सम्(थे<>)थी-थी: वाथ  
 ३, ३५.  
 तर्ष्य-धीन- -ने वैथ ६, ८: २२०  
 तर्ष्य(थ-आ)दि- -दीनि शंथ  
 ११२.  
 तर्ष्यत्- -न्त् काथ ४, २०; वीथ  
 २, ११, ४०; -यन्त: या ६, १५.  
 तर्ष्यन्ती- -न्ती: आपमं २,  
 २०, २४१.  
 ऋतुष्येयिषे<sup>क</sup> काथी ३, ८, २७;  
 आपथी ४, १६, १७; बीथी.  
 तर्ष्येयु- -ता या १०, १०; -तत:  
 बीथी ८, ९: २१.  
 तर्ष्येयु बीथी ९, १९: ३०४४; सु.  
 तर्षित- -तै: वाथ ११, ३३.  
 तर्षित-नाशि- -पाग २, २, ३७.  
 तर्ष्या(थ<>)ग- -णा तथ्या ९,  
 ५२१.  
 तर्ष्यि- -धिम् कथा २, ५२१.  
 तर्ष्य- ऋतुष्या<sup>क</sup> काथी ४, ६, ३;  
 शांथी ५, ९, ७.  
 तर्ष्यन्- -पाठ २, ८५; पाथ ३, १,  
 १२; -न्त् कथा १७, ३५१.  
 तर्ष्यन्तु पा ३, १, १२.  
 तर्ष्यन्- -यु: निथ ३, २४१.  
 तर्ष्यन्तु- -पाग ३, १, १८; ५, २,  
 १३१०; ६, २, १७००; -न्त:  
 काथी २, २, ३४; बीथी; -न्त्  
 बीथी २५, ३४: ११; -न्त्  
 माथी १, ३, ५, १६१;  
 -न्त्वा: वाथ्यी ३, ४२: ९;

a) सप्र. तृष्यन्तु <> तर्ष्यामि इति पाठे. । b) पाठे. वैथ २, ३६. तैत्र ३, ७, ५, १२ टि. द्र. ।  
 c) पाठे. वैथ १, १४५५ टु द्र. । d) पाठे. वैथ १, १४५५ टि द्र. । e) सप्र. तृष्यताम् <> तिष्ठन्तीम् <>  
 तुष्यताम् इति पाठे. । f) पाठे. वैथ १, १४५५ टि द्र. । g) थ्यंथु इति पाठः । यनि. शोषः ( तु. सपा.  
 शी १५, ११, २) । h) सप्र. तर्ष्य <> तर्ष्यितवै इति पाठे. । i) तु. पागम. । j) वैथ १ द्र. । k) कृष्य  
 स्तः > तृष्या स्वः इत्युद्घः, तस्य च सपा. शी ७, १४, २ प्रथ. इभावः ( तु. DC. C. ) । l) वैथ १, ७४५६ क द्र. ।  
 m) सेतन-नागन्- । n) तु. भाष्या. । तृष्य- इति पागम., तीम- इति [५६] पाठा. । o) तु. भाष्या. प्रथ. ।  
 नृष्य- इति पाठा. ।

आमिष्टः-प्लान् आण्ड ४,७,२६;  
 काण्ड ६३,१९; काण्डः-प्लान्  
 या १४,२९१; -प्लान् वायुथी  
 ४,७४: ३०; वैष्ट ४, ४: १;  
 वप्र १,३,९.  
 वृत्त-तम-सै- या ६,१२.  
 वृत्त-वन्-व्यञ्जि निम् २,११:  
 १३.

√वृत्ताय पा ३,१,१८.  
 वृत्तिन्- पा ५,२,१३१.

२वृत्त- -सम् निम् १, ५: १९;  
 ऋषा १७,५.

वृत्ति- -ति: आण्थी ४, ८, १११;  
 भाथी; ऋष ४८, ७५१<sup>०</sup>;  
 निय १, १२१<sup>०</sup>; -तिस्मि  
 आण्ड १, २३, १५; २४, २४;  
 आमिष्टः-सौ आण्ड ४८, ५०.  
 वृत्ति-कर- -रम् वैष्ट १, ९, १५;  
 -रा. वाध ३, ४७.  
 वृत्ति-कर्मन्- -मंज: या २, ५,  
 ९, ५.

वृत्ति-मम- -आ आण्ड ४, ४, १४  
 वृत्त्य(ति-म)न्व- -न्ते वीष्ट २,  
 ११, ४१.

वृत्त्यन्- -प्यन् वीष्ट २, ४८.

वृत्त्- -या: वीथी २५, ३४: ११,  
 -पानाम् द्विथी १३, ५, २३.

वृत्तपल-प्रमर्मन्- -मां या ५, १२४<sup>०</sup>.

वृत्त(व>)ला- पाठ १, १०४.

वृत्तु- प्रम. √वृत्त्.

वृत्त्यधि-द्वय- -येन वैष्ट १, १३: ५

वृत्तप्र- पाठ २, १३, १५; ५, १,  
 १२२; -प्रम् ऋष ४८, ६५१<sup>१</sup>;

-प्रम्य: वाथी २५, ११, ३११.  
 तार्थ- पा ५, १, १२२.

वृत्त-वा-, वृत्त-व- पा ५, १, १२२.  
 वृत्त-प्रहातिन्- -री या ५, १२.

√वृत्ताय १नृत्- टि. द.

वृत्तालु- पावा ५, २, १२२.

वृत्तिन्- १नृत्- टि. द.

वृत्तिमन्- पा ५, १, १२२.

वृत्तो(ध-उ)व्य(ल>)सा- पा, पाग  
 २, २, ३७<sup>१</sup>.

√वृत्, वृत् वाया. तुदा. पर. वृत्ती.

वृत्तला- पाठ १, १०४.

√वृत्त् वाया. दिवा. पर. विपासा-  
 याम्, १नात्तु- आथी २, १९,  
 २४; वाथी; अतीवृत्ताम ऋषा  
 १, १००<sup>१</sup>.

वृत्तवाण- -ण: ऋषा ९, ४४;  
 -णम् ऋषा ९, ४३.

वात्तवाण- -णम् ऋषा ९, ३२१.

वृत्त->वृत्तिन्- पा.)गण ५, २, ३६

वृत्तवाण- -णम् ऋषा ४, ६६१.

वृत्त्या(व-वै)वृ- पा ३, २, १७२;

-व्यम्, -वृत्तवे या ११, १५४<sup>०</sup>.

वृत्त्या- पाठ ३, १२; पाग ५, १,  
 १२३; -व्यया विष्ट ४३, ३५;

-वृत्त्या वीथी २, ५: १०, वीथी  
 १, १४: १२; -व्याम् कौम् २७,  
 ११: ७०, ११; वाध ३०, १०.

वात्तव- पा ५, १, १२३.

वृत्त्या-वृत्तिन्- -तरय कौम् २७,  
 १०.

वृत्तिमन्- पा ५, १, १२३.

वृत्त्यन्- -व्यत: ऋष १, ३२, ७१.

वृत्त्यु- -यु आपथी ३, १५, ५; ऋष  
 ४८, १०६; निय २, १५.

वृत्त्यो- -व्योय् या ६, १२१.

वृत्त्य- -व्यम् ऋष २, १०, ८५<sup>०</sup>;  
 वृदे ७, १३४; ऋष १४, २.

वृत्त्य-दंमन्- -दमा वीष् १३९, ८१.

वृत्त्य(वृत्त>)वृत्त्या- -०के कौम् ३६.  
 ३८; ऋष ७, ११३.

वृत्त्यव्य-व्यता- > -व्य- -व्यम्  
 ऋष ७, ११३.

वृत्त्या-चरुत्ति- -त्री पाग ६, २, १४०.

√वृत्, √वृत् द.

√वृत्<sup>०</sup> पाया. म्ना. पर. प्लवनतरणयोः,  
 तरते ऋष ७०<sup>३</sup>, २३, १२; तरति  
 वीथी २, ११: २१<sup>१</sup>; भाथी;

तरन्ति ऋष १८, ४१, वृत्तामि<sup>०</sup>  
 माथी १, ५, २, १; वाथी १, ४,  
 १, १६; वृत्तरत् वैष्ट १, ४: २७;  
 २, १०: १०; वीष्, या १३, ६<sup>१</sup>;

वृत्तर>रा वृत्ता ३, १२९; तैत्रा  
 ३, ८; वृत्तरत्>ता वीथी १४,  
 २१: १३; आमिष्ट ३, ४, ४: १७;  
 वृत्ता ३, १२९; तैत्रा ३,  
 १२; अतरत् आथी २, ११, ८१;  
 सु ३१, ९; वृदे ८, ३२; अतर  
 या ११, २५१; तरव काथी २५,  
 ११, २३; भाथी, वृत्तरम् काण्ड  
 ४५, १०; वाण्ड.

वृत्तरि ऋष ४८, १६१.

तरवेम् या ५, २१<sup>०</sup>.

तरतर ऋषा २, ७२१; वृत्तरति-

पम् द्विथी ७, २, ८३; वृत्तरतिम्<sup>०</sup>  
 आथी ४, १५, ७; आपथी १६,

a) = छन्दो-विशेष-। ए. १। b) = उदक-। c) विप.। वस.। d) = वृक्ष-विशेष-। ए. १।  
 e) वैष्ट १ द.। f) ए. १ (द. c. टि.)। g) वस्रा.। वैष्ट १ द.। h) वृ ११८० n. ० द.। e) वृ. पागम्.।  
 j) = डु स-। k) पावा ७, १, ५९ परावृष्ट: द.। l) या ११, १५ पा ३, ४, ५७ परावृष्ट: द.। m) त्रिष्टम् इति  
 पाठः। यनि. शोधः। n) वैष्ट १, १४९ c, d द.। o) या ५, २६; ६, १२; १२, १४ परावृष्ट: द.।  
 p) फेसि. वैष्ट २, ३६. अत्रि...तरामि तैत्रा १, २, १, १५ टि. द.। q) पागे. वैष्ट १, १२० c b द.।

१९, ८; वैश्री; षड्भाष्यं द्वाभौ  
११, १, ६; लाभौ ४, १, ६.  
सारयते जैष्ट २, ८ : २५; बौध्  
८२, १०; सारयति बौध् ७१,  
२४; ८६, २७; बौध; या ७, २०;  
१४, ३३; सारयन्ति वाध ६, ३;  
५; सारयेत् आसिष्ट ३, १२, १ :  
१५; अप ३२, १, ७; चव्यू २ : ३६.  
षड्भाष्यं- -रिः शोभौ १, ११, १<sup>३</sup>;  
-रिम् या ६, ३.  
२वर- पा, पाग ३, १, १३४.  
तरण- पाग ३, १, २७<sup>७</sup>; -णम् अप  
६४, ९, ६; -णाय या ३, १८;  
-णानि बौध् ५२, १०<sup>८</sup>; -ण  
वैताभौ १२, ११<sup>१</sup>; अप ६८,  
२, ३६.  
√तरण्य पा ३, १, २७.  
तरणि- पाउ २, १०२; -णिः आभौ  
२, २०, ४४४; शोभौ; अप ४८,  
१०६<sup>६</sup>; निध २, १५<sup>६</sup>; -णिम्  
आपथी ५, ११, ६<sup>१</sup>; बौधौ.  
तरणिन्व- न्वेन या ११,  
१६<sup>१</sup>कुं.  
तरन्- नन् आपथी १०, १९, १२;  
कौष्ट ३, १३, १७; शोभ ४, १४,  
५; -रन्तो सु २, ३.  
तरती- न्ती आपथ ६, २.  
तरणी- न्तीम् बौध् ४, ३, ६;  
-न्याम् कौष्ट १, ९, १५; शोभ  
१, १५, १८.  
तरत्समन्दी- न्दीभिः गौध  
२०, ११; -न्याः बौध ४, २, ४.

तरत्समन्दीय- यम् बौध २,  
३, ८; विध ५६, ६; -यैः बौध  
४, २, ५.  
तरत्स(म>)मा- -माः वाध २८,  
११; शोभ १०५; बौध ४, ३, ७.  
षड्भाष्यं द्वाभौ १६, १८, ७; वैश्री  
१८, १६ : २; द्विभौ ११, ६, २९.  
तरत्स- पाउवृ ३, ११७; पाग ५,  
३, १०८; -षः आभौ ८, १०,  
१; शोभौ १०, १०, ४; अप ४८,  
१०३; वृद्धे ६, १८; निध २, ९;  
-षसा आपथी ४, ४, ४; भाशौ;  
-षोभिः आभौ ५, १६, ३; ७,  
४, ४; शोभौ.  
तारत्सिक- पा ५, ३, १०८.  
तरत्सन्वत्- न्याम् द्विभौ २१, ३,  
१०.  
तरत्सवती- न्याः निध १,  
१३<sup>१</sup>.  
तरत्स-विन्- विनाम् बौधौ  
२६ : १४.  
तरितस्य, न्या- न्यम् आष्ट १,  
१२, ६; -न्याः वाष्ट १५, १०;  
माष्ट १, १३, १५.  
तरिन्- -री अप ५, २७<sup>१</sup>.  
तरिण्यत्- न्याम् कौष्ट ३, १३, १३;  
शोभ ४, १४, १.  
२तरी- पाउ ३, १५८.  
तारिक- -कः विध ५, १३१.  
तरन्- पा ७, २, ३४; -तारम्  
या १०, २८<sup>१</sup>.  
तरन्न- पाउभौ २, ३, ८९; -षः

बौधौ १०, २४ : १०.  
षड्भाष्यं- -त्री काष्ट ४१, ११;  
माष्ट १, २३, ७<sup>१</sup>; वाष्ट ५, ७.  
तरत्स- > √तरण्य<sup>१</sup>, तरण्यति  
निध ४, २<sup>१</sup>.  
तारयितुम् वाध ६, २५.  
तारयित्- तारम् या १०, २८.  
तितीरिपत्- न्यतः द्विभौ २, ६,  
५१.  
तितीर्यन्- -पतः द्विभौ ३, ७, ३३.  
तितीर्यमाण- न्यस्य भाशौ ६,  
१०, ८.  
तितीर्यो- -र्षा द्विभौ १७, १, २६.  
तीर्ण, र्णा- -र्णम् या ३, २०; -र्णा  
बौधौ १०, १२ : ६; -र्णानि या  
३, २०; -र्णे या १०, २७.  
तीर्ण-सम, मा- -नः या ४, ६;  
-मम् या ५, २६; ७, १२; -मा  
या ३, १०.  
तीर्ण-निर्णय- -यः आसिष्ट ३,  
९, ३ : १४.  
तीर्ण्यौ बौधौ १४, २१ : २४<sup>१</sup>;  
वाधौ.  
१ते तद्- द्र.  
२ते युष्मद्- द्र.  
१तेक- -कः आपथ्य २, १६, ८; भाष्ट  
२, ७ : २०.  
तेदिण्य- √तिन् द्र.  
√तेत् पाथा, भा. पर. पालने.  
तेजन्, -नी, तेजस्- प्रम्. √तिन् द्र.  
१तेदनि, नी- -निम् शोभ २, १३,  
१०; -नीम् कौष्ट २, ७, २३<sup>१</sup>.

a) वैष १ द्र. । b) तरिण- इति [पक्षे] भाष्ये, पाणि. । c) =तरण-भाषन- । d) =तिन्- ।  
e) =शब्द-विशेष- । < तरत्सु सम्प्र. ( का २, ५८, १ ) । f) दु. पागम. । g) =नदी-विशेष- ।  
h) =शब्द-विशेष- । i) =नीका- । j) =नातिक- । जीवरथयै ट्क् प्र. ( पा ४, ४, १२ ) । k) पाणि. वैष २, ३७.  
परस्वी मंत्रा १, ६, २८ दि. द्र. । l) या ५, २ पराष्टः द्र. । m) इवागमश् चान्दसः । n) विप. । वच. ।  
o) =स्वाम्-विशेष- । व्यु. ? । p) सप्र. द्विष्ट २, ७, २ टैकः इति पाणे. । q) या १०, ६ पराष्टः द्र. । r) तेजनीम्  
इति पाठः ? यनि. शोभः ( वृ. काष्ट. ) । s) सपा. षनिम् <> षीम् इति पाणे. ।

†२तिदनी- नी चाथी १२, १८, २०.

√तेप् √तिप् द.

तेपान- √तप् द.

तेलु<sup>१</sup>-(> तैलवक- पा.) पाग ४, २, ५३.

√तेप् पापा. भ्वा. भ्राम. देवने.

तैकायन-, णि- तिङ- द.

तैङ्णायन-, तैङ्गन- प्रभु. √तिन् द.

तैटीकि<sup>२</sup>- -कि: या ४, ३; ५, २७.

१तैतल- (> तैलयनि-) १तैतिल- टि. द.

२तैतलिन- (> २तैतल-) २तैतिलिन- टि. द.

१-२तैतिलि- तैतिलिय- √तिन् द.

१तैतिलि<sup>३</sup>- (> तैलयनि- पा.) पाग ४, १, १५४<sup>०</sup>.

तैतिल-कङ्- पा ६, २, ४२.

तैतिलिन<sup>४</sup>- (> २तैतिलि-) पावा ६, ४, १४४.

३तैतिलि<sup>५</sup>- लः छाज्यो ४, ५, -लस्य आज्यो ५, १६; -ले छाज्यो ५, ६.

१तैत्तिर- १तिरि- द.

२तैत्तिर-, शीय-, र्थ- २तिरि- द.

तैत्थियक- तैत्थिक- द.

तैद्देह<sup>६</sup>- -हा: बोधो १० : २; १७ : २; २७ : ४; ४३ : ६.

तैरदच्य- १तिररवी- द.

तैरिन्दिर- तिरिन्दिर- द.

तैरोविगम-, णक-, ष्यञ्जन-

तिर्य् द.

तिर्यं-, तैर्यं-, तैर्यंयात्रिङ्-, णिङ्-,

र्यं- तौर्यं- द.

तिर्यंगयनिक- निर्य् द.

तैल- प्रभु. तिल- द.

तैलक- २तिलक- द.

तैलम्पान- तिल- द.

तैलक- तेलु- द.

तैलीन- तिल- द.

तैल्यक- निर- द.

तैल्यल- (> तैलक- पा.) पाग ४, २, ५३<sup>१</sup>.

तैमक-, श्रदाव- तीय- द.

तैयो- तिय- द.

तैस्वामाद्विजम् तद्- द.

†तोक<sup>१</sup>- पाठभो २, २, ४९<sup>२</sup>; -कम्

अर ४८, ८७; निप २, २; या ३, ५; १०, ५९<sup>३</sup>; १२, ६७<sup>४</sup>; छग्रा ३, १२९; -काय चापथी ४, १६, ५, १२, १<sup>५</sup>; बोधी, या १४, २६<sup>६</sup>; -के चाथी ३, ३, १; चाथी ५, १७, ९; आगिः; -केयु या १०, ७.

तोक-वद्- वद् चाथी ५, १२, ३१.

†तोक-याति<sup>१</sup>- न्वा चापथी ५, ४, १, बोधी २, ६ : ८; हिथी ३, ३, ७.

तोकि(न् >)वी- नी माण २, १८, २१.

तोक्म<sup>१</sup>- वम्व चाथी ३, २, ७, ३; -वमाणम्<sup>२</sup> बोधी १७, ३१:

१९; -वमानम् चाथी १९, १, १८; -वमी: चापथी १९, ५, ११; हिथी २३, १, ८.

तोक्मा(वम-व)वा(स्व >)रमा<sup>३</sup>-

-रमाभि: चापथी २२, २८, १३;

हिथी २३, ४, ५, १.

तोक्मन्<sup>४</sup>- पाठना ४, १६४; -वम

निप २, २१; -वमाणि<sup>५</sup> बोधी १७, ३१ : २; २६, २२ : १८;

१९; -वमानि चापथी १९, ५, ७; हिथी २३, १, ६; काय २५, ३२<sup>६</sup>; वीय १, ५, ८.

तोक्म-किण्व- ष्वे चापथ १, २०, १२; हिप १, ६, २६.

तोक्म-वृग्- णानि चाथी १९, १, २५.

तोक्म-ननु- वनुभि: माथी ५, २, ११, १६.

तोक्क ताक् टि. द.

††तो ते<sup>१</sup> चापथी १०, २३, ४; बोधी.

††तोतो<sup>२</sup> चाथी ७, ६, २३.

तोत्थ- तोद- √दुद् द.

तोमर<sup>३</sup>- पाठव ३, १३१; पाग २, ४, ३१.

तोमर-प्रद्- पावा ३, २, ९.

तोय<sup>४</sup>- न्यम् जैधोधा ९; कय; -ये दीप १०३; -येन वैष १, ४, १; -यै: वैधो २, ६ : १.

तोय-मह्य- णम् रूप ५, १, २.

तोय-द- दः वाप २९, ८; -दा: अर ५२, १, ३२.

a) वेप १, १५०-१३ द.। b) व्यप.। म्यु.।। c) = आचार्य-विशेष-। म्यु.।। d) व्यप.। म्यु.।। <तिरिन्- इति पाका ६, २, ४२। e) द्र. पाका पाति.। १तैतल- इति आण्डा., पागम. (< तैतल-, इति) च। f) = आचार्य-विशेष-, [उपचारात्]। ग्रन्थ-विशेष-। पिनि: प्र. वसं. (पा ४, २, १०६)। तैतलिन- इति पागम.। g) = [उच्योतिःसाकसंज्ञित-] षरण-विशेष-। म्यु.।। h) = ऋषि-विशेष-। म्यु.।। i) द्र. पागम.। वैल्ल- इति कान्तिक: पाठः (द्र. पागम.)। j) वेप १ द.। k) तौ<sup>०</sup> इति पाठः। यनि. शोधः। l) = ऋषुरित-यव-। म्यु.।। m) जल्यं द.। n) विप.। वस.। o) रुपा. तोक्मानि <> लामान् इति पागे.। p) = ऋषु-विशेष-। म्यु.।। q) = जल-। म्यु.।।

१२; १०, २२; वृदे ३, १२४; या १२, ७१; त्यान् शाभी ९, २४, ३; बोधी; ण्वे आभी ४, ७, ४; ७, ४, ३; शाभी ७, २३, ५<sup>०</sup>××; १२, ४, २२<sup>०</sup>; द्विभी; वैताभी २२, ११<sup>०</sup>; २७, १२<sup>०</sup>; ३३, २४<sup>०</sup>.

त्यद्- पाठ १, १३२; पाग १, १, २७; ५, ४, १०७; ण्वेत् आभी ४, १४, २; ५, १३, ६<sup>०</sup>; ६, ४, १०; शाभी १, १५, ५<sup>०</sup>; ७, १६, ८<sup>०</sup>, ८, ८, १<sup>०</sup>××; काभी २६, ७, ५५<sup>०</sup>; आपभी; माभी ४, ५, १<sup>०</sup>.

त्यादायनि- पावा ४, १, १५६.

त्यादादि-विधि- षय- पावा ५, ३, १; -घौ पा १, १, २७.

१त्य,त्या- त्यः आभी ४, ७, ४<sup>०</sup>××; शाभी, ण्वया २, २; १३, ३; पा ६, १, १३३, ण्वेत् आभी ३, ७, ६; ४, १४, २; ८, १०, १; शाभी, स्वोऽ शाभी १२, १३, ५<sup>०</sup>.

१त्यवे<sup>०</sup> वैश्री २१, २ : ७.

त्यादचोप्र<sup>०</sup> अ ३४, १, ८.

स्याग- प्रमृ. √त्वज् द.

१स्वैप्ततः सु ५७.

√प्रख् = √उख् यद.

√प्रहक् = √कहक् यद.

√प्रन्त् पाधा. भ्वा. पर. षेठायाम्.

√प्रप्<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. लमायाम्

प्रप<sup>०</sup>-> प्रपिष्<sup>०</sup>, प्रपीयस्<sup>०</sup>- पा ६, ४, १५७.

१प्रपु<sup>०</sup>- पाठ १, १०; -पु वाधुभी ४, ५९<sup>०</sup>; ५; वाध २, २६; अम ११, ३<sup>०</sup>; -पुणः शंष १६४.

त्रापुप- पा ६, ४, १३८.

प्रपु-वामर-सीसक-विक्रियन्- यो विघ ४५, २२.

प्रपु-जतु- तुम्याम् गौष १२, ४.

त्रपु-मिथु-पूर्व- नैः तैत्रा ५, ४.

त्रपु-सीस- स्म आपध २, १६, १८; द्विष २, ५, १८.

२त्रपु<sup>०</sup>- पुः अ ४८, ७७<sup>०</sup>.

प्रपुपी<sup>०</sup>- षी अ ४८, १०४<sup>०</sup>.

प्रपुस्<sup>०</sup>- पुः माभी ५, २, १४, ९.

त्रपुस्<sup>०</sup>-> त्रापु( स > )सी- सीः असा २१, २.

प्रपुस्<sup>०</sup>-सुमल-खदिर-ताष्टांघ- पाताम कौम् २५, २३.

प्रय- प्रमृ. वि- द.

√प्रस्<sup>०</sup> पाधा. दिवा. पर. उद्वेगे; उरा. उभ. भाषायां धारणे, प्रहणे, वारणे. च

प्रस्तु- पा ३, २, १४०.

प्रसदस्य<sup>०</sup>- -स्य वैष ४, ३, ४.

प्रमदस्य-वत् वैष ४, ३, ४.

प्रसदस्यु<sup>०</sup>- -स्युः ऋञ २, ४, ४२; वृदे ५, १३; ३१; शुभ १, ४४६;

-स्योः ऋञ २, ८, १९; वृदे ६, ५१.

प्रसदस्यव- ०व आभी १२,

१२, २; आपभी २४, ८, ९; बोधीप्र २० : ४; -वम् निस् ७, ५ : ३५; वृदे ७, ३५; -वस्य ऋञ २, १०, ३३.

प्रसदस्यु-वम् आपभी २४, ८, ९; बोधीप्र २० : ५.

प्रसरेणु- पाठ ३, ३८.

प्रसरेणु-लक्ष<sup>०</sup>- कम् विघ ४, १.

१, २, २पाण- √त्रै द.

१, २पात<sup>०</sup>- -वस्य चाम ४२:६.

२पात- , त्रातुम्, त्रातु- √त्रै द.

त्रापुप- १प्रपु- द.

त्रापुसी- प्रपुप- द.

त्रायक-, ष्वमाण- √त्रै द.

त्रायोदश- वि- द.

१त्रासुरर्धधम् कौशि ७३.

त्रि<sup>०</sup>-> तिस- वा ७, २, १९; पाग ४, १, १०; -स्यगम् आभी २, १६,

२; शाभी; -समिः आभी २, ३,

२९××; शाभी; कौश १०८, २<sup>०</sup>०;

-समिःऽसमिः शाभी १६, १३,

६; आपभी; -स्ययः आपभी

१३, २, १; १५, ८; बोधी; -स्यु

शाभी १४, ४२, ८; ९; काभी;

-स्युऽ-स्यु बोधी १८, ३६ :

१२; -सः आभी २, १, ३०××;

शाभी; आपमं २, १७, २६<sup>०</sup>;

-सःऽ-सः आभी २, ४, १७××;

शाभी.

तिस-चतस-त्व- स्वम् पावा

१, १, ३९.

तिस-धन्व<sup>०</sup>- न्वम् आपभी

a) पाभे. वैप १, १५=३ j द.। b) पाभे. वैप १, १४३९ ० द.। c) पाभे. वैप. १, १४३८ d द.।

d) पाठः। सप्र. शौ ७, १०५, १ कृष्णे इति, बोधी २८, ९ : २० करवे इति, काभी २५, ११, २१ करवे इति च पाभे.।

e) प्रयोदयात् इत्यस्य वैपरित्येन निर्देशः। f) वा ६, ४, १२२ परास्यः द.। g) अर्थ- व्यु. च?।

h) पाप्र. <तृ- इति। i) वैप १ द.। j) = कृ-। व्यु. ?। k) = वज्र-। व्यु. ?। l) = वृत्त-विशेष-।

व्यु. ?। m) द्रम. उच. ?। n) वा ३, १, ७०; ६, ४, १२४ परास्यः द.। o) = ऋवि-विशेष-। व्यु. ?।

p) विप.। वम.। q) पाभे. वैप १, १५१५ m द.। r) सप्र. तिसः <> सर्वाः इति पाभे.।

१७, १२, ३; १८, २१, १७; २२, २६, ५; बौधौ।

विश्वधन्विन्- न्विनाम्  
बाधुथौ ३, ७५ : ७; न्वि बौधौ  
१६, २० : १४; २२ : २।

विश्व-भाव- न्वे पावा ७, २,  
१९।

विश्व-कारम् आधौ ५, १५, ५;  
माधौ ६, २, ३, १'।

त्रि- पाठ ५, ६६; वा ४, २,  
११'; अयः आधौ १, ८,  
५××; शोधौ; मा ३, १००';

अयःऽअयः आधौ ७, ५, २१;  
शोधौ; प्रयाणाम् आधौ २,  
१०, २१××; शोधौ; त्रिभिः

आधौ ८, १, ११; १२, ८, २१;  
काधौ; वा १४, २५; २१;

त्रिभिःऽत्रिभिः आधौ १५, ४,  
१०; माधौ; त्रिन्यः आधौ

१४, १, ६; काधौ; वा ७, १४;  
त्रिषु आधौ १०, ९, २'; शोधौ;

त्रिषुऽत्रिषु आधौ ८, २२, १५;  
माधौ, ऋधौ आधौ २, ५, १६;

शोधौ; ऋधौ आधौ १२,  
२, १४; आधौ; शोधौ आधौ

४, २, ३××; शोधौ; आधौ  
१०, १२, १२'; आधौ १,  
२, ५'; माधौ १, ८, १०'; माधौ १,  
११, १०'; ऋधौ १, २१, १०';

शोधौऽशोधौ आधौ १२, ९,  
१२; आधौ; ऋधौ आधौ ३,  
८, १××; शोधौ; गौधौ २६,  
१०; शोधौऽशोधौ आधौ १०,  
२, २०; शोधौ; प्रेः वा ६, ३, ४८;  
७, १, ५३।

वृ L, त्रिषु- पावा ६, १, ३७;  
-चः आधौ ८, १, २३; १२, २४;

शोधौ; वा २, १; -चम् आधौ  
१, १, १५××; शोधौ; अय ६,  
२'; -चम्-चम् आधौ ५, १०,  
४; -चयोः आधौ ८, १२, ६;

शोधौ; -चयम् जुषु १, ६ : १३;  
शोधौ; -च्यः आधौ ४, १५,  
२××; शोधौ; -चात् आधौ ९,  
१०, १५; शोधौ; -चान् आधौ

५, १२, १५××; शोधौ; -चानाम्  
शोधौ ७, १९, १९; १८, २,  
२; -चानि शोधौ १०, ३, ५××;

-चे आधौ ५, १०, ८××;  
शोधौ; गौधौ १, ३, २१'; -चेन  
शोधौ १, १२, ८××; काधौ

१४, ४, ५'; आधौ; -चेयः  
शोधौ १२, ३, १६; १२, ११;  
शोधौ; -चेषु शोधौ २२;  
शोधौ १३; २६ : ७; शोधौ; -चेः

शोधौ १६, १३, १४; काधौ  
१५, १०, १६'; १७, ३, ८';  
-चौ आधौ ३, ८, १××;  
शोधौ।

वृच-करण- णम् लाधौ ६,  
३, १४।

वृच-नलुप्त- -प्तः शोधौ  
१७, ८, ११; -प्तम् शोधौ ११,  
३, १××; छम्।

वृचनलुप्त-शोधौ- -शौ  
शोधौ १४, ४२, १४।

वृच-चनुष्टय- -यम् शोधौ  
१५२।

वृच-ता- -ताम् निष् ६,  
१३ : १३।

वृच-दधि- -दधम् निष् ४,  
२ : ११; -धीनि निष् २, २ :  
१; ९।

वृचदधि-व- -स्वाद निष्  
२, २ : २०।

वृच-प्रथ(म >)मा- -मा  
निष् ६, २ : २८; ७, ८ : ३२;  
९, ३ : ३३; -मायाम् निष् ६,  
३ : २०।

वृच-प्रारण- -णम् निष् ६,  
१३ : २४।

वृच-भा(ग >)मा- -मा  
काधौ ६, ५, १; ५; निष् १, ८;  
१७; ८ : २०; २१।

वृचभागा-स्थान- -नेषु  
लाधौ ६, ५, ७; ५, ४; निष् १,  
११ : २३।

वृच(च-ऋ)र्च- -र्चं उनिष्  
७ : २।

वृच(च-ऋ)र्चा( चा-ऋ)र्च-  
पाद्- -नानाम् साध १, १।

वृच-विकार- -रः उनिष् ७ :  
३०।

वृच-वत- -तम् शोध ३,  
४०; नव्यू १ : १२।

वृच-समाप्ति- -प्तये निष्  
६, १० : २४, ७, ९ : २९, २, १ :  
५४; ५ : ३४।

वृच-सूक्त- -क्तानाम् लाधौ  
६, ३, १; -क्तानि छम् २, ५ :  
३।

वृच-स्य- -स्यम् जुषु २,  
१५ : ३०; ३, ५ : १४; ६ : १४;  
-स्ययोः आधौ ५, १५, १२;  
-स्यानि शोधौ २२ : १२; २६

a) वृ. पाठम्. । b) वैष १ द. । c) पाठे. वैष २, ३८. शोधौ तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द. ।

d) वृ. छम्. । e) वृचः इति पाठः ? यनि. शोधः । f) त्रिचै इति पाठः । g) त्रि० इति चोप. ।

h) विर. । मर. । i) मर. । j) = स्तोत्रीया-विधेय- ।

७; -स्त्रे निम् ६, ३ : २०.  
 तृच-स्थान- स्त्रे आधो १०,  
 १०, ४; ६.  
 तृचा(च-आ)दि- -दिपु मीम्  
 १०, ५, ७.  
 तृचा(च-अ)पम- -मम् वृदे  
 ८, ११.  
 तृचा(च-अ)न्त- -न्तेपु आधो  
 ५, १२, १५.  
 तृचा(च-आ)पत्ति- -त्तिः  
 निम् ७, २ : १६.  
 तृचा(च-आ)पत्ति- -त्तिनि  
 दाधो २, १, २; लाधो १, ५, २.  
 तृचा(च-आ)पत्त- -पत्त निम्  
 २, २ : २१.  
 तृचा(च-अ)र्थ- -र्थः निम्  
 ९, ४ : २८.  
 तृचे (च ई)प्यता- -तायै  
 जंथो २६ : ८  
 तृचे (च-ए)कच- -चान् निम्  
 ६, ३ : १७.  
 तृचैकच-त्व- -त्वम् लाधो  
 ६, ३ : २०.  
 तृचो(च-उ)तमा- -तायाम्  
 लाधो ६, ३, २०  
 तृचो(च-उ)द्वय- -नम्  
 निम् ६, १३ : २४.  
 त्रिच-त्रय- -यम् जंथोका  
 ६, २१.  
 त्रिचा(च-आ)दि- -दिपु  
 बाधो १९, ७, ३.  
 तृना<sup>७</sup> अत्राय ६, ४.  
 तृतीय, या- वा ५, २, ५५; -यः  
 आधो १, ५, २३; २, १७, १५, ५,

३, ३; शोधो; गीध २६, १९०;  
 या ४, २६१; ७, ९; १०, २११;  
 -यम् आधो १, ५, १३××;  
 शोधो, अत्र ६, १९०; या ३, १७;  
 ७, २८१, -यमः-यम् बाधो २०,  
 ४, २७; कायु ५, ७, -यया आधो  
 ४, ६, ३; शोधो, -ययोः आधो  
 ६, ३, ११; -यस्य आधो ५,  
 ५, १५××; शोधो; -यस्याः  
 वैधो ३, ७ : १४१, द्विधो ९,  
 ४, ३४; आप्तम् २, १६, १;  
 ७१; कौम् ८२, ३६; १३९,  
 २५; -यस्याम् आधो २, १, २६;  
 काधो; भाय २, ७, १९१; द्विपु  
 २, ७, २१; -यस्यै आधो  
 ११, ६, ८; ५, २, ४; वाधुधो;  
 -या शोधो २, २, १२××; काधो;  
 -याऽ या ह्यु १, ८ : १८;  
 -याः आधो ५, १०, १९; वीधो,  
 आज्यो ६, १३१; -यान् शोधो  
 १०, ८, १३××, ह्यु; वा,  
 पावा ५, ३, ८४, -यान्  
 आप्तधो १४, ४, १४; द्विधो ९,  
 ७, ४२, ऋया ४, १; -यानि  
 आधो ८, ४, १७, वैधो १, १ :  
 १९, ह्यु ३, १३, ४; -याभ्याम्  
 वा ७, ३, ११५, -याम् आधो  
 ३, ६, २५, ६, ५, २१; शोधो;  
 -यय आप्तधो १३, ६, १३;  
 वीधो ८, ४ : ३०; लाधो ७, ६,  
 ४; -यायाः बाधो २०, १, १५;  
 वीधो, वा ५, ४, ४६; द्वि, २,  
 १५३; ३, ३, -यायाम् बाधो  
 १७, १, १; २२, ८, १८; आप्तधो,

वा ३, ४, ४७; -य्यै आधो ५,  
 ४, ३××; शोधो; वैनाधो ४, ९;  
 -येऽ-ये लाधो १०, ६, ७; ८, ४;  
 -येन आधो ७, ७, ८××; शोधो;  
 -येम्यः बाधो १०, २, २४; वैधो  
 १६, ७ : २; अय ४६, १, १०१;  
 -येषु आधो ७, ११, ९; ८, ३, ९;  
 आधो; -यैः माधो ५, २, १२,  
 ५; शुया ४, ११०; -यौ शोधो  
 ७, २७, १८; वैधो १०, १९ : ५;  
 दाधो ५, १, १६; लाधो २, ५,  
 १३; नाधि २, २, १०.  
 तार्थोक्- -यम् आधो  
 १०, २, ४.  
 तार्थोक्- -कानि  
 निम् ८, ५ : २३; -केषु निम्  
 ८, ६ : २४।  
 तृतीय-क, का- -का कप्र २,  
 १, ५; -के जंथोका १४३; कप्र  
 ३, ६, ४.  
 तार्थोक्- -कम् निम्  
 ७, ४ : ३.  
 तृतीय-कर(ण>)गी- -गी  
 वायु २, १५; १८; आप्तधु २, ४;  
 ५; वीधु.  
 तृतीय-ग्रह- -हम् माधो २,  
 ३, ३, १२.  
 तृतीय-चतुर्थ- -र्थयोः निम्  
 ५, २ : १; -र्थः आधि ४, ४;  
 -र्थाम्याम् लाधो ६, ११, ८;  
 -र्थे आधो ४, १३, ७; ८, ३, ६;  
 -र्थो अर्थे ४ : १५; तेषा २३,  
 १९, आधि ४, ४.  
 तृतीय-ता- -ताम् ऋग ११,

a) विप्र. । वम. । b) पाठः ? तत्र अक्षु इति संस्कृतुः टि. संभावित. पाठोऽपि ? तृचेन (तृ१) > नैप्र.  
 यनि. इति प्रतीयते (तृ. त्रैवै वय. ६, ६ गौरीचिन्तेन इति) । c) तृ. ८। d) उत्तरेण संभिरार्थः । e) रुप्र.  
 श्या <> श्याम् इति पाठे. । f) तृतीयम् इति C. वीधः । g) तस्येदमीयः मण् प्र. । h) तस्येदमीयम्  
 क् प्र. । i) पाठः ? यिद्धीषु इति संभाव्यते (तृ. संस्कृतुः टि.) । j) स्वार्थे अण् प्र. । k) नाप. ।

२५.

तृतीय-सुर्व- -संयोः भाशि  
७३.तृतीय-स्व- -स्वम् भाशि  
४८.तृतीय-ध्वित्र- -प्रम् वैश्री  
३३, १७ : ७.तृतीय-पञ्चम- -मयोः शाश्री  
३२, ३, १८; १०, ५; १२, ५; निस्  
५, ३ : २२; -माग्याम् शाश्री  
७, ४, १८; -मौ आश्री ५,  
१५, ८.तृतीय-प्रथम-कृष्ट- -एन्  
नाशि ११, ११.तृतीय-असृति- -तिभ्यः  
शाश्री १२, २७, ३.तृतीय-भाव- -वम् ऋषा २,  
१०; -वे ऋषा ११, ४८.

तृतीय-भूत- -तेः ऋषा ४, ५.

तृतीय-नात्र- -प्रम् माश्री  
५, २, ३, ६; गोष्ट ४, १, ५; ३, ८.तृतीयमात्रो- -त्रीम्  
हिश्री १३, ८, ११.तृतीयमात्र-रत्त- -तानि  
काश्री ११६.तृतीय-मास- -मासि आमिष्ट  
२, १, १ : १तृतीय-वर्ष- -पंस्य वाष्ट  
४, १.तृतीय-वैला- -लाम् आपश्री  
१५, ३, ५; बोश्री; -लायाम्  
बोश्री २४, ३५ : ४.तृतीय-सत् (ः) आपश्री २२,  
७, १५; हिश्री १७, ३, १४.

तृतीय-भ्रुति- -वेः काश्री

१०, ३, ६.

तृतीय-पष्ट- -धे छुम् २, १४;  
११.१ तृतीय-सवन- -नम् आपश्री  
५, १७, १×४; शाश्री; या ७, ११;  
-मस्य शाश्री ८, १, २; बोश्री;  
-नाम् शाश्री १३, ९, १; काश्री;  
-नानि आपश्री ७, १०, २; ८, ८,  
३; शाश्री ११, १२, ९; -वाय  
काश्री ९, ४, ३४; बोश्री; -ने  
आश्री ५, २, १३×४; शाश्री;  
-नैन आपश्री १२, ११, ५; २९,  
१२; काश्रीर्ग; -नैवु काश्री २१,  
२, ८.सार्धस्यस्वन- -नम्  
पाशि ८.सार्धस्यस्वनिक- -कः  
माश्री २, ३, २, ३; ५, ३, १०;  
वाश्री ३, २, २, ३२; -कम् माश्री  
२, ३, १, १९; ४, ६, २३; -कस्य  
आपश्री २१, १०, ३; -कात्  
हिश्री १६, ४, १५; -कान्  
आपश्री २२, ८, १८; -कानाम्  
बोश्री २१, २३ : १३; -कानि  
निस् २, ११ : २३; -के आपश्री  
१४, १९, ११; बोश्री २१, २२ :  
१७; -केन बोश्री २८, ४ : ७;  
-केभ्यः बोश्री २१, १९ : ४;  
-केषु बोश्री २१, १९ : ३; मीस्  
१२, ३, १२१<sup>०</sup>; -केः बोश्री २६,  
२२ : १४.सार्धस्यस्वनिकी-  
-न्यः आपश्री ५, ५, १९; -न्याः  
शाश्री ५, ३, ७.

तृतीयसवन-काल- -ले

आपश्री २१, २४, ९.

तृतीयसवन-धर- -राशि  
सुत् ३, ११ : ६.तृतीयसवन-ज्ञात्र- -त्रेण  
निस् ५, ७ : २४.तृतीयसवन-भाङ्ग-  
-भानः वापूश्री ४, ७६ : ४.तृतीयसवन-सृति- -तेः  
काश्री १०, ४, १३.तृतीयसवन-साम् (म-  
श)=त- -न्तः निस् ९, ३ : ८.तृतीयसवना (न-अ) ति-  
वृद्धि- -दिः बोश्री २१, १९ :  
६.तृतीयसवना (न-अ) दि-  
-दि वैताश्री ३७, ६.तृतीयसवनिक- -कः  
बोश्री २५, २३ : ६.तृतीयसवनीय, वा- -याः  
बोश्री २५, २१ : १६; वापूश्री  
४, २९<sup>२</sup> : ८; -वान् शाश्री १४,  
२, १९; १३, ५; बोश्री; -वानाम्  
बोश्री १८, २२ : ७; २६, २१ :  
६; -वेषु बोश्री १८, ३७ : १६.तृतीयसवन- -तः हिश्री  
१६, ८, २५.तृतीय-स्थान, ना- -नम्  
निस् ७, ३ : २९; -ना निस् ९,  
३ : ३२.तृतीयानां (य-अ) वा- -हर्-  
-नाः बोध २, २, ११.तृतीयानां (य-अ) वा- -हर्-  
-नाः बोध २, २, ११.तृतीयानां (य-अ) वा- -हर्-  
-नाः बोध २, २, ११.तृतीयानां (य-अ) वा- -हर्-  
-नाः बोध २, २, ११.तृतीयानां (य-अ) वा- -हर्-  
-नाः बोध २, २, ११.तृतीयानां (य-अ) वा- -हर्-  
-नाः बोध २, २, ११.

a) तद्विवाहं द्विस. प्र. सुक् (पा ५, १, ८९) । b) तस्येदमीयः अण् प्र. । c) तस्येदमीयप् उक् प्र. ।

d) 'चन' इति पाठः ई यनि. शोचः (तु. शबरमार्थ्यं प्रयासं. च) । e) विण. । मरुतयोः अच् प्र. । f) विण. ।

वत्त. । g) उत. उण. अच् प्र. (पा ३, २, ९) ।



तृतीया-चतुर्थी-नवमी-भ्यः  
ऋत्र २, ३१७.

तृतीया-चतुर्थी-यज्ञमी-भ्यः  
उनिम् ७ : ४०.

तृतीया(या-श्च)दि-दि  
ऋत्र २, ३, २८; ८, १०१; -दि  
पा ६, १, १६८; -दिषु आधौ  
७, ५, ४, अया २, ४, ३; पा ७, १,  
७४, १७; -दीन् वेताधौ ३१,  
१७, -दीनाम् वेताधौ ३२, ६;  
-दौ पा २, ४, ३२.

तृतीयाय(दि-श्च)सुञ्-  
सुञ् ऋत्र २, १, १६५.

तृतीया(य-श्च)धिय-यम्  
बौधौ २४, १९ : ७; -ये वाधौ  
१, ५, १, २०.

तृतीया-नवमी-भ्यौ ऋत्र  
२, ७, १७.

तृतीया(य-श्च)नुरूप-पत्य  
बाधौ ११, ११, १५; १७; १९,  
१३, २६, १२, १२, १४

तृतीया(य, या-श्च)ल<sup>०</sup>-स्तम्  
ऋत्र ३, ०, २६; -स्तस्य शौच  
३, १९; -स्ता पावा २, १, १०,  
-स्तानि ऋत्र २, २, १८-२०;  
शौच १, ८.

तृतीयान्त-सध्मयन्त-  
न्तेषु पावा २, ३, २८.

तृतीया(य, या-श्च)न्य, न्या-  
भ्ये वृ ३, ७१; ऋत्र ३, १;  
-न्यौ वृ २ : १५.

तृतीया-यज्ञदशौ-रथौ ऋत्र  
२, १, १५.

तृतीया-पञ्चमी-भ्यौ ऋत्र  
२, ८, ५५.

तृतीया-भर-रं व २, ६,

८.

तृतीया-पूर्वपद<sup>०</sup>-दः पावा  
२, १, ३५.

तृतीया-अभृति-तयः शौधौ  
८, ७, ३; -तीनि पा २, २, २१.

तृतीया(य-श्च)याम-सम्  
आपशु ७, ४; हिशु २, ५२.

तृतीया-युक्त-त्तत् पा १,  
३, ५४.

तृतीया(या-श्च)र्थ-निर्देश-  
-दाः पावा २, १, ३०.

तृतीया(य-श्च)लाम-भ्ये  
माप १, ७, ७; वाप १०, ६.

तृतीया-वर्जम् कौष् ३८, ११;  
४२, १४.

तृतीया-विधान-ने पावा २,  
३, १८;

तृतीया-पथी-ष्ठवी ऋत्र २,  
१, १६२, शुभ ३, ५४.

तृतीया-पोषणी-रथौ ऋत्र  
२, १, १०७.

तृतीया(य-श्च)ष्टम-सयोः  
ताम २, १५६, १५७; -मे आधौ  
४, १३, ७.

तृतीया-संदेश-हे अत्रा २,  
२, ३.

तृतीया-सप्तमी-भ्योः पा  
२, ४, ८४; -भ्यौ ऋत्र २, ३, ८;  
५, ५६.

तृतीयासप्तम्य(मी-श्च)  
न्त-न्तेषु पावा २, २, २७.

तृतीया-समास-से पा १,  
१, ३०; पावा २, १, ३०; ६९;  
६, १, ८८.

तृतीयासमास-व्यघन-  
-नाम् पावा ६, २, ११.

तृतीयासमासवचना-  
(न-श्च)नर्थक्य-क्यम् पावा ६,  
२, ११.

तृतीया(य-श्च)ह<sup>०</sup>-हम्  
अत्राय २, ९.

तृतीया(य-श्च)इन्->तार्त्वि-  
यादिक-के शौधौ १५, ८, ३.

तृतीयिन्-विनः आपधौ  
२१, २, १८; माधौ; -विम्यः  
आधौ २, ४, ५; माधौ २, ४, ५,  
७; हिधौ १०, ४, ३९; -यी  
ऋत्र ५, ५, ५०.

तृतीयिनी<sup>०</sup>-नीनाम्  
लाधौ ९, ६, ६; -नीम्यः लाधौ  
९, ११, ३; -न्यः लाधौ ९, १,  
१२.

तृतीयो(य-उ)त्तम-मा-  
भ्याम् आधौ ८, २, १०<sup>३</sup>; -मी  
आधौ ४, ७, ४.

तृतीयो(य-उ)दुप्त-प्तानि  
माधौ २, ३, १, १३.

थय-पा ५, २, ४३; -यम्  
आधौ ४, ८, २७; बौधौ; -र्ष्याः  
काधौ ६९, ५, ८; ७, ४; आपधौ;  
-याणि बौधौ ६७, ३१ : ४;  
वाधूधौ ३, १ : ८; १०१ : २;  
आपधौ २, ११, २२; या ९, २८;  
-यान् आपधौ १९, ६, ७; बाधौ  
१०, १४, ८; बौधौ १७, ३१ :  
३, हिधौ २३, १, १६; -येण  
बौधौ १०, १० : ९; २५, १८ :  
७, भाधौ ६, १५, ६.

अधौ<sup>०</sup>-धौः बौधौ २५,  
१७ : ४; -धीम् आपधौ २, २४,  
८; बौध २, ६, ३६; हिध २, ५,  
१७३; या १३, १०; -स्यः

a) दिव. १ व. १. b) सार्ये ह्रिः प्र. उत्सं. (पा ५, २, ११५). c) = [तृतीयदक्षिणावनी.] होया-।

d) दिव. व. ना. व. १.

वापुशी छ, १५ : १३; -व्या  
काथी २५, ८, ५५; -व्याम् गौध  
११, ३; -पृथ्वी थापमी २, १०,  
१; काण २४, १३; वीण १, २,  
३४; भाण २, २४ : १०.

पृथिवि-विद्- -वाः

वीथी २, १८ : २२.

वयी-मय- -यम् शुभ्र

१, १.

वयी-वि(या>)व<sup>०</sup>-

>°या(य-आ)व्या- -ख्यामीम्  
३, ३, ५.

वयी-विद्या- -याम्

निस् २, १ : ३८.

वया(य-आ)वेन- -वे पावा  
१, १, ५६.

वया(य-अ)न्त<sup>०</sup>- -स्तानि  
निस् ५, २ : २०.

वयस्- -पा ६, ३, ४८.

वयस्-विक्रान्त<sup>०</sup>- -शत् आथी  
३, १४, १०<sup>१</sup>; शीथी १३,  
१३, १३<sup>१</sup>××; आपथी; आणित  
३, ९, १ : १२९; वीपि २,  
६, २<sup>०</sup>; या ३, १०; -शतः

वीथी २५, २३ : ९; गाथी ६,  
२, ५, २६; वाथी २, २, ४, ५<sup>१</sup>;

लाथी ८, ६, २७; -शतम् काथी  
१६, २२, १६; काथी; आपथी

२१, १, १४<sup>१</sup>; हिथी १६, १,  
११<sup>१</sup>;

-शतम् ०-शतम् काथी  
२२, ४, २७; -शता काथीत् २२:

२१; लाथी ८, ६, २६<sup>१</sup>;  
-शताऽ-शता आपथी २२, ५,  
१०; वीथी १८, २५ : ४, हिथी

१७, २, ३८; -शती द्राथी ११,  
१, ३; लाथी छ, १, ३.

वयस्-विक्रान्त- -वाः आथी  
४, १२, १; ११, ३, ८; आपथी;

वीथी १८, २१ : २४<sup>१</sup>; -शम्  
शीथी १०, १२, २××; वाथी;

-शस्य वीथी २३, १३ : ११;  
लाथी ६, २, २०; निस् छ, ५ :

१५; -शाः शीथी छ, १०, ३<sup>१</sup>;  
आपथी १६, १, ३<sup>१</sup>; २१, २५,  
३; वीथी १६, ३६ : १९; हिथी

११, १, ६; हिण २, १७, ४;  
-शत् वीथी १६, ३४ : ५; १५;

३५ : ३; ६; -शान् निस् छ,  
१३ : ९; -शानि आथी १२, ४,

२३; आपथी २३, १०, ९; हिथी  
१८, ४, ६; लाथी ९, १२,

१६; निस् ८, १२ : २३; -शाप  
काथी ९, २७, १<sup>१</sup>; -से आथी

७, ५, ११; १२, ७, १२; थापथी;  
-सेन आथी १२, ३, ३; काथी;

-सेभ्यः हिण १, २३, १४; -सी  
वीथी १८, ३६ : १४; २६, ३३ :

३; लाथी १०, १०, ८.

वयस्-विक्रान्त- -वीथी  
आथी १२, ७, १४.

वयस्-विक्रान्त-द्वारिक<sup>०</sup>-  
-शो निस् ६, १२ : १०.

वयस्-विक्रान्त-प्रभृति- -वि  
वीथी १६, १४ : १९.

वयस्-विक्रान्त-स्तोम- -मः  
या ७, ११; -मम् वीथी १०,

७, १; -मान् वीथी १७, २२ :  
१६.

वयस्-विक्रान्त(य-आ)-  
रम्भण<sup>०</sup>- -णः वीथी १३, १६,

४; ५; हिथी; -णाः आपथी २३,  
१०, ५; हिथी १८, ४, १<sup>१</sup>.

वयस्-विक्रान्त(य-अ)-  
यण- -ने निस् ५, ४ : २२.

वयस्-विक्रान्त-क<sup>०</sup>- -की  
अपं छ : १५.

वयस्-विक्रान्त-कराल<sup>०</sup>-  
-लम् वीथी १३, ३५ : ८; २३,  
४ : ११.

वयस्-विक्रान्त-पिति- -ती  
वीथी २३, १५ : ८.

वयस्-विक्रान्त-पृथ<sup>०</sup>(<थ)व-  
-तम् निप छ, ३.

वयस्-विक्रान्त-प्रभृति-  
-तीम् लाथी १०, ८, २.

वयस्-विक्रान्त-सपाशत-  
-तम् अच ८, १० (१).

वयस्-विक्रान्त-सह(र>)  
रा- -राः निस् छ, ८ : ३०.

वयस्-विक्रान्त-वरति- -वेः  
आपथी ७, २, १२; भाथी ७,  
२, ६; हिथी छ, १, २८.

वयस्-विक्रान्त-राय- -त्रः  
शीथी १३, १७, १; वीथी १६,

३५ : १०; -अम् हिथी १८, २,  
१०; -त्राः आपथी २३, ५, ५;

-त्रानि आथी ११, ४, १; काथी  
२४, २, २४, -त्राम् निस् ९,

१३ : १; -त्रे लाथी १०, ३,  
२१; निस् ९, १३ : ३८.

वयस्-विक्रान्त(व>)नी<sup>१</sup>-  
-नी वापुथी छ, १७ : ३; ५;

a) वैप २, ३६. द. । b) विप. । वय. । c) वैप १ द. । d) पाथे. वैप १, १३० k द. ।

e) = वयस्-विक्रान्त-परिमाण- । तदितस्य लुक् । f) शोषः ४३९ वृ IV द. । g) पाठः ? 'शम् इति शोषः  
[तु. आपथी १६, ३३५ हिथी ११, ८, ३] । h) पाठः ? 'क-ह्रा' इति शोषः । i) णः इति पाठः ? मनि.  
शोषः [तु. आपथी.] । j) विप. । परिमाणे क्व प्र. । k) तदितार्थे द्वि. । l) ७५५ वृ f द. ।

१,१४;१८; २१; -न्वः बाधूथी  
४, १७<sup>१</sup> : ३.

प्रयोद्वात्- -वा आथी ८,  
८,८; ९,१०, २; शाथी; या ३,  
१९; ८, २१, -दाऽ-वा काथी  
२०,६,६; -दाभिः काथी २६,  
३,९, आथी; -दाभ्यः आथी  
१४,३,८; हिथी ९,७,३८;१७,  
६, ४२; -दासु आथी १२,  
२७,३; हिथी ८,८,१; -दानाम्  
आथी ९,९,१३; वाथी १५,३,  
१०.

प्रयोद्वा- -दाः आथी  
१६, १८, ८; बाधूथी; -दाम्  
शाथी ९, २०, १०; काथी;  
-दास्य वीथी २१, ६ : ११,  
-दाः यासि २, ९४; -दे वीथी  
१२, २ : ४४४; लाथी; -देन  
आथी २१,१,१३; आथ्यु ११,  
१८, दिशु ४,१७.

प्रयोद्वा<sup>१</sup>- -पाग  
४,३,१६; -दी वाथी १८,१४,  
६; आथी, -दीम् आथी ५,  
२४,३, माथी, -दवा वाथी ९,  
८, ३; अथ ५, २४; -द्वाम्  
वीथी २६,२ : १५; माथी.

प्रयोद्वा-  
पा ४,३,१६.

प्रयोद्वा(शी-  
कन्त्य > ऋत्वा- -न्वे ऋम्  
२,१,५२.

प्रयोद्वा(शी-  
आ)दि-चतुर्- -मुपुं अथ ३८,  
३,३.

प्रयोद्वा-चतुर्दा-  
-शी आथी १२, २७, ५; वैथी  
१५,३४ : ८.

प्रयोद्वा-प्रयोर्विश-  
-दायोः लाथी ६,७,५.

प्रयोद्वा-क<sup>१</sup>- -कम् अथ  
५,१४,२३,२५; ८,१०.

प्रयोद्वा-वपाल- -लम्  
काथी २५, ४, ३५; आथी ९,  
१४,७; वैथी २०,३० : १; हिथी  
१५, ४, १४; अथय ५, ५१;  
-ले माथी ५,१,१, ४९,६,४१.

प्रयोद्वा-गव<sup>१</sup>- -वम्  
आमिष्ट ३, ८, २ : ६; वीपि १,  
१५ : १६.

प्रयोद्वा-प(द>)दा<sup>१</sup>-  
-दे उनिस् ६ : २७.

प्रयोद्वा-पुर्व<sup>१</sup>- -वः  
बाधूथी ४,११३ : २;३.

प्रयोद्वा-राप्र<sup>१</sup>- -प्रः  
वीथी १६,३२ : १३; हिथी १७,  
५, ३५, -प्रम् आथी ५, २३,  
३, -त्रे काथी २४, १, १४;  
लाथी १०,३,१२, निस् ९,१० :  
१४, १०, ३ : १५; -त्री आथी  
११,२,१; आथी २३, १, ७;  
हिथी १८,१,११.

प्रयोद्वा-रावा(त्र-आ)  
दि- -दियु मीम् ८,२,२७.

प्रयोद्वा(श-क)व<sup>१</sup>- -वः  
शुभ ३, २४४, -धम् शुभ २,  
३२१; ३९२, अथ ३, १०;  
-नैर्धम् अथ ४६, १०, १०;  
अथ १९,२३.

प्रयोद्वा-समासि-  
-प्रयाम् मैत्र २५.

प्रयोद्वा-सूक्त<sup>१</sup>- -क्तौ  
अप २ : १४.

प्रयोद्वा(श-अ)क्षर<sup>१</sup>-  
-रम् बाधूथी ४, १०० : १; २२;  
-री ऋया १६,५२.

प्रयोद्वा(श-आ)गम-  
-मात् शाथी ९,१,१०.

प्रयोद्वा(श-अ)ग्वि-  
-विः आथी २०, २, ७; हिथी  
१४,१,२०; -विन् काथी २०,१,  
७; वाथी ३,४,१,१४; अथ २०,  
१,३; -न्वी वीथी १५,२ : ४.

प्रयोद्वा(श-अ)ह- -हम्  
आज्यो १२, १; निस् ५, १२ :  
१०; -हम्ऽ-हम् निस् ५,  
१२ : ४०.

प्रयोद्वा(क>)का<sup>१</sup>-  
-का आथ्यु ५,४; दिशु २,१२;  
-के वीथु १ : ४.

प्रयोद्वा(क>)कानोः  
अथ १,७,७, शुभ ५,४८.

प्रयोद्वा(क>)कानि- -निः आथी  
१२,५,१४; शाथी; या २,१८;  
-निम् आथी ८, २, २३; हिथी  
१६,१,११<sup>१</sup>.

प्रयोर्विश<sup>१</sup>- -दाः वीथी  
१०,४२ : ७; -दाम् माष्ट १,  
४,१४; काथी ९,७.

प्रयोर्विशक<sup>१</sup>- -कम् अथ  
११,६.

प्रयोर्विशक्ति(क>)का<sup>१</sup>-  
-क्या अथ १४,१.

a) वैप १ द.। b) विप.। परिमाणे कन् प्र.। c) विप.। बत. उप. समानान्त. अन् प्र. वसं. (पा ५,  
४, ७५)। d) विप.। मय.। e) विप.। मद्रिताये दिव.। उलोणे संघिर्षये.। f) = सव-विशेष-। g) विप.  
प्रमाणये प्र.। h) शोचः पृ ७१४ a द.। i) वैप १,१०२३ k द.। j) पृ ७१४ f द.।

त्रयोविंशति-दारु<sup>१</sup> - -रुः  
 अप्तुश्री ७, ७, ७; ८, १, १४;  
 -रुम् भाथी ७, ६, ४; ८, १, १५.  
 त्रयोविंशति-दी(धा>)  
 क्ष-अः काथी २१, १, १.  
 त्रयोविंशति-रात्र- -त्रम्  
 लाथी ११, ३, ५; काथी २४, २,  
 १२; आपथी २३, ३, १२; हिथी  
 १८, १, २८.  
 त्रयो(यम्-अ)सोति- -तिम्  
 वीथी १५, ६ : २२; वाधूथी ३,  
 ८३ : ३.  
 त्रिसद्व<sup>२</sup> - पा ५, १, ५९;  
 -सत् शोथी ४, १५, १४××;  
 आपथी; -सत्तः वीथी २६,  
 २७ : ३; निम् ४, ९ : २८;  
 -सत्तम् शोथी १४, ९, ५; काथी;  
 आपथी २१, १, १४?; हिथी  
 १६, १, ११?; या ५, ११;  
 -सत्तम् S-सत्तम् शोथी १४,  
 ३२, ९; -सत्ता आथी ५, १८,  
 ५; शोथी; -सति आथी ८,  
 ११, ३१; काथी; -सति तैत्रा  
 १६, २४; -सत्तिः काथु ७, ३७.  
 त्रिस- -सम् आपथी २३,  
 ९, ८; १४; हिथी १८, ३, १३,  
 १६; -सत्तः वीथी १८, १ : १०?;  
 -सत्तानि काथी ८, १, ११; १४;  
 लाथी ४, ५, ११, १४; -दे लाथी  
 ९, ५, ४.  
 त्रिसी- -शो कम् २,  
 १, ६७.  
 त्रैश- पा ५, १, ६२.  
 त्रिसक- पा ५, १, २४.  
 त्रिसद्वन्( < श )- -सत्तान्

वीथी १६, २५ : ५, ११.  
 त्रिसत्-क<sup>३</sup> - -काः अप्तु ४ :  
 १२.  
 त्रिसत्-कृत्वन्(ः) लाथी १०,  
 १२, ८.  
 त्रिसत्-सन् - -सम् वीथी  
 २६, १६ : २.  
 त्रिसत्तमी- -मी शोथी  
 १८, १४, ६; -मीम् काथी १७,  
 ११, ११.  
 त्रिसद्व-अक्ष(र>)रा<sup>४</sup> - -रा  
 वीथी १८, ३२ : ७; वाधूथी  
 ४, ११ : ५; १७? : ४.  
 त्रिसद्व-अन्त<sup>५</sup> - -न्तानि  
 काथी २४, ३, ३२.  
 त्रिसद्व-रात्र- -त्रः वीथी १६,  
 ३५ : २; -त्रम् आथी ११, ३,  
 ११; आपथी २३, ४, १३; हिथी  
 १८, २, ७; -त्रात् आपथि २,  
 ७, ९ : ३५; भाग ३, २० : ४;  
 -त्रे वीथी २३, १३ : १६.  
 त्रिसद्वात्रा( यन् )न्व-  
 -न्तानि लाथी १०, १, १०.  
 त्रिसद्व-यत् वाथी १, २, १७  
 त्रिसद्व-वर्ग- -र्गो वीथी २६,  
 १८ : ४; -र्गो वीथी २६, १८ : ३.  
 त्रिसद्व-वर्ष- -र्षः वीथी २६,  
 ६ : १२.  
 त्रिसद्व निमित्त<sup>६</sup> - -सत्तः अप्तु  
 ४ : ५.  
 त्रिसद्व-मान<sup>७</sup> - -नम् वीथी  
 २, २० : १२; भाथी, -ने आपथी  
 ५, २१, ९; हिथी ६, ५, १८.  
 त्रिसन्मान-कवारिन्-  
 न्मान- -ने वीथी २, २० : १८;

भाथी ५, १६, १८.  
 त्रिसिन्- -सितः लाथी १०,  
 १०, ६; -सितौ लाथी १०,  
 १०, ११.  
 त्रिसिन्-मास- -सः आपथी  
 २०, ७, ४; हिथी १४, २, १९.  
 त्रि-सति<sup>८</sup> - -तेः अप्तु ४ : ३१.  
 त्रिक-का<sup>९</sup> - -कः मीम् १०,  
 ५, १०; -कम् शोथी १०, १२,  
 ३; लाथी; -काः काथु ७३,  
 ४; -काणि लाथी ८, ५,  
 २४; निम् ६, १० : ३; -के  
 लाथी ६, ५, १०; ६, १२;  
 निम् ४, ९ : २८; -केण तुम्  
 १, ७ : १०; ११ : ७; काथी  
 ९, ४, ७; लाथी ३, ८, १; निम्  
 ७, ८ : २४; कम् २, १, १०;  
 -कौ अत्र १५, ९; अप्तु ५ : १९.  
 त्रिक-चतुष्क- -ष्कयोः आपथि  
 ५, २; वीथु १ : ३६; हिथु २, ९.  
 त्रिक-पञ्चिन्- -पञ्चिन् लाथी  
 ८, ५, २५.  
 त्रिक-प्रमृति- -त्यः लाथी  
 ६, ५, २०; निम् १, ८ : १३;  
 ९ : ८; १५.  
 त्रिक-भाव- -भाव पावा ५,  
 १, ५५.  
 त्रिक-विशव<sup>१०</sup> - -व लाथी ६,  
 ७, १६.  
 त्रिक-रतोम- -सः निम् ४,  
 ८ : २७.  
 त्रि-ककुद्<sup>११</sup> - पा ५, ४, १४७;  
 -कृत् आपथी २२, २३, १७?;  
 हिथी १७, ८, ३२?; -कृदः  
 शोथी १६, २९, १२.

a) वि. १. वस. । b) वेप १ द्र. । c) कोषः पृ ४३९ W द. । d) परिमाणे कन् प्र. । e) वि. १. वस. वप. = मान- । f) = त्रिसद्वन् । वेप १, १५११ H द., द्वावि- इति ततो विशेषः । g) तैः इति पाठः इ यनि. शोध (वृ. संस्वर्तुः टि.) । h) स्वार्थे वा परिमाणे वा कन् प्र. । i) वेप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द. ।

त्रैककुट्ट<sup>०</sup> - दम् आध्री  
१०, ७, २; बौध्री; -देन आपध्री  
१०, ७, १; बौध्री १७, ४२ : ४;  
भाध्री.

त्रैककुटा(द-आ)जन-  
नेन काध्री ७, २, ३१.

त्रैककुटाजन-दैव-  
स- सम् अय ७, ९.

त्रिकुट्ट-दसाह- -हस्य  
वैताध्री ७२, ५.

त्रिककुट्ट<sup>०</sup> - कुप् काध्री १०,  
३, २१; काध्री २३, ५, १९, कौशि  
२६७, -कुमः निम् ९, ७:  
२५.

त्रैककुम<sup>०</sup> - अम् लुम् १,  
३ : २०; जैध्रीका २५; काध्री  
२, २, ४७, लाध्री १, ६, ४४; निम्  
७, १३ : १; ६, ८ : २०; ९, १ :  
७, -भस्य माध्री २, १, १, ३८<sup>०</sup>;  
लाध्री ७, ५, १८; निम् ७, ७ :  
१९; माय १, ११, ८<sup>०</sup>, -भानि,  
-भे निम् ९, ५ : २७.

त्रैककुम-वैखानस- नसे  
लाध्री ७, ९, १३.

त्रि-कष्टक<sup>०</sup> - (> त्रैक- पा.)  
पग ७, ३, १५४.

त्रि-कुट्टक<sup>०</sup> - काः काध्री १०,  
३, १३, काध्री, -काणम् निम्  
१०, १० : २२; -कान् द्राध्री ८,  
४, ७, लाध्री; -कैभिः आपध्री  
१७, २१, ८; द्विध्री १२, ६, २६,  
अय १८, २; -क्रेम्यः काध्री  
२३, ५, १७; द्राध्री १, ४, २७,  
लाध्री १, ४, २३; -केयु काध्री

६, २, ६××; बाध्री; -कैः काध्री  
१२, ९, २१; काध्री २७, ५, ५, ७,  
१९.

त्रैककुट्टक- -कः निम् ९,  
१३ : ६; ३०.

त्रिकुट्टक-कृतस- -सम् निम्  
१०, १० : १९.

त्रिकुट्टक-व्यह- -हः निम् ५,  
११ : २०; -हम् निम् ५, ११ :  
१२.

त्रिकुट्टक-द्रादसाह- -हाः  
लुम् २, १६ : १.

त्रिकुट्टक-पञ्चाह- -हः निम्  
५, ११ : १७.

त्रिकुट्टकी (य>)या<sup>०</sup> - या  
काध्री १०, १३, ७; -यासु ऋपा  
१७, ४५.

त्रि-कपाल- -लेषु अय ३६,  
२५, १.

त्रि-कपाल- -लः काध्री १५,  
२, १७, आपध्री २२, १८, १८;  
द्विध्री १७, ७, १०; -लम् आपध्री  
१८, १०, १७, २०, १९; बौध्री.

त्रि-कर(ण>)णी- -णी काशु  
२, १४, २०; आशु २, ३; बौशु  
१ : ३३; द्विशु १, २४; -ण्य  
आशु ५, ११; द्विशु २, २१.

त्रि-कर्ण-समाय- -सः काशु  
७, ९.

त्रि-कला- -ला ऋन २, ३, ९.

त्रि-कारण- -णम् नाशि २, ६, १.

त्रि-काल- पाग ५, ४, २३<sup>०</sup>.

त्रैकाल्य- पा ५, ४, २३<sup>०</sup>;  
-व्यम् शुधा १, १५.

त्रिकाल-स्नान-> स्नान-  
निम् -नी वैष ३, ५, ७.

त्रि-किण- > किणिन्-  
-गिनम् बौध्री २७, १३ : ६.

त्रिकोय- पा ७, २, ११.

त्रि-कृण्णो(ल-ऊ)न- -ने विष  
९, ७.

त्रि-कोण- -णम् बौध्री १, ३ :  
९; वैष ७, १३ : ८; धामिण २,  
५, १ : १८; ७ : ८; जैष २,  
९ : ११; अय २५, १, ६; ११;

शेष १७१.

त्रिकोण-क- -कम् अय २५,  
१, ३.

त्रि-कम- -मः लम् ७, १८;  
-मम् कौशि ७९, -मे कौशि ५०.

त्रिकम-कारण- -णे ऋपा  
११, १७.

त्रि-कोश<sup>०</sup> - -ने आपध्री २२, २,  
२०; ४, ५; द्विध्री १७, २, ७.

त्रि-ना(पा>)ष<sup>०</sup> - -धम् आपध्री  
१९, २६, २; बौध्री १३, ३७ :  
३, २६, ६ : १८; द्विध्री २२,  
६, ७<sup>०</sup>.

त्रि-नाम(न>)ना<sup>०</sup> - -ना या ७,  
१२.

त्रि-नार्त<sup>०</sup> - पाग ७, १, १७६, ५,  
३, ११७; -नार्त् अय ५६, १, ८.

त्रैनार्त- पा ५, ३, ११७;  
-नार्तः अय ५१, ४, १; ५३,  
३, १; -नार्त् वा ७, १, १११.

त्रैगर्ती- पा ७, १, १७६.

त्रैगर्तायन-> नक- पा.)  
पाग ७, २, ८०.

- a) वैप १ द. 1 b) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द. 1 c) = साम-विशेष- 1 d) विप. (आश्रय- 1) e) = वृह-विशेष- 1  
f) = अहीन- (द्र. आपध्री. प्रय.) । शिष्टं वैप १ द. 1 g) = ऋम्- । मत्वर्थे छ > ईयः प्र. उत्तं. (वा ५, २, ५९) ।  
h) द्र. पागम. 1 i) कय. उप. = जयापाताह- प्रय. [उ. पदसूची।] j) विप. । वस । k) समाहारे द्वि. उप.  
२ कोश- 1 l) पात्रम् इति पाठः ? यनि. शीघ्र [उ. आपध्री. 1] m) = देश-विशेष, तद्वायिनः च । वस ।

त्रि-नायभ्य(त्री-श्र)नुत्सु(पू-  
श्र)न्त<sup>१</sup> -न्तम् ऋअ २,८,३३.

त्रि-नायभ्य(त्री-श्र)न्त<sup>२</sup> -न्तम्  
ऋअ २,४,५५.

त्रि-गुण,णा<sup>१</sup> -ण- काथी २०,  
४,१५; काश्रु ५, २; वीश्रु २१ :

१३; -णम् आपथी १०, २४, ७;  
वाप; या १४, ४; -णया माथी

७, ९, २; -णा काथी ६, ३, १३;  
आपथी ७, ११, २; माथी ७, ८,

१८; माथी १, ८, २, २३; विष  
६, १२; -णानि विष २०, ८;

अश्र १६, ८; अणं ५ : २६;  
चञ्चू २ : १९ -णाम् काठथी

५२; वीथी; -णायै वीथी ४,  
५ : १८; -णासु वीथी ११, ३ :

३२; -णे वाथी १७, २, ३;  
वैण १, १८ : ३; विष ९, १३;

-णेन अण १८<sup>२</sup>, १, ५.  
त्रिगुणा-रञ्जु<sup>१</sup> -ञ्जु माथी

१, १, ३, ६.  
त्रिगुणी/कु<sup>१</sup> -णी-कुन-

-न्तम् आमिष्ट २, ४, ९ : १०.  
त्रिगुणी-कृण्व आमिष्ट २,

४, ९ : १४.  
त्रिगुणे(रा-ई)धर<sup>१</sup> -राणि

वैण ५, २ : २३.  
त्रि-ग्रहणा(ण-आ)नर्धय-

-वयम् पावा ७, ४, ७५.  
त्रिच-प्रहू. त्रि->नृच-द्र.

त्रि-चक्र<sup>१</sup> -पावा ६, २, १९९.  
त्रि-चतुर-सुधम्-नधम्-प्रहण-

-णेपु पावा ७, २, ९८.  
त्रि-चतुर-सुधम्-नधम्-यदा-

दि-विकार- संपु पावा ६, ४,  
१३०.

त्रि-चतुर- पावा ५, ४, ७७.  
त्रि-चतुर्य<sup>१</sup> -थम् वाथी १, ३,

१, ३२.  
त्रि-चतुर्यं -थयोः शैशि २६०.

त्रि-चतुः-धाराच- वान् वैथी  
१७, १२ : ५.

त्रि-चत्वारिंशत्- -शत् अण ४७,  
३, ६.

त्रि-चिन्त<sup>१</sup> -चित्तम् काथी १७,  
१, २२.

त्रि-चितिक<sup>१</sup> -कम् वाथी २,  
१, ४, १७.

त्रि-चिनीक<sup>१</sup> -कम् आपथी  
१६, १५, ३; वैथी १८, १२ : २३;

द्विथी ११, ५, ३९; १२, ७, २६.  
त्रि-चैल<sup>१</sup> -लः कौस् ८२, ४२.

त्रि-च्छदिस<sup>१</sup> -दिः द्विथी २२,  
६, ७.

त्रिच्छदिप्-क- -कम् वीथी  
२६, ६ : १९.

त्रि-जगत्पा(वी-आ)दि<sup>१</sup> -दि  
श्रअ २, ६, ६१.

त्रि-जगत्(त>)ना<sup>१</sup> -ता श्रअ  
५, ४७; ऋअ १, ७, ६.

त्रि-ज्योतिस्<sup>१</sup> -जिपम् शंष  
११६ : ५०.

त्रि-ण(<न)व,वा<sup>१</sup> -वः आथी  
४, १२, १; साथी १४, ३३, ५;

१६, २३, १३; आपथी २२, ६,  
१९<sup>१</sup>; २३, १८<sup>१</sup>; वीथी, या ७,

११; -यम् वाथी १३, १६, ५<sup>१</sup>;  
१६, २३, ११; आपथी; -वाः

वीथी १६, ३६ : १९; अण ५२  
१२, ४; -वान् निस् ४, १३ : ९;

-वाभिः वाथी १५, ६, ३; -वाभिः  
आपथी १६, २०, १०; द्विथी

११, ६, ५९; -वाय वाथी ९,  
२७, ११<sup>१</sup>; -वे वाथी ७, ५, ११;

१२, ७, १२; आपथी; -वेन  
आथी १२, ३, ३; ४, ३३; आपथी;

द्विथी १७, ३, ६३<sup>१</sup>; -वौ  
आपथी १६, ३३, ५<sup>१</sup>; वीथी

१६, ३१ : १९; वैथी १८, २१ :  
२३<sup>१</sup>; द्विथी ११, ८, ३<sup>१</sup>१.

त्रिगण-त्रयधिस- -शयोः  
निस् ८, ४ : १७; -शाम्याम्

निस् १०, ७ : १८; -शे वाथी  
१६, १५, १२; निस् ६, १२ : ११;

-शौ काथी २१, २, ११, वीथी.  
त्रिगण-स्तोम- -मः वा ७,

११.  
त्रिगण-स्तोम<sup>१</sup> -मम्

वाथी १०, ६, १.  
त्रि-णा(<वा)विकेत<sup>१</sup> -तः अण

४४, २, ४; वाप ३, १९; शंष  
१२९; २००<sup>१</sup>; आपथ २, १७,

२२; वीथ २, ८, २; विष ८३,  
२, वीथ १५, ९८.

त्रिणाम्- त्रिनाम्- द्र.  
त्रि-णि(<नि)वन्<sup>१</sup> -न. चुस्

३, १० : १४; -न्तम् वाथी ६,  
४, ५; ७, ४, १; सुत् ३, ५ : १३;

१२ : १०; निस् ८, १ : १७;  
१८; २१, २८; ३४; -न्स्य साथी

७, ९ : ८; चुस् ३, १० : १५;  
-नानि निस् ५, १ : १४; -ने-

a) वस. > वस. > वस. । b) कस. > वस. । c) विष. । वस. । d) विप. । वस. पृ. पुं वद्वावा-  
भावस्यङ्गसः । e) वैष १ द्र. । f) निरावृत्तवहुर्यो भागो रनेति कृत्वा वस. वा. क्वि. । g) वैष २, ३ सं.  
द्र. । h) = महत्- । वस. । i) सप. 'वः < > 'वेन इति पाठे. । j) वैष ३ द्र. । k) \*वाः इति पाठः इ  
यनि. शोषः (तु. पमा 1१, २ पृ १४०) ।

साधौ ७,४,१; ८,११.

त्रिगिधना(न-अ)नुमद्-

-हाय निम् ६, १० : १८; १०, १२ : २३.

त्रित<sup>०</sup>-तः बौधौ २४,२६:१३;

हिधौ; या ४, ६; ९,२५<sup>१</sup>६;

-तम् वृदे ३, १३२; या ४, ६;

-तस्य वृदे ३, १३६; १३७;

-तृणय काधौ २,५,२६; बौधौ,

-ते अश्न ६,११३<sup>१</sup>.

त्रैत<sup>०</sup>-तम् साधौ ७,३,३.

त्रि-तय- पा ५,२,४३.

त्रितय-सु(क>)ना- -क्ताः

उनिम् ३ : १८.

त्रि-ता- -ता या ७, १२६.

त्रि-त्रिस्तुब्-अन्त<sup>०</sup>- -न्तम् अश्न

२,१, १६८, ६, ७१; ८, १०१;

१०, ११

त्रि-त्रिस्तुब्-आदि<sup>०</sup>- -दि अश्न

२,६,६०,१०,४४.

त्रि-त्रिस्ति(ला>)ण<sup>०</sup>- -ण

काधौ १५,३,१६.

त्रि-दण्ड<sup>०</sup>- -ण्डम् आसिष्ट ३,

१०,४ : १४, वं २,६,२; ८,१,

३,८,२; -ण्डे वैष ३,६,९.

त्रिदण्ड-कमण्डल-कापायघा-

नुवस्त्रमण्डलवैष-धारिन्<sup>१</sup>-

-रिण वैष १,९,३.

त्रिदण्डा(एड-आ)दि- -दि

वैष ३,८,४.

त्रिदण्डन्- -ण्डी बौध २,

१०,४०.

त्रि-द्व<sup>०</sup>- -धाः शेष १५०.

त्रि-दिव<sup>०</sup>- -वम् बौधौ १७,४६:

५; सु; -वाव अण ४२,२,१३;

-वे सु ३०,५,७.

त्रि-द्वे(त्रि-ए)क- -के बेज्यो

१४, -केयु शुभ्रा २,३.

त्रि-घा ऋआपधौ ५,१७,४<sup>३</sup>,१७,

१८, १; वाधौ; हिधौ ३, ४,

४८<sup>१</sup>६; या ६२, १९; १३,

७<sup>१</sup>६<sup>१</sup>, शुभ्रा २,४४<sup>१</sup>७; त्रिघा-

ऽत्रिवा वैष्ट १, ७ - ९; बौधु ७:

१३.

त्रिधा-कृत- -नम् वैष १, ६, ४.

त्रि-धातु<sup>०</sup>- -तु आधौ ७, ३,

१९<sup>१</sup>; साधौ; -तुः या १४, २<sup>१</sup>१;

-तुम् आपधौ १९, २१, २२;

२७, १५, बौधौ, -तुमि शैशि

२४६<sup>१</sup>. -तौ बौधौ २६, ६:१९.

त्रैधात्र(व>)वी<sup>१</sup>- -वी साधौ

१५, १६, २; काधौ १३, ४, ७,

१५, ७, २९; १०, २४.

त्रैधातम्य(वी-अ)न्त- -न्ते

काधौ २१, १, १७

त्रैधातवीय,या<sup>०</sup>- -यया

आधौ २०, २३, ५, २४, १६;

१७, बौधौ, -या आपधौ २०,

८, ४<sup>३</sup>, २२, १५, २; वाधूरी;

-याम् आपधौ १४, २३, २,

-येन बौधौ १३, ४१ : १, बौध

३, १, ९.

त्रैधात(व्य>)व्या<sup>०</sup>- -व्ययः

माधौ ५,२, ५, १; -व्या वाधौ

३, ४, १, ४६<sup>१</sup>६.

२त्रि-धातु<sup>१</sup>- -तवै बौष्ट ३, ९, ५;

आसिष्ट १, २, २ : २२; माष्ट ३,

१० : ७; हिष्ट २, १९, ६.

त्रि-नक्षत्र<sup>०</sup>- -त्राः आज्यो ९,

११.

त्रि-नयन<sup>०</sup>- > -न-सुख-नि-सु-

(त>)वा- -ताम् पाणि ३२.

त्रि-नव<sup>०</sup>- -वम् माधौ २, २, ३,

१३<sup>१</sup>.

त्रि-नाक<sup>०</sup>- -के अश्न ९, ४;

अत्रा ३, १, ७.

त्रि-नामि<sup>०</sup>- -मि अत्रा ३,

१, ७; या ४, २७.

त्रि-ना, नाण<sup>१</sup>मन्<sup>०</sup>- -मन् तंश्र

७, २; अत्रा ३, १, ७, -मानम्

अश्न ६, ७४.

त्रिनाम-देवता-> -व-

(व्य>)व्या- -व्या अश्न ६, ७४-

त्रि-निक- -त्रिनैविक- पा ५,

१, ३०.

त्रि-नेत्र<sup>०</sup>- -त्रः अण ६९, २, ३-

त्रि-पक्ष<sup>०</sup>- -क्षे शाष्ट ४, ३, २;

आसिष्ट ३, ३, २:१४, १२, १:९.

त्रिपक्ष-वत् आसिष्ट ३, ३,

२ : ३०.

त्रिपक्ष आद्- -द्म् आसिष्ट

३, ३, १ : ४; २ : ३०; -द्दे

आसिष्ट ३, ३, २ : १४.

a) वैष १६. b) साम्-१. c) कम > वस. d) विप. १ वस. उप. = २दक्षिणा-

e) समाहारे द्विष. f) विप. १ द्वम्. > वस. १ वापाय-धातुना (परिकेण) रक्षणां कर्त्राणां प्रहर्णं यत्र तथाभूतं

वैषमिनि भाव. (वैतु C. ष्ढण- शब्दमनभिप्रयक्षिति) । g) = देव-१ वस. समामान्त्य् ष्ठ प्र. (पा ५, ४, ७३) ।

h) वामे. वैष १, १५१४ b द । i) वामे. वैष १, १५१४ g द. । j) = इष्टि-विशेष-१ k) वया. वीवा<>

व्या इति वामे । l) व्यय. १ ध्यु ! । m) विप. १ वस. । n) = [त्रिनेत्र-१] शिव-१ o) विप. १ तद्विस्तारं

द्विष. प्रमाणे प्र. लुह. । p) सत्र. वैधौ १४, १० : ५ अष्टादश इति, आपधौ ११, ९, ७ सप्तविंशतिः इति च वामे. ।

q) तैत्रा. पाठः । r) मलो. वस. वा समाहारे द्विष. वा ।

त्रि-पञ्च<sup>१</sup>-क<sup>२</sup>- -कः ऋष ३,  
२३; २५; -काः ऋषा १६, १८.  
त्रि-पञ्च-सूक्त<sup>३</sup>- -क्तः ऋष ३,  
२०.

त्रि-पञ्चासत्- -वाय ऋष १२, ४.  
त्रि-पद्<sup>४</sup>- -पद्: ऋष १८, ४.

त्रिपदा- -दा शीघ्री ७, २७,  
१; निम् १, २; १; ६; ४: २६;  
१२: २६; ८: ६: ४४; विष  
५५, १५; ऋष १, ४-५, १; शुष  
५, १४: २३; अश १, २;  
१७; २६x४; उनिम् १: २१;  
५: १८; -दा: अश २, ११;  
१०, ५; १५, ५; उनिम् ६: २२;  
७: २८; -दानाम् निम् १, ७:  
५; -दानं वा ७, १२; -दायाम्  
वाष २५, १; -दासु ऋषा १८,  
४६; -दे अश ९, ६.

त्रिपदा-प्रभृति- -तीनाम्  
निम् १, ७: २.

त्रिपदी- पाग ५, ४, १३९;  
-दी वीथी १४, १४: ३१;  
आष्ट १, ७, १९; कौश १, ८,  
२८; शाष्ट १, १४, ६; -द्या  
आश्री ८, २, १४.

३त्रि-पद्<sup>५</sup>-

त्रिपद्, दा<sup>६</sup>- -दम् वीथी  
१८, २०: १९; सुष्ट ३, ६: ४;  
-दा: वृदे ४, ८; -दे वीथी १४,  
४१, १९.

त्रिपद्-कम- -मः कौश  
५०.

त्रिपद्-परिणाह<sup>७</sup>- -हानि  
वीथु ४: २४.

त्रिपद्-प्रभृति- -ति तैषा १,  
६१.

त्रिपद्-नाम- -त्रे आश्री ४,  
४, २.

त्रिपदा(द-आ)द्या(दि-आ)  
वर्तमान- -ने शुभ्रा ४, १६८.

२त्रि-पद्, दा<sup>८</sup>- -दा: आश्री ५,  
९, ११; काथी १६, ८, १६; कप  
३, ९, ५; आषुष्ट ६, २; हिशु २,  
२७; -दम् शंघ ३१०; कासु  
७, ३४; -दया काठश्री ९२;  
-दा कासु २, ८; -दैन वीथी  
२३, १९: ८.

त्रि-प( > )द्या<sup>९</sup>- -द्यावा:  
वेज्यो १४.

त्रि-पर्व<sup>१०</sup>- -र्गा: वैश्री ११, ११:  
१.

त्रि-पर्व<sup>११</sup>- -यः काथी ९, ५,  
२; आषुष्टी १२, १२, १०; -पम्  
काथी ७, ४, ७; -वान् काथी  
१०, १, ३; ३, १५.

त्रि-पर्व<sup>१२</sup>- -वैषे अषुष्ट ९, २.

त्रिपर्व<sup>१३</sup>- -वैया आषुष्टी  
२१, १८, ८; हिशु १६, ६, १५.

त्रि-प( > )र्वी<sup>१४</sup>- -र्वी शंघ ५३.

त्रि-पल<sup>१५</sup>- -लम् आश्री २, ७,  
७: ११.

त्रि-पल<sup>१६</sup>- -लुः काथी १५, १०,  
१; वीथी १७, ३२: ७; माथी  
५, २, ११, ११; -लुना हिशु

१४, ५, ११; -तो: काथी १९,  
३, १०; ६, १४; शुष २, ४३८.

त्रि-पाद्<sup>१७</sup>- -पा ६, २, १९७;  
-पात् आश्री २, ७, ८: ७; अश  
३०, २, २; ३१, ३, २; अश;  
-पाद्: अश २, १९; ५, २४; ६,  
१३३; ९, १३, ४; -पादम् अश  
३१, ४, २; -पादी अश ९, ३;  
१५, ११.

त्रिपाद्-गाय- -त्रम् अश  
२, १७; -त्राणि अश २, १९.

१त्रि-पाद् > द-मात्र- -त्रम्  
वाष १६, १२.

२त्रि-पाद्, दा<sup>१८</sup>- -दा: वैश्री ३६;  
३७; -दा: अश ४, ३९; -दे  
कौश २६, ३२; ३५, २७; ४१, ७.

त्रिपाद्-क<sup>१९</sup>- -कम् कौश ८३,  
३.

त्रि-पुष्ट<sup>२०</sup>- -ष्टम् शाष्ट २,  
१०, ९.

३त्रि-पुष्ट<sup>२१</sup>- -ष्टम् शीघ्री १६,  
२२, २९; पाष्ट २, ५, ४२; वाष  
४, १८; वीथ १, ११, १८; विष  
५७, ४; शौघ ४, ३०.

त्रिपुष्ट(व-अ)वि- -वि:  
वैश ६, ४: ३.

२त्रि-पुष्ट(व >) पा<sup>२२</sup>- -पाम्  
कासु ५, १२.

३त्रि-पुष्ट<sup>२३</sup>- -पा: आश्री ४,  
१, ४.

४त्रि-पुष्ट<sup>२४</sup>- -रे वाष १०,  
२३.

a) विप. । वस. । b) पृ ४४३ ई टि. द्र. । c) विप. । वस. > वस. । d) पाभे. वैप २, ३३.  
त्रीणि तैसा ३, ७, ११ टि. द्र. । e) वस. वा समाहारे द्विस. वा । f) तस्येदकीयः भण्य प्र. । g) उप.  
= प्रमाखण्डिय- वा चतुर्थभाग- वा । h) = वीथीनातो. । i) त्रिः पर्वयेव इति पाठः ! वनि. च उरुक् इति.  
च शोचः (उ. हिशु. ७. च) । पृ ८२८ कट-शालका- > -रुपा इति नेष्टम् । j) समाहारे द्विस. । k) विप. ।  
तद्विधायं द्विस. । l) वैप १ द्र. । m) पाभे. वैप १, १५०७ कट. । n) = शिक्प- इति द्वारिखः । o) = विपाई  
५नामा. । p) = तीर्थ-विशेष- । द्विस. उप. = पुष्टरिणी. ।



२त्रि-मुष्क(रु>)शा<sup>०</sup> -राम  
 लाथी ९,२,९.  
 त्रि-पुं<sup>०</sup> -वे: मासि ५,६.  
 त्रि-प्रष्ट<sup>०</sup> -ष्टम् गीति २,  
 ४,६; साध १,५२६.  
 त्रि-प्रकृति<sup>०</sup> -नीति श्रया १६,  
 ६.  
 त्रि-प्रक्रम-मे वाठथी २७.  
 त्रि-प्रगाथा(घ-भा)दि-दि  
 क्रम २,७,५९; ६,२२; ७०.  
 त्रि-प्रगाथा(घ-भा)उ-तम्  
 क्रम २,६,७१.  
 त्रि-प्रनिषेध-घ. पावा ६, १,  
 १७६.  
 त्रि-प्रभृति-ति काथी ९, २,  
 २२; -तिपु शांथी १, १, १६,  
 श्रया ११,२१, पा ८,४,५०.  
 त्रि-प्रमा(णु>)णा<sup>०</sup> -णा काशु  
 ३,६.  
 त्रि-प्रवर-रम् आथी १२,  
 १०,१२; १३.  
 २त्रि-प्रवर<sup>०</sup> -रा. वीथी ११६.  
 त्रि-प्रस्ता(रु>)शा<sup>०</sup> -रा  
 आप्तु १०,१३, हितु ३,५३.  
 त्रि-प्रलक्ष<sup>०</sup> > श्वा(खघ)-  
 बहरण<sup>०</sup> -गम् काथी २४, ६,  
 ३६; लाथी १०,१९,९.  
 त्रि-प्र(स>)ला<sup>०</sup> -पा,पाग ४,  
 १, ४; -लाग् यासि १, ३६,  
 नासि २,६,६.  
 २त्रि-प्र(स>)ला<sup>०</sup> -ला रूप  
 २६,२,१.  
 त्रि-प्रहिम्-हि: वाधुथी २,  
 २: १; ३: १३: १४, -हिप.

वाधुथी ३, १४: ४, ६.  
 त्रि-प्रद्व<sup>०</sup> -क्ष शीति ३५२.  
 त्रि-भाग-गान् वीशु ७,१६.  
 त्रिभाग-रत् (:) का २,  
 ३,१.  
 त्रिभाग(ग-भा)दि-प्रवृत्ति-  
 लो गीष १६,२६.  
 त्रिभाग(ग-उ)न-न-  
 वीशु १७: ६; -नम् वीशु ३:  
 १५; -ना: वीथी १९,१: १४;  
 वीशु १७: ४.  
 २त्रि-भाग<sup>०</sup> -राम् निम् ३,७:  
 २; अय २३,१०,१; -गा: रूप  
 ५२,३,२.  
 त्रि-भाव-(>त्रैभाव्य-या.)  
 पाग ५,१,१२४.  
 त्रि-भृति<sup>०</sup> -ष्टि माथी २,३,  
 १, १५; -ष्टिभि: माथी १, ५,  
 २,१५१.  
 त्रि-भणि<sup>०</sup> -गिम् कौष्ट १, ६,  
 ६; शांष्ट १,१२,६.  
 त्रि-भयु<sup>०</sup> -यु: अय ४४, २, ४;  
 शंभ १९९; आपध २,१७,२२,  
 वीष २,६,२, गीव १५,२६.  
 त्रि-भयुर<sup>०</sup> -रम् अय ३६,१५,  
 १; १९,१, ३०,१; -रस्य कौष्ट  
 १, २०, ६, -रेण कौष्ट १,२०,  
 ६, अय ३६, ७, ३; १६, १;  
 -रै: अय ६९,२,५  
 त्रि-भयुरा(र-रुज>)ता-  
 -त्ताभि वैष्ट ४,१४: ५.  
 त्रि-भ(य>)व्या<sup>०</sup> -व्या अय  
 २४,१,४.  
 त्रि-भय<sup>०</sup> -त्र: शांथी १, १,

१९; श्रया १३, ५०; १५, ५:  
 तीरा २२, १३; अय २, ५, ५;  
 शीव १,६२; यासि १,१४; १६;  
 -प्रम् आथी १,२,१०; ७,११,  
 २; उस्तु १,११; गान् २,४,९; शीति  
 ३५१; मासि १३, २: ३; यासि  
 १,१६; -प्रयो: श्रया ३, २७;  
 -प्रानि माथी ५, १, १, ११;  
 श्रया २,५०; -प्रार्थ शीति ३५३;  
 -त्रै श्रया १,६८.  
 त्रि-भाम<sup>०</sup> -म. वैष्ट ५,१४:  
 ३; -मे गीति २, ६, १६.  
 २त्रि-भाम<sup>०</sup> > त्रैमासिक-  
 -कम् वैष्ट २, ११: ७.  
 त्रि-भामिक<sup>०</sup> -क: अय ७,७,  
 ४,७.  
 त्रि-भृ<sup>०</sup> -पा ५,४,११५.  
 त्रि-भृ<sup>०</sup> -पा ६, २, १९७;  
 -पुंषानम् आथी ४, १३, ७;  
 शांथी १४, ५७, ११; श्रम २,  
 १,१४६.  
 त्रि-भ्र(त्रि-भ्र)ग्वक<sup>०</sup> -कम्<sup>m</sup>  
 अयिष्ट २,३, ५: २६; ५, ४:  
 ७, ६; १०: २३.  
 त्रि-भ्र<sup>०</sup> -यम् माथी ५, १,  
 ९,३, वाशु ७,२६.  
 त्रि-भ्र(त्रि-भ्र)ह<sup>०</sup> -ह- वाधुथी ३,  
 ७: २.  
 त्रि-भ्र(त्रि-भ्र)सु<sup>०</sup> -यम्<sup>p</sup>  
 लंष्ट १, ११: २४; २५.  
 त्रि-भ्र(त्रि-भ्र)लिसि(त>)ता-  
 -नाम् वंथी १६, १: ७६.  
 त्रि-भ्रुक्त-क- वाथी १५, १,  
 २०.

a) वंश उप. = कर्मल-। b) विप.। वस। c) वैप १ द। d) समाहारे दिन। e) = प्रदेश-विशेष-। वय.। f) नाप.।  
 दिस.। g) वैप १,१५१९ p द.। h) नाप. (क १,९०,६-६ इति मधुसूदनेन मन्त्रप्रवाप्यायिन्-। i) कर्म.  
 पूर. = नृनीय-। j) विप.। मत्तर्थायम् उन् प्र.। k) वैप १,१५१९ t द.। l) = श्यम्क-। m) पाभे. वैप १,१५२२ j  
 द.। n) विप.। तद्विस्तारं दिस. उप. = परिमाण-। o) = श्वह-। p) = व्यासुप-। q) पाभे. वैप १,१५१९ b द.।

त्रियुगा<sup>१</sup> - गम् आपथी १,  
५, ५; भाथी १, ५, १; हिथी १,  
२, २३; या ९, २८.

त्रियुगा(ग<sup>२</sup>-आ)दिक- कम्  
वैथी १८, १५ : १५.

त्रियुञ्ज<sup>२</sup> - युजा आपथी २२,  
२, २०.

त्रियून<sup>३</sup> - नम् काथी १, ३,  
२१.

त्रियूप<sup>४</sup> - यः काथी १५,  
१०, ६.

त्रियोग<sup>५</sup> - गगाम् नाथुथी ३,  
७५ : ४.

त्रियोजन<sup>६</sup> - नः अथ ६१, १,  
२६.

त्रिरात्र<sup>७</sup> - त्रः आपथी १४, ११,  
८; वीथी १६, १० : ५×४; हिथी;  
गौघ २३, ३५<sup>१०</sup>; -त्रम्<sup>१</sup>

आथी ८, १४, ९; नाथी; शंघ  
४६१; आपथ १, २६, ३; वीघ;  
-त्रस्य आपथी २२, २, ५; १४,  
४; १५; हिथी, -त्राः निम् ८, ५ :

१; -त्रागाम् लाथी ९, ६, १; निम्  
३, ७ : ५; -त्रात् भाथ १, ९ : ६;  
३, २० : ८; गोथ; -त्राय काठथी<sup>११</sup>  
३१ : १५; काठउ ४१ : ७; -त्रै

वांथी १६, २०, १७, काथी; सुथ  
१४; -त्रेण वांथी १६, २१, १;  
२२, ३०; वीथी १४, २७ : ७×४;  
वाथ; -त्रेयु लाथी ९, ११, १३,  
निम् ८, ११ : २२; -त्रो वीथी  
१८, ५१ : २३; २६, ३३ : २१.

त्रैरात्रिक<sup>१२</sup> - काणि निम्  
७, ३ : १२.

त्रिरात्र-नन्त्र<sup>१३</sup> - त्राः निम्  
८, ८ : १९.

त्रिरात्र-न्याय<sup>१४</sup> - येन निम्  
६, ८ : ५; ३३.

त्रिरात्र-पराम<sup>१५</sup> - मम् गौघ  
२३, २८.

त्रिरात्र-प्रवृत्ति<sup>१६</sup> - त्वयः निम्  
९, ८ : १६; -त्रिषु निम् ७, ३ :  
३४; ४०.

त्रिरात्र-विध<sup>१७</sup> - धः निम् ६,  
८ : २२.

त्रिरात्र-संमित<sup>१८</sup> - तः काथी  
२२, २, ८; आपथी २२, २, ५;  
हिथी १७, १, २३.

१त्रिरात्रा(त्र-अ)न्त- न्ते  
काथी २५, ११, १७.

२त्रिरात्रा(त्र-अ)न्त<sup>१९</sup> ।  
-न्त्वानि वीथि ३, ७, ४.

त्रिरात्रा(त्र-आ)सि- सिम्  
निम् ६, ८ : २.

त्रिरात्रा(त्र-अ)भोजन- नम्  
गोथ ४, ५, ९.

त्रिरात्रा(त्र-अ)३२- रम्  
काथी ४, ११, ३; आपथी १५,  
११, ८; भाथी ११, २०, ४;  
आपथ ९, ४; गौघ २३, २४.

त्रिरात्रिक(क<sup>२०</sup>)थी- थयः  
निम् ६, ८ : २२

त्रिरात्री(ख<sup>२१</sup>)णा<sup>२</sup> - गा  
आपथी ९, २, ३.

त्रिरात्रो(त्र-ऊ)न- नाक्  
वीम् ६३९, २०.

त्रिरात्रो(त्र-उ)पदान<sup>२२</sup> - नम्  
आथी ११, ३, ११; ४, ८.

त्रिरात्रो(त्र-उ)पदास- सः  
शंघ ४०२; सुथ ४३.

त्रिरात्रो(त्र-उ)पेत्सिद्- स्त्री  
माथी ९, २, ५, १.

त्रिरात्रो(त्र-उ)पोषित- तः  
आपथि २, ६, ५ : २६; वीथ २,  
९, २५; गोथ ४, ८, २०; अथ  
३१, ५, ५; शंघ ३९६; ४०१;  
वीघ ४, ७, ४; विध २२, १३;  
५५, ६.

त्रिरूप, पा<sup>२३</sup> - यम् काथी २०,  
१, २७; -पाम् काथी १३, ४,  
१४.

त्रिरेखा- खा नाशि १, ६,  
८.

त्रि-लक्षण- पाग ४, २, ६०<sup>१</sup>.

त्रि-लोक- पावाग ५, १, १२४.

त्रिलोकी- कीम् विध  
९९, ६.

त्रिलोम्य- पावा ५, १, १२४;  
-उयम् अथ ५१, ४, ३.

त्रि-वङ्क- पावाग ६, २, ११९.

त्रि-वण- त्रि-वेणी- द्व.

त्रि-व(त् >)ती<sup>२४</sup> - त्वा आपथी  
१९, २७, १८; वीथी १३, ४२ :  
५; हिथी २२, ६, २६.

त्रियम्, त्सा<sup>२५</sup> - त्साः काथी २२,  
३, ३१; आपथी १८, १०, २२१;  
२२, २, ७५; वाथी ३, ४, २०;  
हिथी १४, १, ३८; लाथी ८, ३,  
९३; नीम् १०, ३, ६०; -त्साः  
आपथी २२, २०, ११; हिथी  
१७, ७, २२; -त्साम् अथ १,  
५०, ३; -त्सेन वीथी १८, २१ :

a) उप. = काल-विशेष- ।

b) उप. = धृ- ।

c) विप. । उप. उप. कर्मणि प्र. । d) विप. ।

तुल. उप. < √ वृ [वृथने] । e) विप. । वस. । f) विप. । तद्विधार्थे द्विस. उप. = अथपरिमाण- ।

g) = याग- । तद्विधार्थे समाहारे च द्विस. । h) = मत-विशेष- । i) कश्चिद् वा, क्विचिद् । j) व्युत्प<sup>२</sup> इति इ. ।

k) भूतार्थे ख > ह्नः प्र. (पा ५, १, ८७) । l) तु. पागम. । m) = ऋच्- । n) वय १ द्व. ।

२; २६, ३२: १०.

त्रि-वन्धु<sup>१</sup> - वन्धु वृदे ३, ८६;  
श्रया ७, ३२१.त्रि-वन्धु<sup>२</sup> - वन्धु माधौ १०,  
२२, ४; हिधौ ७, ३, ५६.त्रि-वर्ण<sup>१</sup> - वर्ण जैश्रीका १३०;  
लैट् २, ८: १६; -र्णा<sup>२</sup> द्राधौ१२, ४, ११; लाधौ ४, १२, ८;  
-र्णागाम्<sup>३</sup> आज्यो २, ३; -र्णौ

काधौ ८, ६, ८; उन्निम् ३: १३.

त्रि-वर्ष-सेवा - वाम् विष  
५९, ३०.त्रि-वर्ण<sup>१</sup> -> त्रि-वर्णिक->  
०कभेद-सूचक- -कान् काध  
२७०: ५त्रि-वर्ण<sup>२</sup> - -र्णौ वीट् ३, ६, ३,  
वाण्ट् ३, ११, ७, -र्णा: श्रया ९,  
३१; -र्णे अप ६१, १, १५, -र्णै:

अण ३६, १२, १; ६१, १, १५

त्रि-वर्ण-मर्षय - वी: श्रय ३६,  
१८, १.त्रि-वर्ण<sup>३</sup> - -र्णाय आसिण्ट् १,  
२, २: २२७.त्रि-वर्ण - -र्णा: वीधौ ४७: २.  
त्रि-वर्ष<sup>१</sup> - -र्षाय सुष २०.त्रि-वर्षिक<sup>१</sup> - -कम् आधौ  
१२, ५, ६; ११.त्रि-वर्षिक<sup>२</sup> - -कम् गौष  
२२, १५, -कै: संण्ट् ५, १: ३.त्रि-वर्षिका(क-श)चि-  
का(क-श)च- -श: शंष १४८.त्रि-वर्षिका(क-श)श्व-  
षिका(क-श)च- -श: विष  
५२, ८.त्रि-वर्ष-पूर्व - -र्षै: आपध १,  
१४, १३; हिण्ट् १, ४, ४५.त्रि-वर्ष<sup>२</sup> - -र्षै: आधौ ९, ४,  
२०; लाधौ ८, ३, ११.त्रि-वर्ष<sup>३</sup> - -र्षाय आसिण्ट् १,  
२, २: २२; वीट् ३, ९, ५; भाण्ट्  
३, १०: ७, हिण्ट् २, १९, ६.त्रि-वर्षिक<sup>२</sup> - -ल्लि: आपधौ १०,  
९, १९; वीधौ ६, ५: १६; २१,  
७: २०, -ल्लिम् काधौ ७, ३,  
२५<sup>१</sup>, माधौ १०, ६, १३; वीधौ

१२, ९: ४, हिधौ ७, १, ५२.

त्रि-वर्षी-क<sup>१</sup> - -कम् वीधौ  
२६, ६: १८.त्रि-विकल्प<sup>१</sup> - -ल्प: वण्ट् २, ९,  
१२, -ल्पम् कण्ट् २, १०, १६.त्रि-विकल्प<sup>२</sup> - -न्मम् आसिण्ट् २,  
५, ७: १०, वीट् १, ११, ७; वीट्  
३, १३: ४, वीष २, ५, २४, वृदे  
२, ६४.त्रि-वितस्त<sup>१</sup> - -स्तम् आपधौ  
७, ४, २, माधौ ७, ३, ४, वीधौ  
१०, ३: १०, हिधौ ४, १, ४६त्रि-विदग्ध - -ग्धम् वीस् २६,  
२७

त्रि-विद्या - पारा ४, २, ६०.

त्रि-विद्य<sup>१</sup> - पा ५, ४, २३७.त्रि-विद्यक<sup>१</sup> - -कम् माधौ४, ७, ८; काण्ट् ४२, १; माण्ट् १,  
२३, २४; वाण्ट् ६, १४; ७, १६;  
आपध १, १, २८; २, ६; हिण्ट्  
१, १, २६; ३९.त्रि-विद्य-वृत्ति - -त्तिम्  
लाधौ ८, ६, २९.त्रि-विद्य-वृद्ध - -द्धा: वाध  
१, १६; विष ८, ८; -द्धानाम्  
आपध २, २३, १०; विष ५, ३१;  
हिण्ट् २, ५, १६३; -द्धेभ्य: वीष  
१, ५ १००; गौष ११, २७;-द्धै: वीष २, १०, ५७<sup>२</sup>.त्रि-विद्य-समवाय - -येषु  
शंष ९.त्रि-विद्य-साधु - -धुभ्य:  
वाध १७, ८७.त्रि-विद्य, पा - -ध: आपधौ १६,  
१७, १५; जंण्ट् या १४, ३; -धम्  
शायौ १६, २१, १४४; वीधौ;  
-धा कण्ट् १, ३, १; विष २२,  
८२; वृदे २, ७२; ३, १४; मासि  
१६, ६, यासि १, ७१; -धा:  
अण ३, ३, ७, वैध १, १०, १; या  
७, १; -धान् अण ६४, १, १;  
७१, २, ४; -धानि वृदे १, १७;  
३, ४२, -धेन वृदे ३, १२.त्रि-विषय -> ष्य-गत - -तेषु  
वीधौ २१, ११: ६, २५, ५:  
१६.त्रि-विराद्-अन्त<sup>१</sup> - -न्तम् श्रय  
२, ७, २१.

a) वैर १६.। b) समाहारे द्वि। c) कम.। d) उप. = जात-वचन-। e) विप.। वस.।

f) उप. = कण्ट- वा रङ्ग- वा। g) = श्रयि-विशेष-। ध्यु ?। h) सत्र. त्रि-वर्णाव &lt;&gt; श्वरुगाय इति पाठे.।

i) = सत्र-विशेष-। भाष्येऽप्ये त्त् प्र. उप. श्रद्धेयतिथेयथः। j) विप.। तत्रमवीयत् ट्क् प्र. उभयवदृदिष्य।

k) तद्विधौ द्वि। l) त्रि<sup>१</sup> इति कानं.। m) = विष्णुनामान्ध्वतम-। वस.। n) वः प्र. उत्सं. (पा ५,  
१, ५७)। o) तद्वेदेत्ये कण्ट् प्र. (पा ४, २, ५९)। p) उ. पाठम्.। q) विप. वा नाप. (वस.) वा। त्रि-विद्यानां

यमे इत्येवं बुम् प्र. [पावा ४, ३, १२६ (तु हरदत्त. [आपध.], वै. देवपालः &lt; त्रि-विद्या- इति)]। यदा त्रि-विद्य-

- वर्णैण बुम् प्र. (पा ५, १, ३३२) इति विदुष्यम्। r) प्रवीचि<sup>१</sup> इति मैसु.। s) क्व. > वस.।

त्रि-वितास- -खे द्विती १४,  
 ५, ११.  
 त्रि-विष्(क>)का<sup>०</sup>-काम द्विपि  
 १४: ३; -के द्विपि १४: ७.  
 त्रि-विष्टप- पाठ्य ३, १४५;  
 -पक्ष अप १२<sup>१</sup>, ५, ९; ५५, ५,  
 ३; शेष २८४.  
 †त्रि-विष्टवि<sup>०</sup> आपथी ५, ९, ११,  
 वाथी १, ४, २, ७; द्विथी ३, ३, ३२.  
 त्रि-विशवा<sup>०</sup> -वा: निम् १, ८: १९.  
 †त्रि-विष्ट<sup>०</sup> -ष्टि आपथी  
 १६, १, ७; वाथी २, १, ५, २०;  
 वैथी १८, ४: ८; द्विथी ११, १,  
 ७३;  
 त्रि-वीथि(द्वि<sup>०</sup>)<sup>०</sup> -थी.(द्विथी.)  
 वैथी १, ५: २; वैथ ५, २: १८.  
 त्रि-वृत्<sup>०</sup> -पावाग ६, २, १९९;  
 -वृत् आपथी ४, १२, १; २××;  
 शोथी ९, २१, १; १३, १६, ५××;  
 वाथी २, ७, १९; ४, २, १६××;  
 आपथी १, ६, ९; १०; १०, ९,  
 १३××; वीथी १, ३: ३××;  
 माथी १, ६, ११; १३†; माथी ६,  
 १, ४, ९; ३, १, २३; वाथूथी ३,  
 ७६: २६; २७<sup>३</sup>××; वाथी १, २,  
 २, ६; २, १, १, १७†; वैथी ३, ५:  
 ११; १२, ८: १३; १४, ५:  
 १; १८, २१: २०†××; द्विथी  
 १, ३, ३; ४; ७, १, ४६; ११,  
 ८, ३†××; लाथी १०, ५,  
 १; वैताथी २६, ८; ३५, १५;  
 जुम् १, १०: १०; निम् १,

१०: २; ९, १३: ११××;  
 कीट १, ३, ८; १४, ११†; नाट  
 १, ८, २: २२, १५; आसिष्ट २,  
 २, ४: ७; वीट १, २, ११; वैट  
 ३, १०: ७<sup>३</sup>; द्विष्ट १, १२, ११;  
 २, ५, २; वज्र १, १, २<sup>३</sup>; ७, ७;  
 अत्राय ६, ३†; अत्र ४८, १३६;  
 आपथ १, २, ३३; वीथ १, ५, ५;  
 २, १०, १३; ४, ५, ७; द्विष १,  
 १, ६५; वृष्टे १, ११५; नाय  
 १७: ३†; वा ७, ८; १२†;  
 †नायि ६६; ७७; ९४; १०७;  
 -वृत्त आपथी ६, १०, २२; ९,  
 १, १७××; शोथी १३, २१, ३२;  
 १४, ६, ४××; काथी १६, ५,  
 २; २२, ५, ६××; आपथी २२,  
 ७, १; १८, ५××; †वीथी १०,  
 ३५: ६; १४, २२: ११××;  
 माथी ३, ८, ७; द्विथी १७,  
 २, ३२; ३, १६××; लाथी  
 ६, २, ४; ५, ११××; निम्  
 १, १०: ५; १०××; -वृत्तम्  
 काथी १, ३, २३; ६, ३, १३<sup>३</sup>××;  
 आपथी १९, १४, १०; २१, ६,  
 १०; वीथी १, २: २८; १३:  
 १९××; माथी १, ६, ५, वाथी  
 १, २, २, १; ३, २, १, ४२;  
 द्विथी १, २, ७४; ७५;  
 †वैताथी १०, १७; २६, ८;  
 निम् ४, ११: १३; ७, ५: १०;  
 ७: ३५; १०, १३: १७; नाट  
 १, १२, ६<sup>१</sup>, पाठ १, १५, ६;  
 आसिष्ट १, १, २: ३८; आपथ

१३, ११; वाट ४१, १२; भाट  
 १, २: ६; द्विष्ट १, ४, ५; १२,  
 १०; गोष्ट १, ७, १०; जैष्ट १,  
 १८: ३; १९: ३; १८; प्राट १,  
 २, ११; अत्र २२, ७, २; अत्रा  
 १९, २, ५; ७; वैष २, ६, २; अथ  
 ५, २८; -वृत्त आपथी १, ३, २२;  
 १२, ३, ३××; शोथी १४, २७,  
 ५; ११××; वाथी २, ७, १;  
 १६, ३, ५; आपथी १२, १८,  
 १२; २२, ६, ५××; †वीथी ३,  
 २७: २२; १४, २०: १५××;  
 माथी १०, ६, १०; माथी १, ८,  
 २, २४××; वाथूथी ४, २६:  
 ६; वाथी १, ६, ३, २०; वैथी १५,  
 १९: ६; २१: ११××; द्विथी ८,  
 ५, १३; ११, १, ३४××; लाथी ९,  
 ७, ९; १०, ४, ४<sup>३</sup>†; जुम् १, १०:  
 २०; निम् ९, १३: १०<sup>३</sup>; ३७<sup>३</sup>;  
 १०, १: ३५<sup>३</sup>; कीट २, १, २९;  
 आसिष्ट १, १, ४: २८; ४२××;  
 वीट १, ८, ४; २, २, १३××;  
 वीपि ३, १०, २; भाट १, ६: ६;  
 द्विष्ट १, ७, २२; ८, ७; द्विपि १३:  
 ९; जैष्ट २, १: २२†, अत्राय;  
 -वृत्तम् आपथी ११, ५, ३;  
 लाथी ८, ७, ३; १०, १४, ८;  
 -वृत्ति शोथी १२, २, ११;  
 काथी १६, ५, १, निम् ४, ७:  
 १०; नाट १, २२, १०<sup>३</sup>; कीट  
 १५, १; १९, ८; २२, १३;  
 वाथि १, ३५; मीम् १०, ६, २२;  
 -वृत्ती आपथी २२, ९०, ८;

a) विप. । मस. ।      b) विप. (द्विस्तासा-] मेर्या-): । मस. उप. < विपवन्- ।      c) =सर्व- ।  
 कस. पृ. =तृतीय-, उप. =मुपन- ।      d) वैप १ द्. ।      e) विप. (स्तोमाना पवाय- ) ।  
 f) इति बोध: (द्र. C.) ।      g) कस. उप. =रु<sup>३</sup>- ।      h) सत्र. आपथी ७, ११, ५ त्रि: प्रदक्षिणं  
 सूत्रम् इति पाठः ।      i) सवा. कीट १, ८, ६ 'ता-> -ताम् इति पाठे: ।      j) सवा. वृत्ति <> 'वृत्ते इति  
 पाठे: ।

निम् ७, ७ : २९; जेष्ठ १, १८ :  
२; -वृत्ते शाश्वी ९, २७, ११;  
माश्री ६, २, ६, ४; हिथी १४, २,  
३५; वैताश्री २६, ८; -वृत्ते-  
ऽवृत्ते ऋष ३६, ९, १; २;  
-वृत्ती लाश्री १०, १०, ७,  
-वृत्तिः आपश्री ५, ६, १;  
वीथी २, ६ : २५; हिथी ३,  
२, ५१; -वृत्ति काश्री ११,  
५, २; शाश्री १४, १२, ६;  
२५, २५, आपश्री २२, २३, ६;  
२३, ८, ३५; वीथी २६, १६ :  
४; हिथी १७, ८, २४, १८,  
३, ३.

त्रिवृत्-टिम्- नमम्  
आपश्री १, ६, ५; माश्री १, ६,  
५, वैथी ३, ५ : ५.

त्रिवृत्-पञ्चदश- -शापो.  
निम् ४, ११ : ४, २४, १०,  
१० : १८, -शे शाश्री १५, ६,  
२, लाश्री १०, १८, ७, पुम् १,  
१० : २; -श्री शाश्री १३, २१,  
२, १४, २९, ४, वीथी १८, ३०  
१८, ३५ : ९, २५, ५ - ११, निम्  
४, ११ २५; १३-८, ९, २६.

त्रिवृत्-पञ्चदश- -शा  
लाश्री ८, ११, ८; निम् ८, ४  
२५; -शाम् निम् ८, ४, ३१,  
१०, १० : १६, -शा. काश्री  
१२, १, २; आपश्री २३, ९, ४,  
-शानि शाश्री १४, ३३, ३.

त्रिवृत्-पञ्चदश-स्तोम-

-मा. काश्री २४, ४, ३; -मे

काश्री २४, ६, २४.

त्रिवृत्-पञ्चदश-स्तोम-  
काश्री-त्रिगव-प्रयच्छिता- -शाः  
काश्री २२, ६, २६; वैताश्री ३५,  
१६.

त्रिवृत्-पञ्चदश-स्तोम-  
काश्री-त्रिगव-प्रयच्छिता-नव-स्त-  
दश- -शेष वैताश्री ४०, ८.

त्रिवृत्-पवमान- -जाः, -नस्य  
पुम् १, ११ : १५.

त्रिवृत्-प्रभृति- -तय शाश्री  
१६, २१, २; -तीनाम् शाश्री १३,  
२४, ५; २८, ५.

त्रिवृत्-प्राधान- -नम् वैष्ट ३,  
१२ : ६ : १९ - ४; २२ : २.

त्रिवृत्-प्राधान-  
-दीनि वैष्ट ३, ११ : ६.

त्रिवृत्-सप्तदश- -श्री वीथी  
१६, २८ : १६, निम् ७, ९ : ६

त्रिवृत्-स्तोम- -माः निम्  
८, ८ : २५, -मे लाश्री ६, १,  
१८; -मेन शाश्री १४, ५१, २.

त्रिवृत्-स्तोम- -म निम्  
१०, १३ : २१, -मम् शाश्री  
१०, २, १, १३, २१, ९.

त्रिवृत्-आदि-वृत् वैताश्री  
४१, १४.

त्रिवृत्-दृष्टका- -काः वैथी  
१८, २१ : २४.

त्रिवृत्-उत्तम- -माः आपश्री  
२३, १०, ५, हिथी १८, ४, १.

त्रिवृत्-दशरात्र- -प्रस्य  
काश्री १२, ९, १६.

त्रिवृत्-द्वैत- -शय-

-यम् अय ५, २८; १९, २७.

त्रिवृत्-बहिष्कृत- -नेन  
काश्री २५, १३, ३८.

त्रिवृत्-राथन्तर- -राः  
आपश्री १४, ४, ३; -रम् हिथी  
९, ७, ४९.

त्रिवृत्-वृत् मीम् १०, ६, १५;  
६, १७.

त्रिवृत्-मुञ्ज-पञ्चाश्री-

वद- -शाः काश्री १६, २, ४.

त्रिवृत्-ना- -ता काश्री ७, १३;

-ताम् कौष्ट १, ८, ६; आपश्री

१, १, १ : १६; आपश्री १०, ११;

वीथी २, ५, १३; वैष्ट २, २ : ३;

हिष्ट १, १, १७; -ते कौष्ट १,  
१४, ८.

त्रिवृत्-कृ- -श्री-कृत-

-तम् अय २०, ७, १.

त्रिवृत्- -> त्रिवृत्- - -प्याः

वृद ५, १३; १४.

त्रिवृत्-वीर-कृत- -स्त्यो

अय २, ५, २७, साय १, ४३२;

२, ८५६.

त्रिवृत्- ( > त्रिवृत्- >

त्रिवृत्- पा. [ > णीय वा ४, २,

९०] पाग ४, १, ११२.

त्रिवृत्- - -श्री वीथी १८, १ : ६.

त्रिवृत्-संयोग- -गान् काश्री

२५, १४, ३७.

त्रिवृत्- - -दस वीथी १७,

२१ : १; -दाः वीथी १८,

३२ : १५, ३३ : १२.

a) त्रि. । यत्. ।

b) द्रव. पु. न. ।

c) मन्वर्थे अन् प्र. ।

d) दनि. समस्तमित १८. ।

e) उप. स्तार्थे अन् प्र

f) परस्परं पाठे. ।

g) = त्रिवृत्- । उम. उप. कर्मणि कः प्र. ।

h) पाठे. पृ १२०७ k टि. द्र. ।

i) Bōht. (ZDMG [४३, ५९९]) त्रिवृत्- > -तम् इति शेषः अकि-

चित्कः । j) पाठे. पृ १२०७ m टि. द्र. । l) वैष १ द्र. । l) व्यय. । यत्. ! । m) नाप. (प्रज्ञान-) :

अथयनार्थमित्यय प्र. सुष्ट (वा ४, १, ८८) । n) उप. = वेद- ।

त्रि-वेदि-सदिव- -तम् वैध १,  
६, ५.

त्रि-व्या(म>)मा<sup>०</sup>- -मा काथी  
६, ३, १३; -माम् काथी ५२.

त्रि-व्याया(म>)मा<sup>०</sup>- -मा  
आपथी ७, ११, २; माथी ७, ८,  
१८; माथी १, ८, २, २३; -माम्  
वाथी १, ६, २, ११; वैथी १०,  
७ : २; हिथी ७, २, २७; ६१.

त्रि-वत<sup>०</sup>- -तम् अथ ७६, ८, ४.

त्रि-वक्र<sup>०</sup>- -क्रम् शेष ११६ :  
५०.

त्रि-वद्कु<sup>०</sup>- -कुः अथ ५२,  
१०, १.

त्रि-व्रत<sup>०</sup>- -तम् शेष १७७.

त्रि-वती- -ती वैजयी २८;  
-तीम् विध ७७, ९.

त्रि-वत-स्तोत्री(या>)य<sup>०</sup>-  
-यम् ह्युक् ३, २ : २९.

त्रि-वत<sup>०</sup>- -तम् काथी ९,  
२०, १३; -ताः वा ७, २२, १३.

त्रि-वत्- (> विसव- पा.)  
पाग ५, ४, २३.

त्रि-वा(य>)वा<sup>०</sup>- -वाम्  
माथी १, ७, ३, १३.

त्रि-वासः( )श्रमा १८, ५०, ५१.

त्रि-वास(सा>)व<sup>०</sup>- -सः वाथी  
३, ४, ५, २२; -सम् कौत् ९०, ३.

त्रि-वाण-> त्रिवाण्य-,  
त्रिवाण- पा ५, १, ३६.

त्रि-दि(सा>)द<sup>०</sup>- -दः वीय  
२, ४, १७, -साः अथ ५२, ३, २.

त्रि-दिरव<sup>०</sup>- -राः अथ ५२, ८,  
१; अथ २, १०, ८; वृदे ६,  
१४७; १४९; १६२; शुभ २,  
१४८; नाथ १, ७१.

त्रि-दिल<sup>०</sup>- -ले कौत् ३६, १५;  
१७; १८१.

त्रि-दीर्घ<sup>०</sup>- -र्षय अथ ३६, ९, २.

त्रि-दीर्घ<sup>०</sup>- -र्षणम् माथी १७,  
५०, १; माथ ५, ८; -र्षः नाथ  
७ : ७; १३ : ३.

त्रि-दुक्<sup>०</sup>- -क्रः आपथी २२,  
७, ७; वीथी १८, १ : ४; ६;  
हिथी १७, ३, ७.

त्रि-दुक्किय<sup>०</sup>- -यः शाथी १६,  
२२, २९; -यम् शाथी १, १, १६.

त्रि-दुक्क<sup>०</sup>- -क्काः वैय ५, १३ : २.

त्रि-दुक्क<sup>०</sup>- -दुक्क<sup>०</sup> शाथी ७, १६,  
८; वीथी ८, ३ : १७.

त्रि-दुक्क<sup>०</sup>- -कः अथ २, ८,  
४५; शुभ १, ४७४; ३, १८५;  
साथ १, १३३; १३६; १६१;  
२०७; २१६; अथ २०, ४३<sup>०</sup>;  
-काय वृदे ६, ८१.

त्रि-दुक्क<sup>०</sup>- -कम् लुक् १, २ :  
९, सत् ३७, ६६, -काय लुक्  
१, २ : १७.

त्रि-दुक्क<sup>०</sup>- -कम् लुक् १, २ :  
९, सत् ३७, ६६, -काय लुक्  
१, २ : १७.

त्रि-दुक्क<sup>०</sup>- -कम् लुक् १, २ :  
९, सत् ३७, ६६, -काय लुक्  
१, २ : १७.

त्रि-दुक्क<sup>०</sup>- -कम् लुक् १, २ :  
९, सत् ३७, ६६, -काय लुक्  
१, २ : १७.

त्रि-दुक्क<sup>०</sup>- -कम् लुक् १, २ :  
९, सत् ३७, ६६, -काय लुक्  
१, २ : १७.

त्रि-शोक<sup>०</sup>(क-श्री)गायव-  
भास- -सैः<sup>०</sup> सत् ३५, ३८.

त्रि-शवे(त>)ता<sup>०</sup>- -नया माथी  
१, ७, २, २३; माय १, १२,  
२४<sup>०</sup>; १५, १०<sup>०</sup>.

त्रि-शुक्<sup>०</sup>- -शुक्<sup>०</sup> आथी ५,  
१३, ६१.

त्रि-श्रेणि<sup>०</sup>- -णि वीथी ११, ३ :  
२३, २४; २२, १४ : ५.

त्रि-श्रेणि-गते- -गते वीथी  
६, २६ : १०.

त्रि-श्रे(त>)ता<sup>०</sup>- -तया<sup>०</sup> कौय  
१, १४, ७, वाय १६, १०; गोय  
२, ७, ८.

त्रि-श्रे( < सं ) युक्<sup>०</sup>- -तम् वाथी  
३, ३, १, २८; हिथी १३, ३, ४७<sup>०</sup>;  
-केयु काथी १९, २, ११; -कैः  
वीथी १२, ४ : २४; २६, ३ :  
४; हिथी १३, ३, ४३.

त्रि-श्रे( सं ) वत्स<sup>०</sup>- -तम् काथी  
२७, ५, १२; आपथी २३, १४,  
१०<sup>०</sup>.

त्रि-श्रे( सं ) वत्स<sup>०</sup>- -तम् काथी  
२७, ५, १२; आपथी २३, १४,  
१०<sup>०</sup>.

त्रि-श्रे( सं ) वत्स<sup>०</sup>- -तम् काथी  
२७, ५, १२; आपथी २३, १४,  
१०<sup>०</sup>.

त्रि-श्रे( सं ) वत्स<sup>०</sup>- -तम् काथी  
२७, ५, १२; आपथी २३, १४,  
१०<sup>०</sup>.

त्रि-श्रे( सं ) वत्स<sup>०</sup>- -तम् काथी  
२७, ५, १२; आपथी २३, १४,  
१०<sup>०</sup>.

त्रि-श्रे( सं ) वत्स<sup>०</sup>- -तम् काथी  
२७, ५, १२; आपथी २३, १४,  
१०<sup>०</sup>.

त्रि-श्रे( सं ) वत्स<sup>०</sup>- -तम् काथी  
२७, ५, १२; आपथी २३, १४,  
१०<sup>०</sup>.

त्रि-श्रे( सं ) वत्स<sup>०</sup>- -तम् काथी  
२७, ५, १२; आपथी २३, १४,  
१०<sup>०</sup>.

- a) विप. । तद्विधार्थे द्विष. । उप. = व्यायाम. । b) विप. । वस. । c) = मरुद्विषेय. । ऋः इति शक.  
+तु. वायु- । d) स्वप. । वस. । e) समाहारे द्विष. । f) वैप १ द. । g) वैप १, १५१८ d द. । h) उप.  
= हस्त. । i) विप., व्यप. (विश्वरूप.) । j) वैप २, ३२४. द. । k) पागे. वैप १, १५१८ h द. । l) = त्रि-शुक्. ।  
m) पागे. वैप १, १५०५० द. । n) ऋयः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. अ. ८, ४५). । o) = साम-विशेष. ।  
p) ऋमिना (सैः शैः) इति पाठः ? यनि. शोषः । q) विप. । तस. । r) औ इति वयं. ? । s) सप्र.  
त्रि-श्रे<> त्रि-श्रे<> त्रि-श्रे इति पाठे. । t) इदेदरा इति वसं. । u) पाठः ? त्रि-शुक्-> शुक् इति  
शोषः (तु. m टि.) । v) वस. । वा. क्वि. । w) = वतु-विशेष. । तद्विधार्थे द्विष. । x) सप्र. त्रि-श्रे<>  
त्रि-श्रे<> त्रि-श्रे इति पाठे. । y) विप. । समाहारे द्विष.> वस. । z) वैप १, १५१८ u द. ।

३, १ : १४; द्राष्ट ३, २, २७.  
 †त्रि-व्य. सौ०स्र. सौ०-सा० अप  
 ३२, १, १०; २३; २८; ३७, ८,  
 २; १७, १; ४६, ४, १<sup>१</sup>; ५, १;  
 अथ १, १; अर्प २ : १; शौच २,  
 १८; -साभिः आपथी १६, २०,  
 १०; हिथी ११, ६, ५७; -सैः  
 ऋषा ५, २७.

त्रिपत्नीव- -वः अथ ३३, १,  
 १९; -यम्<sup>१</sup> कौत् ७, ८; १३२९,  
 १०.

त्रि-व (<स)वण- -णम् काय  
 ४, १९; वीथ ३, २, ६३; ३, १६;  
 माथ १, २३, ८; १६; वाथ ७, ६;  
 अथ ४६, १, ४, वाथ ९, १; २४,  
 ५. शंथ ३९२; ४००; आपथ  
 १, २८, ११; २, १८, ५; वीथ २,  
 १, ६८, ४, ५, ४; विथ २८, ५०,  
 ४६, ३; ५०, २; हिथ १, ७, ४, ७,  
 २, ५, ५७, सुथ ४७, ६२, सुथप  
 ८६ : ११.

त्रिपवण-स्थान- -नम् सुथ  
 ३४.

त्रिपवण-आविर्- -वी शंथ  
 ३८७, विथ ४६, २४, ५४, १३,  
 ९४, १०.

त्रिपवणिन्- -नी सुथप  
 ८५ : ६.

त्रि-व (<स)वण- -ण शोथी  
 १६, २१, २.

त्रि-पति- -पिः सुथ १, ६ : ४;  
 १०; १६; वीथ १, ३३ : २; अथ  
 १२, १; शैसि १०; पासि ३,  
 आसि १, ४.

त्रि-या, सा०द्वि- -वः अथ  
 ३६, ३०, ३; -सम् आपथी १६,  
 १३, ११; वीथी २५, २८ : १; ८;  
 १३; वाथी २, २, २, २२; वैथी  
 १८, १२ : २; हिथी ११, ५, २३;  
 आपथ १०, ११; हिथ ३, ५१;  
 -सस्य वीथ ७ : २१; -खे  
 आपथ १०, १३; हिथ ३, ५३.

त्रिसाहस्री- -रि काथी १७,  
 ७, २३.

त्रि-पुम्- -पाथ ४, १, ८६;  
 -पुम्<sup>१</sup> आपथी ९, १४, ९; वीथी  
 १२, ७ : ३८<sup>१</sup>; २४, २० : ११;  
 वाथी ४, ४६ : ६; ८५ : ५;  
 ८९ : १९; १००<sup>३</sup> : १०; हिथी  
 १५, ४, १६; -पुमिः आपथी  
 ५, ६, ३; १६, ३, ४; वीथी; -पुम्  
 आथी ६, २, ६, शोथी; ऋष १,  
 ९, १; ३; १२, ६××; वृदे १,  
 १३०; सुथ ५, ६०; ६२; अथम्  
 २, नयू ४ : २२, या ७, १०,  
 १२४, ऋषा १६, १, ६४; ६५;  
 ६८, ६९××; पि ३, ५०; उनिम्  
 १ : २; २ : ३१, ६ : १७,  
 ७ : ३४-३६; -पुम्<sup>१</sup> सुथ ३,  
 १० : २८; निम् ५, ९ : ८;  
 -पुम् वाथी ३, ४, ४, १०<sup>१</sup>;  
 -पुमिः माथी १, ५, १,  
 २४××; वाथी; -पुमः शोथी  
 १०, १२, ९; काथी १७, १२,  
 ६<sup>१</sup>; † आपथी १४, १९, १<sup>१</sup>; २६,  
 २××, वीथी, निम् १, ४ : १६××;  
 ऋष ४, ४; वृदे ८, १०६; सुथ  
 ४, १३९; ५, ९××, या ७, १२, २;

४१, १५<sup>१</sup>; ऋषा १६, ६७; पि  
 ३, ६; उनिम् ८ : ८××; -पुमम्  
 आथी १, ४, ९××; शोथी; पाथ  
 २, ३, ८; माथ १, २, ३; २२,  
 १३<sup>१</sup>; वाथ ५, २६; उनिम् १ :  
 ५६; -पुमा आथी ३, १२,  
 २२××; आपथी; -पुमाम् उनिम्  
 ८ : २१; -पुमि निम् २, ११ :  
 १६; ५, ३ : ३३; ३७, ४ : ६; ७;  
 -पुमे वाथी १३, ५, ५<sup>१</sup>;  
 † काथी २, १, १८; २५, १४, १६<sup>१</sup>;  
 आपथी; -पुमी वीथी २, १९ :  
 ६; १४××; माथी.

त्रिपुम्- -पाथ १, ८६;

पाथ ५, ४, ३८<sup>१</sup>; -मः आथी  
 ४, १२, १; शोथी; सुथ ५,  
 ६४<sup>१</sup>; ऋषा १८, २९; -मम्  
 आथी ४, १३, ७××; वाथी;  
 अथ १, १<sup>१</sup>; १८<sup>१</sup>; ऋषा १८,  
 ६०; शौच ४, ८३<sup>१</sup>; शैसि  
 १४०, यासि १०५, उनिम् ४ :  
 ३०; ६ : २; -माः शोथी १४,  
 ११, ६; १६, ३०, २; उनिम्;  
 -मात् आथी ५, १४, ९; शोथी ९,  
 २०, १०; -मानि आथी ७, १३,  
 २; ८, ३; शोथी; -माप शोथी  
 ९, २७, १<sup>१</sup>; -मे शोथी ७,  
 २६, ६; १७, ९, ५; आपथी;  
 -मेन आथी ६, ५, २; वाथी;  
 -मैः पि ३, १७, -भौ अथ ४,  
 ३९××.

त्रिपुम्- -मी

निम् १, १ : २४; -मीः वैताथी  
 २९, ८; -मीम् ऋषा २, ९.

a) आपथी. हिथी. ऋषा. पाठः । b) वैप १ द. । c) पाथे. वैप १, १५१९ B द. ।  
 d) = विरवर्ध-गण- (ह दारितः । कौत् ७, ८) । e) = सूफ-विशेष- । f) समाहारे द्विम. g) विप. । वस. ।  
 h) वाथी. पाठः । i) पाथे. वैप १, १५१९ h द. । j) विप. (पाद- सूफ- प्रथ.) । k) ह. पागम. ।  
 l) वि- इति पाठः ? यनि. शोच. । m) पाठः ? त्रिपुम् इति शोचः ।

त्रि-प्रायः<sup>१</sup>- नम् प्राय २,  
१०, १४; द्वि २, ५, ४२.  
त्रि-भ्रष्ट<sup>२</sup>- क्षम् प्रायश्री  
२३, १३, १४.<sup>३</sup>  
त्रि-भ्रम्यास<sup>३</sup>- सः माश्री  
२, १, ३, १५.<sup>४</sup>  
त्रि-भागव<sup>४</sup>- नम् याशि  
१, १२.  
त्रि-दपयक<sup>५</sup>- नकः माश्री  
४, ३, ४५.  
त्रि-उपेन- तः निष् २,  
१२ : १०.  
त्रि-एडादा<sup>६</sup>- ०शाः  
आश्री ४, ४, १, १६, १, ३;  
बौश्री ३, २० : ३२; माश्री ४,  
४, ३, द्वि ११, १, ६.  
त्रि-नचन<sup>७</sup>- नरुष माश्री  
५, १, ३, १३.  
त्रि-शु(ऋ)>का<sup>८</sup>- कृया  
कोष् २९, १२.  
त्रि-इवे (त)>वा- तया  
शाण्ड १, २२, ८.<sup>९</sup>  
त्रि-नाव, वा<sup>९</sup>- वा ५, ४,  
८४, - व आश्री २०, १, १;  
बौश्री २६, १०. ७, आश्री २१,  
१०; बौश्री २१ : १३, द्वि ४,  
६, ६८; -वा वाश्री ३, ४, १,  
५३; द्वि १४, ६, १६.  
त्रि-मस<sup>१०</sup>- सः प्राय ९,  
५; बौश्री २, ६, ६  
त्रि-मनव->त्रि-सस-

कृत्वस (ः) शंघ १७९; वीघ  
१, ५, ४३; वाघ २७८ : ३.  
त्रि-मस-पुरुष- नैः अय  
११, २, ४.  
त्रि-मस-माजिन- नात्  
शंघ १६५.  
त्रि-स्नाना (न-अ)क्षार-  
मोजन- नम् अय ३८, ३, २.  
त्रि-संयुक्त- केन माश्री ५, २,  
७, १६.  
त्रि-सं, मां<sup>११</sup>ज्वर<sup>१</sup>- नम्  
श्रीश्री १३, २८, ४<sup>१</sup>; द्वि १८,  
४, ६५<sup>१</sup>; लाश्री १०, १०, १३.  
त्रि-संवासर- नम् वैव १, ३, ५.  
त्रि-सं(रुषा)>रुष<sup>१२</sup>- रुषो श्रीश्री  
१४, ४२, १७.  
त्रि-सद्म- न्ने कप्र ११, १८.  
त्रि-मसा- तायाम् कौत् १४१,  
३७.  
त्रि-म (ग्या)>न्य- न्यम्  
कोण्ड ३, ९, ४; शाण्ड ४, ४,  
पाण्ड.  
त्रि-ससवि- ति काशु ७, २८;  
३६.  
त्रि-ससवृ<sup>१३</sup>- स माशि ९४.  
त्रि-ससक<sup>१</sup>- कम् बौघ ४,  
५, १६.  
त्रि-ससाह- न्दार् विघ १४, ४.  
त्रि-ससघ- सम् वाश्री ३, ४,  
३, ४५.  
त्रि-सस-शुक्त- नम् कप्र

३, ४५.  
त्रि-सांवासरिक<sup>१४</sup>- नम् वृदे ५,  
१७.  
त्रि-सागरा(र-अन्त)>न्ता-  
न्ता अय २४, ५, २.  
त्रि-सुपर्ण<sup>१५</sup>- नम् वाघ २८.  
१४; शंघ १०५; विघ ५६, २३.  
त्रि-सुपर्ण<sup>१६</sup>- न्नीः वाघ ३,  
१९; आश्री २, १७, २२; बौघ  
२, ८, २; विघ ८३, १६; द्वि  
२, ५, ५०; बौघ १५, २८.  
त्रि-सुपर्णि- न्नी अय ४४,  
२, ४; शंघ १९९.  
त्रि-सुपर्ण<sup>१७</sup>- न्नीः शंघ २००.  
त्रि-सूक्त<sup>१८</sup>- नः कप्र ३, १५.  
त्रि-स्तन<sup>१९</sup>- नम् वाश्री ८, ३,  
१; आश्री; -नामि आश्री  
१६, ३५, १०; वैश्री.  
त्रि-स्तन-द्विस्तन- न्ने माश्री  
२, १, ४५.  
त्रि-स्तन-द्विस्तनै (न-ए)-  
कस्तन-प्रत- तरुष बौश्री १८,  
३२ : १३; २६, ३२ : २३.  
त्रि-स्तन-मत्- नम् बौश्री  
६, १० : १०; २१ : २१; २४;  
२७, १०, १६ : १३; २३ : ४; ५.  
त्रि-स्थान->त्वा(न-अ)वि-  
ष्टि(त)>वा- ताम् वृदे ८, ६१-  
त्रि-स्थान, ना<sup>२०</sup>- नः शुघ २,  
३११; या ९, २५; -नम् वृदे  
१, ६५; वैशि ३५२; -नाम्

- a) विघ. । वन. । b) समाहारे द्वि. । c) सत्र. तां २५, १३, ४ विष्णुसूत्र इति पाठे. । d) उप.  
= कालु-निरिमाण । e) वैप १ द. । f) पामि वृ १२०९ अटि. द. । g) विघ (वेदि, अग्नि-).  
h) शौश्री. वाठः । i) विघ. । तद्विनायै द्वि. । निर्वृतेऽर्थे अण् प्र. उप. वृदिर्विभाषया उक्तं. (पा ७, ३, १५) ।  
j) पामि. वृ १२०९ x टि. द. । k) प्रमथ्या ( तै ६. १. ८, १ ) इति प्रकृत्ये वयः सस-शब्दा इति भावः ।  
l) विघ. । तेनानिर्वृतीयः कर् प्र. उरु. (पा ५, १, १०) । m) = त्रि-संवासर- । उप. टण् प्र. (पा ५, १, ७५)  
इति विशेषः । n) वैप २, ३६. द. । o) नाप. (स १०, ११४, ३-५ इति सुपर्णस्योपेतमन्त्रप्रपाश्यायि- ) ।  
आप्यनाश्यायिष्य प्र. लुट् । p) तदपि तद्वैशेष्ये अण् प्र. उप. इदिय ।



१.६,१४, जैष्ठ २,३ : ११; -ले  
बौधो ९, ३ : १८xx; वैधो;  
-लेन वैधो १०,७ : १२; द्विधो  
४,२,३८xx.

व्यहृल-खा(त>)वा-वाम्  
काधो २,६,१.

व्य(त्रि-य)हृलि<->लि-नि-  
(त्र>)या-न्ना वैधो ११,८ :  
४.

व्य(त्रि-य)हृल<->हम् कप्र १,  
७,९.

व्य(त्रि-य)धिक,का<->का ऋष  
२,१,९१xx; कप्र १८, ३, अं  
छ : ३४; वेज्यो डेः; -कान्  
अं छ : ४०; -केपु बौध १,२,  
९.

व्य(त्रि-य)नीक,का<->का  
काधो २१, १४, ४; २२, ९६;  
-का द्विधो १६,२,१०;७,२२०,  
-कान् बौधो २६, १६ : १८,  
-काम् काधो २१, १४, १; २०,  
७, द्विधो १६,७,१६; -कायाम्  
मीम् १०,५,७७.

व्यनीका-प्रवृत्ति->तिः मीम्  
१०, ५, ८३.

व्य(त्रि-य)नुतोद<->-दम्  
तिम् ३,१२ : ११; १६.

व्य(त्रि-य)नुताका(व-य)न्-  
-न्ने बाधो १८,१,२.

व्य(त्रि-य)नुपुत्र-मन्-  
-मम ऋष २,१,३२.

व्य(त्रि-य)नुपुत्र-ग(र्षी>)  
र्षां- -र्षां कप्र १०,९.

व्य(त्रि-य)नृयाज<->-जम्  
कापधो ८,२०,७.

व्य(त्रि-य)न्तर<->-रः द्राधो ३,  
४, ८; -रम् नाधि १, १, ३;

-रेण साधो १,११,२७.

व्य(त्रि-य)पक्रम->-मम् वैधो  
१,५ : २.

व्य(त्रि-य)वद->-व्दाय कप्र १,  
६,८.

व्य(त्रि-य)भिकम->-मे ऋष  
११,२६.

व्य(त्रि-य)मिप्लव->-वम् बाधो  
२४,२,२७.

व्य(त्रि-य)म्बक<->-कः या  
१४,३२, -कम् काधो ५,१०,

१३क; कापधो ८,१८,३क; ३क;  
२क; माधो ८, २१,९क,१०क;

बाधो १, ७,४, ७१क, वैधो ९,  
११-७क, द्विधो ५, ५, १५क,

१८क; द्राधो १३,२, ९३,३,३क,  
लाधो ५,३,५; ७क; वैताधो ९,

१९क, काय २५ ३७क, माय  
२,३,५, वैय ३,१७ : ५क; ४, ९ :

५क, दरे ६,३९, शुष १,२२क,  
या १४,३२क; उच्च ८, ३५क,

दोशि ३२९क, -करय कप्र ३१,  
२,३; ५२,१५,५; -कान् बाधो

१४,१०,२१क; -कान् काधो  
२,१९, ३७, बाधो ३,१७,१०;

बौधो १४, ८ : ६; बाधो १, ७,  
४, १३; १५, तैया ६, १४क;

-बाय बौध २६,१२; -कै बाधो

१,७,४,५१४.

१त्रैयम्बक<->-कम्

वैताधो ९, १८; -काः बौधो  
२५,३ : १५; द्विधो १४,३,१८;

द्राधो १३,२, १०; लाधो ५,३,  
१; -काणाम् बौधो ५, १६ :

१०; १८; २१, ५; १९; २७;  
२४,३ : १८क; -कान् काधो

५, १०,१; कापधो २०, १४,  
१३क; बौधो ५,१६ : २क; वैधो

९, १० : ९; द्विधो ५, ५, १;  
-कैः कापधो २२, ८, २०;

काधो २९ : १०; बौधो १५,  
११ : ४क; १७,५७ : २५,६२ :

१०.

व्यम्बक-वत् काधो १५,२,३.

व्य(त्रि-य)रवि<->-विः बाधो  
६,१,२४; कापधो ७, २, १७;

बौधो २४,३५:७, माधो ७,२,  
७; द्विधो ४, १, २९; -विम्

काधो २,६,१; द्विधो ४,१,४०;  
-वो वैधो १०, २ : ६; कौत्

४५,१.

व्यवि-विस्तार->-रम्  
कापधो ११,८,१; वैधो १४,६ :

१२.

व्य(त्रि-य)रण<->-णः वृदे ५,  
१४;३१; -णाय बौध ३, ९, ५;

माय ३, १० : ७; द्विध २,  
१९,६.

व्यरण-प्रमदस्यु->-स्यु ऋष  
२,५, २७; ९, ११०; शुष ३,  
१०; लाष १,४३२; २,८५६.

a) पाठ, गमामान्तरय प्र. अभावः । b) विर. । तदित्यापि द्विम. । c) विर. । वय, वा तुम्, वा ।  
d) वाप(श्रद्धादि महादहर्माविशेष-) गमामान्तर द्विम. । e) मय. वा <> ऋकाः इति पाठे. । f) कापधो इति  
कोषे. । g) विर. । वय. । h) उच्य. = अन्त्यान् (पु. वा [नो ८,९,११]). । i) परस्परं पाठे. । j) वया. । वैय १  
४. । k) पाठे वैय १, १५२२ j द. । l) = [व्यम्बकनिमित्तक] कर्म-विशेष. । m) वैय १, १५२२ k द. ।  
n) = [व्यम्बकविशेष] पञ्च- पुगोदाह- च्या- होन- प्रयु. । तिष्ठ वैय १ द. । o) वैय १ द. ।

श्व(त्रि-अ)वदात- तात् जैय २,  
१:४.

श्व(त्रि-अ)वम<sup>०</sup>- मान् बीधौ  
६,३४:५.

श्व(त्रि-अ)वर,रा<sup>०</sup>- रम् गौष  
२२,७०; -रा: वैधौ ३, ३:५;  
द्राय ४, ३, ५; -रात् वैधौ ३,  
३:४; १५, ६:३; आपय  
२१,२; वैय ४,३:४; वीष २,  
८,६.

श्व(त्रि-अ)वराधे,धा<sup>०</sup>- धम्  
बीधौ १, १७; -धा: हिथौ ८,  
१,६०; -धन् वैधौ १०, १:  
१२; शाय ४, १, २.

श्व(त्रि-अ)वराध्या<sup>०</sup>- ध्वः  
बीधौ २८,३:९; -ध्वम् आपधौ  
३,१६,९; हिथौ २, ६,५०; ५,  
६,१३; आपय २१, १; -ध्याः  
लाधौ १,११, २४०; गोय ४,८,  
१७; बीष ६७, ३; -ध्यान्  
हिथौ ४, १, १३; बीधौ ३,  
१४,२.

श्व(त्रि-अ)वसा(न>)ना<sup>०</sup>-  
ना शुभ १, २०९××; अश्व;  
-ना: शुभ १, १८७; २, ४८;  
अश्व १०,५××; -नाम् शुभ १,  
५४१; -ने शुभ २, २३१; २,  
४०२; अश्व ११, १; १२, १;  
१३,३; १२,३९.

श्व(त्रि-अ)वि<sup>०</sup>- रय: वाधौ  
३,४,३,१८; -वि: आपधौ १७,  
१,८; बीधौ १०, ३५:१७;  
३८:१७; १४, २२:१७;

माधौ ६,२,५,२६६; वैधौ १२,  
२:११; हिथौ १२,१,६.

श्ववी- वी माधौ ६, २,  
५,२६.

श्व(त्रि-अ)शोति- ति: अंधं ४:  
११.

श्व(त्रि-अ)ध- धम् आपय  
२०,१५.

श्व(त्रि-अ)धि<sup>०</sup>- धि हिथु ६,  
५५; -धि: हिथौ १२,८,१५.

श्व(त्रि-अ)ध(का>)क<sup>०</sup>- क:  
गोय ३,१०,५.

श्व(त्रि-अ)ध-सूक- क: कः  
३,२९.

श्व(त्रि-अ)धिका-योय<sup>०</sup>- नोन  
वैय ५,२:१५.

श्व(त्रि-अ)सि<sup>०</sup>- सि<sup>०</sup> कायु  
६,७.

श्व(त्रि-अ)ध<sup>०</sup>- ध: आधौ ९,  
२,१३; ११,३,८; शोधौ; -धम्  
वाधौ २, ३, १४; आपधौ;  
-धम्-धम् आपधौ २१, ४,  
१४; काय ६, ४; वीष ४,५,६;  
८:१०; -हयो निस् ५,२:१;

-हय राधौ १०,५,७××; निस्  
७,३:१३××; -हा: आधौ ९,१,  
८:१०,३,१४; काधौ; -हापाम्  
आधौ ९, १, ५; धुम् ३, १३:  
२; -हाणि आ ७०, २, १;

-हाए आधौ ८, ७, १५; ९,  
१,९; शोधौ; -हात् आपध १,  
२६, १७; वीष २, १, ४८; ४,  
५, ९; हिथ १, ७, ७४; -हे

आधौ ८,८,१; ९, १, ९; ११,  
३,८; शोधौ; -हेण बीधौ १८,  
२३:१२; वाय २, २७; -हौ

निस् ८,१२:२,९.

श्वह-कलुत्- से आधौ ८,  
७,१५.

श्वह-तन्त्र- न्ने निस् ५,  
११:१७.

श्वह-तृतीय- मानि काधौ  
२४,७,१३.

श्वह-द्वितीय- मानि काधौ  
२४,७,१३.

श्वह-प्रथम- मानि काधौ  
२४,७,१२.

श्वह-भारा- गाल् निस् ३,  
६:३५.

श्वह-वत् वैताधौ ३३,४.

श्वह-वत्- वत् आसिण १,  
१,४:२९; हिथ १,८,१.

श्वह-वास(:) लुध ३,१३:  
५; ७, निस् ३,६:४१.

श्वहा(ह-अ)भ्यन्तर- रे  
वैय ६,१५:८.

श्वहा(ह-अ)भ्यस्त- रत्तम्  
बंध ४४५; -रतै: विष ४६,  
२१.

श्वहा(ह-अ)धे- धे आधौ  
११,१,११; शोधौ १३,१५,९;

काधौ २४,१,९; निस् ९,१०:८.

श्वहो(ह-अ)पक्रम- मान्  
निस् ४,१३:२४.

श्वहो(ह-अ)पजन्त<sup>०</sup>- न:  
आधौ ११,२,१३; -नम् आधौ

a) विष. 1 बय. 1 b) वैष १ द. 1 c) कचित् वा. किवि. 1 d) पाठे. पृ १२११ f द. 1

e) सपा. आधौ ३,४,१ चतुरव<sup>०</sup> इति पाठे. 1 f) पाठे. वैष १. १५१५ w द. 1 g) पाठे. वैष १,  
१५१५ x द. 1 h) पाठे. वैष १,१५१६ d द. 1 i) सपा. अम् <> अत्र <> अत्र इति पाठे. 1

j) कत. >पय. पूव. इक्षारलोपः 1 k) वि-अधि<sup>०</sup> इति सूत्रे. C. च 1 l) अत्रिः इति पाठः ? यनि. शोधः 1  
m) वैष १,१०३६ k द. 1 n) अहःसाः इति पाठः ? यनि. शोधः 1

११, २, १३.  
 इव(त्रि-ञ)इन्- -हानि हिथी  
 १७, ६, २१.  
 इवहीन- -नः लाथी ८, ४,  
 ११  
 इवः(त्रि-ञ)युव- -पः ५, ४,  
 ७७; -पम् काथी ५, २, १६;  
 वीथी.  
 इवः(त्रि-ञ)यैव- -यः आपथी  
 २४, ६, २५; वीथी, वैष ४, ८,  
 ४०; -यम् आपथी २४, ५,  
 १३, ५, हिथी; -वाणाम् वीथीप्र  
 ३१ : २.  
 इवार्थेऽर्थनिपात- -ते वीथीप्र  
 २ : २.  
 इवः(त्रि-ञ)तिवित्त(त)ता-  
 ता वाथी १६, ४, ६, आपथी,  
 -ताम् काथी १६, ३, २१, ४, २४,  
 आपथी.  
 इवः(त्रि-ञ)वृत्- -> वृत्-  
 पुरोडाश-सकल- -लानि वैथी  
 १८ : १६.  
 इवः(त्रि-ञ)वृत्- -लतः वीथी  
 २६, १६ : ९.  
 इवः(त्रि-ञ)ध्रम्-> ध्रम्-  
 -ध्रम् वैष १, ९, ८.  
 इवः(त्रि-ञ)त्तर- -राः निवृ १, ९ :  
 २५-२७.  
 इवृत्तरी-  
 भाव- -वेन लाथी ६, ५, १७.  
 इवः(त्रि-ञ)द्व- -यः वीथी २६,

१६ : ९.  
 इवः(त्रि-ञ)द्वि- -द्विः वीथी  
 १०, ५ : १६; -द्विम् आपथी  
 १५, २, १४; १६, ४, ७; वीथी  
 १०, ५ : १५; भाथी ११, २, २३;  
 माथी ६, १, २, ६; वाथी २, १,  
 १, ३६; वैथी १८, १ : ७०,  
 हिथी ११, १, ५१; २४, १, १५;  
 -द्वीन् वैथी १३, ३ : १२; -द्वी  
 आपथी ५, २२, ६; माथी १, ५,  
 ६, ५; ४, १, १७; वाथी १, ४, ४,  
 २८, हिथी ३, ५, १७.  
 इवः(त्रि-ञ)घत्- -तम् वाथी  
 ४, १० : १५; -ते वाथी ४,  
 १० : १४.  
 इवः(त्रि-ञ)परिष्ठाद्ब्रह्म(ती-  
 ञ्)दि- -दपः ऋथ २, ७, ५५.  
 इवः(त्रि-ञ)पम्प- -त्कः काथी  
 ९, २, ३७; लाथी ८, ५, १९;  
 -त्कम् वीथी २५, २७ : १; २;  
 १३, २८ : १, -त्के काथी १७,  
 ७, ६; आपथी १५, १२, ५, भाथी  
 ११, १२, ५, हिथी २४, ५, ६.  
 इवः(त्रि-ञ)णिप्- -अनुपुष-  
 अन्त- -न्तम् ऋथ २, ६, ५१.  
 इवः(त्रि-ञ)णिग्- -आदि- -दि  
 ऋथ २, ५, ४०; ७८.  
 इवः(त्रि-ञ)न, वा- -नम् ऋथ ३,  
 ४०; चथु १ : १२; -ना ऋथ  
 २, २, २७, ३, ३२; ५, ४३, ५२; ६,  
 ५२, १०, ६३.

इवः(त्रि-ञ)च- -चम् शुष १,  
 १५१; १५४, १५५; २१९; -चेन  
 वाथी १, ६, ६, १३; भाप २,  
 २८ : १४.  
 इवः(त्रि-ञ)मु- -मुः या ४, २७.  
 इवः(त्रि-ञ)क्- -क्वेण आपथी ९,  
 ५, १३.  
 इवः(त्रि-एत)गी- -ग्या  
 काथी ५, २, १५६; आपथी ८, ४,  
 १; आप १, १४, ४; पाप १, १५,  
 ४, २, १, १०.

इत्रि-क- -त्रि-द्र.

इत्रि-क- (> त्रिक्कि- पा.) पाप  
 ४, २, ८०.

इत्रि-कुदु- -प्रघ. त्रि-द्र.

इत्रि-हृस् पाथा. भ्वा. पर. गती.

इत्रि-चक- -प्रघ. त्रि-द्र.

इत्रि-वृत्तुदुसुखान्<sup>१</sup> वाथी ३, ३,  
 २, ३९.

इत्रि-दक्षिण- -प्रघ. त्रि-द्र.

इत्रि-दशानुपरिक्षिणः<sup>२</sup> वाथी ३, ४,  
 १, ३१.

इत्रि-दिव- -प्रघ. त्रि-द्र.

इत्रि-पाण- -णम् काथी १५, ५, ९.

इत्रि-पाद्- -प्रघ. त्रि-द्र.

इत्रि-जगद्- -रूप १, ६, १०.

इत्रि-रूप- -प्रघ. त्रि-द्र.

इत्रि-पतम्<sup>३</sup> वाथी ३, ३, ५, ४७.

इत्रि-व्यत्य- -प्रघ. त्रि-द्र.

इत्रि-पि अय ४८, २१.

इत्रि-पुम्- -प्रघ. त्रि-द्र.

a) ऋथ. उप. समासान्ताभावः ।

b) तद्धिताये द्विम. । निरुद्धेऽर्थे ख>ईनः प्र. (पा ५, १, ८७) ।

c) वैष १ द्र. । d) विप । वस. । e) उपरेण समस्त इव पाठः शोषः (तु. उत्तरं स्थलम्) । f) रथाये व्यम्

प्र. वृद्धभावश्च । g) = एवाह- [पाण-] । h) = वेणी- । वैष २, ३ खं द्र. । i) वै इति चौर्म. । j) पाठः ?

क्रीन् हृत्त्वं अमृदुमुखात् इति त्रिपदः शोषः संभाव्यते (तु. अंशतः सप्र. आपथी १८, १४, ११; सा. [ते. वृ १२२०] च) ।

k) पाठः ? त्रिगतान् उपरिक्षिणः इति शोषः (तु. सप्र. आपथी २०, ५, १०-१७) । l) विप. । व्यु. ? उष. उप.

<√पा [पाणे] इति षकं निपाथरी, वाक्वि. <त्रि-वर्णा- इति अत्रि. । m) पाठः ? त्रिः इति संस्कृतः टि., सप्र.

काथी १३, ३, १५ त्रिः समन्तम् इति पाठः ।

√बुद्<sup>१</sup> पाधा. तुदा. पर., चुरा. आत्म. छन्दे.

बुटि<sup>२</sup> - वि: शाज्यो १, ४; -शीनाम् शाज्यो १, ५.

√बुप्, म्प्, बुफ्, म्फ् पाधा. भ्वा. पर. हितानाम्.

ब्रेता- प्रवृ. वि-द्र.

√ब्र<sup>३</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. वाध; पालने, वायते वीए ३, २, ६३; श्रावन्ते विध २०, ४५; प्रायसे आपमे २, १७, ३; आए २, १, १०; माए २, १६, ३; श्रावध्वे ऋथ २, ७, ५९; प्रायताम् आपधो १०, ८, ९; १६, १९, १; वैधो १८, १६: १०<sup>१०</sup>; द्विधो; प्रायताम् वृदे ८, ५०; अम ८, ७, प्रायस्व आपधो ६, ११, ३x४; वीधो; कौम् ४७, १६<sup>१०</sup>; प्रायताम् आपधो ७, १४, ११; वीधो.

श्राति वाध ३०, ६; श्रादि अए ७, १, २; प्रायम् कदा १८, २१; पावा ६, १, ४५.

श्राण-णम् आपमे २, १७, ३, आपध २, २७, ११; द्विध २, ५, २३; या ५, २५.

श्राण-पा ८, २, ५६.

श्रात-पा ८, २, ५६; -पतः आपधो ४, १०, १; वाधो १, १, ३, ६<sup>१</sup>; द्विधो ६, ४, ४२.

श्रातम् अए ७, १, ४; विध १०, ११; ११, १२; १२, ८; १३, ७.

प्रात-तः अत्रा १, १०१; ४, ५२; -वा आधो २, १०, ३; श्राधो; -तारः वाध १७, २५; -तारम् आधो २, १०, ४; ६, ९, ५; वीधो; -तुः आपधो ४, १०, १; वाधो १, १, ३, ६; द्विधो ६, ४, ४२; -ऽध्वे आपधो ३, १५, ७; वीधो १३, १२: ६.

श्रायक-कः वैध ३, १५, १३. श्रायमाण, ण<sup>१</sup>-पणः श्राधो ६, १०, १०; १५, ८, १९; अए ४, ४, १; -णम् अए ४, १, ८; -णव्य-वाध ३०: ७; -णा वीधो १७, ४१: ७; आपमे २, ७, २५; पाए १, १३, १; वैध ६३: ५; श्राधि १, ३, ४: १; माए २, २१: ३; द्विध १, १०, ६, ११, ३; -णव्ये अए ३२, १, १८; अम ६, १०७, अए २: ५७; -णे अए ४, ५, ८.

श्राध-पाठ ४, १०३.

श्रा-प्रवृ., श्रा-वि-द्र.

श्रात-तम् वीधो २४, ३९: १; -तानाम् आपधो २०, २३, १; माधो ५, २, १०, ६; द्विधो १४, ५, ११.

श्रातम्-नः वृदे ४, २२.

श्रातली-प्रवृ., श्रायम्बक-वि-द्र.

श्रायम्बक-कम् अए ३, ९, १८.

श्रायम्बक-प्रमाण<sup>१</sup>-णाम् गीए ३, १०, १२.

श्रायम्बक-व्यहव-द्र.

श्रायहायक-व्याहाव-द्र. श्रायत्रिक-प्रवृ. वि-द्र. श्राटि-पाठो २, १, १६३.

श्राव-√धे द्र.

श्राविक पाधा. भ्वा. आत्म. गती.

श्राव-प्रवृ. वि-द्र.

श्राव<sup>१</sup>-(>श्रव [श्रावण-> अणभक-पा.) पाठ ४, २, ५४.

श्राव्यु(क)>का<sup>१</sup>-का वैध १, ३, २.

श्रावलि-प्रवृ. वि-द्र.

श्रावहव<sup>१</sup>-(>श्रावहवक-पा.) पाठ ४, २, १२७.

श्रावण->अण-भक-व्यह-द्रि-द्र.

श्राव्युध-प्रवृ. वि-द्र.

श्राहाव->श्राहावक-व्यहव-द्रि-द्र.

श्रात्तर-प्रवृ. वि-द्र.

श्राव->अण-शब्द-न्दे उनिम् २: १३.

श्राव-तद्-द्र.

श्राव-शुप्-द्र.

√त्वच्<sup>१</sup> पाधा. भ्वा. पर. तत्-करणे.

त्वक्षस्-अः अए ४८, १०३; निघ २, ९.

त्वष्टि<sup>१</sup>->प<sup>१</sup>त्व(ष्टि)>ए-म(व)>पि<sup>१</sup>-सी<sup>१</sup> आपधो १०, २३, ७; १५, ८, १७; वीधो ६, १३: १२; ९, ८: २३; माधो ११, ८, २३; वैधो १२, १७: ६; १३, १०: २१; द्विधो २४, ३, ७.

त्वष्टि<sup>१</sup>-पाठ २, १५; पावा ३, २, २.

त्वष्टि<sup>१</sup>-पाठ २, १५; पावा ३, २, २.

a) पा ३, १, ७० पराम्बु: द्र. 1 b) = काल-विशेष, परिमाण-विशेष-1 द्यु. १: 1 c) पा १, ४, २५ पराम्बु: द्र. 1 d) ताव<sup>१</sup> इति पाठः? यनि. शोयः। e) अणव्य इति पाठः? यनि. शोयः। f) श्राता इति पाठः? यनि. शोयः (तु. आधो.)। g) वैध १ निदिष्टयोः समादेशः द्र. 1 h) वैध १ परि. द्र. 1 i) धे<sup>१</sup> इति पाठः? यनि. शोयः। तु. सध. तै २, १, ३, ६। j) वैध १ द्र. 1 k) = करल-। l) विप. 1 वस. 1 m) तु. पागम. 1 n) तु. भाएडा. प्रवृ. 1 o) श्रावण-इति पाका. 1 p) = मञ्जिषा-विशेष-1 द्यु. १: 1 q) तु. पाति. 1 श्राहाव-इति भाएडा. प्रवृ. 1 r) वृदे ३, १६ या ८, १३ पराम्बु: द्र. 1 s) पाधे. वैध १, १५२६ ० द्र. 1

१३५; -००ः आधौ ३, ८, १;  
 बाधौ; -घा आधौ २, ११, २;  
 ३१; ४१xx; बाधौ, या ६,  
 १४१; २११, ८, १४१<sup>क</sup>; १०,  
 ३३, ३४१, १२, १११; -घारम्  
 आधौ १, १०, ४xx; बाधौ;  
 या ८, १४१; -०ः आधौ  
 १६, २७, ११; बाधौ; या ४,  
 २५, ८, १५; -व्त्वा बाधौ ८, १४;  
 २४१, २५, २३: १३; बाधौ;  
 या १०, २७; अथा ३, २, २६१,  
 -व्त्वे शाधौ १५, १४, ४, आपधौ.

त्वाट्- -व्त्वा: बाधौ ५,  
 १२, ३; ८, १, १; बाधौ; -व्त्वा  
 शाधौ १३, ४, १; १४, ५०, १;  
 बाधौ; -व्त्वा बाधौ २३, १४;  
 १०, १४; १७; अथा ६, ४,  
 -व्त्वा: आपधौ २०, २२, १३,  
 द्विधौ १४, ५, १; साध १, ७१;  
 -व्त्वा बाधौ १५, ३७: ८,  
 -व्त्वे आप ३१, ५, २; विप ७८,  
 १९, -व्त्वेण आधौ ६, १४, १०;  
 बाधौ ९, २७, ४, बाधौ २८,  
 ६: १७, कौत् ३६, २५१; -व्त्वा  
 आपधौ २०, १३, १२; बाधौ  
 १५, २३: ६, २६: ७; द्विधौ  
 १४, ३, १४.

त्वाट्- -व्त्वा अथा  
 १६, १; ऋध; या १२, १०;  
 -व्त्वा: आपधौ ९, १९, १७,  
 बाधौ १४, २८: ५; -व्त्वा  
 अथा १७, ५; वृदे ७, ३, -व्त्वा  
 अथा १८, ६; १९, ७; -व्त्वा  
 अथा २, २, ३२; वृदे ४, ८६

त्वाट्-साम्-  
 -म लाधौ ७, ३, १५; ८, ५;  
 लुत् ३, २: १६, १७; ५: १३;  
 १२: १०; ११; निम् ५, २:  
 १; -म्न: लाधौ ७, ४, १३;  
 -म्नि लाधौ ७, ८, ११.

त्वाट्-साम्-  
 (म-घा)गायस्- -स्वे लाधौ ७,  
 ४, ११<sup>०</sup>.

त्वाट्-वृत्- बाधौ १४,

२८: ६.  
 त्वट्-वृत्(त>)ना- ना अथ  
 १, ४, ३.

त्वट्-वृत्- -व्य: पाठ ३,  
 १५, ५.

त्वाट्-वृत्- -मन्त<sup>०</sup> बाधौ  
 २६, ४, १५; आपधौ १०, २३,  
 ८१<sup>०</sup>, दुध ४, ८५.

त्वट्-वृत्- -व्यो: बाधौ  
 ८, ९, ५.

त्वट्- > -व्त्वा-मन्त<sup>०</sup> -मन्त<sup>०</sup>  
 १माधौ २, १, ३, ४७; ४, २, ३७.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: वेष्ट २, १०: १३.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: शाधौ ७, १८, ३१.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: बाधौ ३, ७, ७०.

√त्वङ्ग् पाथा. अ. पर. गदौ  
 वगने च.

√त्वच् पाथा. तुदा. पर. संवरणे

त्वच्- पाठ २, ६३; त्वच् शाधौ ६,  
 १, ६; बाधौ, त्वच्: शाधौ १३,  
 ३, ५; १६, १५, १०; बाधौ, द्विध  
 १, २४, ४<sup>०</sup>, त्वच् शाधौ ५, १७,  
 ४१, आपधौ; या १४, ३४<sup>०</sup>;  
 त्वच् १माधौ १०, १४, १; १६,

१९, १; बाधौ; त्वच् शाधौ  
 ६, २, २३; त्वच् आपधौ ८, १९,  
 ११; बाधौ.

त्वच्-केन-नल-कीटा (ट-भा) लु-  
 पुरीप- -यागि वीध २, ७, ५.

त्वच्-टि (<दि)शने (अ-उ) ददा  
 (र-आ)रामक<sup>०</sup> - आत् आरय<sup>०</sup>  
 २, ५, १९<sup>१</sup>.

त्वच्-उम्( ) द्राधौ ५, २, ३;  
 लाधौ २, ६, १; निम् १, ११: ६-  
 त्वक्-आमेचन<sup>०</sup> -नानि बाधौ  
 २०, १६: ६, ८.

त्वक्-वि(ल>)दा<sup>०</sup> -ला:  
 आपधौ १, १५, १२; काठधौ ७;  
 द्विधौ १, ४, ३२, काण्ट ४६: ५-

त्वाट्-वृत्- -व्यो: शाधौ  
 १०, १४; १७; अथा ६, ४,  
 -व्त्वा: आपधौ २०, २२, १३,  
 द्विधौ १४, ५, १; साध १, ७१;  
 -व्त्वा बाधौ १५, ३७: ८,  
 -व्त्वे आप ३१, ५, २; विप ७८,  
 १९, -व्त्वेण आधौ ६, १४, १०;  
 बाधौ ९, २७, ४, बाधौ २८,  
 ६: १७, कौत् ३६, २५१; -व्त्वा  
 आपधौ २०, १३, १२; बाधौ  
 १५, २३: ६, २६: ७; द्विधौ  
 १४, ३, १४.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: शाधौ  
 १०, १४; १७; अथा ६, ४,  
 -व्त्वा: आपधौ २०, २२, १३,  
 द्विधौ १४, ५, १; साध १, ७१;  
 -व्त्वा बाधौ १५, ३७: ८,  
 -व्त्वे आप ३१, ५, २; विप ७८,  
 १९, -व्त्वेण आधौ ६, १४, १०;  
 बाधौ ९, २७, ४, बाधौ २८,  
 ६: १७, कौत् ३६, २५१; -व्त्वा  
 आपधौ २०, १३, १२; बाधौ  
 १५, २३: ६, २६: ७; द्विधौ  
 १४, ३, १४.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: शाधौ  
 १०, १४; १७; अथा ६, ४,  
 -व्त्वा: आपधौ २०, २२, १३,  
 द्विधौ १४, ५, १; साध १, ७१;  
 -व्त्वा बाधौ १५, ३७: ८,  
 -व्त्वे आप ३१, ५, २; विप ७८,  
 १९, -व्त्वेण आधौ ६, १४, १०;  
 बाधौ ९, २७, ४, बाधौ २८,  
 ६: १७, कौत् ३६, २५१; -व्त्वा  
 आपधौ २०, १३, १२; बाधौ  
 १५, २३: ६, २६: ७; द्विधौ  
 १४, ३, १४.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: शाधौ  
 १०, १४; १७; अथा ६, ४,  
 -व्त्वा: आपधौ २०, २२, १३,  
 द्विधौ १४, ५, १; साध १, ७१;  
 -व्त्वा बाधौ १५, ३७: ८,  
 -व्त्वे आप ३१, ५, २; विप ७८,  
 १९, -व्त्वेण आधौ ६, १४, १०;  
 बाधौ ९, २७, ४, बाधौ २८,  
 ६: १७, कौत् ३६, २५१; -व्त्वा  
 आपधौ २०, १३, १२; बाधौ  
 १५, २३: ६, २६: ७; द्विधौ  
 १४, ३, १४.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: शाधौ  
 १०, १४; १७; अथा ६, ४,  
 -व्त्वा: आपधौ २०, २२, १३,  
 द्विधौ १४, ५, १; साध १, ७१;  
 -व्त्वा बाधौ १५, ३७: ८,  
 -व्त्वे आप ३१, ५, २; विप ७८,  
 १९, -व्त्वेण आधौ ६, १४, १०;  
 बाधौ ९, २७, ४, बाधौ २८,  
 ६: १७, कौत् ३६, २५१; -व्त्वा  
 आपधौ २०, १३, १२; बाधौ  
 १५, २३: ६, २६: ७; द्विधौ  
 १४, ३, १४.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: शाधौ  
 १०, १४; १७; अथा ६, ४,  
 -व्त्वा: आपधौ २०, २२, १३,  
 द्विधौ १४, ५, १; साध १, ७१;  
 -व्त्वा बाधौ १५, ३७: ८,  
 -व्त्वे आप ३१, ५, २; विप ७८,  
 १९, -व्त्वेण आधौ ६, १४, १०;  
 बाधौ ९, २७, ४, बाधौ २८,  
 ६: १७, कौत् ३६, २५१; -व्त्वा  
 आपधौ २०, १३, १२; बाधौ  
 १५, २३: ६, २६: ७; द्विधौ  
 १४, ३, १४.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: शाधौ  
 १०, १४; १७; अथा ६, ४,  
 -व्त्वा: आपधौ २०, २२, १३,  
 द्विधौ १४, ५, १; साध १, ७१;  
 -व्त्वा बाधौ १५, ३७: ८,  
 -व्त्वे आप ३१, ५, २; विप ७८,  
 १९, -व्त्वेण आधौ ६, १४, १०;  
 बाधौ ९, २७, ४, बाधौ २८,  
 ६: १७, कौत् ३६, २५१; -व्त्वा  
 आपधौ २०, १३, १२; बाधौ  
 १५, २३: ६, २६: ७; द्विधौ  
 १४, ३, १४.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: शाधौ  
 १०, १४; १७; अथा ६, ४,  
 -व्त्वा: आपधौ २०, २२, १३,  
 द्विधौ १४, ५, १; साध १, ७१;  
 -व्त्वा बाधौ १५, ३७: ८,  
 -व्त्वे आप ३१, ५, २; विप ७८,  
 १९, -व्त्वेण आधौ ६, १४, १०;  
 बाधौ ९, २७, ४, बाधौ २८,  
 ६: १७, कौत् ३६, २५१; -व्त्वा  
 आपधौ २०, १३, १२; बाधौ  
 १५, २३: ६, २६: ७; द्विधौ  
 १४, ३, १४.

त्वाट्-वृत्- -व्यो: शाधौ  
 १०, १४; १७; अथा ६, ४,  
 -व्त्वा: आपधौ २०, २२, १३,  
 द्विधौ १४, ५, १; साध १, ७१;  
 -व्त्वा बाधौ १५, ३७: ८,  
 -व्त्वे आप ३१, ५, २; विप ७८,  
 १९, -व्त्वेण आधौ ६, १४, १०;  
 बाधौ ९, २७, ४, बाधौ २८,  
 ६: १७, कौत् ३६, २५१; -व्त्वा  
 आपधौ २०, १३, १२; बाधौ  
 १५, २३: ६, २६: ७; द्विधौ  
 १४, ३, १४.

a) वेप १ द. b) ष्ठी इति पाठः? यनि. शोच । c) पाभे. वेप १, १५२६० द. ।  
 d) त्वङ्गम् इति पाठः? यनि. शोचः । e) पाठः? तु, अवरितम्, इति इति द्विरद संभाव्यत ।  
 f) पाठः? त्वक्-दात्- > -व्रे इति शोचः (तु. वेप १ परि मा ७, ४७ टि.) । g) वतु-त्वचः इति संस्कृतः शोचः ।  
 h) विर. । द्र. > वय. । i) पाभे. वृ १०४३ द. । j) विर. । वय. ।

त्वग्-लोमन्- -मानि वैश्री १३,  
१७:१५.

त्वग्-व्यादेश- -वा: या १४, ६.  
त्वद्-मस्तिरन्तो(क-उ)द्वुत-  
-तानि काश्री १६,१,३०.

त्वद्-मांश-रुधिरा (र-अ) स्थि-  
-स्योनाम् अर ६४,५,८.

त्वद्-मांस-शोणित- -तानि या  
१४,५.

त्वचः-मुख- -खा: आश्रिण ३,  
४,२: १७; वीपि ३, २, ३;  
गोपि १,२,४११<sup>b</sup>.

त्वचा(वा-अ)ग्रा<sup>१०</sup>- -न्त: शुभ्र  
३,४६.

√त्वचि वा ३,१,२५.  
त्वचो-धि( ल > )ल<sup>१०</sup>- -ला:  
माश्री १, २,१,६.

१ त्वचमस्थितिः जैश्रीका ३०.

त्वच्छ्री- शुभ्र-द.

√त्वच् पाधा. भ्वा. पर. गती.

१ त्वञ्चसत्वम् अप १,४१,२.

त्वत्-पितृ- -त्वत्-पुरोहित- प्रम्.  
शुभ्र-द.

त्वद्<sup>d</sup>-

रत्- पाग १, १, २७; त्व: अप  
४८, ११९<sup>f</sup>; वृदे २, ११४;  
निप ३, २९; ऋया १, ७; ८<sup>f</sup>;  
१९<sup>f</sup>; ३, २०, शुभा २, १९<sup>f</sup>;  
तैत्रा ११, ५<sup>f</sup>; माशि १४<sup>f</sup>;  
रत् पाग १, १, २७, या १,  
९; त्वम् या १, ८<sup>f</sup>; त्वस्मि वा  
१, ८; १९<sup>f</sup><sup>f</sup>; ऋवे आपश्री  
२१, २२, ४; काश्री; आपम १,  
७, ९<sup>f</sup>; या १, ९<sup>f</sup><sup>f</sup>; १३, १३.

१-२त्वदर्थ- प्रम्., त्वम्, त्व-मति-  
त्वच्- शुभ्र-द.

√त्वद् पाधा. भ्वा. आत्म. संभ्रजे,  
स्वरेत अर ३१, ५, ३; वाध  
२७, १७; वीध ४, ५, ३०;  
स्वर्ध्वम् वीथी २५, ९४; स्वरेत  
आपश्री २, ९, ८; १२, १३, १२;  
माश्री; स्वरेत अप्राय ४, ३;  
स्वरेत् वाश्री १६, ७, ७.  
त्वमेति वाश्री ३, २, २, २९.

स्वर्<sup>d</sup>- -रम् अर ७१, १०, २.  
स्वर्त्- -रद् कप्र १, ६, ७.

स्वर्माण- पाग ६, २, १६०; -ग:  
माश्री २, ३, ८, ९; हिश्री ८, ३,  
५७; अप्राय ५, १; अप १६, १,  
७; वीध १, ५, १५; या ६, २०;  
७, २७; आज्यो ७, १४; -श्री:  
वीथी २७, ४२६.

स्वरा<sup>d</sup>- -रया वैश्री १२, १४: ९;  
या १२, १४; -राम् विव ७९,  
२१.

स्वरा-शौच-विचर्जित- -त: विप  
६९, १५.

स्वरा-शुक्र-त्व- -स्वात् मीत्  
१०, ७, ४२.

स्वस्ति, ता- पा ७, २, २८; -तम्<sup>f</sup>  
शेष ७७; माशि १६, ३; नाशि  
२, ८, १८; -ता आज्यो ७, १६.

त्वा पाग १, ४, ५७.

त्वा-, स्वा-दात- प्रम्. शुभ्र-द. द.

त्वायथाया वाश्री ३, २, १, ३६.

त्वाय<sup>d</sup> वाधश्री ४, ३७: ३०; पाग १,  
४, ५७<sup>b</sup>.

त्वायत् पाग १, ४, ५७<sup>b</sup>.

त्वा-यत्- शुभ्र-द. द.

त्वाप्<sup>d</sup>-, 'ष्ठी' √त्वच् द.

√त्विप् पाधा. भ्वा. उभ. दीप्ती,  
स्वित्यति अप ४८, १६<sup>f</sup>.

ऋविच्ये वाश्री ३, १, ५८;  
हिश्री ८, ४, २७.

स्विप्<sup>d</sup>- पावाग ३, ३, १०८;  
ऋविच्य: काश्री २६, ७,  
५६; शुभ्र ४, १११; स्विवा  
वीश्री २५, २०: २५<sup>f</sup>; वृदे ६,  
१२१; स्विपे माश्री ४, ३, ३०<sup>f</sup>.

स्विपि<sup>d</sup>- -ऋविच्य: काश्री २५, ५,  
१; २५; आपश्री १०, ११, १; १८,  
१५, ५; वीश्री १२, १०: १२<sup>f</sup>;  
१७, १९: ४<sup>f</sup>; वाश्री; या १,  
१७<sup>f</sup>, -ऋविच्य काश्री १४,  
३४, १<sup>f</sup>; १७, १३, १०; हिष्ट  
१, २४, ३; -ऋवे आपश्री १५,  
११, १; वीश्री ९, १०: ३१;  
माश्री.

स्विपि-काम- -म: शाश्री १४,  
३४, १.

स्विपि-देयता- > ऋव- -रम्  
अम ६, ३९.

स्विपि, ऋि<sup>d</sup> मच्- -मता शाश्री  
१४, ३४, ३; -मति वीश्री २६,  
८: ४; -मते कौत् ४, १; शुभ्र  
३, ११६; तैत्रा ३, ७; -मन्त:  
कप्र ९, ९<sup>f</sup>, -मात् काश्री ३,  
३, ५<sup>f</sup>; वीश्री १८, ३९: ९-१२.

स्विपि-तस् (ः) वृदे ३, १६.

स्विपि(पि-अ)पचिति- -गो:  
आश्री ९, ८, २१; वैताश्री ४०, १.

स्विपि-त- -त: या १, १०<sup>f</sup><sup>f</sup>.

a) विप.। बस. b) स्वचसु इति पाठः? मनि. शोचः। c) वृ. स्वया (या २५, ९)। d) देव १  
द.। e) पागे. देव १ पुष्ये श्री १४, २, ७ डि. द.। f) या ६, १२; १२, १४; १३, ९ या ६, ४, २०; ७, ४, १५  
पराश्रुतः द.। g) वा. किति.। h) वृ. पागम.। i) या ८, १३ पराश्रुतः द.। j) =दीपित, ऋ-विशेष-।  
k) कौत्. ऋ. शुभ्र. तैत्रा. पाठः।

**वृत्तिपत्र** - वा: आधौ ६, ३, १९;  
 आधौ २२, ६, १६; आधौ १३,  
 १६, ८; आधौ १, ५, ३, ४;  
 आधौ: -पम् आधौ ६, ७, ९;  
 आधौ: या ९, २९; १३, ८;  
 -पस्य आधौ १३, १६, ८;  
 द्विधौ १०, ५, १३; -पास: आधौ  
 ८, २३, १.  
**वृत्तिपत्रम्** - म्ना: आधौ  
 २१, २२, ३; आधौ ३, २, ५, २०;  
 द्विधौ १६, ७, १५; या १४,  
 २४; ऋषा ५, ५१.  
 खेप-पुर्वे (ह-ए) वम्-आदि-  
 -विपु ऋषा ५, ५१.  
 खेप-मती (क >) का - वा  
 या १०, २१, ११.  
 खेप-संस्कार - रसा: शोधौ ३,  
 ५, ११.  
 खेप - पाठना १, १२४.  
 रत्वे पाग १, ४, ५०.  
 रत्वे पुष्पद् - द.  
 रत्वे आधौ २४, १३, ११ पाग १,  
 ४, ५०  
**द्विचिन्तानाम्** वाधौ ३, ४, ५, २३.  
 त्योत - युष्पद् - द.  
**रसघी** - घी: अय ४८, १०२.  
**रसद्** पाधा. म्ना. पर. छद्मगती,  
 वृत्तरति कौच १००, ३; निप २,  
 १४, स्तरन्ति वाधुधौ ४, २६;  
 ५, ६, अस्तरद् वाधुधौ ४,  
 २६: ४.  
 वृत्तगता: या ५, ३; ऋषा १,  
 ११.  
 स्तरद् - नन्त: आधौ १२, १७, ३.

**रसद्** - पाठ १, ७, पाग ५, २, ६४;  
 -रु वाप २, ३५; -र: आधु  
 १३, ९; १०; वीशु १७: ५;  
 द्विधु ४, ३७; -रुग्नि वीधौ २५,  
 १३: १९; -रौ: वीशु १७:  
 १२.  
 स्तरु-क - पा ५, २, ६४.  
 स्तरु-पाद्वै - र्वयो: आधु  
 १३, १६, द्विधु ४, ४१.  
 स्तरु-मन् - मन: आधौ १२,  
 ३, ८; आधौ २, ३, १, २०; वैधौ  
 १५, २: १५; द्विधौ ८, १  
 ३२.  
 स्तरु-वर्तम् आधु १४, १२;  
 द्विधु ४, ५१.  
 स्तरु-श्रोत्रप(णि-अ)न्तराल-  
 -रयो: वीशु १७: ९.  
 स्तरु(र-अ)घ - म्ने आधु १३,  
 १३; द्विधु ४, ४१.  
**भारिन्** - री रिति १०७.  
**थ**  
**थ** - य-कार - रा: या ७, २९,  
 -रेण यासि २, ८८, -री मासि  
 १४, १.  
 थ-य-वर्ण - णम् यासि २, ३९.  
**थङ्क्** **मुक्त्** टि. द.  
**थर्**  
 थलायल - पा, पाग २, ४, ६९.  
 थलित - अय ४८, ६१.  
 थर् पाग १, ४, ५७.  
 थार्द पाग १, ४, ५७.  
**थुहु** पाधा तुदा. पर. मंवरणे.  
**थुर्** पाधा. म्ना. पर. द्विगतायम्.

**द**  
**दा** - द: ऋत ४, २, ५.  
**द-कार** - र: अय ३४, १, २; तैरा  
 ५, ८; -रम् छुषा ३, ५५; -राय  
 अय ३४, १, ३; -रे ऋषा ५,  
 १४.  
**दकार(र-अ)न्त** - न्वात् अया  
 २, ३, १६.  
**द-को(क-ऊ)र्ष** - र्ष: भासि ९६.  
**द-संयुत** - तम् भासि ८४.  
**दा(दा-अ)न्त** - न्तम् माय १,  
 १८, १; योग २, ८, १६.  
**दाग्** - णस्य रिति २५४.  
**दंश, दंश** पावा. म्ना. पर. दशने;  
 तुरा. आरत. दंशति, उभ.  
 भाषायाम्, दशने आधौ ३,  
 ५, ६.  
 दंश भाग २, १: १६; दाक्षु:  
 माय २, १६, ३१.  
 दंशप्रति कौच ३०, १६; ४६,  
 ४४.  
**दंश** - पाग ३, १, १३४; ४, १,  
 ८६; ५, २, १३६; -रा: विप  
 ४४, १७, या १, २००; -शान्  
 आधौ २१, १२, ३१; द्विधौ  
 १६, ४, २५.  
 दांश - पा ४, १, ८६.  
 दंश-मसक - न्वात् आधौ २१,  
 १२, १; द्विधौ १६, ४, ३४; वीध  
 ३, ३, १९.  
 दंश-वन् - वा ५, ३, १३६.  
 दंश-वर्ण(ण-अ)र्ष - र्षा: या  
 १, २०.

a) वैप १ द । b) = देव-विशेष- । c) पाठः ? त्रैगानाम् इति शोधः (तु. द्विधौ १४, ५, ११) ।  
 d) वाक्-नामन् । व्यु. ? । e) = वर्ष-विशेष- । f) या १६, १८ परामृष्टः द. । g) तु. पागम्. ।  
 h) कर्म नामन्- । व्यु. ? । i) विप. । बस. । j) पाठः ? । द-वर्ण- इति स्यात् ? । k) या १, २० पा ३, १,  
 २४, ६, २५, ७, ४, ८६ परामृष्टः द. । l) शु इति पाठः ? यनि. शोधः । m) भाष. नाव. व्यप. च ।

दंशु-वीथी<sup>१०</sup> - वी: वीथी १७, १८: १०.  
 दंशु- पा ५, २, १२६.  
 दंशु- वीथी १७, १८: १०; निम्न १०, १३: ३; तैप्रा १६, १९१.  
 दंशु- -रम वीथ २९, ६०; ३२, २४.  
 दंशु- पाठ ७, १५९; पा ३, २, १८२; पाय ४, १, ४; ५, २, ११६; -पु: गोष्ठ २, ९, १३६; -पुया अय ३६, १, १०; -पुमि: वेशि १६४; पाणि २८; माशि ४, ७; याशि २, ७९; नाशि २, ८, ३०; -पुम्भाम् आपथी १६, १०, ३१; २०, २१, ९; वीथी; -पु: वीथी १०, १७१.  
 दंशु(पु-अ)म- मोग विप १, ११.  
 दंशु-घण्टा-मिना(दंशु>)दा- दा: अय ३६, २५, ३.  
 दंशु- पा ५, २, ११६.  
 दंशु- पा ५, २, ११६; -पुमि: वीथी ३, ४, २, २२; आशि २, ५, ९: १२, जेष्ठ २, ६: १०; अय ६८, ३, १३; वाय २, २८; -पुमि: वेशि ७, ४: १११६, -पुमि: विप ५, १०८, -पुमि: अय ६८, ३, ३९; -पुमि: हिमि २३: १७.  
 दंशु-पुमि- -पुमि: अय ३६, २७, १.  
 दंशु- पा ३, २, १२६.

दंशु- -रम वीथ २९, ६०; ३२, २४.  
 दंशु- पा ५, २, १२६; -कम् आपमं २, १७, ११; -पुका: आपथी १८, १५, ६; वीथी १२, १०: १५; वाथी ३, ३, २, ४५.  
 दिथी १३, ५, २७, आपमं २, १७, १३, आशि ३, ३, ५१; वीथि २, ९, ९; या १४, ९९; -पुकाताम् आपथी १०, २६, १४; वीथी ६, १५: १३; माथी १०, १७, १९; माथी २, १, ४, १४; वीथी १२, १९: ६; दिथी ७, २, ७८; -कैम्य: वीथ ३, १०, ५१.  
 दंशु- -दाव: आपथी २२, १७, ५; दिथी १७, ६, ४२; -दाते माय २, १६, ३१; -दातम् आपमं २, १७, ११.  
 दंशु- -दा: विप ९६, ५७.  
 दंशु-दो(दंशु>)मग- -त: विप २२, ८०.  
 दंशु(न-अ)म- मोग दंवि २, १.  
 दंशु- -द: वीथ २९, ७, ३२, २५; वाय २३, ३१; वेशि ४१२३; वीथ १, ५, १२६; विप ५४, १२, -दम् गोष्ठ ४, ५, १५; अय ६२, २, ७; -दम् वीथ २३, ८.  
 दंशु-मन्- -मन्नि: दंशु ४, ४, १.  
 दंशु- वीथ ६, १२.  
 दंशु- पाया. नुरा. आतन. दर्शन- दर्शनयो: पर. भाषाये, दंतयन्त्रिया ४, २५६; दंतयन्त्रि:

निप ४, १; या ४, २५.  
 दंशु(न>)ना- -नाभि: आपथी १९, २, १९; -नाभ्य: वीथी १३, ८: ८; तैप्रा १६, १९.  
 दंशु-वत्- -वान् वीथी ८, १७, ११.  
 दंशु- -स: अय ४८, ६१; निप २, १; शप्रा ८, १८; -सांति माथी ४, ४, ३८; काय: -सोमि: शप्राय ६, ९१; तैप्रा १६, १९.  
 दंशु-वत्- > दंशु- -दंशु- शप्रा ७, ४६१.  
 दंशु- पाठ १, १४५; -पुम्भाम् आपथी १६, २०, १४; दिथी ११, ९, ६१; -साम् भाथी ५, १६, २१, ४४; वीथी.  
 दंशु-वत्- -वत्: आपथी ५, २३, ९१.  
 दंशु- -अयम् आप १, १, ४१.  
 दंशु- पाठ २, १३; -दा: वृद्धे ७, ६०; -दम् मीथ ११६: ६४०; -पुम्भाम् आपथी ४, ७, ४; वीथी ५, १०, ८; या ६, २६; वृद्ध ३, २२१; -पुम्भाम् आपशि २, ५, १०: ३०१; -पुम्भाम् वीथी ७, ३: २१.  
 दंशु- पाया. भ्वा. आतन. वृद्धी शोधार्थं गतिद्वितनयोध, दंशु- शप्रा ४, ९८१; दंशु-वत्- भाशि ११८; १२०.  
 दंशु-वत्- वीथी ४, ४: ६; ८; दंशु-वत्- वीथी ४, ४: ३.

d) विप. । वत्. । b) वृद्ध इति पाठः? यनि. शोधः (तु. वै ६, १४, ३ संस्कृतः टि. च) । c) = दंशु-वत्- । अधिष्ठते मन्त्रि प्र. (पाठ ४, १४५) । d) दंशु इति दारिलः । e) वैप १२. d) तु. पागम. । g) पाये. वैप २, ३६. दंशु: मंत्रा १, ९, ४ टि. द. । h) आ इति पाठः? यनि. शोधः । i) अत् इति पाठः? यनि. शोधः । j) = दन्त । k) अत् इति शिव. । l) वैप १, ५८८ b d. । m) तु. आन. । n) अय. (अश्विनोऽन्वयत्-)



शद्वक्षन् वाधूथी छ, ४ : ४.

दक्ष, क्षा<sup>a</sup> - पाग छ, १, १५४<sup>b</sup>; -क्षाः  
वाधो ७, १६, ८<sup>c</sup>; आधो;  
वृदे<sup>d</sup> ७, ११४; ८, १२८; मुष्<sup>e</sup>  
३, २३५; छ, ३४; या ११, २३१<sup>f</sup>.  
१२, ३६१; -क्षम् आधो ५,  
१८, २<sup>g</sup>, आधो ८, ३, ४<sup>h</sup>, ६, ११;  
१२, २, १४; आपधो ८, १४,  
२४; वीधो ६, ५ : ५; २, १६ :  
१६; अय छदे, ३, २१<sup>i</sup>; संघ  
S११६ : ३०<sup>j</sup>; ४०<sup>k</sup>; ६२<sup>l</sup>;  
-क्षस्य वाधो ७, १०, ११<sup>m</sup>;  
पाण्ड १, १८, ५<sup>n</sup>; वृदे ७, १०४<sup>o</sup>;  
या २, १३; ११, २३<sup>p</sup>, -क्षा  
वप्र २, १०, ४, -क्षा वीधो  
२१, २४ : ४; -क्षाय या ११,  
२३<sup>q</sup>, -क्षाय आधो छ, १२,  
२, राधो २, २७, २<sup>r</sup>; आधो,  
या ११, ३०<sup>s</sup>, -क्षे आधो १०,  
३, ८<sup>t</sup>.

१दाक्षायण<sup>a</sup> - > ण-

यज्ञ<sup>b</sup> - ज्ञः काधो छ, ४, १;  
आधो ३, १७, ११; वीधो २छ,  
४ ६, वैवाधो ५, २४; छदे,  
२०, -क्षस्य राधो ३, ८, ३;  
६. -ज्ञाः राधो १छ, ५, ३;  
-ज्ञे आधो २, १४, ७; वीधो  
२१, १ : ११; २६, २२ : २२;  
वीध १, ६, ३०; -ज्ञेन आपधो  
३, १७, ४; वीधो १छ, ५१ : १;  
२३, १७ : २१. वाधो १, १,  
१, ८<sup>c</sup>; हिधो २, ६, ५६.

दाक्षायणवह्नि<sup>d</sup> -

-वी वाधो छ, २, ४८.

दाक्षायणयाज्ञिक<sup>e</sup> -

-कानि राधो ३, ९, ४.

दाक्षायण-सव<sup>f</sup> - वः

कौशि छ२.

२दाक्षायण<sup>g</sup> - पाग छ,

२, ५३<sup>h</sup>, ५४; -णाः शुभा ५,  
३७.

दाक्षायणक<sup>i</sup> - पा छ, २,

५३.

दाक्षायण-भक्त<sup>j</sup> - पा छ,

२, ५४.

३दाक्षायण<sup>k</sup> - णम् वाधो

छ, ४, २५

दाक्षायणि<sup>l</sup> - पा छ, १, १५४<sup>b</sup>,

-णयः वीधोप्र छ१ : ११.

दाक्षायणी<sup>m</sup> - णो अय

१, ३, १; ३७, ५<sup>n</sup>; अथा ७,

५<sup>o</sup>, ऋध २, १०, ७२, या ११,

२३; -णीम् शेष ११६ : ३०;

-ण्यः आमिण्ड २, ५, ३ : २४<sup>p</sup>,

वीण्ड ३, ७, १८<sup>q</sup>; वृदे ५, १४३,

-ण्वा नाथ ७ : ३.

दाक्षि<sup>r</sup> - पाग छ, २, ५३;

-क्षिः वीधोप्र २छ : ३, ३० : १

दाक्षी - > दाक्षी-

पुत्र - ज्ञाय पाशि ३१.

दाक्षीपुत्र-

पाणिनि - तिन पाशि ३१.

दाक्षक<sup>s</sup> - पा छ, २, ५३.

दाक्षि-कूट<sup>t</sup> - पाग २, २,

३८<sup>u</sup>.

दाक्षि-भिष्णुक<sup>v</sup> - पाग २,

२, ३१<sup>w</sup>.

दाक्ष<sup>x</sup> - दक्षेण वृदे ८,

१३०.

१दक्ष-कृत<sup>y</sup> - नुम्याम् आपधो

१२, १८, २०; वीधो १छ, ८ :

२१; ३४; माधो २, ३ ७, १;

वीधो १५, २२ : ४; हिधो ८,

५, १९; -त् आधो ६, ९, ३;

आधो छ, ३, १२<sup>z</sup>; १२, १९,

५; १छ, २१, ४; वाधूथो छ,

१३ : ५S. हिधो १५, ५, २६;

२७; आय ३, ६, ७<sup>aa</sup>; हिण्ड १,

१६, २<sup>ab</sup>; अयाय ६, ६.

१दक्ष-वितृ<sup>ac</sup> - न्तः विघ छ८,

८; -ता आपधो १०, ३, ८;

-तारः वीधो ६, ७ : ११; वीघ

३, ६, १५.

दक्ष-प्रजापति<sup>ad</sup> - तिः काथ २८२ :

५.

दक्ष-यज्ञ<sup>ae</sup> - ज्ञे अय ५२, १२, ५.

दक्ष(क्ष-ऋ)र्वि<sup>af</sup> - र्वे अय १,

३५.

दक्ष-वृष्<sup>ag</sup> - वृधे वीधो ७, ४ :

१३<sup>ah</sup>.

दक्ष-मावर्ण<sup>ai</sup> - णीम् शेष ११६ :

४६.

दक्ष-सु(त >)ता<sup>aj</sup> - ता वृदे

३, ५७; -०ते अथा १, २.

दक्षमाण<sup>ak</sup> - णः अय १, ३५<sup>al</sup>.

१दक्षव<sup>am</sup> - क्ष. निघ २, ९; -क्षते

आधो २, ५, १०<sup>an</sup>, आपधो १छ,

९, १<sup>ao</sup>; वीधो १९, ६ : १<sup>ap</sup>.

दक्षाय<sup>aq</sup> - पाठ ३, ९६.

a) वेप ११. d.

b) तु. पागम. d.

c) पागे. वेप १, ११७६ a d.

d) = देवता-विशेष-।

e) = कृषि-विशेष-। f) ष इति पाठः इ यति. शोच. (तु. सप्र. शी ७, १५, ४)। g) व्यप.। h) = विश्वेदेवा-

ऋतम-। i) पागे. वेप १, १५३४ d d.। j) तस्येदमीत् ट्ठ् प्र. उंस. (पा छ, ३, १२४)। k) पाण. (छ, १,

१०१) <दाधि- इति। l) रिन्., व्यप.। m) भादे व्यन् प्र.। n) उप. = कृषा-। o) पागे. वेप १,

१५१५ j d.। p) पागे. वेप १, १२९६ d d.।

१दक्षा गीषि १,१,८<sup>१</sup>.

१दक्षिण,णा<sup>१</sup>- पाठ २, ५०; -णः  
 आधौ २, २, १३x; दाधौ  
 १७, १३, २<sup>१</sup>१<sup>०</sup>; काधौ; वीधौ  
 २२, ८ : ३<sup>०</sup>; या १, ७<sup>०</sup>;  
 -णम् आधौ १, १, १२x;  
 गाधौ; ग्रामिण ३, ५, ८ : ६<sup>०</sup>;  
 -णम्ऽणम् माधौ १, १, २, २;  
 वाधौ १, २, ३, १६; -णवा दाधौ  
 ७, ११, ४<sup>०</sup>; काधौ; -णयोः काधौ  
 १७, १०, ८x; वीधौ; -णस्मान्  
 माधौ १, ७, ३, ४६; २, २, ३, ३;  
 वाधौ; पा ७, १, १६; -णस्मिन्  
 माधौ १, ७, ४, १७; वाधौ;  
 पा ७, १, १६; -णस्य आधौ ७,  
 १, ३x; माधौ; -णस्याः वाधौ  
 ७, १, २७; आधौ; -णस्याम्  
 आधौ १, ११, ७<sup>१</sup>; ६, १०, २१;  
 दाधौ; -णा आधौ १२, १, ५;  
 काधौ; -णाः वीधौ २, ११ :  
 ७x; माधौ, लाधौ ५, ६, १०<sup>१</sup>;  
 -णात् आधौ ७, ४, ४<sup>०</sup>; दाधौ,  
 -णान् आधौ ७, ५, ७; १०, ८,  
 ८; काधौ, -णानि आधौ १०,  
 २२, ११; ११, १०, १-११;  
 वीधौ, वीषि १, ७ : ८<sup>०</sup>; कौस्  
 ८१, २७; -णान्याम् काधौ  
 १७, १०, ५; माण १, १०, १६;  
 -णाम् दाधौ ६, ३, २<sup>१</sup>; १७,  
 १०, ११<sup>०</sup>; काधौ; वैताधौ ७,  
 २४<sup>०</sup>; -णाम्ऽणाम् वाधौ  
 १, २, ३, १२; -णाय आधौ ५,

६, १२; ऋषा १५, २१; -णयाः  
 माधौ ७, १८, १२; माधौ;  
 -णयाम् वीधौ ३, २० : १३;  
 १०, ३८ : १७; ११, २ : २६;  
 माधौ १, ७, ३, ३१; ६, १, ८, ५;  
 वैधौ; -णाय आधौ २, ८, ३;  
 १६, १९, ७; वीधौ, -णे आधौ  
 १, १२, ३२x; दाधौ; वीधौ  
 १६, ३ : ३०; -णेन, > ना<sup>१</sup>  
 आधौ ३, १, १८x; दाधौ;  
 -णैव्यः आधौ १९, १४,  
 १३; -णैव्यम् आधौ १५, ७,  
 ३<sup>१</sup>; वीधौ; -णेषु काठधौ  
 ८४x; वीधौ; -णैः आधौ  
 ६, १२, ७; माधौ; -णौ आधौ  
 १२, १, ८; -णौऽणौ वीधौ २१,  
 १४ : ३१.  
 दक्षिण-कपाल-योग- माण वैधौ  
 ७, १० : ४.  
 दक्षिण-कर्णे- णैम् ग्रामिण २, ७,  
 ८ : ४; -णै वाधौ १, ४, ३, ८;  
 काण्ड ७३ : २.  
 दक्षिण-मीव<sup>१</sup>- -णम् वैण ५, ३ :  
 १६.  
 दक्षिण-जानु- -लुना काधौ ७, ३,  
 २१.  
 दक्षिण-जान्य(नु-अ)क्त- -क्तः  
 गण १, ३, १; २, १०, ३२; द्राण  
 १, ३, १७; -क्तम् द्राण २, ४,  
 २०.  
 दक्षिण-तम्(ः)<sup>१</sup> आधौ १, ७, ६x;  
 दाधौ; ८, १५, ११<sup>०</sup>; आधौ

१०, २०, १<sup>१</sup>; १४, २०, ८<sup>०</sup>;  
 दाधौ १०, ३, ६<sup>०</sup>; लाधौ ३,  
 ११, ३<sup>०</sup>; पाण ३, ४, १७<sup>१००</sup>;  
 माण २, १५, १<sup>१</sup>०; वाषि १,  
 ५८; पा ५, ३, २८; वेज्यो  
 ४०.  
 दक्षिणत-उपचार<sup>१</sup>- -रः वीधौ  
 २६, ३३ : १८; -रम् आधौ  
 ११, १, ४; हिधौ १३, ६,  
 १७.  
 दक्षिणत-उपधीविन्- -तिनः  
 आधौ ३, १७, १; हिधौ २, ६,  
 ५५.  
 दक्षिणत-प्रवृत्ति<sup>१</sup>- -तयः राण  
 १, ८, ५.  
 दक्षिणत-सद्- -राड्म्यः वाधौ  
 १, १, ३, १७.  
 दक्षिणतो-न्वाय<sup>१</sup>- -णम् दाधौ  
 २, ११, १; ४, ६, १.  
 पृदक्षिण-दृष्ट<sup>१</sup>- -चक् लाधौ ५,  
 ७, ३.  
 दक्षिण-द्वार- -द्वारा वैधौ १४,  
 १९ : ४.  
 दक्षिण-द्वार<sup>१</sup>- -रम् वैधौ १४, १० :  
 २; काण ११, १; गण ७, ७,  
 १६; -राणि ग्रामिण २, ६, ३ :  
 ४<sup>१</sup>; कौस् ८५, ११; अण १,  
 २८, ३.  
 दक्षिण-धिन्य<sup>१</sup>- -णयःऽणयः  
 दाधौ ६, १३, ४.  
 दक्षिण-धुर-> णुर्व- -धम् वाधौ  
 १५, ६, १८.

a) १दक्षिण,णा-, २दक्षिण-, णा- (द्र. वैप १) इत्यत्र समाविष्टौ । b) सप्त. दक्षिणो षाहुः <>  
 दक्षिणतः इति धाम्ने । c) = दक्षिणतम्(ः) इति । d) सपा. णम् <> णानि इति धाम्ने । e) धाम्ने.  
 वैप १, १५३६ ५ द. । f) ण्यात् पञ्चः इति पाठः इ यनि. च न्यञ्जः इति च शीघ्र. (द्र. दाधौ.) । g) पृ ६३८  
 ० द. । h) ण्यात् इति पाठः इ यनि. शीघ्रः (द्र. सोमादित्यः ०. च) । i) वैप १ द. । j) विप. । पठ. ।  
 k) धाम्ने. वैप १, १५३६ j द. । l) उत्तरेण समस्तमिति संरम्भुः सूची । m) सप्त. दक्षिणतः <> दक्षिणा इति  
 धाम्ने. । n) सङ्घट्ट वैप १ परचात् [काठ ३७, १०] इति धाम्ने. । o) धाम्ने. वैप १, १५३६ ० द. ।

दक्षिणध्रुव-सम- -सम् काशी  
२०, १, २, ९<sup>०</sup>.  
दक्षिण-पश्चात्- -वेताश्री ३४, २;  
आमिष्ट २, ५, ९ : ७, जेष्ट २,  
६ : ६; अथ ५६, १, ६.  
दक्षिण-पश्चात्(ध-अ)र्षे- पावा ५,  
३, ३२; -धर्म कौष्ट १, ५, १८;  
घाट १, ९, ६.  
दक्षिण-पश्चिम, मा- -मस्याम् वैष्ट  
१, ९ : ५; ४, ५ : ४; -मे आष्ट  
४, २, १३; वैष्ट.  
दक्षिण-पाणि- -गिता वैष्ट २, १३,  
५, ३, ३. ११; -गिम् वैष्ट २,  
६ : ३; गोष्ट २, १०, २२; -गे  
वैष्ट १, ५ : ६, ३, २२ : १०.  
दक्षिण-पाद- -द्रस्य हिश्री ६, ४,  
२०; -देन पाष्ट १, ५, ७, ७, १;  
-दी वैश्री १२, ६ : ६७<sup>०</sup>.  
दक्षिणपादा(द-अ)कुट्ट- -हे वैष्ट  
२, १८ : १२.  
दक्षिणपादाकुटा(प्र-अ)म-  
-मेग वैष्ट २, २, १.  
दक्षिण-पार्श्व- -धै अथ ५६, १, ५.  
विध २०, २१, -धै पाष्ट ३, २,  
१३.  
दक्षिण-पुरस्तात् काशी ५, ३, २३;  
१२, ६, ७, आमिष्ट २, ५, ९ : ६,  
जैष्ट १, १ : २०; २, ६ : ६.  
दक्षिण-पूर्व, गो- -वेम् आषथ्री १,  
८, ८; २१, ११, २; १२, ३;  
दृष्टी; -वेस्याम् काशी २५,  
१३, २०; वैश्री १२, १० : ४४<sup>१</sup>;  
आष्ट ४, १, ६, आमिष्ट ३, ४, ४ :  
१; -वा आषथ्री ९. २०, ७;

-वर्षाम् आष्ट २, ६, ३; माष्ट  
१, २७ : १२; -वर्षा कान्त १,  
८; -धै काशी ४, ७, १०; आषथ्री  
१४, ३०, ५, वैष्ट. -वेर्ग काशी  
८, ६, १८; आषथ्री १, ७, १३;  
माशी १, ७, ८; ८, १५, २.  
दक्षिणपूर्वा(वे-अ)य(त >)म-  
-ताम् काशी २५, ८, ३.  
दक्षिणपूर्वा(वे-अ)र्षे- -धै काशी  
३, ३, २०, ९, १, ८; वैश्री ९,  
९ : २; कौष्ट १, ५, १७; कौम्  
४, २.  
दक्षिणपूर्विन्- -विगम् आषथ्री  
२४, १३, २.  
दक्षिण-पूर्व-पाद- -देन काशी ४,  
९, १२.  
दक्षिण-प्रगिति- -धौ वैष्ट १, १३ :  
१, २० : १४; -ध्याम् वैष्ट  
१, २० : १५, ४, ११ : ५.  
दक्षिण-प्रत्यग्-अपवर्ग- -गोम् कौम्  
१, १६.  
दक्षिण-व्याहु- -हुम् वैश्री १५, २४ : ३.  
दक्षिण-मारुते(त-ई)हित- -परि-  
-तन- -ते अथ ६५, १, ६<sup>०</sup>.  
दक्षिण-मुक्- -खः विध ६८, ४१;  
-लतः गौरि १, ४, ७.  
दक्षिण-व(त >)नी- -ज्य निष्ट २,  
११ : २५.  
दक्षिण-वेदि- -दिम् वैष्ट १, ९ :  
१२, -देः वैश्री ८, ९ : ९.  
दक्षिण-तपन-पाद- -दम् कौम्  
३६, ४.  
दक्षिण शिरम्- -रत्नम् गोष्ट ३, १०,  
२५; -राः आमिष्ट २, ६, ७; ३९.

दक्षिण-शीर्ष- -वेम् वैश्री १५, २ :  
४; वैष्ट ५, १ : ७; २ : २०.  
दक्षिण-श्रीणि- -गिम् वैश्री १२,  
५ : ३४<sup>१</sup>; -ण्याम् काटश्री ११५;  
वैश्री १२, २२ : १५; १५, २ : ९.  
दक्षिण-मरिच-पूर्व-नडक- -कम्  
काशी ६, ७, ७.  
दक्षिण-सद- -सम् काषथ्री १५,  
१०, ११; वैश्री ९, १० : १३;  
माशी; -सदः वैश्री १२, ४ : ५;  
माष्ट २, ६, ७; -सदस्यः आषथ्री  
३, ४, १; माशी ३, ४, १; वैश्री  
७, ३ : ६; हिश्री २, ३, ४०; ६,  
३, ७.  
दक्षिण-साद्- -सान् काशी ४, ७,  
४<sup>१</sup>.  
दक्षिण-सकन्ध- -धे दाष्ट २, १०, ८.  
दक्षिण-स्थ- -स्थान् अथ ३, २६.  
दक्षिण-दक्षिण- -नस्य वैनाश्री  
१५, १०.  
दक्षिण-हस्त- -स्तम् आमिष्ट २, ४,  
९ : १३; वैष्ट १, ५ : १०;  
-स्तस्य काशी ७, २, ६; वैश्री  
१, ३ : ११; १२, ६ : ७; -स्ते  
काशी २५, ७, २१; आमिष्ट;  
-स्तेन आमिष्ट २, ७, ६ : ३१;  
वैष्ट २, ७, ६.  
दक्षिणहस्त-पुरोडास- -शाः  
वेताश्री ९, २०.  
दक्षिणदश- (स्थ >)स्था- -स्थाः  
अथ ४१, १, २०<sup>१</sup>.  
दक्षिणहस्ता(स्त-अ)कु(लि >)  
ली- -लीभिः आमिष्ट २, ४,  
९ : ९.

a) = अथ-विशेष- । तुस. । b) 'धै-समम् इति चोसं (पाकिः पाभे. इति कर्कः । c) = नैऋती-दिग्- ।  
d) उप-कुष्ठ इत्यस्य दिग्मैकत्वं मत्वा ष्ठी (=दयोः) इति वमैलदिवक्ष्या वा. द. । e) = भावेयो-दिग्- । f) वा.  
मिथि. । g) विप । वस. । h) प्रकरणतः ष्वेत्ये इति संभाव्यते । i) वस. > वस. । j) ष्वयार (=गिम् भार)

इत्यन संधिपर्यः । k) वैष्ट १ द. । l) पाभे. वैष्ट १, १५३६ j द. ।

दक्षिणा<sup>१</sup> आश्री २, १९, ४; ३, ८, १; ४, ४, २; शशी; वैश्री २१, ६: ८०; द्वित्री २५, ३, २१०; पा ५, ३, ३६; ३७.

दाक्षिणात्य- पा ४, २, ९८.

दक्षिणा(वा-अ)प्र,मा<sup>१</sup>- प्रम् वीश्री २, १: ६x४; वैश्री; -प्राणि वैश्री ५, ३: १५; -प्राम् काशी ४, १३, १५; २५, ८, ११; आपथी; -प्राम् गोश्री ४, ३, २; कप्र ३, २, ९; -मेघु शशी ४, ३, ३; वीश्री; -प्रे: आमिष्ट १, २, २: २७; आपथ.

दक्षिणा-श्रीव<sup>१</sup>- वम् आपथी ९, ११, २३; आमिष्ट; -वेण वीपि ३, ४, १०.

दक्षिणा(शा-आ)वार<sup>१</sup>- व: माथी १, १, १, ६.

दक्षिणा-ज->दाक्षिणाज<sup>१</sup>- जा: या ६, ९<sup>१</sup>.

दाक्षिणाजी- जी या ३, ५.

दक्षिणा(वा-अ)ञ्च<sup>१</sup>- ञ्जाञ्ज: वेताश्री ९, १७; -णाञ्जम् वेताश्री १२, १; वीस् ८७, १८.

दक्षिणा-तूल<sup>१</sup>- क्कान् माथी १, २, ६, २९.

दक्षिणा-द्वार,रा<sup>१</sup>- रम् माथी २, २, ३, १२; द्वित्री; आपथ २, २५, २६; -रा: माथी ६, १, ८, १०; -राणि वीथ २, ५, १७.

दक्षिणा(वा-अ)न्त<sup>१</sup>- न्तम् वैश्री ४, ४: २; ५, २: १९; कप्र २, ८, ४<sup>१</sup>; -न्ताम् वैश्री ४, ६: ५.

दक्षिणा-न्वाच<sup>१</sup>- न्वाति शशी १, १, १४.

दक्षिणा-पथ- पाग ४, २, १२७; -थम् आश्री ५, १३, १२; -था: वीथ १, १, २९; -थेन शशी १३, १४, ६; काशी.

दाक्षिणापथक- पा ४, २, १२७.

दक्षिणा-र(दु >)दी<sup>१</sup>- दीम् वीश्री २, १: ३०; आमिष्ट.

दक्षिणा(वा-अ)पवर्ग,र्मा<sup>१</sup>- र्मा: वीश्री २, ११, १६; -र्मा<sup>१</sup> आपथी १६, १५, ९; द्वित्री १२, ६, ७; -र्मा: वीथी ३, २, ६, ११; वैश्री;

-र्माणि आपथी २४, २, १६; कौस् ४७, ५; -र्मान् आपथी १, ९, १; १४, ६, १४; माथी.

दक्षिणा-पद्वात्<sup>१</sup> आमिष्ट २, ५, १२: १२.

दक्षिणा-पश्चिम-द्वार<sup>१</sup>- रे द्वार ४, २, १३.

दक्षिणा-पुरस्तात्<sup>१</sup> आमिष्ट २, ५, १२: ११.

दक्षिणा-पूर्व, वी<sup>१</sup>- वंस्वाम् वैश्री ९, ४: २; -वेण द्वित्री २, ७, ११.

१दक्षिणा-श्रीची<sup>१</sup>- चीम् वीथ २३, ११<sup>१</sup>.

दक्षिणा-प्रवच,ञ्च<sup>१</sup>- तीच: माथी ५, २, १०, २७; -वचक् माथी ५, २, १५, ५; माथ २, १, ८; १७, ३; आपथ ८, १४.

२दक्षिणाप्रतीची<sup>१</sup>- च्चव:

आमिष्ट ३, ५, ५: ३; वीपि १, ४: ३; द्विपि १: ३.

दक्षिणाप्रत्यक्-प्रवण- णम् आमिष्ट ३, ४, १: १३; ५, ५: ५; आपथ १४, १; वीपि १, ४: ५; २, ९, १; ३, २, ८; द्विपि १: २, वीपि १, २, ६.

दक्षिणाप्रत्यक्प्रवण- चित्ता-देस- न्नात् वीपि १, २, ८.

दक्षिणा-प्रवण- णम् काशी २२, ३, ६; आथ; -णे शशी ४, १४, ६; काशी.

दक्षिणा-प्रदि- द्विष्ट काशी १४, ३, ८; -दे: काशी १८, ६, १.

दक्षिणा-प्राच,ञ्च<sup>१</sup>- प्राक् आपथ ८, १३; -प्राच: माथी ६, १, ५, ४२; -प्राञ्जम् आपथी २, १२, ७; माथी; -प्राञ्जि आपथी १, ७, ५.

१दक्षिणाप्राची- ची आपथी १, ७, १०; माथी १, ७, ५; द्वित्री २, ७, १२; -ची: आमिष्ट ३, ८, ३: ३७; वीपि १, ८: १८x४; -चीम् आपथी १, ७, १३; माथी.

दक्षिणाप्राच-प्रवण- णेन शशी ४, १४, ६; वीश्री ५, १३.

दक्षिणाप्राच-अप्र<sup>१</sup>- प्रान् आपथी १४, ३२, ३; वैश्री २०, २८: ८; -प्रे: आपथी १, ७, ५; माथी.

२दक्षिणा-प्राची<sup>१</sup>- च्चो-

a) वैप १ द्र. 1 b) पाथे. वृ १२२३ m द्र. 1 c) णाम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपथ ९, १)। d) विप. 1 वस. 1 e) स्तार्थिकः अण् प्र. 1 f) ण्यायाः इति शिवदत्तस्य शोधः। g) सप्र. ण्याद्वारम् <> णोद्वारम् इति पाठे. 1 h) ण्ताम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. जीव. अस्तु.)। i) वा. क्रि. 1 j) = नैर्ऋती-दिशु. 1 वस. 1 k) = आग्नेयी-दिशु. 1 वस. 1 l) उप्र. वीथ २, १, १४ दक्षिणाप्रतीची-चोर्द्धिबोरन्तरेण इति पाठे. 1 m) विप. (२अप-)

संतत- -तम् द्विष्ट २, १४, ४<sup>०</sup>.  
 दक्षिणा-व्य- -वम् शोध २०२.  
 दक्षिणा(एा-अ)भिसुख- -वः  
 भाथी ८, १६, १०; आसिष्ट;  
 गौध ९, ४१<sup>०</sup>; -खस्य कप्र १,  
 ४, ४; -खन कप्र २, ८, १३.  
 दक्षिणा-मुख- -वः आथी १,  
 ४, १३; काथी, भाथी १०, २,  
 ५<sup>०</sup>; -खम् आपथी १२, १, ९;  
 १३, ९; वैष्ट २, ५: ९; -खस्य  
 वैताथी १, ९; -खा: जुम् १,  
 ११ : ५; आष्ट, -खात् वैष्ट ५,  
 १३ : ९.

दक्षिणामुखी- -खी दाथी  
 ११, ३, ८, लाथी ४, ३, ९, -खीम्  
 दाथी ४, १४, १३.

दक्षिणा(एा-आ)य(त>)ला-  
 -ला: काष्ट ६५, ३.

दक्षिणा(एा-आ)सम्भ- -म्भैः  
 बाष्ट १, ९.

१दक्षिणा(एा-आ)वर्त- -वैः  
 बाथी २, १, ५, ५<sup>०</sup>; -वै कौम्  
 १८, २.

२दक्षिणा(एा-आ)वर्त- -वैस्य  
 बाष्ट १, ३२, २.

दक्षिणा(एा-आ)वृत्- -वृत्  
 काथी १, १, ४, ३, ३, ४; साथी;  
 -वृत्तः काथी २, १९, ३०, ५, ३,  
 १७; साथी; -वृत्ताम् कौष्ट ८२,  
 १; -वृत्ति: वाथी २, १, ६, ४.

दक्षिणा(एा-आ)वृत्, ला- -सः  
 आपथी १०, १, ७<sup>०</sup>, -खाया वैथी

१४, ४ : ४; -तानाम् आपथ  
 १, २, ३३; द्विष्ट १, १, ६५.

दक्षिणा-शिरस्- -रसम् काथी  
 २२, ६, १५; वौथी; -रा: काथी  
 २२, ६, ४; आपथी २२, ७, २४;  
 द्विथी १७, ३, २३, लाथी ८, ८,  
 ५; द्विष्टि १ : १७.

दक्षिणा-शोणि- -णे: वाथी  
 १७, ८, २५.

दक्षिणा-संचर- -रेण वैताथी  
 २३, १९.

१दक्षिणा-सुद्ध- -सदः, -सद्वयः  
 शुभा २, ३०.

दक्षिणा(एा-आ)हवनीय- -वे  
 लाथी १०, ११, १२.

दक्षिणा(एा-अ)म्- -सम् पाष्ट १, ८,  
 ८; ११, ९; २, २, १६; -साव  
 काथी १७, ६, ५; १३, २३.

दक्षिणांम-सहित- -तम् वाथी  
 ५, ४, ११.

दक्षिणा(एा-अ)ग्नि- -ग्नि: काथी  
 ४, १३, ४××; आपथी; -ग्निना  
 वैथी २०, ८ : ७; -ग्निम् काथी  
 २, २, १; १९, ३०; साथी,  
 -ग्नि: काथी २, ६, २××; साथी;  
 -ग्नी काथी २, ६, ८; साथी.

दक्षिणाग्निक्- -क्वा: वाथी  
 १, १, ४, ११<sup>०</sup>; -कौ माथी  
 १, ७, ६, ४३; ८, ५, ९.

दक्षिणाग्नि-पक्- -कम् वाथी ४,  
 ६, ११.

दक्षिणाग्नि-स्थान- -ने माष्ट १,

६, २.  
 दक्षिणाग्नि-होम- -मान् वैताथी-  
 ४, ९.

दक्षिणाग्निहोमा(म-अ)न्त-  
 -न्तम् काथी ८, १, १३.

दक्षिणाग्न्य(मि-अ)ग्नि- -ग्निना  
 काथी १६, ४, १२.

दक्षिणाग्न्या(मि-आ)क्वीस- -सैः  
 काथी १६, ४, ८.

दक्षिणाग्न्या(मि-आ)यतन- -ने  
 द्विथी ३, ४, २२.

दक्षिणाग्न्या(मि-आ)हवनीय-  
 -वौ आपथी ९, ३, २१.

दक्षिणाग्न्यु(मि-उ)ष्मुक्- -कम्  
 काथी ५, १०, ७; १५, १, ८.

दक्षिणा(एा-आ)दि- -द्वय: आथी  
 ५, ३, २६; -दि<sup>०</sup> वैताथी २९,  
 १३<sup>०</sup>; वैष्ट १, २ : ४; ११ : ५;  
 ३, १५ : १४.

दक्षिणादि-क्वण- -ण्यो: वैष्ट २,  
 १५ : ४; ३, २२ : ११.

दक्षिणादि-प्रणयि- -ध्वयो: वैष्ट  
 १, २० : ८.

दक्षिणादि-वृद्धिण- -णम् वैष्ट  
 २, ७ : ८.

दक्षिणा(ए-२आद्य>)वा- -वामु  
 अप ५२, ८, ४.

दक्षिणा(ए-अ)नामिका-मध्यमा-  
 -माभ्याम् वैथी ६, ८ : ४.

१दक्षिणा(ए-अ)वर, रा<sup>०</sup>- -रम् साथी  
 १, ६, ६; आपथी ११, १२, ४;  
 माथी १, ८, ४, ९; ६, १, ५, १५;

a) 'थी' एा इति कान. पाठः ?। b) 'णामु' इति st.। c) विप.। वस.। d) सप्र. 'णामुखः  
 <> 'णामुख' इति पाठे.। e) वस. उप. = काष्टः.। f) सप्र. मास ७, २, २, १४ दक्षिणावृत्त इति, माथी ६, १,  
 ५, ४० मद्रक्षिणावृत्ता इति च पाठे.। g) वैष्ट १ निर्दिष्टानां समावेशः द.। h) पाठे. वैष्ट १, १५३७ a, b, d.।  
 i) समान. ?। j) वैष्ट १ द.। k) दक्षि' इति पाठः ? यनि. शोध.। l) क्वचित्  
 का. द्विष्टि.। m) 'णादिप्रम' इति पाठः ? यनि. च प्रतिदिशम् इति च द्विष्टि: शोधः (द्व. सा [श्री ६, १०५, ३])।  
 n) विप., नाष्ट.।

वैश्वी १८, १३ : ८; हिंश्री १,६,  
११; ११, ६, ५; १३, ३, ११;  
दाश्री ३,२,१४; लाश्री १, १०,  
१०; आश्रिण २, ७, ९ : १५;  
भाश्र ३,१८ : ११; गोश्र १, ६,  
१४; कौश्र ८७, २६; -रस्याम्  
शांश्री १३, ११, २; काश्र ७, १,  
६; काश्र ७५, ७; -रा आश्रिणी  
९, २०, ७; -राम् वाश्री ३, २,  
५, ३६; कौश्र ८७, १६; आश्रिण  
१, २१, २; हिश्र १, ८, २०; -रे  
काश्री ८, ५, १७; -रेण हिश्री २,  
७, ११.  
दक्षिणापर-तस्रः (ः) अप ५२,  
१, १.  
दक्षिणापरा(र-अ)भिमुख- अः  
विष ६१, १२.  
दक्षिणा(पा-अ)परा- नयोः द्विशु  
५, ३०.  
दक्षिणा-प्रतीची- नयोः वीथ २,  
१, १०.  
दक्षिणा(ण-अ)यन- नम् भाश्र  
१, १२ : १; वाश्र ८, ७, वैश्र ५,  
१ : ११; विष २० : २; वीथ  
१६, २; या १७, ८; -नाश्र या  
१७, ८, -ने भाश्र १, १२ : १;  
हिश्रि २० : ८; -नेन आश्रिण  
३, ९, ३२६.  
दक्षिणायन-पशु- नोः वीथ्री  
२८, १२ : १६; १७.  
दक्षिणा(ण-अ)यन- -नाश्र कश्र  
३, ९, २.  
दक्षिणा(ण-अ)यन- -श्रस्य अप १,  
३५, १.

दक्षिणा(ण-अ)यन- -श्रस्य अपथ्री  
१२, २०, १०; वीथ्री; -श्रस्य  
वाश्री ३, २, ५, ५७; -धाः अप  
१, ६, ९; -धाश्रि वाश्री ७, २१,  
९; अपथ्री, -धे शाश्री ७, ४,  
२; २१, ९; १७, ४, ४; काश्री;  
-धेयम् वैश्री ९, ८ : १५.  
दक्षिणाधेय-पूर्वाधेय- -धेय अपथ्री  
२, १८, ५; वीथ्री १, १६ :  
१०x५; भाश्री.  
दक्षिणाधेय-दिरस- -रः वाश्री १,  
६, ४, १४.  
दक्षिणाधेय-पूर्वाधेय- -धेयव  
शाश्री १८, २४, १५.  
दक्षिणाधेय,धर्मा- -धेयः आश्रिणी  
१, ५, १०; वीथ्री; -धेयम् वीथ्री  
१, ८ : १२x५; भाश्री; -धेयान्  
वीथ्री १७, १४ : १४; २६, २४ :  
११; -धेयान् वीथ्री १२, २० :  
५; १८, ५० : ३; -धेयानाम्  
हिश्री ५, ४, ७५; -धेयै वीथ्री  
१५, १७ : १७.  
दक्षिणाधेय-पूर्वाधेय- > धर्मा-  
धेय- -धेयम् दाश्री ३, २, ४;  
लाश्री १, १०, ३.  
दक्षिणा(णा-अ)यन- -रयोः आश्रिण  
१६, १६.  
दक्षिणाधि पा ५, ३, ३७.  
दक्षिणे(ण-ई)यन- -र्मा पा ५, ४,  
१२६.  
दक्षिणे(ण-उ)यन,रा- -रः जैश्र १,  
१ : २१; -रम् वैश्र १, ८ : २;  
५, १० : २; कौश्र २, २३; ७८,  
७; -रयोः वैश्री १, २ : १२;

वैश्र; -राः काश्री १२, १, १५;  
१७, १, ८; २३; -राम्याम् काश्री  
८, ८, १४; -रामि वैश्री १५, २ :  
१०; गोश्र १, ७, १३; -रान्  
काश्री १२, १, २५; -राम्याम्  
आश्री ३, १, १६; काश्री; -रे  
काश्री १५, ३, ३३x५; २६, ४,  
१०; भाश्री २, ३, १, ११;  
-रेः वाश्रि ६, ३, ६; -रेः काश्री  
८, ३, ९x५; आश्री.  
दक्षिणोत्तर-परिधि-संवि- -न्यो  
वैश्री १३, ११ : २.  
दक्षिणोत्तर-मुख- -अम् अप  
१८, ३, २.  
दक्षिणोत्तर-वेदि-श्रीणो- -ण्यौ  
शुश्र १, ४५७.  
दक्षिणोत्तर (र-अ)यन- -नो  
आश्रिण ३, ११, ४ : १.  
दक्षिणोत्तरिन्- -रिणः वीथ्री ६,  
१९ : १७; २१ : १६; -रिणम्  
शाश्री १, ६, १०; १७, १६, ७;  
भाश्री १, १, ३, १; -रिणा आश्री  
१, ३, ३१; -री वीथ्री ३, २८ :  
६; ३१ : १०.  
दक्षिणोत्तर (र-उ) यन-  
-नाम्याम् दाश्री २, ३, ३.  
दक्षिणे(ण-उ)यन- -नाः काश्री  
८, २, ८; -नाश्र शाश्री ५, ८, ५;  
-नेन वीथ्रि ३, १, १६; -नीः वैश्री  
१७, ३, ११; हिश्री ७, ४, २३;  
-नी गोश्र ७, ३, १८; २०; दाश्र  
३, ५, २४; २६.  
दक्षिणे(ण-उ)यन-द्वार- -रम् कौश्र  
८३, २५; हिश्र २, ५, १८३।

a) सप्र. परयोः <> चरयो. इति पाठे. । b) पाठे. पृ १२२५ DD द. । c) विप. । पस. ।  
d) = आनयेय-कोण- । e) = नैऋत्य-कोण- । f) वैप १ द. । g) स्तार्थे यद प्र. । h) यस. वा दस.  
-वा. । i) श्री इति चोद. । j) सप्र. वीथ्रि ३, २०, १ व्यनयोः इति पाठे. । k) च्चोण इति सा (तै १, २,  
११, १) । l) पाठे. पृ १२२५ DD द. ।

दक्षिणे(ख-उ)दासना(न-अ)न्त-  
न्तम् कप्र ३, १०, ११.  
दक्षिणे(ख-उ)वत- -व. अय ५०,  
२, ३.  
दक्षिणे(ख-उ)रकम- -मात् माथी  
१, ४, १, २.  
दक्षिणे(ख-उ)र- -रम् काथी १०,  
७, ४; -रौ वैथी १५, २६; ११.  
दक्षिणा- पा ५, १, १५; पाग ४,  
२, ३८; -ग्या वीथी १३, १ :  
१३; वापुथी ४, ४ : ३; ४; ६;  
वीथ २, ३, ६२; विथ २१, ४;  
-णा काथी ३, १०, १२x; ४;  
शाथी; या १, ७; -णाऽया  
आपथी ११, २७, २३;  
-णा: काथी ५, १३, ११,  
१४x; शाथी; वैथी १६, ७ :  
३६; -णानाम् काथी ५, १३,  
१४; शाथी; -णामि: आपथी  
१४, २०, ३; वीथी; -णाम्य:  
आपथी १० १३, ३; १३, ६, ७;  
माथी, -णाम् काथी ३, १४,  
६x; शाथी; वीथ ५, १४x;  
-णाया: वीथी २९, १३: १०;  
वाथी २, २, ४, १९; वैथी २०,  
४ : १; हिथी १०, ६, ५;  
-णाये कापथी १६, ३४, ४१;  
वीथी; -णाम् काथी २५, ११,  
६; १३, २७; आपथी; -णे  
आपथी १४, ११, २१.  
दक्षिण- पा ४, २, १८६;  
-णानाम् वीथी २३, १० : ९;

१८: १; -णानि आपथी १३,  
५, ६१; वीथी; वीथ ३, १,  
२२; -णाम्य: वीथी १०, ५७ :  
१५; ११, ६ : १०; १२, ७ :  
२५; १८ : १४; १५, १८ :  
१३; ३२ : ३; ३६ : ९; -णेषु  
शाथी १३, १४, ६; -णै: वापुथी  
४, ८८ : २; ८; -णौ आपथी  
१८, २, १९; २१, ५, १०; माथी  
२, ४, ५, १; वाथी ३, २, १, ३६;  
हिथी १३, १, २५, १६, २, १९.  
दक्षिण-होम- -म: काथी  
१०, ३, ४; -मौ काथी २१,  
२३.  
दक्षिणहोमा(म-अ)न्त-  
न्तम् वैथी १७, ११ : १.  
दक्षिणेषु- -वै: आपथी  
१४, २६, १; हिथी १५, ६, २९.  
दक्षिण-कर्म- -मं काथी २९:  
१७; ३३ : १७.  
दक्षिणा-काल- -क: शाथी १, १२,  
१०; ७, १७, १६; -कम् वैथ  
१, ७ : १३; -काल् माथी ५,  
१२, १४; २०, १२; माथी ५,  
३, ११, २३; ६, २, ६, १४;  
वापुथी ३, ७९ : १७; -कै काथी  
१२, २, २२x; आपथी.  
दक्षिणा-गण- -गा: काथी ९, ६,  
१५.  
दक्षिणा-सप्त(:) वीथ ५, ८, ८.  
दक्षिणा(गा-अ)विनयन- -व:  
आपथी १३, ६, १<sup>dm</sup>.

दक्षिणा-ग्या- -गात् वाथ २३,-  
३९१.  
दक्षिणा-ख- -खम् वापुथी ४,  
४ : ७; ९.  
दक्षिणा-दान- -नम् आपथी ४,  
१, २; माथी २, २, ५, १; वैथी  
३, १ : ६; हिथी ६, १, ७; मीथ  
१०, ३, ३; -मि काथी ३,  
१४, ९.  
दक्षिणा-दाता(न-अ)दान- -ने  
वैथ १, ७ : १५.  
दक्षिणा-द्वय- -द्वे वैथीका १६५.  
दक्षिणा-नयन- -नात् वीथी २१,  
१० : ३.  
दक्षिणानयना(न-अ)वधि-  
-धि वैथीका ३७.  
दक्षिणा(गा-अ)नयन- -गात् मीथ  
१०, २, ४४.  
दक्षिणा-पृथक्त्व- -क्त्वेन हिथी  
१३, ३, १०.  
दक्षिणा-प्रतिग्रह- -है: आपथि ३,  
७, ३ : २१; वीथि २, २, २;  
हिथि १९ : ८.  
दक्षिणा-म्वत्- -व: निम् ९, ९ :  
९.  
दक्षिणा-भाग- -गाम् वैथी १६,  
७ : ५; हिथी १०, ४, ४६; ४७;  
-गाम् हिथी २०, ४, ५२.  
दक्षिणा-भेद- -द: मीथ १०, ६,  
६६.  
दक्षिणा-युक्त- -क्ता: वीथी २३,  
१० : ११.

a) विप. । वस. । b) वैप १, ५३८ d द. । c) पामे. वैप २, ३४. दक्षिणाम् तैया २, ४, ६, ७ डि. द. ।  
d) सप्र. दक्षिणा नयति <> दक्षिणाविनयनः इति पामे. । e) पामे. वैप १ विद्वान् वी १८, २, ५७  
डि. द. । f) वैप १ द. । g) सप्र. प्र. । h) द् इति पाठः । इति. शोधः (डि. C.) । i) पामे. घृ  
१००० ड. । j) अर्थो द् > एपः प्र. उत्तं. (पा ५, १, १९) । k) सपा. काठ ३५, १० क ४८, १२  
दक्षिणीयेः इति पामे. । l) विप. > नाप. (मन्त्र-) । उस. । m) सा. लै १, ४, ४३, २१ प्णानिनयने  
इति पामे. ।

दक्षिणायुक्त-वचन- नान् मीस्  
१०, २, २४.  
दक्षिणा (या-अ)र्थ- -र्थम् माथी  
१०, १२, ४; अय २१, १, ७;  
-र्थस्य मीस् १०, ३, ५७.  
दक्षिणा (या-अ)र्थ-हर- -रः ह्य  
२, ५, ३.  
दक्षिणा-यत्- -यता आथी १२, १५,  
११; वीथी १०, २५ : १०×४;  
निरा; -वताम् वेष्ट १, ६, १२१;  
-वसु प्राथी १, ३, १; ७, १, १६;  
लाथी ३, १, १७; -वन्तः निस्  
२, १ : ११; -वान् आमिष्ट ३, ८,  
२ : १४; वीपि १, १५ : २४;  
श्रया २, २२१.  
दक्षिणावती- -ती\* आमिष्ट  
३, ८, २ : ३२; वीपि १, १५ :  
४०, -तीः वीथी २०, १८ :  
२१, २८.  
दक्षिणा-वर्जम् आपथी १४, १४, ९;  
आपथ ७, १७.  
दक्षिणा-विकार- -रः मीस् १०, ३,  
७४.  
दक्षिणा-विधि- -धिः अय ७०, ४,  
३; -थी जैथीका १७११.  
दक्षिणा-वेला- -लायाम् काथीसं  
२८ : ९; लाथी ८, ५, १७; ९,  
१७; २, १, १५; निस् ७, १ : १४.  
दक्षिणा-व्यपेत- -मम् वीथी १३,  
१ : १४.  
दक्षिणा-शब्द- -दात् मीस् १०, २,  
३६.

दक्षिणा-शास्त्र- -मम् मीस् १०,  
६, ६२.  
दक्षिणा-संमार्जन-संप्रेष- -मम्  
वाथी १, ६, ७, २१.  
दक्षिणा-हृदय- -यः विध १, ८.  
दक्षिणीय- पा ५, १, ६९.  
दक्षिणीय-म- -माः वृदे ५,  
१५८.  
दक्षिणो(या-उ)क्त- -क्तौ वीथी २५,  
६ : ११.  
दक्षिण, ण्या- पा ५, १, ६९;  
-मयम् वीथी २४, २९ : ४;  
-म्याम् वीथी २४, २९ : ३.  
दक्षिणाकार- -रः वीथी २०, ११ :  
२४.  
दक्षिणाहि १दक्षिण- द.  
दक्षितवती- -वत्यः निस् ८, ४ :  
११.  
दक्षि-सूरि- ✓दह द.  
दग्- पाउमो २, १, ४६; पावा ४, १,  
१५५.  
दागभ्यायनि- पावा ४, १, १५५.  
दग्ध- प्रय. ✓दह द.  
✓दग्ध (यथा.) पाथा. स्वा. पर.  
यातने पालने गतौ [निघ.]  
सवणे [या.] च, दग्धति निघ २,  
१४; दग्धाः श्रया १४, ५२.  
दघ्न- -मन् या १, ९.  
दद्धच्यु- ✓दंर द.  
✓दद्ध्य पाथा. भ्वा. पर. पालने.  
दुडी- पा, पाग ४, ३, १६७.  
✓दण्ड पाथा. सुरा. उभ दण्डनिपा-

तने.  
१दण्ड- पाठ १, ११४; पा, पाग ५,  
३, १०; पाग २, ४, ३१; ४, २,  
८०; ४, १२०; ५९०; ५, १, ६६;  
१२२; ४, ३०; -ण्ड हिष्ट १,  
११, ८१; -ण्डः शोथी १७, ३, ३;  
४; काथी; श्राष्ट २, १, १८; पाष्ट  
२, २, १२; ५, २५; ३, १५, २०;  
आपथ ८, ९; ११, १६; १७; वाथ  
११, ५२; १२, ९; २०, १८; शंथ  
३१२; ३१३; ३२१; ३२२; ३२९;  
३३२; आपथ १, २, ३८; वीध  
१, २, ४१; २, २, ५४; विध ३,  
१५; ५, २; ३७; १२०; १५१; २७,  
२८; वैष २, ३, ३; ८, ११; हिष्ट  
१, १, ६९; मीध ११, ३०; ३३;  
शुभ्र १, २५३; अय २, ११; अर्ध  
३, १६१; वा २, २; -ण्डम् आथी  
३, १, १६×४; वीथी; श्राष्ट १,  
२२, १; ३, ८, १, २०; कौष्ट २, ३,  
१०; ८, ७१; श्राष्ट २, ६, २; १३,  
७; ३, १, ११; पाष्ट २, २, ११;  
६, १५; ३१; आमिष्ट १, १,  
१ : १७; ४ : १६; ३, १ : ५;  
५ : १०; आपथः वाथ १२,  
३७; १२, ८; शंथ ४२; ११६ :  
१९; ३०३; ३०६; आपथ २,  
११, १; २; २९, ८; वीध २, २,  
२८; ३, २, ६; ३, १६; विध ३,  
६४; ९१; ५, १९४; १९५; ६,  
२०; २७, २९; ७१, ८०; हिष्ट  
१, ७, ५७; २, ४, १८; ११; ६,

a) सपा. श्र १०, १८, १० दक्षिणावते इति पाठे. b) द्विथी इति पाठः ? यनि. शोषः । c) उप.  
= धृति- । d) वि. ( यज्ञराह. [= निष्णु- ] ) । बस. । e) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । f) पाठः ?  
दक्षिणावती- इति शोषः ( तु. निस् २, ११ : २५ ) । g) व्यप. । व्यु. ? । h) या १, ९ पराष्टः द. ।  
i) 'ण्ड' इति पाठः ? यनि. शोषः ( तु. B.N. प्रय. ) । j) वैप १, १५३९ h. d. । k) पात्र ( ५, ३, ३७ )  
प्रत्यय-विशेषः । l) तु. BPO. । m) = शोपथि-विशेष- । व्यु. ? । n) वैप १ द. । o) तु. पागम. ।  
p) सप्र. दण्डमादाय <> दण्डार्थे इति पाठे. ।



२१; या २, २; ३, २१;  
 -ण्डस्य वीथी २१, ९: १७;  
 वीथी ११, ७: ३; ६; ८: १;  
 कीष्ट २, ८, ३; ३, ९, ६०; शाष्ट  
 २, १३, २; वामिष्ट २, ७, १:  
 १३; अण्ड ७८, १२२; या ३,  
 २१; -ण्डाः आपथी १५, ५,  
 १३१; भाथी, शंघ ३६; आपथ  
 १, ८, २९; वीथ १, २, १६; विथ  
 २७, २१; हिथ १, २, ११७; वीथे  
 १, ५०१; -ण्डात् आपथी  
 १०, १५, १२१; वीथी ६, ६:  
 ८x; भाथी; विथ ५, ७३;  
 -ण्डात् भाथी १, ३, ५, २;  
 वाथी १, ३, २, १३; हिथी;  
 वीथ १, १०, २०; -ण्डाय  
 आपथ २, ११, ३; हिथ २,  
 ४, १७, १९; -ण्डे शाथी ५,  
 १६, ४१; कीष्ट २, ८, ६, शाष्ट २,  
 १३, ६, अण्ड ७२, २, ६; -ण्डेन  
 काथी २५, १, १५; आपथी ९,  
 ५, ३; हिथी; विथ ८, ३७, या  
 २, २.  
 दाण्डिक- पा ७, ४, १२.  
 दाण्डिक- पा ७, ४, ५९.  
 दण्ड-क, का- पा ७, २, ८०; ५,  
 ४, ३, पाग २, ४, ३१; पावाय  
 ७, ३, ४५; -काः अथ ११,  
 ३(२).  
 दण्ड-कमण्डलु- -द शंघ ३७२;  
 ४४३.  
 दण्डकमण्डलु-धारण- -णम्,  
 अण्ड ४६, १, ६.  
 दण्डकमण्ड- -मं शंघ २५१.  
 दण्डकारिन्- नी विथ ५, ११५.

दण्ड-ग्राह- (> दाण्डग्राहिक- पा.)  
 पाग ७, १, १४६.  
 दण्ड-ताडन- -नम् आपथ २, २७,  
 १५; २८, २; हिथ २, ५, २३४;  
 ६, २.  
 दण्ड-धाना(ना-थ)जिन- -नम्  
 कौत् १०, १५.  
 दण्ड-धारण- -णम् भाथी १०, ९,  
 ८; पाग २, ५, ११.  
 दण्ड-नायक- -कः आज्यो ७, १७.  
 दण्ड-निभ- -भानि अण्ड ७२, ३,  
 १४.  
 दण्ड-नियम- -मः कौष्ट २, ८, १;  
 -माः शंघ २, १३, १.  
 दण्ड-नियोग- -नाः गीथ १२, ४८.  
 दण्ड-पाणि- -पाग २, २, ३७; -णिः  
 अण्ड ६७, ३, ५.  
 दण्ड-पुरप- -पः या २, २.  
 दण्ड-प्रणयन- -नम् विथ ३, ९२.  
 दण्ड-प्रदान- -नम् आपथी १०,  
 २७, ४; ११, १८, ६; कौत् ५९,  
 २७, मीम् ७, २, १६; -नात्  
 आपथी ७, ११, २; वामिष्ट २,  
 ७, १: ६; -ने आपथी ७, १,  
 १२; वीथी २१, १२: १७.  
 दण्डप्रदान-वर्जम् आपथी ५, ३, ५.  
 दण्डप्रदाना(न-थ)न्त- -न्तम्  
 कौष्ट २, ७, ४; शाष्ट २, ११, ४;  
 -न्ते वाथी ३, २, ४, १०.  
 दण्ड-भक्ष- -क्षे कौष्ट ७, ११, १.  
 दण्ड-भिन- -न्नेः वामिष्ट २, ७,  
 ४: ५.  
 दण्ड-भूयस्त्व- -स्त्वम् गीथ १२,  
 १४.  
 दण्ड-भृत्- -भृतः अण्ड ५३, ३, १.

दण्ड-भयित- -तम् अण्ड ४६, १, ५.  
 दण्ड-माणव- > ष्वा(न-थ) ष्टे-  
 वासिन्- -सिपु पा ७, ३,  
 १३०.  
 दण्ड-माथ- (> दाण्डमाथिक-  
 पावा.) पावाग ७, ४, १.  
 दण्ड-मेलला(ला-अ)जिन-जटा-  
 धारिन्- -नी जैष्ट १, १२: ६९.  
 दण्ड मेललो(ला-उ) पवीत-  
 -तानाम् कौष्ट २, ८, ३; शाष्ट २,  
 १३, ३.  
 दण्ड-मुद्ध-वर्जम् आपथ २, १०, ७;  
 हिथ २, ४, ७.  
 दण्ड-मुद्धा(द्ध-अ)धिक- -कानि  
 आपथ २, १०, ६; हिथ २, ४, ६.  
 दण्ड-भृपा(भ-अ)सन- -नानि अण्ड  
 २३, ६, ३.  
 दण्ड-नञ्ज(जु-अ)र्द्ध- -र्द्धम् काष्ट  
 ७, ३२.  
 दण्ड-वत् वाष्ट ६, ११; अण्ड ५८,  
 २, ७; विथ २८, ५.  
 दण्ड-वत्- -वन्तिः काथी २६, ४, १.  
 दण्ड-विधि- -धि. विथ ५, १९३.  
 दण्ड-वृत्ता- -ता अण्ड २३, १, ४.  
 दण्ड-व्यवसा- -व्योः पा ५, ४, २.  
 दण्ड-वायिन्- -व्यो अण्ड ५०, ४, ६;  
 ५, ३.  
 दण्ड-शुक्का(क-अ)वशिष्ट- -ष्टम्  
 वाथ १६, ३१.  
 दण्ड-समा(म>)सा- -सा शाथी  
 १७, ३, ९.  
 दण्ड-स्पायिन्- -यी अण्ड ५०,  
 ४, ६; ५, २, ३.  
 दण्ड-स्वीय- -स्वम् अण्ड २३,  
 ३, ३.

a) तु पागम. । b) बघ्रा. । c) = छन्दो-विवेच- इति पागम. । d) = अण्ड-विवेच-  
 इति पागम. । e) व्यप. । व्यु. ? । f) = निर्णयिक- । g) परस्परं पाथे. । h) विप. । बस. ।  
 ३) उप. = पविन्. । j) विप. (दण्ड-मुक्ता-) वीणा- । बस. (द. ८.) ।

दण्ड-हस्त<sup>१</sup> -स्तानाम् बाधुधौ ३,  
७९ : ८.  
दण्डा(ण्ड-अ)कर्मन्- -मैत्रि आपघ  
२,२८,१३; हिघ २, ६, १३.  
दण्डा(ण्ड-आ)कृति<sup>१</sup> - -ति: वैघ  
४, १३ : ९.  
दण्डा(ण्ड-अ)जिन- (> दाण्डा-  
जिनिक) पा ५, ३, ७६.  
दण्डा(ण्ड-आ)दि- -दि वंताधौ  
१२, ७; असा २२, ४५.  
दण्डा(ण्ड-अ)न्त<sup>१</sup> - -न्तम् बाधौ  
७, ४, १०; १६, ४, ४५.  
दण्डा(ण्ड-आ)यत- -तम् वैधौ  
११, ७ : ८; ८ : ३.  
दण्डा(ण्ड-आ)याम- -मम् वैधौ  
११, ७ : ११.  
दण्डायाम-प्रमाणक<sup>१</sup> - -कम्  
आमिष्ट ३, १०, ४ : ८.  
दण्डा(ण्ड-अ)र्ध- -र्धे आपघ १,  
२९, १६.  
दण्डा(ण्ड-अ)र्द्ध- -र्द्धे इदे २,  
१०६.  
दण्डा(ण्ड-अ)वानि- -ति: अघ  
७०<sup>१</sup>, ११, २३.  
✓दण्डि, दण्डयेव बाध ३, ४.  
दण्डन-> नीय- -य: विघ ५,  
१७४.  
दण्डयित्वा विघ ५, १७२.  
दण्डिक- (> दाण्डिक्य- पा.)  
पाग ५, १, १२८.  
दण्डिन्- -ण्डिन: शाधौ १६,  
१, १६; आपघ २, १७, १२१;

-ण्डी आमिष्ट १, १, ४ : ४६;  
वाघ; या २, १.  
दण्डिमन्- पा ५, १, १२२.  
दण्डो(ण्ड-उ)च्छ्रयणा(ण-अ)न्त<sup>१</sup>-  
-न्तम् काधौ १६, ४, ३१.  
दण्डो(ण्ड-उ)वानह<sup>१</sup> - -हम् शाधौ  
३, ३, ७; वौधौ.  
दण्डो(ण्ड-अ)र्ध्व- -र्ध्वे वैधौ ११,  
७ : ८.  
दण्डय- पा ५, १, ६६; -ण्डय: शोध  
२६४, ३०२; ३१४; आपघ २,  
२६, १९; विघ ५, २६४; हिघ  
२, ५, २१४; गौघ १२, ५; १३,  
२३; बुदे २, १०६; अश्रमू ८;  
या २, २; -ण्डयम्, -ण्डयात्  
विघ ५, १९५; -ण्डयेषु विघ  
३, ९१.  
दण्डयो(ण्ड-उ)-सर्ग- -र्गे बाध  
१९, ४०.  
दण्ड<sup>१</sup>- पाग ४, १, ९९; ११२; २,  
१०६,  
१दाण्ड- पा ४, १, ११२.  
दाण्डायन- पा ४, १, ९९.  
दाण्डायन-स्यली<sup>१</sup> - (> लक-  
पा.) पाग ४, २, १२७.  
दाण्डिन्- पा ४, २, १०६.  
दण्डाय,म- (> दाण्डा,म)ायन-  
पा.) २दण्ड- टि. द्र.  
दण्डिन्- पाग ४, १, ९९.  
२दाण्ड- पावा ६, ४, १४४.  
दाण्डिनायन- पा ४, १, ९९; ६, ४,  
१७४.

दत्<sup>१</sup>- पा ५, ४, १४१; ६, १, ६३;  
दत्त: आपधौ ६, ११, ४४४;  
वौधौ; दस्यु शाधौ ४, १४, २६१;  
आघ ४, ३, ५; वीघ; दन्ति:  
वाधौ ३, ४, ५, ११५; वैधौ १६,  
२१ : २१; माघ १, २३, २०५;  
आपघ १, १६, १७; अश्रमू ३, ४४;  
४६; वाश्र ४२:१२१; ऋदन्त्य:  
आपधौ २०, ११, १२; वैघ.  
दत्-तत्तः (ः) वीधि १, ११ : १२.  
दत्त-वत्- -वते आपधौ २०, १२,  
५; वौधौ १५, १९ : १५; बाधुधौ  
३, ८३ : ७; १५; माघ २, १६,  
३.  
दत्त<sup>१</sup>- -त: वौधौ १७, १८ : १; वीघ  
३, १०, ६.  
दत्त<sup>१</sup>- (> दात्तय- पा) पाग ४,  
२, ८०.  
दत्त- दत्तक- प्रघ. ✓पा द्र.  
दत्त- पाठमो २, २, १५७.  
✓दृ<sup>१</sup> पावा. म्वा. अश्रम. दाते,  
ददते अघ ४०, ६, १४; या २,  
२१; ऋदन्ते<sup>१</sup> आपधौ १६, २९,  
१; वौधौ ३, १५ : १८; २४;  
वैधौ १८, २० : ८४४; द्विधौ  
११, ८, ३; ऋदन्त<sup>१</sup> पाघ १,  
४, १६; वीघ १, ४, ८<sup>१</sup>; वाघ  
१४, १०<sup>१</sup>; अश्रमू, ऋदन्त आपघ  
२, २, ५५; आमिष्ट १, १, २ :  
२७५; ५, १ : २०५; काघ २५,  
४५, ४१, ५५; वीघ; या ५, १४;  
ददते आमिष्ट २, ३, २ : १५;

a) विघ. । बस. । b) पागे. १ १२२९ p द्र. । c) विघ. । पघ. > वघ. । d) दस.

सनावान्तः अश्रम. (पा ५, ४, १०६) । e) = आपि-विशेष- । व्यु. ? । f) तु. पाठ. । दण्डय- इति भाष्य. ।  
प्रघ., दण्डम- इत्यपि पाठम. । g) एष. < दाण्डि- इति पाठम. । h) तु. पाठम. । i) वैघ १ द्र. ।  
j) अश्रमू इति पाठः ? यनि. शोधः (द्र. अश्र. आघ., O. च) । k) पागे. वैघ १, १२०२ h द्र. । l) = सर्प-  
विशेष- । व्यु. ? । m) पा ६, ४, १२६ पराण्टः द्र. । n) पागे. वैघ १, १५४० d द्र. । o) पागे. वैघ १,  
१५५५ f द्र. । p) पागे. वैघ २, ३६. इतन्त्य मंथा १, १, ५ टि. द्र. ।

अप १६,२,४.  
 १ददमान- नाप निप ३,१३; या ३,१६.  
 ददित्- नारा: बौध्री १४, ८: १६१.  
 दद-, ददत्-, ददाति-, ददावस्-  
 ✓दा (दाने) द.  
 ददाभ्यस्- ✓दान् द.  
 ददि-, ददिवस्- ✓दा द.  
 ददत्- ✓द (विदारणे) द.  
 दद्राण- ✓दा द.  
 दद्र- पाउभो २,१,११३; पागवा ५, २,१००.  
 दद्रु-ग- पा ५,२,१००; -गः शंघ ३७६.  
 दद्रस्- ✓दा द.  
 ✓दद्व पाषा. अत्रा. आत्म. धारणे, दधते वृताथो २५, १२०; दधे काथो ४, ८, २६; दधन् आथो २, १०, ४०××; राथो; आपथो ५, १२, ३०; १२, २४, ९०; बौध्री १३, ३२: १९०××; माथी, आमित् १, १, ३: ३५०; २, १, ५: ३९; ४, ४: १०; १९: ३०; ५, ३: १२; बौध्र ३, ७, १२०; भाए १, २०: ७, माए १, २१, २; दिष्ट १, ५, १५; २, ४, १९; बौध्र ३, ७, ११; १४, अदधत राथो १४, २८, ८; १५, ६, ६.  
 १दधन्- > १दधन्- चान् श्रुग ३, १३६१.  
 दधन्-चन्- वा माए २, २८: ८१६.  
 दध-, दधत्- ✓धा द.

दधत्य- न्यम् अत्र १, १६.  
 दधन्- पा ७, १, ७५; -धन् बौध्री १७, ५०: ८; माथो २, ६, २; द्विथो १५, १, ७६; -धनि काथो २५, ४, ३८; आपथो; -झ: काथो ४, ३, १२; आपथो २, २०, ४××; बौध्री, -झा राथो १३, ६, ३; काथो; -झाम् अप ६७, २, २; -झि वैथी ८, ५: ४; विघ ९९, १४.  
 दधन्वस्- ✓धन् द.  
 दधाति-, दधान- ✓धा द.  
 दधि<sup>१</sup> राथो १५, १५, १३.  
 १दधि<sup>२</sup>- पाग ५, ४, १५१; -धि आथो २, २, १८××; राथो; आपथो १, १३, १४१; बौध्री; या १, ४; -धि: आमित् २, ७, ७: ७; -धिति माथो ६, २, ४, १८; जैथो २५: ६; -धिनी माथो २, २, ५, २९; द्विथो ५, २, १९.  
 दाधिक- पा ४, २, १८.  
 दधि-कंस- -सः अप १, ३५, २.  
 दधि-क्षीर-पूजा(त-आ)दि- दिभिः अप ६६, २, ४.  
 दधि क्षीरा(र-अ)श्रुत- -तानि अप ६८, १, ३५.  
 दधि-ग्रह<sup>३</sup>- -हः आपथो १२, ७, ८; बौध्री १४, २२: २१; २५, १३: २३; मीत् ४, ४, ८; -हम् बौध्री ७, ४: १२१, माथी, -हस्य बौध्री २१, १७: ५; द्विथो ८, २, २८; -हाय आपथो ११, २१, ८१; माथी;

-हे बौध्री २३, १९: ३१;  
 -हेण आपथो १२, ७, ५; पापथी.  
 दधिग्रह-पाप- -ग्रम् आपथो १२, २, १; बौध्री; -त्रे वैथी १५, ८: १२; द्विथो ८, २, २; -त्रेण वाथो ३, २, ५, ३.  
 दधिग्रह-विकार-ख- -खात् आपथो १२, ७, १५.  
 दधि-घर्म<sup>४</sup>- -र्मः काथो १०, १, १९; बौध्री; -र्मम् आपथो १३, ३, २; १५, १८, १७; बौध्री; -र्मस्य आथो ५, १३, ६; राथी; -र्माय काथी १०, १, १८; आपथी; माथी २, ४, ४, १८<sup>५</sup>; द्विथो ७, ४, ५४<sup>६</sup>; -र्मै राथो ५, १०, ३०; बौध्री; -र्मेण आथो ५, १३, १; राथो ७, १६, १; आपथो १३, ३, ११<sup>७</sup>; काठथी.  
 दधिघर्म-ग्रहण- -गम् काथो २६, ७, ५४.  
 दधिघर्म-होम- -मम् वैताथो २१, १८.  
 दधि-घृत- -ते माथो ६, २, ६, २३.  
 दधि-घृत-क्षीर-मिश्र- -धम् वैप १, ४: १.  
 दधि-घृत-मधु( घु-उ )दक- -कानि गौपि १, ५, २७.  
 दधि-घृत-मिश्र- -धः माए २, ३, ६; -ध्राणाम् कौए ३, ७, ५; धाए ४, ५, ३.  
 दधि-तण्डुल<sup>८</sup>- -लात् आमित् ३, ४, १: २७.  
 दधि-तण्डुल-सुरभि-शुक्लसुमनस्-

a) = चर्नरोग-विशेष-। ब्यु. ?। b) पाभे. वैप १ सचते मा ८, ३६ टि. द.। c) पाभे. वैप १, १५०। d) पाभे. वैप १, १५४. n द.। e) दधात् इति पाठ. ? यनि. सोधः ( तु. उचरत् स्थलम् )। f) वैप १ द.। g) पाभे. वैप २, ३६. तैष्ण १, १२, २ टि. द.। h) घृ ११३ j, ४६० r द.। i) पाभे. वैप १, १५१। d.। j) = पाद-, दधिग्रह- वा कर्म-विशेष- वा। k) सपा. 'म्याय' < > 'मैंग इति पाभे.। l) पक्षान्तरे बभ. इति भाष्यकारः। m) मजो. तुल.।

-नसः आमिष्ट २,३,१ = ४<sup>०</sup>.  
 दधि-स्थ- वाग ६,३,१०८<sup>०</sup>.  
 दधि-रति- -तिः आपथी २२,  
 ४,५; द्विभी १७, २, ७<sup>०</sup>; १६.  
 दधि-द्रव्य<sup>१</sup>- -व्यः द्विभी १०, ५,  
 १४; -व्यम् वैभी १८, १३ :  
 ४; आमिष्ट २,१,१ : १०; द्विष्ट  
 २,२,४; -व्यम् आपथी ६, १२,  
 १२; आपथी; -व्येन जैष्ट १,  
 ५ : ३.  
 दधिद्रव्या(पा-अण<>)का-  
 -का काथी १८,४,७.  
 दधि-वा(न<>)नी<sup>१</sup>- नी वैभी ८,  
 ४ : ३; -नीम् द्विभी ४, २, २७;  
 ५, १, १२; -व्यम् आपथ १,  
 २१, १४; वीष २, १, ५०; द्विष  
 १,७,७१.  
 दधिपानी-सघ(र्षि<>)र्मा<sup>१</sup>-  
 -र्मा<sup>१</sup> आपथ १, २९, १३; द्विष  
 १,७,७०; -र्मा<sup>१</sup> वीष २, १, ५०<sup>०</sup>.  
 दधि-पय-आमिष्टा-पयु- -सयः  
 वीभी २७, १४ : २४.  
 दधि-पयस- -यसो पा, वाग २, ४,  
 १४; -यसोः काथी १, ९, ७.  
 दधि-वल्ल- -लम् कौश २६, १३.  
 दधि-वात्र- -त्रान् वीभी १८, ४० :  
 १६; -वैग अप १, ३१, ७; ३५,  
 ३; -त्रैः वीभी १८, ४० : २४;  
 ३६.  
 दधि-वीत<sup>०</sup>- वाग २, २, ३७.  
 दधि-वृ(र्षि<>)र्णा<sup>१</sup>- -र्णा<sup>१</sup> काथी  
 १७, ४, १३.  
 दधि-वृत्तका<sup>१</sup>- -कम् पाष्ट २,  
 १६, ३.

दधि-वदरा(र-अ)क्षत-मित्र- -धाः  
 गाष्ट ४, ४, १०.  
 दधि-वस- -सम् गाथी ४, १३, २;  
 गाथी ६, ३, ३०; लाथी २, ११,  
 २३.  
 दधि-वसा(स-अ)न्त<sup>१</sup>- -न्तम्  
 गाथी ४, ४, २३; ६, ४, १४;  
 लाथी २, ४, १४; १२, १५.  
 दधि-वसण- -णम् काथी १०, ८,  
 १०.  
 दधि-सधु- -धु<sup>१</sup> काष्ट ६६, ४; माष्ट  
 १, १२, ५; कौश १०, १८; १२,  
 १५; -धुनि कौश ७, १९;  
 -धुव्याम् कप्र ३, १०, १८.  
 दधि-सधु-वृत्त- -वृत्तम् काथी १८,  
 ३, ४; पाष्ट १, ३, ५; वैष्ट ६४ :  
 ३; वीष्ट २, १ : ७; वीषि ३, १,  
 २०; -वृत्तैः काथी १७, ४, २७.  
 दधि-सधु-वृत्त-शीर-वर्षम् अप ७२,  
 ३, ४.  
 दधि-सधु-वृत्त-विल-वण्डुल-दुर्ध-  
 -धुर्धान् वीषि १, २, १.  
 दधि-सधु-वृत्त-पयस- -पयसि  
 आमिष्ट २, ५, ४ : ६.  
 दधि-सधु-वृत्त-मिश्र- -श्रम् भाष्ट  
 १, १६, ५; कौश १, १९, ९; राष्ट  
 १, २७, ६; पाष्ट २, १६, २.  
 दधि-सधु-वृत्ता(त-अण<>)का-  
 -काः गाष्ट ५, १०, २; अप ६६,  
 ३, १; -कानाम् अप ३६, ३, ३;  
 काथ २७६ : ९.  
 दधि-सधु-वृत्त-नाण्डुल- -लान् वीषि  
 १, ७, ३५.  
 दधि-सधु-मक्ष<sup>१</sup>- -क्षः कौश २२,

८<sup>०</sup>.  
 दधि-सधु-मित्र- -म्रम् कौश १२,  
 ६; २२, ६; -म्रस्य वाष्ट १७, ६.  
 दधि-सधु-सर्षि-वयः-सकु-वल्-  
 मोदक- -केव्यः विष ६८, ४५.  
 दधि-सन्ध- -न्धः आपथी ६, ३१, ५;  
 जैष्ट १, १९ : ३८; -न्धम् आपथी  
 २२, २६, १; द्विभी ६, ८, १;  
 २३, ४, १७; कौश ४०, ९; कर्ता  
 २४, ७; -न्धान् आप २, ५, २.  
 दधिसन्धो (ःय-उ) दमन्ध-  
 -न्धयोः गाथी १, २, १३<sup>१</sup>; लाथी  
 १, २, ८.  
 दधि-सांस- -सस्य अप ६८, २,  
 १७.  
 दधि-सिध,धा- -धम् काथी ५, ४,  
 २४; वीभी २४, २१ : ८; वीष  
 ३, १, १९; -धया अप ३५,  
 १, ८.  
 दधि-सव- -वान् आमिष्ट ३, ८,  
 २ : ६३; वीषि १, ५ : ६७.  
 दधि-सवैम् विष ५१, ४२.  
 दधि-विनाल<sup>१</sup>- -लान् वीभी १८,  
 २० : ७.  
 दधि-वोष- -षम् गाथी ७, २, १०;  
 लाथी ३, २, १०.  
 दधि-व्यो (<सो)म- -मान् वैभी  
 २० : १७, वैभीहा २०४.  
 दधि-संयुत- -यम् कप्र ३, १०,  
 १८.  
 दधि-स्यधु- -धु<sup>१</sup> भाष्ट ३, ५, ५;  
 १०; कौश १३९, २; ६; ९; विष  
 ६८, ३०.  
 दधि-सैव- -वम् शंघ २३३.

d) 'ज्ञाः सु' इति पाठः ? यनि. शोषः (दु. सप्र. वैष्ट २, १:७) । शुभ्रिभ- ? ।  
 c) 'वृत्तिः इति पाठः ? यनि. शोषः । d) पस. उप. = धनीभूताय- । e) 'क्ताः इति चोपे. ? । f) = श्यालीः ।  
 कास. । g) वृत्त. । h) परस्तरं पाथे. । i) वृत्त. उप. = पृदाग्य- । j) विप. । बस. । k) विनापयैर्यज्ञावः  
 (वा २, ४, १२) । l) पस. उप. = मन्यन-दण्ड- (दु. वीभी १८, २०:२३) ।

१दधि-सम्राज्- -आजा वाधूश्री ३,  
६१:५

दधि-सर्पिर्-मयु-युज्- -युजाम्  
अप ३६,२,४.

दधि-सुमनस्- -मसी विघ ७१,५४.

दधि-स्थाली- -स्त्रीम् वैश्री १३,  
४:६.

√दधीव, दधीवात् आपश्री १०,  
१६, १२; भाश्री १०, १०, ८;  
द्विशी १०, २, ५०.

दध्य(धि-अ)- -धम् आश्री १२,  
८, ३४.

दध्या(धि-आ)न्य- -न्यम्<sup>१</sup> भाश्री  
१, ८, १, २५; -उपधो: भाश्री १,  
६, १, २४, वाश्री १, ५, २, १९.

दध्या(धि-आ)घ(धि-अ)म्यक्त-  
साज- -आनाम् अप ३६,  
१३, १.

१दध्यु(धि-उ)दक- -के कौष्ट १,  
१६, ४; वाष्ट १, २४, ३.

२दध्यु(धि-उ)दक- -कम् शंघ  
११६:७.

दध्यु(धि-उ)पसेक- -कम् वैश्री  
१२, ७: १.

दध्यो(धि-ओ)दन- -नम् कौष्ट १,  
१०, १४, १९, ७, वाष्ट १, १७,  
७, आग्निष्ट.

दध्योदन-शेष- -धम् भाष्ट ३,  
१६, ९.

२दधि- -> १दध्य(धि-अ)च्, ष्व-  
-धीच् आश्री ७, २, ३; वाश्री,  
वृदे ३, २३९; -ष्वच् आश्री ८,  
१, २; शाश्री, वृदे २, १२९; ९३.

२२; १२१; ४, १०; शुज ४,  
५९९; निघ ५, ६; या १२,  
२३४; ३४.  
दध्यह्-पुत्र- -त्राणाम् चास ३०:  
२०.

१दधि-> १दधि-का- -का: आश्री  
२, १२, ५; वीश्री १३, ८: ५;  
२८, २: ३६; अप ४८, ९३;  
१३७; वृदे १, १२४; २, ५६;  
निघ १, १४; ५, ४; या २, २७४;  
२८<sup>१</sup>x; -काम् ऋभ २, ७,  
४४; वृदे ४, १०२.

दाधिक- -कम् ऋभ २, ४,  
३८; ७, ४४; वृदे ५, १७३;  
-क्राणाम्, -क्राणि वृदे ५, १;  
-के वृदे ५, १७३.

दाधिकी- -स्त्री साज १,  
३५८.

दधिक- -कम् जंश्री २५: ६;  
जैश्री १५.

१दधि-भावन्- -वा आश्री २, १२,  
५; आपमं १, १४, ६; अप ४८,  
९३; ९शुज १, ५६६; ३, ३३;  
निघ १, १४; -घ्या: आश्री २,  
१२, ५, ६, १२, १२; ८, ३, ३२२;  
शाश्री; आग्निष्ट २, ६, ८: १०?;  
-स्ये ९श्रीश्री १३, ८: २, २८,  
२: १९.

१द(ला)का)धिवासम् आग्निष्ट २, ५,  
१२: ३.

दधिपाय्य- -√पा द.  
१दधिपे<sup>१</sup> आपश्री ४, १०, ४; भाश्री ४,  
१५, २; द्विशी ६, ३, २.

१दधीतस्य<sup>१</sup> चाय १६: ३.  
दधृप्- -√धृप् द.

१दितः<sup>१</sup> अप ४८, ११५; वृदे २, ११६;  
निघ ४, १; या ६, ३१.

दनायु- -यु: वृदे ५, १४४.

दनु- -पाठो २, १, ७९; -नु: अप  
५२, १०, २; वृदे ५, १४४<sup>१</sup>.

दन्त- -पाठ ३, ८६; पाग ५, २, २४;  
पागवा ५, २, ९७; -न्त: द्विशी  
१४, ३, ३५; या ९, १९<sup>१</sup>;  
-न्तस्य पा ५, ४, १४१; -न्ता:  
शाश्री १५, १८, १; अप; -न्तात्  
आपश्री १०, १३, ४; वीश्री; -न्ते  
अप ७२, २, ६; शुपा १, ६९;  
ऋभ २, १, ७; -न्तेन आग्निष्ट  
२, ६, ७: ३०; -न्तेषु काष्ट ३२,  
१; काष्ट ४४: १८; अप २,  
१, ५; -न्तै: काश्री २, २, १६;  
वेताश्री; -न्तौ निम् १०, १३: ५.

दन्त-काष्ठ- -कम् आग्निष्ट ३, ११  
२: ३; कष्ट १, १०, ३; विघ-  
६१, १७.

दन्त-ज- -जा: द्वि १, १२.

दन्त-जनन- -नात् वैष्ट ५, ११: ६-  
७, ५: २; वाघ ४, १०; वीघ  
१, ५, ९२: ९३.

दन्त-जन्मा(जन्म-आ)दि- -दि गौघ  
१४, ४१.

दन्त-जात- -पाग २, २, ३७<sup>१</sup>; -त:  
वैष्ट ५, ९: १; -तस्य वैष्ट ५, ९:  
११; -तानाम् वीपि ३, ६, ४;  
-तै विघ २२, २९.

दन्त-जाह- -पा ५, २, २४.

a) लृ. (पा २, १, १५)। लप. = सोम-। b) विभाष्यैकवद्भावः (पा २, ४, १२)। c) = दधि-समुद्र-। वस.।  
d) निघ.। वस.। e) वैप १ द.। f) पाठो. वैप १, १५४२ ० द.। g) = वृक्ष-विशेष-। h) = लच्छन्द-वन्-।  
साम-विशेष-। i) ऋषिणः इति पाठः? यनि. शोषः। j) पाठः? दधयी-> -पि इति शोषः (तु. सप्त. मै ४, २, ५;  
०. [आपश्री.] च)। k) पाठः?। = [प्रहरणतः] ऋषि-विशेष-। l) = दध-सुदृष्ट-। व्यु. ?। m) पुं. स्त्री. च।  
व्यप.। व्यु. ?। n) तु. पागम.। :

दन्त-धावन<sup>१</sup>- नम् वीथी १७,  
३९ : २; आमिष्ट; -ने कौत्  
१४१, १४; -नेन माथी १०, ३,  
१७.

दन्त-प्राद-हृदयो(य-उ)दक-नासिका-  
सह-समान-नाथि(?) -आपा-दार-  
मात् (३स)<sup>२</sup> -मास(३सा): अप्रा  
२, ४, ६.

दन्त-प्रक्षालन<sup>३</sup> - नम् आपथ १,  
३२, ९; द्वि १, ८, ५१; -नानि  
आपथ १, ८, २३; द्वि १, २,  
११०.

दन्तप्रक्षालना(न-आ)दि - नीनि  
पाठ २, ६, ३२.

दन्तप्रक्षालनो(न-उ)स्वादना( न-  
ख)वलेखन- -नानि आपथ १,  
८, ५६.

दन्त-भङ्ग - ङा: अप ६४, ६, ७.

दन्त-मूल - लानि अप ४७, २, ४;  
वीथ १, २८; -ले शुभा १, ६८;  
-लेभ्य: अप ४७, २, ५; तैप्रा २,  
४१; -लेयु अप ४७, २, ५; तैप्रा  
२, ६८, ४२; -ले: वीथी ३, ४, ५,  
१११.

दन्तमूल-स्थान - नम् आशि  
१, १४.

दन्तमूलीय<sup>४</sup> - य: ऋप्रा १,  
४४; याशि २, ९४.

दन्तमूह्य<sup>५</sup> - न्य: पाशि १८.

दन्त-रजस - जसा कौत् ३१, १४.

दन्त-राग - ना: वीथी २, ५ :  
२११.

दन्त-रगत - ननेषु शेष ६२; वीथ  
१, ५, २०.

दन्त-वत् वाघ ३, ४१; शेष ६२;  
वीथ १, ५, १९<sup>६</sup>; २०; वीथ १,  
४४.

दन्त-वेष्ट<sup>७</sup> - ष्ठी विप ९६, ९२.

दन्त-राष्ट्र-मणि-रजत-सौवर्ण-  
-गानाम् काथ २७७ : ८.

दन्त-दिलष्ट - ष्ठेषु वीथ १, ४४.

दन्त-सक - केयु वाघ ३, ४१;  
वीथ १, ५, १९.

दन्ता( न्त-अ)प्र- पाथ ४, २,  
१३८<sup>८</sup>; -म्रेण अप १८, ३, ७;  
-मै: शुभा १, ८१.

दन्ताम्रीय - पा ४, २, १३८.

दन्ता(न्त-अ)जि<sup>९</sup> - जये जैय १,  
२ : २२; -जि: जैय १, २ : १४.

दन्ता(न्त-अ)न्तर-वेष्टित - तम्  
विष २३, ५३.

दन्ता-बल - पा ५, २, ११३.

दन्ता ( न्त-आ ) विन्वरण - गम्  
माथी २, १, २, ३२.

दन्तुर - पा ५, २, १०६.

दन्तूल - पा ५, २, १७.

दन्तो(न्त-उ)ल्लखल-> खलिक<sup>१०</sup>-  
-क: आमिष्ट २, ७, १० : ९;  
विष ९५, १५; -का: वीथ १,  
८, १.

दन्तो(न्त-ओ)ष्ट - ष्टम् नाशि २,  
८, १३; -ष्टी अप ३३, १, ९;  
शैशि १६२; याशि १, १७.

दन्तोष्ट<sup>११</sup> - ष्टय: आशि १, १६६.

दन्त्य - न्य: ऋत ५, ७, ११;  
-न्यम् ऋत ४, ४, ८; द्वि १,  
२; -न्यस्य शुभा १, ४२;

-न्या: शुभा १, ७६; ८, ४०;  
पाशि १७; याशि २, १; ९४;  
आशि १, १५; द्वि १, ३;

-न्यात् ऋत ४, ४, ४; -न्यात्  
ऋप्रा १४, ३९; -न्यात् वीथ  
१, २४; आशि २, ८; -न्ये  
ऋत ५, ३, ४, ७, ९; पा ७, ३, ७३.

दन्त्य-मूर्धन्य-भाव - न्य: ऋप्रा  
५, ६१.

दन्त्यो( न्य-ओ )ष्ट - ष्ठी माशि  
१५, ३.

दन्त्योष्ट-करण<sup>१२</sup> - गम् माशि  
१४, १०.

दन्त्योष्ट-विधि-विस्तर -  
-ग्म् द्वि १, १.

दन्त्यो( न्य-ओ )ष्ट<sup>१३</sup> - ष्ठा: ६  
शैशि ४३; पाशि १७.

दन्तूक - √दंश् द.  
दन्तुमणा - √दंश् द.  
दन्धि - √दंश् द.  
दन्धकी<sup>१४</sup> - की: द्विथी २१, ३, १०.

√दंश्, दंश् पाथा. स्वा. पर. दम्भने,  
दभम् वीथी ६, ३१ : १११;  
दंभमाथि आथी ६, १४, १८;  
२, ५, २; माथ २, १७, १;  
दंभेयम् वीथी ३, १८ : १४;  
माथी ४, १४, ४; माथी १, ४,  
२, ४; वीथी १, १, ३, ४.

दम्भोति अप ४८, १९१; ऋिष

a) भाष., नाप. (दन्त-काष्ठ-)। उप. <√धाप् [शुद्धी]।

प्राप्तुं (=प्रा-अप्-सुं) इति संस्कृतं: शोधः?। c) =दन्त-धावन-।

d) सप्र. दन्तप्रक्षालनो <> पादप्र-  
क्षालनो इति पाभे.। e) छ > ह्यंयः प्र. वसं. (पा ४, ३, ६२)।

f) नवायं यत् प्र. (पा ४, ३, ५५)।

g) नाप.। उष.। h) कर्षः!। =ग्राम- इति कथित [तु. पागम.]।

i) वानप्रस्थ-।। मावधीयत् ष्ट् प्र.। k) परस्परं पाभे.। l) कस.। m) =व्यप.। व्यु. ?। n) या ३, २०  
पा ७, ४, ५६ पराष्टः द.।

b) द्वस.। आसः सुस्ति इति पाठे

d) सप्र. दन्तप्रक्षालनो <> पादप्र-  
क्षालनो इति पाभे.। e) छ > ह्यंयः प्र. वसं. (पा ४, ३, ६२)।

f) नवायं यत् प्र. (पा ४, ३, ५५)।

g) नाप.। उष.। h) कर्षः!। =ग्राम- इति कथित [तु. पागम.]।

i) वानप्रस्थ-।। मावधीयत् ष्ट् प्र.। k) परस्परं पाभे.। l) कस.। m) =व्यप.। व्यु. ?। n) या ३, २०  
पा ७, ४, ५६ पराष्टः द.।

२, १४; १९; या ६, ३; दम्नु-  
वन्ति या ५, १२<sup>१</sup>.  
देषुः या ५, १२<sup>१</sup>; षुदमन्  
आपथी ४, ६, ४; १६, १८, ७;  
बौथी; या १४, ३७; अयाय २,  
५<sup>१०</sup>.  
षुद्विप्लवि बौथ ४३, ३७; अय  
३२, १, ८; अया ३, १, १३.  
षुद्विधि- ष्विधः आपथी ४, ९,  
१३; बौथी.  
दम्<sup>१</sup>- आथ आपथी ८, १०, ११<sup>१</sup>.  
दम्<sup>१</sup>- पाग ३, १, १३४; -म्मः  
आपथ २, २३, ५; द्विष १, ६, १३.  
दामिक- काः अय ५१,  
५, १.  
दम्भ-दुर्ष-लोभ-मोह-क्रोध-  
विवर्जित-न्ताः बौथ १, १, ५.  
दम्भ-लोभ-मोह-विमुक्त-न्ताः  
गौथ ९, ६.  
दम्भ<sup>१</sup>- पाठ २, १३; पाग ४, १,  
१५१<sup>१</sup>; -अम् निष ३, २; २९;  
या ३, २०, -आः शोण ३,  
१३, ५<sup>१</sup>; -आणि या ३, २०<sup>१</sup>.  
दम्भ-मिथ-आ. बौथी २६, ३२ :  
२८.  
√दम्<sup>१</sup> पाथा. दिवा. पर. उपरमे,  
दम्भेय गौथ ११, ३०.  
१दम्<sup>१</sup>- मः वाथ ६, २३; आपथ,  
-मेन विष ७२, ५; द्वे ८, १३०.  
दम्भ-दान-शील-लः गौथ ९,  
७०.  
दम्भ-मनस्-नाः या ४, ४.  
दम्भ-यम-मेन विष ७२, १.

√दमाय<sup>१</sup>, मदमायः ऋषा ९,  
५०.  
दमायन्- -यन् ऋषा ९, १६.  
दमय- पाठ ३, ११३.  
दमन- पाग ३, १, १३४; -नः ऋष  
२, १०, १६<sup>१</sup>; दुष्य ४, ५५<sup>१</sup>;  
-नात् गौथ ११, ३०; या २, २.  
दमन-शील- लम् या १४,  
१८.  
दमित- पा ७, २, २७.  
दमितृ- ता बौथी १८, ३१ :  
१६<sup>१</sup>.  
दमितृ- पा ३, २, १४१.  
दम्भ<sup>१</sup>- न्यौ बौथ १, २, ६१.  
२दान्त- पा ७, २, २७; -न्तः  
निय ५, ८ : १५; वाथ २९,  
२१; आपथ १, ३, १९; विष  
८९, ४; द्विष १, १, १२; चय्य  
४ : १७; -न्तम् आपथी २०,  
२, १०, द्विथी १४, १, २४; अय  
३, ३, ८; विष ९२, १०; -न्तव्य  
आमिष्ट २, ५, १ : ५२; जैय २,  
९ : ३८, विष ७२, ३, -न्ताः  
अय ३०, २, १; ३१, ७, १; ५१,  
४, ३; -न्तेन आपथी ६, २९, ८;  
-न्तेषु द्राथी ५, ४, १९.  
दान्त-शान्त- -न्तयोः पावा  
७, २, २७.  
२दम्<sup>१</sup>- मः अय ४८, ८९<sup>१</sup>; या ४,  
४; -मे बौथी ३, ८ : २८;  
निष ३, ४<sup>१</sup>; -षुमेऽन्ते आपथी  
२, ८, ३; शोथी २, ४, ३<sup>१</sup>; बौथी  
८, १९ : १८.

३दम्<sup>१</sup>- मम् शेष ११६ : ६१<sup>१</sup>.  
दमुनस्- पाठ ४, २३५.  
दम्न<sup>१</sup>-> ष्व-व(त्<)शी<sup>१</sup>- -यौ  
बौथी २८, २ : ४३.  
षुदमूनस्<sup>१</sup>- नाः आथी २, ११, ९;  
१३, ५४४; शोथी; या १, १४;  
२, २, ४, ५<sup>१</sup>; अया २, २, ९; ३,  
४, १.  
द्विघना अय ४८, ११६.  
दम्पति<sup>१</sup>- -विध्याम् आमिष्ट १, ५,  
५ : ११; १२; ६, ३ : ६४<sup>१</sup>; ६५<sup>१</sup>;  
-ती माथी ३, ३, ६; वाथी; पाग  
२, २, ३१; -त्योः अय ३, १, १;  
अय.  
√दम्<sup>१</sup> √दम्<sup>१</sup> द.  
√दय<sup>१</sup> पाथा. भ्वा. आत्म. दानगीत-  
रमणहिमाऽऽदानेषु, दयते अय  
४८, ११६<sup>१</sup>, निष ४, १<sup>१</sup>; या ४,  
१७; दयन्ति अय ४८, ११६<sup>१</sup>.  
षुदयमान- नः या ४, १७; -नाः<sup>१</sup>  
या ४, १७; ९, ४३.  
दया- -या वाथ १०, ५; विष २,  
१६; गौथ ८, २१.  
दया(या-अ)न्वि(त>)ता-  
-तासु विष ९९, २२.  
दया-पूर्व- -वैग्य बौथ २, १०,  
५०.  
दया-युक्त- -क्तः वैथ ३, १२, ८.  
दया-सत्य-शौचा(घ-आ)चार-  
युत- -ताः वैथ १, ४, ४.  
दयालु- पा ३, २, १५८; -लुः वैथ  
३, ५, ७.  
दयित- -तम् वैथी २०, १७ : १;

a) ष्यन् इति पाठः ? यनि. शोथः (द्र. सपा. ऋ १०, १२०, ४) । b) भवेत् इत् । c) आप., नाप.  
(पाग.) । d) वैथ १ द. । e) = ऋषि-विशेष- । द्र. पागम. । २दम्भे- इति भाष्य. प्रथ. । f) पा १, ३, ८९;  
३, २, ४९, ७, ३, ७४ पराष्टः द. । g) विष., भाप. । h) = ऋषि-विशेष- । i) नाप. । यत् प्र. (पा ३, १,  
१८) । j) = ऋषि-विशेष- । k) मदम् इति ऋषु २१९, २० । l) = इमूतव (ऋ ५, ४, ५) । m) = संयाज्या- ।  
न) या ४, १७ पा ३, १, ३७ पराष्टः द. । o) पागे. वैथ १, १५४६ क द. ।

विष २२, ३२.

दर- ✓द, दृ (विदारणे) द्र.

वरक- पाठना ५, ४४.

वरण- ✓द, दृ (विदारणे) द्र.

श्वरदृ- पाठ १, १३०.

ददरदृ [L.दृ] - पाग ४, ३, ९३;

-शान् अण ५०, २, २.

दारद- पा ४, ३, ९३.

दरि- पाठमो २, १, १५२.

दिरिद्र- -०द्र शुभ २, २०; -द्र:

वैष्ट ४, ४: २६; क्य; वा १२,

१४; -द्रम् काथी २५, ११,

२५; बौधो; -द्रान् श्मिष्ट ३,

३, १: ७; ११, १: ११.

दरिद्र-ता- -ता अण ६७, ८, ७.

दरिद्रो [क] > पदरिद्रो-कृष्ण बौध १, २, ५७.

✓दरिद्रा<sup>१</sup> पाषा. अवा. पर. दुर्गंतो.

दरिन्- ✓द (आदरे) द्र.

दरु- ✓द, दृ (विदारणे) द्र.

दरु- पाठमो २, ३, ३५.

दरु- पाठ ४, २०.

दरु- पाठ १, ४०; -र: विष ४४, २७; -रम् अण ४८, ८०, ८०.

दरु- पाठ ४, ४, ३४.

दरु- (र-उ) दर-देन- -बौ याति २, ६५.

दरु- पाठ १, ९०.

दरु- दरण- दरित- ✓दृ द्र.

१दर्भ- पाठ ३, १५१; पाग ३, १,

१३४६; ४, २, ८०; ३, १४२;

-०र्भ अण १९, ३२१; -र्भ:

आपथो १, ६, १०; बौधो; -र्भम्

आपथो १, १४, ६×४; भाधो;

-र्भा: आपथो २, ११, ८; १५,

१६, ५; बौधो; -र्भाणाम्

आपथो १, ५, १२; ६, ४; भाधो;

-र्भाण् आपथो १, ३, ६×४;

काठश्री; -र्भानाम् माथो १, ८,

२, २३; -र्भान्याम् माथो १, ८,

३, ३; २, ५, ३, ७; वाथो; -र्भाण्य

वैष्ट २, १२: १३; -र्भे वैश्री ३,

५: १२१; १२, ६: ३; द्विथी १,

३, ४१; वैष्ट २, ९, ३; -र्भेण

आपथो २, १, १; बौधो;

-र्भेण आपथो १, १६, १०; २,

४, १०; ६, ८, ११; १४, २०,

८६; १५, २१, १०; काठश्री;

-र्भे: आथो ३, १२, १६; वापथो;

-र्भो आपथो १, ११, ६×४;

माथो.

दर्भ- -र्भम् वैश्री ३, ५: ५;

द्राथो १०, ४, ३; लाथो ३, १२,

३; -र्भे जैथीका ७; द्राथी

१२, ३, ७; लाथो ४, ११, ८;

-र्भेण काठ २५, ४.

दर्भ- -र्भा द्विथी १४, १,

२०; -र्भाण् द्विथी ४, ३, ६११;

३, १७; -र्भे: द्राथो ११, १, ३;

लाथो ४, १, २.

दर्भ-कुलाय- -यम् बौधो ३, १:

५; १३.

दर्भ-कृष्- -र्चान् माथो ४, ४, ८;

-र्भेण क्य ३, १०, १.

दर्भ-सुर-कर्मन्- -र्भे काठ ४०,

११.

दर्भ-गुल-मुष्टि- -द्विना<sup>१</sup> वाथो २,

२, ३, २३.

दर्भ-गु-मुष्टि- -द्विना आपथो १७,

१३, ६<sup>१</sup>; द्विथी १२, ४, ८<sup>१</sup>;

आपथ २०, ११.

दर्भ-वटु- -डो क्य २, ९, २५०.

दर्भ-वहण- -णान्याम् माथो ६,

१४, १६; भाग १, ३: ८; द्विष्ट

१, १, २७; जैष्ट १, २: ५, -जेन

आपथो १२, २४, ५; वैथी १५,

३१: ४; द्विथी ८, ७, ४३; -जो

वैथी २, ९: ५.

दर्भ-वहणक- -के शुभ १, २९५;

-के: आठ ४, ६, ११.

दर्भ-वृण- -णान्याम् द्विथी ३,

७, ११५; श्मिष्ट १, १, १:

३२.

दर्भ-वाडी- -डी: बौधो १, ३: ३;

-दीम् बौधो ६, १२: ७; १२,

९: १; वैश्री ३, ४: ४; -व्या

वैश्री १२, १६: ६; -व्याम्

बौधो ६, १२: ६; १२, ९: ४;

-व्यो द्विथी १, २, २८.

दर्भ-पवित्र- -त्रे गाथो ४, ३, ७.

दर्भ-पवित्र-पाणि- -णि: अण

१८, १, १०; शेष ३९०.

दर्भ-पाणि- -णि: काठ २, ४; माठ

१, ४, ५; ५, ३; वाठ ८, ५;

विष ७३, २५.

दर्भ-पिञ्जल- -व्यानि माथो १०,

a) = देश-विशेष-। व्यु. ३।

b) [पक्ष] माडा., पागम.।

c) वैष १ परि. १दरिद्र- द्र.।

d) पा ६, १, ६; १२२; ४, ११४ पावा ६, ४, ११४; ७, २, ४९ परामुष्ट: द्र.।

e) = मण्डक, उदर- [अण.]।

f) वैष १ द्र.। g) दु. पागम.। h) दर्भेणु निपाय इत्यस्य स्याते सप्र. वैथी २१, ६: ८ उपविष्टम्

इति पामे.। i) विकारायै अण् प्र. (पा ४, ३, १३५)। j) च्चिम् इति पाठ: ? यनि. शोष: (दु. भाष्यम्)।

k) वैष १ द्र.। l) परस्परं पामे.। m) = दर्भेणुमुष्टि-। n) दर्भ-वटु- टि. द्र.। o) च्च्यौ इति जीसं.।

p) विप.। यत.।



३,१२; -आम्याम् माथी १०, ४,८; -लेन माथी १०,४, १२; -ऌैः माथी १०,५,१.  
 दम-पिन्जुली-ऌीः गोष्ट २,९,१४; छ, २,२८; जैष्ट १, ११ : ११; द्राष्ट २,३,२४; ३,५, २०; -ऌीभिः गोष्ट २,७,५; कौस्त २५,३७; -ऌीम् गोष्ट ४,३, २; १३; -ऌवः गोष्ट २, ९, ४; -ऌया कौस्त ५३,२०; ७२,१४.  
 दम-पिन्जुली-शेष- -पान् जैष्ट १, ११ : १९.  
 दम-पिन्जुली-ऌानि माथी ३, ८,३; काष्ट ७२, १; -ऌाम्याम् माथी २,१,१,३५; -ऌैः माथी १,१,१,१८; २,१,१, ४०; कौष्ट ५,८,५; पाष्ट १,१५,४.  
 दम-पिन्जुली-वत्- -वता शांष्ट ६,२,१२.  
 दम-पुञ्जोल-ऌम् बौथी ८,१५ : २८, २१, २४ : ३; २५, १० : १; -ऌान् आपथी १४,२०,८, वैथी २१,६ : ७, दिथी १५,५, २४, -ऌानि बौथी २,८ : ७××; वापथी; -ऌाम्याम् आपथी १०,६,११; दिथी १०,१,४; -ऌेन आपथी १०, ७, ३; वैथी १२,७ : ७; दिथी १०, १,४६; -ऌैः आपथी १,२,३××; बौथी.  
 दम-पुलीक- -पाग २,४,११.  
 दम-पुलीक-भाज्ञा- -ज्ञाभिः कौस्त २२,१४.  
 दम-पुल- -लेन वैष्ट ३,१६ : १०.  
 दम-धमृति- -सवः अप ३३,१,७.

दम-श्रान्त- -ऌानि कौस्त ५३,२.  
 दम-मणि- -णिम् अज्ञा १९,४;६.  
 दम-मण्डलद्वीपि- -विभिः द्राष्ट ४,२,७.  
 दम-मव- पा ४,३, १४४; -यम् आपथी १, ३, ५; १८, ५, ८; बौथी; -ये आपथी १५,५,२०; माथी ११,५,२७; वैथी १३,७ : २२; दिथी २४, २, ६; -येन कौष्ट ५,३,२४; दिपि ८ : १.  
 दम-मयी- -यी आपथी २०, २, ७; -यीः बौथी ३,१ : ५; १४; -यीम् वाथी ३, ४, १, १४; -ऌयी आपथी ७,११,२; माथी ७,८,१८.  
 दम-मुष्टि- -ष्टिता द्राथी ५,३,२३; लाथी २,७, २०; आमिष्ट २,५, ९ : ४; बौष्ट ३, ५, १९; जैष्ट २,६ : ४, -ष्टिम् काठथी ३; १२; माथी; -ष्टीन् माथी २, ५,२,९, माष्ट १,६,२.  
 दम-मूल- -ऌे वैथी १२, ६ : ८; विष्ट ७३,२२.  
 दम-न- पा ४,२,८०.  
 दम-रज्जु- -ज्जुम् वैष्ट ५, ६ : ४; -ज्जवा माष्ट १, ११, ५; कौस्त १६,२५,३९,१९.  
 दम-रज्जु-संवीत- -ताः वैष्ट ५, २ : १४.  
 दम-रोम- -मा विष्ट १,३.  
 दम-लवत- -नम् कौस्त ८,११.  
 दम-खटु- -खटुम् गोष्ट १,६,२१.  
 दम-चीता- -तासु आप ४,८,२७.  
 दम-दार- पा २,४,११.

दम-शुल- -शुलम् कौस्त ४६, १९; -शुलेन वाष्ट १४,२.  
 दम-शेष- -यम् आपथी २,१,१०.  
 दम-संख्या- -ख्या कष्ट २,९,२५.  
 दम-संमित- -तम् गोष्ट ४,७, ९; द्राष्ट ४,२,९.  
 दम-सुवी- -ऌया कौष्ट १,१४, ७; वाष्ट १,२२,९.  
 दम-स्तम्ब- -म्बः बौथी २२,१९ : १७; -म्बम् आपथी २,५,४××; बौथी; -म्बस्य बौथी २२,५ : १६; -म्बे आपथी २,३, ९××; बौथी; -म्बेषु बौष्ट ३,५,१८; अयाष्ट ५,२.  
 दम-स्तम्बी(स्व-उ)पति- -ऌी अप ७२,३,११.  
 दम-स्तम्भ- -म्भम् काष्ट ४३,४.  
 दम-दन्त- -रतौ वाष्ट ५,२५.  
 दम(मं-अ)प्र- -प्रम् माथी १, ८, ४, २४; बौपि २, ९, ४; कौस्त ४४,३७; -प्राम्याम् कौस्त ६१, ६; -मे आपथी ६, १५, ५; आमष्ट १,२२; बौष्ट १, ३, ११; द्राष्ट १,२,१२.  
 दम(मं-अ)मुष्टि- -ष्टिता आपथी १६, २१, ३; वैथी १८, १६ : २८; १९,६ : ७१; दिथी ११, ७,४.  
 दम(मं-अ)दि- -दीन् अप ३३, ५,८; वैष्ट २,१,६.  
 दम(मं-अ)तर्हित- -तेषु काष्ट ४, ७,१०.  
 दम(मं-अ)म्बर-धर- -राः वैष्ट ५, २ : १४.

a) गोष्ट. पाठः। b) वैष्ट १६.। c) 'पुली' इत्यपि पागम.। d) = रसाकरण-विशेष-।

e) वृ. ज्ञान.। कम. उप. दस. > मत्वर्थायः प्र.। f) सय. गोष्ट ४, ७,१२ चादासंमिते मण्डलद्वीपसंमितम् इति पाभे.। g) विष्ट.। वस.। h) = छत्रि-। कास. उप. करणे प्र.। i) = [प्रक्रणः] कुशानिर्मिता-पुत्रिधा-। सपा. 'खटु' इति [लैवि.], 'खटु-', 'खटु'- [गु. श्रव.] इति [वावि.] च यथायथं पाभे.। j) उप. = रूपमाग-।

दर्भा(भं-अ)र्भ- -ये अण ३१,१,१.  
 दर्भा(भं-अ)नस्तीर्भ- -ये कौस् २१, २३.  
 दर्भा(भं-आ)सन- -नेपु वीण्ड ३,१३: ३.  
 दर्भा(भं-आ)हार- -नाय कौस् १, २४; ६१,३८.  
 दर्भे(भं-इ)ण्डव- -ण्डवम् गोवि १, ३,२; -ण्डवे कौस् २६,३०.  
 दर्भे(भं-उ)ण्व- -ण्वम् आपण्ड ४,८.  
 दर्भे(भं-उ)भमावर्हिः-परिधि-विपटित-  
 पवित्र-हविः-कपाल-सुक-सुवा  
 (द-अ)रणि-कृष्णाजिन-प्रणीता-  
 (ता-अ)म्युद्वासन- -नेन वीथी  
 २८,१०:९.  
 दर्भे(भं-इ)वीका- -यथा आपथी  
 १०,७; ३; माथी १०,४,१३;  
 द्विथी १०,१,४६; -कामिः माथी  
 २,१,१,३८; माथ १, ११, ८;  
 -काम् अण ३६,६,२; १४,१.  
 दर्भे(भं-उ)पवळ्प्ला(प-आ)सन-  
 -नेपु आमिण्ड २, ३,३: ६.  
 दर्भे(भं-उ)ल्लक, लका- -लकया वैष  
 २,१५,४; -ल्लेन वैण्ड १,१२ ९.  
 दर्भे(=दलभ-)- -वा ४, १, १०२;  
 पाण्ड ४,१,१५१<sup>१</sup>.  
 दार्भायण- -वा ४,१,१०२; -णा:  
 वीथीप्र ३: २; ४४: १.  
 दार्भि- -र्भेयः वीथीप्र १७: १७;  
 -भिः वीथीप्र १०: २.  
 दार्भे- -वा ४,१, १५१; -र्भेयः वृद्धे  
 ५,५०; ७६; ७७; -र्भ्याः वीथीप्र  
 २२: १.  
 दर्भण- -वृष्ट् (प्रभे) द.

दर्भन- -वृष्ट् (विदारणे) द.  
 दर्व- -पाठ १, १५५; -व्यं षाण्ड  
 ४, १५, १९<sup>१</sup>; -र्वैः वीथी १५,  
 १९: १५<sup>१</sup>.  
 दर्वि,र्वी- -पाठ ३, ८४; ४, ५३;  
 -र्वीं वीं आथी २, १८, १३<sup>१</sup>;  
 काथी ५, ६, ३०<sup>१</sup>; आपथी ८,  
 ११, १९<sup>१</sup>; वीथी; पावा ७, ३,  
 १०९; -र्विः काण्ड ६३, १४<sup>१</sup>;  
 कौस् ८८, ८<sup>१</sup>-१०<sup>१</sup>; अण्ड ४, ४,  
 ४<sup>१</sup>; विष ७३, १७-१९; अण्ड  
 २, ६<sup>१</sup>; -र्विम् वीथी १५,  
 ११: १२; वृकौस् ८७, २४;  
 १३८, १२; -र्वीं वीण्ड १, ३,  
 १३; १४<sup>१</sup>; कण्ड; -र्वीः वाधुथी  
 २, ५: १<sup>१</sup>; -र्वीम् आपथी ८,  
 ११, १९; वीथी; -र्वीं वीं माथी  
 १, ७, ५, २९; माथी १, ७, ३, २१;  
 वेताथी; -र्व्यां वाथी ५, ६, ३०;  
 आपथी; -र्व्याम् वीथी १७,  
 ४१: ६; १२; माथी.  
 दर्वि-कृच-प्रस्तर-परिधि-वर्हि-  
 विपटित-पवित्र-वेदे(द-उ)षवेपे-  
 (प-इ)म-द्रव्य-संभार-  
 -नाणाम् वीथी २७, १: २२<sup>१</sup>.  
 दर्वि-कृच- -ने कौस् ६२, ४; ६८,  
 ३०.  
 दर्वि-दृष्ट- -वृद्धे वीथी १७, ४१:  
 ६; १२.  
 दर्वि-होम- -मः काथी १५, ३, १४;  
 आपथी २२, २५, २१; २४, ३,  
 २; द्विथी ३, ८, १६; २३, ४,  
 १५; मीस् ८, ४, १; -मम्  
 वीथी १४, ११: २८; -मा:

काथी ६, १०, १७; आपथी  
 १३, १, ४; २२, १८, १९; वीथी;  
 -मान् आपथी २४, ३, ९; द्विथी  
 ३, ८, १५; -माय वाधुथी ४,  
 १०३<sup>१</sup>: ६; -मे कौस् १३८,  
 १५<sup>१</sup>; -मेन काथीसं २९: ७;  
 -मेम्बः द्विथी ३, ८, २३; -मेपु  
 माथी ५, ११, ३.  
 दर्विहोमिक, का- -कः  
 माण्ड २, १५: ५; -कम् आमिण्ड  
 १, ६, ३: ५८; -का माण्ड ३,  
 १: २८; -काम् माण्ड ३, १:  
 २९.  
 दर्विहोमिकी- -कीम्  
 वीथ २, १, ३३; ४, २, १०.  
 दर्विहोम-चोदना- -ना वाथी १,  
 १, १, २४.  
 दर्विहोम-धर्म- -र्मैः वाथी १,  
 १, १, २७.  
 दर्विहोम-वद वीथी १३, ८: ६.  
 दर्विहोम-सरकार- -रेण आपथी  
 १५, ६, ७; माथी ११, ७, १.  
 दर्विहोम(म-अ)का- -रम्  
 वीथी १०, ५३: १.  
 दर्विहोमिन्- -मी या १, १४.  
 दर्वी-कृच-प्रस्तर-परिधि-वर्हि-  
 पवित्रे(म-इ)म-द्रव्य-संभार-  
 -नाणाम् वीथ ४, २, १<sup>१</sup>.  
 दर्वी-दृष्ट- -वृद्धे आमिण्ड १, ३,  
 ४: ७.  
 दर्वीदृष्ट-सूत्र- -नेण आमिण्ड  
 १, ३, ३: १८.  
 दर्वी-निष्टपन-काल- -ष्टे आमिण्ड १,  
 ७, ३: १७.

a) नाव. । उत. उप. कर्त्तरि इत् ।      b) समाहारे द्वम. ।      c) वेप १ द. ।  
 d) दन्न-दि. द. ।      e) = दर्वि- । व्यु. ३ ।      f) < वृ (विदारणे) ।      g) पाभे. घृ ८१७ अ द. ।  
 h) पाभे. वेप १, १५४० क द. ।      i) सप्र. दर्वि < > दर्वी इति पाभे. ।      j) तस्येदमीयत् उह प्र. ।  
 k) विप. । यत्. ।

दर्वी-प्रमाण- णम् आसि २, ३, १: १३.

दर्वी-सुक्-खुव-प्रणीता (ता-आ)ज्य-स्थानी-वरस्थाडी- स्त्री: वैश ४, १: २.

दर्वी-होम- ऋ. वीश १, ४, ३९; -मम् वीश ४, ९, ३; -मस्य वीश १, ४, ४४; -मेत वाधुश्री ४, ९४: ६; ९: ९६: २२.

दर्व्या(वी-आ)हृति- -नि ऋष २३, ४, ५.

दर्व्या(वी-आ)धमन- -नम् पाठ २, १४, २४.

दर्व्या(वी-२आ)घ- -घम् ऋष २३, १, ३.

दर्व्यु(वी-उ)दायुव- -नम् ऋषयो ८, ११, १६; माश्री ८, १२, ३; १३, ४; वैश्री.

१, २, २०- प्रय √दृश द. √दृल पाप्मा. भ्वा. पा. विदारणे, दार्ये, युवा. उम. विदारणे.

दृल- पाग ४, २, ८०; ५, ३, १३१.

दृलिन- पा ५, २, १३१.

दृलय- पा ४, २, ८०.

दृलिन- पाग २, १, ५९.

दृलनृ- (> दृलप्रक- पा.) पाग ४, २, ८०.

दृलय- पाठ ३, १४३; पाग ६, २, १३४.

दृलिक- पाठयो २, २, १५.

दृलीप- (> दृलीपि- > षायन- पा.) पाग २, ४, ६९.

दृन्म- (= १दर्म-) पाठ ३, १५१; पाग

४, १, १०५.  
दारुण्य- पा ४, १, १०५; -रुण्यः वीश्री १८, ३८: १६१; -रुण्यम् ऋष २, ५, ६९; -रुण्यस्य वीश्री १८, २६: १०; भाय २, ६: १६; शुभा ४, १६.

दरुमि- पाठ ४, ४७; पाग ८, २, ९.  
दरुमि-मत्- पा ८, २, ९.

द्वर- पाठयो २, २, ३८.  
द्वस्- > ष्व-वत्-, दविष्- पा ६, ४, ५५६.

द्वीयस्- पा ६, ४, ५५६; -यः या ९, १३१; भाषि १३.

द्वियुत- , दविषोत् √दृत् द.  
द्विध्वत्- √धृ द.

√दृश √दृश द.  
√दृश (= √दार) > \*दरास्- >

√\*दरास्, दरास्वति ऋष ४८, २८; दरास्वय > पा ऋषा ८, ३२; दरास्व > स्वा ऋषा ७, ३३.

दरास्वत्- -स्वत् ऋषा ७, ४५; -स्वन्ता आप्तं १, ११, ११३.

१दरा, दारा- -नया माश्री २, ३, ४, २०; २४; ५, १५; ६, १०; ४, २, ३६; -ना काश्री ४, १, १७; माश्री २, ३, १, १८; वैश्री ९, ६: १०; -ना: वीश्री २, ७, २०; शो २, १२, ५; -नात् वैश्री १, ३: २१; -नाभि: आप्तो १२, २९, ९; १३, १५, २; वीश्री; वैश्री १६, १८: ३१; -नाम् काश्री

२, ७, ६; शाश्री; -नायाम् काश्री ७, ३, २५; वीश्री; -नात् वीश्री ११, ६: २८; १२, ७: ३८; वैश्री १४, १४: १२; वीश्री ५, ४, ८; -शे लाश्री ८, ६, २२; -शेन गोपि १, १, १२.

दरा(शा-आ)ख्या- -स्या लाश्री ८, ६, २१.

दरा-ग्रन्थिक- -के कप्र १, ५, ९.

दरा(शा-आ)न्त- -न्तम् वैश्री १४, १४: १३; वैश्री ५, २: ४; शंघ ७२.

दरा-पवित्र- -ग्रम् काठश्री १२४; वीश्री ७, ६: २०; ८, १: २३; माश्री, -प्रस्य आप्तो १०, २६, ११; माश्री; -त्रे वीश्री ६, ३०: ३४; माश्री; -त्रेण काश्री ९, ५, २३; ६, १५; वीश्री.

दरा-वत् आप्तो १२, १४, ११.

दरा-स्य- -ग्रम् वीश्री ४, २, ६.

२दरा- (> दारय- पा.) पाग ४, २, ८०.

१दरात्- √दृश द.

२दरात्-, दरा-वि- दरात्- द.

दरान्- पाठयो २, १, २०७; -रा काश्री ५, १२, १५; \*शाश्री ७, १५, ७; १२, १४, १; काश्री; माश्री ५, २, ८, १७; ऋष १५, १७; १२, ४६; अर्ष ४: ५; या ३, ९१, १०; -नाऽ-ना काश्री ९, ३, १८; शाश्री; -\*नाभि: काश्री ४, ७, ४; शाश्री ५, १०, ८; काश्री; -नाभि: ५-नाभि:

a) विर. । बल. । b) उप. = मुख- । c) = दर्व्यन्त- । उप. < उदा/पु । d) व्यप. । ध्यु. ! । e) < दृलीप- इति पागम्., ऋष्ये द्व यनि. इति । f) = कापि-विशेष- । ध्यु. ! । g) वैश्री १ दृ. । h) ऋषा इति पाठः । यनि. गोष (द्र. ऋ. ८, ३१, १) । i) वैश्री १, १५५२ c दृ. । j) नाभिः इति पाठः । यनि. गोष (द्र. उत्तरं स्थलम्) । k) < दृलम् इति । l) पाठः । दृदरा इति गोष (द्र. ऋष्ये विशे स्थे दारय प्रेय-प्रणीयनि सा. । तैत्ति ३, ६, २, २) । m) पाठः । दरास् इति गोष (द्र. ऋष १५, १५) ।

आपथी १६, २०, १०; -दशयः  
 आपथी २२, १७, ६; वीथी;  
 -शसु आथी ८, १३, ८; काथी;  
 -शसु-शसु काथी १६, ७, १९;  
 वीथी; -शानाम् आथी ४, १३,  
 ७; आपथी.  
 दश-क- -कः शस्य १, ४, ६; १०,  
 ३; २, ३, २८; शुभ; -कम् वीथु  
 ४ : ६; ७; शस्य; -काः शस्य  
 १, ६, ७; शुभ; -काव वीथ ३,  
 ५, ७; -के शस्य १९, १७; वरं  
 २ : २९; -कैः शस्य १, ८, ३;  
 -की शस्य १, ७, ५, ९, ११; शुभ.  
 दशक-द्वय- -यम् शस्य ३, ४, ५.  
 दश-कद्वय- -द्वयः वाधुथी ३,  
 ४६ : २; -द्वयेभ्यः या ३, ९.  
 दश-कपाल- -लः काथी ५, १२, ३;  
 आपथी २२, १८, १८; वीथी  
 २६, ३० : १०; १३; -लम् शीथी  
 १४, १३, ७; काथी.  
 दश-कर(ण>)णी- -नी काशु २, ८.  
 दश-कृत्यस् (ः) काथी ७, ७, १०;  
 आपथी २, ७, ९; वीथी.  
 दश-क्रम- -मात् शुभ २, ९; १५.  
 दश-क्रम- -मम् निम् ४, ८ :  
 ३७; ९, १० : २८.  
 दश-न्(ण>)णी- -णा असा  
 २४, ४.  
 दश-गणा(ण-ञ)धि(क>)का-  
 -काः काथी १७, ७, ३०.  
 दश-न्(ण>)णी- -णी अय

१८, १९, ३.  
 दश-नाव- > था (य-ञ) घरा-  
 (व्ये>)प्या- -प्या कौल ८२,  
 ४१.  
 दश-गुण- -गम् अय ६९, ३, १;  
 शंघ ११४.  
 दश-गुणो(ण-उ)त्तर- -नात् गीथ  
 १३, १६.  
 दश-गुहीत- -त्तम् आपथी २, ७, ६.  
 दश-ग्राम- -पाव ४, २, ८०; ११६.  
 दशग्रामिन(क>)का-  
 -की- पा ४, २, ११६.  
 दशग्रामा(ग-ञ)प्यश- -शाय  
 विध ३, १२.  
 दशग्रामिक- -पा ४, २, ८०.  
 दशव- -वम् अत्रा ७, ४६.  
 दशव- -वात् पा ५, १, ६०;  
 -वातः आपथी ८, ५, ७; आपथी  
 २०, १४, ४; २२, १७, ५; हिथी  
 १७, ६, ४२; या ३, १०; -वातम्  
 आपथी ५, ८, ८१; २२, १७, ६;  
 वीथी.  
 दशव-अर्थ- -र्थे पावा ५, १,  
 ५६.  
 दशवत्त्रयं च- -अय १९, ४५.  
 दश-नाय- -यम् वीथी ६, ३ : १६;  
 वाधुथी ३, ७६ : ३६.  
 दशतवी- -वीथु आपथी १७,  
 २६, १०; हिथी; या ७, ८; २०;  
 ११, १६, १२, ४०.  
 दशतव- -ये वीथी २४,

१३ : ८; २५, ४ : ११; आमित  
 ३, ६, २ : २२; वीथि १, १० :  
 १८; शस्य ३, ३७; -येन निष्  
 २, ११ : २८; -यैः वाथी २, २,  
 ५, २६.  
 दशतयो- -यी अत्रा  
 १७, ४३; -यीः आपथी १४,  
 २४, २; वीथी २१, १२ : ८;  
 -यीथु वाथी १२, २, १६; २३;  
 वृदे; -ययः हिथी १, १, २०;  
 १५, ६, ३५६; निष् २, १३ : ७.  
 दशति- -तयः निष् ५, १२ : १२;  
 -त्यः उनिष् ४:३:३०; ५:२८.  
 दशन्व- -नद्यम् मीथु ३, ७, २७.  
 दश-दशन्-> शिन्- -शी शीथी  
 १३, २१, ७; आपथी २३, १४, ९;  
 हिथी १८, ४, ६४.  
 दशदशिनी- -नी शीथ ६,  
 ३, १४.  
 दशदशिन्तोम- -मे आपथी  
 १२, ५, २.  
 दश-दारु- -रुः आपथी ११, २,  
 १४; -रुम् आपथी १२, २, १३.  
 दशदधि(ह-इ)ध- -धम् माथी  
 २, २, १, १६.  
 दश-द्वादश-हस्त- -स्तम् अय  
 २१, ५, १.  
 दश-धा काथी १७, ३, ६; वीथी.  
 दश-धेनु-द- -दम् अय १, ५०, ६.  
 दश-धेनु-प्रद- -दः विध ९२, ६;  
 १०.

a) घृ १-५६ f द्र. । b) विप. । वस. । c) विप. (दृष्टक-) । कस. > फल. । d) समाहारे  
 द्वि. । e) समाहारे द्वि. ट् प्र. (पा ५, ४, ९३) । f) दापग्राम- इति पाका. । g) वैप १ द्र. । h) पाठः इ  
 प्रकरणात्: दशकम्, तत्र, पञ्च इति त्रि-पदः शोचः संभाव्यते । i) = शकशाखा- (तु. स्क. [या ११, १६]) ।  
 j) रसायं अणु प्र. [तु. पद्विदुशियः] । k) सप्र. 'ची:<>'ययः इति पात्रे. । l) = दशग्रामानां वर्ग- । ति: प्र.  
 उत्ते. (पा ५, १, ५५) । m) धिनि: प्र. (पावा ५, १, ५८) । n) इंदनी (तु. BI.) इति, दशनी (तु. आन.) इति  
 पाठः इ वनि. कोवः (तु. सप्र. शीथी १३, २३, ७ आपथी २३, १४, ९ दशदश इति), यदा दशि-स्तोम-> -मे इत्यपि  
 शोचः संभाव्यते (तु. सप्र. निष् १०, १३ : ३ दशिनं शोमम् इति) ।

दर्वी-प्रमाण- ञम् आसिष्ट २, ३,  
१ : १३.  
दर्वी-सुक्-सुव-प्रणीता (ता-आ)ज्य-  
स्यात्त्री-चरस्याली- लीः वैश्व  
४, १ : २.  
दर्वी-होम- ञः वीश्व १, ४, ३९;  
-मम् वीश्व ४, ९, ३; -मस्य वीश्व  
१, ४, ४४; -मेत वाधुश्री ४,  
१४ : ६; ९, १६ : २२.  
दर्व्यां(वी-आ)कृति- -ति ञप २३,  
४, ५.  
दर्व्यां(वी-आ)चमन- -नम् पाठ  
२, १४, २४.  
दर्व्यां(वी-२दा)घ- -घम् ञप २३,  
१, ३.  
दर्व्युं(वी-उ)दायुवन्- -नम् ञापथी  
८, ११, १६; माथी ८, १२, ३;  
११, ४; वैथी.  
१, २२र्दा- प्रत्य. ✓दृश्व द.  
✓दल् पाथा. भ्वा. पर. विदारणे,  
दान्दे; युता उम. विदारणे.  
दल्- पाग ४, २, ८०; ५, २, १३१.  
दलित्- पा ५, २, १३१.  
ददय- पा ४, २, ८०.  
दलित- पाग २, १, ५९.  
दलनृ- (> दालप्रक- पा.) पाग ४,  
२, ८०.  
दलय- पाठ ३, १४२; पाग ६, २,  
१३४.  
दलिक- पाठमो २, २, १५.  
दलीप- (> दालीपि- > ञायन-  
पा.) पाग २, ४, ६१.  
दर्यम्- (= २२र्दा-) पाठ ३, १५१; पाग

४, १, १०५.  
दास्य- पा ४, १, १०५; -द्वयः  
वीथी १८, ३८ : १६१; -द्वयम्  
ऋम २, ५, ६१; -द्वयस्य वीथी  
१८, २६ : १०; माय २, ६ :  
१६; शुभ्रा ४, १६.  
दलित्- पाठ ४, ४७; पाग ८, २, ९.  
दलित्-मत्- पा ८, २, ९.  
दयर- पाठमो २, २, ३८.  
दयस्- > ञ्व-चत्- दविष्- पा ६,  
४, १५६.  
दवीयस्- पा ६, ४, १५६; -यः  
या ९, १३१; भाषि १३.  
दविद्युत्- दविद्योत् ✓दृष्ट द.  
दविष्यत्- ✓दृष्ट द.  
✓दश्व ✓दंश्व द.  
✓दश्व (= ✓दार) > \*दशस्- >  
✓दशस्व, दशस्वति ञप  
४८, २८; दशस्वय > पा ऋप्रा  
८, ३२; दशस्वय > स्या ऋप्रा ७,  
३३.  
दशस्वत्- -स्वन् ऋप्रा ७,  
४५; -स्वन्ता ञापमे १, ११,  
१११<sup>b</sup>.  
१दश, दश<sup>1</sup>- दया माथी २, ३, ४,  
२०; २४, ५, १५; ६, १०; ४, २,  
३६; -शा काथी ४, १, १७;  
माथी २, ३, १, १८; वैथी ९, ६ :  
१०, -शाः कीश्व २, ७, २०;  
शाश्व २, १२, ५; -शास्व वैश्व १,  
१ : २१; -शाभि. ञापथी १२,  
२९, ९; १३, १५, २; वीथी; वैथी  
१६, १८ : ३<sup>1</sup>, -शास्व काथी

२, ७, ६; शाथी; -शावाम् काथी  
७, ३, २५; वीथी; -शासु वीथी  
११, ६ : २८; १२, ७ : ३८; वैथी  
१४, १४ : १२; कीश्व ५, ४, ८;  
-शो लाथी ८, ६, २२; -शेन  
गोपि १, १, १२.  
दशा(शा-आ)ख्या- ख्या लाथी<sup>1</sup> ८,  
६, २१.  
दशा-मन्थिक- -ञ्जे कप्र १, ५, ९.  
दशा(शा-अ)न्त- -न्तम् वैथी १४,  
१४ : १३; वैश्व ५, २ : ४; शंघ  
७२.  
दशा-पवित्र- -त्रम् काठथी १२४;  
वीथी ७, ६ : २०; ८, १ : २३;  
माथी; -त्रस्य ञापथी १०, २६,  
११; माथी; -त्रे वीथी ६, ३० :  
३४; माथी; -त्रेण काथी ९,  
५, २३; ६, १५; वीथी.  
दशा-यत् ञापथी १२, १४, ११.  
दशा-सूत्र- -त्रम् वीश्व ४, २, ६.  
२दशा- (> दारय- पा.) पाग ४, २,  
८०.  
१दशात्- ✓दंश्व द.  
२दशात्- दश-वि- दशन्- द.  
दशान्- पाठमो २, १, २७०<sup>b</sup>; -ता  
काथी ५, १२, १५<sup>1</sup>; ऋषाथी ७,  
१५, ७<sup>1</sup>; १२, १४, १<sup>1</sup>; काथी;  
माथी ५, २, ८, १७<sup>1</sup>; ऋम १५,  
१७<sup>1</sup><sup>m</sup>; १९, ४६; ऋषे ४ : ५;  
या ३, ११, १०; -ताऽ-ता काथी  
९, ३, १८; शाथी; -ऋषाभिः  
काथी ४, ७, ४; शाथी ५, १०,  
८; काथी; -ऋषाभिःऽऋषाभिः

a) विप.। बग.। b) उप. = मुख-। c) = दर्व्यन्त-। उप. < उदा ✓दृष्ट। d) व्यप.। व्यु.।।  
e) < दिलीप- इति पागम., ञ्वये ऋ यनि. इति। f) = ऋषि-विशेष-। व्यु.।। g) वैप १ द.।  
h) ञ्वा इति पाठः। कनि. कोषः (द्र. ऋ ८, ३१, १)। i) वैप १, १५५२ ० द.। j) ञ्वाभिः इति पाठः।  
कनि. कोषः (द्र. उदरं स्वतम्)। k) < ✓दश्व इति। l) पाठः। दशस्व इति कोषः (द्र. ऋषेव विरो सुवे  
दशस्व प्रेव-प्रवीणानि सा.। लैसा ३, ६, २, २) च। m) पाठः। दशस्व इति कोषः (द्र. ऋम १५, १५)।

दश-यज्ञ- -शः कौस् १३५, ९.  
 दश-यज्ञदगन्-> षा- -शानि  
 आथी ११, ५, २.  
 दश-पण- -णः विष ५, १२०;  
 -णम् कौष १, १०, १४.  
 दश-प(व>)श्रा- -श्राः अश्रा  
 २२, ११.  
 दश-पद, दश- -दः काथी १६, ८,  
 १६; -दया काठथी ९२; -दा  
 काठथी ४९; वीथी ४, १ : ३३;  
 २०, २५ : ३१; आपशु ६, १२;  
 बीथु ३ : २३; ४ : ९; दिशु २,  
 ३९; -दाम् आपथी ७, ३, १०;  
 भाथी.  
 दशपद-व्याम- -सः बीथु  
 १० : ५; १२.  
 दश-प(द>)श- -दा अथ ९, ५;  
 -दाः अथ ९-१०, ५.  
 दश-यज्ञ- -शुः शोथी १६, १४,  
 १९.  
 दश-शु, १०१२- -यम् आथी ९,  
 १, २०; शोथी १५, १४, ८; बीथी  
 २८, २ : ५८<sup>१</sup>, वाष ३, १९,  
 २२, १०<sup>१</sup>.  
 दश-येव- -यः आथी ९, ४, ७;  
 शोथी; -वरप शोथी १५, १३,  
 २, आपथी; -वाय आपथी १८,  
 १२, २, बीथी; -ये आपथी १८,  
 ८, ४; बीथी २२, २० : १९,  
 वाथी; -येन आथी ९, ३, १७,  
 लाथी ९, २, १; ३, १.  
 दशपेद-संस्था- -स्था वाथी ३,  
 ३, ४, १५.

दशपेया(य-अ)थ- -थम् आपथी  
 १८, १२, ३; दिथी १३, ५, २.  
 दश-पौह- -यम् आथी २, १२,  
 ६<sup>१</sup>.  
 दश-वाहु- -हवे शैशि २.  
 दश-भाग- -नाम् दिशु ५, ३०.  
 दशभाग-व्यास- -सम् आपशु  
 १६, ९६.  
 दशम- -मः शोथी १६, २९, १७;  
 बीथी; -मम् आथी ४, १२,  
 २××; शोथी; आण्यो ९, ५<sup>१</sup>;  
 -मस्य बीथी १७, २५ : १०;  
 २६ : १०; शोथी; -मात् शोथी  
 १२, २, २३; १३, १५, १३;  
 आपथी; -माय बीथी १०,  
 ४७ : १; -मे आथी ८, १२, १;  
 १०, ७, ९, शोथी; 'आपथी' १,  
 १२, ३; ४; ६; आण्यु १, ५, ५ :  
 १०<sup>१</sup> काण्ड ३२, ३<sup>१</sup>, बीथु १,  
 ७, ४०<sup>१</sup>, 'माण्यु' २, १८, २;  
 ४<sup>२</sup>; वैशु; या १४, ६<sup>१</sup>;  
 -मेन बीथी २९, २ : ८; लाथी;  
 -मैः लाथी ७, ७, ११<sup>२</sup>.  
 दशमो<sup>१</sup>- -मो शोथी २,  
 ३, १४; १०, ९, १४; कौशु; -मोम्  
 आथी ५, १, ८; शोथी; -मोम्  
 -मोम् आथी १०, ७, १०, -म्या  
 बीथी १०, २९ : १०; कौम्;  
 -म्या. काथी १९, ७, ४; आण्यु;  
 -म्याम् शोथी १५, १४, ५;  
 वाथी; -म्ये बीथी १२, १८ :  
 ८; भाथी ६, ६, ४.  
 दशमो-षतुर्दशो-

-श्यो अथ २, ७, १०४.  
 दशमो-पोथी-  
 -श्यो अथ २, ३, ५३.  
 दशम्या(मी-आ)दि-  
 -यः अथ २, ७, ९६.  
 दशम्या (मी-१आ-  
 य>)था- -थाः अथ २, १,  
 १९१; ८, १; २५.  
 दशमिक्- -क निशु ९,  
 ७ : १७; -कम् निशु ९, ७ :  
 ५; २२.  
 दशमिक्की- -कयः निशु  
 ९, २ : २६; -कथो निशु ९,  
 ७ : १५.  
 दशम-सन्त्र- -न्त्रम् निशु ९,  
 २ : ३; ७ : २५.  
 दशम-धर्म- -र्मः निशु ४, ८  
 १७, ९, ६ : १; १० : २३; १०,  
 ७ : २१.  
 दशम-प्रदेश- -शात् लाथी १०,  
 १०, १.  
 दशम-यज्ञ- -ज्ञम् निशु ९,  
 ७ : १.  
 दशम-वर्जम् वेथी १०, २१ : ७.  
 दशम-विमर्ग-वचन- -नात् कौस्  
 १०, ९, ३९.  
 दशम-वद- -तम् आथी ८,  
 १३, ३१<sup>१</sup>; -ते शोथी ९, २, १६;  
 लाथी ३, ६, १७.  
 दशम-संयोजन- -नाः निशु ९,  
 ७ : १३.  
 दशमा(म-अ)थ- -थम् लाथी:  
 १०, ३, १८.

a) विप. । बग. । b) प्रतिशतं दशमो भाग इत्यर्थः । [वि. यासु २, १९१] । c) = शोषधि-  
 विज्ञेय- । वस. । d) बीथी. वाष २२, १० पाठः । e) स्या. 'पूरयम्' <> शोषयम् इति पाठे. ।  
 f) वैप इ. । g) सत्र. णं व्यासम् <> णाध्यासम् इति पाठे. । h) 'श्रम' इति पाठः ? यति.  
 शोषः । i) यामे. वैप २, १५५० ई. । j) विप, नाप. (तिवि-) च । k) तत्रमवाधोचपृ टक् प्र. ।  
 l) इ. मान. ।

दशाने(म-ए)कादश- दशाम्याम्  
 आपध २, ३, २३; हिद्य २, १,  
 ५२; -ञे आपधौ १७, २३, ९;  
 हिधौ १२, ७, ९.  
 दश-मास- -सात् अप ७२, ९, ४.  
 दशमास-तम्(ः) अप ७०<sup>३</sup>,  
 ७, १८; ७१, ११, ५.  
 दशमास्य- -ःस्यः काधौ २५,  
 १०, ५; आपधं १, १२, ९;  
 आप १, १३, ६; कौष्ट १, १२,  
 ६<sup>१</sup>; शांति १, १९, ६; १२;  
 पाय १, १६, १; हिद्य १, २५, १;  
 शुभा ४, ८५; -स्यम् वीधौ १६,  
 १६: २; २४, ५: १३; -ःस्याम्<sup>७</sup>  
 आपधं २, ११, १५; आसिष्ट २,  
 १, १: १२; भाय १, २२: ११;  
 हिद्य १, २५, १; २, २, ५.  
 ?दशमासः<sup>८</sup> भाय १, २९: १८<sup>१</sup>.  
 दश-योजन- -केभ्यः या ३, ११<sup>१</sup>.  
 दश-योजन- -नेभ्यः या ३, ११<sup>१</sup>.  
 दश-रथा(क्ष >)श्वा- -शाम्  
 आपधौ १४, ५, १०; हिधौ ९,  
 ८, ६.  
 दश-राजन्-> दशराज- -ञे  
 शाधौ १२, १५, ५<sup>१</sup>.  
 दश-रात्र- -त्रः आधौ १०, ५,  
 ३, ३५; शाधौ; -त्रम् आधौ ११,  
 ७, ११; १८; शाधौ; -त्रयोः  
 निष् १०, ७: २७; -त्रस्य  
 आधौ १२, ७, १०; काधौ, -त्राः  
 आधौ १०, ३, २९; काधौ;  
 -त्रात् आधौ २, ५, १४x५;

शाधौ; -त्राय आपधौ २२, २३,  
 १६; वीधौ; -त्रे आधौ ८, ७, १७;  
 १२, १९; आपधौ; -त्रेण शाधौ  
 १६, २९, १; १८; वीधौ; -त्रौ  
 लुप् ३, १२: ३; निष् १०, ७:  
 २०.  
 दशरात्रिक- -कः निष् ८,  
 ९: २५; -कम् शाधौ १०, २,  
 १; लाधौ १०, ५, १; निष् ९,  
 १३: ११; -काः निष् ३, ७:  
 १३; -काणाम् लाधौ १०, ५,  
 ३; निष् ४, ७: १७; १२: १२;  
 ८, ३: २७; -काणि काधौ २३,  
 १, ५; निष् ८, १: ४; ६: ५;  
 ९, ३: २६; ९: ५; -कान् निष्  
 ६, १२: ३; -केभ्यः लाधौ ६,  
 ६, ९; १७; निष् ४, १३: १५;  
 -कैः निष् ९, १३: ९; ३४.  
 दशरात्र-न्याय- -धेन निष् ६,  
 ६: १८; ७, ३: ३६; ९: १३;  
 १५; ८, १०: ३६.  
 दशरात्र-प्रपद- -दं: लुप् २,  
 ७: १.  
 दशरात्र-प्रष्टति- -तपः निष् ९,  
 ८: ३३.  
 दशरात्र-गाम- -सम् द्राधौ ८,  
 ३, ३१<sup>१</sup>.  
 दशरात्र-मिथ- -श्रम् लाधौ ४,  
 ७, ११<sup>१</sup>; -श्रात् द्राधौ ८, ३,  
 २८; लाधौ ४, ७, ८.  
 दशरात्र-रूप- -पाणि निष् ४,  
 १३: ७.

दशरात्र-लि(ङ >)द्वा- -त्रा  
 निष् ८, ६: २६.  
 दशरात्र-वत् लाधौ १०, ३,  
 १४.  
 दशरात्र-वत- -तम् आसिष्ट ३,  
 ९, ३: १०<sup>३</sup>.  
 दशरात्र-समीप- -ये शाधौ ७,  
 ४, २२; लाधौ ३, ४, २१.  
 दशरात्र-स्तोम-विहृत- -तः  
 निष् ९, ४: ५; १०, २: ७.  
 दशरात्रा(त्र-ञ)न्त- -न्ते लुप्  
 ३, २: ३५.  
 दशरात्रा(त्र-ञ)न्त- -न्ताः  
 निष् ९, ६: ३३.  
 दशरात्रा(त्र-ञ)सि- -सिम् निष्  
 ८, ३: १८.  
 दशरात्रा(त्र-ञ)वसर्क- -धे शाधौ  
 २, १६, १.  
 दशरात्रा(त्र-ञ)वलोपा(प-ञ)  
 हीन- -ना: निष् ८, १: ३६.  
 दशरात्रा(त्र-ञ)वसान- -ने निष्  
 ७, ९: १३.  
 दशरात्रिक- -के निष् ५, ९:  
 २२<sup>३</sup>; शुभ ४, १८७.  
 दश-राशि- -धौ आधौ १२, २.  
 दश(श-क)र्ध- -धे: शुभ २,  
 ३९४; -धेम् वीधौ १०, ५१:  
 २१<sup>१</sup>; शाधौ; -धेस्य काधौ  
 २०, ६, १८; -धेः ऋभ २, ९,  
 ८६; -धेः ऋभ २, १०, ५९;  
 -धेन आपधौ १७, १४, ७;  
 वीधौ; -धेभ्यः अप ४६, १०, ७<sup>१</sup>.

a) वै १ इ. 1 b) पमि. वै १, १५५० [ इ. 1 c) पाठः इ दश, (माम्->) मासः इति शौचः  
 [तु. सवा. हिद्य २, २, ७]। d) विर. (1१०४० अङ्गुलिपरिमिता-] रज्जु-). e) मलो. कस. उप. भाप.  
 <प्र/धृत् (उपमने [तु. लाधौ ४, ५, ४ भाष्यम् ]। f) सवा. 'प्रमासम् <> 'प्रमिथं मासम् इति पमि. ।  
 g) विप. 1 बर. । h) सप. कौपि २, ७, ९ द्वादशरात्रमेतद् धनम् इति पमि. । i) विप. (कृत्कविन्द-). j) वत. >  
 कस. । कन(= नल् [ तु. पृ ३८१ j ])लोप-। k) 'विलोपा' इति संस्कृतुः टि. । l) = दशरात्रिक-।  
 m) दा इति संस्कृतुः टि. । n) कस. पू. = दशमी- ।

दश(श-ञ्ज)र्षे(ग>)भा<sup>०</sup>- -सा  
 बीधौ २४, ३८ : ८; -मायाः  
 आपधौ १९, १६, ९.  
 दश-वर्ग<sup>०</sup>- -नीम् काधौ २, १, ७, ११;  
 २, १, २१; -गान् काधौ २२,  
 १०, ११; लाधौ ९, ४, २.  
 दश-वर्ष<sup>०</sup>- -पान् वैष् ६, १२ : ३.  
 दशवर्ष-सुक- -कम् शेष ३०९;  
 गीघ १२, ३४.  
 दशवर्ष-वृद्ध- -द्धः गौघ ६,  
 १५.  
 दशवार्षिक<sup>०</sup>- -कम् काष्ट १९,  
 २.  
 दश-वर्ष<sup>०</sup>- -यं: आपध १, १४,  
 २५; ह्यिष १, ४, ५४; -यंम्  
 आपध १, १४, १३, विघ ३२,  
 १७; ह्यिष १, ४, ४५.  
 दश-वार- -रम् बौघ २, ९, ४;  
 भाष्ट ३, १५ : २.  
 दश-वाह-वाहिनी- -नी वाघ १९,  
 १७.  
 दश-विध, पा<sup>०</sup>- -धम् शोधौ १६,  
 २९, १; २; १८; -धा नाशि  
 १, ३, १.  
 दश-वोर<sup>०</sup>- -रम् शोधौ ४, १३,  
 १; आपधौ, आपध १, ६, १२१<sup>०</sup>.  
 दश-वृक्ष<sup>०</sup>- -वृक्ष कौस् २७, ५;  
 अप ३२, १, ७, अत्र २, ९.  
 दश-व्याम<sup>०</sup>- -सः बौध ४ : २.  
 दश-शत<sup>०</sup>- -शम् शोधौ ११, १३, ६;  
 लाधौ ९, ६, १३, वाघ १३,  
 ४८.  
 दश-सं(स्य>)स्था<sup>०</sup>- -स्था अप  
 ६१, १, २८.

दश-सनि- -निः, -निम् पाष्ट  
 २, ९, १६.  
 दश-सप्त-चतुर्दश-वर्जम् काधौ ६,  
 १, २९.  
 दश-सहस्र- -स्रम् आमिष्ट २, ५,  
 १० : ४<sup>०</sup>; गौषि १, ७, १३.  
 दश-साहस्र<sup>०</sup>- -स्रः वाघ २५, १३;  
 -स्रम् वांघ ४५३.  
 दशसाहस्र-जाप्य- -प्येन वांघ  
 ४५४.  
 दश-सुक- -सुक्यु आधौ ३, २, ९.  
 दश-स्तोम<sup>०</sup>- -मानि बीधौ १७,  
 १८ : ९.  
 दश-हविस्<sup>०</sup>- -विः काधौ ५, १२,  
 २; बीधौ १५, १७ : १२; ३७ :  
 १७, -विपः दुघ ३, १२२<sup>०</sup>;  
 -विपम् आपधौ २०, ९, २;  
 २३, २; बीधौ.  
 दश-हस्त- -स्तम् अप ३०<sup>०</sup>, १,  
 ३; ५.  
 दशहस्त-समुसेव<sup>०</sup>- -धम् अप  
 १८, १, ५.  
 दश-होत्र<sup>०</sup>- -तरि शोधौ १०, १४,  
 १; -ता बीधौ २५, ३१ : ४;  
 माधौ, -तार आपधौ २१, ११,  
 ११; वाधूधौ ४, १५ : ९; द्विधौ  
 १६, ४, २७<sup>०</sup>; -तारम् शोधौ  
 १०, १४, २; आपधौ; -तः  
 आपधौ २१, १०, ७; बीधौ;  
 -त्रा आपधौ ५, १०, ८४४;  
 बीधौ.  
 दशहोत्र(तृ अ)र्थ- -थंम् बीधौ  
 २, ७ : १९.  
 दश-हो(श्र>)त्र<sup>०</sup>- -त्रम् वैष् ५,

४ : ४; ७.  
 दशहोत्रे(त्र-इ)ष्टका- -काः बीधौ  
 १९, ७ : २.  
 दश-होम- -मानाम् भाधौ ५, २१,  
 १२.  
 दशां(श-अं)शक<sup>०</sup>- -कः अघ ६९,  
 ८, ४.  
 दश(श-अ)धर-> -र-नियत-  
 -तैः उनिष् १ : ३८.  
 दशाशरो(र-उ)पयु(क>)का-  
 -काः निष् २, १२ : २३<sup>०</sup>.  
 दश(श-अ)धर, रा<sup>०</sup>- -रः निष् १,  
 १ : ४; -रम् वाधूधौ ४, १०० :  
 १०; २७; वृदे ७, २१; -रा शोधौ  
 १६, २९, २; आपधौ ६, १३,  
 ९; बीधौ १४, १९ : ११; आमिष्ट.  
 ३, ८, २ : ५९<sup>०</sup>; -राः शोधौ  
 ७, २७, २३; बौषि १, १५ :  
 ६४<sup>०</sup>; ऋप्रा १६, ४२; -राणि  
 छुम् १, ६ : १८; -राभ्याम्.  
 उनिष् २ : ३०; ३४; -रेण  
 आधौ ८, १२, १६; -रेयु लाधौ  
 १०, ९, ७; -रौ ऋप्रा १६, ६८;  
 उनिष् १ : ३१.  
 दशाधर-ता- -तायाः निष् १,  
 १ : ८.  
 दशाधर-पाद, दा<sup>०</sup>- -दम् निष्  
 ३, ४ : ३२; -दाः निष् १, ४ :  
 २५.  
 दशाधरै(र-ए)कादशाधर- -रौ  
 निष् १, १ : २६.  
 दश(श-अ)धुल-> -धुल-प्रमा  
 (ए>)ण- -णाम् अप २६,  
 ३, ४

a) वैष १ द. । b) विप. । टञि [पा ५, १, ५४] प्र. उप वृद्धिः [पा ७, ३, १६] । c) तद्धितार्थे द्विम्. । d) विप. ।  
 बस. । e) पाठे. वैष १ सुवर्जितम् शौ १४, २, ६ टि. द. । f) पू. = दश-नद- [तु संस्कृतः टि.] । g) वैष १,  
 १५१८ b द. । h) बस. वा मले. बस. वा [तु. वैष १ त्रि-शत- टि.] । i) वैष १, १५१९ c द. । j) दशा<sup>०</sup> इति  
 पाठः। यनि. शोधः । k) =मन्त्र-विशेष- । बस. । l) दशाधरो वैकस्ताः इति सा (ता १२, १३, २२) पाठे. ।



दशान(श-ञ्ज)ल- लः विष ५,  
२५; - लम् वैथी ११, ८ : १३;  
वीथु १ : ३.  
दशान(श-ञ्ज)मक- -कम् वीथी  
२७, १० : १७†××; -केन वीथी  
२९, २ : ७.  
दशान(श-ञ्ज)दि- -दिभिः पावा २,  
३, २९.  
दशान(श-ञ्ज)ध्यक्ष- -क्षान् विष ३,  
८.  
दशान(श-ञ्ज)न्त- -न्ताए पा ५, २,  
४५.  
दशान(श-ञ्ज)भीथु- -थुम्यः या ३,  
१†.  
दशान(श-ञ्ज)भ्यास- -सेन वाथी ३,  
४, २, ७.  
दशान(श-ञ्ज)रसि-माय- -त्रः सव्यु  
४ : २०.  
दशान(श-ञ्ज)र्ण- (> दशार्ण- पा.)  
पाग ५, २, ६१; पावा ६, १,  
८८.  
दशान(श-ञ्ज)र्ध-युक्त- -केन विष  
७२, ६.  
दशान(श-ञ्ज)र्ह- (> दशार्ह-  
पा.) पाग ५, २, ६१.  
दशान(श-ञ्ज)पयस- (> दशार्ह-  
पयस- ) दशार्ह- टि. द्र.  
दशान(श-ञ्ज)वनि- -नियः या ३,  
१†.  
दशान(श-ञ्ज)वर, रा- -रम् आमिष्ट  
२, ६, २ : २६; ८ : २९; जैष्ट १,  
१३ : ५, वीथ २, ५, १२; ४, ८,

१८; -रा वाथ ३, २०; वीथ  
१, १, ७; ८; -रान् गीथ २८,  
५०; -राम् वाथ २६, १५; वीथ  
१, ४, ७; -रैः गीथ २८, ४१.  
दशान(श-ञ्ज)ए-पयस-माया- -याः  
कौषि ७५.  
दशान(श-ञ्ज)ह- -ह- वाथी ३, २, ३, ३१;  
३२; -हम् निम् १०, २ : ३;  
आयुः -इस्य वैताथी ४२, ३;  
-हात् आमिष्ट २, ७, ४ : १०;  
वीथु; -हानि आथी १२, ४, २३;  
छत्र; -हे वीथी २९, ११ : ६;  
वैथी.  
दशान(श-ञ्ज)दन्-> दशाहिक- -के  
काण्ड ४५ : ६.  
दशिका- -का आयु ५, १२.  
दशित्- -शित् वीथी १५, २३ :  
१५; -शितम् निम् १०, १२ :  
३; -शिति लाथी ६, ७, १.  
दशितो- -तो क्रपा १७,  
४२.  
दशित-प्रभृति- -तयः निम् १,  
१ : २०.  
दशै(श-ए)कादश-> दशैकाद-  
शिक- पा ४, ४, ३१.  
दशै(श-ए)कादश-द्वादश-रात्रि-  
-त्रयः सुष १०.  
दशै(श-ए)कादश-द्वादश(श-ञ्ज)  
क्षर- -रागम् क्रपा १, २,  
१०; शुभ ५, ११.  
दशो(श-ञ्ज)णि- -णयः, -णिम्  
क्रपा २, ७१†.

दशो(श-ञ्ज)णय- -णयः क्रपा २,  
७१†.  
दशान- ✓दस् द.  
दशान- प्रष्ट. दशार्ह- दशान- द.  
दशार्ह- (> दशार्ह-क- [पा ५,  
४, २९; दशार्ह- पा.] पाग  
५, ३, ११७; ४, २९, ३८.  
दशान्- दशान- द.  
दशान् वाथी ४, १६ : ३१.  
दशोर- पाठ १, ५८.  
दशोरक- > क-गदरक- पाग २, ४,  
६८.  
दशानसि- -सिम् क्रपा ३, ४,  
१†.  
दष्ट-दष्टम् ✓दंश द.  
✓दस् पाथा. दिवा. पर. उपक्षय.  
जुरा. क्राम. दर्शनदंशनयोः  
दस्यति अप ४८, ४२.  
दस्यते अप १६, १६, १;  
वैथी १८, १४ : ८.  
दस्- पाठना २, १२.  
दस्यु- पाठ ३, २०; पावाग ५,  
३, ६६; -स्यवः कौत् ८७,  
३०†; अप ४४, ४, ५†; ७२,  
१६, १; -स्युः या ७, २३†;  
-स्युमिः अप ६८, २, १६; विष  
२३, ५०; -स्युम् या ६, २६;  
७, २३; -स्युम् लाथी ७, १०,  
१२; निम् ७, ११ : ८; पाठ ३,  
३, ५†; आमिष्ट ३, २, ६ : ६;  
अप १, ३२, ८, क्रपा ४, ७१;  
-स्युनाम् वाथी १५, २६, १;

a) विष. । बस. । b) पस. पू. = दशाम- । c) वैष १ द्र. । d) विष. (अथर्ववेद- ) ।  
e) शान्दानुकरणामं द्र. । f) = देश-विशेष- वा नदी- वा । उप. = दुर्ग- वा उदक- वेति पामि. । g) दशार्ह-  
पयस- इति भाण्डा. । दशार्हपयस- इति पाका. । h) विष. । बस. । -रम् इति क्वचित् वा. क्रिवि. । i) उप.  
= काल-विशेष- । j) समाहारे वा सङ्घितार्थे वा द्वित्. । k) व्यय. वा नाप. वा । श्यु. ? । l) तु. पायम. । उप.  
< ✓अर्ह. । m) पयसो- इत्यर्थेकदेशः । n) तु. पायम. । o) या १, ९, २, १७; ७, २३ पा ७, २, २७ परामृष्टः  
द्र. । p) पामे. वैष १, १५४५८ द्र. । q) पामे. वैष १, १५५२२ ऋ द्र. ।

-पुंसोः श्रापय ६,९; या ५,९.

दस्यु-दन्->दस्युदन्-तम-

-मम् माथौ ५, १,३,१; वैताथौ ५,१४.

द-संयुत- द- द.

दस्त्व- √दस् द.

दस्त्यूह- पाठभो २,३,१८९.

दस्म-, दस्य- √दस् द.

?दस्य अप ४८,१३९.

दस्यु- √दस् द.

दस्म- √दस् द.

√दह\* पाषा. भ्वा. पर. भस्मीकरणे, दहत वीथी १३,४ : १०; १४, १३ : ३१×; वाधुथी, या ७, २०; दहन्ति पाय ३,१०, ११; आमिष्ट, दहसि या ७, २३; दहामि हिथी २४, ६, १४<sup>१</sup>; दहत अप ४, २, ६<sup>१</sup>; <sup>१</sup>दह आपथी १,२२,२; १४,२७,११; वीथी, <sup>१</sup>दहदह अप ३५,१,२; ३६,९,३, दहतम् आप ३, १०, ११<sup>१</sup>; <sup>१</sup>भदहन् वीथी २,१० : ८; आमिष्ट ३, १, २ : ३; वीथ २, ११, २१<sup>१</sup>, भाग २, ११ : १८; हिष्ट २,११,१; दहेव माथी ९, ५, ९; वाथी; दहेयु. आथी ६,१०, ८; ३०; आपथी.

दहोव<sup>१</sup> माय २,१५,६.

धदससे आपथी ३, १५, ५<sup>१</sup>.

दश्व<sup>१</sup> ऋया ४, ९८<sup>१</sup>; धाक्षीव

वीथी २,२ : २<sup>१</sup>.

दहने सु १८ २; वाप २७, ४,

दहन्ते वीथ २, ७, १५; विथ

५५, ८; दहताम् अप ४,२,१०;

अदहत् ऋम २,७, ३२; अम

२०, ७९<sup>१</sup>; दहोत वीथी २९,

६ : १५; वैथी २१,१७ : ८.

दाहयति वैथ ७,१ : ८; १३,२ :

३; १४; ३ : ८; दाहयेत् आमिष्ट

३,१०,२ : ९×; वीथि.

?दक्षि<sup>१</sup>-><sup>१</sup>दक्षि-सुरि<sup>१</sup>- रयः

ऋमा ४,९८; ११, ८; उस् ४,५;

६,६.

दग्ध,ग्धा- ग्यः आमिष्ट ३, ६, २ :

१५; वीथि; -ग्धम् वीथी २७,

३ : ७; ८; वैथी; -ग्धा सु ८,४;

-ग्धा अप २६, ४, ५; -ग्धात्

या ७, १४; -ग्धायाम् आमिष्ट

३,७,४ : २७; वीथि २,४,१३;

-ग्धाम् अप ५८,१, १३; -ग्धे

आथी ६,८,१; काथी. -ग्धेषु

काथीसं ३२-५, वीथी २९,१ : १२

दग्ध-यु(य->)त्रा<sup>१</sup>-त्रा सु ९, २

दग्ध-तेप-ये अर २३,४,१.

दग्ध(स्य->)ग्धा- ग्या काय ७

४२ : १८; कय ३,४,७.

दग्धा आथी ६, १०, २४; श्राथी

१३, ११, १; काथी २५, १३,

२७,१४,१; आपथी.

दहन्- दन् आपथी १६,६,७<sup>१</sup>;

वैथी १८,४ : १०; हिथी ११,

१,७; वैताथी ६,७<sup>१</sup>; आमिष्ट

३,१०,४ : ३१; वैथ ५,८ : १४;

-हन्तम् वीथी १४,१३ : १६.

दहति->०ति-कर्मन्- मां या

४,१७.

दहन<sup>१</sup>-पाग ३,१,१३४;-नम् आपथी

१४, २१, ११; माथी ३, ८, ५;

वीथ; -नस्य वाधुथी ४,९०<sup>१</sup>:५;

८; आमिष्ट; -नान् आमिष्ट ३,६,

३ : ६ कौस; -ने आमिष्ट ३,

६,४ : १२; वीथि १,१३ : १२.

दहन-कर्मन्-मंगा गीथि १,२,७;

वाध २८,१, -मंगि गीथि १,१,७

दहन-कल्प-ल्पम् वीथि ३,

१,१ -ल्येण हिथि १२ : ११.

दहन-काल-ल्हे वैथ ७,४ : १६.

दहन-देश-क्षाम् हिथि १ : २;

३:५; ७:१०; गीथि १,२,५.

दहन-नक्षत्र-त्रेषु आमिष्ट ३,

३,२ : ३१.

दहन-निधान-देश-देशे कौस

८०, २.

<sup>१</sup>दहन-पति<sup>१</sup>-नये<sup>१</sup> वीथि ३,

२,१०<sup>१</sup>; वैथ ५,३ : १२.

दहन-प्रमृति-नि वैथ ७,७ : २.

दहन-मग्न-मग्नेण गीथि १,

३,१९.

दहन-वत् हिथि १००६; २३ : ८.

दहन-विधि-विधिः आमिष्ट ३,

४,१:१; -धिम् वैथ ५,१ : २;

गीथि २,१,१.

दहन-विहीन-ने वैथ ७,३ : ३.

दहन-संस्कार-रेण वीथि ३,१,५

दहना(न-अ)मिन-न्नेः गीथि

१,५,१३.

दहना(न-अ)दि-दीन् अप

६८,१,१५.

<sup>१</sup>दहना(न-अ)धिपति<sup>१</sup>-तये<sup>१</sup>

a) या ७,१४ परामृष्टः द.। b) पागे. वैप १, १८५४ j द.। c) अदहं इति पाठः ? यनि. शोधः (ग्र. दिष्ट).। d) दयन् परस्मैपदस्य उरसं. (पा ३, १,९०)। e) पागे. वैप १,१५५४ ० द.। f) दहोव इति पाठः ? यनि. शोधः (ग्र. ऋम. )। g) वैप १,१५५३ g,h; अनु-दक्षि- परि. च द.। h) विप.। वस.। i) पागे. वैप २,२३. सदान् गोना १,२,२१ टि. द.। j) कर्मि भावे च कृत्.। k) पूष. = प्रेत-। l) सप्र. अपत्ये<>नाधिपत्ये इति पागे.।

गीर्ण १,२,१९; २०.  
दहना (न-प्र)वे- अम् वेण्ड उ,  
४: १८.

दशमान- नः काण्ड ४, ४, ७;  
का ६८, २, २५; -नम् काण्ड  
४, ४, ६; वेण्ड ५, १: २०; का  
६८, १, १६; -ना: विण्ड ४३,  
१५.

१दद- पाउ २, १३.

दाह- नः काशी २५, ८, १३;  
कासिण्ड ३, १०, ४: ३४; वीरि  
२, ३, १७; शेष १दद: -दम्  
काण्ड ५८, १, ३; ५; ६१, १, २७;  
६७, ४, ३; -हा: काण्ड ५८, १, ८;  
-दाह कन ३, ५, ७; मोन ३५३३;  
वीण्ड ३, ४, २; -हे वेण्ड ६, १:  
१६; काण्ड २७६: १; -हेन  
विण्ड २३, ५७; वेण्ड ३, ४, ३; -हे:  
काण्ड ६४, १, १; काण्डो ११,  
१.

दाह-मल- नम् काण्ड ५८,  
१, ३.

दाहा(ह-काण्ड) गिरिका-  
-का: काण्ड ६८, १, १२.

दाहो (ह-उ) गणान- ने वीण्ड  
४, २, ५; -नेणु वीण्ड ४, २, १.

दाहन- गण्ड शेष १६४.  
दाहनिष्ठा वेण्ड उ, २: १; ३: १३;

४: १५; काण्ड ३, १, ५; ६.  
दाहक- -क: काण्डो ५, ३, ४;  
द्वितीय ३, २, ७; काण्ड २, ८,  
१४.

दाह-का- -का: वेण्ड ५, ११: १;  
१; -का काण्ड ३९: २.

दियधन्- -शन् वृत् ६, १७.  
घणु- -शो: काण्ड ४, १३.

घश्यन्- -श्यन्: काशी १८, २४,  
१५; कासिण्ड ३, ६, ४: १; वीरि  
१, १३: १; दिगि १०: ५.

दहर- नम् काशी १४, ५, ३.  
दहर-क- -क: काण्ड ४८, ६७.

१दह- ✓दह.द.  
दहक- -हे वीधी १४, १४: १६;  
काण्ड १, ९, २३; दिगि १, ३,  
२४.

✓दा<sup>१</sup> वषा. न्ना. पर. जु. उम. दाने,  
द्वेषे काशी ३, १६, २७; भावि  
४५; दहनि काशी १, १, १५;  
१०, १०, १०; काशी; काण्डो  
२३, २३, ५; दिगि १, २०, २१;  
दिगि २, १, १२१; ५, ६५.  
दहा: काण्डो ५, ४, ११; १३,  
२२, ४, भाषी, दहने वेण्ड ५, ६:  
१२. दहनि काण्डो १६, १३,  
४. दिगि १५, १४. दहनि  
काण्डो २, ११, ११; कासिण्ड २,

१, ५: १५; या ११, २४; तेषा  
१६, १०; दहने काण्डो ५, ८,  
८; वीधी २, १५: १२; दिगि  
६, ५, १०; दहनि काशी २,  
१८, १३; काशी; काण्ड ३, ११,  
१४, १४, ३, ९, ६; काण्ड ४१,  
६; ५९, ४; काण्ड १, १७,  
६; वेण्ड ३, १०: ७; विण्ड  
८६, १६; दहने कासिण्ड ३, ७,  
२: ३१; काण्ड ३६, २५, ३;  
दहने काशी २, ११, ४; १८,  
१३; काशी; काण्डो १, ३, २;  
काण्ड ३, १०, २; काण्ड २५,  
२२; काण्ड १, १०, १०;  
दह: वीधी ६, ७: २; दहने  
काशी १, १०, ८४; ६, १४,  
१६; काशी १, १५, १२४;  
७, १८, १५; २, २८, १०; १८,  
३, २; काशी; काण्डो १४, २८,  
४; १७, ११, २; २; २; २;  
१५; १४; दिगि १२, ४, ४;  
१५, ७, १२; काण्डो २, ४, ५;  
११, १; ३; ४; काण्ड १, १४,  
२; वीधी ८, ११; १४, १; काण्ड  
१, २२: ७; कासिण्ड २, १, १:  
२; १: २; ५: ४; ३, ४, १:  
१५; वीधी १, १०, ४; ५; वीरि  
१, ४: १०; काण्ड १, २६: ५;

- a) वि. १ वष. १
- b) वडन् प्र वडे. (वा ३, २, १५४)
- c) वेण्ड १६.
- d) = वीधीन-
- द्वि विण्डो १
- e) हय-नामान.
- f) वीण्ड ५, २- या उ, ९ वषा २, ४, १ शेष ३, ११, ४, ११
- मीण्ड ४, २, २९ पराण्ड: ६.
- g) दहनि द्वि कासिण्ड: पाठ: (दु. C.) १
- h) पाणे. वेण्ड १, १५५७
- k द. १
- i) गण, दहनि <> दहान द्वि पाणे. १
- j) पाणे. वेण्ड १ पुरि- दहनि ती वे. ३, १, १
- दि. द. १
- k) पाणे. वेण्ड १, ११२८ इ. द. १
- l) पाणे. वेण्ड २, ३ सं. दहनि पाण्ड १४, ९, ४, २५
- दि. द. १
- m) पाणे. वेण्ड १, १००४ m द. १
- n) पाणे. वेण्ड १, १५५५ f द. १
- o) पाणे. वेण्ड १, १५५७ g द. १
- p) पाणे. वेण्ड १, १००४ h द. १
- q) पाणे. वेण्ड १, ५५८ n द. १
- r) पाणे. वेण्ड १, १५५५ ll द. १
- s) पाणे. वेण्ड १ पदि. दहानु मे २, ११, २२ दि. द. १
- t) गण्ड पाणे. वेण्ड १, १३४४ i द. १
- u) पाणे. वेण्ड २, ३ सं. दहानु मंसा १, ५, ६ दि. द. १
- v) पाणे. वेण्ड १, १५५५ p द. १
- xc) पाणे. वेण्ड १, १५५४ m द. १

आध्री ६, १२, २१; आपध्री ४,  
९, ६१; भाध्री; या ५, १३; पा  
४, ४, १९६; -पुत्रस्य आसिय  
३, १, २ : १४x४; -त्ता बौध्री  
१६, २७ : ८१; वीरु; -त्ता:  
माय २, १४, २६१; -त्तानाम्  
वाध २९, १८; -त्तम् बौध्री १३,  
३२ : ८१; आसिय; -त्तानाम्  
-वाध १७, ७२; -ते आपध्री ६,  
३०, ४x४; वैध्री, माध्री २, ५, ५,  
१८; -पुत्रिन वीरु २, ११,  
४२; गौपि २, ४, १९; -त्तेषु  
व्य १, २, ७; वैष ३, २, ४;  
-त्तौ द्विपि १८:१११११.  
दत्त-क- -कः वाध १५, ९, १७,  
२०; विध १५, १८.  
दत्त-कृत्रिम- -मौ बौध २, २,  
३१.  
दत्त-दक्षि(णा) -ज- -जान्  
विप २१, १६.  
दत्त-माद- -दाः विध ४३, ४३.  
दत्त-श्रुत- -तयोः पा ६, २,  
१४८.  
दत्ता(त-अ) क्षत्रयो(अ-उ) दक-  
-कः विध २१, ४.  
दत्तवत्- -वतः या १२, ४०; -वन्तः  
या १२, ४०; -वते वा ११, ११.  
दत्ति- -रितः या १२, १७.  
दृषवा आध्री ३, १२, ४; ८, १४, ४;  
शाध्री; वैताध्री १०, १७१.  
दृषवाय आध्री २, ७, ९१; आपमं  
१, ९, ५१; पाय.  
पुदत्र- -त्रम् अय ४८, ९१; निप

१, २.  
दद- पा ३, १, १३९.  
ददत्- -द्वक् आपध्री ५, २५, १८;  
माध्री ५, १६, १८; द्विध्री; वा  
६, २२; श्रुत्रा ३, १२९१; -दवः  
पुत्राध्री ४, १०, ९; १७, १३, २;  
बौध्री; आसिय ३, १, १ : ८; ३:  
३५; माय २, ११ : ५; द्विह्य २,  
१०, ५; -दवम् कौसु ७९, २०;  
-दवा वीरु २, २, ८१.  
पुददती- -ती\* काध्री ५, १२,  
१२; वीपि २, ९, १२.  
ददाति- > पति-परिवर्जित- -तः  
शेष ४६१.  
ददाति-वृत्त- -त्तम् पावा ५,  
२, १२२.  
ददाति-व्यामर्थ- -व्यात् गीसु  
१०, २, २२.  
ददायस्- -यान् अत्रा ३, ४, ११.  
पुददि- -दिः आध्री ७, ४, ३;  
कौसु २९, १; ४८, ९; अथ ५,  
१३; अर्ष २ : ४६; श्रुत्रा ५,  
३७; १६, ३३.  
ददिवस्- -दुपः अय १, ३२, ७१.  
दद्वस्- -द्वान् अत्रा ४, ६८१.  
दा- -दाः वाय ४१ : २५१.  
दावधे या ४, १५१.  
दावधे आसिय २, ७, ११ : १११.  
दाव्य, व्या- -व्यः बौध्री २५, ३ :  
२०, २६, ५ : २७; आसिय; वा  
४, ४; -व्या बौध्री २६, ९, १४;  
अय ९, २, २; ४, ६; ३१, ७, ३;  
विप ६०, २५.

दाव्यु बौध्री १६, १६, ३१; व्य  
२, ८, १९; वाय.  
दाव्यु- -वरि कौसु ६७, १९; -त्ता  
आध्री २, ११, ४x४x४; शाध्री;  
-त्ताः गौपि २, ५, १२१; कौसु  
८८, १३; अय; -त्ताय आपध्री  
१६, ३५, ११; वैध्री; -त्तारी  
कौसु ६०, १३; ६७, १५; -तुः  
माय १, ८, २; कौसु; -तृणाम्  
अय ११, २, ३; -तृणु वृदे  
८, २३; या ११, २१; -त्रा  
माध्री १, ३, ३, १६१; वाध्री  
१, ३, ५, १२१; वैताध्री ३,  
१६१; विप ५७, ८; ८१,  
१९; -त्रे आध्री २, १०, १५;  
शाध्री.  
दाव्यु-व्य- -व्यः या ८, ३; -व्यम्  
या ७, १५.  
दाव्यु-व्य- -व्यः वृदे ३, ६१;  
८, २३.  
दाव्यु-व्याजक-पञ्चम- -व्याः शेष  
३९८; बौध २, १, २९.  
दाव्यु-लोक- -कम् विप ५७,  
९.  
पुदत्रा- -पाठ ४, १७०; पा ३, २,  
१८२; -त्रम् बौध्री १२, ९ :  
६; श्रुत्रा ६, २६; -त्राणाम्  
वैताध्री ८, १३०.  
पदान- -पाग ५, ४, २९; -मम्  
शाध्री २, ३, २५; काध्री;  
-नय या ४, १८; -नात्  
वाध २, ३०; १०, ५; २०,  
४७१; बौध २, १, ५२;

a) वैप २, ३६ मंसा २, ३, २० टि. द. । b) पाधे. वैप १, १५५८ अ. द. । c) = पुत्रमेदाऽन्यतम- । d) विप. । मस. ।  
e) = उपहा- । f) पाधे. वैप १, १६४१ g) उ. आन. । पाधे, वैप १, १५५९ p) द. । h) पाधे. वैप १,  
१५५९ c) द. । i) वैप १ द. । j) सवा. काठ ७, १२ जनयन् इति, शी ९, ४, २२ कुषन् इति, शी १८, ४, ६२ कुषतः इति  
च पाधे. । k) पाधे. वैप २, ३६. इदती माध ११, ४, ३, ७ टि. द. । l) पाधे. वैप १, १५५९ j) द. । m) वैप १,  
निर्दिष्टयोः समायेतः । n) पाधे. वैप २, ३६. क्षयम् माध ११, ४, ३, ७ टि. द. । o) पाधे. वैप १, १५६० c) द. ।

दा ७, १५; -नानाम् अप १०, १, २३; १६, २, २; ७०, ३, १; वाच २२, १९; -नानि अप ४, २, १५; ७०, ११, २६; आपध; -नाय आपधौ १६; ७, ३१; वाधूथी; या ४, १५; -ने वीथी २०, १७; ९×५; -नेऽने या ६, १८; -नेन वाध २२, १; आपध; -नेपु अप १४, १, ९; -नेः अप ५४, २, ५; ५५, १, ६; वाध २५, ३; शंध.  
 १दान-कर्मन्- -मै या ६, २५  
 २दान-कर्मन्- -मैणः या १, ७, २, १८; ४, १७, ६, १७; १०, ३९; ११, ३०; -मां या ४, १७; ५, २३, १०, १५; २२, २३; -मैणः निप ३, २०; या ३, १९; -माणम् या १०, ९.  
 दान का(म>)मा- -मा आपधौ ९, ५, १४; -माः आपधौ ५, ३, ८; वीथी १३, १४; २, २७; ३, माधौ ५, १, १२; हिथी ३, २, ११.  
 दान-च्छेदो(द-उ)पयर्जन- -नम् विप ३, ८२.  
 दान-मुष्ट- -ष्ट कर्म २, १, १२६; ५, ६१; धृ ५, २९.  
 दान-पनि- -नी या २, ११.  
 दान-प्रतिग्रह- -हौ शंध ९०.  
 दान-प्रवृत्ति- -ति काथी १०, ५, ११; -नीन् हिथी ९, १, ५४, १०, ५, १.  
 दान-मनस्- -नस्यः या ६, ३१, -माः या ४, ४.  
 दान-मात्र- -त्रम् मीत् १०, ७,

१५.  
 दान-मान-स्थान-व्यपरोपित- -ताः शंध २५१.  
 दान-वाचना(न-अ)न्वारम्भण-वर-चरण-मत-प्रमाण- -णेषु काथी १, १०, १२.  
 दान-विक्रया(य-अ)तिसर्ग- -र्गाः या ३, ४.  
 दान-विधि- -धिः कप्र २, ५, ६; अप ७०, ३, ३.  
 दान-शक्ति- -क्तिम् वृदे ६, ५९.  
 दान-शब्द- -ब्दः मीत् ३, ४, ४८; -ब्दात् मीत् १०, २, ४२.  
 दान-संयोग- -यात् मीत् ६, ७, ७; -मे काथी १, ८, २०.  
 दान-संस्तुति- -तिः मीत् ३, ४, ५१.  
 दान-संमान-रजन- -नैः अप २, १, ४.  
 दान-संमान-स्कार- -रैः अप ४, ६, १, ६२, ७, २.  
 दान-स्तुति- -तयः कर्म १, २, २३; -तिः कर्म २, १, १२५×.  
 दान-होम-पाठ-प्रतिषेध- -धे मीत् १०, ८, १२०.  
 दान-होम-पाठा(क-घ)व्ययन- -नानि वैनाथी ११, २०.  
 दाना(न-अ)धिरार- -रान् काथी २२, ३ २०.  
 दाना(न-अ)व्ययन- -ने आप् ४, ४, १७.  
 दाना(न-घ)व्ययन-कर्मन्- -र्मसु याति २, १०८; नाति २, ८, २०.

दानो(न-उ)ग्वासा(स-२आ)म- -यम् विध ४२, १०.  
 दापयित्वा वैष्ट ५, ९; ८; विध ५, १७८.  
 दाप्य- -प्यः विध ५, १२७; १६९; -प्याः विध ५, ८९; -प्यौ विध ६, ४१.  
 दास्य-पा ३, २, १५९.  
 दास्यन्- -वने निप ४, १; या ४, १८.  
 दास्यन्- -स्यतः वीत् ५५, ६; -स्यन् काथी २५, १४, ३०; आपधौ.  
 दिव्यम्- -सतः वीथ १२, ३; -स्यन् कप्र २, ५, ४; -स्यन्तः आप्थि १, २, २; ६; हिष्ट २, १८, ९.  
 दिव्यु- -न्सु वृदे ५, ५६.  
 दीयमान,ता- -नम् काथी २२, १, ३२; आपधौ १७, २६, १८; हिथी १७, १, १४; अप ७०, ४, २; विध ६, १०; -नाम् आपधौ १३, ७, ११; हिथी १०, ४, ७४.  
 दीयमान-त्व- > १३-दशन- -नात् कप्र ३, १०, ९.  
 देय,या- -यः काथी २२, ८, २०; आपधौ; -यम् काथी १८, २४, ३२; काथी; -या आपधौ ९, १५, २१; माथी; -याः आपधौ ५, २०, ११; वैथी; -यानि कप्र ३, ५, १०; वाध ३, ८; शंध १२७, वीथ ३, १०, १५; वीथ १२, १७; -ये काथी ४, ७, १३; या ५, ८, ५५; -यौ आपधौ १८

a) वि. १ षम । b) 'देषः इति जीर्णं प्रयातं प्रश्नं । c) वैप १ इ. । d) पांमे. वैप १, १५१ ० इ. । e) आदिमन्तः [ =मुष्णन्तः ] इति [ पथे ] मान्तराः, तन्तु Bōhi [ZDMG ५२, ८७] रिपन्त इति प्रस्तावुकः ।

११, ४; आपथ २, ११, १८;  
 हिष २, ४, ३३.  
 √दा<sup>१</sup> पाषा. ऋषा. पर. लवने, दाति  
 आपथी १, ३, ८४४; माथी;  
 दाति माथी १, ७, ६, २; दामि  
 वाथी १, २, १, १६१<sup>१</sup>; दाम्नु  
 १<sup>१</sup> १, २५, ६१, ३९.  
 दात- ते बीथी २१, ३: २२.  
 रदात्र<sup>०</sup>- पा ३, २, १८२; -त्रम्  
 माथी १, ३, ६; वाथी १, २, १,  
 १२; १६; कौसू १, २४; ६१,  
 ३८; या २, २.  
 रदान-> दान-प्रसव<sup>०</sup>- दामि  
 माथी ६, १८, १५.  
 √दा, दौ<sup>०</sup> पाषा. दिवा. पर. श्रव-  
 खण्डने.  
 √दा(वन्धने)> र्दान- नम् आथी  
 ८, ३, १११<sup>१</sup>; वैताथी ३२, २५.  
 दा-√दा(दाने) द.  
 दासा-√दस द.  
 दाक- पाठ ३, ४०.  
 दाक्षक-, १-३दाक्षावण- प्रव.  
 √दक्ष द  
 दाक्षिण- प्रव. २दक्षिणा- द.  
 दाक्षिणाग्निक-, दाक्षिणाग्न-  
 दाक्षिणाव्य-, दाक्षिणाव्यक-  
 १दक्षिण, णा- द.  
 दाक्षी- प्रव. √दक्ष द.  
 दाक्षिण्य- २दक्षिणा- द.  
 दागव्यापनि- द्यु- द.  
 दाडिम<sup>०</sup>- पाठमो २, २, २५०; पाग  
 २, ४, ३१; ४, १, ४१<sup>०</sup>.

दाडिमो- पा ४, १, ४१.  
 दाडी- पा, पाग ४, ३, १६७.  
 रदाण्ड- २दण्ड- द.  
 रदाण्ड- २दण्डित्- द.  
 रदाण्डकि<sup>०</sup>- (> कौय- पा.) पाग  
 ५, ३, ११६.  
 रदाण्डकि<sup>०</sup>- कय: बीथीप्र ३२: १.  
 दाण्डमाहिक- १दण्ड- द.  
 दाण्डपा, मायन- दण्डय, मज- द.  
 दाण्डमाथिक-, दाण्डामिनिक-  
 १दण्ड- द.  
 दाण्डायन-, \*नस्थली- २दण्ड- द.  
 दाण्डिक-, \*ण्डिक- १दण्ड- द.  
 दाण्डित्- २दण्ड- द.  
 दाण्डिनायन- २दण्डित्- द.  
 दाण्डिक- १दण्ड- द.  
 दात्<sup>०</sup> अथ ३७ १४, ३१.  
 दात-√दा(लवने) द.  
 दातव प्रव. √दा(दाने) द.  
 दात्तय- २दत्त- द.  
 दात्तयौह- दित्यशह- द.  
 रदात्र-√दा(दाने) द.  
 दात्व- पाठ ४, १०४,  
 दादा<sup>१</sup> कौथीका १५५.  
 दादहाण-√दह द.  
 दाधिक- र्दाधि- द.  
 दाधिक- र्दाधि->दधि-का- द.  
 दाधृषि-√धृ द  
 दाध्रेषि<sup>०</sup>- अथ. बीथीप्र ३: ४.  
 √दान<sup>०</sup> पाषा. अत्र. उभ. खण्डने.  
 रदान-√दा(दाने) द.  
 रदान-√दा(लवने) द.

रदान √दा(वन्धने) द.  
 र्दान- ना वाथी ११, १२, ४;  
 -ना: सांथी १५, ८, ९.  
 रदानपनुपरिवस्यते अथ ४८, ५९.  
 रदानस्<sup>०</sup>- न: अथ ४८, ९०.  
 रदानु<sup>०</sup>- पाठ ३, ३२; -नुन: या २,  
 १३१<sup>१</sup>.  
 रदानु<sup>०</sup>- न्नु या ११, २११<sup>१</sup>.  
 दानव<sup>०</sup>- न: अथ ४८, १००<sup>१</sup>; -नम्  
 या १०, ९१<sup>१</sup>; -यात् शंघ  
 ११६: २१; ना ११, २१;  
 -वानाम् अथ ७, ११; -वै: अथ  
 ७, १२; छेद ७, ५१.  
 दानवी- बीम् छेद ६, ७६.  
 र्दानु<sup>०</sup>- फ्रंतव: आपथी १५, ९, ८;  
 बीथी ९, ९: १४; माथी ११,  
 ९, १०; माथी ४, ३, ११; वैथी  
 १३, ११: १२; हिथी २४,  
 ४, ३.  
 रदान्त- द- द.  
 रदान्त-√दन् द.  
 दापयित्वा, दाप्य-√दा(दाने)  
 द.  
 दामन्<sup>०</sup>- पाठ ४, १४५; -न आपथी  
 १९, २७, २३; बीथी १३,  
 ४२: १२; १०, वाधुथी ३, ७६: २७;  
 हिथी २२, ६, २८; माति ७७१;  
 -मथी काथी २२, ४, २३;  
 आपथी २२, ५, ८; हिथी १७,  
 २, ३६; लाथी ८, ६, २२१;  
 -न्ना आपथी २, ५, ४; १६,  
 ३, ७; १९, २६, १; बीथी ९,

a) या २, २ परामृष्ट: द. । b) पामे. वैप १, १५६१ k द. । c) = लवण-नाशन- । d) विप. । पस. ।  
 e) पा ७, ४, ४० पावा ७, ४, ४७ परामृष्ट: द. । f) सोध: वैप १, १५६२ d द. । g) = वृक्ष-विशेष- । द्यु. ? ।  
 h) वृ. पागम. । i) = श्वायुषजीवित्त-विशेष- । द्यु. ? । j) = मधुपि-विशेष- । द्यु. ? । k) वृत्तित: पाठ: ।  
 l) = स्तोम-विशेष- । द्यु. ? । m) पा ३, १, ६ परामृष्ट: द. । n) वैप १, १५६२ l द. । o) = पन- ।  
 द्यु. ? < √दा(दाने) रति रयात् ? । p) वैप १ द. । q) पामे. वैप १, १५६३ e द. । r) = मेघ- ।  
 s) पामे. वैप १, १५६३ g द. । t) वैप १, १५६३ o द. ।

५: ३२; माथी ६, १, १, ३१;  
वाथी २, १, १, २५; द्विथी ११,  
१, ३४.

दाम-कण्ठ<sup>१</sup>- पाग २, ४, १९.

दाम-रूप, पा<sup>२</sup>- -पा आपथी १८,  
१०, २३; -पाणि<sup>३</sup> वाथी २२,  
४, २२; आपथी २२, ५, ७,  
द्विथी १७, २, ३५; लाथी ८,  
६, २०; २१.

दाम-द(शा>)वा<sup>४</sup>- -गानि लाथी  
६, २१.

दाम-हान्या(न-अ)न्त- -न्तात् पा,  
पावा ४, १, २७.

दामो(म-उ)द्वि<sup>५</sup>- -रम् आमिथ २,  
५, ७: १०; वीथ १, ११, ७;  
वैथ ३, १३: ५; वीथ २, ५,  
२४.

दामनि- (>नीय- पा.) पाग ५,  
३, ११६

दामोदात्तोत्तायना<sup>६</sup> वल्यु ४: २.

दामोष्णापि- (>प्य- पा.) पाग  
४, १, १५१६.

दामिभक- ✓दभु, म्भ द.

दाय<sup>७</sup>- -वा: या ३, ४; -यम् वाथी  
१५, २५, १; २७, १; वीथी,  
-यात् शंष २७५; -यन् आपथ  
२, १३, ३; द्विथ २, ३, २,  
-यैय: शंष २७६.

दाय-विभाग- -वा वाथ १७, ४०;  
वीथ २, २, ८.

दाय-हर- -र: विथ १५, २९.

दाया(य-आ)दि<sup>८</sup>- -दि वीथ ५, ७.

दाया(य-अ)तुरूप- -यम् विथ ६,  
३६.

दायाम् वाथी ३, २, ६, ३२.

दायाद<sup>९</sup>- पाग ५, १, १२४; पावा  
३, २, ५, -द: वाथ १७, २९;  
८१; आपथ २, १४, ६; द्विथ २,  
३, १७; या ३, ४, ६; -दा: वीथि  
१, ५, १०; वाथ १७, २५; विथ  
१७, २२; या ३, ४; -दे पा ६,  
२, ५; -देयु शंष २९१.

दायाद्य- पा ५, १, १२४; -द्यम्  
वीथी १२, ११: १३; १३:  
२७; आपथ २, १०, ४; द्विथ २,  
४, ४; पा ६, २, ५.

दायाद्य-काल- -ले वाथ १, १,  
४; पाथ १, १, २.

दार<sup>१०</sup>- पावा ३, ३, २०; -रम् वाथ  
१४, १३; आपथ १, ३२, ६; २,  
२२, ७; २७, १०, द्विथ १, ८,  
४८; २, ५, १३७; २२९, -रा:  
आपथी २०, १५, ८; वाथ ६,  
४; वीथ २, २, ५५; काथ २७९:  
७, -रात् गोथ २, १, १; ३, ४,  
२; द्राथ, -रे कथ ६४, १०, ६;  
वाथ १६, ३५; आपथ २, १, १८;  
५, १०; ११, १२; द्विथ २, १,  
१७, ११, ४, २७; -रेण पाथ  
१, ११, ६; आपथ २, १, १७;  
द्विथ २, १, १६; -रेय्य: भाथ  
२, २: १०; द्विथ २, १७, २;  
-रे: शंष १५८; वैथ १, ६, ६;

दार-वर्मन्- -र्मणि द्विथि २३:

१११.  
दार-काल- -ले पाथ १, २, १.

दार-क्रिया- -या नीयु ६, ८, १५.

दार-नाव- पा ५, ४, ७७; पाग २,  
२, ३१.

दार-गुप्ति- -सिम् द्विथ २, १४: ६-

दार-जात- पाग २, २, ३१.

दार-व्यागिन्- -नी शंष ३६७: ९.

दार-व्यतिक्रम- -मे वीथी २८, १:  
३०; २: ५२; द्विथ १, ७, ५४<sup>११</sup>.

दारव्यतिक्रमिन्- -मिणे आपथ  
१, २८, १९; द्विथ १, ७, ५४;  
-मी आपथ १, २८, १९<sup>१२</sup>.

दार-संमह- -हे शंष ४११; ४३९:  
वृदे ५, ८२.

दार-संमहण- -णम् वैथ १, ३, ४.

दारा(र-अ)धिगमन्->न्ना(न-आ)  
धान- -ने कथ १, ६, २.

दारा(र-अ)वी(न>)ना- -ना: काथ  
२७९: ७.

दारा(र-अ)व-वन-लाम- -मानाम्.  
शंष ४३९.

दारा(र-अ)पत्य-पोयक- -क: काथ.  
२७०: ४.

दारा(र-अ)ध- पाग २, २, ३१.

दारा(र-आ)धय-मूयण<sup>१३</sup>- -गानि  
आज्यो ८, ६.

दारक<sup>१४</sup>- -करय वैथ ३, २०: १; ५,  
११: ७; विथ २७, ४.

दारिका->न्का(वा-आ)चार्य- -र्य:  
शंष ३६७: १६५.

दारद- २२२दाद- द.

a) व्यप. । बस. । b) विव. । दस. । c) पाथे. वैथ १ पति. दाम-भूया टि. द. । d) विप.

(वागन्-). e) = ३६७- । बस. । f) = रूपवैरासा- । पाठ: ? मोदा, सो इति P.W. प्रथ, दामोदासः,  
वीसा इति महीदासः । g) व्यप. । म्यु. ? । h) वैथ १, १५६४ ० द. । i) वैथ १ द. । j) तु. पागम. ।  
k) दुः नाप. । l) म्मणि इति पाठः ? यनि. शोचः । m) सपा. ऋमे<>ऋमी इति पाथे. । n) बस. >  
क्य. । या थि इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. धंरतुः टि.) । o) = बालक- । म्यु. ? । p) तु. मदनपारिजात-  
(१५०२) । मिताशरामा (३३, २१६) तु दारका इति पाथे. ।

दारयत्-, 'वित्- ✓दृ, दृ(विदारणे)  
द्र.

श्दाय- ✓दा (दाने) द्र.

श्दाय- पाठ १, ३; पाग २, ४, ३१;

४, ३, १५४; पावाग ६, ३, १२१;

-रु आपथी ५, २५, ७; वीथी;

या ४, १५; -रुगा वीथी २०,

१९; २०; -रुणि काठथी ३६;

पा ५, ४, ११४; -रुमिः काथी

४, ९, १; -रुम्यः माथी ९, १३,

८; -रुम् माथी ६, १६, ४; ७,

१३, ८; -रुणि आपथी ६, २५,

४४; वीथी १७, ३९; २;

आमिष्ट १, ३, १; २; -रीः

आपथी १४, २४, ४; वीथी १४,

२८; ११; १२; द्विथी १५, ६,

९; -पूरी आपथी ९, ३, ८<sup>१</sup>;

वीथी.

दारय- पा ४, ३, १५४; -यम्

कप्र १, ७, २; विध २३, ५;

वैध २, ८, ३; -वाणाम् वीध

१, ५, २९; विध २३, २७.

दारवी- वी नाशि १, ६, १.

दारु-कार<sup>१</sup>- रः वैध ३, १४, १०.

दारु-चय- यम् कप्र ३, २, ८.

दारु-चित(त>)वा- ताम् आमिष्ट

३, ५, ५; १०; वीधि १, ४;

११, ३, ३, ४; वैध ५, ४; १५;

वीधि १, २, २, ३.

दारु-चिति- विम् आमिष्ट ३,

१०, ४; ९; द्विधि ३; १०,

१२; १५; ४; ९; -तेः द्विधि

१; ८; ३; १२.

दारु-ज- जम् अथ १४, १, ३.

दारु-दन्त-जात- जानि वैध ३,

३, ११.

दारु-पात्र- जम् आपथी १, ११,

५<sup>१</sup>; वैथी ३, ६; ३; द्विथी १,

३, ८; काथ २७७; ५; -त्राणि

वैथी ४, १; १४; द्विथी २, ६,

५५; -त्राम्याम् वैथी ७, २;

११; -त्रे आपथी १, १२, १६;

१४, ३; वैथी ३, ८; ८; विध

९६, ७; -त्रेण वीथी १७, ४८;

१३; माथी १, १४, ९; माथी

१, १, ३, ३, ७; वैथी ७, २; ११.

दारु-पात्री- त्रीम् वीथी १, ४;

१०; आमिष्ट ३, ५, ७; ९;

वीधि १, ६; ४, ३, ११.

दारु-पादु- त्रीः या ४, १५.

दारु-विण्ड- ण्डः वाशि २, ९१;

-ण्डेन वैशि ६८.

दारु-विण्ड-क- कान् वाशि २,

९१.

दारु-विण्ड-यत् आमि ५, २.

दारु-मध्य- म्यात् कशु ७, ११.

दारु-मय- यः वीथी २६, २२;

२०; वीध १, १, ११; -यम्

वीथी २९, ६; २०; २४;

माथी, -याणि आपथी ९, १६,

३; वीथी १५, १४; ५, आमिष्ट

२, ७, ९; १३; तैषा ७, १२<sup>१</sup>;

-यानि आमिष्ट २, ७, ८; १५;

-यानाम् वीध १, ६, २६; -ये

माष्ट ३, १८; १७.

दारु-वत् आमिष्ट ३, ७, ४; ७,

वीधि.

दारु-वह- पावा ६, ३, १२०.

दारु-संघात-वत् माशि ११, ८.

दारु(र-आ)घा(त>)ठ<sup>१</sup>- पाग ४,

३, ८६; पावा ३, २, ४९; कि

६५; -पूठः शुभा ३, ४८; तैषा

७, १३.

दारु(र-आ)घात-यत्- पा ४, २, ८६.

दारु(र-आ)घात-यत्- तानाम् वीथी

१५, १९; ३; -त्राणि वीथी

१५, १४; १; १८, ४०; १५, १९.

दारु(र-आ)हरण- जम् काथी २२,

६, ९.

दारुण-, ण्य- ✓दृ, दृ(विदारणे)द्र.

दारुसंघ- वीध- द्र.

१-२दारुच्युत- प्रम. ✓दृद्र.

दार्ण- द- द्र.

दार्ण- १दृति- द्र.

दार्णिक- दूर्- द्र.

दार्ण- १दर्म- द्र.

दार्णायण-, दार्णि-, दार्ण- २दर्म-

द्र.

दार्ण्य- णेण कौश ३२, ८; ३५, २८.

दार्ण- (> ष्य- पा.) पाग ४, २,

९७.

दार्णिहोमिक- द्वि, वी- द्र.

दार्ण- ष्यम् अथ २३, ५, १.

दार्ण-, 'शैर्णमातिक- प्रम. ✓दृद्र.

दार्ण- द, दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

दार्ण- दार्ण- द- द्र.

a) वैप १, १५६४ f द्र. b) = वर्धक-। उत.। c) वैप १ द्र.। d) वैप १, १५६४ k द्र.।

e) या १, ७ परामुष्टः द्र.।



ददासः या ११, २४<sup>१</sup>।  
 ददावस<sup>१</sup> - सुवे आश्री २, १३,  
 ७.  
 दादास-> स-पति-> स्व<sup>१</sup>-  
 -यम् लाश्री ७, ४, ११; -स्वस्य  
 लुम् ३, १० : १६; -स्वे लाश्री  
 ७, ४, १६<sup>१</sup>।  
 दादावस<sup>१</sup> - सुव. आश्री ५, ९,  
 २६; आश्री; या १२, ४०;  
 -सुवे आश्री १, १०, ८४४;  
 आश्री; या ११, ११; -इवांस-  
 गीषि २, ३, ५, या १२, ४०; तैत्रा  
 १६, १३; -इवांसम् आश्री २,  
 २०, ४; ३, ८, १; ८, ९, २;  
 -इवान् या ५, ७<sup>१</sup>, पा ६, १,  
 १२.

√दासु पाषा. स्वा. पर. हिमायाम्.  
 दादा<sup>१</sup> - पाठ ५, ११; पा ३, ४,  
 ७३.

दासी-> दासेर<sup>१</sup> - टि ६७.  
 दादाप्रामिक- , दानय- प्र- दान-  
 द  
 दादासं - संस्य वाच ६ : ४<sup>१</sup>  
 दादासं - , दादासं - दान- द.  
 दादासं - दादासं - द.  
 दादासं - दान- द

√दासु पाषा भाग उभ दासे,  
 दादासि का ७८, १३<sup>१</sup>; निप  
 ३, २०.

दास-> दास-यन्- वन्तम् आश्री  
 ८, १, ३; आश्री १८, २३, ९; वैश्री  
 १९, ५ : ९; जैश्री ५, ४, २१;  
 ४, लुम् ३, ७ : १; निम् १, ७.

२२.  
 √दासु (हिमायाम्), दासति अण ७८,  
 १९.

दास<sup>१</sup> आश्री ५, ४, १३; लाश्री २,  
 ८, १३.

दास<sup>१</sup> - पाठ ५, १०; पाग ३, १, १३;  
 ७, १, ११<sup>१</sup>, -मः सु ९, ५, कौम्  
 १७, १५; वाध १५, १३; विध  
 २२, ५७; गौध २०, ४; या २,  
 १७<sup>१</sup>; -मम् आश्री ८, २५ ११<sup>१</sup>.  
 वैनाश्री ३१, २५<sup>१</sup>; दिध २, १,  
 १२६; -साः आसिष्ट, कौम् ९०,  
 १८<sup>१</sup>, -मन् हिथी ३३, १, ३१;  
 -सनाम् विध २२, १९; -साय  
 कौम् ८९, ४; -से आश्री १८,  
 १४, ५<sup>१</sup>, -सेन सु १०, ३; -सेः  
 आसिष्ट २, ४, ७ : १७<sup>१</sup>; -सी  
 वीश्री १५, १ : १५; २६, १० :  
 १०.

दासी- पा ७, १, ४१; पा, पाग  
 ५, ३, १००<sup>१</sup>, ४, १३८; -सी  
 आश्री १, २१, ८, वीश्री,  
 -सीः वाश्री ३, १, २१; वैश्री  
 १७, ११ ८, दिथी ३३, १, ३१;  
 -सीनाम् आश्री ९, ९, १४;  
 -सीम् वीध १, ११, २०; बुदे  
 ७, २५, -स्य. आश्री १३, ३,  
 २४. आश्री; -स्या आश्री १,  
 १६, ३२; दिध १, ५, ३२.

दासी पठ- -दासु गौध  
 २०, ४.  
 दासी-दास- पाग २, ४, ११;  
 -मम् का २०, ५, २; -सेन

अण १, ४४, ९.  
 दासी-निष्क-रथ-इस्ति-यान-  
 गो- -वाम् लाश्री ८, ११,  
 १६.

दासी-प(दु>)श्री- पाग ५,  
 ४, १३९.  
 दासी-भार- पा ६, २,  
 ४२.

दासी-भागवक- पाग २, ४,  
 ११.

दास-कर्म-कर- रम् आश्री २, ९,  
 ११<sup>१</sup>; -राः आश्री २३, ७.

दास-कर्म-नार- रम् हिध २, १,  
 १२६<sup>१</sup>.

दास-कुमारी- -यः आश्री २१,  
 १८, ७, १९, १८; २०, ५; हिथी  
 १६, ६, ३९.

दास-गोपाल-नापित- -ताः विध  
 ५७, १६.

दास-प्रास- (> णिक्) का-  
 -वी-दर-प्रास- टि. द.

दास-स(ति>)नी<sup>१</sup> - पावा ७, १,  
 ३५; -वीः या २, १७<sup>१</sup>।

दास-मिथुन- -नी लाश्री ८, ४,  
 १४.

दास-वर्ग- -गंस्य विध ८१, ४.  
 दास(स-व)धिप(ति>)नी-  
 -न्यः या २, १७.

√दासाव पा ३, १, १३.

दास्य- -स्यम् सु ६, ४; विध  
 ५, १५३; -स्यात् सु १०,  
 २४४; -स्ये सु ५, १; विप ५,  
 १५१.

a) वप १ द. 1 b) = साम-विशेष- c) दासभ्याम्यम् इति पाठः इति. शोधः (दु. तां १३, ५, २६) ।  
 d) अथये इति पाठः इति. शोधः । e) पाठे. वप १, १५१५ C द. 1 f) दूक् प्र. (पा ७, १, १३१) ।  
 g) दासार्थम् इति पाठः इति. शोधः (दु. वा ७, १) । h) दासतु-> -नी (दु. तां १, ७, ९) इत्यथवावयवः  
 द. 1 i) विप., माप. (अथ-). वप १ निर्दिष्टयोः दास- रदास- इत्येतयोः समावेशः द. 1 j) दु. पायम. ।  
 k) उत्तरेण संघर्षः । l) दासेर इति पाठः इति. शोधः । m) परस्परं पाठे. ।

रदास<sup>०</sup>-(>दामायन-पा.)पाग ४,  
१,१९<sup>b</sup>

दासका<sup>०</sup>-(>कायन-पा.) पाग ४,  
१,११०.

दासमित्र- पाग ४, १, १९<sup>ab</sup>; २,  
११६६.

दासमित्रायण- पा ४, १, १९; पाग  
४.२, ५४.

दासमित्रायण-मक्त- पा ४, २,  
५४.

दाममित्रि-(>मित्र-मक्त-पा.)पाग  
४, २, ५४.

दासमित्रि(क>)का-, षी- पा  
४, २, ११६.

दास्य- १दान-द्र.

दास्यत्- ✓दा(दाने) द.

दाह-, दाहन- प्रस. ✓दह द.

द्विग्ध- प्रस. ✓द्विह द.

द्विति<sup>०</sup>- पावा १, १, ७२; -पति: अथ  
११, ३; १५, ६; -ते. माथी २,  
३, ८, २२; द्विथी ८, ६, ३३; कीम्  
५९, १३; अथ ७, ७; १५, ६.

द्वैत्य- पा ४, १, ८५; -स्यान्  
शेष ११६: २०; -स्यान्  
वृदे ६, ११५; -त्येपु वृदे ७,  
५४; -त्यौ वृदे ४, ६७.

द्वैत्य-दानव- वात् वृदे ७,  
५०.

द्वैत्य-मन्त्रो(न्त्र-उ) नि-  
काळ-पस(:) वैथीका १०६.

द्वैत्ये (त्व-इ) ष्-निधुत-  
-तानि विध २०, २५.

द्वित्य-वाह<sup>०</sup>- वाह: काथी ३, ४,

३, १०८; -वाहम् आपथी ५,  
२०, १६.

द्विथीही- ही श्रुपा ५, ४०८;  
-हीम् आपथी ५, २०, १६.

दायोह- पा ७, ३, १.

दित्सत्-, १दित्सु- ✓दा (दाने) द.

रदित्सु<sup>०</sup>- र्सु आथी १, १, १२१.

दिदर्शयिपत्- ✓दृश द.

दिवीक्षण- ✓दीक्ष द.

दिदृशा- प्रस. ✓दृश द.

दिद्युत्<sup>०</sup>- पाउना २, ५७, पावा ३,  
२, १७८; -पुद्यु आथी ६, ३,  
१; निध २, २०; या ६, ३०;  
१७, ७८; २१; -०द्यु अथ  
२, ३१.

दियुतान- ✓द्यु द.

द्विद्योत्<sup>०</sup> आपथी १८, १५, ५, वीथी  
१२, १०: १४; द्विथी १३, ५,  
३०; आमिष्ट ३, ३, २: ५; वीथि  
२, ९, ८.

द्विधक्षत्- ✓दृक्ष द.

द्विधिपु<sup>०</sup>- ०पो वा ८, २०<sup>f</sup>क.

रद्विधिपु<sup>०</sup>- पाउ १, ९, ३<sup>b</sup>; -पुपो<sup>१</sup>  
आथिष्ट ३, ५, ६: १६; वीथि  
१, ५: ४.

पुत्रधिपय<sup>०</sup>- ०थ आथी  
१, ३, ३०, काथी.

द्विधि(पु>)पुपति- ति: वाथ  
१, १८; २०, १०.

द्विभूत>ता ✓ध द.

द्वित<sup>०</sup>- पाउह २, ४९; पाग २, ४, ३१,  
-नम् वैद्य ३, १२: २; अथ;  
-नाम् वृदे ४, ३४; -नालाम

वीथी १२, ३: ४; १५; -नामि  
आपथी १, ५, ४; वृदे-४, ११३;  
-ने आपथी २१, १२, ३१; वैथी;  
-नेडने अथ ३१, ६, ३; ९, ५;  
वाशि २, ६७; -नेन वीथ ४,  
५, २८; -नेपु अथ ३१, ८, ५;  
-ने: अथ ३५, १, १०; वीथ ४,  
५, २७.

दिन-कर<sup>०</sup>- रस्य अथ ७०<sup>३</sup>, ११,  
२३.

दिन-कन- -नेप कन २, १०, ५<sup>१</sup>.

दिन-क्षय- वात् वाध ११, ३१.

दिन-ग्रय- -ये वैद्य ६, ८: ११;  
-येण विध २२, ३७.

दिन-द्वय- -येन विध २२, ३६.

दिन-भाग- -गानाम् वेज्यो ४१.

दिन-राशि- -रति: वेज्यो २२.

दिन(न-त्र)र्च(तु-अ)यन-माय-  
-सानाम् वेज्यो ४४.

दिनर्चयनमासा(स-त्र)र्च<sup>m</sup>-  
-इम् वेज्यो १.

दिना(न-अ)धिप- -या: आज्यो  
८, १.

दिना(न-अ)न्त- -नेपु वृदे ७,  
१२१.

दिने(न-इ)ष्टका- -का: वीथी १२,  
३: १; १२.

दिने(न-ए)कादनाक- -केन वेज्यो  
२६.

दिनो(न-उ)पसुक्ति- -क्ति: वेज्यो  
२६.

✓दिन्व पाथा. भ्वा. वट. प्रीत्यने.  
द्विरस्ता- (>द्वैस्त-पा.) पाग ४,

a) व्यप. १ व्यु. १।

b) दास-, मित्र- इति माण्डा. प्रस. । दासमित्र- इति [पञ्चे] पागव. ।

c) = देश-विशेष- । d) वैप १ द. । e) वैप १, १५६८ g द. । f) व्यु. पागे. च वैप १, १५६९ b, c द. ।

g) पागे. वैप १, १५४२ g द. । तत्र च 'पो. ३' > 'पः' इति शोधः । h) <द्विधि/सो इति, पाठयो २, १, १२३ तु <

✓एप् इति । i) पागे. वैप १, १५४२ j द. । j) = दिवस- । व्यु. १ < ✓दो [अथकलपने] इति पाठ. दे. < ✓द्वी

[स्ये] इति क्रमा. । k) उप. टा. प्र. उरसं. (पा ३, २, २१) । l) 'अथेण इति जीतं. । m) विप. । वस. ।

३,९३.  
 दिलीप- पाठभो २,२,२१४.  
 दैलीप- (>पायन-) दलीप-  
 टि. द.  
 ✓दिव् पाषा. दिवा. पर. क्रीडाविजि-  
 गोपाव्यवहारसुनिस्तुतिमोदमद-  
 स्वजनकान्तिगतियु. दीव्यति  
 बाधुश्री छ, ५९ : १०; ७५ :  
 १; पा छ, ४, २; दीव्यामः  
 बाधुश्री छ, ७५ : १२; ऋदीव्य-  
 ध्वम् काश्री छ, ९, १९; १५,  
 ७, १७; ऋदीव्यत थापश्री ५,  
 १९, ४; आश्री ५, १२, ६; हिथी ३,  
 ५. ८; दीव्येत बाधुश्री छ, ५९ :  
 १२; दीव्येयुः माश्री ५, १२, ८.  
 देविष्यावः बाधुश्री छ, ७५ : ४.  
 दिव्- पाठभो २, १, ३०६, पाग ५, ४,  
 १०७; ऋदि. आश्री १, ४, ९५५;  
 शाश्री; आश्री १, २१, ३०, २,  
 ५, १०, ६, १४, १२०; ८, २, ११६;  
 १६, ३२, ३६; १८, १६, १००;  
 माश्री १, २, ६, २५५; ८, २,  
 २८; आपमं २, १६, ७३; आश्र  
 ३, ८, १९३, पाश्र १, ५, १००<sup>m</sup>; दिव्य  
 १, १७, ४०, पा २, १३; ६, २२५, ५

पा ६, १, १३१; ३, २९; ७, १,  
 ८४; पावा ६, ३, २०; दिवम  
 आश्री १, ३, २७; २, १०, २१;  
 ३, १२, ११<sup>०</sup>, शाश्री; काश्री ६,  
 ९, १२१<sup>०</sup>; ऋआश्री २, १,  
 ८०; ७, २, ७<sup>०</sup>; १०, ७<sup>०</sup>; ११,  
 ९, १३<sup>०</sup>; १३, ५, ८<sup>०</sup>; १५,  
 ४, ४<sup>०</sup>; ऋमाश्री १, २, ३, ४<sup>०</sup>;  
 ६, २५<sup>०</sup>; ८, १, ११<sup>०</sup>; ६, १०<sup>०</sup>, छ,  
 १, २३<sup>०</sup>; द्राश्री छ, १, ७<sup>०</sup>; लाश्री  
 २, १, ६; या ६, २२१<sup>०</sup>×;  
 ऋदिवा आश्री १, ७, ७<sup>०</sup>; शाश्री;  
 आश्र १, २२, २६; शाश्र २, ४, ५<sup>०</sup>;  
 ३, १३, ५<sup>०</sup>; पाश्र २, ३, २<sup>०</sup>; दिव्य  
 १, ५, १०<sup>०</sup>, २, १०, ७<sup>०</sup>; गोश्र २,  
 १०, ३४<sup>०</sup>; कौश्र ५६, १२<sup>०</sup>; या  
 ११, ४९; पाश्र १, १, ३७<sup>०</sup>;  
 दिवाम् आश्री १६, २५,  
 १११<sup>०</sup>; ऋदिवि आश्री १, ६,  
 १××; शाश्री १, १३, ४××; छ,  
 १२, २<sup>०</sup>, शाश्री, आपश्री ३,  
 ९, १०<sup>०</sup>; माश्री १, २, ५, ८;  
 ३, ५, २५; बाधुश्री छ, १४ :  
 २१<sup>०</sup>; हिथी २, ५, ११<sup>०</sup>; आपमं  
 १, १६, ४<sup>०</sup>; भाश्र २, ७ :

२०<sup>०</sup>; दिव्य २, ७, २<sup>०</sup>; पा  
 ८, ३, ९७; दिविडदिवि पाशि  
 ३२; ऋदिवि आश्री २, ३, ८;  
 ३, ८, १, ४, ५, ७<sup>०</sup>; शाश्री; आपश्री  
 १२, २०, ८<sup>०</sup>; लाश्री ५, ६, ९<sup>०</sup>;  
 वैताश्री २०, १३<sup>०</sup>.  
 दिवा<sup>०</sup>- पाठवृ छ, १७५; - ऋवा<sup>०</sup>  
 शाश्री १, ११, १<sup>०</sup>; २, ९, १; काश्री;  
 या ३, १५; १४, १८; पाश्र १,  
 १, २७.  
 दिवाकर- पा ३, २, २१;  
 -र. अष ५१, २, १; ५५, २, २;  
 ७०<sup>०</sup>, ११, ३; ४; -रम् आशिष्ट  
 २, ४, ११ : ८; ऋश्र १, ४१, ६;  
 अशा ११, ६; वृदे २, ६२; -रस्य  
 अष ५१, ३, ३. ७०<sup>०</sup>, ११, ३०;  
 -रे अष छ १, ४, १; ५३, १, ४;  
 ६५, १, ७.  
 दिवाकर-तला (ल-अ)  
 म्यादा-सेविन्- -विनः अष  
 ५२, ८, ३.  
 दिवाकर-ग्रामा- -माः  
 अष ७०<sup>०</sup>, ११, १७.  
 दिवा-कीर्ति<sup>०</sup>- -तिम् वैश्र  
 ६७ : ११.

- a) पा १, ४, ४३ परासृष्टः द. । b) वेप १ द । c) पाभे. वैप १, १५७० f द. । d) पाभे. वैप  
 २, ३१. दिवः तैना ३, ३, २, १ टि द. । e) पाभे. वैप १, १५७४ h द. । f) पाभे. वैप २, ३४. दिवः तैना  
 १, ५, ५, १ टि द. । g) पाभे. वैप १, १५७२ o द. । h) पाभे. वैप १, १५६८ m द. । i) पाभे. वैप १,  
 १६०३ c द. । j) पाभे. वैप १, १५७१ d द. । k) सपा. दिवः <> दिवि इति पाभे. । l) सपा. दिवः  
 <<> दिव्यम् इति पाभे. । m) पाभे. वैप १, १२९८ d द. । n) दिवे इति Böhrt [ZDMG ५२, ८४] ।  
 o) पाभे. वैप १, १५७१ g द. । p) पाभे. वैप १, १५७२ q द. । q) पाभे. वैप १, १५७३ k द. । r) पाभे.  
 वैप १, १५७३ i द. । s) पाभे. वैप १, १५७२ p द. । t) पाभे. वैप १, १५७३ b द. । u) पाभे. वैप १,  
 १५७२ o द. । v) पाभे. वैप २, ३४. देवान् तैना ६, ७, ५, ३ टि. द. । w) दिवसारः इति लेवि. सन् पाठः ?  
 दिवसारः इति घोषः (द. शाश्री). । x) पाभे. वैप २, ३४. दिवा मंता १, ६, २६ टि. द. । y) पाभे. वृ  
 ५९१ p द. । z) पाभे. वैप १, १५७६ i द. । a<sup>१</sup>) पाभे. वैप १, १५७३ j द. । b<sup>१</sup>) पाभे. वैप १, १५७५ b  
 द. । c<sup>१</sup>) दिव्या इति पाठः ? यवि. घोषः (द. वीरकर्तुः टि.). । d<sup>१</sup>) पाभे. वैप १, १६७४ a द. । e<sup>१</sup>) पाभे.  
 वैप १, १५७६ a द. । f<sup>१</sup>) पाभे. वैप १, १५७४ g द. । g<sup>१</sup>) = वणतल- ।

दियाकीर्त्या (ति-श्या)दि-  
नीनु माय २, १४, ११.

दिया-कीर्त्या- स्वयं आश्री  
१, ५, १८; ८, १, १; माश्री ३, २,  
३, १८; -स्वयं आपश्री २०,  
२१, १०x; बीश्री १६, १४ :  
१५; द्विश्री १८, १, २५; ३, ३, ४.

दियाकीर्त्य-शुष्ट- -शु  
लाश्री १०, १३, १५.

दियाकीर्त्य-मामन्-  
-मानम् आपश्री २१, १५, १६.

दिया-चर- -राः अप ५२, १,  
३; ७०, ५, ५; -फ्रिय्याः काय  
५४, १७; वैश ३, ७ : १६; विष  
६७, २१.

फ्रिदिवा-चारित्- -रिभ्यः  
आय १, २, ८; आमिष्ट १, ७, २ :  
१०; माष्ट २, १३, १८.

दिया(वा-श्या)दि- -दिसु  
वीष २४, ७.

दिया-मैथुन- -वे आमिष्ट २,  
७, ४ : ३; वीशु ४, ११, १.

दिया-राशि-चर- -राः अप  
५२, १, ३; -राणाम् अप ६४,  
४, ३.

दिया-मन्धा- -न्धयोः  
आमिष्ट २, ६, ८ : ७.

दिया-स्थान- -जः वीष ४,  
५, ५.

दिया-रघम-शील- -लेन  
वीष २, २, ७७.

द्विदि-भारि- -दिभ्यः वृदे ४, ६.  
द्विदि-भारि- -नवी अप ४, ४,  
३९.

फ्रिदि-शिव- -शिले बीश्री  
१५, २ : १३; द्विश्री १४, १, १३.

द्विदि-गत- -तम् अप ५२, ५, ३;  
-तात् वैश ५, १४; ८; -तेभ्यः  
वैश २, २ : ११; ५, १४ : १४.

द्विदि-चर- -राः अप ५२, १, ३.

द्विदि-ज- वा ६, ३, १५; -जः  
या ७, १८.

द्विदि-जा- -जाः फ्रिआश्री ३,  
१३, १२; ४, १४, २; या ४, १३.

द्विदि-द्वेयजन्- -नाः वाधुश्री  
४, १८ : २६.

फ्रिदि-आम- -गाः आपश्री  
१९, २७, ११; बीश्री १३, ४० :  
५; माश्री ५, २, ६, १८; द्विश्री  
२२, ६, २०.

द्विदि-शोक- -कः वाधुश्री ४,  
५४; ५; १०६ : २; -कम् वाधुश्री  
३, १३ : ८; ४, १६ : ८; ६३ :  
९; -कान् वाधुश्री ४, ६३ : ९;

-के वाधुश्री ३, १३ : ९; ४, ११ :  
२०; १६ : ८; ५४ : ५.

द्विदि-पद्- -पाग ८, ३, १८;  
-फ्रिपद्भ्यः आपश्री १, ९, ६;  
९, १८, १६; बीश्री.

द्विदि-ठ- वा ८, ३, १७.

द्विदि-सद्- -नद्रम् शुभा ३, ८३

फ्रिदि-शुष्ट- -शुक् बीश्री  
९, १० : ५; माश्री ४, ३, २०;

वैश्री १३, १२ : ८; श्रुवा ५,  
२४; -श्रुमः बीश्री ३, ३ : ५;

वैश्री १९, ५ : ४; निस् ३, ९ :  
४७; -श्रुमम् आश्री ७, १२, ७;

आश्री १०, ६, ६; १४, ५७, ५;

आपश्री १७, ७, ४; बीश्री १,  
१५ : २१; द्विश्री १२, २, २४; ४;

या ९, २८८; -श्रुमम् आश्री  
७, ६, २; लाश्री १०, २, ५; शुभा  
३, ८१; -श्रुमि या ७, २५.

द्विदि-व्या- -पा ४, २, १०१;

-फ्रिभ्यः आपश्री १५, १६, ९;  
१७, ८, ४; वैश्री; या ७,  
१८४; -फ्रिभ्यम् आश्री १, ९,  
५; २, ८, ३; ३, ८, १; माश्री;

द्राश्री २, ३, १७; लाश्री १, ७,  
१५; या ४, १३; ७, १८; -भ्यवा  
वाधुश्री ४, २९ : १२; -भ्यस्य  
आपश्री २२, ७, ११; बीश्री; या  
६, २२; -फ्रिभ्या काश्री २६,  
७, ४; आपश्री; या १२, ३०;

-फ्रिभ्याः आश्री १, ७, ७; ७;  
आपश्री; द्विशु २, १६, ६; या २,  
११; ४, १३; -०फ्रिभ्याः आपश्री  
२२, १९, १; द्विश्री १७, ७, १०;

-फ्रिभ्यात् आपश्री ४, १६, ४;  
बीश्री; -श्वान् कप २, ३, ३-८;

अप ७१, १, १; शंष ११६ :  
१७; आपश्री २, ७, १६; द्विशु २,  
२, ३५; -फ्रिभ्यानाम् कौशु ४, २,  
२; ३; शंषः -श्वानि अप ७२,  
४, ४; विप २०, ६; वृदे १,  
१२१; आश्री ५, ७; -श्वाम्  
वाधुश्री ४, २९ : ९; अप १,  
४९, १; १४, १, १६; वृदे १,  
७४; -श्व्यासः वा ४, १३; १;  
-श्वे विप १४, ५; या ८, ११; १;  
-श्वेन बीश्री १८, १७ : ३; १;  
अप्रायः -फ्रिभ्यः बीश्री ७,

२, ३५; -फ्रिभ्यानाम् कौशु ४, २,  
२; ३; शंषः -श्वानि अप ७२,  
४, ४; विप २०, ६; वृदे १,  
१२१; आश्री ५, ७; -श्वाम्  
वाधुश्री ४, २९ : ९; अप १,  
४९, १; १४, १, १६; वृदे १,  
७४; -श्व्यासः वा ४, १३; १;  
-श्वे विप १४, ५; या ८, ११; १;  
-श्वेन बीश्री १८, १७ : ३; १;  
अप्रायः -फ्रिभ्यः बीश्री ७,

२, ३५; -फ्रिभ्यानाम् कौशु ४, २,  
२; ३; शंषः -श्वानि अप ७२,  
४, ४; विप २०, ६; वृदे १,  
१२१; आश्री ५, ७; -श्वाम्  
वाधुश्री ४, २९ : ९; अप १,  
४९, १; १४, १, १६; वृदे १,  
७४; -श्व्यासः वा ४, १३; १;  
-श्वे विप १४, ५; या ८, ११; १;  
-श्वेन बीश्री १८, १७ : ३; १;  
अप्रायः -फ्रिभ्यः बीश्री ७,

२, ३५; -फ्रिभ्यानाम् कौशु ४, २,  
२; ३; शंषः -श्वानि अप ७२,  
४, ४; विप २०, ६; वृदे १,  
१२१; आश्री ५, ७; -श्वाम्  
वाधुश्री ४, २९ : ९; अप १,  
४९, १; १४, १, १६; वृदे १,  
७४; -श्व्यासः वा ४, १३; १;  
-श्वे विप १४, ५; या ८, ११; १;  
-श्वेन बीश्री १८, १७ : ३; १;  
अप्रायः -फ्रिभ्यः बीश्री ७,

२, ३५; -फ्रिभ्यानाम् कौशु ४, २,  
२; ३; शंषः -श्वानि अप ७२,  
४, ४; विप २०, ६; वृदे १,  
१२१; आश्री ५, ७; -श्वाम्  
वाधुश्री ४, २९ : ९; अप १,  
४९, १; १४, १, १६; वृदे १,  
७४; -श्व्यासः वा ४, १३; १;  
-श्वे विप १४, ५; या ८, ११; १;  
-श्वेन बीश्री १८, १७ : ३; १;  
अप्रायः -फ्रिभ्यः बीश्री ७,

२, ३५; -फ्रिभ्यानाम् कौशु ४, २,  
२; ३; शंषः -श्वानि अप ७२,  
४, ४; विप २०, ६; वृदे १,  
१२१; आश्री ५, ७; -श्वाम्  
वाधुश्री ४, २९ : ९; अप १,  
४९, १; १४, १, १६; वृदे १,  
७४; -श्व्यासः वा ४, १३; १;  
-श्वे विप १४, ५; या ८, ११; १;  
-श्वेन बीश्री १८, १७ : ३; १;  
अप्रायः -फ्रिभ्यः बीश्री ७,

२, ३५; -फ्रिभ्यानाम् कौशु ४, २,  
२; ३; शंषः -श्वानि अप ७२,  
४, ४; विप २०, ६; वृदे १,  
१२१; आश्री ५, ७; -श्वाम्  
वाधुश्री ४, २९ : ९; अप १,  
४९, १; १४, १, १६; वृदे १,  
७४; -श्व्यासः वा ४, १३; १;  
-श्वे विप १४, ५; या ८, ११; १;  
-श्वेन बीश्री १८, १७ : ३; १;  
अप्रायः -फ्रिभ्यः बीश्री ७,

२, ३५; -फ्रिभ्यानाम् कौशु ४, २,  
२; ३; शंषः -श्वानि अप ७२,  
४, ४; विप २०, ६; वृदे १,  
१२१; आश्री ५, ७; -श्वाम्  
वाधुश्री ४, २९ : ९; अप १,  
४९, १; १४, १, १६; वृदे १,  
७४; -श्व्यासः वा ४, १३; १;  
-श्वे विप १४, ५; या ८, ११; १;  
-श्वेन बीश्री १८, १७ : ३; १;  
अप्रायः -फ्रिभ्यः बीश्री ७,

२, ३५; -फ्रिभ्यानाम् कौशु ४, २,  
२; ३; शंषः -श्वानि अप ७२,  
४, ४; विप २०, ६; वृदे १,  
१२१; आश्री ५, ७; -श्वाम्  
वाधुश्री ४, २९ : ९; अप १,  
४९, १; १४, १, १६; वृदे १,  
७४; -श्व्यासः वा ४, १३; १;  
-श्वे विप १४, ५; या ८, ११; १;  
-श्वेन बीश्री १८, १७ : ३; १;  
अप्रायः -फ्रिभ्यः बीश्री ७,

a) = एकाह- [= पाग-], सामन्, वपद्भार- प्रम्. । शेषं वै १ द. । b) विप. । वय. । c) पाशे.  
पृ १०४ गृ द. । d) विप. । उप. कर्त्तुं श्ल. । e) वै १ द. । f) वृ. पाशम. । g) पाशे. वै १.  
१५७७ स. । h) पाशे. पृ १२५६ । d. । i) दिव्यः इति पाठः ? यति. शोष. । j) विद्या इति  
पाठः ? यति. शोष. ।

५: ४१; ६: २६; जैश्री; -फँव्येपु  
आपथी १६, ३०, १; वैश्री १८,  
२: ३५; हिश्री ११, ८, ४;  
-स्यै: आपथी १४, १७, ११;  
हिश्री १५, ५, ११; विष ५१, ७७.  
दिव्य-तन्त्र-विद्<sup>०</sup> -विन्  
अप ७०, १, १.

दिव्य-नदी-> नदी-पुलिन-  
सङ्गम-> म-गोष्ठा (पु-आ)  
अम-पर्वत-प्रसन्न-वर्ण-तपोवन-  
विदारिन्-री सुष ५३१<sup>०</sup>.

दिव्य-नाग-गान् शंष  
११६: ३४.

दिव्य-मण्डल-लम् अप  
१२<sup>०</sup>, २, ३.

दिव्य-स्त्री-भोत-गन्धर्व-  
विमाना (म-अ)दुसुक्स्वन<sup>०</sup>-  
ना: अप ६४, ९, ७.

दिव्या(व्य-आ)व्यन्<sup>०</sup> -व्या  
वृदे ७, ७७.

दिव्या(व्य-अ)दुसुत-  
नानि अप ७२, ५, ३; -तेपु  
अप ७०, ४, ३.

दिव्या(व्य-अ)निष्ट-  
विपन्-कर-रे अप ७०,  
४, ४.

दिव्या(व्य-आ)न्तरिक्ष-  
पार्ष्णि-वान् अप १, १, २.

दिव्या(व्य-आ)न्तरिक्ष-  
भौम-माताम् अप २, २,  
३; -सैपु अप ३०<sup>१</sup>, २, १; अशा<sup>०</sup>

१७, १.

दिव्या(व्य-आ)व्य-व्यम्  
अप ६, १२४.

दिव्या(व्य-आ)शीर्-ना-  
(मन्>)म्नी-म्या जैश्रीका  
८७.

सुं-पाउभो २, १, ३४; पा ५,  
३, १०८; वेज्यो १२; १६; २७;  
३७, ३८; सु: या १, ६; फँसुभि:  
आथी ४, १३, ७; शाथी; या ६,  
१६; १३, १; सुपुशाथी ८, २२,  
११; फँसुन् आथी ३, ८, १, आपमं  
२, ११, ३०; सुनि वेज्यो ३९.

सु-त्रिभत्-दात् वेज्यो ३१.

सु-पयि-मयि-पुं-गो-सखि-  
चतु-अनड्ड(इ>)न्-त्रि-ग्रहण-  
णम् पावा १, १, ७२.

सु-भक्ति<sup>०</sup> -कय: वृदे ६,  
१५६; -क्ति: वृदे ३, ११३;  
-कीनि या ७, ११.

सु-भू-भ्यो: वृदे ५, ११४.

सु-म-पा ५, २, १०८.

फँसु-मत्-मत् आथी ८,  
१, १८<sup>१</sup>; ९, ७; शाथी; -मन्त:  
बौथी ३, ८: १०; -मन्तम्  
शाथी २, ११, ३६; बौथी १,  
१३: २६; -मान् आपथी १२,  
१९, ५, वृदे ६, ७३; या ६,  
१९६.

सुमती-सीम् वृदे  
८, ८.

फँसुमत्-तम-०म  
हिश्री ११, ७, ४३; -म: बौथी<sup>०</sup>  
३, ८: ३१; -मम् आपथी १६,  
२६, १; बौथी; या ९, २१.

सु-सैपुन्-ने अप ३८,  
३, ४.

सु-लोक-क: द्विपि ७: ५१<sup>०</sup>.

सु-वत् वृदे २, ८०.

सु-स्य-स्यै: बौष ४, ८,  
१२<sup>६</sup>.

सु-स्थान<sup>०</sup>-न: वृदे २, ७;  
या ७, ५; १५; १२, ४१; -ना:  
या १२, १; ३५; ४१; -ने वृदे  
८, ४८.

सुव(सु-अ)धिक-केन वेज्यो  
१६.

सो<sup>१</sup>-पाउभो १, १५०; फँसुवि  
गौपि २, ३, ७; या १, ६; सुपा  
३, ६८; तैपा ६, २; फँसुविऽसुवि  
अप ४८, १११; निष १, ९;  
फँसुवी आथी ८, ११, ३; शाथी  
१०, ११, ८; फँसुम् आथी  
२, ७, ११×२; ६, २, १११<sup>१</sup>; ८,  
१३, १०<sup>६</sup>; शाथी; काथी ६, १,  
१६<sup>१</sup>; आपथी २, २, ३<sup>३</sup>; ७, २७,  
४<sup>०</sup>; माथी २, ४, ५, ५<sup>६</sup>; हिश्री  
२२, ३, १९<sup>०</sup>; वैताथी २९, १३<sup>०</sup>;  
आमिष्ट ३, ६, १: ६<sup>०</sup>, द्विप १;  
१५, ३<sup>१</sup>; या ३, २०; ७, २३; ९-  
१३<sup>६</sup>, १०, २२<sup>६</sup>; २३<sup>६</sup>; २७<sup>६</sup>;  
३२; १२, २३; १३, ८; फँसुवा:

a) उप. <√दिव् (ज्ञाने) । b) ऋमेऽष्टाधम<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः । c) कस. >पत्. >  
दस. >पय. >पम. । d) विप. । बम. । e) = दिव्-, दिन- । वैप १ द. । f) वैप १, १५८० । द. ।  
g) पामे. वैप १, १५८० । ह. द. । h) सुस्यै. इति पाठः ? यनि. शोधः । i) वैप १ द. । j) छात् इति  
पाठः ? यनि. शोधः. (तु. लि ५, ५, ११) । k) पामे. वैप १, १५७३ । b. द. । l) पामे. वैप १, १५७३ । d. ।  
m) पामे. वैप १, १५७३ । k. द. । n) पामे. वैप १, १५७२ । q. द. । o) छा इति युक्तिः पाठः ? यनि. शोधः.  
(तु. तैपा २, ४, ४, ३) । p) पामे. वैप १, १३९२ । m. द. । q) पामे. वैप १, १५७३ । u. द. । r) पामे.  
वैप १, १३९२ । d. द. ।

आधौ ७, १०, ८; ९, ११, १६;  
शाधौ; या १३, २; पावा ६, १,  
१३; धावो या २, २०; योः  
पावा ६, १, १२; ष्वीः आधौ  
१, २, १०; २, १, १४××; शाधौ  
१, ६, ४××; काधौ; आपधौ ६,  
२२, १; ह्रिय २, ११, ४<sup>०</sup>;  
निय १, ११<sup>०</sup>; या १, १५; २,  
१४<sup>०</sup>××; पा ७, १, ८४.

\* फावा<sup>०</sup> आधौ ३, ८, १; ५,  
१८, ५; ८, ८, ४; शाधौ ५, १३,  
५××; काधौ; या २, २०<sup>०</sup>; ९,  
३८<sup>०</sup>; पा ६, ३, २९; धावोः  
सीत् १, २, २१.

\* फावा-क्षाम्<sup>०</sup> -शामा  
काधौ १६, ५, ४; शुभा २, ४७.  
धावा(वा-ष्वा)दि-दिना  
शष ३३, ६, ८.

\* फावा-पृथिवी<sup>०</sup> -वी  
आधौ १, २, १३; २३××; शाधौ;  
आपधौ २, १, ८<sup>०</sup>; १२, ७<sup>०</sup>; ह्रिय २,  
३, १०<sup>०</sup>; ६, १२<sup>०</sup>; निय ५, ३;  
या ५, ३; ८, १४<sup>०</sup>; १२, १६;  
-वी आधौ १, १, १; काधौ;  
-वीश्याम् शाधौ १, ६, ११; ५,  
८, ५<sup>०</sup>××; काधौ; ह्रिषी १, ५,  
३२<sup>०</sup>; लाधौ ५, ७, ४<sup>०</sup>; कौष्ट  
३, १३, ६<sup>०</sup>; साष्ट ७, १३, ३<sup>०</sup>;  
-श्या शुष ७, २९; -श्याम् शुष  
१, ५२०; -श्याः आधौ १,  
१, २३××; काधौ; श्रापधौ १,

१८, ४<sup>०</sup>; वीधौ १, ५; २४<sup>०</sup>;  
माधौ १, २, ४<sup>०</sup>; माष्ट १, २१,  
१०<sup>०</sup>; या ३, २२; ७, २८; -श्वी  
६, २, १; कौष्ट; या ४, ६; २५××.  
धावापृथिवी-नाम-  
शेष- -यानि निय ३, ३०; या  
३, २१.

\* धावापृथिवी-श्लि-  
-लिम् शाष्ट ७, १३, २.

धावापृथिवीय, या<sup>०</sup> ६-  
पाष्ट, २, २२; -यः शाधौ ३, १२,  
३; १३, ११; काधौ ७, ६, ५, ५,  
१, १४; वाधौ १, ५, ५, ६; -यम्  
शाधौ ८, ३, ११××; माधौ;  
-यया शाष्ट ७, १२, ३; -यस्य  
शाधौ ६, ११, ७; १३, ५६, ९;  
माधौ ५, ५, ६८; माधौ ५, २,  
७, ६; -या काधौ १७, ६, ३;  
-याः साश १, ६२३; -यान्  
माधौ १, ६, ४, ४; -याम् आधौ  
१२, ७, १२; काधौ २०, ८, ७;  
माधौ ५, २, १०, २३; -याय  
माधौ १, ६, ४, ११; -ये माधौ  
५, २, १०, १८.

धावापृथिव्य, श्या<sup>०</sup>-  
पाष्ट, २, ३२; -श्वः काधौ २०, ३,  
१८; वीधौ २६, ३० = १३; जैष्ट  
१, २४; ३; -श्व्यम् आपधौ ६, १९,  
१०; धापधौ; -श्वया आपधौ  
९, २, ५; १३, १५, माधौ; -श्वयोः  
माधौ ६, १७, ११<sup>०</sup>; -श्वस्य

वीधौ ३, १२; २०; वैधौ ८, १ :  
१०; -श्या वीधौ १७, ५, ५; १६;  
६२; १४; -श्याः आपधौ २०,  
१४, ७; वीधौ २४, ३८ = ३;  
ह्रिधौ १७, ३, १६; -श्वान्  
माधौ ६, १७, १४; -श्वानाम्  
वीधौ १५, ३१ = १६; -श्व्याम्  
आपधौ २१, २३, ४; ह्रिधौ १६,  
८, ८; १३; -श्वे शश २, १, २२.  
धावापृथिव्य-वि-  
कार-री वीधौ २७, १४ = २३;  
धावापृथिव्या(वी-ष्वा)  
दि-देव- -वान् शश २, २८.

धावापृथिव्योद्-शय-  
न- -नम् आधौ २, १४, १२;  
वैताधौ ७३, २७.

धावा-भूमि<sup>०</sup> - ००नी  
शपा ३, ४, १; -श्वोः शश २,  
६, ४८.

घौश् (> इः) > ष्वीश्-श<sup>०</sup>-  
-शः श्रापधौ १७, ५, १६; वैधौ  
१८, २१ = १७; ह्रिधौ ११, ८,  
१०.

घौश्-शोक- -नेन शाष्ट १,  
१६, ३.

घौः, सु-सम- -मम्<sup>०</sup>  
श्रापधौ ३; १, २२०; २, ३; ९;  
वीध २, ८, १२<sup>०</sup>.

१<sup>०</sup>दिव<sup>०</sup> -श्वे-श्वे आधौ ७, १०,  
१<sup>०</sup>, ३; शाधौ ५, १४, ८<sup>०</sup>××;  
काधौ; या ७, १९<sup>०</sup>.

a) पामे. वैप २, ११७१ | टि. द. । b) सहृन् मवा. घौः, समा < > घौः, सु-समम् इति पामे. ।  
c) = दिन- । d) वैप १ द. । e) पामे. वैप २, ३४०. धावापृथिव्यो तैत्रा २, ७, १७, ३ टि. द. । f) पामे.  
वैप १ सोमः शौ २, १०, २ टि. द. । g) पामे. वैप १, १५७६ अ. द. । h) पामे. वैप १, १५८५ ह्र. द. ।  
i) धावापृथिवीधाम् इति पाठः ? गनि. शेषः (द्र. मा ३८, १२) । j) विप. (पुरोडाश-क. न्यु., सक्त-प्रय.) ।  
k) वैप १, १५८६ ह्र. द. । l) विसर्ग-युतः पाठः । तत्रैव ? श्वमन्तस्य > श्वमम्, शस्य इति शेषः ।  
मन्तरिक्ष-समम् इत्यत्र शोधो नेष्टः । m) चौस. विसर्गलोपः, मैत्. सकार-युतः पाठः । n) पामे. वैप १,  
१५७२ j द. ।

दिव्- > दिवौ (व-ञो) कस्-  
 -कमः कप्र १, १०, ८; २, ३, १२.  
 दिवस्- > दिवः, इ-इयेति, नी-  
 -नयः काथीसं ३: १; ६: १,  
 आप्रिय १, २, १: १४; रीय ३, १;  
 २४; -नीभिः आपथी १९, १५,  
 १७; काथीसं ३: १, ७, ६: ४; शीथी  
 १९, ८: ६; हिथी २३, ३, ३६.  
 देवः इयेन- -नम् काथीसं  
 ४: १; ५: ४, ६: ४.  
 दिवस्-पति- पाग ८, ३, ४८६;  
 -०ते विध ९८, २०.  
 दिवस्-पृथिवी- पा ६, ३, ३०;  
 -०श्वोः आथी १, ९, १; शीथी  
 १, १४, ३, ऋप्रा १३, ३०; उम्  
 ८, १९.  
 दिवस- पाउ ३, १२१; पाग २,  
 ४, ३१, -स शंघ १८६; २३७;  
 विध २०, १६, -सम् वैय ७, ५:  
 ९, वाघ २७, १७, शंघ ११६:  
 ४९, यासि २, १०८, नासि २,  
 ८, २०, -सरय वाघ ११, ३६;  
 -माः सुषप ८४: ३; -साव  
 वीष १, ५, १०४; -साव् अय  
 ५०, ९, ५, -सानि आमिण्ड २,  
 ७, ६: २३; -साव वैय २, १२:  
 ७, -से वीष ४, ५, ३०; विध  
 १९, १०; वैय २, १, ४, ८; आज्यो  
 ८, ३, -सैः शंघ ३५२.

दिवम-प्रमाण- -णम् वेज्यो ४०.  
 दिवसा(स-ञो)त-भाग- -गः  
 वेज्यो २७.  
 दिवसा(स-ञ)यिह- -कम् सुध  
 ६२.  
 दिवसा(स-ञ)न्त- -न्ते विध  
 १३, ५; ३२, ९.  
 दिवसे(स-ए)कृत्विशति-क्षण-  
 -णम् विध ४६, १३.  
 दिविः (?) गो १, २११.  
 दीदिवि- पाउ ४, ५५; -विः पाय  
 ३, ४, १६१; -विम् वीथी ३,  
 ८: २७१.  
 दीवितृ- -त्तारः आणय २, २५,  
 १३; हिध २, ५, १९२.  
 दीवयत्- -वयतः शंघ ३७८;  
 -वयतः वीथी १०, ९: ३.  
 दीवयति- > ०ति-कर्मन्- -र्मा या  
 ३, १५.  
 देव- १) वाघ ३, १, १३४; ४, १,  
 ८६; ३, ११८; -०व आथी १, ३,  
 २३, ४, ७४४; शीथी, आपथी  
 २१, ८, ८१. १) माथी २, ४, १, ९०;  
 ५, ४, २०; ५, २, २, १४;  
 आणय २, २, ११; काय ३९,  
 २१; वीय २, ५, ९१; भाय १,  
 ५: ११; हिण्ड २, १७, ३१;  
 वीय १३७, ३९; या ५, २७;  
 ७, ३१; ११, ५१; -०वः

आथी १, ६, १; ८, ७४४;  
 शीथी, आपथी ९, १८, १६७; पाय  
 ३, १, ३; हिण्ड १, २७, ८९;  
 कौम् ४०, १३; या २, १०;  
 २६४४; ७, १५१; -०वम्  
 आथी १, ८, ७; २, २, २४४;  
 शीथी; लाथी ७, १२, ४; या  
 १, ४; ६, ४४४; -०वम् ५-वम्  
 आथी ७, १२, ७; १०, ६, ६;  
 श्य ३, २५१; -०वय आथी  
 १, १३, १; ६, १४, १६४४;  
 शीथी २, १०, २४४; ६, ८,  
 ६; वेताथी १७, ७; या ४,  
 १९; ६, ७; ७, ४; ११, ११;  
 १४, १८; -०वा आथी २,  
 १६, १२; ७, ६, २; शीथी ३,  
 १३, २७; ७, १०, १०; १०, ३,  
 ५; अय ४८, २; -०वा आथी  
 ९, ११, १४; या ५, २२; -वाः  
 आथी १, ३, २७४४; शीथी;  
 काथी १५, ४, ३६१; आपथी  
 १४, २७, ७१; ३१, ८१;  
 वाथी ४, ४३: २१; ५५: ४;  
 वाथी २, २, ३, २१; हिथी १, ७,  
 ८; १९१; वैय २, २: ६१; ३,  
 १३: ६१; ९१; ४, १०:  
 १०१; १९: ९१; हिण्ड १, ६,  
 २०, या २, १२; ३, ८१४४;  
 -०वाः आथी १, १२, ३६;

a) = दिव् । b) = देवता- । वस । c) वैय २, ३सं. द. । d) तस्येदमीयः क्षण् प्र. । e) 'श्वै' इति पाठः ? यनि. शोषः । f) = विष्णु- । g) वृ. पागम. । h) वैय १ द. । i) = दिन- । j) व्यप. [वीथीप्र.] । शिण्ड वैय १ द. । k) देवराज- टि. द. । l) पामे वैय १, १५८९ । d. । m) पामे. वैय १, १५८८ । h. । n) पामे. वैय १, १५८८ । o) मास्यदेव इति पाठः (वृ. BC.) मास्य (क्रि.), देव (वर्हिः) इति शोषः (वृ. सपा. आथी १, ४, ७) । p) पामे. वैय १, १५७२ । o. । q) पामे. वैय १, १६११ । m. । r) पामे. वैय २, ३सं. ख्वम् तैवा २, ५, ८, ८ टि. द. । s) गीतिकाकारतया निर्देशः । t) पामे. वैय १, १५९३ । j. । u) पामे वैय १, १५९५ । d. । v) पामे. वैय १, १५९५ । o. । w) पामे. वैय १, १५९७ । d. । x) देवा इति पाठः ? यनि. शोषः । y) शोषः पृ १३ । i. । z) देवेन्द्रः इति पाठः ? यनि. शोषः [वृ. सप्र. तै ५, ५, ९, ५] । a') पामे. वैय १, १६०१ । m. । b') = देवाः (ऋ १, २२, १६) । c') सप्र. न देवा न गन्धर्वाः <> न देवगन्धर्वाः इति पामे. ।

२, ९, १०xx; शांथी; आपथी  
 १४ २७, ७<sup>१०</sup>; १६, ३४, ४<sup>१०</sup>;  
 माथी २, ३, ८, ४<sup>१०</sup>; ४, १, ६<sup>१०</sup>;  
 ५, ५, २१<sup>०</sup>; हिथी २१, १४ :  
 १४; १६<sup>०</sup>; या ५, २२; ८, २२;  
 १२, ४०; -फँवान् आथी १, ३, ६<sup>१</sup>;  
 २२xx; ३, १२, १४<sup>२०</sup>; शांथी  
 १, ४ २१xx; ३, ५, ९<sup>०</sup>; काथी;  
 आपथी १, १०, १४<sup>०</sup>; २, १०,  
 ५<sup>०</sup>; ५, ५, ८<sup>०</sup>; ९, ४, १०<sup>१</sup>;  
 १४, ३०, ४<sup>०</sup>; १६, ३५, ५<sup>१</sup>; १८,  
 ५, १४<sup>०</sup>; शांथी २, १२, ५<sup>०</sup>; अप १,  
 ४०, ४<sup>१</sup>; या १, २०, २, २६xx;  
 -वान् ङवान् काथी ३, ५, ८;  
 -फँवानम् आथी १, ३, ६; ६,  
 ५xx; शांथी १, ४, २१xx; १०,  
 १८, ६<sup>०</sup>; काथी २, १, १८<sup>०</sup>xx;  
 ८, १४<sup>०</sup>; आपथी १, ३, ६xx;  
 २, १०, ५<sup>०</sup>; ३, १८, ४<sup>०</sup>; ७, ९, २<sup>०</sup>;  
 १४, १७, १<sup>०</sup>; १७, १३, २<sup>०</sup>;  
 काठथी; माथी १, ५, १, १६<sup>०</sup>, ५,  
 २, १५, २<sup>०</sup>; आपथी २, ३, ९<sup>०</sup>; हिथी  
 १, ४, ४<sup>०</sup>; हिथ १, ८, २६<sup>०</sup>;

--वानाम् आपथी २, ५, ७<sup>०</sup>;  
 १६, १, ३; वीथी; -फँवाय आथी  
 ४, १३, ७xx; शांथी; माथी ६, २,  
 ४, ६<sup>०</sup>; या १०, ९, २३; -फँवासः  
 आथी ८, १, १२; शांथी; या ७,  
 २८; १२, ३०; -फँवासः आथी  
 ८, १, १२; शांथी; आपथी १३,  
 १०, १०<sup>१</sup>; हिथी १, ३, ३३<sup>१</sup>;  
 या ६, १४; १२, ४०; -फँवे  
 आथी ५, २९, ५; माथी;  
 -फँवेन आथी १, ३, २२; ५,  
 २, १४<sup>०</sup>; शांथी; द्राथी १५, ३,  
 ९<sup>०</sup>; लाथी ५, ११, ९<sup>०</sup>; वा  
 १०, १८; -फँवेभिः आथी ५, ९,  
 २१xx; शांथी; आपथी ४, १२,  
 ३<sup>०</sup>; -फँवेभ्यः आथी १, ९, ५<sup>०</sup>;  
 २, २, २xx; शांथी १, ४, ५xx;  
 २, ८, २०<sup>०</sup>; ४, ८, ९<sup>०</sup>; काथी;  
 आपथी १, २, १०<sup>०</sup>; माथी १,  
 १, १, १९<sup>०</sup>; ७, १, ८<sup>०</sup>; ८, ३,  
 १<sup>०</sup>; माथ १, २२, ५<sup>०</sup>; वीथी  
 ५६, १३<sup>०</sup>; या १, ४; ७, ९xx;  
 -फँवेणु आथी १, ३, २३; ८, ७;

१२, ३६<sup>०</sup>; ३, १२, २७xx;  
 शांथी; आपथी १६, ११, ११<sup>०</sup>;  
 माथी ३, १, २७<sup>०</sup>; पाथ १, १६,  
 २२<sup>०</sup>; या ६, ८; ८, २०; ९,  
 ३८; १६, ३९; -फँवेः आथी  
 २, १७, ३xx; शांथी; आपथी  
 ४, १०, ४<sup>०</sup>; ६, ८, ४<sup>०</sup>; १६,  
 १०, ८<sup>०</sup>; माथी २, ३, ७<sup>०</sup>; या  
 ९, ३; १३<sup>०</sup>; १२, २९<sup>०</sup>; -फँवौ  
 शांथी ७, ५, ६; आपथी; आपथी  
 १, १२, २<sup>०</sup>; माथ २, १८, २<sup>०</sup>;  
 या १२, ३७; -फँवौ काथी  
 २३, ३, १; आपथी; या ५, २२,  
 १३वे- पा ४, १, ४१<sup>०</sup>;  
 -फँवि आथी १, १०, ८; ३,  
 १, १४; शांथी; आपथी १०,  
 २३, ६<sup>०</sup>; वीथी ६, १३; ११<sup>०</sup>;  
 माथी १०, १५, १५<sup>०</sup>; वैथी  
 १२, १७; ५<sup>०</sup>; हिथी ३, ३,  
 ३२<sup>०</sup>; ७, २, २१<sup>०</sup>; आथिथ २,  
 १, ५; १८<sup>०</sup>; या ११, ३२;  
 ३३; -फँवी आथी १, ७,  
 ७; २, १६, १२<sup>०</sup>xx; शांथी;

- a) पामे. वैप १, १६०० ह्र द. । b) पामे. वैप १, १६०० ह्र द. । c) पामे. वैप १, १५९९ ०  
 द्र. । d) पामे. वैप १, १५९९ अ द. । e) पामे. वैप १, १६०० l द. । f) पामे. वैप २, ३खं.  
 योनिम् मंश २, ३, १७ टि. द. । g) पामे. वैप २, ३खं. देवान् तैवा वे, ७, ५, ३ टि. द. । h) पामे.  
 वैप १, १६०८ b द. । i) पामे. वैप १, १५९९ अ द. । j) पामे. वैप १, १६०१ m द. । k) पामे. वैप  
 १, १५९९ j द. । l) देवाः इति पाठः ? यनि. शोषः । m) पामे. वैप १, १६०२ i द. । n) पामे. वैप  
 १, १६०२ d द. । o) पामे. वैप १, १६०३ ० द. । p) पामे. वैप १, १६०२ h द. । q) पामे.  
 वैप १ वृष्टिवावानम् मै २, १३, २२ टि. द. । r) पामे. वैप २, ३खं. देवी मंश १, ६, २७ टि. द. । s) सप्र.  
 देवानां सुराक्ष <> देवातानां राक्ष इति पामे. । t) पामे. वैप १, १६०६ ह्र द. । u) पामे. वैप १, १५९३ j  
 द. । v) पामे. वैप १ विद्युदेवेभिः गा २, २२ टि. द. । w) पामे. वैप २, ३खं. देवैः तैवा २, १, ५, १०<sup>०</sup>  
 टि. द. । x) पामे. वैप १, १६०३ f द. । y) सप्र. देवेभ्यः <> देवेणु इति पामे. । z) पामे. वैप ६,  
 १६२३ b द. । a<sup>१</sup>) पामे. वैप १, १६०३ h द. । b<sup>१</sup>) सप्र. देवेभ्यः <> देवनाभ्यः इति पामे. । c<sup>१</sup>) पामे.  
 वैप १, १६०७ c द. । d<sup>१</sup>) पामे. वृ १००१ ह्र द. । e<sup>१</sup>) पामे. वैप १, १६१२ i द. । f<sup>१</sup>) पामे. वैप १,  
 १५९६ j द. । g<sup>१</sup>) पामे. वैप १, १६१२ ह्र द. । h<sup>१</sup>) पामे. वैप १, १६२२ अ द. । i<sup>१</sup>) वृ. पायम. ।  
 j<sup>१</sup>) पामे. वैप १, १६११ b द. । k<sup>१</sup>) देवी इति पाठः ? यनि. शोषः [वृ. सप्र. काठ ७, १२] । l<sup>१</sup>) देवी इति  
 पाठः ? यनि. शोषः [ह्र. ऋ २, ३२, ६] ।



आपथी ५, ९, ११<sup>०</sup>; माथी १, ५, २, १२<sup>०</sup>; कौथ १, १६, १८<sup>०</sup>; २, १, २९<sup>०</sup>; शाथ १, २४, १०<sup>०</sup>; २, २, १०<sup>०</sup>; पाथ २, ८, ०<sup>०</sup>; माथ १, २२, १०<sup>०</sup>; या २, ४१, ४२<sup>०</sup>, ४३; ११, ४६; -<sup>०</sup>वी आथी ४, १३, ५; आपथी १५, १, १०; बोथी; -<sup>०</sup>वी: आथी २, १६, ९; १२<sup>०</sup>; ५, १, १३; शाथी, आपथी १८, १३, १९<sup>०</sup>; वैथी १, ९: ८<sup>०</sup>; आपमं २, २, ५<sup>०</sup>; पाथ १, ४, १३<sup>०</sup>; आमिथ १, १, २: २७<sup>०</sup>, २८<sup>०</sup>; ५, १: १९<sup>०</sup>; २०<sup>०</sup>; २, १, ४: १२<sup>०</sup>, ४, १: २०<sup>०</sup>; काथ २५, ४<sup>०</sup>; बोथ २, ५, ११<sup>०</sup>; माथ १, ५: १२<sup>०</sup>; १३<sup>०</sup>; १३: २<sup>०</sup>; ३<sup>०</sup>, दिथ १, ४, २<sup>०</sup>, या २, ४६; ८, १२; १३; -<sup>०</sup>वी: काथी २, ३, ३४; २, ३, ४××; आपथी १५, २, १<sup>०</sup>; बोथी ९, २: १८<sup>०</sup>, माथी ११, २, ३<sup>०</sup>; माथी ४, १, ११<sup>०</sup>; वैथी १३, २: १<sup>०</sup>, हिथी २४, १, १०<sup>०</sup>; आपमं २, ९, ६<sup>०</sup>; या ८, १०<sup>०</sup>; १२, ४५; -वीनाम् आथी ६, १४, १०; हिथी ७, ८, ४३; ऋम २, १, २२; वृद ३, ९२; -<sup>०</sup>वीभ्य: शाथी

९, २८, ४; कौथ १, ५, २९; आमिथ १, ५, २: १६; -<sup>०</sup>वीम् आथी ३, ८, १, ४, १३, २; शाथी; वेताथी १, १६<sup>०</sup>; कौथ १, १६, १८<sup>०</sup>; या ११, २९; -व्य: <sup>०</sup>वीथी २, २: ११; ४: १४; १६; <sup>०</sup>माथ १, १०, ८<sup>०</sup>; २२, ३<sup>०</sup>; वैथ. या ८, १३; १२, ४५; ४६; -<sup>०</sup>भ्य: काथी २३, ३, १; २६, १, ७<sup>०</sup>; शुभ ४, ७४<sup>०</sup>; या ८, १०<sup>०</sup>; -<sup>०</sup>व्या आथी २, १७, ३; शाथी; -व्या. वैथी १, १७: ११<sup>०</sup>; -<sup>०</sup>व्याम् कौथ ३१, २८; अम ६, १३६; -<sup>०</sup>व्यै आपमं २, ८, ६××; आमिथ; -व्यौ वृदे १, १०८; ३, ८; या ९, ४३; ४२.

देवीराप<sup>०</sup>-(>देवी-रापक- पा. ) पाग ५, २, ६२.

२देवी<sup>०</sup>->देवी-ज-जम् अथ ३५, २, ३.

द्वैव<sup>०</sup>- पा ४, १, ८६; पावा ४, १, ८५; -०व वेताथी २०, १९<sup>०</sup>; -व: <sup>०</sup>शाथी २, १२, ९; ४, ६, ९<sup>०</sup>××; बोथी; बोथीम् ४<sup>०</sup>: १४<sup>०</sup>; लाथी ५, २, ११<sup>०</sup>; आपमं २, ७, २४<sup>०</sup>;

आथ १, ६, २४<sup>०</sup>; वैथ ३, १: १<sup>०</sup>; ५४<sup>०</sup>; वाथ १, २९<sup>०</sup>; शंघ ६८<sup>०</sup>; बोघ १, ११, ५४<sup>०</sup>; विघ २४, १८<sup>०</sup>; २०<sup>०</sup>; ५९, २२<sup>०</sup>; गौघ ४, ९<sup>०</sup>; साघ १, ५१<sup>०</sup>; संघ १, ७; -वम् आथी ९, ३, १२; १०, २, २७; शाथी; माथी १, ५, २, ४<sup>०</sup>; अथ २, १, २<sup>०</sup>, ३<sup>०</sup>; वाथ १, ३१<sup>०</sup>; -वस्य वृदे ६, १६१; -<sup>०</sup>वा: आपथी २०, १४, ६; बोथी; -वात् शाथी २, १४, ४<sup>०</sup>; १५, २; वप्र ३, ४, ४१<sup>०</sup>; अथ २, १, ३१<sup>०</sup>; बोघ १, ११, १८<sup>०</sup>; गौघ ४, ३१<sup>०</sup>; -वान् अथ १, ६, ७; -वानाम् आथी १२, ८, २; -वानि आपथी २४, २, १५, बोथी; ऋप्रा १६, ३; -वे शाथी १५, २७, ११<sup>०</sup>; कौथ; -वेन आथी ९, ३, १२; शाथी १५, २७, १; शाथी ७, ३, ११<sup>०</sup>; लाथी ३, ३, ११<sup>०</sup>; वैथ १, ५: ८<sup>०</sup>××; आपघ; अथ २, १, २<sup>०</sup>; विघ २४, ३४<sup>०</sup>; -वेथु माथी १, १, १०<sup>०</sup>; अथ ७२, ३, १; -वै: अथ ११, २, ५.

द्वैवी<sup>०</sup>-<sup>०</sup>वी आपमं २, ४, ६<sup>०</sup>; आमिथ; दिथ १, ८,

- a) पाभे. वैथ १, १६११ ० द. । b) सञ्चर देवीम् इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. शांथ १, २४, १० ) । c) पाभे. वैथ २, ३खं. देवी मंत्रा १, ६, २० टि. द. । d) सञ्चर <sup>०</sup>वी इति पाठः यनि. शोधः ( तु. मै ४, १०, ३ ) । e) पाभे. वैथ १, १५१५ ट द. । f) पाभे. वैथ २, ३खं. देव्यः मंत्रा १, १, ५ टि. द. । g) पाभे. वैथ १, १६१२ k द. । h) पाभे. वैथ १, १६११ m द. । i) पाभे. वैथ १, १६१३ ० द. । j) पाभे. वैथ १, १५१० d द. । k) पाभे. वैथ १, १६१३ ह द. । l) पाठः ? देवी इति शोधः ( तु. सपा. शांथ १, २४, १० ) । m) < देवी-आपः ( मा १, १२ ) इति । n) = शोधवि-विशेष- । o) बप्रा. । विप., नाप., व्यप. च । विवेक उतरत्र टि. द. । वैथ १ निर्दिष्टानां समावेशः द. । p) पाभे. वैथ १, १६०३ ट द. । q) = ऋपि-विशेष- । r) पाभे. वैथ १, १६१४ ट द. । s) सपा. द्वैवः <> देव्यः इति पाभे. । t) = विवाह-भेद- । u) = देव-यज्ञ- । v) = देवोदास- । w) पाभे. वैथ २, ३खं. कुंष्यम् तौधा १, २, १, १५ टि. द. । x) = भाग्य- । y) पाभे. वैथ २, ३खं. देवात् मंत्रा २, २, ७ टि. द. । z) = दैव-तीर्थ- । a<sup>१</sup>) विप. ( ऋच्-प्रस्य. ), नाप.

४१<sup>०</sup>; उनिस् ३: ३<sup>०</sup>; सि २, ३<sup>०</sup>; -वी: काथी १८, ४, २५; आपथी; आपथं २, १२, ८१<sup>०</sup>; हिद्य २, ४, ११<sup>०</sup>; -१वीनाम् काथी ६, ४, ३; ९, ८, १४; आपथी; -१वीभ्या: आपथी ३, ११, २<sup>०</sup>; वीथी १, २१: १३; भाथी ३, १०, २; वाथी १, ३, ७, २०; हिथी २, ६, १; कौस् ५, १३<sup>०</sup>; -वीम् काथी ७, ४, २७; आपथी; नाथ १४: २; -भ्या शाथी १७, १५, ११; नाथ १४: २.

द्वैवी-जगती<sup>०</sup>-

-भ्या: अथ १५, ४; १९, २२; २३; -भ्यो अथ ११, ३(२<sup>०</sup>).

द्वैवी-प्रिष्टुभ्<sup>०</sup>-

-ष्टुभ: अथ ११, ३(२); १९, २३; २३<sup>०</sup>.

द्वै, द्वै/वी-धिषक-

(> द्वै, द्वै/वीधिषक-पा.)

पाग ५, २, ६२.

द्वैवी-वदिक<sup>०</sup>-

-दिकथ: अथ ११, ३(२); १९, २३; २३.

द्वैवी-सुव<sup>०</sup>- -अ:

विष २४, ३०.

द्वैवी-सुव<sup>०</sup>- -त:

वेष्ट ३, १: १४.

द्वैव-वमं-विद्- -विद्वी

अथ २, १, ४.

द्वैव-कृत- -त: अथ ७१,

११, १; -ते वैष्ट ५, १: १७.

द्वैव-चिन्तक- -कै: अथ

७१, १८, २.

द्वैव-ज<sup>०</sup>- -जम् अथ ५,

५, ४; ६, २, ८; -ज्ञा: अथ ५१,

४, ३.

द्वैवज्ञ-विधि- -चो-

दित- -तंम् शंघ १००.

द्वैव-नीर्या(र्षे-अ)भिगम-

न- -नम् शंघ १२.

द्वैव-रव- -रवम् कौशि

५२.

द्वैव-पिन्धा(न्य-आ)तिये-

य- -यानि विष २६, ७.

द्वैव-पूर्वा- -वंम् गोपि २,

२, १८; अथ २, ८, ६; विष ७४,

१<sup>०</sup>.

द्वैव-सैत्र- -त्रयो: शंघ

७३.

द्वैव-मालुप-क<sup>०</sup>- -कम्

विष ९५, १६.

द्वैव-राजो(ज-उ)पघात-

-तात् विष ६, ६.

द्वैवा(व-अ)सुवन्ध-

-न्धम् वेष्ट ३, १०: ३.

द्वैवा(व-आ)वृष्ट<sup>०</sup>- -वृष्ट

वेताथी ९, ८; १४.

द्वैवो(व-उ)स्यान-चिन्त-

क- -का: गीष् ११, १७.

द्वैवो(व-उ)पघात- -तात्

विष ५, १५६; -तात् विष ३,

६८; -तानाम् आग्रिष्ट २, ५, १:

५१.

द्वैवो(व-उ)पसर्ग- -गां:

अथ २, ३, ३.

द्वैवो(व-उ)पसृष्ट- -ष्टे अथ

१, ७, ६.

द्वैवक- -पा ४, ३, ११८.

१द्वैविक<sup>०</sup>- -अम् वधी १, ४:

१०; वैष्ट १, ५: ८; अथ २, ८,

१०; अथ २३, ५, ३; -के वैष्ट १,

६: ७; ८: ९; ६, १: १०; -केन

वैष्ट ६, २: ११.

द्वैविक-वैतृक- -काणि वैष्ट

६, ४: ४.

द्वैविक-वृत् वैथी १, ४:

७; वैष्ट २, १: ४; ६, २: १२.

१द्वैव्य, स्या<sup>०</sup>- \$भावा ४, १,

८५; ३, ५८; -भ्य: काथी ३, २,

७; आपथी ४, १६, ४<sup>०</sup>; भाथी

६, ३, ७<sup>०</sup>; हिथी ६, ६, १७<sup>०</sup>; हिद्य

१, १०, ४<sup>०</sup>; -भ्यम् काथी ४, ७,

५; शाथी; आपथी ३, १८, ४;

५, ८, १९<sup>०</sup>; वीथी; -भ्यस्य

आथी ४, ११, ६; वीथु ८: ८;

-भ्या आथी २, १६, ९; १२;

९, ११, १९; शाथी; या ८, १२;

-भ्या: काथी १, ७, ७; ३, ३; १;

शाथी; -०भ्या: माथी ५, २, ८,

२३; वैथी ६, १२: १०; -भ्यान्

\$भाथी १०, १, १०; २, १;

-भ्याय काथी २, ३, ३८;

आपथी; -भ्यात: आथी ५, ६,

१<sup>०</sup>; ७<sup>०</sup>; ११<sup>०</sup>; -भ्ये आथी ४,

a) द्वैवीम् इति पाठ: ? यनि. गोघ [गु. तैत्रा १०, ४१, १; C. च]।

b) = गायत्री-विशेष-।

c) पाभे. वैप १, १६१२ k द.। d) पाभे. वैप १, १६०८ h द.। e) = छन्दो-विशेष-। f) दु. पाका.। दे०

इति भाष्या. प्रमु. १। g) <द्वैवीं धियम् (भा ४, ११) इति। h) पू. = द्वैवविवाह-परिणीता-। स्त्री-।

) = उद्योतिर्-विद्-। j) विप.। बह.। k) 'पञ्ज-इति जीतं.। l) = कर्म-विशेष- [गु. ZDMG ५३, २२६।

m) तस्येदानीयम् षट् अ.। n) यन्म्वो प्र.। वैप १ द.। o) पाभे. वैप १, १५७८ b द.। p) पाभे.

पृ १२६२ v द.। q) पाभे. वैप २, ३८. द्वैव्यम् तैत्रा १, २, १, १५ टि. द.।

११,६; आपथी: -स्वेन आपथी  
४, ६, ४; ७, २; वीथी; वा ५,  
१४; ८, १८; -स्वै: आपथी ६,  
१, ६; वीथी; -इषी ऋम २,  
१, १३; वृदे २, १४९; ३, ११;  
वा ७, ३०, ८, १२; -स्वो माथी  
७, १०, १०.

द्वैषो(व्य-उ)पगृह- स्वेन  
अप ७२, ५, ४.

द्वैष-अपि- -पिष्य: शां ६, ६,  
१६; -थीन् आसिष्ट २, ६, ३; ३६.  
द्वैष-अपि-पितृ-मनुष्य- -स्वैभ्यः  
शां ६, ६, १६.

द्वैष-अपि-पितृ-मनुष्य-पुत्रिन्-  
-वी वंष १, ७, ३.

द्वै(क>)का\*, -विका\*-  
पाठभो २, ३, ७<sup>०</sup>, पावा ७,  
३, ४५<sup>०</sup>; -विका: आपथी १३,  
२४, ५१, २४, १२, ३, वीथी  
१४, १९; ११, २१, २६; १५;  
माथि १२७<sup>१</sup>; -विकाभि:माथी  
३, ३, ५, ५०; -विकासु माथी ५,  
२, ७, ११.

दाविक- वा ७, ३, १.

द्वैविक- -कानि द्विथी  
९, ६, १७.

द्वैविका(का-आ)दि- -द्विषु  
पावा ७, ३, १.

द्वैविका-प्रवृत्ति- -विभि:  
माथी ३, ४, ५, ३२.

द्वैविका-हृविष्- -विभि:  
वीथी १०, ५९; २१; १२, २०:

२६××; -विषा वीमाथी २४,  
१३१; -विषाम् वीथी २१,  
२६; १२; २२, १२; १३××;  
माथी; -वीषि माथी ६, १४,  
१५, माथी ९, २८, १; माथी.  
द्वैव-कर्मन्- -मार्णि माथी १, १,  
६; १३.

द्वैव-का(म>)मा- -मा<sup>०</sup>  
आपथ १, १, ४; पाठ.

द्वैव-कायं- -वांमि माथो २, ५.  
द्वैव-कविवर- -वात् आपथी  
७, ११, ६; वीथी ४, ७; २५,  
माथी ७, १६, १३; द्विथी ४, ४,  
४४; माथी ४, २, २; लाथी २,  
२, १११<sup>६</sup>.

द्वैव-कीय- पागवा ४, २, १३८.

द्वैव-कुल- -ले वीथ २, ७, ६१;  
शां २, १०, ६; वा १९, ३;  
अप ७०<sup>१</sup>, २३, ११.

द्वैवकुला(ल-का)यवन- -नानि  
वीथ ३, ११, १५.

द्वैव-कृत्- -रम् माथी १, ७,  
७<sup>१</sup>; माथी १, १२, ११<sup>१</sup>;  
वीथी; -कृतस्य आथी ६, १२, ३;  
माथी.

द्वैव-प्रात<sup>१</sup>- -ते क्य ४२, १, ३;  
वैष २, १३, ८<sup>६</sup>; -तेषु शंष  
१००<sup>३</sup>.

द्वैव-गा<sup>०</sup>- -गाम् वीम् ७३, १८.

द्वैव-गण<sup>०</sup>- -ग: साम १, ५२४;  
वा ११, १९; १२, ४१; -ग:  
मा २, १३, ६१<sup>३</sup>; अ २२,

७, १; वृदे ६, १५६; साम १,  
४४५; वा २, २०; ५, ४४५;  
-गाम् वृदे ४, ३६; -गानाम्  
माथी १४, ७२, ४; आसिष्ट १,  
२, २; १२; द्विष्ट २, १९, १;  
-गैभ्य: निम् ७, १; ११; -गै  
अप ३१, १, ३.

द्वैव-गण- -गम् या १०, २८.

द्वैव-गणवर्<sup>०</sup>- -वै: आसिष्ट १,  
५, ४; ४१<sup>१</sup>; मा १, १७;  
१५१<sup>०</sup>; द्विष्ट १, २४, ६१<sup>०</sup>; ऋम  
२, १०, १११; सुम २, १, २२;  
-वी वीथ १, ४, ५१<sup>०</sup>.

द्वैव-गणवर्<sup>०</sup>- -वा: आपथ १,  
२०, ६१; -वै: अप १४, १,  
१०.

द्वैव-गणवर्<sup>०</sup>-वक्ष- -क्षा: अप  
६८, १, ५९.

द्वैव-गाम- -गम् वीथ २, ८,  
१६.

द्वैव-गा<sup>०</sup>- -वा: आपथी ११, ७,  
६१.

द्वैव-गा<sup>०</sup>- -वी: आपथी ४,  
१०, ४; माथी ४, १५, २; वीथी  
६, १२; ७; द्विथी ६, ३, २;  
-वीभि: गो २, २५; -व्य:  
गो १, १४.

द्वैव-गुरु<sup>०</sup>- -रम् अप १, ३८, १;  
अशा ८, १; -वी: वृदे ६, ११३;  
आजो ८, ६.

द्वैव-गुरु-पामिक- -कैभ्य: वीथ  
९, ६४.

a) वंष १, १६१६ b, c द. । b) = अणुरो-विशेष- वा नदी-विशेष- वा । c) वृ. पागम. ।  
d) पाठ: ? 'वीषि इति शोष: (वृ. शाथी. c. च) । e) पामे. वैष १, १६१६ f द. । f) पामे. वैष  
१, १६१६ j द. । g) एव किं इति पाठ: ? यनि. शोष: । h) वैष १ द. । i) पामे. वैष १, १६१६ m द. ।  
j) = प्राकृतिक-जलाशय- । k) वृ. भा. । देवा इति रत्ना. । l) उप. <√गम् । m) पामे. वैष १,  
१६२८ n द. । n) कम्. (वृ. म १०, १३९, ५ दिव्य: मन् २४: ) । o) सवा. 'वै <> 'वी इति पामे. ।  
p) पामे. वृ १२६० c<sup>१</sup> द. q) = बृहस्पति- ।

देव-गुह-विम-वृत्-क्षीर-दधि-  
मृद-तोय-समिध-दर्मा(भं अ)मि-  
वनस्पति- -वीन् वैष ३, १,  
१५.

देव-गुह-स्तातक-द्रीक्षित-राज-  
गो-श्रेष्ठ- -थानम् वैष ३, २,  
११.

देव-गृह- -हम् आमिष्ट २, ६,  
२ : ३; वीष २, ५, २; -हे  
आमिष्ट २, ६, ४ : २३; ७, ११ :  
६; ३, ११, ४ : ३; वाध ६,  
१७; १०, १३; -हेषु अथ ७२,  
४, ४.

देवगृह-प्रतिश्रयो(य-उ)द्याना-  
(न-आ)राम-सभा-प्रपा-तद्याक-  
१, ४, ७, १, पुण्यसेतु-सुत-धिक्य-  
-यम् संघ ४१६; ४४७.

देवगृह-सांग- -नात् विष  
२१, १८<sup>b</sup>.

देव-गो(प>)वा- -पा या  
११, ४६; अमा २, २, १५<sup>d</sup>.

देव-गो-विप्रा(प्र-अ)मि- -मीन्  
वैष ३, १, ५.

देव-गम, मा- -मम् आपथी  
१, ५, ३; ४; वीथी; -भाम् आपथी  
१, ८, ७; शीथी १, १३, ४;  
-मायाम् आपथी १, ९, ५; शीथी  
१, १४, १६.

देव-चोदित- -ताः अत्र ७०<sup>e</sup>,  
७, २.

देव-उन्दस- -न्दसाम् वाधुथी  
४, १०० : ४; -न्दसिम् निस् १,  
६ : ११.

देव-उन्दस- -सानि वाधुथी  
४, १०० : ३.

देव-जन्- -जाः कौस् ६६, १६;  
अम ९, ७; १५, ३; -नेन अथ  
१०, १, १९<sup>f</sup>; -नेभ्यः गोष्ट ४,  
८, ३; द्राष्ट ३, २, १०; कौस्  
७३, ५<sup>f</sup>.

देव-जा- -जाः या १४, १९<sup>f</sup>.  
देव-जाग, ता- -तस्य या ९,  
३; -ता<sup>g</sup> अथ ३२, १, २४; अथा  
१९, १; -ताय वीथी ६, १६ :  
१३.

देव-जाग- -तवे आपमं २,  
२१, ६; ७.

देव-जामि- -जयः<sup>h</sup> अम २, १०,  
१५३; साज १, १२०; १७५; अम  
२०, ९३; -मिम्यः कौस् ७४,  
१०<sup>h</sup>.

देव-ज्य, ता- -तम् आपथी ७,  
१, १३; या १०, २८; -ता  
आपथी ६, २०, २<sup>i</sup>.

देव-ज्युति- -पाग ६, २, ४२;  
-ज्युतिः<sup>j</sup> वीथी ३, ३ : १९;  
द्विथी ३, ६, २७.

देव-जतन- -मः आपथी १३,  
४, २; १६, ३५, १; वीथी ८, ३ :  
१३; वीथी १९, १ : ९; द्विथी  
९, १, ३४; ११, ८, २१.

देव-जर्षण-पूर्वक- -कम् अथ  
३८, ३, ८.

देव-जत्स (:) वाधुथी २, ८ :  
३; वाथी १, ३, ७, २०.

देव-जा- -पा ५, ४, २७; पाग

५, ४, ३८; -तया<sup>k</sup> आपथी १,  
३, २२; २, ३, २५; काथी;  
मीस् ८, ३, २; -तयोः वीथी  
१८, ३८ : ९; -ता<sup>l</sup> आपथी १,  
४, १०; ४, ६, ३; शीथी; या १,  
१७<sup>m</sup>; २, ८; ७, १५; २३;  
१०, १७; पा ४, २, २४; -ताः  
आथी १, ३, ६; ५, २४<sup>n</sup>;  
शीथी; अष्ट ३, ५, २१<sup>n</sup>;  
या २, ८; ७, ५<sup>n</sup>;  
आथी ३, ४, १५; ४, ३, ३;  
शीथी; आपमं १, ४, ७<sup>o</sup>; अष्ट  
१, १३, ६<sup>o</sup>; पाथ १, ५, ११<sup>o</sup>;  
आमिष्ट १, ५, २ : ५०<sup>o</sup>; द्विष्ट  
१, १९, ७<sup>o</sup>; आपथ १, ३१,  
५<sup>o</sup>; या १, २०; २, १३<sup>p</sup>;  
-तामिः शीथी १, १६, ७; १५,  
१४, ६; आपथी; या ११, १२;  
-ताम्यः शीथी ६, २, २; १४,  
५७, २०; आपथी; माष्ट २, १२,  
६<sup>q</sup>; द्विष्ट १, ६, ५<sup>q</sup>; -ताम्  
आथी १, ३, २०; ६, ३<sup>r</sup>;  
या १३, १३; -तायाः आपथी  
१९, २१, ५; २४, ४, १; द्विथी;  
या ७, ४; १३, १; -तायाम्  
वाधुथी ४, २८<sup>s</sup> : १; अथम् १;  
या ७, १; पावा ३, २, १३<sup>t</sup>;  
मीस् ६, ३, १९<sup>u</sup>;  
तायाम् वीथी २१, ८ : २३;  
-तायै आथी ३, १३, १४;  
शीथी; या ८, २२; -तासु आथी  
३, १०, १९; शीथी १, १७,  
५; ३, २०, १५; आपथी १, १०,

a) प्रथमस्थलीयः पाठः । b) देवायतनमा इति जीवैः । c) वैप १ द. । d) पामे. वैप १,  
१६१७ e द. । e) पामे. वैप १, १६१७ p द. । f) विप. । वस. उप. भावे √जन् + शतुः प्र. उस्.  
[पाठ १, ७८] । g) = देव-उन्दस- [उ. ता.] । h) यथा. देवजामिम्यः <> देवताम्यः इति पामे. । i) पामे.  
वैप १, १५७२ k द. । j) वैप १, १६१८ h द. । k) तदे इति जीवैः । l) पामे. वैप १ पठि. देवजानाम्  
वि २, ११, १ टि. द. । m) पामे. पृ १२६१ s द. । n) पामे. पृ १२६१ b<sup>1</sup> द. ।

६१<sup>१</sup>; १<sup>१</sup>ब्री<sup>१</sup> ३, ११: २१;  
 १९: १३×, माथी १, १, ११<sup>१</sup>;  
 द्वित्री २, ७, ५०<sup>१</sup>; या ८, २;  
 -ते आथी ३, १३, १८; आपथी;  
 -१<sup>१</sup>ते काय ३, ८; भाय २,  
 २२: ११; माय १, २, १६.  
 देवत<sup>१</sup> - वा ५, ४, ३८;  
 पाग २, ४, ३१; -त: आज्यो  
 १४, ४; -तम् आथी ३, २, ११;  
 ५, १८, ९; वाथी, या १, २०;  
 ७, १<sup>२</sup>; १४, १; -तयो: निम्  
 ६, ७: ५; -तस्य आपथी १६,  
 ८, ४; बौथी २५, २: ११; २९,  
 ३: ११; द्वित्री ११, २, १८;  
 -तान् आपथी १४, १२, ४;  
 -तान् आमिष्ट २, ४, ११: २०;  
 -तानाम् आपथी ७, २४, ५;  
 माथी १, ८, ५, २०; द्वित्री ४,  
 ५, ३; आमिष्ट २, ६, ५: १८;  
 -तानि आपथी ७, २२, ६××;  
 बौथी; -तय आपथी १५, ३,  
 ६, माथी ११, २, २७; वैथी  
 १३, ४: १; द्वित्री २४, १, १६;  
 -ते आथी २, १४, २४; शोथी,  
 वीसू ६, ३४<sup>१</sup>; -तेन आथी ३,  
 ७, ४××; शोथी, या १, १७;  
 -तेभ्य: माथी २, १९, ४; माथी  
 १, ३, ३, ३; द्वित्री २, २, १३;  
 -तेषु आपथी ७, २४, ६××,  
 वैथी, -तै: माथी १, ८, ५, २९;  
 माय.  
 देवत-श- -श: वृदे  
 १, २.  
 देवत-प्रधानत्व-

-वान् आथी ६, ७, ४.  
 देवत-योनि<sup>१</sup> - नय:  
 थय ६३, १, ४.  
 देवत-विद्<sup>१</sup> - विव्  
 वृदे ८, १३९.  
 देवत-सौविष्टकृतै (त-  
 ऐ)ड- -तेषु आपथी ९, १९, ९.  
 देवत-सौविष्टकृतै (त-  
 ऐ)ड-चातुर्धकारणिक- -कानाम्  
 आपथी २, २१, ४.  
 देवक्य<sup>१</sup> - -ये द्राष्ट ३,  
 ४, २७.  
 देवत-लक्ष(ण)>णा<sup>१</sup>-  
 -णा: आथी २, १४, १८.  
 देवता(ता-आ)कथान- -नम्  
 अथा २, १, १०.  
 देवता-गण- -जै: थय १,  
 ३७, ३; अशो ७, ३.  
 देवता(ता-आ)गम- -मे  
 आथी २, १, २२.  
 देवता(ता-आ)गार- -नम्  
 वेष १, ११, ७.  
 देवता(ता-आ)गि-शब्द-कि  
 या(या)>य- -यम्<sup>१</sup> मीसू ६,  
 ३, १८; -या: काथी १, ६, ६;  
 -याणाम्<sup>१</sup> वैथी २०, १: ४.  
 देवता-ज्ञान- -नम् कौसू  
 ७३, १९; -नात् शुअ ४, १५८.  
 देवता(ता-आ)णूक- -कम्  
 वीष्ट २, १, २८.  
 देवता-तस(ः) शोथी १, १६,  
 १५.  
 देवता-नर्पण- -आम् शंघ  
 ११०.

देवता(ता-आ)तिथि- -थीन्.  
 वाथ १४, १३.  
 देवता(ता-आ)तिथि-मृत्य-  
 -नयानाम् विघ ५९, २६.  
 देवता(ता-आ)धमन्- -नमन:  
 वृदे १, ३४.  
 देवता-अय-व(त् >)मी-  
 -यौ वंथी ११, ३: १०.  
 देवता(ता-आ)दि- -दीनाम्.  
 थय ६४, ५, ९.  
 देवतादि-तस(ः) अथ १,  
 ३; उनिसू २: २४; पि ३,  
 ६२.  
 देवता(ता-आ)देवा- -शाथ.  
 काथी ९, ६, १६.  
 देवता(ता-आ)देशन- -नम्  
 शोथी १, २, १९; आपथी १०,  
 १, १४; द्वित्री २, २, ४१; ३, ८,  
 ६३; -नस्य आपथी १०, ३०, ९.  
 देवता-द्वन्द्व- -न्द्वानि शुप्रा  
 २, ४८; -न्द्रे थय ४८, १४८;  
 अथा ३, ४, २; शौघ ४, ४९;  
 पा ६, २, १४१; ३, २६; ७, ३,  
 ११; पावा ६, ३, २५.  
 देवता(ता-आ)धिकार- -रात्  
 उनिसू ७: ३७.  
 देवता(ता-आ)प्यहम्<sup>१</sup>-  
 -मे या १, २०.  
 देवता-नश्रप्र(द-आ)दि-  
 संघद- -ङ्ग शंघ २१.  
 देवता(ता-आ)नपनय- -य:  
 मीसू ११, २, ३२<sup>१</sup>.  
 देवता-नामन्- -म शोथी  
 १, १७, १४, १५; या १, २०;

a) पागे. वैप १, १६२० = अ. । b) विप. नाप. । c) उत्तरेण इतिना संधि । तु. सपा. आष्ट १, १, १० । d) विप. । सस. । e) उप. < √दिक् । ज्ञाने । f) स्वार्थे ष्यम् प्र. । g) पूष. छान्दसो हस्तः । तु. भाष्यम् । । h) समहारो दस. । i) दस. । j) पाठः ई दे इति पाठः ममुचितः (तु. र. र. B.N.H.) । k) 'ताडपनय- इति गङ्गा. । 'तानय- इति जीर्णः; द्रम्यदेवता', इति शबरः प्रथ. ।

-मानि वीथी ६, ६ : ५.  
 देवतानाम-चोदना (न-  
 ऋ)र्ध- -र्धस्य मीस् २, १,  
 १४.  
 देवतानामा(म-आ)देश-  
 -नाम् गोष् १, ७, ३.  
 देवतानामधेय- -न्यम्  
 शाश्री १, १, ३७; द्विथ्री १०,  
 १, १८; -यस्य शाश्री ६, १,  
 १५; -यानि लाश्री ८, १, १;  
 बृदे १, १७; या १०, ४२.  
 देवता-विगम- -आः आपथ्री  
 २४, ४, १८.  
 देवता-निमित्त-त्व- -त्वात्  
 मीस् ३, ३, ४१.  
 देवता(ता-आ)नुपूर्व-  
 -न्यम् शाश्री ३, ७, ७.  
 देवता(ता-अ)न्त- -न्तात्  
 वा ५, ४, २४.  
 देवता(ता-अ)न्तर- -न्म्  
 मीस् १०, १, १७; -रात् मीस् ३,  
 २, ४०; -रे अप्राय ४, १; मीस्  
 ११, ४, ३२; -रेषु निस् ३,  
 १२ : २४.  
 देवता(ता-अ)न्तर्य- -ये  
 आपथ्री २, १६, ९.  
 देवता(ता-अ)न्यय-  
 -त्वात् काथ्री ५, १, ८; -त्वे  
 मीस् १०, ४, ४८.  
 देवता-पद- -दम् लाथ्री  
 ७, ५, १५.  
 देवता(ता-अ)वनय- -यस्य  
 मीस् ६, ५, १७.  
 देवता-पृथक्त्व- -न्यात्  
 मीस् ९, ३, ४५.  
 देवता-प्रतिमा- -आः अप

७०<sup>१</sup>, २३, १.  
 देवता-प्रभृति- -तिना वीथ्री  
 १७, ३७ : ४; -तिभिः वीथ्री  
 १७, ३७ : ७; -तिभ्याम् वीथ्री  
 १७, २२ : १०<sup>७</sup>.  
 देवता-भाङ्- -भाक् वाधुथ्री  
 ४, २६ : २५,  
 देवता-भाष- -वात् मीस् ५,  
 ४, १९.  
 देवता(ता-अ)भिधान-  
 -न्यम् आपथ १, ३१, ४; द्विष  
 १, ८, २३; या १, २०.  
 देवताभिधान-त्व-  
 -त्वात् मीस् २, १, १३.  
 देवता(ता-अ)भिमुख- -त्वः  
 विष १४, ३.  
 देवता(ता-अ)भिसंबोग-  
 -गात् मीस् ११, १, ५२.  
 देवता-भेद- -न्दे मीस् ११,  
 २, २४.  
 देवता(ता-अ)भ्यावर्तिन्-  
 -तिं वीथ्री २४, १ : १.  
 देवता-भय- -यम् आपथ्री  
 १४, ३३, ८; द्विथ्री १५, ८, ४१;  
 अप्राय ६, १.  
 देवता-यजमान-पशु-वा-  
 चिन्- -चिनाम् माथ्री ५, २,  
 ९, १.  
 देवता(ता-आ)धतन- -न्यम्  
 कौष् १, १८, ४; -ने काष् १८,  
 ३; अप ६८, ५, २०; वाष ११,  
 ३१; -नेषु अप ४, ६, ४; ६२,  
 ७, ३; विष ११, ११; -नैः अप  
 ७०<sup>१</sup>, १, ४.  
 देवतायजन-दमशान-धनु-  
 प्यय-रत्या- -ध्यासु विष ३०,

१५.  
 देवता-याग-पूजन- -न्यम्  
 ऋष ६७, ८, ८.  
 देवता(ता-आ)राघन-  
 -न्यम् आशिष् २, ४, १० : १. ,  
 देवता(ता-अ)र्चा- -र्चाः  
 अप ७०<sup>१</sup>, ८, ३; -र्चानाम् विष  
 २३, ३४; -र्चाम् विष ६३, १७;  
 -र्चयाम् विष ६५, १; -र्चासु  
 अप ५८, ४, १.  
 देवता(ता-अ)र्चि- -र्चवः  
 ऋष ७२, ३, ११.  
 देवता(ता-अ)र्ध- -र्धः मीस्  
 ३, २, १३; -र्धम् मीस् १२, २,  
 १८<sup>०</sup>.  
 देवतार्थ-त्व- -त्वात्  
 मीस् १२, २, १; ४, १९.  
 देवता(ता-अ)र्ध- -र्धं  
 आपथ १, ३, ४३; द्विष १, १,  
 ११८.  
 देवता(ता-आ)र्धा(र्ध-अ)र्ध-  
 छन्दस्-तद्ध(ः) बृदे १, १४.  
 देवता-स्त्रि- -न्मृ बृदे ८,  
 २१.  
 देवता(ता-अ)वकाश- -शे  
 वीष् २, ८, १६.  
 देवता-वत् बृदे १, ८१;  
 २, १३६; या २, २३<sup>१</sup>; २७<sup>१</sup>;  
 ७, ४; मीस् ३, २, ४१.  
 देवता(ता-अ)वदान- -ने  
 अप्राय ४, १.  
 देवतावदान-वाग्दान-  
 वाक्या-द्विद्-मन्त्र-कर्म-विष-  
 यांस- -ने माथ्री ३, १, ६.  
 देवता-वर्चिन्- -चि माथ्री  
 ५, २, ९, ३.

a) समाहारे इत. उप. = पाद- [जु. निस् ३, ११ : १५; १५ परदेवत्व इति]। b) 'ती' इति पाठः इ  
 यनि. शोधः। c) यम. उप. [= प्रतिमा-] कर्मणि कृत्। d) उप. = कर्त्तव्य-। e) विप.। चय.। f) यम.।

देवता(ता-शा)वाहन- नम्  
 वृदे १, ११६; -नाम् आश्री  
 ६, ९, १३; -नेषु वीथी २७,  
 १:९.  
 देवता-विकार- -रः मीस्  
 १०, ४, २९; -रे आश्री १, १६,  
 ८.  
 देवता-विचार- -राः गोष्ट  
 ३, १०, २.  
 देवता-विद्- -वित् वृदे ८,  
 १२४; १३१.  
 देवता-विपर्यास- स्ते काश्री  
 २५, ५, १८; वीष्ट ४, ११, १.  
 देवता-विभक्ति- -फयः  
 निस् ५, २: ३.  
 देवता-वाच- -न्देषु आश्री  
 ९, ७, २५.  
 देवता(ता-शा)धय- -यम्  
 माष्ट १, १८, २; गोष्ट २, १०,  
 २०; द्राष्ट २, १, ९; ४, १३;  
 -ये मीस् ६, २, २०.  
 देवता-श्रुति- -तिः मीस् ८,  
 १, ३४; ९, १, ९; -तेः काश्री  
 २५, ५, ५.  
 देवता(ता-श)शङ्ख- -श्रेभ्यः  
 काश्री २०, ८, ४.  
 देवता-सद्- -सद्भिः अप  
 ६४, ३, ७.  
 देवता-संपदान- -ने पा २,  
 ३, ६१.  
 देवता-सामान्य- -यम्  
 वीथी २७, १४: २६; -न्यात्  
 वाश्री १६, १, ३६; मीस् ८,  
 २, १०; -न्येन हिथी ३, ८, २७.

देवता-स्विष्टकृत्- -कृद्भ्याम्  
 काश्री १४, २, १८.  
 देवता-होम-वर्गम् काष्ट ५१,  
 ४; माष्ट २, ४, २.  
 देवते(ता-ऽ)ज्या- -ज्या  
 काश्री २५, ४, १४.  
 देवते(ता-ऽ)ष्टि- -ष्टिषु काश्री  
 १९, ६, ६.  
 देवतो(ता-उ)पदेशन- नम्  
 आपथी ७, १२, ९; २४, ३, १९.  
 देवतो(ता-उ)पपरीक्षा- -शा  
 या ७, १, ४.  
 देवतो(ता-उ)पलक्षणा-  
 (ण-अ)थै- -त्व- -स्वात् मीस्  
 १२, ४, ३.  
 देव-ताति- पा ४, ४, १४२;  
 -तये आश्री ७, ३, १९; शोश्री  
 १०, ५, १८; द्राश्री; -तता आश्री  
 ९, ५, १६; आपथी २४, १३, ३;  
 अप ४८, १५, निष ३, १७; या  
 १२, ४४; -तिम् अप्राय ६, ११;  
 -तो या १२, ४४.  
 देव-तीर्थ- -थेन शेष ११०.  
 देव-तनुल- -लम् काष्ट ९, ७;  
 माष्ट १, ४, ६; वाष्ट ८, ६१.  
 देव-त्रा आश्री २, १९, २४, ५,  
 १, ८, शोश्री; या ८, ६; २०; पा  
 ५, ४, १६.  
 देव-त्व- -त्वम् आश्री १०, ३,  
 १६, ११, २, ९; आपथी, या ४,  
 १११; -त्वे विष २०, ३५.  
 देव-दत्त- -सम् पावा २, ४,  
 ३२.  
 देवदत्ति->पय(ति-अ)-

थै- -थम् पावा ४, १, १६३.  
 देवदत्त-शठ- (>दैवदत्त-  
 शठिन्- पा.) पाग ४, ३, १०६.  
 देवदत्त- (>दैवदत्ति (क->)।  
 का-, -की- पा.) पाग ४, २,  
 ११६.  
 देव-दर्श- पाग ४, ३, १०६;  
 -शी- अप २२, २, ३.  
 देवदर्शिन्- पा ४, ३,  
 १०६.  
 देवदर्शिन्- -शिनाम् कौस्  
 ८५, ७; -शीं वच्यु ४: २.  
 देव-दर्शन- (>दैवदर्शनिन्-)  
 देव-दर्श टि. ६.  
 देव-दारु- -र वृदे ७, ७८.  
 देव-दाल- (>दाली- पा.)-  
 पाग ४, १, ४१.  
 देव-दास- > दैवदास- -सम्  
 वेष ४, २, ५.  
 देवदास-वत् बंध ४, २, ५.  
 देव-देव- -व विष ९८, ७;  
 -शः वृदे ३, ८८; -वम् विष १,  
 ४८, ९८, ५; -तस्य अप ४०,  
 २, ७; विष ९९, १; वृदे १,  
 १०४; -वाः वृदे ३, १२६; -वे  
 विष १, १९.  
 देवदेवे(व-ई)वा- -श अप  
 ६६, १, १.  
 देव-देवता->पय- -यः वृदे  
 ३, ११२; -यम् या ७, ४; -ये  
 गोष्ट ३, १०, २४; -येषु गोष्ट  
 ४, ४, २२.  
 देव-द्रव्यो(व्य-उ)पजीवक-  
 -कः शेष ३७६.

a) उप. <√विद् [ज्ञाने]। b) विप.। वस.। c) वेप १ द.। d) = [कारण-] तीर्थ-विशेष-।  
 e) = वृत्त-वर्ति-। f) "द्रुम्" इति पाठः यनि. शोषः (द्रु काष्ट माष्ट.)। g) अप.। h) व्यप. (द्रु.  
 पागम.)। "नेन- इति आण्डा. पासि.। वेददर्श- इति वामनः (द्रु. पागम.)। i) प्रोहाधेयार्थस्य प्र. लुक् उत्सं.  
 (पा ४, ३, १०७)। j) = दैवदर्शिन्-। वृत्तभावः उत्सं. (पा ७, २, ११७)। k) = शश-विशेष-। l) द्रु. पागम.।

देव-जोगी<sup>०</sup> - ष्याम् वाच १४, २५.

देव-द्विज-मुह-स्त्र-मुधप ८७: ५.

देव-धर्म-मंग या ११, २३.

देव-भि-> द्वि-देवप्र(द्वि-अ) व्, क्व- पा ६, ३, १२.

देव-नामन्<sup>०</sup> -मभिः वीथी ९, ९ : ४; -मनः अय १, ४०, ४; अशा १०, ४.

देव-निर्मात्या(स्य-अ)पनयन-न्नात् विध २३, १७.

देव-निर्मित-पतः आर्य ४, ७, ८; आसिपु ३, ३, १ : २८; वीथि २, ९, ६; ११, ३; गीथि २, ३, १८; -ताः अय ५५, १, २.

देव-निश्रे(शि>)गी<sup>०</sup> - गी अंश २, ८ : २६.

देव-निश्रेय(श>)गी<sup>०</sup> - गी गीथ ३, ९, १८.

देव-नीति-पाग ६, २, ४२.

देव-नीथ<sup>०</sup> -थम् वेताथी ३२, २८.

देवनीया (य-आ) दि-सं- (स>)शा<sup>०</sup> -शा वृदे ८, १०-१.

देव-नृप-यान् अय ५८<sup>०</sup>, ४, १५.

देव-व(ति>)वी<sup>०</sup> -वयः वृदे २, १२; ३, १२; या १०, ४७; -श्रीः आपथी २, ५, ७४४;

वीथी; या १२, ४६<sup>०</sup>; -सीनाम् माथी १, ३, ५, ४; वाथी १, ३, ७, ६; वृदे २, १४३; वास १६: ७; -वीथ्यः आपथी ३, ९, ६;

११; -स्यः अय ४८, १३१<sup>०</sup>; वृदे २, ७८; ५, ४५; निप ५, ६<sup>०</sup>; या १२, ४४, ४६; -स्याः माथी २, ५, ८; -स्यौ या ११, २२, ३१.

देवपत्नी-स्तव-यः ऋग २, ५, ४६.

देव-पथ-पा, पाग ५, ३, १००.

देवपथीव<sup>०</sup> -यानाम् चाश ४० : ११<sup>०</sup>; ४२ : १३.

देव-पवित्र-अय् वीथी २७, १२ : ११; १२<sup>०</sup>; १३; आपथ २, ३, ९; दिध २, १, ४०.

देव-पात्र-अय् आपथी १, १४, ३; -थे गीथि २, ३, १७.

देव-पान<sup>०</sup> -नः आथी १, ३, ६; ४, ७, ४; ताथी १, ४, २१, ५, १०, २३; वीथि १, ६ : २.

देव-पितृ-नरः अय ४२, ५, ४०; -तृ शंथ ११२.

देवपितृ-कर्मन्-ने विध ६६, १.

देवपितृ-कार्य-थम् शंथ ४७.

देवपितृ-तर्पण-णम् विध ६४, २४; २६.

देवपितृ-वर्हिषि<sup>०</sup> -०र्हिः वीथी २५, ३ : २; वीथी ९, ४ : ५; दिथी ५, ४, ६.

देवपितृ-वज्र(स>)नी<sup>०</sup> -०नि<sup>०</sup> आपथी ८, १३, ६; दिथी ५, ४, ६; -थै वीथी २५, ३, ३३.

देवपितृ-पत्न-वत् दिथी ५, ४, ५.

देवपितृ-संयुक्त-क्तानि वीथ १, ५, १२.

देवपितृ-सत्ता(दा-आ)क्षि-क<sup>०</sup> -कः अय ४४, २, ४.

देव-पितृ-नर-रथ्यः शीप २, १४, १९.

देव-पितृ-भूत-मनुष्य(व्य-स्य) पिं-पूजक-कः वीथ २, ११, १७.

देव-पितृ-मनुष्य-प्यात् गीथ ११, २९; -प्येयः वाथ ९, १२.

देवपितृमनुष्या (व्य-थ) पार्थक<sup>०</sup> -कम् काथी १६, २, १३.

देव-पितृ-मनुष्य-व्यपि-भूत-पूजक-कः गीथ ५, ३.

देव-पितृ-मनुष्य-भूत-मद्-साम् गीथ ८, १५.

देवपितृमनुष्यभूतप्रद-यत्-यत् वाथ २७० : २.

देव-पितृ-मनुष्य-भूत(त-अ)पिं-पूजक-कः गीथ ३, २९.

देव-पितृ-मनुष्य-वय-शरः गीथ ५, ९.

देव-वीथु<sup>०</sup> -थुः अय ५, १८<sup>०</sup>; -थुम् या ४, २५.

देव-वृ(प्र>)शा<sup>०</sup> -थे आथी १, ७, ७; वाथी १, १२, १; आपथी १०, ३, ३; माथी १०, १३, ३.

देव-वृ<sup>०</sup> -वृः वाथी १, २, १, ३३; -वृम् वीथी १५, १९; ६<sup>०</sup>; -वृत्ता आपथी २२, २४, १<sup>०</sup>.

a) उप. = [स्नानार्थं क्लृप्ताकारः] पात्र-विक्षेपः । b) वैप १ द्र. । c) = सोपान- । परस्परं पामे. । d) = मन्त्र-विक्षेप- (= वीथी २०, १२५, ६-१० इ. देवा ६, २५) । e) वत्. > कथ. । f) विप. (तारक-). भवार्थं छ> ह्यः प्र. । g) व्याणाम् इति पाठः ? यनि. श्लोचः । h) पामे. वैप १, १६२२ u द्र. । i) पामे. वैप १, १६२४ k द्र. । j) विप. । वत्. । k) विप. । वत्. । l) = देवयजन- ? । m) = दशराय- (वृ. ता २२, १७, ३; ३) ।



देव-पुरा<sup>१</sup> - सा आषाढी १४,  
२६, १; अष ३२, १, १५<sup>b</sup>;  
अशा २४, १.

पुं-देवपुरा(र-या)दि<sup>२</sup> -  
-दिभिः अष १, ३७, ५; अशा  
७, ५.

देवपुरीय<sup>३</sup> - अष ३२,  
१, १५.

देवपुरीय-नाग - गा:  
अष ३२, १, १५.

देव-पूजा - > पूजा-संगतकरण-  
-जायो. पावा १, ३, २५.

देवपूजा-संगतकरण-मित्रकरण-  
पथिन् - विषु पावा १, ३, २५.

देव-पूजि(त>)ण - ताम्  
अशा १, २.

देव-पूर्व<sup>४</sup> - बर्हि विषु २१, १२.  
देव-प्रतिमा-भेदक - कः विष  
५, १७४.

देव-प्रतिष्ठा - > ष्ठा-विवाह-  
-हयो. विषु २२, ५३.

देव-प्रपक्ष - चम् निरु ६, ७ :  
३१.

देव-प्रवाद्<sup>५</sup> - दा: भाषी ८, १५,  
७; -दे वैधी ९, ४ : ३.

देवप्रवाद-मन्त्र - मन्त्रम्  
हिथी ५, ४, ५.

देव-प्रवच - वनेम्यः आषप २,  
११, ३; दिष २, ४, १९.

देव प्रसादन - नेम अष १, ६,  
१०; ७, २; ३

देव-प्रहित - नेन वृदे ३, ८६.

देव-प्रीत - तम् वा १०, २८.  
पुं-देव-प्रेरित<sup>६</sup> - तः आषी ३,  
१४, १३.

पुं-देव-प्रेरित, ता - तः आषाढी  
९, १६, ११; भाषी ९, १९, ८;

अषाय ४, २; -ता: बीथी २,  
११ : ३.

देव-प्रेत्य - रयम् अष ७०<sup>१</sup>,  
१०, ६.

देव-व्यु<sup>७</sup> - व्युम् दंवि १, ११;  
-व्यो: वाअ ३० : २०<sup>b</sup>.

पुं-देव-वर्हि<sup>८</sup> - दि: आषाढी १,  
३, १२<sup>१</sup>; ४, ८<sup>१</sup>; बीथी १, ३ :

१०<sup>१</sup>: १२<sup>१</sup>: १३ : १७; ६.  
३० : ६; भाषी १, ३, १२<sup>१</sup>;

४, १<sup>१</sup>; वैथी ३, ४ : ६<sup>१</sup>; ९<sup>१</sup>;  
हिथी १, २, ३२<sup>१</sup>; ४१<sup>१</sup>; ८, ४.

देव-मसन् - क्षणो: पा १, २,  
३८, पावा १, २, ३२; ३८.

देव-माहाग्न - णान् विषु ३, ७६.  
देवमाहाग्न-शोक - कः शंष

३७७ : १.  
देवमाहाग्न-लुह - हम् वैथी

१२, ४ : ३.  
देवमाहाग्न-मूजन - नम्

विषु २, १७  
देवमाहाग्न-संरिपत - तम्

शंष ३००.  
देवमाहाग्न-संनिधि - धी

विषु ९, ३३.  
देवमाहाग्न-संपन्न - छम्

वाध ११, ४१.

देवमाहाग्न(ण-आ)शोक<sup>९</sup> -  
-कः विषु ४५, १५.

देवमाहाग्न(ण-अ)गहरिन् -  
-नी शंष ३७७ : ३.

देव-माहाग्न-गुरु-वसु-दीक्षित -  
-तानाम् विषु ६३, ४०.

देव-माहाग्न-पितृ-भूत-मनुष्य -  
-वज्ज - ज्ञान् चाग्रिण २, ७, १० :  
७.

देव-माहाग्न-शास्त्र-महागन्त -  
-मनाम् विषु ७१, ८३.

पुं-देव-मक्त<sup>१०</sup> - वतम् आषाढी २,  
११, २८.

पुं-देव-भाग - गम् आषाढी  
१, २, ६; बीथी १, १ : १२;

भाषी १, २, १५.  
२-देव-भाग<sup>११</sup> - ना: आषाढी १२,  
९, १८.

देव-भोति - पाग ६, २, ४३.  
देव-भूत-पति - लिम्यः शंष  
३३५.

देव-भूत-पितृ-महा-मनुष्य -  
-व्यागाम् वज्ज २, ३, २.

पुं-देव-भोजन<sup>१२</sup> - नी अष १, ४१<sup>३</sup>  
३; अशा ११, ३.

देव-भर<sup>१३</sup> - > देवमति - वाग २,  
४, ६१; -तयः बीथीप्र ११ : ७.

देवमतायन - पा २, ४,  
६१.

देवमतायन<sup>१४</sup> - नया: बीथीप्र  
३ : ११.

देव-मनुष्य<sup>१५</sup> - व्याः जैगृ १,  
१५.

a) वेप १ द. । b) = मन्त्रगण-विशेष- । पुरीय - इति संस्कृत्यः टि. शोषः १ । c) विप. । बह. पू. = देवता - इति संस्कृत्यः टि. । d) = मन्त्रगण-विशेष- । तस्येदमर्थोयः छ> ह्यः प्र. । e) विप. । बह. । f) सुत. (प्र. मा. आन ; वृ. BO. वरद्वम् ?) । g) सपा. प्रेरितः <> प्रेषितः इति पाठे. । h) = ऋषि-विशेष- । i) पाठे. वेप १, १६२२ ए द. । j) पाठे. वेप १, १५८० B द. । k) 'णको इति जीव'. । l) व्यु. पाठे. च वेप १ द. । m) पाठे. वेप १, १६२२ B द. । n) उष. उष. अण् प्र. कुर्वं [ पा ७, ३, ५३ ] च । o) विप. । उष. ३ p) व्यप. । व्यु ? । q) यम् प्र. उष. [ पा ४, १, १०५ ] ।

१८ : १४; आपध २, १६, १;  
 द्विप २, ५, १; अत्र ८, १० (२)†;  
 -प्राणाम् आपधो १०, २०,  
 १०; बाधुधो ४, १४† : ४; ६;  
 द्विपि ३ : ६; गो २, ३४;  
 -प्राण्यः वीधो ६, ५ : ३१;  
 द्विधो १८, ४, ४१; -व्येपु ऋज्य  
 १, १८ : ११; १२; १४; १५.  
 देवमनुष्य-स्थान- नैपु  
 या १, २०.  
 देव-मातृ- -ता या ४, २२;  
 -तृगाम् चाम १४ : ५.  
 देवमातृ-नाग- -गान् शेष  
 ११६ : २७.  
 देव-मानुष- -वस्य\* आमिष्ट १,  
 ३, ३ : ८†.  
 देवमानुष<sup>०</sup>- -वस्य\* वीधो  
 १७, ४० : २४; माष्ट २, १९ :  
 १४.  
 देव-मित्र<sup>०</sup>- > देवमित्रि- >  
 देवमित्रायण- पाग २, ४, ६१.  
 देव-मुनि<sup>०</sup>- -निः ऋम २, १०,  
 १४६.  
 ?देवमृगानिकाकुम- -भो अष  
 १, ४१, ३; अशा ११, ३.  
 ✓देवव<sup>०</sup>> ऋदेवव<sup>०</sup>-  
 -वताम् वीधो १०, ५२ : ८;  
 -वते वीधो ४, ३ : १०; भाधो  
 ७, ४, ९; बाधो २, १, ८, १६;  
 वैधो १०, ५ : १३; द्विधो ४,  
 २, ११; -यद्वयः\* काधो ३,  
 ३, १२; वीधो १, २१ : ७; ३,  
 २० : ६; माधो १, ३, २, ७;

वाधो १, ३, ७, २१; -यन्तः  
 आधो २, ९, १४××; गाधो;  
 या ८, १८.  
 ऋदेवयन्तो- -न्वी वैधो  
 १८, ५ : ११.  
 देवयु- पाठ १, ३७†; -वयः  
 अष ४८, १६†; निष ३, १८†;  
 नाधि २, ३, ११†; -यु लाधो ७,  
 १२, ४††; -युः ऋप्रा ४, ४९†;  
 -युम् द्विधो १६, ४, ३५††;  
 -युवम्\* आधो १, ४, ११;  
 शाधो १, ६, १६; वैधो १५, ३७ :  
 ८; -यूताष आधमं २, २०, ३२.  
 ऋदेव-यजू<sup>०</sup>- -यजूम्\* काधो २,  
 ४, २६; आपधो १, २२, २;  
 वीधो; -यजूव्यः\* ताधो ४, ११,  
 १; काधो ३, ३, १२.  
 देव-यजन्त<sup>०</sup>- -न्तः माष्ट २, १४,  
 २७; -न्म् शाधो ५, ३, १; १५,  
 १४, १; वाधो; माधो १, २, ३,  
 ३††; -नस्य वीधो १५, १ :  
 ५××; भाधो; -नात् काधो ६,  
 १४, २३; आपधो १०, २०, १०;  
 वीधो; -नानि आपधो १०, १९,  
 १७; भाधो १०, १३, ६; माधो  
 २, १, १, २; वैधो १२, ४ : ८;  
 द्विधो १०, १, २८; -नाय माष्ट  
 २, १४, २७†; -ने काधो १५, ३,  
 ३३; २२, १, २५; आपधो.  
 ऋदेवयजन्तो- -न्ति<sup>०</sup>  
 काधो २, ६, ९; आपधो २, १, ५;  
 वीधो; माधो १, २, ४, १०; -न्त्याः  
 द्विधो १, ६, ७९; -न्वी<sup>०</sup> आपधो

२, २, १; वीधो १, ११ : १३;  
 भाधो २, १, १३; वैधो ४, ११ :  
 १८; द्विधो १, ६, ७८.  
 देवयजन-कल्प- -त्याः, -व्यम्  
 वीधो २५, ५ : १.  
 देवयजन्त-देवता- > णव-  
 -यो शुभ १, २३२.  
 देवयजन-मु(त>)ता<sup>०</sup>- -ता  
 लाधो १०, १७, १०.  
 देवयजन-मात्र, प्रा- -अम्  
 आपधो १०, २०, १०; वीधो;  
 -प्रा वैधो १२, ४ : ४; -प्रात्  
 दाधो १, १, २१; लाधो १, १,  
 १९.  
 देवयजनमात्र-देवा-  
 -वाम् काधो ७, १, १२.  
 ऋदेवयजन-वत्- -व्यात्  
 आपधो १०, ९, १०; वैधो १२,  
 ३ : ६; द्विधो १०, १, १३.  
 देवयजना(न-आ)दि- -दि  
 वैधो २१, १० : ४.  
 देवयजना(न-अ)व्यवसान-  
 -नम् आपधो १०, १९, १५;  
 द्विधो १०, ३, १८.  
 देवयजना(न-अ)न्तर- -न्म्  
 काधो १५, ८, २.  
 देवयजन्तो(न-उ)हेक्षण-  
 प्रसूति- -ति आमिष्ट २, २, १ :  
 ३××; वीध.  
 देव-यजुष- -हृषोः उनिष ३ : ८.  
 १ देव-यज्ञ- -न्तः आष्ट ३, १,  
 ३; ३; आमिष्ट; -न्म् आमिष्ट  
 २, ६, ७ : २; वीध २, ६, २;

a) परस्परं पामे. । b) स्तार्पे ऋत् प्र. । c) व्यप. । d) वैप १ द. । e) पामे. वैप १, १६२३ p  
 द. । f) < ऋदेव- + ऋया इति । g) = अद्विज्ज- । h) शुवः इति लाधं. । i) स्तोमतया निर्देशः ।  
 j) सया. आपधो २१, १२, ३ विशिष्टः पामे. । k) पामे. वैप १, १६२९ p द. । l) पामे. वैप १, १६२४ f  
 द. । m) = विनायक-विषयो- [वैतु. भाष्यकृतं मदेव इति] । n) पामे. वैप १, १६२४ k द. । o) पामे.  
 वैप १, १६२४ i द. । p) = सरस्वत्याख्या-मदी- ।

-झाय वैण्ड ३, ७ : ७; -जेन  
आमिण्ड २, ६, ५ : १५; वीण्ड २,  
९, १४; माण्ड ३, १५ : २४१.  
२देव-यज्ञ- > देवयज्ञि- पाग  
२, ४, ६९.

दैवयज्ञी- ज्ञया- पा  
४, १, ८१.

दैवयज्ञायन- पा २, ४,  
६९.

†देव-य(ज्य) > ज्या- ज्यया  
आपथी ४, ९, ९××; वीथी;  
-ज्या- आथी ५, १, ८; या ६,  
२२४; -ज्याम् आथी १, ९, ५;  
वाथी १, १४, १७; वीथी २७,  
७ : ५; -ज्यायाम् आथी १,  
७, ७; वाथी १, १२, १; -ज्यावै  
आपथी १, १६, १२; २, ४, २, ६,  
१××, वीथी १, ३ : ९, ६ :  
१०, १० : ३××; माथी १,  
१२, १××; माथी; या ६, २२  
†देव-यज्ञस- > ज्ञेव वीथी १४,  
५ : १, ५

†देवयज्ञसिन्- स्त्री वीथी  
१४, ५ : १; ६.

†देव-या- -याः आथी ६,  
११, ११, या १२, ५४.

देव-यात- पाग ४, २, ५३;  
-ता- वीथीप्र ४१ : १०.

दैवयातक- पा ४, २, ५३.  
देवयातव- > १देवयातवक-  
देवयात- टि. द.

१देव-यान- (> देवयानक-)  
देवयात- टि. द.

२देव-यान- -नः वाथी १५,  
१७, १; आपथी; -नम् द्विथी  
१८, ४, ४६; -नः आपथी  
१३, २२, ५; वीथी ४, ११ : १८;  
माथी २, ५, ५, २२; वाथी १, ५,  
५, ७; पाण्ड ३, १, २; वीण्ड;  
वीथ २, ६, १३; -नः  
आपथी १६, १९, ८; माथी;  
-नान् आपथी २१, ४, १,  
आमिण्ड; या ११, ७; -नान्  
आपथी ४, ७, २; माथी, -नने  
वाथी ६, १३, २; वीथी १३ : ४;  
-नेन वीथी ८, ६ : १८१; -नः  
माथी १, ८, ३, ३; २, ५, ५, २१,  
वाधुथी ३, ५५ : २; गोवि २, ५,  
१४, अपथ ४, १२; -नो नित्  
७, ४ : १८.

†देवयानी- -नी  
आपथी १७, ४, ६; वीथी १९, ४  
२०; द्विथी १२, १, ३५; -नीः  
वीथी १४, २१ : १२.

†देवयान-पितृवाण- -णी  
शुभ २, ३९०.

देव-युग- -गम् या १२, ४१,  
देव-योक्त्र- -क्त्रैः वाधुथी ३,  
५५ : २१.

देव-योनि- -निः वप्र १, ७, ११;  
अप २२, ६, २; ३.

१देव-नय- -यः आथी ६, ५,

३१, -यम् वाधुथी ३, १४ : २;  
-धय जैथी १७ : २०.

२देव-नय- (> देवरायनि-  
पा.) पाग ४, १, १५४.

देव-नाज- (> देवराजक-  
जिका, -न्की- पा.) पाग ४,  
२, ११६; ३, ११८.

देव-नाजन्- -नाजाम् नित् ७,  
५ : ३२.

देव-नाज-ज्वज- -जानाम् अप  
७०, १४, २, ७१, १५, ९.

देव-राज-वाहग-संयद्- -सदि  
गोध १३, १४.

देव-राजा(ज-आ)यवन- -नेपु  
धंघ ३१०.

देव-रात- -तः †वाथी १५,  
२४, १; २७, १; †अ २, १,  
२४; माअ १, १५; -ताः

आपथी २४, ९, १; द्विथी २१,  
३, १२; -ताय, -तेन वाथी १५,  
२७, ११.

†देवरात- -०त आथी

१२, १४, २, ५; आपथी २४, ९,  
२; वीथीप्र ३१ : १०; द्विथी

२१, ३, १२; वैथ ४, १, ४.

देवरात-वन् आपथी २४,  
९, २; वीथीप्र ३१ : १०; द्विथी

२१, ३, १२; वैथ ४, १, ४.

देवराता(त-अ)र-नामन्-  
-मा अअ २०, ४५९.

देव(व-अ)र्षि- -दिः चाअ १७:

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) वैप १ द.। c) वैप १, १६२४ ण. द.। d) पाभे. वैप १, १६२५ ण. द.। e) नाप., व्यप. (वीथीप्र.)। व्यु. ?। f) १देवयान- इति पाञ्च. पाणि., देवयातव- इति पागम., दैवयातव- इति [१६] पाणि.। g) बहु. < दैवयाति-। h) = देव-विशेष-। i) पाभे. वैप २, ३खं सुशेषाः एवा ७, २३ टि. द.। j) पाभे. वैप १, १६२५ ण. द.। k) एषया इति पाठः ? यनि. शोधः। l) देव-, राजन्- इति केचित् (वृ. पागम.)। m) वैप २, ३खं. द.। n) बहु. < देवरात-। o) दे- इति पाठः ? यनि. शोधः [वृ. आपथी. प्रमृ.]। p) = शुनःशेष-। q) देववापर इति पाठः ? यनि. शोधः।

देव-अयुक्त- -क्ताः आपथी ८, १३, ६; -क्तानि आपय १, १६; बीय १, ३, ७.  
 देव-संसद<sup>०</sup>- -सदम् आपथी ४, १, ९; भाथी ४, २, १; द्विथी १, २, ५.  
 देव-सल<sup>०</sup>- -०ल आपथी १०, ९, २; शाथी १६, ६, १; लाथी ९, १०, ९; वैताथी ३७, १.  
 देव-सत्य- -त्ये या १, २०.  
 देव-सत्र- -त्रे सु २, २.  
 देव-सदन<sup>०</sup>- -नः अत्र ६, १५, १९, ३९, -नम् आपथी १, ३, ११; भाथी.  
 देव-सम- -मः आसि ३, ९, ३; १५; बीपि २, ७, १४.  
 देव-साध्य- -द्ये निम् ३, ८ : २१.  
 देव-सामन्- -म निम् ७, १२ : १४.  
 देव-सायुज्यक<sup>०</sup>- -क. वैथ ५, ८ : ३.  
 देव-सुनो(त-उ)व(मा>)म<sup>०</sup>- -मम् वृद ३, १४४.  
 देव-सुमति<sup>०</sup>- -तिम् या २, १११<sup>०</sup>.  
 देव-सुतमि- -मिभिः लाथी १०, ४, १०.  
 देव-सू<sup>०</sup>- -सुवः आपथी २४, १२, ३; बीथी १०, ५६ : ४१.  
 -सुवाम् आपथी १३, २४, ८४४;  
 बीथी; -सुवी वात्र १५ : ६;  
 -सूगम् आपथी ४, ११, ५,  
 -सूभिः वाथी ३, ३, ४, ५०;

-सूयः शाथी ९, २६, १; -स्वः  
 वाथी ३, ३, १, ६०; ४, १,  
 ५६; -स्वाम् वाथी २, २, ४,  
 २४.  
 देवसू-देविका-हविस-  
 -वीपि काथी ४, ५, १०.  
 देवसू-वन् काथी १५, ५,  
 ३३.  
 देवसू-हविस- -वीपि काथी  
 १५, ४, ४; २२, ५, १२.  
 देव-सूति- पाग ६, २, ४२.  
 देव-सृष्ट- -ष्टः कौसू १२९, २१;  
 -ष्टम् अत्र १, ६, १०; ७, ५.  
 देव-सेना<sup>०</sup>- -ना कत्र १, १,  
 ११<sup>०</sup>; -नैनाः भाथ २, ९ : १६;  
 द्विथि; -नैनाः आपम २, १८,  
 ४०; ४१; भाथ २, ९ : १५;  
 द्विथि २, ९, ३; -नैनाभ्यः आपम  
 २, १८, ४०; ४१; आपय २०,  
 ५; भाथ.  
 देवसेना-विजय- -यात्र अत्र  
 ५, २१.  
 देव-सोम- -सस्य जैथीका  
 १११; १६२  
 देव-स्त्री- -स्त्रीणाम् अत्र ७०<sup>१</sup>,  
 १०, ६.  
 देव-स्थान<sup>०</sup>- -नम् निम् ७, ४ :  
 ४७; ५ : ३२; -ने लाथी ७, ५,  
 १२, अत्र ७१, १९, २१.  
 देव-स्युति- -स्यः अप्राय २, ९.  
 देवस्यत्वा (>त्वक- वा.) पाग  
 ५, २, ६२.  
 देव-दय-शिरोघ(रा>)र<sup>०</sup>-  
 -रम् द्विथि १, १

देव-हविस्<sup>०</sup>- -०विः आपथी  
 ७, १३, ८; बीथी ४, ५ : १७;  
 भाथी ७, १०, ७; भाथी.  
 देव-हित<sup>०</sup>- -नम् आपथी ३,  
 ९, ४; ८, ३, १; शाथी.  
 देव-हृ<sup>०</sup>- -पाग ४, १, १०५<sup>०</sup>;  
 -हृः आपथी १२, २७, ११;  
 बीथी.  
 देवहृद्य- -पा ४, १, १०५.  
 देव-हृन्तम- -मः काथी ५,  
 १३, ३; -मम् बीथी १, ४ :  
 ३०; ५ : ११; -मान् शाथी  
 १०, ४, २; आपथी १६, २६,  
 १३४४; बीथी.  
 देव-हृति- -पाग ६, २, ४२९;  
 -स्यः या ५, २५१; -तिम्  
 शाथी ८, १६, १; १९, १; २०, १;  
 आसि ३, ७, १ : १९१<sup>१</sup>; -स्या  
 वाथी ४, २८ : २; -स्याम्<sup>०</sup>  
 शाथी ४, १०, ३; आपथी १६,  
 १, ३; पाय १, ५, १०; आसि  
 १, ५, २ : ३५.  
 देव-हृय<sup>०</sup>- -पा ३, १, १२३.  
 देव-हेड(ल<sup>१</sup>)न<sup>०</sup>- -नः अत्र २ :  
 ४४; -नम् आपथी ३, १३,  
 १८; आपथी; आसि २,  
 ४, ४ : ९; १८; ७, ५ : ७;  
 बीय २, ९, ५; बीघ ३, ७, ११;  
 १४; -नस्य वैताथी २३, १२;  
 -नेन कौसू ४६, ३० : ६०, ७.  
 देव-हेति<sup>०</sup>- -तिः अत्र १२, ५(४)  
 देवा(व-अ)गार- -रम् आसि  
 ३, ११, २ : १९; -रे माथ १,  
 ७, १०; विघ ६८, ४७.

a) वैप २, ३३. द. । b) वैप १ द. । c) विप. । वस. । d) = षोडशमातृकाऽन्यलमा- ।  
 e) = सामन्- । f) = मन्त्रि- । g) विप. । वस. > वस. उप. = प्रीवा- । h) = श्रयि-विशेष- । i) पाथे. वैप २,  
 ३३. तैमा ६, १०, २ टि. द. । इह \*विः इति शेषः (तु. पाथे.) । j) दृष्ट्या इति संस्कृतः टि. । k) पाथे. वैप १,  
 १६११ ० द. । l) आसि ७, १७. बीघ. पाठः ।

दिवाम्रेत्वमे<sup>३</sup> हिथी ३, ८, ५४.  
 देवा(व-अ)ञ् > ऋदेवाची<sup>३</sup>-  
 -व्या निय ४, ३; या ६, ८६. :  
 देवा(व-अ)तिथि<sup>३</sup> -थि: शश्व  
 २, ८, ४; साञ्.  
 देवातिथ<sup>३</sup> -थम् लाथी ७,  
 २, ११.  
 देवा(व-अ)मन्<sup>३</sup> -न्मा कौत्  
 ६५, १४.  
 देवा(व-अ)वि<sup>३</sup> -व्य: आथी  
 १, ८, ३; -दीम् कप्र ३, ७,  
 १७.  
 देवादि-भाद्र- -दम् शंघ  
 २०५.  
 देवा(व-अ)हन- -त: अर ७०,  
 ९६.  
 देवा(व-अ)इभुत- -तेपु काय  
 ७२, २.  
 देवानां-दातराय- -त्रेण आपथी  
 २३, ८, ११; हिथी १८, ३, ५.  
 देवानां-प्रिय- पावा ६, ३, २१<sup>b</sup>;  
 पावाय ५, ३, १४.  
 देवा(व-अ)नुग- -गाय कप्र २,  
 २, ३-८; शंघ ११, ६; ४९.  
 देवा(व-अ)न्त<sup>३</sup> -न्तन् वेप २,  
 २: २१.  
 देवा(व-अ)पि<sup>३</sup> -पि: आथी  
 २, १३, ८; शश्व; या २, १०<sup>३</sup>;  
 ११<sup>३</sup>क<sup>३</sup>; १२<sup>३</sup>क<sup>३</sup>; -पिम् वृदे ८,  
 ३; या २, १०.  
 देवापि-दान्तनु- -नू पाय २,  
 २, ३१.

देवा(व-अ)मनात् -ता:  
 पाम २, १, ५९.  
 ✓देवाय पा ७, ४, ३८.  
 ऋदेवायत्- -यते आपथी<sup>३</sup>  
 ७, ७, १; १६, ३५, ५; माथी ७,  
 ५, ५<sup>३</sup>; माथी १, ७, ३, ४३<sup>३</sup>;  
 वाथी ३, २, २, २८; हिथी<sup>३</sup> ४,  
 २, ११; ११, ८, २३; तैपा ३, २;  
 -यद्व्या<sup>३</sup>; -यद्व्याम्<sup>३</sup> माथी  
 ५, २, १३, १.  
 देवायु<sup>३</sup> -युयम् आपथी  
 १२, २८, ११; १६; वीथी ७,  
 १८, ५××; माथी २, ४, ३,  
 ३<sup>३</sup>.  
 देवा(व-अ)यतन- -नानि शाय  
 ४, १२, १५; -ने वयु ४, ११:  
 ११; १२: १३.  
 देवायतन-कारिन्- -वी विघ  
 ११, १०.  
 देवायतन-इमशान-शून्या-  
 लय- -येषु विघ ६९, ७.  
 देवा(व-अ)रि-बल- -सुदत-  
 -०न विघ १, ४९.  
 देवा(व-अ)रु-सन्द-ग्रह-नक्षत्र-  
 ताता- -रा: वैष ३, १, १०.  
 देवा(व-अ)र्य- -र्यम् शुभ १,  
 ५८९; -र्याणि शुभ १, ५३५.  
 देवा(व-अ)रु- -र्याणि वैथी ३,  
 ५: १३.  
 देवा(व-अ)लय- -ये आपथि  
 २, ५, ४: २; वैष ३, २, ८; ६, ६;  
 -येषु विघ १९, १०.

दे(व>)वा-वत्- -वान् शप्र  
 ९, २४<sup>३</sup>.  
 देवा-वृध<sup>३</sup> -वृधम् काथी ६,  
 १, ३३; वाथी १, ६, १, ३१<sup>३</sup>;  
 अयाय ३, १०<sup>३</sup>.  
 देवा(व-अ)ध- -ध्या: वीथीप्र  
 १७: १०; या १२, ४४.  
 देवा(व-अ)सुर- पाय ५, २, ६१;  
 -रा: शीथी १४, २३, १××;  
 वीथी; -राणाम् निय १, ६:  
 २२; -र्याम् वीथी १४, १३:  
 ७; भाति १०५; -र्याम् माय  
 १, १०, १५; वाय १४, १३.  
 देवासुर- पा ५, २, ६१;  
 पावाय ४, ३, ८८; १२५.  
 देवासुर-च्छन्दस्- -दांसि  
 निय १, ६: १०. .  
 देवा(व-अ)सुर-प्रजापति-  
 -नीनाम् उनिस ३: १:  
 देवा(व-अ)हृवि<sup>३</sup> -ति: वीथि  
 १, १७: १८<sup>३</sup>.  
 देवा(व-अ)ज्ञान- -नाय शीथी  
 १, ३, ११; लाथी १, ३, ४.  
 देवे(व-इ)ज्या- -ज्या या १२,  
 ५.  
 ऋदेवे(व-इ)द- -द: आथी १,  
 ३, ६; ५, ९, १२; शीथी १, ४,  
 १९; ७, ९, ३; वीथी ३, १०: २३;  
 माथी ५, १, ४, १३; हिथी २३,  
 २, १०.  
 देवे(व-इ)रा- -०रा अय ३१,  
 १, २; विघ १, ४६××; -राम्

a) पाठ: ?। (इ) देवपयः, अथेपु, अथे इति संनमनपूर्वकः सोयः (तु. तै १, १, ५, १)। b) वैप १ द.।  
 c) = ऋपि-विशेष-। d) वैप २, ३खं. द.। e) = ताम-विशेष-। तेनद्वितीयः अणु प्र.। f) वे<sup>३</sup> इति  
 पाठः? यानि सोधः। g) विर.। चस.। h) = देव-वयु- इति पागन., दूर. = मूर्ख- इति कथतः [पाग २, ४, ५६]।  
 i) = आशीर्वचन-। j) तु. पागम.। k) पाणे. वैप १, १६२३ ० द.। l) यानि. ऊहप्रक्रियया < देवायते.  
 (भै १, २, १५)। m) पाणे. वैप १, १६२९ ० द.। n) ऋद्वम् इति पाठः? यानि. सोधः [तु. माय ११,  
 ७, २, ६]। o) = ऋपि-विशेष-। p) = देव-हृति-। q) पाणे. वैप २, ३खं. देवहृतिः तैमा ६, १०, २ टि. द.।

अप ६६, १, २; -वाः शंभु ४५७;  
 १५; -दाय वंश ३, १०, ३.  
 देवे(व-उ)वु<sup>०</sup> - नुः निम् ७, १ :  
 २३.  
 देवे(व-उ)नस<sup>०</sup> -साय अय २०,  
 १.  
 देवो(व-उक)का- न्याः  
 अय २०, १००.  
 देवो(व-उ)घमण- णेयु वीथी  
 २७, १ : ०.  
 देवो(व-उ)घमण- ने अय ७२,  
 १, ३.  
 देवदेव- (वविष- ) -वाः (-भे)  
 काथी २, ९, १३; १४, ५, १६,  
 १०; ४, १३, १; २; वीथी ३,  
 १२ : ११४४; अय २०, १२१०;  
 --वाः (-भे) काथी ३, ५, १०;  
 ५, १८, १३; कौट- वानाम्  
 (-शेषाम्) कैथी १५, २२ : १२;  
 -वास (-भे) काथी २, १, १४;  
 अय १, ४०७.  
 देवन्<sup>०</sup> - नस्य हिरो १३, ५, १३,  
 -वाः<sup>०</sup> वीथीप्र ४५ : ६; -नाय  
 माय १, ५, ५, -ने याय, २२१०.  
 देवव-अर्द्ध<sup>०</sup> - संणाम् या  
 १४, १३.  
 घृष्ट, वा- पाय २, ४, ११; -नम्  
 वीथी २, ० : ८५; कौट- -ता  
 वीथी २, १ : २१६; -ने काथी  
 १२, २, २२; लाथी ४, १०, २३;  
 निष ५, ११४.

घृत-निन्दा- न्या या ७, ३.  
 घृत-भूमि- भिम्ल काथी १५,  
 ७, १३; -मो काथी १५, ७, १५.  
 घृत-विजय- -यम् निष ७८,  
 ४१.  
 घृत्वा(व-मं)न- -ने काथी १५,  
 ६, २.  
 घृत्वा(व-अ)जेष- -पयोः पा ३,  
 ३, ३०.  
 घृत्- पा ८, २, ४९.  
 दिव्-, १, २ दिव-, दिवस्-, दिवस-,  
 विवा- प्रय. ✓ दिव् द.  
 दिविप्रकान्ते<sup>१</sup> आमिष्ट ३, ५, १ : १५.  
 दिवि-माग- प्रय. ✓ दिव् द.  
 दिविषि<sup>०</sup> - एवः काथी ७, १२, ७;  
 काथी ६, १, ८१; १०, ६, ६; -ष्टिपु  
 अय ४८, ११५; निष ४, ३; या  
 ६, २२.  
 द्विषि-उ- प्रय. ✓ दिव् द.  
 द्वियोऽल्लत अग्राय ६, ८.  
 द्वियो-वास<sup>०</sup> - पाव ६, २, ११; ३, २;  
 -सस्य वाम ७, २.  
 देवोदास<sup>०</sup> - -स<sup>०</sup> काथी १२,  
 १०, १२; वीथीप्र ७ : ४;  
 -सम्<sup>१</sup> काथी ७, ४, ८; लाथी  
 ३, ४, ७; ६, १०, ११; निष् ७,  
 ५ : ३५; ८, १ : ११; १३; -से  
 लाथी ७, ५, १७.  
 देवोदास-सुशान- नवोः  
 लाथी ७, १०, ७.  
 देवोदासि<sup>०</sup> - सितः अय २, १,

१२७; ९, १६; साय.  
 दिवोदास-नव वीथीप्र ७ : ५.  
 दिव्य, व्या- प्रय. ✓ दिव् द.  
 दिव्य<sup>०</sup> - म्यः अय २, १०, १००.  
 दिव्यस्ता अय ४, १६.  
 दिव्यस्त्री- प्रय. ✓ दिव् द.  
 दिव्य<sup>१</sup> पापा, तुदा. उभ. अति-  
 तर्जने, दिदिदिदि आमिष्ट २, १,  
 ५ : १८; या ११, २३१०.  
 दिदिसामि आभयं १, १३, ५; ६;  
 वीथ ४, २, ११<sup>१</sup>; माय २, ३१ :  
 ११; १३; दिदातु माय २, १३,  
 ६१; दिदाताम् माय २, १३,  
 ६१; दिदा आभयं १, १, ११;  
 तु १५, ५; दिष्ट १, १८, ५; या  
 ११, ३१; दिशेय अय २६, ५, ४;  
 दिवेदिशये काथी १२, २४, २;  
 लाथी ९, १०, ६.  
 दिश<sup>०</sup> - पा ३, २, ५६; पाय ४, १,  
 १२३<sup>०</sup>; ३, ५४, ५, १००; दिक्  
 काथी १०, १०, १०; काथी १६,  
 ९, १८; २८, २; काथी; या १, ७;  
 दिक्षु काथी ४, १२, ५१४४;  
 आयाथी; दिग्भिः काथी २, १० :  
 ३१, वाथुली, कौट ३, १५, ५११<sup>०</sup>;  
 गाय ३, १३, ५१; या ११, ४०<sup>१</sup>;  
 दिग्भाः काथी २, ४, १३१, काथी;  
 दिताः काथी २, १३, ६४४;  
 ५, १३, १४०१; काथी; आमिष्ट  
 २, ६, ८ : ४८; माय १, २२,  
 २१<sup>०</sup>; या २, १५१<sup>०</sup>; ६, ११, ११.

a) = एषभ- [वाग-]। म्यु. १। b) वेव १ द.। c) 'कः इति पाठः इ यनि. शोषः (द्र. लया. अ ८, १९, ११)। d) = ऋषि-विशेष-। e) पापे. वेप १, ११०८ ७ द.। f) विप.। वस.। g) विप. (एत- निश्चित-उ-ओदम- )। h) विर. (एत-निश्चित-उ-यो- )। i) पाठः इ यदि, विप्रकान्ते इति शोषः (द्र. वीथ १, १ : १३)। j) = वाय-विशेष-। k) = ऋषि-विशेष-। म्यु. १। l) या २, १५ परागृहः द.। m) द्र. भाष्य. पाठि.। दिशा- इति पाठः.। n) दिग्भ्यः इति पाठः इ यनि. शोषः (द्र. शार. )। o) पापे. वेव २, १४. पुत्रा देवा २, ४, १, ० टि. द.। p) उतरेण संघिरार्षः। q) पापे. वेप २, १४. अयम् यथा १, १- १४ टि. द.।

देश-पीडा- -वाम् अप ७१, १६, ३.  
 देश-पृथक्त्व- -व्यात् मीस् १२, १, ४४; -स्त्वे शांथी ४, ६, ७.  
 देशपृथक्त्व-दर्शन- -नात् पाप्रवा १, १२.  
 देश-प्रामाण्य- -ष्यम् वीष १, १, २२.  
 देश-व्यङ्ग- -ङ्गम् मीस् ९, १, २०.  
 देश-भक्ति- -क्तयः अत्र ५८, १, १२.  
 देश-भङ्ग- -ङ्गम् अप ७०<sup>३</sup>, २३, ६.  
 देश-भय- -यम् अप ७०<sup>३</sup>, १९, १.  
 देश-भाग- -गाम् अप ५९, १, १.  
 देश-भेद- -रः वीष् १८: ११; -दात् मीस् ११, २, ३३.  
 देश-मात्र- -ग्रम् मीस् ३, ७, १४; १६.  
 देशमात्र-त्व- -व्यात् मीस् १०, १, १०; ११, २, ४६.  
 देश-रथ- -थम् वैथी १७, ११: ५.  
 देश-राष्ट्र-पुरा(र-अ)नाय- -नात् -शाः अत्र २, ४, ४.  
 देश-वाचि- -त्व- -व्यात् मीस् १०, ५, ४७.  
 देश-विनाश- -शाय अत्र ६४, १०, ४.  
 देश-विभ्रम- -मे विध २२.

५४<sup>०</sup>.  
 देश-विरति- -वत-> -विष्- पावा ५, १, १४<sup>०</sup>.  
 देश-विशेष- -ये आरथ २, १४, ७; द्विष २, ३, १८.  
 देश-वृक्ष-चतुष्पथ- -थेषु आद्य १, ८, ६.  
 देश-शोभित<sup>०</sup> - -तेषु अत्र ६५, १, ६.  
 देश-संयोग- -गात् मीस् १, ३, १९.  
 देश-संस्कार- -रः द्विष २, १, ४६<sup>०</sup>.  
 देश-सामान्य- -न्यात् मीस् ८, ३, १.  
 देश-साम्य- -म्यात् मीस् ३, २, १२.  
 देश(श-अ)चारा(र-अ)विरुद्ध- -ङ्गम् विध ७, ११.  
 देश(श-अ)ध्यक्ष- -षः विध ३, १५; -क्षान् विध ३, १०; -क्षाय विध ३, १४.  
 देश(श-अ)नपरोप- -षेन काथी २४, ३, २७.  
 देश(श-अ)न्तर- -रे वैथी २०, २३: ३; वैष् ७, ३: ३, पापवा ५; -रेषु मीस् १, ३, २०.  
 देशान्तर-गत,ता- -तम् शंघ ३६४; -तस्य वैथी २०, २३: १; -ता कप्र ३, १, १२; -ते विध ८, ११.  
 देशान्तर-मूल- -ते आश्रिष्ट

३, ११, ४: ४४; वीषि ३, ७, २.  
 देशान्तर-स्थ- -स्थः विध २२, ३९<sup>०</sup>; -स्थे आश्रिष्ट ३, ७, ४: ३; वीषि २, ३, ८; वाद्य ४, २६.  
 देशान्तरस्य-छ्दिवै(व-ए) कष्टपण- -णात् कप्र १, ६, ४.  
 देशान्तरित<sup>०</sup> - -ते शंघ ३६३; सुष १७.  
 देश(श-अ)भ्यास- -ते वीष् २, ८, ८.  
 देश(श-अ)र्ष, धां- -र्षम् मीस् ४, ४, ४; -र्षा मीस् ४, २, २२.  
 देश(श-अ)वर्त- -वंः वीष् १२४, १.  
 देशीय<sup>१</sup> - -यम् निस् ७, ४, २४.  
 देश्य- -या ४, ३, ५४.  
 देश्य(दु>)न्ती<sup>१</sup> - -न्ती अपमि १, ११, ३; पाष् १, ४, १४.  
 दिश- प्रत्, १-२ दिश्य- ✓दिराद्.  
 दिश्व्य<sup>२</sup> - -श्याः वीष्प्रै १४: १.  
 दिष्ट- -दिष्टि- प्रत्. ✓दिराद्.  
 दिष्टि<sup>१</sup> - -ष्या पाग १, १, ३७.  
 ✓विह<sup>३</sup> पाया. अदा. उत. उपचये.  
 दिग्ध, रथा- -नयः वृदे ५, १३३; -रथा अप ४६, ५, ४१; -रथा-न्याम् वीष् २८, ३; -रथैः वीष् १, १०, १०.  
 दिग्ध-सह-दाय- पावा ३, २, १५.  
 दिवेह<sup>१</sup> - पाव २, ४, ३१, ३, १, १२४<sup>०</sup>; ६, १, १६<sup>०</sup>, -हः अप. ६८, १, ८; -हम् आश्रिष्ट ३, १०, ४:

a) अर्थः भु. च ? । देशरथम् मधुम् इत्यस्य स्थाने एम. आपधौ १८, ३, २ द्विप्रौ १३, १, २७ रथम् इति पाठे. । b) °विष्क्ये इति जीर्ण. । c) वृ. पागम. । d) विप. । यत्. । e) पाठे. वृ १२७८ i द. । f) स्वामान्यात् इति जीर्ण. । g) उत्तरेण मस्तमिति जीर्ण. । h) विप. । इत्तन् प्र. उत्सं. (पा ५, २, ३६) । i) तस्यैदमीयः ष>ह्यैः प्र. । j) वैष् ११. । k) = ऋषि-विशेष- । लु. ? । l) हर्षातिरेके अन्व. वा. द्विवि. । लु. ? < ✓दिश इति P.W. प्रत्., दिष्- + ✓स्ये इति [पक्षे] अमा. । m) पा ७, ३, ७३ परान्युः द. ।





क्षत् वाधूथी छ, २२ : २; ७;  
 अदीक्षन्त वाधूथी छ, २६ : २१;  
 दीक्षेत आथी १०, ७, ११; शाथी;  
 दीक्षेयाम् अप ३७, ८, १;  
 दीक्षन् आथी १२, ६; २; १५;  
 शाथी.

दिदीक्षे आपथी १३, २१, ३<sup>५</sup>;  
 निम् ८, ४ : २९; ऋदीक्षिष्ट  
 आपथी १०, ११, ५; बोथी.  
 दीक्षयते नाथी ३, २, १, १२;  
 दीक्षयति काथी १२, २, १५;  
 आपथी; दीक्षयन्ति आपथी  
 १८, २०, १२××; बोथी;  
 ऋदीक्षयामि आपथी १०, ११,  
 १<sup>०</sup>; ऋदीक्षयतु आपथी १०,  
 १०, ६<sup>१</sup>; हिथी १०, २, १४<sup>१२</sup>;  
 ऋदीक्षयन्तु आपथी १०, ३, ८;  
 दीक्षयत् काथी २५, ११, १९;  
 आपथी; दीक्षयन्तुः आथी ६,  
 १०, २५; १२, ८, २५; वाधूथी  
 ३, १०६ : ७.

अदिदीक्षे वाधूथी ३, ४१ : ६;  
 २४.

दिदीक्षान्-ग्वाः निम् ५, १३ : २३.  
 दीक्षण-णम् वेताथी ३६, २५;  
 -णत् दाथी १४, १, ६; लाथी  
 ५, ५, ४; क्य ३, ५, ५; -णे बोथी  
 २१, ८ : ३२.

दीक्षणा(ण-आ)दि-दि आथी  
 छ, १, १०; १२, ८, २.

दीक्षणादि-रात्रि-संख्यान-  
 -नेन आथी छ, २, १३.

दीक्षणा(ण-आ)नुपूर्व्य- -र्येण  
 वाथी १३, १४, ३.

दीक्षणीय, वा<sup>०</sup>- -यम् वाधूथी

छ, २२ : ६; १११ : १; हिथी  
 -१३, ४, २०; -यया बोथी २६,  
 २८ : ३; -यस्य वाधूथी छ,  
 ३८ : ६; १७ : १; -या शाथी  
 ५, ३, १××; आपथी; -याम्  
 काथी छ, २, २८; आपथी;  
 -यायाः काथी २०, ३, ८;  
 आपथी; -यायाम् आथी छ, २,  
 १; काथी; -याये बोथी १०,  
 १२ : १२××.

दीक्षणीया(या-२आव>)-  
 चा<sup>०</sup>- -चाः ज्यौका ३४.

दीक्षणीय-पुस्तकसंस्कार-  
 (२-आ)दीर्घ-वर्जम् काथी  
 २५, १३, ४२.

दीक्षणीया-प्रभृति- -ति  
 वाथी ८, १२, ६; काथी ८, १,  
 ४; हिथी १०, २, ६८; -तीति  
 माथी ५, २, १६, १; हिथी १६,  
 १, ३६.

दीक्षणीया-प्रायणीया(वा-  
 आ)विषया-देवता- -त्ताः काथी  
 छ, ५, ९.

दीक्षणीये(या-३)टि-कर्मन्-  
 -र्मणि ज्यौका ३९.

दीक्षमाण- -णः बोथी २५, २९ :  
 १०; -ऋणम् आपथी १०, ११,  
 ११; हिथी १०, २, १४.

दीक्षयन्तु<sup>६</sup> काथीसं २७ : १०.

दीक्षयित्वा शाथी १३, ११, १;  
 आपथी.

दीक्षा- पाग ५, २, ३६; -ऋक्षया  
 आथी छ, २, ३; आपथी १०, १०,  
 ६<sup>१</sup>××; बोथी; -क्षा शाथी ५,  
 २, ४××; काथी, माथी २, १, २,

३६<sup>१</sup>; -क्षाः काथी छ, २, १२××;  
 शाथी; -क्षणात् आपथी १०,  
 ८, १; बोथी; -क्षामिः बोथी  
 १७, २०; छ; -क्षाम्यः माथी २,  
 १, ३, २०; ६, १, ४, ४×; हिथी;  
 -क्षाम् आथी छ, २, ३<sup>१</sup>; शाथी;  
 -क्षायः आपथी १८, २०, १४;  
 हिथी १३, ७, ३; -ऋक्षायाम्  
 माथी ३, ६, २<sup>१</sup>; दाथी; -क्षायै  
 आपथी १३, २१, ३<sup>१</sup>; बोथी;  
 -क्षान्तु आथी १२, ८, २९;  
 शाथी; -ऋक्षे काथी २५, ११,  
 २५<sup>१</sup>; बोथी ६, ६ : २२<sup>१</sup>××.

दीक्ष- -क्षः आपथी १०,  
 १६, १५<sup>१</sup>; हिथी १०, ४, ११<sup>१</sup>;  
 दाथी २, १, १७; लाथी १, ५,  
 १४; -क्षम् बोथी २५, ७ : ८;  
 माथी; -क्षस्य बोथी २५, २८ :  
 २०; २२; मीम् ७, १, १३;  
 -क्षाः निम् १०, ९ : २; ६;  
 -क्षामि बोथी २५, ७; ६; माथी  
 १०, ९, १४.

दीक्ष-पञ्च-वत् वेथी १५,  
 १ : २.

दीक्षा-कल्प- -ल्पाः वेथी १२,  
 २ : ६; हिथी ११, ५, १६; -ल्पे  
 हिथी १०, ३, २; -ल्पेण आपथी  
 १६, १३, ५; वेथी १८, ११ : २१;  
 हिथी ११, ५, १७.

दीक्षा-काल- -कल्प मीम् ६, ५,  
 ३८; -ले काथी १२, १, २१;  
 २, १०.

दीक्षा-कथ-प्रसवो(व-उ)त्यान-  
 -नानि लाथी १०, १, १.

दीक्षा-वपस्- पाग २, २, ३१६.

a) सङ्ख् दीक्षा<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः । b) विप., नाप. (इति-) । c) विप. । वस. ।

d) पाठः ? दीक्षा, अयनम् इति द्वि-पदः शोधः संभाव्यते । e) स्या. दीक्षा <> दीक्षे इति पथि. ।

f) तस्येदमीयः अण् प्र. । g) तु. पागम. ।

४, १४; -पसो बोधो १४, ११;  
 ७; ८; तैत्रा ४, १७; -पसोः  
 काथो ७, २, १६; द्युम १, २३७.  
 दीक्षा-दक्षिण- -णम् मीत् ३,  
 ७, ११.  
 दीक्षा(धा-ञ्)दि- -दि काथो  
 २२, ३, २७; ६, २; -दिः लाथो  
 १०, १३, १.  
 दीक्षा(धा-ञ्)नुपूर्वं- -व्णद्राथो  
 १, ४, १५; लाथो १, ४, ११.  
 दीक्षा(धा-ञ्)नुपूर्वं- -व्ण  
 द्राथो ७, ४, ४; लाथो ३, ४, ३.  
 दीक्षा(धा-ञ्)न्त- -न्ते आथो  
 ४, २, १८; काथो.  
 ण्दीक्षामति- -तिः बोधो ६,  
 १९; ५; आथो १२, १, ३; द्विथो  
 १०, ३, ३१; वैताथो १३, १९.  
 दीक्षा(चा-ञ्)पराथ- -थे मीत्  
 ६, ५, ३५.  
 दीक्षा-परिणाम- -मे द्विथो ७,  
 १, ७१.  
 दीक्षा-परिमाण- -णम् माथो ६,  
 ४, ३७; -णे आपथो १६, १४,  
 १; वैथो १८, १२; ४; द्विथो  
 ११, ५, २४; मीत् ६, ५, २८.  
 ण्दीक्षामाल- -लाप आथो ४,  
 २, ३.  
 दीक्षा-प्रविहास- -स. लाथो ९,  
 ५, ५.  
 दीक्षा-प्रवृत्ति- -ति काथो ७,  
 १, २१; द्राथो.  
 दीक्षा(धा-ञ्)भिसंबन्ध- -न्धात्  
 मीत् ५, ३, २९.  
 दीक्षा-भेद- -दे वाथ २१, ३२.  
 दीक्षा योग- -णम् बाधूथो ३,

८३ : २.  
 दीक्षा(धा-ञ्)रम्भ- -म्भे काथो  
 १४, १, १२.  
 दीक्षा-रूप- -रूपम् नित् १०,  
 ११ : २०; -पाणि काथो २४,  
 ७, ३; २५, ११, १४.  
 दीक्षा-लिङ्ग- -ङ्गम् वैताथो १३,  
 १८.  
 दीक्षा-वत् काथो १९, २, २९;  
 पाठ २, २, १३, मीत् ११, ३, २०.  
 दीक्षा-विधान- -न्वात् मीत् ३,  
 ७, ३७.  
 दीक्षा-विसर्गा(र्ग-ञ्)र्थ- -त्  
 -न्वात् मीत् ११, ४, १९.  
 दीक्षा-व्यता(त-ञ्)भाव- -न्वात्  
 काथो २०, ८, २०.  
 दीक्षा(धा-ञ्)द्वि, धी- -तयः  
 वैथो १२, ८ : २; -विग्यः वाथो  
 २, १, २, १७; ३, ४, १, ४७; -विपु  
 वीथो १६, २, ६; -तोः आपथो  
 १०, ८, ५; वीथी; -तीनाम्  
 वीथी २१, ८ : ४४; -तीग्यः  
 आपथो १०, ८, ४; १६, ८, १३.  
 दीक्षाद्वि-काल- -त्तः  
 आपथो २०, ८, ७; द्विथो १४,  
 २, २७; -ले द्विथो ११, ३, ३;  
 १४, २, २५.  
 ण्दीक्षित- पा ५, २, ३६.  
 दीक्षो(धा-उ)पसद्- -सत्सु  
 आथो १२, ८, २७; वीथो २३,  
 १२ : २३; २९, ११ : १; द्राथो,  
 -सयः आथो ७, १, २; १२, ६,  
 ३; काथो; -सदाम् लाथो १०,  
 ११, ८; मीत् ११, ४, २१;  
 -सन्निः वीथो २६, ३३ : २२.

दीक्षोपसद्- -दान् लाथो  
 १०, १०, ६.  
 दीक्षो(धा-उ)पसत्-प्रसव-संस्यो-  
 (स्या-उ)प्यान- -नानाम् आथो  
 ८, १३, ३४.  
 दीक्षो(धा-उ)पसत्-मुत्थ-  
 -नयानि काथो २४, ५, ८.  
 दीक्षो(धा-उ)पाय- -यः वाथो  
 २, १, ३, १९.  
 ण्दीक्षित- -ण्ठ काथो ७, ४,  
 १४; १७; आपथी; -तः आथो  
 ४, ८, १८x; धाथी; द्विथी  
 १५, ७, १६!; -तम् धाथी  
 १६, २०, ७; आपथी; -तयोः  
 श्रथ २, १, १६६; -तस्य काथो  
 ७, १, २८; ४, २४; आपथी;  
 -ता माथी २, १, २, ७४; वैथ  
 ५, ९ : ४; -ताः आथो २, १६,  
 २१x; धाथी; -तात् आपथी  
 २१, ३, ११; वाधूथी ४, ३७ :  
 ९; द्राथी ७, ३, ७४; -तानाम्  
 आथी ४, २, १२; ६, ९, १;  
 काथी; -ताय काथो ८, २, २;  
 २६, ७, ३३; वैथी १२, १३ : २;  
 द्विथो ७, १, ६४; -ते आपथी  
 २२, ३, १; माथी ६, १, ४, ३८;  
 जुम् १, १ : २१; वाभ ४२ : ३;  
 -तेन बोधो २८, ९ : २५; -तेषु  
 आथी ४, ७, ४; -तैः वीथो २९,  
 ५ : १०; वैथो २१, १६ : ९.  
 दीक्षित-ऋत्विग्-मन्त्रचारिन्-  
 -रिणः सुथ २०.  
 दीक्षित-त्व- -त्वम् वाधूथो ४,  
 २२ : ९; -त्वान् मीत् ६, ५, ३९.  
 दीक्षित-दण्ड- -ण्डः द्विथो ७,

a) समाहारे द्रस. उप. = २दक्षिणा- । b) पामे. वैप १, १६३७ d द. । c) वैप २, २६. द. ।  
 d) सपा. तैत्रा २, ४, ३, ४ ऋत्विग् इति पामे. । e) = मास- । तस्येदनीयः अणु प्र. । f) श्वतः इति पाठः इ  
 यनि. शोभः । g) पामे. वैप १, १६३७ f द. ।

दीपक- पा ५, २, ६४.  
 दीपक-य-यम् विध ९०, २०.  
 दीपक-दी-दी विध ४३, २०.  
 दीपक-निर्वापक-कः विध ४५,  
 २१.  
 दीपक-दान-नेन विध ९१, १५  
 दीपक-मध्य-म्ये विध ९०, १६.  
 दीपक-वृ वैश्री २, ६ : १२; विध  
 ९७, ९.  
 दीपक-वृ-वृन्तम् वीष्ट १, ६,  
 २२.  
 दीपक-हारिन्-री संघ ३७६.  
 दीपा(प-आ)दि-दि कौत्  
 ७१, १३.  
 दीपा(प-अ)पहारक-कः विध  
 ४५, २०.  
 दीपा(प-अ)पहारिन्-री संघ  
 ३७७ : ७; ३७८.  
 दीपा(प-अ)थे-थे विध ६६,  
 ११; ७९, ७.  
 दीपीय-पा ५, १, ४.  
 दीपो(प-उ)ल्लव-वम् अण  
 १८, ६, १.  
 दीप्य-पा ५, १, ४.  
 दीपक-कैः अण ४, ३, १; ५, ६,  
 -कौ अण ९, १, ४.  
 दीपिका-का वैश्रीका २१५.  
 दीपन-नात् या ७, १५.  
 दीपन-प्रवृत्ति-ति कौष्ट ५,  
 ६, ५.  
 दीपयमान-ना. आय ४, ६, ६.  
 दीप्त, सा-पाण ५, १, २; -सः अण  
 ७०, २, ५; -सा अण ५८, २,  
 ४; ७०, १५, १, नाशि १, ७,  
 १०<sup>b</sup>; १४<sup>b</sup>, -साः अण १, ३४,

६×४; -सात् वैश्री-१, ४ : १७;  
 १०, ५; ५; -सात् नाशि १, ७,  
 १३<sup>b</sup>; १८<sup>b</sup>; -साय गीष् २६,  
 १२; -प्यायाम् वाधुथी ३,  
 २१ : २; -से आमिष्ट २, ४,  
 १० : १; ११; विध ९९, १२;  
 -त्तैः अण ६४, ७, ५.  
 दीप्त-तेजस्य-जसम् वृदे ५,  
 ६५; -जाः अण ७०, २, २.  
 दीप्त-द्विज-मृगा(ग-आ)  
 वृत्त-जाः अण ५८, १, ६.  
 दीप्त-धूम-रजो-ध्वस्त-  
 स्ताः अण ६४, ९, १०.  
 दीप्त-प्रतीक-काः या १०,  
 २१.  
 दीप्य-रूप-> विन्-विणे  
 गीष् २६, १२.  
 दीप्या(स-अ)ष्ट-ष्टः अण ५५,  
 २, २.  
 दीप्या(स-अ)प्ति-प्तिः विध  
 ९०, १५, २७; ९२, २४.  
 दीप्या(स-अ)ङ्ग-ङ्गः अण ६८,  
 २, २४.  
 दीप्या(सा-आ)पवा-कण(ण->  
 ण<sup>b</sup> -णानाम् नाशि १, ७, ९.  
 दीप्य-पा ५, १, २.  
 दीप्यि-दिगः आयमं २, १०,  
 १; काष्ट २४, १३; वीष्ट १, २,  
 २४; माष्ट २, २४ : ११; या  
 २, ६९.  
 दीप्यि-कर्मवृ-मंगः वा८, ११;  
 १०, २९, -मां या १४, २४;  
 दीप्यि-(ज->)जा-जा तत्रा  
 २३, १५.  
 दीप्यि-तेजस्य-जसः अण ६८,

१, १.  
 दीप्यि-नामन्-म या १, १७.  
 दीप्यि-नृण्य-नृण्यः या १४, २४  
 दीप्यि-मन्-तर-रः वृदे ३, १८.  
 दीप्यि-नाग-प्रम्वलित-त्तानि  
 अण ६४, ३, ८.  
 दीप्योष्ठ(ः) वाधुथी ३, २१ : ४.  
 दीप्य-प्यात् वीथी २, १३ : १; ३-  
 दीप्यमान, ना-नाः वीथी १४, ३ :  
 १४; या १०, ४१; -नम्  
 आयथी ९, ६, १२; माथी; -नाः  
 अण ७०, ११, २९; -नेपु वीथी  
 २४, ११ : १०; -नैः वीथि १,  
 १० : १.

दीप-पा ३, २, १६७.  
 दीप-वे(ष्टा)ष्ट-ष्टानाम्  
 जैष्ट २, ९ : ३.

दीप्य-दी (विहायसा गती) द.  
 दीप्यमान-वादा (दाने) द.  
 दीर्घ, घी<sup>a</sup>-पाठभो २, २, ६९; पाण  
 ५, १, ९७<sup>a</sup>; १२२; १२३; -घं  
 आथी ३, १३, १४; वीथी; नाशि  
 १, ८, ३; पा ३, १, ६×४; पार्वा  
 १, २, १७×४; -घंम् आथी ५,  
 १९, ४; शीथी, आयमं १, ८, १०<sup>a</sup>;  
 पाय ३, २, २<sup>a</sup>; ३, १<sup>a</sup>; १<sup>b</sup>;  
 माय २, ८, ६<sup>a</sup>; ४, ४, २;  
 १७<sup>a</sup>; १, या २, १६<sup>a</sup>; ८, २२;  
 १३, ६; ३६; १४, ३६<sup>a</sup>; नाशि  
 २, २, ३; पा १, ४, १२; -घंत्स्य  
 आप्य १, ८; शीष् ४, ७, ९; -घां  
 अण २२, २, ३; २६, २, ५, ३, १;  
 आप्य ७, ९; याशि २, १२;  
 -घां वीथी १०, १५ : १०;  
 २१, ७ : ३; कप्र; -घाणाम् वाय

a) = नरक-विशेष-। b) = स्वरधुति-विशेष-। c) विप.। बस.। d) = पारिभाषिकसंज्ञा-  
 (प्रातिशाख्य, पा.)। शिष्टं रूप १ द.। e) अर्थः ?। f) पाठे: वैप १, ६९० k द.। g) पाठे. वैप १  
 विश्वम् १, ६३, ३ दि. द.। h) सकृत् पाठे. वृ ५४३ b द.।

३, १२; पावा १, ३, ९<sup>१</sup>; -र्धाणि  
 अप ४१, ४, ८<sup>१</sup>; ऋप्रा १, २०;  
 मासि १६, ११; -र्धाव ऋप्रा  
 १३, २०; १४, ३०; शुप्रा;  
 -र्धाम्वास् मासि ९, ५; -र्धाम्  
 काश्री २, ५, ७; आप्रश्री; -र्धे  
 बाधुश्री ३, ६९; ४१; वीशु;  
 नासि १, ७, १५; पावा १, १,  
 ५७<sup>१</sup>; २, ९<sup>१</sup>; ६, ४, ३; पाप्रवा  
 ४, ७; -र्धेण ऋप्रा ६, १३.  
 देव्यं- पा ५, १, १७.  
 देव्यं- पा ५, १, १२३; -र्ध्वम्  
 कप्र १, ७, ४.  
 दीर्घे-कण्ठो(सठप-उ)प (धा>)  
 ध-धम् शुप्रा ७, ७.  
 दीर्घे-क(ण>)णी-ध्वाम् वीशु  
 ३, ३२.  
 दीर्घे-काल-लम् काशुउ ४१:१२.  
 दीर्घे-काश-शुप-आट्ट-वट-टम्  
 पा ६, २, ८२.  
 दीर्घे-कीट-ट: शेष ३७७: १९.  
 दीर्घे-ना<sup>१</sup>-नी भासि १२.  
 दीर्घे-प्रहण-णम् पावा ६, १, १६८;  
 पाप्रवा ४, ५; -णे पावा १, १,  
 ७०.  
 दीर्घे-घण्टा-निनाद-त्रव शैशि  
 ३५०.  
 दीर्घे-चतुश्र, धा<sup>१</sup>-धम् आमिण्य  
 २, ५, १: १९; वैध २, ९: १२;  
 आप्रशु २, १५; ३, १, वीशु १: २०;  
 २: ६××; हिशु १, ३६; ३९××;  
 -ध्रस्य वीशु १: ३४; हिशु  
 १, १२; -ध्रा हिशु २, १८;

-ध्रानाम् आप्रशु २१, १२; हिशु  
 ६, ६९; -ध्राम् वीशु २: १७.  
 दीर्घे-चतुरस्र=धा-सम् काशु  
 ३, २; ४; ४, ६; -सस्य काशु  
 १, १७; २, ११.  
 दीर्घेचतुरस्र-समास-स्तेन काशु  
 ४, ७.  
 दीर्घे-जड<sup>१</sup>-ज्ञा: वीशुप्र २५: २.  
 दीर्घे-जि(ङ>)ही<sup>१</sup>-पा ४, १, ५९.  
 दीर्घे-तपस्<sup>१</sup>-पस: चाश्र ४२: ७;  
 -पा: वृदे ८, ६७.  
 दीर्घे-तम<sup>१</sup>-म: बाधुश्री ३, ९४:  
 ७; -मा: वीशुप्र १: ३;  
 -मानाम् वैध ४, ४, ४.  
 दीर्घतम-०म वैध ४, ४, ४.  
 दीर्घतम-वल् वैध ४, ४, ४.  
 दीर्घे-तमस्-मस: वृदे ३, १४६;  
 -मसम् वृदे ४, २१; -मसाम्  
 आश्री १२, ११, ४; वीशुप्र १३:  
 १; -मसि वृदे २, १२९; -मा:  
 ऋप्र २, १, १४०; ३, २१; वृदे:  
 दीर्घतमस-०स आश्री  
 १२, ११, ४; वीशुप्र १३: ३१<sup>१</sup>;  
 -स: ऋप्र २, १, ११६; -सम्  
 आश्री ५, १८, ५<sup>१</sup>; वृशु २, १०:  
 २२<sup>१</sup>; ११: ११<sup>१</sup>; या ८, २२<sup>१</sup>;  
 -सस्य लाश्री ७, ७, १६<sup>१</sup>.  
 दीर्घतमसी-सी वृदे ३,  
 १५२.  
 दीर्घतमसो(स-अ)के<sup>१</sup>-के<sup>१</sup>  
 आश्री ९, ३, १२; १३; लाश्री  
 ३, ६, ३२; ३३; निशु; -केम्<sup>१</sup>  
 निशु ९, २: ३०; ५: ३१.

दीर्घतमो-वय वीशुप्र १३: २-  
 दीर्घे-तस् (ः) भासि ७९.  
 दीर्घे-ता-ता अप ४७, ३, ३.  
 दीर्घे-त्व-त्वम् पावा १, १, १९××;  
 अप्रा ३, ३, १९<sup>१</sup>; यासि २, २३;  
 -त्वस्य पावा १, १, ३९; -त्वे  
 अप २२, ४, १; पावा ६, १,  
 १३××; -त्वेन चम्पू ४: १६.  
 दीर्घे-त्व-वर्शन-नास् पावा ६,  
 ४, १६.  
 दीर्घे-त्व-वाधना(न-अ)र्धे-ध्वम्  
 पावा ६, १, ८६.  
 दीर्घे-त्व-समापत्ति-त्ते: अप्रा  
 ३, १, ७.  
 दीर्घे-त्वा(स्व-अ)भाव-व्य: पावा  
 ७, २, ३७.  
 दीर्घे-स्तर<sup>१</sup>-रुभि: बाधुश्री ३, ८३:  
 ४; -रुक् बाधुश्री ३, ७६: १४.  
 दीर्घे-वृद्ध, ण्डा-ण्डस् वीशु १५,  
 १९: १२; -ण्डान् वीशु १५,  
 १४: ६<sup>१</sup>; -ण्डाम् वीशु १५,  
 १९: १०; -ण्डेन कौशु १५, ४.  
 दीर्घे-वृधिन्-सी शेष २४४.  
 दीर्घे-दाह-रुभि: वीशु १९, १०:  
 ५६.  
 दीर्घे-धार-त्व<sup>१</sup>-त्वाव मौशु १२,  
 ३, २८.  
 दीर्घे-नलोप-स्वर-गाथा(स्व-अ)नु-  
 स्वार-दीर्घभाव-वा: पावा १,  
 १, ४४.  
 दीर्घे-नलोपा(प-अ)नुस्वार-दी-  
 भावे-नकर-प्रतिषेध-धा:  
 पावा १, १, ४४.

i) सपा. मशु ४, १४ दीर्घे इति पाठे. ii) तु. पाका. iii) उप. <√गम्. iv) विप. नाप. (आवत-). v) = ऋषि-विशेष-। बस. vi) वैप १ द्र. vii) उप. = तमम्. viii) बहु. < दीर्घतम-। ix) बहु. < दीर्घतमस-। x) वी<sup>१</sup> इति पाठः ३ वनि. शेषः (श्र. आश्री. संस्कृतः टि. च). xi) = चक्र- [तन्नामधेय-]. xii) = साम-विशेष-। xiii) सरथ. अर्कः इति नेष्टम्. xiv) सरथ. अर्कम् इति नेष्टम् xv) विप. i बस. i. β) खे हस्तः (पा ६, ३, ६४)।

दीर्घ-नीच<sup>a</sup> - ये ऋप्रा ५, ४८१.  
 दीर्घ-पर- -राः ऋप्रा २, २०.  
 दीर्घ-म(र्वन् >)र्त्वि- -र्वाः अय  
 २१, २, ३.  
 दीर्घ-पा(घ >)घा<sup>b</sup> - ये बौद्ध  
 १५: ४.  
 दीर्घ-पूर्व- -वंः ऋप्रा २, २४; १३,  
 २२; -वम् ऋप्रा १३, ३३.  
 दीर्घ-प्रवत्-यज्ञ- -जम् या ५, २.  
 दीर्घ-प्रविषेव- -वः पावा ६, १, १;  
 ७, ४, ३५; ८, ४, ६८.  
 दीर्घ-प्रविषेवा(घ-अ)र्थ- -र्थम्  
 पावा ६, १, १३२.  
 दीर्घ-प्रयज्यु<sup>c</sup> - -ज्युम् या ५, २१६.  
 दीर्घ-प्रयुक्त- -केषु काथी १७, २,  
 १८.  
 दीर्घ-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ३, १, ६; ६,  
 ४, १६; ७, २, ८२; ४, ८२.  
 दीर्घ-प्रसङ्गन्<sup>d</sup> - -गति ऋप्रा १८,  
 २५१.  
 दीर्घ-प्राग्<sup>e</sup> - -ण. आथी ६,  
 २०, २१.  
 दीर्घ-प्लुत- -तयोः शौच १, ३८,  
 पावा १, २, २७; -तौ शुभ्रा  
 १, ६३, पावा १, ४, १.  
 दीर्घ-प्लुत-प्रविषेव- -वः पावा  
 १, १, ७०.  
 दीर्घ-प्लुत-वचन- -ने पाप्रवा १, ३  
 दीर्घ-भक्ष<sup>f</sup> - -क्षम् बौधी ७, १५ :  
 ८, ८, ४ : २४; १२:३६; -क्षाः  
 बौधी २५, २२:४; -क्षेण बौधी  
 २१, २० : १३; २५, २० : २२.  
 दीर्घ-म(घ >)घ्या<sup>g</sup> - -घ्या घैति  
 १८३०.

दीर्घ-मात्र-प्लुत<sup>h</sup> - -ताः अय ७७,  
 ३, ४.  
 दीर्घ-मु(र >)ली<sup>i</sup> - -ङ्गं लि  
 आथी १५, १९, ४; बौधी ९,  
 १८ : १६; माथी ११, १९, १३;  
 बौध ७, २, १०; -खी आथी  
 १५, १९, ४<sup>h</sup>, माथी ११, १९,  
 १३.  
 दीर्घ-रोग- > दीर्घ-रोगिन् - -गिति  
 शेष २७०; -गी विष ४५, ३१.  
 दीर्घ-रुधु- पाग २, २, ३१<sup>i</sup>.  
 दीर्घ-वंश- -शम् बौधी १०, ४७ :  
 १६x४; वैधी १९, ६: ५६; -शे  
 आथी १७, १२, ७; बौधी;  
 -शेन बौधी १२, १८ : ९; -शेषु  
 आथी १८, ५, १६; वैधी १७,  
 १५ : ४.  
 दीर्घ-वंश-प्रबद्ध- -द्धैः द्विथी  
 १३, २, १०.  
 दीर्घ-वचन- -नात् पावा ८, २, १०६.  
 दीर्घ-वृत् ऋप्रा १, ४; कौषि २०;  
 नाधि २, ३, ७.  
 दीर्घ-वाच्य- -रस्यः बौधी २०,  
 १० : १६; २१, २० : २७x४;  
 दीर्घ-विधि- -धी पावा १, १, ७२.  
 दीर्घ-वृ(द >)द्धा<sup>j</sup> - -द्धा नाधि २,  
 ४, २०.  
 दीर्घ-वैर- -रम् वाध ६, २४.  
 दीर्घ-व्याधि- -धेः आथी १०, १, ६.  
 दीर्घ-व्याधि-ग्रामकाम-प्रजाकाम-  
 पशुकाम- -मानाम् काथी २२,  
 १, १७.  
 दीर्घ-व्याधि-प्रविष्टाकामा( न-अ )  
 ष्टाकाम- -मानाम् काथी

२२, २, १७.  
 दीर्घ-दाकळ-प्रविषेवा(घ-अ)  
 धे- -र्थम् पावा ६, १, ७७.  
 दीर्घ-धवस्<sup>k</sup> - > वैर्धवस<sup>l</sup> -  
 -सम् काथी २२, ६, ५; लाथी  
 ७, ४, १; क्षुम्.  
 दीर्घ-ध्रुत्<sup>m</sup> - > ऋदीर्घध्रुत्-तम् -  
 -मः आथी ७, ७, ४; वाथी ५,  
 १०, ३२.  
 दीर्घ-न्दाय- -यात् अत्रा ३, ३, २१.  
 दीर्घ-संश्रव<sup>n</sup> - -यम् पावा १, २, ६.  
 दीर्घ-संश्लि(ष्ट >)ष्टा<sup>o</sup> - -ष्टे बौद्ध  
 १० : ४; २० : १६.  
 दीर्घ-सत्र- -त्रम् बौधी १४, १२ :  
 ३२१; पाग २, २, १३; भाग २,  
 २७ : ७; बौध १, २, ५५; -त्रेषु  
 दाथी ५, २, २; लाथी २, ६, १;  
 निस् १, ११ : ७.  
 दायसत्र- पा ७, ३, १.  
 दीर्घसत्र-वत् पापवा ७.  
 दीर्घ-सधि<sup>p</sup> - -धिम् उस् ७, ८.  
 दीर्घ-सं(ध्या >)ध्य<sup>q</sup> - -ध्यात्  
 अय ४१, ४, ८.  
 दीर्घ-सोम<sup>r</sup> - -मे बौधी ६, २८ :  
 ३७; वैधी १४, ६ : २; -मेषु  
 बौध १, ६, ७.  
 दीर्घ-इस्व-विवर्जित- -सम् याधि  
 २, ३१.  
 दीर्घा(र्ध-अ)क्षर- -राणि नाधि २,  
 ७, ३.  
 ऋदीर्घाधियः<sup>s</sup> ऋप्रा ९, २३; तैत्रा  
 ३, ५.  
 दीर्घा(र्ध-अ)न्त- -न्तम् वैध ३,  
 १९ : ४; अत्रा ३, ३, २१;

a) वैप १ द.। b) विप.। वस.। c) कस.। d) = [ दीर्घसब्द-वत्-] भक्ष-मन्त्र- [तै ३, २, ५,  
 १]। e) सया. दीर्घमप्या <> दीर्घद्वरा इति पाठे.। f) वस. > दस.। g) विप. > नाप. (सालावृद्धी)।  
 वस.। h) = दिक्षिम्- इति वृद्धतः। i) तु. पागम.। j) विप. (लघ्वन्तदीर्घाभ्यां वृद्धा-] विपयलिका-  
 [= विहितः])। k) = ऋधि-विधेय-। वस.। l) = साम-विधेय-। m) विप. (सृष्टः)। कस.।

-न्ताः अत्रा २, ३, ६.

दीर्घा(घं-अ)प्रसङ्ग- अः पावा १, १, ४८.

दीर्घा(घं-अ)भिनिष्ठान- > न-  
-न्म पाय १, १७, २.

दीर्घा(घं-अ)भिनिष्ठाना(न-अ)न्त-  
-न्त्वम् वैशु ६४ : ५१०; आमिथ २, १, ५ : २९; आपय १५, ९; वीथ २, १, २६१०; माय १, २६ : ७; वाय ३, १; हिय २, ४, १०१०; गोय २, ८, १४१०.

दीर्घा(घं-आ)यु- > यु-त्व- -त्वम्  
शाश्री १४, १२, २१; ११; आमिथ;  
-नृत्वस्य आपथी ४, १५, १;  
माश्री ४, २१, १; हिश्री ६, ४, १८; -नृत्वाय आश्री ६, १२, २;  
काश्री ५, २, १४०; आपथी ५, ११, ५; ८, ४, १०; वीथी; आपथ १, ६, १३१; २, १, ११; २०; ९, २०;  
कौथ १, २१, ८०; शाथ १, २८, ९०;  
पाय २, १, ९०; हिय १, ९, १२०;  
कौसु ४२, २३०; अशा १९, ४०;  
अस २, ४०; अर्ष २ : १९०.

दीर्घायुस्वा(न-आ)दि-

-दीनाम् शौच ४, १००.

दीर्घायुस्वाय > वा(य-आ)

दि- दिपु अत्रा २, ४, ८; शौच २, ५९.

दीर्घायु-पवी- -नी वायु १४, ३.

दीर्घा(घं-आ)युस्- -युषि अत्र ६, ७८.

दीर्घा(घं-आ)युस्- पावा ५, ३,

१४; -नृयुः आपथ १, ५, २१; ४;

२, ३, ३१; ७, १९; कौथ १, २१,

१२१; शाथ १, २८, १५१;

आमिथ; माय १, ११, १२१;

हिय १, २०, ४१; या. ४, २५;

अत्रा १४, ४९; -युषः निम् १०,

९ : २१; अय १८, ३, ११.

दीर्घायुस्-द्व- -द्वयय जिय १,

११ : ११०; १८ : ८; १०; १२.

दीर्घा(घं-आ)रम्भ- -म्भात् पावा १, ३, ९.

दीर्घा(घं-अ)दन्- (> दीर्घाहा-  
द्वी- पा.) पाय ४, १, ४५१.

दीर्घा/भू/दीर्घा-भाव- -वः  
मायि १०, ६.

दीर्घा(घं-उ)पल- -ले कौसु ३५, २६

दीर्घा(घं-उ)प(धा>)प- -पः

अत्रा ४, ७४; अत्रा ३, ३, ४१;

-पस्य अत्रा २, ४, ९.

दीर्घा- ✓ ६, ६ (विदारणे) द.

दीर्घायु-, दीर्घयत्-, दीर्घयति-

✓ दिव् द.

दीर्घायु- काश्री २६, ५, ४१.

दीस- (> दीस्य- पा.) पाय ५, १, २.

✓ तु पाधा. अत्रा. पर. गतो.

✓ तु, दू, पाधा. स्वा. पर. उपताये.

दाव- पा ३, १, १४९; -वाय वीथी

१८, १२; १३; -वाय कौसु ४६,

५४१; -वे कौसु २२, १९; ३०,

७; -वेन अत्राय २. ७; ५, ४.

दावा(घ-घ)मि- -मिना वैशु ५,

१ : १४; ७, ३ : ११; ४ : १४;

अत्र २, ९, १५; -मिम् पाय ३,

७, ३.

दावाभि-काष्ठ-संस्पर्श- -शौ

अय २३, १२, २.

दून- पाउभोद २, २, १८४; पावा

८, २, ४४.

दुकूल- पाउभो २, ३, ११२; -स्य

वैशु २, २ : ३.

दुः (<स्-रुस्- > कृत्-सुकृत्-  
विधिव- -धा अत्रा ११, ८.

✓ दुःस् पाधा. सुरा. उभ. दुःखकिया-  
याम्.

दुःख- पाय ३, १, १३१; १८; २७;

५, ३, ३६; १३१; ६, ३, १७०;

कि ६; -सम् यु १२, ३; ३०, १;

माय; -स्य अय ४८, ६५;

-सात् वृदे ७, ८८; १५३; पा

५, ४, ६४; -स्वानि अय ६८, १,

१८; शौच ३७५; विध ४३, ४५;

-साय अय ५४, २, २; -नृत्वे

वीथी १७, ४३ : ४; आपथ २,

२१, १९; आमिथ १, ४, १ : १७,

हिय १, १२, २.

दुःख- -साः वैशु ४, १४ : १६.

दुःख-जा(व>)वा- पाय २, २,

३७.

दुःख-दश(न>)ना- -नाः अय

५८, २, २.

दुःख-भागिन्- -गिनः अय ६८, १.

a) दस. > मत्वर्थीयः अच् प्र. १. °छा° इति पाठः ? b) दस. > वस. । c) °छान्ताम् इति पाठः !

यनि. शोधः (तु. घृ २९७ h) । d) वैष १ द. । e) पायं. वैष १, १६३९ j द. । f) पायि. वैष १, १६३९ l द. ।

g) वैष १, १६३९ k द. । h) < दीर्घायुस्वाय (श्री १, २२, २) । i) पाये. वैष १, १६३९ p द. । j) पाये.

वैष १, १३८८ d द. । k) विप. । वस. । l) तु. पागम. । m) व्यु. पाये. च वैष १, १६३९ r, s द. ।

n) = स्तेप- । तु. पागम. । व्यु. ? । o) या ६, ४ पराश्रयः द. । p) नाप. । व्यु. ? । q) विप. (तद्विज्ञ- b

यम-श्वर-). दस. > तुव. । वा. प्र. २ । पूषा. कर्तारि प्र. । r) सग. पाय ३, १४, १२; १३ दुर्गे इति पाये. तमेय

Böh (ZDMG ५२, ८२) समर्थकः द. । s) = दुःख-प्रद- । t) विप. । उभ. ।

३९; ४१; -गी वाच ६, ६.  
 दुःख-शोक-परीकृत-मा)मन्-  
 -त्मा वृद्धे ६, ३३.  
 दुःख-शोक-भय-प्र (दुः)दा-  
 -दा आप्तो १३, ८.  
 दुःखा √कृ पा ५, ४, ६४.  
 दुःखा(ख-अ)न्वित- -तानाम् विध  
 १९, २४.  
 दुःखा(ख-अ)विधा- -क्षया विध ९६,  
 ४१.  
 √दुःखाय पा ३, १, १८.  
 दुःखा(ख-आर्त)र्त्ता- -र्ताः अय  
 ६४, २, ३.  
 दुःखित- पा ५, २, ३६; -ताः विध  
 ३, ९८; वृद्धे ६, २८; ३४; -ताः  
 अय ५३, २, ४.  
 दुःखित्- पा ५, २, १३१.  
 √दुःख्य पा ३, १, २७.  
 दुग्ध-, दुग्ध्या √दुग्ध् द.  
 √दुग्ध्, दुग्ध् पाथा. भ्वा. पर. अर्द्धने;  
 अदा. उभ. प्रपुण्ये, दोहद वा  
 ११, ४३१; √दोहताम् आप्तो  
 १२, २०, ५; वीथी; √दोहै  
 आप्तो ४, ७, २, हितो ६, २,  
 १७; भाशि २८.  
 दुग्धे अय १०, १, २०; या  
 १, २०; √दुहे आधो २, १०, २१;  
 वीथी, माथी ४, १०, २१, काय  
 ४३, १८; दोषिच काथी २६,  
 ५, ५; आप्तो १, १२, १६××;  
 काथीमं; या ११, ४३; दुहते  
 आप्तो २१, २०, ७; दुहते  
 कीप् ९३, १९; ११२, १; १

अय १, ४८, ७; दुहे<sup>३</sup> यो ६,  
 ३३; दुहन्ति आधो ४, ७, ४, ५,  
 १२, १५; शाथी; √दुहाम् आप्तो  
 १६, ३४, ४; वीथी; या ११, ४५;  
 दुहन्तु सु ९, ४; √दुह्य वीथी २,  
 ८, ४××; काथी ३, ४, १०<sup>१</sup>; ४;  
 पाय ३, १, ५; या १०, १६;  
 √दुहिय आप्तो १, १३, १०;  
 वीथी, पुह्यम् आधो ६, १२,  
 ४; √दुह्य वीथी १४, २०; ६;  
 १७, ८; ९; दुहत् हितो ७, ८,  
 ६०; √दुहाम वीथी १८, २१;  
 ३४; दुहित आप्तो ९, ५, ५, ५,  
 १०, १६, ८××; माथी; दुह्यत्  
 आप्तो १, १२, १५×; काथीमं,  
 दुह्युः आप्तो ११, ४, १०.  
 अदुह्यत् तैमा ९, २२; दुहेत्  
 काथीमं ३६; ९.  
 √दुदुहे आप्तं २, २०, ३५,  
 आशित्; या ११, २८; दुदुहे  
 याशि २, ६०; दुदुह्युः हितो ९,  
 ५, ३६; √दुदुह्यमिदं वीथी  
 ३, १९; ८; १४, ९; ३७;  
 वीथी ११; १६; वंताथी १७, ८;  
 दुह्यत् ऋषा ४, ९८; √अदु-  
 ह्यत् आधो ४, ७, ४; ५, १२, १५;  
 शाथी ५, १०, ९; या १०, ३२;  
 अदुह्यत् वंताथी २४, १; १;  
 दुह्यत् ऋषा ४, ९८; √अदुह्यः  
 काथी ४, २, २४; आप्तो; पुक्षि  
 ऋषा ११, ८; उम् ६, ६.  
 √दुह्यते आधो ४, ७, ४<sup>२</sup>; शाथी  
 ५, १०, ८; √दुह्यते आधो ४,

७, ४; शाथी ५, १०, ८; दुह्यते  
 माथी ९, ८, ७; ११, १८, ७.  
 दोहयति काथी ४, २, २२××;  
 आप्तो; दोहयतः आप्तो ८,  
 ५, ३०; वीथी; दोहयत वीथी  
 ६, १०; ११××; दोहयत् शाथी  
 २, ८, ३; काथी; दोहयत्  
 लाथी १०, १५, ७; १६, १०.  
 अदुह्यत् विध ५५, ११.  
 √दुदुह्यत् ऋषा ४, ९८; दुदु-  
 ह्यत् शुभा ३, ५५.  
 दुग्ध, ग्ध्या<sup>३</sup> -ग्धम् आधो ३, ११,  
 ५; काथी; -ग्धस्य आधो ४,  
 ७, ४; शाथी ५, १०, १८; १;  
 आप्तो ८, १४, १४; हित् १५;  
 १६; -ग्धानाम् अय ६७, २, २;  
 -ग्धाभिः वीथी २७, १३; २;  
 लाथी ७, ९, ८; १०; या ५, ३१; १;  
 -ग्धाभ्यः या ५, ३; -ग्धाम् निम्  
 ५, १०; -ग्धायाम् आधो ४, ७,  
 ४; वीथी २७, १३; २; -ग्धासु  
 वीथी १, ३; २५; माथी; -ग्धे  
 आप्तो ८, ९, ८; १५, १७; वीथी;  
 पावा ४, २, ३६; -ग्धेन आप्तो.  
 दुग्ध-य(द्)र्त्ता<sup>३</sup> -र्त्ताम् सु  
 ९, ४.  
 √दुग्ध-भृत्<sup>३</sup> -भृत् आप्तो  
 ५, ८, ७, माथी १, ५, ३, ११;  
 हितो ३, ३, ३.  
 दुग्धा(य-अ)क- -वान् अय  
 ३६, २३, १.  
 दुग्धा(य-अ)क- -यस्य अय  
 ४५, २, १७.

a) या ३, ४ पराष्टः द.। b) दोहम् इति पाठः? यनि. शोधः (इ. काठ ३७, १४)। c) प्रपुत्र (या ७, १, ८)। d) पामे. वैपरी विन्वस्व काठ ५, २ इटि. द.। e) पामे. वैप १, १६४० f द.। f) परस्परं पामे.। मयुत्रे रुद्रामम. [हितो.]। g) पामे. वैप १, १६४२ b द.। h) पुक्षत् इति पवा.। i) सपा. तैमा ३, ७, १३, १ दुदुह्युः इति पामे.। j) पुक्षत् इति पवा.। l) सकृत् पामे. वैप १, १६४२ c द.। i) संहितायां चकारस्य दक्षारः स्मारितः। m) वैप १ द.। n) विप.। बस.।

दुग्धाक्ष-पान- नम् अप १,  
४८, १.  
दुग्धा(श्व-भा)शित्- -शितः  
वैष १, ८, १.  
दुग्धा आधौ ३, ११, ३; काधौ.  
दुग्धु<sup>०</sup> - -क्षुः वैष ५, ४ : २४<sup>०</sup>;  
दुह<sup>०</sup> - -हेन माधौ ६, २, ४, २.  
दुहत् - -हन् अप ६८, २, ३; विष  
५, १३९; -हन्तः या २, ५<sup>०</sup>;  
-हन्ता या ६, २६<sup>०</sup>०.  
दुहा<sup>०</sup> ✓कृ. दुहाञ्छिन् वीधौ १८,  
२९ : १५.  
दुहान्, ना<sup>०</sup> - -नः वीष् ५, ७, २;  
उनिष् ७ : १५; -ना आधौ ८,  
१०, १; काधौ; या ११, २९;  
-नाः आपधौ १, २, ८×४;  
वीधौ; -नाम् वीधौ १, १७ : २४;  
आमिष् १, ७, ३ : ३७; ३, ११,  
२ : ९.  
दुह्य<sup>०</sup> - पावा ३, १, १०९.  
दुह्यमान, ना<sup>०</sup> - नम् काधौ २५, २,  
५; आपधौ १५, ६; ८; वीधौ;  
-ना आधौ ३, ११, १; ७; आपधौ;  
-नाम् आपधौ १, १२, १७<sup>०</sup>;  
६, ४, ४; भाधौ; -नायाम् वाधौ  
५, १०, ८; -ने आधौ ५, १२,  
१८; भाधौ १, १३, ४; जैधौ  
२३, ११; जैधौका ५७.  
दुह्युष् जैधौका ५६.  
दुह्युष् > -ज्यौ - -ज्यौ वृदे ३,  
५०; ७१<sup>०</sup>; -ज्यौणाम् अप  
७२, ४, ७; -ज्यौम् वाधौ ८,

१८, ११<sup>०</sup>; भाधौ ४, ३, १; १३;  
-ज्यवा भाधौ ४, ३, १५; २९;  
-ज्यवौ भाधौ ४, २, ६.  
दोष्<sup>०</sup> - -दुग्धन-पर्येतपावा-घटन-  
घट्याभरण-भूषण-योजन-सेल-  
मण्डीपथमैपज्यक्रिया-प्या-  
स<sup>०</sup> - -सनाम् काध २७१ : ४.  
दोष्<sup>०</sup> - -धेन्व (दु-म) षक-प्र-  
(द >) दा- -दाः अप ३६,  
२०, १.  
दोष्<sup>०</sup> - -ज्या आपधौ १, १२,  
१४; वैधौ ३, ७ : ८, १२; हिधौ १,  
३, ३७; -ज्यास् वाधौ १, २, २,  
२१; वैधौ ३, ७ : १२; २०,  
५ : १.  
दोष्<sup>०</sup> - -ज्यम् वैधौ १३, ४ : ५;  
-ज्ये आपधौ १५, ३, १०×४;  
भाधौ.  
दोष्<sup>०</sup> (व >) या<sup>०</sup> - -ये माधौ  
४, १, २०.  
दोह<sup>०</sup> - पाप ५, १, ६४; २, ३६; -<sup>०</sup>हः  
शाधौ ४, २१, ३<sup>०</sup>; १३, १२, १३;  
काधौ; -<sup>०</sup>हम् आधौ ५, १३, ६;  
शाधौ; -<sup>०</sup>हयोः भाधौ १, १५, ४;  
भाधौ १, ३, ५, १९; वाधौ १,  
३, ४, ३२; नीत् ३, ६, २८; -<sup>०</sup>हस्य  
भाधौ ९, २, ७; -<sup>०</sup>हाः पाष् ३,  
३, ५; -<sup>०</sup>हात् हिधौ २, ६, ५२;  
-<sup>०</sup>हात् अप ६८, ५, २०; -<sup>०</sup>हात्पाम्  
आधौ २, २०, ३; -<sup>०</sup>हे आपधौ  
१७, १२, १३; हिधौ १२, ३,  
१४; वीष् ४११; ४३२; -<sup>०</sup>हेन

शाधौ ५, १०, ८; -<sup>०</sup>हो आपधौ  
२, ११, ८; ९, १, ३१; भाधौ.  
दोहिक- पा ५, १, ६४.  
दोहिक-म(व >) मा- -माः  
आधौ ४, १२, ५; वीधौ ३,  
१९ : ७; भाधौ ४, १८, ३; वीधौ  
७, ६ : १२; हिधौ ६, ३, १३.  
दोह-काल- -कम् वीष् २, ९, १;  
-<sup>०</sup>के आपधौ १५, १८, १.  
दोह-पवित्र<sup>०</sup> - -त्रे आपधौ १,  
११, १०; वैधौ ३, ६ : ८; हिधौ  
१, ३, १३.  
दोह-प्रसृति- -ति काधौ ४, १४,  
३१.  
दोह-स्थान- -ने काधौ २५, ६,  
२; हिधौ १५, १, २५.  
दो(ह >) हा-दोह<sup>०</sup> - > दोहादो-  
हीय<sup>०</sup> - -यम् जैधौ २३ : ११.  
दोहादोहीय-सामन्- -म  
जैधौका ५७.  
दोहा(ह-म) पनय- -यः नीत् ९,  
४, ३६.  
दोहित- पा ५, २, ३६.  
दोहन<sup>०</sup> - नम् काधौ ४, ४, ७; ८,  
९, २५; २५, १, १५; आपधौ;  
-ने आपधौ १, १३, १०; वीधौ;  
-नेन काधौ १८, ४, २; आपधौ.  
दोहनी<sup>०</sup> - -नी वैधौ ११, ८;  
५; अप ९, २, ३; -न्याम् वीष्  
२५, १७.  
दोहन-कथय- -कथेन भाधौ ६,  
९, ३.

a) विष. 1. उ. प्र. (पा ३, २, १६८)। b) द्वि इति पाठः। यनि. श्लोकः (त. C.)। c) नाप.  
घनर्थे कः प्र.। d) वैष इति निर्दिष्टानां समवेष्टाः द्र। e) पाप्मे. वैष १, १६४३० द्र.। f) दोष्<sup>०</sup>  
इति पाठः? यनि. श्लोकः (त. संस्कृतः टि.)। g) पस. > दस. > सल.। h) नाप.। कर्तारि वृच् प्र.।  
i) = दोहन-वात्र.। अविचरणे ह्यत्। j) विष. (उल्हा-).। स्वार्थीयः च > इयः प्र. उल्ले. (पा ४, ४, १४१)।  
k) वैष १ द्र.। l) वैष २, ३६. द्र.। m) = घान-विशेष-। n) नाप. नाप.।  
भावाऽधिष्ठणयोः प्र.।



दोहन-काष्ठ- छे माथी ११, १८, ४.

दोहन-पवित्र- -अस्य बोधी २०, ३: ३३; ४: ११; १२: १; -त्रे दाथी १२, ३, ५; लाथी ४, ११, ७.

दोहन-अमृति- -ति अत्राय ४, ३. दोहन-संशालन- -नम् आपथी ६, ६, ७; माथी १, १, ३, ३२; वैथी २, ३: २.

दोहना(न-आ)दि- -दि आथी ३, ११, १०.

दोहना(न>)ना- -नाम् आपथं २, २०, ३३; आमिष्ट ३, ६: १; भाष्ट २, १७: २; हिष्ट २, १५, ९.

दोहयित्वा आपथी १, ११, १०<sup>१</sup>xx; बोधी; अत्राय १, ३; ४, ३<sup>३</sup>.

दोहिन- पा ३, २, १४२.

दोष, घा- पा ६, १, २१४; पावा ३, १, ९०; -पूँषा आपथी ५, ८, ७, माथी ९, ८, ४६; माथी १, ५, ३, ११; वैथी १, ८: २, हिथी ३, ३, ३; -घान् या १, २०.

दोषमान, ना- -नाम् बोधी १, ३: १८; -नाम् बोधी २०, १: ४१; -ने बोधी ३, २४: ४.

धोक्ष्यमा(ध>)णा- -णा बोध् ६२, २११.

दुष्पु(न>)ना<sup>०</sup>- -ना अत्रा ३, ४, १; शीय २, ६१; -नाये माष्ट २, १६, ३.

दुष्पुनाय, दुष्पुनायते आथी

३, १३, १८; आपथी ३, ११, २; माथी ३, १०, २; माथी २, ५, ४, ९; हिथी २, ६, ११; वैताथी २३, १२; अत्रा ९, १६.

दुष्पाशि<sup>०</sup> जैष्ट १, ८: १५<sup>०</sup>.

दुष्प<sup>०</sup>, दुष्पति अत्र ४८, १८; निय २, १२.

दुष्प<sup>०</sup> - -ध बोधी १०, १९, १०<sup>०</sup>;

दुष्पु- √डह द.

दुष्पु<sup>०</sup> - -भा<sup>०</sup> चव्यू २: ७.

दुष्पुभि<sup>०</sup> - पाउना ५, ८६; -भय: अत्र ७१, १५, ८; -पुंभि: आपथी १६, २६, १; शीथी; या ९, १२४; २१; अत्रा ३, ४, १; -भिना बोधी १६, ३: २०;

-भिम् आथी ८, ३, १९; शीथी;

-भीम् शीथी १५, ३, १४xx;

काथी; लाथी ४, २, २३<sup>०</sup>; ३, १९;

-भीनाम् बोधी ११, १२: ५;

२२, १३: २०; आमिष्ट ३, १०,

४: ६; अत्र ७१, १३, २; -पुंभे

दाथी १०, ३, ४<sup>१</sup>; लाथी ३, ११,

३<sup>१</sup>, काष्ट १७, २; वाष्ट १३, ४;

या ९, १३; यासि २, ६४, -भे:

वृदे ५, ११२, -पुंभो बोधी २,

५: १९; दाथी ११, २, ३;

लाथी ४, २, २.

दुष्पुभि-देवता- > ष्य- स्वम् अत्र ६, १२६.

दुष्पुभि-नाद- -दम् अत्र १९<sup>१</sup>, ५, १.

दुष्पुभि-वत् अत्र ७०<sup>१</sup>, २, ५.

दुन्दुभि-वाहन- -नम् वाधुधी ३, ७६: १०.

दुन्दुभि-विमोचन-> नीय, या- -यम् आपथी १८, ५, २; वैथी १७, १४: २; -याम् हिथी १३, १, ५९<sup>०</sup>.

दुन्दुभि-वद्- -द: आपथी २४, १, ३६; हिथी १, १, १४; -स्वेन: काथी १२, ३, ८<sup>१</sup>; आपथी २१, ६, १४; हिथी १६, ३, १५.

दुन्दुभि-वेचन- दुन्दुभि-वेवण- टि- द.

दुन्दुभि-वेवण- पा, पाग ८, ३, ९८<sup>१</sup>.

दुन्दुभि-स्वन<sup>०</sup> - -न: अत्र ७०<sup>१</sup>, २, १.

दुन्दुभि-स्व या ९, १२.

दुन्दुभि-अधिक<sup>०</sup> - -क: वैथी १७, ११: ९.

दुर्<sup>०</sup> वा १, ३; अत्रा ५, ५५; १२, २०; १५, १७; शुभा ६, २४; ऋत ३, ८, ४; या, पाग १, ४, ५८; दुर्- पावा ६, ३, १०८; ८, ४, १६<sup>०</sup>.

दुर्<sup>०</sup> - पाउभो २, १, ३०३; दुर्: आथी २, १६, ९; ३, ३, १; शीथी- दुर्: प्रभृति<sup>०</sup> - -तप: आपथी ८, २, १५; -तीन् आपथी ७, १४, ९; वैथी.

दुर्<sup>०</sup> - -वां: आपथी १, १८, ४; बोधी; -यान् बोधी ६, १७: १२<sup>०</sup>, २५: ३; माथी.

दुर्-अग्नि<sup>०</sup> - -भिना अत्र २, ९, १४.

a) = दोह-यवित्र-। b) वैष १६.। c) = वातप्रहविरोध-। d) सवा. वाष्ट १, १६, २३ द्रोणास:

इति पामे.। e) = मैत्रायणीय-भेद-। व्यु. ?। f) प्रोकार्थस्य प्र. बहुवे लुक्। g) पुंभि इति पाठः ? यनि. शोधः। h) परस्परं पामे.। i) भौपवाजनकैः इति पाठः ? यनि. शोधः (यु. चीसं. विद्याधरध्व)। j) 'वेचन- इति पाठा. ?। 'वन- इति (पक्षे) BPO.। k) विप.। वस.। l) विप.। m) अन्व.। n) दु. पांति.। o) पू. = प्रेष-प्रतीक-इति भाष्यम्.। p) दू इति पाठः ? यनि. शोधः (यु. सप्र. तै १, २, १०, १)। q) प्रास.।

दुर्-भक्ति-क्रम- -भः विध २०, २७;  
-मम् विध ८५, १७.

दुर्-भक्त(भ्)भा<sup>०</sup> - भ्ना भ्रा ३,  
४, ११.

दुर्-अभक्त<sup>०</sup> - > <sup>०</sup>(न्य->)न्या<sup>०</sup>-  
-न्याम<sup>०</sup> आपथी ६, २०, २;  
वाथी १, ५, ४, २०; द्विथी ६, ६,  
२४.

दुर्-अभक्त(नि)नी<sup>०</sup> - न्या<sup>०</sup> वाथी  
१, ३, ७, १२; -न्यै<sup>०</sup> वीथी १,  
२० : २५.

दुर्-अधीत<sup>०</sup> - ते वीथी २८, ११ : १.

दुर्-अनु-कर<sup>०</sup> - राणि या ५, २५.

दुर्-अनु-(ग)गा<sup>०</sup> - या वीथ १,  
१, १३.

दुर्-अनूचान- नः वाथी ४, १० :  
२४.

दुर्-अय<sup>०</sup> - न्यम् या ३, १९.

दुर्-अय<sup>०</sup> - न्याः या ४, ५.

दुर्-अयगत- तम् वीथी १८, १२ :  
१६.

दुर्-अश<sup>०</sup> - शः वीथी १८, २८ : ८<sup>३</sup>;  
-शन वीथी १८, २७ : १.

दुर्-अस्य<sup>०</sup> > दुर्-स्यु- -स्युः आपथी  
६, २१, १; ११, ११, १; द्विथी  
१, ६, ७४; ७, ६, १२; पा ७, ४,  
३६; -स्यु<sup>०</sup> आमिष्ट १, १,  
२ : २४; ५, ३ : १७; काट  
२५, २८<sup>१</sup>; माष्ट १, ८ : १२;  
१६ : १; द्विष्ट १, ४, १; १९, ८.

दुर्-आगत- ते वीथी २८, ११ : १.

दुर्-आचार<sup>०</sup> - नः वाध ६, ६.

दुर्-आढ्य-कर, -भव<sup>०</sup> - पा ३, ३,  
१२७.

दुर्-आत्मन्<sup>०</sup> - तननाम् वाध २०, ३;  
-तननाम् या १४, २९.

दुर्-आत्म-क<sup>०</sup> - कम् सु ५, ४.

दुर्-आ-घर्ष, पा<sup>०</sup> - नपंम् आपथी ६,  
१७, १०; भाथी ६, ४, ४; द्विथी  
६, ६, १६; -पा<sup>०</sup> माथि १५, ७;  
-पा<sup>०</sup> वा १४, २५; -नपंम्  
आमिष्ट २, ६, १ : २९; माष्ट २,  
१३, ६.

दुर्-आय<sup>०</sup> - न्यम् विध २५, १७.

दुर्-आ-पूर<sup>०</sup> - नः शीथी ४, २०, १.

दुर्-आर्द्धि<sup>०</sup> - ऋथै<sup>०</sup> वाथी १, ३,  
७, २०.

दुर्-आर्ध(र्ध)र्द्धि<sup>०</sup> - ऋथै<sup>०</sup> आपथी  
३, ११, २; वीथी १, २१ : १३;  
भाथी ३, १०, २; द्विथी २, ६, ११;  
कीष्ट १, ५, २९; आमिष्ट १, ५,  
२ : १६<sup>१</sup>.

दुर्-आश<sup>०</sup> - शम् वाथी १४, ३२,  
१.

दुर्-आ-हर<sup>०</sup> - नः सु ११, २.

दुर्-आहा<sup>०</sup> - हा कीम् १६, १९;  
भ्रा ३, ४, १.

दुर्-इत<sup>०</sup> - तम् माथी १, ८, ४, ४०<sup>१</sup> फ;  
द्विथी; निष ४, ३ फ; या ६, १२;  
-नपंम् माथी १, ६, ४, २१;

वाथी १, ५, ५, ७; -नपंम् वीथी  
६, ५ : ६; २७, ६ : १४; २८,  
१० : ८; माष्ट १, ६, ७; द्विष्ट १,  
४, ४<sup>१</sup>; या ७, २० फ; १४, १३ फ;  
-नपंम् वाथी ४, २, २<sup>१</sup>; लाथी  
२, २, ११<sup>१</sup>; आपथी; -तननाम्  
वाध २७, २०; -नपंम् आपथी  
६, २३, १ x x; वाथी; माष्ट  
२, १७, १<sup>१</sup>; या ६, १२ फ; ७,  
२०; १४, २३; -तेभ्यः वीथ  
१, ७१.

दुर्-इति(त-च)पनृष्टि- -ष्टिम् अय  
७, ६५.

दुर्-इति<sup>०</sup> - इतिम् आपथी ५, २, ११<sup>१</sup>.

दुर्-इति-प्र<sup>०</sup> - प्रम् वीथी २, ५ : १८.

दुर्-इष्ट<sup>०</sup> - ष्टम् आपथी ७, २८, ४<sup>३</sup>;  
वीथी १२, ४ : ३६ x x; वैथी;  
-ष्टम् माथी ३, ५, ७<sup>१</sup>; -नपंम्  
आपथी ४, १०, ३; वीथी;  
-तननाम् वाध २७, २०; -ष्टेभ्यः  
वाथी १, ३, ७, २०<sup>१</sup>.

दुर्-इष्ट-शमन-क्षम- -नान् अय ७०,  
१, ४.

दुर्-इष्टि<sup>०</sup> - ष्टेः माथी ३, ६, २७;  
-ष्टेभ्यः<sup>०</sup> वाथी १, ३, ७, १२;  
-ष्टेभ्यः आपथी ३, ११, २<sup>१</sup>;  
वीथी १, २० : २५<sup>१</sup>; २१  
१२; भाथी ३, १०, २; वाथी १,  
३, ७, २०<sup>१</sup>; द्विथी.

दुर्-उक्त<sup>०</sup> - कम् कीष्ट २, १, २९<sup>१</sup>;

a) गस. उप. खलु प्र.। b) वैप १ द.। c) = दुर्-भक्तनी-। d) स्वार्थे यत् प्र.। e) सपा. वाध ५, १३ दुर्भक्त्याम् इति पाठे.। f) पाठे. वैप १, १६४६ ज.। g) गस. उप. <गम्। h) = क्तु-विशेष-। गस. उप. √अक्ष (व्याप्ती) + खलु प्र.। i) पाठे. वैप १, १६४६ ज.। j) चक्षयः इति पाठः ? यनि. शोधः (द. शी १०, ३, १ आमिष्ट. प्र. च)। k) विप.। वस.। l) विप.। उस.। m) वैप २, ३३६ द.। n) परदारं पाठे.। o) चैव इति पाठः ? यनि. शोधः। p) उप. खलुर्धे यत् उसं. (या ३, १२६)। शेषं टि. द.। q) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द.। r) पाठे. वैप १, १६४० द.। s) पाठे. वैप २, ३३६. दुर्भक्त्याम् इति ६, १, २७ टि. द.। t) पाठे. वैप १, १६४० द.। u) पाठे. वैप १, १६४० द.। v) पाठे. वैप १, १६४० द.। w) दुर्-रि<sup>०</sup> इत्येवं सतो रेफलोपे वीथीऽभावात् उक्तं. (या ६, ३, १११)। x) पाठे. वैप १, १६४० द.। y) पाठे. वैप १ स्वित्थै काठ ५, ४ टि. द.। z) दं इति पाठः ? यनि. शोधः।

पाण्डु २, ८०; अथ ४०, ६, १२९;  
 -कात् श्रापमं २, २, ९; शाय  
 २, २, १०; काय ४१, ११०;  
 माय; या ३, १६९; -काय  
 या ३, १६९; -के बौध ३, ५,  
 १३.  
 दुरुक्त-वचन- नम् काय ३, १६;  
 माय १, २, १९; वाय ९, १९.  
 दुर्-उदित<sup>१</sup> - तम् बौध ४, २, ११;  
 श्रापमं १, १३, ५; माय २, ३१;  
 ११.  
 दुर्-उपचार<sup>२</sup> - सा: बौधो १८, ४४;  
 ११.  
 दुर्-उपयुक्त - कात् शाय ६, ६,  
 १६.  
 दुर्-क्रधि<sup>३</sup> - दि: बौधो २, ५: ९.  
 दुर्-पव<sup>४</sup> - वै: अथय ६, ९.  
 दुर्गोण<sup>५</sup> - पाउमोत् २, २, १८४;  
 -नृणम् अथय ६, ९; अथ ४८,  
 ८९; -नृणे आधो ५, ९, २६;  
 शोधो, श्रापमं १, ६, १२१; या  
 ४, ५६, ८, ५६.  
 दुर्गोण-सद् - सव या १४, ३११६.  
 दुर्-ग, गा<sup>६</sup> - पावा ३, ०, ४८; -गंम्  
 श्रापमं १, ६, १०१; काय; -गां  
 शंघ १०५, बौध ४, ३, ७; विध  
 ५६, ९; वदे २, ७७; -नृगंलि  
 बौधो २८, १०: ७; अथ १,  
 ५०, ८९; या ७, २०६; १४,  
 ३३६; तैत्रा ७, १०. -गाम्  
 बौधो २८, १०: ५; वैधो २०,  
 २७: १; श्रापिथ ३, ९, २: ८,  
 -गो पाण्डु ३, १४, १२६, १३६,  
 वदे ६, १३७.

दुर्गा ( गं-आ ) पति- -त्ती अथय  
 ३, ९.  
 दुर्गा-पूजन- नम् अथ १८, २, ४.  
 दुर्गा-मनस्वतो-महास्वाहाति- -त्ती:  
 बौध ४, ८, १; बौधि २, ६, १२.  
 दुर्गा ( गं आ ) सारा ( र-अ ) माय-देव-  
 दण्डा ( एह-आ ) कन्द ( न्द-२आ )  
 घ-गुण-विधि- -त्त<sup>७</sup> - अ:  
 शंघ २५३.  
 दुर्गा<sup>८</sup> ( > दौर्गायण- पा. ) पाग ४,  
 १, ९९.  
 दुर्-गति- -तिम् कौशि ६३.  
 दुर्गति-गमन- -नानि या ६, १२.  
 दुर्-गन्ध<sup>९</sup> - न्धे कौश १४१, ३९;  
 अथ ७०, ६, १.  
 दुर्गन्ध- ( घ > ) सा- -साभि: बौध  
 १, ५, १४.  
 दुर्गन्धि- -न्धो शंघ ३७८.  
 दुर्-गन्धि<sup>१०</sup> - -न्धि विध ९६, ४६.  
 दुर्-गाम- -गामि या ७, २०; १४,  
 ३३.  
 दुर्गो ( म-अ ) प्वान-गमन- नम्  
 अथ ६८, ५, ११६.  
 दुर्-गह<sup>११</sup> - हा आधो २, १३, ८१.  
 दुर्-गृभि<sup>१२</sup> - > / दुर्गृभीय, दुर्गृ-  
 भोपसे श्रपा ८, १७१.  
 दुर्-गोप<sup>१३</sup> - पा: वाधूथो ४, ६१: ३;  
 ८६: ५.  
 दुर्-जन<sup>१४</sup> - > न-वर्जि ( त > ) जा-  
 -ताम् बौध ३, ३, २२.  
 दुर्-जीयित - > दीर्जीवित<sup>१५</sup> - -रथम्  
 अथ ३२, १, ८१.  
 दुर्-क्षेय- -या: शंघ ५.  
 दुर्-णा ( < ना ) मन्<sup>१६</sup> - सा माय २,

१८, २<sup>१</sup>; या ६, १२६; -न्न:  
 शौघ ३, ८४.  
 दुर्-णा ( < ना ) श<sup>१७</sup> - -श्रुश: -शस्व<sup>१८</sup>  
 बौधो १८, ३८: १९६; -देन  
 बौधो १८, ३८: ९.  
 दुर्णाश-व- -त्वम् बौधो १८, ३८:  
 १६.  
 दुर्-दर्श<sup>१९</sup> - शंम् श्रापथ १, २२, ८;  
 दिध १, ६, ८.  
 दुर्-दर्शन- पावा ३, ३, १३०.  
 दुर्-दिन<sup>२०</sup> - नम् कौम् ३८, १.  
 / दुर्दिनाय पावा ३, १, १७.  
 दुर्दिन<sup>२१</sup> - न: बौधोत्र ६: २.  
 दुर्-दग्- -दशाम् अथ ६८, ४, ४.  
 दुर्-धरण- पावा ३, ३, १३०.  
 दुर्-धाव- -य: या ४, १०.  
 दुर्-धी<sup>२२</sup> - धिय: या ५, २३; १०, ५:  
 -धियम् या ५, २.  
 दुर्-ध्यात- -उम् अथ ४०, ६, १२.  
 दुर्नाम<sup>२३</sup> - > दुर्नाम-कण्ट-कम्पु-  
 -म्बनाम् अथ ७०, ४, ७.  
 दुर्-नि-यन्तु<sup>२४</sup> - -न्तु: श्रपा ५, ५११.  
 दुर्-यल<sup>२५</sup> - -ल: काथो २५, ७, १;  
 पाण्डु ३, १४, १२; वप्र ३, २, २:  
 या ६, २८; -लम् श्रापिथ ३,  
 १२, १: १३; कप्र ३, ३, ३:  
 शैशि १९३; नाशि २, ५, ३;  
 -लथय शैशि १९२; याशि २,  
 २८; माशि ६, ३; नाशि २, ५,  
 ३; -ला. अथ ६८, १, ३९; ४१;  
 ४४, विध ४५, ३३; -लाय<sup>२६</sup>  
 बौध २, ३, ५०.  
 दौर्बल्य- -दशाय नाशि १, ४, ७.  
 दुर्बल-हिंसा- -सायाम् बौध २१,

a) पाणे. पृ १६९१ ब. ६. b) गय. उप. < / वद्. c) विप. चस. d) प्रास. e) वैप १  
 ६. f) पाणे. वैप १, १६४९ ग. ६. g) पाणे. पृ १२८७ ग. ६. h) दस. > वस. > वस. > दस. > उस. i  
 j) = श्रुति-विशेष-। म्यु. १। j) = श्रुति-विशेष-। म्यु. १। k) दुर्गाम् अथवा इति पाठः इति यति. शोधः (तु. शंघर्तु-  
 दि. म्यु. च)। l) = श्रुति-विशेष-। m) = श्रुति-विशेष-। म्यु. १। n) वैप १, १६५१ n, ०. ६।

|  |   |  |
|--|---|--|
| ११.<br>दुर्बली ✓भू > दुर्बली-भवत्-<br>-वन्तम् कौमु ८०, ३.<br>दुर्-भाक्षण <sup>०</sup> - भास्य आपथी ११, २,<br>८; भाथी ११, १२, १८; वैथी<br>२३, १५ : ५; हिथी २४,<br>५, ८.<br>दुर्-भग, गा <sup>०</sup> - पाग ४, १, १२६; ६,<br>३, ३४; -गः शंघ ३७७; -गम्<br>अप २६, ३, १; -गा वौथी २६,<br>१ : १३; कप्र २, ९, ८; अय ६९,<br>५, १; वृदे ७, ४२; -गत् अय<br>३५, २, ८; -गाम् कप्र २, ९,<br>१०.<br>दौर्भागिन्येय- पा ४, १, १२६.<br>दौर्भाग्य <sup>०</sup> - णियम् माप १, १९,<br>४; २, १४, २६; ३१; -ग्यात्<br>अप ३५, २, ८.<br>दौर्भाग्य-> ग्या <sup>०</sup> - ग्या<br>आमिष्ट २, ७, ६ : ९.<br>दुर्-भिक्ष <sup>०</sup> - क्षम् अप ५०, ३, १; १,<br>१××; -क्षे भाप ३, १४ :<br>२११; अय २३, ११, २; ६९, ४,<br>१; या ६, ५ <sup>१</sup> ; -क्षेण अप ५१,<br>१, ५××.<br>दुर्भिक्ष-लक्षण - गम् अप ७० <sup>१</sup> , ८,<br>३; ४.<br>दुर्-भूत <sup>०</sup> - तम् आपथी २१, १९,<br>११; वौथी १६, २२ : ६; वाथी<br>३, २, ५, ३९; हिथी १६, ६,<br>३१.<br>दुर्-भ्रातृ <sup>०</sup> (> दौर्भ्रातृ- पा.) पाग | ५, १, १३०.<br>दुर्-मति <sup>०</sup> - विम् आपथं १, ६,<br>१२; काप २६, ११; वौथ ४, २,<br>१४; या १०, ४२.<br>दुर्-मति <sup>०</sup> - तिः अप ३, १, ६ <sup>१</sup> ;<br>-तिभिः वाप ३०, १०.<br>दुर्-मद <sup>०</sup> - दः माथी ६, १, २, २६;<br>वाथी २, १, १, ५०; -दासः या<br>१, ४.<br>दुर्-मनस् <sup>२</sup> (> √दुर्मनस्य पा.)<br>पाग ३, १, १२.<br>दुर्-मनस् <sup>३</sup> (> दौर्मनसायन-<br>पा.) पाग ४, १, ११०.<br>दुर्-मर <sup>०</sup> > √दुर्मेराय > दुर्म-<br>रायु - युः आपथी ४, ७, २;<br>माथी ४, १०, ३; हिथी ६, २,<br>१७; -युम् आपथी ४, ६, ५;<br>वौथी.<br>दुर्-मर्ष <sup>०</sup> - र्षम् आपथं २, ११, ३११.<br>दुर्-मर्षण - पावा ३, ३, १३०.<br>दुर्-मित्र, प्रा <sup>०</sup> - णिः प्राः वौथी २, ५ :<br>२९ <sup>१</sup> ; ४, ७ : २८ <sup>१</sup> ; ८, २० :<br>१५ <sup>१</sup> ××; माथी ४, ४, २२ <sup>१</sup> ; वैथी<br>१६, २५ : १५ <sup>१</sup> ; प्राथी ४, २, २ <sup>१</sup> ;<br>आमिष्ट; -प्रासः वा ६, ६ <sup>१</sup> .<br>दुर्मित्रि(य>)वा <sup>०</sup> - णिः वाथी<br>८, १२, ११, वाथी १९, ५, १५;<br>लाथी २, २, ११; ५, ४, ६.<br>दुर्मि(त्र्य>)ग्या <sup>०</sup> - ग्याः <sup>१</sup> आथी<br>३, ५, ९; प्राथी १२, ३, २२.<br>दुर्-मित्र, ब्रा <sup>०</sup> - पाग ४, १, ९६ <sup>१</sup> ; -त्र.<br>क्रय २, १०, १०५; वृदे ८, १७; | साश्र १, १९६; २२८.<br>दौर्मिधि- पा ४, १, ९६.<br>दुर्-मेधस् <sup>०</sup> - पा ५, ४, १२२; -धा<br>अप १, ३, २.<br>दुर्-मे- दुर्- द.<br>दुर्मेमन्याम् <sup>१</sup> वाप ५, १३.<br>दुर्मेण्यः अप २ : ६.<br>दुर्मेण्य <sup>०</sup> - ण्यम् क्रप्रा २, ७५; वस २,<br>१६; १७.<br>दुर्-मेधन- पा, पाग ५, ३, १०० <sup>१</sup> ;<br>पावा ३, ३, १३०.<br>दुर्-लभ <sup>०</sup> - पा ७, १, ६८; -भम् अप<br>२२, १०, २; ४१, ४, ६.<br>दुर्-लाम- पा ७, १, ६८.<br>दुर्-लाम- आ. पर. हिंसावाम्.<br>दुर्-वरादे(ह-प)इक <sup>०</sup> - कः आपथी<br>९, १०, १५.<br>दुर्-वर्तु <sup>०</sup> - र्तुः या ४, १७ <sup>१</sup> कृ.<br>दुर्-वार <sup>०</sup> - रः वा ४, १७.<br>दुर्-वाल <sup>०</sup> - ल्वात् गौथ १७, १६; २१,<br>११.<br>दुर्वाल(ल-आ)दि- वीत् गौथ १५,<br>३०.<br>दुर्-वासस <sup>१</sup> - ससम् जैप १, १८८.<br>दुर्-वि-चिन्तित- लम् अप ४०, ६,<br>१२; शंघ,<br>दुर्-वि-क्षेय- यानि आय १, ५, ४.<br>दुर्-वि-चकृत्- क्तुः आपथ १,<br>३२, २४; हिथ १, ८, ६५.<br>दुर्-वृत् <sup>०</sup> - लम् वाप ६, ४४.<br>दुर्-वृत्(ण>)णा <sup>०</sup> > √दुर्हणाय ><br>णायत् - वसः क्रप्रा ८, २७ <sup>१</sup> कृ. |
|--|---|--|

a) प्रास. 1 b) वैप १२. c) = दौर्मनस्यवृत्ता-वृत्ति. d) ऋद्धयैऽनवार्यै वा अत. उप.

< √भिष्णु [लाभे (दु. भा [तिस्रा १, ४, ३)] = √विद् [लाभे]। e) विप. > नाग. 1 वस. 1 f) = क्रपि-  
विशेष- 1 g) विप. 1 वस. 1 h) व्यप. 1 वस. 1 i) पाभे. वैप १, १६५२ i द. 1 j) विप. 1 स्वार्थे यत्  
प्र. वसं. (पा ४, ४, ११०)। k) = नारी-विशेष- 1 l) पाठः ३ पाभे. ७ १२११ d द. 1 m) वैप १,  
१६५२ 0 द. 1 n) = व्यप. 1 दु. पागम. 1 o) गस. उप. खलन्तम्। p) प्रास. > सलो. क्रस. 1  
q) = खलति- 1 वस. उप. = मूर्धन- 1 r) = आचार्य-विशेष- 1 वस. 1 s) पाभे. वैप १, १६५३ ० द. 1

†दुर्-ह(ण् >)ण् - ०ण् बीधौ ९,  
१८ : १५; बीध् ४, २, १०.

दुर्-हल- , णि- पा ५४, १२१.

†दुर्-हार्द- - हार्दः द्राघी १०, ३, ४;  
लाघी ३, ११, ३; अम १९,  
३५; -हार्दम् कौस् ४२, १७.

†दुर्हार्दिशः कौस् ७०, ११.

दुर्-हि(त >)ता- - ता या ३, ४.

दुर्-हुत- - तम् अप ४०, ६, १२.

दुर्-हण- > √दुर्हणाय > †दुर्हं-  
णायु- - युः आधौ २, १८, ३;  
-युर् या १४, २५४; शैचि  
३३६.

दुर्-हृद्- (> दौर्हृद- पा.) पाग ५,  
१, १३०.

दुर्-हृदय- (> दौर्हृदय- पा.) पाग  
५, १, १३०.

√दुल् पाथा. जुरा. उम. उत्सवे.

दुल- (> दुल्य- पा.) पाग ४, २,  
८०.

†दुला- - ला बीधौ १०, ४५ : २२;  
आपमे २, १६, ८६; भाए २, ७ :  
२२६; हिण् २, ७, २६; विष ६७,  
७.

दुलि- पात्रभो २, २, १५१.

√दुष्, दोषवि अप ४८, १९१.

दुवस्- , √दुवस् प्रम्. √द. (परि-  
चरणे) द्र.

†दुश्-चक्षस्- - क्षाः आपधौ १४,  
३०, ४; बीधौ ७, १३ : ४; हिथी  
१५, ७, १९.

दुश्-चर- - तम् विष ९५, १७.

दुश्-चरित- - तम् बीधौ २, ५ : २११.

द्युः - †तात् आपधौ २, १४, १०;  
बीधौ.

†दुश्चरित्विन्- - ०विन् वाधौ ३, २,  
५, ३१; द्राघी ११, ३, ९; लाघी  
४, ३, १०.

दुश्-चर्मन्- - मां बीधौ १३, १७ :  
६१; १८ : १, २३, २ : २८; हिथी.

दुधर्म-कुनलि-कुष्ठि-श्रिप्रि-इयाव-  
दन्त- - ताः शेष २०२.

दुश्-चल- - लानाम् अप ६८, २,  
४६.

†दुष्-च्यवन- - नः अघा १९, ६;  
अम १९, ३२; द्राघा ४, १५५;  
ऋपा १६, १७.

दुःशासन- पावा ३, ३, १३०.

†दुःशीर्त- > †दुःशीर्त-वृत्- - ०नो  
आधौ ६, १४, १३; माधौ ३,  
२, १२; वाधौ १, ५, ३, ८; हिथी  
३, ७, ७५१.

दुःशी(ल >)ला- - ला वंश ५, ९ :  
५; -लाम् वैश ५, ९ : १४.

दुःश्रुत- - तः आपधौ ९, १५, १८१;  
-तम् भाधौ ९, १८, ५; हिथी  
१५, ४, ३८१; आमिण् २, ७, ९ :  
१९; भाए ३, १९ : ४; -तयोः  
माधौ ३, १, २२; -ते आधौ ३,  
१४, १.

दुःश्रित- - ते अघाय ४, १.

√दु. द्र. √म् पाथा. दिवा. पर. वैकल्ये,  
दुप्यलि बीधौ प्र ५४ : ७; निस्;  
विष २३, ३६; दुप्यतः विष  
२२, ८४; दुप्यन्ति वाध २८, ५;  
शेष १६९; बीध १, ५, ५१; २,

२, ५७; दुप्यत् माधौ ३, १, १;  
शेष ७९; दुप्येयाताम् अघाय ४,  
१; दुप्येयुः आपधौ ९, १५, १४;  
बीधौ.

दुप्यते वाध १९, ३८.

दूपयते अप ६२, २, ७, दूपयेत्  
बीध १, ४, १७.

दुष्ट, षा- - षः अघाय ४, २; शेष  
३०३; बीध २, १, ६; -ष्टम्  
शोधौ १३, १२, ९; काधौ;  
-ष्टस्य शोधौ ३, २०, ५; काधौ  
२५, ५, ९; काधौस ३३ : २;  
निस् १, ६ : ९; -ष्टा विष ५३,  
८; -ष्टाः बीधौ २, १० : ३४;  
-ष्टान् शेष २०२; विष ३,  
३७; -ष्टाम् वंश ६, २ : ९;  
विष ५, ४७; -ष्टे शोधौ ३, २०,  
१२; १३, ३, २; काधौ; आमिण्  
२, ७, ९ : २७१; -ष्टेन शोधौ  
३, २०, १५; -ष्टेषु बीधौ २९,  
३ : ९.

दुष्ट-चेतम्- - तसः वाध ११,  
२५; बीध २, ८, १४.

दुष्ट-भाव- - तः आपध २,  
२६, १९; हिण् २, ५, २१४.

दुष्ट-मृग-घातिन्- - ती वैध ३,  
१४, २.

दुष्ट-वाक्य- - न्यैः वैश २, ८ :  
८.

दुष्ट-वाक्- - वाक् विष ५,  
१६६.

दुष्ट-द्विस्- - विषा वैधौ २०,  
३ : १६.

a) वैश १, १६५३ f द्र. ।

b) वैश १ द्र. ।

c) वैश १, १६५३ i द्र. ।

d) विष. । वत्. ।

e) दु. पागम. ।

f) पामे. वैश १, १६५४ ० द्र. ।

g) = सारमेय (याल्यह-)-माए- ।

h) धा. हिताथै इति. ।

i) गस. उप. खलन्तम् ।

j) वैश १, १६५४ i द्र. ।

k) दुशी० इति पाठः इ यनि. शोधः ।

l) गस. उप. √श्री [पाके] > श्रि इति पा ६, १३६ ।

m) पा ६, ४, ९०; ११ परामृष्टः द्र. ।

n) जुष्टे इति पाठः इ

यनि. शोधः ।

दोष-सामान्य- न्यात्र नीत्  
 ६, ५, ४५.  
 दोषा(प-अ)नुसप्त-तस्य (:) अय  
 ६९, ८, ४.  
 दोषिन्- पा ३, २, १४२; -पिणः  
 गौध १३, ७; -षी कौत् ४५,  
 २१, गौध १८, २३.  
 दुष्-कर- -रम् विध ९५, १७, भाशि  
 ११८, १२०.  
 दुष्-कीर्ति- -सौ बौधो २, ५: ५.  
 दुष्-कुल- (> दौष्कुल्य-पा.) पाग  
 ५, १, १२४.  
 दुष्कुलीन, दौष्कुलेय- पा ४, १,  
 १४२.  
 दुष्-कृत- -कृत् सु ७, ५, अय १,  
 ४१, ८१; वेद २, ११९; -कृतः  
 आश्रथो ७, १६, ७१; अय २, ४,  
 २; या १०, ११११; -कृते शौच  
 २, ६३.  
 दुष्-कृत- -रन् आश्रथो ३, ३, ४१,  
 †बौधो २, ८: १०; ११: २: ३; ५;  
 ६; ९; सु; या १४, २९; ऋषा ८,  
 १९१; -तस्य विप ९१, १; या  
 ६, २७; -तात् अय २०, ७, ४;  
 -तानि वाच ५, ५; २८, ४; बौध  
 १, ५, ८८, ४, २, १७१; -तैः  
 बौधो २८, २: ५४, अय ४२,  
 १, ३.  
 †दौष्कृत्य- -रम् आश्रथो १०,  
 १, ६, भाशो.  
 दुष्कृत-कर्मन्- -र्मन्. विध ५७.

११; दिप १, ५, ११५.  
 दुष्कृत-कारिन्- -रिणः वाध १४,  
 १६; आश्रथ १, १९, १३.  
 दुष्कृतकारिणी- -णी सु ७, ५.  
 दुष्ट-प्रत्य. √दुष् द.  
 †दुष्-ट (<त)र- -रः शुषा ५, ४१;  
 -रम् आश्रथो ४, १२, २; ऋषा ३,  
 ४, १; शौच ४, ८३; -रा या ५,  
 २५७.  
 दुष्-ट (<त)रीनु- -नुः आश्रथो ४,  
 १२, २१.  
 दुष्-ट पा, पाग ८, ३, ९८६.  
 दु-ष्टु (<सु)त- -तात् शौच ६, ६,  
 १६१.  
 दुष्-ट पाउ १, २५६; पाग १, १, ३७;  
 ५, १, १२९; १३०;  
 दौष्टव्य- पा ५, १, १२९; १३०.  
 दुष्-परि-माण- -णः कौत् १३९,  
 २३.  
 दुष्-परि-हार्य- -र्ये विध २०, २९.  
 दुष्-पुरुष- (> दौष्पुरुष्य- पा.)  
 पाग ५, १, १२४.  
 दुष्-पूय- -यम् या ५, २४.  
 दुष्-प्र-ज्ञान- -नम् बौधो १४, २५;  
 ३०.  
 †दुष्-प्रति-म (<ह)हा- -हा शौच  
 २, ६३.  
 दुष्-प्र-लम्भ- -म्भः आश्रथ १, २०,  
 ५; दिप १, ६, १९.  
 †दुष्-प्रा(प्र-अ)वी- -र्यः ऋषा  
 १३, ३०; उल् ८, १९.

दुष्यत्- √दुप् द.  
 दुष्यन्त- > दौष्यन्ति- -न्तिः  
 साम १, ६११; २, ९४५.  
 दु-ष्य (<स्र)म- > †दौष्यम्-  
 -ष्यम् अय ३२, १, ८; अय  
 ७, २३.  
 दौष्य (<ज)णी- -ष्यः  
 अय १९, ५६.  
 †दुष्यम्- -ष्यम् अय ३२, १,  
 ८; -ष्यात् अय ३२, १, ८; ९;  
 अय ७, १००.  
 दु-ष्यन्त- > दौःष्यन्ति- -न्तेः ऋष  
 २, ६, ५२.  
 दुष्यन्त- पाउभो २, २, १३९.  
 दु-ष्य (<स्र)धि- पा, पाग ८, ३, ९८.  
 दु-ष्य (<स्र)म- पा, पाग २, १, १७.  
 दु-ष्या (<स्र)मन्- -दु-ष्य-पा, पाग  
 ८, ३, ९८.  
 दु-ष्य (<स्र)न्- > दौ. ष्यम्-  
 -ष्यम् आश्रथो ९, १३, ८.  
 दुःष्यन्त-नाशि (न)नी- -नी  
 साम १, १४१.  
 दुःष्यन्ति- -यम् आश्रथो ६,  
 २३, ११.  
 †दुःष्यम्- -ष्यम् आश्रथ ३, ६,  
 ५; कौत् ५८, ११; शुषा ३,  
 ७२; ९२.  
 दुस् पाग १, १, ५८.  
 दुस्-त्तर- -रः वाशि १, ३०; -रम्  
 सु २७, ४.  
 दुस्-त्तरिप- -पाग ६, २, १८४.

a) गस. उप. खलन्तम् । b) प्रास. । c) वैर १ द. । d) विप. । बस. । e) सप्र. कर्मणः  
 <> कारिण इति पाने. f) अय्य. । व्यु. ? । g) ष्टु इति पाद्य. पाति. । h) < दुष् √स्या इति ।  
 i) तु. पागम. । j) विप. । गस. । k) गस. उप. √प्र + क्यन् प्र. । l) गस. उप. खल् प्र., नुसागमः  
 (पा ७, १, ६७) च । m) = दृष्ट-विशेष. । व्यु. ? । n) विप. । साऽऽर्यदेवतीये अणि द-लोपः (पा ६, ४, १५०) ।  
 o) पाने. वैर १, १६५७ ० द. । p) पाने. वैर १, १६५७ d द. । q) = दुष्यन्त- । व्यु. ? । r) वैर १,  
 १६५७ f द. । s) वैर १, १६५७ g द. । t) पाने. वैर १, १६५७ b द. । u) = दुष्यन्त- । व्यु. ? । v) अय्य. ।  
 w) प्रास. उप. २३री- + < √पा [रक्षणे] इति पाद्य. ।

दुस्-तर्प- -र्षः या ४, ५.  
 दुस्-त्य(ज>)जा- -जा वाप ३०, १०.  
 दु-सृष्ट- -ष्टः शक्ति १५, २२, ७२.  
 दु-स्वप्न- -प्नः बौधो २, ५: १२; -प्नम् आपमं १, १३, ५; बौध ४, २, ११.  
 दु(स् >)-सक्य-, किय- पा ५, ४, १२१.  
 दु(स् >)-साध्य- -ष्यानि अम ६२, १, ५.  
 दुः-सीम- -मे वृदे ७, १४०<sup>१</sup>.  
 दुः-स्त्री-(>दौःस्त्र- पा.) पाग ५, १, १३०.  
 दुः-सृष्ट- -ष्टः पाशि ५; -ष्टम् ऋषा १३, १०.  
 दुः-स्वप्न- -प्न-ज! बौधो २८, ९: २०; वैधो २१, २: ६; -प्नः भाष्ट २, ३१: १४; -प्नम् बौधो २८, ९: १९; वैधो; शंघ १०१<sup>१</sup>; विध ६४, ४१; -जात् काथो २५, ११, २१<sup>१</sup>; -प्ने विध २२, ६७; -प्नेषु गोष्ट ३, ३, ३१.  
 दुःस्वप्न-प्र- -प्रम् ऋष २, १०, १६४; वृदे ८, ६७.  
 दुःस्वप्न-धो- -धो अम २०, १६.  
 दुःस्वप्न-दर्शन- -ने शार्ध ५, ५, ३; काथ २७६: १२.  
 दुःस्वप्न-दुर्भत- -तानि अम ३३,

१, १०.  
 दुःस्वप्न-नाशन- -नः अममू २; -नम् अम ८, २, ५; -नानि अम ३२, १, ८<sup>१</sup>.  
 दुःस्वप्ननाशनी- -नी वृदे ५, ८९; -नीम् शृष ४, ५०.  
 दुःस्वप्ननाशन-गण- -णस्य अममू २.  
 दुःस्वप्ननाशन-देवता- > ष्य, -स्या- -स्यम् अममू, ४५; -स्याः अम १६, ५; -स्ये अम ७, १००.  
 दुःस्वप्न-नाशि (न >) नी- -नी ऋष २, १, १२०; वृदे ३, १३९.  
 दुःस्वप्ना(न-अ)प-प्रगाशि (न >) नी- -नी वृदे ४, ८३.  
 दुःस्वप्ना(न-अ)रिष्ट-वर्षा (न-आदि- -दौ शंघ ४३७.  
 दुःस्वप्न- -प्नम् अममू २, ५; अम ३७, ५, ५.  
 दुस्-स्वप्न- -प्ने बौध ३, ५, १४; -प्नेषु बौध ४, ३, ९.  
 ✓दुह, दुह-, दुहव-, दुहान- ✓दुष्ट द.  
 दुहि(त>)ता- -ताम् काथ २८१: ५; -०ते अम ३५, १, १.  
 दुहितृ- पाठ २, १५; पाग ४, १, १०; १००; १०४; द. ३, ३३; -फंठः ऋषा १, १०२; ७, २४; ३१; -ताः लाथो १, १०, ४; ६; आष्ट २, ६, १५<sup>१</sup>; बौध २, ३, ४४; विध १८, ३५; गा ३, ४;

-वम् वाथो १८, १३, ३<sup>१</sup>; वापुधो; -वरि बौध २, ३, १५; -वरी पाष्ट ३, १३, ३; -वृवा वाथो १५, १७, १; बौधो; या ३, ४५४<sup>१</sup>; ६, ६; अम ३, ४, १; -वृः वैधो ९, ११, १३; भाष्ट १, २७: २०; वृदे ४, १११; या ३, ४५<sup>१</sup>; ५; ४, २१; १२, ११; -वृः वृदे ५, १४५; -वृणाम् बौध २८, २५; -व्रा बौधो १८, ४६: १८; -व्रे बौधो ५, १७: ३; अम ३, २१<sup>१</sup>; या १२, ११<sup>१</sup>; -व्रोः बौध २, ३, ७१.  
 दौहित्र- पा ४, १, १०४;  
 -व्रः बौध २, ११, ६६; वाध;  
 -व्रम् बौध २, २, १५; या ३, ४४.  
 दौहित्रायण- पा ४, १, १००.  
 दुहित्-नामन- -नम् विध ३४, १.  
 दुहित्-नामित्- -मि विध १७, ५; २१.  
 दुहित्-आमात्- -तरः विध ९३, ६.  
 दुहित्-दायाध- -ये या ३, ३.  
 दुहित्-मत- -मतः आपम २, १२, २; द्विध २, ४, ३७; -मते बौध १, ८, ३६; शार्ध.  
 दुहित्-सत्- -तेन वाथो ३, ४, ३, ४६<sup>१</sup>; ४७; ४८.  
 १दुह- ✓दुष्ट द.

a) गस. उप. खलन्तम् । b) = ईषत्सृष्ट- । प्रास. । c) विप. । वस. । d) = नृप-विशेष- । व्यु. । e) सपा. ऋ १०, ९३, १४ दुःस्त्रीमे इति । f) पागे. वैप १, १६५७ d द. । g) प्नात् इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. विध.) । h) वै १, १६५६ u द. । i) = कृत्वान्तरिथेण संगन्ती- । पुत्री- । व्यु. ? (\*भिद्-भूत्- > नैप्र.) \*क्वि- (भेद- > \*द्वि-क- > \*द्वि-क- > \*दुक- (भिन्न, कुलान्तरीय-) + (✓मिष [संगमे] > कर्त्तरि) मे (घ >) मृ- > उव. \*दुक-भेदा- > \*दुखे(धि)ता- > यनि. इति । दुहित्- ऋषि उप. प्र. एव भिन्नं सत् व्यु. सन्-यायं द. । एतदुत् वैप १, १६५७ m इत्यत्र विशेषे आधेयः । j) वै १ द. ।

२दुह्य- पा, पाग २,४,६३.  
 दुह्यमान- √दुह् ड.  
 √दु पाधा. दिवा. आत्म. परितापे.  
 √दु (परिचरणे) > दुवध- पाग ३,  
 १, २७; -तवः आधौ ८, ९, ५;  
 शोधौ.  
 √दुवस्य- पा ३, १, २७, १दुव-  
 स्यति अग ४८, १०; निघ ३, ५;  
 दुवस्य या १०, २०<sup>०</sup>पृष्ठ;  
 १दुवस्यत आधौ २, ८, ७; ४, ५,  
 ३; आपधौ; आमिथ ३, ५, २ :  
 २<sup>०</sup>; बौपि १, २ : २<sup>०</sup>.  
 दुवस्यु- -स्युः ऋअ २,  
 १०, १००; वृदे ३, ५६; -स्यौ  
 वृदे २, १२९.  
 १दुवध-व्य- -व्यान् शोधौ ६,  
 १२, ६, १९; बौधौ.  
 दु- > दु-ड, ड/भ- पावा ६, ३,  
 १०९; -तमः शोधौ २, १२, ७;  
 आपधौ ६, १७, १२; द्विधौ ६, ६,  
 १६६; छत्रा ३, ४२.  
 दुदम-व(व >) वी- वीम् द्विधौ  
 ६, ६, १७६.  
 दु-वास- पाग ६, ३, १०९.  
 दु-वास- पावा ६, ३, १०९.  
 दु-वी- -तवः या ५, २, २३६,  
 -दाम् या ५, २, २६.  
 दु-व्य- पावा ६, ३, १०९.  
 दूम-दूगादा-दूळम-प्रवाद्-दाः  
 ऋत्रा ५, ५५; -दान् उस् ६, ७.  
 दू-ण(<न)स- -सा ऋत्रा ९, ४४<sup>०</sup>.

दू-ण(<न)स- पावा ६, ३, १०९;  
 -दाः काधौ २२, ८, २५५; ऋत्रा  
 ९, ३६<sup>०</sup>; -दास्य लाधौ ८,  
 १०, १६.  
 दूगादा-दूळम-दूळम- -मान्  
 ऋत्रा ११, ४०.  
 दू-भाव- -वः ऋत्रा १०, २२.  
 दू-भूत- -वम् ऋत्रा ५, ५५.  
 दू-रोहण- -णम् आधौ ८, २, १३;  
 १५x५; शोधौ ११, १४, १३;  
 १२, ११, १२; १५, ३, १०; -णे  
 बौधौ १२, १० : ३९.  
 दूडाशौ- शीच २, ६०<sup>०</sup>.  
 दूत, ता- पाउ ३, ९०; पाग ४, १,  
 ४२<sup>०</sup>, ५, १, १२४<sup>०</sup>; -तः शोधौ ३,  
 ५, ९<sup>०</sup>; १४, १२<sup>०</sup>; १४, ४०, १;  
 आपधौ; १बोधौ २, ११; ११<sup>०</sup>;  
 शोध २, १३, ५<sup>०</sup>; द्विध २, ३,  
 ५<sup>०</sup>; १या १, १७; ५, १७<sup>०</sup>; ६,  
 १७; २२<sup>०</sup>; ७, २६, ८, ५; -तम्  
 आधौ १, २, ७<sup>०</sup>x५; शोधौ;  
 -तस्य काधौ १५, ३, १३; या  
 १२, ४३<sup>०</sup>; -ताः आधौ ८, १०,  
 १<sup>०</sup>; -तान् आमिथ १, ६, १ :  
 ५; -ताय वाधौ ३, ४, ४६;  
 आय १, १२, ३; ४; -ते वाध  
 १२, ३७. -तेन बोधौ १८, २२,  
 ११, -तौ द्विध १८ : १०<sup>०</sup>.  
 दूती- पाग ४, १, ४२<sup>०</sup>; -ती  
 वृदे ८, २७; -तीम् बोधौ २१,  
 १२ : ४; वृदे ८, २८; -त्यः

कीस् ११७, २<sup>०</sup>.  
 दौत्य- पा ५, १, १२४; -त्ये  
 वृदे ५, ७४.  
 दूत-प्रवेश- -दाः आपधौ ८, ५.  
 १दूर- पा ४, ४, १२०; पावा ५,  
 १, १२६; -त्यः मासि ७, ५<sup>०</sup>;  
 -स्यम् आधौ ३, ७, १०,  
 आपधौ; -स्याय आधौ ९, ९,  
 ७<sup>०</sup>; -त्ये वृदे ८, २१.  
 दूति- पाउ ४, १८०.  
 २दू(त्य >) स्या- -त्या द्विध २, ७, २.  
 दून- √ड (उपतापे) द.  
 दूर- पाउ २, २०; पाग ६, ३, २;  
 -स्य् आपधौ ७, ११, ७<sup>०</sup>;  
 १३, १५, ११; बोधौ; लाधौ-  
 ३, २, ७<sup>०</sup>; या २, ५; १४; ३,  
 १९<sup>०</sup>; ४, २५; अत्रा ३, ४, ११<sup>०</sup>;  
 मासि १५, ८; -स्य अग ४८,  
 १०९; निघ ३, २६; -तात्  
 आधौ ४, १५, २<sup>०</sup>; शोधौ;  
 द्राधौ ७, २, ७<sup>०</sup>; कीस् ८८,  
 १<sup>०</sup>; अत्र १२, ५२<sup>०</sup>; या २,  
 २७<sup>०</sup>; ३, ११; ९, १३<sup>०</sup>;  
 पा १, २, ३३; ८, २, ८४;  
 -३<sup>०</sup> शोधौ ४, १२, १०<sup>०</sup>;  
 आपधौ; या ३, ४; ११<sup>०</sup>; ४,  
 १४<sup>०</sup>; ११, २५<sup>०</sup>; पा ५, ३,  
 ३७; -३<sup>०</sup> आसि ८, ४.  
 १दूर-क- -के आपध १, २, २; द्विध  
 १, १, ३५.  
 दूर-जातो(त-उ)दक- -कः ऋत्र ३,

o) = ऋषि विशेष- । व्यु. ? तु. पाका. । दु° इति भासडा. । b) वैष १ द. । c) या १०, २० परामुटः द. । d) पाभे. वैष १ सपर्यत शौ १८, १, ४९ टि. द. । e) = [वन्दन-पुत्र-] ऋषि-विशेष- । f) शोधौ. पाठः । g) ° इति पाठः ? यनि. शोधः । h) विप. । गत. । i) तु. पागम. । j) वैष २, १६५९ ऋ द. । k) = ऋतु-विशेष- । l) पाभे. वैष १, १५९१ ऋ द. । m) दवः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. वी १८, ४, ५५) । n) सप्र. आपनं २, १३, १२ पुत्रः इति पाभे. । o) = सारमेय [बालप्रह-] मातृ- । व्यु. ? । p) पाभे. वैष १, १६९१ ऋ द. । q) वा. किवि. । r) दूरान् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । सपा. मा २, २० प्रथ. विहितः पाभे. । s) पाभे. वैष १, १६९१ ऋ द. । t) पाभे. वैष १, ६९२ ऋ द. ।



१०, १५.  
 दूर-ग- पा ३, २, ४८; -गा: भाए  
 २, २७: ७; वैद्य ८, ११: १;  
 वैध १, १०, ३; ११, २.  
 दूर-नर- नम् या ९, १३.  
 दूर-नस(ः) अप ३६, १३, १.  
 दूर-त्व- र्वात् आज्यो ७, १३-१५.  
 दूर-नामन्- नामि निघ ३, २६; या  
 ३, १९.  
 दूर-पातिन्- -तिनौ या ६, ३३.  
 दूर-पार- -र: या ४, १८; -रे या  
 ६, १.  
 दूर-भूयस्त्व- -स्वात् मीत् १, २,  
 १३.  
 दूर-वेधिन्- -धिनौ या ६, ३३.  
 दूर-ध्वस्व- -वसे शाथी १२, १६,  
 १५.  
 दूर-स्थ- -स्थ: कप्र २, ५, ८;  
 -स्थम् विध ९७, १८; -स्थस्य  
 विध २८, २१; आज्यो ७, १६;  
 -रथाभ्याम् कप्र २, ५, ६.  
 दूरा(र-ञ्)न्तिक(क-ञ्)र्थ- -र्थभ्यः  
 पा २, ३, ३५; -र्थ: पा २, ३,  
 ३४.  
 दूरे-ञ्(न्त >)न्ता- -न्ते निघ  
 ३, ३०; या ४, २५५<sup>१</sup>.  
 दूरे-भमिन्- -भ: शुभा ४, ८५<sup>१</sup>.  
 दूरे-अर्थ- -र्थ: आपथी १६, १२,  
 १; द्विथी ११, ४, १३.  
 दूरे-व्य- पावा ४, २, १०४.  
 दूरे-दूर्त- -नम् आपथ २, २३,  
 ८; द्विध २, ५, १६१.  
 दूरे-दूर्त- -नम् या ५, १०.  
 दूरे-रथ- -रथम् आपथी १४,

१६, १; भाथी; या ५, १०<sup>१</sup>.  
 -दते वीथी ६, १६: १३.  
 दूरे-पाक, का-, -कु- पाग ७, ३, ५३.  
 दूरे-न्याय- -नम् वाध १५, ७.  
 दूरे-न्यन्तर- -रा: वाधुथी ४, ६१:  
 २.  
 दूरे-ध्वस्व- -वा: शाथी ८, १७,  
 ११; वीथी १७, १८: २६; वीथ  
 ३, १०, १६.  
 दूरे-हेवि- -ति: वीथी १८, १७:  
 २०; माथी ६, २, ५, ३२; वाथी.  
 दूरे-रुहण- दू द.  
 दूर्वा- -र्वया वीथी २२, ५: १९; अप  
 २६, ५, ४; ३६, ४, २; -र्व अप  
 १८, १, १७; ३६, १९, १; ७०<sup>२</sup>,  
 १९, ७; -र्व: आपथी १३, १७,  
 ९; १५, २१, १०; वीथी;  
 -र्वानाम् आमिथ ३, ८, ३: ३;  
 वीथि १, १५: ७४; -र्वभि:  
 वीथी १६, २२: २; भाए ३,  
 १६: २; -र्वाम् काथी १७, ४,  
 १८; वीथी; -र्वै वीथी २०,  
 २७: १०; भाए १, २७: १.  
 दूर्वा-कर- -रम् विध ९, ५.  
 दूर्वा-काण्ड- -ण्डम् शाथि ६, ६, ९.  
 दूर्वा-काण्ड-व(त >)ती- -तीयु  
 शाथि ६, ३, ७.  
 दूर्वा(र्व-अ)क्षत-युक्त- -क्तम् वैथी  
 १, ४: ९.  
 दूर्वा(र्व-ञ्)प्र- -प्रामि कीय ७७,  
 १८; -प्रै: कीय २४, १८; २६,  
 १३.  
 दूर्वा-अग्नि- -ग्निभि: वीथी ९, १:  
 १५; १०, १: १३; -न्वीन्

वीथी ८, १५: २८; २१, २४: २.  
 दूर्वा(र्व-आ)ज्य- -ज्यम् आपथ ६,  
 १०.  
 दूर्वा(र्व-अ)जलि- -लिना वीथि ३,  
 ४, १७.  
 दूर्वा(र्व-आ)दि- -दीन् अप ४, १,  
 १६.  
 दूर्वा-अवाह- -हम् शंध ३४६;  
 -हान् शंध ३४५.  
 दूर्वा-मिथ- -थम् माथी ६, १, ७,  
 १४; वाथी २, १, ६, २४;  
 -थभि: वीथी १६, ४: १४.  
 दूर्वा-भूला(ल-ञ्)हृत्- -रान् अप  
 ५, २, ५.  
 दूर्वा-यव-सर्वप- -पणि शाथी ४,  
 १५, ५; -पान् कीथि ५, ४, ६.  
 दूर्वा-रोपण- > ञ्(अ-अ)न्त-  
 -न्तम् आमिथ १, २, २: ४७.  
 दूर्वा-रोपण(ए-उ)धि-धावन-  
 वज्जम् भाए ३, ११: १५; द्विथ  
 २, २०, १३.  
 दूर्वा-लोठ- -ठम् माए १, ७, ९.  
 दूर्वा(र्व-अ)वा(स्त >)स्ता-  
 -स्ताभि: आपथी २१, ८, ४; २२,  
 २८, १३; द्विथी १६, ३, ३९;  
 २३, ४, ५१.  
 दूर्वा-शाळा-देवता- > ष्य-  
 -न्यम् दथ ६, १०६.  
 दूर्वा-रथाम- -मा: अप ६३, ४, ८.  
 दूर्वा-सिद्धार्थक- -कान् अप ५,  
 ५, ६.  
 दूर्वा-स्तम्ब- -म्ब: आपथी १६,  
 १३, १०; वैथी १८, ११: २७;  
 द्विथी ११, ५, २१; -म्बम्

a) विप. । वस. । b) वैप १ द. । c) पाभे. वैप १, १६६१ ० द. । d) विप. । स्वप् प्र. (दु.  
 एव. प्र.द.) । पाप्र. दु एव: प्र. । e) सस. (दु. Boh.; वैद. संस्कृत: शब्दस्यैवा वृथक् पदे [भाष्य.] इति) ।  
 f) विप. । वस. (तु. BNM.; वैद. ल. वृथक् पदे इति) । g) = सर्व-विशेष- । h) उप. = २४-८-१ । i) उप.  
 = अक्षर- । j) उप. < भव / भव [विशेष] । k) विप. (परिवेप- ) । वस. । l) उप. = वीर-सर्वप- ।

आपथी १६, २४, १; वैथी; -म्ब  
 आसिष्ट २, ५, ३: ३७; -म्बेयु  
 बौध ३, ७, २५.  
 वूर्वे(वां-इ)ष्टका- -काम आपथी  
 १६, २४, १; बौथी १०, १२: ५;  
 माथी २, १, ६, २४; वैथी १८,  
 १५: ६; -काया: बौथी २२,  
 ५: १८; -कायाम् जैथी ८.  
 वूर्वेष्टक-दैवत- -वम् शुभ २,  
 १५३.  
 वूर्वे(वां-उ)वक- -कै: बौध ३, १०,  
 ४.  
 वृश- -वोम् कौस् ८५, २३; -सौ कौस्  
 ११, १६.  
 वृश-ज्वरदजिना(न-अ)वकर-ज्वाल-  
 -जेन कौस् २८, २.  
 वृषण- वृषयिष्ठ- प्रम् ✓दुष् द.  
 ✓द पाथा. स्वा. पर. हिसायाम्,  
 दरदर अर ३६, १, १२.  
 ✓द पाथा. तुदा. आत्म. आदे.  
 वरिम् - वा ३, २, १५७.  
 वर्य- वा ३, १, १०९.  
 ✓द, दृ पाथा. क्या. पर. विदारयो,  
 वर्य उस् ७, १७५.  
 वृणाति वृदे २, ३६; वा १०, ८;  
 वृणा: या १०, ९.  
 दीर्यते बौथी १३, ३९: १५,  
 अप ७०, १५, २; दीर्यत आपथी  
 १४, २५, १०××; बौथी.  
 दारयते वा १०, ८.  
 ऋदद- ऋय २, ५, ३३; साय;  
 वा १०, ९५; ऋय १, १०३;  
 दद: ऋय १, १०३.

ददस्-पावा ३, २, १७८.  
 दर- वा ३, ३, ५८; पाग २, ४, २१;  
 ५, १, २६; ६, १, १६०.  
 दर-वा(य>)या- -या या १,  
 १२.  
 दरण- -णम् अप ६४, ३, ९; ६, ४;  
 ९, ५.  
 दर्- -वै: ऋय १, १०२५.  
 ऋदमन्- -मां वाथी ८, १७, १;  
 आपथी.  
 दयं- वा ५, १, २.  
 दारयस्- -यन् वैष् ५, १: १९.  
 दारयिष्- -वा या १०, ८.  
 दारयिष्-तम- -म: वा ६, १२.  
 दास्म, णा- पाठ ३, ५३; पाग ८,  
 १, ६७; -ण: अप ६२, २, २;  
 ७१, १४, ५; -णम् जैष्ठ २, ९:  
 ३७; अप; -णा कौस् १०२, १;  
 -णा: अप ५२, ४, १; ५८, ४,  
 १३; -णाम् अप ७१, १३, १;  
 -णायाम् कौस् ९३, १७; -णे  
 अयां १, ५; २, २; ४, १; -णेषु  
 अप ५२, १५, ३; विष ४३, ४०;  
 -णै: विष ४३, ४०.  
 दास्म-संयुत- -जानि बौथी ९,  
 ६: १४.  
 दारुण्य- -ण्यम् तैत्रा २२, ९.  
 दीर्ण- -णै: बौथी १४, ७: ८; १८;  
 २८; -णैम् आपथी १४, २६,  
 १; आपथ ६७, ११; वा ३, २०;  
 -णै शौथी १३, १२, १; ३;  
 आपथी.  
 दीर्ण-प्रवृत्त- -त्तानाम् बौथी

१४, ७: १; -त्तु बौथी २३,  
 ५, १९.  
 ऋद्वन्- -वां वाथी १५, ५, २०;  
 शुभ १, ६०४.  
 ✓दं०, दद पाथा. भ्वा. पर. वृद्धी,  
 दं०ति वैथी १०, ९: ५; जंथी  
 ६: १२; ९: १२; दं०ताम्  
 कौस् ९८, २५; दं०तु जैथी २:  
 ७; ऋद्वन्ताम् काथी २, २,  
 २५: ३०; आपथी; ऋद्वन्स्व बौथी  
 १, ३: १२××; ऋद्वन् काथी ६, ३,  
 १०; आपथी; माथी १, २, ३,  
 ४××; ऋद्वन्, > वा आपथी १६,  
 १४, ५; वाथी २, १, ५, २०;  
 वैथी १८, १२: १४; ऋद्वन्स्व  
 आपथी ५, २, १; वा १०, ३२;  
 ऋद्वन्स्व निष् १, १२: १६;  
 ऋद्वन्स्वा: आपथी ५, ९, ११;  
 माथी १, ५, २, १५; वाथी १-  
 ४, २, ७; हिथी ३, ३, ३२.  
 दं०यति कौस् ४३, ११.  
 ऋद्वन् वाथी ११, ९, ९; वृदे ८-  
 १०.  
 भददन्त ऋय २, ४३५.  
 दाहण- -ण: श्रया ९, ३२५.  
 दं०- -द: मासि ८, १०.  
 दहण- -णानि कौस् ३८, ११.  
 दहयिष्वा गोष्ठ ३, ७, ६; ४, २, ९;  
 कौस् १३६, ७.  
 दं०(त>)वा- -वा: माथी ५, २,  
 ५, १७५.  
 दद, दा, द्वा- पा ७, २, २०; पाग  
 २, ४, ११; ५, १, १२३; -द-

a) वैष १ द. । b) वस. पूष. हस्व: द. । c) पा ७, २, ७५ परामृष्ट: द. । d) <✓दाविदारयो। इति MIV. ? । e) वा ४, १५ वा ३, १, ५९; ७, ३, ८०; ४, १२; १५ परामृष्ट: द. । f) <✓दु [भये] इति पाम. [पक्षे], पाद्वा. पासि. न । g) उदर- इति पाद्वा. । h) विष. (स्थण- ) उच. । i) = सु-संयुत- (पिष्ट-) इति शब्दसूची । j) पामे. वैष १, १६६२ दं० द. । k) उभयत्र पामे. वैष १, ६८४ ८ द. । l) दं० (क्वि. ) इत्यस्यानुकरणम् । m) = कर्म-विशेष- । n) आपथी. वा ६, १९ पाठ: ।

वीथी २५, १३ : ९; क्य ३, ९,  
 १५; पा ७, २, २०; सु १०, २;  
 -उम् याति १, २३; -पूजा  
 आथी ६, १४, १८; ९, ५, ३;  
 आपथी; आपर्न १, ९, २०; या  
 ६, १९४; -वाः भापृ १, ७ :  
 १३५<sup>०</sup>; -वानि अप ७२, १५,  
 ३; या ६, १९; -आयाम् वाधुथी  
 ४, ११२ : ५; -पूजे शोथी १७,  
 २, २४; आपथी; -दैः अप ५८<sup>१</sup>,  
 १, ३.

दाह्यं- पा ५, १, १२३.

दाह्यं-वृक्ष<sup>०</sup> > ०<sup>०</sup>-

-हम् वीथी २२, ५ : २१; ६ :  
 २५; १३ : ५.

दह-कारिन्- री गौध ९, ७०.

दह-च्युत<sup>०</sup>- तः शश २, ९,  
 २५; साश १, ४७४.

दाह्यं-च्युत- -त आथी

१२, १५, ३<sup>३</sup>; आपथी २४, १०,  
 १०<sup>१</sup>; द्विथी २१, ३, १५<sup>१</sup>; ३;  
 वैथ<sup>१</sup> ४, ८, १२<sup>१</sup>; -तः शश  
 २, ९, २६; -तम्<sup>१</sup> साथी ७,  
 ४, १; ८, ५; सुम् २, १ : २८;  
 ११, १९; निम् १, १ : २८.

दहच्युत-वत्<sup>१</sup> आपथी २४,

१०, १०; द्विथी २२, ३, १५;  
 वैथ ४, ८, १२<sup>१</sup>; २-४.

दह-च्युति<sup>०</sup> > दाह्यं-च्युत-

-००<sup>१</sup> वीथी ४९:५; ५०-५१ :  
 १.

दहच्युति-वत्<sup>१</sup> वीथी ४९ :  
 ६; ५०-५१ : २.

दह-वर, ११- -रः तैप्रा २०, ९;  
 कौशि २९; -रायाम् अपाय ५,  
 ५; अप ४५, २, १९.

दह-ता- पा ५, १, १२३; -ता  
 कौशि ३.

दह-त्व- पा ५, १, १२३.

दह-धन्वन्<sup>१</sup> -न्वने या १०, ६.

दह-धति<sup>१</sup> -तिः आपथ १, ३,  
 २१; द्विथ १, १, १५<sup>१</sup>.

दह-निपातव- -नम् पावा ७, २,  
 २०.

दह-पयुं(ह>)ष्टा<sup>१</sup> -हे शोथी  
 १७, १०, १.

दह-मुख- -यः पापृ १, ८, १०.

दह-प्रयत्न-तर- -रः तैप्रा १७, ६.

दह-प्रहातिन्- -री शंघ २४४.

दह-भक्ति<sup>१</sup> -क्तयः अप ६८,  
 १, २३.

दह-भङ्ग- -श्रेणु अप ७२, ३, १०.

दह-व्यत<sup>१</sup> -वः पापृ २, ७, १८;

अप ५२, १०, १.

दह-स्थण्डिल- -लम् वैथी १२.

४ : १.

दवा(द-अ)ङ्ग<sup>१</sup> -ङ्गः या ९, १२.

दवा(द-अ)थै- -थम्<sup>१</sup> भाथी ११.

१, १५; वैथी १३, ३ : २; द्विथी

११, १, ४४; -थै आपथी<sup>१</sup> १५,

३, ७; १६, ४, २; भाथी ११, १७,

१०; -थैन वैथी १८, १:६१<sup>१</sup>.

दही/√हृ> दही-करण- > ०<sup>१</sup>-  
 -वेनु- -वने जैथीवा ७७.

दही-कृत- -रम् जैथीवा ९९.

दही/√भू, दहीभव या ८, ३.

दही-भाव- -वः निम् ४, ६ :  
 ११; ६, ५ : ११.

द्रविसन्- पा ५, १, १२३.

दह- √ए द.

रहति<sup>०</sup> पाठ ४, १८४; -तवः लाथी  
 ८, ३, १४; -तिः शोथी १२,  
 २२, २<sup>१</sup>; आपथी १८, २२, ३;  
 वाधुथी २, १६ : ८; अप ४८,  
 १००<sup>१</sup>; वृदे ३, १५-१७; निथ  
 १, १०<sup>१</sup>; -तिम् वीथी ८, १० :

३<sup>१</sup>; १०, ४० : ३; २२, १७ :  
 १७; आमिष्ट २, ५, १० : ३६<sup>१</sup>;

-विपु शोथी १४, ४०, ११;  
 -०दे निम् ४, ११ : २१; -तेः  
 शाथी १५, १८, २; माथी;

-ती आपथी १८, ११, ३; वीथी  
 २२, १७:१३; द्विथी १३, ४, १६;

दातेय- पा ४, ३, ५६.

दति-कर्मन्- -माणि कौस् ३८, १२.

दति-भूत- -ते आमिष्ट ३, ९, ३:८<sup>१</sup>;  
 -तेन आमिष्ट ३, ९, ३:६<sup>१</sup>.

दति-वस्ति- -स्योः कौस् १४, ५.

दति-दरि- पा ३, २, २५.

दती/√भू > ०<sup>१</sup>भूव- -तेन वीथि २,  
 ७, ५<sup>१</sup>.

रहति<sup>०</sup> > रति-वातवतोर्-  
 अथ<sup>१</sup> - -नम् आपथी १२, ३, १३;

a) पामे. वैप १, १६६४ f द. । b) पामे. वैप १, १६६४ g द. । c) = सधिर- प्रष्ट. । मलो. कस. (वृ. भाष्यकारः) ।  
 दह-वृक्ष- > दाह्यं-वृक्ष- यदा ऽदप- दति संस्कर्तुरभियसम् । d) विप. । विकारार्थे अण् प्र. । e) = श्रद्धि-विशेष- ।  
 f) परस्परं पामे. । g) कर्त्तुं दति पाठः इ यनि. शोषः (वृ. आथी. प्रष्ट.) । h) = साम-विशेष- । i) परस्परं  
 पामे. । j) ऽन्दि इति पाठः इ यनि. शोषः । k) विप. । यत्त. । l) ऽन्दिद्विर्धे इति पाठः इ यनि. शोषः । m) उप.  
 <पयुं(रि/अ)र्[गती] : = मिखात- इति भाष्यम् । n) सपा. थंम् <> थं <> थैन इति पामे. । o) वैप १  
 द. । p) वैप १, १६६४ m द. । g) कृष्णाग्निनेव दति इत्यस्य स्थाने तपा. वीथि २, ७, ७ कृष्णाग्निदती इति पामे. ।  
 ञ) परस्परं पामे. । s) = श्रद्धि-विशेष- । व्यु. । । t) श्रद्धि-विशेषयोः द्रत. [वैप २, ३६, द.] । n) = सत्र-विशेष- ।

काशीरुध, ४, १६; -नस्य काशी  
रुध, ६, २४; -ने काशी १३,  
२३, १; लाधौ १०, १०, ७; -नेन  
आपधौ २३, १०, १; द्विधौ १८,  
३, १७.  
दतिवातवतोरेयन-पूर्व-पक्ष-  
-क्षेण काशी २४, ४, ३५.

रेहति\* -> दति-श्रुति- ति: मासि  
१७०.

दृन्\* -, दृन्- - पावा ६, ४, २४.

✓दृप्\* पाधा. दिवा. पर. हर्षमो-  
हनयो:। सुरा. उभ. संदीप्ने,  
दृपंति आपय १, १३, ४; द्वि  
१, ४, १८.

दृप्यसि बीधौ १८, ४४: ८;  
दृप्यामि बीधौ १८, ४४: ७.

दृपं\* - पाग ३, १, १३४; -पंम्  
सु २, ५; -पेंण विष ५, २४.  
दृपं-समन्वित- -ते विष ९९,  
११.

दृपं-दर- -र: शेष ३३३.

दृपित- -त: विष ८६, २०; वृदे  
७, ५४.

दृपणं\* - पा ३, १, १३४; -ण: अप  
६८, २, ३०; -णान् अप २०, १,  
३; -णे अप ६७, ६, १, ७०, ५, ३.  
दृपणं(ण-आमा)ध\* -भा.  
अप ६३, ४, ९.

दृप्त- -स: आपय १, १३, ४; द्विष  
१, ४, १८.

दृप्त- पाउ २, १३.  
✓दृप्, फू पाधा. तुदा. पर. उच्छेदे.  
दृष्टस: मासि १२, ११.  
✓दृभू पाधा. तुदा. पर. प्रत्ये; सुरा.  
उभ. संदर्भे. > दर्भणं\* -गाम्,  
-णे बीधौ ६, २५: २१; २७:  
२४.

✓दृभू पाधा. सुरा. उभ. भवे.  
✓दृम्फू\* पाधा. तुदा. पर. उच्छेदे.  
दृम्फू- पाउ १, १३.

दृम्भू- पाउभो २, १, १२४.

दृचन्- ✓दृ, दृ (विदारणे) द.

✓दृशू\* पाधा. भा. पर. प्रेषणे,  
दर्शेत् आमिष्ट २, ७, १०: १२.

दृशेयमं\* दाधौ १३, २, ८, लाधौ  
५, २, ११, पावा ३, १, ८६.

दृशेयं\* दाधौ १५, २३, १; बीधौ;  
पाय २, १४, ५; शुभ ४, ५९, २०;

या १, १९, १; दृशयानु: वृदे ८,  
७०; शुभ ३, २१६; दर्शयिष्य, दृशय  
पा ७, २, ६५; दृश शांश्री १, ३,  
६; दृशर: आपधौ २४, २,  
२५; अदशंय दाधौ ४, १, ११;

लाधौ २, १, १०; अद्राचीव अयं  
१, १६; ६, ३१; अद्राक्षु: शांश्री  
१५, २४, १; अदशंय बीधौ  
१८, ४५: १३; अयाय २, २, ३;

दृशयते बीधौ ८, १८: १११.

दृशयते बीधौ २०, १: १५;

दृशयते बीधौ २०, १: १५;

दृशयते बीधौ २०, १: १५;

दृशयते बीधौ २०, १: १५;

दृशयते बीधौ २०, १: १५;

दृशयते बीधौ २०, १: १५;

दृशयते बीधौ २०, १: १५;

१, १०: ४४; पा ३, २, १०: १४४;  
पावा २, १, ३३; ५, १, ५८;  
दृशयेते निम् ९, ७: १५; विष  
४९, ९; वृदे १, ८; मासि ९, ८;  
वाशि १, ८६; दृशयन्ते वाधुशी  
४, ३४: ६; ८; कौम्; पा ३, ३,  
२, ५, ३, १४; दृशयताम् आय १,  
५, ५; अदयन् वृदे ४, ६६;  
दृशयेत् शांश्री १, ३, ६; आपधौ;  
दृशयेत् अप ५३, २, २; दृशयेयु:  
अप ७१, १५, २.

दृशयेते आपधौ १०, १३, ११;  
बीधौ २८, ९: २३; आमिष्ट  
२, ५, २: ५९; द्विष्ट १, १७,  
४; विष १, ३९; या १२, २७;

दृशयित् या १, ९; दृशये या १,  
९; दृशयित् आपधौ ४, १३,  
७; शांश्री; या ६, १३, शक्ति १३३.

दृशयित् आपधौ १०, १३, ४;  
दर्शयित् काधौ २०, ५, ४;

वाधुशी; दर्शयित् आमिष्ट २, ५,  
१: ५६; ५७; अप ५९, १, १२;  
७०, ७, ३; श्रया १, ६४; दर्श-  
येत् बीधौ २६, २८: ५; लाधौ;

दर्शयेत् लाधौ ३, ३, २१;  
दर्शयेयु: दाधौ ७, ३, १९;  
लाधौ ९, ९, २०.

दर्शयिष्ये कय १, १, १. दर्शयि-  
प्यामि सु २८, ५; अदीदताम्  
बीधौ १८, ४४: ९.

दर्शयिष्ये कय १, १, १. दर्शयि-  
प्यामि सु २८, ५; अदीदताम्  
बीधौ १८, ४४: ९.

दर्शयिष्ये कय १, १, १. दर्शयि-  
प्यामि सु २८, ५; अदीदताम्  
बीधौ १८, ४४: ९.

दर्शयिष्ये कय १, १, १. दर्शयि-  
प्यामि सु २८, ५; अदीदताम्  
बीधौ १८, ४४: ९.

दर्शयिष्ये कय १, १, १. दर्शयि-  
प्यामि सु २८, ५; अदीदताम्  
बीधौ १८, ४४: ९.

दर्शयिष्ये कय १, १, १. दर्शयि-  
प्यामि सु २८, ५; अदीदताम्  
बीधौ १८, ४४: ९.

दर्शयिष्ये कय १, १, १. दर्शयि-  
प्यामि सु २८, ५; अदीदताम्  
बीधौ १८, ४४: ९.

दर्शयिष्ये कय १, १, १. दर्शयि-  
प्यामि सु २८, ५; अदीदताम्  
बीधौ १८, ४४: ९.

दर्शयिष्ये कय १, १, १. दर्शयि-  
प्यामि सु २८, ५; अदीदताम्  
बीधौ १८, ४४: ९.

a) अर्थ: व्यु. च !। b) हुं इति संस्वरु: टि.। c) द्विषार्थकम् अय्य. इति पाठि.। d) पावा ३, १, ४४  
परामृष्ट द.। e) भावे कर्त्तरि च कृत्.। f) = आदर्श-। g) विप.। वस.। h) पाठः? दृप्तसः इति श्लोच. विमृश्यः  
( नृ. संस्वरु: टि.। i) अर्थ: व्यु. च ! = सूची- इति भवस्वामी, = कट- इति रुद्रदत्तः। आपधौ ११, ८, ५,  
४४. प्रम्.। j) पावा ७, १, ५९ परामृष्टः द.। k) शीच ४, ६९ पा १, ३, ५७; ३, १, ४७; ६, १, ५८; ५, ६३; ७, ४,  
१६ पावा १, ३, २९; ४, ५, ५३; ७, १, ६ परामृष्टः द.। l) पामे. वैप १, १६६७ १ द.। m) सपा. आपयं २, १७,  
२७ प्रम् जघान इति पामे.। n) दर्श इति पाठः? यनि. श्लोचः। o) परस्परं पामे.। p) सपा ऐवा ७, १७  
अदृष्टोः इति पामे.। q) पामे. वैप १, १२०८ ३ द.। r) यद् दृ इत्यस्य स्थाने सपा. आपधौ ८, ३, २४ यीयपयते  
इति, शांश्री १२, २३, ५ यीयप्यमाना इति च पामे.। s) पामे. वैप १, १६६५ ४ द.। t) परस्परं पामे.।

भद्रिद्वीयिपोल् निम् ३, १० :  
 ४४; १२ : ४६ × ×.  
 १दरी<sup>०</sup> - पाण ३, १, १३४; - फीः  
 वीथी १४, १६ : ८; आपधौ  
 - संस् आपधौ ५, ८, ८५; वीथी;  
 - संस्य शांय १, ३, ७; कप्र ३, ८,  
 ८; - शांल शांय १, ३, ७; कौस्  
 १३९, १३; कप्र ३, ५, १२; ८, ८;  
 - फीः शांय १८, ५; आमिष्ट  
 १, ५, २ : २०; - रौ वीथी २७,  
 ६ : २७; द्विष्ट; - रौ वीथी १,  
 १९ : ३; ३, १ : १५, ७२ २२,  
 १, १.  
 दासी<sup>०</sup> - रौ वीथी २५,  
 १६ : ६५; कायुड ४२ : २२;  
 द्राय २, १, २; - रौस्य द्राय २, २,  
 ८; - रौ वीथी २७, ७ : २.  
 दासी<sup>०</sup> - रौभिः कौस्  
 २४, १८.  
 दासिक<sup>०</sup> - केषु वैथी २०,  
 २५ : ९.  
 दासिक<sup>०</sup> - की माथी  
 ५, २, १२, ३५; - कौस् वैथी ८,  
 १ : ३; - न्याः आपशु ४, ६;  
 द्विष्ट २, ६.  
 दार्व<sup>०</sup> - र्वम् वीथी १४,  
 ८ : ४५.  
 १दरी-पूर्णमास<sup>०</sup> - सः आमिष्ट  
 १, ७, ३ : ४०; ४१.  
 २दरी-पूर्णमास<sup>०</sup> - सयो आथी  
 १, १, ४; १२, ४, १४; आपधौ;  
 - सा काथी ४, ६, ११; - साभ्याम्  
 आथी ४, १, १; २; १२, ४, ६;  
 आथी; - सी आथी १, १, ३;

२, ८, १; शाथी.  
 दारिपूर्णमासिक<sup>०</sup> - कः  
 द्विथी ४, ५, ६६; - केभ्यः आपधौ  
 २, ११, ६; - केः आपधौ २,  
 १२, ७.  
 दारिपूर्णमासिका(क-  
 आ)भ्य- न्यानि आमिष्ट ३, ५,  
 ५ : १६६.  
 ३दरीपूर्णमास<sup>०</sup> - सैः  
 वैथी १, ७ : ७.  
 दरीपूर्णमास-तम्प्र<sup>०</sup> - न्प्राः  
 जंय १, १ : ५.  
 दरीपूर्णमास-देवता- ताभ्यः  
 शांय १, ३, ३; पाण १, १२, १;  
 काय ५३, २.  
 दरीपूर्णमास-घर्म- माः  
 काथी ४, ३, २; लाथी १०, १६,  
 १३.  
 दरीपूर्णमास-प्रकृति<sup>०</sup> - तयः  
 द्विथी २, ८, ४०; काय १३, ७;  
 - तिः वाय १, ४, - तीनाम्  
 आपधौ १०, ४, १३; मीस् १२,  
 १, ८.  
 दरीपूर्णमास-सन्त्र-  
 न्प्राणाम् शुभ्र १, १४.  
 दरीपूर्णमास-वाजिन्- जी  
 आपधौ २, ४, २; १४, ४; वीथी.  
 दरीपूर्णमास-वाजिन्-  
 न्वम् आमिष्ट २, ७, २ : ३;  
 द्विष्ट १, २६, ३.  
 दरीपूर्णमासयोद्-भयन-  
 - नम् वीथी १८, ५३ : १.  
 दरीपूर्णमास-वन् काथी २४,  
 ४, ३१; २५, १३, २९; आपधौ.

दरीपूर्णमास-विधान- जैन  
 वैष २, १, ६.  
 दरीपूर्णमास (स-आ) प्रय-  
 वेष्टि-चातुर्मास्य-पञ्च-सोम- सैः  
 वाष ११, ४६.  
 दरीपूर्णमास(स-अ)नुयोग्य-  
 न्यानि वैष ५, ४ : २२.  
 दरीपूर्णमास (स-अ) न्त<sup>०</sup>-  
 न्तम् काथी २४, ६, ३३.  
 दरीपूर्णमास(स-अ)घन-  
 -नानि शाथी ३, ११, ४; वैताथी  
 ४३, २८.  
 दरीपूर्णमास(स-आ)रम्भ-  
 -म्भे काथी ४, ५, २१.  
 दरीपूर्णमासिक<sup>०</sup> - कः माथी  
 ८, १, ७६; - कानाम् वाथी १, १,  
 १, ६५.  
 दरी-पूर्णमास (स-अ)मिहोप्रा-  
 (अ-अ)वी<sup>०</sup> - थौ वैथी ११, ७ : ७.  
 दरी-पूर्णमास(स-अ)प्रयणा (अ-  
 अ)थे - रौ द्विष्टि २३ : १२.  
 दरी-पूर्णमास - सयोः गीष्ट १,  
 ५, १; ८, २१; २४; - साभ्याम्  
 वीष्टि २, ४, ११०.  
 दारिपूर्णमासिक, का<sup>०</sup> - कः  
 वीथी १३, १ : २; - कम् वीथी  
 ५, ९ : १४; १३, १ : १२, ८ :  
 १४; माथी १, ५, ५, १; ५, २,  
 १५, ३३; - काः शाथी ५, १६, ७;  
 माथी ६, १५, ५; - कम् माथी  
 २, १, १, १९, - कम् द्विथी ७,  
 ८, १२; - कानि वीथी ५, ५ :  
 ३७; द्विथी ३, ८, २३; वीष्टि १,  
 ४ : १६६; - कायाः आथी २,

a) वैष १ द्र. । b) विप. । भवाद्यर्थे जण् प्र. । c) = ऋन्- । d) = दासि- । टक् प्र. । e) = वेदि- । f) मलो. कत. । g) सत्र. वीष्टि १, ४ : १६ दारिपूर्णमासिकानि, आभ्यानि इति पाठे. । h) सत्रभरी- यस् प्र. लुक् । i) विप. । वस. । j) मल्लार्थीय् टक् प्र. । k) 'सी' इति पाठः १ यनि. शोधः (द्र. संस्कृतः टि.). । l) दस. > वस. । m) ष्ठ इति B. । n) = दारिपूर्णमासिक- ।

१७, २; वीशु ३: १५; -काथि  
जीथी २१, २: १७; -के माथी  
५, १, ८, ११; -केन माथी १२,  
५, १.

दार्शपौणमासिकी<sup>a</sup> - की  
वीथी ५, ५: १०; २१, ६: १३;  
२४, २४: ४.

दार्शपौणमासा(स-अ)थय-  
ये कप्र ३, ८, १०.

दार्श-वृथ वैथी १४, ३: २०; १७:  
५; आम्नि २, ४, ५: ५.

दार्श(श-अ)त्<sup>b</sup> - न्तम् कप्र २,  
९, १.

दार्शत्<sup>c</sup> - पाठ ३, ११०; -फौत्  
आथी ५, ५, २; १०, ५, शाथी;  
या १०, २४; -फौत् शाथी ८,  
२६, १; -फौत् आथी ६, ७, ६;  
७, ४, ३; शाथी.

दार्शन- नम् काथी १, ४, ६; ६,  
१०, १६; २५, ८, २१; जैथीका;  
या ५, १; -नस्य पावा १, २,  
५१; मीथ १, १, १८; -नात्  
शाथी १०, २१, १०; काथी; या  
२, ११, ३, ४; ५, १३; १०, ८;  
-नात् शंथ १३३; गीथ ९, ५५;  
या ५, १३, ९, २७; १२, १५;  
-ने काथी १२, १, १२, २५, १०,  
३; कौत्; -नेन वैथ १, २१: १;  
या १, १४.

दार्शन-मात्र- ने आम्नि २, ६,  
७: १६.

दार्शन-विषय- ये पावा ३, २,  
१११.

दार्शना(न-अ)णू-भाव- वात्  
या ६, ३०.

दार्शना(न-अ)रोहण- -गानि

अप ६८, २, १५.  
दार्शना(न-अ)थ- थै: आपथ १,  
८, १७; २३; २८, ६; हिथ १, २,  
११०; ७, ४२.

दार्शना(न-अ)विरोध- -धाम्याम्  
काथी २२, १, ११.

दार्शनीय, या- -०य या १०, २;  
४२<sup>d</sup>; -फौत्: आपथी २२, २६,  
१९; हिथी २३, ४, ३३; -यम्  
या १०, ८; धैथि ११०; याथि  
२, ८१; -या: वाथ ६, ४; -याम्  
वाथ २, ३५; -याथ या १४,  
२६; -यौ या ६, २६.

दार्शनीया(य-अ)पत्य<sup>e</sup> - न्य:  
आपथ २, १६, २०; हिथ २, ५,  
२०.

दार्शन<sup>f</sup> - न्न: पा ५, ३, ६.

दार्शयत् - यत् वृदे ६, ११९;  
-यत्: अप ७०<sup>g</sup>, ७, ४.

दार्शयाम् ✓/अस (धुवि), दार्शयाम्नात्  
वीथी १८, ४४: ४; वृदे ५, ६३.

दार्शयित्वा वीथी ९, १९: ३८;  
आम्नि.

दार्शयि- > शार्थि- -शार्थी आपथी  
१९, १२, ३; वीथी १९, ३: ७;  
हिथी २३, २, १४.

दार्शयित- -य: अप ३६, ८, २; वृदे २,  
११४; -त्तम् आम्नि २, ६, ७:  
१६.

दार्शयिष्यत् - पत् निम् ३, १२:  
३२; ४३xx.

दार्शयि- -क्षया जैथीका १६७.

दार्शयि- -धु: वृदे ४, १.

दार्शयिष्य<sup>h</sup> - ण्य: आपथी २२,  
२६, १९; हिथी २३, ४, ३३.

दार्श- -क्षे पावा ६, ३, ८८.

दृश- पाग ४, १, ४<sup>i</sup>; ५, ४, १०७;  
दृशि अत्र ५, १, ७.

दृशा- पा ४, १, ४.

दृक्ष-स्ववत्-स्ववत्स- न्यसाम्  
पा ७, १, ८३.

दृग्-दृगा<sup>j</sup> पा ६, ३, ८९; पावा ६,  
३, ८८.

दृशत्<sup>k</sup> - न्तः<sup>l</sup> आपथी २१, ९, १५;  
वाथी ३, २, २, १५; हिथी १६,  
४, १.

दृशान- पाठ २, ९०; -फौत्: काथी  
१६, ५, १; आपथी.

दृशान<sup>m</sup> - नस्य चात्र १६: १४.

दृशि<sup>n</sup> - तार्ये हिथि १८, ११<sup>o</sup>.

दृशि-हान- ने अप ४८, ३९.  
दृश्य(सि-अर्थ<sup>p</sup>)<sup>q</sup> - र्थायाम्  
पावा ३, १, २६.

दृशीर्क<sup>r</sup> - पाठभो २, २, १९; पाग  
६, २, ११८; -कम् या १०,  
८<sup>s</sup> १<sup>t</sup>.

दृशीर्क<sup>u</sup> - क्व: आपथी ११, १३,  
१०; ११; २१, ९, २; हिथी १६,  
४, ५.

दृशु- पाठव १, २३.

दृशो<sup>v</sup> वीथी ८, ५: ७; २८, ३:  
१५; वाधुथी; आपथ २, १, २<sup>w</sup>;  
आम्नि<sup>x</sup> १, १, ४: १४xx;  
वीथ २, ४, ११<sup>y</sup>; भाथ; या १२,  
१५<sup>z</sup>; २४; २६; भाथि १८;  
पा ३, ५, ११.

दृश्य- द्य: कप्र २, ६, ८; -इयम्  
वृदे २, ४२; पा ४, ४, ८७.

दृश्यमान, ना- नम् वाधुथी ३, ८६;  
१३; आम्नि ३, १०, २: ४; -नात्  
वाथी ६, ७, ४; -ने वाथी २,  
७, २; वीथी: -नेत् आपथी ८,

a) = वेदि- । b) विप. । बस. । c) वैप १, १६६६ j द. । d) = आदर्शादि- । e) वैप २, ३४. द. । f) वैप १ द. ।  
g) वृ. पागम. । h) पात्रे. वैप १, १६६७ j द. । i) = कपि-विशेष- । व्यु. ! । j) पात्रे. वैप १, १६६७ c द. ।

१३, २३; बाधो; कौट १, १०, १२<sup>b</sup>.  
 दृषन्- पा ३, १५.  
 दृष्ट, दृष्टा- पाग २, १, ५९; -ष्टः वीथी २०, २ : २८; २५, २० : २×५; निम्; -ष्टम् काथी १, २, २०; वीथी; पा ४, २, ७; पावा १, १, ७; ४, १, ९२; २, ७; मीत् ५, ३, ७; -ष्टा आपथी १२, १२, ३१; वीथी; -ष्टाः वीथी २०, १; १७१; १० : २०×५; निम्; या १४, ११; दानाम् क्रम ३, ४; -ष्टाम् आपथी ३, १, ७; वीथी; -ष्टे काथी १, २, २३; वीथी; -ष्टेन निम् ३, २ : ६; -ष्टेषु क्रमा २, ५; -ष्टौ वीथी २३, १२ : १६; वृदे १, १०१; ५, १४०.  
 दृष्ट-कर्म-त्व- -त्वात् क्रमा १०, १९.  
 दृष्ट-तत् (ः) गोप ३, ५, २७.  
 दृष्ट-त्व- -त्वात् आथी ३, ६, ५; १०, ५, १९.  
 दृष्ट-प्रवाद- -दाः या १, १४<sup>b</sup>.  
 दृष्ट-प्रवृत्ति-त्व- -त्वात् मीत् ७, ४, २.  
 दृष्ट-लि(ङ>)ज्ञा<sup>०</sup> -ज्ञाः क्रम २, २, २३; ५, ४४; -ज्ञानिः वृदे ४, ८०.  
 दृष्ट-विप्रयोग-त्व- -त्वात् पावा १, ४, २१<sup>d</sup>.  
 दृष्ट-व्यव<sup>०</sup> -व्यम् या १, ८; ५, २३.  
 दृष्ट-श्रुत- -ताभ्याम् आपथ १, ३, २७; हिष १, १, १०२.

दृष्ट-सद्वच-चन्द्र- -न्द्रः वैपु ३, २१ : ७.  
 दृष्टा(ष्ट-ञ)दृष्ट-कन्- -न्म् संघ १०१.  
 दृष्टा(ष्ट-ञ)तुविधि<sup>०</sup>-त्व- -त्वात् पावा १, १, ६.  
 दृष्टा(ष्ट-ञ)न्त<sup>०</sup>- -न्तात् वाध १९, १०.  
 दृष्टा(ष्ट-ञ)भ्युद्दृष्ट- -ष्टानि अग्रय २, २.  
 दृष्टा(ष्ट-ञ)र्थ, र्थि<sup>०</sup>- -र्थस्य वा १०, १०; ४६; -र्थं या ३, १०; -र्थं गोध १, ५.  
 दृष्टवत्- -व्यात् विध १, २१; वैध १, ११, १२; वृदे ५, ५८.  
 दृष्टवती- -ती वृदे ८, ३३.  
 दृष्टि- पाग ३, ४, ७४; पावाग ३, ३, १०८<sup>c</sup>; -ष्टिः क्रम ७, २०; -ष्टिम् शैशि १५६; माशि.  
 दृष्टि-पूत- -तम् विध ९६, १४.  
 दृष्टि-विषय-> दृष्टिं विषयिक<sup>०</sup>- -कम् अघ ४८, १३५; वा ७, ८.  
 दृष्टि-वीण- -नम् वृदे ४, २१.  
 दृष्टि<sup>०</sup> (> दार्ढ्य- पा.) पाग ४, १, १३६.  
 दृष्ट्या काथी १६, २, १५; आपथी.  
 दृष्टव्य- -व्यः क्रम १, १, १८; -व्यम् अघ २३, ९, १; पावा १, ४, ५१; -व्याः अघ २३, ७, १.  
 दृष्टुम् विध १, २१; ३३; वृदे १, ५९.  
 दृष्टु- -दृरि पा ५, २, ९१; -ष्टा या १४, ५; -ष्टारः शुभ्र १, ३; -ष्टारम् वैताथी १८, १३; -ष्टुम्यः वृदे ५, १००; -ष्टुंष्टे

आपथी १२, २०, ६; २०, १, १७; वीथी; वैताथी १८, १२<sup>f</sup>.  
 दृश्- , दृग- , १, २ दृगान- ✓दृश् द्र.  
 दृष्टज्ञान- (> दृगानक-) कृष्णतु- टि. द.  
 दृशि-, दृशीक-, दृशीकु- प्रम्., दृधन्- ✓दृश् द्र.  
 दृष्टु<sup>०</sup>- पाठ १, १३१; -पत् आपथी ९, ११, १६; भाथी; कौट ८१, १९१<sup>g</sup>; -पदः भाशि १८; -पदम्; काथी २, ४, १५; ५, ३; आपथी; -पदि काथी २, ५, ५; ३, ८, ११; आपथी; -पदे वैपु ३, ७ : २०; -पदौ भाथी ६, १६, ९; २१.  
 दार्ढ<sup>०</sup>- -दम् शुभ्र १, ६६.  
 दृष्टा, दृष्ट<sup>०</sup>व्युत्- -व्यम् गोप २, १, १५; दृष्ट १, २, १९; -व्रे, -व्रेण आपथ १४, ११; भाग १, २२ : ३.  
 दृष्ट-स्थान- -नम् पावा ८, २, २२.  
 दृष्ट-उपल- पाग २, २, ३१; -लम् काथी २, ३, ८; माथी १, २, २, १७; वाथी १, २, ४, २; -ल्लाभ्याम् भाशि १, ७, १ : १२; २ : ९१; गोप २, ८, २३१; हिपि १० : ८; -ले काथी २, ४, १५; आपथी; आप ४, १, १८<sup>h</sup>; भाशि.  
 दृष्टुपल(ल-ञ)वकास- -वे वीप २, ८, २३.  
 दृषद्-व(न् >)ती<sup>०</sup>- -वस्याः शाथी १३, २९, १४; २९; आपथी २३, १३, २; १३; द्विथी १८, ४-३७; ५०; लाथी १०, १७, १;

a) पाठे. पु ४६३ b दृ. । b) दृष्टि<sup>०</sup> इति स्क. । c) विप. । वस. । d) प्वात् इति गुत्. । e) विप. । वस. (द्र. अभा.) । f) तु. पागम. । g) तस्येदमीयपु ठकू प्र. । h) व्यप. । व्यु. ? । i) उपद्रुष्टे इति C. । j) वैपु १ द. । k) पाठः ? तु. संस्कृतः टि. । सपा. आप ४, १, १८ दृष्टुपले इति पाठे. । l) सास्यदेव-तीयः मन् प्र. । m) गोप. पाठः । n) = नदी-विशेष-

१९,८; -स्याम् वृदे २,१३७।  
 दार्षद्वत्- -त्थ काथी १३,  
 २९, ३१<sup>०</sup>; काथी २४,९, २०;  
 निम् १०,११ : १<sup>०</sup>; -ते आपथी  
 २३, १३, ११; हिथी १८, ४,  
 ४७; लाथी १०,१६,१३<sup>०</sup>।  
 दार्षद्वत्-तीर- -रथो।  
 लाथी १०,१८,१०, निम् ६, १:  
 ९; १९.

दार्षद्वत्-वत् काथी २४,  
 ७,९.

दृपद्वती-तीर- -रेण काथी २४,  
 ६,३६.

दृपद्वत्य(ती-अ)प्यय- -ये काथी  
 २४,६,६.

दृपद् आथी २,७,१२.

दृपारव- -वम् हिपि ६ : ५<sup>०</sup>.

दृष्ट- १-२दृष्टि- , दृष्ट्वा ✓दृष्ट द.

✓दे पाथा. भ्वा. आत्म. रक्षणे।

✓देष् पाथा. भ्वा. आत्म. क्षरणे।

देय- ✓दा (दाने) द.

✓देष् पाथा. भ्वा. आत्म. देवने।

१-२देव- , देव-कृयि- प्रष्ट. ✓दिव् द.

देवत्- पाठ ४,८१.

देवत- > देवति- ( > लायन-

पा. ) पाग २,४,६१.

देवन्तम् - ✓दिव् द.

देवतर- ( > देवतर- पा. ) पाग  
 ४,१,१२३.

देवतरस- > देवतरस- -स काथी

१२,१४,३, आपथी २४, ९, ३;  
 बोथीप्र ३३ : ३; वैष ४,१,६.

देवतरस-वत् आपथी २४, ९, ३;  
 बोथीप्र ३३ : ३; वैष ४,१,६.

देव-तस्, देवता- प्रष्ट., देवन-  
 ✓दिव् द.

दिवना... नाथुथी ४,२६ : ३९.

देवन्त- > देवन्ति- > न्तायन-  
 -नः बोथीप्र ६ : २.

दैवन्व- -न्त्यम् जैष्ट १,१४:१०.

✓देवय, देवयत्- प्रष्ट. ✓दिव् द.

दिवयातुः\* कामिष्ट २, ६, ६ : २४.

देवर- पाठ ३,१३२; कि ६७, -रः

आथ ४, २, १८; वृदे ७, १४;

या ३,१५६; -रम् या ३,१५६;

-पूराः\* आपम १, १, ८; बीष्ट

१,६,२१; -पूराणाम् काथ २५,

४७; वाथ १३, २; -रात् वीथ

२,३,६२; गीथ १८,४.

देवर- (हत् > प्र >) मी- मी कीष्ट

१,१०,२; शीष्ट १,१६,४.

देवर-व(त् >) वी- -स्याम् गीथ

२८,२४.

१-२देव-रथ- प्रष्ट. ✓दिव् द.

देवल- पाठ १, १०६; -लः शंथ

२०१; ऋथ, -लस्य चाथ १६:

२७, -लानाम्\* वैष ४,७,४.

दैवल- -ल आथी १२, १४,

७; ८; आपथी.

दैवलि- ( > लायन- )

देवत-> देवति- टि. द.  
 देवल-वत् आपथी २४,१०,१; २;  
 बोथी.

देवलक- -कात् विथ ८२,८.

देव-वत्- प्रष्ट. ✓दिव् द.

दिवचान- कथा १६,७७.

देववेल्- -लाः बोथीप्र १७ : १०.

देववेशमन्- प्रष्ट., १देव-स्थान-

✓दिव् द.

२देवस्थान- > देवस्थानि- पाग २,

४,५९; -नयः बोथीप्र २० : ३.

१देव-स्पृति- प्रष्ट. ✓दिव् द.

देवा(व-अ)वी- -वीः हिथी २१,१,२.

देविका- प्रष्ट. ✓दिव् द.

देविल- पाठ २,५६.

देवी- , देवीथिय- प्रष्ट. ✓दिव् द.

देवृ- पाठ २, ९९; -पृष्टु आपमं

१,६,६; काथ २५,४७.

देवेज्या- प्रष्ट. ✓दिव् द.

देश- ✓दिश् द.

देशकपटु- -त्तु कीत् ४८,१०.

देशकाल- प्रष्ट., देसीय-, देशय-,

देष्ठी- ✓दिश् द.

१-२देह- प्रष्ट. ✓दिह् द.

देहत्- पाठमोष्ट २,१,२६०.

देहन- -नेषु कीष्ट ३, १०,१०<sup>०</sup>.

देहल- पाठमोष्ट ३,९८; पाग ४,१,४१.

देहली- पा ४, १, ४१; -लीम्

आपथ ६, ९; -लीषु पांष्ट २,

१४,९<sup>०</sup>; -न्याम् भाष्ट ३,१३ =

a) = सप्र-विशेष-। b) "द्र" इति पाठः ? यनि. शोधः । c) अर्थः व्यु. च ? ! = पेषयन् इति  
 भाष्यम् । दृ\* इति आन. । d) = पाप्र-विशेष- । व्यु. ? । e) सपा. मात् १२,५,२,७ वृपारवौ इति, वीथि १,६ :  
 ७ वृपारवम् इति च पाठे. । f) तु. BPG. । g) = शिल्पिन्- । व्यु. ? < ✓दिव् ? इति MW. । h) = ऋयि-  
 विशेष- । व्यु. ? । i) दैवलि- इति पाठा., दैवोति- इति शाकटायन इति पागम. । j) यन् प्र. उत्सं. (पा ४,  
 १,१०-५) । k) पाठः ? देवाः ऋतुः (लुकि प्रपु ३) इति शोधः । l) वैप १, १६६६ h द. । m) पाठे.  
 वैप १,१६६६ वृ द. । n) वैप १ द. । o) बहु. < दैवल- । p) = पूवक- । व्यु. ? । q) स्वरूपम् ।  
 मे\* इति मूठे. । r) = अहिष्मक- । व्यु. ? । s) सपा. 'नेषु < > लीषु इति पाठे. । t) = गृहामग्रहण- ।  
 -व्यु. ? < ✓दिव् इति प्रायोवादः ।



१२; जैष्ठ १, २२ : ११; आपप  
२, ४, २; द्विष २, १, ५५.  
देहलि<sup>०</sup> - लिम् वैग ३, ५ : ३; द्विष  
१, २२, ६.  
द्विहाद्यैर्यात् अप १, ४६, १.  
द्विहि<sup>०</sup> अप १, ११, ४.  
देहिन्- √दिह् द.  
√द्वै पाषा. भ्रा. पर. शोभने.  
द्वेक्ष- प्रच. द्वैक्षोपसद्- √द्वीक्ष् द.  
द्वैड<sup>०</sup> - डः गो २, ६; -डाः गो २, ९.  
द्वैडो<sup>०</sup> - डो गो २, ७; -ड्यः  
गो २, १०.  
द्वैत्य- प्रच. द्विति- द.  
द्वैषिषव्य- रद्विषिषु- द.  
द्वैन्य- √द्वी (स्रवे) द.  
द्वैयांपाति- यांपान- द.  
द्वैरस- द्विरसा- द.  
द्वैर्ध- द्वैर्धतम- प्रच. दीर्घ- द.  
द्वैलीपायन- प्ति- द्विलीप- द.  
द्वैय- प्रच. √द्विच् द.  
द्वैचकि<sup>०</sup> - किः वीथी प्र १० : ३!<sup>०</sup>  
द्वैवत- प्रच. √द्विच् द.  
द्वैवतरस- देवतरस- द.  
द्वैवतरेय- देवतर- द.  
द्वैवतायन- द्वैवति- देवत- द.  
द्वैवत्य- द्वैवदन्ति- ०द्वान्तिन्-  
०द्वान्तिन्- ०दास- √द्विच् द.  
द्वैवन्तरपत्त- ०वन्ति- ०वन्य-  
देवन्त- द.  
द्वैवमतायन- प्रच. √द्विच् द.  
द्वैवयातच- ( > रद्वैवयातचक- )  
√द्विच् > देवयात- टि. द.  
रद्वैवयातचक- √द्विच् > देवयातच-  
टि. द.

द्वैचल- प्रच. देवल- द.  
द्वैचरथायनि- प्रच., १-२द्वैचिक-  
द्वैची- द्वैवीधिय- ०चक- प्रच.  
√द्विच् द.  
द्वैचोति- ( > ०तायन- ) देवत- >  
द्वैवति- टि. द.  
द्वैचोदास- प्रच. द्विचोदास- द.  
द्वैच्य, द्वैच्य- प्रच. √द्विच् द.  
द्वैच्योय- द्वैचिक- द्विच् द.  
√द्वौ √दा द.  
द्वैच्युम् प्रच. √द्विच् द.  
द्वैट<sup>०</sup> - ( > ०टी- पा. ) पाय ४, १, ४१.  
द्वैडी- पा, पाय ४, २, १६७.  
द्वैला<sup>०</sup> - ( > दोलक- पा. ) पाय  
५, ४, २६.  
द्वैप- प्रच. √द्विच् द.  
द्वैपन्<sup>०</sup> - नपणो आधो ३, ३, १;  
शाधो ५, १७, ५; माधो ५, २, १,  
४; -व्यः वीथी ४, ९ : ३; ८;  
माधो ७, १८, १२; १६, ४.  
द्वैपव्य<sup>०</sup> - व्यम् आपनं १, १७, २१.  
द्वैपा<sup>०</sup> - पाउच् ४. १७५; पाय १, १,  
३७; -नृपा आधो ८, १, १८;  
११, ३; आपधो ९, ७, ३<sup>०</sup>; वीथी  
२८, १२ : ६<sup>०</sup>; ७<sup>०</sup>; माधो ९,  
१, १०<sup>०</sup>; माधो ३, ३, ५<sup>०</sup>; वीथी  
२, २ : १२<sup>०</sup>; अप्राय ४, ४; अप  
४८, ७४; ११६; वृदे ३, १०९,  
साभ १, १७७<sup>०</sup>; निष १, ७; या  
३, १५४<sup>०</sup>; ४, १७; -पाम् ऋग  
९, १११.  
द्वैरोषा-वस्तु<sup>०</sup> - ०स्त. आधो ३,  
१२, ४<sup>०</sup>; ४, १०, ३; वीथी ३,  
८ : २६; द्विथी १५, २, २०;

गाय ५, ४, ४<sup>०</sup>; ऋषा.  
द्वैपिन्- √द्विच् द.  
द्वैपोगाय<sup>०</sup> वेताथी १७, २; वीपु २३,  
२, ५०, १३, ५२, २५; अग्र ६, १.  
द्वैस्<sup>०</sup> - पाउ २, ६९; दोः आधो १२-  
९, ६; आपधो ७, २२, ६<sup>०</sup>; वीथी;  
या ४, ३४<sup>०</sup>; दोर्धाम् अप ६८,  
२, २; २, १०; दोयम् वाधो २,  
१, ६, ४.  
द्वैष्क- पत्ता ७, ३, ५१.  
द्वैह- दोहन- प्रच. √द्विच् द.  
द्वैत्य- द्वा- द.  
द्वैरक्षि<sup>०</sup> - किः वीथी प्र २७ : १.  
द्वैरार्द्धि- दुरार्द्धि- द.  
द्वैर्गैर्ह<sup>०</sup> - हः अप ४८, ९३; निष  
१, १४.  
द्वैर्गायण- रदुर्ग- द.  
द्वैर्जाचित्य- दुर्जावित- द.  
द्वैर्जित्य- दुर्जित- द.  
द्वैर्भागिन्येय- १-२द्वैर्भाग्य-  
दुर्भाग- द.  
द्वैर्भात्र- दुर्भात्रि- द.  
द्वैर्भनसायन- रदुर्भनस्- द.  
द्वैर्भिन्नि- रदुर्भिन्नि- द.  
द्वैर्हद- दुर्हद- द.  
द्वैर्हदय- दुर्हदय- द.  
द्वैवारपाल- ०लि- प्रच. द्वार- द.  
द्वैपकगति<sup>०</sup> - ( > ०तायन- ) पाय २,  
४, ६१.  
द्वैःपन्ति- दुःपन्त- द.  
द्वैष्क- दोस्- द.  
द्वैष्कुलेय- दोष्कुल्य- दुष्कुल- द.  
द्वैष्कुल्य- दुष्कुल- द.  
द्वैष्कव- दुष्क- द.

a) = देहली-। b) पाठः इ। सपा. शो १९, ७, ४ देवी इति। मा. च तत्र = देव्यः इत्याह ?।  
c) पाठः इ। यथाकमम् ऐड- , ऐडी- इति शोषः (इ. वैप १, १६७० c)। d) = कवि-निशेप-। सु. !। e) दे-  
इति पाठः। यनि. शोषः (इ. संस्कृतः टि.)। f) इ. पायन.। g) वैप १ द.। h) पाठे. वैप १, १६७० m  
द.। i) वैप १, १६७० n द.।

दौष्युह्य- दुष्युह्य- द.  
 दौष्यन्ति- दुष्यन्त- द.  
 दौष्याप्य- दुष्यन्त- द.  
 दौष्यप्य- दुष्यन्त- द.  
 दौःस्थ- दुःस्थी- द.  
 दौहिक-  $\checkmark$  दुह् > दोह- द.  
 दौहित्- प्रायण- दुहितृ- द.  
 दौस्व- पाठ ३, १३, ६.  
 दौपात- > दौपाति- -त्ये भासि  
 २८१.  
 दौवा  $\checkmark$  दिव् द.  
 दौवाकतो<sup>०</sup> अप्राय ३, १०.  
 दौवाप्तम् प्रभ.  $\checkmark$  दिव् द.  
 $\checkmark$  द्यु पाधा. अदा. पर. अग्निगमने.  
 द्यु- प्रभ.  $\checkmark$  दिव् द.  
 द्युक्ष- -क्षः ऋभ २, १, ५३; -क्षम्  
 आपथी ६, १७, १०; माथी ६,  
 ४, ४, हिथी ६, ६, १६; -क्षाय  
 आय १, १, ४.  
 द्यु-मात्- -मात् अय ४८, १०६;  
 निघ २, १५.  
 $\checkmark$  द्युत् पाधा भ्वा. आत्म. दीप्ती,  
 चोत्ते वेताथी १४, ११, अप्राय  
 २, ७, अय ४८, २०१, निघ १,  
 १६१, भवोत्त या ११, ३६.  
 द्युतोयति लाथी ७, १२, ६;  
 १०; चोतयेत् आथो ३, २.  
 द्युदियुत् आथो ४, ६, ३,  
 माथी ५, १, ७, बीथी ६, १४;  
 १५, या ६, १२; अय ३, ४, १.

द्विघोत् या ११, ३६१४.  
 द्विघुत् > च-व(त् >) वी- वी-  
 निम् ४, १३; १६.  
 द्विघुत्- पा ७, ४, ६५.  
 द्वीघुत्- -प्रायण लुम् १, १;  
 १७, २; १; ८; १; माथ २, ४.  
 द्विघुत्- -नः शोथी ८, २२, ११.  
 द्विघुत्- घुत्भ जैय २, १; ३०; घुते  
 आपथी १६, २७, ३; बीथी १०,  
 ४६; १६; माथी २, २, १, ११.  
 घुत्- > घुत्-याम्-  
 -माम् आथी ४, १६, २; ऋभ  
 २, ५, ६०.  
 घुत्- जंथी ४ ७६.  
 घुत्- -न माथी ८, ५, ३०१,  
 आपथी; ऋभ २, ८, १६; साथ  
 १, ३२६; -नस्य आथी १४,  
 २५, ७; -नेन शोथी १३, १२, ३.  
 घुत्- -नम् लुम् १, ११;  
 २६; -ने लाथी ८, ६, ५.  
 घुत्- -तिः बीथी २८, ४; ३०;  
 -निम् अय ६२, ८, २; शोथ  
 १३६; ५४; बीथ ३, ८, ३६.  
 घुत्-मात्- -मात् विघ १, ७.  
 घुत्-मात्- पाठय २, ७८; -नम्  
 अय ४८, ६४१, -प्रा<sup>१</sup> अय ४८,  
 ११०; निघ १, ८, -ना<sup>१</sup> या २,  
 २०, ७, १५.  
 घुत्-कर्मन्- -मणाम् या  
 १४, १२.

घुत्-वत्- -वान् या ६, १९.  
 घुत्-वत्- -वत् अय २४, ४, २.  
 घुत्-वत्- -नस्य अय ६, ३.  
 घुत्-वत्- -त्ये पाधा ३, १, १२५.  
 घुत्- पाठयो २, २, १०४; -नः ऋभ  
 २, ५, २३; -प्रा<sup>१</sup> माथी २, ५,  
 १२; ५, १३, ६०; ८, ११, ४;  
 माथी; आपथ २, ११, २००; या  
 ५, ५१; -प्रा<sup>१</sup> माथी ३,  
 १५, ५; बीथ २, ४, १३; -प्रा<sup>१</sup> माथ  
 माथी ३, १२, २३; शोथी;  
 अय ५, ११; -प्रा<sup>१</sup> माथी  
 २, ३, १७; ९, २२, ५; काथी;  
 -नः आथी २, ८, ३१.  
 घुत्-प्रा-साह- -साहम् ऋभ  
 ९, ३१.  
 घुत्-मात्- -मात् आथी ४, १५, २;  
 ऋभ २, ८, ८७; अय ४८, ११६;  
 ऋभ ७, २९.  
 घुत्-मात्- -मात् आथी १८,  
 १३, २१; बीथी १२, ९; ८;  
 हिथी १३, ५, २१.  
 घुत्-मात्- -कः ऋभ २, ८, ८७.  
 घुत्-मात्- अय ३६, १, १२.  
 घुत्-मात्- पाठ १, १५६.  
 घुत्- प्रभ. घुत्-  $\checkmark$  दिव् द.  
 $\checkmark$  द्यु पाधा. भ्वा. पर. न्यकारणे.  
 घो-  $\checkmark$  दिव् द.  
 घो(तः)ता- -ताम् आपथ ३, १२.  
 घोप्यते अय ४८, २०.

a) तां घव इति पाठ ? पघव (लोडि नपु१) इति शोधः (द्र. विश्वनाथः BC. प्रभ. च; वैदु.  
 जयरामः [पक्षे] अन्यथा-भ्यास्थानः) b) वैय २, ३४. द.। c) अर्थः व्यु. च ?। d) वैय १ द.। e) या १,  
 ६, ५, १०, ७ या १, ३, ११, ३, १, ५५ पावा १, ३, ७९ परायुष्टः द.। f) द्विघुत्तया [अ ९, १४, २८] इत्यस्यात्तुकरणम् ।  
 g) घुत्तानः (मा ५, २७) इत्यस्यात्तुकरणम् । h) विघ व्यप. (ऋभ. सा. प्रभ.) । i) = साम-विशेष- । j) घुत्तिया इति  
 पदसूची । k) भावे कर्ताय च कृत् । l) वैय १, १६७२ म द.। m) विघ.। वत्.। n) पांथे. वैय १, ११७६ a द.।  
 o) पांथे. वैय १, १६७३ d द.। p) घुत्ते इति पाठः? यनि. शोधः (द्र. आपथी ९, १, १)। q) पांथे. वैय १,  
 १६७४ c द.। r) = ऋभ-विशेष-। व्यु. ?। s) किर. अनुत्करणम् । t) पांथे. वैय १,  
 इति पाठः. घु-वत्- इति प्रा. प्रभ.। u) = कन्या-विशेष-। व्यु. ?।

घोत्र- पाउमो २,३,७८.

१द्वयन्ति अप ७०<sup>१</sup>, ११, ८.

द्विमन्- ✓इह द्र.

१द्विघस- भयो आपधो १२, १८, १८; वीधो.

द्वस्- -पंसः आधो ३, १३, १५; ४, ७, ४; ५, २, ६; ८, ३, ३३; शाधो; काधो २, ६, १६<sup>०</sup>; हिधो १, ६, ८०<sup>०</sup>; शुध १, ८३<sup>०</sup>; या ५, १४<sup>०</sup>; श्राध १४, ५८; -पंसम् जैधो ९: २७; अम १८, १; वा ५, १४, -पंसस्य आधो ४, ६, ३; बाधो ५, ९, १४; -पसात् वीधो ७, ७: २२××; दाधो; -पसानाम् दाधो ७, २, ११; लाधो ३, २, ११; -प्सेन कोम् १२, १०; ३६, ११.

द्वस्-आसान-सख्य-विसर्जन- ने आधो ७, १, ६.

द्वस्त-व(र >)वी- -वोनिः आपधो १३, २०, ८; -स्या वेलाधो २३, २२<sup>१</sup>.

द्वप्सा(प्त-श्च)नुमन्त्रण->जी- (य>)या- न्या वीधो १४, ४: ४७, -या. वीधो १४, ५: ३४, -यासु वीधो २१, १७: २३; २५, १८: ११.

✓द्वम् पाधा. स्वा. पर. गतौ, द्वयति वृदे ७, १२९<sup>१</sup>; मिध २, १४<sup>१</sup>, या ११, ५.

द्वद्रमण- पा ३, २, १५०.

द्विमिड- पाउना १, १०७.

द्वघ- ष्वण-, वार- ✓हु द्र.

द्वघदिड- -डम् निम् ८, २: ४१;

-डानि निम् २, ११: ४.

द्वघस्- ✓द्वघस्य ✓हु द्र.

द्विघिड- -डाः अप ५६, १, ५; -दात् अप ५०, १, ५.

द्विघिण- पाउ २, ५०; -पंण आपधो ४, १२, १०; माधो ४, १८, ७; -पंणम् शाधो १, १५, १७; ३, २०, ४<sup>१</sup>××; काधो २, २, २१; ९, ३. १८<sup>०</sup>××; आपधो १, १०, ६<sup>१</sup>××; ५, १८, १<sup>१</sup>; २०, २०, ९<sup>१</sup>; वीधो; हिधो २, ७, ५०<sup>०</sup>; ३, ४, ५४<sup>१</sup>; \$या ८, १<sup>०</sup>; -णा आधो २, ७, ११; वीधो १०, ४९: २२; या ८, १८; -णानि आपधो १७, १८, १<sup>१</sup>; आघ १, १५, ३<sup>१</sup>; शाय; या ८, १८; -णाय आपधो १७, २, ६<sup>१</sup>; -पंणे आपधो १६, ३०, १; १७, ५, १२; वीधो; -णेन माधो १, ६, २, १७<sup>१</sup>.

द्विघिण-प्रवा(द>)वा- -दा. निम् ६, ११: ८.

द्विघिण-व(त>)ती- -तीम् विध २०, ७.

द्विघिण-सादिन्- -दिनः या ८, २, द्विघिण-सानिन्- -निनः या ८, २, १द्विघिण-स्पर्धन्- -धंसु जैधो १२, १द्वि(घि>)ण-वत्- -वत् तैवा ३, ५; भाशि १०१.

द्विघिणस्- -णसः या ८, २<sup>१</sup>कु.

✓द्विघिणस्य > द्विघिणस्यु- पंस्ववः आपधो १७, ७, ४; वीधो ३, २: ५; वीधो १२, ५;

४; हिधो १२, २, २४; निम् ३,

१: ४८; -स्युः पा ७, ४, ३६.

द्विघिण-वत्- -वत् वीधो १७: ११.

द्विघिणो-द- -०द कप्र २, ४, ११; -दः वृदे ३, ६१; ६२; ६५.

द्विघिणो-दस्, वा- -०दः वा ८, ३<sup>१</sup>; -दसः श्रय २, १, १५; वृदे ३, ६५; वा ८, २<sup>१</sup>; -दसम् कप्र २, ४, १; वृदे २, २५; ३, ३८; -दते श्रय २, १, १६; वृदे ३, १२९; -पंदाः आधो ५, २०, ६; शाधो; आपधो १७, ५, १२<sup>०</sup>; वीधो १०, ४५: २६<sup>०</sup>; वीधो १९, ५: २५<sup>०</sup>; हिधो १२, २, १<sup>०</sup>; वृदे ३, ६३<sup>१</sup>; या ८, १<sup>१</sup>कु; २<sup>१</sup>; -दाम् वीधो २५, २१: ११; वा ८, २<sup>१</sup>.

द्विघिणोदस्- -सः वृदे ३, ६४; या ८, २<sup>१</sup>कु; -सम् या ८, २<sup>१</sup>; -साः या ८, २<sup>१</sup>; -सात् वेताधो २०, ५.

द्विघिणोदा (दा-ष्वा) दि-प्रार्थन- -नम् अम ५, ३.

द्वघी✓कु ✓हु द्र.

१द्वघ्य- पाग ५, ३, १०३<sup>०</sup>; -व्यम् काधो १, २, २; ४, १७; आपधो; पा ५, ३, १०४; पावा २, १, १; मीत् १, ३, ३४; -व्यस्य काधो ४, ३, १; काधोसं: -व्याणम् वीधो २७, ४: २१; निम्; -व्याणि हिधो ३, ८, ४१; निम्; -व्यं काधो ३, २०, १; ९, १, ३; हिधो; -व्येण शाधो ४, १, ३;

a) वैप १ द्र. b) पागे. वैप १, १६७४ k द्र. 11 c) विप. (अनु- 1 अ १०, १७, ११-१३)।

d) एवोः इति पाठः? वनि. शोधः (उ. ८.) e) वैप २, इहं. द्र. 1 f) = देश-विशेष, तद्वानि. 1 व्यु. ? 1

g) पागे. वैप १, १६७५ ह द्र. 1 h) पागे. वैप १, १६७५ ई द्र. 1 i) पागे. वैप १, १६७५ i द्र. 1

j) पागे. वैप १ द्वयणम् मे ४, १४, १ डि. द्र. 1 k) अर्थः व्यु. च? 1 l) सप्र. षसः <> षाः इति पागे. 1

m) = इष्टका-विशेष- 1 n) = द्विघिण- 1 व्यु. १ पात्र. < हु- इति 1 o) वृ. पागम. 1

आपधः—अपेयु काथी ४,३,१९;  
 १४,२,३३; निम्बु;—अपेयः माथी  
 ४,१,२; मीन् ६,१,११.  
 द्रव्य-क- वा ५,१,५१.  
 द्रव्य-कर्मन्- मंगाम् मीन् ४, १,  
 २१.  
 द्रव्य-कल्प- रूप. निम्बु ८,४,३७.  
 द्रव्य-कृत- वाः आपध २, १७,  
 १०; हिध २,५,१९.  
 द्रव्य-गुण- गुणोः मीन् ३,१, ११.  
 द्रव्य-गुण-विकार-व्यतिक्रम-प्रति-  
 पेध- अे मीन् ९,२,४०.  
 द्रव्य-गुण-संस्कार- रेपु मीन् ३,  
 १, ३.  
 द्रव्य-गुणीभाव- वात् मीन् २, २,  
 १९.  
 द्रव्य-चिकीर्षा- र्पायम् मीन् ४,  
 १,२०.  
 द्रव्य-तक्षः(ः) मीन् १०,२,६६.  
 द्रव्य-वाग- गाः द्विपि १४ १८.  
 द्रव्य-व- ववे मीन् १२,४,१०.  
 द्रव्य-देवता- वात् शुभ ३,४४,  
 मीन् ११,२,३,८.  
 द्रव्य-देवता-वत् मीन् ११,२,२९.  
 द्रव्य-देवता-युक्त- कः काथी  
 ४,३,१.  
 द्रव्य-देवता-विधि- विः मीन्  
 ६,४,३०.  
 द्रव्य-देवता-विरोध- अे काथी  
 ४,३,९.  
 द्रव्य-देवता-वि(वा>)य- यम्  
 मीन् ४,२,३७.  
 द्रव्य-देवता-प्रादान-सन्निधान- अे  
 वाय ११,४४; गीध १५,४.  
 द्रव्य-विषय- सः द्विपि १६: ५.  
 द्रव्य-निर्देश- से मीन् १०,५,७३.  
 द्रव्य-पर-त्व- वात् मीन् ३, ४,

२३.  
 द्रव्य-मरिग्रह- द्वेषु आपध २,१४,  
 १९; २०,१९; हिध २,३, २९;  
 ५, १०४;—हेः आपध २, २६,  
 १७; हिध २,५,२१२.  
 द्रव्य-पृथक्-त्व- स्वात् मीन् २,  
 २,१९;—स्वेन हिधौ १,१, ३९.  
 द्रव्य-पृथक्त्व-दर्शन- नम् पावा  
 १,४,१०८.  
 द्रव्य-प्रकल्पन- नम् आपधौ ४,१,  
 २; हिधौ ६,१,७.  
 द्रव्य-प्रदान- नात् आप्तिपु ३,१२,  
 १: २७.  
 द्रव्य-प्रदान-त्व- स्वात् मीन् २,  
 १, ८.  
 द्रव्य-प्रयोजन- नम् बौध १, ५,  
 ४७.  
 द्रव्य-फल-भोग-संयोग- गात्  
 मीन् २,२,१४.  
 द्रव्य-भेद- दात् पावा १, २, ६४;  
 —दे काथी १,५,१३.  
 द्रव्य-भेदा(द-आ)धय<sup>०</sup>- यम्  
 वा ७०,४,५.  
 द्रव्य-मूल- लम् वाध २,४९.  
 द्रव्य-लक्षण- णानि निम्बु ३,१: २.  
 द्रव्य-लाभ- अे गीध २२,३३.  
 द्रव्य-वत् विध २३, ३४; पावा;  
 मीन् १०,५,१३.  
 द्रव्य-वत्-त्व- सः काथी २२,  
 ४, ७.  
 द्रव्य-वत्-ता- ना हिधौ ३,१, ९.  
 द्रव्य-वत्-त्व- न्वात् मीन् ६, १,  
 ११.  
 द्रव्य-विकार- नः निम्बु ६, ७:  
 ३४; १०: ११××; मीन् १०,  
 ४,१८;—रत् मीन् १२,४,९.  
 द्रव्य-विधि-सन्निधि- धी मीन्

१०,३,३९.  
 द्रव्य-वृद्धि- द्विम् वाध २,४९.  
 द्रव्य-व्यतिरेक- कात् मीन् ९,२,  
 ३३.  
 द्रव्य-वन्द- वदः मीन् ८,३,१७.  
 द्रव्य-शुद्धि- वदिः गीध १, ३१;  
 —द्विपु विध २३,३९.  
 द्रव्य-शुद्धि-कृत- कृत शोध  
 १६३.  
 द्रव्य-श्रुति- नैः मीन् ६,४,२९.  
 द्रव्य-संयुक्त- कम् मीन् ६, १,  
 ११.  
 द्रव्य-संयोग- गाः मीन् २,२, १७;  
 ६, १, ४०;—गात् मीन् २,२,  
 १७;—नैः वा ७,६;७.  
 द्रव्यसंयोग(ग-अ)र्थ- अम्  
 मीन् १०,१,९.  
 द्रव्य-संविभाग- गाः बौध २, ३,  
 १९; गीध ५,२२.  
 द्रव्य-संस्कार- नः मीन् ३,८,३१.  
 द्रव्यसंस्कार-तद्देव- दाभ्याम्  
 काथी १,८,२१.  
 द्रव्य-संस्कार-कर्मन्- मीन् मीन् ४,  
 ३,१.  
 द्रव्य-संस्कार-विरोध- अे आपधौ  
 २४,३,४७; मीन् ६,३,३९.  
 द्रव्य-संस्कार-हेतु-समुदाय- यम्  
 मीन् ९,१,११.  
 द्रव्य-समवाय- वात् मीन् १२,  
 ४,६.  
 द्रव्य-समाप्त- सेन निम्बु ८, ५:  
 २२.  
 द्रव्य-समुच्चय- वाः आपधौ २४,  
 २,८.  
 द्रव्य-समुद्देश- वाः निम्बु २,११:  
 १××.  
 द्रव्य-संपन्न- वः मीन् ६,१,३९.

a) द्रव्यसंयोगात् इति जी०. । b) विप. वद. । c) रयवत् इति जी०. ।

द्रव्य-सामान्य- -न्यम् द्विधौ ३,  
१, १९; -न्यात् काधौ १५, ९,  
२७; २३, २, १६.  
द्रव्य-सिद्धि-त्व- -न्यात् मीसू ६,  
१, ३३; ७, ८.  
द्रव्य-द्विद-सन्न-कर्मा (र्म-आ)  
दि- -द्वौ नाम् वीष्ट ४, ५, २.  
द्रव्य-द्वस्त- -स्तः संघ १७१;  
विष २३, ५५; गौष १, ३०.  
द्रव्या (व्य-आ) गम- -मः निम् ८,  
३: १२; ९, ४: २०; -मम्  
निम् ४, १३: १५.  
द्रव्या (व्य-आ) दान- -नम् गौष  
१८, २५.  
द्रव्या (व्य-आ) देहा- -शौ मीसू ७,  
३, १९.  
द्रव्या (व्य-अ) न्तर- -शग २, १,  
७२; -रे मीसू ६, ३, ११ x.  
द्रव्यान्तर-वत् मीसू ११, ४, ४६.  
द्रव्या (व्य-अ) न्वय- -याः आधौ  
४, १, २०.  
द्रव्या (व्य-अ) पचय- -ये गौष २२,  
७.  
द्रव्या (व्य-अ) पचार- -रे माधौ ३,  
१, ३.  
द्रव्या (व्य-अ) भाव- -वात् काधौ  
२२, १, १२. -वे द्विधौ ३, १,  
२७; वीषि २, १०, १; ४; मीसू  
६, ३, ४०.  
द्रव्या (व्य-अ) भिधान- -नम् पावा  
१, २, ५८; ६४; -नात् मीसू  
१०, ४, ५३; -ने पावा १, २, ६४.  
द्रव्या (व्य-अ) र्थ-संग्रह- -हः संघ  
२४६.

द्रव्या (व्य-अ) लाभ- -भे वाधौ १,  
१, १, ६९; वीष २, ७, २७.  
द्रव्या (व्य-आ) वृत्ति- -त्तौ माधौ  
३, १, ५.  
द्रव्ये (व्य-ई) षु- -ष्णुः द्राधौ ६,  
२, १४,  
द्रव्यै (व्य-ए) कत्व- -न्यात् मीसू ९,  
१, २७; ११, ४, ४८; -त्ये मीसू  
३, ५, १६.  
द्रव्यो (व्य-उ) भसर्ग- -गाव् मीसू ९,  
४, ५२.  
द्रव्यो (व्य-उ) पकल्पन- -नम् वाधौ  
१, १०, ३.  
द्रव्यो (व्य-उ) पदेश- -शाः मीसू २,  
१, ११; -शात् मीसू ८, ४, ५.  
द्रव्यो (व्य-उ) पवत्ति- -त्तेः मीसू ६,  
४, २८.  
द्रव्यो (व्य-उ) पयोग- -गावि भाधौ  
१०, ५, ८.  
द्रव्यो (व्य-उ) पस्थापन- -नम् वैधौ  
३, १: ६.  
२३२१- द्- द.  
द्रष्टव्य- , द्रष्टुम्, द्रष्टु- √दृष्ट द.  
द्रहिल- -लम् माधौ ५, २, १४, १४.  
√द्रा पाधा. अरा. पर. कुस्तायी गतौ,  
द्राति निय २, १४†; या २, ३४.  
† द्राण- -णम् माधौ १३, १२, १;  
१४, ३२, ४; आपधौ; या १४,  
१८†.  
द्राण-व (त् >) वी-वत् निम्  
५, ४: ३.  
द्राति- > द्राति-कुस (न >) ना-  
ना या २, ३.  
द्रा- वेणो १८.

द्राक्षा-<sup>१</sup>- पाठभो २, ३, १९१; पा, पाग  
४, ३, १६५; ६, २, ८८; ८, २,  
९; फि ५७; -क्षाम् शेष २२०.  
द्राक्षा-प्रस्थ- पा ६, २, ८८.  
द्राक्षा-नत्- पा ८, २, ९.  
√द्राष् पाधा. भ्वा. पर. शोषणाल-  
नर्थयोः.  
√द्राष्<sup>२</sup> वापा. भ्वा. आत्म. तामर्थ्ये  
आयामे च, द्राचयन्ति ऋषा  
१४, ५१.  
द्राष्- > द्राधिप्रत्- पा ५, १,  
१२२.  
द्राधीयस्- -यः माधौ ८, १५,  
११; द्विधौ ५, ४, ११; आष्ट २,  
९, २†; आशिष्ट; माष्ट २, १,  
१३†; -वांसम् आपध २,  
१६, २४; द्विष २, ५, २३;  
-वांसौ वीधौ १०, १९: ८;  
वीज ५: १४; तेषा १६, १३†;  
-यान् आपधौ १, ५, १०; ८,  
१३, १३; माधौ.  
द्राधीयसी- स्तौ ऋषा १  
३३; ६, ४८.  
द्राधित्, ता- -तः ऋषा १, ७५  
-तम् निम् ६, ७: २४; -ता  
ऋषा ४, २९.  
√द्राङ्क् पाधा. भ्वा. पर. घोरवासिते.  
√द्राङ् पाधा. भ्वा. आत्म. विसारये.  
द्राचयित्- √हु द.  
द्राविणोदस- द्रविणस्- द.  
√द्राह पाधा. भ्वा. आत्म. निद्राक्षये  
निक्षेपे च.  
√हु<sup>३</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ, द्रवति  
वैधौ ८, ४: ११; २०, २१: ४;

a) विष. 1. बस. 1. b) = वरासी- (= स्थूलगटो- इति खदत्तः । सप्र. आपधौ १४, १३, ३) । व्यु. 1. 1.  
c) = आर्द्र-निक्षत्र- । d) = लता-विद्योप- वा तत्फल- वा । व्यु. 1. 1. e) या २, १६ परानुष्टः द. । f) वैष १  
द. । g) पाभि. वैष १, १७७७ j द. । h) या ४, ३; ५, १, ६, ४; ८, १ पा १, ३, ८९; ३, १, ४८; ७, २, १३; ४, ८१  
पागवा ६, १, १५६ परानुष्टः द. ।

निघ २, १४१; या ६, २५५; द्रवति या ११, ११; ऋद्रव्य शार्थी १७, १२, ४; द्रवेत् वैथी २०, १६: १३.

द्रवयन्त ऋषा २, ४५१. ऋद्रव्य>या शार्थी १२, ९, ११; ऋषा ८, ३२.

द्रव<sup>१</sup>-त्वम् या १४, २९; -वाणाम् माथी १, २, २०; वाध १४, २६, विध २३, ३०; -वाणि आपथी २, २०, ४; -वे वीथी २७, ३: ६; वैथी २०, २९: २. द्रव-त्व- -त्वम् मीव् ८, २, १८.

द्रव-द्रव्य- -व्ये वप्र १, ८, ११.

द्रव-भृति-रपत्- -त्तयो: पा ६, १, २४.

द्रव-सामान्य- -न्याव् मीस् ८, १, ४०<sup>b</sup>.

द्रवी-√क>द्रवी-कृ(त>)वा- -ता: वैथी १२, ६: ११७.

द्रवी-कृत्य आपथी १७, १९, ३, द्विथी १२, ६, ५.

ऋद्रवण- -णात् उनिस् ७: ४४; -जे आपथी २२, २६, १०; वीथी १८, १०: ३; १०; द्विथी २३, ४, २५, चाध ३८: ५

द्रव<sup>२</sup>- -वृत्त्वं अय ४८, १०६; निघ २, १५ -वृत्त: वीथी ११, ८: २५, १५, २९: १७; -वृत् वीथी २०, ५: २०५; -वृत्त: वाधुथी ४, २६<sup>c</sup>: ६; कौय ५, ३, २५; -वृत्तन्ता आपथी १२,

१४, १५; द्विथी ८, ४, १७. द्रवस्- (>√द्रवस्व पा.) पाग ३, १, २७.

द्रावपितृ- -ता या १०, ८.

द्रुत,ता- -त्वम् अय ६२, ४, ३; वैध ३, ७, ३; या ३, १९; -ता माधि १, १; ३; -ताम् ऋषा १३, ४६; ४९, पाणि; -तायाम् ऋत २, ४, १; माधि १, ५; पावा १, १, ७०.

द्रुत-कनक->कनक-विद्रुम-स्कटिक-वैदूर्य-वर्ण- -णम् अय ६५, २, १.

द्रुत-गमन- -नात् उनिम् ७: ४४.

द्रुत-व(र>)रा- -रा या ३, १०.

द्रुत-मध्य-विलम्बित->ता- -ता: माधि १, १; कौयि ५८.

द्रुत-विलम्बित- -तयो. पावा १, १, ६९.

द्रुगत(आ)दि- -दिषु पावा १, २, २७.

द्रुत्वा वीथी ६, २६: ११५.

द्रु<sup>३</sup>- पाउमो २, १, ३४; पाग ८, २, ९; द्रु या ४, १५; भाधि १७१.

द्रुव्य- पा ४, ३, १६१.

द्रु(हृव>)थी<sup>४</sup>- -मीम् कौस् २५, १७; २६, ३.

द्रुज्या(मी-आ)र्षी-ज्यापाश-नृण-मूल- -स्तानि कौस् १४, १३.

द्रु-य(दु>)थी- पाग ५, ४, १३९. द्रु-म<sup>५</sup>- पा ५, २, १०८; पाग ८, २, ९; पाताग ४, २, ५१; -म: अय

७१, ११, १; या ९, १२; -मम् अय ६८, ५, ३; -मा: अय ६४, ८, १५; -माणाम् अय ६४, ४, १; -मान् वाध २७, २; -मे अय ७०<sup>f</sup>, ७, १३; -मेभ्य: अय ६४, ९, २; -मै: अय २१, ४, १.

द्रौम- -मै: अय २७, १, १.

द्रुम-गुल्म-वह्नी-वृत्तौ(ता-वो)व-धि- -धीनाम् विध ३७, २४.

द्रुम-मव- पा ८, २, ९.

द्रुम-मय- -य. या ९, २३; -यम् या ५, २६; -यस्य या ४, १९.

द्रुमि(र>)णी- पावा ४, २, ५१.

ऋद्रु-यद्<sup>६</sup>- -यद्म<sup>६</sup> वीथी ११, ३: १०; वाथी ३, १, १, १६; वैथी १७, ९: ५; भाधि १७; -यदे माथी ६, २, ४, १७; वाथी २, २, ३, २१.

ऋद्रु(य)व<sup>७</sup>- -व: काथी १६, ४, ३५; आपथी.

द्रुग्ध- √हुद् द.

द्रुघ- (>द्रौघ-) द्रुघ- टि. द. १दु-घण, न<sup>८</sup> पा ३, ३, ८२<sup>f</sup>; -ण:

वृदे १, १११; निघ ५, ३; या ९, २३<sup>g</sup>; -णम् वृदे ८, १२; या ९, २३; २४<sup>h</sup>; -णन ऋष २, १०, १०२.

द्रौघण<sup>९</sup>- -णम् ऋष २, १०, १०२; वृदे ८, ११.१

द्रुघण-शिरस्- -र: कौस् ४६, २.

a) द्र. राज. भावे कर्तरि वा कृत् । b) मत्-सा<sup>१</sup> इति जीवः । c) वैप १ निर्दिष्टानां समाधेयः द. । d) = वृत्ति-विशेष- e) = वृत्त, शाखा-। व्यु १ । f) = परद्रु- । g) = वृत्त- । h) वैप १ द. । i) पाभे. वैप १, १६६८ र द. । j) = मुद्गर- [उ. ऋभा.]। पाप्र. <द्रु- + √हृत् । k) सास्यदेवतीय. अण् प्र. ।

दुघणा(ख-घा)दि- दीनाम् शौच  
३,७६.  
दुघण- (> द्वीपणक- पा.) पाग  
४,२,८०.  
दुघण पाधा. गुदा. पर. द्विसागति-  
कौटिल्येयु.  
दुघण- (> दुणी- पा.) पाग४,१,४१.  
दुघण- -रात् काथी १९,५,१६;  
आपथी.  
दुघण- -नाम् विध ६४,२१.  
दुघण- -नेदे निघ ४, १; या ४,  
१५४.  
दुघण- (> द्वीपदायनि-) उग्र-  
दि. द.  
दुघण, दुग्मति निघ २,१४४.  
दुघण- पा ४,३,१६२.  
दुघण पाधा. दिवा. पर. निपासा-  
याम्. दुग्मेत् माथी ३, ५, ९;  
काथ; या २, ४४४.  
दुघणात् काथी ६, १२, २.  
दुघणत् अप ४२, २, ३४.  
दुघण- -नघः पाठ ३, १३, ६.  
दुघण- दुघः आपथी २, १२, ६; ९;  
१०; आश्रित्य.  
दुघण- -द्वम अम ४, २९४.  
दुघण- -वम् काथी ८, १, २१.  
दुघण- पाग ५, १, ६४, २, ३६; -घः  
आपथ १ २३, ५; द्वि १, ६,  
१३. -ने अप ४८, २८; -द्वेण  
निघ ५, २५.  
दुघण- पा ५, १, ६४.  
दुघण- -कारि(त् >)थी-

-गीम् अप १, ८, ७.  
दुघण- पा ५, २, ३६.  
दुघण- पा ३, २, १४२.  
दुघण- (> द्वीपणक- पा.) दुघण-  
दि. द.  
दुघण- पाठ २, ४९; -०ण विध  
२८, ८०.  
दुघण- (> द्वीप- पा.) पा, पाग २,  
४, ६३४; पाग ४, १, ११२.  
दुघण- -खः अप ४८, ७८; निघ  
२, ३.  
दुघण- -गः अम ६, ६३.  
दुघण पाधा. कया. उभ. द्विसायाम्,  
दुग्मति निघ २, १९४.  
दुघण- -नः या ६, १२; शुभा  
४, ६५; भाशि १७.  
दुघण- पाठ २, ५७.  
दुघण- > दु, दुग्मति निघ २, १४४.  
दुघण पाधा. भा. आत्म. अन्वयेता-  
ह्योः.  
दुघण- पाठो २, २, १२८.  
दुघण पाधा. भा. पर. स्वप्ने.  
दुघण- या ४, १९४.  
दुघण- पाठ ३, १०, पाग ४, १, ४१;  
-गम् वीथी १०, ५०; २४४;  
माथी; या ५, २६; -णानि द्विथी  
१२, ८, ९; आपथ १३, ५; वीथु  
१७, २; -णे आथी ६, ८, १०४;  
शाथी; काथु ४, २; वीथु २१; ९.  
दुघण- पाठो २, २, १२२;  
पाग ४, १, ४१.  
दुघण- -दाः वीथी १४, ६ :

१३; २४, ६; ३; २९, ६; २०;  
वाथुथी ४, ७४; १०; -नाम्  
आथी ६, १२, १; २; काथी;  
-वास्य वीथी २३, १२; ६;  
वैथी १५, १४; ३; दाथी ३, २,  
१८; लाथी १, १०, १३; -नाम्  
आथी ५, ६, २१; ६, १२, ४;  
काथी; -नाम् द्विथी १५, ७,  
४४; -ने काथी १५, २३, १;  
काथी; -शेन आपथी १३, १७,  
२; १४, ३, ५; वैथी १६, २० :  
१०; द्विथी ९, ४, ४७.  
दुघणकला-वित्त-घोचन-  
-नम् काथी ९, १४, २.  
दुघणकला-रथ- -स्यम् वैताथी  
१६, १२.  
दुघणकला(श-घा)ध्वनीय-  
-नी द्विथी ८, ५, १६.  
दुघणकला(ख-घा)द्व- -वृत्त  
दाथी ३, ४, २७; लाथी १, १२, २१  
दुघण-चित्- -वित् काथी १६, ५,  
९; वीथी १७, २९; ९; काथु  
४, १; वीथु १८; ८; -चित्त्वम्  
वीथी १७, २९; ७; द्विथी;  
-चिता आपथु १४, १२, वीथु  
२१; ३; द्विथु ४, ५१.  
दुघण-दसम्- -मः काथु ४, २.  
दुघण- (द >) द्वी- पाग ५, ४,  
१३९४.  
दुघण(ख-घा)दाव- -नम् या ५,  
२६४४.  
दुघण(ख-घा)गि- -का शौच

a) दुघण- इति भोजः (सु. पागम.) । b) = रुच्छनी- इति पागम. । c) वैव १ द. । d) = कञ्- ।  
< दुघणाम् (मा २०, २० प्रवृ.) । e) पा १, ४, ३७, ३८; ७, २, ४५, ८, २, ३३ पावा १, ४, १ पराम्ठः द. ।  
f) पाथे. वैव १, १६५३ ० द. । g) वपव. । धु. ? । h) दु- इति पाका. । i) दुघ- इति पाका. ।  
j) या ४, १५ पराम्ठः द. । k) = द्वेकण- (सु. मव.) । l) = द्वेय-चित्- । m) = जल-क्षीका- इति  
पागम. । n) पाथे. वैव १, १६८१ ० द. । o) दू. = द्वेय-चित्- । p) सु. पाका. पात्रि. । 'णा', 'णी' इति  
आपथ. । q) = द्वेयाहतिनिष्ठा- । कन् प्र. (पा ५, ३, १६) ।

१०, १६.  
 द्वार-देश- - नाम् वीट ३, ५, ९; -वे  
 पाट १, १६, २३; २, १४, २१.  
 द्वारदेश-नावाक्ष- -क्षेपु विध  
 २५, ११.  
 द्वार-प- -०प<sup>०</sup>, -पाप<sup>०</sup> भाट २,  
 १०: १; हिट २, १, २.  
 द्वारपी<sup>०</sup> -०पि<sup>०</sup> भाट २, १०:  
 १; हिट २, १, २; -प्वे<sup>०</sup> भाट  
 २, १०: २; हिट २, ९, २.  
 द्वार-पक्ष- -क्षात्र भाट ४, ६, ७;  
 -क्षे कौम् ३६, २.  
 द्वार-पाल- -पाम ७, ३, ४.  
 द्वारपाली<sup>०</sup> - (> दौवार-  
 L. द्वारपालिक-पा.) पाम ४, १,  
 १४६.  
 दौवारपाल, ल<sup>०</sup>लि- पा ७, ३, ४.  
 द्वार-पालक- (> लिका- पा.)  
 पाम ४, १, ४.<sup>२</sup>  
 द्वार-फलक- -के कौट ३, २, १२;  
 बाट ३, ३, ७; पाट ३, ४, १८.  
 द्वार-वलि- -लिम् आमित २, ४, ६;  
 ४१.  
 द्वार-बाहु<sup>०</sup> - -हू शांथी १७, ४, २; ३;  
 द्राथी; -हो: द्राथी १, २, २; १५,  
 १, १५; लाथी १, ३, १; ५, ९,  
 १३; -दौ हिथी १३, ५, २७.  
 द्वारबाहु-समाञ्जन-प्रभृति- -वि  
 द्राथी ४, ३, १६; लाथी २, ३, १६.  
 द्वार-मध्य- -प्ये वीट २, ८, २६.  
 द्वार-सु(त>)वा- -नाम् वैश्री १,  
 २: १.  
 द्वार-वंश- -श: माट २, १५, ६.

द्वार-नाम- -मे वीट ३, १४: ११.  
 द्वार-विवरण- -नाम् चाअभू २.  
 द्वार-समीप- -वे पाट २, ४, ५.  
 द्वार-स्वूणा- -नाम् हिथी १९, ८,  
 ५; आमित; -गे वैश्री १४, ६:  
 १६; १७.  
 द्वारा(र-अ)दालक-द्वय- -द्वेषु  
 आ ७१, ११, २.  
 द्वारे(य>)वी<sup>०</sup> - -थीम् हिथी ७,  
 ५, ३१<sup>३</sup>; ७, २१; आमित १, ६,  
 ३: ४०.  
 द्वार्ये, वी<sup>०</sup> - -वयो: पाट २, १, ४;  
 कौम् ७४, ५; -वा: काथी ८,  
 ४, १८; माथी २, २, २, २५; ३,  
 ३१; -वांम् आथी ५, १, १९;  
 -वांया: माथी ११, ६, ११;  
 नेथी १३, ८: १३; हिथी २४,  
 २, १०<sup>३</sup>; -वांवे आथी १५,  
 ६, १४; १५; माथी ११, ६, १२;  
 -वै आथी ४, १३, ५××; काथी;  
 -वौ शांथी ६, १२, १३; हिथी.  
 द्वि<sup>०</sup> - पाउने २, १, १५४.  
 द्व, द्व- द्वयो: ऋथी ४, ६, ३;  
 ९, ४, शांथी; पा १, २, ५९××;  
 द्वयो: ऽद्वयो: आथी ५, १४,  
 ११; आपथी, ऋदा या २,  
 २२; ३, १०<sup>०</sup>; १२, १०<sup>०</sup>;  
 १४, २०<sup>०</sup>; ऋपा ७, ४३;  
 द्वाभ्याम् काथी १, ११, १३;  
 शांथी, द्वाभ्याम् ऽद्वाभ्याम् शांथी  
 ७, १०, ७; १६, १३, ३; काथी;  
 द्वै आथी १, २, ७; शांथी;  
 आपथी १०, २३, १२<sup>०</sup>, आपमं

१, ३, ८<sup>०</sup>; आमित; या ३,  
 १०; ५, ७; १३, ७<sup>०</sup>; द्वेऽद्वे  
 आथी १, १०, ७; ६, ३, ६;  
 शांथी; द्वौ आथी २, १६, १५;  
 शांथी; द्वौऽद्वौ आथी ९, ११,  
 १०; शांथी.  
 द्व(क>)का<sup>०</sup> - पा ७, ३, ४७;  
 द्वम्<sup>०</sup> - -द्व: वृदे २, १०५; पा  
 २, २, २९; ४, २; पावा २, २, २९;  
 -द्वम् काथी २६, २, ९; आपथी;  
 पा ८, १, १५; पावा ८, १, १५<sup>३</sup>;  
 -द्वयो: निस् ८, १३: २८;  
 -द्व: निस् ७, ७: १; २;  
 -द्वान् वा ४, २, ६××; पावा;  
 -द्वानाम् काथी २२, १०, ७;  
 आपथ २, २२, १६; -द्वानि  
 वीथी २४, २४: १; वैथी; वा  
 ७, ४, ९, २५; दुप्रा ५, २८; -द्वे  
 निस् ७, ७: २; पा १, १, ३१××;  
 पावा; -द्वेपु दाथी १०, १,  
 १६; लाथी ३, १, १८; दुप्रा  
 ३, १२७; -द्वै. या १४, ७;  
 -द्वी निस् ७, ७: ३.  
 द्वन्द-तणुद्वय- -ययो: पा २, ४,  
 २६; पावा २, १, ११; ४, २६.  
 द्वन्द-दर्शन- -नात् निस् १०,  
 २: ३८.  
 द्वन्द-द्वय- -यम् कप ३, ६, ११.  
 द्वन्द-प्रतिपध- -य: पावा १, २,  
 ६८.  
 द्वन्द-भू(त>)ता- -ते वृदे  
 १, ११३.  
 द्वन्द-मनोज्ञादि- -द्विभ्य: पा ५,

a) पृ १३१४ B. d. b) पामे. पृ १३१४ C. d. c) पृ १३१४ P. d. d) पामे. पृ १३१४ Q. d. e) व्यप. f) तु. BPG. g) तु. पाद्य. h) तु. पागम. i) = द्वारबाहु- j) = द्वार-स्वूणा- । तत्रभवार्थीयः वृह > एयः प्र. वसं. (पा ४, २, १०८ तु. भाष्यम् ।) । k) पामे. पृ १३१४ B. d. l) भवार्थीयः वृत् प्र. m) वैप १ द. n) पामे. वैप २, २४. के तत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द. l. o) वैप १, १०३० B. d. 1 पात्र. (५, ३, ७१) तु द्वि + षकच् प्र. । p) = समास-विधेय- ।



१,१३३.  
 द्वन्द्व-यधन- नाए, जे पावा  
 २,२,२९.  
 द्वन्द्व-युक्त- -सम् पावा २, ४,  
 ११.  
 द्वन्द्व-शस (: ) वृदे ६, २१; ८,  
 १९.  
 द्वन्द्वा (द्व-अ) विहार-निवृत्तय  
 (ति-अ)ये- -यम् पावा २,४,  
 १९.  
 द्वन्द्वा (द्व-अ)भाव- -यात् पावा  
 १,२,७२.  
 द्वन्द्वा (द्व-अ)ये- -यम् पावा ५,  
 ४, ८७.  
 द्वन्द्विन्- -निद्वनः आश्री २०,  
 १५, ५, २२, १३; वीथी १५,  
 २३: १०; द्विथी १४, ३, १९;  
 -निद्वनाम् द्विथी १४, ३, ५५;  
 अय.  
 द्वन्द्वो (द्व-उ) मत्वाप-गर्ह- -र्हात्  
 पा ५,२,१२८.  
 द्वय, या- पा ५, २, ४३; -यम्  
 वीथी ५, १: ५; ५: ४; ९;  
 १२x४, वैथी; -यमऽयम्  
 काथीलं ७: २५; -या वीथि  
 १, १४: ५; अय १, ११, ५५,  
 -या: शश्री १०, १५, २; वीथी,  
 -यान् आश्री १५, ७, ३५;  
 २०, १५, ४; २४, ७; वीथी,  
 -वानाम् वीथी २८, ४: १८;  
 निम् १, १: ६; -यानि वीथी  
 ५, ५: ९; १८, ३६: १, द्विथी;  
 -ये वैथी २०, १३: ११; वैथी;  
 -येन वैथ १, १३: ६; -वै:  
 आश्री २०, २४, ११.

द्वयो- -यी: आश्री २१,  
 ९, १०; वीथी १६, २९: ५;  
 २३, १२: १५.  
 द्वय-मध्यम- -गम् भासि १०८.  
 द्व(य>)वा-विन्- -पावा ५, २,  
 १२२; -यिनः अया ३, ८, १५.  
 द्वा(य-आ)इति- -तो: क्रीथीया  
 १५१.  
 द्वयं(य-ए)क- -कम् क्रीथीया  
 ९३.  
 द्वा-वाचारितम्- -सम् जुम् ३,  
 २: ११;  
 द्वाचत्वारिंशत्- -दो वापूथी ३,  
 ७६: ३१.  
 द्वा-प्रितत्- -सम् वापूथी ४, ४६:  
 ४; ११५: ८; वीथि; -सतम्  
 आश्री ७, ५, ११; १२, ७, १०;  
 वीथी; -सतम्ऽ-सतम् आश्री  
 ९, ४, ३; -सता वाथी ३, २, ७,  
 ५४.  
 द्वित्रिंशत्- -शः निम् ६, ११:  
 १; १२: ८; -सम् आश्री  
 २३, ९, ८; १४; द्विथी; -शः  
 वीथी १६, ३४: १०; निम् ७,  
 ५: २; -साम् भास् २, २०;  
 -दो लाथी ६, ७, १८.  
 द्वित्रिंशो- -शी निम् ३,  
 ४: २६; -श्यै वापूथी ४, ८०: ६.  
 द्वित्रिंश-त्रयत्रिंश- -दो  
 निम् ६, १२: ११.  
 द्वित्रिंश-अयुक्ति- -क्ति: निम्  
 ६, ११: ६.  
 द्वित्रिंशा(श-अ)पाय- -यात्  
 निम् ७, १०: १४.  
 द्वित्रिंशक- -कः अयं ४: १९.

द्वित्रिंशत्-कवल- -लम् वीथि:  
 २, १०, २; -लेन वीथि २, १०, १.  
 द्वित्रिंशत्-पलक- -कम् अय  
 ३३, ३, १.  
 द्वित्रिंशद्-अध(र>)श- -श  
 वापूथी ४, १००: ५; निम्;  
 -साम् वापूथी ४, १००: १००;  
 निम् ३, ४: १२.  
 द्वित्रिंशद्-अद्गु(ल>)का-  
 -लाम् काथी ४२.  
 द्वित्रिंशद्गुला(ल-आ)य-  
 (त>)श- -शाम् वैथ १, १, ५.  
 द्वित्रिंशद्-अद्गुल्या(लि-आ)य-  
 श, या- -सम् वैथी १, २: ९;  
 वैथ १, ८: ३; -साम् वैथ १, ८:  
 ११.  
 द्वित्रिंशद्-गुण- -णः आश्री  
 ७, २२.  
 द्वित्रिंशद्-धा वीथु १६: १४.  
 द्वित्रिंशद्-भाम- -गम् अय  
 ७, ३०.  
 द्वित्रिंशद्-शय- -शः वीथी १६,  
 ३५: ८. -अय आश्री ११, ३,  
 ११; काथी; -साम् काथी २४,  
 २, १०.  
 द्वित्रिंशि(त्र>)तो- -तो  
 वापूथी ४, ९७: १; ४x४;  
 -स्य: वापूथी ४, १७: २.  
 द्व-त्रिंशति- -ति: अय ५२, ८, ४.  
 द्व-द्वयम्- -या आथी ४, ८, १५;  
 ७, ५, ११x४; शश्री; या २,  
 १०; २०; ३, ८; १३; ४,  
 २७५; -सऽ-श शश्री १६, १४,  
 २०; काथी; -शामि: आश्री ९,  
 ११, २३x४; वीथी; द्विथी १४,

a) वैप १ द. । b) तदस्मिन्नाधिक्यमित्यर्थे ङः प्र. (पा ५, २, ४६) । c) पुरखे ङ्ङ् प्र. स्तोमे ङः वा ।  
 d) इत्यु प्र. (पा ५, १, २४) । e) तद्विदितार्थे द्विः. प्रमाणार्थस्य प्र. लुङ् । f) विप. । चय. । g) तद्विदितार्थे  
 द्विः. । h) ओ इति पाठः? यनि. सोवः । i) द्विः प्र. (पावा ५, १, ५८) । j) उप. = विचयत्. ।

५, १५<sup>१०</sup>; -शब्दः काथी १७, ९, १३; आपथी ५, २०, १२; वीथी; वैथी १, १५: ७<sup>१०</sup>; लाथी ७, १२, ९<sup>१</sup>; -शसु साथी १४, ६१, ६; काथी; -ससु-शसु काथी ८, ३, ११; वैथी १४, ४: ३; -शानाम् वाधुथी ४, ११३: ४; श्व ५०, ९, ४; शं ३७९. द्वादश, शा<sup>०</sup> -श: काथी १२, ६, १७; आपथी; -शम् काथी ७, १७, १७; काथी; आपथी २२, १, १५; द्विथी १७, १, १७<sup>१</sup>; -शस्व वीथी १७, २४: ९; २५: १२; २६: १२; -शा क १, ७, ५; -शात् वैथी १४, ४: ९; वैताथी; -शान् शुभ २, १२८; -शानि आपथी २०, २३, ९; २१, ५, ९; माथी ६, २, ५, २५; द्विथी १४, ५, १६; -शाथ वीथी १०, ५०: १; -शे वीथी १०, ५०: १×५; माथी; -शेन आपथु ११, १४; १३, १; ११; वीथु; -शेषु वाध ११, ५१; -शौ निष् १०, १३: ५; उनिष् १: २१. द्वादशी<sup>०</sup> -शो वीथी २५, ४: ८, २७: ३१; २८: १९; निष्; -शो: निष् ७, ७: ३१; -शोम् वाथी ६, ७, १; काथी; -श्या वीथी १०, २९: १२; माथी; -श्या: काथी २५, १४, २९; आपथी; -श्याम् वीथी २५, १: १४<sup>१</sup>; द्विथी.

द्वादशी-विंशो-द्वा<sup>०</sup> विंशो-श्व: श्रम २, ३, ५३. द्वादश-त्रयोदश- -शे अथ १, १४, १. द्वादश-मास- -सम् आमिष् २, ७, २: १६; वीष् ३, १२, ११; वीष् २, ९, २१. द्वादश-क<sup>०</sup> -क: श्रम १, ५, १; ७, १; ३, २५; ३१; शुभ्र-कम् वीष् ४: ७; श्रम, -का: श्रमा १६, ४७; -के पाठ २, ६, ३; आपथु. द्वादश-रूप-पल<sup>०</sup> -शानि या १४, ७<sup>१</sup>. द्वादशका(क-का)दि- दिवु श्रया १८, ५७. द्वादश-रूपाल- -ल: काथी ४, ३, ३६; ५, २१×५; वा ७, २३; २४; -लम् वाथी १४, १३, ५; आपथी; -लस्व द्विथी १, ६, २०; -ल्य: वीथी २४, १०: ९; -ल्यम् काथी २०, २, ६; वीथी; -लेन वाथी ३, २, ४, ७<sup>१</sup>. द्वादशकलशम् आमिष् २, ४, ६: २०. द्वादश-कृत्स्न(ः) वाथी १०, ५, १२; १७, १४, ३; काथी. द्वादश-गव<sup>०</sup> -वम् आपथी ८, २०, ९; १६, १८, ५; वीथी. द्वादश-शूरीज, वा- -वम् काथी १८, ५, १६; माथी १, ५, ६, २०; वीष् १, १, ३३; -वाम् माथी

२, १, २, १; -लेन आपथी ५, १७, ७; १८, १०×५. द्वादश-ता- -ता काथी २२, ८, १४. द्वादश-व- -वम् वीष् ११, ४, २०. द्वादश-दा (मन् >) शो<sup>०</sup> -श्याम् वीष् २१, ११. द्वादश-धा अथ ४६, ६, १; विध. द्वादश-नामन्- -मभि: आमिष् २, ४, १०: ८; ११: २१; वीष् ३, १३: ९; वैध ३, १०: १; २, ६. द्वादश-पञ्चविंश- -शान् निष् ४, ९: ३०. द्वादश-व(व>)वा<sup>०</sup> -दा वीथी ४, १: ३३; वीष् ३: २३. द्वादश-पदा(द-धा)याम्<sup>०</sup> -म: वीष् १०: ११. द्वादश-पर्याय- -या: लाथी ६, ८, ८. द्वादश-पर्व-व(रक>)रिका<sup>०</sup> -का क १, ९, ११. द्वादश-पुष्परी (क>) का<sup>०</sup> -काम् आपथी १८, २०, १४; द्विथी १३, ७, ३. द्वादश-पुष्प- -य: वाधुथी ४, ११३: १<sup>०</sup>. द्वादश-पुष्प(र>)रा<sup>०</sup> -राम् आपथी २२, १०, १; लाथी ९, २, १०. द्वादश-प्रक्रम- -मे वैथी १, २: ८.

- a) श्वा<sup>०</sup> इति पाठः? यनि. शोषः । b) श्वेभ्यः इति पाठः? यनि. शोषः (तु. आपथी). c) वैष १ द. । d) द्वादश इति पाठः? यनि. शोषः (=शाधिकम्, तु. आपथी). e) तदस्यपरिमाणमित्यर्थे क्व प्र. । f) कत. उप. = परिमाण-विशेष- । g) 'कपा' इति पाठः? यनि. शोषः (तु. वृ ४२९ f) । h) वैष १, १६८५ h द. । i) विष. (वसवरी-). वस. [तु. दारिलः] । j) तद्विद्यार्थे द्विस. । k) कस. > वस. । l) विष. । वस. । m) उपारेण संक्षिप्यः ।

द्वादशप्रक्रमा(य-भा)याम-  
-मः बौधु ४ : २.  
द्वादश-प्रभेद<sup>a</sup> - दम् काशि ६,  
५, -दानि काशि ६, ८.  
द्वादश-पूर्<sup>b</sup> - पूर्व बौधो २६,  
८ : १२.  
द्वादश-भाग - नाम वाधो ३, २,  
१, २९.  
द्वादश-म<sup>c</sup> - मे अण ७१, ११, १.  
द्वादश-मल-> मला(ल-भा)-  
दि-द्वयादि-संस्वरत्वं-भा(ज-  
भा)न्युपपात<sup>d</sup> - ते वैधो २०,  
१८ : ४१<sup>e</sup>.  
द्वादश-माय - मः नाशि २, ७, १.  
द्वादश-मान<sup>f</sup> - नम् काधो  
२२, ९, १; भापधो.  
द्वादश-मि(त<)>ता - ताम्  
अण १७, २, १.  
द्वादश-मिधु(न<)>न<sup>g</sup> - ना  
काधो २२, १०, १७; -नाः लाधो  
९, ४, ६.  
द्वादश-मूर्ति<sup>h</sup> - तिमि वैध ३,  
१०, ५.  
द्वादश-युक्त - केन माधो ६, १,  
५, ३७, बाधो २, १, ४, ३८.  
द्वादश-योग<sup>i</sup> - नाम<sup>j</sup> माधो १,  
७, ८, ५, बाधो १, ७, ५, ३.  
द्वादश-राज<sup>k</sup> - प्रः कौशु ६७, ९,  
७२, २२, गीध २३, ३४; -प्रम्  
बाधो २, १, ३५, बाधो, कौशि  
२, ७, ९<sup>l</sup>, -प्रत्यय वीध २६.

१५; -प्राक् भाय १, ९ : ६; ३.  
२० : ९; वीध ३, ५, ६; -त्रे  
बाधो २२, १८, १३; बाय;  
-प्रेण विध ४८, १४.  
द्वादशरात्र-पराण्य<sup>m</sup> - अर्थाः  
बाधो १०, १, १२.  
द्वादशरात्र-वत - तानि  
वैधो १, १६ : १.  
द्वादशरात्रा(प्र-भा)दि<sup>n</sup> -  
-नीनि बाधो २४, १, १.  
द्वादशरात्रा(प्र-भा)व<sup>o</sup> -  
-तानि वीधि ३, ७, ४.  
द्वादश रात्रि - त्रिषु वैधो १,  
१६ : ५; -त्रीः लाधो ९, ८, ४<sup>p</sup>; २.  
द्वादश(र-भा)र्व<sup>q</sup> - चः लाधो  
१०, ९, ९; वैताधो ३३, १५<sup>r</sup>,  
अम २, १०, ६०; -चम् अम  
२, १०, ५८, अम; -चै वाधो  
१८, १३, ६; निम् ६, ७ : ५५;  
वृ<sup>s</sup> २, १४६, -चैनं काशि २,  
४, ४ - १४, वीध ३, ७, ११;  
-चैभ्यः अण ४६, १०, ९; अम  
१९, २३.  
द्वादश-वत् काधो १४, ५, २८.  
द्वादश-वर्ष<sup>t</sup> - वै वैय ६, १४ :  
१; वीध ३७९; -वैषु सुप ५३.  
द्वादशवत्, ता<sup>u</sup> विक<sup>v</sup> - कम्  
बाधो १२, ५, १३; बाय १९, २.  
द्वादश-वर्ष<sup>w</sup> - षम् पाय २,  
२, ३; दिय १, १, ३.  
द्वादशवर्ष-वा - वायाः बाय

२, ८.  
द्वादश-वि(पा>)व<sup>x</sup> - अम्  
वाधो १६, १, ३; बौधो १०,  
१९ : ९; या ७, २३.  
द्वादश-व्याम - मः बौधु ४ : १.  
द्वादश-वात<sup>y</sup> - तम् कापधो  
६३, ५, १; १४, १४, ६; २२, १३,  
१२; काधो ११.  
द्वादशवत्-वृक्षिण<sup>z</sup> - ङाः  
बाधो ९, १, १; -णम् वीधो  
२६, २० : ३; -णय बापधो  
१०, २६, १; वैधो ६२, १६ : ९.  
द्वादश-संयत्तर<sup>aa</sup> - नम् विध  
५०, ६; -रात् वीध ३, ९, १.  
द्वादश-संयत्तर<sup>ab</sup> - नम्  
बाधो १२, ५, १५, वाधो; -रंण  
बापधो २३, ११, ८.  
द्वादश-ममा - माः वैध १, ३, ३.  
द्वादश-मूक - क्तैः वैय ६, १७ :  
३.  
द्वादश-स्तोत्र<sup>ac</sup> - प्रः निम् ३,  
४ : १६; २२; -प्राक्<sup>ad</sup> निम्  
३, १ : २६.  
द्वादश-स्तोम<sup>ae</sup> - मः वीधो २५,  
५ : १४; -मानि वीधो १७,  
१८ : ९; -मेव वीधो १८,  
४७ : ३, २४.  
द्वादश-व्यू(पा>)ज<sup>af</sup> - ङम्  
अण २१, ६, १<sup>ag</sup>.  
द्वादशा (य-भा) क्षर, ता<sup>ah</sup> - रः  
निम् १, १ : ३; १५; २ : ६; ७;

a) विप. । बस. । b) वृ ४४४ f d. । c) विप. । संस्वारेदिपि पूरणार्थे कृद् प्र. मद्- आगमथ उक्तं.  
(पा ५, २, ४९) । d) बस. > द्रय. > बस. > उस. > कप. । e) °माला इति पाठः ? यनि. शेषः (तु. संस्कृतः  
दि. मूको. च) । f) तद्विद्यार्थे द्विम. । g) उप. = उपरकिष्ण- इति विद्याधरः । h) सपा. °तायो <>  
°तायो इति पाठे. । i) तद्विद्यार्थे समाहारे च द्विम. । j) पाठे. वृ १२४३ h द. । k) °चिः इति  
पाठः ? यनि. शेषः (तु. भाष्यम्) । l) वैध १ द. । m) °वम् इति उ. । n) बाय. पाठः ।  
o) वृ १२०६ i, j द. । p) = ११२ । मलो. कप. । q) समाहारे द्विम. । r) = कतु-विशार- ३

१७; २०; ३; २; ४; ३; ऋषा  
१६, २१; ४५; ७१; -रम् वाधुथी  
७, १०० : ४; ९; २४; निम् ३,  
४ : २६; -रा निम् १, ५ : ११;  
३, ४ : १८; -राः शोथी ७, २७,  
१७; ऋषा; -राणि सुम् १, ५ :  
१३; ११ : २४; -राभ्याम्  
उनिम् २ : ३२; -राम् वाधुथी  
७, १०० : ३; -रे ऋषा १६,  
४६; -री निम् १, २ : १२; ३ :  
५; ७; १, ११; ४ : ६; १७; ऋषा.

द्वादशाक्षर-पा(द>) दा<sup>०</sup>-  
दा निम् १, २ : २६; ४ : ४.

द्वादशाक्षर-प्रस्ताव<sup>०</sup>- वाणि  
निम् २, १० : ४.

द्वादशाक्षर(र-ञ)डाक्षर-  
नी निम् १, ४ : १५.

द्वादशा(श-ञ)क्षि-निमेप<sup>०</sup>- यः  
आज्यो १, ४.

द्वादशा(श-ञ)ङ्गुल, ला<sup>०</sup>-  
लः कप २, ८, ३; अयः- हम्  
काथी १६, ८, १५; वीथी; -लस्य  
वैथी ११, १० : ५; -ञा अय  
२२, ७, १.

द्वादशाङ्गुला(ल-ञा) यत-  
तम् वैथी ११, ८ : ९

द्वादशाङ्गुलो(ल-उ)घत-  
तम् वैथी १, ३ : ५.

द्वादशा(श-ञ)ङ्गुल<sup>०</sup>- > ल-  
कल्पि(त>)वा- ता अय २६,  
३, ३.

द्वादशाङ्गुल-भाव- व्रम्  
वैप १, ८ : ७.

द्वादशाङ्गुल-भाव- नेव

अय ३०<sup>०</sup>, १, ८.

द्वादशाङ्गुला(ल-ञा)याम<sup>०</sup>-  
मम् वैथी ११, ८ : ७.

द्वादशा(श-ञ)ङ्गुल<sup>०</sup>- हम्  
आमिग २, ३, १ : १०<sup>०</sup>.

द्वादशा(श-ञ)ध्याय-संग्रह-  
हम् अय ७०<sup>०</sup>, १, ४.

द्वादशा(श-ञ)म्यधिक- वाणि  
अय ७, ३; -कैः अय ३३, ३, ४.

द्वादशा(श-ञ)म्यस्त- स्वम्  
वेज्यो १३

द्वादशा(श-ञ)योग<sup>०</sup>- नम्  
शोथी ३, १८, १०<sup>०</sup>.

द्वादशा(श-ञ)र<sup>०</sup>- रम् वा ७,  
२७<sup>०</sup>.

द्वादशा(श-ञ)रलि<sup>०</sup>- लिः  
आपथो २०, २, ७; हिथी १७,  
१, २०; -सिम् काथी २०, १, ७;  
वाथी ३, ४, १, १४.

द्वादशा(श-ञ)व(त>)जा<sup>०</sup>-  
जा वीथी ६, ११ : १५; वापथी  
७, ४५ : ७.

द्वादशा(श-ञ)टा(ह-ञ)क्षर-  
राम्याम् वैप ७, १२ : ७.

द्वादशा(श-ञ)ह<sup>०</sup>- पावाग ५,  
१, ११०<sup>०</sup>; -दा आथी १०,  
५, ११; शोथी; -हम् शोथी  
२३, २०, १४; काथी, आपथी  
५, ७, १४××; वीथी;  
-हम्-हम् आपथी १७, २६,  
२०; -हस्य आपथी १२, ४, २३,  
शोथी; -हाः आथी १०, ५, १;  
सुम्; -हात आपथी २३, ३, ६;  
हिथी; -हाम् आपथ १, २६,

१७; वीथ; -दानम् सुम् ३,  
१६, १७; -हाय शोथी १०,  
१, १; आपथी २१, ४, ५; हिथी  
१६, १, ४२; -हे शोथी २, २,  
२; आपथी; -हेन आपथी २१,  
१, १××; वीथी.

द्वादशाह-तापक्षित<sup>०</sup>- तेपु  
आथी ७, २, १५.

द्वादशाह-धर्म- माः काथी  
१३, १, १.

द्वादशाह-पर्यन्त<sup>०</sup>- न्वाः  
शोथी ११, १, ३; काथी २३,  
१, ३.

द्वादशाह-प्रबर्ह<sup>०</sup>- र्दः सुम्  
२, ७ : ६.

द्वादशाह-अमृति- तीनि  
शोथी ११, १, ४; १३, १४, ९;  
हिथी १८, १, १<sup>०</sup>, काथी १०,  
१, ११; वैताथी ७२, १५; निम्  
२, ६ : २४.

द्वादशाह-भूत- तस्य ताथी  
२, ६, १८.

द्वादशाह-व्य काथी २७, ५,  
३१; मीम् १०, ६, ७२.

द्वादशाह-विकल्प- न्वाः  
काथी २७, ७, १०.

द्वादशाह-वास (ः) काथी १७,  
७, १२.

द्वादशाह-संमित- तम्  
आपथ २, ७, ४; हिथ २, २, २५.

द्वादशाह(ह-ञा)घ<sup>०</sup>- त्वम्  
काथी २७, ३, ३४.

द्वादशाह(ह-ञ)न्त- न्ते  
काथी ७, १०, ७.

a) विप. १ वस. 1 b) वस. > वस. 1 c) तद्विवाये द्विम. 1 d) समाहारे द्विम. 1 e) सप्र. वीथी  
१, ७, २ अक्षुपवमात्रम् इति पाठे. 1 f) वैप १ द. 1 g) पाठे. घृ ११३८ 1 ह. 1 h) विप. (इडा-): मलो.  
वस. 1 i) = मन्वु-विशेष- 1 j) तु. पागम. 1 k) सप्र-विशेषयोः दस. 1 l) घृ १२४३० द. 1 m) 'ह-प्रजादीनि  
इति पाठः १ यनि. शोथः (तु. शोथी ११, ४) 1

हादशाहा (ह-म) परावर्त-  
 -र्विम्ब क्रान्ति ३, ६, २: ६०.  
 हादशा (ह-अ) परावर्त-  
 -र्विम्ब वीथि १, १: १५०.  
 हादशाहिक- -कम् वीथी  
 १६, १३: १०; मीथु ७, ४, १३.  
 हादशाहिकी- -की नित्य  
 ६, ६: ११.  
 हादशाहीय- -यस्य आपथी  
 २१, २३, २; २३, ९, ६; -यात्र  
 आपथी २१, १५, १६; १६, २१;  
 हिथी १६, ६, ३; -ये आपथी  
 २१, १६, १९.  
 हादशाक, का- -कः वीथु ४: २,  
 -का आपथु ५, १२, हिथु २,  
 २३; -के हिथु २, ८.  
 हादशाका-पञ्चप्रिथिका-  
 -कयो. आपथु ५, ६, वीथु १:  
 ३७; हिथु २, १५<sup>१६</sup>.  
 हादशाका-पञ्चिन्त्र- -रथो.  
 आपथु ५, ४, वीथु १: २६,  
 हिथु २, १२<sup>१०</sup>.  
 हादशान्- -शान. कब १, ९,  
 ७, शुभ, -सी शोथी १३,  
 २३, ८.  
 हादशान्-प्रवृत्ति- -तय नित्य  
 १, ९: २३.  
 हादशान्-स्वोम- -मः आपथी  
 १२, ५, ०.  
 हादशो (श-उ) शर- -ना: नित्य  
 १, ९: १२-२३.  
 हादशो (श-उ) धाम- -मम्

वीथी १०, १२: ६; माथी ६,  
 १, ४, ९, वीथी १८, ९: ७;  
 -मे आपथी १६, १०, ८; वीथी  
 १८, ७: २६; हिथी ११, ३, २५.  
 हादशो (श-उ) वसन्त- -कः  
 माथी ४, ३, ५१; -कम् वीथी  
 २५, २७: १×४; -कः आपथी  
 २३, १, १; -के आपथी १७,  
 ७, १०; आपथी.  
 हादशान्-शर- -तम् वाथुथी ४,  
 ११३: ५.  
 हादश- -रः शोथी १५, १९,  
 ११; वाथुथी ४, ५९: ५;  
 -रम् विथ २०, ७.  
 हादश-च्छन्दस्- -न्द्यासि नित्य  
 १, ५: २१.  
 हादश-स्तोम- -मा. नित्य १,  
 ९: ९; १८-२०.  
 हा-पूर्व- -र्वम् शुभ्रा ५, २६.  
 हा-विंशत- -शत वेशु १, १: ५,  
 ६, १९: १.  
 हा-विंशति- -ति: आपथी १२, ५,  
 १४, नित्य; या ३, ८; १३; उन्म  
 ३, ७; -विम् वीथी १०, १३,  
 ४; आपथी; -वे: वीथु १, १५;  
 -या शोथी १५, २२, १.  
 हादशित- -शः वीथी १०,  
 ४२: ४, १५, १६: ६; -शम्  
 कम् ८, ५; आपथी ९, ७; -शात्र  
 १, १९, ६; वीथु.  
 हादशित- -सी शोथी १८,  
 १४, ४.

हादशित- > हा-शर- -तम्  
 नित्य २, १४; या ३, ९,  
 हादशितक- -कम् कम् ९, ८;  
 ९.  
 हादशितान्-दाह- -रः आपथी  
 १०, ३०, २; -कम् माथी १०,  
 २१, ३.  
 हादशितान्-रात्र- -प्रम् आपथी  
 ११, ३, ४; शोथी २४, २, ११;  
 हिथी १८, १, २, ७; -श्रेण आपथी  
 २३, ३, १०.  
 हादशितान्-प्र- -र- -ता-  
 -तायः नित्य १, ५: २७.  
 हादशितान्-प्र- -प्रवृत्ति-  
 -तयः नित्य १, ५: १५.  
 हादशितान्-प्र- -प्रवृत्ति-  
 -तयः नित्य १, ५: १५.  
 हादशितान्-प्र- -प्रवृत्ति-  
 -तयः नित्य १, ५: १५.  
 हा-सतति- -ति: विथ ९६, ७६;  
 कम् ११, ३(२); कर् ५: ८.  
 द्वि-क, का- -पा ७, ३, ४७<sup>७</sup>; -कम्  
 विथ २, २४; ६, २; -कम् कम्  
 २, ४, १२, -का: लाथी ६, ७,  
 ४; ८, ४; -केन गोथ ३, ९,  
 ६; -को लाथी ६, ८, ७.  
 द्वि-प्रवृत्ति- -तयः लाथी ६,  
 ५, १६; १९; नित्य १, ८: ६;  
 ९: २; ९; १८; २६.  
 द्वि-विश्व- -वः लाथी ६,  
 ८, १३; -वा: लाथी ६, ८, ९.  
 द्विका (ह-अ) न्यवद- -रम् वीथी  
 ११, १०: ३.  
 द्वि-वपाल- -कः आपथी १२, ६, ४;

a) विप. 1 वल. 1 b) परस्परं पाथे । c) 'दृष्टापञ्च' इति पाठः? यनि. शोच. (तु. आपथु.) ।  
 d) 'कपञ्च' इति पाठः? यनि. शोच. (तु. आपथु.) । e) 'दृष्टी' इति पाठः? यनि. शोच. (तु. आपथी १३, २३, ८  
 प्रथु.) । f) वैप १ द्र. 1 g) 'प्रायम्' इति पाठः? यनि. शोच. 1 h) = शुभ-विश्व- । द्विष्ट वैप १ द्र. 1  
 i) = दृष्ट-व्यास- । j) १५ = छन्दो-विश्व- । k) वैप १, १०-३३ k द्र. 1 l) तदस्मिन्प्रथिमिल्लये कः प्र. (पात्र  
 ५, २, ४६) । m) विप. 1 स्वार्थे वा ता. तिथे प्रहणे वा कः प्र. (पा ५, २, ७७) । n) पात्र. अकचि इत्तम् ।  
 o) कम् प्र. (पा ५, १, ४७) ।

आपथी; -रुम् आपथी १, १३, १३; १७, ४, १; बौथी; -ले बौथी २०, ८; १९.  
 द्वि-कार<sup>०</sup> -रुम् अप २५, २, ५.  
 द्वि-कार(ण>)णी -णी काशु २, १२; आपथु १, १०; ५, ११; ६, १; हिशु २, २६; -गीम् हिशु १, १५.  
 द्विकण्ठ्या(णी-या)याम- -मः काशु २, १४; आपथु २, ३; बोशु १, ३२; हिशु १, २४.  
 द्वि-कर्ण<sup>०</sup> -र्णानाम् काशु ७, १०.  
 द्वि-कर्म<sup>०</sup>-त्व- -स्वात् मीष् १०, ७, २०.  
 द्वि-कल्प<sup>०</sup> -ल्पाः कौष् ६७, ८.  
 द्वि-काल<sup>०</sup> -लम् वैष २, ४, ३; ५; १४, ७.  
 द्वि-कृणालो(ल-ऊ)न- -ने विष ९, ६.  
 द्वि-क्रम<sup>०</sup> -मम् ऋषा ११, ६; १४.  
 द्वि-क्रोत<sup>०</sup> -क्षानि आपथी २२, २, २३; -शे आपथी २२, २, २०.  
 द्वि-सुत<sup>०</sup> >रित्- -रिगः बौध १, ५, १३२.  
 द्वि-सुत<sup>०</sup> -राः बौथी २७, ५२०.  
 द्वि-गत्<sup>०</sup> >द्वैगत<sup>०</sup> -से लाथी ६, १२, ९.  
 द्वैगत-गौतम- -मयोः द्राथी ८, २, २२, लाथी ७, ६, १६.  
 द्वि-गु<sup>०</sup> -गुः बृदे २, १०५; पा २, १, २३; ५२; ४, १; पावा २, ४, ३०; -मोः पा ७, १, २१; ८८; ५, १, ५४; ८२; ८६, ४, १९; पावा २, १, ५१; ४, १; ७, १, ८८;

५, १, २८; ३७; -गी पा ६, २, १२; २९; ९७; १२२.  
 द्विगु-प्राप्त(स-आ)पञ्चा(न-अ)लपूर्वो(र्व-उ)पसर्ग- -र्गाः पावा १, २, ४४६.  
 द्विगु-संज्ञा- -ज्ञा पावा २, १, ५१.  
 द्विगु-स्वरं -रः पावा १, १, ४७; ६, १, ७०.  
 द्विव्य(गु-अ)र्थ- -र्थस्व पावा २, ४, १२.  
 द्वि-गुण, ण<sup>०</sup> -णः काथी २०, ४, १५; विष ५, ७३; काशु ५, २; या १७, ४; -णम् लाथी १, ११, ४; काथी; गौष १२, ६५; या ६, २६; -णा आपथी ७, ११, २; भाथी; -णाः काथी २२, ४, २८; वैताथी ३७, ९; संघ १०२; -णान् काथी २६, ३, ३; द्विथी २२, ३, १९१; -णानि विष २०, ७, वल्यु २; ५; -णाभिः शाथी १७, २, ९; बौथी ११, ३; ३२; ३३, -णाम् आथी ११, ५, ४; काठथी, -णायै बौथी ७, ५; १८; -णे संघ ३९१; विष ९, १२; -णेन आपथी १०, २४, १४; वैथी १२, १८; २.  
 द्वैगुण्य- -ण्यम् गौष १२, २८.  
 द्विगुण-कारित्- -रिगः या ६, २६.  
 द्विगुणकारिणी- -णी वाध १९, १७.  
 द्विगुण-त्रिगुण-दर्शन<sup>०</sup> -नेषु अप ६५, १, ६.

द्विगुण-दागिन्- -दिनः या ६, २६.  
 द्विगुण-सुम- -मान् आपथ ७, ८; गौषि २, २, २०.  
 द्विगुण-रसाना- -नया काथी ६, ३, २४.  
 द्विगुणा(ण-अ)भ्यास- -सेन आपथी २२, ९, २१; द्विथी १७, ४, १६.  
 द्विगुणे(ण-इ)न्वचाप-दर्शन<sup>०</sup> -ने अप ६५, २, १०.  
 द्विगुणो(ण-उ)त्तर<sup>०</sup> -राणि गौष १२, १३.  
 द्वि-गोत्र<sup>०</sup> -त्रः बौध २, २, १८; -ग्रस्य शाथी १, ४, १६; वैथी ६, ५; ३; द्विथी २, १, ५६.  
 द्वि-ग्रहण- -णेषु पावा १, ३, १०.  
 द्वि-ग्राहम् वाथी ३, २, ७, ५४.  
 द्वि-चतुष्-पत्- -स्रो<sup>०</sup> -सिपः अप ७०<sup>३</sup>, १०, ५.  
 द्वि-चत्वारिंशत्- -सत्त्वा काथी ६, ४, १०; ऋषः -सत्त्वं बौथी २६, ११; १०.  
 द्विचत्वारिंशक<sup>१</sup> -काल् बृदे ६, ८१.  
 द्वि-चन्द्र<sup>०</sup> -न्द्रम् अप ५७, ७, १.  
 द्वि-चन्द्र-दर्शन- -ने वैष ७, ६; १२.  
 द्वि-चह<sup>०</sup> -री मीष् ३, ३, ४३.  
 द्वि-चू(डा>)द<sup>०</sup> -क्षानि काथी २२, ४, २२.  
 द्वि-छा(या>)प<sup>०</sup> -ये अप ७२, ३, ८.  
 द्विछाव-वृक्ष- -क्षम् अप ६९, ५, ५.

a) विप. । तद्विधौ द्विगु. । b) विप. । वत्. । c) समाहारे द्विगु. । d) = कवि-विशेष- (वेप २ सं. ६.) । e) = साम-विशेष- । f) समास-संज्ञा- । g) तु. पाम. । h) तु. शत. । i) विप. । इत्तं वत्. । j) विप. । कत. > वत्. । k) दत्त. > वत्. > कत. । l) आर्हीयः इतुर् प्र. उत्सं. (पा ५, १, २४) ।

द्विज- -जः काशीसं ३६ : ८ ;  
 सुः -जम् मु १८, ६ ; अणः  
 -जस्य जैथ्रीका ११० ; अणः  
 -जाः आसिण् २, ३, ३ :  
 १४ ; १६ ; १९ ; काण्डः -जान्  
 कप १, ४, ३ ; अणः -जानाम्  
 अण २२, १०, ४४ ; वाधः -जे  
 कप २, ३, ७, ३, १, १२ ; विध  
 ९३, ७, -जेन विध १९, ३ ;  
 -जेभ्यः अण १३, ४, ५ ; ६८,  
 २, १७ ; -जेयु अण ७०, १०,  
 ३ ; ७२, ६, १, -जैः वीथीप्र  
 ५४ : १७ ; काण्डः -जौ वृदे ७,  
 ८६ ; ८७.  
 द्विज-कुल- -ले अण ८, १.  
 द्विज-त्व- -जम् विध २८, ३९.  
 द्विजत्व-विहीन- -जः वैष  
 ३, १३, १०.  
 द्विज-देवता- -जाः अण ६४, ४,  
 ९.  
 द्विज-धर्म-हीन- -जः वैष ३,  
 १३, ८.  
 द्विज-पुण्या(ण्य-अ)ह-घोष-  
 -येण काण्डो ७, १६.  
 द्विज-प्रेत- -वस्य विध २२,  
 ६४.  
 द्विज-भृग- -गाः अण ६४, ६,  
 १०.  
 द्विज-वर-गुरु- -रुणा उस् ८,  
 ३६.  
 द्विज-वृषभ-नवा(गो-अ)ध-  
 -पार्थिव- -वानाम् अण ६८, २,  
 ६२.  
 द्विज-धेह- -०४ सु १८, ४ ;  
 -धः शेष ११२ ; ४३९.

द्विज-सत्तम- -जः अण ७०, १,  
 ६ ; -जैः शेष ४४९.  
 द्विजा(ज-अ)प्रय- -प्रयस्य शेष  
 १४१ ; -प्रयैः अण २२, ८, ४.  
 द्विजा(ज-अ)वीच- -चे विध  
 २२, १७.  
 द्विजे(ज-इ)द्- -०२द् सु ७,  
 ३ ; १९, १ ; २८, २ ; -द्वाः  
 अण ७०, ११, ११.  
 द्विजो(ज-उ)त्तम- -जः अण  
 ६९, ८, १ ; ५ ; वाध २६, १६ ;  
 -मम् अण ६९, ३, ५ ; -माः अण  
 २३, १२, १४ ; विध २२, ११ ;  
 -मान् अण ५, ४, १ ; आसिण्,  
 -माय अण ८, २, ३ ; -मै अण  
 ८, १ ; -मैः अण १, ४, ९ ; -मौ  
 शेष ४३९.  
 द्विजोत्तम-कुल- -ले अणम्  
 ८.  
 द्विजकार- -रे अण २, ३, १२.  
 द्विजगण्य(ती-अ)न्- -न्तम्  
 अण २, ५, ६० ; ६, ७.  
 द्विजगाया(ती-आ)दि- -दि  
 अण २, १०, ६९.  
 द्विजगाया(ती-आ)घ(दि-अ)-  
 -न्त<sup>०</sup> -न्तव्य अण २, १०, ५०.  
 द्विजगम्<sup>०</sup> - -न्मनः विध २८,  
 ४८ ; -न्मनाम् कप २, १०, ६ ;  
 अण, -न्मने जैथ्रीका १६६ ;  
 विध २१, २३ ; -न्मा अण २०,  
 ७, ११ ; वीध १, ११, १०.  
 द्विजाति<sup>०</sup> -तयः वैष ५, ८ : ८ ;  
 १० ; अण, -तये कप ३, ८, ५ ;  
 अण ४, २, ३३ ; १२, १, ८ ; -तिः  
 वैष ४, १२ : १२, अण ; -तिभिः

अण २३, ९, २ ; शेष १५० ;  
 विध २२, ८२ ; -विभ्यः शेष  
 २१९ ; -विषु वीध २, १०, ५४ ;  
 -वीन् अण ७०, २२, २ ;  
 गौध १२, १ ; -वीनाम् सु १८,  
 ३ ; आसिण्.  
 द्विजाति-कर्मन्- -मंभ्यः गौध  
 २१, ४.  
 द्विजाति-प्रवर- -रान् वीध २,  
 २, २९.  
 द्विजाति-शुभ्या- -या विध  
 २, ८.  
 द्वित<sup>०</sup> -तः वीथी २४, २६ ; १३ ;  
 अण, या ४, ६ ; -ताय वीथी  
 १, १० ; १५ ; २४, २६ ; १२ ; माथी.  
 द्वितकार- -रम् अण ३, २, २९ ;  
 -राणि अण २, ३, १५.  
 द्वि-तन्त्र- > द्वैतन्त्र<sup>०</sup> -न्त्रेण  
 निम् ९, ४ : २६.  
 द्विनय- पा ५, २, ४३ ; -वं  
 जैथ्रीका १८.  
 द्वि-ता<sup>०</sup> वीथी १८, १४ : ३ ;  
 अण २, ४, ४२, निव ४, २ ;  
 या ५, ३४.  
 द्वैत<sup>०</sup> -तम् वैष १, ९, ६.  
 द्वि-त्(त्)र्- -राः अण ५२,  
 ६, ५ ;  
 द्वि-तारु-दीर्घ<sup>०</sup> -र्थम् वैथी १६,  
 ९ : ५.  
 द्वि-वीय, या<sup>०</sup> - पा ५, २, ५४ ;  
 -यः आथी १, ५, २१ ; ५, ३,  
 ३ ; १२, ६, १४ ; वीथी ; या १,  
 १५ ; ३, १५ ; ११, ६ ; -यम्  
 आथी १, ७, ४ ; २, ७, २१ ;  
 वीथी ; -यया आथी १, ३, १२

a) वैष १३. b) विध. । कस. > वस. > दस. । c) वैष १, १५१३ इ. द. । d) भावे अण् प्र. ।  
 e) सार्धे अण् प्र. (वैट्. टाक. < वीट्-द्विधा इत्-।) । f) विध. । वस. । g) द्विस. > वस. । h) विध., नाप-  
 (विभक्ति, द्विवि.) ।

छ, ६, ३××; शाश्री; पा २, २,  
४; -यस्य आश्री ७, ६, १;  
८, ७, २२××; शाश्री; पा ६,  
१, २; -यस्याः वेताधी २५,  
४; साश्र २, १०२; -यस्याम्  
आश्री २, १, २५; काश्री; -यस्यै  
वाधूरी छ, ५८ : ४; -या आश्री  
१०, ६, ५; शाश्री; अत्र छ, ४०<sup>१</sup>०;  
पा २, १, २४; ३, २; ८; ३१;  
३५; ६०; ६, २, ४७; पावा ६,  
२, ४७; -याः काशीसं ३ : ६;  
वीश्री २६, ११ : २६१; द्राश्री;  
-क्याः आपश्री छ, ४, १; १६,  
१, ३; वीश्री ३, २७ : ३१;  
माश्री छ, ४, ३; वैश्री १८, १, १०;  
द्विथी ६, १, २६; ११, १, ६;  
-यत् आश्री ६, ९, २; ७, ११,  
१९; शाश्री; पा, पावा ५, ३,  
८३; -यत् आश्री ७, १, २८;  
आपश्री; -यानि आश्री ७, ५,  
४; वाश्री; -याःयाम् अत्र ७,  
१२; -याम् आश्री ३, ६,  
२६××; शाश्री, -याप आपश्री  
८, १७, ८१, १३, ६, १२; वीश्री  
५, १६ : १११; -यायाः काशी  
२०, १, १४, निम्; पा ८, १,  
२३; -यायाम् आपश्री ११,  
४, ५; ८; लाश्री; या १, ८;  
पा ३, ४, ५३; ७, २, ८७; -यायै  
शाश्री १८, २०, १-४, -ये आश्री  
३, २, ३; ७, १०, ३××; काश्री;  
पा ६, ३, ८०; -यत् आश्री १०,  
५, २१; शाश्री; -येभ्यः काशी  
१०, २, २४; वैश्री १६, ७ : १;  
अप छ ६, ९, ९१; -क्येषु शाश्री

छ, १०, २१; आपश्री; -येः  
वाश्री ३, २, ७, ३४१; -यो  
अप छ : १३.  
द्वैतीकिक<sup>१</sup> -कानि निम्  
८, ५ : २३१<sup>०</sup>.  
द्वितीय-क-कम् याशि २,  
२१.  
द्वितीय-चतुर्थ-धयोः शाश्री  
१०, ५, १४; १२, २६, २; तैत्रा  
१४, ५; -धाः शुभ्रा १, ५४;  
शीच १, १०; -धै लाश्री ६, २,  
२८.  
द्वितीय-चतुर्थी<sup>१</sup> -ध्याः हिरु  
५, ४७.  
द्वितीय-जन्मन्-ज्मनि वैश्र  
६, ७ : २.  
द्वितीय-तन्त्र-न्त्रम् निम् ९,  
४ : १६; १८.  
द्वितीय-तृतीय, या-ययोः  
आश्री ६, ३, ११; ८, १२, ५;  
-याभ्याम् वैश्री १, १२ : ८;  
द्विथी ३, ४, २२; -ये माशि ६९;  
-यो माथी ५, २, ११, ३९; वैश्री  
१५, १२ : १; वैश्र छ, ७ : ४.  
द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-ध्यानाम्  
आश्री छ, १, १८.  
द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-तुर्थ-  
-धाणि पा २, २, ३.  
द्वितीय-त्य-त्ये पावा ५, ३,  
८३.  
द्वितीय-दशम-दशयोः शाश्री  
१२, २४, ४.  
द्वितीय-दिवस-से वैश्र छ, १० :  
१३.  
द्वितीय-द्विषण-ने पावा ६,

१, २.  
द्वितीय-परिपेक-के जैश्रीका  
७०.  
द्वितीय-पर्याप्त-सम् निम् ५,  
१ : १२.  
द्वितीय-पुरीष-ये वैताधी २, ४.  
द्वितीय-प्रथम-सयोः निम् ५,  
९ : १५; साभ २, ४६; -मौ  
नाशि १, १, १३.  
द्वितीय-प्रथम-कुष्ट-ष्टः तैत्रा  
२३, १६.  
द्वितीय-प्रभृति-वि काश्री २३,  
५, ९; वाश्र १४, २३; -तिषु  
शाश्री १०, १, ११; -तीनाम्  
शाश्री १२, २७, २; दाथी ९, ३,  
१४; लाश्री ३, ७, १.  
द्वितीय-वर्जम् काश्रीसं ५ : ६.  
द्वितीय-वाक्य-लेन वैश्री १३,  
१३ : ९.  
द्वितीय-वाङ्-वदः मोश्र ६,  
१, २३; २, ३, ३७.  
द्वितीय-सप्तम-सयोः शाश्री  
१०, ५, १०.  
द्वितीय-स्थान-नम् निम् ८,  
४ : ३.  
द्वितीय-सार्ध-सर्धः द्वि १,  
११.  
द्वितीय-स्वर-रः द्राश्री ६, १,  
१६<sup>०</sup>.  
द्वितीय-स्वरो(र-उ)सम<sup>१</sup>-मैः  
लाश्री २, १, १२<sup>०</sup>.  
द्वितीया (य-त्रा) काहृक्ष-  
-हृक्षस्य पावा ३, १, १६१.  
द्वितीया/कृ पा ५, ४, ५८.  
द्वितीया-चतुर्थी-यौ शाश्री-

(a) सकृत् एवंपा इति पाठः इ यनि. शोघः । b) तस्यैवमीयम् क्व>इकः प्र. । c) एयं  
इति पाठः इ यनि. शोघः ( वृ. तत्रैव तात्पर्यिकानि ) । d) द्वस. पूष. हसः (पा ६, ३, ६३) । e) सपत्.  
उचमः द्वितीयस्वरः<>द्वितीयस्वरोत्तमैः इति पाठे. । f) विप. । वस. पूष. कस. ।



२,५,१८; १०, ११, ५; पा २, ३, १२.

द्वितीया-वृत्तीया- -ययोः निवृ  
६, १० : ५; -याभ्याम् गोशृ  
६, १, १४; पा ७, ३, ११५;  
-ये ऋष २, १०, १५५; अथ १,  
२५; २०, १३९.

द्वितीया-द्वितीया- -यौ ऋज्वो  
६, १३.

द्वितीया(य-ञ)दि- -द्वयः मैत्र  
२४; ऋष १२, २३; -दि वेताभौ  
३३, ४; -दिः ऋष २, ६, २८;  
-दिम् ऋष ३६, १३, १; -दिपु  
आभौ ७, १, १३; १५, काश्रौसं  
३ : ५; -दीनाम् पावा २, २, ३.  
द्वितीया(य-ञ)ध, पा- -याः  
वृदे ६, २६; वैष २०, -घान्  
नासि १, १, ११.

द्वितीया-निर्देश- -शाः पावा ५,  
१, ८०.

द्वितीया(वा-ञ)नुपपत्ति- -त्ति-  
पावा ३, १, ११.

द्वितीया(य, या-अ)म्- -न्तम्  
गोपि १, २, ७, ४, ७; -न्ताः तैप्रा  
२३, १७.

द्वितीया(य-ञ)म्यस्वर- -ययोः  
वेताभौ ३२, १४.

द्वितीया-प्रभृति- -ति वीशृ ३,  
१३, ९.

द्वितीया(य-ञ)भासि- -सि. पावा  
६, १, २.

द्वितीया(य-ञ)भास- -वे पावा  
६, १, २.

द्वितीया(य-ञ)लाभ- -अ मापृ  
१, ७, ७; वापृ १०, ६.

द्वितीया-पद्य- -विरय- -ये पावा  
२, ३, ३२.

द्वितीया(य-ञ)धम- -मयोः  
साव २, ५६६; ५६८; -मौ  
अयं २ : १४.

द्वितीया-सप्तमी- -म्योः पा ५,  
४, ५६.

द्वितीया-सप्तम-वचरा (न-  
आ)नर्थक्य- -क्यम् पावा २, १,  
२४.

द्वितीया-स्वर-वचना(न-आ)  
नर्थक्य- -न्यम् पावा २, १, २४.

द्वितीयिद्- -विभ्य. आधौ ९,  
४, ४.

द्वितीयै(य-ए)वचन-वत् >  
वद्-वचन- -नात् पावा ६, ३,  
१७.

द्वितीयो(य-उ)धारण-लक्षण-  
-णम् शैशि १०५.

द्वितीयो(य-उ)रिच्छ- -ते काश्री  
२१, १, १०.

द्वितीयो (य-उ)त्तम- -मयोः  
शाश्री १२, १३, १, लाश्री ७, ९,  
५, -मौ लाश्री ७, ७, ९.

द्वितीयोत्तम-चरैम् आश्री ७,  
१२, ८.

द्वितीयो(य-उ)चष्ट- -ष्टः माश्री  
५, २, १०, ४१.

द्वितीयो(य-उ)दात्त- -त्तानि  
अशा १, २, ५.

द्वितीयप्रिच्छण- -न्तम् लाश्री  
१, ६, ११.

द्वि-प्र-चतुः-पद्य-पद-सूक्त-  
भाज- -भाजि ऋष १, १२, ३.  
द्वि-प्र-नक्षत्र- -ग- -गो अय ६३,  
२, १.

द्वि-प्र-पुद्- मन्त- -न्तम् ऋष २,  
१, ५१; १४५५; अथ २०, १४.  
द्वि-स्व- -न्यम् पाप्रवा ५, १६; भासि

२०; ८८; -न्यत् कप्र ३, १०,  
५, -वे भासि १, ७३; पावा ५,  
२, २९.

द्वि-स्व- (ः) शैशि २१७.

द्वि-स्व-वृत्त-युक्त- -क्तम् मीम्.  
३, ३, १७.

द्वि-स्व-वचिद्- -चिपु वीपि ३,  
३, १७.

द्वि-स्व- (त-ञ)भाव- -वात् पावा  
२, १, १.

द्वि-स्व- -वद् वैष २, ३, २.

द्वि-स्व- पा, पाग ५, ४, १२८.

द्वि-स्व- - पा ६, २, १९७.

द्वि-स्व- -न्तः अय ६१, २, २.

द्वि-स्व- (ल-ञ) -लम् कप्र १, २, १०;  
-ला अय २६, २, ५, ८५५.

द्वि-स्व- -स विध ६, २७

द्वि-स्व- -वः काश्रौसं २८ : १८;  
-वस्य काश्रौसं २८ : २०.

द्वि-स्व- (य-आख्या) -ख्य-  
-ख्यः आश्री २२, ७, ६.

द्वि-स्व- -वेपु वृदे ३, १२८.

द्वि-स्व- (ता) -त- -तः काश्री ५,  
१, ५, भाश्री; -ताः आश्री

२४, ३, ४२, -तात् आश्री ३, ६,  
४; -ते वृदे ३, ८१; मीम् ९, ३,  
३७; -तेपु काप्र ४७, ११.

द्वि-स्व-वद-वद-वद- -वेषु शाश्री  
१, १७, ११.

द्वि-स्व- (ता) -त- -तः काश्री ५,  
१, ५, भाश्री; -ताः आश्री

२४, ३, ४२, -तात् आश्री ३, ६,  
४; -ते वृदे ३, ८१; मीम् ९, ३,  
३७; -तेपु काप्र ४७, ११.

द्वि-स्व- (ता) -त- -तः काश्री ५,  
१, ५, भाश्री; -ताः आश्री

२४, ३, ४२, -तात् आश्री ३, ६,  
४; -ते वृदे ३, ८१; मीम् ९, ३,  
३७; -तेपु काप्र ४७, ११.

द्वि-स्व- (ता) -त- -तः काश्री ५,  
१, ५, भाश्री; -ताः आश्री

-रयानि काथी ९, २, ४; १०, ६, ४; -त्ये निम् ६, ८ : १४;  
-त्येभ्यः वीथी २२, १९ : २०;  
-त्येयु शाथी ७, ८, १२; वीथी;  
-त्येः आथी ५, ५, १; वाथी,  
द्विदेवत्य-ग्रह-संनिपात-

-ताः आपथी १३, १, ५.  
द्विदेवत्य-पात्र- -त्राणि  
आपथी १२, १, १०; १३, १३,  
११; वीथी.

द्विदेवत्य-भक्ष- -क्षेपु वैथी  
१५, ३१ : ९.

द्विदेवत्य(त्य-श्र)तुंग्रह- -हाः  
आपथी १३, १, ४; -हेपु द्विथी  
८, ६, १५.

द्विदेवत्य (त्य-श्र) तुंग्रहा(ह-  
श्र)द्वित्य-सावित्र-पात्रीयत-  
-नर्त्तम् आपथी १२, २४, २.

द्विदेवत्य(त्य-श्र)तुंग्रह(ह-  
श्रे)न्द्राग्न-वैश्वदेव- -वाः द्विथी ९,  
१, ३.

द्विदेवत्य (त्य-श्र)तुंग्रह(ह-  
श्रे)न्द्राग्न-वैश्वदेव-द्विर्विहोम- -माः  
वैथी १६, १ : ९.

द्विदेवत्य (त्य-श्र) तुंग्रहा-  
-जाः शाथी ७, १७, १२; -जात्  
शाथी ७, ३, ४.

द्विदेवत्य-वत् आपथी १२,  
२७, १८; १३, ८, ३; वैथी १५,  
३५ : २.

द्विदेवत्य-सोप- -पम् शाथी  
७, ४, १५.

द्वि-दैव<sup>०</sup>-> ०-व- बहुदैवत- -तम्

वृदे ३, ८०,  
रद्वि-दैव<sup>०</sup>- -वे वृदे ३, ४१.  
द्वि-द्रोग- पावाग २, ३, १८.  
द्वि-घ्रा वीथी २५, १४ : १०, १५ :  
८; वैथी.

द्वैप<sup>०</sup>- पर ५, ३, ४५; -धम्<sup>०</sup>  
काथी १४, २, १७; १५, ४, ३;  
आपथी; लाथी २, ७, २७; या  
५, ३; -धात्<sup>१</sup> दाथी १२, २,  
१८.

द्वैधी ✓ कृ > द्वैधी-करण-  
-ये पावा ३, ३, १०४.

द्वैधी ✓ भू > द्वैधी-भाव-  
-वे वीथी २८ : ११ : ८; अप  
४७, १, १.

द्वैधी-भूत- -तः अय ५०,  
८, १.

द्वि-घातु-ज- -जम् वृदे २, १०३.  
द्वि-घ्रा(र >)रा<sup>०</sup>- -नाः आथी ५,  
१, ९१.

द्वि-नकार- -राणि अत्रा २, ३,  
१६.

द्वि-नतिक<sup>०</sup>- -कानि अत्रा २, १,  
१५; -के अत्रा १, १, १४.

द्वि-नवति- -तिः अत्रा १६, ९०.  
द्वि-नामन्- -ना काथी २२, ८, २५;  
आमिय.

द्वि-नाराशंस- -सम् वीथी २५,  
२२ - २; -से आपथी १२, २५,  
२६.

द्वि-नासि(का >)व- -कः अय  
६९, २, २.

द्वि-निष्क-, द्विनैष्किक- पा ५,

१, ३०.  
द्वि-नकार<sup>०</sup>- -राणि अत्रा २, ३, १४;  
१५.

द्वि-प(क्ष >)शा<sup>१</sup>- -क्षा अत्रा ९,  
३१.

द्वि-पृष्ठयो(चि-आ)दि- -दि अत्रा  
२, ८, ११.

द्वि-पञ्चक<sup>०</sup>- -कः अत्रा ३, २७.

द्वि-पञ्चाशत्- -शत् अत्रा २, १,  
१६४.

द्विपञ्चाशद्-अशर-प्रभृति-  
-तयः निम् १, ५ : २.

द्विपञ्चाशद्-वक्ष(र >)रा<sup>१</sup>-  
-रा अत्रा १६, ८०.

द्वि-पव<sup>०</sup>- -पवत् वीथ ४, २, ९१;  
-पदः शाथी ४, २०, १; आपथी;  
-पवदम् वैथी १८, १९ : १०;  
२३; -पदाम् आमिय २, ५,  
९ : १५; जेप २, ६ : १२;

नाशि २, ६, ६१; -पुपदे आथी  
२, ९, १०; शाथी; पाप ३, ४, ७४;  
या १२, १३४; -दी अत्रा ५,  
२६.

द्विपदा- पाग ४, २, ६०;  
-दा आथी ६, २, ५; ५, १८;  
शाथी; उनिम् १ : ४२, २ : २७;  
-दाः आथी ६, २, ६; १, १४४;  
शाथी; वा १०, २१; १२, ४०;  
-दानाम् शाथी ७, २६, ४;  
१८, १, २२; -दाभिः आपथी  
६, १७, ७; वीथी; -दाम् आथी  
७, ३, १९; ८, १२, ३; शाथी;  
-दायाः आथी ७, २७, १५;

a) सपा. 'ग्रहा द्विर्विहोमाः <> 'ग्रहैन्द्राग्नवैश्वदेवा द्विर्विहोमाः <> 'ग्रहैन्द्राग्नवैश्वदेवद्विर्विहोमाः इति  
पामे. । b) = द्वि-दैवत- इति संस्कृतुः भाष्यम् । c) विप. । वम. । d) स्वार्थिकः अण् प्र. । e) वैतु. पात्र  
[५, ३, ४५] द्वि- + घा > धनुष् प्र. इति । वा. क्रिवि. । f) नाप. (निवल्प-). पावा ५, ३, ४५ ङः प्र. इति [तु. पाम. ] ।  
g) वैप १ ङ. । h) वैप १, १६८८ न द. । i) पामे. वैप १, १६८८ प द. । j) 'पदे इति लालं. ।  
k) पामे. वैप १, १६८८ ङ द. । l) 'दी- इति पाका. ।

गुण ४, १४५; उनिस् २: २२,  
-दासु आधौ ८, २, १: ४, ४;  
लाधौ; -दे शोधौ १०, १३,  
१३: १८, १४, ६; लाधौ; अथ  
१६, १२<sup>२</sup>.

द्वैपरिक- पाठ, २, ६०.

द्विपद-त्रिप(द>)दा-  
-दाभिः बोधौ ३, ८: २५.

द्विपदा-कारम् लाधौ ७, ७,  
२०.

द्विपदा(दा-अ) विच्छन्दस्-  
-न्दसो निम् ७, ३: ३६<sup>१०</sup>.

द्विपदा(दा-आ)घ(दि-अ)  
धंभं-भौ क्रमा १५, २०.

द्विपदा(दा-अ)धिक- कः  
जगता १८, १६.

द्विपदा(दा-अ)न्- न्तम्  
अथ २, ६, १०: १७.

द्विपदा-भक्ति- -निनि  
निम् ६, ६: २४.

द्विपदा-सूक्त- -कानि आधौ  
८, ७, २४, १, ६.

द्विपदै(दा ए) करदा- -दा:  
उस् ३, २.

द्विपदी- पाग ४, २, ६०<sup>१</sup>; ५,  
४, ३१, -दौ आपधौ ९, १९,  
१०, बोधौ, आशु १, ७, १९<sup>१</sup>;

बोधु १, ८, २८<sup>१</sup>, शाय १, १४,  
६<sup>१</sup>; या ११, ४०.

द्वैपरिक- पा ४, ३, ६०.

द्विपद, दा- -द. काष्ठ ७, ३४,  
आपशु ६, २; बोधु १: ६; दिशु  
२, २७; -दा बोधु २०: १०;

११; १६.

द्विपद-चतुष्पद- -दम् कौस्  
१२३, १; -देवु संघ २६८.

द्विपद-चतुष्पद-धान्य-हिरण्य-  
-वयानि संघ १८.

द्विपद- > द्वैपरिक- -दः निम्  
७, ५: ३६; गुण २, २२८;

-दम् आधौ ८, १२, २४; शोधौ;  
-दधोः क्रमा १०, ३; -दा: वृदे

४, ८; ७, ८६; क्रमा ८, ३; -दे  
अथ २, १०, ५६; क्रमा; -देन

शोधौ २, १२, २, ३, १७, ५४×;  
-दौ वेताधौ ३२, १२.

द्वैपद-दास(ः) उस् १,  
१५.

द्वैपद- संहिता-स्वर-  
-दौ क्रमा ११, ७०.

द्वैपदा(द-आ)दि-  
दीनाम् वृदे ३, ८०.

द्वैपदा(द-अ)न्त- -न्तेषु  
उस् ८, ३१<sup>१</sup>

द्विपदै(द-ए)कपद- -दानि शुभ्रा  
४, १६१.

द्वि-पराक- > द्वैपराक- -कः  
शोधौ १६, २२, ११.

द्वि-पर्यन्त- -तानाम् पावा ७, २,  
१०२.

द्वि-पशु- -शुः बोधौ १२, १९ :  
९; १७, ५५: १०××; -शुना

आधौ १८, २१, १२; २२,  
२५, १३<sup>१</sup>; बोधौ, -शुम् बोधौ

१८, ६: १८; २६, ३०: १७;  
-शुनि आधौ १२, ७, १४; -दौ

बोधौ २६, १: ३.

द्विपशु-अशुक्ति- -वि माधौ ५,  
२, ९, ४.

द्वि-पात्र- -त्राः बाधुधौ ४, ७८ :  
२-५.

द्वि-पाद- -पा ६, २, १९७; -पपास्  
आधौ ४, ११, १; भाधौ ४,

१६, २; बाधुधौ; कौस् ३३, ९<sup>१</sup>;  
-पपासु माधौ ५, २, १, ३;

बोधु ३, ५, १२; -पपादः बोधौ  
२, १८: १८; माधौ १, ८, ३,

३<sup>१</sup>; अथ १२, १; अं ३: ५६;  
-पपादम् आपधौ १६, २७, १४;

बोधौ; -पादौ अथ १५, १५;  
-पादुरयः या १२, १३.

द्विपाच्-चतुष्पद-भादि-  
-दीनाम् काध २७३: १३.

द्वि-पा(द>)दा- -दा सु १६, ४.

द्वि-पितृ- -वा आपधौ १, ९, ७;  
भाधौ; -पुः बोधु २, २, १९.

द्वि-पुत्र- -उस् वैधौ ११, ७: ९.

द्वि-पुरुष- > प्पा(प-अ)मोम-  
पोविन्- -धिनः काधौ ७,  
१, ६.

द्वि-पुरुष, पा- -यम् काशु २, ६;  
आपशु १९, १; दिशु ६, १६;

-पया काठधौ ९२, -वा बोधु  
१०: १०; -पाम् काधौ १६,

८, १; आपशु १५, ९, दिशु ५,  
१४.

द्विपुरुषा(प-आ)याम- -मः  
आपशु १५, १०; बोधु १०: ५;

दिशु ५, १७.

a) ष्टा इति पाठः ? यति. सोचः । b) ष्लो इति पाठः ? यति. सोचः ( तु. सधु. अन्तच्छन्दसो ) ।  
c) विप. वचम. d) वृ १३२५ । द. । e) पाभे. वैप २, ३६. कु. तैत्रा ३, ७, ७, ११ दि. द. । f) वदितार्थे  
द्विग. उप = पषदशाशुज- । g) वृ १२०३ c. । द. । h) ष्लो इति कालिम् । i) द्विग. उप. = त्रिपद्य-  
विशेष- । j) = याग-विशेष- । चम. । k) वैप १ द. । l) पाभे. वैप १, १६८८ p द. । m) पाभे. वैप १,  
१६८८ q द. । n) वदितार्थे द्विग. ।

दि-पुरोडा(श>)दा<sup>०</sup>- -शायाम्  
मीस् १०,८,९०.

दि-पृष्ठ-> द्वैपृष्ठ- -पृष्ठात् निस्  
९,४ : ६; -पृष्ठेन निस् ९,४ :  
२६.

दि-प्रकृति<sup>०</sup>- -तीनाम् या २,२.

दि-प्रक्रम- -मम् बौधु ४ : १३.

दि-प्रगाथ- -थम् निस् ५,५ : १०;  
-थात् निस् ५,५ : २.

दिप्रगाथा(थ-आ)दि- -दि ऋभ  
२,८,१.

दि-प्रतिष्ठित<sup>०</sup>- -त्तम् वैद्य ३, १९ :  
५१.

दि-प्रतिहारा<sup>०</sup>- -राणि लाथी ७, ४,  
१; -रे लाथी ६, १२, १; ७,  
७, १८; २२.

दि-प्रतीक<sup>०</sup>- -कम् आथी ८, १२,  
२४.

दि-प्रधान, ना<sup>०</sup>- -न्तम् वृदे ४, ५;  
-नाः वृदे ४, ८.

दि-प्रभृति- -तिषु शीथी १, १७,  
२; -तीन् लाथी ६, ३, २६;  
-तीनि नाथि २, २, ५.

दिप्रभृत्वा(ति-आ) वुधियण-  
-णेषु द्विथी ३, ८, १८.

दि-प्रभे(द>)दा<sup>०</sup>- -दाः आशि  
६, ११.

दि-प्रमा(ण>)णा<sup>०</sup>- -णा काशु ३,  
६; -णायाः आपशु ३, १६;  
द्विथु १, ५७.

दि-प्रवाचन<sup>०</sup>- -नाः आथी १२,  
१३, २.

दि-प्रमाग्नि(व>)नी<sup>०</sup>- -नी आशु  
१, ५, ५.

दि-प्रस्ता(र>)रा<sup>०</sup>- -राः आपशु  
१०, १३; द्विथु ३, ५३.

दि-प्रस्थ-तण्डुल-पा(क>)का<sup>०</sup>-  
-का वैथी ११, १ : १३.

दि-प्रदेन, ना<sup>०</sup>- -नाः वैथी ११,  
७ : १२; बौधु ४ : १४; -थम्  
माथी २, ३, ३, ३८; -शया  
काठथी ९२; -नीः वैथी ११,  
१० : २.

दिप्रदेतो(श-उ)परव- -वेपु  
काठथी ९२.

दि-फ(ल>)ला<sup>०</sup>- -ला अप २६,  
२, १.

दि-वर्द्ध- -र्द्धाः अप ४८, ११५;  
निष ४, ३; वा ६, १७०.

दि-वर्द्धि- -र्द्धिः नाथी ३,  
१४ : १४.

दि-वृद्ध- -वृद्धु पावा ६, ३, १, -हनाम्  
आथी ३, ३, ३.

द्विवृद्ध(ह-अ)र्थ- -र्थे पावा ५, ३,  
५२; ९३.

दि-विरत-> द्विवैरितक- पा ५, १,  
३१.

दि-वृद्धय(ती-अ)वृद्ध- -वृद्धन्त<sup>०</sup>-  
-न्ते ऋभ २, ८, ५.

दि-वृद्धय(ती-अ)न्त- -न्तम् ऋभ  
२, ८, ६९.

दि-प्रहोदन- -नम् वीथी २४,  
१५ : ७.

दि-भाग<sup>०</sup>- -गः मीस् १०, ७,  
२०; -नाम् आपथी ७, २४, ८;  
२२, १६, १३; बौथी; -नेभ्यः  
वेज्यो १७.

दि-भाव- (> द्वैभाव्य- पा.) पाग

५, १, १२४.

दि-भेद<sup>०</sup>- -दाः चव्यु २ : १२.

दि-मण्डल-परिमह- -हे अप ६३,  
२, ९.

दि-मात्र, प्रा- -प्रः तैप्रा २२, १३;  
शीष; -प्रम् माथी १, ३, ३, २३;  
माः; -प्राः वृषा ४, १०१;  
-प्राम् ऋप्रा १३, ५०.

दिनाधिक- -कः कौशि ७४;  
याशि २, ४२; -के याशि १, ६७,  
२, ४२.

दि-मास- -सात् अप ५७, ४, ७.  
द्वैमास्य<sup>०</sup>- -रथः मीष ६६, ४.

दिमासा(स-अ)व्यन्तर- -रे वा  
१४, ६.

दि-मुख<sup>०</sup>- -स्तः वीथ १, ११, ३२.  
द्विमुखी- -स्त्रीम् अप ६, १, १४.

दि-मुसलि- -पाय ५, ५, १२८.

दि-मूर्ध- -पा ५, ४, ११५.

दि-मूर्धन्<sup>०</sup>- -र्धा अप ६९, २, ३;  
अप ८, १० (४).

दि-यकार- -रम् वृषा ४, १५३;  
-राणि अप्रा १, १, १२; २, ३,  
१२.

दि-यजुस<sup>०</sup>- -जुपी वीथी १०,  
३२ : २; ४.

दि-यज्ञ- -ज्ञः काथी २२, ११, १२.  
द्वैयज्ञ- -ज्ञाः निस् ७, ७० :  
३२.

द्वियज्ञ-वत् मीस् ६, १, २२ x x.

दि-यज्ञोपवीत-> "तिन्- -ती  
वीथ १, ३, ५.

दि-यम<sup>०</sup>- -मे तैप्रा ६९, ३.  
द्वियम-पर- -रे तैप्रा ६९, ३.

a) विप. (वीथीमासो-). b) विप.। वत.। c) विप. (नामन्-). वृष. पूष. = मातापितृकुल-।

d) बोधः पृ २१६ वृ द्र.। e) = स्वरिणी-। उत.। f) विप.। द्वि. > क्त. > यथ.। g) विप.।  
वदितार्थे द्वि.। h) वेप १ द.। i) विप. (सरस्-). पूष. !। j) विप.। क्त. > द्वत्. > पत्.। k) वत.  
ना समाहारे द्वि. वा। l) भावीत्यर्थे ष्वस् प्र. (पा ५, १, ८४)। m) उप. = स्वरित-।

शुभ ४, १४५; उनिस् २ : २२;  
-दासु आधो ८, २, १, ४, ४;  
लाधो; -दे शाधो १०, १३,  
१३; १८, १४, ६, लाधो; अस्  
१६, ११<sup>१</sup>.

१द्विपदिक- पा ४, २, ६०.

द्विपद-त्रिप (द>)दा-  
-दानि. बौधो ३, ८ : २५

द्विपदा-कारम् लाधो ७, ७,  
२०.

द्विपदा(दा-अ) तिच्छन्दस्-  
-न्दसो निम् ७, ३ : ३६<sup>१०</sup>.

द्विपदा(दा-आ)य(दि-अ)  
ध्वं- -वो ऋप्रा १५, २०.

द्विपदा(दा-अ) धिक- -कः  
ऋप्रा १८, १६.

द्विपदा(दा-अ)न्त- -न्तम्  
ऋप्रा २, ६, १०; १७.

द्विपदा-भक्ति- -क्तिनि  
निम् ६, ६ : २४.

द्विपदा-सूक- -कानि आधो  
८, ७, २४, ९, ६.

द्विपदै (दा ए) करदा- -दाः  
उस् ३, २

द्विपदा- पाग ४, २, ६०<sup>१०</sup>, ५,  
४, १३९; -वो आपधो ९, १९,  
१०; बौधो, आसु १, ७, १९<sup>१०</sup>;

बौध १, ८, २८<sup>१०</sup>, चाए १, १४,  
६<sup>१०</sup>; या ११, ४०.

२द्विपदिक- पा ४, २, ६०.

१द्विपद, दा<sup>१</sup>- -द. काष्ठ ७, ३४,  
आपधु ६, २; बौधु १ : ६; हिगु  
२, २७; -दा बौधु २० : १०;

११; १६.

द्विपद-चतुष्पद- -दम् कौस्  
१२३, १; -देसु शंघ २६८.

द्विपद-चतुष्पद-ध्यान-द्विपद-  
-ध्यान शंघ १८.

२द्विपद- > द्विपद- -दः निम्  
७, ५ : ३६; शुभ २, २२८;

-दम् आधो ८, १२, २४; शाधो;  
-दयोः ऋप्रा १०, ३; -दाः वृदे  
४, ८; ७, ८६; ऋप्रा ८, ३; -दे  
ऋप्रा २, १०, ५६; ऋप्रा; -देन  
शाधो २, १२, २; ३, १७, ५४;

-दो वैताधो ३२, १२.

द्विपद-दास् (: ) उस् १,  
१५.

द्विपद- संहिता-स्वर-  
-रो ऋप्रा ११, ७०.

द्विपदा(द-आ)दि-  
दीनाम् वृदे ३, ८०.

द्विपदा(द-अ)न्त- -न्तेसु  
उस् ८, ३१<sup>१०</sup>.

द्विपदै(द-ए)रूपद- -दानि शुप्रा  
४, १६९.

द्विपदाक- > द्विपदाक- -कः  
शाधो १६, २२, ११.

द्विपद-न्त- -न्तानाम् धवा ७, २,  
१०२.

द्विपदा- -शुः बौधो १२, १९ :  
९; १७, ५५ : १७४; -शुना  
आपधो १८, २१, १२; २२,  
२५, १३१; बौधो, -शुम् बौधो  
१८, ६ : १८; २६, ३० : १७,  
-शुनि आधो १२, ७, १४; -वो

बौधो २६, १ : ३.

द्विपद-प्रभृति- -ति माधो ५,  
२, ९, ४.

द्विपदा- -त्राः बाधुधो ४, ७८ :  
२-५.

द्विपदा- -पा ६, २, १९७; -पाव  
आपधो ४, ११, १; माधो ४,  
१६, २; बाधुधो; कौस् ३३, ९<sup>१</sup>;

-पापसु माधो ५, २, १, ३;  
बौध ३, ५, १२; -पापदः बौधो  
२, १८ : १८; माधो १, ८, ३,  
३<sup>१०</sup>; अस् १२, १; अस् ३ : ५६;

-पापदम् आपधो १६, २७, १४;  
बौधो; -पापदो अस् १५, १५;

-पापदयः या १२, १३.

द्विपद-चतुष्पद-आदि-  
-दीनाम् काध २७३ : १३.

द्विपदा(द>)दा<sup>१</sup>- -दा सु १६, ४.

द्विपदि- -सा आपधो १, ९, ७;  
भाधो; -सुः बौध २, २, १९.

द्विपदि- -दम् बौधो ११, ७ : ९.

१द्विपद- > प्पा(प-अ)मोम-  
पोधिन्- -यिनः काधो ७,  
१, ६.

२द्विपद-पा<sup>१</sup>- -यम् काष्ठ २, ६;  
आपधु १२, १, हिगु ६, १६;

-पया काष्ठो ९२; -पा बौधु  
१० : १०; -पाम् काधो १६,  
८, १, आपधु १५, ९; हिगु ५,  
१४.

द्विपदा(पआ)याम- -मः  
आपधु १५, १०; बौधु १० : ५;  
हिगु ५, १७.

a) \*दा इति पाठ. ? यनि. शोध. । b) \*लो इति पाठ. ? यनि. शोध. ( तु. लघु. अन्तच्छन्दसी ) ।

c) विप. । अस्. । d) वृ १३२५ । द. । e) पामे. वैप २, ३६. द्वे तेषां ३, ७, ७, ११ टि. द. । f) तद्विपदेषु  
द्विप. उप = पयदनास्तु- । g) वृ १२०३ c, f. d. । h) \*लो इति अस्ति. । i) द्विप. उप. = त्रिराव-  
विशेष- । j) = याग-विशेष- । क्स्. । k) वे १ द. । l) पामे. वैप १, १६८८ p. d. । m) पामे. वे १,  
१६८८ q. d. । n) तद्विपदेषु द्विप. ।

दि-पुरोडा(श) > )दा<sup>०</sup> -शायाम्  
मीत् १०,८,६०.

दि-पृष्ठ-> द्वैपृष्ठय- -पृष्ठात् निस्  
९,४ : ६; -पृष्ठेन निस् ९,४ :  
२६.

दि-प्रकृति<sup>०</sup> -तीनाम् या २,२.

दि-प्रकम- -मम् बौधु ४ : १३.

दि-प्रगाथ- -थम् निस् ५,५ : १०;  
-थात् निस् ५,५ : २.

दिप्रगाथा(थ-आ)दि- -दि प्रथ  
२,८,१.

दि-प्रतिष्ठित<sup>०</sup> -त्म् वैशु ३, १९ :  
५३<sup>१</sup>.

दि-प्रतिहार<sup>०</sup> -राणि लाथी ७, ४,  
१; -रै लाथी ६, १२, १, ७,  
७, १८; २२.

दि-प्रतीक<sup>०</sup> -कम् आथी ८, १२,  
२४.

दि-प्रधान, ना<sup>०</sup> - नम् युदे ४, ५;  
-नाः युदे ४, ८.

दि-प्रभृति- -तिपु शीथी १, १७,  
२; -तीन् लाथी ६, ३, २६;  
-तीनि नाशि २, २, ५.

दिप्रभृत्वा(ति-आ) कृतिगण-  
जेपु हिथी ३, ८, १८.

दि-प्रभे(द) > )दा<sup>०</sup> -दाः आशि  
६, ११.

दि-प्रमा(थ) > )ना<sup>०</sup> -णा कासु ३,  
६; -णायाः आप्यु ३, १६;  
हिद्यु १, ५७.

दि-प्रवाचन<sup>०</sup> -नाः आथी १२,  
१३, २.

दि-प्रवाजि(व) > )नी<sup>०</sup> -नी आप्यु  
१, ५, ५.

दि-प्रस्ता(र) > )रा<sup>०</sup> -राः आप्यु  
१०, १३; हिद्यु ३, ५३.

दि-प्रथ-वण्डुल-पा(क) > )का<sup>०</sup>-  
का वैथी ११, ९ : १३.

दि-प्रादेश, शा<sup>०</sup> -शाः वैथी ११,  
७ : १२; बौधु ४ : १४; -शम्  
माथी २, २, २, २८; -शया  
काठथी ९२; -शैः वैथी १२,  
१० : २.

दिप्रादेशो(श-उ)परव- -वेपु  
काठथी ९२.

दि-फ(ल) > )ला<sup>०</sup> -ला अप २६,  
२, १.

दि-वर्हस<sup>०</sup> -र्हाः अप ४८, ११५;  
निष ४, ३; या ६, १०४.

दि-वार्हस<sup>०</sup> -र्हिषः वाधुथी ३,  
१४ : ४.

दि-वहु- -हुपु पावा ६, ३, १; -हनाम्  
आथी ३, ३, ३.

द्वियद्(हु-म)थै- -थै पावा ५, ३,  
५२ : १३.

दि-विस्त-> द्विवैस्तिक- पा ५, १,  
३१.

दि-वृहय(ती-घ)नुपुव् -बन्त<sup>०</sup>-  
न्ते प्रथम २, ८, ५.

दि-वृहय(ती-अ)न्त- -न्तम् प्रथम  
२, ८, ६९.

दि-वृद्धीदन- -नम् बौथी २४,  
१५ : ७.

दि-भाग<sup>०</sup> -गाः मीत् १०, ७,  
२०; -गम् आपथी ७, २४, ८;  
२२, १६, १३; बौथी; -नीथ्यः  
वेपुथी १७.

दि-भाव- ( > द्वैभाष्य- पा.) पाय

५, १, १२४.

दि-भेद<sup>०</sup> -दाः चषु २ : १२.

दि-भण्डल-परिमह- -हे अप ६३,  
२, ९.

दि-सात्र, वा- -त्रः तैत्रा २२, १२;  
शौच; -यम् माथी १, ३, २, २२;  
माथ; -त्राः शुषा ४, १०९;  
-चाम् अप १३, ५०.

दिनात्रिक- -कः कौशि ७४;  
याशि २, ४२; -के याशि १, ६७;  
२, ४२.

दि-मास- -सात् वा ५७, ४, ७.

द्वैमास्य<sup>०</sup> -स्यः गौध १६, ४.

दिमासा(त-प्र)भवतर- -रे या  
१४, ६.

दि-मुल<sup>०</sup> -सः वीथ १, ११, ३२.

दिमुली<sup>०</sup> -स्त्रीम् अप ६, १, १४.

दि-मुसलि- पाय ५, ४, १२८.

दि-मूर्ध- पा ५, ४, ११५.

दि-मूर्धन्<sup>०</sup> -र्धा अप ६२, २, ३;  
अप ८, १० (४).

दि-यकार- -रम् शुषा ४, १५२;  
-राणि अप १, ३, १२; २, ३,  
१२.

दि-यजुस<sup>०</sup> -जुषी बौथी १०,  
३२ : २; ४.

दि-यज्ञ- -ज्ञः वाथी २२, ११, १२.  
द्वैयज्ञ- -ज्ञाः निस् ७, १० :  
३२.

द्वियज्ञ-वत् मीत् ६, १, २२ x ५.

दि-यज्ञोपवीत- > ऽतिन्- -ती  
बौध १, ३, ५.

दि-यम<sup>०</sup> -मे तैत्रा १९, ३.

द्वियम-पर- -रे तैत्रा १९, ३.

a) विष. (बौधमासी). b) विष. । वस. । c) विष. (नामन्). । तुष. पूष. = मातापितृ-कुल- ।

d) शोधः पृ २१६ वृ द्र. । e) = सेरिणी. । वस. । f) विष. । द्विस. > वस. > वस. । g) विष. ।  
तद्विधायै द्विस. । h) वैष १ द्र. । i) विष. (वदस्). । पूष. । j) विष. । वस. > द्विस. > वस. । k) वस.  
वा समाहारे द्विस. वा । l) भावीत्यर्थे ष्वत् प्र. (पा ५, १, ८४). m) उप. = स्वरित- ।

दि-यमा(म-अ)न्तरा-ना तमा  
२३, २१.

दिव(दि-अ)द<sup>a</sup>-दः वाधूथी ३,  
१: २.

दिव्युगम-प्रम(व>)मा<sup>b</sup>-वा:  
अ० ७०<sup>१</sup>, १०, २.

दिव्यु<sup>c</sup>-युजा आपथी २२, २,  
२०.

द्वि-योग<sup>d</sup> > द्वैयोग्य-अयम्  
पावा ५, १, ११.

द्वि-योग<sup>e</sup>-मा: वीथी १८, २०:  
७, १९; -गम् वीथी १५,

२४: १७, -गानाम् वाधूथी  
३, ७९: ६

द्वि-योगन-नम् वीथी २६, १०:  
२, अ० ६१, १, २६

द्विरत्रिक<sup>f</sup>-कम् अ० ३०, १, ४.

द्वि-रत्ता(न>)न<sup>g</sup>-नम् द्विथी  
९, ८, १०<sup>h</sup>; -ना आपथी १४,  
५, १३<sup>b</sup>.

द्वैदान्य->०-दंसन-नात्  
मीत् ८, १, १४

द्वि-राज्य-अयम् अ० ७२, ६, २.

द्विरात्र-त्रा: शोथी १५, १६, ४<sup>i</sup>;  
आपथी, -अम् शोथी १३, ५,  
१९x, आपथी, -अय्य आपथी  
१८, २३, २२x, वीथी, -त्रा:  
आपथी २२, १४, १६, निम् ८,  
३: २५; -त्राणाम् निम् ३,  
७: १; -त्रात् निम् ९, १, ४७;  
-त्राय काथीम ३१: १५<sup>j</sup>  
वीथी, -त्रे आपथी १४, १८,  
१३; वीथी १७, ५९, १८x;  
द्विथी १५, ५ १४; निम् ७, ३:  
१०, २८; -त्रेण शोथी १६, २०,

१: १९.  
द्वैरात्रिक<sup>k</sup>-आणि निम् ७,  
३: १०.

द्वैरात्रिदी-अय: निम्  
९, ४: २७.

द्विरात्र-अथाय-अ: निम् ९,  
४ २५; -त्रेण निम् ७, ८:  
२७; २९; ३०<sup>l</sup>; ३३<sup>m</sup>.

द्विरात्र-अमृति-अय: शोथी  
११, १, ३; आपथी; -त्रिपु  
शोथी १०, १, २०; १२, २, १;  
आथी ६, ९, १६.

द्विरात्रा(त्र-आ)दि-दीनाम्  
मीत् ८, २, २७.

द्विरात्रा(त्र-आ)ति-सिम् निम्  
७, ८: १९, ८, २: १७.

द्विरात्रोण<sup>n</sup>-ण: लाथी ८, ४,  
११.

द्विरात्रो(त्र-ऊ)न-नम् आथी  
११, ७, १०.

द्विरात्रो(त्र-उ)पवन<sup>o</sup>-न:  
आथी ११, ४, ८; -नम् आथी  
११, ३, ११<sup>p</sup>.

द्वि-रूप, पा-अ: वाधूथी ३, ६९:  
३२, -अम् आपथी २१, २३,  
१२; भाथी ७, ९, ७; माथी;  
-अया आपथी १०, २२, ५, -या  
आपथी १३, २३, १२; २२,  
१५, ८; द्विथी १७, ६, २४;  
-याम् द्विथी ९, ६, १५.

द्वि-रत्तम्<sup>q</sup>-ना: पा० ३, १५, ६;  
वीथ १, ११, ३२.

द्वि-रत्ता<sup>r</sup>-अम् अ० २, ३, १३.

द्वि-रत्त(त्त्र>)त्रया<sup>s</sup>-अया तु  
२८, १.

द्वि-वचन-अम् निम् ३, ९: ४३;  
या ६, १६; पा १, १, ११; २,  
६३x; पावा; -नानि निम्  
९, १२: १५; अया ३, २, १;  
-ने अ० २, ३, १३; पा ७, १,  
७७x.

द्विवचन-अयम् अ-अ: पावा ६,  
१, ३.

द्विवचन-अहुवचन-विधि-अधि:  
पावा १, २, ६४.

द्विवचन-अहुवचना(न-अ)नुप-  
पत्ति-अति: पावा २, २, २९.

द्विवचन-अहुवचना(न-अ)नेक-  
प्रत्यया(अ-अ)नुपपत्ति-अति:  
पावा ४, १, ३.

द्विवचन-अहुवचना(न-अ)  
प्रतिदि-अदि: पावा १, २,  
६४; ३, ३, १६१.

द्विवचना(न-आ)दि-अदिपु  
आमिपु ३, ४, १: ३२.

द्विवचना(न-अ)न्त-अन्तम्  
पावा १, १, ११; -न्ता: अ०  
१, ९३; -न्तानि अ० ५, २८;  
-न्ती शोव १, ७५.

द्विवचनान्त-अणुल्लव-अवे  
पावा १, १, २१.

द्विवचनै(न-ए)कवचन-अने पा  
१, ४, २२.

द्वि-वचो(अम्-अ)न्त-आम्-  
आत्र: अ० १, ७१.

द्वि-वत्<sup>t</sup>आथी २, ७, २०; आपथी;  
-या २, २४<sup>u</sup>.

द्वि-वत्-स्तुति-अति: वृदे ६,  
१६; -वी वृदे ४, ५

द्वि-वत्-अत: अ० ५, ३, १०<sup>v</sup>

a) = द्वपद-। b) विप.। अय. > वस.। c) पृ १२०५ c द.। d) विप.। तद्विन्ताथे द्विस.। e) = रथ-  
विशेष-। वय.। f) उप. = अरलि-। g) विप.। वत.। h) तत्र. अयम् <> ना: इति पाठे.। i) विप.।  
निर्दूताथे अम् प (पा ५, १, ८७)। j) पृ १२०५ k द.। k) तदर्थतय: वति: प्र. (पा ५, १, ११७ [उ. वद्व्युत्सविय-])।

-वति श्रुत ५,७,१०.  
 द्वि-वर्ण<sup>०</sup>- -र्णम् युवा ४, १४६;  
 तेषां.  
 द्विवर्ण लोप- -पः या २, १.  
 द्वि-वर्ण<sup>०</sup>- -र्णः श्रुता ९, ३४;  
 -र्णम् कौय ३, ६, ३; शशिः  
 -र्णानि आशि १, २५.  
 द्वि-वर्ण<sup>०</sup>- -र्णम् बाध ४, १०.  
 द्विवर्ण-प्रभृति-प्रेत- -तम् पाय  
 ३, १०, ८.  
 द्वि-वस्त्र<sup>०</sup>- -व्याः काय ३, ९; माय.  
 द्वि-वितरित<sup>०</sup>- -स्तिः कय १, ८,  
 १२.  
 द्वि-वितरित-प्रमाण<sup>०</sup>- -णः काय  
 ७, ८.  
 द्वि-विध, धा<sup>०</sup>- -धः आपथी १६,  
 १७, १५; आपथुः -धम् शीघ्री  
 १६, २०, १४४; शशीः -धा  
 या १६, ५; नाशि १, ७, १६;  
 -धाः वीध ३, ३, ४; -धे वाथी  
 ३, ३, १, ४०; -धेन निरू ७,  
 ५ : ३८.  
 द्वि-विध- -धम् वीध ३, ३, १;  
 -ध्यात् निम् ८, २ : २१.  
 द्वि-विधादिन्- -दि गालि १२०.  
 द्वि-विस्तार- -रम् अय ३०<sup>०</sup>, १, ५.  
 द्वि-वृत्<sup>०</sup>- -वृत् वीय १, ७, १०.  
 द्वि-व्यञ्जन-विधि- -धिः पापरा  
 ४, १३.  
 द्वि-व्या(म>)मा<sup>०</sup>- -मा काथी ६,  
 ३, २४; -माम् वाठथी ५२.  
 द्वि-व्यावा(म>)मा<sup>०</sup>- -मा आपथी

७, ११, २; शीघ्री; -माम् वाथी  
 १, ६, २, ११; वैथी.  
 द्वि-मत्<sup>०</sup>- -तः वीथी १४, ८ : ३;  
 अय ४६, ८, ४.  
 द्वि-शक्त<sup>०</sup>- -कम् वीध ११६ : ५०.  
 द्वि-सत- -तम् आमिष्ट ३, ८, ३ :  
 २०; वीयि.  
 द्विसत्ता(त-भ)स(र>)रा<sup>०</sup>- -रा  
 निम् १, ५ : १५.  
 द्वि-सत, ता<sup>०</sup>- -तः आपथ १७, ३;  
 १; वीयुः; -ताः वीयु ५ : २१.  
 द्वि-सक्त<sup>०</sup>- -कम् माथी ५, २, १४, ८.  
 द्विसक्त(क-ए)कसक्त(क-अ)पद  
 रण- -ये विध ५२, १२.  
 द्वि-सम्- -सम् मौसू १०, ७,  
 २५.  
 द्वि-सम्- -यानि माथी २, १, १,  
 १०.  
 द्वि-सम् (ः) काथी २, ३, ६; निप ३,  
 २६; या ३, २०; श्रुता.  
 द्वि-सा(रा>)स<sup>०</sup>- -सम् कौसू  
 ९०, ३.  
 द्वि-साण- > द्विसाण्य-, द्वैसाण-  
 या ५, १, ३६.  
 द्वि-सीध<sup>०</sup>- -यम् अय ७१, ६, ४.  
 द्वि-सीध<sup>०</sup>- -पां अय ७०<sup>०</sup>, ४, ४.  
 द्वि-सू(ल>)सा<sup>०</sup>- -साम् आपथी  
 ७, ८, ३४४, नाथी, वैथी १०,  
 ७ : २१<sup>०</sup>; १५ : २.  
 द्वि-सू(ः)सा<sup>०</sup>- -साम् माथी १, ८,  
 ३, २६; -साम् माथी १, ८, ४,  
 १५; ३८; वाथी.

द्वि-सू(ः)सा<sup>०</sup>- -साम् माथी  
 काथी ५६; ५७; -सू वाथी  
 १, ६, २, ११.  
 द्वि-सोप- -सोप मौसू ३, २, २६.  
 द्वि-सोपि<sup>०</sup>- -णि वीथी ११, ३ :  
 २२; २४; २२, १४ : ५.  
 द्वि-सं(ल)हित<sup>०</sup>- -तानि आपथी  
 २२, ५, ९; हिथी १७, ३, ३७;  
 लाथी ८, ६, २५.  
 द्वि-सं(ल)धि<sup>०</sup>- -धयः श्रुता २,  
 ८०; -धी श्रुता १५, १८.  
 द्वि-सम्- -सम् वाथी ३, २, ६,  
 ३९<sup>०</sup>; श्रुता ३, २६; -सम्भिः  
 अं ४ : ९.  
 द्वि-सम्- -सम् अय ६१,  
 १, २७.  
 द्वि-सहि- -हिः निप ४, १; या ४,  
 २५; -सहा वेज्यो २९.  
 द्वि-सहि-भाग- -गेन वेज्यो ३७.  
 द्वि-सहि-रात्र-प्रभृति- -नीनि  
 काथी ११, ४, ८.  
 द्वि-सधी-माय- -यात् पावा २,  
 १, १.  
 द्वि-स(ल)हसा(स-आ)दि- -दिपु  
 वीय १, १६ : ८०.  
 द्वि-सा(ल)सम्- -सम् आपथी  
 १६, १३, ११; वीथी; -स  
 आपथ १०, १३; हिथु ३, ५३.  
 द्वि-साहसा(स-आ)दि- -दिपु  
 आमिष्ट ३, ८, ३ : १२०.  
 द्वि-सू(ल)स- -सः काथी ८,  
 ७, २०; -सः काथी १०, ११,

a) पृ ७९३ १ द्र. । b) पृ ७९३ १ द्र. । c) तद्विधायि द्वि. । d) प्रभृतियोगेऽपि द्वितीया  
 उलं. (पावा २, ३, २) । e) द्विवर्ण इति संस्कृतः टि. । f) निप. । वस. । g) विप. (सङ्खु-). कय. >  
 वस. । h) पृ १०५४ १ द्र. । i) = महुद्-विशेष. । समासः ? । j) 'ला इति पाठः ? वनि. मोपः  
 (द्व. आपथी ७, ८, ३) । k) वस. वा. किरि. । l) विप. > नाप. । वस. । m) वस.  
 [२x६=१२] । n) विप. । मलो. वस. उप. = आपथ. । o) सवा. द्विवर्ण <> द्विपद इति पावे. ।  
 p) वैप १, १५१९ ८ द्र. ।  
 वैप ४ प्र-७२



१४; १२, ३, ३.

द्वि-बोद्धिद्व- -बो आश्रयो २२,  
५, १४; द्विधो १७, २, ४२.

द्वि-घ- पा ८, ३, ९७.

द्विघ (ः) आश्री १, ३, २९; ३३, २,  
१६, १५××; आश्री; पा ५,  
४, १८; ८, ३, ४३; पावा २,  
३, ६९; द्विःद्विः आश्री २,  
१७, २; ४; ४, ११, ५; २१,  
१३; काश्री.द्वि-वचन- -वचम् गोप ३,  
५, ६; जैप १, १६; २७, सध  
२२२.द्वि-प्रयोग- -ग. पावा ६,  
१, १.द्वि-प्र- -प्रम् आश्रिय ३, ११,  
४; ४५.द्वि-अभिधारण- -येन मीम्  
१०, ८, ३०.द्वि-आश्रय- -वम् याशि १,  
१२.द्वि-आश्रय- -मः बोधो २,  
९; २३; -मो बोधो २, ९;  
२४द्वि-उक्त, का- -नः मीम् २,  
३, २८; -कम् शुभ्रा १, १४६;  
-कया जैधो १४; २७, जैधोका  
१४७, -का. शुभ्रा ४, १५८,  
-कानाम् अत्रा ३, १, ५, -के  
शोच ४, ४४.द्वि-उदात्त- -चम् अत्रा १,  
१, ४, नाशि २, ७, ५, -चानि  
शुभ्रा २, ४६.द्वि-गृहीत- -तेन माधो ६,  
२, ५, ३३.द्वि-दत्त- > ष-ठम् (ः) या  
३, १०.द्विदत्ता (घ-अ)प्र (र>) )  
रा- -रा अत्रा १६, २२.द्वि-दोष- > ष-ठा- -वाम्  
वाध २०, १०.द्वि-भाव- -वः माशि ११, ९;  
नाशि २, २, ६.द्वि-भूत- -वः कप्र २, ९, १६;  
-ते पावा ६, १, १३२<sup>३</sup>.द्वि-योग- -गस्य निम् ८,  
१०; ५.द्वि-वचन- -नम् शोच ४,  
११७; पावा १, १, ७; ५९; ३,  
२, ५९××; -नात् पावा ३, ४,  
२; ६, १, ९; १२, १३२; -ने  
पा १, १, ५९; पावा ६, १, १<sup>३</sup>;

८; ८, २, ६; ३, ५९, ४, ४७.

द्वि-वचन-निमित्त- -त्त पावा  
१, १, ५९.द्वि-वचन-प्रकरण- -ये पावा  
६, १, १२.द्वि-वचन-प्रमङ्ग- -ङ्गः पावा  
६, १, ३, ८, १, ४द्वि-वचन-विधान- -नात्  
पावा ८, १, ४.द्वि-वचन-सबन्ध- -न्धेन  
पावा ८, १, ९.द्वि-वचना (न-आ)दि- -द्वयः  
पावा १, १, ५७, -दोनि पावा  
१, १, ५८.द्वि-वचना (न-अ)र्थ- -र्थः  
पावा ६, १, १.द्वि-वचनी- -मीम् कौस १३७,  
८.द्वि (गु>) व-र (< त) र->  
शाम् पावा ८, २, २२.द्वि-वचन- -वाम् तैपा १,  
२५.द्वि-वचनी- -मीम् बोधुः  
१; ३२; २; १३; १६××.द्वि-वच (व>) ग- पा ५, ४,  
८४; -वा आश्रयो २०, ९, १;  
बोधो.

द्वि-वच- -रः अत्रा १५, ५.

द्वि-वचाहाकारम् बोधो १४,  
१७; ३; ७××.

द्वि-संयोग- -गः मीम् ६, ६, १०.

द्वि-संवत्सर-पर्यन्त- -न्ताम् अत्र  
७१, ६, ५.द्वि-संवा (य>) या- -या निम् ३,  
९; ३३.

द्वि-संकार- -रम् शुभ्रा ४, १४७.

द्वि-संकाश- -न्ते कापृठ ४३;  
१८द्वि-संकाशित- -न्तो कापृठ ४५;  
१२.

द्वि-संवा- -सायाम् कौस १४१, १७.

द्वि-संवा- -कः अत्रा ३, २६.

द्वि-संवा- -तिः अत्रा १६, ८५;  
-वीः वेज्यो १९.द्वि-संवा- -माभ्याम् आपृथु १९,  
७; द्विथु ६, २६.

द्वि-संवा- -रात्र- -प्रात् या १४, ६.

द्वि-संवा- -द्वयः विध १४, ४.

द्वि-संवा- -यः मीम् ९, ३, ३६.

द्वि-संवा- -प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा २,  
१, १.द्वि-संवा- -यम् आश्री ११, ७,  
१३.

a) = प्रात्यस्तोम-विशेष-। बस.। b) पाठः ? द्वयङ्ग- इति शोधः ?। c) विप.। बस.। d) उप.  
= अणुपरिमाण-। e) पृ ४३९ ० द.। f) = दीर्घ-। मुष्पुषीयः समासः। g) = भूमि-। h) पृ ४३३ ई  
द.। i) द्विरावृत्ताः सतेति कृत्वा बस.। j) विप.। बस.।

द्विसंभार्य-वा- -नाम् वाथी ३,  
२,३,३१.

द्वि-साम-त्व- -स्वम् मीत् १०,  
६,४.

द्वि-साहस्य- -स्वम् वाथी २, २,  
२,२२.

द्विसाहस्री- -ञी काथी १७,  
७,२१.

द्वि-सुवर्ण- > द्वैतौवर्णिक >  
की- -को शंघ २५२.

द्वि-सूक्त- -क्ताः अं २ : ४.

द्वि-स्तन,ना- -नम् आपथी १७,  
२६,७; २१, ४, १४; २३, ११,  
६; भाथी; -नानि आपथी १६,  
३५, १०; वैथी; -नाम् काथी  
१६,४,२.

द्विस्तनी- -नीनाम् शंघ  
१५४; ४२४; ४२५.

द्विस्तन-वत्- -तम् वीथी ६,  
२२ : १×४.

द्वि-स्तोत्र-भाजू- -भाजः निम् ७,  
१२ : ५.

द्वि-स्थान- -नम् अर ४७, १,  
११.

द्वि-स्थान- -नाः निम् २,  
३ : ३१.

द्विस्थान-वा- -ता श्रमा १३,  
३८.

द्वि-स्वर्ष- -शंघं शुभा ६, २५.

द्वि-स्वर्षि- -क्त आपथी १२, १,  
११; द्विथी ८, १, २२; वैथी  
१५, २ : ६.

द्विस्वर्षि-पात्र- -त्रे वैथी १५,  
२१ : १.

द्वि-स्वर- -नम् वीथि ३९; नाथि  
२, ३, ७; -रे तीरा १६, १७.

द्वि-द्विवि- -विः वीथी १७, २२ :  
८×४; माथी ५, १, ५, ४६; ५०;

-विषः काथी २, ३, ३; -विषम्  
वीथी ५, १ : ७; वाथी; -विषा  
माथी ५, १, ५, १६; -विषोः  
माथी ५, १, ५, १७, ५५.

द्वि-दस्त,स्ता- -स्वम् अप १८, १,  
१×४; -स्ता सु १६, ४६;

-स्ते काशु ७, २.

द्विदस्ता (स्त-सा) यत्- -तः  
विष १०, २.

द्वि-हावन- -नः माथी १, ५, ६,  
८; -नम् विष ५०, १८; -नाः  
वाथी ३, ४, १, ८.

द्विहावनी- -नी आपथी  
१०, २२, २; २२, १५, ३; द्विथी  
७, २, १६; -नीम् वीथी ६९, २.

द्विहावन-मिथुन- -नी वाथी  
१, ४, ३, ४०.

द्वि-हिङ्कार- -नम् लाथी ७, २, १.

द्वि(दि-ईपा >)प- -ये आपथी  
१६, १२, ४; द्विथी ११, ५, २.

द्वि(दि-श्र)च- -चः श्रम २, १, ४४;  
३, २६; ५, ४६; १०, ५३; वृदे;  
-चम् श्रम २, ८, १; ९,  
१०८; वृदे ५, ११४; -चस्य  
वृदे ६, ९३, -वाः आपथी ४,  
६, १, ५, १४, ७; आर, -वानि  
अं २ : ७२; -वाभ्याम् श्रम  
२, १, १०९; -चे श्रम २, ८,  
२१; वृदे; -चेन श्रम २, ८,  
१००; वृदे ३, १५५; ६, ११८;

द्वि-हिङ्कार- -नम् लाथी ७, २, १.

द्वि(दि-ईपा >)प- -ये आपथी  
१६, १२, ४; द्विथी ११, ५, २.

द्वि(दि-श्र)च- -चः श्रम २, १, ४४;  
३, २६; ५, ४६; १०, ५३; वृदे;  
-चम् श्रम २, ८, १; ९,  
१०८; वृदे ५, ११४; -चस्य  
वृदे ६, ९३, -वाः आपथी ४,  
६, १, ५, १४, ७; आर, -वानि  
अं २ : ७२; -वाभ्याम् श्रम  
२, १, १०९; -चे श्रम २, ८,  
२१; वृदे; -चेन श्रम २, ८,  
१००; वृदे ३, १५५; ६, ११८;

द्वि-हिङ्कार- -नम् लाथी ७, २, १.

द्वि(दि-ईपा >)प- -ये आपथी  
१६, १२, ४; द्विथी ११, ५, २.

द्वि(दि-श्र)च- -चः श्रम २, १, ४४;  
३, २६; ५, ४६; १०, ५३; वृदे;  
-चम् श्रम २, ८, १; ९,  
१०८; वृदे ५, ११४; -चस्य  
वृदे ६, ९३, -वाः आपथी ४,  
६, १, ५, १४, ७; आर, -वानि  
अं २ : ७२; -वाभ्याम् श्रम  
२, १, १०९; -चे श्रम २, ८,  
२१; वृदे; -चेन श्रम २, ८,  
१००; वृदे ३, १५५; ६, ११८;

-वैः वृदे ६, ११६; -वै  
नम ३, ४०; चम् १ : १२;  
कथा १८, १.

द्वेषा- आपथी १४, २४, ७; २७,  
१; वीथी; वा ५, ३, ४६.

द्वेषा-कारम् आपथी ६, २, ७;  
८, ३, २०.

द्वयं(दि-वं)वा- -तम् वाथ १७, ४६;  
५१.

द्वयंशिव- -शी गौध २८, ९.

द्वय(दि-च)क्षर- -रम् लाथी ७,  
११, ३; निम् १, ६ : २०.

द्वयक्षर-णि- <नि>धन- -स्व-  
-वात् निम् ८, ५ : ३८.

द्वयक्षरो(र-उ)प(वा >)र-  
-तम् श्रमा ८, ४२.

द्वय(दि-च)क्षर,रा- -रः वाथी ३,  
२, २, २३; लाथी ७, ९, २; -रम्  
वाथी ३, २, २, २३; दाथी;  
-रस्य लाथी ७, ११, १५;  
श्रमा ७, ७; -राः वीथी २०,  
१९ : १४; -रात् निम् ३, १३ :  
८; -रे श्रमा ४, ४२; श्रम ५,  
२, ७; -रेण वाथी ४, १००,  
२०; निम् २, १० : १; १६;  
श्रमा ५, ४.

द्वयक्षर-ता- -तम् श्रमा १४,  
४३.

द्वयक्षर-प्रभृति- -तीनि निम् १,  
५ : २२.

द्वयक्षरा(र-वा)दि- -दीनि श्रमा  
१७, २०.

द्वय(दि-म)ग्नि-देवता- > च-  
(ल >)भ्या- -न्याः शुभ २,

द्वयक्षर-ता- -तम् श्रमा १४,  
४३.

द्वयक्षर-प्रभृति- -तीनि निम् १,  
५ : २२.

द्वयक्षरा(र-वा)दि- -दीनि श्रमा  
१७, २०.

द्वय(दि-म)ग्नि-देवता- > च-  
(ल >)भ्या- -न्याः शुभ २,

a) विष. (वृति-). परिमाणार्थे टणि (पावा ५, १, ५९) उभयपदवृद्धिः। b) विष.। वत.। c) वैष १  
द.। d) वीष् प्र. वा (पा ४, १, ५४)। e) वृ १२१३ C द.। f) वृद्धितार्थे द्विम्.। g) वसु.।  
h) = [सोमकयणी-] गो-। स्त्री. वीष् प्र. (पा ४, १, २७)। i) = साम-विशेष-। j) = द्वयूच-। वत.। म-स्योऽथ  
वसुं. (पावा ६, १, ३७ [वृ. वृद्धिवृत्तः])।

११०.

द्वय(दि-अ)मिन-द्वैतल- -तः ऋत्र २,  
१,१२; साश्र २,१९४.द्वय(दि-अ)द्व्युल,ला<sup>०</sup>- -लम् वाथी  
२८,८२३; वाथी; -लाति वीथी  
२७,४ : २१; -लाम् आपथी २,  
२,७, वैथी ५,१ : ३; हिथी १,  
६,९४; -ले आपथी ६, १०,४;  
१६, ४, ११; वाठथी; -लेन  
आपथी ११,१३,६; वैथी.द्वयद्व्युल-खा(त>)ला- -ता  
अप २३,३,२; -ताः माथी १,  
२,१,६.द्वयद्व्युल-प्रन्थि- -न्थि वैथु १,  
८ : ७.

द्वयद्व्युल-अडे- -द शंध ३३२२.

द्वयद्व्युल-निध- -अम् वैथी ११२,  
७ : ६,८ - १०द्वयद्व्युल-धु-धु(धु-धु)मा-  
-मा कप २,५,१५.द्वयद्व्युल-माय- -त्रे काथी २,  
३,१६.द्वयद्व्युल(ल-अ)म- -मम्  
वैथी ११,९ : ४.द्वयद्व्युल(ल-अ)मन्तर- -रे  
वाथी ८,५,२२.द्वयद्व्युल(ल-अ)पठ- -तम्  
वैथी ११,८ : १४.द्वयद्व्युल(ल-अ)विस्तार-  
-नाति वैथी ११, ९ - ११.द्वयद्व्युल(ल-अ)सिध- -धम्  
वैथी २०,२८ : १२.द्वयद्व्युल(ल-अ)सन,ता- -तम्  
वैथी ११,२ : ८, वैथु १,८ : ३;  
-ताम् वैथु १,८ : ११.द्वय(दि-अ)द्व्युल<sup>०</sup>- -धम् आमिष्ट २,  
३,१ : १४; कप्र १, ७, ८; ८,  
१३.द्वय(दि-अ)अल- पा ५, ४,  
१०२.द्वय(दि-अ)तिजागत-ग(भे>)-  
भा- -भा अश्र ४,२९.द्वय(दि-अ)धिक,का- -कम् ऋत्र  
४,११; अश्र १६, ७; अं ५ :  
२५; -का ऋत्र २, १, ३०;  
१६२x; -कायाः गीथ १,  
१६.द्वय(दि-अ)धिसय<sup>०</sup>- -यः निष् १,  
८ : १२; -याः लाथी ६, ५,  
१९; निम्; -यानाम् लाथी ६,  
५,२८; निष्; -येषु लाथी ६,  
५,१३; २४.द्वय(दि-अ)ध्या(स>)सा- -सा  
लाथी ७,५,१०; निम्; -सायाः  
निम् ३,१३ : २१.द्वय(दि-अ)नुचर- -रः कौस् ९०,  
२३.द्वय(दि-अ)नुवाक- -कम् अश्र  
१४,१०.द्वय(दि-अ)नुपटु-अन्त- -तम्  
अश्र २, १०,९; १०९.द्वय(दि-अ)नुपटु-न(भे>)  
भा- -भा अश्र १०,१.द्वय(दि-अ)नुपटु-वृष्टय(ता-  
अ)मन्त<sup>०</sup>- -अम् अश्र २, ८,  
८९.द्वय(दि-अ)मन्तर,रा- -रः नाति १,  
१,३; -रा नाति १,२.द्वय(दि-अ)भिन्न- -अम् कप्र  
११,११; १२.द्वय(दि-अ)मुन्व- >द्वयामुन्वा-  
यण<sup>०</sup>- -णम् शंध २८८;  
-णानाम् आपथी २४, ७, २;  
हिथी २१, ३,१०.द्वय(दि-अ)रवि<sup>०</sup>- -विः वीथी १९,  
१ : १३.द्वय(दि-अ)मन्तर- -रे  
काथी ८,३,१९.द्वय(दि-अ)धे- -धेः मीस् १०, १,  
३१; -धे अत ३,२,४.  
द्वय(दि-अ)धे- -धेः मीस् ७,१,६;  
-स्वाव मीस् १०,१,२७; १२,  
२,२६.द्वय(दि-अ)वदान->द्वयवदान-स्व-  
-स्वम् मीस् १०,७,५.द्वयवदान-नाश- -शे मीस् ६,  
४,१.द्वय(दि-अ)वर- -रान् आपथ ९,  
४; वैथु ४,३ : ३.द्वय(दि-अ)वराध्य- -ध्यम् हिथी  
५,६, १३; -ध्यौ दाथी १०,  
२,२; लाथी ३,१०,२.द्वय(दि-अ)शीति->द्वयाशीतिक-  
>का(क-आ)च(दि-अ)धे-  
-धेम् पावा ७,३,१०.द्वय(दि-अ)धि- -धि वीथी ७, ८ :  
१९.द्वय(दि-अ)ध- >ध-क- -कः  
अश्र ३,११.द्वय(दि-अ)ध- -धनः पा ६, ३,  
४७.द्वय(दि-अ)ह- -हः काथी ९, २,  
८; काथी; -हम् काथी ५,६,  
१; आपथी; -हम्-हम्  
आपथी १६, ३५, ७; २१, ४.

a) तादिताथे द्विस. ।

b) विर. । उस. उप. कर्त्तरि क्व ।

c) द्वयानु<sup>०</sup> इति पाठः ? यति.

शोधः ।

d) विर. । कष. &gt; दस. &gt; बस. ।

e) अयत्याथे फक् प्र. (पा ४,१,१९) ।

f) वा. किविः ?

g) इ ४४२ ई. द. ।

१२; माथी छ, ३, ५; वैथी १९,  
१ : १५; -हस्य निम् ७, ३ :  
११; -हा; आथी ९, १, ८;  
१०, २, ३; काथी २३, २, १;  
-हान् आपथ १, २९, १७;  
हिप १, ७, ७४; -हानाम्  
आथी ९, १, ४; -हे आपथी  
१, १३, १२; ५, ३, १६××;  
भाथी; -हेन वीथी १, १ : ३;  
१८, २३ : ७××.

द्वयह-का( ल > )का<sup>१</sup> -लः  
हिथी २२, २, २.

द्वयहकाल्य<sup>१</sup> -व्ये मीस् ५,  
४, २३.

द्वयह-प्रभृति- नयः आथी  
१०, १, १२; काथी २३, १, ३;  
वैताथी छ२, १४.

द्वयहा(ह-आ)दि- दिपु काथी  
२३, १, ५.

द्वयहा(ह-अ)पर्यन्- गां लाथी  
१०, १३, ९.

द्वयहा(ह-अ)थे- थै आथी ११,  
१, ११; वाथी.

द्वयहो(ह-उ)पजन<sup>१</sup> - नम्  
आथी ११, २, ८.

द्वय(दि-म)द्वन् > द्वयहीन<sup>१</sup> - नः  
लाथी ८, ४, ३.

द्वयहीन-न- न्वान् आथी ८,  
४, ८.

द्वया(दि-आ)दि-प्रतिपेध- पात्  
पावा ५, ३, २.

द्वया(दि-आ)धात- नम् मीस् ६,  
१, २२.

द्वया(दि-आ)म्नात- नेपु मीस्

३, ८, १७.

द्वया(दि-आ)म्नात- नस्य मीस्  
३, ८, १७.

द्वया(दि-आ)सुप- पा ५, ४, ७७.

द्वया(दि-आ)पेय<sup>१</sup> - यः आपथी  
२४, १, ८; १०; १०, १; वीथीय;

-याः आपथी २४, १०, ३;  
वीथीय १:५; हिथी २२, ३, १३.

द्वयापेय-संनिपात- ते वीथीय  
२ : २.

द्वया(दि-आ)ध्रम- > ध्रम<sup>१</sup>-  
-म्यम् वैथ १, १, ८.

द्वयु(दि-उ)त्तर- रम् वैथ ३, १७ :  
१५; -ताः निम् १, ८ : ५; ६;

-रान् लाथी ८, १२, ६.  
द्वयुचरी-√भू > द्वयुचरी-भाव-

-वेन लाथी ६, ५, १५.

द्वयु(दि-उ)दात्त- -त्तानाम् ऋषा ३,  
२५.

द्वयु(दि-उ)न्त<sup>१</sup> - न्तम् वाधुथी छ,  
१० : १३; -ते वाधुथी छ,  
१० : ११.

द्वयु(दि-उ)पसर्ग- > पं-पूर्व-  
-व्यम् अथा १, १, १२.

द्वयु(दि-उ)पसर्ग<sup>१</sup> - गांय या ७,  
९; -थै अथा १, १, १०.

द्वयु(दि-उ)पिण्य-ग(र्भे > )भां-  
-भां अथ ५, ८, १०, ११, १२.

द्वयु(दि-उ)न, ना- नः आपथी  
२३, १, ७; ९; हिथी १६,  
६, ३; १८, ३, ११<sup>१</sup>; -नम् अर्धे

छ : ४; -ना अथ २, १, ११;  
१२××; अथ.

द्वयु(दि-उ)म्नात- -म्यसु ऋषा

११, ४६.

द्वयु(दि-उ)च- -चम् अथ २,  
१५३; १५४××.

द्वयु(दि-उ)च<sup>१</sup> - चः अथ २०,  
८५; -चम् अथ ७, १३; १३××;  
-चाः वीथ ३, ७, १०.

द्वये(दि-ए)क- कयोः पा १, ४, २२;  
पावा १, २, ३९××.

द्वयो(दि-शो)न(रा > )ता<sup>१</sup> - ता  
निम् ३, १३ : २५; -ताः निम्  
३, १३ : १९; -शे निम् ३,  
१३ : २५.

√द्विपु<sup>१</sup> पाधा. अथ. उभ. अथोती,  
द्वेष्य अथ १२, ११.

द्विपु(दि-अ)थी १, ३, २२; ३,  
५, २××; वाथी १, ६, १××; छ,  
१३, १५; काथी; या ६, २२<sup>१</sup>;

द्विपु(दि-अ)थी ६, ६, ८<sup>१</sup>; या १०,  
५; द्विपु(दि-अ)थी ११, ५<sup>१</sup>;

माथी छ, १७, २; ३, हिथी ६, ३,  
८<sup>१</sup>; द्विपु(दि-अ)थी १, ३, २३;

३, ५, २××; वाथी; अदिपुः पा  
३, ४, ११३; द्विपु(दि-अ)थी १

११, २; २, १९, १०××; वीथी.

द्विपु<sup>१</sup> द्विपु- आथी २, १८, ३<sup>१</sup>;  
७, २, ३; आपथी; वीथी १०,  
२२, ८<sup>१</sup>; आपथे १, ५, ५<sup>१</sup>;

द्विपु १, २०, ५<sup>१</sup>; २९, २<sup>१</sup>; २, १,  
३<sup>१</sup>; द्विपु(दि-अ)थी २, २४ :  
१६<sup>१</sup>; या १, २३<sup>१</sup>; द्विपु  
माथी २, ४, १, ३९<sup>१</sup>.

द्विपु- पा ३, २, १११; पावा २,  
३, ६९; ३, २, १२७; -पिपतः  
माथी १०, १५, ८; १४, २२,

११, २; २, १९, १०××; वीथी.

द्विपु<sup>१</sup> द्विपु- आथी २, १८, ३<sup>१</sup>;  
७, २, ३; आपथी; वीथी १०,  
२२, ८<sup>१</sup>; आपथे १, ५, ५<sup>१</sup>;

द्विपु १, २०, ५<sup>१</sup>; २९, २<sup>१</sup>; २, १,  
३<sup>१</sup>; द्विपु(दि-अ)थी २, २४ :  
१६<sup>१</sup>; या १, २३<sup>१</sup>; द्विपु  
माथी २, ४, १, ३९<sup>१</sup>.

द्विपु- पा ३, २, १११; पावा २,  
३, ६९; ३, २, १२७; -पिपतः  
माथी १०, १५, ८; १४, २२,

a) नि. । घ. । b) भाते व्यन् प्र. । c) १२१६ b द्र. । d) स्थापे व्यन् प्र. वृद्धमानय । e) ऊं इति  
पाठः? ननि सौधः (द्व. आपथी २३, ९, ७) । f) पा ३, २, ६१ परामृष्टः द्र. । g) पाभे. वैप २, २६. अभिज्ञासति तैत्रा  
२, ४, १, २ टि. द्र. । h) वैप १ द्र. । i) पाभे. वैप १, १९१३ d द्र. । j) एवा. द्विपुः (सा २, ७, ३ कठ ३५, १२ च)  
<> द्विपु इति पाभे. । k) एवा. द्विपु <> द्विपु इति पाभे. । l) पाभे. वैप १, १५२९ g द्र. ।

द्वैप- द्वीपिन्- द.  
 द्वैपक- रद्वीप- द.  
 द्वैपद- , १, रद्वैपदिक्- द्वैपराक्-  
 द्वि- द.  
 द्वैपायन- रद्वीप- द.  
 द्वैपुष्टय- द्वि- द.  
 द्वैप्य- रद्वीप- द.  
 द्वैमाध्य- द्वैमास्य-, द्वैयज- प्रसू.  
 द्वि- द.  
 द्वया-द्वया<sup>०</sup>श<sup>०</sup>- (> द्वय L, द्वया J  
 क्षायण- > यण-भक्त- पा.)  
 पाग ४, २, ५४.  
 द्वयामुप्यायण- द्वि- द.  
 द्वयाद्वा. हा<sup>०</sup>व<sup>०</sup>- (> द्वैयाद्वा. हा  
 वक्- शा.) पाग ४, २, १२७.

ध

ध<sup>०</sup>, धा- धः शुभा ३, ५५; भाति  
 ४२; ४५, ४७.  
 ध-कार-परत्व- धै पावा ८, ३, ७१  
 ७ध-न- नौ क्रपा ३, २, २७.  
 ध-प-वत्- नति तेषा ८, ३३.  
 धा-कार- रे याशि २, ३३; नाति  
 २, ३, ५.  
 ध<sup>०</sup>- नाति १, ४, १२.  
 ✓धधक् पाधा. सुग. पर. नाशने.  
 धञ्जु- धक्यत्- ✓दह द्र  
 धट<sup>०</sup>- -०ट विध १०, १०; -टः विध  
 १०, १०; -टम् विध १०, ७.  
 धटा(द-अ)न्मु(मि-उ)दक-विध-

-याणाम् विध ९, ११.  
 ✓धल्य पाधा. स्वा. पर. शब्दे.  
 ✓धन्<sup>०</sup> ( वधा. ) पाधा. जुहो. पर.  
 धान्ये, दधनत्<sup>०</sup> हिथी ९, २,  
 २४५.  
 ध<sup>०</sup>पन्वत्- न्वान् क्रपा ४, १८;  
 शुभा ३, १३७; नाति २, ४, ८.  
 धन<sup>०</sup>- पाउवृ २, ८१; पाग २, ४,  
 ३१०; पावाग ५, १, ११३;  
 -नम् आधी ३, १३, १८;  
 ध<sup>०</sup>श्री ४, ११, ६१; १४, ४६,  
 ११; ध<sup>०</sup>आपधी ३, १३, ६४; ४४;  
 ५, २६, ५६; वीथी; भाथी ३,  
 १२, ९१६; ध<sup>०</sup>हिथी २, ६, २३६;  
 ३, ६, ५६; द्राथी ४, १, ८५;  
 लाथी २, १, ७५; आपधम् २,  
 १५, १६५; कीट ३, ३, ११;  
 शाय ३, ४, ४५; या २, ५;  
 ३, १०; ४, ४; २४; ७, ९;  
 ८, १; १२, ३३; -नस्य द्राथी  
 ४, २, ३२५; आपधी; -नात्  
 वीध २, २, ५५; विध १८, १२;  
 -नानाम् आधी २, १, १५;  
 आपधी; -नानि आधी २, १०,  
 १६५; अप; या १४, ३६;  
 -न<sup>०</sup>आय आपधी १४, २७, ७०,  
 माथी २, ३, ८, ४०, हिथी १५, ७,  
 ८०; माथ, -ने विध ५२, १६,  
 पा ६, २, ५५; -नेन आधी ६,  
 १२, ४५; द्राथी; ध<sup>०</sup>आपधी ५.

१४, ५०; १४, १८, १०; वीथी ८,  
 १७, ४५; हिथी ३, ४, २८५;  
 जैथी २०; ४५; आपधम् २, ६,  
 १, ७५; ध<sup>०</sup>माथ<sup>०</sup> २, २६, ६७;  
 -न<sup>०</sup>वैव गीवि २, ५, १४; अप  
 ४४, ४, १२; -ने; द्राथी १६,  
 १, १०५.  
 धन-क- पा ५, २, ६५.  
 धन-कनक-रजत-सेचय- न्याः  
 अप ५२, ३, ३.  
 धन-काम- नः वृदे ५, १०.  
 -मम् अप १, ४५, २; -मस्य  
 अप ३६, ४, १; अथा १७, ३.  
 धन-कुप्य<sup>०</sup>- न्यम् वृदे ३, १४७.  
 धन-क्री( ल > )ता- नाम् वाध  
 १, ३५.  
 धन-क्षय- नः अप ३६, १७,  
 १; -यम् आजवो ७, ९; -ये  
 अथा १७, ३.  
 धन-गो-जा<sup>०</sup>- न्याः वा १४,  
 ३११.  
 धन-माहिन्- दिहि विध द,  
 २७.  
 ध<sup>०</sup>न-जिन्- जिन् आपधी  
 १६, १८, ६; ३०, १; २२, ४, २;  
 देधी; -जितम्<sup>०</sup> शधी १४, ४६,  
 १९; -जिने शधी १८, १७, ३.  
 ध<sup>०</sup>धन-जव<sup>०</sup>- न्यम् वीथी १७,  
 ४१ : १८; माथी ५, १, ३, २;  
 पैताथी ५, १४; आपधम्.

- a) तु. भाएडा. प्रसू. । b) तु. पागम. । c) तु. पाति. । d) = बर्ध-विशेष- ।  
 न्यु. ? । e) गन्धर्व- इत्यस्य मध्यम-वर्ण- । f) = तुला-रश्म- L नभा. धवा इति । घ्यु. ? ।  
 g) पा ६, १, १२२ परासृष्टः द. । h) वैप १, १६५५ h द. । i) वैप १ द. । j) सय.  
 धनम् <> धयः इति पाभे. । k) पाभे. वैप २, ३२. धनम् तेषा ३, ३, ११, १ टि. द. ।  
 l) धामानि इत्यपि कानित्कम् गूढे. । m) पाभे. वैप १, १३४९ C द. । n) पाभे. वैप १, १६९७ b  
 द. । o) पाभे. वैप १, १६९६ O द. । p) पाभे. वैप १, १६९७ C द. । q) समाहारे इत्य. ।  
 r) वृ १०९ j द. । s) धरिन्निगोत्राः इति संस्कृतैः टि. राज. न पाभे. । \*जा इति पाठः ? यनि. शोधः ।  
 t) = यत्न- ।

२धन-जय<sup>०</sup> - पाग ४, १, १०५;  
-यस्य चास ३८: १६; -या<sup>०</sup>  
आपथी २४, ९, ५; वीथीप्र  
३६: १; २; -यानाम्<sup>०</sup> आथी  
१२, १४, ४, -याय आसिष्ट १.  
२, २: २२; वीथ.

धानेजय<sup>०</sup> - पा ४, १.

१०५; -०य्य आथी १२.  
१४, ४<sup>०</sup>; आपथी २४, ९, ६,  
वीथीप्र ३६: ३१<sup>०</sup>; हिथी २१,  
३, १२; -व्य: आथी १, १, २६;  
३, ११××; लाथी १, १, २५××,  
४, १, २३<sup>०</sup>, ५, ४, ३<sup>०</sup>; -२यम्<sup>०</sup>  
आथी ६, १, १४; लाथी २,  
१, १०; -२यस्य धुव ३, १:  
३; १३, -२येन लाथी ६, १,  
१८; १०, १६, १०.

धानंजय-शाण्डिक्य-

-२वी आथी ४, १, २५, ३०;  
लाथी ३, १, २४, २९××.

धनजय-पर आपथी २४, १,  
६, वीथीप्र ३६: ३, हिथी २१,  
३, १२

धन-३, दा- द वाग १०, २;  
माग १. ५, १, वाग ८, १२,  
-दय दाय ११६: ३५<sup>०</sup>, -दाय  
माग २, १३, ६१.

धन-दुस-भाग-तमिन- -नम्  
विष ६, २०.

धन-दा- -दा: शुद्रा २. ४११.

धन-दायन्<sup>१</sup> -ना वीथीप्र १८.

धन-धाम्य- -यम् अप ६३,

१, १; -धाम्याम् वीथ २, ८,

२०१; -येन अप १, ४४, ५;  
४५, २; २, ६, १.

धनधाग्य-यात्र- -यम्  
आसिष्ट ३, ११, २: ३.

धनधाग्या(न्य-आ)दि-  
-दिमि अप २, ४, १.

धनधाग्यादि-समृद्धि-  
-द्वया सुधय ८८: १०.

धनधाग्या(न्य-अ)वकाश-  
-ने वीथ २, ८, २०.

धन-धाग्य-कुल- -लान् अप  
२०, ५, २.

धन-धाग्य-पशु-पुत्र-कीर्त्ति-  
-मत्- -मान् पाणि ६०.

धन-नामनेय- -यम् या १, ७.

धन-नामन्- -म या ३, २; ४,  
४; १७; -मानि निय २, १०;  
या ३, ९.

धन-नास- -स. अप ७०<sup>०</sup>, ८,  
५. -नाय अप २, ४, ३; आज्यो  
५, १३.

धन-पति- पाग ४, १, ८४, ५,  
१, १२४, -तये वीथ ३, १०,  
१६, शाग २, १४, १७, -तिम्  
अप २, ३६; -तंते आपथी  
१६, ३४, ४; वीथी १८, २१,  
३५, हिथी ११, ८, १५.

धनपत- पा ४, १, ८४.

धनपत्य- पा ५, १, १२४.

धन रुचि- -चिम् अप ३, १५.

धन-रुचि- -यम् गीष २८, ११.

धन(न-अ)वे<sup>३</sup>- -वेम् शत्रा २,  
७११

धन-लाभ- -भाय या ३, ५;  
-भे हिथ १, ७, ८.

धन-वत्- -वत् आपथी ६,  
२९, १; १३, २५, ३; हिथी ३, ८,  
१४; भाग २, ४: ११; -वन्तः  
आपथी १६, ३४, ४; वीथी;  
-वान् अप १२, १, ९.

धनवती- -०ति अप २०,  
७, १०; -ती या ११, ४६.

१धनि(ध>)छा<sup>१</sup>- -छा हिथी  
९, २, २४१; -छाभिः<sup>०</sup> वीथी  
२६, २९: ६; -छाम्यः<sup>०</sup> शाग  
१, २६, २२; -छाम्<sup>०</sup> अता ५,  
२१; -छामु<sup>०</sup> अता १३, ३;  
-०हे<sup>०</sup> अता ५, २१.

धनिछा (छा-२का) य-

-ये कप्र ३, ६, १०.

धन-वर्जित- -तः आसिष्ट २,  
७, ६: ३.

धन-वार्षिक- -कम् कप्र १,  
६, ७.

धन-वृद्धि-प्रसक्त- -क्तान् कप्र  
१, ६, ६.

धन-सनि- -नि: वंताथी १९,  
१६; वीथ ७०, १, ८७, २१.

धन-सा- -ना. आपथी १३,  
२१, ३; हिथी ९, ५, ४२.

धन-सौभाग्य-यथैन- -नम् विष  
१००, २.

धन-स्वीकरण- -णम् वाघ १६,  
१०.

धन-हार- > १२-कारा-वध-  
वन्ध- -न्धा: शेष २६१.

a) = ऋषि विधेय- । b) वदु. < धानंजय- । c) ल्य- इति लाथी, पाठः ? यन्ति. सर्वत्र शोधः ।  
d) एष इति पाठः ? यन्ति. शोधः (तु आपथी, प्रत्यु) । e) सप्र. दाथी १२, १, ३० शाण्डिक्यः इति पाठे. ।  
f) सप्र. दाथी १३, ३, १८ गीषम. इति पाठे. । g) तस्येदमीयः वयः प्र. उत्सं. (या ४, १, ८५) । h) = कुपे- ।  
i) उर. < ✓श [दाने] । j) विर. । वस. । k) वेप १. १६९७ p, q द. । l) वेप १, १३४७ ० द. ।  
m) = नयन्- ।

धन-हारक- -कः शेष २९४;  
 धध०.  
 धन-हिंसा- -साम् विध ५२, १९.  
 धनहिंसा-पर- -रः विध  
 ५२, १७<sup>२</sup>.  
 धन-हीन- -नाम् विध ७१, २.  
 धना (न-आ) गम- -मम् अप  
 ६८, २, १०.  
 धना (न-आ) दान- -नम् विध  
 ४०, १.  
 धना (न-अ) धिप<sup>०</sup> - -पः आजयो  
 ५, १५.  
 धना (न-अ) म्तर- -रम् जैश्रीका  
 १६८.  
 धना (न-अ) ब्र-दान- -प्रशंसा-  
 -सा कश्च २, १०, ११७.  
 धना (न-अ) पद्<sup>०</sup> - -हः वाध  
 ३, १६.  
 धना (न-अ) पहरण- -णे शेष  
 ३९५.  
 धना (न-अ) पहार-> १२-वध-  
 वन्धन-क्रिया- -न्याः शेष २५२.  
 ✓धनाय पा ७, ४, ३४, धनायति  
 शीघ्री १६, ४, ४<sup>१</sup>.  
 धना (न-आ) युस्- -युषी वाध  
 ६, ९; -युषो. अप ३६, १०, २;  
 ७०, ६, २.  
 धना (न-अ) धं-> १<sup>०</sup>धन्-  
 -धिनः विध ५१, ६२; -धी अप  
 १, ४३, ३.  
 धना (न-आ) क्षा- -क्षा वाध  
 ३०, ९.  
 धना (न-आ) शिस- -शियः वृदे

७, १३५.  
 धनिक- -कः विध ७, १३;  
 -कस्य विध ५, ८९; १६९; ५२,  
 १४; -केन विध ६, ४३.  
 धनिक-च्छन्द- -तस्य (ः) विध  
 ६, ४२.  
 धनिन्- -निनः शेष ४, ५, २८;  
 -निनि अप ६९, ८, २; -नी  
 वाध १६, १०.  
 धनी<sup>०</sup>- -नीः आश्री २,  
 १०, १६<sup>१</sup>.  
 धने (न-ई) दवर- -रः आमिष्ट  
 २, ७, ६ = ८.  
 धनो (न-उ) पेत- -तम् विध  
 २७, ८.  
 धन्य-न्या<sup>०</sup>- वा ४, ४, ८४;  
 पावा ५, १, १११; -न्यः भाय  
 ४, ८, २५; वाय ३, ८, २; -न्यम्  
 द्राय ४, २, १३; अप; -न्या  
 शीघ्री ८, १९, १<sup>१</sup>.  
 रध (नि>) नी<sup>०</sup>- -न्या शीघ्री ८,  
 २०, १.  
 धनी-मन्-> रधनिष्ठ<sup>०</sup>- -ष्टाः  
 शीघ्री ८, २०, १.  
 धनिभीमम्<sup>१</sup> शेष ११६ = ५४.  
 रधनि(ष्ठ>)ष्टा- ✓धन् > धन-  
 मन्- ६.  
 धनु, नू<sup>०</sup>- पाठ<sup>b</sup> १, ७, ८०; -नुना  
 अप ७०<sup>a</sup>, २१, ५; -नोः आपथी  
 २०, १६, ७; वाथी ३, ४, ३, ३१.  
 धनुर्मन्टची<sup>१</sup> माष्ट १, २५ = १८<sup>१</sup>.  
 धनुर्वेष्टी<sup>१</sup> शीघ्री ११, २ = १६;  
 २२, १३ = १६.

धनुस्<sup>०</sup>- पाठ २, ११७; पाग २, ४,  
 ३१; ४, ४, १२; -नुः शीघ्री  
 ३, २, ७; ४, २०, १४४; काथी;  
 या ५, २५; ६, ३३<sup>१</sup>; ९, १६<sup>१</sup>;  
 १७<sup>१</sup>; -नुषः शीघ्री २२, १८ =  
 १७; २३, १८ = २१; अप ५८<sup>१</sup>,  
 २, ८; वृदे ५, १२९; पा ५, ४,  
 १३२; -नुषा द्विपि ५ = १०;  
 कौत् ८५, ३<sup>१</sup>; विध १२, ४;  
 पावा १, ४, १; -नुषि या ९,  
 १८; याशि १, ४८; पावा ४,  
 ३, १५२; -नुषिः-नुषि या २,  
 ६; -नुषि अप ७१, १४, ५;  
 माशि ८, ११.  
 धानुष्क- पा ४, ४, १२.  
 धनुस्-भाकर<sup>०</sup>- -रम् आमिष्ट २,  
 ५, १ = २०.  
 धनुस्-आदान- -ने वृदे ७, १५.  
 धनुस्-आशि, शी- -शिम्व द्विथी  
 १३, ६, १०; -शी द्विथी १४,  
 ३, ३०; -न्या काथी १५, ६,  
 २०; आपथी १८, १७, १०;  
 द्विथी १३, ६, १०<sup>१</sup>!  
 धनुस्-इष्म<sup>०</sup>- -प्ते कौत् १४, ९.  
 धनुस्-अह- पावा ३, २, ९.  
 धनुस्-आह<sup>०</sup>- -हम् सु २०, ३.  
 धनुस्-जवा- -ज्या आय १, १९,  
 १३; कौत्; -ज्याय काष्ट ४१,  
 १२; वाष्ट ५, ७; कौत् ५७, २.  
 धनुस्-वृष्ट-> धानुर्दण्डक- (पा.)  
 पाग ४, ४, १२.  
 धनुस्-धि<sup>०</sup>- -धी शीघ्री १८, २४ =  
 १३.

a) = कुवेर-। b) = आततायिन्-। उप. अप ✓ह + हः प्र. उत्से. (वा ३, २, ५०। द्वि. विध ५, १९२।)  
 c) मत्वर्षीयः ईः प्र. (पावा ५, २, १०९)। d) पामे. वैप २, ३३खं. धन्यः तैत्रा २, ५, ३, १ ति. द.। e) वैप १ द.।  
 f) पाठः ?। शुरिं भीमम् इति अयु २१९, ३३, धिनिः भीमः इति राक्ष (वायुशब्दे)। g) = धनुस्-। स्यु. १।  
 h) < ✓धन्। i) = वृदिहारागभेषज्य-विशेष-। स्यु. ?। j) स्वस्वम् ? (द्व. संस्वर्तुः टि.)। k) विप.। वस.।  
 l) शार्ङ्ग इति पाठः ? यनि. सोचः (द्व. आपथी.)। m) = धनुर्धर-। वस.। n) नाप.। उप. अधिधरखे प्र.।

धनुर्-सात्र- श्वे बौधो ९, १ : ८.

धनुर्-सुक्त- -क्तः श्वे ५, १३४.

धनुर्-यज्ञ- -यज्ञस्य काण्ड ७१, १०.

धनुर्-वेद- -दः चण्ड ४ : १० ;  
-दम् शेष ११६ : ३८.धनुष्-क<sup>०</sup>- -केण लाभो ८, ६, ८.

धनुष्-कपाल- -पाग ८, ३, ४८.

धनुष्-कोटि-मात्र- -त्रम् बौधि ३,  
३, ८.धनुष्-याजि<sup>०</sup>- -पाग २, २, २७.

धनुष्-मत्- -मत्तम् श्वे ६, ११२.

✓धनुष्य, धनुस्वति अत्र ४८,  
१९१.?धनुः-संश्लेषका-परिवेष-विद्युद्-  
दण्डा (एड-ध)सनि-परिष-परि-  
धि-त्रिर्घात- -वे अत्र ७२, ३, ३.धनुः-समिष्- -मिषम् कौमु १४,  
१.धनुः-सहस्र<sup>०</sup>- -ज्ञानि कप्र १, १०,  
६.

धनुः-स्थायिन्- -थो अत्र ५०, ६, ५.

धनु- धनु- द्र.

१धन्व- १✓धन् द.

२धन्व<sup>०</sup>- -पाग ४, १, ११०.धन्वायन- -पा ४, १, ११०, -ना  
बौधोत्र १७ : १०<sup>०</sup>✓धन्व<sup>०</sup> (बधा.) पाथा. भ्वा पर.  
गतौ, धन्वति निघ २, १४१;  
धन्वन्ति या ५, ५; ९, १६.१धन्व<sup>०</sup>- पाठ १, १५६; पाग  
५, २, १३६<sup>०</sup>; पावा ४, २, १०४;-न्व बौधो ९, ७ : २४१<sup>०</sup>;काण्ड ९, ७; माण्ड १, ४, ६; वाण्ड  
८, ६; श्वे २, ६९१<sup>०</sup>; ऋनिघ १,  
३; ४, २; ऋया ५, ३; ५<sup>०</sup>; ९<sup>०</sup>;१४, ११; ऋया ८, ७१<sup>०</sup>; -ऋन्व  
या ९, १८; अत्रा २, ४, १७;-ऋन्वतः आपनं २, २२, ३;  
द्वि १, १५, ३<sup>०</sup>; ऋया २, ४७;-ऋन्वना आधो ५, ३, २२;  
आपथो; या ९, १७<sup>०</sup>; -न्वनाम्  
आपथ ६, ५, बौध ४, २, १२;-न्वनि बौधो २, ५ : २; -ऋन्वसु  
आधो ४, ३, ३; माण्ड २, १५, ६;-ऋन्वनि आपथो १६, ६, ४;  
माथो.धन्व-धि<sup>०</sup>- -धिः आपथो २२,  
१२, ७.धन्वन्-सदो-वारि-वृक्ष-गिरि-  
दुर्ग- -गाण्यम् विध ३, ६.ऋन्व (न्य >) न्वा<sup>०</sup>- -न्याः  
माथो ६, १, ५, २२; बौध ५,  
५, ६; काण्ड २५, ४; वाण्ड ४, ३;

विध ६५, ५.

धन्व-पति- ( > धन्वपत-  
पा ) पाग ४, १, ८४.धन्व-योपध- -धाव पा ४, २,  
१२१.?धन्वर्णस<sup>०</sup>- -र्णसः ऋया २,  
७२१.धन्वा(न्व-आ)वृति- -न्या अत्र  
२३, १०, ३.धन्वा(न्व-आ)वि- -विम् वाथो<sup>०</sup>  
३, ३, ३, ६.?धन्वासहा<sup>०</sup> ऋया ९, ३१.धन्विन्- -पा ५, २, १३६५-  
-निघनः श्वे ७, ५३.

धन्व- पाठ ४, ९५.

१धन्वन्- ✓धन्व द.

२धन्वन्- > धान्व<sup>०</sup>- -न्वः आधो<sup>०</sup>  
१०, ७, ७<sup>०</sup>.१धान्वन्<sup>०</sup>- -नः शोधो १६, २, १९७<sup>०</sup>-धन्वन्<sup>०</sup>- > २धान्वन्<sup>०</sup>- -नानि  
शोधो १४, २२, १२.धन्वन्तर<sup>०</sup>- -रम् आमिण्ड २, ६, ३ :  
३४<sup>०</sup>.धन्वन्तर-पार्षद- -दान् आमिण्ड २,  
६, ३ : ३४.धन्वन्तरि<sup>०</sup>- -रमे अण्ड १, २, २१<sup>०</sup>;  
आमिण्ड; -रिः बौधोत्र ४३ :  
७, गौध ५, ११; -रिम् माण्ड  
२, १२, २१, जैण्ड; बौध २, ५,  
२६१<sup>०</sup>.धन्वन्तरि-तर्षण- -अम् माण्ड २,  
१२, १९.धन्वन्तरि-पार्षद- -दान् बौध २,  
५, २६१<sup>०</sup>.धन्वन्तरिपार्षदी- -दीः बौध २,  
५, २६१<sup>०</sup>.धन्वन्तरि-यज्ञ- -जे अण्ड १, १२,  
७.धन्वन्तरियज्ञ-शूलगव-वर्जम्  
अण्ड १, ३, ६.

a) हल्वे कः प्र. । b) विप. । बस. । c) पूव. = प्रमाण. । d) = कवि-विशेष. । न्यु. ? ।

e) धन्वा<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. बोधः । f) या ९, १६ पराम्युः द. । g) वै १ द. । h) तु. पागम. ।  
i) पाथे. वै १, १६९९ f द. । j) = अन्तरिक्ष- । k) वै १, १६९९ f द. । l) 'न्वा' इति पाठः ? यनि.  
बोधः ( तु. आपनं., शो ६, ४२, १ ) । m) नाप. । उप. अधिकरणे प्र. । n) व्यप. । न्यु. ? ।o) तस्यापत्तये अणि प्र. टि. लोये वा । p) उपा. धान्वः <> धान्वनः इति पाथे. । q) = इक्ष-विशेष- ।  
न्यु. ? । r) तस्यविकारोयः अण्ड प्र. (वेदु. भाष्यम् < धन्वन्- इति) । s) = धन्वन्तरि- । t) 'धन्वन्-त' इति  
अ. व. । u) द. मैथ. B. B. h. ; वेदु. बौध. पा<sup>०</sup> इति ।



✓धम्, ध्मा<sup>१</sup> वाया. भ्वा. पर. घन्दा-  
 म्निस्वोयवोः, ऋधमवि क्य ४८.  
 १; निघ २, १४०; १९०, ३, १४०;  
 धमन्वि क्य १. १. १५; धमेन्  
 संघ २२६; वैष ३, २, ७.  
 रधम- वा ३, १, १३०.  
 धमरु- पाउ २, १५.  
 धमर- मन्तः शोभी १२, १८, ११.  
 धमन्वी- वीः या ६, २१.  
 धमन<sup>२</sup>- नाः क्य ६८, १, ४१; ४३.  
 धमनि, शी<sup>३</sup>- पाउ २, १०२; वागवा  
 ५, २, १७; द्वि ५६; -नयः  
 या ६, २४; -र्तिः क्य ४८,  
 १०२; निघ १, ११;  
 -र्तनीनाम्<sup>४</sup> माथी ८, १, १५;  
 माथी १, ७, २, १८; द्विथी ५,  
 २, ६२; या ६, २४; -म्यः  
 विघ ९६, ८४.  
 धमनी-ल्- वा ५, २, १७.  
 धमनी-मत- न्ते तिघ ९६, ८२.  
 धमि(तु<sup>५</sup>)त्री- त्रीः<sup>६</sup> द्विथी १५,  
 ८, १५.  
 ध्माव- ताः वृदे २, १५८.  
 रध-म- १५-३.  
 धय- ध्यत्- ✓धि ३.  
 धर, रा- धरण-, णि-, णी-  
 प्रव. ✓ध ३.

धरु<sup>७</sup>- लोः वाच १६; २३.  
 धर्णस्- धर्णस्- ✓ध ३.  
 धितारिमुखम्<sup>८</sup> संघ ११६; ५३.  
 धर्तुम्, धर्त्- धर्त्- ✓ध ३.  
 रधर्त्- (> धार्मावण- वा.) पाग ४,  
 १, ११०.  
 रधर्म- धर्मन्- प्रव. ✓ध ३.  
 रधर्म्य- १धर्म- टि. ६.  
 धार्मावण- म्याः वीथीय ४१;  
 २.  
 रधर्म्य- धर्म- ✓ध ३.  
 धर्षणि- पाउ २, १०४.  
 धर्षित- प्रव. ✓ध ३.  
 ✓धव<sup>९</sup>, धवति निघ २, १७१.  
 धव<sup>१०</sup>- व. वा ३, १५; -वम् संघ  
 ११६; ११०; -वाः निघ २,  
 १२.  
 धवन- धवनि- ✓धु. पू ३.  
 धवल- पाउ १, १०१.  
 धवानक- पाउ ३, ८३.  
 धवित- धमिष्यत्- ✓धु. पू ३.  
 धव्य- ध- ३.  
 ✓धा<sup>११</sup> वाया. जु. उम. धारण-  
 वेषणवोः धामहे या १२, ११;  
 ऋषातु वीथी २७, १, ८;  
 धात<sup>१२</sup> ता मया ७, ५११.  
 धने शोभी १४, २८, १; १५,

१, ७; वीथी; या १४, ११;  
 दुधति शोभी १५, १, ३०४;  
 वाथी; वैष २, १, १०; या ४,  
 १६; ५, १५१; १०, ८; २११;  
 दुधते आधो १४, २२, १०;  
 २३, ७, ८; वापथी; दुधति  
 कापथी १३, १, १०; माथी २,  
 १, ६, ४१; या २, १३; ५, १८;  
 ९, २८; माधि ७६; दुधासि  
 कापथी ८, १४, २४; तीरा १६,  
 १८; ऋधामि आथी १, १२,  
 ३७; १३, १; कापथी; माय  
 १, २१, ७१; वीथ १, १६,  
 १९०; २, २, १४; ३, ३, ११;  
 शोय १, २४, ८०; २,  
 ४, १; ३, ४, २१; पाय १, ८,  
 ८, १६, ४०; २, २, १६; द्विघ  
 २, ५, २१; ऋधमहे<sup>१३</sup> कापथी  
 १४, २०, ३; वीथि १, १७; २४;  
 शी २, ७, ८१; ऋधमः वापथी  
 धः १६; कापथ १, १०, ७-९;  
 शोसि ६६; पाधि २, १४;  
 ऋधममि कापथी ४, १५, १;  
 माथी; द्विघ १, ४, ८; ऋधपाव  
 कापथी ९, १८, १५; वीथी २८,  
 ७; ११; ऋधपाव कापथी १,  
 १०, ८; ५, १५, ४; शोभी २,

a) वा ६, २; १०, ११ वृदे २, १५८ वा ७, १, ७४; ४, ११ परानुष्टः द. । b) मती श्रुतः । c) वेषे  
 श्रुतिः । d) कर्नाशो इतिः । e) कर्नाशो युञ्ज् व (या ३, २, १४८) । f) वैष १३ द. । g) वता. धमनी<sup>१४</sup> <>  
 धमनी इति पाठे. । h) पाठः! -रि इति शोषः (जु. उप. कापथी १४, २३, २ धर्मा- > -रि इति पाठे.) ।  
 i) म्यव. । धु. । j) = मरुद्-विशेष- । पाठः! जाग दुर्गः इति शब्द [मायुजवरे] । k) = ऋषि-विशेष- ।  
 म्यु. ? । जु. पाठः. । १धर्म्य- इति भाष्य. प्रव., मरु- इति [पठे] भाष्य. । l) = ✓धाव् [पठे] । < ✓ध  
 इति पाठि. । m) मया. । धु. । < ✓ध [कर्म] । । n) = पति- । o) = मरुद्-विशेष- । p) = मनुष्य- ।  
 q) वा १, १०; ६, १० मया ३, १, ८ शोष ४, १३ वा ७, ४, ८२; ८, २, ३८ वाया १, १, ५८ परानुष्टः द. ।  
 r) कापथी इति C. । s) पाठे. वैष १, १५५५ अ द. । t) पाठे. वैष १, ११३८ द द. । u) उप. द्विघ २,  
 १, १<sup>१५</sup> दुधोमि इति पाठे. । v) क्य. टाय १, ७, ९ प्रथमामि इति पाठे. । w) पाठे. १ १२८० । x. ८.  
 y) पाठे. वैष १, १००४ द. । z) स्वाहा इति परतो लुङ्निघण्टे पाठः । z) द्रमसि इति DDEB [ZDEB-  
 ५२, ८११]

१०, १०; ४, १, १; काथी ३, ६, २; ४, १४, २२; ५, १३, १<sup>००</sup>; ९, ३, १०; १०, ५, ३; १, १०<sup>०</sup>; आपथी १, १२, १४xx; १४, १८, १<sup>०</sup>; बोथी; माथी १, ६, ४, २१<sup>०</sup>; वैताथी ७, १०<sup>०</sup>; आपमं २, ४, ४<sup>०</sup>; माथ १, १०, १३<sup>०</sup>; २१, ८<sup>०</sup>; २२, १०<sup>०</sup>, २, १५, ६<sup>०</sup>; दिथ, १, ७, ११<sup>०</sup>; अथाय ४, १<sup>०</sup>; दघाताम् बोथी २०, २०: १२<sup>०</sup>; ऋषत्ताम् वैथी १, ४: १६; हिथी; ऋषत्ताम् आपथी ९, १२, ४; माथी ३, १०, २; आपमं २, २२, २४; कौसु ७२, २; ऋषत्तु बोथी ७, ८: ११; १०, ६: ११; ऋषत्तव आपथी १, १०, १०; वैथी; या ५, २५; ऋषत्तविव, > प्वा या ६, १६, ऋषा ७, ३३, शुभा ३, १२५; ऋषत्तविव, > प्वा कौसु ६८, १०; ऋषा ७, ५६; पा ७, ४, ४५; ऋषेहि माथी १, ११, १३<sup>०</sup>; ३, १०, ८xx; ८, १, १८<sup>०</sup>; याथी; ऋषाथी २, २, ८<sup>०</sup>; ३, ४, २७; २५, १, ११<sup>०</sup>; आपथी १,

१७, १०<sup>०</sup>; ३, ११, २<sup>००</sup>; १९, १<sup>०</sup>; ५, १, ४<sup>०</sup>; ६, ८, ११<sup>०</sup>; २१-२२, १<sup>०</sup>; १४, २१, ७<sup>०</sup>; २७, ६<sup>०</sup>; ३३, २<sup>०</sup>; १५, २, २<sup>०</sup>; १६, ३४, ४<sup>०</sup>; बोथी १, २१: १७<sup>०</sup>; माथी १, ४, २, १२<sup>०</sup>; ३, १, २८<sup>०</sup>; ४, १, १८<sup>०</sup>; ५, २, १५, १<sup>०</sup>; वैथी १८, २१: ३३<sup>०</sup>; ३६<sup>०</sup>; २१, १४: ९<sup>०</sup>; १०<sup>०</sup>; हिथी १, ५, १६<sup>०</sup>; २, ८, ११<sup>०</sup>; ११, ८, १५<sup>०</sup>; १५, ५, २७<sup>०</sup>; दाथी ९, १, ८<sup>०</sup>; लाथी ३, ५, ८<sup>०</sup>; ४, ११, २१<sup>०</sup>; वैताथी २, १<sup>०</sup>; ३, २०<sup>०</sup>; आपमं १, ४, १६<sup>०</sup>; ५, १८<sup>०</sup>; २, ६, ५<sup>०</sup>; १५, १५<sup>०</sup>; ऋषत्त १, १६, ५<sup>०</sup>; कौसु १, १९, १०<sup>०</sup>; राथि १, २७, ७<sup>०</sup>; २, ३, १, ३; आसिथ २, १, ३: ३१<sup>०</sup>; माथ १, ४, ४; ८; वाथ ८, ४<sup>०</sup>; ७<sup>०</sup>; दिथ १, ३, ६; २६, १३; कौसु ५, १३<sup>०</sup>, ९७, ४<sup>०</sup>; १०६, ७<sup>०</sup>; १३७, ४<sup>०</sup>; १२५, २<sup>०</sup>; या ५, ९<sup>०</sup>; ११, ३०<sup>०</sup>; ऋषत्ताम् बोथी ३, ११: १२<sup>०</sup>; या ८, १८<sup>०</sup>;

ऋषत्तायाम् आपथी ५, ८, ८<sup>०</sup>; ७, १२, १४; बोथी २, १५: १२<sup>०</sup> xx; माथी; हिथी ६, ५, १०<sup>०</sup>; ऋषत्तम्. आपथी ४, २, ३; याथी; माथी १, ५, २, ४<sup>०</sup>; आपमं १, ६, १२<sup>०</sup>; या ६, ११<sup>०</sup>; ऋषत्त, > ता थाथी ४, १३, १; काथी २५, ११, २३<sup>०</sup>; आपथी १, ९, १२<sup>०</sup>; १०, १५, ८; ११, २०, १३<sup>०</sup>; १७, १८, १; बोथी ६, ३२: १२<sup>०</sup>; माथी ५, २, १६, १४<sup>०</sup>; वैथी १४, १८: ८<sup>०</sup>; विष ७३, २१<sup>०</sup>; या ६, ७; ९, २७; १२, ४२; ऋषत्तवत्त अथा ३, १, ५; ऋषत्तव, > ता वाथी १, ५, ५; या ४, २१; ऋषा ७, ३८; ऋषत्तातन आपथी ७, १७, २<sup>०</sup>; वैथी १०, १३: १३<sup>०</sup>; हिथी ४, ३, ५५<sup>०</sup>; जैथी १२: २; आपमं २, ७, १३; या ९, २७<sup>०</sup>; ऋषत्तन आपथी ८, ११, ३; ऋषत्ता<sup>११</sup> आपथी १, १०, ६; बोथी; दथै वाथुथी ४, ९४<sup>०</sup>; ४; ऋषत्तानि वाथी १, १, ४

- a) पामे. वैष १, १००४ a द. । b) पामे. वैष २, ३खं. ददातु तैत्रा २, ५, ७, १<sup>०</sup>; ४<sup>०</sup> टि. द. । c) सप्र. काथी १०, १, ४ थौषीत इति पामे । d) पामे. वैष १, ११४- III द. । e) पामे. वैष १, १००५० द. । f) पामे. ४ ८९८ k द. । g) पामे. वैष १, १११८ e द. । h) पामे. वैष २, ३खं. करोतु तैत्रा २, ७, १७, २ टि. द. । i) सकर दधानु नः इति पाठः; दघातन इति शोधः । j) पामे. वैष १, ११८० g द. । k) सप्र. माथी ३, १, २५ धानुः इति पामे. । l) सप्र. ऋषत्ताम् << ऋषेहि इति पामे. । m) पामे. वैष १, १००४ III द. । n) पामे. वैष १ परि. ऋषेहि मै १, ४, १ टि. द. । o) पाठः; इ ह इति शोधः (तु. वैष १, १५८०) । p) सपा. ऋषेहि << ऋषत्त इति पामे. । q) पामे. वैष १, १६५१ b द. । r) पामे. वैष १, १५५८ h द. । s) पामे. वैष १, १००९ c द. । t) पामे. वैष १, १५५६ h द. । u) पामे. वैष १, १५५६ c, i द. । v) पामे. वैष १ परि. ऋषत्तवत्त - > वत्त टि. द. । w) पामे. वैष १, १०१० q द. । x) पामे. वैष १, १००९ r द. । y) पामे. वैष १, १००५ j द. । z) सपा. दिथ २, ३, ८ इंसानः इति पामे. । a<sup>१</sup>) पामे. वैष १, १५५६ c द. । b<sup>१</sup>) पामे. वैष १, १५५६ b द. । c<sup>१</sup>) मगुा रुं द. । d<sup>१</sup>) पामे. वैष २, २खं. दघाताम् तैत्रा १, २, १, १४ टि. द. । e<sup>१</sup>) पामे. वैष १, १००५ a द. । f<sup>१</sup>) पामे. ४ १२४८ k द. । g<sup>१</sup>) पामे. वैष १, १००५ f द. । h<sup>१</sup>) पामे. वैष १, ११३३ h द. । i<sup>१</sup>) मगुा रुं द. ।

१५; वायु २, ४; ऋदधावहे  
 आपथी ९, २, ३; भाथी;  
 ऋदधाम आपथी १६, ३४, ४;  
 दिथी ११, ८, १५; अक्षत  
 वाधूथी ४, ३२ : २; ३xx;  
 वृदे ७, ८०; ८, ६; ऋदधाव  
 शंथी १८, १, ८; आपथी;  
 या १४, १०<sup>३</sup>; अक्षतम् जैष्ट  
 १, २२ : २८<sup>१</sup>; अक्षत भादि  
 १०१<sup>१</sup>; ऋदधुः आपथी ५, २३,  
 ४xx; वीथी; या ७, २९; १३,  
 ९; ऋदधव्याः वैथी १८, २१ :  
 ३xx; द्विथी ११, ८, ९; ऋदधाः  
 आथी ४, ६, ३; ९, ४; ऋदध-  
 त्तम् कौत् ५, १; या ६, ३६;  
 ऋदधाम् वीष्ट १, ७, ४३;  
 माथ १, १४, १६; वायु १६, १;  
 अक्षतम् आपथं १, ११, ९<sup>१</sup>;  
 ऋदधीत आपथी १६, ७, ४;  
 वीथी; दध्यात् आथी ५, १४,  
 २०; १५, २२xx; काथी;  
 दध्यातम् वायु ३, १; दध्याम्  
 वीथी १३, १९ : ७; द्विथी  
 २२, ३, १४; दधीमहि वा  
 १२, ६.  
 ऋदधे<sup>१</sup> आथी १०, ९, ५; वीथी;  
 या १२, ३२; दधी वीथी १८,  
 १३ : ९; छु २, ६; ऋदधुः  
 आथी २, ५, ३; वीथी; ऋदधिरे  
 शंथी १८, ६, ५; आपथी; या ६,  
 ३५; ऋदधुः आपथी ५, १०, ४;

माथी; ऋदधिरे शंथी ११,  
 १२, ४; आपथी १२, १९, ५<sup>१</sup>;  
 या ५, २५<sup>१</sup>; ऋदधिम>मा  
 श्रया ८, १५; धास्यति वापृथी  
 ४, ६ : ३; धास्यवः आधिष्ट  
 २, १, ५ : २; ऋदधत्त>धा  
 श्रया ७, १४; ऋदधिरोय<sup>१</sup>  
 आपथी ४, १३, १; वीथी; वा  
 ७, ४, ४५; ऋदधिरोय<sup>१</sup> माथी  
 १, ४, ३, १; वाथी १, १, ४, ९<sup>१</sup>;  
 अक्षित शंथी ३, २०, ४; काथी  
 २५, २, २४; ऋदधात् आथी  
 ३, ११, २; शंथी ३, २०, २;  
 काथी; ऋधात् आथी ५, ९, १<sup>१</sup>;  
 ६, १२, २<sup>३</sup>; शंथी ६, ९, १७;  
 पायु ३, ५, ३; यां १०, ४५;  
 इधोऽम् आथी ७, ११, ७<sup>१</sup>;  
 अधातम् या ९, ४३<sup>१</sup>; ऋदधुः  
 माथी २, ५, ४, १३; छुः  
 आपथी १३, १८, १<sup>१</sup>;  
 ऋदधाः वैथ २, ४, ५; ऋदधाः  
 आथी ३, १, १४; छ, ५, ३;  
 शंथी १, १२, ५, ५, ८, २<sup>३</sup>; १७,  
 १३, १०; काथी; माथी १, ८,  
 ३, ३१<sup>१</sup>; द्विष्ट १, १३, १५<sup>१</sup>; वा  
 छ, १७; ऋदधिवि आपथी  
 ६, १०, ११; माथी ६,  
 १२, ९; द्विथी ३, ७, ७२;  
 धाम् आपथी १, २१, ७<sup>१</sup>,  
 वीथी.  
 धीयते शंथी ११, २, ५; वीथी

१४, १० : ३१; काथी; या ३,  
 १९; छ, ७, ५, २६; छ, २४; ७,  
 २७; १०, ४; धीयन्ते वापृथी ३,  
 १३ : १७xx; या ५, १०; १३,  
 १०; ऋधीयति वीथी १, १२ :  
 ३४; धीयताम् आपथं १, १२,  
 ८<sup>१</sup>; शंथी १, १९, ६<sup>१</sup>; अधीयन्त  
 वीथी १०, ४२ : १८<sup>१</sup>; माथी  
 ६, २, १, २५; अधावि आपथी  
 १०, ९, ४<sup>१</sup>; वीथी २, १८ :  
 २७<sup>१</sup>; द्विथी १०, २, ७<sup>१</sup>;  
 वृदे २, ११४; या ६, १५; २२<sup>१</sup>;  
 श्रया; ऋधावि आथी २, १७,  
 ७; शंथी; या ६, १५<sup>१</sup>.  
 दिधिवेय श्रया ८, ४३<sup>१</sup>.

दध- पा ३, १, १३९.  
 ऋदधत्- -धत् आथी ३, १२, १४;  
 शंथी.  
 ऋदधती- -ती आथी २, ११, ४<sup>१</sup>;  
 शंथी ३, ७, ४<sup>१</sup>; वीथी ७, ८ :  
 ५; १४, ५ : ४३; -तीः वीथी  
 १२, ८ : २३.  
 दधाति-> दध(ति-अ)थं- -थं वा  
 ८, ३.  
 ऋदधान, ना- -नः आपथी ५, ९,  
 १०, २१, १२, ३; माथी; -नम्  
 निष्ठ १, १ : १४; -ना वीथी  
 २, ४, ३<sup>१</sup> वीथी; माथ २, १,  
 १३<sup>१</sup>; -नेन वापृथी ३, ६९ :  
 १७५.  
 दधिपायव<sup>१</sup>- पाठ ३, ९७.

a) वैथ १ द.। b) पामे. वैथ १, १००८ d द.। c) वैथ १, २०१ n द.। d) पामे. वैथ १,  
 १७१० t द.। e) वैथ १, २०२ z द.। f) पामे. वैथ १, १००८ i द.। g) धाम् (अ १०, ३०, १२)>  
 न्यद्वक्तो विधेयः। h) धात् इति पाठः? यनि. शोधः (दु. तै ३, १, १०, १)। i) पामे. वैथ १, १००४ d द.।  
 j) धात् इति. Bōht LZDMG ५२, ८३। k) पामे. वैथ १, १००९ i द.। l) पामे. पृ १०९६ k द.। m) पामे.  
 वैथ १, १००९ h द.। n) तु.सा. प्रष्ट. वैतु. या. = अध्यायि [= ध्यातवार इति तु.] इति?। o) पामे. वैथ १,  
 १५११० द.। p) पामे. वैथ २, २३८. दुदमी मास ११, ४, ३, ७ डि. द.। q) पामे. वैथ १ वाहृधाना तै १, ८, २२,  
 १ डि. द.। r) पामे. वैथ १, १००३ t द.। s) अर्थः? <दधि- + √क्ष [अभिवधे] इति पाठो २, १०।

घा°-घाः आपथी २,३,९१,भाथी;  
घात(व्य >) व्या-व्याः वीथी  
२६,४ : १० : १२.  
घातु°-पाठ १,६९; -तवः वैष्ट  
३,९,९०; वृदे ७,८०<sup>०</sup>; यां १,  
२०; २,२८,३, ९<sup>०</sup>; १०<sup>०</sup>; ११;  
१३<sup>०</sup>, १९<sup>०</sup>; अप्रा ३,४,१<sup>०</sup>, पा<sup>०</sup>  
१,३, १; ३,१,३२; -तुः लाथी  
७, ५, ९<sup>०</sup>; निस् ३,१३ : ४<sup>०</sup>;  
सु १०,४<sup>०</sup>, यां १,२०<sup>०</sup>; अप्रा  
१,१,११<sup>०</sup>, पावा ८, ३, ६५<sup>०</sup>;  
-तुभिः वायु १,१६; रूप ११,  
१, १५; -तुभ्यः या २, २<sup>०</sup>;  
-तुम् चाथी १६,३,२६<sup>०</sup>; वाथी  
१,३, ३, १२<sup>०</sup>, वृदे २, १०१;  
-तुत् कौत् २, २३<sup>०</sup>, -तुनाम्  
वीथी १,२१ : २६<sup>०</sup>; २०,१५ :  
११<sup>०</sup>; वृदे २, १०२; -तोः  
वीथी २०, ११ : २६<sup>०</sup>,  
वाच ३९ : १७<sup>०</sup>, अप्रा, पा १,  
४,८०; ३,१,७४; -ती अप्रा  
१३, ३५, ऋत ५, २, ६, पा ३,  
३,११५, ६,१, ९१; -तोऽन्तो<sup>०</sup>  
आपथी २,९, ४; माथी.  
घातु-क्षय-याव वीथ ३,  
२,१३.  
घातु-प्रहण-णम् पावा ३, १,  
११,२,१४, ४, ११४; -णे पावा  
३,१,२२, ६,१,९०.  
घातुप्रहण(सामर्प्य)-स्यार्त्  
पावा ७,१,५८.  
घातुप्रहणा(सु-भा)नभंक्षय-  
-व्यम् पावा १, ४, ६०; ३,

१,७.  
घातु-ज-जम् वृदे २, १०४;  
-जस्य पावा २,२,२४; -जाव  
वृदे २,१०४.  
घातु-त्रि-प्रहण-णेणु पावा  
१,३, १०.  
घातु-व-वम् पावा १, ३,  
१.  
घातु-निर्देश-शे पावा ३, ३,  
१०८.  
घातु-प्रतिषेध-धः पावा ७,  
१,१; ८४.  
घातु-प्रातिपदिक-कयोः पा  
२,४,७१.  
घातु-प्रातिपदिक-प्रत्यय-निपात-  
-नामम् पावा ५,९.  
घातु-प्रातिपदिक-प्रत्यय-समास-  
-सहितविधि-स्वर-राः पावा  
१,४, १३.  
घातु-स(य >)थी-थीः ऋशां  
५,८.  
घातु-मात्र-त्रात पावा ३, १,  
१३३.  
घातु-लक्षण-णम् चन्तु ३ :  
१३६.  
घातु-लोप-पाः पा १, १,४;  
-वे पावा ६,२,१९१.  
घातु-वस्त्र-वस्त्रम् वेष १,  
३,६.  
घातु-सस(ः) वीथी २०, ११ :  
१६; माथी २,२, ४, १२.  
घातु-संज्ञा-ज्ञायाम् पावा १,  
३,१.

घातु-संवन्ध-धे पा, पावा ३,  
४, १.  
घातु-संभरणा(सु-भा)स्वरण-  
-णयोः वाथी १,३,१,२२.  
घातु(तु-उ)पसर्गा(ग-ञ)वयव-  
गुण-शब्द-वृदम् वृदे २,  
१०३.  
घातु(तु-ञ)धिकार-रः पावा  
३,१, ९१; -राव पावा ३, १,  
९१; ६, १, ४५; -रे पावा ३,  
१,७.  
घातु(तु-ञ)न्त-न्तस्य पावा  
६,१,६६; ४,४९; ७, १, १<sup>०</sup>; ३,  
५०.  
घातुन्त-प्रतिषेध-ध. पावा  
७,१,३; ३, ४६.  
घातु(तु-ञ)न्यत्व-न्वात् पावा  
३,१,७८; २,१३५.  
घातु(तु-ञ)र्थ-र्थे शुभ्रा ५,१०;  
पा ५,१,११८.  
घातुर्थ-निर्देश-शे पावा  
३,३,१०८.  
घातुर्थ-पृथग्-भाव-वे  
पावा ५, ३, ४२.  
घातु(तु-भा)दि-दी या २,  
१; -देः पा ६,१,६४; -दी शीव  
३,४८.  
घातु°-पाठ २,९४; -तः काथी  
२३, ३, १; आपथी; कौत् ५६,  
१७<sup>०</sup>; या ११,१२; -तुता चाथी  
६, १४, १५९; १६<sup>०</sup>; चाथी;  
आपथी १२, ६, ३<sup>०</sup>; माथी ३,  
६, २<sup>०</sup>, द्विथी ८, १, ७६<sup>०</sup>;

a) वै १ द. १ b) अप्रा. यथायथे टि. द. १ c) = शरीरवेषक-द्रव्यविशेष-। d) = गैरिकादि-।  
e) = संज्ञा-विशेष-। f) = महानाम्नीमागविशेष-। g) = तुणमुष्टि-। h) = मृत-प्रक्षेप- इति कर्तृविषयापरी-।  
i) = ऋषि-विशेष-। j) बस. > बस. [तु. कैयटः]। k) तु. सस्य. टि. संज्ञासु। l) विप. । दस. > बस. ।  
m) वै १ निर्दिष्टानां समावेशः द. १ n) पाभे. वैप २, ३६. आभ्यन्तु तैत्रा ७, ४, २ टि. द. १ o) पाभे.  
वैप १,१७११ ङ. द. १

निय ५,५; या १०, २६<sup>०</sup>; ११,  
 १०<sup>०</sup>; ११<sup>१</sup>; १२, ३६<sup>०</sup>; -त्तरम्  
 वीथी १४, १९:२; द्विथी; -घु-  
 आपथी १५, १८, ६; वीथी;  
 ऋमाथी १, ३, ५, १७<sup>०</sup>; ३, १,  
 २५<sup>०</sup>; आपमं १, ५, १६<sup>०</sup>; ३  
 कौट ५, ३, ३१<sup>०</sup>; -ऋथिभिः  
 आथी २, १७, ७; मंथी १, ६,  
 २, ४; -ऋथा आपथी २१,  
 ११, ८; द्विथी १६, ४, ३१; आपमं  
 २, ११, १७; या ११, ११<sup>०</sup>; -त्रे  
 आथी ६, १४, १६<sup>०</sup>; शंथी.

१धात्री- -त्री ऋत्र २,  
 १०, १८; वृदे ७, १२; -वी-  
 आनिय २, १, १:३; २:३; द्विथ २,  
 १-२, २; -त्रीम् वैथ ७, ४: ५<sup>१</sup>.  
 धाता>धाता(ता-आ)दि- -दि  
 वैथ १, १६: ५x; ३, १२: २<sup>१</sup>.

धातादि-पूर्व<sup>१</sup>- -वंम् वैथ  
 २, ७: १; १: ४; ७.

१धावादिमिन्द्राहुतिम्<sup>१</sup>  
 वैथ २, ३, २.

धावादि-मत-विसर्ग<sup>१</sup>-  
 -मंम् वैथ २, ११: १; १३: ४.  
 धात्र<sup>१</sup>- -त्रः काथी १८, ६, २०;  
 आपथी २२, १८, १८; द्विथी  
 १७, ७, १०; -प्रथ काथी २५,  
 २, १६.

१धाल- -ने वीथी २०, १९: १३;

२४: २४.  
 धापयित्- -त्तरः भाथ १, २५:  
 १९.  
 धामन्<sup>१</sup>- पाठव ४, १५१; पाग २,  
 ४, ३१<sup>०</sup>; -ऋम आथी १, ५, ५;  
 २, ८, ३; ५, १९, ३<sup>१</sup>; आथी;  
 वैथ २, १७: ३<sup>०</sup>; या ७, २;  
 ऋत्रा ७, ५५<sup>०</sup>; त्रेत्रा ३, ८<sup>०</sup>;  
 पाथि २४<sup>०</sup>; -ऋमन् आथी २,  
 १३, ७; आपथी; -ऋमभिः  
 आथी १, ३, २३<sup>०</sup>; वैताथी ३२,  
 ३<sup>०</sup>; या ५, २, २, २९; -ऋम्यः  
 आपथी १६, २९, २; वैथी;  
 -ऋमसु आथी ८, १०, ३;  
 शंथी; -मा जैथी ९: १९;  
 -ऋमानि आथी १, ३, १४;  
 ६, ३x; शंथी; आपथी  
 ७, १०, ८<sup>०</sup>; वीथी ४, ४: २९<sup>१</sup>;  
 भाथी ७, ८, १०<sup>०</sup>; माथी १, ८,  
 २, १८<sup>१</sup>; ६, १, ८, १२<sup>०</sup>; आथी  
 २, १, ८, १७<sup>०</sup>; द्विथी ४, २, ५४<sup>१</sup>;  
 या ९, २८<sup>०</sup>; -ऋमः आपथी  
 ४, १६, ४; भाथी ६, ३, ७,  
 द्विथी ६, ६, १७; -ऋमः-ऋमः  
 आथी ३, ६, २४; शंथी ८,  
 १२, ११; काथी ६, १०, ५;  
 आपथी ७, २७, १६; वीथी;  
 -ऋमता शंथी २, ११, ५<sup>१</sup>;  
 काथी २, ८, १९<sup>१</sup>; ५, ४, २७<sup>०</sup>;

वीथी; -ऋमः-ऋमः शंथी ४, ८,  
 १; वीथी.  
 धामच्छद्<sup>१</sup>- -च्छद् आथी २,  
 १३, ५<sup>०</sup>; द्विथी ११, ८, २३<sup>०</sup>;  
 शुभ २, ३६०<sup>०</sup>; या ७, २७<sup>०</sup>;  
 त्रेत्रा १४, ८<sup>०</sup>; -च्छदा<sup>१</sup> आपथी  
 १६, ३५, ३; वैथी १९, १: ११;  
 -च्छदे वीथी १३, ३९: ९;  
 माथी ५, २, ६, १५; आनिय  
 २, ५, ११: १४<sup>०</sup>.

धामच्छद्-जादि<sup>१</sup>- -दीनि  
 आपथी १९, २६, १३; द्विथी  
 २२, ६, १०.  
 धामच्छद्-द्विती(य>)वा<sup>१</sup>-  
 -याम् वैथी १९, १: १५.  
 ऋधाम-सस(ः) द्विथी ८, ६, ३३:  
 या १४, १९.

ऋधामि<sup>१</sup>- -स्वि<sup>१</sup> आपथी १६,  
 २९, २; वैथी १८, २०: २९;  
 द्विथी ११, ८, ४.

१धाय- पा ३, १, १४१.  
 २धाय<sup>१</sup>- -याः कौस १८, ३२.

ऋधायस<sup>१</sup>- -यसा आथी ३, ७, ६:  
 ८, ९, २; वीथी १७, ४१: २६<sup>०</sup>;  
 आनिय १, ३, ५: २<sup>१</sup>; द्विथ १,  
 ११, २<sup>१</sup>.

धाव्य, य्या<sup>१</sup>- वा ३, १, १२९; पाग  
 ४, २, ५४<sup>१</sup>; -य्या आथी ५, १५,  
 २१; शंथी; -य्याः आथी ५,

a) पाथे. वैप १, १७१३ g द. । b) पाथे. वैप १ परि. ऋतुस्व ऋ १०, ८५, २४ टि. द. । c) पाथे. पृ १३४० k द. । d) धातुस्थाः इति पाठः ? मनि. इति ताः इति च शोधः (दु. पृ ११३७ m) । e) पाथे. वैप १, १४१२ j द. । f) = देवता-विशेष- । g) °वीम् इति संस्कर्तुः टि. । h) विप. । वस. । i) पाठः ? धातादीन्, मिन्द्राहुती इति शोधः (दु. O.) । j) मलो. कस. । k) सास्यदेवतीयः अण् प्र. । l) वैप १ द. । m) दु-पायम्. । n) = मास- इति भाष्यम् (दु. O.) । o) °मा इति संक्षिप्ता-वाठः । p) पाथे. वैप १, १७१५ i द. । q) पाथे. वैप १, १७१५ g द. । r) पाथे. वैप १, १७१५ p द. । s) पाथे. वैप १, १७१५ r द. । t) पाथे. वैप १, १७१६ 0 द. । u) = ऋच्- । v) = हविस्- । w) = धामन्- । लु. ? । x) पाथे. वैप १, १७१६ f द. । y) = दर्भपूलक- । कर्मणि षच् (पा ३, ३, १९) । z) पाथे. वैप १, १४७६ i द. । a<sup>१</sup>) धाव्य- इति आण्डा. । धाव्या- इति पाका. ।

१४, १७x; माथी; -व्याम्यः  
 आथी ५, १०, १३; -व्याम्यः  
 शोथी ११, १२, २; १८, ४, ५;  
 बाधुथी ३, ५८ : ७; -व्यायाः  
 आथी ५, १५, १८; शोथी १०,  
 १३, ११; -व्याये शोथी ७, २१,  
 ८; -व्ये आथी २, १, २७x;  
 आपथी.  
 घाव्या (घ्या-व्या) ज्यभाग-  
 स्याम्य-अयानाम् चाथ ४१ :  
 २५.  
 घाव्या-रूप- -पम् शुभ्रा ४,  
 १५३१.  
 घाव्या-लोक- -के वीथी १०,  
 ११ : ३; १३, १० : ८x.  
 घाव्या-दन्त- -न्देन हिथी २१,  
 २, ६.  
 घाव्या-स्थान- -नम् माथी ५,  
 १, १५.  
 घेय- -यम् नाथि ४५  
 घा<sup>१</sup> वेज्यो १८.  
 घा-√घा द  
 घाक<sup>१</sup>- पाठ ३, ४०.  
 घा-कार- १घ, पा- द.  
 घामक- पाठ ३, ८३.  
 घाथिका<sup>१</sup>- का तेषा १३, १२०,  
 -काम् शोथी १२, २४, ५०.  
 घातक<sup>१</sup>- पाठ ३, १४८, पाग ४,  
 १, ४१६.  
 घातकी- पा ४, १, ४१.

रघातकी<sup>१</sup>-(>घातकेय-वा.) पाग  
 ४, २, १७.  
 घातव्यामि<sup>१</sup>- कौम् ३५, १६.  
 घातवे √घे द.  
 घातव्या- १घानु- प्रम्. √घा द.  
 रघानु<sup>१</sup>- -तोः चाथ ३७ : १७.  
 घानुम् √घे द.  
 घानु-घाव- √घा द.  
 घावन्तर<sup>१</sup>->घावन्तर-शैव-बहु रूप-  
 पार्षद-स्कन्दे(न्द-इ)न्द-  
 -न्द्राणाम् वीथ ३, ३, ३३.  
 रघावी-√घा द.  
 रघा(त्र>)त्री<sup>१</sup>- पा ३, २, १८१.  
 रघा(त्र>)वी-√घे द.  
 रघान-√घा द.  
 रघान-√घे द.  
 घानक<sup>१</sup>- पाठनाथ ३, ८४<sup>१</sup>.  
 घानजटय-घानपन- -व्य-√घन् द.  
 घाना<sup>१</sup>- पाठ ३, ६; -नाः आथी ५, ४,  
 ३<sup>१</sup>, ६, ११, ११x; शोथी; या  
 ५, १२<sup>१</sup>, -नानाम् आपथी ८,  
 १५, ९; वीथी ५, १४ : २, ६;  
 ७; १३; ७, १२ : ८; माथी;  
 -नामि. आपथी १३, १७, २, २०,  
 १०, ६, वीथी; -नाम्यः माथी  
 १, ७, ६, ६; २, ३, २, ३; वीथी.  
 घाना-चर्मन्<sup>१</sup>- -मणि वीथी १५,  
 १६ : ४.  
 घाना(ना-आ)दि-दीनि काथी ९,  
 १, १६.

घाना(ना-अ)ए- -पान्याम् माथ  
 २, १०, १.  
 घाना-व्य<sup>१</sup>- -व्यम् अथ ४८, ७५.  
 घाना-प्राशन- -नात् माथ २, २ : २.  
 घाना-भर्जन- -नम् काथी ५, ८,  
 १६.  
 घाना-मन्य- -न्यम् माथी ८, १७,  
 २०; -न्यी वीथी ९, ९ : ६.  
 घाना-मन्य-पुरोडास- -दानाम्  
 काथी ५, ९, ६.  
 घाना(ना-अ)थे- -थम् आपथी ८,  
 १३, १८; १२, ४, ९; माथी;  
 -थान् आपथी ८, १३, १८.  
 घाना-लाज- -जान् वीथी १५,  
 ५ : १.  
 घाना-वल्- -वन्तम् आथी ५, ४,  
 २, शोथी.  
 घाना-नक्तु- -नक्तुम् काथ ६०, ४.  
 घाना-सोम- -सः वैताथी १६,  
 १७; -मान् माथी २, ४, ६,  
 २६; -मान् काथी १०, ८, ४;  
 आपथी; -मानाम् शोथी<sup>१</sup> ८, ८,  
 २; ४; वीथी; -नेम्यः काथी १,  
 १६S; १०, ८, ३; आपथी  
 १३, १७, ३; हिथी ९, ४, ४५.  
 घानासोम-याव्या- -ज्यायाः  
 बाधुथी ३, १०२ : २.  
 घानाः आ १, ६, ७; ८, ४; ७, ३, ४, २.  
 घानाक<sup>१</sup>- -कः अथ २, १०, ३५;  
 शुभ २, ३२८; ३, १७६; २, १२<sup>१</sup>.

a) = घाम्या-स्थान-। b) अनुशथा- द-यस्यान्तिमाऽव्यव-। c) वैप १ द.। d) वामे. वैप १, १०१९ द.। e) वामे. वैप १, १०१९ द.। f) = पुण्य-भेद-। व्यु. ? : <√घा इति पाठः, <√घाति घातादिभिः (श्री ७, १७, १-४) इति पाठः. पाठि.। h) द. पागम.। = नगरी-विशेष-। i) पाठः ? व्यु. ?। j) व्यप.। व्यु. ?। k) = देवता-विशेष-। इति पाठस्ते [३, ७१]। o) उप. = [चर्ममय-] पात्र-विशेष-। m) अर्थः व्यु. न ?। n) = लंपाम-। = द्रव्य-परिमाण-विशेष- (पा ३, २, ३)। q) आः सो<sup>१</sup> इति पाठः ? इति. शोधः (दृ. शि ५, ७, ४, १६ O. च)। r) < घानाक- इति प्रम्.। s) < घानाक- इति !।

धानान्तर्वत्<sup>a</sup> - धान् शुभ्र १, १३५<sup>b</sup>.  
 धानाप्य- धाना- द्र.  
 धानाम्<sup>c</sup> आधौ ८, ३, १९.  
 धानुर्दण्डिक- 'लुक्- घनुस्- द्र.  
 धान्य<sup>d</sup> - पाठ ५, ४८; पाग ५, ४, ३<sup>e</sup>;  
 कि ७६; -न्यम् काधौ २, ५,  
 ६१; आपधौ; आपध १, २०,  
 १२; -न्यस्य आपध १, २०,  
 १३; विध ६, १२; हिध १, ६,  
 २७; -न्यान् आमिष्ट २, ५,  
 ३: ४; बौष्ट ३, ५, ४; -न्यानाम्  
 अप ५०, ५, ४; ७०<sup>f</sup>, ६, ३;  
 वाध २, २९; शंध १७४; पा  
 ५, २, १; -न्यानि वैधौ ११,  
 ११: ७; अप ७१, ७, ६; -न्ये  
 भाष्ट ३, १३: १७; पा ३, ३,  
 ३०; ४८; -न्येन आमिष्ट २,  
 ४, ९: ७; ५, १२: १३; अप  
 ६८, २, १६; वाध २, ४५;  
 -न्येषु वैधौ ११, ११: ९;  
 -न्यै: अप ३०, ४, २.  
 धान्य-कोष्ठा (घ-या) सुधागार-  
 -रा: अप ७१, ४, ४.  
 धान्य-खल<sup>g</sup> - ख: काधौ २२, ३,  
 ४४.  
 धान्य-गो-सुक्-दुवाशन-सुर-  
 -राणाम् विध ७०, १६.  
 धान्य-सौर- -र: विध ४५, ९.  
 धान्य-सम्(ः) विध ३, २३.  
 धान्य-धन-तस्(ः) विध ३२, १८.  
 धान्य-धन-संघ- -यम् वैध ३,  
 ५, ४.  
 धान्य-धना (न-अ) पहारिन्-

-री विध ५२, ५.  
 धान्य-निचय- -न्ये भाष्ट ३, १३:  
 १७.  
 धान्य-पति- (> पत- पा.) पाग  
 ४, १, ८४,  
 धान्य-पल्य<sup>h</sup> - ल्यम् काधौ ८,  
 ४, १४.  
 धान्य-पल्वल- -ले जैष्ट १, ११: २५;  
 धान्य-पाक-यज्ञ- -वात् कप ३,  
 ७, ९.  
 धान्य-पात्र- -प्राणि कौष्ट १, २१,  
 २२<sup>i</sup>; शौष्ट १, २८, २४<sup>j</sup>;  
 -प्रात् काधौ ८, २, ५; ३, ७०.  
 धान्य-पा (घ>) प्रा<sup>k</sup> - प्रा काधौ  
 ८, ३, ८.  
 धान्य-प्रदान- -नेन विध ९२, १९;  
 २२.  
 धान्य-भरातु<sup>l</sup> - सुम् आपधौ २२,  
 ११, १५.  
 धान्य-मांस- -सम् हिध १, ६,  
 २६<sup>f</sup>.  
 धान्य-माप<sup>m</sup> - -पै: बौधौ २३,  
 १८: १०.  
 धान्य-माप<sup>n</sup> - -पौ आमिष्ट २,  
 १, १: ९; हिष्ट २, २, ३.  
 धान्य-राज- -ज: बौध ३, ६, ४;  
 विध ४८, १७; गीपि २, ३, १७.  
 धान्य-राशि- -शिम आपधौ २२,  
 ११, १५; -शे: अप ६४, ४,  
 १०; -शौ अप ३६, १५, १.  
 धान्य-राशि-ग्रहण- -जम् शंध  
 १२.  
 धान्य-वासस्- -ससाम् अप ७०,

३, २; काप २७७: १०.  
 धान्य-विक्रय- -वात् वाध २, ३६.  
 धान्य-विपर्यास- -से अप ७०<sup>o</sup>,  
 ६, २.  
 धान्य-संग्रह- -शे: अप ६२, १, ७.  
 धान्य-हारिन्- -री विध ४४, १४.  
 धान्या(न्य-या)कृष्ट<sup>p</sup> - कृत: अष्ट  
 ९, ८<sup>q</sup>.  
 धान्या(न्य-अ)क्षत- -तम् वैष्ट ५,  
 ६: १९.  
 धान्या(न्य-या)चित- -तानि काधौ  
 २२, ११, १; काधौ ९, ४, १६.  
 धान्या(न्य-अ)जिन-रज्जु-तान्तव-  
 वैदल-सूय-अपातवासस्-  
 -ससाम् विध २३, १४.  
 धान्या(न्य-अ)द- -दम् वाधौ १६,  
 १, १<sup>r</sup>.  
 धान्या(न्य-अ)पहारिन्- -री विध  
 ५, ७९.  
 धान्या(न्य-अ)म्ह- -म्हम् वैध  
 ३, ५, १०.  
 धान्या(न्य-अ)यस्- -यसौ गीध  
 २८, ७.  
 धान्या(न्य-अ)धैम्- -धैम् अप  
 ६३, ४, ४.  
 धान्यायन- २धन्य- द्र.  
 धान्य-, १धान्यन- २धन्यन्- द्र.  
 २धान्यन- धन्यन- द्र.  
 धान्यपत- ✓धन्य् द्र.  
 धापयित्-, धामन्-. धामि-,  
 १-२धाप-, धायस्- ✓धा द्र.  
 धाया[धाया] चाप ४१: १.  
 धायिन<sup>s</sup> - ने कौस् ३४, १०<sup>t</sup>.

a) व्यप. । व्यु. १ । b) धनाध्वान् इति उ[मा २, १९] । c) वैप १, १५६२ d) द्र. ।

d) वैप १ द्र. । e) दु. पागम. । f) सप्र. धान्ये मांसम् <> धान्यमांसम् इति पाभे. । g) मलो. कथ. ।  
 h) उप. = शिक्य. । i) विप. । यत्. । j) पत्. । उप. = ज्यायोराशि- (जैपि २, १६४; १६५ [तु. ०.]) ।  
 k) उप. = परिमाण-विशेष. । l) उप. = अन्न-विशेष. । m) उप. = मूल्य. । n) = द्वार- इति केचन; = तौरण-  
 इति दारिलः (तु. B [भ. L]) । o) धीयि<sup>n</sup> इति दारिलः ।

धाव्य, व्या- प्रथ. ✓धा द.  
 धार- -रे याशि २, ३३.  
 धारका- धारण- णा- प्रथ. ✓ध द.  
 धारणि- (>णायन- पा.) पाग २,  
 ४, ६१<sup>b</sup>.  
 धारय- षत्- प्रथ. ✓ध द.  
 धार- पाग ५, २, ९७; ६, १, १९९;  
 पाग, पावा ३, ३, १०४; -रया  
 ऋधौ २, १२, ३; ८, १४, ४;  
 गोधौ; या ११, ३१; १३, ६;  
 -रयो: काधौ ९, ६, १४;  
 काठधौ; -रा काधौ ४, १५, ७;  
 आपधौ, या १३, ६१<sup>६</sup>; -रा  
 गोधौ ७, १५, १४<sup>१</sup>; आपधौ;  
 ऋया ७, १७; १०, ९; -राणाम्  
 काठधौ १४७; बौधौ ८, १० :  
 १४<sup>१</sup>; -राम्य: काधौ १०, १,  
 १२; आपधौ; -राम्याम् आपधौ  
 १२, १५, ३; भाधौ; -राम्  
 आपधौ ६, १४, १; १९, २४,  
 ४१<sup>६</sup>, बौधौ १३, ३२ : ८<sup>१</sup>६,  
 ३८ : १, भाधौ; हिधौ ६, ४,  
 १३<sup>१६</sup>; २२, ५, ५१<sup>६</sup>; -रया-  
 आपधौ १२, १३, ५४; हिधौ  
 ८, ३, ४७, २३, १, २६; -रायाम्  
 आपधौ २४, २, २; वैधौ; -राम्  
 गोधौ ७, १५, १४, १<sup>१</sup> वैध १, ६;  
 २; २, २ : १.  
 धारा (रा-ञ) नि- निनम् बौधौ  
 १५, ३५ : ४.  
 धारा-मह- -हाणम् आपधौ १४,  
 १, ४; वैधौ १७, २ : ६.  
 धारामह-काल- छे वैधौ १६,  
 २ : ५, हिधौ.

धारामहा(ह-ञ)न्त- न्ते काधौ  
 १२, ५, ४.  
 धारा-महण-काल- छे आपधौ  
 १२, २१, १०; हिधौ ९, ३,  
 ३१.  
 धारा-बोध- -यम् आपधौ १, १२,  
 १७; भाधौ; न्ये भाधौ १,  
 १, ३, २३.  
 धारा (रा-ञ) ह्रस्व-परिष्ठाव- छे:  
 ऋप ६४, १, १०.  
 धारा-चर- -रजि: ऋप ६८, १,  
 ४६.  
 धारा-बुद्ध- -येषु नाशि २, ३, ४<sup>१</sup>;  
 -नौ याशि २, ३२<sup>१</sup>.  
 धारा-ल- पा ५, २, ९७.  
 ऋधारा-वर- -रा: काधौ ७, ७, २;  
 शोधौ.  
 धारा-वर्जम् काधौ ४, १३, १९.  
 धारा-संयोग- -गात् मौस् १०, ५,  
 ६४.  
 धारे(रा-३)दका- -काम् बौधौ १०,  
 ४८ : ४; १९, ४ : २६.  
 धारिणी-, -रित- ✓ध द.  
 धार- ✓धे द.  
 धातंक्रतय-, -र्वराल-प्रथ. ✓ध द.  
 धातैय-, -ष्यो- धातैय- टि. द.  
 धामपत- ✓ध द.  
 धामायण- १धर्म- द.  
 धार्मिक-, धार्युक्- प्रथ. ✓ध द.  
 धामर्षायण- १धर्म्य- द.  
 धार्ये-, धार्यमाण- ✓ध द.  
 ✓धाव् पापा. भ्वा. उभ. गतो,  
 धावति बौधौ १४, २३ : २७;  
 वाधौ; या २, ११; १३, ६१<sup>६</sup>;

वा ४, ४, ३७; धावन्ति आपधौ-  
 २१, १९, ७; बौधौ; धावतु:  
 आपमं १, १५, ६; कौस् ६२,  
 २१<sup>१</sup>; ऋधावत आपधौ १८, ४,  
 १८; बौधौ; अधावन् वाधुधौ-  
 ४, ५ : ५; धावेत् माधौ ५,  
 १, ५, ४५; धावेत् काधौ २५,  
 ११, २८; आपधौ; धावेयु: वैधौ-  
 २०, ११ : ९.  
 धावत्- -वत: आपधौ १८, ४, १८;  
 बौधौ; -वत्सु आपधौ १८, ४,  
 १९; हिधौ; -वद्भ्य: बौधौ  
 १४, १० : २१; -वद् ऋप ७०<sup>१</sup>,  
 २८, ५; विध २८, १९; -वन्तम्-  
 ऋधाधौ १२, १६, १; २४, २;  
 हिधौ.  
 धावन्ती- न्ती अम १२, ५,  
 (३)<sup>१</sup> न्त्य: हिधौ १४, ४, ३.  
 धावमा(न>)ना- -नाम् वाधुधौ  
 ३, १७ : २.  
 धावयत्- -यत: वाधुधौ ३, ६९ : ३.  
 ✓धाव् पापा. भ्वा. उभ. शुद्धी,  
 धावेत् आपधौ १०, ५, १४; २०,  
 १, ११, बौधौ; धावत: काधौ ५,  
 ५, ३१; धावेत् पाग २, ६, १७.  
 धावयत: बौधौ ८, २० : १९;  
 बौध १, २, २३; धावयेत् वाध-  
 ५, ७; विध ७१, ३९.  
 धावन- -नाम् वैध ३, ३, ११.  
 धावनि- -नि: माग २, १३, ९<sup>१</sup>.  
 धावयित्वा बौध १, ८, १०; वैध २,  
 १३, १.  
 धाव्य बौधौ १५, २ : १८.  
 धौत्- -त्तम् काधौ ७, ९, ४; वाधुधौ-

a) कतकार- इत्यद्वोत्तरागः । b) व्यर. । व्यु. ? < धरण- इति पागम. । c) वैप १ द. ।  
 d) पागे. वैप १. १७१९ d द. । e) या इति पाठः इयनि. क्षोषः । f) परस्परं पागे. । g) = इष्टकान्विशेष- ।  
 h) वा ७, ३, ७८ परासुहः द. । i) इभिव इति पाठः इयनि. क्षोषः (द. धौ १२, ७, ७) । j) = वही-देवी- । कर्तृ-  
 ऋभिः प्र. वसं. (पाउ २, १०२) ।



-प्राथम्य आपथी १३<sup>a</sup>, १७, १८;  
२०, ११; वीथी ८, १७: १७<sup>b</sup>;  
माथी २<sup>a</sup>, ५, ४, १०: ३१;  
वैथी १६<sup>a</sup>, २२: २; २६: ५;  
हिथी ९<sup>a</sup>, ४, ५५; ५, ३८;  
जैथी २०, १०; द्राथी ६, ३,  
२४; लाथी २, ११, १७<sup>b</sup>; -जो  
द्राथी १, २, ४.

घोत-पाद<sup>c</sup> -इ: वेष्ट २, १६: २.  
घोत-भक्ष -क्षम् शंघ ४०४.  
१घोत-वस्त्र -स्त्रेज वैध २,  
१३, ४.  
२घोत-वस्त्र<sup>c</sup> - > °स्त्र-वत-  
वारिन् -रिणौ वेष्ट ३, ८: १.  
घोत-वासल -ससी विघ ६४,  
१४.

-घावार्णि<sup>a</sup> -णि: वीथीय ४२: २.  
-घासस्- पाठ ४, २२१.  
-घाव्य ✓घाव् शुद्धी द.  
-घासि<sup>a</sup> -सि: अप ४८, ८८; निघ  
२, ७; -से: माथी ४, ६, ३;  
वाथी ५, ९, ६.

✓घि पाथा. तुदा. पर. पारणे.  
✓घि<sup>a</sup>, धिनोति वाधूथी ३, ३९: ६;  
तु १३, ३; अप ४८, २०<sup>f</sup>;  
या ३, ९; ऋथिनोत् आपथी ४,  
८, ३; माथी; ऋथिनुहि वीथी  
१, ७, ११<sup>f</sup>; माथी १, २, २,  
२८; ऋथिनोत् आपथी ४,  
८, ३; माथी ४, १२, २; हिथी  
६, २, १९.

घि<sup>a</sup> - > धि-कार -र: माथि ५०.  
घि-पूर्व -वे तैत्रा ६, ११.  
घिक्<sup>b</sup> वाथी ३, २, ५, ३२<sup>f</sup>; द्राथी  
१२, ३, १०<sup>f</sup>; लाथी ४, ३,  
११<sup>f</sup>; पाप १, ४, ५७; पावा  
२, २, २.

✓घिद् पाथा. भ्वा. भ्रात. संदीपन-  
कृत्तेशनजीवनेषु.  
✓घिन्त्<sup>a</sup> पाथा. भ्वा. पर. प्रीणने.  
घियं-धा-, घियतान-, ✓घियाय,  
घियावसु- ✓धी द.  
✓घिप्<sup>a</sup> पाथा. तु. पर. वन्दे.

घिपणा<sup>a</sup> - पाठ २, ८२<sup>f</sup>; -णा शंथी  
५, ९, १६; ८, ११, १; काथी;  
माथी ६, १, २, १७<sup>f</sup>; वाथी २,  
१, १, ४३<sup>f</sup>; या ८, ३६<sup>f</sup>; -णा:  
आथी ४, ६, ३; कथी; -णाम्  
आथी ७, ७, २; शंथी १०, ४,  
१५; -णाया: माथी २, ४, ३,  
२९; वैताथी १६, १७; -णे  
जैथी ९: १२; निघ ३, ३०;  
-०णे आपथी १२, १०, १; वीथी.

घिपणा-भव -व: या ८, ३.  
घिण्य<sup>b</sup> -य: वीथी १४, ३: ७;  
वाधूथी; -यम् आपथी ११,  
२१, ३५; १२, २६, १××;  
वीथी; -या: आपथी १७, २१,  
५; वीथी; -यात् वीथी ७, ८:  
२६××; हिथी २३, ३, ११;  
-याम् आपथी ११, १०, १६;  
१४, १××; वीथी; -यानाम्

आपथी २२, १६, ३; वीथी; हिथी  
१७, ६, ३१<sup>f</sup>; -यात: हिट १,  
१७, ४<sup>०</sup>; -ये वीथी १०, ५५×;  
वैथी १९, ६: १३८; -येभ्य:  
आपथी ११, ९, ८; वीथी; -येषु  
आपथी १७, २१, ४; वीथी;  
-यै: वीथी १९, ७: २६<sup>f</sup>.  
धिण्य-निवपन -नात् आपथी  
१७, २०, १९; वैथी १९, ६:  
१३६.

धिण्य-वत् -वन्त: वीथी ७,  
११: २२; २५, १९: ९; वाधूथी  
४, ६२: १.  
धिण्य-विहरण -णत् हिथी  
९, ३, ३७.  
धिण्य-व्याघारण-संपाठ-  
-तात् वीथी २५, १९: १; २;  
-तेन हिथी ९, ४, १८<sup>०</sup>.

घि<sup>a</sup> घ्रा (<स्था) > धि-द्वि-  
-त्तम् विघ ९७, २०<sup>f</sup>.

घिष्ण<sup>a</sup> - ण्य: या ८, ३.  
घिष्णी(य<)या<sup>a</sup> - या: कथी  
१७, ७, २७.

धिण्य- प्रत्. धिपणा- द.  
धिण्य, ण्या<sup>a</sup> - पाठ ४, १०७; -०ण्य  
कना ४, ५<sup>f</sup>; -ण्य: द्राथी ५,  
३, ९; निस् १, ११: १४; अप  
५८<sup>f</sup>, ३, ९; या ८, ३६<sup>f</sup>;  
-ण्यम् शंथी ५, १४, ४; १५,  
१०××; माथी; -ण्यस्य आथी  
४, ११, ३; ५, ७, १××; शंथी

a) पामे. वैप १, १७२० ८ द.। b) धीव इति पाठः १ यनि. शोषः (तु. द्राथी.)। c) विप.।  
पस.। d) ऋषि-विशेष-। व्यु. ३। e) वैप १ द.। f) पामे. वैप १, १७२० १ द.। g) = [कार-सुक्त-]  
१७-। h) अण्य.। व्यु. ३। i) या ११, ४२ या ३, १, ८० परावृष्टः द.। j) = ✓घा इति या ८, ३।  
k) पामे. वैप १, १७२१ १ द.। l) पामे. वैप १, १७२१ ० द.। m) = धिण्य-। n) ऋषि इति पाठः १।  
यनि. शोषः (तु. आपथी.)। o) पामे. वैप १, १७२९ ८ द.। p) सत्र. धिण्यण्या <> धिण्यण्या <>  
आपथी १३, १४, ८ विहितः पामे.। q) वैप. < ऋषिः। r) सत्र. शी १३, १७ विहितम् इति पामे.। v  
s) = धिण्य-। व्यु. ३। t) तत्त्वेदनीयस् ष > ईयः प्र. (वेतु. विवाधत् < धिण्य- इति)।

-१००ष्या शुभ्रा ४, ३४<sup>३</sup>;  
 -ष्याः आध्री ५, ३, २६; वैताध्री  
 १८, ४; अर्ध ५८<sup>३</sup>, १, ८; ४,  
 १८; वीशुः -ष्यात् आपध्री  
 १२, १४, १३; वीध्री १२, ६;  
 ११; वाध्री २, ३, ४, २१; या ८,  
 ३; -ष्यात् आध्री ५, ३,  
 १३××; शाध्री; -ष्यानाम्  
 आध्री ५, ३, २२; अर्ध; चाद्य २:  
 १०<sup>३</sup>, -१०ष्यासः<sup>३</sup> शाध्री ८, १०,  
 १; अर्ध ३, ६, ८; मर्ध १, ३, १;  
 -दष्ये दाध्री ७, ७, ५, काठध्री;  
 -ष्येभ्यः लाध्री १०, १५, १२;  
 वैताध्री १८, ११; -ष्येषु काध्री  
 २, ७, ५, १०, ६, १४; काठध्री;  
 -ष्यो आध्री ४, ११, ३; वाध्री  
 ६, १३, ७.  
 चिन्त्य-स्त्र-वर्जम् वाडध्री १०२.  
 चिन्त्य-देश- -ते आध्री ५, ७, १.  
 चिन्त्य-नाम्न- -मानि शुभ्र १,  
 २८१  
 चिन्त्य-निधान- -नात् काध्री १०,  
 १, २५.  
 चिन्त्य-निवपन- -नात् माध्री ६,  
 ३, ६, १  
 चिन्त्य-वत् काध्री १२, १, २५.  
 चिन्त्य-वत् -वताम् आध्री ५, १३,  
 ६, शाध्री ६, १३, ८; -वन्त-  
 वैताध्री १८, १०; -वान् वैताध्री  
 २१, १५.  
 चिन्त्य-विहरण- -णात् दाध्री ४,  
 १, १५; लाध्री २, २, ३; -णे  
 दाध्री ५, ३, १०; लाध्री २, ७, १.  
 चिन्त्य-व्यापारण- -संपाल- -तेन  
 माध्री २, ५, १, २२<sup>३</sup>.

चिन्त्य-होम- -मात् वैताध्री २३,  
 ३.  
 चिन्त्या(न्य-अ)न्त- -न्ते वैताध्री  
 २३, ५.  
 चिन्त्या(न्य-अ)भ्यवाय- -यः  
 काध्री ८, ७, ११.  
 चिन्त्यो(न्य-उ) परब-स्त्र-सदो-  
 हविर्धान- -नेभ्यः आपध्री १४,  
 २३, ११.  
 चिन्त्यो(न्य-उ)पस्थान- -न्म्  
 वाध्री १, १, ६, ४.  
 √धी<sup>३</sup> पश्चा. दिवा. आत्म. आधारे.  
 √धी<sup>३</sup>, ऋधोमहे शाध्री १८, १५, ५;  
 वृदे ४, ७२; ऋधोमहे आध्री  
 ६, १४, १६; वाध्री; या ११, ११.  
 अदीधेत् या २, १२<sup>३</sup>; पावा  
 १, १, ६; अदीधेन्त वाध्री ४,  
 २९; २; अदीधेत्पावा १, १, ६;  
 ऋदीधियुः<sup>३</sup> आपम १, १, ६;  
 वीथ १, ६, २६; ४, १, ११.  
 ऋदीधिति- -उयः अर्ध ४८, ८२;  
 ११२; निष १, ५, २, ५, या ५,  
 १०<sup>३</sup>; -तिभिः आध्री ८,  
 १२, ३, २६; शाध्री; या ५, १०<sup>३</sup>;  
 -तिम् या ३, ४<sup>३</sup>.  
 दीधिति-मत् -मन्तम् सांथ ६,  
 ३, ५.  
 दीधेत् -धेत् पावा १, १, ६.  
 ऋदीध्यान, ना- -नः भासि ४१;  
 -नाः आध्री ८, ११, १; -नाम्  
 आपम १, ११, २; कर्ध ३०, ३;  
 मर्ध १, १४, १६; वाथ १६, १.  
 ऋधियसान<sup>३</sup> -नस्य आपम १, १, १;  
 वीथ १, १, १४.  
 √धियाय<sup>३</sup>, धियायते ऋधा ७,  
 २३<sup>३</sup>.

धी<sup>३</sup> - ऋधियः आध्री ५, १२, १, २,-  
 ११, १८; वाध्री; माध्री ५, २, १४,  
 १०<sup>३</sup>; या ११, २०<sup>३</sup>; चिन्त्य-  
 आध्री ३, ७, १४×××; शाध्री;  
 या ८, ७; १२, ३×<sup>३</sup>; धियम्-  
 ऽधियम् या १२, १८<sup>३</sup>; ऋधिया  
 आध्री २, १७, ३××; शाध्री;  
 धियाऽधिया वाध्री ४, १९ :-  
 ३८<sup>३</sup>; ऋधिये अर्ध २, ५;-  
 अर्ध ६, ४१; ऋधोः आपध्री ४,-  
 १०, ४; वीध्री; ऋधोभिः हिध्री  
 ११, ६, १९; या ८, ६; १२, ३०.  
 धिय-धा<sup>३</sup> -धाः या ८, ७<sup>३</sup>.  
 धिया-वसु<sup>३</sup> -सुः या ११,-  
 २६<sup>३</sup>.  
 धी-जवन<sup>३</sup> -नः श्रुपा २, ४१<sup>३</sup>.  
 धी-धृति<sup>३</sup> -तिम् कर्ध २, ४,-  
 १०.  
 धी-मत् -मतः काशु ७, ३९;-  
 -मत्त अर्ध २२, १, २; १०, ४;-  
 वीध; -मत्ताम् दंवि १, २; -मते  
 पासि ३१; -मान् अर्ध ७०, १, ६;-  
 या ३, १२<sup>३</sup>.  
 धीर<sup>३</sup> - पाठ २, २४; -ऋर-  
 आध्री १, ३, २४; वाध्री १, ६, ३;-  
 आपध्री; या ३, १२<sup>३</sup>; -ऋत्  
 आपध्री १०, ३१, ६; माध्री १०,-  
 २२, ४; हिध्री ७, ३, ५६; -ऋरा  
 शाध्री १२, १०, ८; ऋध २, ७,-  
 ८६; वृदे ६, १५; -ऋराः हिध्री  
 १४, ४, ३८; अर्ध ११, ९; अर्ध  
 ३ः ४९; या ४, १०<sup>३</sup>; १२, ३२;-  
 -राणाम् वाध्री १२, २०, ४<sup>३</sup>;  
 -ऋरासः वीध्री १, ११ : ३६;-

a) = उल्ब-विकार-। b) = ऋधिय-विशेष- (बाहिरस- )। c) पाभि. वैष १, १०२२ C, ८ द.। d) पाभे. इ ११४० P द.। e) वैष १ द.। f) पाभे. वैष १, १०२२ M द.। g) पाभे. वैष १, १०२३ M द.। h) मत्ते. अ. (द. धी<sup>३</sup> इति जीस; वैदु. संस्कर्तुंरुदासः प.व. इति)।

वैताथ्री १०, १७; पायु.  
पैयं- -यं शैशि २१२;  
याशि २, ८३.

पैयं-कार्यं- -याणि वृदे  
४, १३४.

धी-सादि (न>) नी -, धी-  
सानि(न>)नी- -नी या ८, ३.

†१धीवत- -नम् आपथी १३, २१,  
३; द्विथी ९, ५, ४३.

†१धीवति<sup>१</sup>- -तयः अप ४८, ८२<sup>०</sup>; निघ  
२, ५<sup>०</sup>; -तिः आपथी ३, ११, २;

भाथी; या १०, ४१<sup>०</sup>; -तिनिः  
आथी ८, १२, ५४४; आपथी;

वैताथ्री ३०, १७<sup>०</sup>; या २, २४;  
११, १६; १४, २१<sup>१</sup>; -†तिम्

निम् ३, ९ : २०; या १४, १४;  
-†ती शीथी १५, ३, ७; कौस्;

धीवत्<sup>२</sup>- पाठ ४, ११५.  
पैवाय- पा ६, ४, १७४.

✓घी (पाने), शिष्येण हिय १,  
१७, ५१<sup>०</sup>.

२धीवत- ✓पे द.  
ईधीतकालान्तरे वैथी २०, ४ : १.

धीर- ✓धी द.  
धीवर<sup>३</sup>- पाठ ३, १; -राः वृदे ६, ८६;  
-०राः वृदे ६, ९०.

धीवरी<sup>४</sup>- -री पावा ६, ४, ६६.

✓घु, घू<sup>५</sup> पाषा. स्वा. कया. चुरा. उभ.  
कम्पने; गुदा. पर. विघ्नने,  
धुनुते द्विथी १६, ३, १९<sup>६</sup>;

धूनेति वीथी ९, ८ : २; वैथी

१५, १० : ४; द्विथी २४, ३, ४;  
धुन्वति वाधुथी ३, ९० : १;

धुन्वति आथी १०, ८, ६; धूनुष  
द्विथी २२, ३, १९<sup>१</sup>; धूनुष्व

वाधुथी ४, ५९ : २-५<sup>१</sup>;  
धूनवामद्वै वाधुथी ४, ५९ : १<sup>१</sup>;

अधुनुत वाधुथी ४, ५९ : ३, ५;  
धुन्वीत वाधुथी ३, ९१ : १;

धुनुयुः आमिष्ट ३, ८, १ : १<sup>३</sup>;  
२<sup>३</sup>; वीवि १, १४ : १<sup>३</sup>; २<sup>३</sup>;

धुनुयुः अत्राय २, ९.  
धुवति द्विथी १४ : १६; १७;

धुवीत वाधुथी ३, ९१ : ४.  
धुवते अप ७०<sup>३</sup>, २, ५.

†धुविध्वत्<sup>६</sup>- -ध्वतः आपथी १६,  
११, १३; द्विथी ११, ४, १२; पा

७, ४, ६५.  
धवन- -नेन वीवि २, ३, ५<sup>१</sup>.

धवनि<sup>७</sup>- -नीनाम् आपथी ८, ७,  
१०<sup>६</sup>.

धवित<sup>८</sup>- पा ३, २, १८४; -त्रम्  
वीथी ९, १५ : २९; -त्राणि

काथी २६, २, २०; ७, २३;  
आपथी; -त्रे आपथी १५, १५,  
१; वीथी; -त्रैः काथी २६, ४, २.

धवित्र-रूढ- -श्टाः माथी ४,  
२, २<sup>१</sup>; -श्टान् वीथी ९, १५ :  
२०.

धविष्यत्<sup>९</sup>- -ष्यन्तः द्विथी १४, ३;  
६.

†धुन->†धुनेति<sup>१०</sup>- -तयः आथी

९, ५, ५.  
धुनि<sup>११</sup>- पाठमो २, १, २१०; -†नय

अप ४८, ७६<sup>०</sup>; निघ १, १३<sup>०</sup>  
-†निः<sup>१२</sup> वीथी ९, १८ : ४; ५;

वैथी १२, ६ : १०७; अप ४८,  
८३<sup>०</sup>; वृदे ४, ६७<sup>०</sup>; या ५,  
१२<sup>०</sup>; -†निम् आथी ९, ८,  
४<sup>०</sup>; या २०, ३२.

धुन्वत्<sup>१३</sup>- -न्वन् अप २७, १, ४;  
-न्वन्तः माथी २, २, ४, १२.

धुन्वान- -नः वीथी ७, ८ : ४.  
धुवन- पाठ २, ८०; -नम् कौष्ट ३,  
११, २९<sup>०</sup>; चांष्ट ४, १२, ४९<sup>०</sup>;

-नेन आमिष्ट ३, ७, ३ : ३२<sup>१</sup>.  
धुवान- -नः वीथी १४, ५ : ४२.

धुविष्यत्<sup>१४</sup>- -ष्यन्तः काथी २१, ३,  
६.

धूक, का- पाठ ३, ४७; पाठमो २,  
३, ३.

धूत- -तः बाध २६, १३; -†तस्य  
आथी ६, ४, १०; १३, ११<sup>१</sup>;

शाथी ८, ८, ६<sup>१</sup>; ९, ४<sup>१</sup>; वैताथ्री  
२६, ७; अत्र २०, ३२.

धूया वाथी ३, २, १, ३६.  
धूनन- -नम् वीथी २०, ३ : २९.

धून्वत्<sup>१५</sup>- -न्वते गौध २६, १२<sup>१</sup>;  
-न्वन् आपथी १२, १७, ४;

वैथी; -न्वन्तः आथी ५, १२,  
१२; शाथी.

†धून्वत्<sup>१६</sup>- -ने द्विथी ४ : ६.  
धूवान- -नाः काथी १२, २, २२.

a) वैप १ द. । b) = अहुलि- । c) = रगुतिभिः (तु. C.) । गीतिविकारतया निर्देशः । d) पाठः ?  
जघासीर इति Bōbt [ZDMG ५२, ८४] । e) = कैवर्त- । व्यु. ? । f) अर्थः व्यु. च ? < ✓व्यै इति पाम.  
पाठ ४, ११५ च, < ✓घा इति पाठवृ ३, १, < धीवर- इति M.W. । g) या ५, १२ या ७, २, ४४; ७२; ८, २, ४४  
पावा ७, ३, ३७ पराण्टः द. । h) पामि. घृ ५३२ ह द. । i) सप्र. घं < > घु इति पामि. । j) = धमनि- ।  
k) पामि. घृ १३३९ g द. । l) = व्यजन- । m) = नदी- । n) पामि. वैप १, १६९८ O द. ।  
o) = स्तेन- । p) = अमुर- । q) = क्लह- । r) पामि. वैप १, १७२० C द. । s) माप. ४ .  
सिन्धात- [ तु. C. ] ।

धुनूर- पाठमो २,३,५९.  
 धुनूर- पाठमो २,१,५०.  
 धुनूर- पाठमो २,१,३०३; पा ३, २,  
 १७७; पावाग ८,२,७०<sup>b</sup>; धुनूरः  
 आपथो १२, ६, ३, माथो २,  
 ३, २, २२; द्विथो ८, १, ७६;  
 लाथो ७, १२, १०; काथ ७३,  
 ५; वाथ १, २३; अथ ७८,  
 ८२<sup>d</sup>; निथ २, ५<sup>d</sup>; या ३, १०<sup>d</sup>;  
 धुनूर वीथो १, ४ : २८; माथो,  
 धुनूर लाथो ७, ११, २१; १३,  
 १; निम् २, ८ : १०; धुरि आथो  
 ७, १२, ३१; काथो; या १४,  
 २५<sup>f</sup>; धुरोः<sup>g</sup> माथो ३, ७, ५;  
 वाथो १, ३, ६, २३<sup>f</sup>; द्विथो  
 २, ५, ४, धुरो आपथो १०,  
 २८, १; वीथो; धुनूर काथो २,  
 ३, १३, आपथो १, १७, ६, ४, ४,  
 ४<sup>h</sup>; वीथो; (माथो ४, ५, ५),  
 द्विथो ६, १, ५१<sup>h</sup>; या ३, १०<sup>h</sup>.  
 धुभिः आपथो १२, ६, ३<sup>h</sup>;  
 माथो २, ३, २, २३<sup>h</sup>, द्विथो ८,  
 १, ७९<sup>h</sup>; काथ<sup>h</sup> ७७, १३; ७२,  
 ५; धुनूर आथो ६, २, ५, शोथो.  
 शौर्य- पा ४, ४, ७७.  
 शौर्य-साम्या- न्यया वीथो  
 २०, २६ : ८.  
 धुनूर-धर- नः अथ ७६, ८, २; -नम्  
 निथ १२, १०.  
 धुनूर- पा ४, ४, ७७, -यं: पावा ८,

२, २२; -यंम् पाथ ३, १४, ७;  
 -यंयम् अथ १, ४, १०; -यं मीम्  
 १०, ५, १०<sup>k</sup>; -यंयु काथो ९,  
 १४, ५; मीम् १०, ५, २४; -यौ  
 आथथो १३, ८, ४×४; वीथो.  
 धुनूर-वाह-प्रवृत्ति- -चौ आपथ  
 १, २६, २; द्विथ १, ७, १३.  
 धुनूर-पति-, धुनूर-धुनूर- पावा ८, २,  
 ७०.  
 धुनूर-प्रवृत्ति- -तयः वीथो २५,  
 ३१ : २.  
 धुनूर-अभिमर्शन- -नम् काथो २,  
 ३, १३.  
 धुनूर-ईया (पा-भा) रोहण- -गानि  
 काथो २, ३, २१.  
 धुनूर-गृहीत- -तम् काथो १४, ३,  
 २; वीथो.  
 धुनूर-पति-, धुनूर-धुनूर- पावा ८, २,  
 ७०.  
 धुनूर- > धुनूर-वाहिर- -दिनाम्  
 वाथ २९, १८.  
 धुनूर-योजन- -नम् द्विथो १४, ३,  
 ४१.  
 धुनूर-वाह- -वाहो माथो २, १,  
 ४, २७<sup>o</sup>.  
 धुनूर-वद- -वदम् आपथो ५,  
 ६, ३; द्विथो ३, २, ५६; अथा  
 ४, ३९; उम् ६, १.  
 धुनूर-वाह- -वाहो आपथो  
 १०, २८, १; वीथो ६, १५ :

२७; माथो १०, १९, ७; वीथो  
 १२, १९ : २५; द्विथो ७, ३, ६;  
 शुभ्रा ३, ४१; १२२; तैत्रा ५,  
 १०.  
 धुरि- -रिम् शंथ ११६ : ६२<sup>q</sup>.  
 धुरिमेजय- -यः वीथ ३, १०, ६.  
 ✓धुनूर ✓धुनूर द.  
 धुनूर, का- पाठना २, ३६; पाग ४,  
 १, ९६<sup>r</sup>; २, ८०<sup>r</sup>; ५, २, १००<sup>r</sup>;  
 पावा ७, ३, ४५<sup>r</sup>.  
 धीयकि- पा ४, १, ९६.  
 धुनूर-वत्- पा ५, २, १००.  
 धुनूरि- पा ४, २, ८०.  
 धुनूरि- पा ५, २, १००.  
 धुनूर-धुनूर- धुनूरि- ✓धु  
 द.  
 धुनूर- पाठ ४, ९०.  
 ✓धु, धुनूर, का- ✓धु द.  
 धुनूर- (> धीकरीय- पा.) पाग  
 ४, २, ८०<sup>s</sup>.  
 धुनूर- धुनूर- धुनूर- धुनूर-  
 धुनूर- ✓धु द.  
 ✓धुनूर<sup>u</sup> पावा. अ. ५२. संतापे; सुरा-  
 पर. भाषायाम्, धुनूरि काथो  
 १६, ४, ८; २६, १, २४; आपथो;  
 धुनूर वीथो १०, ६ : ५<sup>u</sup>;  
 धुनूर धुनूर आपथो १६, ५, ५;  
 वीथो; धुनूर वीथो २२, २ :  
 ११; वैथ ३, १४ : ५; अथ ३६,  
 ८, ३.

a) अथा. १ वैथ १ द. 1 b) धु. पाग. पावा. 1 c) मीतिविचारतया निर्देशः। d) = अतुलि- 1 वैथ १, १०२९ b  
 अपि द. 1 e) अथ. आपथो ३, ८, ४ धुनूरुः इति पाठे. 1 f) वा इति पाठः 1 गनि. शोथः (धु. माथो.) 1 g) धुनूर  
 इति पाठः 1 गनि. शोथः (धु. माथो ४, ५, ५०. व) 1 h) धुनूर इति पाठः 1 गनि. शोथः (धु. माथो. प्रवृ.) 1 i) = मन्त्र-  
 विशेष- 1 j) विथ. नाथ. (पाथ १, ३, १०; ३, १४, ७ प्रवृ.) 1 वैथ १ द. 1 k) = धुनूरि- 1 l) वाह- = भार- 1  
 m) मन्त्राणां द्वय- 1 n) = धुनूर- 1 o) पाठे. वैथ १, १०२९ म द. 1 p) वैथ १ द. 1 q) = विश्वेदेवाना-  
 न्ययान- 1 r) धुभिः इति शक. (धु. विश्वेदेव- 1 s) पाठः 1 अथ. तां २५, १५, ३ वीथो १७, १८ : ६-७ अथ्य-  
 धीमेजयः इति पाठे. 1 t) धुनूर. 1 u) = धुनूर-विशेष- इति पाठे. 1 v) धु १५८ म द. 1 w) धु-  
 पाधि. पागम. व 1 x) धु. पागम. 1 y) पा ३, १, २८ परावृत्तः 1

धूपन- नाव अण ५२, १५, २; -ने  
 वीथी २२, २: १०.  
 धूपन-काल- छे भाथी ११,  
 ३, १०.  
 धूपन-वचन- ने आपथी १६,  
 ५, ७.  
 धूपन-अपण- ने काथी १६,  
 ४, १३.  
 धूपविला वैण्ड ३, १४: २.  
 धूपायत्- -यत्<sup>३</sup> आपथी १, ८, ७;  
 ८, १७, ८४; माथी; -यत्  
 आपथी ६, ९, ११.  
 धूपायन्ती- -न्याम् आपथी ६,  
 १०, ३१<sup>७</sup>, द्विधी ३, ७, ६५.  
 धूपायमान- -नम् वाथी १, ७, ४,  
 ६१.  
 धूपायिव- -तम् वीथी १८, १०:  
 १७; १७: १७.  
 धूपि(त>)वा- -ताम् वैथी १८,  
 १: ७६.  
 धूपमान- -ने काथी ४, १५, १५.  
 धूप<sup>७</sup>- -य: अण २०, ६, ८; -यम्  
 आपथि २, ४, १०: ११; वीथि;  
 -वेन आप ४, ३, ३; -वे: अण  
 १९<sup>३</sup>, ३, १४४.  
 धूप-नाम्ध- -न्याम् अण १, ३१, ५.  
 धूप-नाम्ध-माख्या (व्य-आ) दुर्दा-  
 प्रदीपा(प-अ)ज्जना(न-आ)दि-  
 -दीनि शंघ २१७.  
 धूप-नृण<sup>७</sup>- -नै: आपथी १५, १५,  
 १; माथी ११, १५, २५; द्विधी  
 २४, ६, १२.  
 धूप-दीप-वर्जम् आपथि ३, ११.

३: १.  
 धूप-दीपा(प-आ)दि- -दिना वैण्ड  
 ५, ६: १८.  
 धूप-नृण- -नै: अण १, १, ३.  
 धूप-वत्- -वन्तम् वीथि १, ६, २२.  
 धूप-शेष- -यम् अण ६, १, १२.  
 धूपा (प-अ)र्थ- -र्थे शंघ १९७;  
 विध ६६, १०.  
 धूम<sup>७</sup>- पाउ १, १४५; पाण ३, १,  
 १३<sup>१</sup>; ४, २, ४९; ८०<sup>१</sup>; ६, ३,  
 १३०; ८, ३, १; -स: काथी ४,  
 ९, १४; आपथी; वैण्ड ५, १:  
 १११<sup>७</sup>; द्विपि ७: ४<sup>१</sup>; -सम्  
 आपथी ९, २०, १०; १३, २४,  
 १७४; वीथी; या १४, ८;  
 -सस्य अण ५०, १, ३; -मा:  
 अण ७०<sup>३</sup>, २०, ३; -मात् या  
 १४, ८; -नै: आपथी ५, १०,  
 ११; माथी; -मेन वाधुधी २,  
 १०: १०; ऋआण्ड ४, ४, ७;  
 ८; या १२, २६.  
 धौमीय- वा ४, ३, ८०.  
 धूम-कुर्या-माभिष्ट-नक्त-पीठा (त-  
 अ)सिता(त-आ)ठवि- -वि:  
 अण ६३, २, ५.  
 धूम-केतु<sup>७</sup>- पाउठ १, ७४; -तव:  
 अण ५२, ३, ३; शुभ ३, १६१<sup>१</sup>;  
 -तु: वीथि १२७, १<sup>१</sup>; अण ५२,  
 १२, १<sup>१</sup>; या ६, ४<sup>१</sup>; -तुम्  
 शंघ ११६: ६०<sup>१</sup>; -तुतो  
 दाथी १, ४, ५; लाथी १, ४, ३;  
 -तो: अण ५२, ६, १<sup>१</sup>; -ती  
 वीथि २३, ३४<sup>१</sup>.

धूम-गन्ध<sup>७</sup>- -न्या: वीथी १७  
 १६.  
 धूम-तप्त(ः) आण्ड ४, ८, ४२.  
 धूम-धूआ(स-य)कण- -गेन अण  
 ५८<sup>३</sup>, ३, ५.  
 धूम-प्रवर्तन- -नम् अण ६४, ३, ९.  
 धूम-प्राप्त- -सम् काथी २२, ६,  
 १६.  
 धूम-सय- वा ८, २, ९.  
 धूम-रजउडकप्रादुर्भावगमन- -नेपु  
 अण ७२, ३, ९.  
 धूम-राजी-विभ- -मेन अण ५८<sup>१</sup>,  
 ३, १०.  
 धूम-उडमणि- -णव: वीथी १  
 ४१: ९.  
 धूम-वर्ण- -णै: अण ५३, ५, २.  
 धूम-व्याकुल-रदिभ<sup>७</sup>- -इमय: अण  
 ५२, ३, ३.  
 धूम-द्विचि- -वि: अण २३, १२, २.  
 धूमा(म-अ)गिन-नवध- -जाति  
 शंघ १६९.  
 धूमा(म-अ)न्यका(र>)जा<sup>७</sup>- -रा:  
 अण ६४, ३, ७.  
 ✓धूमाय>धूमायत्- -यत् माथी  
 ८, २१, ५<sup>१</sup>.  
 धूम(म>)ना-व(त>)वी- पा ६,  
 ३, १२०.  
 धूमा(म-आ)मिन्<sup>७</sup>- -सिन: वैण्ड  
 १, ८, १.  
 ✓धूमि, धूमवेणु: अण ७१, ११, ५.  
 धूमा- पा ४, २, ४९.  
 धूम, आ<sup>७</sup>- -अ: काथी १९, ३,  
 २; -अम् आपथी १९, २, १:

a) सपा. धूमायत्<>धूमायत् इति पाठे । b) 'व्यत्याम् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. द्विथी.) ।  
 c) नाय. । वैण्ड १, १७२: ७ द. । d) मलो. कठ. । e) वैण्ड १ द. । f) तु. पाणम. ।  
 g) अर्थः ? । h) धूमः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. गी ८, २५; ०. च.) । i) यथा. । j) = उरुपात-विशेष- ।  
 k) = प्रह-विशेष- । l) = एकादशहाराऽन्यतम- । m) = ऋषि-विशेष- । वस. । n) बहु. <धौमगान्धि- ।  
 o) = धूमवेणु-विशेष- । p) विप. । वस. । q) = दानप्रस्थ-विशेष- । उच. ।

वीथी-; -आ अय २१, ६, ३;  
-ऋः आ० २०, १४, ६;  
वाथी ३, ४, ३, २१; -ऋः  
आ० २०, १४, १३; हिथी  
१४, ३, १८.

धूम-जानु- कि ७२.  
धूम-सोहित- -तः आ० २०,  
१४, १; वीथी.  
धूम-स-नृकात- -सात्  
आ० २०, १४, १३.  
धूम-स-आमा-> -म-अ  
५०, ६, ३.

धूम-> धूमक-पा.) पाग ४, २,  
१३०.

धूम- पाग ४, १, १०५, ११०.

धोमायन- पा ४, १, ११०.

धोम्य- पा ४, १, १०५, -म्यस्य  
माथ २, ६ : १५, -म्याः वीथीप्र  
४१ : २

धोम्या(म्य-का)भिवेष्य-माठर-  
-साम् हिथी २१, ३, १३.

धूम-दिखा- -आ वाथ १६, १६.

धूम- पाग ४, १, ११०; -आ.  
वीथीप्र ४१ : २

धोमायन- पा ४, १, ११०.

धोमायन- -आः वीथीप्र ४१ : २.

धूर पाथा. दिवा. आत्म. दिवागमो.

धूर-अभिमर्शन- प्र. धूर- ६.

धूर-ति- पाग ६, ३, १०८.

धूर-पति- प्र. धूर- ६.

धूर (<J) धूर पाथा. आ. पर.  
दिवायाम्, धूरवति वीथी १, ४.

२६; ५ : १; अय ४८, १९; निघ  
२, १९; धूरमः वीथी १, ४ :  
२९; ५ : १०; धूरव वीथी १,  
४ : २६; ५ : ९; माथी १,  
१९, ४; निघ ६५, १०.  
धूरवति वीथी १२, २०, २१.

धूर- पाठ ३.८६. पा २, १, ६५;  
पाग २, १, ४०; ४, १, १०५, ५,  
१, १२४; ३३३; ४, ३८; -धूरव  
आ० ६, ११, ३; माथी ६,  
१३, २; माथी १, ६, १, ४१;  
हिथी ३, ७, ८६; -धूरः अय  
२०, ३, २; -धूरम् अय २०, २,  
१-७, ५, ३; ७, ११; -धूर्य अय  
२०, ४, २१.

धूर-पा ५, ४, ३८.

धूर-पा ५, १, १३३.

धूर-पा ४, १, १०५; ५,  
१, १२४.

धूर-कल्प- -ल्पम् अय २०,  
१, १.

धूर-वि- -वि. काथी १०, १, ८;  
आ० १; -धूर वीथी १, ५, २,  
४०.

धूर-व- -वतः वीथी ६, १;  
-धूरव वीथी १, ४ : २६;  
५ : १; माथी १, १९, ४.

धूर-पाठो २, १, २३३.

धूर- (> ०) धूर पा. पाग १, ४,  
११.

धूर, धूर, धूर पाथा. तुदा. पर.  
कान्तिहरणे

धूसर- पाठ ३, ७३.  
धूसी (०) धूर पा. पाग १, ४,  
६१.

धूर पाथा. आत्म. धूरवन्तने,  
उम. धारणे; तुदा. आत्म.  
अवस्थाने, धूरवन् आठ  
४, ८, २७; २८; धूर क्य  
१, ७, ३; नाथि १, ६, १३.  
धूरवते आ० ६, २, १२;  
वाधुथी ४, १०१ : १०; या ४,  
७; धूरवते वीथी १६, १७ : ५;  
धूरि २५४; धूरवते वाधुथी  
३, ७१ : ७, धूरवस्व वीथी  
१०, ९; कौस् ६२, ४१; धूरवते  
वाधुथी ३, ९१ : ६.

धूरवार वीथी ६, २४ : ३५;

८, १४ : १३; धूरि १८ : १८;

धूरवार आथी ४, १२, २;

आ० १; या १०, २२४; २३४;  
धूरि वीथी १८, २९ : ३०;

धूरवर्ध भाति ५४; ११८;  
१२०.

धूरवते माथी २, १३, ५; वीथी;  
या ३, १६; १०, ८; धूरवति  
काथी २, ६, २५x; आ० १;  
या ७, २३x; धूरवतः आ० १  
२०, ३, १८; वीथी १४, ६ : ८;

धूरवति काथी ८, ६, ३३;

आ० १; धूरवति या ११, ३७;

धूरवामसि आथी ५, १९, ५;

वाथी ३, ८, २७; वीथी; धूर-  
वत या ६, ३४; धूरवन् वीथी

a) धूर- धूरान् बभूवन्कातान् इत्यस्य स्थाने अय. मा २४, १८ बभूवः धूरुनीकाताः इति पाठे. ।  
b) वेग १ १०११ c, f d. । c) वेग १, १०११ c d. । d) बभूवन् धूरान्कातान् इत्यस्य स्थाने तत्प.  
मा २४, १८ धूरः बभूवनीकाताः इति पाठे. । e) = अवि-विशेष- । धु. १ । f) अर्थः धु. व १ = नेतन-अय-  
इति DOb. D.W. M.W. । g) धूर- < धूरि- । h) व्यय. (द. पागम.) । i) वि. , नाप. (द- । धु. धूरि- ) ।  
j) पाठे. वेग १, १०११ m d. । k) = अय-विशेष- । l) वेग १ d. । m) अर्थः धु. व १ । n) मा  
३, १; २० पा १, ४, २५, ७, २, ५ पाठमः d. । o) धूरि लेटि प्रपु १ ।

१३, २१ = ९; या ८, ३; धार-  
 वाच्ये वीथी १५, ४ = ५; धार-  
 वाणं नाथ १, २१, ३<sup>२</sup>; विष्ट १,  
 ११ = १२<sup>२</sup>; धारयन्ताम् साधो  
 ८, १०, ११; धारयन्तु आग्रिय  
 ३, ८, २ = ३०; वीथि १, १५ =  
 ३८; कौमु ५५, १७; धारयस्व  
 सु १४, ३; धारय, या आथी  
 ४, १२, २; काथी; या १०,  
 ४०; धारयतम् आपथी ४, ६,  
 ५; माथी ४, ९, ३<sup>१</sup>; द्विथी ६,  
 २, १६<sup>१</sup>; धारयत वीथी २९,  
 ६ = २२<sup>३</sup>; २३<sup>३</sup>; वीष्ट ४,  
 १, ८<sup>१</sup>; धारयागि कौमु ९०,  
 १; १०; धारयाम>मा  
 आपथी ५, १७, ४; द्विथी ३,  
 ४, ४८; सुप्र ३, १०७; धारया-  
 ह्यत् वीथी १०, ३२ = ७४४;  
 माथी; अधारयन्त वा ५, १४;  
 धारयायन् आपथी १, ६, ७;  
 ३, १३, ६; माथी; अधारयम्  
 सु १५, ४; धारयित वीथी ९,  
 १९ = ४२<sup>३</sup>; माथी; आपथ २,  
 १२, ९<sup>३</sup>; धारयेत् काष्ट १,  
 २०; धारयेत् आपथी २४, १४,  
 ९<sup>१</sup>; वैथी; द्विथ २, ४, ४५<sup>३</sup>;  
 धारयेताम् वाष्ट ९, ११<sup>१</sup>;  
 धारयेत्सु कौमु १४७, ८; अप  
 १९, १, ७; धारयेयुः काथी २५,  
 १४, २७; माथी  
 धारयिष्यति माथी १, ३, ५,

१३<sup>१</sup>; वाथी १, ३, ७, १४<sup>१</sup>;  
 अप २०, ७, ६; २२, १०, २;  
 धारयिष्यति विध १, ४७;  
 ६४; १००, १; धारयिष्यत्  
 आपथी १४, २७, ७; द्विथी १५,  
 ७, ८; कौमु ३, २; धारयत्  
 आथी ८, १३, २; आपथी;  
 द्विष्ट>ता ऋषा ७, ३३.  
 धार्यते काथीस ३२ = १५१<sup>३</sup>;  
 माथी; धार्यते द्विथी १, ४, ४२;  
 ३, ६, २८; धार्यते आपथी ६,  
 २८, ८; २४, १, २८; माथी;  
 धार्येत्सु कौमु ११, ३, ३३.  
 धारयिष्येत् वाधुथी ३, १०४ =  
 २; गोष्ट ३, ५ ३०.  
 धार्यि, धार्यति, धार्यि वा ७,  
 ४, ६५.  
 धार, रार्- -रः अा ४३, ५, १६, -रा  
 अप ६४, २, ६; विध १, ६५;  
 -राम् संघ ११६ = ६५; -रे  
 विध १, ३१; ४७; ६३, ५, १३२.  
 धार-तल- -लम् अप ५८<sup>३</sup>, १,  
 १०; २, ८; ३, ३.  
 धार(रा-अ)पिन- -यान् संघ  
 ११६ = २८.  
 धार-शय- -यः वैध ३, ५, ७.  
 धार-सुत- -तस्य अप ५३,  
 ४, १.  
 धारियस्- -यः द्विष्ट १, ४, ६<sup>१</sup>;  
 -यान् आपथी ४, ६, ३; माथी  
 ४, ९, १; द्विथी ६, २, १२.

धरम्- -णम् शेष ११६ = ५२<sup>३</sup>;  
 विध ४, १२<sup>१</sup>.  
 धरणी- -णी आपथी ४, ७,  
 २; माथी ४, १०, ३; वैथी ५,  
 ७ = १२; द्विथी ६, २, १७; अप  
 ५, २, ५७<sup>३</sup>; -णीम् अप १२<sup>३</sup>,  
 ४, ५<sup>३</sup>; -ण्याम् वैष्ट ४, २, ७<sup>३</sup>.  
 धरणी-जत- -ताः अप ५५,  
 १, २.  
 धरणी-तल- -ले आ ५८<sup>३</sup>,  
 ३, १.  
 धरणि- पाठ २, १०२.  
 धरि(तु>)थी- -थी आपथी  
 १४, ३३, २; द्विथी १५, ८,  
 ३५<sup>३</sup>; अप्राय ६, १.  
 धरिमन्- पाठ ४, १४८.  
 धरिम-मेघ- -यानाम् विध ५,  
 १३.  
 धरिमन्- पाठना ४, १६१;  
 -नणि आथी ८, १, ९; साथी  
 १८, २३, १७.  
 धरम, गा- पाठभो २, २, १९९;  
 -णः धारयाथी ४, १२, २, ८, १३,  
 २; काथी; वैताथी २६, ११<sup>१</sup>;  
 ऋष २, ५, १५<sup>१</sup>; -धाम्  
 आथी २, १९, ३३; ८, १३,  
 २; साथी; पाष्ट २, २, ११;  
 वाष्ट ५, ९<sup>१</sup>; द्विष्ट १, ४, ६;  
 निच १, १२; -धण आपथी  
 १६, २३, १; वीथी; -धणे  
 आपथी ५, ८, ६; वीथी; -धण्यु-

a) पामि. वैष १, १११० h द्र । b) सप्र. ष्योत <> ष्यत् इति पामि. । c) धारयेत् इति  
 आदित्यदर्शनः, संस्कृतः टि. च । d) पामि. वैष १, ७२५ m द्र. । e) पाठः ई धार्यन्ते इति शोधः ( तु.  
 संस्कृतः टि. ) । f) = भूमि- । g) = वयु-विशेष- । h) = भोम-मह- । i) सप्र. धरीयः <> यलीयः इति  
 पामि. । j) वप्र. । कर्त्राण्येव वयुर् प्र. । k) = महद्व-विशेष- । अयु २१९, ३१ धा इति, धरुमः इति वक्र. ।  
 l) = परिमाण-विशेष- । m) = धरा- । n) वैतु. पाठ ४, १७३ < धरिय- इति । o) ष्री इति पाठः इ यनि.  
 शोधः ( तु. आपथी. ) । p) वैष १ द. । q) पामि. वैष १, १७३४ f द. । r) = ऋषि-विशेष- ।  
 s) ष इति पाठः इ यनि. शोधः [ तु. मूधे., पाष्ट. प्र. च ] ।

बोधी; -आ अय २१, ६, २;  
-ऋः आपथी २०, १४, ६;  
वाथी ३, ४, ३, २१; -ऋः  
आपथी २०, १४, १३<sup>१०</sup>; हिथी  
१४, ३, १८<sup>१०</sup>.

धूम-जानु- कि ७२.  
धूम-नोहित<sup>०</sup>- -तः आपथी  
२०, १४, १; बोधी.

धूम(म-अ)नूकान<sup>०</sup>- -दान्  
आपथी २०, १४, १३<sup>१०</sup>.

धूम(म-आभा>)म- -म. आ  
५०, ६, ३.

दधूम-> धीमङ्-पा. पाग ४, २,  
१२७.

दधूम<sup>०</sup>- पाग ४, १, १०५, ११०.

धीमयन- पा ४, १, ११०.

धीम्य- पा ४, १, १०५; -म्यस्य  
भाए २, ६; १५; -म्याः बोधीप्र  
४१; २

धीम्या(म्य-आ)भिषेच्य-मातर-  
-सगाम् हिथी २१, ३, १३.

धूम-शिखा<sup>०</sup>- -खा वाच १६, १६.

दधूम<sup>०</sup>- पाग ४, १, ११०, -आः<sup>०</sup>  
बोधीप्र ४१; २

धीम्रायण- पा ४, १, ११०.

धीम्रायण- -म्याः बोधीप्र ४१; २.

✓धूर पाधा. दिवा. आत्म. हिंसागत्योः.

धूर-अभिर्मर्शन- प्रथ. धुर-द.

धूर्ते<sup>०</sup>- पाग ६, ३, १०८.

धूर-पति- प्रथ. धुर-द.

✓धू (<धु) धू पाधा. भ्रा. पर.  
हिंसायाम्, धूर्त्वंति बोधी १, ४;

२८; ५; ९; अय ४८, १९; निष  
२, १९; धूर्त्वंतः बोधी १, ४;  
२९; ५; १०; धूर्त्वं बोधी १,  
४ : २८; ५; ९; माथी १,  
१९, ४; विष ६५, १०.  
धूर्त्वंति माथी १२, २०, २५.

धूर्त्वं- पाठ ३, ८६; पा २, १, ६५;

पाग २, १, ४०; ४, १, १०५, ५,

१, १२४, १३३, ४, ३८; -धूर्त्वं

आपथी ६, ११, ३; माथी ६,

१३, २; माथी १, ६, १, ४१;

हिथी ३, ७, ८६; -वंतः अय

२०, ३, २; -वंत् अय २०, २,

१-७, ५, ३, ७, ९५; -तय अय

२०, ४, ३५.

धीर्त्वं-पा ५, ४, ३८.

धीर्त्वं- पा ५, १, १३२.

धीर्त्वं- पा ४, १, १०५; ५,  
१, १२४.

धूर्त्वं-कल्प<sup>०</sup>- -व्यम् अय २०,  
१, १.

धूर्त्वं- -र्त्तः काथी १०, ९, ८;

आपथी; -०र्त्तं काथी १, ५, २,  
४०.

धूर्त्वं- -वंतः वेताथी ६, १;

-वंत्वत् बोधी १, ४ : २८;

५ : ९, माथी १, १९, ४.

धूर्त्वं- पाठो २, १, २३३.

धूर्त्वं (> ०डी) क पा. पाग १, ४,  
६१.

✓धूर्त्वं, धूर्त्वं, धूर्त्वं पाधा. जुता. पर.  
कान्तिहरणे.

धूसर- पाठ ३, ७३.  
धूर्त्वं<sup>०</sup> (०डी) क पा. पाग १, ४,  
६१.

✓धूर्त्वं पाधा. भ्रा. आत्म. अर्ध्वंसने,  
उभ. धारणं; तुदा. आत्म.

अवस्थाने, धरण्यम् भाए  
४, ८, २७; २८; धरेत् कय  
१, ७, ३; नाप्ति १, ६, १३.

धियन्ते आपथी ६, २, १२;  
वाधुथी ४, १०१ : १०; मा ४,  
७; धियन्ते वेथी १६, १७ : ५;

शैथि २५४; धियन्ते<sup>०</sup> वाधुथी  
३, ७१ : ७; धियन्ते वेताथी  
१०, ९; कौम् ६१, ४१; धियन्ते  
वाधुथी ३, ९१ : ६.

धूर्यार बोधी ६, २४ : ३५;  
८, १४ : १३; धिपि १८ : १८;

धूर्यार आपथी ४, १२, २;  
आपथी; या १०, २२८; २३८;

दधिरं बोधी १८, २९ : २०;  
धूर्यार्य भापि ५४; ११८;  
१२०.

धारयते माथी २, १३, ५; वेथी;  
या ३, १६; २७, ८; धारयति  
काथी २, ६, २५x; आपथी;

या ७, २३x; धारयते आपथी  
२०, ३, १८; वेथी १४, ६ : ८;

धारयन्ति काथी ८, ६, ३३;  
आपथी; धारयन्ति या ११, ३७;

धूर्यारयन्ति आपथी ५, १९, ५;  
वाथी ३, ८, २७; बोधी; धार-  
यन् या ६, ३४; धूर्यारयन् बोधी

a) सकृन् धूर्त्वं बह्वन्कानाम् इत्यस्य स्थाने मय. मा २४, १८ बह्वन्ः धूर्त्वंकानाम् इति पाठे. ।  
b) वेप १ १०३१ ८, f. d. । c) वेप १, १०३१ ८ d. । d) बह्वन् धूर्त्वंकानाम् इत्यस्य स्थाने सपा.  
मा २४, १८ धूर्त्वंः बह्वन्कानाम् इति पाठे. । e) = अर्ध्व-विशेष-। धु १ । f) अर्थः धु. व ! = वेतन-द्वय-  
इति Bbh. Bw. Mv. । g) वहु. < धीमि- । h) व्यप. (इ. पागम.) । i) विप., नाप. (इ-। तु. धूर्त्वं-।) ।  
j) पाठे. वेप १, १०३१ ८ d. । k) = अर्ध्व-विशेष-। l) वेप १ d. । m) अर्थः धु. व ! । n) या  
३, ९, २० वा १, ४, ३५, ७, २, ७५ परावृत्तः d. । o) वर्तारि लेटि प्रपु १ ।



१३, २१ : ९; या ८, २; धार-  
यात्वे वीथी १५, ४ : ५; धार-  
यत् १, २१, ३०; जैय १,  
११ : १२<sup>०</sup>; धारयन्ताम् शीथी  
८, १०, ११; धारयन्तु आसिष्ट  
३, ८, २ : ३०; वीथि १, १५ :  
३८; कौम् ५५, १७; धारयस्व  
सु १४, ३; धारय, या आधी  
४, १२, २; काधी; या १०,  
४०; धारयतम् आपधी ४, ९,  
५<sup>१</sup>; माधी ४, ९, ३<sup>३</sup>; हिथी ६,  
२, १६<sup>३</sup>; धारयत वीथी २२,  
६ : २२<sup>३</sup>; २३<sup>३</sup>; गीय ४,  
१, ८<sup>५</sup>; धारयाणि कौम् २०,  
९; १०; धारयाम>मा  
आपधी ५, १७, ४; हिथी ३,  
४, ४८; गुमा ३, १०७; धारया-  
रयत् वीथी १०, ३२ : ७४४;  
माधी; अधारयन्त या ५, १४;  
धारयन्त आपधी १, ६, ७;  
३, १३, ६; माधी; अधारयम्  
सु १५, ४; धारयित वीथी २,  
१९ : ४२<sup>३</sup>; माधी; आरय २,  
१२, १<sup>७</sup>; धारयेत् काय १,  
२०; धारयेत् आपधी २४, १४,  
११; वैथी; हिथि २, ४, ४५<sup>७</sup>;  
धारयेताम् वाय २, ११<sup>१</sup>;  
धारयेत् कौम् १४०, ८; अप  
१२, १, ७; धारयेयुः काधी २५,  
१४, २७; माधी.  
धारयिष्यति माधी १, ३, ५,

१३<sup>१</sup>; माधी १, ३, ७, १४<sup>१</sup>;  
अप २०, ७, ६; २२, १०, २;  
धारयिष्यति विध १, ४७;  
६४; १००, १; धारयित्  
आपधी १४, २७, ७; हिथी १५,  
७, ८; कौम् ३, २; धारयित्  
आधी ८, १३, ३; आपधी;  
विषुत>ता श्रमा ७, ३३.  
धारयेत् काधीसि ३२ : १५<sup>१०</sup>;  
माधी; धारयेत् हिथी १, ४, ४३;  
३, ६, २८; धारयेत् आपधी ६,  
२८, ८; २४, १, २८; माधी;  
धारयेत् गीम् १३, ३, ३३.  
धारयिष्येत् वाधूथी ३, १०४ :  
३; गीय ३, ५ ३०.  
धारयि, धारयि, धारयि पा ७,  
४, ६५.  
धर, रा<sup>१</sup>-रः अर ४३, ५, १<sup>६</sup>, -रा  
अप ६४, २, ६; विध १, ६५;  
-राम् शंघ ११६ : ६५; -० रे  
विध १, ३१; ४७; ६३, ५, १९२.  
धरा-तल-लम् अप ५८<sup>३</sup>, १,  
१०; २, ८; ३, ३.  
धरा(रा-अ)विप-वान् शंघ  
११६ : २८.  
धरा-दाय-यः वैध ३, ५, ७.  
धरा-मुत्-न्तरय अप ५२,  
४, १.  
धारीयस्-यः हिथि १, ४, ६<sup>१</sup>;  
-वान् आपधी ४, ६, ३; माधी  
४, ९, १; हिथी ६, २, १२.

धरम्-यम् शंघ ११६ : ५२<sup>६</sup>;  
विध ४, १२<sup>१</sup>.  
धरणी-धनी आपधी ४, ७,  
२; माधी ४, १०, ३; वैथी ५,  
७ : १२; हिथी ६, २, १७; अप  
५, २, ५९<sup>३</sup>; -गीम् अप १९<sup>१</sup>,  
४, ५<sup>३</sup>; -व्याम् वैय ४, २; ७<sup>३</sup>.  
धरणी-जात-जाः अप ५५,  
१, २.  
धरणी-तल-ले अर ५८<sup>३</sup>,  
३, १.  
धरणि-पाउ २, १०२.  
धरि(रु>)वी<sup>०</sup>-धन्त्रि आपधी  
१४, ३३, २; हिथी १५, ८,  
३५<sup>१०</sup>; अत्राय ६, १.  
धरिमन्-पाउ ४, १४८.  
धरिम-धेय-यानाम् विध ५,  
१३.  
धरिमन्<sup>०</sup>-पाउता ४, १६१;  
-मणि आधी ८, १, ९; वाथी  
१८, २३, ११.  
धरम, गा<sup>०</sup>-पाउथी २, २, १९९;  
-गः धारधी ४, १२, ३; ८, १३,  
२; काधी; वैताधी २६, १<sup>११</sup>;  
श्रम २, ५, १५<sup>१</sup>; -धम्  
आधी २, १९, ३३; ८, १३,  
२; वाथी; वाय २, २, ११;  
वाय ५, ९<sup>१</sup>; हिथि १, ४, ६;  
विप १, १२; -धना आपधी  
१६, २३, १; वीथी; -धने  
आपधी ५, ८, ६; वीथी; -धने

a) धामि. वैप १, १११० h द्र । b) सप्र. ०वीत<>०वेत् इति धामि. । c) धारयेत् इति  
मादित्यदर्शनः, संस्कृतः टि. च । d) धामि. वैप १, ७२५ m द्र. । e) पाठः धारयेत् इति शोषः ( ट.  
संस्कृतः टि. ) । f) = भूमि- । g) = वसु-विशेष- । h) = भूमि-वह- । i) सप्र. धरोयः <> बलीयः इति  
धामि. । j) वत्रा. । कर्त्राण्यर्थे वसुद्र प्र. । k) = मरु-विशेष- । व्यु २१२, २१ धा इति, धरुण इति राक. ।  
l) = परिमाण-विशेष- । m) = धरा- । n) वैतु. पाउ ४, १०२ < धरित्र- इति । o) ०थी इति पाठः इति धामि.  
शोषः ( वृ. आपधी. ) । p) वैप १ द्र. । q) धामि. वैप १, १०२४ ई द्र. । r) = मरु-विशेष- ।  
s) ० इति पाठः इति धामि. शोषः ( वृ. मृद्ये., वाय. प्रच. वा ।  
वैप-प्र-७५

या १२,३२.  
 धरुणी- जी अम ३, १२१.  
 घर्णस- साय आपथी १७,२,६१.  
 षुघर्णसि- सिः वीथी १८, १८ :  
 १५, आपमं १, १०, ७; अय  
 ४८, १०३<sup>७</sup>; निघ २, ९.  
 धर्तुम् सु ३, ५.  
 षुधर्तु- ००तः ऋद्रा १, १०१;  
 -ता आपथी ४, ६, ३; ७, १<sup>१</sup>;  
 वीथी; या १२, ३०४; -तारः  
 माय १, २२, ७<sup>८</sup>; वायु ५ : ७;  
 -तारम् शंघ ११६ : ५२९<sup>१</sup>;  
 -०तारा आथी ४, ७, ४; शीथी  
 ५, १०, २१; -त्रै आम्निघ १, २,  
 २ : २४; हिघ २, १९, ६.  
 षुधर्त्त- ००त्रिं आपथी १४,  
 ३३, २, अत्राय ६, १; -त्री  
 आथी ४, १२, २; -त्रीभिः वीथी  
 २, १० : २; वीथ.  
 षुधर्त्त- पाउ ४, १६७९; -त्रं वीथी  
 १०, ४२ : १४; -त्रम् दाथी  
 ८, २४, ३; काथी; -त्राय आपथी  
 २, ७, ९<sup>१</sup>; १८, ५, २०; वीथी.  
 २धर्म- पाउ १, १४०; पाग २,  
 ४, ३१; ४, २, ६०<sup>१</sup>; -धर्म  
 काथी २६, ६, ९<sup>१</sup>, आपथी १५,  
 ११, २<sup>१</sup>, वीथी ९, ११ : १<sup>११</sup>,  
 माथी ११, ११, १<sup>१</sup>, हिथी २४,  
 ४, ११<sup>१</sup>; विघ ९८, ८८९. -र्मः  
 आथी १०, ७, ९; शीथी; आपथी

५, ६, ३१<sup>१</sup>; वीथी २, १८ : ३१<sup>१</sup>;  
 वीथी १, ६ : ७<sup>१</sup>; हिथी ३, २,  
 ५५<sup>१</sup>; आपमं २, १५, १०<sup>१</sup>;  
 वीथ ३, २, ११<sup>१</sup>; शीथ ३, ३,  
 ७<sup>१</sup>; -र्मम् शीथी ७, २५, १७;  
 माथी; वीताथी २०, १३<sup>१</sup>; वृदे  
 ४, ३६; ७, १४७; या १४, ६<sup>१</sup>;  
 -र्मस्य आथी १०, ५, १५; पाय;  
 -र्माः काथी ५, ८, १७; आपथी;  
 -र्माणां आथी १२, ८, २;  
 शीथी; -र्मात् आपथ २, १३,  
 ११<sup>१</sup>; २७, १<sup>०</sup>; विघ १, ६५;  
 पा ५, ४, १२४; पावा १, १,  
 ७२; मीत् १०, ८, ५०; -र्माद्  
 वीथी २४, ३७ : ३; माथी;  
 -र्माय आम्निघ १, २, २ : २४;  
 वीथ; या १२, १३; -र्मं वैथ १,  
 ८ : १५; अय, या ८, १०;  
 -र्मण शीथी ४, ५, १३; काथी;  
 -र्मस्यः वाध २१, ९; आपथ;  
 -र्मेषु अय ७०<sup>१</sup>, ३१, ३; आपथ;  
 -र्मैः वाथी १, २, ४, ९; दाथी.  
 धार्मिक- पा ४, २, ६०; ४,  
 ४१; -क. वीथ ३, ३, ३१;  
 वाध; -कम् वाध ६, ३०;  
 आपथ २, २७, १४; हिघ २,  
 ५, २३३; -केण शंघ २६२.  
 धार्मिका(क-अ) चिधित-  
 -तम् वीथ ९, ६५.  
 धार्मुक- -कस्य माथी १,

६, १, ५४.  
 धर्म-करण- -मेन निम् ६, ५ :  
 २१; २३.  
 धर्म-कर-द- -दाः विघ ३, २७.  
 धर्म-कृत- -तारि या १४, ३०.  
 धर्म-कर्म-स्वभिचार- -रात्  
 मुप ३.  
 १धर्म-काम- -मः विघ ७१,  
 ९०; -मानाम् माथी ९, १८, ४.  
 २धर्म-काम- -मी विघ ५२, १६.  
 धर्म-कारक- पाग २, २, ९;  
 ६, २, १५१.  
 धर्म-कार्य- -यम् विघ २६, १;  
 -येषु विघ ३, १७.  
 धर्म-कृत्य- -यम् आपथ १,  
 २९, १४; हिघ १, ७, ७१; -रयेषु  
 आपथ १, ७, १८; २, १४, ३;  
 वीथ.  
 षुधर्म-नीपाय- -यम् आपथ  
 १, ४, २४<sup>१</sup>; हिघ १, १, १४३.  
 धर्म-चर्चा- -यया आपथ २,  
 ११, १०; हिघ २, ४, २५.  
 धर्म-चारित्- -तिभिः अय १,  
 ४१, ८; अता ११, ८.  
 धर्मचारिणी- -गीम् वीथ  
 ४, १, २३.  
 धर्म-जिज्ञासा- -सा वाध १, १;  
 नीत् १, १, १.  
 धर्म-जित-धन- -नस्य जैघृ  
 २, ९ : ३९.

a) वैप १ द. । b) षसि इति पाठः यनि. शोषः [तु. निघ.] । c) पाभे. वैप २, ३४. धर्तारः मन्त्रा १, ६, २८ टि. द. । d) ऋपु २१९, ३१ धावारम् इति । e) घृ १३३९ h द. । f) पाभे. वैप १, १०३५ । द. । g) = धर्म-आद्य- । h) पाभे. वैप १, १२७२ u द. । i) ष इति पाठः यनि. शोषः (तु. ना ३८, १४) । j) = सपा. तैत्रा १, ३, १, १० । ऋ ३, १७, १ तु धर्मा इति पाभे. । k) धर्मः स्यूणाराजः, 'जे (कौट.) इति पाठस्य स्थाने सप्र. पायु ३, ४, १८ धर्म-स्यूणाराजम् इति पाभे. । l) पाभे. वैप १, १०३५ p द. । m) धर्मः इति धिवचं. । n) सपा. धर्मादि <> धर्माथम् इति पाभे. । o) सपा. धर्मादि संबन्धः <> धर्मसंबन्ध. इति पाभे. । p) निघ. चरतोत्यर्थे उकम् प्र. उत्सं. (पा ५, १, १-३) । q) तु. पागम. । r) विघ. (आचार्य-). । उत्स. >

धर्म-ज्ञ,ज्ञा- -०ज्ञ अथां ३, १;  
-ज्ञः गीष १५, २८; आन्वो  
१३, १; -ज्ञम् अथां १, ६;  
-ज्ञाः विध ८, ८; २८, ४८; -ज्ञान्  
विध १, १६; -ज्ञानाम् माथी  
२, १८, ४; -ज्ञोञे अथां १, ३;  
५, ६.

धर्म-ज्ञ-समय- -यः आपध १,  
१, २; हिध १, १, २; सुध २.  
धर्म-ज्ञत्व-ज्ञ- -ज्ञैः शेष छद् १.  
धर्म-ज्ञन्त्र-पीडा- -दायाम् गीष  
१३, १२; १८, ३६.  
धर्म-ज्ञन्त्र-सङ्ग- -ज्ञे गीष १८,  
२६.  
धर्म-तन्त्रो(न्त्र-उ) परोधन-  
-नात् वीध १, ५, ६६.  
धर्म-तस्(ः) वैद्य ५, ८; १२; वाध;  
या ३, ४१.  
धर्म-द- -०द विध १८, ८९.  
धर्म-ध्वज- > ०जिद्- -जी  
विध १३, ८.  
धर्म-नित्य<sup>५</sup>- -न्याः शेष २५१.  
धर्म-नियम- -मः पावडा १;  
मीस् १०, ५, १२; -मात् मीस्  
२, ४, ७.  
धर्म-निष्ठा-> धर्मनैष्ठिक<sup>६</sup>- -कः  
आमिष्ट २, ६, ५ = २.  
धर्म-वति- पाग छ, १, ८४;  
-तृत्वे शोथी १, २६, ३; काथी;  
-तृविः आथी छ, ११, ५;  
शोथी १६, १८, ५; -तिम् वीथी  
१०, ५५ = १६; -तीनाम् वीथी  
१०, ५६ = ३१.

धर्मपत- पा छ, १, ८४.  
धर्म-पत्नी- -प्रीम् शेष ३७८ :  
२; -न्या अप २२, १, ३;  
-न्याम् शेष ३७८.  
धर्म-पर- -राः आपध २, २६,  
१४; हिध २, ५, २०९.  
धर्म-परा(र-अ)यण<sup>७</sup>- -ये विध  
१२, १७.  
धर्म-पर्याय-वचन- -नैः विध  
१०, १०.  
धर्म-पाठ<sup>४</sup>- -कः वाध ३, २०;  
वीध १, १, ८.  
धर्म-पुरस्कार<sup>८</sup>- -रः आपध २,  
६, ५; हिध २, २, ५.  
धर्म-प्रजा (जा-अ) धं- -धंम्  
आमिष्ट १, ६, १ = ६.  
धर्म-प्रजा-संपरय(ति-अ)  
धं- -धंम् वैद्य ३, २ = ७.  
धर्म-प्रजा-संपन्न- -जे आपध  
२, ११, १२; हिध २, ४, २७.  
धर्म-प्रतिकर- -राः शेष २५८.  
धर्म-प्रतिषेध- -धे द्विथी १६,  
१, २३.  
धर्म-प्रधान<sup>९</sup>- -नात् शेष ११६;  
२०.  
धर्म-प्रहा L, ह्रा<sup>६</sup> १२<sup>६</sup>- -०द  
आपध १, ३२, २४<sup>१</sup>; हिध १,  
८, ६५<sup>१</sup>.  
धर्म-फल- -लम् अर ७०<sup>१</sup>, ३२,  
४; ५.  
धर्म-भाज्- -भाक् वीथी २७,  
१४ = १३१.  
धर्म-भृत्- -भृताम् वाप २३, ४३.

धर्म-भेद- -नात् आपध २, ४, ७;  
हिध २, १, ६०.  
धर्म-मात्र<sup>१०</sup>- -त्रम् काथी १,  
५, १०; आपथी ११, २१, ४;  
द्विथी १३, ४, २७; २२, ४,  
२६; मीस् १०, २, ३७;  
-त्राणाम् मीस् १०, २, ६०;  
-त्रे मीस् २, १, १; ११, १, २८;  
-त्रेषु काथी १, ८, ७.  
धर्म-मात्र-त्व- -त्वम् मीस् ६,  
१, १६; -त्वात् काथी छ, १२,  
१५; ८, २, १८; मीस् १०, २,  
३५.  
२धर्म-मात्र<sup>१</sup>-> धर्ममात्रा-  
(त्र-अ)धं- -धंम् मीस् १०, २,  
२२.  
धर्म-मूल- -लम् कौद्य ३, १२,  
२४; गीध १, १.  
धर्म-युक्त- -कः आमिष्ट २, ६,  
५ = २१; गीद्य; -क्ताः आपध  
२, १४, १४; हिध २, ३,  
२५; -केषु आपध २, २०, १८;  
हिध २, ५, १०४.  
धर्म-योनि- -०ने विध १, ५४.  
धर्म-राज<sup>११</sup>- -०ज वाध २८, १९;  
-जम् वीध २, ५, २५१<sup>१</sup>;  
-तृजाय आमिष्ट २, ६, ८ = ३३;  
अप छ ३, ५, ४२.  
धर्मराज-वचस्- -वः शेष  
३७८.  
धर्मराज(ज-आ)धम- -मम्  
अप २, ४, ३.  
धर्म-राजन्- -जानम् शेष ११६:

a) विप. । वस. । b) चरतीत्यर्थे ठक् प्र. उप. हृदिथ उत्सं. (पा ७, ३, १०) । c) विप. । वस. > कस. । d) पूष. = धर्मराज- । e) विप. । उत्स. । f) दस. > मलो. कस. > वस. वा दस. > वस. (द्र. O.) वा । .. g) हिध. पाठः । h) ध्वर. । उत्स. । i) द्र. भाष्यम् [मिद्, १]; वैतु भाष्यम् [हिध. ] B. ५०. च 'दत्त इति । j) 'प्राय' इति पाठः ? यनि. लोथः (द्र. आपध.) । k) धर्मं इति संस्कृतेः शेषः ? । l) नित्यवमात्रः (पा २, १, ७२) L उप. = अक्षरारण्य. । m) = यमराज- ।

११; विष २०, १०; २८.  
 धर्म-दक्षिण- -विः आपध १, ५,  
 ११; हिष १, २, ११; -चये वीध  
 २, ८, ११<sup>०</sup>.  
 धर्म-लक्षण- -गानि शंघ ६.  
 धर्म-लाभ- -भः काथी ४, ३,  
 १९; मीस् ७, ४, १८.  
 धर्म-वप- पा ४, २, ४६.  
 धर्म-वत-> धर्मिष्ठ- -ष्टाद्  
 विष ३, १७.  
 धर्म-वसु-प्रद- -०द् विष २८,  
 ११.  
 धर्म-वाद- -दः वाध १७, ७१.  
 धर्म-विच्छिन्ति- -तिः सुधप  
 ८८ : १.  
 धर्म-विद्- -वित् क्रप्र ३, १, ६;  
 १, ३; वीध; -विदः वाध १,  
 १६; २८, ७, सुध १५; -विदा  
 वाध ६, १.  
 धर्म-विद्या- (> धर्मविद्य-  
 पा.) पावा ४, २, ६०.  
 धर्म-विधान- -नात् मीस् ११,  
 ३, ५, -नानि मीस् २, ३, २३.  
 धर्म-विनियोग- -नो वाथी १,  
 १, १, ६८.  
 धर्म-विप्रतिपत्ति- -त्ती आपध  
 १, ४, १२; हिष १, १, १३१.  
 धर्म-विप्रविषय- -धात् मीस्  
 ३, १, ४०, ११, ३, १२; -धे  
 वाथी १, १, १, ७०.  
 धर्म-विरुद्ध- -द्वौ विष ७१, ८४.  
 धर्म-विशेष- -वः मीस् २, १,  
 ३९; -धात् मीस् २, १, ३६;  
 १०, ५, ६३.  
 धर्म-वृद्धि- -द्धिः गीध २८, ४.

धर्म-व्यतिक्रम- -मः आपध २,  
 १३, ७; हिष २, ३, ७; गीध १,  
 ३; -मे वृदे ८, ३.  
 धर्म-व्यपेक्षा- -क्षया वीध  
 २, २, ७१.  
 धर्म-व्यवे(क्ष>)वा<sup>०</sup>- -क्षासु  
 विष २९, २२.  
 धर्म-व्यवस्था- -स्था गीध ११,  
 २४.  
 धर्म-शास्त्र- -स्त्रम् अप ४४,  
 ४, ३; वाध; -स्त्रस्य विष ८३,  
 ८; -स्त्राणि शंघ ३; गीध ११,  
 २१.  
 धर्मशास्त्र-त्व- -त्वाद्  
 मीस् ६, ७, ६.  
 धर्मशास्त्र-रति<sup>०</sup>- -तिः शंघ  
 १२९.  
 धर्मशास्त्र-त्या(ध-भा)स्त्व-  
 -दाः वीध १, १, १४.  
 धर्मशास्त्र-विद्- -वित् अप  
 ४४, २, ४.  
 धर्म-शील-वर्णा(र्ण-भ)न्त-  
 -न्तात् पा ५, २, १३२.  
 धर्म-शेष- -यात् आपध २,  
 २९, १५.  
 धर्म-संयुक्त- -क्तम् शंघ ४४३.  
 धर्म-संलय- -यात् वीध २, ९,  
 ४.  
 धर्म-साय-मय- -वः विष १,  
 ५.  
 धर्म-संतति- -तिम् वीध १,  
 ४, २४.  
 धर्म-संगान- -नात् गा ६, १९.  
 धर्म-सं(धा>)घ<sup>०</sup>- -घम्  
 शंघ ११६ : २९.

धर्म-संनिपात- -तः हिष १,  
 ७, ४६<sup>०</sup>.  
 धर्म-संनिवाप- -वः आपध १,  
 २८, १०<sup>०</sup>.  
 धर्म-समाप्ति- -तिः आपध २,  
 २९, १३.  
 धर्म-संयन्ध- -यः हिष २, ५,  
 २२०<sup>०</sup>; मीस् ९, १, ३.  
 धर्म-साधन- -नम् शंघ ५.  
 धर्म-साधन<sup>०</sup>- -गीम् शंघ ११६-  
 ४६.  
 धर्म-सू<sup>०</sup>- -सुवः वीथी १२,  
 ११ : ११<sup>०</sup>.  
 धर्म-स्थान- -नम् शंघ २५६.  
 धर्म-स्यूगाराज- -जम् पाठ ३,  
 ४, १८<sup>०</sup>.  
 धर्म-स्य-त्तनू<sup>०</sup>- -त्नौ द्राथी २,  
 २, २७; लाथी १, ६, २५.  
 धर्म-दानि- -निः आपध १,  
 २०, ४, हिष १, ६, १८.  
 धर्म-हीन- -नः गीध ४, २५.  
 धर्मा(र्म-अ)ङ्ग- -ङ्ग विष १,  
 ५४; ९८, ९०.  
 धर्मा(र्म-अ)निक्रम- -ने आपध  
 १, १३, ४; हिष १, ४, १८.  
 धर्मा(र्म-आ)दि- -दित् पावा  
 २, २, ३४.  
 धर्मा(र्म-अ)धर्म- -र्मयोः कण्ठ  
 ५४, ६; विष ६७, १०; -र्मभ्याम्  
 कौस् ७४, ५; -र्मौ वैष् ५, १ :  
 २८; ८ : १; आपध.  
 धर्माधर्म-ज्ञ- -ज्ञ विष १,  
 ५४.  
 धर्मा(र्म-अ)नुग्रह- -हात् मीस्  
 ८, १, ३६; ४२; २, २३.

a) विप. । वस. ।      b) देवता-विशेष- ।      c) व्यप. । वस. ।      d) परस्परं पाप्मे. ।  
 e) पाप्मे. पृ १३५४ ० क. ।      f) मनु-विशेष- ।      g) उप. < √स् [ प्रेरणे ] ।      h) पाप्मे. पृ १३५४ ६  
 क. ।      i) = साम-विशेष- ।

धर्मा(र्म-आ)नुप्रत्ये- -धर्म  
 आश्री २१, ३, १०.

धर्मा(र्म-अ)नुबोधन- -नम्  
 वेष ३, १३, ९.

धर्मा(र्म-अ)नुवर्तिन्- -तिनौ  
 वेष्ट ३, १ : ५.

धर्मा(र्म-अ)नुष्ठान- -नम्  
 आपध २, ३, ३; हिष २, १,  
 २५.

धर्मा(र्म-आ)न्वाय- -वचोः  
 पावा ४, ३, १२०.

धर्मा(र्म-अ)जित-धन- -नम्  
 शंघ ८८; -नस्य आपिष्ट २,  
 ५, १ : ५३.

१धर्मा(र्म-अ)र्ध- -धम् आपध  
 २, ६, १; १३, ११; विष; हिष  
 २, ३, ११०.

२धर्मा(र्म-अ)र्ध- -धम् कौष्ट  
 ३, ११, ६६; -र्थे वीथ १७,  
 ३५.

३धर्मा(र्म-अ)र्ध- -धम् पाग २,  
 ३१; -धर्म्याम् वाप १७, १७;  
 -र्थे वीथ १, २, ४९; विष २७,  
 ८.

धर्माप-कुशल- -लम् आपध  
 २, १०, १४; हिष २, ४, १४;  
 -लान् हिष २, ५, ११९.

धर्माप-युक्त- -क्तः आपध  
 १, ४, २३; हिष १, १, १४२.

धर्माप-विषय- -येषु शंघ  
 २५६.

धर्मापि-संनिपात- -ते आपध  
 १, २४, २३; हिष १, ६, ७१.

धर्मापि-हारक- -कान् विष  
 ५, ११२.

धर्मा(र्म-अ)र्ध-कर्मन्- -र्मणाम्  
 आज्यो १४, ७.

धर्मा(र्म-अ)र्ध-काम- -मेभ्यः  
 गौध २, ४८.

धर्मापि-काम-युक्त- -क्तानि  
 आज्यो १४, ६.

धर्मापि-काम-संयुक्त- -क्तम्  
 अय ५, १, १.

धर्मा(र्म-अ)विप्रतिषिद्ध- -द्धान्  
 आपध २, २०, २२; हिष २, ५,  
 १०७.

धर्मा(र्म-आ)वेत- -दाः द्विधौ  
 ३, ६, ४३; ४७१.

धर्मा(र्म-आ)हत- -तेन आपध  
 २, १६, २५; हिष २, ५, २४.

✓धर्मि, धर्मियुः वाध १५,  
 १५.

धर्मयत्- -यन्तः वाध १५,  
 १६.

धर्मिक- (> धर्मिन्य- वा. )  
 पाग ५, १, १२८.

धर्मिन्- पाग ४, २, ३८; -मि  
 निवृ ८, १० : ३३; -मिणः

द्विधौ ६, ६, १०१; कैश्रीका ६९;  
 ७२; पाग २, ११, १२४;  
 -र्मिणाम् वीथ २८, ५४; -र्मिणि

निवृ ८, १० : ३३; -र्मि निवृ  
 १०, ७ : २३.

धर्मिणी- (> धर्मि-  
 ण्य- वा. ) पाग ४, १, १२३.

धर्मिण- पा ४, २, ३८.

धर्मि-स्थान- -नम् निवृ ७,  
 १३ : ६; १४१.

धर्म(र्म-ई)स्तु- -स्तुः वीथ १,  
 ५, ४७; -स्तोः शंघ ४१४.

धर्मो(र्म-उ)स्त- -ते निष २९,  
 १९.

धर्मो(र्म-उ)स्त- -रः गौध ९,  
 ४९.

धर्मो(र्म-उ)स्तादना(न-आ)दि-  
 -दि आश्री १२, ४, १०.

धर्मो(र्म-उ)दय- -यः शंघ ६.

धर्मो(र्म-उ)पदेश- -शात् आपध  
 १, ३३, १३; हिष १, ८, ५४;  
 मीवृ ३, ३, ४.

धर्मोपदेश-कारिन्- -रिणः  
 विष ५, २८.

धर्मो(र्म-उ)पदेशल- -ने पावा ६,  
 १, ८३.

धर्मो(र्म-उ)पनत- -तस्य आपध  
 १, १८, १४; हिष १, ५, ८३.

२धर्म्य, र्म्या- वा ४, ४, ९१;  
 ९३; -र्म्येः हिष १, ४, ८११;

-र्म्यम् वेष २, ९, १; हिष १,  
 २, ७८; २, ५, २०४<sup>म</sup>; वा ४,  
 ४, ४७; -र्म्यां गौध १२, ३६;

-र्म्याः विष २४, २७; गौध ४,  
 १४; -र्म्ये वा ६, ३, ६५; -र्म्येषु

गौध ५, २०.

धर्म्य- -र्म्यः आपध १,  
 १५, २२१; -र्म्यम् वाधूरी ३,  
 ७५ : ८; १०; वीथ ३, ३, ३३,

आपध १, ७, २१; २९, ८; २-  
 २६, ९८; हिष १, ७, ६५.

a) नत्त. । b) पामि. पृ १३५४ II द्र. । c) पस. उप. = तस्व- वा प्रयोजन- वा । d) न

धर्मापि लुग्यस्ते इत्यस्य स्थाने सप्र, शीघ्र ४, १२, ८ अथर्माच्च लुग्यस्ते इति पामि. । e) इत्त. । f) १।शे।  
 भाएडा. । g) श्वेचः इति पाठः इति. शीघ्रः । h) सपा. धर्मिणः < > धर्मिणस्वते < > धर्मिणा इति  
 पामि. । i) म्यप. । j) निष. । कस. । k) सप्र. धर्मा < > धर्मा इति पामि. । l) सपा. धर्मा < > धर्मा  
 इति पामि. । m) सपा. धर्मा < > धर्मा इति पामि. । n) = रथर्म्य- । अण् प्र. वा धर्म- + स्थायि च्यञ् प्र. वा ।

धर्मन्- पाग छ, २, ३८; -मै  
 आपथी १, २३, ११; बौधो;  
 -कर्मणः आथी ६, १२, १२;  
 दाथी ८, १०, १; आपथी ६,  
 १९, १; १३, १८, २; बौधो  
 ८, १८ : ६; माथी १, ६,  
 २, १४; २, ५, ४, १३;  
 हिथी ९, ४, ५८; वैताथी २३,  
 १५; -कर्मणः आपथी १३,  
 १८, २; बौथी ८, १८ : ६; हिथी  
 ९, ४, ५८; -कर्मणा आथी छ,  
 ११, ९; ६, १२, १२<sup>००</sup>; दाथी  
 ८, १०, १<sup>०</sup>; बौथी; माथी २, ५,  
 ४, ११<sup>००</sup>; जैथी ६ : ७, वैताथी  
 २३, १५<sup>००</sup>; आपमं २, ३, १२<sup>०</sup>;  
 कौथ २, २, ११<sup>०</sup>; हाथ २, ३, १०;  
 आमिथ ३, ६, १ : ७<sup>०</sup>; ८, २ : ५२;  
 वीथि २. ८ : ६; १५ : ५८;  
 हिथि १, ५, १०<sup>०</sup>; जैथि १, १२ :  
 २९; -कर्मणि माथी ५, १८,  
 २; दाथी; या ११, १२; -कर्मणि  
 बौथी ८, १२ : २६; वैथी १६,  
 १४ : ६; वैताथी २०, १३; या  
 छ, १५<sup>०</sup>; -कर्मि श्रमा ८, ५०<sup>०</sup>;  
 -कर्मणम् हिथी १२, ६, ६; या  
 ९, २५<sup>०</sup>; -कर्मणि आपथी  
 १२, १९, ५; या १२, ४१<sup>०</sup>

धर्म-विधर्मन्- -मैणी लाथी छ,  
 ७, १९.  
 धर्म- -यं. दाथी ८, २४, ३१.  
 धार(ह्)डा- पासाय छ, १, ४५.  
 धार(ह्)डिका- का जैथ १,

२१ : २५.  
 धारण- -णः बौथ २, ५, २९;  
 -णम् काथी ३, ३, १; १६, ५,  
 ८; बौथी; श्रमा १८, १८<sup>०</sup>;  
 -णत् अप ३५, २, १०; वैथ ३,  
 ७, १३; श्रमा ४, १४४; -णाय  
 बुंथे छ, १०१; या छ, २५; -णे  
 गौथ १२, ४; मीत् ९, ४, २७.  
 धारणी- -णी अप ३१, ३, ३.  
 धारण-क्रिया- -या पावा १, ४,  
 २३.  
 धारणा(ण-ण)यं- -यंम् मीत्  
 १०, १, ४७.  
 धारणार्थ-त्व- -त्वात् मीत्  
 १२, १, १९.  
 धारणीय- -यम् विध १००,  
 ३.  
 धारणो(ण-उ)पस्थान- -नम्  
 काथी छ, ९, २०.  
 धारणा- -णा शंथ ३७२<sup>०</sup>; बौध १,  
 ५, १९; विध ६४, ४१; माथि  
 १६, ६<sup>०</sup>; -णाम् कौथ २, ५, १;  
 हाथ छ, ९, ३; अप छ ३, २, ५०<sup>०</sup>;  
 -णारि<sup>०</sup> आथ ३, ५, ४; वैथ २,  
 १२ : ९.  
 धारणा-विशेष- -यात् मीत् ३,  
 ३, २८<sup>०</sup>.  
 धारय- पा ३, १, १३८.  
 धारयत्- पा ३, २, १३०; -यतः  
 विध १०, ९; -यत् आथी १, १,  
 २३×, दाथी; -यन्तः आथी  
 छ, २, ५<sup>०</sup>; दाथी; -यन्तम्

काथी २६, ३, ५; कौत् २०, १६;  
 १३७, ३०<sup>०</sup>१.  
 धारयद्-वत्- -वज्जयः बौथी १३,  
 २१ : २.  
 धारयद्दती<sup>०</sup>- -त्या माथी  
 ५, १, ८, ९; १०; १४; -त्याम्  
 माथी ५, १, ८, १८.  
 धारयद्दतीय- -यत् आपथी  
 १९, २०, ५; हिथी २२, ३, २२<sup>०</sup>१.  
 धारयति-> -ति-कर्मन्- -मैणः या  
 २, २.  
 धारयमाण,ण- -णः आपथी १,  
 १६, ८; २, ४, २××; बौथी;  
 -णम् वैथी ६, १२ : ५; -णाम्  
 आपथी १२, ५, ३; हिथी छ,  
 ४, ६.  
 धारयितुम् बाधुथी ३, १०४ : २.  
 धारयित्- -ता या १२, ३०; -तारः  
 या ८, ७; -तारम् या ९, २५.  
 धारयित्वा आमिथ १, २, २ : ३;  
 २, ६, २ : २३; ८ : २८; काथ.  
 धारयिष्यु- -ष्यु माथ २, ११, ६.  
 धारि(न्)>णी- -णी शंथ छ २.  
 धारित,ता- -तः बौथी २९, १२ :  
 ७, -ता माथि १६, ३; -तः  
 कथ ३, ७, १३.  
 धार्य- -यं; वैथी १, २० : १४;  
 आमिथ; -यंम् माथ १, १ : ९;  
 वैथ छ, १ : २०; ६, १६ : ११;  
 कथ १, १, ३; -यंणि नाथि  
 २, ७, ८; -यं माथि १, १९;  
 नाथि १, ६, ३.

a) वैथ १ निर्दिष्टयोः समावेशः इ. । b) पाठे. घृ १३५७ h इ. । c) पाठः धर्मणः-  
 इति शोषः (द्र. टि. मिहा) । d) पाठे. वैथ २, ३६. कर्मणा मंत्रा १, ६, १५ टि. इ. । e) पाठे. वैथ १, १०२६ वृ  
 इ. । f) वैथ १, १०१७ k इ. । g) < धर्म- इति धार. (२, ४, ३१) । h) सामविशेषयोः द्वय. ।  
 i) वत् प्र. (या ३, १, ९७) । j) द्र. पाणम. । k) नाप. । l) भावे कर्तृत्वं च क्तु. । m) = अनुप-  
 लब्धि-वा विशेषन-वा । n) = देवता-विशेषः । o) 'णार्थवि' इति जीव. । p) पाठे. वैथ १, १०३३ g इ. इ-  
 य) = श्रुत-विशेषः । r) अथ्यधारयद्दतीम् इति पाठः ? यत्नि. शोषः (द्र. आपथी.) ।

धार्वामाण,जा- ञ्गम् आपथी ९,  
१३, ८x५; वैथी; विध ९६,  
५५<sup>b</sup>; -णाः आपथी १२,६, ३;  
-णाय शोथी ३,१३,१७; -णे  
आपथी ७,६,२; १७, २५, १;  
माथी.

घृव, ता- ऋतः आपथी ३, ११,  
२<sup>b</sup>x५; वीथी १, २१ : १८<sup>b</sup>;  
द्विथी २,६, २<sup>b</sup>; आग्नि १, ६,  
३ : ५६<sup>b</sup>; २, ७, २ : २४<sup>b</sup>;  
वीथ २, ६, २९<sup>b</sup>; तैत्रा १८,  
३९; मादि १८; -तम् कप्र २,  
१,३; शंघ ११६ : ५२<sup>b</sup>; विध;  
-तस्य द्विथी १३, ५, १४; -ऋता  
वीथी ६, १२ : ८; वाधुथी; -ताः  
वैथी २१, ९ : ८; वीथ ४, १,  
२९; या १०, ४४<sup>b</sup>; -तान् वैथ  
२, ११, ६; -तानि वैथो २४;  
-तायान् वैथो ११, ५ : ५;  
-तेन वैथी १८, १८ : १३; -तेः  
कप्र १, २, ४.

घृत-कतु<sup>c</sup> -> धार्वाकतव- नः  
वाधुथी ४, १०८ : ३.

घृत-वीक्षणा ( दृष्ण-अ)कं-  
किरण<sup>d</sup> -णे अण ६३, १, ८.

घृत-दृण्ड<sup>e</sup> -भडाः वाध १९,  
४५.

घृत-राजर्ष<sup>f</sup> -> धार्वाक- पा  
६, ४, १३५.

धार्वाकणी<sup>g</sup> - (> षक-  
पा.) पाग ४, २, १२७.

घृत-राष्ट्र<sup>h</sup> - षष्ट आपमं २,

१७, १०<sup>i</sup>; -ष्ट्र<sup>i</sup> वीथी १७,  
१८ : १; आपमं २, १७, ९,  
वीथ ३, १०, ६; अण ८, १०  
(५)†.

धार्वाकणी<sup>i</sup> - ष्ट्र कौम् २०,  
६†.

धार्वाकणी - (> षक-)  
धार्वाकणी- टि. द्र.

घृत-व(त>)वी- वीम्<sup>k</sup> तैत्रा  
२३, २४<sup>l</sup>; कौशि ६७; -त्यः<sup>m</sup>  
निम् ८, ४ : ११.

ऋत-वत<sup>n</sup> -तः आपथी ५,  
१९, २; १०, ३०, १५x५; वीथी;  
-०ताः कप्र २, २, २९; धृदे ४,  
८४; शैथि १८५; -ताय शोथी  
१४, ५२, ५; १३; -ते तैत्रा ४,  
११; -तौ वीथ ८, १९.

घृता( त-अ)विस्- -विपम्  
विध १, ५९.

घृतो( त-ऊ)र्ष-गुण्ड- षट्ः  
कायु ४६ : १६.

घृति<sup>o</sup> -वयः अण २, १०; -तिः  
आथी ८, १३, १†; ऋपथी  
२०, ५, १९; २१, १२, ७;  
वीथी; कप्र १, १, १२; विध  
१, १९x५; अण २, १, १३३;  
-तिम् माथी ६, १, ७, १८;  
वाधुथी; -विधु काथी २०, २,  
८, आपथी २०, ६, १४; द्विथी  
१४, २, १७; -ऋती आपथी ४,  
६, ५; माथी ४, ९, ३; द्विथी  
६, २, १६; -तीः काथी २०,

३, ४; आपथी २०, ५, १९;  
वीथी.

घृति-द्वय- -वम् ऋत्र ४, ८.

घृति-मय- -मान् कौथ ३, १२,  
२९.

घृति-स्वर- -रात् निम् ९,  
६ : २८.

घृति-होम- -मे कप्र ३, ६, ५.

घृत्य(ति-अ)ष्टि-वाकरी-जगती-  
-त्यः पि ४५.

घृत्यन्- पाठ ४, ११४.

घृत्या काथी १६, २, २९; आग्नि ७,  
११x५; -यति कप्र २, ७, २.

घृत्यमाण,जा- ञ्गम् आथी २, २,  
१; -णान् माथी २, ५, २, ९;  
-णायाम् पायु २, १४, ११; -णे  
आथी ३, १२, २१; काथी; -णेषु  
वीथी २७, ६ : २२.

√घृञ्, ङ्ज पाधा.भ्वा. पर. गती.  
घृञ्<sup>o</sup> -रुः अण ४८, ११५†.

√घृष् पाधा. स्वा.पर. प्रामल्ये; चुरा.  
उम. प्रसहने, ऋधं > षि  
आपथी ७, १३, ८; वीथी;  
४, ५ : १८; माथी ७, १०, ८;  
वाथी १, ६, ४, १५; वैथी १०,  
१० : ११; द्विथी ४; ३, १९;  
द्विप्रा ३, १२९; तैत्रा ३, ८.  
घृष्मोति निम् २, २ : ५.

दृष्ट- पा, पावा ३, २, ५९.

ऋषदि<sup>p</sup> -विः शोथी १२, २०,  
२; अण ९, २८; -विष् आथी  
३, ८, १.

a) धैर्यं इति पाठः ? यनि. शोथः [उ. जीर्ष] । b) पाथे. वैप १, ११५६ i द्र. । c) = [प्रणवस्य] प्रचवाख्यस्वर- । d) = वायु-विशेष- । अणु २१९, ३० अतम् दति । e) व्यप. । वस. । f) विप. । वस. > कप्र. > वस. । g) विप. । वस. । h) = नगरी-विशेष- । धार्वाकणी- इति [वसे] पाथम. । i) = सूर्य-विशेष- । j) विप. (सत्र-). तत्प्रेरणीयः अणु प्र. । k) = वृत्ति-विशेष- । l) = ऋच्- । m) वैप १ द्र. । n) माप. नाप. ( छन्दो-विशेष- ; कप्र. अण. प्रष्ट. ), होम-विशेष- [काथी. आपथी. प्रष्ट. ], योजनानाम्प्राप्त्यन्तमा- [कप्र. ] । o) अर्थः द्यु. न ? । p) पाथे. वैप १, १७३८ k द्र. ।

धर्वित- पा १, २, १९.  
 धर्वितवत्- पा १, २, १९; -वान्  
 सु २७, १.  
 धृषपत्- -पत् आध्री ६, ४, १०;  
 ८, १२, ६; वैताध्री १६, १४;  
 -पना आध्री ६, ४, १०; गाध्री  
 १७, ४९, ३; माध्री ५, १, २, १७.  
 धृषद्-सर्ग- -णम् वीध्री ३, ९;  
 १, वीधृ १, ४, ११.  
 धृष्याण- -णम् साध्री १८, ३, २०.  
 धृष्वित- -तम् गाध्री १८, ३, २०.  
 धृषु- पाउ १, २, ३.  
 धृष्ट- पा ७, २, १९; -ष्टम् दाध्री ५,  
 २, ७; लाध्री २, ६, ३; निस् १,  
 ११: १५.  
 धृष्टि, हो- -ष्टि गाध्री ८, २४, ३;  
 काध्री २, ४, २५, आपध्री १,  
 १२, १×४, वीध्री, -ष्टिभ्याम्  
 काध्री २६, ३, ९; -ष्टिम् आपध्री  
 १, ६, ११; वीध्री, -ष्टी काध्री  
 २६, २, १६; ७, २८; आपध्री;  
 -ष्टीभ्याम् वीध्री ९, ६-७: १३,  
 १४-१५, -ष्टे: वीध्री २०, ८  
 १; १२; २६, ५-९; -ष्टया वैध्री  
 २, ३: ९.  
 धृष्टि-ध्विष- -श्रानि वाधृथी  
 ३, १००: ६  
 धृष्यन्- पावा ३, २, १७२.  
 धृष्यन्- पा ३, २, १४-९; -ण्यत्-  
 या १२, ७; -ण्यवे तैत्रा ७,  
 ५४; -ण्यु वाधृ ५, ९; -ण्यु:  
 आश्रि ३, ५, ७: २५; वीधि  
 १, ७: २; -ण्युम् अर्ध २: २१;

-ण्यु वीध्री १५, २४: ५;  
 -ण्यो या ८, ३.  
 धृष्यन्वा\* आपध्री १७, ८, ७;  
 वैध्री १९, ५: ५२; द्रुमा ५, २०.  
 धृष्य पाधा. क्र्या. पर. वयोहानी.  
 धृष्य पाधा. म्ना. पर. पाने, धयते  
 वाधृथी ७, ११८: ६; अण  
 ७०, ३, १; १२, १, धृषयति आध्री  
 ६, ७, ३; आपध्री; आश्रि २, १,  
 ४: १७०; धयन्ति वीध्री २९,  
 १०: ११; या ९, २७; धृषयतु  
 आपधं २, १३, ९; भाधृ १,  
 २५: १०; हिद्य २, ४, ३;  
 धृषय आपध्री १६, १२, ११;  
 १७, २३, १०; वीध्री; अघयव  
 कौस् ११३, २१; धयित आपध्री  
 १५, २०, १५, भाध्री ११, २१,  
 १६, धयवत् लाध्री ८, ३, १०;  
 आश्रि ७, धयोरन् वैध्री २०, २:  
 १६; धयेयु: आपध्री ९, १, २३;  
 वीध्री.  
 धय- पा ३, १, १३७.  
 धयव- धृषवत्. आश्रि १, ५,  
 ३: १; हिद्य १, १९, ७; जैधृ  
 १, २०: २६; -यति कौस् ९३,  
 २०; धृषवन् आध्री ८, १३, २;  
 आपध्री; -यन्तम् वीध्री ९,  
 ९: ९; आपधं १, ४, १०१;  
 काय २८, ४१; वीधृ २, १,  
 १११. भाधृ १, १४: ९१;  
 वैधृ ३, २, १५.  
 धयन्वी- -न्वीम् पाल २,  
 ७, १४; वीधृ २, ३, ३८; गीध

९, २४; -नयाम् कौस् ९३, २.  
 धयव- (त >) वी- वीधृ  
 आपध्री १७, १८, ५१; वीध्री  
 १७, २५: १८; हिद्यी १५, ५, ८.  
 धृषवते वीध्री ९, ९: ११; वीधृ  
 २, १, १०; द्रुमा ७, ६४.  
 धातुम् वाधृथी ७, ११८: ५.  
 धृषा(व >) वीधृ- वी अण ७, १,  
 १०.  
 धयान- -ने आध्री ३, १०, ३०.  
 धाह- पा ३, २, १५९.  
 धधी(त >) ला- -तानाम् वैध्री  
 २०, ३: २; अश्रय ७, १; -तान्  
 वीध्री २७, १३: २; वैध्री २०,  
 ३: १; -तासु काध्रीसं ३२:  
 ७; ८.  
 धीता(ता-अ)न्या- -न्याम् वैध्री  
 २०, २: १६.  
 धृष्व पाधा. चुरा. उभ. दर्शने.  
 धिनयत्सते वाध्री ३, ४, २, ११.  
 धृषेना- पाउ ३, ११९; -ना  
 आपध्री ११, ३, १४; वीध्री;  
 या ६, १७०; -ना: आपध्री  
 १७, १८, १; वीध्री १०, ३३:  
 २५; हिद्यी ११, ७, ५५; -नाये  
 वाधृ १३, १; -ने या ६, १७.  
 धेनु\* - पाउ ३, ३४; पाल ७, १, ८६;  
 १०४; -धृनव: आध्री ७, ७, ४;  
 ५, १, ११; गाध्री; या १७, १५;  
 -नवे काध्री २६, ६, २४; -नु  
 जैध्री २३: १०; जैध्रीका ५६;  
 द्राध्री २, २, २९; लाध्री १,  
 ६, २७; वैधृ २, २: ५१;

a) वैप १ द. । b) पामे. वैप १, १७४० ह्र द. । c) पामे. वैप १, १७४० इ. द. । d) या ११,  
 ४२ पा २, ४, ७८; ३, १, ४९ पावा १, ३, ९९ परामृष्ट: द. । e) सपा. धयति <> धयतु इति पामि. । f) पामे.  
 वेर २, ३६. धयत: संश्र १, १, १२ टि. द. । g) = ऋच्- । h) = उप-मान्- । i) = पान- । j) पुं. स्त्री.  
 न. व. मरा. । k) ध्यव. । l) = वाम-विधेय- । m) धेनुम् (अ १, ९१, २०) इत्यस्यान्याच्चात्तरलोपः (वृ-  
 पाम ६, १, ९) ।



-नुः ऋषी १, ७, ७<sup>०</sup>; ४, १५, २५; शोभी; वीथी ३, २९, ११<sup>०</sup>; जेथी २: २०<sup>०</sup>; जेथीका १५<sup>०</sup>; आसि २, ६, ६; २९<sup>०</sup>; हिण १, १३, १२<sup>०</sup>; जण १, १९: ४३<sup>०</sup>; ऋषी १, ३३; २, १२; कौम ११४, १; हिण १, ८, ३०<sup>०</sup>; निध १, ११<sup>०</sup>; ऋषी १०, १६; ११, २९; ४२<sup>०</sup>; -नुम् आश्री २, १९, २२<sup>०</sup>; ऋषी ३, १६, ४; ६, १०, ३; ८, १८, १९; २०, १<sup>०</sup>; १०, ७, ७; काथी २६, ५, ३१<sup>०</sup>; आपथी; ऋषी ६, २९; ११, ४३; -नुम् -नुम् गो २, ११<sup>०</sup>; -नुम् वीथी २०, १: ७१; -नु वीथी १५, २८: १७: १८<sup>०</sup>; शोभी २, २, २९; शोभी १, ६, २७; -नुः काथी १५, ७, ३३; आपथी; काथी ३, ६, ११<sup>०</sup>; -नुम् काथी सं २९: २१; वीथी; -नोः काथी १५, ३, ७<sup>०</sup>; आपथ १, १७, २४; हिण १, ५, ५६; -नी कौम ९३, २१; -न्या काथी सं २७: १३; भाथी १०, १७, ४; हिथी ७, २, ६७<sup>०</sup>; -न्या: काथी सं ३६: ६; -न्ये वीथी २, ७: ९. धेनव- पा ४, १, ८६; १०४. धेनुक- पा ४, २, ४७. धेनुकरण- केन वीथी २५, ३०:

१४. धेनु-क<>का<sup>०</sup>- ऋषी<sup>०</sup> आपथं १, १३, ३; वीथ १, १२, ६; जण १, १९, १३; हिण १, २५, ११<sup>०</sup>; -के आश्री १२, ६, ३०; शोभी. धेनु-न्य- स्वम् आप ९, २, ६. धेनु-दक्षिण<>ण<sup>०</sup>- णः काथी २२, १, ३; -णम् आपथी ५, २२, ८. धेनु-म(व्य)<>म्या<sup>०</sup>- न्या<sup>०</sup> वीथी १७, ४४: १३; आपथं. धेनु-म(त)<>ती- ती आश्री ३, ८, १; आपथी. धेनु-म(व्य)<>म्या<sup>०</sup>- पावा ६, ३, ७०. धेनु-रोम-सं(व्या)<>व्या<sup>०</sup>- व्यानि विध ९२, ८. धेनु-वत् नीय १०, ३, ५९; ६५. धेनु-वर- रम् वीथी ४, ११: २९; ७, ४: २२. धेनुवत्-मदान- नार आसि १, ७, ३: २९; २, १: १०<sup>०</sup>; वीथ. धेनु-वत्- तम् काथी २२, १०, १; वीथी; -तम् काथी सं २९: २०. धेनु-घ<<स्तर>>री<sup>०</sup>- रीम् माथी ५, २, १०, २२. धेनुप्या- पा ४, ४, ८९; पाग ५, २, ३६. धेनुथियत्- पा ५, २, २६. धेनुसहस्र- लेषु विध २०, ४७. ०

धेनु(नु-अ)नुहुत्-सीर-धान्य-पत्य- दासमिथुन-महानसा (स-अ) रोहण-विमित-शयन- नानि. काथी २२, २, २७. धेनु (नु-अ) नहुत्-स्त्री-अजनन- संसुक्त<sup>०</sup>- के गौध १३, २९. धेनु(नु-अ)नुहुत्- -दुयोः आपथी ५, २२, ५; आपथ. धेनु(नु-अ)नुहुत्- वा ५, ४, ७७<sup>०</sup>- हयोः काथी ७, २, २०; -हो वाध १४, ४५; ४६; गौध १७, २८. धेनु(नु-अ)दि- -दीनि कौम ६२, १९; ६४, २६. धेनुजि- (> धेनुज्य- पा.) पाग ४, १, १५१. ✓धेपु<sup>०</sup> पाथा. भ्वा. आत्म. गती. धेय- ✓धा इ. धैर्य- प्रष्ट. ✓धी>धीर- इ. धैवत्<sup>०</sup>- तः माथि १, ८; १२; १४; २, ३; याथि १, ९; नाथि; -तम् नाथि १, ४, २; ५, ४<sup>०</sup>; -तस्य नाथि १, ४, ७; -ते माथि १, १०; नाथि १, २, १२. धैवत्-स्व- स्वम् नाथि १, ५, १८. धैवत्-सहित- तः नाथि १, ४, ५. धैवत्य- ✓धी>धीवत्- इ. धैवर्त्- (> धैवर्त्- पा.) पाग ४, १, १५४. धोद्व्यमाणा- ✓दुष्ट इ. ✓धोइ पाथा. भ्वा. पर. गतिवाचुर्ये.

a) पाथे. वैप १, १७४२ p इ.। b) सपा. धेनुः ह्यया<>धेनुः भग्या<>धेनुभग्या इति पाथे.। c) = वाचु-। d) पाथे. वैप १, १७४२ ० इ.। e) पाथे वैप १, १७४२ III इ.। f) = नाम-विधेय-। पाठः (तु. अमिस्वामी [काथी १, ६, २७]) ? धु इति शोधः (तु. जेथी. लाथी.)। g) धेनुः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाष्यम् नप्र. द्राथी ९, २, १ च)। h) वैप १ इ.। i) पाथे. वैप १, १७४२ j इ.। j) 'नुपा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वी ३, २३, ४ कौए)। k) विप.। वस.। l) = धेनु-भग्या-। m) विप.। पथ.>वस.। n) विप.। इव.>वृष. (तु. Buh.; वैतु. भाष्यम् श्रीप्रजनन- = कन्याविवाह- इति ?)। o) इव. वैकलिकः समासान्तः। p) तु. BPG। q) = संगीतरवरविशेष-। व्यु. ? <✓धा इति नाथि १, ५, १८; <धी-वत्- इति मभा.। र. (पा ५, ४, ७७)। r) तु. पागम.।

शौकरीय- धूर- द.  
 शौत- प्रभृ. √धाव् (शुद्धौ) द.  
 शौमक- रधु- द.  
 शौमतायन\* - (> यनक- पा.)  
 पाग ४, २, ८०.  
 शौमायन- रधु- द.  
 शौमीय- रधु- द.  
 शौम्य- रधु- द.  
 शौमायण- रधु- द.  
 शौर्य- धूर- द.  
 शौर्त- शौर्क- √धूर्त् द.  
 शौर्तय- शौर्तय- टि. द.  
 शौर्त्य- √धूर्त् द.  
 शौचक- धुवक, का- द.  
 √ध्मा, ध्मात्- √धम् द.  
 शौध्यायमानम्\* काशौर्त् ३६: १५.  
 ध्यामन्- पाठ ४, १५१.  
 √ध्वै\* पाधा. भ्वा. पर. चिन्तायाम्,  
 ध्यायति आपधौ १, १६, ४;  
 १४४; शौधौ; ध्यायत. वैधौ  
 १५, २९: ५, ध्यायन्ते शौधौ  
 १०, २१, १४. ध्यायन्ति  
 आपधौ ७, २८, ८१, वाधूधौ;  
 ध्यायन्तु वैधु १, १५. २१;  
 ध्यायस्व आप १३, ३, ३; ध्याय  
 काधौ ४, ५, १०१; अध्यायत्  
 वाधूधौ ४, ३०: १०; ध्यायेत्  
 आपधौ ५, १८, ३; आपधौ, वा  
 ८, २२१.  
 ध्यायीत वैधौ १७, ६: ३;  
 ध्यायात् आपधौ २, ३, १९; शौधौ  
 अध्यायि या ६, २२.  
 ध्यात- ध्यातवत्- पा ८, २, ५७.

ध्यात्व- पाठवृ ४, १०५.  
 ध्यात्वा आपधौ २१, १२, १०;  
 माधौ.  
 ध्यान- पाग २, १, ४००; -नम्  
 वैधौ २०, १: ६; ध्या; या ५,  
 १: १२, २३१; -नानि माधौ ५,  
 २, ११, २३; -नेन वैधु १, ११,  
 १३.  
 ध्यान-गुह- -कम् विधु ९७,  
 ११.  
 ध्यान-निरत- -उस्य विधु ९७,  
 ६.  
 ध्यान-युक्त- -क: काण्ट ४२:  
 २.  
 ध्यान-योग- -नेन विधु १, ३३;  
 वैधु २, ८, ७.  
 ध्यानयोग-रत- -उस्य  
 आपिष्ट ३, १०, ४: ३५.  
 ध्यानयोगिन्- -गौ वैधु ३,  
 ५, १२; ७, १३.  
 ध्यान-वत्- -वन्त: या ४, १०.  
 ध्यान-शील- -ळ: शंभु २००.  
 ध्याना(न-ब)भि- -भि: वाधु  
 ३०, ८.  
 ध्यायत्- -यन् आपधौ ५, १४, २४;  
 शौधौ.  
 ध्यायिद्- -यिन: रूप ४०, ५, ३;  
 -यिनाम् वाधु २६, १२.  
 ध्येय- -यम् वैधु १, १०, ९.  
 √ध्र (गती), ध्रति निच २, १४१.  
 √ध्रज्, ध्राज्\* पाधा. भ्वा. पर.  
 गती, ध्रजति निच २, १४१.  
 ध्रजि- पाग ८, २, ९; -जिम्

धिधौ ११, ७, ५९; -†जिम्\*  
 आपधौ ७, २५, ५; शौधौ ४,  
 ९: १८.  
 ध्रजि-मत्- पा ८, २, ९.  
 ध्रजि- पाठभौ २, १, १६६;  
 -†जि: वैधौ ४, ६: ८; धिधौ  
 १, ५, ४१; या १२, २०४;  
 -†जिम् आपधौ १६, २७, ९;  
 शौधौ १०, ३४: ५; वैधौ १८,  
 १९: १२; शौधु ३६, २५.  
 √ध्रज् पाधा. भ्वा. पर. गती.  
 √ध्रल्, ध्रन्\* पाधा. भ्वा. पर. गन्ते.  
 √ध्रस् पाधा. क्था. चुरा. पर. उच्छे.  
 √ध्रा, ध्राति निच २, १४१.  
 ध्राक्ष- (>°क्षा-मत्- पा.) पाग ८,  
 २, ९.  
 √ध्राप् पाधा. भ्वा. आत्म. सामर्थ्ये.  
 √ध्राङ्क्ष् पाधा. भ्वा. पर. काण्ट-  
 क्षायाम् चौरवासिते च. ।  
 √ध्राङ् पाधा. भ्वा. आत्म. विशरत्ने.  
 ध्राडि- पाठ ४, ११८.  
 ध्रापाप्\* काश् ३: ७१.  
 ध्रि, ध्रयति निच २, १४१.  
 ध्रियत्-, ध्रियमाण- √ध्रि द.  
 √ध्रु पाधा. भ्वा. पर. स्थैर्ये; तुदा\*  
 पर. गतिस्थैर्ययो; ध्रुवति निच  
 २, १४१.  
 ध्रुव, वा- पाठवृ २, ६१; पाग  
 ४, ३, ११८; ५, ४, ३०; -व  
 आपधौ १४, २७, ६१;  
 वैधौ; माण्ट २, १६४१;  
 विधु १, ५७; -व: काधौ,  
 ६, ९, ३१; ७, ३, ७; काधौ

a) रूपे: ध्रु. च। b) <धूमति- (<धूमत-) इति पागम., <धौमत- इति MW., = शौमायन- इति P.W. । c) पाठः शौध्यायमानम् इति शोधः [L. सप्र. आपधौ १५, १०, १२] । d) पाधा ३, २, १०८ परासृष्टः द. । e) द्र. पागम. । f) जिनि: प्र. उसं. (पा ३, १, १३४) । g) वैधु १ द. । h) सपा. मा ६, १८ का ६, ४, २ मे १, २, १७ काठ ३, ७ क २, १४ ध्रायै इति पागे. । i) द्र. BFG. । j) पाठः ध्राङ्, अध्याङ् इति शोधः (द्र. छ. मे १, ३, ४) । k) = √ध्रु इति [पंच] भाष्या. प्र. ।

३, २, १९x; ८, ४, १९†;  
 आपथी; माथी २, २, २, ३३†;  
 ३, ८, ४†; कौपि १, १५: ६६†;  
 अत्राय ६, ३<sup>०</sup>; विध ८, ३८;  
 ऋभ २, १०, १०३<sup>०</sup>; शुभ्र २,  
 ८७<sup>०</sup>; -वस्व काथी २, ४, २६†;  
 ९, ६, २१; १०, ७, ६†;†;  
 †आपथी १, २२, २; ११, ८,  
 १<sup>०</sup>; ५<sup>०</sup>; १२, १६, ८†; वैथी  
 १४, ६: ६<sup>०</sup>; द्विथी ७, ५,  
 १०†; लाथी ३, ३, ६†; सु  
 १८, ६; आथ १, ७, २२<sup>०</sup>;  
 पाथ १, ८, १९<sup>०</sup>; †माथ १,  
 १४, ९<sup>०</sup>; १०<sup>०</sup>; कप्र १, ६, ३;  
 १०, १२; शंष ११६: ४३<sup>०</sup>;  
 ५२<sup>०</sup>; ६३<sup>०</sup>; या ११, ७<sup>०</sup>;  
 ऋभ्रा ६, २९<sup>०</sup>, पा १, ४,  
 २४; ६, २, १०७; -वया  
 आपथी ३, १३, २; वीथी;  
 -वस्य आपथी १३, १५, १५;  
 २२, २७, ६; काठथी; कौथ १,  
 १०, ११<sup>०</sup>; -वा †आथी २,  
 ३, २५; ४, १२, २<sup>०</sup>; †आथी  
 ४, ८, ३<sup>०</sup>; ११, १; †आथी २,  
 ८, १९<sup>०</sup>; ३, ३, १२x;†;  
 आपथी; माथी ३, ६, १३१<sup>०</sup>;  
 माथी १, २, ६, ३०†; आपथं  
 १, ८, ११†; कौथ १, १०, १३†;  
 वाथ १, १७, ३†; पाथ १, ८,  
 १९†; वीथ ३, १, ५<sup>०</sup>; २, ७†;

-वा: आथी ७, १, ७;  
 †आपथी १, २, ९; १४, २७,  
 ७<sup>०</sup>; वीथी; -वाणाम् आथी  
 १, १२, ३; वीथी ७, ७: २०†;  
 गेथ २, १, १२; -वाणि आथी ४,  
 १५, ७; द्विथ; -वास् काथी ९,  
 ५, १५; आपथी; -†वान् आपथी  
 ३, १३, ६; माथी; -वाभ्याम्  
 कौत् ४३, ११; १३६, ७; -वाम्  
 शाथी ४, ११, १; १४, २०;  
 काथी; -†वाय आपथी १३, १४,  
 ११; १४, १, ७; वीथी; -वाया:  
 काथी १, ८, ३९; ३, ३, ९x;†;  
 आपथी; -वायाम् काथी २,  
 ६, १०; काथी; माथी १२, ३,  
 ७<sup>०</sup>; अत्र ३६, १, १०<sup>०</sup>; वीथ  
 ३, २, ४<sup>०</sup>; -वायै वीथी २०,  
 २४: ३८; २४, ३३: २१;  
 अत्र १२, ३†; -वास्त माथ  
 १, १४, १०†; -वास्तु वृदे ६,  
 १५†; -वे †वीथी १९, ७:  
 २३; ४१x; माथी; -†वे  
 कौत् ८१, ७; असां २, ५;  
 अत्र १८, ४; -वेण काथी  
 १०, ७, ६†; आपथी; अप ५२,  
 १०, ४<sup>०</sup>; -वेभि: वा १४, २७†;  
 -वेधु जैथ २, ५: २०; -!वे.  
 माथी ४, ६, ४.  
 ध्रौव- -व: शुभ्र १, ४६७;  
 -वम् शाथी ५, ८, २; काथी;

-वस्य माथी १, ३, २, ७x;†;  
 वाथी १, १, १, ३३; वैताथी  
 १३, ४; -वान् आपथी १०,  
 २१, १२x; कौत् १०, ८, ४७.  
 ध्रौवा(व-आ)व्य-  
 -व्यम् वंथी १२, २२: १३;  
 -व्येन वीथी २०, १५: १.  
 ध्रौवक- वा ४, ३, ११८.  
 ध्रौव्य- -व्ये शाथी २,  
 १६, १.  
 ध्रौव्य-काम- -म: कौत्  
 ५९, १३.  
 ध्रौव्य-गति-प्रत्यवसान-  
 (न-अ)थं- -थेभ्य: वा ३, ४,  
 ७६.  
 ध्रौव्य- -व्ये अत्र ६, ८८.  
 ध्रुव-क- वा ५, ४, ३.  
 †ध्रुव-करण- -णाय वैथ २,  
 ६, ३.  
 ध्रुव-कर्मन्- -मंथु असां १, ३;  
 -मंथि आथी ५, २.  
 ध्रुव-कुमार- -राय जैथ १,  
 ५: ६.  
 ध्रुव-क्षिप्- -क्षिप् आपथी ७,  
 ५, ६; वीथी.  
 †ध्रुव-क्षिति- -त्ये वीथ २,  
 ८, ९; भाथ ३, १२: १६; -त्रि:  
 काथी १४, ८, १५; आपथी;  
 माथी १, ७, ३, ३४<sup>०</sup>; -तिम्  
 आपथी १२, १६, ८.

a) पामे. वैप १, १७४५ f द्र. । b) पामे. वैप १, १७४५ g द्र. । c) द्वि: सपा. मै ४, ६, ६<sup>१</sup>  
 ध्रुव [सं१] इति पामे. । d) = ऋषि-विशेष- । e) पामे. वैप १, १७४५ l द्र. । f) = नक्षत्र-विशेष- । g) न्यप. ।  
 h) = मरुद्-विशेष- । i) = वसु-विशेष- । j) = पारिभाषिक-संज्ञा- । k) सप्त. ध्रुवस्य दर्शनात् <> ध्रुवदर्श-  
 नात् इति पामे. । l) पामे. वैप १, १७४५ p द्र. । m) पामे. वैप १, १०४३ f द्र. । n) अ<sup>०</sup> इति पाठः ।  
 यनि. शोधः । o) पामे. वैप १, ७५७ a द्र. । p) = वृत्ति-विशेष- । q) पामे. वैप १, १७४६ f द्र. ।  
 r) एवा इति पाठः । यनि. शोधः (तु. माथी २, ७, ३) । s) = अथोदिशु- । t) साऽव्यदेवतावत् तप्रभवीयव  
 -अप्य प्र. । u) भाव. । v) विप. (सूक्त-) । तेन द्यमित्यर्थं द्यवत् प्र. उल्लं. (पा ४, २, १) । w) उच. चर्त्तरि  
 -इत् । x) वैप १ द्र. । y) पामे. वैप १, १७४६ i द्र. ।

ध्रुव-नोप<sup>०</sup> -वः आपथी १८,  
७,९; बौध्री; बौध्र ३, १०, ६०;  
-पम् काथी ९,८,१०.  
ध्रुव-प्रदण- -णात् माथी २,३,  
४,२१.  
ध्रुव-वैष्टित-युक्ति- -क्तिपु  
पावा १,४,५१.  
†ध्रुव-तम- -मः बौध्री ७, ७ :  
२०.  
†ध्रुव-तस्रः (ः) आपथं १,९, ६;  
बौध्र.  
†ध्रुव-ता- -ताम् आपथं १,  
९,७; आसिष्ट.  
ध्रुव-दर्शन- -नात् शाष्ट १,  
१७,२०; कप्र २,१०,१५.  
ध्रुवदर्शना(न-अ)न्त<sup>०</sup>-  
-न्तम् वैष्ट्र ३,४ : १४.  
†ध्रुव-य(ति>)वी<sup>०</sup>- -वी माथ  
१,१४,१०; वाष्ट १५,२१.  
†ध्रुव-योनि<sup>०</sup>- -निः बौध्री १०,  
३८ : ६; माथी.  
ध्रुव-वत्- -वज्जिः बौध्री ११,  
१३ : १०, १७,२ : ५, -वज्जः  
बौध्री ११,१३ : ९; १७,२ : ५.  
ध्रुव-क्षिप्त<sup>०</sup>- -क्षे क्षपा ६, ४५.  
ध्रुव-शील<sup>०</sup>- -लः गौध ३,१३.  
ध्रुव-शेष- -यात् वैध्री १२,८ :  
१<sup>४</sup>.  
†ध्रुव-सद्व<sup>०</sup>- -सदम् काथी  
१४,२,१; शुभ १,५५४.  
ध्रुव-साथ(क>)वी<sup>०</sup>- -कि  
अथा ४,४.

ध्रुव-सूक्त- -केन वैध्री २१,१४ :  
१६.  
ध्रुव-स्थ- -स्यात् अथ ३,२६.  
ध्रुव-स्थान- -नात् वैध्री १६,  
१९ : ८.  
ध्रुवस्थानो(न-उ) पसादिद्व-  
-दिनाम् अथा ६,६.  
ध्रुव-स्थाली- -ली बौध्री २५,  
१३ : १४; -लीम् काथी ९,२,  
१८; आपथी; -स्याः वैध्री १५,  
१८ : १; द्विधौ ९,५,१२.  
ध्रुवा-करण- -णम् वाथी १,१,  
२,२४.  
ध्रुवा(वा-आ)श्व<sup>०</sup>- -ज्यम् बौध्री  
६, १२ : ४; १८ : ३३××;  
-ज्यात् बौध्री १,१५ : ७××.  
ध्रुवा-तस्रः (ः) बौध्री २७,२ : १७.  
ध्रुवा(वा-आ)दि<sup>०</sup>क<sup>०</sup>- -दीनि  
वाथी १,३,४,२७; ७,५,१६.  
ध्रुवा (व-अ)न्त<sup>०</sup>- -न्ताः बौध्री  
२२,२१ : २; २३,१३ : २.  
ध्रुवा-प्रभृति- -तिभिः माथी ६,  
१,२,८.  
ध्रुवा(वा-अ)र्थ- -र्थे काथी ८,  
२,२८.  
ध्रुवा(व-अ)वनयन- -नम् आथी  
५,२०,७.  
ध्रुवा-वर्जम् आपथी ७, २७, ८;  
द्विपि ५ : १२.  
ध्रुवा-शेष- -यात् द्विधौ ७, १,  
४१<sup>४</sup>; २,१५; ३,६९.  
ध्रुवा(व-अ)श्व<sup>०</sup>-कल्प- -ल्पम्

माथ २, ६,१.  
ध्रुवा-समजन- -नात् माथी ७,  
११,२,३.  
ध्रुवासमजन-प्रभृति- -दीनि  
द्विधौ ४,३,२६.  
ध्रुवासमजना(न-आ)दि-  
-दि आपथी ७,१४,३.  
ध्रुवा(वा-आ)सादन- -नात् बौध्री  
३,२४ : १२.  
ध्रुवी/कृ,ध्रुवीकरोति या२,१८.  
ध्रुवै(व-रे)द्राग्न्-वैश्वदेव-  
-वानाम् आपथी २२,२७, १७;  
द्विधौ २३,४,३९.

√ध्रुव √ध्रु टि. द.  
ध्रुव-, ध्रुवक- √ध्रु द.  
दध्रुवक, का<sup>०</sup>- पाठभो २, १०;  
पाग ४,२, ८०; ५,२, १००<sup>४</sup>;  
पावाग ७,३, ४५<sup>०</sup>.  
ध्रुवकिन्- पा ४,२, ८०.  
ध्रुवकिल्- पा ५,२, १००.  
ध्रुव-करण- प्रभृ. √ध्रु द.  
रेध्रुव(क>)का<sup>०</sup>- (> ध्रौवकि-  
पा.) पाग ४, १, १६.  
ध्रुव-क्षित्- प्रभृ. √ध्रु द.  
ध्रुवद्रक्षम् अष्ट ४८, ११५.  
ध्रुघन<sup>०</sup>- -नानि कौस् ८६, १६.  
ध्रुघपली- प्रभृ. √ध्रु द.  
√ध्रुक् पाथा. भा. आत्म. शब्दोत्पत्ता-  
हयोः  
√ध्रु पाथा. भा. पर. कृती.  
ध्रौव-, ध्रौवक- √ध्रु द.  
ध्रौवकि- रेध्रुका. द.

a) = ध्रुवमह-रक्षक-। b) = सर्प-विशेष-। c) उप. पाठ. वेति कर्कविद्याधरी। d) पाठे.  
पृ १३६३ क द.। e) विप.। वस.। f) वैप १ द.। g) पृ. = पारिभाषिक-संज्ञा। h) सपा. 'वसे' <>  
'वाने' इति पाठे.। i) विप. (उत्तरापाठ-). उप. ध्रुव प्र. उत्सं. ( पावा ३, १, १४५ )। j) कस. ( उ.  
सा. त्रि. पृ २२२ ) ध्रौवम् भाव्यम् इति। k) पृ. [ तात्प्यात् ] द्विपि-। l) = कर्म-विशेष-विधि-। वस. > पस.।  
म) अर्थः व्यु. च १। n) का- इति पाठः.। o) ध्रु. पाठः.। p) व्यप.। व्यु. ?। q) अर्थः व्यु. च १।  
= स्याप इति संज्ञा. (द्रु. केवः [ कौस् ८४, १० ] )।

१-२धौव्य- प्रथ. ✓धृ द्र.  
 ✓ध्वंस<sup>०</sup>, ध्वस् पाधा. भ्वा. आत्म.  
 गत्यनसंतनयोः, ध्वंसते अण ४८,  
 ५; आपध; ध्वंसति निघ २,  
 १४१; ध्वंसन्ति आपध २, २४,  
 ९; हिष २, ५, १०४.  
 ध्वंसयति वैश्वी ४, ७ : ८; ध्वंस-  
 येयुः माश्री ५, १, ८, ११.  
 ध्वंस- > ध्वंस-कला<sup>०</sup> - (> कला-  
 ✓कृ पा.) पाग १, ४, ६१.  
 ध्वंसन- -ने अण ४८, ३७; या २, ९.  
 ध्वंसयद्- यद् आपश्री २, ६, ११;  
 वीश्री.  
 ध्वंसनि<sup>०</sup>- नौ या २, ९११.  
 ध्वंसन्<sup>०</sup>- > ध्वंसन्-वत्<sup>०</sup>- वत्  
 अण ४८, ७५; निघ १, १२.  
 ध्वंसस्<sup>०</sup>- -ससः आपश्री १, १७, ४१.  
 ध्वंसि<sup>०</sup>- -सयः शोश्री १४, ८२, २.  
 ध्वंसि-स्तोम- -नाः शोश्री १४,  
 ८२, १.  
 ✓ध्वञ्ज पाधा. भ्वा. पर. गती.  
 ध्वज<sup>०</sup>- पाग २, ४, २१; ४,  
 १, ४५; ५, ३, १००; -जः  
 अण १, ३६, ३; अशा ९, ३;  
 -जम् आपश्री २०, १६, ३;  
 वीश्री; -जाः अण ७१, १९, ५;  
 -जे अण ७०<sup>१</sup>, २७, १०; ३३,  
 १५; ७२, २, ६; काथ २७६ : ६.  
 ध्वजी- वा ४, १, ४५.  
 ध्वज-गोरण- -नैः अण ५५, ५, २.

ध्वज-भूयित- -तेषु विष १२, १०.  
 ध्वज-विश्रायित्<sup>०</sup>- -नौ वैष ३, १२,  
 १०.  
 ध्वज-वे(दि>)श्री- -दोभिः अण  
 ५४, ५, २.  
 ध्वज-स्तम्भे(भ-द्)न्दकील-  
 -लानाम् अण ६४, ४, १.  
 ध्वजा(ज-आ)कार<sup>०</sup>- -रम् आमिष्ट  
 २, ५, १ : २०.  
 ध्वजा(ज-आ)हृति<sup>०</sup>- -ति वैष ४,  
 १३ : ९.  
 ध्वजा(ज-अ)पहारिन्- -री शंष ३७८  
 ध्वजा(ज-अ)भिलपन- -नम् अण  
 ७२, ३, ७.  
 ध्वजयत्<sup>०</sup>- (> ध्वजाजयत्तायनि-  
 पा.) पाग ४, १, १५४.  
 ध्वजयद्<sup>०</sup>- (> ध्वजाजयत्तायनि-  
 पा.) पाग ४, १, १५४.  
 ध्वजि<sup>०</sup>- (> जि-मन्- पा.) पाग  
 ८, २, ६.  
 ✓ध्वञ्ज पाधा. भ्वा. पर. गती.  
 ✓ध्वञ् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.  
 ✓ध्वन्<sup>०</sup> (बधा.) पाधा. भ्वा. नुरा-  
 पर. शब्दे, ध्वनति अण ४८, ४१;  
 ध्वनेत् तिस्र ७, ११ : १२.  
 अध्वानयत् ऋग १, ५०१.  
 ध्वनयौत् ऋग १४, ४३१.  
 ध्वनि<sup>०</sup>- पाठ ४, १४०; -निः आमि  
 ८, १; -नौ आमि ८, ३, १३.  
 ध्वान<sup>०</sup>- -नः तैत्रा २३, ७१; -नैः

आपश्री ३, ८, ८; वीश्री; वाश्री  
 ३, ३, ७, ३१; हिश्री २, ५, ६;  
 २१, ३, ६७.  
 ११-ध्वान्त- -न्तम् आपश्री ६, २२,  
 १; या ४, ३१; वीश्री १८, १७ :  
 २०<sup>१</sup>; आपश्री २, २१, १०७;  
 पाग ३, १४, ६<sup>१</sup>; -ध्वान्ता<sup>०</sup>  
 वाश्री ३, १, २, १; काय २६, २;  
 माय १, १३, ४; वाय १५, १;  
 -न्ताय शोश्री १४, ४६, ३.  
 २१-ध्वान्त<sup>०</sup>- पा ७, ३, १८; -न्तः  
 वीश्री ९, १८ : ४.  
 ध्वन<sup>०</sup>- (> ध्वानायन- पा.) पाग  
 ४, १, ११०.  
 ध्वस्<sup>०</sup>- -ने तिस्र ९, ९ : ११.  
 ध्वाक्षा<sup>०</sup>- पा, पाग ४, ३, १६५.  
 ✓ध्वाङ्क्ष पाधा. भ्वा. पर. काव्-  
 धायो घोरवासिते च.  
 ध्वाङ्क्ष<sup>०</sup>- -क्षः अणाय २, ६;  
 -ङ्क्षेण पा २, १, ४२.  
 ध्वाङ्क्षा(क्ष-आ)सोहण- -ने काश्री  
 २५, ६, ६.  
 ध्वाङ्क्षा(क्ष-अ)वृष्ट- -वृष्टय  
 वीश्री १४, ९ : १६.  
 ध्वाङ्क्षा- ध्वाष्वा- -दि. द.  
 ध्वाजयत्- (२ ध्वजाजयत्तायनि-)  
 ध्वजया- -दि. द.  
 ध्वाजि- पाठश्री २, १, १६६.  
 ✓ध्वृ<sup>०</sup> पाधा. भ्वा. पर. हृद्येने, ध्वसति<sup>०</sup>  
 अण ४८, १९; निघ २, १९.

a) पा ७, ४, ८४ परामृष्टः द्र. । b) = हिंसा- (तु. पागम.) । c) वैष. १ द्र. । d) = अङ्ग-  
 विरोध- । e) पाशे. वैष १ भूंससः ऋ १०, १६३, ४ टि. द्र. । f) = कालभेद-विशेषन-मुद्रितशतात्माम- इति  
 अण. । धृ. ? । g) = पताका- । धृ. ? । < ✓ध्वञ् इति यना., धृ- + ✓अन् इति अण. ? । h) उप.  
 अर्थः ? । i) विष. । वस. । j) तु. पागम.; ध्वानयत्- इति पाका., पागम. (पञ्चे) । ध्वानयत्- इति भाण्डा.,  
 वाजयत्- इति पाति. । k) ध्वय. । धृ. ? । l) = ध्वज- । m) पा ३, १, ५१ परामृष्टः द्र. । n) भाष.  
 = पारिभाषिक-संज्ञा- तैत्रा. । o) ध्वानः इति पाठः ? मनि. शोषः (तु. आपश्री.) । p) वैष १, १०४७  
 ४ द्र. । q) पाति. वैष १, १०४७ १ द्र. । r) वैष १ निदिष्टयोः स्मादेशः द्र. । s) वैष  
 १, १०४८ १ द्र. । t) ध्वाङ्क्षा- इति पाका. । u) या १, ८ परामृष्टः द्र. । v) हिंसायाम् ।

न- नः श्रुत ३, ६, २; छ, २, ३; ५, ६, ७; शौच; नात् श्रुत छ, ५, ३; भाशि २२.

न-कार- नः बुद्धे २, १२; ऋषा; -रम् ऋषा ५, ४०; -रस्य ऋषा छ, ८०; १०, २०; १५, १२; उत्त; -रे छुषा ३, १०७; शैशि; नाशि २, ३, ४<sup>०</sup>; -रेण शैशि ७१; याशि २, ८९; १०; नाशि २, ४, ५.

नकार-नर- -रे शुना छ, १८७.  
नकार-प्रतिषेध- -धः पावा १, १, ४७; ८, २, ७२.

नकार-मकार- -रयोः शौच १, ६७.

नकार-लोपा(प-अ)भाव- -रस्य पावा ३, १, ४४.

नकारलोपाभावा (न-अ)र्थ- -र्थम् पावा ३, १, ४४.

नकार-लोपो(प-अ)ध्वन- भाव- -यम् ऋषा ११, ३६.

नकार-ध्वण- -णम् शैशि २९८; ३००

नकार-इकार-लोपा(प-अ)र्थ- -र्थम् पावा ७, २, २०.

नकारा(र-अ)ङ्-स्वर- -रम् शैशि २२४.

नकारा(र-अ)दि- -दिः अत्रा ३, २, ३३.

नकारा(र-अ)न्त- -न्तम् शैशि ८२; ३१८; भाशि छ, १०; याशि २, ७६; -न्तस्य पावा ६, २, १९७; ४, १४४; -न्तात् शैशि ३०७; -न्तानि अत्रा २, ४, १६;

१८; -न्ते भाशि १०, ७; १३, १०; याशि २, ४१<sup>०</sup>; ४२; नाशि २, ४, ५; ६; पावा ६, २, १९७.

नकारान्त-ध्वण- -णम् पावा ६, ४, १३३.

नकारान्ता (न्त-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६, १, १७०.

नकारा(र-अ)बाध- -धे अत्रा २, ४, १६; १८<sup>०</sup>.

नकारा(र-अ)भाव- -वः पावा ६, १, १००.

नकारा(र-अ)वप्रद- -दे अत्रा २, ३, २५.

नकारो(र-उ)पध-पकार- -रः शैशि २९९.

नकारो(र-उ)पध-इकार- -रः शैशि २९७.

१न-उ- -उभ्याम् शैशि २६.

१न-उ- -उयोः शैशि ९७.

न-उ- -उत्वे पावा ८, २, ४८.

न-पर- -रः तैत्रा छ, ३२; -रे वा ८, ३, २७.

१न-म- -मौ शौच ३, ३७.

नम-पर- -रे श्रुत छ, ४, १४.

नूनयस्वर- -रः याशि २, ५७.

नलोप- -पः वा ५, १, १२५; ६, ३, ७२; ८, २, २; ७; पावा १, १, ३९; २, ४, १७<sup>०</sup>; ७, १, ८९<sup>०</sup>;

-पस्य पावा ६, ४, १२०; -ये अत्रा २, ४, ७; शौच.

नलोप-प्रतिषेध- -धः पावा ८, २, ७.

नलोप-वचन- -नम् पावा छ, १, ७८; १५८; ७, २, २०.

नलोपा(प-अ)भाव- -वः पावा ६, १, ६७.

न-शब्द-प्रत्यय- -व्यः अत्रा २, ३, १६.

ना(न-अ)न्त- -न्तात् वा ५, २, ४९.

नो(न-उ)प(घा>)ध- -धात् वा १, २, २३.

नन्वा, नम्(वधा.), नमते धावर्न २, ११, ६; नमते धावर्नो ७, ४, ४; निध २, १८.

नशीमहि वाधो १, ५, ४, ३०<sup>०</sup>;

नूनावर्नं धावर्नो २, २०, ४; ३, ८, १<sup>०</sup>; धावर्नो १३, ४, ३; निध २, १८.

नंशुक- पाठ २, ३०.

नैपद्या नन्वा (मदते) द.

नै आगात् वाधो १, ३, २, १८<sup>०</sup>.

नम् पाग १, १, २७.

नकार- प्रच. न- द.

निकादेरेणाम् लधो ७, ८, २.

नकि, नकिम् प्रच. १ न द.

१नकुल- पा ६, ३, ७५; पाग ५, ३,

१०७<sup>०</sup>; -लः विध छ, २०;

सु २८, १; अत्रा ३, ४, ४<sup>०</sup>; ८;

-लम् पाठ २, ७, ११; ऋषा १७, १४<sup>०</sup>; -लाः अत्र ७१,

३, ५; उनिव् ८, १०<sup>०</sup>.

नकुली- ली धौधो १८,

४५; ८; गोरु ३, ४, २८<sup>०</sup>.

१नाकुल- वा ५, ३, १०७.

नकुल-चेठक- -काः अत्र ५७, २, ६.

नकुल-विद्याला(ल-अ)वहरण- -ये शेष ३२२.

a) = नर्ण-निषेध-। b) श्रेय इति सात्। c) पस.>द्व. >पस.। d) पस. >मलो. कस.। e) विप.। यस.। f) वस. >कस.। g) <न शुच पसः (ना २०, ८२)। h) वृ. पाका.। i) वृ. पाशि.। j) वैप १ द.। k) पाठः? वनाम्व-> -गाः इति शेषः (वृ. सप्र. द्विधो ६, ३, १७)। l) ल्हा इति पाका.। m) = तद्वर्ण-वत्-। n) = वन्दो-जाति-।

नकुल(ल-ञ)हि-विद्याला (ल-आ)  
 चु-वृत्ताम् शंष ३७८.  
 रनकुल- लः साञ्च १,४६४.  
 रनाकुल- लः ऋषा १७,४५;  
 -ले वृदे ८,१४.  
 ✓नफक् पाषा. चुरा. पर. नाशने.  
 नक्त<sup>१</sup>,का- नक्तं शोधो ५,२०, ८;  
 आपधो; वीधोत्र ४४: ६; वैष  
 ४,७,११<sup>०</sup>, या ७, २०<sup>०</sup>; पाग  
 १,१,३७; -क्ता अप ४८,७४<sup>०</sup>;  
 वृदे ३,९, निष १, ७<sup>०</sup>; या ८,  
 १०<sup>०</sup>कु.  
 नक्तं-चर- पाग १, १, ३७<sup>०</sup>;  
 -त्रैभ्यः कौश ३,१०,१७, शां  
 २,१४,१६; काश.  
 नूनक्तं-चारिन्- -रिणः आग्निश्च २,  
 १, ३: २१; भायु; -रिणम्  
 आपमं २,१४,१; -रिण्यः आश  
 १, २, ८; आग्निश्च १, ७, २:  
 ११; माश २,१२, १८; -रीणि  
 या २,१८९.  
 नूनक्तं-चारिणी<sup>१</sup>- णी आग्निश्च  
 २,१,३: २३, हिश २,३,७.  
 नूनक्तं-जा(त>)ता<sup>०</sup>- ता कौश  
 २६,२२; अम १,२३.  
 नक्त-नीलोपल-कमल-पलाश-  
 कोमल- -लेपु अर ६५,१,४.  
 नक्तं-दिव- पा ५,४,७७.  
 नक्तं-भाग- नागि अप १,५,२, ६.  
 नक्त(क-आ)सिन्- -ती शंष १५९:  
 ११; विष ५०,४३; ९५,५.  
 नक्तो(हा-उ)रात्<sup>०</sup>- नृपासाः काथो

१६,५, ३; १८,४, २; आपधो;  
 वैधो<sup>०</sup> १८,८: १; १९,६: ८६;  
 ८७,१३०; -पासो वृदे ३,८.  
 नक्त<sup>०</sup>- वा ६,३,७५; -क्ताः अप ६२,  
 ३,२.  
 ✓नक्ष<sup>१</sup>,> इन्क्ष पाषा. म्ना. पर.  
 गतो [प्याती इति निष., या.]  
 नूनक्षन् आपधो २१, १२, ९;  
 वाधो ३,२,३, ३६; हिधो १६,  
 ५,३.  
 नक्षते या ४, १८; नूनक्षति  
 आधो ४,७,४<sup>०</sup>, शोधो ५,१०,  
 १८<sup>०</sup>; निष २,१४; १८; नक्षन्ते  
 या १०, २१<sup>०</sup>; नक्षसे वैधो  
 १८, ५: ८<sup>०</sup>; नक्षन्त या ७,  
 ३०<sup>०</sup>.  
 नूनक्षव-> न्द-दान<sup>०</sup>- -मम् निष  
 ४,३; या ६,३६.  
 नक्ष- पाउता ३,६५.  
 नक्षत्र<sup>०</sup>- पाउ ३,१०५; पा ६,३,७५;  
 -त्रम् शोधो २, ५, ५; आपधो;  
 आशयो ७,११; २१; ११,६,७;  
 -त्रस्य आपधो १०,१२,३; अप:  
 -त्राणाम् शोधो ४, १०, १<sup>०</sup>;  
 १०,२१,१०; आपधो; या ३,  
 २०; -त्राणि शोधो १४,७८,२,  
 आपधो; या ३,२०<sup>०</sup>; -त्रात् पा  
 ८,३,१००; पावा ४,२, १०४;  
 -त्राय वीधो २८, ४: २२;  
 गोश २,८,१२; वीध ३, ८, ९;  
 -त्रे शोधो २,१,८××; आपधो;  
 पा १,२, ६०; २,३,४५; -त्रेण

वाधुधो ४, १४<sup>०</sup>: ५; आशु:  
 पा, पावा ४, २, ३; -त्रैभ्यः  
 आपधो ६,८, १××; वीधो; पा  
 ४, ३, ३७; पावा ४, ३, ३४;  
 -त्रेषु शोधो १०, २१, ११<sup>०</sup>;  
 आपधो; कौश १, १०, १२<sup>०</sup>;  
 -त्रेषु ३ वीधो १६, ८: ८;  
 -त्रैः कौश १३५,९.  
 नाक्षत्र<sup>०</sup>- -त्रः द्राधो ८,४,३;  
 ५; लाधो.  
 नक्षत्र-कल्प<sup>०</sup>- -व्यः चव्यु ४: ८;  
 -ल्पम् अर १,१,१.  
 नक्षत्र-गण- -गाम् या ५,२१.  
 नक्षत्र-ग्रह-चन्द्रमस<sup>०</sup>- -माः अप  
 ६३,३,१.  
 नक्षत्र-ग्रहो(ह-उ)पसह-> ष्ट-  
 भवात्-भोगगृहीत- -तानाम् अशा  
 १७,१.  
 नक्षत्र-चारिन्- -रिणः अप ५२,  
 ५,४.  
 नक्षत्र-ज- -जम् वेज्यो ३५.  
 नक्षत्र-जीविन्<sup>०</sup>- -विनः विष ८२,  
 ७.  
 नक्षत्र-तारका- -काणाम् अप ६३,  
 १, ७.  
 नक्षत्र-दक्षिणा<sup>०</sup>- -णा अशा १२, ६;  
 -णाः अप १८<sup>०</sup>, १९, ४; अशा  
 १३,५; -णाम् अप १,५०,१०.  
 नक्षत्र-दशन- -नात् आधो ८,१३,  
 २२; वाधो.  
 नक्षत्र-देवता- -ताः वेज्यो ३५;  
 -तानाम् काश ४९,१; -ताम्

a) = नक्षि-विशेष-। व्यु. १। b) विर.। तेनप्रोक्तमित्यर्थे अण् प्र.। c) वैष १ द.। d) कथम् इति पाठः। यनि. शोधः (द्र. सप्र. वीधोत्र.)। e) द्र. पागम.। f) सपा. नक्तंका<> निशीथचा० इति पाठे.। g) षसा इति पाठः। यनि. शोधः (द्र. आपधो १६, १०, ११)। h) = जलचर-भेद-। व्यु-? (द्र. वैष १ नाक-टि.; वैतु. पा. प्रसु. <१न+√कम्)। i) या ३, २० परामृष्टः द.। j) पाठे. वैष १, १०६१ f. d.। k) पाठे. वैष १, १२९८ d. d.। l) पाठे. वृ ४६३ b. d.। m) विष.। तस्येदमीयः अण् प्र.। n) = मन्व-विशेष-। o) दस.>मलो. कस.। p) = ज्योतिर्विद्-। q) उप. = २दक्षिणा-।

आमिनय २, २, १-२ : ६; शंघ  
१३२५; -ताम् माय १, १०,  
९; २, २, १५.  
रनक्षत्र-देव(त>)ता<sup>०</sup> - ताग्याम्  
आमिनय २, २, १ : ४; २ : ३;  
-ताम् आय २, ४, १२.  
नक्षत्र-देवते( ता-३)ष्ट-नामन्<sup>०</sup>-  
मानः वायु ३, १.  
नक्षत्र-दैवत - तम् जैय १, ९ : ५.  
रनक्षत्र-दैवत<sup>०</sup> - ताम् अय १, ४२,  
५.  
नक्षत्र-द्वन्द्व - द्वे वा १, २, ६३.  
नक्षत्र-नदी-वृक्षा (क्ष-थ) मिधाना  
(न-अ)संयु(क>)का<sup>०</sup>-  
-ताम् आमिनय १, ६, १ : ३.  
नक्षत्र-नामन् - म कौय १, १६, ८;  
आमिनय २, १, ५ : ३३; आयु.  
नक्षत्रनामा( म-आ)दि- -दि  
वैय १, ७ : ८.  
नक्षत्र-नामधेय - येन धौय २,  
१, ५.  
नक्षत्र-ना( मव>)मा<sup>०</sup> - माः  
आयु ३, १३.  
नक्षत्र-निर्देश - शः बौध २,  
१, ४७.  
नक्षत्र-पथ - यम् बौधो १०, ४६ :  
१७; २०; अय ५२, १४, २;  
-येन बाधुधो २, १९ : १.  
नक्षत्रपथ-चारिन् - रिणाम्  
आमिनय २, ५, १ : ४; जैय २,  
९ : ३.  
नक्षत्र-पात्र - तस्य अय ५०, ९, ३.  
नक्षत्र-प्रतिमा - माः अथा ५, ८.  
नक्षत्र-प्रयोग - मो बौधो ५, १ : २.  
नक्षत्र-प्रवचन - नात् द्राधो २, ४,  
२३; जाधो ३, ८, १४.

नक्षत्र-भाग - मो अय १, ६, ५४ x.  
नक्षत्र-भोजन - नम् आमिनय ३,  
१२, १ : ८.  
नक्षत्र-मिस-मास - सः निम् ५,  
११ : ६.  
नक्षत्र-यज्ञ - क्षेपु काय ४२, १.  
नक्षत्र-याग - गः अय १८<sup>१</sup>, १९, २.  
नक्षत्र-योग - गम् लाधो ८, १, ५;  
-मे पावा ३, १, २६; -गैपु  
आज्यो १४, ७.  
नक्षत्र-योग-काठ - ज- जः अय  
१, ४२, २.  
नक्षत्र-राज - -ज अय १<sup>३</sup>, १, ३.  
नक्षत्र-राजन् - जानम् अय ६,  
१२८.  
नक्षत्र-वेश - शस्य अय ५२, ६, ३.  
नक्षत्र-वर्ग - गैपु आज्यो ७, ७.  
नक्षत्र-वैदित् - तारः अय १, ६, ८;  
७, ९.  
नक्षत्र-धातु - दम् आमिनय ३, ३,  
१ : ३; १२; -थे आमिनय ३, ३,  
२ : १३.  
नक्षत्र-सप्त - त्रेण बौधो २८, ४ :  
३०.  
नक्षत्र-समता - ताम् अय १, ९, ३.  
नक्षत्र-संप (न् >) वा - याम्  
आज्यो ६, ७.  
नक्षत्र-सूचक<sup>०</sup> - कः काथ २७२ ;  
५.  
नक्षत्र-स्तुति - तिभिः अय १,  
४२, ४.  
नक्षत्र-स्तोम<sup>०</sup> - माः ताधो १४,  
७८, १.  
नक्षत्र-स्नान - नानाम् अय १, ४२,  
१; -नानि अय १८<sup>१</sup>, १९, ४.  
नक्षत्रस्नान-कोविद - दः अय

१, ४२, ९.  
नक्षत्र-हविस् - विषाम् बौधो २८,  
३ : १९; -वीपि अथा १२, १.  
नक्षत्रहविस्-मध्य - प्ये बौधो  
२८, ३ : १३.  
नक्षत्र-होम - मः अय १८<sup>१</sup>, २, ९;  
-मे जैय ६, ५ : १.  
नक्षत्रा( व-अ)न-विद्या<sup>०</sup> - अया  
वाध १०, २१.  
नक्षत्रा(व-अ)वेश-वृत्ति<sup>०</sup> - चिः  
शंघ २०१.  
नक्षत्रा(व-अ)न्त-गामि(न् >)नी-  
नी अय ६३, १, ९.  
नक्षत्रा(व-अ)र्ध-गत - ते अय ६३,  
२, ३.  
नक्षत्रा(व-अ)धय<sup>०</sup> - न्यम् माय १,  
१८, २; योग २, १०, २१; द्राय  
२, ४, १२.  
नक्षत्रिय - वा ४, ४, १४१.  
नक्षत्रे(व-इ)ष्टका<sup>०</sup> - काः आपधो  
१७, ६, ५; बौधो; -कानाम्  
बौधो २२, ८ : ३२; -काभिः  
बौधो १०, ४६ : २३; १४,  
३० : ८; -काग्यः बौधो १७,  
२४ : ८; २५ : १०; २६ : १०;  
-कासु वापधो १७, ६, ११.  
नक्षत्रे(व-इ)ष्टि<sup>०</sup> - हयः आमिनय  
१, २, ११ १४; धौय ३, १, २४;  
-ष्टिम् वैध २, ५, ४; -ष्टिः  
बौधो २८, ३ : १.  
नक्षत्रो(व-उ)पद्रव - वैपु अय ६४,  
१, ३.  
✓नस्, हू पाधा. भ्वा. पर. गती,  
नक्षयति निय २, १४५.  
नख<sup>०</sup> - पाठ ५, २३; वा ६, ३, ७५;  
पाग २, ४, ३१; ४, १, ४५, ५६;

a) विप. । वस. । b) दस. > वस. । c) दस. > पस. > पुस. । d) ज्योतिर्विद्- । e) = याग-  
विशेष- । f) = ज्योतिर्विद्या- । g) पस. > वस. । h) वैप १ द्र. । i) = इष्टि-विशेष- । j) लघुराज्योपः पाठः ।



२, ८०<sup>b</sup>; ५, ३, २४; ६, ३,  
१०८<sup>b</sup>; -खम् अत्र ३, ५, ५<sup>a</sup>;  
-खस्य माशि ४, १०; -खा:  
विष १, २७; २२, ८१; २६,  
५८; -खात् आशिष्ठ १, १, १:  
२५; भाग्य १, २: १५; द्विष्ट  
१, १, २३; -खान् माथी १,  
४, १, २४; लाथी २, २, २०;  
वाध २४, ५; -खानि शीथी  
१८, २४, २०; आपथी; -खे ऋत  
५, १, ९; -खेन आपथी १,  
११, ८; २, ३, ३; भाथी; -खेभ्याः  
आपथं १, १७, ५; -खेषु आपथी  
१२, ४, १५; -खैः आपथी १२,  
४, १४, वाध.  
नखी- पा ४, १, ४५.  
नख-कृत्- -कृतः वीथी १५, १३:  
१५; १६: १.  
नख-ग्रह- -हः याशि १, ६१.  
नख-च्छेदन-> \*न-वादन-स्फोटन-  
-नानि द्विष २, ५, १०२<sup>a</sup>.  
नख-वाह- पा ५, २, २४.  
नख-निहन्तना(न-आ)दि- दि  
काथी २५, १४, ३.  
नख-निर्मिद्ध, छा- -अम् वीथी १२,  
५: २२; -खानाम् काथी १५,  
३, १४; -घायाम् वीथी २६,  
६: ६.  
नख-प्रच- पाग २, १, ७२.  
नख-भस्मन्- -स्मनाम् अष ७०,  
६, १.  
नख-मुख- -खात् पा ४, १, ५८.  
नख-मुख- पावाग ३, २, ५.

नख-पच- पा ३, २, ३४.  
नख-र- पा ४, २, ८०; पागम  
४३१.  
नख-रज(L, अ, न->)नी- पा, पाग  
४, ३, १६७.  
नख-रोम-भ्यादेन- -रा: या १४, ६.  
नख-लोमन्- -मानि विष ७१, ४४.  
नख-लोमा(म-अ)पाकरण- -गम्  
द्विष २, १, ९८<sup>a</sup>.  
नख-वादन- -नम् आपथ २, २०,  
१५.  
नख-विक्रि- -रान् शंघ ४२६.  
नख-शोधन- -नम् शंघ ५३.  
नख-शुक्ल- -तम् वाध १४, ३०.  
नखा(ख-अ)म- -मात् वीध ४, १,  
२५; वाध २५, ५.  
नखा(ख-अ)न्- -न्तम् वैष्ट २, १३:  
११.  
नखि- पाठह ४, १३९.  
नखिन्- -खिनः वाथी ३, ४, ३, २२;  
-खिनाम् विष ५, १८८.  
रनखर- पाठह ३, १३१; पाग २, ४,  
३१; पावाग ५, २, १०३<sup>b</sup>; -र:  
काथी १५, ३, १७<sup>b</sup>.  
नाखर-पावा ५, २, १०३.  
नखररज(न->)नी- नखरजनी-  
दि. द्र  
रनग<sup>१</sup>- -गान् अत्र ६८, ३, ११;  
-गानाम् अष ६४, ४, ६; -गेषु  
अत्र १, २६, ११<sup>a</sup>.  
नग-नाग-निभ- -भै. अष ६४, १,  
८.  
रनग<sup>१</sup>- पाठ ५, ६१; पा ६, ३, ७७;

पाग ४, २, ८०.

रनग-र- पा ४, २, ८०; पावा ५, २,  
१०७.

नग-धेख<sup>१</sup>- -हम् मु १३, ५.

रनगर<sup>१</sup>- पाग ४, २, ९५<sup>ab</sup>; -रम्  
वीथी २४, १४: ५; माथी;  
-राणि अष ६२, १, ७; -रात्  
अष ६८, ५, २३; -रे अष ७०<sup>a</sup>,  
६, ३; वीध; पा ६, १, १५५;  
२, ८९; -रेषु कौत् १४१, ३९;  
अष ५३, ५, २; वाध १३, ११;  
आपथ २, २६, ४<sup>b</sup>.

नगरी<sup>१</sup>-> \*र्षा(री-आ)दि-

-दौ वैध ३, १५, ११.

नागर- पाग ५, १, १२८; -र:  
अष ५१, २, २<sup>a</sup>; -रम् अष ५१, २,  
२<sup>a</sup>; -रा: अष ५१, २, १;  
-राणाम् अष ५१, ४, ३; -रान्  
अष १२, १, १२; ५१, १, १;  
-रैः वाध १६, २०.

नागर्य- पा ५, १, १२८.

नागरक- पा ४, २, १२८.

नागरेयक- पा ४, २, ९५.

नगर-काक- पाग २, १, ४८.

नगर-ग्राम-पात्रक- -कस्य काध  
२७२: ४.

नगर-चतुष्पथ- -थे माष्ट २, १४,  
२८.

नगर-निवासिन्- -सिनाम् शंघ  
२५५.

नगर-प्रविषेय- -ष: पावा २, ४, ७.

नगर-प्रवेशन- -नानि आपथ १,  
३२, २१; द्विष १, ८, ६३.

a) अर्थः ?। b) वृ. पागम.। c) = कर्मकृद्-विशेष-। d) सपा. आपथ २, २०, १५, १६  
विशिष्टः पाने.। e) वृ. पावि.। = शोषधि-विशेष-। [पक्षे] पाका. नखररजनी- इति ?। f) सप्र. आपथ २, ५, १६  
शोमसंहरणम् इति पाने.। g) = प्राणिशुच्यति-विशेष-। उच. उष. < वि. √ कर्त्तरि कृत्.। h) विष.  
(कृत्ति-).। i) वैष १ द्र.। j) अर्थः व्यु. च ?।। k) एष. = वृत्त-। l) नाप.। व्यु. ?। = नगर- इति अभा.।  
m) वृ. पाका. पागम.। नगरी- इति भाषजा., पावि.। n) सपा. द्विष २, ५, १११ निगमेषु इति पाने.।

नगर-मर्दिन्- (> पागमर्दि- पा.)

पाग ४, १, ९६.

नगर-वायस- पाग २, १, ४८.

नगर-श्वन्-पाग २, १, ४८<sup>०</sup>.

नगरा (र-आ)विपात्य- -त्यम् विध  
९२, ३१.

नगरा(र-अ)न्त- न्ते वा ७, ३, २४.

न-भोह- १न द.

नग्न, ग्ना<sup>०</sup>- पागम १५५<sup>०</sup>; -नः

बौध्री १५, ३७ : २; वाधूत्री ३,

७० : ६; ८; आद्यः -ग्नम् बौध्री

८, १४ : २८; ४२ × ४; हिथ्री ९, ४,

३२; कप्र २, १०, १०; -अया

वाधूत्री ३, ७०, ६; ८; -ग्नान्

वाधूत्री ३, ९० : ३ × ४; विध

८२, १, २७; -ग्नान् आद्य ३, ९,

६; कौश्रः गौध ९, ५०<sup>०</sup>; -ग्नान्

आपथ्री १३, १५, ९.

गान्म- -ग्नान् वाधूत्री ३,

९ : ९.

गान्क- -कान् अथा ३, ४, ११<sup>०</sup>.

गानिका<sup>०</sup>- -का वैशु ६, १२ : २८<sup>०</sup>;

गोशु ३, ४, ५; -कान् माशु १,

७, ८; वैशु.

गान्/कु> -कृत्य वैथ्री १६, १८ :

१६; हिथ्री ९, ४, ३२.

गान्-पापण्ड-भूयिष्ठ- -घाः अय

७०<sup>०</sup>, १६, ४.

गान्-प्रलभ- -भः कौश्र १४, ६.

गान्-प्रतिच्छन्द- -न्दः वैशु ५, ६ :

२६.

गान्-मुपित- पाग २, २, ३१.

गान्-वपत्र-ज<sup>०</sup>- -जः माशि १२, ५.

गान्-शुक्ल-वलीबा(र-अ)न्त-श्याष-

दन्ध-कुण्डि-कुण्डि-धर्मम् वाध ११,

१९.

गान्हु<sup>०</sup>- -हुः आपथ्री १९, ५, १०;

बौध्री; -हुना आपथ्री १९, ५, ११;

हिथ्री २३, १, ८; -हुम् बौध्री

१७, ३१ : ३; -होः बौध्री १७,

३१ : २०.

गान्हु-पूर्थ- -र्णानि काथ्री १९, १,

२०.

गान्हु-ब्रीहि-यव-गोघृम-शष्प-

-ष्पाणि माथ्री ५, २, ४, २.

गान्घारि( प >) पा<sup>०</sup>- -याम् अय

८, २<sup>४</sup>

गान्चिकेत<sup>१</sup> -> गान्चिकेत<sup>१</sup>- पागम

१५५; -तः आपथ्री १९, १३,

१७ × ४; बौध्री; -तम् आगिनृ

१, २, १ : १२; बौध्र ३, १, २३;

-तस्य बौध्री १९, ६ : १.

गान्चेत् १न द.

गान्जू<sup>१</sup>- पाग १, १, ३७; नमः अथा ३,

४, ४<sup>६</sup>; पा ५, ४, ७१ × ४; पावा;

नया पावा २, ४, ८१.

गान्कु-निपात- -तानाम् पावा ६,

२, २.

गान्पूर्व-> -वं-महया (र-आ)

नर्थक्य- -क्यम् पावा ७, ३, ४७.

गान्पूर्वा(रि-अ)ञि<sup>१</sup>- -ञोः वृद्धे

३, ९.

गान्बन्- वा पावा ६, २, १७५.

गान्बिदिष्ट- -ष्टे पावा २, १, ६०;

-ष्टेन वा २, १, ६०.

गान्बन्मास- -सा; -साद् पावा

५, १, ११९; -से पावा २, २, ६;

-सेषु पावा १, ४, १.

गान्बु- -बुभ्याम् पा ६, २, १७२;

पावा ६, २, १०८.

गान्बु-स्वर- -रः पावा ६, १, १५४.

गान्बु-पावा. अ. पर. वृत्ती; पर. बुता.

अवस्यन्दने, भाषाये ?

गान्बु<sup>३</sup> पाठ ४, १०<sup>४</sup>; पा, पाग

५, ३, ९८<sup>०</sup>; पाग ४, १, ४१; २,

४९<sup>०</sup>.

गान्बु- पा ४, १, ४१.

गान्बु- पा ४, ३, १२९.

गान्बु(द्व-आ)चार्थ-

ता- -ता बौध २, १, ४४.

गान्बु(द्व)टवा<sup>०</sup>- पा ४, २, ४९.

गान्बु- -केषु नाशि २, ८, २९.

गान्बु- न- न- द.

गान्बु-मक- -मस्तक- नाट- टि. द.

गान्बु<sup>०</sup>- पाग ४, २, ४९<sup>०</sup>; ५४<sup>०</sup>; ८०<sup>०</sup>;

९१; ५, २, १३५; ६, ३, ११६<sup>०</sup>;

-ः अर्ध ४ : ३४; -र्धम् कौश्र

६२, ७; ७१, ५; ८; अय १२,

२; -र्धेः क्य ४५, ८.

गान्बुकीय- पा ४; २, ९१.

गान्बु-भक्त- पा ४, २, ५४.

गान्बु-भ (य >) बी- -धीम् कौश्र

७१, ३.

गान्बु-वन्- पा ४, २, ८७.

गान्बु-वल्- पा ४, २, ८८.

गान्बु-स- पा ४, २, ८०.

गान्बु-नाशि- वा ६, ३, ११६.

गान्बु(न >)ने- वा ५, ३, १२५.

गान्बु- पा ४, २, ८०.

a) व्यप. । b) तु. पागम. । c) वैशु १ द. । d) <न-गना-> वस. । e) तु. संस्कृत्युः टि. 30h. च । f) [कन्यायाः] संज्ञा-विशेष- । g) विप. । वस. उप. = दन्त- । h) नया इति पाठः ! यनि. शोधः (तु. मूले). । i) वैशु ३ द. । j) = १न । k) नयः इति पाठः ! यनि. शोधः । l) वस. > वस. । उप. = > अन्व. । m) = नर्तक- । अक्ष प्र. । n) < > नन्व इति ? । o) नड- इति पाठः, पागम. । p) नाप. । q) नड- इति पाठः. । r) नड- इति [पक्षे] भाष्या. । नड- इति पागम. ।

नड्या- पा ४,२, ४९.  
 २नड- पाग ४, १, १९; ११०.  
 नाकायन- पा ४, १, १९; ११०;  
 -ना: बोधोप्र ३: १४.  
 नडकीय- प्रष्ट १नड- द.  
 नडन्तिक- कायाम् विध ८५, १९.  
 १नत्- न- द.  
 २, ३नत्- नकि- √नम् द.  
 नत्प्र- १न द.  
 नत्- (> नाचायन- पा.) पाग ४,  
 १, ११०.  
 नन्त्य- न- द.  
 नत्वा √नम् द.  
 √नद् पापा. भ्वा. परं. ऋष्यङ्गे शब्देः  
 उपा. उभ. भाषायाम्, नदति  
 अय १, ३१, २; ४८, १५०; ७२,  
 २, ३; निघ ३, १४५<sup>०</sup>; नदत्ते  
 अय ६७, ६, ५; नदमित् अय  
 ७०<sup>०</sup>, ११, २७, ७१, १४, ४;  
 अनदत् > गा तैसा ३, १२५.  
 नानदेगाम् कौष ९६, ३५.  
 नद- पाग ३, १, १३४; ४, २, ५४<sup>०</sup>;  
 ८०, -द: ऋष्य ४८, १७०<sup>०</sup>;  
 ११५<sup>०</sup>; ऋष्य ३, १६<sup>०</sup>; ४, २,  
 या ५, २६<sup>०</sup>; -दम् शोधो  
 १८, १, १३; शाधो; -द्वय  
 शोधो १८, १, १४; १५; २१;  
 शोधो ३, १, २, १३; वृदे १,  
 ५३<sup>०</sup>; या ५, २<sup>०</sup>; -देव शोधो  
 १८, १, १३<sup>०</sup>.  
 ऋष्यदी- पाग ४, २, ९७;  
 -द्वय<sup>०</sup> शोधो १८, १८: १६;  
 आमिष्ट २, ५, ११: २७; -दी

आपथो १४, २०, ४; बीथो;  
 या ४, १५; ११, २५; पा २, ४,  
 ७; ऋत् ४, ७, ५; -दी: भाग  
 २, १३: १४; हिष्ट; या २,  
 २४; -दीनाम् आपथो ३, ७,  
 ६<sup>०</sup>; बीथो; कौष्ट १३, १३,  
 १५<sup>०</sup>; ऋष्य २, २६; ४,  
 १७<sup>०</sup>; -दीभि: ऋष्य २, ३,  
 ३३; या ११, ४९<sup>०</sup>; पा २, १,  
 २०; -द्वीभ्य: वाय ४, १४,  
 २; आमिष्ट; -दीम् शोधो १६,  
 १८, १८; काथो १३, २, २६<sup>०</sup>;  
 आपथो २१, २०, ३<sup>०</sup>; बीथो  
 २९, १२: १७; हिथो १६,  
 ६, ४१<sup>०</sup>; आपथ; या २, २४;  
 ७, २०; १४, ३३; -दीषु बीथो  
 १५, १६: ८; आमिष्ट; -घा:  
 आपथो १६, ६, ४<sup>०</sup>; माथो;  
 या २, २४<sup>०</sup>; २५; -घा.३ शोध  
 ३, ६५; -घा आपथो ६, ९, ११;  
 -घा: वाथो ३, २, ५, ४३<sup>०</sup>;  
 वेताथो ३४, १५<sup>०</sup>; बीथ; -घाम्  
 आमिष्ट २, ६, ८: ५; वैष्ट ४,  
 १०: ११; अय; पा ४, २, ८५;  
 -वे बीथो १६, २३: ५<sup>०</sup>;  
 -घो: वेताथो ३६, २७<sup>०</sup>; -वी  
 बीथो १८, ३६: १.  
 नादेयो- पा ४, २,  
 ९७; -यम् विध ६४, १७; -घा:  
 बीथो २४, ५: २२; -यान्  
 बीथो १५, १६: ८; अत्राय ५,  
 ६; -घानि बीथो २२, २०:  
 ७<sup>०</sup>.

नादेयो- यो:  
 विघ १, १४.  
 नाद्य- पा ४, ४,  
 १११; -द्वय: आपथो १६, ७,  
 ४; वैथो १८, ४: २१; हिथो  
 ११, २, २.  
 नदी-कक्ष-वन-दाह-तैलो  
 (ल-उ) पभोग<sup>०</sup>- गा: बाध  
 १९, २६.  
 नदी-कच्छ- च्छ: या  
 ४, १८.  
 नदी-गिरि-तटाक- केयु  
 अय १, ४४, १.  
 नदी-जल- लं विघ  
 ९०, २८.  
 नदी-तट- -दे अय २१,  
 ४, ३.  
 नदी-तटाक-कृष-  
 -पानाम् वैष्ट १, २: २.  
 नदी-त(न>)मा- -मे  
 आपथो ७, ११, २२<sup>०</sup>.  
 नदी-तर- -रम् आपथ:  
 १, ३२, २६; हिष्ट १, ८, ६७;  
 -राणाम् वाच ३९: २०; -दे  
 पावा १, १, २२<sup>०</sup>.  
 नदी-वीर- -रम् वैष्ट ५,  
 ३: ४; -रे आमिष्ट २, ५, ४:  
 २; ६: १<sup>०</sup>; हिष्टि; -रेषु  
 आमिष्ट ३, ४, ५: ९.  
 नदी-वीर्य-समुद्र- -द्वेषु  
 बीष्टि ३, १०, ३.  
 नदी-वीर्य- -वे वृदे ४,  
 २१.

d) = कृषि-विशेष-। म्यु. १।  
 e) वा. अर्थात् वृत्तिः। e) वैष्ट १ द.। f) १नड- टि. द.। g) स्तोत्र-नाम-। h) = नदम् (अ ८,  
 १९, १) इति मन्त्रेण। i) वैष्ट १, १२१९। द.। j) सपा. नदीनाम् <> नदीभ्यः इति पाठे। k) सपा. नदीम्  
 <> नद्याः <> नद्ये इति पाठे। l) हव. > पत.। कक्ष- = कृष्ण-वृष्ट, दाह- = श्मशान-।  
 म) = नदी-तट-। n) विघ.। उभ. उप. अर्थे कृत.।

नदी-वि<sup>१</sup>दीप- -पम्  
 द्विथी २४, ६, १३; -वे आपथी  
 १५, १६, २, ३; भाथी.  
 नदी-नेक्षत्र-चन्द्र-सूर्य-  
 पृथ-देव-दत्त-रक्षिता-वर्जम्  
 वायु ३, ३.  
 नदी-नेद- -दा: बाध ८,  
 १५.  
 नदी-नामन्- -मानि  
 चाउ ३९: १; निप १, १३;  
 वा २, २४.  
 नदी-ना (मव) मा<sup>२</sup>-  
 -मा: आपथ ३, १३.  
 नदी-निर्दिता- -दा:  
 आपथ १४, ६.  
 नदी-नक्ति- -क्तिम् काथी  
 १५, ६, ३०.  
 नदी-पर्यंत-मर्यादा (दा-  
 ऋ)न्यवदि (त)वा<sup>३</sup>- -ता:  
 माथी ५, ३, १४, २३.  
 नदी-पीणैमास्या (सो-आ)  
 प्रहायणी- -जीम्य: पा ५, ४,  
 ११०.  
 नदी-श्रवण- -जेषु अय  
 ४०, ४, ५.  
 नदी-भानुपी- -पीम्य:  
 पा ४, १, ११३.  
 नदी-रजस्- -ज: कप्र १,  
 १०, १०.  
 नदी-रूप- -वाणि कीत्  
 ७१, २२; कीष्ट ८६, २५.  
 नदी-वत् वृदे २, १३६;  
 वा २, २३.  
 नदी-वाक्व- -व्यम् श्रम

२, ३, ३३.  
 नदी-शब्द-वह- -हा:  
 कप्र १, १०, ६.  
 नदी-शील-ननस्पति-  
 -तीन् विध १, १६.  
 नदी-ष्ण- पा ८, ३, ८९.  
 नदी-सङ्गम-तोष- -येन  
 अय ६८, ३, १.  
 नदी-स्तुति- -क्ति: श्रम  
 २, ५, ५०; १०, ५५; या ७, ५.  
 नद्य (दी-अ)न्वत्- -रे  
 काथी २५, १४, २२; पायु ३,  
 ११, ११.  
 नद्या (दी-आ)दि- -दी  
 कप्र १, १०, १; शंष ११४.  
 नद्य (दी-उ) इधि-रूप-  
 तदाग- -जेषु मायु २, १०, ८.  
 नद्वय<sup>४</sup> > व-वर्जम् उक्ति २:  
 ११.  
 नद-भक्त<sup>५</sup>- पा ४, ३, ५४.  
 नद-र- पा ४, ३, ८०.  
 नद्व- -द्वृ वृदे ६, १२.  
 नदन, ना<sup>६</sup>- -नत्य या ५, २; -ना:  
 या २, २४.  
 नदनिमन्<sup>७</sup>- -मा अय ३, ५, ११  
 नदनु<sup>८</sup>- पाउ ३, ५३; -<sup>९</sup>नु: अय  
 ४८, १०५; निप २, १०.  
 नदितुष्ट या ९, ३.  
 नाद<sup>१०</sup>- -दा: अय ४७, ३, ६; ४८,  
 १०१<sup>११</sup>; निप ३, १६१<sup>१२</sup>; श्रमा:  
 -दात् श्रमा १३, ७; -दे अय  
 ७२, १, ६; -देव माशि ४, ६.  
 नाद-वा- -वायु श्रमा १३, १.  
 नाद-व्यनि-संसर्ग- -गात्

आशि ८, १३.  
 नाद-वृद्धि-व (ः)वा<sup>१</sup>- -वा  
 मीष् १, १, १०.  
 नादा (द-अ)नुमदान<sup>१३</sup>- -ना:  
 आशि ४, ५.  
 नादिन्- -दिन: पाशि २४;  
 -दिना अय ४८, ११६.  
 नादि<sup>१४</sup>- -दि: पायु ३, १३, २.  
 नादित- -ते अय २१, ४, २.  
 नाद<sup>१५</sup>- -दम् पुत् २, १५: २४;  
 ३, ६: ११; दाथी; -दस्य  
 लाथी ६, १०, १०.  
 नानन्दस्- -द्वृ वीथी १०, ४:  
 १७; माथी ६, १, १, ३७; वैथी  
 १८, १: ५१.  
 नन्द- , नद्भी- ✓नह द.  
 ननन्द- पाउ ३, ९८.  
 निनना<sup>१६</sup>- -ना अय ४८, ८६; १०२;  
 निप १, ११; या ६, ६७.  
 ननान्द<sup>१७</sup>- पाउ २, ९८; पाय  
 ४, १, १०; १००; १०४;  
 -<sup>१८</sup>वृत्ति<sup>१९</sup> आपथ १, ६, ६; कायु  
 २५, ४७.  
 नान्दन्- पा ४, १, १०४.  
 नानान्नायण- पा ४, १, १००  
 ननु, ननु- -न द.  
 नन्तु- ✓नम् द.  
 ✓नन्त्वा<sup>२०</sup> पाथा भा. पद. समुद्धी,  
 नन्दते अय ६२, ३, ४; नन्वति  
 अय ६९, ३, ५; शंष २८२;  
 नन्दन्ति आथी ४, ४, ४; वाय  
 ११, ४२; नन्दाम आपथ २,  
 ५, १५; आग्निष्ट १, ४, ४: १२;  
 मायु १, ९: १६; द्विय १, ७, १०.

a) आपथी. पाठ: । b) विप. । पस. । c) विप. । दत्त. > पस. > तुत्. । d) = नद्वृ व: (श्र ८, ६६, २) । e) = देश-विशेष- । f) वैप १ द । g) भावे षष् प्र., यदा कर्तृनि ण: प्र. उत्सं. (पावा ३, १, १४०) । h) स्तोत्र-नामन् । i) विप. । पस. > वस. । j) विप. । इत् प्र. उत्सं. (पाठ ४, १२५) । k) वैष , ३३०. द. । l) पाथे. वैप १, १०६५ p द. । . m) पावा १, ३, १० पराश्रु: द. ।

द- पाग ४, १, ४१<sup>०</sup>.

नन्दा<sup>०</sup> - न्दा वैग ३, १९ :

१०; आज्यो ६, ८; -न्दाम्

आज्यो ६, ९; १३; -न्दायाम्

आज्यो ७, १; -न्दायै माण २,

१३, ६१<sup>०</sup>.

१नन्दी- पा ४, १, ४१; -न्दी

माण २, १३, ६१<sup>०</sup>; नासि १, २,

१<sup>०</sup>; -न्दीः माण १, ९, २९<sup>०</sup>.

नन्दय<sup>०</sup> > २नन्दी- -न्दी वैग

२, १ : २४.

नान्दय > नान्दी<sup>०</sup> > नान्दी-

कर- पा ३, २, २१.

नान्दीमुख<sup>०</sup> - खम् वैग

२, १ : १; ३४४; -नैः वाः वैधो १,

४ : ८; शाण; -खात् शाण ४, ४,

११; १३, -खै वैग ६, २ : १०;

शंष २१०; -खैः श्वाग्निण २,

३, २ : १; वैग ३, १२, ४; भाण.

नान्दीमुख-वत् वैग

४, ३ : ७.

नान्दी-धाद- -दः

आग्निण २, ३, २ : १६<sup>०</sup>; -द्वय

भाण ३, १६ : १.

नन्दन<sup>०</sup> - पाग ३, १, १३४; ८, ४,

३९; -नम् अण ७०<sup>०</sup>, ३, ५.

नन्दन्व- पाउ ३, १२७.

नन्दपन्त- पाउ ३, १२८.

नन्दपिणु- पाउभो २, १, ८१.

नन्दि > -न्च (न्दि-अ) तीहण-

सिणु-सभसिका (ला-घा) दि-

-दिणु पावा १, ३, १०.

नन्दि (न्) जी- -०नि विष

६७, ८.

न-पर- न-द्र.

निपात्<sup>०</sup> - पा ६, ३, ७५; -पात् माधो

२, २, १, ४; अण; या ८, ५४;

-०पात् अण १, १३; -०पातः

जैधो ९ : ८१<sup>०</sup>; -पाठम् आपधो

१७, ९, १; वैधो.

नि-पातृ<sup>०</sup> - -०तारः आपधो १२, ३,

३; हिधो ८, १, ४१.

ननुंसक<sup>०</sup> - पा ६, ३, ७५; पाग २, ४,

३१<sup>०</sup>; -कः काधो १५, १०, १८;

आग्निण २, ४, १२ : ६; शंष

३७७ : २१; ना १४, ६; -कम्

नाथो ५, २, १०, २६; वृदे; पा

१, २, ६९, २, २, २; -कस्य या

३, २१; पा ७, १, ७२; ७९;

-कात् श्वा ३, १३८; पा ५,

४, १०३; १०६; ७, १, ९६;

२३; पावा ४, २, ५५; -कानाम्

निम् १, ६ : २१; पावा ८, २, ८;

-के श्वा २, ३२; पा १, २, ४७;

३, ३, ११४; ६, २, १४; १८;

१२३; पावा २, ३, ६७; ३, ३,

४४; ५६; ७, १, ८४.

ननुंसक-ग्रहण- -णम् पावा ७, १,

२३.

ननुंसक-त्व- -त्वम् पावा ८, १,

१५; -त्वात् पावा ४, १, ९२.

ननुंसक-पणु- -णु आपधो २२, ११,

१८; हिधो १७, ५, १०.

ननुंसक-बहुवचन- -नासि अण २,

२, २१; -ने शोच १, ८४;

-नेन काधोऽं ४ : १४.

ननुंसक-ह्रस्व- -त्वे पावा १, २

४७.

ननुंसक-ह्रस्वा (स्व-अ) कृत्वसावंधा-

तुक-नामिदीप- -पैणु पावा १, २,

२८.

ननुंसका (क-आ) देश- -शैम्यः पावा

७, १, २६.

ननुंसके (क ए) कचचन- -ने पावा २,

४, २४.

ननुंसको (क-उ) पसजन-ह्रस्वत्व-

-त्वम् पावा १, १, ४७; ६, १, ७०.

न-पुरीय- १न द.

न (ति >) सी<sup>०</sup> - प्यम् या ३, ४४;

-त्थो अण ४८, ६०<sup>०</sup>.

ननृ<sup>०</sup> - पाउ २, ९५. पा ६, ४, ११;

न-प्या आपधो १०, ११, ५<sup>०</sup>;

वीधो; -सारम् वीधो ४, १० :

१०<sup>०</sup>; वृदे २, ५५; या ३, ४;

-नैः शोधो १६, ११, १५;

वृदे ५, ११३; -नृभिः या १,

१६<sup>०</sup>; -नृन् जैधोका ८६.

नफा- पाउभो २, २, २१८.

√नम् (यथा.) पाधा. अवा. दिवा.

क्या. पर. हिंसायाम्, नभवे निष

२, १९<sup>०</sup>; नभन्ताम् नैया ५,

२३; १०, ५४.

नम् (तु >) नृ- -न्वा<sup>०</sup> निष १, १३<sup>०</sup>.

नभम्<sup>०</sup> - पाउ ४, २११; -भ काधो

१७, ९, ५; आपधो; दाधो ४, २,

३१<sup>०</sup>; लाधो २, २, १२१<sup>०</sup>; अण

a) तु. पागम. ।

b) अण. द. ।

कर्त्तरि प्र. ।

निषि-सज्ञा-

(= प्रतिपद्, पठि, एकादशी- ) ।

c) = देवी-विशेष- ।

d) = मूर्च्छना-विशेष- ।

e) = वाय-विशेष- ।

f) भावे च्यः प्र. उत्सं. ( पा ५, १,

१२४ ) ।

g) = इदि- । वैप १ द. ।

वैतु. पागम. < नान्द- इति । ।

h) धाद- पिणुण- । वस. ।

i) आप. नाप. ।

j) इत्स. > वव. ।

k) वैप १ द. ।

l) पाभे. वैप २, ३ खं. तैत्रा ३, ७, ९, १ मयाकारः

दि. द. ।

m) वैप २, १ खं. द. ।

n) = पावायःपिरी- ।

o) पा १, ३, ९१; ३, १, ५५ परागटः द. ।

p) पाभे. वैप १, १०९८ वे द. ।

१४८, ७५<sup>०</sup>; १०८; १निप १,  
 ४<sup>०</sup>; या २, १४४<sup>०</sup>; ऋप्रा ४, ६४;  
 -भसः वेताथी १४, १; ३१,  
 ४१<sup>०</sup>; कौक् २१, ७१<sup>०</sup>; अण  
 ६४, १, ९; माशि २, ७;  
 -०<sup>०</sup>भसः वीथी ४, ११; २२;  
 द्विथी १०, ५, ४९; -१भसः  
 आपथी १३, २४, १९<sup>०</sup>; वीथी  
 ४, ११; २२<sup>०</sup>; वैथी १६, २०;  
 ७<sup>०</sup>; द्विथी १०, ५, ४८<sup>०</sup>; पाण  
 ३, २, ५; आश्रित ३, ५, ६; ८;  
 वीपि १, ४; २४; -भसि  
 कप्र १, ९, ३; अण ५१, २, ५;  
 ५८<sup>०</sup>, ४, ८; -१भसि<sup>०</sup> आपथी  
 १४, २८, ४; वैथी २१, १५;  
 १३; द्विथी १५, ७, १२; निघ  
 ३, ३०; -१भसे भाथी ८,  
 ९, ८; द्विथी ५, २, ५७; माण  
 १, १०, ११; -भांसि आपथी  
 २०, ११, १८; -भोग्यः आपथी  
 २०, ११, १८<sup>०</sup>.  
 नाभस<sup>०</sup> -सः अण ७०<sup>०</sup>,  
 २, ३; -सैः अण ६३, २, १,  
 नभा-प्रभेद<sup>०</sup> -नाः अण २,  
 १०, ११२.  
 नभस<sup>०</sup> - पाठ ३, ११७.  
 नभस्-तल- कम् अण ६८, १,  
 ३२; -लान् अण ५८<sup>०</sup>, १, ५;  
 ९, ४, १०.  
 १नभस्य<sup>०</sup> -स्यः काथी १७  
 ९, ५; आपथी; -स्याः शीथी  
 ८, २३, १; -स्याय वीथी ७,

१६; १७; माथी ८, ९, ८;  
 द्विथी ५, २, ५७.  
 नभस्-वत् पावा १, ४, १८.  
 १नभस्-वत् -व्यान् शीथी ६,  
 १२, ८<sup>०</sup>; आपथी ११, १४,  
 १०<sup>०</sup>; १७, २०, ११; वीथी ६,  
 २९; १८<sup>०</sup>; १०, ५४; १७;  
 माथी ६, २, ५, ३४; काथी २,  
 २, ४, २०; वैथी १४, १३; ४<sup>०</sup>;  
 द्विथी १०, ३, ४२<sup>०</sup>; १२, ६, २०;  
 अण ३, १५०.  
 नभस्यती<sup>०</sup> -तीभिः अणाय  
 २, ५.  
 नभो(भस्-अं)त- -नाः अण  
 ५२, १४, २.  
 नभो-भष्य- -ष्यम् अण ५८<sup>०</sup>,  
 ४, १३.  
 न(भस् >)भो-रूप<sup>०</sup> - > ष-  
 सत्त्व- -पौ तु २३, ५.  
 १नभ<sup>०</sup> -भम् शंभ ११६; ५१<sup>०</sup>;  
 -आय वीथी ७, १६; १४<sup>०</sup>.  
 नभ-पति<sup>०</sup> -तिः अण ६७, ७, ४.  
 १नभ<sup>०</sup> - पाण ५, १, २.  
 नभ-भाव -वे पावा ५, १, २.  
 नभ्य<sup>०</sup> - पा ५, १, २; -भ्यम् द्वि  
 १, २३, १<sup>०</sup>; -भ्यात् पावा ५,  
 १, २; -भ्ये लाथी ८, ५, ६;  
 -भ्येषु कौष्ट ३, ९, ९; अण ४,  
 ७, ८.  
 नभ्य-स्य -स्यम् पाण ३, ९, ७;  
 -स्यसोः शीथी ५, १३, ८;  
 वीथी ६, २५; ६; -स्ये काथी

८, ४, ५; आपथी.  
 नभन्- नभस्- प्रथ. √नभ् द.  
 नभाक<sup>०</sup> - पाठ ४, १५; पाण ४, १,  
 ११२; -के वृदे ३, १२८.  
 १नाभाक<sup>०</sup> - पा ४, १, ११२; -कः  
 अण २, ८, ३९; वृदे ३, ५६;  
 या १०, ५; -कस्य या १०,  
 ५१<sup>०</sup>.  
 २नाभाक<sup>०</sup> -कान् आपथी ७, २,  
 १६.  
 १निभिहिते<sup>०</sup> अणाय ५, ६१.  
 १निभो-गुल्म अण ७०<sup>०</sup>, ११, ९.  
 नभ (> धा-गिरि-पा.) पाण ६, ३,  
 ११६<sup>०</sup>.  
 न-भ्राज<sup>०</sup> -पा ६, ३, ७५; -०भ्राज<sup>०</sup>  
 माथी २, १, ४, ११.  
 √नभ् पाधा. भ्वा. पर. प्रह्वले शब्दे  
 च, नमति आपथी ७, ८, ५; १३,  
 ४, ८४४; १४, ३, ६<sup>०</sup>; माथी;  
 नमन्ते वा ४, १५; नमति ऋप्रा  
 ५, ४०; नमामि ऋप्रा ३, १;  
 १नमन्ताय काथी २, १, ३; या  
 ८, २२; नमध्वम् अण ६८, ४<sup>०</sup>;  
 अनमत् वाधुथी ४, ६४<sup>०</sup>; ३;  
 ४; नमेत् अण १९<sup>०</sup>, ३, ३; याशि  
 १, ६२.  
 १नंसन्ते निघ ४, १; या ४,  
 १५<sup>०</sup>.  
 नभ्यते<sup>०</sup> ऋप्रा ५, २०.  
 नमयेत् आपण्ड १९, १०; द्विष्ट  
 ६, ३०.  
 १नंस्यध्वम् काथी २३, ३, १;

a) = उदक-। b) पामे. वैप १, १७६८ c द.। c) = द्यावापृथिवी-। d) विप.। तत्रनवीनः  
 अण् प्र.। e) = कृत्वि-विशेष-। उक्त.। f) वैप १ द.। g) पामे. वैप १, १७६८ d द.। h) = श्वच्-।  
 i) = सर्व-विशेष-। j) वप्रा.। श्चु.।। k) = वायु-। l) = धावणमास-। m) पृष. = नभस्-। n) तेन-  
 श्चोयः अण् प्र. (पा ४, ३, ७)। o) पाठः इ नद्विते (शी ६, ४९, १) इति द्रोघः संभाव्येत। p) १नद- दि. द.।  
 q) पामे. वैप १, १७६९। द.। r) या ५, २३; ६, ६ पा ३, १, ८९; ७, २, ७३ परासृष्टः द.। s) सपा. द्विथी  
 ९, ७, ३४ संनमति इति पामे.। t) मूर्धन्यभावमापद्यत इत्यर्थः।

आपथी २२, १९, १; द्विथी ३७, ७, १०<sup>१</sup>.  
 पृथनमन्त आपथी ७, ११, ४०; ८, १, ४; पृथनमन्तुः<sup>२</sup> आपथी ५, १, १४; आपथी; पृथनमन्तुः<sup>३</sup> आपथी ६, ७, ९; काथी ९, ३, १२.  
 नन्त-न्तम् या ११, ९; १४, ३१; -तानि या १०, २६; १४, १९.  
 पृथन्त-वर्मन्-वर्णा अथ १, ४१, ३; अथ ११, ३.  
 नन्त-न्त-सुबन्त विध १, २३.  
 नन्त (त-न्त) नन्त<sup>४</sup> (> नावान-विक-पा.) पागन् ३४५.  
 नन्त<sup>५</sup>-न्तम् अथ ११, ४; -ते अथ ४, ३६; ५, ५८; १०, ३; -तेन अथ ११, ५१.  
 नन्त (त-न्त) वाचरित-कर्म-स्वर-रान् अथ १, ६२.  
 नन्त<sup>६</sup>-न्तः अथ ५, २; ६, १; १०, २०; शुभ १, ४२; -न्तम् अथ ११, ३७, -न्तु अथ १, ६६; -न्ते अथ ११, ४.  
 नन्त<sup>७</sup> ज्योतिष ४.  
 नन्त<sup>८</sup>-न्ता अथ १, ६६; -न्तु अथ ५, ५५.  
 नन्त-पाठ ३, ११०.  
 नन्त<sup>९</sup>-न्तः > विकर्मन्-न्ता या ७, १७.  
 नन्त<sup>१०</sup>-न्तः पाग १, १, २७; ४, ७४; ३, १, २७; -न्ता आपथी १, २, १<sup>१</sup>; ४, ९<sup>१</sup>; काथी; आपथं २, १७, २७<sup>१</sup>; अथ २, १, १<sup>१</sup>; अथ २, १४, ५<sup>१</sup>; अथ ४०, ३.

३<sup>१</sup>; पृथिप २, ७<sup>१</sup>; २०<sup>१</sup>; या ३, २०<sup>१</sup>; १४, ३६<sup>१</sup>; -न्तः-न्तः आपथी ४, १२, १०; नाथी, -न्तः अथ ४, ४९<sup>१</sup>; पावा ३, १, १९; -न्तः आपथी ३, ८, १; ४, ७, ४; ८, १०, १; काथी; आपथी १६, ३५, ५<sup>१</sup>; या ४, १९<sup>१</sup>; -मोभिः पृथानी २, १३, २; ३, ८, १४; काथी; आपथी १४, १७, १<sup>१</sup>.  
 पृथनमन्त<sup>१२</sup>-न्तः-न्तः अथ २, १३; -न्तम्<sup>१३</sup> काथी ६, ३०; २८; ८, ५; १४.  
 नन्त<sup>१४</sup>-न्त (न्त<sup>१५</sup>) ती-न्तया माथी ३, ५, १७<sup>१</sup>.  
 नन्त<sup>१६</sup> पा १, ४, ७४; नन्त<sup>१७</sup> अथ ५, ५, १.  
 नन्त<sup>१८</sup> माथी १, १, २, ३४; २, १, ४, ४१<sup>१</sup>; वेताथी; नन्त<sup>१९</sup> माथी १, ७, ४, ४२; वेताथी १८, ११; वेध १, ११, ९; नन्त<sup>२०</sup> अग्निथ २, ४, १२; ३; नन्त<sup>२१</sup> काथी २, ६, ४; वेध ३, ६, २.  
 नन्त<sup>२२</sup>-न्तः-न्तः काथी १२, ६; द्विपि; -न्तम् अथ १, १, ४; अग्निथ, -न्तः काथी २५, ३०; १६; शुभ २, २६२; -न्तम् काथी ५, ९, २०; आपथी, -न्तम् अथ १, ४<sup>१</sup>; -न्तः आपथी २०, १, १७; काथी.  
 नन्त<sup>२३</sup>-न्तः (त-न्त) नन्त<sup>२४</sup>-न्तम् अग्निथ २, ५, ६; ३३.

नन्त<sup>२५</sup> (त-न्त) किकि-न्तः शुभ ४, १२९.  
 नन्त<sup>२६</sup>-न्तः-न्तः-न्तः अथ १३, ३, १२.  
 पृथनमन्त<sup>२७</sup>-न्तः-न्तः काथी ६, ६, १६; -न्तः अथ २, ४; अथ १, ३९, ४.  
 पृथनमन्त<sup>२८</sup>-न्तः-न्तः काथी ७, १०; ६; वेथी १५, २३; ६; द्विथी ८, ५, ३०; ३२.  
 नन्त<sup>२९</sup>-न्तः वेताथी ११, १३; ५४, १७; अग्निथ.  
 नन्त<sup>३०</sup>-न्तः-न्तः पा ८, ३, ४०.  
 पृथनमन्त<sup>३१</sup>, नन्त<sup>३२</sup>-न्तः-न्तः आपथी १, २, ७; काथी; -न्तम् आपथी १, ४, ११; काथी १, ९, १६; -न्तम् द्विथी २१, १, १६.  
 पृथनमन्त<sup>३३</sup> पा ३, १, १९; २७; पृथनमन्त<sup>३४</sup> अथ ७, ५; अथ २, ३७, ४; पृथनमन्त<sup>३५</sup> अथ ४८, १०; निध ३, ५; नन्त<sup>३६</sup> काथी १०, १०; ६; अथ ४, ३, ६; भाथ ३, ११; १०; पृथनमन्त<sup>३७</sup> अग्निथ १, ५, ४; ४८; ६, ३; ३७; पृथनमन्त<sup>३८</sup>, >न्ता आपथी १०, ३१, ६; भाथी; पृथनमन्त<sup>३९</sup> आपथी १, ४, ११; काथी १, ६, १६.  
 नन्त<sup>४०</sup> काथी ६, १, १.  
 नन्त<sup>४१</sup>-न्तः-न्तः अथ २, ६१<sup>१</sup>.  
 पृथनमन्त<sup>४२</sup>-न्तः-न्तः काथी ४,

a) अथनमन्तम् इति पाठः ? यनि. शोध. (तु. काथी. आपथी.) । b) पाथे. वेप १, १७०० d. d. । c) विप. । वस. । d) = अन्तुदासोदात्त- । e) पारिभाषिक-संज्ञा- (= मूर्धन्य-भाव- ) । f) वेप १ द. । g) सग. शोध ४, १८, १; माथ २, ७, १ विजिह्वा पाथे. । h) शोधः वेप १ परि. अथो- दि. द. । i) अथ-नामन्- । j) = वस- । k) नन्तम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. अथ ७, १२, १) । l) पाथे. वेप १ वयोभिः अथ ३५, १ टि. द. । m) पाथे. वेप १, १७०२ g. d. । n) पाथे. वेप १, १७०२ i. d.

७, ४; शोधी १८, ८, ४.  
नमो( मस्-अ )न-न्तेन वैप  
१, ३ : २३; -न्तेः वैप ३,  
१३ : ११.

नमो-वाक- -कम् आधो १,  
१, १; शोधी १, १४, २; -के  
आधो १, ८, ७; शोधी.  
नमो-बुक्ति- -किम् शोधी १४,  
३ : २३.

नमोबुक्ति-व(त>)वी-  
न्या<sup>०</sup> आधो १२, १८, १४; शोधी.  
नमस्- पाठ ३, ११७.

नम्य- -न्यम् श्रमा १, ६६.  
नन (न्य>)न्या<sup>०</sup> -न्या अप  
४८, ७४; निप १, ७.

नन- पा ३, २, १६७; -ननः याशि  
१, २०; -नम् शोधी १२,  
१६, ११; -आम्याम् आधो २,  
१४, ३०; शोधी १, १७, १८;  
-ने आधो २, १४, ३१.

नामित- -तम् याशि १, ५४.  
नामित- -मितः अप ४७, ३, ६;  
श्रमा; -मो अप ४७, १, ८.

नामिक- > क-रेक- -काव  
शौच २, ८७.

नामि-पूर्व- -नंः श्रमा १, ७६;  
४, ४१; ५, ३१.

नाम्बु ( मि-व )व(घा>)व-  
-वः श्रमा ५, १; -वस्य शौच  
२, २९; ४२; ८१.

नन- न- द्र.

नन- (>नामायन- पा.) पाग ४,  
१, ११०.

नम-नर- न- द्र.

नमस्- प्रत्य. ✓नम् द्र.

न-मुचि- वा ६, ३, ७५; -चिम् तु  
२९, ५; -चिः शोधी १५, १५,  
१३१; आधो १८, १५, ६;  
१२, ८, १०; शोधी; द्विती  
२३, १, ३७; वेताधो ३०, १२;  
-चौ आधो १२, २, १९१.

नमेह- पागम १५५.

✓नम् पाधा. भ्वा. आत्म. गतो.

नय- नयस्- नयति- ✓नो द्र.

नयत्पर- न- द्र.

नयन- प्रत्य. नयमान- ✓नो द्र.

नयात- (>नायात्य- पा.) पाग  
५, १, १२४.

नर- पागवा ४, १, ७३; -रः शोधी  
१५, ७ : १३१; आपमः; -रम्  
अप ६८, २, ३६; विधः; -रस्य  
अप २१, २, ४; ६८, २, ३५;  
-रा या ५, १११; -राः  
शोधि १, १५ : १०१; अपः या  
५, १; ७, २१; ८, ७; ९, ९;  
१९; -राः आधो २, २,  
६; ११, ५, ११; -राणाम्  
आमि ३, १०, २ : १०; -रात्  
अप ६८, ३, १३; या ७, २१;  
-रे विध २९, १७; -रेः विध  
१००, ३; नैध ३, ९, १; वृदे  
३, ३; या ८, ६; ७; -रौ विध  
५, १८४; -रौ या ५, १.

ननारी- तु- द्र.

नर-गण- -गान् शंभ ११६ : ६४.

नर-ज- -जम् विध २३, ४०.

नर-नुरग-महीरुह- -हान् अप ६८,  
३, ११.

नर-नगर- पाग ८, ४, ३९.

नर-नारायण- पाग<sup>०</sup> २, २, ३१; ४,  
१४; -नम् शंभ ११६ : ५७.

नर-पति- पाग ५, १, १२४; -पिः  
अप ६८, ३, ७; ४, ४; -नेः अप  
७०, १, ५.

नारायण- पा ५, १, १२४.

नरपति-भवन- -ने अप ७०,  
१३, २६.

नर-याण- -णम् या ५, २६.

नर-यान- नम् अप ३, १, १७; २,  
१; ४, १, ११.

नर-युक्त- -कस्य अप ६८, २, १४.

नर-राष्ट- -रस्य या ७, ५.

नर-वसु-मित्र- -त्रेषु शौच ३, ९.

नर-वायस-नर-वानर-इव-पुंसवली-  
-लीभिः शंभ ४१२.

नर-वारण-वाजिन्- -जिनाम् अप  
६४, ६, ७.

नर-वाहन- पाग ८, ४, ३९;  
-नस्य अप १, ३२, १.

नर-व्याघ्र- पागम ११२.

नर-श्रेष्ठ- -ष्ठ अप ९, ४, ४.

नर-रक्तम्- पावा ४, २, ५१.

नर-हा-मिथ- -त्रेषु श्रमा ३, १०२.

नरा(र-अ)धम- -मा विध ५, ११५.

नरा(र-अ)धिप- -पा अप ११, २,  
१; ६८, ३, ८; ५, १७; विध ८,  
३९.

नरा(र-अ)पय- -स्यम् वा ११,  
३६.

a) विप. । बल. । b) वैप १ द्र. । c) पाप्मे. वैप १, १७७२ i द्र. । d) = श्वत्- e) = रादि- ।

f) = नति-प्रयोक्त- इकारान्ति-नर- । गितिः प्र. । g) समाहारे द्रस. । h) = श्रयि-विशेष- । व्यु. ? ।

i) 'चौ इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. मा. १९, ३४ वेताधो. च) । j) सपा. चिः <> चो इति पाप्मे. ।

k) अर्थः व्यु. च ? । l) वैप १, १७७५, ७ द्र. । m) नरः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. पूर्व ल्यलं तैत्रा ३, ७-  
७, १३ च) । n) तु. पागम. । o) वैप १ नृ-प्राण- द्वि. द्र. । p) नाप. । बल. ।

वैप-प्र-७८



बरे(र-र)न्त्र-न्त्रः अण ३, १, ८;  
 २४, ६, १; ६८, २, १०; ४, ३;  
 -न्त्रस्य षोष २, २, ६८; -न्त्राः  
 आग्निगृ २, ५, १ : ५४, कैट २,  
 ९ : ४; -न्त्राणाम् अण ५२, ९,  
 ५; ७०, २, १; -न्त्रे अण ७३,  
 ११, ७.

नतो(र-उ)जम-मः विष ७८, ५२;  
 ८५, ६६; -मम् अण ३६, ७, १.

११ नवे- -वे आधौ २, ५, २;  
 वाधौ; -वः आधौ ३, ८, १; ७,  
 १२, १; शुभ १, २०१; वा ११,  
 ३६६; -वम् वीधौ ९, २ : ८;  
 ३:४; निम् १, ७:१६; उनिम् ५;  
 २५; -वर्णि आधौ ३, १०, ६;  
 आधौ; -वर्णि वाधौ ३, २,  
 ८, १.

२ नर- पाण ४, १, १९; ऋम २, ६,  
 ३५

१ नारायण- पा ४, १, १९.

३ नर- (> नरिळ- पा.) पाण ४,  
 २, ८०.

नरक- पाउ ५, १५, -कः आण्य  
 १, ११, ४४४; द्विष; -कम्  
 अण १, ६, १; २, १०, ११;  
 वाध; वा १, ११६६; २, ११;  
 -कस्य विष ३३, ६; -काः  
 विष ४३, १; -काव विष १५,  
 ४४; मासि १५, १०; मासि २,  
 १०१; मासि २, ८, २५; -काम्  
 वैष ३, १५, १२; -काय आण्य  
 १, १२, १२; विष ३०, ४२; द्विष  
 १, ४, १३; -के द्विषि १७ : ६;

शेष; -कैम्यः वैष ३, १५, १२;

-कैषु विष ४४, १.

नरिका- पाण ७, १, ४४.

१ नारक- > नारका(क-आ)

दि- नौनाम् शौष ३, २१;  
 ४, ९०.

२ नारक- > नारकी- कौम्  
 वैधौ १८, १ : ४.

नरक-पञ्जर- नाणि शेष ३७४.

नरक-व(र>)ती- -तीः वीधौ  
 ११, १० : ४५१.

नरका(क-अ)भिमूत-दु.ल-  
 -खानाम् विष ४५, १५.

नरद- (> नदिक- पा.) पाण ४,  
 ४, ५३.

१ नारा च शंसम् ऋम २, ७८;  
 उम् २, २४.

नराची- (> १ नाराच- पा.) पाण  
 ५, १, १०५.

नरालि- (> नाराळ- पा.) नरापी-  
 टि. द.

१ नरा वा शंसम् ऋम २, ७८;  
 उम् २, २७.

१ नरा-शंस- पाण ६, २, १४०. -सः  
 आधौ १, ५, २२; ८, ७४४;  
 वाधौ; वा ८, ६६; -सम् वृदे  
 २, २८; -सस्य वीधौ ३, १९  
 २, माधौ १, ४, २, १५; वाधौ  
 १, १, ४, १; वा ८, ७; -साय  
 आधौ २४, १२, ६.

नारासं- यद.

नारासं-पीठ- नृत्वस्य आधौ  
 १२, २४, ७; वीधौ; -लेन

वीधौ ७, १७ : १२; ३२४४.  
 नारासं-यव वृदे २, १५६.

नारासं-व(र>)ती- -ती वृदे  
 ३, २१; ३२.

१ नरिष्ठा, छा- -था अण ३, ४, १;  
 -थायै शुभा ५, ३७.

नरिष्ये मपूर्व- १ न द.

२-२ नर्त- , लैक- प्रथ. √ वृत् द.

√ नर्दे पाया. भ्वा. पर. शब्दे,  
 नर्देते अण ७०, ४, ३; नर्देति  
 वैधौ ९, ३ : ९; अण ४८, ४१;  
 नासि १, ५, ८; नर्देते अण ५७,  
 १, २४४; नर्देव वैधौ ९, ३ : ९.

नर्दे- > नर्दे-वृत्- -० द आपर्मे  
 २, २२, ७१.

नर्देव- नर्देति वैधौ ९, ३ : ८.

नर्देन- -नम् अण ६४, ७, ५; ९, ९.

नर्मदा- > दा-तीर- -रे विष ८५, ८

नर्मदा-वाहुदा-तीर- -रे शेष १९४.

१ नर्म- १ नर- द.

२ नर्म- -वम् काशु ७, ३७.  
 √ नल् पाया. भ्वा. पर. गन्धे, बन्धने;  
 सुरा. पर. भाषार्थे.

१ न, ना| ल- वा ३, १, १४०.  
 २ नल, ल| ल- पाण ४, २, ८०-६; ६, ३,  
 ११९; -लम् आग्निगृ ३, ८,  
 २:४६; वीषि १, १५:५३; द्विषि  
 १५:२०; -लेन आग्निगृ ३, ८, २;  
 ४६; वीषि १, १५:५३; -लेः  
 माय २, १, १३.

१ नल-लूव- -वः आग्निगृ ३,  
 ८, २:४७; वीषि १, १५:५३-

नल-मय- -यम् भाधौ १, २२, १.

a) वैष १ द. b) = अवि-विशेष- १ ध्यु. ? c) अर्पः ध्यु. च ? d) वैष १ द. १ नर- + क-  
 (< √ कै) इति (पाद्य. प्रथ. ७, १, ४४) । e) तस्येदनीयः अण् प्र. । f) = इष्टका-विशेष- । g) विष. । सव.  
 > वर. । अग्निभूत- = ध्युभूत- । h) नाकाशुम् इति जीव. । i) = सुगन्धि-द्रव्य- । ध्यु. ? । j) नरालि- इति  
 पाद्य. । k) = नशी-विशेष- । ध्यु. ? । l) [परो] आग्निगृ. । m) = १ नल- । वैष २, १३. द. । n) अर्पः ? ।  
 o) १ नल- टि. द. । p) विष. । वस. ।

नल-वेणु-शर-कुश-स्युत- -तानाम्  
 बौध १, ६, ४२.  
 नल-गिरि- पा ६, ३, ११६.  
 नल-ले(ल-इ)ष्म- -ष्मिन् आपधी ९,  
 ३, २३; द्विधौ १५, १, ७१.  
 नले(ल-इ)पि<sup>१</sup>, पी(क>)का- -का  
 बौधि १, १४: ७; -काम् आमिष्ट  
 ३, ८, १: ७; २: ४६; बौधि १,  
 १५: ५३; द्विधि १५: १९.  
 नलेदीक<sup>२</sup>- -दौ आमिष्ट ३, ८,  
 ३: १४; बौधि १, १५: ८५.  
 नल्प- , नल्प- पा ४, २, ८०.  
 नलफुवर<sup>३</sup>- -रम् लीष ११६: ३४.  
 नलद<sup>४</sup>- पाग ४, ४, ५३; बौधी  
 २४, १४: १०; -देन आधी ६,  
 १०, ३; अण १८, ३, १.  
 नलद-माला- -लाम् आधी ६, १०,  
 ४; आमिष्ट.  
 नलद-शाखा- -खाः कौश ५१, १२.  
 नलदिक- पा ४, ४, ५३.  
 नलदी<sup>५</sup>- -दौ अथा ३, ४, ११.  
 नलिन<sup>६</sup>- पाठ २, ४९; पाग २, ४,  
 ३१.  
 नलिनो- पावाग ४, २, ५१; -नी  
 अण ७०<sup>३</sup>, ७, १.  
 नलिनो-स्वण्ड- पावा ४, २, ५१.  
 न-लोप- प्रथ. न- द.  
 नल्प- जल्प- टि. द.  
 नल्व- पाठभौ २, ३, १२९; -स्वम्  
 आमिष्ट ३, ५, ७: १८६.  
 नव, वा<sup>७</sup>- -वः शाधी १५, १७, ११;  
 अण १८, ३, ५; -ऋः-ड-नः

आधी ९, ८, ३; शाधी १४, ३३,  
 ४; बौधी; या ११, ६; -वम्  
 आपधी ५, २०, ११; १९, २३,  
 १३; बौधी; या ३, १९४; ९,  
 ४३१; १०, ३; -वस्य काधी २५,  
 ८, १५; आपधी; -वात् शाधी ३,  
 १२, १६; १७, ४, ८; आपधी;  
 -वानाम् आधी १२, ८, २६;  
 शाधी; -वानि बौधी २, ९:  
 ११; १२: ८; २४, १८: ९;  
 भाधी; -वात् बौधी १७, ३१:  
 १५; १८, ४५: २३; काष्ट  
 २१, १; अण ६८, २, २९;  
 -वायाम् बौधी २२, १७: १४;  
 गोष्ट ४, २, १३; -वे आपधी १,  
 ६, १३; बौधी; या ४, १५१४;  
 -वेन आमिष्ट ३, ७, २३; ९, ३:  
 ५; बौधि; ऋया ४, १७; ९, ४३;  
 -वेणु कौष्ट ३, ३, १, १३, ३; शाष्ट  
 ३, ४, ३; ४, १५, ५; -वैः शाधी  
 १७, ६, ५; काधी; -वै वैधी  
 २०, ३२: ५.  
 नव-कुम्भ- -म्भम् वैधी १४, १८:  
 १; आमिष्ट २, ४, ७: १६;  
 ३, ४, ५: २; बौधि ३, १०, १६.  
 नव-कृत्<sup>८</sup>- -कृत् शाष्ट ३, १२, ३१.  
 नव-नव<sup>९</sup>- -नव<sup>१</sup> आपन २, २०,  
 ३०; आमिष्ट ३, २, २: २.  
 नव-गति<sup>१०</sup>- -तयाः ना ११, १९.  
 नव-पास- -सम् वैताधी ४३, ६.  
 नव-जात, ता<sup>११</sup>- -तः दाधी ४, ३,  
 २१; लाधी २, ३, २१; या ३,

३; -तम् आधी ३, ७, १११;  
 -वे या ४, १५.  
 नव-तर- -रम् या ६, १; -रैः या  
 ७, १६.  
 नव-तोय-समुद्र<sup>१२</sup>- -वे विष २३,  
 ४५.  
 नव-धान्य- -न्यम् आमिष्ट १, ७,  
 ४: ४.  
 नव-नामन्- -मावि या ३, १९.  
 नव-नीत<sup>१३</sup>- -तम् आधी २, ६, १०;  
 काधी; -ते आपधी १९, २३, ७;  
 -तेन काधी ७, २, ३०; आपधी.  
 नवनीत-गति<sup>१४</sup>- -तयः या ११,  
 १९.  
 नवनीत-पिण्ड- -ण्डम् पाष्ट २,  
 १, ८.  
 नवनीत-वृत्ति<sup>१५</sup>- -वृत्तः काधी  
 २२, ९, १३; -वृत्तिः आपधी २२,  
 २०, १४; द्विधौ १७, ७, २५.  
 नवनीत-भाव- -वात् बौधी  
 १४, २९: २४.  
 नवनीत-मिश्र- -श्रेण कौश २८,  
 १३; -श्रेः कौश २९, २३.  
 नवनीता(त-अ)न्यत्- -फम्  
 कौश ३५, २५; -केन कौश २९,  
 २२.  
 नव-परिरथ्य<sup>१६</sup>- -थ्यात् वाधुधौ ३,  
 ७६: १७.  
 नव-प्रादान<sup>१७</sup>- -नम् पाष्ट ३, १, १.  
 नव-भोजन<sup>१८</sup>- -ने आधी २, ९, १३.  
 नव-पत्र<sup>१९</sup>- -त्रम् कत्र ३, ७, ९;  
 -त्रयोः गोष्ट ४, ७, ३८; द्राष्ट

a) आमिष्ट. पाठः । b) विप. ( परिधि- ) । विकारे मयटः प्र. लुक् उस्. ( पा ४, ३, १६३ ) ।

c) = कुवेर-पुत्र- । d) वैष १ द. । e) नाप. । व्यु. ! <✓नल् इति प्रायिकम् । f) वृ. पागम. ।  
 g) पाठः । खार्त्ति नल्वम् इत्यस्य स्थाने बौधि १, ६ : १३ खारीण्ड्वम् इति पाठे । विधेयः पृ १६७४ द. ।  
 h) नवं कुम्भम् इति म. । i) विप. । उष. उप. यतीरि कृत्. । j) पाठे. वैष १, १७७८ द. ।  
 k) विप. । वस. । l) कव. > पस. । m) = हैयद्रवीन- । n) वैष २, ३६. द. । o) विप. । वष. ।  
 उप. अर्थः ! p) = कर्म-विधेय- । q) = यज्ञ-विधेय- ।

७, २, २१; -वे गीष्ट ३, ६, ११;  
 द्राघ; -जेन ध्रुव २, १, २१; ३,  
 ६, १६.  
 माघपक्षिक- पावा ७, २, २५.  
 नव-नय- -येन आशु २, ६, १.  
 नव-वेसा(स-अ)केका(र)रा-  
 -रायाः वैश्व ३, ३ : १.  
 नव-वेसा(स-उ)घरीय-गुणाय-  
 -सैः वैश्व ७, ६ : २.  
 नव-शाला- -लायाम् कौश्व २३, १.  
 नव-श्राद्ध- -इम् वीषि २, १०, १९;  
 वीश्व ३, ६, १०; विष ७, ८, २१;  
 -इं गीष्ट ३, १२, १३; वीषि  
 २, १०, ७; शंघ ७, २२.  
 नव-स्थाली- -इयाम् काशी १६,  
 ७, ८.  
 नव-स्वरा- -रे आपय १०, ९.  
 नवा(न-अ)अ- -अम् वीधी १३,  
 ४३ : १; वैधी; -इं वैश्व ६,  
 ११ : ७.  
 नवाङ्ग-भातव- -ने आश्रिय २,  
 ७, ४ : २; अय २, ९, ११.  
 नवाङ्गारासपा(न-अ)ग्यस्क-  
 चा(अ-अ)वधूत-हीनमन्त्रा(न-  
 अ)धिकमेत्- -मैणः वीष्ट  
 ७, ११, १०.  
 नवा(व-अ)रणि- -णी वैधी २०,  
 ३१ : ६.  
 नवा(व-अ)वसान- -नम् काशु  
 १३, १; -ने आपधी ६, २, १६०.  
 नवा(व-अ)वसित- -ने काशी ७,  
 १३, ८०.  
 नवा(व-अ)शान- -ने माधी ५, १,  
 ७, २८.

नवा(व-अ)हुति- -वीः जैष्ठ १,  
 २४ : २.  
 नवि(उ)रा- -एवा वीधी ५,  
 १५ : १७१.  
 नवी/कु>नवी-कुराप आशु २,  
 ३, ३.  
 नवीन- पावा ५, ४, ३०.  
 नवीनम्- -यसिम् वीधी ९, १६ :  
 २८१.  
 नवो(व-उ)दृष्ट(त)ग- -आयाम्  
 विष २२, १३.  
 नृन्मय- पावा ५, ४, २६९; -अयः  
 या ३, २१; -अयम् वाधी  
 ६, ३, १; ४, १०; काशी; या  
 ६, ११; २३; अया ७, २५;  
 -अयम्-अयम् वीष्ट ३, ११,  
 ४; -अवेभिः आधी ६, ४, १०;  
 अया ५, ५१; उम् ३, ६.  
 नृन्मय- -अयः आधी २, १०, ४;  
 ७, ४, ६; काशी; -अयसा अय  
 २, ६, ६; -अयते वीधी ९,  
 १४ : २; ५, ७.  
 नृन्मयसी- -सी काशी १७,  
 ५६, ६; -सीभिः आधी २,  
 १, १४; ८, १४, १८; -सीयम्  
 आधी २, १५, २; ५, २०, ६;  
 काशी १०, १०, ८; निम् ३,  
 १ : १०.  
 नृन्मयकम् कौश्व ३, १५, २९.  
 नवग्राम- -माः वीधीय ५६ : ३.  
 नवम्- पाठ १, १५६; -अ आधी  
 २, १६, ९; १२××; काशी;  
 या ३, ९; १०; ६, ५; १७, ७;  
 -अ-अ आधी १२, ५, १०;

वाधी; -अभिः आपधी २२, १७,  
 ३; वीधी; -अभिः-अभिः  
 आपधी २६, १३, १३; -अयः  
 इदे १, २४; या ७, १, १६; -अयु  
 काशी ६, ९, ६; काशी; -आनाम्  
 काशी ७, ११, ४; १३, ४××;  
 आपधी २३, १७, ३; वाधी.  
 नव-क- -कः काशु ७, १५; अयः  
 अया १६, ५२; -अयम् अय  
 ३, १७; १८; इदे; -कयो-  
 अय १, ६, ५; अय ५, २६;  
 -अयम् इदे ३, १६; -का-  
 पि ३, ३३; आशु ११, ७; -के  
 अय १, ७, १; काशु; -अय इदे  
 ३, ७५; -के उनिम् १ : ३३;  
 वेणु १६; २७; -की अय १,  
 ९, ५; अय ५, ६४; अया १६,  
 ४०; पि ३, १२.  
 नवक-अयुक्ति- -अयः निम् १  
 ३ : १४.  
 नवका(क-अ)एके(क-ए)कादशा-  
 (अ-अ)एवु>अनि- -नी  
 अय ५, ४९.  
 नव-कराल- -कः आपधी १०, २०,  
 १३; २२, १०, १८; आधी;  
 -अयम् अयधी ८६; वीधी.  
 नव-कण- -णः वीष्ट १८ : ८.  
 नव-कण- -णी काशु ३, ६.  
 नव-कणवः(ः) आधी ११, ५, ६;  
 आपधी; नवकणवः-अयवः  
 वीधी २३, २१ : १.  
 नव-को- -अय अय २१, ४, ५.  
 नव-गण- -णः आशु १, ११.  
 नव-गृहीत- -अय आपधी १३,

a) फल. उप. = अय्या-। b) समाहारे दल.। c) पाठः। नृनि हुति सोप.। d) वैप. १३ द.।  
 e) परस्परं पाठे.। f) = नवावसान-। g) पाठे. वैप १, १७७८ ८ द.। h) = अयि-विशेष-। सु. ?।  
 i) परिभाषे क्व प्र.। j) उच्यते संविदां.। k) विनिः प्र. (पावा ५, १, ५८)। l) तद्विदायं विष.  
 m) = विः-प्रयाणा- २७२ (= १)। n) विप.। वल.।

१४, ६; १८, ४; वैश्री; -तने  
द्विथी ३०, ५, १०<sup>३</sup>.  
नव-प्रह-ज- -जा: वैश्र ४, १४ :  
१६.  
नव-प्रह-देवत्व<sup>०</sup>- -नम् वैश्र ६, ५:  
१.  
नवत्व<sup>०</sup>- -नवा: साधौ ५, १, २,  
१७; कौत् ८१, ३६; या ११,  
१९८; -नवास: आधौ ९, २, २२;  
-नै: आधौ ९, ३, २२.  
नवत्व-शब्द- -शब्द: श्रमा ७,  
४६.  
नव-च्छदि<sup>०</sup>- -दि आधौ ११, १०,  
१२; वीथी ६, २७ : १७; द्विथी  
७, ७, २०.  
नव-तद्वै<sup>०</sup>- -शैश्र काथी १५, ५,  
२७.  
नव-तस्<sup>(ः)</sup> आधौ ८, ५, ७; वीथी  
१५, २३ : १३<sup>३</sup>.  
नव-ति<sup>०</sup>- पा ५, १, ५९; -ति:  
आधौ १, ३, २४; शीथी;  
-तिम् आधौ ८, ३, १०;  
शीथी; -ती आधौ १, ६१<sup>३</sup>;  
-ती: सु २०, ३; वृदे ६, ११५;  
७, ५१; -तो: शीव ३, ८२;  
-था आधौ २, ४, ९ : ९.  
नव-दशन्-> -श- -श: वीथी  
१०, ४२: ५; -शे अंध ४: २५.  
नवदशा(श-श)पर<sup>०</sup>- -शे अंध  
४ : २५.  
नव-द्वार<sup>०</sup>- -नम् अंध १०, ११<sup>३</sup>.  
नव-वा वैथी १, ८ : १३; १४, २: ६;  
द्विथी; नवधाऽनवधा वीथी ७:  
१७.  
नवधा-कृत- -तयो: निस् ५,

१२: ५.  
नव-नक्षत्रक<sup>०</sup>- -के आधौ ९, १०.  
नव-नवति- -ति: वीथी १६,  
३६ : १७; २१.  
नव-प(दु>)श<sup>०</sup>- -दा अंध १०,  
९; -दा: निस् ३, १३ : ३८;  
४२; ४३.  
नवपदी<sup>०</sup>- -दी या ११, ४०<sup>३</sup>.  
नव-प्रकार<sup>०</sup>- -नम् कौथि ३४.  
नव-प्रयाज<sup>०</sup>- -जम् काथी ५, २, ७;  
वीथी २४, ११ : १०; -जस्य  
वीथी २४, १० : १७; -जेन  
वीथी २४, ११ : ११.  
नव-प्रवा(त>)श<sup>०</sup>- -दा निस् ६,  
९ : १.  
नव-भाग<sup>०</sup>- -ग: काशु २, १७.  
नव-म- -म: शीथी ५, १७, ९; १६;  
२८, ३; २९, १७; वीथी; -मम्  
आधौ ४, १२, ३; शीथी;  
-मस्य वीथी १७, २५ : ९;  
२६ : ९; धुसु; -मात् धुसु ३,  
१ : १४; १० : ३९ x x; निस्;  
-सानि वेज्यो ३९; -से आधौ  
१०, ७, ९; शीथी; या १४, ६;  
-मेन वीथी २९, २ : ७; नाथ;  
-मै: शीथी ७, ७, ११<sup>३</sup>.  
नवमी- -मी आधौ ७,  
७, ६; शीथी १६, २८, ३;  
वाधुथी; आधौ ६, १०<sup>३</sup>; -मीम्  
शीथी ९, ८, ३; आपथी; -म्व:  
आपथु १७, ९; द्विथु; -म्व  
वीथी १०, २९: १०; वैश्री; -म्व  
काथी १९, ७, ४; नाथी; -म्वाम्  
काथी २०, १, २<sup>३</sup>; आपथी;  
विष ७८, ४४<sup>३</sup>; वृदे २, १४९;

आज्यो<sup>३</sup> द्वि. ३: १३; १३, ७.  
नवमी-शुश्रु- -शुश्रुभि:  
शब्द २, १०, १०<sup>३</sup>.  
नवमी-वर्जम् वाशु ३,  
१३.  
नवम्य(नी-धन्य>)  
न्या<sup>०</sup>- -न्यस्य शब्द २, १, ३४;  
१०, १०१.  
नवम्या (मी-श्राय  
>)या<sup>०</sup>- -या: शब्द २, ७,  
५९<sup>३</sup>.  
नवम्ये (मी-ए)  
कादशी- -श्रीश्र शब्द २, ६, २१.  
नावमिक- -कम् निस् ५,  
२ : २८; ८, ३ : २१.  
नावमिकी- -की: निस्  
८, ६ : २३.  
नवम-दशम- -माम्बाम् ताथी  
७, ५, १९; -मे वीथी १६, १० :  
४; निस् ४, ११ : ५; ८, ३ :  
२८.  
नवम-दशमै(म-ए)कादश- -शाम्  
वाथी ३, ४, १, ५२.  
नवम-प्रभृति- -तिषु निस् १०,  
२ : ३१; ३२.  
नवमै (म-ए)कादश- -शे वीथि  
२, १०, ६; -शौ वैथी १०,  
२१ : ५.  
नव-मास- -सात् अंध ७१, २, ५.  
नव-मास<sup>०</sup>- -प्र: आधौ ८, ७,  
११; १०, ३, २१ x x; शीथी;  
-मम् आधौ १०, ३, १८; ११,  
६, १३; शीथी; -प्रस्य आधौ  
११, ३, ३; द्विथी १७, ९, ३;  
-जा: काथी २४, ३, २०.

a) विष. । बस. । b) वैश्र १ द. । c) समासान्तः अक्ष प्र. उत्सं. (पावा ५, ४, ७, ५) । d) पाठः १  
श्रीः इति समाख्येत । e) नवदशात् [= शौ ८+९, १] + अणपरं (=पूर्वे [= शौ ९, ८]) इति कृत्वा पंथ. ।  
f) = तिथि-विशेष- । g) = वाग-विशेष- । तद्विधायं द्विष. ।

आपथी २२, २३, ६; द्विथी १७, ८, २६; -प्राक् आपथी १०, ४, ५; -प्राक् दाथी १८, २४, ५; वीथी १६, ३१ : १०; -त्रे आपथी १२, ७, १०; काथी; -त्रेण दाथी १६, २८, १; ५; -त्री आपथी १०, ३, २०.  
नवरात्र-गर्भ- -र्भः द्विथी १८, ३, ३१.  
नवरात्र- -त्रम् वैथी २, ११ : २; द्विथी; -प्राक् क्रमिण् २, ७, ९ : ४६; माण् ३, २१ : ९; -त्रैः निस् ५, १२ : १४.  
नवरात्र-प्रभृति- -तयः निस् २, ८ : ३०.  
नवरात्र-वासु- -स्वी आपथी ६, २८, ६.  
नव(व-अ)र्ष- -र्षः दाथी २, ३, १५; लाथी ३, ७, ३; -र्षम् दाथी १०, ६, २; १८, १, ५; काथी; -र्षस्य अत्र ३, ३; -र्षानि दाथी १५, ८, १३; -र्षे दाथी १८, २, ३; -र्षेण क्रमिण् ३, ६, १ : १९; वीथि; -र्षस्यः अत्र ४६, १०, ६१.  
नव-वर्ग- -गणाम् आपथी ११, ५, ७; काथी २४, ३, २१.  
नव-विध- -धः कौस् २२, ११, -धम् दाथी १६, २८, १; २; ५.  
नव-वृत्ति- -त्तेः वीथ ३, १, ७.  
नव-वैराज-त्रयोदश- -शैः श्रम १, ६, ६; शुभ्र ५, २७.  
नव-शय- -यम् काठथी १००.  
नव-सप्तदश- -शः आपथी १०, १,

२; काथी २३, १, १४; आपथी २३, ७, ६; -शेन आपथी २२, १३, २०; द्विथी १७, ५, ४०.  
नव-सूक्त- -क्ताः अत्र २ : ११.  
नव-दोनु- -ता वीथी १७, २१ : १.  
नवा(व-अंश)ता- -ताः वीथी २७, ४ : १.  
नवा(व-अ)धर, रा- -रम् बाधूथी ४, १०० : १०; २८; -रा दाथी १६, २८, २; -राः निस् १, २ : २४; ६ : १४; ऋप्ता १६, ५१; -राभ्याम् उनिस् २ : २९.  
नवाक्षर-चतुर्दशाक्षर- -रौ निस् १, ४ : २३.  
नवाक्षर-जा- -जायाः निस् १, १ : १०, १५.  
नवाक्षर-प( व )दा- -दा ऋप्ता १६, ५०.  
नवा(व-अ)हृगुल- > श्वा(व-अ)यव- -रम् वैथी ११, ८ : ८.  
नवा(व-अ)हृगु(व)ला- -ला अत्र २६, ३, ५.  
नवाहृगुत्व- -त्वम् याथि १, ५५.  
नवा(व-अ)जुगान- -नम् जैथीप ३.  
नवा( व-अ)जुवाज- -जम् काथी ५, २, ७.  
नवा( व-अ)याम- -यम् आपथी ११, ८, १; वैथी १४, ६ : १३.  
नवा(व-अ)रिधि- -धि माथी २, २, ३, १३; वैथी १४, १० : ५; -धिः आपथी ७, १; द्विथु २, ४६१;

-जेः वीथी २४, ३५ : ६.  
नवारिधि-प्रभृति- -तयः वीथी २४, ३५ : ६.  
नवारिधि-मात्र- -प्रः बव्यू ४ : १८.  
नवारिधि-विस्तार- -रम् आपथी ११, ९, ७.  
नवा( व-अ)धि- -धिम् आपथी १६, ४, ११; वीथी १०, ५ : १११; द्विथी ११, १, ५४.  
नवा(व-अ)धि- -धिः दाथी १३, १७, २; -धम् निस् ५, १० : १६; ११ : २३, ४; -हान् निस् १०, ४ : २; ४; १२.  
नवाह-कारिन्- -रिणः निम् ५, ७ : ३.  
नवाह-योग- -गात् लाथी १०, ३, ११.  
नवाह-यो( य )गा- -गाः निस् ५, ६ : १०; ११; ९, ५ : ११; १२.  
नविन्- -वी लाथी ६, ७, १६.  
नवै( व-ए)कादशन्- > शिन्- -शिनी ऋप्ता १, ७, ८.  
नवो(व-उ)त्त- -रम् अत्र १, ६, ९.  
नवो(व-अ)न- -नः दाथी ८, ४, ५; लाथी ४, ८, ५; निस्,  
नचन- √उ द.  
न-यल्मीक- १न द.  
नवाक- पाठना ४, १४.  
नचिष्ट- नवी/ह. नवीन- , नवीयन्- -नव- द.  
नचेदस्- पा ६, ३, ७५; -त्ताः अत्र ४८, ८५; निच ३, १५.  
नव्य- , नव्यस्- , नव्यस्ती- नव- द.

a) विप. । बस. । b) समाहारे द्वि. । c) विप. , नाप. । d) = सूक्त-विषय- , तद्दत्- च । e) वच. उप. = इस्त-प्रमाण- । f) तद्विधार्थे द्वि. वा. कस. वा । g) तद्विधार्थे द्वि. । h) स्वार्थे यत् प्र. । j) वैच १ द. । j) विप. (पाठ- ) । k) विप. । लृत्. । l) मेपाति-नामन्- ।

-ने आपथ २, २८, ९; द्विष २, ९, ९; या ६, २०; पावा ३, १, ९<sup>०</sup>.  
नाशनी- नी पाठ ३, १२, ५<sup>०</sup>.  
नाशना(न-आ)कुल- -क्षे: अप ७०, ८, ४.  
नाशना(न-अ)थं- थंम् वृदे ७, १५.

नाशिकि(न >)नी- नी<sup>०</sup> आपथं २, २२, १; द्विष १, १५, ३.  
नाश्य, इया- -इय: आपथ २, २६, २१; २७, ८; २०; द्विष २, ५, २२७; २३८; -इया: कौस १००, २१.

नाश्या, प्या<sup>०</sup>- पाठयो २, ३, ७७; -प्यागाम् आपथी ११, १२, २; बीथी ६, २८; २९; वैथी १४, ८, १; -प्याभ्य, १<sup>०</sup> बीथी २, ७; १२; १२, ९; २५; पाठ २, ६, ३१; -प्याम् आपथी १६, १६, १; वैथी १८, १४; ४.

न-श्राप्-श्रत्यय- न-न- द.  
न-शार्करा-मिथ-न-साह्वल-मिथ- १ न द.

नश्यत्-, नष्ट-प्रम्. √नश् (आदर्शने) द.

√नस्<sup>०</sup> पाथा. न्वा. आत्म. कौटिल्ये, नसते<sup>१</sup> निष २, १४<sup>१</sup>; नसति<sup>१</sup> अप ४८, ४८<sup>१</sup>; निसन्त<sup>१</sup> आपथी १७, १८, १; निष ४, १; या ४, १५; ७, १०<sup>१</sup>.  
नस्<sup>०</sup>- नसम पा ५, ४, ११८; नसि

क्य ३, २, १; निसतो: बीथी ३, २५; ८; भाथी.  
न-श्रुम्<sup>१</sup>- पावा ६, १, ६२.  
नस्-वस् (ः) आथ १, १३, ५; कौय १, १२, १; ८; साथ १, १९, १; २०, ५; वैय.

नस्व<sup>०</sup>- पावा ६, १, ६२.  
न-सत्त-न, न-सिक्त १ न द.  
निसृङ्गायौ अप १, ८, २.

√नश्<sup>०</sup> पाथा. दिवा. उभ. बन्धने, नद्यते बीथी १४, ४; १४.

नद- -द: द्विथी २३, १, ११; भाथि ४९<sup>१</sup>; -दम् साथी ८, ९, ७; श्रथा १४, ४.

नद-युग<sup>१</sup>- -गम् आपथी १, १७, ५; १०, २४, ४; द्विथी १, ५, ७; -मे आपथी ११, ६, ३; भाथी १२, ६, ९.

नद-विमोक्ष- -क्षे पाठ १, १०, १; गोथ २, ४, ३.

नद(श्र >)थी<sup>०</sup>- पा ३, २, १८२.

नद्यमान- -नम् आथ ३, १२, ११.

नाह<sup>०</sup>- -ह्य वैथी ११, ८; १४.

नाहस्<sup>०</sup>- -स: सु २२, १<sup>०</sup>.

नाहि<sup>०</sup> बीथी २८, ९; २०.

नाहि १ न द.

नाहुय<sup>०</sup> पाठ ४, ७५; -य: सु २३, ३<sup>१</sup>; श्रथ २, १, १०१; लाम १, ५४६.  
नाहुय<sup>०</sup>- -०य वृदे ६, २२; -य: श्रथ २, १, १०१; वृदे ६, २०; साथ १, ५४७.

नाहुय-पुत्र- -प्रम् संध ११६; ३५.  
नाहुय<sup>०</sup>- -हुय: अप ४८, ७८; निष २, ३; श्रथा २, ४४; ८, ३.

नाहुय > थी<sup>०</sup>- थीयु थाथी १०, ९, १५<sup>१</sup>.

नाह- १ न द.

नाक<sup>०</sup>- पा ६, ३, ७५; -०क आपथी १०, ३, ३; भाथी १०, १३, ३; -क: थाथी ८, २५, ३; आपथी; या २, १४<sup>१</sup>; -कम् आथी ४, ७, ४; थाथी; आपथी १४, १७, १; द्विथी १५, ५, १<sup>१</sup>; या १, १८, १२, १३; ४१; -कस्य काथी २, २, ८; आपथी; -काय बीथी १, ३; १९; आपथं २, ६, ९; -के आथी ४, ७, ४; थाथी ५, ९, १७; १०, १५; काथी २२, ६, १५; आपथी ७, ५, १<sup>१</sup>; १६, १८, ७; बीथी; भाथी ७, ४, १<sup>१</sup>; माथी ६, २, २, ८<sup>१</sup>; वाथी २, २, २, १२<sup>१</sup>; द्विथी ४, १, ६२<sup>१</sup>.

नाक-व- -स्वम् वाथी ४, १९<sup>१</sup>; १३.

नाक-श्रु- -श्रु: आमिथ ३, ४, ४; १०; १२; -श्रुम् बीथि ३, ४, १४; १५; गीथि; -हे कौय ३, १०, ३५; वाथ २९, २९<sup>१</sup>; आपथ १, २३, १; द्विष १, ६, ९.  
नाक-सद्<sup>०</sup>- -सद्यु थाथी २, २, १, २४; द्विथी १२, १, ३३; -सद:

a) तु. पाथि. b) स्र. नाशनी <> नाशिनो इति पाथे. c) वा<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. स्र. आपथ). d) तु. स्त्री. च। e) वैष १ द.। f) पाथे. वैष १, १०८३ n द.। g) पाथे. वैष १, १५३१ j द.। h) या ६, १७, ७, १७ परामृष्टः द.। i) वैष १, १०८४ b द.। j) मुष्णुपीयः समासः (तु. कैमटः)। k) पा ६, ३, ११६; ८, ३, १४ परामृष्टः द.। l) विष.। वष.। m) = चर्मरज्जु-। n) कुर्ये षन् प्र.। o) अर्थः ध्यु. च!। p) पाठः ? नाशभि (ध्युः) इति शोचः। q) = राज-विशेष-। r) = सर्व-विशेष-। s) तरयासपीयः षन् प्र.। t) पाथे. वैष १, १०८५ f द.। u) पाथे. वैष १, १०८५ h द.। v) = इष्ट-विशेष-।

आध्री २, ८, २६<sup>३</sup>; काधी; -सदाम् शोधी १४, ७३, २<sup>३</sup>, आपध्री २२, ५, १५<sup>३</sup>; बीधी; हिधी १७, २, ४३<sup>३</sup>.  
नाकसत्-प्रभृति- -ति काधी १७, ७, १८.  
ना-शब्द- नाम् द.  
नाकु- पाठ १, १८.  
ईनाकुल- १नकुल- द.  
रनाकुल- २नकुल- द.  
नाक्षत्र- नक्षत्र- द.  
नाखर- २नखर- द.  
नाग<sup>३</sup>- पाठ ५, ६१; पागम १५५;  
-गम् बाधुधी ४, २८<sup>३</sup> : २;  
२९<sup>३</sup>, ५; आउयो<sup>३</sup> ४, ६; ११;  
-गस्य व्याज्यो ५, १५<sup>३</sup>; -गाः  
सु ३०, ६; आयः -गान् सु ३०,  
५; वैष्ट १, ४ : २२<sup>३</sup>; क्य २,  
२, ३-८; शंघ ११६ : २२;  
-गानाम् सु ८, २; अप ३६, १,  
१०; ५३, ४, २; वेज्यो ४; -गे  
आउयो ४, १३<sup>३</sup>; -गी सु १४, १.  
१नागो- पा ४, १, ४२; -गी  
सु २, १.  
नाग-दन्त- > <sup>३</sup>न्त<sup>३</sup> -न्ताः बीधी  
२२, १६ : ११.  
नागदन्त-क- > <sup>३</sup>कमुदा<sup>३</sup>-  
-द्राम् अप ६८, २, २६.  
नाग-दिन्य- -न्याम् वैष्ट १, ४ :

२२<sup>३</sup>.  
नाग-मावृ<sup>३</sup>- -त्रे बीष्ट २, ८, १२४<sup>३</sup>.  
नाग-बीधी<sup>३</sup>- -बीम् अप ५०, ४, ४.  
नागबीधी-गत- -गः अप ५०,  
६, २.  
नाग(ग-अ)धिपति- -तिः बाध  
२२, ६.  
नागे(ग-इ)न्द्र- -न्द्राः अप ५३,  
२, ४.  
नागकेसर<sup>३</sup>- -रम् अप ३५, २, २.  
नागर-, -रक-, -रैयक- २नगर- द.  
रनागी<sup>३</sup>- -गी अअ ९, ६; १५, १४;  
पि ३, १२.  
नागन्य- नान्, न्ना- द.  
नाङ्गक्षत्र- १न द.  
नाचिकेत- नचिकेत- द.  
नाट<sup>३</sup>- पाग २, ४, ३१<sup>३</sup>; ४, १, ४१<sup>३</sup>.  
नाटो- पा ४, १, ४१<sup>३</sup>.  
नाटक-, नाट्य- ✓नट् द.  
नाडायन- २नड- द.  
नाडि<sup>३</sup>- -बीम् बाधुधी ३, १०, २;  
५, १.  
ना(द, ल<sup>३</sup> >)डी, ली<sup>३</sup>- -बी कौम्  
२२, ११<sup>३</sup>; -बीः आपधी १,  
३, १९<sup>३</sup>; २१, १७, १७<sup>३</sup>; १९, ४<sup>३</sup>;  
माधी १, ३, १०<sup>३</sup>; निच १,  
११<sup>३</sup>; -बीम् बीधी १४,  
१७ : २३<sup>३</sup>; काय १७, २<sup>३</sup>;  
-क्याम्<sup>३</sup> पाठ १, १६, ३; वैष्ट

६४ : २.  
नाडि(क>)म<sup>३</sup>- -क्या वैष्ट १,  
११, २; -कायाः वेज्यो २४<sup>३</sup>;  
-के वेज्यो ३८<sup>३</sup>.  
नाडि-धम-, -धय- पा ३, २, ३०;  
पावा १, ३, १०.  
नाडी-तन्त्रो- -न्त्र्योः पा ५, ४,  
१५५.  
नाडी-मुल- -वेभ्यः वैष्ट ५, १ : २०.  
नातानतिक- ✓नय् > नत- द.  
नातिकूरमुहु-, -वीक्षण-, -नीच-,  
-वृहत्मुखो- १न द.  
नात्तायन- नत्त- द.  
✓नाय<sup>३</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. वाञ्छो-  
पतापैतयार्थाऽऽशीः सु.  
१<sup>३</sup>नाय- -यम् आपधी ७, १६, ७<sup>३</sup>;  
माधी ५, २, १३, १<sup>३</sup>; हिधी  
६, ८, ४<sup>३</sup>.  
१<sup>३</sup>नाय-काम- -मः आपर्ण १,  
१०, ३३<sup>३</sup>; पाठ.  
नाय-नत्- -नतः हिधी १५, ५,  
३९<sup>३</sup>; -न्याम् आपधी १४, २२,  
११<sup>३</sup>.  
१<sup>३</sup>नाय-विद्- -वित् आपधी ७,  
१६, ७; हिधी ६, ८, ४; -विदाः,  
-विदो माधी ५, २, १३, १.  
नायमा(न>)ना- -नाम् आपर्ण  
१, ११, २४<sup>३</sup>.  
१<sup>३</sup>नायित- -तः माधी ३, १, २८<sup>३</sup>;

- a) = शास-विशेष-। b) = सर्प-, हस्ति- प्रभृ.। व्यु. ? < १न + अम- वा < नग- वेति अभा.।  
c) = करण-विशेष-। d) विप.। विकारार्थे अण् प्र.। e) मलो. क्त.। उप. = कण्ठलोपक-। f) = वृद्-।  
g) नाक् इति पाठः ? यनि. शोधः। h) = व्योम-मार्ग-विशेष-। i) = श्रोत्र-विशेष-। व्यु. ?। j) = छन्दो-  
विशेष- [गायत्री-]। व्यु. ?। k) अर्थः व्यु. न ई। l) नाट-मस्तक- इति भाष्य. प्रभृ.। नटमक- इति  
[पक्षे] भाष्य., नटमस्तक- इति [पक्षे] पाठि.। m) तु. पाठा. पागम.। नोट- इति भाष्य. पाठि.। n) अर्थ-  
वैशिष्ट्ये पागम. द.। o) [अधमेयप्रकरणतः] इनाडमयरञ्ज- इति भाष्यम्। p) निघ. पाठः। q) वप्ता.  
व्यु. ?। r) अर्थः ?। s) = तृण-खलाका-। t) = वाय-विशेष-। u) वाहू-नाम-। v) = रथ-नामि-।  
w) = नामि-नाम-। x) = शिर-। स्वार्थे क्त् प्र.। y) = काल-परिमाण-। z) पावा १, ३, २१ पराम्यः  
द.। d<sup>३</sup>) परस्परं पाठे.। b<sup>३</sup>) पाठे. वैष्ट १, १७८७ d.। c<sup>३</sup>) पाठे. वैष्ट १, १७८७ d.

-तम्<sup>०</sup> आषथी ७, ३, १४; वीथी;  
माथी १, ७, ३, १५.  
शनाय- ✓नाय द.  
शनाय<sup>०</sup> > नाय-हरि- पा ३, २,  
२५.  
नाय- प्रथ. ✓नद द.  
✓नाय=✓नाय यद.  
पूनायमान, ना- नः भाशि ४२;  
-नाः आपथी ६, २२, १; या ४,  
३६; -नाम् काय ३०, ३; वायु  
१६, १.  
नाय<sup>०</sup> -घः या २, २.  
नानद-, नानद- ✓नद द.  
नाना<sup>०</sup> आथी ३, ९, ४; ८, २, ९;  
शाथी; पा ५, २, २७; पाग १, १,  
३७.  
नान(ना-क)विन्- -विजः निम् ८,  
६ : ५८.  
नानां(ना-अं)न- > शिन्- -शिनौ  
वीथी १२, १५ : १६; २२.  
शाना-कर्मन्- -मणाम् आपथ २,  
२३, ११; हिथ २, ५, १६४.  
नानाकर्मन्- -स्वाय मोस् १२,  
३, २७.  
शाना-कर्मन्- -मणिः या ६, ६;  
-मणि या २, ७.  
नाना-कारक- -काणाम् पावा २,  
१, ३५, -कात् पावा २, १, १.  
नाना-काल- -लेपु हिथी १, १, ६२.  
नाना-कुम्भी- -म्भीयु हिथी १४,  
४, ५०.  
नाना-क्रिया- -याणाम् पावा ३, १,  
२६.<sup>०</sup>

नाना-गृहीत- -तपोः हिथी ८, ७,  
४१.  
नाना-मोत्र- -याः आथी १२, १०,  
२; माथी ३, ८, ३; -प्रात् काय  
२४, १७; वीथ.  
नाना-मोत्र-भ्यवाय<sup>०</sup>- -पात्  
आथी २१, ३, ४.  
नाना(ना-अ)मि- -धोनाम् आपथ  
२, १२, १०.<sup>०</sup>  
नाना-चतुरध- -श्रे वीथु २ : १.  
नाना-चतुर्गृहीत- -तम्भ्याम्  
आमिथ ३, ५, ६ : २७; वीथि १,  
५ : १३; -तेः वीथी १२, ५ : ३.  
नाना-चतुर्मुष्टि<sup>०</sup>- -ष्टी वीथी २२,  
१७ : २१.  
शाना-छन्दस्- -न्दः निम् ८, ६ :  
३१<sup>१</sup>; -न्दसि निम् २, ३ : १;  
-न्दस्सु निम् ८, १ : ४.  
नानाल (न्दस् >) न्दो-गति-  
पथ<sup>०</sup>- -थः विथ १, ९.  
शाना-छन्दस्<sup>०</sup>- -न्दसि अथ २,  
१७.  
नाना-जनपद- -दे हिथी १५, ५,  
२३.  
नाना-तम्ब्र, त्त्रा<sup>०</sup>- -त्रः माथी ५,  
१, १, ३५, निम् २, २ : १०;  
-त्रम् आपथी ५, २३, ८; भाथी  
६, १८, १०; हिथी ३, ८, ७७;  
-त्राः माथी ५, २, १०, ४६;  
-त्राणि आपथी ५, २१, ६;  
अप्राय ३, ९; -त्राम् आपथी  
६, ३१, १; -त्रे हिथी ६, ८, १;  
निम् ७, ८ : २७, -त्रौ हिथी

२२, ४, ८.  
नाना(ना-अ)यय<sup>०</sup>- -यो निम् ८,  
१२ : ९.  
नाना-ख- -खम् निम् २, ७ : ३;  
५××; अय ७०<sup>१</sup>, ४, ५; मैअ ४;  
-खाय निम् २, ८ : २७; -खेन  
मीम् ८, ४, २३.  
नानाख-वृत्त- -खानि निम् ८,  
२ : २३; -से निम् १०, १ : १२.  
नानाख-प्रक्रान्त- -तेषु निम्  
१, १२ : २४.  
नानावा(त्-अ)थे- -थेः निम्  
६, ६ : २६<sup>१</sup>; ८, ८ : २८; ९ :  
१७××; -थेम् निम् ७, ३ : १४.  
नानावा(त्-अ)वृत्ता(त्-अ)  
थे<sup>०</sup>- -थेः निम् ८, ६ : ३१.  
नाना-दीक्ष- -क्षाः काथी १४,  
१, ९.  
नाना-दीक्षा- -क्षाभिः विथ १, ७.  
नाना-दीक्षा( वा-अ)वभृथ<sup>०</sup>-  
-थानि निम् ७, ३ : ५.  
नाना-देवत, ता<sup>०</sup>- -तम् निम् २, ७ :  
१०; -ताभिः शाथी १६, ७, ८;  
-ते निम् २, ७ : १५; -तेषु  
आथी ३, ४, ५; वाथी ३, २, ६,  
४७; या १३, १०.  
नाना-देवता- > ता-व्यवेत-  
-तानाम् आपथी २४, १२, ५.  
नानादेवत्य, त्या- -त्यम् अथ २,  
१२; ३, ३××; -त्या साथ २,  
६०४; -त्याः वीथी ११, ४ :  
१०; -त्यात् वीथी ११, ३ :  
३२; -त्यानाम् वीथी ११, ५ :

a) पाथे. वैप १, १०८७ d द.। b) = नासा-रज्जु-। व्यु. १। c) अर्थः व्यु. च ?। < ✓नह इति  
डु.। d) वैप १ द.। e) विप.। बस.। f) कय. > पथ.। g) सप्र. हिथ २, ४, ४६ अग्नीनाम्  
इति पाथे.। h) विप.। बस. > समाहारे दिग.। i) पाठः ? शब्दः इति शोधः संभाव्येत। j) विप.।  
बस. > पथ. समाप्तः प्र.। k) श्वर्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (वृ. संस्कृतः टि.)। l) तुस. > बस.।  
म) विप.। बस. > दस.।



८१; -त्यानि अथ ४, २३.  
 नाना-देश-स्व- -स्वात् पावा २, ३,  
 १, ५, ३, ७, २.  
 नाना-देश-स्ववन- -न्म् लाधौ  
 १०, ९, ५.  
 नाना-दैवत<sup>a</sup>- -न्म् अथ ६, ५३;  
 -ते अथ ६, ४.  
 नाना-दैवत्या<sup>a</sup>- -न्वाः वाशि २, १.  
 नाना-धान्य<sup>a</sup>- -न्वानि धौध्री १०,  
 ५५: १२.  
 नाना(ना-अ)धिकरणा(ना-अ)र्थे-  
 -र्थम् पावा ६, ३, ४६.  
 नाना-धी<sup>a</sup>- -धियः या ६, ६१<sup>क</sup>.  
 नाना-धूम-निभ- -न्माः अप ५२,  
 ३, ३.  
 नाना-निर्वचन<sup>a</sup>- -नानि वा २, ७.  
 नाना(ना-अ)न्त्व- -न्वयोः श्या १,  
 ३, १; ३.  
 नाना( ना-अ)न्वयो( य-अ)पाय-  
 -न्वेः वृदे २, ९९; ११९.  
 नाना-पत्र( क >)का<sup>b</sup>- -का माय  
 २, १३, ६१.  
 नाना-पद- -दानि अत्रा २, ३, १८;  
 -दे शौच २, १६; ३, ७९.  
 नानापद-दर्शन- -नात् शौच ४,  
 २७.  
 नानापद-नत् तैत्रा १, ४८.  
 नानापद-संघान-संयोग- -माः  
 तैत्रा २४, ३.  
 नानापद-स्थ- -स्थम् तैत्रा २०,  
 ३; -स्थे छुत्रा ३, ८०.  
 नानापद<sup>a</sup>(र-आ)बाध- -धे अत्रा  
 २, ३, १९.  
 नानापदीय- -पम् तैत्रा १, ६०.  
 नाना-पर्वन्- -र्वणोः निस् १०, ३ :  
 २८.

नानापर्वन्- -रे निस् १०, ३ :  
 २९.  
 नाना-पवमानिक- -केभ्यः निस्  
 ८, १ : १७.  
 नाना-पात्र- -त्रेषु माधौ ८, १६, ६.  
 नाना-पात्रो- -त्रीषु धौध्री २१,  
 १९ : १३.  
 नाना-पुरुष- -पाः धौघ १, २, १४.  
 नाना-पुरुष-कल्प<sup>a</sup>- -ल्वौ निस् ८,  
 १३ : ३८.  
 नाना-पृष्ठ<sup>a</sup>- -ष्ठः क्षत् २, १० : ५;  
 १४ : १०; १२; ३, १ : २०;  
 निस् १०, ७ : २३; -ष्ठे लाधौ  
 ४, ५, २४; निस् ७, ८ : २७.  
 नाना-प्रकार<sup>a</sup>- -राः वृदे १, ३४.  
 नाना-प्रगाथ-ता- -ताम् लाधौ  
 १०, ६, २.  
 नाना-प्रण(व >)या<sup>a</sup>- -न्वे शौध्री ३,  
 १६, ९; ७, २, १३.  
 नाना-प्रतिपद्- -पदः निस् ५, १ :  
 ११.  
 नाना-प्रथम- -न्ने धौध्री २७, ३ : ४.  
 नाना-प्रमाण<sup>a</sup>- -णयोः श्यापद्य २,  
 ६; हिद्य १, २७.  
 नानाप्रमाण-समास- -स्ते काद्य  
 २, २२.  
 नाना-वर्हिस्<sup>a</sup>- -र्विर्वास् धौध्री १२,  
 २ : ९; -र्विषि धिध्री ३, ५,  
 १४; -र्विषि धौध्री १३, १; १३.  
 नाना-वीज- -जानाम् श्यापथ्री ६,  
 २९, १९; धौध्री; -जानि धौध्री  
 २०, ८ : ३३; श्यापद्य ३, १५;  
 -जे मीस् ५, २, १३<sup>द</sup>; -जेषु  
 काध्री २, ४, १०; हिध्री ३, ८,  
 ६८.  
 नाना-वृहती- -न्वयः निस् ७, २; २५.

नाना-ब्रह्मसाम<sup>a</sup>- -न्मानि निस्  
 ७, ३ : १४; ९, ३ : ४; १३, ७४४.  
 नाना-ब्रह्मसाम<sup>a</sup>- -न्मा निस् ९,  
 १३४८.  
 नानाब्रह्मसाम-स्व- -स्वात् लाधौ  
 १०, ४, ४.  
 नाना-भाग<sup>a</sup>- -भाः निस् ८, १ : १७.  
 नाना-भन्व- -न्त्राम्भाम् पाय १,  
 १०, १; -न्त्रैः धैय ६, ४ : २.  
 नाना-भ्र(न्व >)न्त्रा<sup>a</sup>- -न्त्राः  
 श्यापथ्री १७, २४, ७; १४४; वाध्री;  
 -न्त्राम् धौध्री २२, ६ : १३.  
 नाना-यजुस्<sup>a</sup>- -जुषः माधौ ६, २,  
 २, १३; ६, २९; ३, १.  
 नाना-युव<sup>a</sup>- -न्वेषु शौध्री ६, ९, ५.  
 नाना-योग-करण- -णम् पावा ५,  
 २, ९७.  
 नाना-योगि-सहस्र- -न्वाग्नि वा  
 १४, ६१.  
 नाना-रता-समुप- -न्त्यानाम् अप  
 ५८, १, ४.  
 नाना-राज्य- -ज्ययोः श्यापथ्री १४,  
 २०, ४.  
 नाना-रूप, पा<sup>a</sup>- -पाः वा ३, १७.  
 -पाः पाय ३, ३, ५१; वृदे ५,  
 ९३; ८, ७२; -पाय वृदे ६, ३२.  
 नाना(ना-अ)र्थे- -र्थानाम् पावा १,  
 २, ६४; -र्थानि धौध्री ४, १, १;  
 २, १; -र्थेषु वृदे १, ४३; मीस्  
 ७, २, १५.  
 नानार्थ-स्व- -स्वात् लाधौ २, ७,  
 ५; पावा.  
 नाना-रुक्षण<sup>a</sup>- -णान् माधौ २, ३; १.  
 १, २०; -णानि काठथ्री ११६.  
 नाना-रिङ्ग-करण- -णान् पापवा  
 १, ९.

a) विप. । बस. । b) लप. = कर्ण-भूषण- । c) अथ. > हस. । d) जेषु इति जीवः ।  
 e) वैशु. सा (ता २४, ३, १४) द्वे पदे इति ।

नाना(ना-अ)वभृथ<sup>a</sup>-मानि आपथौ  
 १८, २२, २३; द्राथौ ६, ४, ५;  
 लाथौ २, १२, ६.  
 नानावर्ण<sup>b</sup>-<sup>c</sup> अय ४७, २, ८;  
<sup>c</sup> अय ७२, १, ४.  
 नानावर्ण-ध्वजा(ज-आ)कुल-  
<sup>c</sup> अय २१, ६, २.  
 नानावर्ण-स्त्री-पुत्र-समवाय-  
 ये बौध २, २, १०.  
 नानावर्मा(शे-अ)मिन-संस्कार-  
 शा: अय ५२, ३, ५.  
 नाना-वपट्का(र>)रा<sup>d</sup>-ने पाथौ  
 ७, २, १४.  
 नाना(ना-अ)वसान<sup>e</sup>- नयो: अं  
 १: २६.  
 नाना-वाक्य-स्व-<sup>f</sup> वात् पावा ३,  
 ४, ६०.  
 नाना-वि(पा>)घ<sup>g</sup>-<sup>h</sup> अय  
 ७०<sup>1</sup>, ७, १५; -घा: या १४, ६१,  
 -घानाम् विध २२, १३; -घे  
 वेष्ट ५, ११४, -घै: वृदे १, ४६.  
 नानाविध-फलो(ल-उ)दय-  
 या: अय ५८, १, ४; -यान् अय  
 ६३, १, १.  
 नाना-विभक्ति<sup>i</sup>-<sup>j</sup> की: या ६, २४;  
 -कीनाम् पावा ८, ३, ५९.  
 नाना-वीथ<sup>k</sup>-<sup>l</sup> या: शोधौ १६, २३,  
 ६, १४; -थै बौधौ १६, २४;  
 १०१.  
 नाना-वृक्ष-><sup>m</sup> क्षीय, या-<sup>n</sup> या:  
 आपथौ ५, १०, ५; बौधौ; -यान्  
 वीषि १, १४: १०, १५: ८१.

नानावृह्य, क्षया<sup>o</sup>-<sup>p</sup> अयम् बौधौ  
 १०, ५०: ४, ५१: २३; ५२: १९;  
 -क्षया: बौधौ १०, १२: ९;  
 १४: ४४४; -क्षयाणि बौधौ  
 १२, ९: २; २७, ३१: ३;  
 १८, ८: ७; -क्षयान् आपथि  
 ३, ८, १: १०; ३: १०.  
 नाना-शस्त्र<sup>q</sup>(ः) वाधूथौ ४, ८२: ५.  
 नाना-शास्त्र<sup>r</sup>-<sup>s</sup> सा: बौधौ ११,  
 ४: ११; १२.  
 नाना-शोढत-सामन्-<sup>t</sup> मानि निम्  
 ८, ८: २८.  
 नाना-साधु-<sup>u</sup> अयु: निम् ८, ६: ५७;  
 ११: २८४४.  
 नाना-सामन्-<sup>v</sup> मानि निम् १, १३:  
 ४.  
 नानासामन्-वत् लाथौ १०, ९,  
 १०; निम् ६, ७: ६५.  
 नाना-सूक्त-<sup>w</sup> काश्याम् आपथौ १७,  
 १४, २; वैथौ १९६: ७५.  
 नाना-सूत्र-<sup>x</sup> अथु बौधौ १२, १३: ५.  
 नाना-स्य<sup>y</sup>(य>)या<sup>z</sup>-<sup>aa</sup> या: बौधौ  
 १९, १०: १८१.  
 नाना-स्तोम<sup>ab</sup>-<sup>ac</sup> मा: निम् ८, ८:  
 १४.  
 नाना-सुवा(व-आ)हुति<sup>ad</sup>-<sup>ae</sup> वी:  
 आपथि १, ६, २: २.  
 नाना-स्वरा<sup>af</sup>-<sup>ag</sup> या: निम् ९, ९: २०.  
 नाना-स्वर<sup>ah</sup>-<sup>ai</sup> रवा: बौधौ ११, ४:  
 ११.  
 नाना-स्वस्व(स्ति-अ)यन-<sup>aj</sup> नाणि  
 निम् ५, ५: २४.

नाना(ना-अ)हृत्-<sup>ak</sup> ह: सु निम्  
 १, १२: २७; ३, १०: ३६;  
 -होमि: निम् ४, १२: १०; १०;  
 ८: २६; -हाम् निम् ६, ७: ४३:  
 १०, ८: २७.  
 नाना(ना-आ)हवनी(य>)या<sup>al</sup>-  
 या: काथौ सं ५: २.  
 नानाहवनीय-यक्ष-<sup>am</sup> अथे काथौ सं  
 ५: ३.  
 नाना-हृविस्-<sup>an</sup> वीषि कौस् ७४,  
 १५१.  
 नाना(ना-अ)हीन-<sup>ao</sup> नेपु आपथौ  
 २२, १४, १५; मीस् १०, ५, ५६-  
 नानाना<sup>ap</sup>-<sup>aq</sup> अयु कथ २, ९, ११२;  
 अथा ३, ४, ७.  
 नानानीय<sup>ar</sup>-<sup>as</sup> अय वृदे ६, ११९.  
 नानान्द्र-<sup>at</sup> अन्द्रायण- नानान्द्र-<sup>au</sup> द.  
 नाना ध्रान्ताय<sup>av</sup> काथौ १५, १९, १-  
 नानेय<sup>aw</sup>-<sup>ax</sup> य: या १, ६.  
 नान्त-<sup>ay</sup> न-<sup>az</sup> द.  
 नान्तरीयक-<sup>ba</sup> १ न द.  
 नानान्ते<sup>bb</sup> कौस् ८२, २१.  
 नान्त्र-<sup>bc</sup> पाठ ४, १६०.  
 नान्दी-<sup>bd</sup> वी-<sup>be</sup> क-<sup>bf</sup> प्रस्. <sup>bg</sup> नन्द द.  
 नान्यार<sup>bh</sup>-> <sup>bi</sup> वाहिदक-<sup>bj</sup> कात्,  
 अय ५६, १, ८.  
 नापित<sup>bk</sup>-<sup>bl</sup> पाठ ३, ८७; पागम ११५;  
 -<sup>bm</sup> ०त् बौधौ ६, २: ६; ३: ५;  
 जैष्ट १, ११: २१; २२; -<sup>bn</sup> त:  
 बौधौ १७, ३९: २७; आपथि;  
 -<sup>bo</sup> अयु बौधौ १७, ३९: २; आपथ;  
 -<sup>bp</sup> ताय काथौ ७, २, १२; बौधौ;

a) विप। वस। b) उप. = अश्रु-जति-रत्न-। c) विप। तत्संदेशीयः यत् प्र. उसं. (पा ४, १, १२१)। d) उप. = शस्त्र-। करणे बन् प्र.। e) कस. > तुल.। f) वैप १ द.। g) विप.। उ>इयः प्र. (पा ५, २, ५९)। h) परविभागः ? नाना ध्रान्ताय इति सा. K. (ऐ ७, १५), न, ब्रनाधा<sup>१</sup> इति सा. (पक्षे), नाना, ब्रध्रान्ता<sup>२</sup> इत्यानर्तायै माथ्यम्। i) = अन्य-। व्यु. ?। < व, बानेय- (= न्य-) इति दु. स्क. R.N.M. SEY [८५]। [पक्षे] दु. < नाना- इति च ?। j) पाठः ? नाहके इति संस्कृत्यः इति शोधः। k) = देस-विशेष-। व्यु. ?। l) वैप २, २ सं. द.।

-मं आध्री १,२,१; २,५,३<sup>१</sup>;  
 १०; ३, १३, १४<sup>१</sup>×; ६,७,  
 ८<sup>१</sup>; ९, १<sup>१</sup>; ९, १, ११<sup>१</sup>;  
 शाध्री; आध्री ९, १९, १२<sup>१</sup>;  
 आपमं १,१०,९<sup>१</sup>×; २,११,  
 २२<sup>१</sup>; निय १. १२<sup>१</sup>; या १,  
 ८<sup>१</sup>; २, १५; ३, २२<sup>१</sup>, ४, २५<sup>१</sup>;  
 २०, ५, १<sup>१</sup>; १३<sup>१</sup>; २३<sup>१</sup>, ६, १४;  
 ३२; ९, ४; १४, २<sup>१</sup>; ११;  
 ऋषा १२. १८<sup>१</sup>; --मन्  
 आध्री ८, १३, १०; शाध्री १०,  
 १४, ६; शोध्री; -मनी आध्री  
 १, ९, ५; शाध्री; आध्रि १,  
 १. ३: ६<sup>१</sup>; या ३. १०; ५,  
 ७; -ममि: शोध्री १४, २१:  
 ३०; ३१, १६, २६: १३;  
 जैध्री, वृदे २, ९, ७<sup>१</sup>; श्या १२,  
 ३; -मसु वृदे २, ९<sup>१</sup>; ऋषा  
 ६, ५६; १६, ५९<sup>१</sup>; -मानि  
 आध्री २, ६, २४; आध्री; वृदे  
 १, २७<sup>१</sup>; या १, १<sup>१</sup>; १२<sup>१</sup>; २०;  
 ३, १३, २०; ७, १; ९, २८; -मः  
 आध्र ३, १०, ३; भाध्र ३, १३,  
 ११<sup>१</sup>; दिध्र १, २४, ४<sup>१</sup>; २५, ११<sup>१</sup>;  
 आध्र; शोध्री ७, ३, ३<sup>१</sup>; -सा आध्री  
 ५, ३, १५, ८, १३, १०, शाध्री;  
 शोध्री २, १०, ३<sup>१</sup>; ११, ६<sup>१</sup>;  
 -साम् वृदे १, ८०; २, ७१; ऋन  
 ५, २, ४<sup>१</sup>; -मि शंध्र २१; वृदे  
 ८, ८५; -श्रि शंध्र २, ८, २९;  
 भाध्र ३, १३: ११.

नाम-करण<sup>१</sup> -जा: या १, १७; २,  
 २; ५<sup>१</sup>; ७, २९; १०, १७; -णम्  
 वीध्र २, १, २३; वैध्र; -णस्य वैध्र  
 ६, ४: १३; -णात् वैध्र ७, ५: २;  
 शंध्र ३, ५; -णत् वैध्र २, ५: ६<sup>१</sup>.  
 नाम-कर्मन्<sup>१</sup> -र्म जैध्र १, ९: १;  
 शंध्र १२.  
 नाम-गृह्य आध्री ३, १४, १; भाध्री  
 ३, १३, १.  
 नाम-गोत्र-ग्राधि वाध्री ३, २, १,  
 २०; -ग्राध्याम् विध्र ७३, १४;  
 २७; -त्रे कौध्र ५५, १०; गौध्र  
 २, २९; -त्रेण अघ्र ४४, १, २४.  
 नाम-ग्रहण-णम् शाध्री ६, १,  
 २४; आध्री ४, १६, ६; ११,  
 १९, ११; वैध्री १४, १७: ११.  
 नाम-ग्रहण-भोजन-ने काध्री  
 ८, ७, २१.  
 नाम-ग्राह-ह: द्राध्री १, ३, १८; ४,  
 ११××; साध्री १, ३, १७; ४,  
 ७××; निध्र; -हे वाध्री १, १,  
 ३, ११.  
 नाम-ग्राहम् काध्री ९, ११, ७; १४,  
 ५, २७; शोध्री, वा ३, ४, ५८.  
 नाम-जाति-ग्रहण-णे विध्र ५, २५  
 नाम-सह( ) जैध्रीका ७१; १५२;  
 कौध्र २, ६, ९; कौध्र.  
 नाम-दा-दा आध्रि २, ५, ६;  
 ११<sup>१</sup>.  
 नाम-धातु-सुताम् पावा ६, १, ३;  
 -तो: पावा ८, ३, ६५

नाम-धा (न>)नी<sup>१</sup>-नी निध्र ३,  
 ९: २६; -न्या निध्र ३, ९: ३७.  
 नाम-धारक-का: वीध्र १, १, ११.  
 नाम-धेय-पावा ५, ४, ३६; -यम्  
 शाध्री ९, १, ३; हिध्री; या १,  
 ६; ७; २, ५; ७; ५, ९; ८, ५;  
 ८; -यस्य पावा १, १, ७३; २,  
 ३७; -यात् काध्री १२, ४, २१;  
 वाध्र ३, १; नीध्र १२, ३, १;  
 -यानि हिध्री २, ७, ३०; निध्र;  
 या १, २०; २, २८; ७, ५; -ये  
 वीध्री २४, २०: ११; १२;  
 माध्र १, १०, १५; २२, ५; कव  
 ३, ६, ९; मीध्र १, ४, ६; -येन  
 हिध्री ७, १, ५८; निध्र २, ७:  
 ३; १८<sup>१</sup>; काध्र ४७, ११; या  
 ७, १८; २०; ३१; -येषु हिध्री  
 १०, २, ३७; -ये: वाध्री ७, ४,  
 १३; काध्री.  
 नामधेय-करण<sup>१</sup>-गम् गोध्र २,  
 ८, ८.  
 नामधेय-प्रतिलम्भ-म्भ: या  
 १, १२; -म्भम् या १, १४<sup>१</sup>.  
 नामधेय-सारूप्य-प्यात् निध्र  
 ३, ८: १३.  
 नामधेया( य-अ )महण-णम्  
 शाध्री १०, १, १७.  
 नामधेया( य-आ )दि<sup>०</sup>-दौ कध्र  
 २, ९, १८.  
 नामधेया( य-अ )नुकीर्तन-नै:  
 वृदे १, ८९.

a) कश्चिन् प्रकाश्यादिपत्रेषु दि१ सद् वा. किंवि. ( वैतु. अभा. एम- इति प्राति. ) । b) पाभे. वैप १, १०९ i द. । c) पाभे. वैप १ भृगः मे १, ४, १४ टि. द. । d) पाभे. वैप १, १०१४ iii द. । e) = उदक- । f) = प्रातिपदि- । g) सहस्र पाभे. वैप १, १०९१ i द. । h) सपा. नाम नि<sup>०</sup> इति पाठः ? यनि. घोषः ( इ. दिध्र १, ५, ६ ) । i) पाठः ! ना(=नी), मनः इति द्वि-पदः शोभः ( वृ. सपा. वीध्र १, ५, २९ वैध्र ३, ८: ९: ८ ) । आपमं १, १, १४ नौ मनाति इति पाभे. । j) पाभे. वैप १, १०१६ ० द. । k) = संस्कार-विधेय- । l) = प्रत्यय-पर्याय- । m) = नामन्- । n) = ऋण-विधेय- । उस. उप. करणे क्व । o) विप. । वस. ।

नामधेया (य-ञ)न्त-न्तव्यु  
 आपथी १०, १३, ७.  
 नामधेया(य-ञ)न्यत्व-न्वम्  
 आपथी १, ५, ३३.  
 नाम-निर्देश-न्त-शुभ ४, १३१.  
 नाम-पूर्व-न्वम् आपथ १५, ९.  
 नाम-फल-गुण-योग-न्वात् काथी  
 ४, ४, २.  
 नाम-भूत-न्ते श्रुत ५, २, ६.  
 नाम-सम्बन्ध-न्त्रैः काथी ३, २, १,  
 ३९.  
 नाम-युवप्रत्यय-न्वयोः पावा १,  
 ३, ५८.  
 नाम-रूप-न्वम् चव्यू ४ : २५;  
 -वे श्रव १, १३, ११; १६, १.  
 नाम-रूप-धर्मविशेष-गुणरक्षि-मिन्दा  
 (न्दा-ञ)राक्षि-समासिवचन-प्राय-  
 विचक्षा(त-ञ)न्याधिद्वान्त-  
 -न्वात् मीसू २, ४, ८.  
 नाम-लक्षण-जोः वृद्धे २, ७१.  
 नाम-यत् अत्रा ३, ४, १.  
 नाम-विभक्ति-न्तयः निसू ३, ९ :  
 ६; -क्तिभिः या ७, १.  
 नाम-व्यतिपन्न-न्त-ञीय-  
 -न्तौ आपथी १८, १६, १४;  
 १९, ९; द्विथी १३, ६, ३३.  
 नाम-संयुक्त-न्ताः मीसू ४, ४, २५.  
 नाम-सदृश-न्तानि अत्रा १, ३, ३.  
 नामा(म-ञ्चा)ख्यात-न्तयोः या १,  
 १; ३३; -न्ते या १, १; १२;  
 १३, ९.  
 नामाख्यात-अहण-न्वम् पावा  
 ४, ३, ७२.

नामाख्यात-विभक्ति-न्तियु  
 वृद्धे २, ९४.  
 नामाख्यातिक-न्ता ४, ३, ७२.  
 नामा(म-ञ्चा)ख्यातो (त-ञ)पसर्ग-  
 निपात-न्ताः शुभा ८, ४१;  
 याशि २, १; -दानाम् शीव  
 १, १.  
 नामा(म-ञ्चा)देश-न्ताः आपथी  
 २, १९, १४; ४, २, १०.  
 नामा(म-ञ्चा) देशम् आपथी ५, ५,  
 १६; आपथी १, ८, ७; आपथ  
 २०, १४; भाष २, १२ : ७; पा  
 ३, ४, ५८.  
 नामा(म-ञ्चा)न्त-न्ते कप्र २, २, २.  
 नामा(म-ञ्चा)न्यत्व-न्वम् वृद्धे १,  
 ७०; -त्वेन वृद्धे १, ७२.  
 नामा(म-ञ्चा)हान-न्तैः वृद्धे १,  
 ६६.  
 नामिक-न्ता ४, ३, ७२.  
 रनामि(र >)नी-नीः गो २,  
 २६.  
 नामो(म्)न्त-न्तो-भूत-न्तः या  
 ६, १६.  
 नामायन्-न्तम-द.  
 नामित-न्त, नामिन्-प्रम्. √तम् द.  
 नामिन् आपथि २, ३, ३ : २३.  
 नाम्य-न्तयः काथी १५, ४, १२.  
 नाय-न्त, नायक-न्तनी द.  
 नायात्य-न्तपात-द.  
 १, रनारक-न्त, ऋ-न्तक-द.  
 नारक-न्तपाठ १, १२२; पागन  
 १५५.  
 नारक-न्त-न्त शंथी १५, १७, ११;

अप १, ४६, १; ६१, १, ४; -न्त  
 अप २९, १, १; ५२, १, ३; ७१,  
 १, १; श्रम २, ८, १३; साध  
 १, ३८१; -दम् शंथी १५,  
 १७, १; शंथ ११६ : ४०;  
 -दस्य नाशि १, २, ७; २, ४, ९;  
 -दाय अप ६४, १, ६; ७१, २,  
 ४; -देन नाशि १, २, ३; ५,  
 १४.  
 नारदा(द-ञ्चा)त्रिय-गर्भ-गर्भाणाम्  
 अप ५२, १६, ४.  
 नारदा(द-ञ्चा)द्यु(दि-ञ)क-  
 द्युक्ष-न्त-न्त-न्त कप्र  
 १, १०, २.  
 नारदीय-न्तयम् नाशि १, २, ३.  
 नारपत्य-न्त-द.  
 नारराच-न्त-राची-द.  
 नारराच-न्त-पागन १५५; -न्ताः अप  
 ७०, ७, ८; ७१, १, ५.  
 नारायण-न्त-द.  
 नारायण-न्त-ण विध १, ५०, २८,  
 ९६; -णः जैष २, १ : १५; वैष  
 ३, ७, १३५; श्रम; -णम्  
 वैथी १, ४ : ३; १४ : ८४४;  
 १८, २० : २५६; -णस्य काथी  
 २४, ७, ३३; वैथी २०, १ : ६;  
 वाच १४ : ४; २९ : ४; ५;  
 ४२ : १३; -णात् वैष ३, ९,  
 १; -णात्वात् आपथि ३, ७,  
 ३ : २२६; कौपि २, २, ३; द्विपि  
 १९ : ९; -णाथ आपथि ३,  
 ११, ४ : ४१; वैष २, ६, ३;  
 ३, ९, ५; १०, ४; -णैः शंथी

a) = प इति पाठः इति यनि. शीवः (तु. उत्तर स्पलम्)। b) समाहारे इति.। c) = प्रकर-विशेष-।  
 d) वैष १ द.। e) व्यप. चत्रा। वैष १ निर्दिष्टानां समावेशः द.। f) पस. > द्युक्ष. > कस.। g) विप.  
 (दन्तकाष्ठ-। तस्यविचारीयः अण् प्र.। h) = शक्य-। ध्यु. ?।  
 j) णपरम् इति पाठः ? णः प इति शीवः (तु. सपा. तैश्चा १०, ११, १)।  
 अनुवाक-विशेष-। i) = सत्र-विशेष-। k) = नारायणलुति-मात्-।

१६, १३, १०; आपधी १६, २८, ३४; वैधी १८, २० : २४; द्विधी.

नारायण-परा(र-स)यण<sup>०</sup> - णः वैधी १२, १० : ६; वैध १, १ : १७; वैध १, २, ४; ५, ५.

नारायण-वलि<sup>०</sup> - लिम् आसिष्ट ३, ११, ४ : १; वैध ७, ४ : १५; वैध ३, ८, ६; ७; ९, १.

नारायण-वशा(त्य-स)यण<sup>०</sup> - नम् लाधी १०, १३, ४; -ने निम् १०, ८ : २८.

नारायण(ण-आष्या)ज्य<sup>०</sup> - ष्यस्य वैधी १८, २० : २३. नारायणा(ण-आ)दि-दीन् वैध १, ३ : २३; वैध २, १३, ५.

नारायणीय<sup>०</sup> - यम् विष ५६, २५. नारायणीय-कौण्डिन्य<sup>०</sup> - न्यस्य शुभ २, ४२८<sup>०</sup>.

नाराल- नरलि- द.

नाराशंस<sup>०</sup> - सः दाधी १६, ११, ३२, १४, ११; काधी १९, ६, ८; २५, १२, ११; आपधी १४, २८, १; २१, २, ६; बोधी ७, १५ : २४; वैधी १५, ३३ : १८; २१, १५ : १०, द्विधी १६, १, २६; जैधीका १४३; निष ५, ३, मा ९, १५; ताम्रा १६, ४; -सम् दाधी १३, १२, ७; १६, १४, १०; बोधी २५, २२ : १; वैधी २१, १५ : २; द्विधी १५, ७, ९; जैधीका १७३; दाधी ६, १, १; लाधी २, ९, १; -सस्य जैधी

१५ : ३; जैधीका १८८; -साम् आधी ५, ६, ३०; दाधी ७, ५, २१; दाधी ९, १२, ८; आपधी १२, २५, २५; काधी ३ ३ : ६; बोधी ७, १५ : १३; १७ : १०; १७; ३१; ८, ४ : २९; ७ : १८; २४; ८ : १६; १२ : ४१; १३ : २५; १०, ५० : १६; ११, ६ : ३५; १२, ७ : ४६; बोधी ५४, ३; माधी ३, ६, १२; वैधी १५, ३३ : १९; ३७ : ७; १६, १६ : ४; द्विधी ८, ७, १६; जैधी १५ : १; १७; १८ : १५; दाधी ५, १, १५; लाधी २, ५, १३; अप्राय ३, ३; वा ७, ४; -साम् अप्राय ६, ५; -साम् आपधी १२, २४, ७; २८, १; बोधी ७, १७ : ८; १२, २८; ३०; ३३; १८ : १०; ८, ७ : १६; १८; २०; ८ : १३; १५ : १७; १३ : २३; २५; २७; ११, ८ : २०; २२; १२ : ११; १२, १३ : १७; १९; १६ : १२; बोधी ५४; १०; वैधी १५, ३६ : १६; १६, ९ : ११; द्विधी ८, २, १९; २०; ८, ३३; जैधी १५; १; १७ : १; १९ : १; वैताधी २०, ७; १७; वा ११, ५; -साम् दाधी ७, ५, २२; ८, २, १३; काधी ९, १३, १५; आपधी १२, २८, ३; १३, ४, १०; ११, ५; बोधी २१, २० : २८; २२ : ११; २३ : ५; वैधी १६, ९ : १७; द्विधी ८, ८, १५, ९, २,

२७; दाधी ८, ९, १४; -साम् दाधी १६, १०, १३; ११, ३१; ऋम २१, १३; निम् ४, ८ : ५; -साम् द्विधी २१, १, २१; -सै दाधी १३, १२, ८; आपधी ३३ : ४; -सैल दाधी १३, २, ८; लाधी ५, २, ११; श्रीम् ८, १; -स्यु आधी ११, ६, ३; काधी २२, ५, १५; आपधी १३, ५, १; १२, ९; २०, २५, १५; २२, ७, १०; ८, १९; ९, २२; ११, ७; बोधी १८, २ : १३; वैधी १६, ६ : ३; १४ : ११; द्विधी ९, २, ११; ३, ५३; १०, ४, ३३; १७, ६, २६; १७, ३, १०; ४, १७; जैधी १४ : १६; १७ : १; १८ : १५; जैधीका १४६; दाधी ४, १, २३; लाधी २, १, ९; ८, ७, ५; वंताधी २०, ११; निम् ४, ८ : ४. नाराशंसि<sup>०</sup> - सै दाधी ५, १६, ७; निम् ४, ८ : २; ऋम २, १, १८; -सैः वाधी ४, २९ : १९; आप ३, १, १-३; आसिष्ट २, ६, ४ : ९; १२; वृदे ३, १५४; ७, १३९; -सैम् बोधी १०, ११ : ८; ९; लाधी ६, ४, १४; निम् ४, ८ : ४; -स्या आपधी २२, २५, १६; बोधी १६, ६ : ६; द्विधी २३, ४, १०. नाराशंस-वमस- -साम् दाधी २, ४, १, ४७. नाराशंस-वत्<sup>०</sup> - यताम् दाधी ७, ४, १५; -वन्ति वा ८, २२.

a) = पुष्प-सूक्त-। b) विप.। वस. > कस.। c) = कर्न-विशेष-। d) = सत्र-विशेष- (तु. सषा. काधी २४, ७, ३३)। e) विप.। वस.। f) तस्येदमित्यर्थे छ > ईयः प्र.। g) कस.। एष. = नारायण-शिव्य-। h) 'या कौ' इति पाठः इ यनि. बोधः (तु. भाष्यम्)। वृ ८८० सरथ. कौण्डिन्यस्य इति नेयम्। i) वैष १ द.। j) = पुष्प- (= परमात्मन्-इति भाष्यम्)। k) = प्रयाज-। l) = वमस-। m) = प्रह-विशेष-। n) = प्रवर-विशेष-। o) = ऋन्, गाथा-। p) विप. (प्रह., सूक्त-).

नाराशंस-वर्जम् आपथी १२, २८,  
१५.  
नाराशंस-सादन- नाव् आथी ५,  
१३, ११; १७, ४.  
नाराशंस-स्थान- जे काथी १४, १,  
१८.

नाराशंसिन्- -सिनाम् वैथी १८,  
५: ८; वैताथी १०, १२;  
-सीनि निम् ४, ८: ३.

रुनारि<sup>०</sup>- -रि: आपथी १५, १, ३;  
बीथी ४, २: २९; ६, २६: १;  
१८: २८: ७; ९, २: ५; माथी  
१, ८, २, २; २, २, ३, २; वाथी  
१, ६, १, १९; वैथी १३, १: ७;  
द्विथी २४, १, ३; श्च ४, ७२.

रुनारि- वृ- द.  
नारिकेल<sup>०</sup>- > ल-ज- -जन् विध  
२२, ८३.

नारिष्ठ<sup>०</sup>- ण्ठपो: आपथी २, २०, ६;  
बीथी २४, २९: १८; माथी २,  
१९, १; द्विथी २, ५, ४७; -ष्टम्  
आपथी २, २०, ६; काथीसं ४:  
१०; ५: ७; ६: ११; माथी २,  
१९, १; ७, २०, ९; द्विथी २, ५,  
४७; -ष्टाम्याम् काथी ४, १०;  
१; -ष्टौ आपथी २, २०, ६; १;  
बीथी २४, २९: १४; माथी २,  
१९, १; द्विथी २, ५, ४७.

नारिष्ठ-होम- नान् वैथी ६, १०: १.

नारी- प्रयु. वृ- द.  
नार्कचिन्द्- -न्दा: अप १, ८, २.

†रिनात्<sup>०</sup> आपथी १५, १७, ५.  
नार्तिक- √वृ> रनर्त- द.  
नार्मेत- वृ-मत्- द.  
नार्मि(ण्)>णी<sup>०</sup>- -गोम् सुम् १, ६:  
१४; १.

१, २, नार्मेध- वृ-मेध- द.  
नार्थ<sup>०</sup>- -य: निघ ३, १७.  
नार्थिवाल<sup>०</sup>- -क्ता: अप १, ८, २.  
नार्थद्- वृ-पद्- द.

रनाल्- √नल् द.  
रनाल्<sup>०</sup>- पाग २, ४, ३१<sup>२</sup>.  
नारिकेर<sup>०</sup>- पाठभो २, ३, ६१; -रै:  
गोपि १, ४, १७.

नार्लीक<sup>०</sup>- (> क्वि(र) >) नी- वा.)  
पाग ५, २, १३५.

नार्ल्य- रनल- द.  
नार्लमिक- नयन्- द.  
नार्लयशिक- नव- द.  
नार्या<sup>१</sup> माशि २, ११.

नार्याख्या: बीथी १८, ४७: १८.

नार्यिक- नी- द.  
नार्यीररस्ताम्<sup>०</sup> काथी १२, १४, ५.

रनार्य<sup>१</sup>- (> व्यापन- वा.) पाग ४,  
१, १९.

रनार्य- नी- द.  
नारदा- √नश् (भदरीने) द.

नारि(न-भ्रा)शक<sup>०</sup>- -कम् सुधप ८६:  
१; -के सुध १७.

नारदान- नार्य- प्रयु. √नश् (भदरीने)  
द.  
नार्यायण<sup>१</sup>- -गा: बीथीप्र ४: ३.

√नार्य पापा. भ्वा. आत्म. कन्दे.  
रनास,सा<sup>०</sup>- -सा विघ ९६, ७५;  
-सात्.माशि १०, १०; -साम्  
माशि १, ५, ७<sup>२</sup>.

नासा(वा-भ्र)म- -यम् वैथ ३, १४:  
७.

नासा(सा-भ्र)न्व-> ण्ठिक<sup>०</sup>- -का:  
कप ३, ८, १२.

नासा-पुद्- -रे वैथ ३, ९: ११;  
शेष ५७; ४५६.

नासापुद्-दथ- -यम् शेष ४५७;  
१; ४५८; -ये शेष ४५७: ११.

नासा-मूल- -लम् माशि २, ७१.

नासत्य<sup>०</sup>- -त्य: वृदे ७, ६; -त्या:  
आथी ५, ५, १२; १; वा ६, १३; १;  
वा ६, ३, ७५; -ण्ठ-रया आथी  
३, ८, १; ४, १५, २४; अप्राय:  
वा ६, ७; -ण्ठ-रयाम्याम् आथी  
४, १५, २; शोधो: -त्यो वृदे ३,  
२१; ४०; ८, २०; वा ६, १३; १.  
नासत्य-द्व- -सौ शेष ४५७: ११.

नासनयोग- १न द.  
रनासा<sup>१</sup>- (> नास्य-वा.) पाग ४, २, ८०

रनासिका<sup>०</sup>- पाग ५, २, १२७;  
-क्या वाप २, ३५; -क्यो: वाथी  
४, १४, २२; काथी: -का अप  
४७, २, ३; वाध २, ३५; वा ६,  
१७; शोधो: -काम्याम् आथी  
५, ६, २; काथी १६, १३, ४; १;  
आपमं १, १७, १; काथी १,  
१३, २; १; शोध १, २१, २; १;

a) = प्रवर-विशेष-। b) वैप २ द.। c) = वृध-विशेष, तत्फल-। व्यु. ?। d) वैप २, ३, ६. द.। e) = तदास्व-  
होम-। f) = देश-विशेष-। व्यु. ?। तथा. वै १३, १, १३ पागे. द.। g) यज्ञ-नामन्-। व्यु. ?। < √वृ इति दे.।  
h) अर्थ: व्यु. च ?। i) सकृत् शाल- इति पाठः.। j) पाठः ?। नी वा इति यूको.। k) पाठः इ तु. वैप १  
परि. नृवीर<sup>०</sup> टि.। अस्ताम् (< √मस् (वेपथो) इति नेष्टम्.। l) = अग्नि-विशेष-। व्यु. ?। m) = उपपातक-  
विशेष-। = अग्नि-इति अत्रार्कः [तु. संस्कृतः टि.। तथा. उप. वैप ३ अत्रार्क- टि. द.। n) वृ १७९ C  
द.। o) भवार्थे ठक् प्र.। p) वैप. पाठ. पाशि. प्रयु. प्र.३ इति। q) तु. पागम.। r) पागे. वैप

अप २३,३,२; -काम् वैप १,२;  
 १०,१९; -कायाः मासि १,११;  
 २,१३; नासि १,६,१३; पा ५,  
 २,३१; ४, ११८; पावा ६, १,  
 ६३; -क्याम् आपथी १६,  
 २७,४; बोथी; -के साथी ४,७,  
 ११; काथी; पा ६,१७.  
 नासिकं-धम- -कं-थय- पा, नावा  
 ३,२,२९.  
 नासिक-वत् वैथी ११,७:९.  
 नासिका(का-अ)म- -प्रम् विष ९७,  
 १७; -त्रे वृदे ८, ११३.  
 नासिकाप्र-त्सु( ) यासि १,  
 ५५.  
 नासिका-च्छिद्र- -द्रयोः आसि ३,  
 ४,१:३०; -त्रे वाथी २,१,७,  
 ५; आसि ७.  
 नासिका(का-आ)दि- -दिभ्यः,  
 -दीनाम् पावा ४,१,५५.  
 नासिका(का-अ)न्त- -न्तः वैप २,  
 ४. ४.  
 नासिका-पुट- -टयो. वैप ५,४:४;  
 २६.  
 नासिका-प्रभव- -वौ या ६, १३.  
 नासिका-मूल- -लेन शुभा १,८२.  
 नासिका लोचन-खग-विद्धा-धोत्र-  
 -त्रम् विष ९६,१४.  
 नासिका-निवरण- -णात् तैमा २,  
 ५२.  
 नासिका-स्थान- -नम् ऋपा ६,  
 ४१; -नाः तैमा २,४९; आसि  
 १,२४.  
 नासिका-स्रोतस्- -तसि भोथ २,६,  
 १०; दाथ २,३,२३.

नासिको(का-उ)दरी (र-ओ)छ-च्छा-  
 दन्त-कर्म-श्रद्ध- -द्वात् पा ४,  
 १, ५५.  
 नासिको(का-ओ)ठ- -ठौ शैशि ४१;  
 आसि ८, २४.  
 १नासिक्य,क्या<sup>१</sup> - पावा ६,१,६३;  
 कि ६५; -क्यः वृदे ८, ११८;  
 शुभा; -क्यम् अप ४७,२, १०;  
 ऋपा; -क्यस्य चाथ ८:३<sup>१</sup>;  
 -क्या ऋपा ६, ३६<sup>०</sup>; -क्याः  
 तैमा २,४९; २१, ८; १३; शैशि  
 २५; २७; आसि १,१९; -क्याम्  
 ऋपा १,४७; -क्यानाम् शौच  
 १,२६; -क्ये अप ४७, २, ३;  
 -क्येन वैताथी ५, १६; शौच  
 १,१००.  
 नासिक्य-निद्धाम्लीय- -याः  
 आसि १, २१.  
 नासिक्य-भ्यामा (म-अ)नुस्वार-  
 -रान् ऋपा १,४८.  
 नासिक्य-लत्व-मर्य- -र्ये  
 भासि ९३.  
 नासिक्य-संगठ- -तम् शैशि  
 २२३.  
 नासिक्यपा(क्य-अ)भिनिधान-  
 -नौ आ ४७,१,११.  
 नासिक्यौ(क्य-ओ)ठ- -ठ्याः  
 शुभा १,८०.  
 २नासिका<sup>१</sup> -काम् आ १,२६,५.  
 ३नासिका<sup>१</sup> (> २नासिक्य-पा.)  
 पाग ४,२,८०.  
 नासीर<sup>१</sup> -पाउना ४,३६.  
 नास्तिक- -स्त्रिक्य- १न द.  
 नास्य- २नासा- द.

नाह- ✓नह द.  
 नाहल<sup>१</sup> - पाउमो २,३,९९.  
 १नाहुप- १नहुप- द.  
 २नाहुप- -थी- नहुप- द.  
 नि या १,३; ऋपा १५, १७; शुभा ६,  
 २४; तैमा १, १७; पाग १, ४,  
 ५८.  
 नि- मेः पा ६, २,१९२.  
 ✓निस<sup>१</sup> पापा. अदा. आराम. बुम्बने-  
 निवान- नम् द्विथी ३,२,५३<sup>१</sup>.  
 नि(स् >): ✓क्षिप्, नि.क्षिपेत्  
 क्य १,४,३.  
 नि(स् >)-पुरीप<sup>१</sup>- -यम् आपथी ६,  
 १०,५.  
 नि(स् >)-प्रकम्प- > स्मिप-  
 -स्मिपः अप ६८,१,२६.  
 नि(स् >)-प्रकाश<sup>१</sup>- -प्रम्<sup>१</sup> अप  
 ६४,२,३.  
 नि(स् >)-प्र(भा>)म<sup>१</sup>- -मः अप  
 ७०<sup>१</sup>,११,३; -भाजि अर ५२,  
 ११,२.  
 नि.प्रम-अ(भा>)म<sup>१</sup>- -भाः अप  
 ५२, ८,५.  
 नि(स् >): ✓प्लु, निःप्लाक्यामि द्विथी  
 ६, ६,२४<sup>१</sup>.  
 नि-कट<sup>१</sup>- -अथोः कोथ १,२१, १६;  
 शोथ १, २८, १८; -क्षे वाथी  
 १८,२,१; ३, ३; नाथी ६, २,  
 ४, ९.  
 रनिकट<sup>१</sup>- पाग<sup>१</sup> २, ४, ३१, ४, ४,  
 ७३; पा. १,१२४.  
 नैकटिक- पा ४,४,७३.  
 नैकट- पा ५,१,१२८.  
 रनिकट<sup>१</sup>- -राम्याम् कौथ ३०,१०.

a) कतिः प्र. १ विद्योः वैप १, १७५५ j द. । b) स्वनासि<sup>१</sup> इति जीसं. । c) विप. । वस. ।  
 d) विर. > नाप. (अनुनासिक, अनुस्वार, यम-) । e) विर. । f) वैप १ द. । g) कर्त्यः व्यु. च १ ।  
 h) पा ८,४,३३ पावा ८,३,५८ परावृष्टः द. । i) वा. क्वि. । j) वैप २,३ सं. द. । k) = सनीप- । व्यु. १ ।  
 <नि✓कट इति अभा. शक. । l) वृ. पागम. ।

निकाटित- (> पतिव्- पा.)  
 नि/कथ् > निकथित- टि. द.  
 नि/कथ् > निकथित- (> पतिव्-  
 पा.) पाग ५, २, ८८.  
 नि/कम्. निकामयते निम् ८, ४ :  
 ४; नि...कामयते बोधो १४,  
 २४ : १; १४; नि (कामयते)  
 बोधो १४, २४ : २; १४;  
 निकामयते कावृत् ३९ : ४.  
 नि-काम- -मः श्राप ५, २, ५<sup>०</sup>;  
 श्राप २, ७, १४; हिष २, २,  
 ३३; अक्ष १५, ११ (२)†; -मम्  
 अण १०, १, २०; पाग १, १,  
 ३५<sup>०</sup>.  
 निकाम-लघुः (ः) कप्र १, ८, ८.  
 नि-कामन- -नात् प्राप् १५, ३,  
 १२.  
 नि-कामयमान- -नः काप्रो २५,  
 १२, १६; निम् ४, ७ : ४.  
 नि-कर- -राः अण ५२, २, ३.  
 नि/करक- > कक-बुक्- -कः अण  
 ७०<sup>१</sup>, ११, १२.  
 नि/कप् > नि-कप- -यः पावा ३,  
 २, ११६.  
 नि-कपमान- -गाय माति ९६†.  
 निकपा<sup>१</sup> पाठ ४, १०५; पाग १, १,  
 ३७; पावा २, ३, २.  
 नि-काय-, निकाविव्-, नि-काय-  
 नि/चि द.  
 नि/कि, नि/किचिभ्युः बोधो १९, ७ :  
 १४; या १४, २३; नि...चिभ्युः  
 या १४, २३†.  
 नि/कित् > नि-केतन- -नम् गो<sup>१</sup>

९, ६५.  
 नि-कीर्यं नि/कृ द.  
 नि/कुच्, कृप् > नि-कुचित- -ते  
 पावा १, १, २९.  
 नि-कुच्य- > निकुच्य-कणि- पाग  
 २, १, ७२†; पा, पाग ५, ४,  
 १२८.  
 निकुञ्ज<sup>०</sup> - पाठो २, २, ८८; पाग २,  
 ४, ३१†; -जेणु विष ८५, ५९.  
 नि/कुट् > नि-कुट्य निम् ३, १२ : ३.  
 निकुम्मि(त्) > ला- पाठना १, ५६.  
 निकुच्यम्- पाठो २, २, २२५.  
 नि/कृद्(दादे) > नि-कृद् अणप्रो  
 ७, १९, ८.  
 नि/कृ, निकरोति बोधो १४, १० :  
 ३४†; या २, ९.  
 नि...कफा या २, ९††;  
 नि(कः) बोधो १३, २४ : ११;  
 २६ : ५; वैधो २०, ३ : १५;  
 शस २, १, ७२.  
 नि-कृति<sup>१</sup> > नैकृति<sup>१</sup> - कः  
 विष ९३, ९.  
 नि/कृत् (वेदने), निहन्ते अणप्रो  
 ५, ४, ९; २०, १, १०; बोधो;  
 निहन्ति काप्रो ७, २, ६; वाप्रो  
 ३, ४, ४, २४; न्यकृन्तत् वृदे ४,  
 २२.  
 निहन्त्यन्ते बोधो १८, २४, २०;  
 निहन्तेव लाधो ९, २, २०;  
 निहन्तवीत् बोधो १७, ४० :  
 १४; २४, २१ : १४; श्राप्ति  
 ३, ५, १ : १९; वीति १, २ : ५.  
 नि हन्त- -नम् या ६, २.

निकृत्-हार- -रम् गो<sup>१</sup>, १५, १५.  
 निकृत्-नल, खा<sup>१</sup> - -नम् बोधो  
 २, ८ : ९; ६, २ : ९†; जैट २,  
 ४ : ७; -साम् बोधो ६, ३५.  
 नि-कृत्य बोधो १५, २ : १८;  
 श्राप्ति १, ३, २ : २१; वाप  
 २४, ५; वृदे ६, ८२.  
 निहन्तम् सु २७, २.  
 नि-कृति<sup>१</sup> - -विम् शंष ११६ : ५९.  
 नि/कृप्, नि/कृपति बोम् ३१, १०;  
 निकर्पेत् बोधो २४, २३ : ९.  
 नि-कृष्ट- -ष्टः या २, २०; -ष्टे  
 वैष ३, १५, १२.  
 निकृष्टा(ष्ट-म)हि-नि(म) >  
 भा- -भा अण ५८<sup>१</sup>, ३, ५.  
 नी (< नि)-कर्प- > नोकर्पिन्-  
 -र्षी लाप्रो ८, १२, ६.  
 नि/फ् > नि-नीर्व<sup>०</sup> अणप्रो २१,  
 २०, ३; वाधो ३, २, ५, ४३;  
 हिधो १६, ६, ४१; वैताप्रो ३४,  
 ९; अशा २२, ३, ४.  
 नि/फलूप्, नि/कृपेते अणप्रो २१,  
 १७, १८; १८, ४; नि/कृपन्ते  
 अणप्रो २१, १७, १६; १७; १८,  
 ७; हिधो १६, ६, १४.  
 निश्र- -निश्रवा निज् द.  
 नि/श्रन्, न्यकृन्तीए या ९, ४.  
 न्यकृन्त्यन् या ९, २१†.  
 नि/कम् > नि-कृममाण- -जेणु  
 अणप्रो १०, २२, १२; वैधो १२,  
 १६ : १७.  
 नि/क्रीड् > नि-क्रीडयत्- -यत्  
 लाप्रो ७, १२, ९.

a) निकाटित- इति L पसे। पागम.। b) अग्नि-विशेष- इति MW.। c) तु. पागम.।  
 d) = समृद्ध-। व्यु. ?। < नि/कृ इति शक., < नि/कृ इति अभा.। e) कर्मः व्यु. च ?। f) समीपार्थे  
 अयम्.। व्यु. ?। g) = पृष्ट-। गत. उ. अविच्छेदो वृत्। h) = लता-मृद-। व्यु. ?। i) भाप. (परपीडन-).।  
 i) वृक् प्र. उत्सं. (पा ४, ४, १०२)। k) विप.। वस.। l) = ध-निशेष-। व्यु. ?। m) विप. > नाप. (विच्छ-  
 प्रसारिमयूर-वत्) = बाजपेय-विशेष-। n) सप्ता. काप्रो १३, २, २६ निर्गम्ये इति पाथे.।



नि/कृ > नि-कृ-ग- , नि-कृ-ण- वा  
३,३, ९५

नि/कृ पाषा. भ्रा. पर. चुम्बने.

नि/क्षिप्, निक्षिपति वैश्र ५,  
१५:१०; निक्षिपेत् वैश्री  
२, ६:८; वैश्रीका १५५; वैश्र  
३, ११:१२; क्व २, ८, १५;  
अग्रा २०, ५१; संघ ८७.

नि-क्षिप्त,सा- -सः विघ ५, १८४;  
-सम् विघ ५, १७१; -सस्य  
अप ६८, २, १४; -सायाः विघ  
३६, ७; -से याधि १, ६७.

नि-क्षिप्य वैश्री ४, ११: १६; १५,  
२३: १; वैश्रीका.

नि-क्षेप- -यः याधि १, ६६.

निक्षेप-संज्ञक- -कः माधि ८, ४.

निक्षेप-स्तेय- -येषु विघ ९, ३.

निक्षेपा(प-अ)पहरण- -गम्  
विघ ३६, ३.

निक्षेपा(प-अ)पहारिन्- -री  
विघ ५, १६९; ५२, ४.

निक्षेपो(प-उ)निवि-स्त्री-  
-सिप्रयः वाध १६, १८.

नि-क्षेपण- -गम् वीध ३, २, ८.

नि/खन्, निखनति काथी २६, २,  
२५; वाधी; निखनन्ति वाधी  
४, १५, ८; काथी; निखनामि  
कौस् ४४, १११; निखनेद् आपथी  
३, १४, २; १५, १९, १; भाथी;  
निखनेयुः वैश्री २१, ९: १;  
साथी ८, २, ३; द्राप २, ३, ११.  
निखलान् वीथी ६, २८: १११;

१८, ४५: २५; निघस्तुतः कौस्  
३६, १८१.

निखानयेत् माथी ३, ५, १८.

नि-खनत्- -न् कौस् ५१, १;  
-न्त्यः कौस् १३२, ११.

नि-खनन- -न्म् वीधि ३, ६, ३.

नि-खात,ता- -त्म् अप ३६, २९,  
१; -ता काथी १५, ४, २;

लाथी ५, १२, ९; -ताः  
आपथी १, ८, ७; कौस् ८७, २२;

अप १८, २; -तात् आपथी ११,  
१०, २; -तेषु आपथ १, १५,  
१४; द्वि १, ४, ७३.

निखात-क- -कः काथी १२,  
१८, ११; -कम् काथी ८, ३,  
१७; काथी १२, १८, १.

निखातव्य- -न्म् काशु ७, ८.

निखाय काथी ६, १०, २४;  
काथी; आपथी १८, ४, २०;  
वाप १, १५, ६०.

निखेय- -यः विघ ५, २५.

नि-खर्- -रः वाप ५, २, ५.

नि-खर्- > निखर्-क- -कम् क्षुस्  
२, ९: १९.

नि-खर्वाद्- -दे काथी १५, ११, ४.

नि/खिद् > नि-खिदत्- -दत्  
आपथी २४, १४, ५.

नि-खिल,ला- -ल्यम् माथी १, ७, ८,  
१०; -ला वदे २, ६.

नि/खै(स्यै), निखापयेत् काशु ७,  
१०.

नि/गच्छ्, गम्, निगच्छति या ११,

३९; निगच्छतः काथी ५, १८,  
७; निगच्छन्ति काथी १, १९,  
१०; १७, ६×४.

निगमिमः कौस् ४२; १७१.

निगमयेत् वाथी ३, २, ६, ४०;

निगमयेत् काथी २, १९, ९.

नि-नात्- -न्म् अम १३, ४.

नि-गन्तव्य- -न्म् आपथ १, १३,  
११; द्वि १, ४, २५.

नि-गन्तु- -न्तवः या १, १.

नि-गम- -वा ३, ३, ११९; पाप  
४, ३, ७३; ५, ४, ३८; -म-

कौस् ९१, २०; वाध ४, २; १७,  
४; या २, ३; ६×४; -मा-

काथी ५, १२, ७; काथी १०, २१, १०;  
वदे २, ११६; या १, १; २,

५×४; मीस् १०, ४, ५४; -मात्  
काथी ९, २७, ३; या ४, १; -मे

काथी ३, ६, १६; वा ६, ३, ११३;  
४, ९; ७, २, ६४; ३, ८१; ४,

७४; -मेषु काथी १, ३, १९;  
२१×४; काथी; -मी या ३,

२०; २१; ५, ५.

नैगम- -वा ४, ३, ७३;  
-माः या २, २; -मानि या

१, २०; -मेभ्यः या २, २.

नैगमी- -मी अया २,  
३, २१; ३, २१; ३, ३, १९.

निगम-वतुप्य- -ये माप २,  
१४, २८.

निगम-स्थान- -नावि काथी १,

a) दस. 1. निक्षेप- = अमुदितद्वय-न्यास- , उपनिधि- = मुदितद्वय-न्यास- (तु. मिताक्षरा व्यास्य २,  
६५: ६७)। b) वैश्र १ द. 1 c) निषाय इति संस्कृते: टि. 1 d) सपा. कौस् १, ९, ७ निषाय इति पाथे. 1  
e) गव. उप. ऋष्य प्र. ईश्वारादेशरत्न (वा ३, १, १११)। f) = अग्नि-विशेष- इति भाष्य. 1 व्यु. ? 1 g) = 1१००  
ऋष्यमिता- संस्था-विशेष- (तु. म. 1 मा १७, २१)। व्यु. ? 1 h) = अ-खिल- 1 i) = नगर-, वेद- (तु. अमर.)।  
गव. 1 उप. ऋष्यमिताकरणोः धः प्र. 1 j) तु. पागम. 1 k) = देवता-संकीर्तन- इति विद्यापरः 1  
l) = केद-संज्ञा- (तु. संस्कृते: टि.)। m) वैश्र. पृष. = ऋष्य- इति भाष्यम्

१६, १०६; -नेषु शार्थी १, १, २०; १६, १, २; १६, १, २; ६, १, १४  
 निगमस्यान-वर्जम् शार्थी १४, १०, ६.  
 निगमन- नात् वा १, १.  
 निनाड- पाग २, ४, ३१; -डेः अय ६८, २, २८.  
 नि/गद्- निगदेत् आथी १०, ५, १-६; शार्थी.  
 ऋनिगदित्पामि वीथी १०, ५४ : ४; १५, ३५ : ४.  
 निगद्यते कय ३, ८, १४; अय ३६, २, १; शेष ३७२; बृदे ५, १०४; ६, ११५; वैथी १२०, ४४७; निगद्यन्ते बृदे १, १८; ४१; ७, १३८; ८, १०४.  
 निगाद्येत शार्थी १७, १४, १.  
 नि-गद्, दा- पा ३, ३, ६४; -दः शार्थी १, ४, ३; लाथी; -दम् आथी ५, १, १४; शार्थी; -दाः काथी १, ३, १; द्विथी १६, २, १४; -दाद् आथी ८, ५, १८; -दानाम् बृदे ८, १०४; -दाम्-दाम् आथी ४, १८, ३६; -दावाम्-कौम् १४१, ३६; -दे आथी १, २, २०; ४, १२; ५, ७, ४; गो १, १३; २, २३; २०<sup>३</sup>, -देन आथी १, ४, १; वीथी ७, २; ११; १५; २७; बृदे ८, १०४; मा १, १८१; कौषि ५८.  
 निगद्-वृत्ति- नित लाथी ७,

८, १६.  
 निगद्-भ्याख्या(त)वा- ना- या ६, ५; ७, २३४४; -वाः शार्थी ५, १, ६, ३७.  
 निगद्-मुताम्<sup>३</sup> अया २, १, २८.  
 निगदा(द-भा)वि- दि शार्थी ५, १, २.  
 निगदा(द-भ)नुक्त्वना(न-भ)मि- खवन-स्यस-जप- -वानाम् आथी १, ५, ३६.  
 नि-गद्-द्व-द्वः अय ६१, १, २०; ७०, ४, ५; वाध २७, १०; विष १, ६५; आज्यो १, १२; -द्व- वीथी २०, ६; १३; २१, १२; ११.  
 नि-गदित्-( > )वित्- पा.) पाग ५, ३, ८८.  
 नि-गद्य वीथी २, ८ : १६; १०, ४८ : ५४४; शार्थी.  
 नि-गाद्- पा ३, ३, ६४.  
 नि-गद्यतु-, नि-गम- प्रभ. नि/गच्छ् द.  
 निगमव्य- वा १४, ३१.  
 नि-गरण- नि/गृ (निगरणे) द.  
 नि/गा, ऋनिगाम् आथी १, ५, ५; शार्थी १, ५, १; द्विथी १, ३, ४७.  
 नि-गात्- नि-गिरत्- निगोर्षे नि/गृ (निगरणे) द.  
 नि/गृप- नि-गृप्त- सस् वीथी २१, १३; २०; -साम् वीथी २, ५६.  
 निगृह्य- स्थानाम् शार्थी १६,

२१, ६.  
 नि/गृ-गृह्, निगृह्य बृदे ८, २०; न्यगृह्य बृदे ८, २४.  
 नि/गृह्, प्रभ्, ह्, नि-गृह्योते द्विथी ७, २, ८३; निगृह्याति आपथी १६, ४, ४; वीथी<sup>३</sup> ऋनिगृह्यात् कौष १३७, ११; निगृह्यात् आपथी ५, १४, ६; ६, १८, ३१; वीथी २१, ११ : २०; वैथी २१, १४ : ६; द्विथी १५, ७, ३.  
 निजग्राह्य बृदे ६, ६१.  
 नि-गृहीत्- पाग ५, २, ८८; -सम् बृदे ४, ११३.  
 निगृहीदित्- पा ५, २, ८८.  
 निगृहीते (त-इ) निद्रय-कि (या >) य- न्यः आसिप २, ४, ५ : २१; वीथ ४, ७, ६.  
 नि-गृहीति- नितः पावा १, २, १८.  
 नि-गृह्णान- न्तः शार्थी १५, २०, १; नि-गृह्य शार्थी १२, १२, ११; काथी; पा ८, २, १४.  
 नि-ग्रह- हः आति ८, २०; -हे पावा ३, १, ५.  
 नि-ग्रान- पावा ३, २, ३६; -भः वीथी ७, ६ : १०; शार्थी १, ३, ४, ७१; शार्थी १, ३, ६, ११; वैथी १५, ११ : १३; द्विथी ८; ३, ७; -भम् काथी २, ४, १८०.  
 आथी ३, ५, ५१; १२, ९, ८; वीथी १, ११ : १५१; ७, ६ :

a) = शृङ्खला-। व्यु. ! । b) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द. । c) भाष., = प्रैप-सम्- (द्र. विद्याधरः [काथी १, ३, ११]) । d) = निगदोक्त- (देवता- ) । e) पाठः ? निगद्यवाम् इति वा निःसन्दावाम् इति वा शेषः इति संस्कृतेः टि. । f) विप. । वत्. । g) \*वि इति पाठः ? पति. शोधः । h) पाठः ? श्रुतान् इति वा श्रुतान् इति वा संस्कृतेः टि. शोधः । i) पाठः ? निगमव्यः इति शोधः स्यात् । j) = तदास्य-गो-व- (क्षत्रिय-) । व्यु. ! । k) विप. । वत्. > पय. । l) द्र. पाठि. । m) वैप १ द. । n) = (निगम्यास्तपत्ता- लोडनेनोपल-) लोम-स- इति गोपीनाथः (द्विथी ८, २, ७) । o) पामे. वैप १, १०७ g द. । p) = मन्त्र-विशेष- (= प्रामुपाक् [मा ६, १६]) ।

१००१२; २१, २१ : २; आध्री;  
वैध्री ७, ५ : ४<sup>१</sup>; हिथ्री २, ४,  
७<sup>१</sup>; -भेज वीध्री १, १९ :  
१४<sup>१</sup>; आध्री ३, ५, ६<sup>१</sup>.  
निप्राभा(भ-उ)न्त<sup>१</sup> -न्ते काध्री  
२, ५, ६.

निप्राभो(भ-उ)पायन- नन्  
कापध्री १२, १०, १०.

नि-प्राभ्य,भ्या<sup>१</sup> -भ्यम् वैध्री १६,  
१० : १०<sup>१</sup>; -भ्याः काध्री २,  
३, ११; ४, ६××; चात्र ३, ६<sup>१</sup>;  
-भ्यानाम् कापध्री १२, ७, १८;  
वाध्री ३, २, ५, ४; वैध्री १५, १० :  
२; हिथ्री ८, २, ३८; -भ्याभिः  
हिथ्री ८, २, ४; -भ्यासु काध्री  
२, ४, ६; ५, १५; कापध्री १२,  
९, १; वीध्री ७, ५ : ३; ८, १ :  
५; १४, ४ : ३५; २१, १० : १;  
११; २५, १० : १५.

निप्राभ्या(भ्या-का)सेचन- नन्  
वाध्री २, ५, ४.

नि-प्राह- ह पा ३, ३, ४५.

नि/गृ (निगरणे), विगिरिह द्राध्री  
१२, ३, १३; लाध्री ४, ११, १३;  
गोय ३, ६, ३; ८, १४; द्राय ३,  
१, ४४.

नि-गरन्-> निगरण-चलना(न-अ)  
धे- धेभ्यः पा १, ३, ८७.

नि-गार- पा ३, १, २९.

नि-गिरह- नन् वाध ३, ४१; वीध

१, ५, २०; गोय १, ४६.  
निनीयं काध्री १३, ३, २६<sup>१</sup>.

नि/ग्रह्, गृह्, निग्रह्णाति वीध्री  
१३, ३७ : ८; निग्रहन्ति वीध्री  
२, ५ : ३३; १५, १३ : १; १८ :  
३; निग्रह्णीयात् वीध्री २०, ३ :  
३४; ३७.

नि-ग्रह- ग्रह्. नि/गृह् द.

नि-ग्र- नि/हृत् द.

निघण्टु<sup>१</sup> - पाठ १, ३७; -ण्टवः या  
१, ३<sup>१</sup>कृ.

निघण्टु-क<sup>१</sup> -कः साम १, १७,  
६९××; -कम् साम १, १५;  
या १, २०<sup>३</sup>; २, २४; ५, १२;  
१०, ३; ११, ३; -काः साम १,  
१४७, २, ११६××, -कानि या  
१, २०; -कौ साम १, ३२०;  
४५५.

नि/ग्रस्-> नि-पस- पा ३, ३, ६०.

नि-घात- 'घि- 'घिन्- नि/हृत् द.

नि/घृष्-> नि-घृन्व वाय २, ८;  
गोय ४, २, २८; द्राय ३, ५, २०;  
कौत् ३५, ७.

नि-घृन्व<sup>१</sup> - पाठ १, १५३; -घृन्वः  
अत्र ४८, ६७, निघ ३, २.

नि-घतत्- ग्रह्. नि/हृत् द.

नि/घ्रा-> नि-घ्रा<sup>१</sup> -घ्रेण<sup>१</sup> वीध्री ५,  
१५ : १.

नि-घ्रन्व वाय ३४, ७; ३६, ११.

नि-घ्रन्वकुण<sup>१</sup> -०ण<sup>१</sup> कापध्री १३,

१६, १०; १९, १०, ५; वीध्री  
८, २० : ११<sup>१</sup>; वैध्री १६, २५ :  
१४; हिथ्री ९, ५, ३९; २३,  
१, ५५; तया २३, १२.

नि/चम्-> नि-चमन्- न्नेन वा ५,  
१७; १८.

नि-चान्त-> 'न्त-पृग्- -णः वा  
५, १७.

नि/चद्-> नि-चेद्<sup>१</sup> -हः वीध्री  
८, २० : ११; द्राध्री ६, ४, ८;  
लाध्री २, १२, ९.

निचल्लत्<sup>१</sup> -ल्लः वाय ५, २८.

निचाकु- पाठभो २, १, ४२.

नि/चाय् (चया) > नि-चाय  
> च्या आध्री २, ५, ५; वाध्री  
४, १०३ : ८; या ५, २१<sup>१</sup>;  
गुप्त ४, १५, ३०.

नि/चि (चयन्)<sup>१</sup>

नि-काय- पा ३, ३, ४१; ४२.

निकायिन्<sup>१</sup> -यिनः चुप् २,  
१६ : ११; -यिताम् कापध्री  
२२, १, २; २४, ४, ६; हिथ्री  
१७, १, २; गोत् ८, १, १९.

नि-काय्य- पा, पावा ३, १, १२९.

नि-काय- पाय २, १, ५१; ५, ३,  
६४; -यः वीध ३, २, ८; वीध  
१०, ६२; -याः क्य ३, ३, ८.

निचय-क- पा ५, २, ६४.

निचयो(च-उ)च्चारित<sup>१</sup> - पा २,  
१, ५९.

a) पामि. वैप १, १०७ हृ द. । b) वृ. = मन्त्र-विशेष- । c) = [अभिपचापां] २ अय्- । वैप १ द. ।  
d) पाठः १ भ्या-> भ्या. इति शेषः (द्र. सपा. हिथ्री ९, १, ४; ३, ३६) । e) 'भ्यः इति पाठः १ यानि. श्लेषः द.  
(द्र. मा ६, २० प्रथ.) । f) पामि. दृ १३१५ म द. । g) = वैदिहशब्द-स्रो- । व्यु ? । < निर्वन्ध-  
इति WAO [१, १९७ b] । h) तस्येदंभीयं तदधीते वाऽर्थे टक् > कः प्र. । i) = हल- । j) = प्राण- ।  
यस. उप. कर्त्तरि कः प्र. । k) सपा. वीध्री २, १८ : ८; २० : १५ जिमेय इति, कापध्री ८, १६, ३ अथवेम  
इति पामि. (द्र. संस्कृत-दि.) । l) वैप १ द. । m) पामि. वैप १, १७९९ c द. । n) विप. (धम्मपल्लु) ।  
धर्मः व्यु. च १ । o) वैप. १, १७९९ k द. । p) पामि. वैप १, १७९९ j द. । q) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द. ।  
r) = सापरक- (= अह-लेन-) । s) विषय- इति पाका. । t) द्र. पागम. ।

निचित- उम् या ४, २४.  
 निचुत्तुद्गुण- या ५, १८४; -०ण  
 नाथी २, ५, ४, ३०<sup>०</sup>; -गस्य  
 चास्य ४: ८<sup>०</sup>.  
 निचुदाठ<sup>०</sup> -> ० ह-वक-यलाका-गुरु-  
 मद्यु-दिष्टिन-माग्धाल-नकंवर-  
 -रा: गीथ १७, ३२.  
 निचुगुण<sup>०</sup> - ० ग<sup>०</sup> प्राथी ४, ८<sup>०</sup>;  
 लाथी २, १२, १<sup>०</sup>; या ५, १८<sup>०</sup>;  
 -ग: अय ४८, ११५<sup>०</sup>; निय ४,  
 २<sup>०</sup>; या ५, १७४<sup>०</sup>; १८<sup>०</sup>; -गस्य  
 चास्य ३: ३<sup>०</sup>.  
 निचुल<sup>०</sup> - पाठो २, ३; ११०; पाग  
 ५, २, १३६<sup>०</sup>.  
 निचुलिन्- पा ५, ३, १३६.  
 निचुत्, निचुतति कौत् ८५, १३-  
 १६.  
 निचुत्<sup>०</sup> - चूत् याथी ७, २५, २५;  
 अय ३, ३, १८, २४; २, ५, ९, ४४;  
 श्रया: -चूत: निस् १, ६: २; ५;  
 वृद् ८, १०७; अय १९, ४५;  
 -चूती अय २, २४.  
 निचुत्-कार्त्त-वृत्ती- -स्य:  
 अय १५, ११.  
 निचुत्-वायत्री- -स्यो अय ५,  
 १३.  
 निचुत्-बृहती- -स्यो अय १५, ६.  
 निचुत्-सुरिन्- -रिज: निस्  
 १, ६: १; -रिजी श्रम १, ३,  
 ३; श्रम ५, ४; रि ३, ५६.

निचुद्-विषमा- -मा अय ९,  
 ६(५); १९, ४४; -मा: अय २,  
 १६.  
 निचुद् > नि-उस- -अम् अय  
 ३४, १, ६.  
 निचुत्<sup>०</sup>, पाया. जु. उभ. शीचो-  
 पयायो:, नेनेक्ति वैय १, ३: २;  
 या २, १७.  
 निचुत्<sup>०</sup> कौत् ६२, २१<sup>०</sup>.  
 नि(क्त) > वता- -क्ताभि: वाथी १,  
 ५, २, ३०.  
 निचुत् कौत् ४१, १६; ६२, ३६.  
 निचुत्-नि- नि-हृत् द.  
 निचुत् > नि-हृत्<sup>०</sup> - हृत् आनि १,  
 ५, २: ४; वीय १, ३, ३७.  
 निचुत् > नि-ज, जा<sup>०</sup> - जन् यासि  
 २, ६; -जाय जेथीका १८९;  
 -जाय कौत् ८९, ४; -जे जेथीका  
 १३८.  
 निचुत्स्य<sup>०</sup> हिट १, १५, ६<sup>०</sup>.  
 निचुत्<sup>०</sup> (> निचि-मत्- पा.) पाग  
 ८, २, १.  
 निचुत्-नि- नि-हृत् द.  
 निचुत्-नि-हृत्<sup>०</sup> - ० क<sup>०</sup> आपम २, २१,  
 २२; भाट २, २६: ११.  
 निचुत्-नि-हृत्<sup>०</sup> - ० क हिट १, १५,  
 ५<sup>०</sup>.  
 निचुत् पाया. अदा, आत्त, शुद्धी.  
 निचुत्<sup>०</sup> - गय: या १४, २२; -गयम्  
 अय ४८, १०७<sup>०</sup>; निय ३, २५;

या २, १६४.  
 निचुत्<sup>०</sup>, निचुत्तुद् याथी ७, १५, ४.  
 निचुत् > नि-वति<sup>०</sup>, जो- -निम्  
 अय ६, १२६; -जो विष ६७,  
 ५<sup>०</sup>.  
 निचुत्-अय- -न: माथी २, २, १, १६<sup>०</sup>;  
 ३, ५, ५<sup>०</sup>; ६, २, ४, ११<sup>०</sup>; वाथी  
 २, २, ३, २<sup>०</sup>.  
 निचुत् > नि-वाप्य कौत् ३२, २४.  
 निचुत्<sup>०</sup>, निचुत्तुद् यापथी ५, १७,  
 ८.  
 निचुत्- पाठो २, २, २१९.  
 निचुत्- > निचुत्तुद् याथी ७, २०,  
 १०; १५, २२, १; आथी ६, १,  
 १<sup>०</sup>; १५, ५, ७; भाथी ११, ५, ७.  
 निचुत्- > नि-वाप्य कौत् ३२, २४.  
 निचुत्<sup>०</sup> - पाग ४, ३, १०<sup>०</sup>; -न्त:  
 तेया १६, २२<sup>०</sup>; -न्तम् अय  
 ६२, ८, ५.  
 निचुत्- पा ४, २, १०.  
 निचुत्- > निचुत्तुद् (> श्रीय- ) निचुत्-  
 टि. द.  
 निचुत्, निचुत्तुद् अय ४८, १९<sup>०</sup>.  
 निचुत्, निचुत्तुद्, निचुत्तुद्<sup>०</sup> याथी ४,  
 १३, ५.  
 निचुत्- -दम् काथी १६, ८, ५;  
 आपथ १८, ९<sup>०</sup>; हिट ६, १४;  
 -दयो: आपथ १८, ९; हिट ६,  
 १४; -दाय आपथ १८, ९;  
 हिट ६, १४.

a) वैष १ द. b) पामे. वैर १, १७९९ ० द. c) = ऋषि-विशेष-। d) = पञ्चि-विशेष-।  
 व्यु. १। e) गग: इति पाठ: ? वनि. शोच:। f) अर्थ: व्यु. च ?। g) = स्थलवेतत- ( जलवेतत- इति  
 अथो. ) इति कृत्वा < निचुत् जुल् इति अभा.। h) जु. पागम.। i) विच. ( [ एडाचर-भूय- ] छन्दम्. )।  
 j) पा ७, ४, ५५ परामृष्ट: द.। k) विप. 1 वय.। l) विप. 1 कर्त्तरि क: प्र. ( पा ३, २, ९९ )। m) पाठ: ?  
 विजोसि इति संस्कृ: टि. संभावितम्। n) विप. > नाप. ?। वस.। o) सपा. परस्परं पात्रे.। p) पात्रे. वैष  
 १, १६७२ क द.। q) पामे. वैर १, १६७२ इ द.। r) < निचुत् इति अभा.। s) निचुत्, वृक्ष-  
 इति पाका.। निचुत्तुद्- इति भाण्डा. पासि.। t) = पारिभाषिक-संज्ञा-। u) = प्रतिशय-। वा. किवि.।  
 v) = गर्त-।

नि/तुम्, नितोन्नवे निय २, १११.

नि-वोस- वास्य या १३, ५.

नैवोस- वास् या १३, ५;

-वा या १३, ५११.

नि/वृद्, नितुम्भि अया ३, २, ३३१.

नि/वृ. नि(तिरामि)मप्र ६, १३११.

३नि-व(र>)रा- ना माय २,

११, १२०.

नित्य,त्या- पाय ५, १, १७; ४, २९;

पावा ४, २, १०४; -त्यः आधौ

१, १२, ३; २, ८, १२४; शोधौ;

तेज २०, २०; -त्यम् आधौ १, ५,

१४; २, २, १०; ७, ४४; शोधौ;

हिष १, १, १२३; या २, ३;

वा १, २, ६३; ७२; ४,

७७; २, २, १७; पावा ४, ३,

१४४; -त्या आधौ ५, ११,

४; आधौ १९, २५, ११; द्विधौ

२२, २, १०; ५, २२; वैताधौ

३२, ३४; -त्यस्य बाधौ १, ६,

७, ३३; द्विधौ ३, १, १८; या ३,

२१, मीस् १, ३, १८; ३, ६, ४३;

-त्या आधौ २, ४, १; ११;

बाधौ; -त्या आधौ १, १, ८;

२, १९, २०; बाधौ; -त्याव

आधौ ७, ३, १२; ५, १०; बाधौ

१, ७, ४, ८; -त्याम् आधौ ८,

४, १६; ९, ३, १९; शोधौ;

-त्यानाम् आधौ २, १, २२;

विष ५४, २९; द्विष १, ४, २९;

-त्यानि आधौ ७, १, २०; ८, ४,

३४; शोधौ; -त्याभिः शोधौ

१०, ७; निष् ५, ६; ११<sup>१</sup>;

९, १; ११; २४; काय ५८, ४;

६०, ५; -त्याम् निस् ७, १० :

१९<sup>१</sup>; काय ६, ४, १२; काय ७

४३; ९; ४५; ९; -त्याया<sup>१</sup>

निस् ६, ६; १९; ८; ३३;

-त्यासु<sup>१</sup> निस् ८, ९; २८; १०,

२; २२; -त्ये आधौ १, ५, ३४;

२, १, ८४; शोधौ; -त्येन

आधौ १४, ३३, ३; बाधौ;

-त्येभ्यः बाधौ ५, ४, २१; ७, ६;

११, ४; -त्येव बाधौ २८, १३ :

१९; द्विधौ ६, १, ३; माय ३,

२१; ६; माय २, ३, ४; -त्यैः

बाधौ ३, ३, ४, १३; शोधौ ८, ३,

२; लाधौ ४, ७, १; मीस् ४, ४,

१२; -त्यौ आधौ ५, २, ४;

शोधौ ३, ८, ५; १४, ५७, ६;

माधौ ६, ८, १०; शोधौ ८, २, ८;

लाधौ ४, ६, ८; वैताधौ ३३, ६;

निस् ५, ६; १२; बाधौ १, ५,

२४; ९, ७; काय १, ९, १०.

मैत्य- वा ५, १, १७.

मैत्यक- कम् कप्र २, १०, २;

वाय २५, ४; बाधौ ४, १, २४.

नित्य-कर्मन्- मंगि वैध ६, ८; १२;

-मैभिः वैधौ २०, १; १.

नित्यकर्म-प्रज्ञाचर्य-शील- लः

वैध १, ३, ४.

नित्य-कस्य- स्वया अत्राय ६, ८.

नित्य-काम- मः माधौ ७, १, ७;

वैधौ १८, १२; ३.

नित्य-काल- लम् अय ८, २, १.

नित्य-महत्वा(ण-आ)नर्थक्य-व्यम्

पावा ३, १, २२; ५, १, ६७.

नित्य-चान्द्रायण-प्रत-> गतिन्-

-तिनः वैध १, ९, ४.

नित्य-जप-होम- मे वैध २, ११, ८.

नित्य-जा- वा भाधि ४.

नित्य-नृस- मः विध ९, १, २.

नित्य-स्व- स्वाव आधौ ७, १, २१;

बाधौ १, ८, १८; ४, २, २९; ४;

निस्.

नित्य-दा पाय १, १, ३७; बाधौ १,

३, ३७; बाधि ४४.

नित्य-द्विपदा- दाः ऋम २, ९,

६७.

नित्य-धर्म- मः गोय ३, १, २५.

नित्य-धारण- णम् बाधौ १, ५, २,

६; -णस् मीस् १२, ४, ३१;

-मे मीस् १२, ४, ३०.

नित्य-ध्व- ध्वतः शोधौ २, ६, ४.

नित्य-ध्व- तः माधौ १, ६, १, ६;

-ताव शोधौ २, १७, ६.

नित्य-निन्द- न्दः वैध ३, १५, ११.

नित्य-निमित्त-स्व- स्वाव पावा

१, ३, ६०; ७, १, ७३.

नित्य-पु(ध>)दा- दाम् बाभिध

२, ६, १; २९; माय २, १३, ६.

नित्य-पूत- तः बाधौ ५, ७, २१.

नित्य-पूर्व- र्वेण बाधौ २५, २४ :

१८.

नित्यपूर्वा(र्व-अ)र्थ- र्थम् पावा

५, ३, ६८.

नित्य-प्रतत- तः आधौ १, ४, ४<sup>१</sup>;

२, ७, १.

नित्य-प्रायव-त्व- त्वम् पावा ३,

१, २७.

नित्य-प्रयुक्त- क्तानाम् गोय ४, ५,

११; काय ४, १, २.

a) वैध १ द. 1 b) विप. 1 उच. उप. मप्र प्र. 1 c) सपा. निराम <> निमित्ता इति पाठे. 1

d) = स्वरितपंक्षा-भेद- (= जाल-). 1 e) वा. क्वि. 1 f) सपा. नित्ये प्र<> नित्यप्र<> इति पाठे. 1

g) द. पाठि. 1 h) विप.> नाप. (= स्तोत्रिया-). 1 i) विप. 1 तदभवायः वुप्र प्र. उस्. (पा ४, २, १२) 1

j) विप. 1 उच. 1

नित्य-प्रयोग-भा: गोग्र ४, ७, ३७;  
 ८, १०.  
 नित्य-प्रवृत्त-त्ते पावा ३, २, १२३.  
 नित्य-प्रक्ष-इत्यस्य आपद्य १, ११,  
 २१; द्विष १, ३, ७१.  
 नित्य-प्रातःस्वायिन्-यो आग्निष्ट  
 २, ७, ११ : १३.  
 नित्य-भक्ष-क्षम् वीथी २२, ५ :  
 ५ : १२.  
 नित्य-नाथि-त्व-स्वात् मीत् १०,  
 ६, ५८.  
 नित्य-भूत-त्तः आग्निष्ट ३, ११,  
 २ : ५१.  
 नित्य-यज्ञोपवीतिन्-खी कौट ३,  
 ११, ५४; आग्निष्ट २, ७, ११ :  
 १३; वाध ८, १७; वीथि २, २, १.  
 नित्य-युक्त-क्तः वाध २५, ३;  
 गौध १०, ३८; -क्ताः अत्र २०,  
 २, १; वाध २५, ३.  
 नित्य-वचन-न्म पावा ४, ४, २०;  
 ८, ४, ४५; -नाथ पावा ३, १;  
 ३१.  
 नित्य-वर् आपधी ३, १, ५; ४, ८,  
 ७×५; भाधी.  
 नित्यवच्-भूत-भूता (त-अ)  
 भिसंयोग-गाव् मीत् ११, १,  
 १६.  
 नित्य-व(त्स>)स्ता<sup>०</sup>-स्ता<sup>०</sup> शीष्ट  
 ३, २, ५६; -स्ताः लाथी १०, २,  
 ३; छम् २, १० : २५; ११ :  
 १४; ३, ७ : २; निम् ७, ३ : ३९;  
 कौष्ट ३, २, ५१<sup>०</sup>; शाय ३, २,  
 ८१<sup>०</sup>; भाष्ट १, २७ : ७१<sup>०</sup>;  
 -साथै वीथी ५, १० : १९<sup>०</sup>.

नित्यवक्षा(त्सा-अ)तीवर्-  
 -ङ्गयोः लाथी ७, ५, ३.  
 नित्य-विरत-त्ते ऋत २, ४, ७.  
 नित्य-विशेषो(प-उ)क्त<sup>०</sup>-क्तम्  
 कप्र २, ४, ६.  
 नित्य-वीप्ता-प्सयोः पा ८, १, ४.  
 नित्य-वृत्ति-त्तौ वैथी १२, १२ :  
 १४; द्विथी ७, १, ६०.  
 नित्य-व्रत-त्तानि वाष्ट ९, १६;  
 गोग्र ३, २, ४८.  
 नित्य-शब्द->नैत्यशब्दिक-  
 पावा.) नवाग ४, ४, १.  
 नित्यशब्द-व-ववात् पावा १,  
 १, १, ३, १.  
 नित्य-शस्(ः) कौट ३, १०, ३५;  
 अत्र १, ४४, १; २३, १३, ४×५;  
 वाध.  
 नित्य-शिक्षिन्-खी आग्निष्ट २,  
 ७, ११ : १३.  
 नित्य-शिक्ष्य<sup>०</sup>-ख्यम् आधी ८,  
 ४, ५.  
 नित्य-श्राद्ध-द्धम् आग्निष्ट ३, ३,  
 १ : १२; २ : २७; आपद्य २,  
 १८, ६, द्विष २, ५, ५८; -द्धे  
 आग्निष्ट ३, ३, २ : १२; १३.  
 नित्य-संयोग-गाव् मीत् ३, २, १;  
 ६, १, ४२, ४, १२; १०, ५, ६६.  
 नित्य-सन्धयो (म्धा-उ) पासिन्-  
 -खी आग्निष्ट २, ७, ११ : १३.  
 नित्य-समवाय-याव् मीत् ४, १,  
 ३३.  
 नित्य-समाप्त-त्सः पावा ६, १,  
 १२४.  
 नित्य-समाप्त-सयोः पावा ६,

१, १२५.  
 नित्यसमाप्त-वचन-न्म पावा  
 २, १, ३६.  
 नित्यसमाप्ता(त-अ)थे-थंम्  
 पावा ३, ४, ३७.  
 नित्य-संपन्न-न्तः वीथी ५,  
 १६ : ८; -न्ताः वृत् ३, २ :  
 २६.  
 नित्य-संयन्ध-न्धाव् पावा २, २,  
 ४५.  
 नित्य-स्नान-न्म शोध १००;  
 -नेन शोध १०१; विध ६४,  
 ४२.  
 नित्यस्नान-विहीन-न्ने वैष्ट ६,  
 ८ : ३.  
 नित्य-स्नायिन्-यो शोध १०१;  
 विध ६४, ३५; ४२; ८९, ४.  
 नित्य-स्वाध्याय-न्म गौध ५, ४.  
 नित्यस्वाध्यायिन्-यो वाध  
 ८, १७; वीथि २, २, १; विध ३,  
 ५, १.  
 नित्य-होतृ-वाग्नन् माथी १,  
 २, ६, १०; वाथी १, २, ३, १५.  
 नित्य-होम-न्मः आधी १, १३, ५;  
 २, १, १; -ने वैष्ट १, ८ : १०;  
 अत्र २३, ६, ४.  
 नित्यहोम-काल-त्ते अत्राय  
 २, १.  
 नित्यहोम-दर्शका(क-अ) प्रपण-  
 निरुदयशुभन्ध-चातुर्मास्य-  
 तीत्रामणि-सोम<sup>०</sup>-मेतु वैथी  
 २०, ३१ : ३.  
 नित्यहोमा(म-अ)न्त-न्ते वैष्ट  
 ४, १० : १.

a) विप. । वस. उप. = प्रत्य-विभाग- । b) = साम-विशेष- । वस. उप. = पद-विशेष- (तु. लाथी ७, ५, ९) ।  
 c) विप. (धेनु-) । उप. = गो-वत्स- । d) तथा. कौट ३, २, २ पाकयस्ता इति पाथि. ।  
 e) विप. > नाप. (धेनु-) । f) समाहारे द्रस. । g) विप. । पंत. > वृत्. । h) विप. । वस. उप. = स्तोत्र-समूह- ।  
 i) = अविग्रह- वा, अन्वय-विग्रह- वा । j) वैप १ द्र. । k) द्रस. । दर्शक- = दर्श-पूर्वमाद्य- ।  
 वैप-प्र-८१

नित्या(त्या-श्वा)दि-पद-स्तोमा-  
(म-ञ)आय<sup>१</sup>-आव निम् ८,  
९:४०.  
नित्या(त्य-श्वा)दिष्ट-त्व- -त्वाव  
पावा ३, १, ४५.  
नित्या(त्य-ञ)ध्याय- -येन आधौ  
८, १४, ९.  
नित्या(त्य-श्वा)नन्द- -न्दम् वैध  
१, १, १५.  
नित्या(त्य-ञ)नित्या- -न्या: निम्  
९, २: २०.  
नित्या(त्य-ञ)नुगृहीत- -त: आगृ  
१, ९, २.  
नित्या(त्य-ञ)नुवाद- -द: आधौ  
७, ५, २६; मीम् २, ४, २५; ३, ३,  
१२; ४, १, ४५; ६, ७, ३०; ९,  
४, २४; १०, २, ३६; ७, ३९; ४९;  
५०; ११, ४, १५; -दम् आपय  
२, १४, १३; हिद्य २, ३, २४;  
-दाव मीम् ८, १, ६.  
नित्यानुवाद-वचन- -नानि मीम्  
७, ४, ५.  
नित्या(त्य-ञ)न्यकार<sup>२</sup>- -रे विध  
९६, ३०.  
नित्या(त्य-ञ)बद्धच्- पा ६, २,  
१३८.  
नित्या(त्य-ञ)भक्त<sup>३</sup>-> ँकिक-  
-का: बौध २, ३, ११६.  
नित्या(त्य-ञ)भाव- -व: आधौ १७,  
२, २.  
नित्या(त्य-ञ)भिवन्दिन्- -न्दी वैध  
१, २, १.  
नित्या(त्य-ञ)न्याहित<sup>४</sup>- -त: आधौ  
९, ८, ५.  
नित्या(त्य-ञ)चन- -नम् वैध ४,

१२: १; -ने वैध ६, २०: ६.  
नित्या(त्य-ञ)धे- -धम् माधौ २, १,  
१, ३; पावा ७, २, ४७; ५२; ८,  
३, २०; -धे पा ६, २, ६१;  
-येन मीम् १०, ५, ६८.  
नित्या(त्य-ञ)वसान- -नेपु वैभ १५.  
नित्या(त्य-ञ)दान- -नम् वैध २,  
४, ५.  
नित्या(त्य-ञ)हुति<sup>५</sup>- -तिपु कौश १,  
३, १३; ५, २५; शांश १, ८, १३;  
९, ११; -त्यो: शांश १, ३, १०.  
नित्यो(त्य-उ)दक-> ँकिक-  
-की कौश ३, ११, ५३; शांश ४,  
११, २१; वाध ८, १७; बौध २,  
२, १.  
नित्यो(त्य-उ)दक<sup>६</sup>- -क: आगृ ३,  
७, ३; -कम् आधौ २०, ४, १४.  
नित्यो (त्य-उ) दक-तर्पण- -गे  
आमिगृ ३, ७, ४: ४; बौपि २,  
३, ९.  
नित्यो(त्य-उ)पुक- -क: काशु ७, ५.  
नित्यो(त्य-उ)दि(म>)न्ना- -न्या:  
अप ७१, १३, ३.  
नित्यरसोचिरोदकिक: बौधोप ४४:  
२.  
√निद्, न्द<sup>७</sup> पापा. भा. पर. उरसा-  
भनिकयो: निन्दति वा ९, ८;  
निन्दन्ति वृदे ७, ३७; या ३,  
१०१; ऋषा १४, ६८; निन्देव  
वैध ३, ३, ६.  
†अनिन्द्यु: आधौ १०, ३, ४;  
लाधौ ३, ११, ३१.  
निन्देव बौध १, १०, ३०; वृदे  
७, १११.  
अनिन्द्यव अय ५, १८.

निनीस्तेव आधौ ९, ११, १.  
†निद्<sup>८</sup>- निद: या १०, ४२; ऋषा  
४, ६२.  
निन्दक- पा, पावा ३, २, १४६;  
-क: वैध ३, ३, ६.  
निन्द्यिवा अय ७, ११५.  
निन्दा- -न्दा वापधौ २४, १, ३३१†:  
द्विधौ १, १, १०; निम् ८, १: २३:  
२५; १०, ६: ८; आपमं २, ५,  
३१; आय ३, ९, ११; काशु ४१,  
२३१; वृदे १, ३५; ४९; -न्दाय्.  
निम् १, १०: १६; वैध १, २, ८;  
-न्दायाम् पावा ३, १, ५.  
निन्दा(न्दा-श्वा)कोश- -शी वैध  
३, ७, १०.  
निन्दा-परीवाद- -द्वौ विध २८,  
२६.  
निन्दा-प्रशंसा- -से वा ७, ३.  
निन्दा (न्दा-ञ) शक्ति-समाप्ति-  
वचन- -नानि मीम् २, ४, २०.  
निन्दित, ता- -त: वाध ६, ६;  
वैध ३, १२, २; -तम् आमिगृ  
२, ४, ७: ५; -ता आमिगृ १,  
५, ५: ८†; पाश १, ११, ४;  
भाश १, १९: १८†; वैध ५, ९,  
३; द्विगृ १, २४, ११†; मासि १,  
४; यासि १, ५१; आज्यो १३,  
२; -ता: काधौ २२, ४, ४;  
-तानाम् आपधौ २२, ५, १४;  
द्विधौ १७, २, ४२, -ते आमिगृ  
२, ४, ७: २; ७, ६: १५;  
-तेभ्य: विध ४०, १; -तौ वैध  
३, ११, ४.  
निन्दित(त-ञ)न्त<sup>९</sup>- -न्तम् वैध  
३, ४: ३.

a) वस. > क्व. > पस. ।। b) विप. । वस. । c) क्व. उप. = भोजन- । d) नित्या  
भानिका: इति शेष. । e) = अति- । वस. । f) पा ८, ४, २३ पराशुष्ट: द. । g) विसर्गहीन: पाठ: ? नति.  
कोश: (द्व. आधौ). । h) वैध १ द. । i) दु. पासि. । j) = मन्त्र-विशेष- ।

निघ- न्यः वीध १, १०, ३०;

-न्यानि आसिष्ट २, ७, ६;

२३.

नि/दध्, निदधति आसिष्ट ३, ५,

४: ३; १२; १९.

नि-दधत्, नि-दधान- नि/धा  
द.

नि-दशन- नि/दृश द.

नि/दृह, निदृहाति वीधी २८, १० :

७; वा ७, २००; १४, ३३०.

निदृहाताम् वीष् ८३, ७१.

नि-दध- न्यम् वीष् ५२, ९;

-न्ये वीधी २०, २९: २.

नि-दाध- पाठ २, ४, ३१; ७,

३, ५३; -धे वाधी २४, २, ५;

आधी २३, ३, ७; हिधी २८,

१, २५; वीष् ८३, ७१; वाध

२, ३३.

निदाध- न्यम् आसिष्ट २,

१२; वाध ३, १३; अथ ९,

५१; अं १: २४; ३: ६५;

-धेन अथ ५३, ३, ३६.

निदाधी- न्यः हिधि

१३: ३.

निदाध-माया(स-ब)तिगम-ने

युदे २, ५०; ५५.

निदाध-नार(दु)न्-भाध-धेयु

वाधी २१, ३, ५.

रनिदाध- पाठ २, ४, ६९.

नि-दान- नि-दाय, नि-दित- नि-वीध-

नाना- नि/दो द.

नि/दृग्, निदृतेपति वीषि ६२;

निदृतेषु वाधी ४, ७, २.

निदृतेषुपियामः आधी ५, ९, २१.

नि-दशन- न्यम् वेताधी ३२, १६;

अथ ४७, १, १५; ६८, ३, १३; युदे

२, १००; ११०; अथ १: ८; ११;

१३x४; या १४, ३०; अथः

-नानि अथ १, ५२; १४, ४७;

१५, १३; उष्-नाय आधी ७,

११, ६; १३; १७; ८, ३, १०;

या १३, २; अथ १४, ४७;

३१; -ने उष् ५, २; ६, ३; ७, १९.

निदशन(न-ब)र्ध- न्यः निष्

२, २: १२; -धेयु वाधी ७,

१०, १८.

नि/दो (बन्धन-सम्बन्धनयोः) >

नि-दान- न्यम् वीधी १८,

३०: ३; ४५: २६; ४७:

२०: २३; १९, ६: ५; २६,

२९: १; -नाय उनिष् ८: ३१;

-ने आधी १, ११, ५; १५, ५,

२०; ९, ४; आधी १, ११, ११;

१३, ५, २२; ९, ५; आधी १, १,

३, १०; १६; ४, २, ६; ३, १;

वाधी १, २, ३, ७; वेधी ३, ६:

३; ४, १: १४; १३, ७: २०;

११: ६; हिधी १, ३, ८; २४, २,

६; ४, २; वाध १, १४.

निदान- न्याः वा ६, ९; ७,

१२.

निदान-संज्ञ- के युदे ५, २३.

नि-दाध आधी १५, ९, ७; आधी

११, ९, ९; हिधी २४, ४, ३.

नि-दित- न्यम् वाधी १५,

२३, १; उष् २, १३.

नि-दीयमान, ना- न्याम् आधी १,

१, ३, १७; वाधी १, २, २, १८;

-ने आधी ४, ३, ९.

नि/द्रा<sup>m</sup> > नि-द्राड- पा ३, २,  
१५८.

निद्रा<sup>1</sup> अथ २, ५९१.

निद्रा<sup>2</sup> पाठ २, १७; पाठ ३,

१, १३, ५, ३, ३६; -द्रा अथ २२,

१०, ५; विध ९२, ४; मासि १५,

९; यासि २, १०९; नासि २,

८, २१; २६; -द्राथ संघ ९०;

११६: २९; नासि १६, ४.

निद्राथ पा ३, १, १३.

निद्रित- पा ५, २, ३९.

नि/घन् (वपा.) > निघन, ना<sup>1</sup>-

पाठ २, ८१; पाठ २, १, ५९४, ४,

३१; -न्यम् आधी ६, १३, २;

वाधी ८, १०, ३; १०, २१,

१२; वाधी १०, ८, २०; १९,

५, ३; २६, ७, १; आधी;

-नयोः निष् ३, १२: ५;

-नयन् निष् २, ८१३; -नानाम्

वाधी ७, ११, १५; निष् ८,

१: २३; २५; -नानि<sup>2</sup> आधी १,

४, ३; १२; वीधी २०, २: ३१;

३८; ४०; आधी १, ३, २३; वेधी

३, ४: ९, १५; हिधी १, २, ४३;

४७, आधी; -नाधि<sup>3</sup> वीष् ८०,

३०; ४१; -नाय आधी २, २,

३; लाधी १, ६, २; -नाय-नाय

आधी ३, ४, १०; -ने आधी

१, ४, १२; आधी १, ४, १०;

हिधी १, २, ४८; वेधी १९३;

a) सपा. वीषि १, ३१३; ३०: २८ निदधति इति पाठे. b) पाठे. वेप २, ३५. नि...धीयाते  
नास १३. ८, १, ४ टि. द.। c) = वीष् ११. d) तु. पाठम्.। e) विष्. नाय.। सार्धं वा तदर्थेदमित्यर्थे  
वा अन् प्र.। f) = नास.। g) विष्. (अन्).। h) = ज्येष्ठ-वीष् ११.। i) अथ.। म्यु.।। j) = एषु-  
प्रथ-विशेष- आदि-घाण-। k) तदर्थेति तदर्थेत्वं अन् प्र.। l) वेप १ द.। m) पा ८, ४, १७ परास्युः द.।  
n) नाय.। म्यु.।। o) < निद्र। p) निघान- इति पाठः। q) = मुद्राणीं मुद्रात्-व्य-। r) = अन्-विशेष-।



लाथी १, ६, २९; १०, १४;  
छुम् ३, ५: ८; निम् ४, ७:  
११; ७, ११: ७; १०, १३: २;  
कौम् ४६, ५; मीम् २, २, २८;  
-नेन आथी १७, १०, ११;  
वैथी १९, ६: १६१; दाथी ११,  
४, ८; लाथी ४, ४, ७; निम् १,  
१२: १६; -नेम्वा: लाथी ७, ६,  
१०; -नेपु लाथी ७, ६, १५; निम्  
१, १२: ८.

नैघन- -न: भाज्यो ९, ४,  
-नम् भाज्यो ९, ६; -ने भाज्यो  
१०, १, ९; ११, ४.

निघन-काम- -मम् लाथी ६,  
१२, १४.

निघन-ठस् (:) निम् ५, ५: ६.

निघन-ख- -खेन लाथी ७,  
११, १७.

निघन-माङ्ग- -गम् निम् २,  
९: ११.

निघन-म् (त>) वा- -वा:  
लाथी ६, १, १७.

निघन-मा (प्र>) प्रा- -प्रा:  
निम् ८, १: २९

निघन-नल्- -नल् लाथी ६,  
१२, १४; छुम् १, ६: १४; -यन्ति  
लाथी ६, ९, ७, १०, ८, ६;

निम् १, १२: ४, ५, ५: ४.

निघन-नाइ- -दा निम् १, १२:  
१५; ४, ७: २४; -दम् लाथी  
१०, १, ७, ९, १०; निम् ६,  
७: ६१; -दा निम् ४, ७: २५.

निघन-विभक्ति- -क्ति: पुम् ३,  
६: १४; निम् ३, १०: ३;  
५, २: ६.

निघन-स्थान- -नेपु लाथी १०,  
२, १; निम् १, १२: १३.

निघन-स्वर- -न्म् लाथी ७,  
६, ५.

निघना (न-अर्थ>) र्था- -र्था  
मीम् २, २, २९.

निघना (न-आ) र्थेय- -यम् निम्  
१, १२: ७.

निघनो (न-उ) पाय- -य: दाथी  
५, १३, ४; -ये निम् २, ९:  
१३.

निघनो (न-उ) पायन- -नम्  
दिथी १०, ५, २४.

निघन- > नैघवन- -ना:, -नानि  
वाथी ३, ९, ७: ३.

निघा, निघते आथी १, ४,  
१५; १८, १५, ५: वीथी; या १२,  
१९; निदधाति दाथी २, ९, १३;  
१०, ७; ७, ३, २; ३; काथी;  
वैथि १, ३: १३९; २०९; २८९,  
निघत: काथी ९, १०, ६; वैथी  
१५, २८: ५, निदधाति दाथी  
५, १४, ११; १७, ६, ६; २८, २४,  
५; काथी १३, ४, १९; नि ..  
दधति वीथी १, ७: १७, ६, १३:  
१६x; निदिधे दिथी ११, ७,  
५१; कौम् ६५, १३; निदिधे  
दधे आथी २, १८, १३; वीथी  
५, १०: २३; निदधामि वैथी  
१८, १३: ३१; निदिधमति  
आथी ४, १५, १, माथी ४, २१,  
१; दिथी ६, ४, १८; कौम् १०२,  
२; निघत्ताम् वीथी १७, ४०:  
१५; १९; आमित्थ १, ३, २:  
२३; ३: ३; निघत्ताम् वंथ

४, १४: ८१; निधेदि या ७,  
२१; निदिधेदि आथी २,  
१८, १३; वीथी ५, १०: २३;  
निदिघत्ताम् आथी ३, ३, १६;  
दाथी ५, १७, ३६; वीथी ६, १२:  
३; वैथी १०, १३: ७६; दिथी  
४, ३, ५२६; दिधि ५: ६;  
निघत्तम् काय ३१, २१; नि ..  
दधिष्यम् ऋप्रा ८, ४१; निदिघत्त  
वीथी २, १५: ३; आमित्थ  
३, ५, ६: ११; वीथि; नि-  
(दधात > वा) माथी ५, १,  
५, ५५; निघत्तन वेताथी २३,  
१३; निदिघेतन आथी ३, १३,  
१८; आथी ३, ११, ३; माथी  
३, १०, २; माथी २, ५, ४, ९;  
दिथी २, ६, १; निदधाति या  
१, ४१; न्यदधात् वीथी १८,  
४७: २१; न्यदधत्ताम् वृदे ३, २२;  
न्यदधु: वाय १३, ३१; या १३,  
९; निदधीत माथी १, ३, ५,  
१६; दाथी १२, ३, १४; १५,  
४, १९; लाथी ४, ११, १४;  
५, १२, २३; निदध्यात् आथी  
१, १३, २, ५x; काथी २५, ४,  
३८; निदधीत्त दाथी ६, ३,  
२८; १२, १, २०; लाथी २, ११,  
२१, निदधु: जैथीदा १२८;  
दाथी.

निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

१२; निदिधे वीथी ६, २४: २८;  
दिथ १, २५, १; ऋयम् ५, ३;  
या १२, १९; नि (दधे) ताष्  
१, ५४१; निदिधिरं या ६,  
३५; नि .. दधिषे निदीत् १५,  
९; ११; निदधु: दिथी ११,

a) वि. (नघन-वर्ग) । तरुदनीयः ऋण प्र. । b) = साम-निघेय- । c) वि. । वम. । d) पामे. वृ १४०२ अ. । e) निदधाति इति पाठः ? वनि. सोषः [पु. ची. प्र. करणम्] । f) पामे. वैथ १, १००४ छ. । g) पामे. वैथ १, १४२ अ. । h) पु. ची. । i) सपा. लाथी ४, १, १४ अनुदधीत् इति पाठे. ।

७, ५१<sup>११</sup>; अय ३२, १, १५;  
 अय १९, २०.  
 निधीयते शोभी १५, १७, ११;  
 नृआमिष्ट ३, ८, २: ४१; ५८;  
 वीष्ट २, ११, ६; नृवीपि १, १५:  
 ४८; ६३; या छ, ३; नि...  
 धीयते गौपि १, ५, ३१; निधी-  
 यन्ते गौपि २, ५, १३; अयाम  
 १, १; निधीयेरन् आवधी २१,  
 १६, २०.  
 नृन्यथापि शोभी १८, १, ६;  
 वैताश्री ३२, १०; या छ, २८;  
 निघायि अयमं २, ११, २५.  
 निघाययति वीधी ६, १: १५;  
 २७, ९: ७; निघायेष्व आमिष्ट  
 ३, १०, ४: १३; १५; अय ३३,  
 ५, ७: ८; ६६, २, २; याशि २,  
 ८१.  
 निघिसेत वीधी ३, २९: १५.  
 नि-दध्व- -ध्व आश्री २, ३, ८;  
 आमिष्ट ३, ८, २: २१; वीपि  
 १, १५: ३७.  
 नि-दधान- -नाः वैधी २०, २३:  
 ४; द्विपि २२: १४.  
 नि-धा- -धया आधधी ६, २२,  
 १; या छ, ३; -धा निय छ,  
 १; या छ, २६.  
 नि-धान- -पाय २, १, ५९०, छ, २,  
 ७५<sup>११</sup>; ८०<sup>०</sup>; ५, १, १२४,  
 -नम् काथी २३, ४, २४; २५,  
 ८, ७; आधधी १, १६, ८; २२,

२८, ८; वीधी १८, १९: ८; १;  
 द्विधी २३, ४, ४८; आनं २,  
 १, ८; आमिष्ट २, ५: १८;  
 काय छ, १५; वीष्ट २, ४,  
 १५; माष्ट १, २१, १०; पाष्ट  
 छ, २१; द्विष्ट २, ६, १२; द्विपि  
 १२: ८; अय ३५, २, ४;  
 बुंदे २, ११३; ८, १२३; या ३,  
 ६; ९, १३; -नस्य अय छ, ७,  
 १, ६; -नाय काश्री ९, १२, १८;  
 १४, १; १०, २, ११; ११, ३, ४;  
 १६, ३, १०; वीष्ट ५७, २७;  
 -नाय काश्री ८, २, १२; -ने  
 वीधी २०, ३: ५; १७: १२;  
 २६: २४; २२, १: ८; ९:  
 २७; या ९, ३६.  
 नैवान- वा छ, २, ७५.  
 नैघान्य- वा ५, १, १२४.  
 निघान-क- वा छ, २, ८०.  
 निघान-काल- -क वीष्ट ८०, २.  
 निघान-दशन- -नाय अय १,  
 ६, ६.  
 नि-घायिष्व वीधी २१, १३: २०.  
 नि-घाय्य आमिष्ट १, १, १०.  
 नि-घायमान- -नम् वैताश्री ५,  
 १७.  
 नि-घाय आश्री १, १, २३; ११,  
 ४४; आश्री; द्विधी १६,  
 ६, १९<sup>११</sup>; वीष्ट १, ९, ७<sup>१</sup>;  
 द्विष्ट १, ४, २<sup>१</sup>; निघायसनिघाय  
 माश्री १, १, २, १५: ७, ६, ५३;

८, ३, २२.  
 नि-घायम् काथी छ, १४, ५.  
 नि-घाय्यन्- -न्य वीधी २०, ३:  
 ७; वीष्ट ८३, १; १२७, १८;  
 नि-धि- -धयः शोध ३७३; -धि:  
 आधधी ११, १२, २<sup>१</sup>; वाधधी  
 ३, १७: २३; द्विधी छ, ६, १८;  
 शाष्ट १, २, ८; या २, ४६;  
 -धिना माश्री २, ५, ५, १८;  
 भाशि ११९; १२०<sup>०</sup>; -धिय  
 आधधी १६, २२, २<sup>१</sup>; नृवीष्ट  
 २४, १९; ६२, १०; अय १०, १,  
 १६; १८, ३, १०; विध ३, ५६;  
 ५८; नृअय १०, १०; १२, १;  
 ३; १९, २७; -धिनियम् काथी  
 २०, ६, १३; वीधी १५, २९: २५;  
 वाधधी ३, ९०: ४; ७; ११;  
 ११: ७; पाष्ट ३, ४, ८.  
 निधिनि-गोप- -यः आधमं २,  
 ५, १<sup>१०</sup>; काय छ, १, १<sup>१०</sup>; वीष्ट  
 २, ५, ६४<sup>१०</sup>; माष्ट १, १०: ८<sup>०</sup>;  
 १; वाष्ट ५, २७<sup>१०</sup>.  
 निधिनि-व- -वः आष्ट १, २३,  
 २१<sup>१</sup>; पाष्ट २, ४, ३; माष्ट १,  
 २३, १७<sup>१</sup>; -पाय वाध २, ९;  
 विध २२, १०; या २, ४.  
 निधि-वति- -विय वीधी १५,  
 २९: २५.  
 निधिनि-पा- -पा: पाष्ट २, ४,  
 २<sup>१</sup>; वीष्ट २, १: ९; वीष्ट ६२,  
 १; अय १२, ३.

a) न्युः इति पाठः। यनि. शोधः (तु. सप्र. मे २, ७, १९ काठ ३२, ३)। b) वेप इ.। c) वेप २. १८५ k द.। d) नि-घन- टि. द.। e) अयः।। f) विघान- इति पाठाः। g) निघनात् इति पाठः। यनि. शोधः [तु. प्रकरणम्]। h) पागे. पृ ११४ a द.। i) पागे. पृ १३९६ c द.। j) निघाप्य इति Böhrt [ZDMG ५२, ८१]। k) = गोप-। वेप इ.। l) पागे. वेप १, १०६ b; बहिन्या वै ३, ८, २ टि. च द.। m) ष्ना इति पाठः। यनि. शोधः (तु. पूर्व खलम्)। n) = निधि-रक्ष-। उम. उप. अणु प्र.। o) लक्ष्ण स्या. निधिनोपः <> निधिः <> निधिषः इति पागे.। p) = निधि-गोप-।

निष्प(वि-ञ)धिगम- -मः गीष  
१०, ४२.

निष्प (वि-ञ) स्वाधि-याचित्ता-  
(त-ञ) बक्रीता (त-ञ) पि<sup>०</sup>-  
-धयः गीष १२, ३९.

नि-धीयमान, ना- -नम् वेताथी १०,  
१; २८, १०; ३३; २९, २;  
-नयोः द्राथी १३, १, ६; लाथी  
५, १, ६; -नस्य द्राथी १४, ४,  
१४; लाथी ४, ९, १८; ५, ८,  
१३; १०, ५; -नाः वेताथी २८,  
२५, २९, ६; -नाम् वेताथी २,  
८; -नानाम् द्राथी १२, १, ७;  
१४, ४, ३, ६, लाथी ४, ९, ४;  
५, ८, ३; ६; निम् ३, ४; ११,  
-नायाम् द्राथी १४, ४, १३; -ने  
माथी ४, ९, ३; वैथी १२, ६, ४;  
जैथीका ५३; द्राथी १२, २, ४;  
लाथी ४, १०, ५.

नि-धे(य>)वा- -याः वैथी १३,  
७; २६

नि-द्वि, वा<sup>०</sup>- -तः आथी २, ११,  
११; द्राथी; वासि<sup>०</sup> १, ८७-  
८९, नासि २, १, ३०; नि(द्वितः)  
ऋम ३, ११; -वम् आपथी  
११, १२, ३; वैथी; माथी ३,  
४, १०; १०; कौत् ११७, ४<sup>०</sup>;  
न्या २, १६; १२, ३८; द्युमा ४,  
१३८<sup>०</sup>; -तयोः वाथी १, ४, ३,  
२४; -ता आपथी १, ३, १; आपमं  
२, ११, ३३; पाय ३, १३, ६;  
भाय २, २६; १५; शिप १,

१५, ६; न्या ४, १०; १३, ९;  
-जाः वैथी १२, ८; ३; -ताम्  
काथी १५; आपमं; -तानि  
आपथी २१, २१, १४; द्विथी १६,  
७, १०; अप ३, १, ५; या १३,  
९; -ताम् नाथी १, २, ४, ४; ४;  
वाथी १, १, २, ११; तु २०,  
१; -तासः न्या ३, २०; -तासु  
द्राथी १४, ४, ३; ६; लाथी ५,  
८, ३; ६; -ते आथी २, १७, १०;  
४, ४, ६; १०, ३; वैथी; -तेन  
वाथी १, २, २, ३१; -तेषु काथी  
२२, ५, १५; ९, ४; द्राथी १२,  
१, ७; लाथी ४, ९, ४.

निघातोः<sup>०</sup> या ३, १६.

नि-धि- प्रत्य. नि/या द.

नि/धी, निधीमहि आथी २,  
१९, ६; आपथी; नि(धीमहि)  
वैथी १८, १२; ११; साय  
१, २६.

निदिध्यव<sup>०</sup> वैथी ४, ९; १४;  
माथी ७, १९, १५.

नि/धृ, निधारय ऋया ८, ४३;  
न्यधारय वृदे ५, ८४; निधीयः  
ऋया १, १०३.

नि-धारव<sup>०</sup> -यः आथी ७, २,  
१०.

नि/धै > नि-ध्यात- -तम् वाधुथी  
३, १०६; १; २.

निधुव<sup>०</sup> -वा<sup>०</sup> वैथीप्र ४१; १८;  
-वाणाम् आथी १२, १४,  
७.

नैधुव- -व आथी १२, १४,  
७; आपथी २४, ९, १४; वैथीप्र  
४१; १९; द्विथी २१, ३, १३;  
वैष<sup>०</sup> ४, ७, १; ९; -वस्य वैथी  
१८, ४५; ४३.

नैधुवि- -विः द्युम १,  
५५०.

निधुव-वत् आपथी २४, ९, १४;  
वैथीप्र ४१; १९; द्विथी २१,  
३, १३; वैष<sup>०</sup> ४, ७, १; ९.

नि-धुवि<sup>०</sup> -विः आपथी १४,  
१७, १; द्विथी १५, ५, १.

निधुवि<sup>०</sup> -विः ऋय २, ९, ६३;  
साय १, ४८३; ४९३; ४९३;  
५०१; २, १०४९; -वेः साय  
३०; ८१.

निनि आग्निद्योम क्षारहृ<sup>०</sup> वैथी  
२१, ३; १०.

नि/नत् > नि-नद-, नि-नाद- पा  
३, ३, ६४.

नि नद- नि/नह द.

नि/नम्, नि...नम ऋया ८, ४; १;  
निनमै या २, २७; निनमाम या  
२, २७.

नि...नसै या २, २७; १;  
नि(नसै) वृदे ४, १०७.

नि-नत्, वा- -तम् आपथी १०, ५,  
१; ११, ८, १०; १८, १८, ५;  
माथी ७, ९, १२; -ता आपथी  
१४, ६, ५; -तौ आपथी १४,  
६, ४.

नि-नयत्-, -न- नि/नी द.

(a) द्रव. । निधि- = अमुद-निक्षेप-, अन्वापि- = उप-निधि- (= अमुद-निक्षेप- [तु. वास्तु २, ६५]),  
अवक्रान्त- = अद्रतन्व्य- वा अर्धद्रतन्व्य- वा । b) वैष १ द. । c) = अमुदात्त- । d) पाभे. वैष २, ३४. तैत्रा  
१, ४, ४, १० टि. द. । e) पाभे. वैष १, १८०९ । द. । f) पाभे. वैष १, ८०१ ४ द. । g) पाभे. वैष १,  
१८०७ क द. । h) = ऋपि-निक्षेप- । म्यु. ? । i) न्यु. < नैधुव- । j) °दृष इति पाठः । यनि. शोधः  
(द्र. आथी प्रत्य.) । k) °दृ इति पाठः । यनि. शोधः (द्र. आपथी. प्रत्य.) । l) निधुवैः इति पाठः ।  
यनि. शोधः (द्र. प्रत्य. प्रत्य.) ।

नि ✓ नद्, निनद्वेष आधौ ८, ३, ९.  
 निनद्वे- -द्वेः आधौ २, ११, ९;  
 ११, १६; -द्वेष्य वेताधौ ३२,  
 १८; ३२; -द्वेषु वेताधौ ३२,  
 १५.  
 नि-निर्दत्- -र्दत् लाधौ ७, १२,  
 १३†.  
 नि-नर्य आधौ ८, ३, ८०.  
 नि ✓ नह, निनहति आपधौ ११, ७,  
 ३; २०, १६, ८.  
 नि-नद- -दः या २, १४†.  
 नि-नांघ- -घात् काधौ ८, ९, ७.  
 नि-नाद्- नि ✓ नद् द.  
 भिनिनियोज अप १, ९, ७; ८, ३; ४;  
 ७.  
 नि ✓ नी, निनयते आधौ १, १३, १;  
 २, ४, १२; निनयति काधौ २,  
 ५, २६; ३, ८, ६××; आपधौ;  
 निनयन्ते आपधौ १४, २२,  
 ७; निनयन्ति आधौ १३, ११,  
 १०; बोधौ १४, २६; २२;  
 माधौ २, ५, ४, ११; वेताधौ २३,  
 १४; निनय कौसु ३७, ११;  
 निनयानि आधौ १, ११, ८†;  
 निनयते आधौ २, ४, १३; ३,  
 ११, २०; आपधौ; निनयसुः  
 आधौ ६, १०, २१; ९, ३, २०;  
 देशी २१, ८; ७; द्राधौ ६, ३,  
 २६; लाधौ २, १, ७; ११,  
 १९; ८, ८, ४; बोध २, १,  
 ३५.  
 निनीयते कौसु ७३, ५.  
 नि-नयद्- -यद् आधौ १, ११, ८;  
 पाठ १, ३, १४  
 नि-नयन- -नम् आधौ २, ७, ४;  
 कौसु ५१, २; -ने बोधौ २०,

२६; १८.  
 निनयन-प्रभृति- -ति माधौ ४,  
 ३, ३६.  
 नि-नीत्, ता- -तः बाधुधौ ४, ९०<sup>२</sup> :  
 ४; ७; -ताः माधौ १, ४, ३, ९;  
 २, ५, ४, १२.  
 नि-नीय आधौ ६, १२, ११; आधौ.  
 नि-नीयमान, ना- -नम् आपठ १३,  
 ९; द्विष्ट १, १३, ४; -नाः  
 यौष्ट १, २, २९.  
 नि-नेवृ- -तारम् वाध १५, १३.  
 निन्दक-, निन्दयिष्या, निन्दा- प्रयु.,  
 निन्दित्र-, निन्द्य- ✓ निद्, न्द्  
 द.  
 ?निन्दुन् वाधुधौ ४, ५९<sup>१</sup> : १.  
 ✓ निन्द्य पाषा, भ्या. पर.सेचने.  
 नि ✓ पच् > नि-पाय- -यम्  
 बाधुधौ ४, ११८ : ९, ११.  
 नि ✓ पद् > नि-पठ- पा ३, ३, ६४.  
 नि-पठित- (> पठित्- पा.) पाग  
 ५, ३, ८८.  
 नि-पाठ- पा ३, ३, ६४.  
 नि ✓ पत् (गती), निपठति आपधौ  
 १८, ३, १५; २३, १२, १०;  
 वैधौ; या १, २०; निपठन्ति  
 बोधौ १२, ६ : ३; अप ५८†,  
 १, ५; २, २; ७; ४, १७; १९;  
 ७०†, ११, ३२; बोध १, ४७;  
 अप १२, ५(३)†; या १, ४;  
 ११; याशि २, ६१; म्यपठत्  
 वृदे ५, १४९; निपठित् आधौ  
 १२, ६, ७; ८; बोधौ २६, २१ :  
 ४; २७, १ : २; कौसु ८३, २३;  
 अपाय २, ६; आपसु २, १०;  
 बोध २ : ५; द्विष्ट १, ३०;  
 निपठेतुः बोधौ २९, १ : ४.

निपातयेत् वैधौ १, १ : १२;  
 १०, २ : २; अप.  
 निपातयेते आ ७१, १३, २; वृदे  
 २, ९३; पावा ३, २, १७७;  
 निपातयते वृदे २, ९३.  
 नि-पठ- -तारम् अप ५८†, १, ६;  
 -तन्तम् कौसु ६५, २.  
 नि-पठन- -नात् बोध २, १, १४.  
 नि-पठित- (> पठित्- पा.) पाग  
 ५, ३, ८८.  
 नि-पठ्य > प्य-रोहिणी<sup>०</sup>- पाग २,  
 १, ५२.  
 नि-प(त्य >) रथा<sup>०</sup>- पा ३, ३, ९९. +  
 नि-पात्- पाग ५, १, १२४; -तः  
 कप १, २, ६; ऋष २, ३, ६;  
 वृदे १, ३९; ५, १६३; ७, १४५;  
 या १, ६; २, २०; ४, १७; ५  
 ५; ६, २६; ११, ११; २०; १२,  
 २०; २९; ३०-३३; ऋषा १२,  
 १७; २५; अप्रा १, ३, ४; ५;  
 शौच १, ७९; याशि २, ५; पा  
 १, १, १४; पावा ६, १, ९३;  
 -तम् वृदे ६, ८६; या ७, १८;  
 १०; ३१; -तस्य पा ६, ३,  
 १३६; पावा १, २, ४५; -ताः  
 वृदे २, ३; ८१; ४, ९६; वा  
 १, ४; ३, १५; ऋषा १२, २१;  
 शुभा २, १६; याशि २, ४; पा  
 १, ४, ५६; -तात् निम् ८, ११ :  
 १४; वृदे ८, ९०; -ताम् आधौ  
 ६, १४, १४; -तानाम् वृदे २,  
 ९३; ऋषा १२, २६; -ते याशि  
 १, ५४; ७१; -तेन वृदे १, ७८;  
 २, ८१; ३, २५; ३६; ४, ५४;  
 ८, ५२; -तेः वृदे ६, १३५;  
 ८, १२९; पा ८, १, ३०.

a) = (चदुष्टत्वः) शोद्धार-ध्वनि- । b) ईँइ इति आन. । c) रोहिणी = रक्त- इति पायम. ।  
 d) नाप. । अर्थः ? । = पिच्छला-भूमि- इति पाति. । e) भाव., पारिभाषिक-संज्ञा- Lपा. ऋषा. प्रयु. J च ।

नैपातिक्- -कानाम् वृदे  
२, ७१; -कानि वृदे १, १७;  
१९; २, ७८.  
नैपात्य- पा ५, १, १२४.  
निपात-क- -का: याशि २, ३.  
निपात-ज- -जौ याशि २, ५७.  
निपात-भाञ्- -भाक् वृदे ४,  
१३; १२८, ५, ९१; ९३; १०७;  
११०, ६, १३१; साद्य १, ७८;  
३६४; ४५२; ४५७, -भाज:  
साद्य १, ४३५; या ७, १३;  
-भाजम् वृदे ७, १४५, -भाजौ  
वृदे ४, १०; -भाजिन् अप  
४८, १३३; १३८, १४३.  
निपात-भाञि(न्) > नी- नी  
साद्य १, ७३; १३३.  
निपात-भाञ- -भम् वृदे २,  
८०; -भे वृदे १, १३; -भेण  
वृदे २, ७५  
निपात-संज्ञा(ता-श्च)भाष-  
-व: पावा १, ४, ५८.  
निपात-सत्ता(ज्ञा-श्च)र्ष- -र्ष:  
पावा १, ४, ५८, ५९.  
निपात-स्तुवि- -विपु वृदे ३,  
११९  
निपाता( त-श्च)व्यय- -यानाम्  
अप्रा ३, ३, २०.  
निपातिन्- -तिम: वृदे ८,  
१२८; -तिनम् वृदे ४, १२८;  
-तिनी वृदे ४, ११०; -नी वृदे  
४, १२४; ८, ६७.  
निपातिनी- -नी वृदे ३,  
५३; -न्य: वृदे ७, ३९.  
निपात्य( ति-श्च)र्ष- -र्षां

वृदे ४, १७.  
निपातै (त-ए) क्तव- -त्वात्  
पावा ६, १, ९३.  
नि-पातन- -नम् पावा ३, २, १०९;  
१७१; ६, १, २०३; ४, १७४;  
७, २, २६; -नात् अत्रा १२, २६;  
पावा १, १, ४; २७; २, ४, २६;  
५, ३, १८; ६, १, १५८; १६३;  
२, २; ४, २४; -ने संघ ३१५;  
बोध २, १, ७; विध ५४, ३०.  
निपातना(न-श्च)नर्थक्य- -न्यम्  
पावा ४, ४, ८२; ५, १, ११३;  
११४.  
नि-पातिव, ता- -तम् अत्रा ३, ३,  
२१; -ता वृदे २, १३४; -ता:  
वृदे ३, १२१; ८, ४०; -तौ  
वृदे ३, ६७; ५, १०५; ७, २१.  
नि-पात्य साधौ ४, १४, १२, अपाधौ.  
नि-पात्यमान- -नम् वैताधौ ३७,  
२५.  
?निपत: बौधौ ६, ६: २५.  
नि ✓पद्, निपद्यते आधौ ८, १४, ४१;  
साधौ ४, १८, ११; बौधौ १७,  
४०: ३, क्रामिष्ट १, ३, २: १२,  
भाए २, १८: १५, भाए २, १८,  
२१; कौम् ४०, १०; निपद्यन्ते  
साधि १०, ६; ?निपद्यते आपर्न  
२, ८, ५, क्रामिष्ट १, १, १: ५२;  
५, १: ३८; ३९; ६, १: ३२,  
३, २, १: १३, बौध १, ३, ३८;  
भाए १, ५: १३; द्विष्ट १, २, १८,  
जंघ १, २०: २०; निरधेत  
लाधौ ८, ८, ५.  
न्यपादि वाधूधौ ४, ७५: ८.

नि-पद्य बौधौ १४, १८: १६; १८.  
नि-पद्यमान, ना- -न्यय साधौ १५,  
१९, ११; -नायाम् क्रामिष्ट ३,  
५, ६: २; बौधि १, ४: १८.  
?नि-परण- नि ✓पृ, पृ द.  
नि ✓पा(पाने) > नि-पान- -नम् पा  
३, ३, ७४.  
नि-पात्य बौधौ ११, ३: ३५.  
नि ✓पा(रक्षणे), निपाति अत्राय ६,  
३<sup>५</sup>; निपातु या ११, ४६<sup>५</sup>; ?  
निपाताम् बौधौ ९: १३१;  
नि...पादि द्विधौ १५, ६, ४१.  
नि-पात्य- नि ✓पद् द.  
नि-पाठ- नि ✓पद् द.  
नि-पात-, -तन- प्रम्. नि ✓पत् द.  
नि-पाद्- (> ण्-क-पा.) पाग ५,  
३, ६४.  
नि-पुण, जा- पाग २, १, ४०;  
५९; ७०; ५, १, १२४<sup>१</sup>; १३०;  
६, २, २४; -ण: आपध १, २३,  
२; द्विध १, ६, १०; -णम्  
आपध १, २२, ८; द्विध १, ६, ८;  
पाशि १०; कौशि ५६; ६४;  
७२; -णम् विध ३, १८; -णम्  
वाप ४, २०.  
नैपुण- पा ५, १, १२०.  
नैपुण्य- पा ५, १, १२४.  
निपुण-क- (> ण्कीय- पा.)  
पाग ३, २, १३८.  
निपुणो(ण-उ)दाहृत- पा २,  
१, ५९.  
?निपुणाहम्<sup>२</sup>- -हा<sup>१</sup> द्वैष्ट १, ८: १७१.  
?निपुणि<sup>३</sup>- -णि<sup>१</sup> भाए १, २३: ७;  
द्विष्ट २, ३, ७; -निम्<sup>१</sup> क्रामिष्ट

a) विप. । तस्येदमीयः टक् प्र. उचं. (पा ४, १, १२४) । b) विप. । उच. । c) पा ८, ४, १७ पराष्टः द. । d) पाभे. वैप १, १८०९ b द. । e) न्यु. ? । < नि ✓उण् इति अना., < नि ✓पृ इति वाग [१, १९; १०२ B] । f) १ ५५९ ० द. । g) वृ. पायम. । h) = मालप्रह-विशेष- । व्यु. ? । i) सपा. निपुणदा <> निपुमि: <> निपुमिम् <> न्यमणि: इति पाभे. ।

२, १, ३ : १५

नि-पुर्- -पुर्: आश्री २, ६, २;  
शाश्री ४, ४, ३; आषधी १,  
८, ७; वीथी २, १ : २; माथी  
१, ८, ५; माश्री १, १, २,  
८; वाश्री १, २, ३, १; द्विथी  
२, ७, १७; जैथ २, २ : ४.

नि✓पृ, पु. निपृणुवाच वीथी २४, ३२ :  
६; द्राश्री ७, २, ११; लाश्री  
३, २, ११.

निपृणाति कौट ८२, २१; ८४,  
६; निपृणति वैताश्री २२,  
२२; पाथ ३, १०, ५५; निपृणी-  
पान् आश्री २, ६, १५; १७; १८;  
२०; वीथि ३, ४, २२.

नि-पण- -णम् काथ ६३, १४; १४;  
६४, ३; ६५, २; ६७, ४; ६८,  
४; ६९, ४; -णाय या २,  
११.

नि-पृत- -ताम् आश्री २, ७, १.

निपेपिण् हिर १, १७, २.

नि-प्र✓भ. नि(प्र...भ्रामहे) आश्री  
६, ४, १०; शाश्री २, ९, ४; ऋम्  
२, १, ५३; ऋम् २०, २१.

निपृञ् (> निपृञ्-ञ्, निपृञ्क-  
पा) पाग ४, २, ८०.

नि✓वप्, ण्. निवपनाति माथी २,  
२, २५; ४, ३, ४; द्विथी ७,  
५, २५, अय ७०, ३, ८.

निवपंतः वैथी १४, ६; ६; द्विथी  
७, ५, १७.

निवपद् -दम् वैथी ११, ९ : २;  
द्विथी १४, १ : ३७.

नि-वप्य-वैथी १४, १४ : १३; कौट  
१८, ७; ४९, २३; ८०, ३३; ८५,  
१८.

नि-वप्य- -प्यः आषट् ३, ११;  
गोष १३, १०.

रनिवप्य-निवप्यन- (> ण्य-क-  
निवप्यन-क-) निवप्य- टि. द.

नि✓वाष् > वैनिवाधित- -तासः  
शाश्री ७, ६, ३०.

नि-विड- -नि-विरीस- पा ५, २, १२.  
नि✓बुष् निबोध विध १, ६५; पाथि;  
निबोधत अय २४, १, ३; ४२,  
१, १४.

नि✓वृह (द्विवायाम्), निवह्वयति  
विध २, १९; निवह्वयत् वृदे  
४, ६९; निवह्वय आषिट् २, ६,  
८ : ४०.

नि-वह्वण- -णम् वृदे २, ६.

निमम् शंष २३२.

नि✓मुञ् > नि-मुञ्ज- -जम् माथी  
२, १, २, २०.

निमभूय-पुर् अत्राय ३, ३.

नि✓भृ > नि-भृत् - -तम् द्राश्री ७,  
३, ८, नाथि २, ७, १२.

निभृत्-यत् - -वन्ति निपृ ६, ११;  
१०.

निमग्न- (> नैमग्न-पा) पाग ४,  
२, ८०.

नि✓मज्ज, निमज्जति वीथी २७, ८;  
५, द्विपि १७ : ६, अय ७१, १७,  
३; विप ५७, ८; वृदे ३, २४;  
निमज्जन्ति पाथ ३, १०, २०;  
अय ६८, १, १८; निमज्जेत्

वीथी २९, ५ : २२; २४; वैष २,  
१३, १.

निमज्जयेत् वैथी २०, १२ : ५.

नि-मज्ज, -मज्ज- -मज्जः शंष १०३;  
विध ६४, १९; सुधय ८७ : ३;  
-मज्जा अय ६१, १, ९; -मज्जायाः  
वाध २१, ६-८.

नि-मज्जन- -नम् विध १९, ६.

नि-मज्जान- -नः वाध २६ ८.

नि-मज्जव- -आषिट् २, ६, २;  
१३; वीथि ३, ९, ६; ७, ४; वैष  
१, ३ : १३; ५, ६ : ९; ६, ८ : ४;

जैथ २, ५ : ६; वीथ १, ५, ११०;  
२, ५, ७; विध ६४, १८; निमज्ज-  
निमज्जय कौथ ४, ४, ५; शाथ  
४, १७, ५.

निमज्ज- -वः तैत्रा २३, ८.

नि✓मन्त्रि (< मन्त्र-), निमन्त्रयते  
कौथ २, ११, ५; निमन्त्रयै पावा  
३, १, १११; निमन्त्रयैत् वैष ४,  
३ : ४; वैष ३, ९, २.

नि-मन्त्र- -णम् कौथ ३, १२, ६.

निमन्त्रणा (ण-प्र) विक्रम- -मे  
विध ५, १४.

निमन्त्रणा (ण-आ) दि- -नीनाम्  
पावा ३, १, १६१.

नि-मन्त्रयि- -तुः विध ५, १७.

नि-मन्त्रयित्वा विध ५, १५.

नि-मन्त्रित- -तः विप ५, १६;  
-ताः वैष ५, १२ : ४.

नि-मन्थ काथ ३, ९, ४; वीथ २,  
८, ६.

नि-मन्थ- -मथः गोष २, ५५.

a) वैष १ द. । b) निपृणुवाच इति पाठः । यनि. शोषः । [तु. प्र.] । c) वैष २, ३३. द. ।

d) तु. पावा. । सञ्च २ निवप्य- , निवप्यन- इति [पक्षे] भावडा. अत्र. । e) पावे. वैष २, ३३. द. ।

f) पाठः ? = लवण-विशेष- इति क्त्वा विदः इति वा (तु. स्पृथा [२१७]) विदम् इति वा शोषः (तु. पमा-  
[३७७]) । g) वैष १, १८१० ह वा । h) विप. (मथ-तामन्त्र- ) । i) वीथि. कौथ. विध. यनि. वाधि. द. ।

j) = वाच-स्थान-विशेष- । ध्रु. ३ ।

नि-मय- नि/दि द.

नि/मा(माने) > नि-मात्(व्य >)

व्या- न्या काण्ड ७, १७.

नि-मान- ने पा, पावा ५, २, ४७.

नि-मित्त- तम् पा ३, ३, ८७.

नि-मीयमान- ने वैध्री २४: ६.

नि-मेय- ये पावा ४, २, ४७.

नि-मार्जन- नि/मृद् द.

नि/मि (प्रक्षेपे), निमिनोत्रि

बोधो ९, ७: २१; १२, १४:

१७; १३, ३७: ७; वैध्री १७,

१२: ८; कौस्तु ४०, २; निमि-

नोमि पाण्ड ३, ४, ४; आग्नि २,

४, १: ११; भाण्ड २, ३: ३;

हिण्ड १, २७, २; निमित्तुत्र बोधो

११, ६: ३.

निमिम्युः आधो ३, १, १०.

नि-मित्त, वा- तम् बोधो ११,

७: २८; वैध्री १७, १३: १,

-वा बोधो ११, ७: ३७, आपमे

२, १५, ३१<sup>०</sup>; भाण्ड २, ८, ११<sup>०</sup>;

कौस्तु २, ११<sup>०</sup>; भाण्ड ३, ३, ११<sup>०</sup>;

-वे वैध्री १८, १७: ३३.

निमि- पाउभो २, १, १११.

निमित्त- पाउभो २, २, १३४, पाण्ड

४, २, १०<sup>०</sup>: ३, ७३. -तम् अत्र

५१, ५, १; ७०<sup>०</sup>, १०, ३४४;

शंभ; पा ५, १, ३८; पावा १,

४, २१<sup>०</sup>; -तस्य पावा ३, १,

१; मौस्त ५, १, ३३; ३, २६;

६, ५, ३३; ३६; -कार्य बोधो

२५, ४, ४१; अत्र ४: ६;

पावा २, ३, ३६; -साणि आग्नि

२, ७, १२४, ५: ३, बोध १,

३, ६३; अत्र २१, ७, १; ५४,

१, २; ६४, १०, ९; ६५, ३, ७;

६९, १, ५; -तस्य अत्र ७२,

३, १; -ते वैध्री २०, १३:

११; आपण्ड ४, ६; अत्र ६५,

२, १२; आपण्ड १, २०, ३;

आपण्ड ४, ७; -तेन मौमि १,

१, ४; मौस्त २, ४, २१, ४, ४,

१७, २, ३, १०; -तेषु बोधो

२८, ६: ६; अत्र १, २, १४;

अत्र ५८<sup>०</sup>, ४, २०; ६५, २, १३;

-ते: बोधो २७, ८: १; अत्र

६७, १, १.

निमित्त- पा ४, ३, ७३.

निमित्तिक- पा ४, २, ६०<sup>०</sup>;

-कः मौस्त ३, ५, ४८; ४, ४, ८,

६, ८, ४४; -कम् वेश १, ४:

२६; ५, १३: ५; शंभ; -का:

आधो ९, १, १३; -कानि बोधो

२७, २: २३; आग्नि २, ७,

८: १; आपण्ड १, ११; अत्र

२३, १, ३; आपण्ड २, १०,

शुभ १, ५४३; -काय वैध्री

२०, १६: १; -के कौस्तु २, ६,

११<sup>०</sup>; वेश ६, १७: ३; शंभ

२१०; आपण्ड २, १४, २०; वैध

२, १४, ६, हिण्ड २, ३, ३०;

मौस्त ४, ३, ३, १०, २, ६७, ३,

३०; -केषु भाण्ड ३, २१: ४.

निमित्तिकी- क्ती: काधो

१५, ४, २२; -कीम् बोधो २८,

६: २; आपण्ड ४३: ९; ४५: ९.

निमित्तिक-र- त्वार मौस्त

१०, ३, २७; ८, ६४.

निमित्त-क- कार्त्त वेश २, ३, ५.

निमित्त-कारण-हेतु- नुपु पावा २,

३, २३.

निमित्त-र- र्हे: अत्र ६८, ४, ६.

निमित्त-ज्ञान-कुशल- उा: अत्र

६८, १, ३.

निमित्त-परीष्टि- -ष्टि: मौस्त १,

१, ३.

निमित्त-पर्याय-प्रयोग- ने पावा

२, ३, २७.

निमित्त-पूर्व- -वम् शंभ २४७.

निमित्त-भाव- त्वार पावा २, ३,

४६.

निमित्त-भेद- त्वार काधो १, ७,

१३.

निमित्त-भाव- -त्रम् पावा ३, १,

२६

निमित्त-विघात- तात् मौस्त ६, ६,

९; १०, ५, ६१.

निमित्त-आह- -त्रे वेश ७, ७: ६.

निमित्त-संयोग- तात् मौस्त ६, ४,

३२.

निमित्त-संदाय- त्वार अत्र ११,

१०.

निमित्त-संपत्(ज >) वा- वा अत्र

६५, २, १२.

निमित्ता(त-आ)व्या(व्या-अ)भि-

संयोग- तात् मौस्त १०, ३,

३५.

निमित्ता(त-अ)भाव- त्वार पावा

१, १, ६२; २, ३, ४६; ३, २,

११०; १, १३२.

निमित्ता(त-अ)र्ध- र्धा: मौस्त ४,

३, ३७; -र्धे मौस्त ६, १, २७<sup>०</sup>;

-र्धेन मौस्त ६, ५, १४.

निमित्ता( त-अ)वेष्टा- श्वाणि

आपण्ड १, ११.

a) मित्र (वेदि-);

b) वै १ द.।

c) पामे. इ १४०००० द.।

d) = हेतु, लक्ष्मन्,

एतन्-। यु. !। <नि/मिद (स्नेहने) इति अभा.। e) = प्रत्य विशेष-। f) तु. पाति.। g) = निमित्त-

रूप-। h) त्व. = परीक्षा-। i) 'येन इति जोरं. प्रश्.। j) विप.। उच. उप. < भव/ईष्ट्।

निमित्तिन्- > ष्टि-कार्यायै-श्र)

शै-त्व-त्वात् पावा ३,१,१.

निमित्ति-स्वर-बलीयस्त्व-

-त्वस्य; -न्वात् पावा २,१,१.

निमित्तो(त-उ)पादान- नम् पावा ३,१,१२.

निमिश- > नैमिशि-(> श्वायन-पा.) रनिमिप- टि. द्र.

निमिशि- > नैमिशि- पाग २, ४,६१; -श्रयः वीथीप्र २२: २. नैमिश्रायण- पा २,४,६१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

रनिमिप-(> नैमिपि-(> ष्वायन-पा.) पाग २, ४,६१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

नि-मिष्ट- > इलः शीथी ११,५,२१.

निमृज्व- श्वाथी २,६,५; वीथी २०, २०: १७; १८; श्राय १, १७,१६.

निमामृजे, निमामृजुः श्रप्र ९, २६.

नि-मार्जन- > नैमार्जन- नः वीथी १८,२: ४.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ६; -जन्तः वीथी १८,२: १३; २६, २०: ३; ५.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ११, ४x४; भाथी.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

नि-मृज- > नृन् वीथी १८, २: ३६; -ष्टे वाथी ३,२,३,१२.

a) व्यय. । व्यु. । । द्व. MW. । b) वै १ द्र. । c) सपा. निमित्ते <> निमील्य इति पाठे. । d) निमृज्व इति ल. । e) भा. । f) वि. । यत्. । g) द्व. जी. । h) = याव-विशेष- । i) व्यय. । j) नैमिशि- इति [शे] पाठम्. । k) वि. । वत्. > इत्. । l) = प्रमाद्य विशेष- (= निमृष्टि- । श्रमा ५, १, ३) । m) = यज्ञ-विशेष- । तस्येदमीयः अन् प्र. । n) पाठे. वै १,१०११ इ. । o) श्वासम् इति पाठः ? सनि. शोषः (द्व. श्वाथी.) । p) = निमृज- । q) पाठे. वै १,१०११ इ. । r) = निमित्त- । s) निमित्त इति पाठः ? निम्नम् इत्य इति शोषः ।



८, ११, २; -इत्तं ऋष २, १, १०<sup>१</sup>.  
 निम्ब- पाठभो २, २, २२२.  
 निम्ब-पत्र- -त्रम् आसिष्ठ ३, ४, ४: २३; वीथि ३, ४, २०; -आसिष्ठि १९, ८.  
 निम्ब-मय- -यः अत्र २१, ३, २.  
 निम्ब-श्लेषात्क-नीप-तित्व राज- वृक्ष-विभीतक-गण्डमलि-कोवि- दार-करञ्ज-बाधक-निर्गुण्ड- पलाण्डु-जवा- -पानाम् वैधो ११, ११: ५.  
 नृनिम्बा(म्-अ)रल-सकण्ठक- -काम् वीथ २, ६, ९.  
 नि-म्रद- नि √ म्रद् द.  
 नि √ म्रुच् > नि-म्रुक- -के भाधो ४, ३, ८<sup>१</sup>.  
 नि-म्रुकि- -किम् भासि २१<sup>१</sup>.  
 नि-म्रुच्- -म्रुक् आपथो ४, १५, १; भाधो ४, २१, १; हिथो ६, ४, १८; -म्रुच. आपथो १४, १६, १; वीथो ३, १४: ५; २७, ५: ६, ७: ११, २९, ९: १; हिथो ३, ६, १५; अत्र १३, ३; अथ ३: ६९; भासि २१, -म्रुचि वृदे २, १०९  
 नि-म्रुच- -म्रुच् आपथो ४, १५, १; भाधो ४, २१, १; हिथो ६, ४, १८.  
 नि √ म्रुच्, निम्बोवेत् विध २८, ५३.  
 नि √ यच्छ्, यम्<sup>२</sup>, निवच्छति शाधो ७, १५, १६<sup>१</sup>; आपथो; या ११.

२३; निवच्छति वीध १, २, ७; श्वा ३, २०; निवच्छत् अथ १<sup>१</sup>, १, ४; निवच्छतु आपथो ४, २, १; १३, १९, ५<sup>१</sup>; भाधो ४, २, ५; हिथो १, २, ५; पाथ ३, ३, ५<sup>१</sup>; निवच्छत् आसिष्ठ १, १, ३: २५; हिथ १, ५, ११; निवच्छताम् या ९, ३८; निवच्छन्<sup>१</sup> भाथ २, ११: ११; हिथ २, १०, ६; निवच्छ- तात्<sup>१</sup> आसिष्ठ ३, १, १: ११; निवच्छताम् वाधो १, ४, ४, ५<sup>१</sup>; निवच्छत् आधो २, ७, ९<sup>१</sup>; निवच्छेत् कौस् १८, ३५; निवच्छेत् शंघ २५८; हिथ २, ४, १५<sup>१</sup>, उल् ८, १०; १६.  
 म्बेभुः भाथ २, २८: ८<sup>१</sup>; नि .. यत्सत् तैरा १६, २०<sup>१</sup>; नि .. अथेसत् आपथं १, ७, ११<sup>१</sup>  
 निवम्बते आपथो ३, १५, ३; काधोसं ३२: १; भाधो ३, १३, ६; हिथो २, ६, ४५; काण्ड ४३: ११, अथ ३, १, १४, निवम्बते हिथो ३, १, १५; निवम्बन्ते आपथो १९, १८, ८; निवम्बन्ते हिथो २१, १, १६; मीम् २, ४, ३, ५, १, ४×४; निवम्बेरन् हिथो ३, १, १७.  
 नि-यच्छन्- -च्छन् आधो ६, १२, २.  
 नि-यत्, ता- -तः आपथो १९, १५, ७; हिथो; -तम् काधो १, १०: ५.

१४; भाधो; अत्रा ३, १०<sup>१</sup>; उल् ८, १०: १८; कौसि; -तस्य मीम् ७, ४, १९; -ता भाधो ५, २, १२, ४६; वाथ २; २०; विध ५१, ६७; या २, ६<sup>१</sup>; आग्गो १२, ३; -ताः अथ ३१, ७, १<sup>१</sup> -तानाम् मीम् ६, ५, १८; -तानि हिथो ३, १, ४; -ताम् वीध ४, १, २३; -ताम् काधो २५, ४, २२; -ते काधो १, ४, २; हिथो ३, ४, ३६; -तेषु मासि ५, १०; -तौ हिथो ३, १, १२; २, १४; अथ ५२, १०, ५.  
 निवत्-का(ल>)का<sup>३</sup>- -काभ्यः भाधो ५, १, ३, ३.  
 निवत्-केदा-वेव<sup>३</sup>- -वाः वाथ २, २१.  
 निवत्-किया- -या काधो ७, १, २२; १०, १, २४; १३, १, २०.  
 निवत्-न्य- -त्वात् पावा ४, १, १३, मीम् ६, ३, ३४.  
 निवत्-पान<sup>३</sup>- -नाः वीधो २०, १६: १०.  
 निवत्-प्रथित<sup>३</sup>- -तौ अत्रा ४, २६.  
 निवत्-वत् पाथ २, ५, ४१.  
 निवत्-वाचो-मुक्ति<sup>३</sup>- -क्यः या १, १५, १६.  
 निवत्-वत्<sup>३</sup>- -ताः अत्राथ ३, ७.  
 निवत्-सह-पाठ- -तात् काधो १, २, १४.  
 निवत्<sup>३</sup>-स्वो(र-उ)द्- -वे अत्रा ११, ५३; ५५.

a) = इत्त-विशेष-। म्यु १। b) वैष १ द.। c) पाठः ? यनि. वा अनुपपत्ति वेति १८। d) पामे. वैष १, १०४ अ द.। e) पामे. वैष १, १८१२ d द.। f) पामे. वैष १, १८१२ k द.। g) प्रपुत्र प्र. वात् इत्यादेशः उर्त्त. (पा ७, १, ४४)। h) सपा. आपथ २, १०, १६ निवृज्यात् इति पामे.। i) पामे. वैष १, १८१३ अ द.। j) पामे. वैष १, १८१३ ० द.। k) पामे. वैष १, १८१३ ० द.। l) = अनुदात्त-। अ) नि.। बघ.। म) सधिय-विशेषयोः द्रष्ट.।

नियता(त-अ)तिपनि- -सौ  
 शोभी ३,४,२.  
 नियता(त-अ)मत्र- -यमा दौध  
 ४,५,१९.  
 नियता(त-अ)दि- -देः उच्च ८,  
 १४.  
 नियता(त-अ)नुपूर्य- -व्याः  
 या १,१५; १६.  
 नि-यति- -तिम् शेष ११६: २९.  
 नि-यम- -पा ३,२,६३; -माः शोभी  
 १, १६, १८; काशी; पावा १,  
 १,३; २, १८; ३, ६७; २, २, ३४;  
 ३, ६६; पात्रवा ७; -मम् बौध  
 ३, ३, ४; आपय २, २३, १; अत्रा  
 ३, २३; -मस्य पावा ५, २,  
 ११६; -माः शोभ ६, २, २;  
 आपय १, ४, ७; हिष १, १, १२६;  
 पाति ११; -मात् बौध १, २,  
 २३; पावा १, ३, १२; मीम् ४,  
 ३, १९; ५, २, १४<sup>१</sup>; १२, १, ३७,  
 -मान् बौध २, ७, २२; शोभ  
 १२, ७; ६, १, १; वाध १२, ४७;  
 वैध २, ४, ४; ८, ७; -मे मीम्  
 १०, ७, ७०<sup>०</sup>; -मेन आपय २, ५,  
 १५; हिष २, १, १६; -नेपु काष्ट  
 ४, ३; वाध ६, २२; आपय १,  
 ५, १; २, ५, १८; हिष १, २, १;  
 २, १, १००; ५, १९३; -मैः अत्र  
 ६८, १, २१; आपय २, १०, १६;  
 वैध १, ५, २; ५; हिष २, ४, १६.  
 नैयमिक- -मम् वाध ११,  
 ४७; आपय २, १९, १३; हिष  
 २, ५, ८४; -कानि आपय १,

१३, २२; हिष १, ४, ३५.  
 नियम-निमित्ता (त-अ) सिहोत्र-  
 दर्शपूर्णमास-वाशायणा (ण-आ)  
 प्रदण-पशु- -शुपु काशी १, २,  
 ११.  
 नियम-प्रतिषेध- -यः पावा ८,  
 ४, ३.  
 नियम-प्रधानत्व- -त्वात् मीम्  
 १२, ४, १५.  
 नियम-भूत- -नेपु आमिष्ट ३, १  
 ३: २८.  
 नियम-यम- -माभ्याम् वैध १,  
 १: १६.  
 नियमयमिन्- -मो वैध ३,  
 ७, १३.  
 नियम-वचन- -नात् पावा ५, ४,  
 ८८; ६, १, ६७; ४, १३<sup>१</sup>; -ने  
 पावा ८, ४, ३.  
 नियम-विलोप- -यः आपय २,  
 १०, १; हिष २, ४, ११६.  
 नियम-शब्द- -शब्दात् काशौ १,  
 ४, ८; ३, ५, ८.  
 नियम-सामर्थ्य- -ध्यात् काशौ  
 ५, १, ५.  
 नियम-स्थ- -स्थस्य आमिष्ट २,  
 ५, १: ५३; वैध २, १: ३९.  
 नियमा (म-अ) तिकम- -मम्  
 आपय १, ४, २५; हिष १, १,  
 १४४; -मात् आपय १, ५, ४;  
 हिष १, २, ४; -मे आपय २,  
 १२, १८; बौध ४, १, २३; हिष  
 २, ४, ५५.  
 नियमा (म-अ) तिकमण- -मम्

आपय २, २७, १८; हिष २, ५,  
 २३७.  
 नियमा (म-अ) नुपपत्ति- -तिः  
 पावा ३, १, ४६; ६७; ४, १, ९३;  
 ७, २, १०; ६३.  
 नियमा (म-अ) भाव- -यः पावा  
 १, १, ६७.  
 नियमा (म-अ) सम्मण- -णः  
 आपय २, २७, ७; हिष २, ५,  
 २२६.  
 नियमा (म-अ) र्धर्था- -र्थः मीम्  
 ६, ३, १६; ११, २, ९; -र्धम् पावा  
 १, १, ४९; ६७; ७० x ४; -र्धा मीम्  
 ३, ६, ४०; ४, २, २४; -र्थौ लाशौ  
 १०, ३, ११.  
 नियमो/यु/ > नो-भूत- -नेपु  
 बौध २, ७, २२.  
 नि-यमन- -नात् या ५, २८.  
 नि-यस्य माष्ट २, १५, ६; अत्र.  
 नि-यस्य- -स्यानि हिशौ २१, १, ६.  
 नि-याम- -पा ३, ३, ६३.  
 नि-यामक- -कः पावा २, ४, ८३.  
 नि-यच्छत्- -नि-यत-प्रवृ. नि  
 वृच्छत् द.  
 ?नियतास्येवच्छाया अत्र ३३, ७,  
 ७.  
 नि-यति-, नि-यम् प्रवृ. नि-यच्छ  
 द.  
 नि-यत्, नि-याम् आष्ट १, १३, ७<sup>१</sup>.  
 नि-यत्तत् शुभा ६, ७<sup>१</sup>.  
 नि-यत्- -नम् आशौ २, १३,  
 ७; माशौ ५, २, ६, २०<sup>१</sup>; वेताशौ  
 १, ५<sup>१</sup>; कौम् ३०, ११<sup>१</sup>; अत्र ६,

a) विप.। बस.। b) = देवपत्नी-विशेष-। c) वृ. पाति.। d) 'मादातुपूर्यैरय इत्यत्र स्थाने  
 'मानुपूर्यत्व इति जीवे.', 'मानुस्यैरय इति आन.। e) वृ. जीवं.। f) तदस्य प्राप्तमित्यर्थे ढम् प्र. उरुं.  
 (या ५, १, १०४)। g) 'ये इति पाठः। पति. शोचः (घ. आपय.)। h) पा ८, ४, १७ पराशुष्टः द.। i) पामे.  
 वैप २, ३४. निगात् मंत्रा १, ५, १० टि. दः। j) पामे. वैप १, १८१३ c द.। k) वैप १ द.। l) पामे.  
 वैप १, १८१३ m द.।

नि-याम-

२२; ८, २; १३, २; अणं ३ :  
 ६०; या ७, २४६.  
 नि-याम-, एक- नि/यच्छ द.  
 नि/यु > नि-युत्<sup>०</sup> - युत्- आधी  
 ८, १, ३; वीथी १२, ७: २४;  
 अण ४८, १४; वृदे ४, १४-९;  
 निप १, १५; या ५, २८६;  
 -युद्धि: आधी ३, ८, १; ५,  
 १८, ५०, ८, १, २; शाथी ७, १०,  
 ९; ८, ३, १०; आपथी १३,  
 १३, १२; वीथी १०, ११;  
 ११, ऋग्रा ७, ४५; शुभा ३,  
 १२१.  
 नियुत्-वत्<sup>०</sup> - वत्त: आपथी  
 १५, १८, ७, वीथी २८, २: ३३,  
 -वत्ते काथी १६, १, २८; आथी  
 १६, ८, ३, वीथी १८, २८: ८;  
 २८, २: १७; माथी ६, १, ३,  
 १२; वाथी १, ७, ५, ३६; २, १,  
 २, १३; ३, २, ३, ४०; वैथी १८,  
 २: १०, हिथी ११, २, १५,  
 ऋग्रा २, ९; -वत्त: आथी २,  
 १३, ७; -वात् आथी २, २०,  
 १, अण ४८, ११४, १, १०१;  
 ८५, ८८; साम १, ६०१;  
 निप २, २२; या ५, २८६;  
 उनिस् ६: ५.  
 नियुत्-वती<sup>०</sup> - वती कापथी  
 १६, ८, ४; हिथी ११, २, १८;  
 साम २, १७८; -न्या वीथी  
 २६, ४: १५.  
 नियुत्- पाठमो २, २, १३४;  
 -उम् आपथी २२, २१, १७,  
 छुम् २, ९: १८; अण ४८, ६६;

या ३, १०; -वाय वाथी ३,  
 ४, २, ११; -वत्ते शाथी १५,  
 ११, ४; आपथी १६, ३१,  
 १; वीथी १८, ४३: ६; २६,  
 ३३: ११; वैथी १८, २०:  
 ५१; हिथी ११, ८, ४.  
 नि/युत्, > या आथी २, ५, २;  
 या ८, ११; २०; ऋग्रा ७, १.  
 नि/युत्, नियुत्-नि काथी ४, १७, ९;  
 काथी; नियुत्-नि आथी २, २,  
 ४; काथी २३, ४, ९; आपथी  
 २२, ८, ७; काथी २८: १६;  
 वीथी १५, २६: १४; हिथी ३,  
 ८, ४०; १४, ३, ५०; १७, ३,  
 ३०; नि/युत्-नि शाथी ४, १७,  
 ९; माथी ७, १०, ८; आपथं २,  
 २१, २-५, आथ ४, ८, १५,  
 नि/युत्-वत् आथ २, २१, ७; वीथ  
 २, २, १४, शाथ; नियुत्-नि  
 वीथी २६, २९: १०, वैथ ३,  
 ११ २; ५, ५: २०; विथ ३,  
 १६; नियुत्-वत् वीथी २०,  
 २७: १८, २२, १४: ११; २५,  
 ३३: २, २६, ११: ४; वीथि;  
 आपथ २, १०, १५.  
 नियुत्-वत् शाथी १५, २१, १;  
 नियुत्-वत् वीथी १५, २१, १;  
 वाथी ४, ५: ४.  
 नियुत्-वत् निम् ४, २: २६; ४:  
 ७; मीव ९, ४, १७.  
 नियुत्-वत् वृदे ५, ७४; निवो-  
 जयेत् आ १, १०, २; ३७, ९,  
 २; विथ ५, १५१.  
 नि-युत्, का- -क: शाथी १५, २३,

१; १६, ११, २; काथी; पा ४, ४,  
 ६९; -कम् वाथी ३, १०२:  
 ३; गोथ १, ४, २५; ३, १, ९;  
 जैथ १, १८: ५; ऋग्रा ३, २१;  
 ११, ४७; पा ४, ४, ६६; -का  
 वृदे ५, ३; -क्ता: शाथी १४,  
 २, १६; १३, ३; वीथी १४,  
 २२: २३; शंथ २०५; वृदे ४,  
 २८; शंथ ६१; -क्ताम् काथी  
 २१, १, ११; शंथ २२७; -क्ताम्  
 हिथी १०, ४, ३५; -क्ताम् पाथ  
 १, १५, ८; -क्ताम् शाथी १५,  
 २१, १; -क्ताम् वाथ १७, १८;  
 विथ १५, ३; -क्ते आपथी २०,  
 १५, ६; पा ६, २, ७५.  
 नियुत्-धर्म<sup>०</sup> - र्मा निम् २,  
 १३: १२.  
 नियुत्-मानम्<sup>०</sup> - स्त: निम् ५,  
 १०: ६.  
 नि-युत्-वत् काथी ८, ८, २६; आपथी  
 २०, १७, १; वीथी ९, ९: १२;  
 ११, ३: ३५; वैथी १३, ११:  
 ११.  
 नि-युत्-वत् मान- नम् वीताथी ३६,  
 १८, २७.  
 नि-युत्-वत् - क्ताम् वाथी १५,  
 २१, १.  
 नि-युत्-वत् - ग: वाथ १७, ६५;  
 वृदे १, ३६; ५१; मीव १, १,  
 ३२; -गम् वाथ १७, ५६;  
 वृदे ५, ७५; -गम् आथ ४८,  
 ३४; वीथ ३, ११, ५५; आथ ४,  
 ११, २४; वाथ ४, ३२; -गे  
 पावा २, १, ४३; मीव १२, ४,

a) पाठे, वैथ १, १८१३ म् द.।  
 d) पाठे, वैथ १ विपुलिभा टि. द.।  
 e) ईश्वर-नामन्।  
 f) वैथ १, १८१४ h द.।  
 g) पाठे, वृ १४१२ h द.।  
 h) विप.। बस.।  
 i) आप., नाप. [प्रवेच्छेदुमैतुल- (व. मनु: [९, ५९-६०] प्रवृ.]]।  
 j) विभि° इति जीवै.।  
 b) वैथ १ द.।  
 c) [इन्द्रवाय्वादि-वाहन-] अश्व-।

१७; -गेन नाशि २,४,१; मीष्  
२,४, २२; -नैः वृद्धे ८, १२०.  
नियोग-तन्त्र (:) शैलि १४१;  
माशि १०, ११; भाशि १, ५.  
नियोगिन्- -गिनोः वाध १७,  
६४.  
नि-योजन- -नात् माधौ ५, २,  
१०, ३०; वा ५, २८; -ने  
आपथौ ७, १२, ५; वीथौ १७,  
१५; २०, २७; १७; -नेन  
वीथौ १५, २६; १२.  
नियोजनी<sup>०</sup>- -नीम् काथौ  
६, ५, २५.  
नियोजन-काठ- -ले काथौ २१,  
१, ८.  
नि-योञ्ज्य आशिष्ठ २, ७, १० = ३.  
नियोज्य- वा ७, २, ६८; -ञ्ज्यः अप  
२, ४, २; -ञ्ज्याः शंघ २५१;  
-ञ्ज्यानि शंघ १११.  
नि-युत्- , नि-युत- , नि-युष नि/युद्.  
नि-योष- नि/युञ् द.  
निर् या १, ३; १२, ७; सन १५.  
१७; शुभ्रा ६, २४; पाग १,  
४, ५८.  
निरक्त- निर्/वच् > निर्-उक्त-  
टि. द.  
निर्/रक्ष् > निर्-रक्षिन्- पाग ३, १,  
१३४.  
निर्/अञ् (वेधने) > निर्-अष्ट<sup>०</sup>-  
-ष्टाः वीथौ १५, १; १५; -ष्टान्  
वीथौ १५, ७; १९; १८, ११;  
२; -ष्टे काथौ २०, २, १०;  
-ष्टैः वीथौ १२, २; १७.  
निर्-अङ्कुश- -वाः विध ५२, १५.  
निर्-अङ्गुष्ठ<sup>०</sup>- -ष्टम् वीथ २, ८,

१३.  
निर्/अञ्, निर्(प्रजामति) ऋञ्  
२, १४; १२, २०.  
निर् अञ्ज- -नाय या ६, २.  
निर्-अञ्जे<sup>०</sup> वा ६, २०.  
निर्-अञ्जिन- पाग ६, २, १८४.  
निर्-अञ्जन्- -न्म् काथ १, १२; १४;  
७, ३३; -नेन काथ १, ८.  
निर्-अञ्जन्<sup>०</sup>- -न् विध १, ५२.  
निर्-अवि/शी > निरवि-शापित्वा  
अप ४०, ३, १६.  
निर्-अनुनासिक<sup>०</sup>- -काः आशि ६,  
१२.  
निर्-अनुप- पाग ८, ४, ३९.  
निर्-अन्तर<sup>०</sup>- -रम्<sup>०</sup> काथ ४५;  
१४; वीथ ४, ३, ९; भाशि ७५;  
-राः कौशि ३१; -राणि कौशि  
३०; -रौ विध १, २४.  
निर्-अभ्र<sup>०</sup>- -भ्रे अप ६५, २, १०;  
७०<sup>०</sup>, १९, १.  
निरभ्र-शुष्टि- -ष्टयः अप ६४, ४, ४;  
५, ८.  
निरभ्र-स्वनित- -वानि अप ६४,  
४, ४.  
निर्/रम्, निरामम् वा १०, १८<sup>०</sup>;  
काथ ९, ३२.  
निरत्- -ताः अप ५७, ४, ५; -ते  
विध १२, १९.  
निरमग<sup>०</sup>- -गः वाधुथौ ३, ६९;  
३७; -गम् वाधुथौ ३, ७५;  
२; -गाः वीथौ १५, १; १५;  
-गात् वा २, ७; -गात् वीथौ  
१५, ७; १८; -गे या ११, ४६.  
निर्-अमित्र- > ऋ/ह > ऋ-  
करण- -गम् अप ४, ३२.

निरत्य- -ने आपथ २, २, ६; द्विप  
२, १, २८.  
निरव-न(त >) ती- -तीः वीथौ  
१२, १० = २२.  
निर-अयण- निर्/इ द.  
निर्-अचिञ्<sup>०</sup>- -चिपः अप ५२,  
१३, ५; -चोपि अप ५२, ११, २.  
निर्-अर्थ<sup>०</sup>- -र्थः आपथौ ३, ९, ७;  
-र्थ्यम् वीथौ ९, ११ = ३; १९;  
वेथौ १३, १२ = १७.  
निर्य-क- -कम् विध २०, २६;  
शुटे १, ३१.  
निर्-अव/दद्य्, निरवदयते वीथौ  
१८, २५ = ९; २५, ४ = ७;  
वाधुथौ ३, ४२ = १५; निरवदये  
वीथौ ४, ११ = ११; निरवादयत  
वाधुथौ ३, ४२, ८; १३; १४.  
निर्-अव/दो, > दा, निरवदन्ति  
आपथौ ८, ७, ३; निरवदयेत्  
भाथौ १०, २२, १४.  
निरव-न(त >) ता- -ताम् काथौ ९,  
३, १०.  
निरव-दान- -न्म् आपथौ ७, २६,  
१; १२, २५, ८; -नात् मीष्  
३, ४, ३८.  
निरवदान-प्रतिषेध- -वः मीष्  
१०, ७, ६.  
निरव-नाथ वीथौ २०, २९ = ११;  
२४, ३७ = १; द्विथौ ८, ७, ५५;  
९, २, ८.  
निरव-नाथय- -स्वन्-स्वन् द्विथ  
२, १६, १२.  
निरव-धयत्- निरव/धे द.  
निर्-अव/धे, निरवधयेत् काथ ३६,  
८.

a) =पशुवन्धन-रज्जु-। b) वैप २, ३८. द.। c) विप.। वस.। d) पामे. वैप १, १८१५ ङ द.।  
e) वैप १ द.। f) =।धेनापान-प्रमाण-रज्जु। विद्ध-। व्यु.।। नि/रम् = /लम्। इति PW. प्र.।  
g) \*कथित्वा इति मू.। h) वा. क्वि.। i) पामे. वैप १, १८१५ ङ द.। j) वैप ३ द.।

निर्-धयत्- -यन्तः द्विधौ ९, ४, ५२.  
 निर्-अय ✓सो, निरवसाययन्ति  
 आपथ २, १४, १२; वीथ २,  
 २, ५१; द्विथ २, ३, २३  
 निरष्ट- निर् ✓अक्ष द.  
 निर् ✓अस् (अपणे), निरसेत् आधौ  
 १, ३, ३१.  
 निरस्थते द्विधौ २, ५, ३६; निर-  
 स्थति वीधौ २, १, २२; ३,  
 १०४४; आपथी; निरस्थतः  
 काधौ ९, १०, १०; आपथी  
 १२, २३, ३; १८, १५, ७; वीधौ  
 ७, ११ : ४; १४ : ३; वैधौ  
 १५, २९ : ३; ४; द्विधौ ८,  
 ७, २१, निरस्थन्ति वीधौ ७,  
 ११ : ११; १८; १५, १ : ४,  
 २९ : १९; निरस्थ माधौ २,  
 १, ३, ५४१; निरस्थत वीधौ  
 ६, २३ : ७१, निरस्थेत् काधौ  
 २, ६, ३३, आपथी ३- १४, २,  
 ५, १०, ५, वीधौ; निरस्थेयुः  
 द्राधौ ३, ३, २६; लाधौ १, ११,  
 १७.  
 निर्-अमत्- -सन् दांश्च २, १२, १०.  
 निर्-असन्- -ने वीधौ २०, ७ :  
 १०.  
 निरसनो (न-उ) पवेशन- -ने  
 आधौ १, १, १३; वैधौ १५,  
 ४ : २.  
 निर्-आताया आपथी ३, ५, ७.  
 निर्-असत्- -पूस्तः आधौ १, ३,  
 ३१; शाधौ; -सउम् काधौ ६,  
 ६, ११; \* आपथी १, १७, १०;  
 १८, १५, ६; वीधौ १२, १० :

१७१; माधौ ११, ११, ४१<sup>७</sup>;  
 द्विधौ १२, ५, २८<sup>१</sup>; आश्रित ३,  
 ३, २ : ६१; वीथि २, ९, ९<sup>१</sup>;  
 आप ७२, १, २; आपद्य २, ११;  
 वीद्यु २ : ५; द्विद्यु १, ३१; द्युम्  
 १, ३९९१; ऋषा १४, २०, ३०;  
 -स्तानाम् अप ६८, २, ४५;  
 -स्ते द्विधौ ७, १, ७३१, -स्त्वौ  
 आपथी १२, २३, २०.  
 निर्-अस्य आधौ ५, १२, ३; शाधौ.  
 निर्-आसत्- -सः ऋषा १४, ११,  
 २४; २९.  
 निर्-अस्युक्- -कः वैथ ३, ५, ७.  
 निर्-अहङ्कार- -राः वीथ १, १, ५.  
 निर्-आका ( वृक्षा > ) हृक्ष-  
 -वृक्षम् काधौ १, ३, २.  
 निर्-आकार- -रे विथ ९७, ७.  
 निर्-आ ✓कु > निरा-करिण्यु- पा ३,  
 २, १३६.  
 निरा-वर्तु- -तां वप्र ३, ७, १७.  
 निरा-कृत- -पाग २, १, ५९; ५, २,  
 ८८; -तम् ऋषा ११, ६०.  
 निरा-कृतिन्- -पा ५, २, ८८.  
 निरा-कृति- -तिः वप्र ३, ७, १७६,  
 आपथ १, १८, ३३; द्विथ १, ५,  
 १-१, -तेः वाप २८, १७.  
 निरा-कृत्य आपथ २, ८, १४; द्विथ  
 २, १, ११६.  
 निर्-आत्मक- -कम् वा १४, ३.  
 निर्-आदि- -दयः पावा २, २, १८.  
 निर्-आनन्- -न्दाः वैथ ५, ७ : ५.  
 निर्-आन्व- -न्त्रम् द्विथि ४ : १.  
 निर्-आमिष- -नः वप्र १, १, १८.  
 निर्-आ ✓यच्छ् यम्, निरायच्छति  
 द्विधौ १, ७, ६२; निरायच्छति

शाधौ १२, २३, ११<sup>६</sup>.  
 निरा-यत्- > ०४-म्री(वा) > ३<sup>६</sup>-  
 -यः द्विधौ १२, ८, ४.  
 निर्-आलम्ब- -भ्ये विथ २०, २२.  
 निर्-आयरण- -गाः अप ६८, ५, १०.  
 निर्-आ ✓चिष् ( < ध्वष् ), निरा-  
 चिष्यत् या ६, ३०१.  
 निर्-आ(वा) > दा- -ताः शंथ  
 १९७.  
 निर्-आशिष्- -भीः विथ ९६, २१.  
 निर् ✓आह्, निराह वीधौ ३, २ :  
 १५१; वैधौ १, २० : ७१; लाधौ  
 ७, १३, ११; निस् ८, ६ : ४; या  
 १३, १३, ऋषा ११, १६; २७;  
 ६०; निराहुः लाधौ ८, ६, ५;  
 निम् ६, ११ : १७; या १, ३.  
 निर्-आहार- -रः वीथ ४, ५, २६.  
 विथ ३२, ९; या १४, २०;  
 -रस्य विथ ४६, १८; -राः अप  
 ३०, २, १; वीथ ३, ३, १४; १७;  
 निर् ✓ह्र ( निर् ) अय > या ऋषा ८,  
 १५६.  
 निर्...यन्तु वीष् ९७, ८१.  
 निर्-अयग- -याम् या ७, २४.  
 निर् ✓रि ( < री ), निरिणोते या ३, ५;  
 निरिणाति आपथी २१, २२, ३;  
 वाधौ ३, २, ५, २०; द्विधौ १६,  
 ५, १५; या १४, २४६.  
 निर्-ह्र(अ) > ङ- -दः द्युस् ३, १२ :  
 २०.  
 निर्-ह्रन्नि(य) > या- -याः वीथ २,  
 २, ४७१.  
 निर् ✓ईध्, निरोक्षते वीथ २, ११,  
 ३९; वीथि २, ९, १९; निरोक्ष्य  
 वीथ ३, ११, ३३; अप ६९, ५,

a) धामि, वैथ १, १८१६ f द. । b) सपा. तैषा ४, १०, २ निरयम् इति धामि. । c) = उच्चारण-  
 दोष-विशेष- । d) धामि, वैथ १, १८१६ h द. । e) विप. । वच. । f) = ( देवारीना ) निराकर्तृ- । गस.  
 उप. कर्तृरि किष् प्र. उत्सं. ( पा ३, ३, ११३ ) । g) वैथ १, १८१७ b द. । h) वैथ १, १८१७ d द. ।

५; वाप ५, ७; वीष २, ३, ३१;  
विष ६८, ३७.  
निरीक्षयेत् शंघ १२२.  
निर्-ईदय कौट ३, १, ४७; वैट २,  
१५; १४; गौषि १, २, १०.  
निर्-ईति -ति: अण ५९, १, ८;  
-तिम् अण ५९, १, ४; ९.  
निर्-उक्त-<sup>१</sup>कथत्- निर्-वृत् द.  
निर्-उद्ध, निरुक्षति वीथी ४, ७:  
२५; ८, २०; १४; २, १६; २१;  
आमिष्ट २, ६, २: १०; वीष २,  
५, ५; निरुक्षन्ति वीथी ८, १२,  
११.  
निरुक्षयति पाठ १, ३, ११.  
निर्-उच्य निर्-वृत् द.  
नि-रु(जा) > ज<sup>११</sup> -ज: वाष २२, ७  
निर्-उत्साह<sup>१०</sup> -हा: अण ७०<sup>१</sup>, १६,  
३; -हात् गौष १०, १०.  
निर्-उदक- पाठ ६, २, १८४.  
निर्-उद्-ध्रम् > निरुद्-भ्रान्त-  
-भ्र: नाति २, ८, १२०.  
नि-रुष्ट; निरुपन्ति वाधूथी ४,  
१३: ४.  
निरुहति वा ६, १; निरुप्यात्  
काठ २८, ४१.  
नि-रुद्ध, द्वा- -डम् माथी ५, १, ८,  
१; -डस्य माथी ५, १, ८, ४;  
७, ११; १०, ३१; -डा: वा २,  
१७१; -दाम् शंघ ३३४,  
-दामु वीष २, ३, ५; ७; -डे  
वीष २, ७, २७.  
नि-रुप्य वैट ५, १: १३.  
नि-रोष- -पात् सु २२, ४, वाष

२५, ६; वीष ४, १, २६.  
-निरोषक- -क: वैष १, ७, ८;  
-का: वैष १, १०, २; ७.  
निर्-उपद्रव<sup>१</sup> -व: अण ७०, ८, २;  
-वम् अण ४, ६, १; ६९, ६, ५.  
निर्-उपल<sup>१</sup> -पाठ ६, २, १८४.  
निर्-उप/हनु > निरुप-हृत् -नाति  
\* वीष ३, २, २.  
निरुत्त-<sup>१</sup>, निरुप्य, निरुप्यमाण- प्रष्ट.  
निर्-वृत् द.  
निर्-उत्स, निर्-वृत्... कौञ्ज:  
आपथी १७, २१, ७; हिथी  
१२, ६, २६.  
निर्-उत्प- निर्-उत्पल- टि. द.  
निर्-उत्त प्रष्ट. निर्-वृत् द.  
नि-रुप्ति (<रूप- ) निरुप्येत मौस्  
७, ४, १२.  
निर्-उत्पक<sup>१०</sup> -का: माति १३, ८;  
९.  
निर्-ऊह (शापथे), निरुहति वीथी  
१, २: १०; २, ७: १३; १०, २१:  
१६; १७, २८: १०; २९: ८;  
३०: ८; २०, ४: ९; २४, २४:  
७; माथी १, ८, ५; १२, ११;  
६, १०, ४, वीथी १८, १३: २; हिथी  
३, ७, २५; ११, ६, २; निरुहत:  
माथी ११, ८, १; निरुहन्ति  
२, ९, २; निरुहामि हिथी ८, ६,  
३८१; निरुह काथी २५, १०,  
४११; निरुहेत् वीथी २०, ४:  
१०; वैथी २०, १६: १; द्राथी  
३, २, १४; वीथी १, १०, १०;  
निरुहयम् आपथी १२, १५, २;

हिथी ८, ४, ३६१.  
निर्-ऊहण- -णम् आपथी १७,  
८, ३. -  
निर्-ऊह- -हत् हिथी १३, ६,  
२९; कौट २७, ६१; अण २, ४,  
१६१.  
निर्-ऊहितवै काथी २५, १०, ४.  
निर्-ऊह आपथी १, १२, १; ६, ५,  
६४४; वीथी.  
निर्-ऊह > निर्-ऊह<sup>१०</sup> -ते: आपथं  
२, २२, १३; माठ २, १०: ११;  
विट १, १६, ५.  
निर्-ऊति<sup>१०</sup> -त्तथे<sup>१</sup> आमिष्ट १,  
५, ३: २९; वैट ३, ७: १३;  
१७: १३; ५, २: ३०; -त्तित:  
काथी २५, ९, १५१; आपथी  
१, १५, १६१; ७; १६, १६,  
११; वीथी २, ५, ५४४; माथी;  
हिथी १५, ४, २६१; अण १,  
४, ५; ४०, २; ४८, ७२४;  
१२०; निरु १, १४; वा २, ७६१;  
केजो ३३१; -त्तित् आपथी ३,  
१०, ३१; आपथी १, ४, १;  
१५, ५१; १८, १२; १६, १६, १;  
वीथी; माथी १, ५, २२; नाथी  
३, ५, १४; हिथी १५, १, ७५, ८,  
१२; आपथं २, १२, ८; आमिष्ट  
२, १, ४: १३०; वैट १, ४: ८;  
विट १, १६, ७; १८, ५; २, ७, १०;  
१४ अण २, १०; ६, २९, ६३१; वा  
२, ८६१; -त्तित् काथी १५, १,  
८; ३, १४; आपथी; -त्तित् आपथी  
१, १२, ३६; आपथी १, २, १०;

a) विप. 1 पस. 1 b) एण. = निर्. c) रुद्राम्तः इति काशिले. d) उदक- इति पाठ. e) उर. < उरुप- 1 f) निरुह इति पाठः 3 यनि. घोषः (तु. माठ ४, ५, २, ३) 1 g) उहो इति पाठः 3 यनि. घोषः (तु. आपथी.) 1 h) वैष १ द. 1 i) = दिगमिमानिन्देवता- 1 j) सपा. 'ति: < > 'तिम् इति पाठे. 1 k) = अलक्ष्मी- (तु. माध्यम्) 1 l) = मूलनक्षत्राभिमानिन्देवता- 1 m) = पृथिवी- 1 n) गो- नामन्- 1 o) पाठे. वैष १, १८१८ हृ द. 1 p) 'तिः इति पाठः 3 यनि. घोषः 1 q) पाठे. वैष १, १८१८ इ. &

माथी ३, १, २०; क्राय ४, १;  
 बुदे ७, ११९; वाच ३८: १७९<sup>०</sup>;  
 शैशि १२२; -त्या आपथी ९,  
 १५, ७<sup>०</sup>; वाधुथी ४, १०: २४<sup>०</sup>;  
 २५; हिथी १५, ४, २७<sup>०</sup>; बौध  
 १, ३, १४<sup>०</sup>; कौश ४७, १६<sup>०</sup>;  
 -कस्याः आपथी १६, १६, २;  
 बौथी ३, १६ : २९; माथी ४,  
 १, २; आमिथ ३, ८, २ : ३२<sup>०</sup>;  
 बोपि १, १५: २०<sup>०</sup>; माथ २, १७,  
 १; अथ ३७, १, १०; अथ १६,  
 ८<sup>०</sup>; या १, १७<sup>०</sup>; शैशि ३३४;  
 -त्याम् आमिथ २, ५, १ : २०;  
 -कथ्ये आथी १०, १८, १०;  
 १४, ११, ३; १८, ८, २०; बौथी  
 ६, ८ : ६; २७, ३ : ७; माथी  
 १०, १२, ७; माथी ५, २, १०,  
 २७, वाधुथी, आपनं २, १२, १०<sup>०</sup>;  
 या १, १७.  
 नैर्कत<sup>१</sup> - उ: काथी १५, ३,  
 १४; २३, ४, १७; आपथी;  
 आथी १, १०<sup>०</sup>; -तम् आपथी  
 १८, ८, १२; १७; २२, २१, ३;  
 बौथी, -तस्य बौथी २२, १६ :  
 ६, १०, हिथी १३, १, १५; अर्था  
 २४, २<sup>०</sup>; -नाम् आपथी १६,  
 १६, १०<sup>०</sup>; बौथी २६, २८ : ६;  
 वैथी १८, १४ : ४<sup>०</sup>; -आनि  
 बौध २, ११, ४०; अथ ६, २९;  
 -नाथ बौथी १२, १ : ७; -ते  
 वेथ १, २१ : ७; अथ ६०, १, ३;  
 आज्यो ३, २; -तेन आपथी १८,  
 ८, १५; वाथी ३, १, १, ६; हिथी

१३, ३, १६; कौश ८१, २१;  
 -वेथ अथ ५९, १, १५; -तै:  
 अथ ३३, ४, ४.  
 नैर्कती - ती अर्था १६,  
 १<sup>०</sup>; बुदे ७, १२; -ती: काथी  
 १७, १, २१<sup>०</sup>; आपथी; -तीनाम्  
 काथी १६, १३, ५; बौथी २२,  
 ४ २२८; -तीभि: वाधुथी ३,  
 ७१ : १४; वाथी २, १, ४, २१;  
 -तीम् अर्था १७, ५; संथ ३८<sup>०</sup>;  
 -त्याम् वैथी १८, २० : ५९;  
 वैताथी २८, २७; आमिथ २, ४,  
 ११ : ९; ३, ४, ४ : १; बौप ३,  
 ४, ११; वैथ; -कथ्ये माथ ३, १३:  
 २०; वाप २३, ३.

नैर्कत्या(ती-आ)दि-  
 दि वैथ १, १५ : २.

नैर्कत्या (ती-आ)थ  
 (दि-अ)न्त-न्तम् वैथ १, ९ :  
 १२.

नैर्क्या<sup>१</sup> - स्या: छुपा ८, ३८;  
 कौश ९७, ८; वाशि २, १.

नैर्कति-कर्मन्-मंगि कौश  
 १८, १.

नैर्कति-गृहीत, ता- उम्  
 वाधुथी ४, १० : २५; कौश ९७,  
 १४; -तस्य अर्था १७, ५; -ता  
 बौध १, ३, १४; -ते वाधुथी ४,  
 १० : २३.

नैर्कति-देवता- > थय- थय:  
 आपथी ९, १५, ४.

नैर्कति-वावावृथिग्या (वी-आ)  
 दि-नाना-देवता- > थय-

थयम् अथ २, १०.

नैर्कति-यत्नम्<sup>१</sup> -मा: नाथि २,  
 ६, ५<sup>०</sup>.

नैर्कति-प्रभृति-तीनि अथ २,  
 १०.

नैर्कति-मन्त्र-न्या: अर्था १८,  
 ७.

नैर्क (ति >) ती-आ (ग >)  
 गी<sup>०</sup> - नीम् अर्था १५, २.

नैर्कथ्य (ति-अ) पनोदा (द-अ)  
 थं-थंम् अथ २, १०, ५६.

नैर्कथ्य (ति-अ) पस्तरण-काम-  
 म: अथ ६, १२४.

नैर्कथ्य (ति-अ) मि-मुख- स-  
 अर्था १५, ५.

निर-अण<sup>१</sup> - नाम् या ९, ८.

निरकते अथ ४८, ७.

निर-अथ<sup>१</sup> - पाठ २, ८; -थ: भाशि  
 ५३<sup>०</sup>; -कथ्यम् शैशि १२२;  
 ३३४-थस्य आपनं १, ९, १४<sup>०</sup>

निर-थ (आ ✓ इ), निरैतु आपनं २,  
 ११, २०<sup>०</sup>.

निर-थक<sup>१</sup> - कम्<sup>१</sup> वेज्यो १३.

निर-थथ<sup>१</sup> - थम् अथ ७०<sup>०</sup>, ११, १८.

निर-थथ- थक- नि/थ<sup>१</sup> द.

निर ✓ गच्छ, गम्, निगच्छति वैथी  
 ४, ५ : ५; १२, १२ : १२

निगच्छेत् अथ ४, १, १८; संथ  
 ७७.

निगममिथ श्रुपा ५, ६०<sup>०</sup>.

नृनिर्गमाम कौश १२९, २;  
 १३५, ९; अथाथ २, ६<sup>०</sup>.

निर-ना- पावा ३, ४८.

a) = अति-विद्येय-। b) पाभे. वैप १, १८१८ । द.। c) पाभे. वैप १, १८१९ ० द.। d) = मनु-  
 देवता- [उ. १८.]। e) पाभे. वैप १, १२४५ ० द.। f) वैप १६.। g) = मुहूर्त-विशेष-। h) = शान्ति-  
 विशेष-। i) = इष्ट-विशेष-। j) विप. । प्राम्नीभ्यतीयः श्वः प्र. वसं. (पा ४, १, ८५) । k) विप. । वस. ।  
 l) श्विः पद्म दमि पाटः ? मनि. मोधः । m) विप. । उष. उप. ✓ भन् + मण् प्र. कुत्वथ (पा ७, ३, ५३) ।  
 n) उप = उदकः । o) पाभे. वैप १ परि. अरैतु थो १, ११, ४ टि. द.। p) वा. क्रि. ।

निर्-गच्छर्-च्छतः वैष्णु ५, ६ : ३.  
 निर्-गत-तम् या २, ७.  
 निर्-गत्व वैश्री १२, ५ : ९ ; १२ :  
 १६ ; १३ : १४ ; अप ६८, ५,  
 २३ ; वीष्णु ३, १, १३.  
 निर्-गाम-माः अप ६४, ५, ६.  
 निर्-गामन-नम् वैश्री १८, १७ :  
 ४ ; -ने या ११, ४६.  
 निर्गमन-दक्षिण-भाग-ने वैष्णु  
 ५, ६ : १६.  
 निर्गमन-मा(य)या-या  
 या ३, ६.  
 निर्-गामद्वय वैष्णु ५, २ : १७.  
 निर्-गाम्य जैश्रीका १५७.  
 निर्-जगत्व-स्वान् शुभा ३,  
 १४४<sup>१</sup>.  
 निर्-गन्ध- > ष्यो(न्य-उ)-  
 प्रगन्धि-निघ विघ ७१, ११.  
 निर्-गम् निर्-गच्छ् द.  
 निर्-गुण-गम् शंघ ३७१ ; विघ  
 ९७, १६ ; १७.  
 निर्गुण-वहा(हा-प्रा) ध्रुव-ने वैघ  
 १, ११, १४.  
 निर्-गृह्, निर्गृहीयात् माथी ३,  
 ६, १७.  
 निर्-गृ (निगणे), निर्गतन्ते अप  
 ६७, ६, ५.  
 निर्-घात-प्रष्ट. निर्-हर् द.  
 निर्-ज(उ)ला-ला अप १२,  
 ४, २.  
 निर्-जि > निर्-जय-यम् वीश्री  
 १२, १६ : ६ ; -येन वीश्री १२,  
 १२ : १३.  
 निर्-जिहीर्षत्- निर्-इ द.

निर्-हा > निर्-हाय वायुश्री ४,  
 ७५ : २४ ; ३६.  
 निर्भार-रय अप ४२, १, ४.  
 निर्-ण (<न)म् > निर्-णत->  
 ष्व-त(म)मा-मा या ८, ५.  
 निर्-णाम-माः आपुण १५, ९ ;  
 वीशु १० : १४ ; १५ ; दिशु ५,  
 १६ ; -मम् या २, १६ ; -मयोः  
 आपुण १७, ४.  
 निर्-ण (<न)ष्, निः...षनीन-  
 शत् माण २, १८, २१.  
 निर्-णातायां/ळ, निर्णातायां-  
 चकार या ६, ३०.  
 निर्-णि (<नि)ञ्, निर्णैक माथी  
 ५, ३, ८ ; वैश्री १२, ५ : १० ; दिश्री ३,  
 २, ४, १ ; निर्णैकित्तित्त वैप्रा ७, २.  
 निर्-णिक-क्तम् वाघ १४, २४ ;  
 वीष्णु १, ५, ५६ ; विघ २३, ४७ ;  
 गीष्णु ९, ९ ; या ३, १९ ; -को  
 शाय ६, ३, ६.  
 निर्-णिञ्-गिक् अप ४८,  
 ७९ ; निघ ३, ७ ; -गिजः या  
 ५, १९ ; -गिजा माथी ५, २,  
 ७, १७.  
 निर्-णिज्य आपथी ९, ५, ७ ; १७,  
 १, वीश्री.  
 निर्-णी (<नी), निर्णयति कौम्  
 ५८, १८ ; ७६, १० ; निः...नयति  
 अप्रा १, १, १५.<sup>१</sup> ; निर् (नयति)  
 अप्र ५, १८.<sup>१</sup>  
 निर्-णय-यः जैश्रीका १०६ ;  
 शंघ ९ ; विघ १०, १३.  
 निर्-णीत-तम् या ३, १९.<sup>१</sup>  
 निर्णीत-व(म)मा-मा या

८, ५.  
 निर्णीता(त-प्र)न्नाह्व-नाम-  
 धेय-याणि निघ ३, २५ ; या  
 ३, १९.  
 निर्-णीय निष् १०, ५ : १८.  
 निर्णुत-तम् दिश्री ४, २, ५७.  
 निर्-णु (<न)ञ्, निर्णुदति वीष्णु ३,  
 ६, ११ ; निर्णुः...तुदे आपथी ३,  
 १४, २ ; माथी ३, १३, १ ; दिश्री  
 २, ६, २४ ; कौम् ४७, १० ; अप्र  
 ६, ७५ ; निर्(तुदे) कौम् ४८,  
 २९.<sup>१</sup> ; निर्णुदामि कण १८, २.<sup>१</sup> ;  
 निर्णुदामि कौम् ७१, १.<sup>१</sup> ;  
 निर्णुः...तुदाते आपथी ४, ६, ३ ;  
 माथी ४, ९, १ ; दिश्री ६, २, १२ ;  
 निर्णुदत्त अप २२, ९, २.<sup>१</sup> ; निः  
 ...तुदत्त वाथी १, ३, १, २.<sup>१</sup> ;  
 निर्णुः...तुद<sup>१</sup> आपथी ३, १०,  
 ४ ; माथी ३, ९, ८ ; वैश्री ७,  
 १३ : १ ; दिश्री २, ५, २६ ;  
 निर्(तुद)<sup>१</sup> आपथी ३, १०, ४ ;  
 माथी ३, ९, ८ ; दिश्री २, ५,  
 ३६ ; निर्णुः...तुदत्त आपथी  
 २, १३, ६ ; वीष्णु २, १, १२ ; माण  
 १, २५ : १४ ; निर्णुदत्त अप ४०,  
 ५, २ ; विघ ५७, १०.  
 निर्णोदयत्त गीष्णु १, ५, ६.  
 निर्-णुय वीश्री २८, ४ : ३१.  
 निर्-णोद-यः गीष्णु २, ३, १७.<sup>१</sup> ;  
 वीष्णु ३, ६, ४ ; विघ ४८, १७.  
 निर्-दग्ध-प्रष्ट. निर्-द्व द.  
 निर्-द(या)र्- > ष्व-त-स्वम्  
 वाघ ६, २४.  
 निर्-दश, शा-शः शोथी १५, १८,

a) विप. १ वस. १ b) पाभे. वैप १, १८२० d द. १ c) विप. १ कस. १ d) = प्र-सक्-ल. १ व्यु. ? १  
 e) वैप १ द. १ f) दस. > पस. १ कस. > पस. दति १ पचे १ रक. १ g) पाठः ? विद (= नन्व-) + तुव (= नन्व-) >  
 प्रास. इति माथ्यम् । तवा. आपथी  
 ७, १०, ११ अवनतम् इति पाभे. १ h) पाभे. वैप १, १८२१ f द. १  
 2) पाभे. वैप १, १८२१ f द. १ j) उप. दशान्- (= दशान्-) + समातन्तः इष् प्र. १



१४१. -शावाम् वीथी २३, १, ४३.

निर्देशना- तायाः आपठ १५, ७; भाए १, २३ : २०.

निर्द/दह, निर्दहति शाथी १४, ५१, १; अय ६१, १, १७; विष ४८, १४; या १४, ३३६; निर्दहन्ति कौष्ट ३, १०, ३५; साष्ट २, १६, ४; आमिष्ट २, ५, १ : ५५, जैष्ठ २, ९ : ४१; आज्यो १४, १०; निर्दहवान् अप १८, १, ८१; निर्दहन्तु कौष्ट १, १११; अप ३३, ६, १; आपमं २, १४, २, आमिष्ट २, १, ३ : २६; भाए १, २३ : १९; द्विष्ट २, ३, ७, वा ९, २३; नि-दह, नि(दह) शाथी १, ४, ३, ४१<sup>०</sup>, निर्दहत् शाथी १४, ५१, १; निर्दहत् अप ३८, ३, ५; ७०<sup>२</sup>, २०, ३; ऋम २, ३, ३६.

† निर्द-व्य- -वम आपथी<sup>०</sup> १, २२, ३, २३, ३, ७, १९, ८, वीथी<sup>०</sup> १, ८ : ८; २०, ८ : ७, भाथी १, २४, ४; माथी १, ३, ३, १<sup>०</sup>; वाथी १, ३, १, ४<sup>०</sup>, वैथी ४, १, १<sup>०</sup>, द्विथी १, ६, ७<sup>०</sup>, काष्ट ४५, ७, वैष्ट १, १२ : ३; -ग्वाः आपथी<sup>०</sup> १, २२, ३, २३, ३; ७, १९, ८; वीथी<sup>०</sup> १, ८ : ८; २०, ८ : ८; भाथी १, २४, ४<sup>०</sup>; अपाय २, ५; अय ३७, ५, ३.

निर्देश-काय<sup>०</sup> -यः संव ३८२. निर्देश-वृत्ति(ने-द)धन<sup>०</sup> -नः वीथ ४, ७, १०.

निर्दह(त्)न्ती-न्तीः कौष्ट १३१, २१.

निर्द/दिष्ट, निर्दिष्टि आपथी १, १३, ४; ८, ६, २१××; वीथी; निर्दिष्टामि आपमं १, १, ५; वीथ १, १, २६; निर्दिष्टि आपथी ८, ६, २२; १४, ७, १; वीथी; नासि १, ४, ८<sup>१</sup>; निर्दिष्टियुः लाथी ९, १०, ४, ६. निर्दिष्टये आपथी २४, ३, १.

निर्द-दिष्ट आपथी ३, ३, ५१××; २२, ४, २८<sup>१</sup>; वीथी.

निर्द-दिष्टमान- -नस्य पावा ६, ४, ११०.

निर्दिष्टयमाना(न-अ)धिकृतस्य- -न्वात् पावा १, ३, ११.

निर्द-दिष्ट- -ष्टः काथ २७५ : ५, वृदे ३, ५६; -ष्टम् अप २८, २, ३; ३१, ५, ४, ४४, ४, ९; -ष्टस्य मीत् १२, १, ३८; -ष्टाः अप ५८<sup>२</sup>, १, १; -ष्टान् काठथी ३३; -ष्टानाम् ऋपा १४, १; -ष्टे आपथी १०, १५, १६; आपथ १, १८, २६१, द्विष्ट १, ५, ९४<sup>१</sup>, दुष्टा १, १३४; पा १, १, ६६.

निर्दिष्ट मरण- -णम् पावा १, १, ६७.

निर्दिष्ट-भाग<sup>०</sup> -ग. वीथी २६, ५ : ७.

निर्दिष्ट-लोप- -पात् पावा १, ३, ९.

निर्द-देश- -नः माथी २, १, १, १२; अप, पावा १, ४, २३××; मीत् ३, ७, ४२××; -सस्य मीत् ६, ४, ६;

-पात् काथी १, १०, १; आपथी २४, २, २९; माथी; पावा ६, ४, १७४; मीत् १, २, ३०××; -नन वीथी २४, १, १७; वाथ १, ३९. निर्दिष्टा(श-आ)नर्थक्य- -व्यम् पावा २, १, १.

निर्द-देशक- -कौ तैत्रा २२, ४.

निर्द-देश्य- -द्वयम् पावा २, १, ३०.

निर्द-देश्य- -व्यम् अप ६८, १, ५०.

† निर्दिष्टमण्यः<sup>०</sup> कौष्ट ४२, २७; ५८, ६; १२; अय १६, २<sup>१</sup>.

निर्द/दुह, निरुदहत् विष ५५, १०.

निः-दुहत् ऋपा ४, १८<sup>१</sup>.

निर्द-दोष, पा<sup>०</sup> -पः आपथ १, १९.

६; द्विष्ट १, ५, १०८; -वा अप २२, ५, ३; -याः मासि १, ६;

-याम् विष ५, १६२.

निर्दोष-शरीरा(र-आ)दुति<sup>१</sup> - -तिः वैष्ट ७, १ : ३<sup>१</sup>.

निर्द/दु, निर्द्वत् कौष्ट ११६, ७<sup>१</sup>.

निर्द्वैद्युः काष्ट ११, १.

निर्द-द्वन्द्व<sup>०</sup> -न्दः वैष्ट १, १ : १७.

निर्द-धन<sup>०</sup> -धाम २, १, १९<sup>१</sup>; -नस्य विष ६, ३०.

निर्धन-ता- -ताम् अय ३६, १६, २.

निर्द/धम्, निर्धमेत् वीथ ४, १, २२<sup>०</sup>.

निर्द-धमन- -नम् वीथ १, १०, १८.

निर्द-धयत्- -प्रय. निर्द/धि द.

निर्द/धू, निर्धन्वन् वाधूथी ४, १९ : ३९.

निर्द-धुम<sup>०</sup> -मः अप ७०<sup>१</sup>, २, १; -सम् वैष्ट ४, ५ : २०; -मे तु १८, ३.

निर्द/धृ > निर्द-धारण- -णम् पा

a) पाथे. वैष १, १८२१। द.। b) पाथे. वैष १, १८२१। द.। c) पाथे. वैष १, १८२१। द.। d) विष.। वस.। e) विष.। वस. > वस.। f) विनिर्दिष्टे इति व्यास.। g) -पाठः ? निर्द्वयम् इति गोपः दृ। लघ. ता २२, १४, २। च। h) वैष १ द.। i) वस. > वस.। j) पाथे. वैष १ पुरुषादुक्तिः तै २, २, २, ५ टि. द.। k) विष। प्राच. वा धय. वा। l) तु. पापम.। - ऋ) तु. चौं., विषमेत्, इति मेम्.।

२,२,४१; -ण पा २, २, १०;  
५,२,१२.

निर्-धाति- -तामन् निस् २,  
१२: २१

निर्/धे, नि: -धयन्ति आपथी  
१३, १७, ५४.

निर्-धयत्- -यन् माथी ५, २,  
२, ९; -यन्तः वैथी १६, २१:  
३<sup>२</sup>.

निर्-धान- > -न-दर्शन- -नाव  
मात् १०, २, १४.

निर्-धीय काठथी १५८.

निर्-नमस्कार<sup>b</sup> -नः विष ९६, २२.

निर्/वन्थु> निर्-वद्ध- -दा:  
या १, २.

निर्/वाधु> निर्-वाध<sup>c</sup> > वैर्वा-  
ध्व<sup>c</sup> -ध्वेन दंति २, ५<sup>१</sup>.

निर्वाध-त्व- -स्वम् भाति ५२.

निर्वाध्व<sup>c</sup> -ध्वेन<sup>d</sup> आपथी ३,  
१४, २; माथी ३, १३, १, द्विथी

२, ६, २४.

निर्-वाधित- -तासः<sup>e</sup> आपथी ५,  
७, ३.

निर्-वीज- > निज्- -जो शंथ  
३७७: ६.

निर्/मू, निर्मूयात् वीथी २०,  
१९: १८; १९; २१; छाथी

७, १२, ७; १३, २; वृदे २,  
१०६; या २, १<sup>१</sup>; २<sup>१</sup>; ३<sup>१</sup>.

निर्-मुवत्- -न्व क्ता ११, ६२.

निर्/भज, निर्भनति वीथी ३, २१:  
८; निर्भन्नामि माथी ४, १२,

१०; वीथी ३, २१: ९; वाथी

१, १, ४, २३<sup>१</sup>; काण १८, २;

निर्भजामः अम १६, ८<sup>१</sup>;

†निः<sup>१</sup> -भजामः -आपथी ४,  
११, १; माथी ४, १६, २; द्विथी  
६, ३, ३; निर (भजाम) अम  
१६, ७<sup>१</sup>; निरभजत् वीथी  
१४, ५: २९.

निरभाक्, निरभाशम् वीथी  
१४, ५: ३०<sup>१</sup>.

निरभाजयताम् वाधुथी ४, ८:  
४.

निर्-भक्त- -क्तः शाथी ४, १२, २;  
१०; आपथी ४, ११, १; वीथी

३, २१: २; ९; १०, १६: २;

माथी ४, १६, २; वाथी १, १,  
४, २३<sup>१</sup>; द्विथी ६, ३, ३.

निर्-भय<sup>f</sup> -यः कद ३, २, १५;  
विष ३, ९५; मासि १४, ७<sup>१</sup>,

-याः कौथ ३, १२, ३०; अय  
७०<sup>१</sup>, ५, ४; ५.

निर्/भस्त्र<sup>g</sup>, निर्भसेवेत् विध ६८,  
२५.

निर्-भस्त्रेन- -न्म शंथ ३१३.

निर्/भा, निर्भमी विष ५१, ६७.

निर्/भिद्, निर्भिन्नति आसिष्ट  
३, १०, १: ११; वीथि ३, ५, २;  
१०, १; निर्भिन्नति आसिष्ट

३, ४, १: २९; ५: ६; निर्भिन्धि  
कौस् ६१, २२<sup>१</sup>.

निर्भिन्धि सु ३, ३.

निर्-भीत<sup>h</sup> -ता शैथि १५३; यासि  
१: २३; नाति १, ६, १२.

निर्/भुज्, निर्भुजति द्विथी ४,  
४, ६०; द्विथी १०, २, १४;

निर्भुजि<sup>i</sup> मासि १२, ५.

निर्/भू, निर्भवति छुस् ३, १०:  
२१.

निर्/धृ निर्/द्ध द.

निर्-मक्षि- पाग ६, २, १८४.

निर्/मथ्, न्यु, निर्मन्थतः<sup>१</sup> आपन्  
१, १२, ३; वीथ १, ७, ४०;

माथ २, १८, २; द्विथ १, २५,  
१; निर्मन्थताम् जैथ १, २२:

२९<sup>१</sup>; निर्मन्थत्, निर्मन्थय  
वैताथी ५, १७<sup>१</sup>; निर्मन्थेत्

वैथी १, १: २२.

निर्-मथित- -त्तः ऋम २, ३, २३<sup>१</sup>.

निर्-मथ्य काथी ४, ७, ११; ९,  
१८४; आपथी.

निर्-मथ्य- -थ्यः आपथी ८, ३,  
१३; माथी १, ७, ८, ९; वैताथी

६, ४; -थ्यम् आपथी ५, ४,  
१४; वैताथी ८, १०; १८, ८;

अप्राय ३, ७; -थ्याः अप १,  
७, ११; -थ्येन शाथी ७, ४, ७<sup>१</sup>;

-थ्यैः वीथि १, २: २०; -थ्यी  
कौस् ६०, ५.

निर्मन्था (थ-प्र) हवनीय- -वी  
ऋम २, १, १२; छुस् १, ३००;

ताम २, १९४.

निर्मन्थाहवनीया (य-अ) य-  
-थी वृदे २, १४५.

निर्-मथ्य- -थ्येन माथी १, ७, १,  
३०; ८, ३, ३; २, १, ५, १४;

६, १, ४, २९.

निर्-मथ्यन्- -न्म वैताथी ८, १२.

निर्-मथ्य काथी २५, ३, ८; आपथी  
१३, २५, ३; वीथी.

निर्-मथ्य- -थ्यः आपथी १०,  
२१, १३; वीथी; -थ्यम् काथी

६, ५, १३; वीथी १४, ३:  
१३<sup>१</sup>; माथी; -थ्यस्य वीथी

a) -निरवधयन्ति इति सूको. 1. b) विप. 1 वस. 1 c) वैप १ द. 1. d) पागे. वैप १, १८२२ ०  
द. 1: 1 e) प्रागे. वैप २, १३८. f) निरवाधितांसं टि. द. 1 g) निर. 1 प्रास. वा वस. वा ( h) = अ-भीत- 1  
h) पागे. वैप १, १८२२ j द. 1 i) तपा. ध्वेन <> ध्वेन इति पागे. 1

५,२ : २१,६ : २०×४; भाधो;  
 -न्याभ्याम् भाधौ ८,७, १५;  
 -न्धे मोस् १,४, १२; -न्धेन  
 भाधौ ६, १०, २४; काधौ १६,  
 ४, १३; २५, १३, २७; आपधौ,  
 लाधौ ३, ४, ९; -न्धैः आसिण्  
 ३, ५, २ : १७; -न्धौ आपधौ  
 ८, ९, १८, वौधौ २०, १७, १७.  
 निर्मन्था(न्ध-मा)दि- दिवु  
 मौम् ७, ३, १८.

निर्-म(ध् >) ध्या<sup>०</sup> - न्या ध्रुप् १,  
 १ : ४, २, ३ : १९.

निर्-मल<sup>०</sup> - लः वाध २६, ६; -लाः  
 वाध १९, १५.

निर्मल-स्निग्ध-परिधिसरविषात्र-  
 वृक्षप्रतिवृत्तं (क >) ध<sup>०</sup> - का  
 ध्र ६५, २, २.

निर्मली/कृ > निर्मलीहृय ध्र  
 १, ४२, ९.

निर्-मशक- वाग ६, २, १८४.

निर्/मा(माने)<sup>०</sup>, निर्मिमीते निस्  
 ४, १० : १७; वृदे ७, १२९;

निर् (निमीमहे) अस् १८, २१.  
 निरमिमीत या ८, २१; ९,  
 १०, निरमीमत् वाधुधौ ४,  
 ५९<sup>०</sup> : ४; ५, १०.

निर्मीमन्ते या २, ८; निरमीमत्  
 वाधुधौ ४, ५९<sup>०</sup> : ६.

निर्मायि वाधुधौ ४, ५९ : ९.

निर्-माण- जे या २, २२.

निर्माण-कारक- ०० क विध १,  
 ५५<sup>०</sup>.

निर्-मा (तु >) व्री- -भ्यः या  
 १२, ७.

निर्-माय कायु ६, १०.

निर्-मित, ता- ऋतः आधौ ३, ८,  
 ४४; आपधौ १, १३, १५; १६,  
 २९, १; वैधौ १८, २० : १२;

हिधौ ११, ८, २; अय २, ४,  
 २४; अशां १०, ५; -उम् अय  
 ३३, ३, ४; ३८, ३, ८; ४१, ३,  
 १; कान्तु ७, ११; -ताः आधौ ३,  
 ८, ३; आपधौ २४, ११, १०<sup>०</sup>;

निस् ३, १३ : ३९; अय १,  
 ४०, ४<sup>०</sup>; २०, ३, १; अशां १०,  
 ४; -ऋताम् आपधौ ५, १८, २;

हिधौ ६, ५, १६; -न्ते हिध १,  
 ६, १७; पा ४, ६, ९३.

निर्-मिमान- नौ वा ८, १२.

निर्-माल्य<sup>०</sup> - ल्यम् वैशु ४, १२ :  
 १, अय ३, १, ११; ३५, १, १२;

-न्यानि वौशु १, ८, ९.

निर्माडय-मन्धहाडी-हास-नीत-नाद  
 ना(न-धा)सु(दि-उ)पहार-  
 नात् अय ४०, १, ११.

निर्मिल<sup>०</sup> - लाय अय २०, ४, २१.

निर्/मी(=मा(एन्डे)) निर्मिमाय<sup>०</sup>  
 या ११, ४०.

निर्/मुष्, ष्, णिर्...मुष्मि<sup>०</sup>  
 आपधौ ७, २१, ६; वौधौ ४, ७ :  
 २४; भाधौ; णिर् (मुष्मि)  
 आपधौ ७, २१, ६; ११, १८,  
 २, वौधौ.

निर्मुष्पते या १४, ७; णिर्

(मुष्पे)<sup>०</sup> काधौ ८, ७, १८; सुम्  
 १, २६१; णिर्मुष्पते आपधौ  
 १७, १४, ३; वैधौ १२, ६ : ७६;

हिधौ १२, ४, १२<sup>०</sup>.

णिर्(मुष्मि)<sup>०</sup> आपधौ १, १८,  
 ३; वौधौ ६, ३१ : १५; माधौ  
 १, २, १, ३९; वाधौ १, २, ४, ३३;

वैधौ १४, १६ : ९; हिधौ १, ५,  
 २८.

निर्-मुच्य वौधौ २, ११ : २५<sup>०</sup>.

निर्-मोक- -कम् विध १, ३९.

निर्/मुष्, निर्मुष्णाति वैताधौ  
 १३, ९.

निर्-मूल-लून<sup>०</sup> - नम् वौधौ २१,  
 ४ : ३.

निर्/सृज् > निर्-मा<sup>०</sup> - रय<sup>०</sup>  
 आसिण् ३, ५, १ : १, ७, ३ : १;

वौपि १, १ : १; २, १, १.

निर्/सृज्, निर्मांति वौधौ १५, ८ :  
 ४; काय ६०, ६; ९; वौशु १,  
 ४, ४२; गौशु २, ७, १८.

निर्मुंक्ष्व माधौ १, २, ५, ७<sup>०</sup>;

निर्मांतीः माधौ १, २, ५, ३-६<sup>०</sup>;

णिर्मुंक्ष्व आपधौ २, ४, ४<sup>०</sup>;  
 ८; वौधौ १, १२ : ४<sup>०</sup>; ७<sup>०</sup>; ९<sup>०</sup>;

११<sup>०</sup>; १४; १९ : २१; भाधौ  
 २, ४, ४<sup>०</sup>-८<sup>०</sup>; ३, ५, १४; वैधौ  
 ५, २ : १५<sup>०</sup>; ७, ५ : १३; हिधौ  
 १, ७, ७<sup>०</sup>; ११<sup>०</sup>.

निर्मांक्ष्वति वौस् ८०, ४७.

निर्-मा<sup>०</sup> - न्यैः आसिण् ३, ७, ३ :  
 २१; वौपि २, २, २<sup>०</sup>; हिपि १९, ८.

a) पाठे. वृ १४२१ i द. 1 b) विप. 1 बध. 1 c) = संध्या-1 कम्. > कम्. उप.  
 = परिधि-परिवेदाऽअह्र-प्रतिवृत्तकृती- 1 d) निर्वा<sup>०</sup> इति जोषे. 1 e) वैप ३, ४५८ ० द. 1  
 f) स्वप. 1 मृ. 1 g) विधेयः मिमाय ऋ १, १९४, ४१ टि. द. 1 h) पाठे. वैप १ मुष्मिपि वै ३, १७,  
 ४ टि. द. 1 i) पाठे. वैप १, १८२ ४ द. 1 j) विप. 1 बध. > कम्. 1 k) = मण्णासजता-  
 (द्र. सत्र. माय १४, ७, १, ४१ अग्निमानम् इति पाठे. 1 l) वा. किवि. 1 m) पाठे. वैप १, १८२ ४ i द. 1  
 n) वैप १ द. 1 o) निर्मा<sup>०</sup> इति म. (< नि/सृज्.) 1

निर्-मृजान- -नः कौस्तु २५, २८१.  
निर्-मृज्य माश्री १, ३, ५, १४; कौस्तु  
३, ९; २३, १५; ४२, ५.

निर्-मोक- निर्✓मुष् द्र.  
निर्✓यत् > निर्-याय माश्री २,  
३, ३, ७; ४, ४, ४.

निर्✓यस् > निर्-यास<sup>१</sup>- पाग २,  
४, ३१; -सम् आश्रित्य २, ५, २;  
४; वीए ३, ६, १; वैध ३, ५, ८.  
रनिर्यास-(> षिक्र-पा.) पाग ४,  
३, ८०.

निर्✓या, निर्याजि अय ७०<sup>१</sup>, २१,  
२.

निर्✓याच्, निर्याचते वीथी १४, ४:  
३७; निर्याचयाः आपथी १२,  
२३; ११; वीथी ७, १४;  
२२; १४, ५; २६; वैथी १५,  
३०; ६.

निर्-याच्य वीथी १४, ४: ४०१.  
निर्यूह- पाठभो २, १, १८८.

निर्✓लिख, निर्लिखेत् माश्री ३, १,  
२; शेष १८०.  
निर्लिख्यते आपथी २, १७, ४;  
द्विथी १५, ७, २४.

निर्-लिखित- -त्म् आपय १, १७,  
१२; द्विथ १, ५, ४४.

निर्✓लिह्, निर्लिहि काथी ४, १४,  
२७; माश्री १, ६, १, ४७;  
वैथी २, ५; ११; द्विथी ३,  
७, ९, ३; आपय २, ११; वीए १,  
४, ४२.

निर्-लिह्य वीथी २, ९, १४; आपथी  
६, १२, २.

निर्-लेप<sup>१</sup>- -पम् वैथी ५, २; १६;  
-पानाम् विष २३, ७.  
निर्लेप-निर्लेप्य- -न्वम् वीथ ३, १,  
२२.

निर्-लोम<sup>१</sup>- -नम् कौस्तु १३८, ९.  
निर्-ल्वय(न >) नी<sup>१</sup>- पाग ६, ३,  
१०९.

निर्✓वच्, निरुवाच वीथी १८, २९;  
२; ४.  
निरुच्यते निस्तु ३, १; ३९; ४६;  
वृदे २, ६९; या १०, ५.

निर-उक्त, क्ता- पाग ४, २, ६०<sup>१</sup>;  
३, ७३<sup>१</sup>; ६, २, १४६<sup>१</sup>; -क्तः  
काथी १७, ७, ९; आपथी २२,  
६, १६; -कम् काथी १३, १६,  
५<sup>१</sup>; आपथी; अय १, १५, १<sup>१</sup>;  
शेष १२६; ३९<sup>१</sup>; चव्यु २: २३<sup>१</sup>;  
-क्ता द्विथ २, १, २७<sup>१</sup>; -काम्  
वीथी ३, २९; १४; वैथी ३,  
१३; लाथी ७, १२, १४; -क्ते  
वृदे ६, १३४; अथवा १५, ११;  
शुभ्रा ४, १९५.

नैरुक्त- पा ४, ३, ७३; -क्तः  
साम् २, २०१; -क्ताः वृदे १,  
२४; साम् १, ११५; १४७०५५;  
या २, ८; १४, १६; २, ८; १४५५५,  
-कानाम् साम् १, ३४१; -क्ते  
वृदे २, ११९.

नैरुक्त-समय- -पः या  
१, १२.  
नैरुक्तिक पा ४, ३, ६०.

निरुक्त-निघन<sup>१</sup>- -नम् निस्तु ६,  
११; १६.

निर्-उक्तय- -वाच् वृदे २, १११;  
११२; ११३.

निर्-उच्य वीथी २०, १९;  
१९.

निर्-उक्त्य- -यम् या १३, १३;  
-व्याः या १३, १२<sup>१</sup>; -व्यानि  
या २, ७.

निर्-वस्तुम् वृदे १, ९६.

निर्-वचन- -नम् काथी ६, १, २३;  
वृदे २, २३; या २, १; -नाय  
आश्रित्य २, ४, १२; १२; या  
१, १९; २, ११; ३, २५५; -ने  
वीथी २०, १९; १८; भास् ३,  
५.

निर्निघनस्वाध्यायधर्म<sup>१</sup>- -नः  
निस्तु ८, ७; २५.

निर्-वचस्<sup>१</sup>- -चः वृदे २, १०६.

निर्-वाक-> निर्वाका(क-अ)र्थे-  
-धेन निस्तु ६, ७; ३४; -धेन  
निस्तु ७, १; २; ४: ५; ४६.

निर्-वाच्य- -व्यम् वृदे २, १०४;  
-च्ये अथवा १५, ११.

निर्वाच्य-उत्तरग<sup>१</sup>- -गम् वृदे  
२, १०३.

निर्-व(न >)ण<sup>१</sup>- पा ८, ४, ५.

निर्✓वप्, निर्निघटि काथी २५,  
११, २३; वीथी ६, ६; २३५५;  
माश्री; निर्निघधीः वीथी ७, ५;  
२७; १०: ७; १४, ४: ४५; द्विथी  
८, ५, ३१; वैथी ९: २९.

निर्✓वप्, निर्निघति काथी ७, ५, ३६;  
काथी १४, ३, १७, १३, ५५५;  
काथी; आपथी १३, २४, १<sup>१</sup>.

a) वैष १ द्र. ।  
b) विप. । वस. ।  
c) सनायान्तः क्व प्र. उत्तं. (पा ५, ४, ११७) ।  
d) = लर्ष-त्वच्- । < निर् ✓ल इति पागम. ।  
e) = वेदाङ्ग- ।  
f) निरुक्त- इति [पृष्ठे] भाष्यजा. ।  
g) सप्र. आपय २, २, ५ उक्ता इति पाभे. ।  
h) पाठः ? भविष्यन्तः स्वा<sup>१</sup> इति घोषः संभाव्यत  
(छ. संस्कृतोः टि.) ।  
i) = निर्बचन- ।  
j) नाप. ।  
k) सपा. कादभो ७, ७, १ इत्युच इति पाभे. ।  
l) O. भनुनिर्बपति इति घोषुकः ।

निर्वपतः बौध्री २३, १ : ३५;  
 माध्री ८, ५, ९; निर्वपन्ते द्राध्री  
 १४, २, १; लाध्री ५, ६, ४;  
 निर्वपन्ति शाध्री १३, २९, २०;  
 आपध्री ९, ४, ४; २३, १३, ५;  
 -बौध्री; पुनिर्वपामि आपध्री १,  
 ७, ९; १७, १२××, चाध्रीसं;  
 गोट १, ७, २; द्राध २, १, १०;  
 पुनिर्वपन्तु कम् ६८, १; २;  
 निर्वपस्व काठध्री ११४; माध्री  
 २, २, २, ११<sup>०</sup>; पुनिर्वप आपध्री  
 ४, ४, ७, १२, ३, १५<sup>०</sup>, बौध्री;  
 निर्वपताम् बौध्री २८, ४ : १८;  
 निर्वपन् भूति ७६; निर्वपेत्  
 काध्री ८, १, ३, १२, २, १२××;  
 आपध्री, द्राध ३, २, २<sup>०</sup>, निर्वपे-  
 त् बौध्री ३, ६, १, द्राध्री १४,  
 २, २, लाध्री ५, ६, ५; १०,  
 १७, १; निर्वपेयुः आपध्री ३,  
 १०, २४, ६, १२, ५××, बौध्री  
 निरुपाय बाधुध्री ३, ७७-३,  
 पुनिर्वपामि आपध्री १, १७,  
 २, ३, ४, ४, ४, बौध्री.  
 निरुप्यते बौध्री १४, १९-  
 ७१××, बाधुध्री; सा ७, १८;  
 २०, ३१, निरुप्यते द्विध्री १६,  
 ८, २०; निरुप्यन्ते बौध्री २५,  
 ३ : १५, २१ : १५.  
 निर्वापव्य > वा बौध ५५, ५५,  
 निर्वापवेत् वप्र ३, ४, ५.  
 निर-उत्त-सम् आपध्री ५, १९,  
 ७; ६, २९, १२××; बौध्री;  
 -साम् आपध्री १, १८, २; ३;  
 बौध्री; -सं आपध्री ३, १०, १०;  
 राध्री ३, ०, ३; चाध्री; -सेपु

आपध्री १, १८, २; १२, ४, ७,  
 माध्री १, १९, १२; माध्री ३,  
 १, १६; बाध्री १, ७, २, १८.  
 निरुप्ता (स-आ) उप- उपस्य  
 वैध्री ८, ५ : ३.  
 निर-उप्य राध्री १३, २९, १२;  
 काध्री १, ३, २२; ४, २,  
 ३७××; आपध्री; द्विध १, १,  
 २७<sup>०</sup>; वैध १, ६, ४<sup>०</sup>; या १, ५.  
 निर-उप्यमान, न- नम् आपध्री ४,  
 ४, ५, बौध्री ३, १५ : ७; माध्री;  
 -ने बाध्री १, २, १६; -नेपु  
 आपध्री ८, १७, २; वैध्री ९, १० :  
 ११; -ने वैताध्री २, ७  
 निर-वर्ष- षाणि आपध्रि २, ६,  
 ४ : १७<sup>०</sup>; -षान् आपध्रि २,  
 ५, १० : १२.  
 निर-वपण- नम् काठध्री ७; बौध्री,  
 -णान् काठध्री २२; बौध्री; -ने  
 बौध्री २०, ५ : २९; ६ : ६××;  
 -नेन बौध्री २२, ११ : ३.  
 निर्वपण-काल- ले आपध्री ६,  
 २९, ७, ७, २२, २××; बौध्री  
 २८, ४ : २३, वैध्री ८, ४ : ३,  
 ९, १ : १०××; द्विध्री.  
 निर्वपण-तस्रः (ः) बौध्री २४, ३ :  
 १०; ११.  
 निर्वपण-न्याय- -नेन बौध्री  
 २८, ४ : २१.  
 पुनिर्वपणप्रभृत्याम् आपध्रि ४, १,  
 निर्वपण-प्रोक्षण-संघपन- नम्  
 बाध १, १२.  
 निर्वपण-भोभ्रणा (ए-आ) निर्वपण-  
 संघपना (न-आ) द्वि- -दीनि  
 बौध्री २८, ४ : ६.

निर्वपण-लवना (न-आ) स्तरणा-  
 (ए-आ) उपप्रदह- -नेपु मीत्  
 ११, ४, ४५.  
 निर्वपणा (ए-आ) द्विक- -कम्  
 कप्र ३, १०, १३.  
 निर्वपणा (ए-आ) न्त- -न्तम्  
 बौध्री २९, १० : १५.  
 निर्वपणा (ए-आ) र्थ- -र्थम् द्विध्री  
 ६, १, ५४, मीत् १२, १, १४.  
 निर्वपणीय- -यम् संघ १३२.  
 निर-वपत्- -पत् आपध्री १०,  
 ३०, ७.  
 निर-वत् (व्य >) ष्या- -न्याः  
 बौध्री २६, ५ : ४.  
 निर-वप्तुम् कौश ३, १०, ३५; राध २,  
 २, १६, ६.  
 निर-वप्सव- -प्सवसु द्राध्री १२,  
 १, १६; १३, १, २०; १४, ३,  
 १२; लाध्री ४, ९, १०; ५, ३,  
 ३; ७, ११; -प्सवन् बौध्री २,  
 १९ : २; ११, २ : २××; वैध्री.  
 निर-वप्समान- -ने माध्री १, ४,  
 १, १३.  
 निर-वाप- -पः काए ४२ : १९;  
 -पम् वैध १, १३ : ५; ४, ११ :  
 ८; -पाः कप्र ३, ७, २; ३.  
 निर्वाप-वत् काध्रीसं ४ : ३.  
 निर्वाप-नेप-न्त्व- -न्यात् मीत्  
 १०, २, ६३.  
 निर्वाप-ध्रण- -नम् वैध ४,  
 ९ : ३.  
 निर्वाप-स्थान- -नम् वैध ४,  
 ४ : १.  
 निर्वापा (प-आ) द्वि- -द्वि काध्रीसं  
 ५ : ६; वैध ३, १३ : ३.

a) पाने. वैप १, ६२५ इ. । b) स्या. निर्वपस्व <> निर्वप दात् पाने. । c) निष् इति  
 धातुकः पाने. । d) निष् इति पाठः ! यनि. श्लोचः (प्र. द्विध्री [१९, १, २४]) । e) निष् इति पाठः ! यनि. श्लोचः  
 (प्र. डा.) । f) नाप. । उप. कर्मणि वप् प्र. वसं. (पा ३, ३, ५८) । g) विप. । वसं. । h) रुमाहारे द्रव. ।

नि-लिप्य माथी ६, १, २, १२.  
 नि-लिम्प- पावा ३, १, १२८;  
 -ङ्गाः वीथी १०, ५० : १७;  
 आपर्ग २, १७, २१.  
 नि-लिम्प-नामन्- -न्तः अअ ३,  
 २६.  
 नि-ली, निलयते वीथी १४, २८ :  
 १०; नि-लयन्ताम्) ऋषा ८,  
 ४६१.  
 नि-लय- > -या(२-अ)र्थ- >  
 -धिन्- -र्षी काय ४, ४.  
 नि-लाय आपथी ५, २, ४१.  
 नि-लीन- -न्म् वीथी १४, २८ :  
 १०; -नैः वाप ३, ४६.  
 नि-लीन- (> -न-क- पा.) पाय ४,  
 ३, ८०.  
 नि-लोप- -ये अत्रा ३, ३, १८.  
 नि-लिय- (> -लिय- पा.) पाय ५, १,  
 १२४.  
 नि-लक- > -नैवकि- (> -कायन-  
 पा.) पाय २, ४, ६१.  
 नि-लवत्- -न्तः आपथी २०,  
 २३, १२; वीथी १५, ३८ : १४;  
 २६, ११ : २८.  
 नि-वसू > नि-वचन- > -वे- > क  
 वा १, ४, ७६.  
 नि-वत्- -वगः आथी २, १४, १२१;  
 वीथी; वा १०, २०.  
 नि-वत्- > -नैवनि- (> -वायन-  
 पा.) पाय २, ४, ६१.  
 नि-वन्- > नि-वा(न्व) -न्वा-  
 -न्वाम् काथी २५, ८, ८;  
 -न्वायाः काठथी ४०.  
 नि-वन्वा-दुग्ध- -ग्धे काथी ५,

८, १८.  
 नि-वन्वा-दुग्ध- -दुग्धम् काथी  
 ५, ६, २८.  
 नि-वप्, निवपति काथी ४, ८,  
 १८; ५, ३, १८; ४, १५४४;  
 आपथी; वीथी २, ५ : २०;  
 वीथि ३, १, ११०; निवपतः  
 वीथी १२, १५ : १४; माथी  
 १, ७, ४, ५; काथी १, ७, २, २०;  
 निवपन्ते वैताथी २३, १३;  
 निवपन्ति काथी १०, ८, ६;  
 २४, ६, २; वीथी १२, ३ : ३२;  
 वा-वृथी ४, ११४ : १; वैथी  
 ६ : १; निवपामि काथी २५,  
 ८, ५; आभिय ३, ११, २१७;  
 द्वि १० : ४; निवपन्तु निप  
 २, १९१०; निवप आभिय ३,  
 ११, २ : ७; निवपेत् आपथी  
 १८, १८, १६; २१, १३, १४४४;  
 काथीसे; निवपेत् द्वि १८,  
 १, २८; निवपेत्-काथी २५, १३,  
 ४३; काठथी १५८; काथी ६,  
 ३, १८; काथी २, ११, १२;  
 १०, १५, १३; आभिय ३,  
 ५, ७ : १४; वीथि १, ६ : ६;  
 निवपयम् आभिय ३, १२, १ :  
 २०.  
 निवपयन् वीथी ६, २६ : १६.  
 निवप्यते वा-वृथी ३, ४१ : ३३;  
 निवपयते भाय २, १९ : ८.  
 नि-वपन्- -न्त् आपथी ५, १, ७४४;  
 वीथी; -पन्तो वा ६, २६.  
 नि-वपन- -नाः वीथी १, ६, १, २५;  
 -न्म् काथी ७, ७, २; माथी;

-ने आपथी २, २, २; वीथी  
 २०, ३ : २७; १६ : ५८; २१,  
 १५ : १०; २२, ४ : १.  
 निवपना (न-ञ्) द्वि- द्वि  
 आपथी १०, २४, १; १६, १७, १;  
 वैथी १८, १४ : १७.  
 निवपना (न-ञ्) न्त- -न्तम्  
 आभिय ३, ७, ३ : २८; वीथि २,  
 ३, २; द्वि १२ : ८.  
 नि-वपयन्- -न्पय् वाथी १, ४,  
 २, ३, ६.  
 नि-वापिन्- पा, पाय ३, १, १३४.  
 नि-वाप्य संघ १३२.  
 न्यु(नि-उ) स, सा- -सः अत्राय ३,  
 ११; -सम् आपथी २, १,  
 ८; माथी ६, १, १, २८; वैथी ४,  
 ११ : १५; -र्षिताम् आपथी ५, ३,  
 ११; माथी १, ५, २, १२; द्विथी  
 ३, ३, ३१; -साः आपथी १२,  
 १८, ४; -सात् वैथी १, १० :  
 ५; -सावम् काथी १४, ३, १३;  
 काथी ५, ७, ११; -सेत् वैथी  
 १३, २ : ४; -सी वैथी १८,  
 १३ : १.  
 न्यु(नि-उ)प्य वाथी ८, ८, ११;  
 काथी, आपथी ७, ७, ११; न्युप्य  
 इत्युप्य काथी १८, ६, ७.  
 नि-वर्त- -र्वक- अत्र. नि-वृत्त द.  
 नि-वसू (निवासो), निवसति अत्र ४,  
 ६, १; ६२, ६, ५; न्यवसन् वृत्ते  
 ७, १४७; निवसते रूप ७, १५  
 ४; निवसेत् वैथ ३, १६ : ४  
 विष ७, ६४; वैथ २, ५, ८; ३  
 १४, ८.

a) विप. वस.। b) व्यप.। न्यु.।। c) वैप १ द.। d) = मूलकला-गो-। गस. उप. कर्मणि पयत् प्र.।  
 e) वा ८, ४, १७ परावृत्तः द.। f) निवपति इति पाठः। यति. वीथः (स. पूर्व स्थस्यु)। g) निवपेत् इति द.।  
 h) वीथे वृत्तिः। i) = निवसन्-मन्-। j) व. वादा. पाठि.। नि-वापिन्- इति भाष्य.। k) पाथे. वैप १,  
 १८५४ ० द.। l) पाथे. वृ १४२३ / द.।

-त्तं शाब्द २, १२, ९; पा ४, ४, १९.  
 निर्वृत्त-ग्रहण- -णात् काथो २२, ३, ४९.  
 निर्वृत्त-प्रतिपत्ति- -ञी पावा १, १, ५०.  
 निर्वृत्ता (त-ञा) ष(दि-ञ)र्थ- -यम् पावा ४, २, ८५.  
 निर-वृत्ति- -त्ति: पावा १, १, ४५; ५०; मीस् ९, २, ३७.  
 निर-वृत्त्य द्राथी ५, ४, ८.  
 निर-चेरा- निर-वृत्त्य द.  
 निर-चेप- प्रवृ. निर-वृत्त्य द.  
 निर-वेष्ट > निर-वेष्टित- -त: या ५, ८.  
 निर-व्यु(नि/क)द्, निर-व्युद्धते अप १, ४४, ३.  
 निर-व्युद्, निर-व्युद्धे कौस् ७६, २.  
 निर-व्युद्- -या: वैश्व २, ४: १; -णाम् वैश्व ७, ४ ७.  
 निर-व्युद् > निर-व्युद्ध- -स्कम् काथी २२, ३, ५, -स्के आपथी १०, २०, ६.  
 निर-व्युद्धि- निर्वृत्तिपति हिथी ४, ४, ९०.  
 निर-व्युद्धो: आपथी ७, २२, ७; भाथी ७, १७, ६; वैथी १०, १७: १०; हिथी ४, ४, ५९.  
 निर-व्युद्धेव वाथी १, ६, ६, १७.  
 निर-व्युद्ध- निर्वृत्ति अप १, ४८, ५; निर्वृत्ति काथी १४, १: १४; १७; भाथी ११८, १२०, निर्वृत्त्यात् तेरा ७, ३; नाथि १, ६, १५; निर्वृत्त्यात् शैथि १५४; नाथि ६, ६; नाथि १, २४.

निर्वृत्तान या १२, १४; निर (जदन्त्य) षप्रा ७, ४६५.  
 निर्वृत्त्यते आपथ १, २४, २५; २८, १८; २९, १; हिथ १, ६, ७४; ७, ५३; ५७.  
 निर-व्यात- -त: अप ६१, १, २७; ६७, ६, १४४; आपथ; -तस्य अप ६०, १, ५; -ता: अप ५८, १, १; ६०, १, १; ६४, २, ७, -तात् अप ६४, १, ४; -ते गोथ ३, ३, १९; कौस् १४१, २०; अप ७२, १६, ३; नाथ १३, ३३; -तै: अप ७०, ११, २९.  
 निर्व्यात-भूकम्प-दिव्याहा(ह-ञा) दि- -विर्जात- -त: अप ७०, ८, ३.  
 निर्व्यात-भूमिकम्प-राहुदरानो- (न-उ)क्का- -क्का: गौथ १६, २२.  
 निर्व्यात-भूमिषेगो (ग-उ)क्का- पात-दिरदाह-पांशुशोशितमांसा- स्थितदधिलाजगौरवर्ष- -यैषु संघ ४७.  
 निर्व्यात-व्य कौस् १४१, ३३.  
 निर्व्याता(त-ञा)दि- -दय: कौस् १४१, ३३.  
 निर्व्यातो(त-उ)क्का- -क्का: अप ५७, १, २; २, २; ३, २, ४, २.  
 निर-वृत्तोस (: ) कौथी १४, ४, ४२.  
 निर-वृत्त- -स्त: कौस् १४, ७; अप ३२, १, १३; अप ६, ६६.  
 निर्वृत्त- -स्यम् वृदे ८, १४५.  
 निर-वृत्त <> भू, निर्वृत्ति कौथि ३, १२, ३; वैश्व ३, १४: १४; निर्वृत्ति हिथि १३: ४, २३; १; गौथि १, १, १५; तिथ १९,

५; निर्वृत्ताग्नि कौथी १८, ४७: ६; निर्वृत्तेव शाथी १३, १२, १२; अप; निर्वृत्तेरन् आपथी १४, १५, १५; ३१, ८; हिथी १०, ५, १७; निर्वृत्तेयु: आपथी १०, २०, ७; कथ ३, २, ५; तिथ १९, ३.  
 निर-वृत्त-जम्भार या १०, १२; षप्रा ५, १६; निर्वृत्ताहा या १०, १२  
 विर्हाश्चेत् तिथ १९, १.  
 निर्वृत्तिर्होषेत् काथ ३, १; आपथ २, ८; कौथ २: २.  
 निर-वृत्तिर्होषेत्- -यैन् काथ ३, १; आपथ २, ८; कौथ २: ३-  
 निर-हार- -र: माथी ५, २, ७, १; आपथ १३, १०; कौथ २: ११-  
 निर-हव- -ते काथी १०, ३, ८; आपथी ९, १, ६६; भाथी ९, १, ६६; हिथी १५, १, ६६.  
 निर-हव्य आपथी ६, १०, १; काथी.  
 निर-हस, निर्वृत्तेते षप्रा ४, ९०.  
 निर-हसित- > -तो(त-उ)पसर्ग- -यै: या २, १७, ६, ११.  
 निर-हास- -स: आपथी ६, ६, ६; काथ ३, १; २; ११; आपथ १, ६, २, १७; हिथ ४, १८; नाथि १, ५, १७.  
 निर्वृत्त-विर्वृत्ति- -द्रयो: काथ १, २४.  
 निर्वृत्त पाथा. तुदा. पर. गहने.  
 नि-लप-, निलाय नि-लता द.  
 निर्वृत्त (<र) > ह, निरलायत कौथी २५, १०: ७; नाथी ४, १९: ३३; २२: १०.  
 नि-लपि, म्, निरलायति शाथी १, १०, ३; २, १, १२; ४, २१, ८; काथ ६, ६, ६.

a) विर. 1 मस. 1 b) वर १ द. 1 c) विपयसि इति: (तु. आपथी ७, २२, ८) d) पा ८, ४, १७ पचाशः द. 1 e) ददन्ति इति B. 1 f) स्या. विर्हास: <> निर्वृत्तः इति पाठे. 1 g) पाठे, पृ १६२ h द. 1

नि-लिप्य मात्रो ६, १, २, १२.  
 नि-लिप्य- पावा ३, १, १३६;  
 -नृणाः वीथी १०, ५० : १७;  
 आपमं २, १७, २१.  
 नि-लिप्य-नामन्- -न्नः भज ३,  
 २६.  
 नि-ली, निलयते वीथी १४, २८ :  
 १०; नि(लयन्ताम्) ऋता ८,  
 ४६१.  
 नि-ल्य- > -वा(य-अर्थ- >  
 -धिन्- -र्था काण्ड ४, ४.  
 नि-ल्य-य आपथी ५, २, ४१.  
 नि-लीन- -नम् वीथी १४, २८ :  
 १०; -नैः वाय ३, ४६.  
 नि-लीन- (> -न-क- पा.) पाग ४,  
 २, ८०.  
 नि-लोप- -ये अत्रा ३, १, १८.  
 नि-च- (> -नैव्य- पा.) पाग ५, १,  
 १२४.  
 नि-यक- > -नैवकि- (> -कायन-  
 पा.) पाग २, ४, ६१.  
 नि-चक्ष- -क्षसः आपथी २०,  
 २३, १२; वीथी १५, ३८ : १४;  
 २६, ११ : २८.  
 नि-वच् > नि-वचन- > -ने-वृ  
 पा १, ४, ७६.  
 नि-वच्- -वत्सः आथी २, १४, १२१;  
 आथी; या १०, २०.  
 नि-वत्- > -नैवति- (> -वायन-  
 पा.) पाग २, ४, ६१.  
 नि-वन् > नि-वा (न्य) > -न्या-  
 -न्याम् काथी २५, ८, ८;  
 -न्यायाः काथी ४०.  
 नि-वान्या-दुग्ध- -ये काथी ५,

८, १८.  
 नि-वान्या-वत्स- -स्तम् काथी  
 ५, ६, २८.  
 नि-वच्, निवपति काथी ४, ८,  
 १८; ५, ३, १८; ४, १५×४;  
 आपथी; वीथी ९, ५ : २०;  
 वीथि ३, २, ११६; निवपतः  
 वीथी १२, १५ : १४; माथी  
 १, ७, ४, ५; वाथी १, ७, २, २०;  
 निवपन्ते वैताथी २३, १३;  
 निवपन्ति काथी १०, ८, ६;  
 २४, ६, २; वीथी १९, ३ : ३२;  
 वाथी ४, ११४ : १; जैथी  
 ६ : १; निवपानि काथी २५,  
 ८, ५; आथि ३, ११, २ : ७;  
 हि १० : ४; निवपन्तु निव  
 २, १५०; निवप आथि ३,  
 ११, २ : ७; निवपेत् आपथी  
 १८, १८, १६; २१, ११, १४×४;  
 काथी ६; निवपेरन् हि १६,  
 १, २८; निवपेयुः काथी २५, १३;  
 ४३; काथी १५८; आथी ६,  
 ३, १८; आथी २, ११, १२;  
 १०, १५, १३; आथि ३,  
 ५, ७ : १४, वीथि १, ६ : १;  
 निवपेयम् आथि ३, १२, १ :  
 २०.  
 न्यवाप्सीन् वीथी ६, २९ : १६.  
 न्युप्यते वाथी ३, ४१ : ३३;  
 निवापयते भाग २, १९ : ८.  
 नि-वपन्- -वन् आपथी ५, १, ७×४;  
 वीथी; -वन्तो या ६, २६.  
 नि-वपन- -ना वाथी १, ६, १, २५;  
 -नम् काथी ७, ७, २; आथी;

-ने आपथी २, २, २; वीथी  
 २०, ३ : २७; १६ : ५८; २१,  
 १५ : १०; २२, ४ : १.  
 निवपना (न-का) दि- -दि  
 आपथी १०, २४, १; १६, १७, १;  
 वैथी १८, १४ : १७.  
 निवपना (न-अ) न्त- -न्तम्  
 आथि ३, ७, ३ : २८; वीथि २,  
 ३, ३; हि १२ : ८.  
 नि-वप्यच्- -प्यन् वाथी १, ४,  
 २, ३, ६.  
 नि-वापिन्- पा, पाग ३, १, १३४.  
 नि-वाप्य संव १३२.  
 न्यु(नि-उ) स, सा- -सः अत्रा ३,  
 ११; -सम् आपथी २, १,  
 ८; माथी ६, १, १, २८; वैथी ४,  
 ११ : १५; -नृणां आपथी ५, ३,  
 ११; माथी १, ५, २, १२; हि १  
 ३, ३, २२; -साः आपथी १२,  
 १८, ४; -सात् वैथी १, १० :  
 ५; -सायाम् आथी १४, ३, १२;  
 आथी ५, ७, ११; -सेयु वैथी  
 १३, २ : ४; -सी वैथी १८,  
 १३ : १.  
 न्यु(नि-उ)प्य काथी ८, ८, ११;  
 काथी; आपथी ७, ७, १; न्युप्य  
 उन्प्य काथी १८, ६, ७.  
 नि-वर्त- -वृत्- प्रस. नि-वृत् द.  
 नि-वत्स (निवासे), निवपति अथ ४,  
 ६, १; ६९, ६, ५; न्यवत्स वृत्  
 ७, १४७; निवदेव ४७ ७१, १५,  
 ४; निवसेत् वैथ ३, १६ : ४;  
 विष ७१, ६४; वैथ २, ५, ८; २,  
 १४, ८.

a) विष. 1 वस. 1 b) व्यप. 1 न्यु. 1 c) वेप 1 द. 1 d) मृतवत्सा-नो- 1 गस. उप. स्मैरिण क्यन् प्र. 1  
 e) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द. 1 f) निवपति इति पाठः 1 यनि. सोषः (द. पूर्व स्थलम्) 1 g) निवपेत् इति B. 1  
 h) वषे इतिः 1 i) = निवपन-मन्त्र- 1 j) द. पाठ. पाठि. 1 नि-वापिन्- इति गारदा. 1 k) पामि. वेव 1  
 १८५४ ० द. 1 l) पामि. दृ १४२३ 1 द. 1



निवासयेत् शब्द इ३४.  
निवसत् - सत्वः या ९, १०; -सन्निः  
शब्द २६२; -सन् बाध ८, ७;  
विध ५१, ६६; ६७, ३४; -सन्त्वम्  
या ५, ९; १०, १२.  
निवसन्तो - न्स्या या १०, २१.

नि-वास<sup>१</sup> - पाग ४, ४, १०२; ८,  
४, ३९; -सः शब्द २६२; पा  
४, २, ६९; ३, ८९; -सात् वृद्धे  
१, २५, २९; या १०, ४४; ११,  
४५; -से अप ४८, २८, पा ६,  
१, २०१.

नैवासिक - पा ४, ४, १०२.  
निवास-कर्मन्<sup>२</sup> - कर्मणः या २,  
६; १०, १४; १६.

निवास-विति-शरीरो(र-उ)पस-  
साधान - नेपु पा ३, ३, ४१.

निवास-नामन् - म या ३, ३.  
निवास-रक्षण - षा पावा ४,  
२, १३८.

निवास-विषय - क्षायाम् पावा  
४, २, ५२.

निवास-विषय-त्व - न्वात् पावा  
४, २, ५२.

नि-वासिन् - पा, पाग ३, १, १३८.

नि वस् (वाच्यार्थे), विवस्ते काथी  
१५, ५, १२.

नि वस् (नि वस्) शब्दो १२,  
१६, १९.

नी (<नि) वाह - हस्य वाथी ३,  
१, २, १४.

नि वस्

निवासि<sup>३</sup> - (> नैवास्वि-पा.) पाग  
४, १, १६.

नि-वात - उम् काथी २५, १०,  
२४; -नृते आपथी ९, १०, ६;  
माथी १, ६, ४, २१; वाथी १,  
५, ५, ७; वैथी.

रनिवात - (> निवातक - नैवातायन -  
पा.) पाग ४, २, ८०.

नि-वात्या - प्रम्. नि वस् द.

नि-वापिन् - ष्य - नि वस् द.

निवायिन् - निवायिन् - टि. द.

नि-वात्प्रा<sup>४</sup> - क्त, षितुम् नि वस्  
(प्रतिषोते) द.

निवावरी<sup>५</sup> - री<sup>१</sup> ऋम २, ९, ८६;  
-री<sup>२</sup>: साम १, ५६०; २, ३८२;  
३८३.

निवास ( = नि वस् (वैप द.) )  
पापा. चुरा. उभ. आच्छादने.

रनिवास - (> न-क् - पा.) पाग  
४, २, ८०.

निविच्ययान - ना: वीथीप १७:  
१०.

नि विद् (ज्ञाने), निवेदयते वीथी  
२, ९: ११; वीथ: निवेदयति  
आमिथ २, ५, ११: १८xx; वीथ:  
निवेदयते हिमि १८: २: ७; ९;  
निवेदयामि त्रय ४०, २, ९;  
निवेदयेत् आथ ४, ७, २७:  
वीथ ३, १४, ८; शण्ड: निवेदयेयु:  
वैथी २, १० - १९.

नि-विद् - विन् काथी ८, ७, १;  
११, २, ५; काथी २९, ७, ४; अप  
४८, १०२९; निष १, ११९; या  
७, ३३, २४; -विस् आथी ४,  
१, १३; वृद्धे ८, १००; -विद:  
आथी ५, ९, १६; ६, ६, १०xx;

शथी; -विद: ५-विद: शथी  
८, ७, ७; - विदम् आथी ५, ९,  
१२; १४, २०xx; शथी; -विदा  
शथी १८, ९, ७; -विदाम् आथी  
५, ९, १९; वृद्धे ८, १०४; -विदि  
वृद्धे ३, ५०; ७८; -विदे आथी  
६, ३, १८; शथी ७, २१, ८; ९,  
६, १७; १८, २१, ३; -विदि  
शथी १६, ८, ५.

निविच्छं (<शं) सम् शथी  
१०, ६, १३; १२, १७, ३; २१,  
६.

निविद्-पान - नम् आथी ७,  
७, ६; शथी १४, ५३, ७; ५४,  
४; -नयो: आथी ९, ३, २२;  
-नस्य शथी १४, २१, २;  
-नानाम् शथी ११, ३, ३; १२,  
९, ३; छुम् १, ८: २२; -नानि  
शथी १४, ४५, २; १५, १०, ६;  
-ने आथी ८, ७, २१; १०, ५-  
२२; शथी.

निविद्धानीव, या - यम्  
शथी १२, ८, ९; -या शथी  
१८, ९, ४; -यात् शथी १२, ८,  
६; -यानाम् आथी ५, १०, १६.  
निविद्-वर् - र: शथी ७,  
२१, ९.

निवेदन - नम् अप २, १७, ११;  
हिध २, ५, ४०; -नानि वीथ ३,  
३, २३; -ने अप ४०, २, ९.

नि-वेदिका वा शण्ड २, ६, ७; पाण्ड २,  
५, ८; वीथ ४, १९, २; अप ११,  
१, १२.

नि-वेदित - तम् अप २०, ५, ६;

a) उर. भाग्यर्थे घञ् प्र. । b) विप. । नन. । c) पा ८, ४, १७ परावृत्ते: द. । d) पामि.  
वेप १, १८२९ d द. । e) नाप. । f) सम. आथी १८, १३, ९ परितोनाम् इति पामि. । g) व्यप. ।  
न्यु. । h) निवासि - इति पागा. । i) परस्परं पामि. । j) वेप द. । k) सम. उप. = २दक्षिणा-  
(तु भाष्यम्) ;

वाध ११, २५; वीध २, ८, १४.  
नि-वेद्य आसिष्ट १, ७, १: १३; ३,  
११, २: २; वाद्य.  
नि-वेद्य<sup>०</sup> > नि-वेद्य- चम् आसिष्ट  
२, ४, १०: ३९; शंघ १९१; विध  
६५, १३; -घै: कप्र १, १, १४.  
नि-वेद्या(य-घ)र्ध- -र्धे विप  
६६, १२.

नि/विध्य (<व्यध्), निविध्यति  
कौसू ४४, १३; निविध्य कौसू  
२५, २४†; ऋन्वाविध्यत् या ६,  
१९६; ऋप्रा २, ७६; उस् २, १.

नि/विद्यु<sup>०</sup>, निविद्यन्ते वीथी १९,  
१०: २०†; निविद्यताम् वीथी  
२, ५: २६†; निविद्यतात्  
आसिष्ट २, ४, ५: १८†; निवि-  
द्याध्वम् आद्य २, १०, ६;  
न्यविद्यन्त या ५, २५†; निवि-  
द्येत वाध २०, ७-९; निविद्येत  
वाध २०, १०.  
निवेश्य आपमं २, १७, १३†;  
निवेशयेत् कप्र ३, २, ३; वृदे २,  
१००; नाशि २, ६, नाशि १, ६,  
९; २, २, १२.

नि-विद्य लार्थी १०, १५, १३; हिय.  
नि-विद्य, घा- ऋँटः आथी ३, ८, १;  
शाथी, -ऋँटम् वीथी २, १:  
११; आसिष्ट १, ५, २: १३;  
जैय २, १: १९; -घा: आपमं  
१, ३, ४†; सु २६, १; -घे  
वैद्य ५, १: १४; विध ९९, २०;  
-ऋँटौ<sup>०</sup> आपथी ११, ५, ३;  
वैथी १४, ४: १४.

निविद्य-घ(क) > का<sup>०</sup> - क्का  
आद्य १, १४, ७.

नि-विद्यि- -घवै पाय १, ४, १६.  
१नि-वेद्य- पाग ८, ४, ३९;  
-दा: मौसू ४, ४, ३४; १०, ८,  
६४; -शम् कौसू १३५, ९†;  
-शान् मौसू ३, ३, ७; १०, ५,  
१७; -क्षे<sup>०</sup> आपघ १, १३, १९;  
२३; हिय १, ४, ३२; ३५.  
१नि-वेद्याव<sup>०</sup> - ऋँनः काथी १७, २,  
५; आपथी १६, १६, ५; वीथी.  
१नि-वेद्यानी<sup>०</sup> - नी आपथी १६,  
१७, १७; वीथी २, २१: ७;  
वाथी १, ४, ४, ४१; हिथी ११, ९,  
२१; आपमं २, १५, २; १८, ८;  
भाय २, २: १७; ४: १४; हिय  
२, १७, १; या ९, ३२.

२नि-वेद्यान्त<sup>०</sup> - नम् आथी २, १२,  
२†; आद्य २, ३, २†; ३, ३;  
४, ६, ७; पाय; -नस्य वाध १५,  
६, -ने शाथी ८, २१, १†  
निवेशन-दार- -रे पाय ३, १०,  
२४; आसिष्ट ३, ४, ४: २२.

नि-वेदिद्य- पा, पाग ३, १, १३†.  
नि-वेद्य वेश २, ६: ११, ९ ७;  
५, १३: १७; वैध.

नि-वी(वि/ई)श् > निवी (वि-ई) इय  
वेश ३, ६, १०.

नि-वीत-, -तिन्-प्रत्य. नि/व्ये द.  
नि/वृ(प्रतिपाते), निवारय आपमं २,  
९, ५; निवारयेत् अप ६५, २,  
११.

नि-वारयां/क, निवारयांकार या

२, १६.

नि-वारयितुम् विध २०, ४६.

नि/वृ(भोजने) > नी (<नि)-वार-  
पा ३, ३, ४८; -रा: वीथी २४,  
५: १७; लुप्रा ३, १०५, ५, १७;  
-रै: विध ८०, १.

नैवार- र: शाथी १५, २, १३;  
काथी १५, ४, ९; वाथी ३, ३,  
४, ३; -रम् काथी १४, ४, ११;  
आपथी; -रस्य वाथी ३, १, २,  
३१; -रे आपथी १८, ४, १;  
-रेण काथी १४, ५, १९; आपथी  
१८, ६, १०; वाथी ३, १, २, ३०;  
वैथी १७, १६: ७, हिथी १३,  
१, २५.

नैवार-गोप- -ग: आपथी  
१८, ७, ९; हिथी १३, २, ३८.

नैवार-चह- -रु: काथी १४,  
३, २६.

नैवार-स्विद्यकृद्-इ(डा) > -  
इ- -इम् काथी १४, ५, २८.

नि/वृत्, निवृत्पक्षि, नि/वृत्पक्षि या  
५, १६†; ऋन्वावृत्णक् ऋप्रा २,  
७६; उस् २, ३; ८, १६; १७;  
ऋँनः आपथी २, ७५.

नि/वृत्, निवर्तने आथी १, १४,  
८४; हिथी; आपघ १, २, ९†;  
निवर्तने माथी ६, १५, ६; दाथी  
३, ४, ३३; लाथी १, १२, १९;  
निवृ; निवर्तत् शंघ २६७†; १०;  
निवर्तताम् वृदे ५, ६१; ऋँनः  
तस्व माथी १, ६, ५, १०†; १२;  
४, ४, २१; ३; वाथी १, ५,

a) = निवेदीय-प्रत्य-। b) पा १, ३, १७ परावृष्टः द.। c) पाने. वैप १ परि. न्युध्यतु टि. द.।  
d) पाने. वैप १, ३२५ b द.। e) विप.। वस.। f) = दार-धर्म-। g) वैप १ द.। h) पाने.  
वैप १, १८३० k द.। i) छः पागम.। j) सुव-नोप- इत्यनेन स-न्यायता द.। k) कञ. > तनाहारे  
द्रव.। l) पाने. घृ १४२५ k द.। m) निवर्तत् इति पाठः १ यनि. शोधः। n) पाने. वैप १,  
१८३१ m द.।

निवासयेत् शेष ३२४. -  
 निवसत् - सटः या ९, १०; -सटिः  
 शेष २६२; -सत् वाध ८, ७;  
 विध ५१, ६६; ६७, ३४; -सन्त्वम्  
 या ५, १; १०, १२.  
 निरसन्तो - स्व्या या १०, २१.  
 नि-नाम् - पाग ४, ४, १०३; ८,  
 ४, ३१; -सः शेष २६२; पा  
 ४, ३, ६९; ३, ८९; -सान् वृद्धे  
 १, ३५, २९; या १०, ४४; ११,  
 ४५, -से रूप ४८, २८, पा ६,  
 १, २०१.  
 नैवासिक - पा ४, ४, १०३.  
 निवाम-कर्मन्<sup>१</sup> - सैणः या २,  
 ६; १०, १४; १६.  
 निवास-चिति-नारीतो (१-उ) पस-  
 मायान् - नेपु पा ३, ३, ४१.  
 निवाह-नामन् - म् या ३, ३.  
 निवास-लक्षण - णा. पावा ४,  
 २, १३६.  
 निवास-विवक्षा - क्षायाम् पावा  
 ४, २, ५२.  
 निवास-विषय-त्व - यवात् पावा  
 ४, २, ५२.  
 निवासिन् - पा, पाग ३, १, १३६.  
 नि वस् (आच्छादने), निवस्ते काश्री  
 १५, ५, १२.  
 नि वस्<sup>२</sup>, नि वस्<sup>३</sup> काश्री १२,  
 १६, ११.  
 नो (< नि) वाह<sup>४</sup> - हस्य वाधो ३,  
 ३, १, ५६.  
 नि वस्<sup>५</sup>  
 निवाहु<sup>६</sup> (> नैवाहु-पा.) पाग  
 ४, १, १६.

नि-व्यात् - तम् काश्री २५, १०,  
 २४; -यते आश्री ९, १०, ६;  
 माश्री १, ६, ४, २१; वाधो १,  
 ५, ५, ७; वैश्री.

रनिवात् (> निवात्क, नैवावायन-  
 पा.) पाग ४, २, ८०.

नि-वान्या - प्रयु. नि वस्<sup>७</sup> द.

नि-वापिन् - प्य- नि वस्<sup>८</sup> द.

निवापिन् - निवापिन् - टि. द.

नि-वारयां वृ, पितुन् नि वृ  
 (प्रतिपाते) द.

निवायरी<sup>९</sup> - री<sup>१</sup> षम २, १, ८६;  
 -री<sup>२</sup>: साम १, ५६०; २, ३८२;  
 ३८३.

निवात् (= नि वस्<sup>१</sup> वृ द.)  
 पाया. भुरा. उभ. आच्छादने.

रनिवास - (> वस्-पा.) पाग  
 ४, २, ८०.

निविच्छायान् - नाः वीश्रीप १७:  
 १०

नि विद् (ज्ञाने), निवेदयते वीश्री  
 २, १: १४; वीष्ट, निवेदयति  
 आश्री २, ५, ११: १८ x x; वीष्ट;  
 निवेदयन्ते हिनि १८: २, ७, ९;  
 निवेदयामि अय ४०, २, ९;  
 निवेदयत् आश्री ४, ७, २७;  
 वीष्ट ३, १४, ८; वीष्ट; निवेदयेयुः  
 वैश्री २, १०: ११.

नि-विद्<sup>१</sup> - विन् काश्री ८, ७, १;  
 ११, २, ५; काश्री १९, ७, ४; अय  
 ४८, १०२१; निप १, १११; या  
 ७, ३३; २४; -विस् आश्री ४,  
 १, १३; वृद्धे ८, १००; -विद्:  
 काश्री ५, १, १६; ६, १, १० x x;

वाश्री; -विद्, ५-विद्: काश्री  
 ८, ७, ७; -विद्म् आश्री ५, ९,  
 १३; १४, २० x x; वाश्री; -विद्  
 काश्री १८, ९, ७; -विद्म् आश्री  
 ५, ९, १९; वृद्धे ८, १०४; -विदि  
 वृद्धे ३, ५०; ७८; -विदे काश्री  
 ६, ३, १८; वाश्री ७, २१, ८; ९,  
 ६, १७; १८, २१, ३; -विदे<sup>२</sup>  
 वाश्री १६, ८, ५.

निविच्छं (< वं) सम् वाश्री  
 १०, ६, १३; १२, १७, ३; २१,  
 ६<sup>३</sup>.

निविद्-धान - नम् आश्री ७,  
 ७, ६; वाश्री १४, ५३, ७; ५४,  
 ४; -नयोः आश्री ९, ३, २३;  
 -नस्य वाश्री १४, २१, २;  
 -नामम् वाश्री ११, ३, ३; १२,  
 ९, ३; छुम् १, ८: २२; -नानि  
 वाश्री १४, ४५, २; १५, १०, ६;  
 -ने काश्री ८, ७, २१; १०, ५,  
 २२; वाश्री.

निविद्धानीय, या - यम्  
 वाश्री १२, ८, ९; -या वाश्री  
 १८, ९, ४; -यान् वाश्री १२, ८,  
 ६; -यानाम् वाश्री ५, १०, १६.  
 निविद्-वर<sup>४</sup> - रः वाश्री ७,  
 २१, ९.

नि-वेदन - नम् आप २, १७, ११;  
 दिप २, ५, ४०; -नानि वीष्ट ३,  
 ३, २३; -ने अय ४०, २, ९.  
 नि-वेदयिवा वाश्री २, ६, ७; पाग २,  
 ५, ८, वीष्ट ४, १२, २; अय ११,  
 १, १२.

नि-वेदित - तम् अय २०, ५, ६;

a) उर. भारापर्ये षम् प्र. । b) विच. वस. । c) पा ८, ४, १७ परामृष्टे द. । d) पाने.  
 वे १, १८२९ d. द. । e) नाप. । f) सय. आश्री १८, १३, ९ पतिनदीनाम् इति पाने. । g) व्यप. ।  
 खु. । । h) निवाहु- इति पादा. । i) परस्परं पाने. । j) वेप १ द. । k) सम. उप. = २दक्षिणा-  
 (व. भाष्यम्) ।

वाच ११, २५; वीच २, ८, १४.  
नि-वेद्य आसिष्ट १, ७, १: १३; ३,  
११, २: २; वाच.

नि-वेद्य- > नैवेद्य- चम्प आसिष्ट  
२, ४, १०: ३९; रांध १२२; विष  
६५, १३; -वे: कप १, १, १४.  
नैवेद्या(स-प्र)थे- -थे विष  
६६, १२.

नि-विष् ( <व्यष् ), निविष्यति  
कीत् ४४, १३; निविष्य कीत्  
२५, २४; ऋष्याविष्यत् या ६,  
११; ऋष्या २, ७६; उत् २, १.

नि-विष्, निविशन्ते वीथी १२,  
१०: २०; निविशताम् वीथी  
२, ५: २६; निविशतात्  
आसिष्ट २, ४, ५: १८; निवि-  
शत्वम् आत् २, १०, ६;  
न्यविशन्त या ५, १५; निवि-  
शेव वाच २०, ७-९; निविशेत्  
वाच २०, १०.

निवेदाय आपमं २, १७, १३;  
निवेदायेत् कप ३, २, ३; वृदे २,  
१००; माशि २, ६, नाशि १, ६,  
९; २, २, १२.

नि-विश्य लाथी १०, १५, १३, हिष्ट.  
नि-विष्ट, शा- ऋष्या ३, ८, १;  
शशी, ऋष्या वीथी २, १:  
११; आसिष्ट १, ५, २: १३;  
जैष्ट २, १: १९; -शा: आपमं  
१, २, ४; सु २६, १; -ष्टे  
वैष्ट ५, १: १४; विष्ट ९९, २०;  
-ष्टी आपमं ११, ५, ३;  
वैथी १४, ४: १४.

निविष्ट-व(क) > का- -का  
आत् १, १४, ७.

नि-विष्टि- -थै पाट १, ४, १९.  
नि-वेसा- वाच ८, ४, ३९;  
-सा: मीत् ४, ४, ३४; १०, ८,  
६४; -साम् कीत् १२५, ९; -  
-सात् मीत् ३, ३, ७; १०, ५,  
१७; -शे आपमं १, १३, १९;  
२२; हिष्ट १, ४, ३३; १५.

नि-वेसान- ऋष्या: काथी १७, २,  
५; आपमं १६, १६, ५; वीथी.  
निविशनी- -नी आपमं १६,  
१७, १७; वीथी २, २१: ७;  
वाथी १, ४, ४, ४१; हिथी ११, ६,  
२१; आपमं २, १५, २; १८, ८;  
भाट २, २: १७; ४: १४; हिष्ट  
२, १७, ९; या ९, ३२.

नि-वेसान- -नम् काथी २, १२,  
२; आत् २, २, २; ३, ३;  
४, ६, ७; पाट; -नस्य वाच १५,  
६; -ने काथी ८, २१, १; -  
निवेशन-द्वार- रे पाट ३, १०,  
२४; आसिष्ट ३, ४, ४: २२.

नि-वेसिन्- पा, वाच ३, १, १३४.  
नि-वेद्य वैष्ट २, ६: ११; ९: ७;  
५, १३: १७; वंध.

नि-वी(वि-ई) > मिथी (वि-ई) द्वय  
बंध ३, ६, १०.

नि-धीत- , नि-प्र- नि-व्ये द.  
नि-वृ(प्रतिपाले), निवारय आपमं २,  
९, ५; निवारयेत् अत्र ६५, २,  
११.

नि-वारयां/ठ, निवारयांचकार या

२, १६.  
नि-वारयितुम् विध २०, ४६.

नि-वृ(भोजने) > नी( <नि) -वार-  
पा ३, २, ४८; -रा: वीथी २४,  
५: १७; सुया ३, १०५, ५, ३७;  
-रे: विष ८०, १.

नैवार- -रा: काथी १५, २, १२;  
काथी १५, ४, ९; वाथी ३, ३,  
४, ३; -रम् काथी १४, ८, ११;  
आपमं; -रस्य वाथी ३, १, २,  
३१; -रे आपमं १८, ४, १;  
-रेण काथी १४, ५, १९; आपमं  
१८, ६, १०; वाथी ३, १, २, ३०;  
वैथी १७, १६: ७; हिथी १३,  
१, २५.

नैवार-गोप- -य: आपमं  
१८, ७, ९; हिथी १३, २, ३८.

नैवार-चर- -रु काथी १४,  
१, २६.

नैवार-स्विष्टकृद्-द्र(डा) > -  
ड- -डम् काथी १४, ५, २८.

नि-वृत्, निवृणक्ति, नि-वृणक्ति या  
५, १६; ऋष्यावृणक् प्रया २,  
७६; उत् २, ३; ८, १६; १७;  
नि-वृत्, निवर्तने आपमं १, १४,  
८४; हिथी; आपमं १, ३, ९;  
निवर्तन्ते माथी ६, १५, ६; दाथी  
३, ४, ३३; लाथी १, १२, १६;  
निम्, निवर्तत् काथी २६, ७, ७;  
निवर्तताम् वृदे ५, ६१; ऋष्या-  
रस्य माथी १, ६, ५, १०, १२;  
४, ४, २१: ३०; वाथी १, ५,

a) = निवेदनीय-द्रव्य-। b) वा १, १, १७ पराष्टः द.। c) पामे. वैष १ पति. न्युच्यत् द्वि. द.।  
d) पामे. वैष १, १८३५ b द.। e) विप.। वस.। f) = दार-वर्मन्-। g) वैष १ द.। h) पामे.  
वैष १, १८३० k द.। i) द्र: पागम.। j) धुव-गोप- इत्यनेन तन्वावाता द.। k) कप. > समाहारे  
द्रव्य.। l) पामे. वृ १४२५ k द.। m) निवर्तत् इति पाठः १ पति. कोषः। n) पामे. वैष १,  
१८३१ m द.।

१, १२<sup>३</sup>; द्राघी २, १, ११<sup>३</sup>; लाघी ३, ५, ११<sup>३</sup>; वृताघी २८, २१; कौसु ७२, १४; निवर्तं सु ८, ३; ४; निवर्तंश्चम् शीघ्री ७, १६, १०; ७, ६, ८; कौसु ५, ६, १; ऋष २, १०, १९; वृदे ७, २०; न्यवर्तं वृदे ५, ६०<sup>३</sup>; निवर्तंत्त माघी २, २, ५, १; ५, २, १२, ४६; १५, ३३; द्विघ्री; निवर्तंत्त माघी १३, २४, १७; द्राघी ६, १, १९; २, २२; लाघी २, ९, १६; १०, २१; पाण्ड ३, १०, ३२; वैशु ५, ६: ३.  
निवृत्त बोधो ११, ७: ३९.  
निवर्तयते आपधो ८, ४, २; बोधो; नि० वर्तयते आपधो ८, ९, १, बोधो; निवर्तयति शीघ्री ९, १, ३; आपधो; निवर्तयति बोधो १५, २२: ११; निवर्तये आपधो ८, ४, २; बोधो, निवर्तयामि काधो ५, २, १७; आपधो ८, २१, १; बोधो; निवर्तये माधो १, ७, २, २३†; नि० वर्तये बोधो १४, १४: १८†; निवर्तयन् माधो १, ७, ८, ८†, न्यवर्तयन्<sup>३</sup> आपधो ८, २१, १; बोधो ५, १८: २१, द्विघ्री ५, ६, ४; निवर्तयित आपधो २, १६, २३; निवर्तयेत् बोधो २८, ८: १३†, निवर्तयेत् वैधो १७, १८: १०; वैशु ३, २२: ८; अप २६, २, ८; आपध १, ४, २७; द्विघ १, १, १४६;

निवर्तयेत्त आसिण्ड ३, ६, २: २; बोधि १, ९: १२.  
न्यवर्तयत्<sup>३</sup> आपधं २, २२, ९; भाण्ड २, २७: २.  
निवर्तं- -तः आपधं २, २२, ९<sup>३</sup>; द्विघ १, १४, ४<sup>३</sup>.  
निवर्तक- -कः पावा १, ३, ११.  
निवर्तकत्व- -स्वात् पावा १, १, १; ४८×४.  
निवर्तन- -० नून बोधो १४, १४: १८; आपधं २, २२, ७; -नम् काधो १५, ८, २४, आपधो; या ७, १४†; -नाति बोध ३, २, २<sup>३</sup>; -ने बोधो २१, २: ८; आपधं २, २२, ८†; बोध ३, ५, १८†; -नेन बोधो २१, २: ८-१०.  
निवर्तकमन्त्र- -मन्त्रः वैधो ८, १४: ९; ९, १२: १५.  
निवर्तमान- -नाः कौसु ९४, १४, ९५, ३.  
निवर्तयित्पयमाण- -णः काधोत्तं ३०, ४.  
निवर्तय वैधो १४, १०: ३.  
निवर्तयमान- -नम् बोधो १४, १४: १७.  
निवृत्त, त्ता- -त्ताः शीघ्री १२, २२, २१†; आपधो २४, ४, १; द्विघ्री ३, १, २२; भाण्ड २, २७: २१†; ३, २०: १; बोध ७, ७, १; आसि ८, ७; -त्तम् आधो १, १२, ३४; लाघो १०, १०, ११; आपध १, ८, ३०; द्विघ १, २, ११८; -त्ताः आपध ६, २; वाध

६, २५; -त्ते कौसु १, ११, १; शाय १, १८, २; बोधि ३, १०, १०<sup>३</sup>; कौसु ३५, ७; गीध २८, २.

निवृत्त-त्व- -स्वात् पावा ६, १, ६८; ७, २, ५९.

निवृत्त-धर्म-कर्मन्- -र्मणः वाध २१, १६.

निवृत्त-शराव-संपात- -त्ते बोध २, ६, २४.

निवृत्ता(त्त-त्र)षिकार(७)त्त- -नाम् शंघ ३३४.

निवृत्ता(त्त-आ)तिष्ठ- -शीः बोध ३, १६.

निवृत्ति- -त्तये भासि १; -त्तिः आपधो १२, ८, २; काधो २२, २, १५; लाघो १०, ४, २; १०, १२; ऋष; -त्तिम् लाधो १०, ३, २१; मीसु ९, २, १४; -त्तेः आपध १, ८, २९; द्विघ १, २, ११७; मीसु १०, ३, ३३; -त्ती कौसि १७; पावा ६, १, २.

निवृत्ति-कर्मन्- -र्मं या २, १३.

निवृत्ति-दर्शन- -नात् मीसु ३, ७, १२.

निवृत्ति-स्थान- -नेषु वा २, १.

निवृत्त्य(त्त-त्र)र्ष- -र्षम् पावा १, ३, ६७; ७, १, १६; २, ४४<sup>३</sup>.

निवृत्त्या(त्त-आ)वार-भेद- -दात् वैध १, १०, १.

निवृत्त्य वाधो २, १, ३, ३६; ४, २७; कौसु ४७, ४४.

नी(<नि)-वृत्- -पात्रम् ३, ३, १०८.

a) पाधे. वैशु १, १८३१ म द.। b) पाधे. वैशु २, ३६. न्यवर्तयन् तेसा १, ५, ५, ६ टि. द.। c) सपा. न्यवर्तयत् <> न्यवर्तयत् इति पाधे.। d) वैशु १ द.। e) सपा. निवर्तः <> निवृत्तः इति पाधे.। f) वैशु १ निवर्तयोः सनावेसा द.। g) पाधे. वैशु १, १८३१ ण द.। h) निवृत्ते इति म.। i) विप.। वस. > इत्.। j) विप.। वस. > पस.। k) विप.। वस.। l) तु. पागम.।

†नि-शुष्म<sup>०</sup>-ष्मः बीभी ३, १८ :  
 १; माथी ४, १२, ७.  
 †नि-शुष्म<sup>०</sup>-श्माः अण ४८, ११५;  
 निष ४, ३; या ६, ४.  
 नि/शो<sup>०</sup>, निशयि या ४, १८.  
 निश्व<sup>०</sup> > निश्व-श्वच-, निश्व-प्रच-  
 पाग २, १, ७२<sup>१</sup>.  
 नि(म्)श्/चइ, निः...चर्चरीति  
 शाभी १२, १५, ११<sup>०</sup>.  
 निश्व-नश्व-नश्वत् माथी १, ८,  
 ३, ३<sup>१</sup>.  
 नि(म्)श्-चल, ला- -लाम् अण  
 ३६, ६, २; -ले विव १, १३.  
 नि(म्)श्/चि<sup>०</sup> > निश्व-चप- पा  
 ३, ३, ५८; -यः वैथीका २९;  
 ८८; अण १, ६, ११; २, ७, ८;  
 वाच ६, १, वीथ २, २, ६८;  
 पाठा १, ४, ५१, -यम् अण  
 २, १, ५, ७०<sup>१</sup>, २३, ७; विष १,  
 २१, नाशि १, १, १; -ये अण  
 ७०, १२, १; -येन या ७, २०,  
 १४, ३३  
 निश्व-लिङ्ग<sup>०</sup> -ङ्गः या १४, ३.  
 निश्व-विन- -नः अण ७१, १४, ५;  
 अण ८, १; अणम् ८, -नम्  
 अण ७०, ११, १; विष ९३, १४;  
 अण ३, ३९; -गाः अण ५, ४;  
 -ती अण ५, १९.  
 निश्व-विष्य अण ३१, ३, ३  
 नि(म्)श्/चूप > निश्व-चूप्य  
 माथी ५, १, ९, ९  
 निश्व<sup>०</sup> (> नैह्य- वा.) पाग ५,

१, १२४.  
 नि/श्व, निः...निश्वनपत् या ११,  
 ४७<sup>१</sup>.  
 नि/श्वै > नि-श्वान- -नः शाभी  
 १५, २१, १.  
 नि/श्व > नि-श्वय > श्व-  
 हारिन्<sup>१</sup> -रिणः या ६, ४.  
 नि/श्व, निश्वयन्ति आतिथ २, ५,  
 ८ : ८.  
 नि/श्वि > नि-श्वय (श्)णी-  
 -नीम् काथी १४, ५, ५.  
 नि-श्वयमाण- -णः बीभी ७, ११ :  
 ५; १३ : १४, १६ : ५; ६; ४१.  
 नि/श्व > नि-श्वविन्- वा, पाग  
 ३, १, १३४.  
 नि-श्वेणि<sup>०</sup> -श्वया आपथी १८, ५,  
 १३<sup>१</sup>.  
 नि/श्विप्, निश्वेयतः भाथी ८,  
 ६, ७.  
 नि-श्वेय्य आपथी ८, ६, १२.  
 नि/श्वस्, निश्वसन्ति अण ७०<sup>१</sup>,  
 ३०, १; वाशि २, ६६.  
 नि-श्वसन् -सति अण ७२, १, ५.  
 नि-श्वस- -सः वाशि १, ७४.  
 निश्वय ज- -जाः अण ५२,  
 १२, ३.  
 नि(म्)श्/शद्, †नि.शोयनाम्  
 कौम् ८५, २०; ८६, ९.  
 नि-शोयमान- -नम् कौम् ८५,  
 २०; -ने कौम् ८३, ४; -नेन  
 कौम् ८६, ९.  
 नि(म्)श्/शब्<sup>०</sup> -शब्दाः अण ६८,

१, २६.  
 नि(म्)श्/शेप- > श्व-कृ- -कृत्  
 विष ६८, ४४.  
 नि(म्)श्/श्लथ्, निरनिश्वयत् या  
 ११, ४७.  
 नि(म्)श्/श्रेणि<sup>०</sup> -पाठो २, १,  
 २०८; -श्वया हिथी १३, २, ४<sup>१</sup>.  
 नि(म्)श्/श्रेयस्- वा ५, ४, ७७;  
 -सम् हिथी ३, १, १; आपथ  
 १, १, ८; हिष १, १, ८; गौथ  
 ११, २८.  
 निःश्वयस-शुद्धि<sup>०</sup> -द्धिः हिथी ३,  
 १, ५.  
 नि(म्)श्/श्वस् > निःश्वय वैथ  
 १, ३ : १४.  
 नि/श्व<sup>०</sup> पाषा. भा. पर. सेचने.  
 नि/श्व (<स)श्/श्व > नि-श्व<sup>०</sup> -  
 श्व-वि- पाठ ४, ८७.  
 †निषयिन्- -ङ्गिणः शाभी १६,  
 १, १६; पाण २, १७, १३;  
 -†-ङ्गिण. पाण २, १० : ४;  
 हिथ २, ९, २; ५; -ङ्गिणाम्  
 वाधुथी ३, ७९ : ७; -ङ्गिणे  
 आपथं २, १८, ४५<sup>१</sup>, ४६;  
 भाण २, १० : ५; हिथ २, ९, ६;  
 शुभा ५, ३७; -०ङ्गिन् आथं  
 २, १८, ४५<sup>१</sup>; -†ङ्गिभ्यः भाण  
 २, १० : ४; हिथ<sup>१</sup> २, ९, २, ५.  
 निषयज्वत्- -ज्वतः अण १, ३२, ८.  
 नि-षण्ण-, षत्- प्रथ्, नि/पद् द.  
 नि/श्व (<स)द्, निषद् > दा ऋशा  
 ८ ६<sup>१</sup>.

a) वैष १ द. 1 b) पा ७, ४, ४१ पराशुष्टः द. 1 c) अर्थः व्यु. च ? 1 d) तु. पागम. 1 e) वैष १, १८३ द. 1 f) पाणे. वैष १, ६३० b द. 1 g) पा. ज्ञाने शक्तिः 1 h) तिप. 1 बस. 1 i) पूष. = ऋषिभिरा-यति- इति दु. 1 j) = शोणानपहिक- 1 उर. करणे प्र. 1 k) = निश्वयणी- 1 बस. (तु. अभा.) 1 l) निश्व इति पाठः ? यानि. शोथः (दु. सन. हिथी १३, २, ४ निःश्वेया इति पाणे.) 1 m) = निश्वेणि- 1 n) मलो. कव. 1 o) तु. BFG 1 p) पा ८, ३, ६५ पराशुष्टः द. 1 q) सपा. निषङ्गिणः <> निषयिन् इति पाणे. 1 r) सपा. ऋषिे <> ऋषिभ्यः इति पाणे. 1 s) पा ८, ३, ६६, ११८ पराशुष्टः द. 1

निपलितः ऋप्रा ५, १२१; ऋनि...  
 सलित काश्री २५, ११, ३४;  
 ऋप्राय २, ७; ऋप ४६, ३, ५.  
 निपीदति शाश्री १२, १५, ३१<sup>३</sup>;  
 ऋश्री १४, २३: ३; ४<sup>३</sup>; ७<sup>३</sup>;  
 ९; वाधुश्री; निपीदन्ति ऋप  
 ७०<sup>३</sup>, ७, २५; ७०<sup>३</sup>, ८, ५; नाशि  
 १, ५, १९; ऋनिपीदति आश्री  
 १, १२, ३४; २, ११, १; शाश्री  
 ३, २०, ३; आपश्री; ऋनिपी-  
 दन्तु<sup>३</sup> शाश्री ८, ११, १५;  
 आपश्री ९, १७, १; द्विथी;  
 ऋनिपीदन्तु<sup>३</sup> पाण्ड १, ८, १०;  
 आश्रित १, ५, ४: ५०; ६, ३:  
 ४२; माण्ड; ऋनिपीद आपश्री  
 २४, १२, १०; द्विथी ११, ५, ४०;  
 नि...लोद शाश्री ३, १४, १२१<sup>३</sup>;  
 ऋनिपीदत आश्री ६, ४, १०<sup>३</sup>;  
 वाश्री ९, १६, १०<sup>३</sup>; वैताश्री ३९,  
 ७<sup>३</sup>; अत्राय; न्यसीदत् आश्री ३,  
 १३, १२<sup>३</sup>; निपीदेत वैण्ड ३, ५:  
 ६; निपीदेत् ऋप्राश्री ९, ५, २;  
 १७, ७; बीश्री.  
 ऋनिपसाद > दा काश्री १५, ७,  
 ४; १२, ४, ९; आपश्री; या ११,  
 २८; निपेदु; या १३, १०<sup>३</sup>; वि  
 (सेदु): शाश्री १८, ९, ४<sup>३</sup>; ऋनि...  
 सरत्तव आपश्री २४, १२, ३;  
 ऋप्रा ५, १२; नि...असदत् द्विथी  
 २१, १: २; ऋनि(असदत्) आश्री

२, १७, १०; ४, १३, ७; आपश्री;  
 नि...सदत्तव या ८, ११<sup>३</sup>;  
 ऋन्यपद<sup>३</sup> आपश्री १, ५, २; १७,  
 ७; शीश्री २८, ६: ७; द्विथी १५,  
 ८, ३; ऋन्यपद<sup>३</sup> शाश्री १३, २,  
 ५; निपद: ऋप्रा २, ४६<sup>३</sup>;  
 नि...सदत्त > ना शुप्रा ३,  
 १२९<sup>३</sup>; न्यपदास तैप्रा ६, २<sup>३</sup>;  
 नि-पण, ण्या- -ण: कुरे ५, २०;  
 माशि ४, ४; -णम् या ३, ८;  
 -ण्णा विध १, ६४; -ऋणाय  
 शुप्रा ३, ८६; ६, २६; तैप्रा २३,  
 १४; -ण्ये आपश्री ९, १७, ८;  
 माश्री ३, ५, १२; द्विथी १५,  
 ८, २.  
 निपण-व(त् >) ती- -त्य:  
 निव २, ११: १५; ६, ११: ८.  
 निरण इय(म् >) मा- पाण  
 २, ३, ७२<sup>३</sup>.  
 ऋनि-पच<sup>३</sup> पा ८, ३, ६१; -सम्  
 उनिम् ४, ३९; -त्ता: अत्रा २,  
 ३, १६; ३, २, ३९; -त्ते या ६,  
 १५<sup>३</sup>.  
 नि-पस्तु<sup>३</sup> -स्तुम् माण्ड २, १८,  
 २<sup>३</sup>.  
 नि-पस्त्यक् -स्त्यन् द्विथी ८, ५,  
 ३७.  
 नि-पद् -पत् वृदे २, ८२<sup>३</sup>;  
 -पदा आश्री १, ४, ८.  
 नि-पदन -न: या ३, ८६.

ऋनि-पव, > दा शाश्री १, १५, १७;  
 काश्री २, ३, २१; आपश्री.  
 निपव-इवा(म् >) मा- निपण-  
 इवा-ना- टि. द.  
 नि-व(य >) वा- पा ३, ३, ९९.  
 नि-पद्वर<sup>३</sup> पाठ २, १२२.  
 नि-पादित- (> ऋनि- पा.) पाण्ड  
 ५, ३, ८८.  
 नि-पाव आपश्री १४, १३, ७<sup>३</sup>;  
 २०, ८<sup>३</sup>; द्विथी.  
 ऋनि-पीदत् -द्वयाद, ११; ७, ३१.  
 निपा, पा<sup>३</sup> ऋनि-<sup>३</sup> वाश्री १, ३, ३, १;  
 द्विथी १, ७, ४०.  
 निपिदत्<sup>३</sup> शाश्री १५, १९, १.  
 निपिध<sup>३</sup> -धम् शंभ ११६: ९.  
 निपिध<sup>३</sup> पाठो २, ३, १७५.  
 नैपव<sup>३</sup> -धा: अत्र १, ८, २.  
 नि-पं (< सं) धि<sup>३</sup> - पाण ८, ३, १८.  
 नि-पय- नि/वि (बन्धने) द.  
 नि/प, सज्<sup>३</sup>  
 निपाद<sup>३</sup> - पाण ४, १, १००; १०४;  
 ३, ११८; -द: वीथ १, ९, २; २,  
 २, ३९; वैप ३, १३, २; या ३,  
 ८<sup>३</sup>; माशि; मीव ६, १, ५१;  
 -दम् वीथ २, २, ३२; माशि २,  
 ४; माशि १, ९; नाशि; -दस्य  
 नाशि १, ४, ७; -दा: वीथ ६५,  
 ६; -दान वीथ १, ८, ११; ९,  
 १३; नाशि १, २, १३; -दान  
 सु १८, १; २; -दानम् वाश्री

a) पाठ: ? तु. वैप १ परि. शी २०, १२७, १२ । b) पाठ: ? तु. वैप १ परि. खि ५, ११, २ ।  
 c) पामे. वैप १ प्रजाय-पम् काठ ३५, ३ टि. द. । d) वैप १, १०२६ f द. । e) परस्परं पामे. । f) = छन्दः ।  
 g) 'चद्वया' इति भोजः (तु. पाण्ड.) । h) वैप १ निर्दिष्टयोः उपावेशः द. । i) पामे. वैप १, १८३५ h द. ।  
 j) वैप १ द. । k) = ऋषि-विशेष- । l) पामे. तु १२३७ h द. । m) वाश्री. पाठः । n) पाठः ?  
 नि-पा, पाज् > -पा, पाज् (= आपः) इति सीमाव्यते । o) पाठः ? तु. वृद् वरः इति द्वे पंदे इति सा. (विमा ७, १५).  
 नृ-पा\* (उस.) इति द., वनि. (= अलस-) इत्यन्तर्निपाद्यम् । p) = महापर्वताऽन्यतम- । लु. ? । q) = देव-  
 विशेष- । ध्यु. ? । r) = तद्वासिन्- । s) विप. । वस. । ( ? तु. पाका. । निःप\* इति भास्व. प्रथ. । y) पा ८, ३,  
 ७०; ७१ पराग्रहः द. । v) = सैगीत-स्वर- [नाशि. वैधि. प्रथ.], नाशि-विशेष- [वाश्री. वैप. वीथ. प्रथ.] ।

२२, १, ३०; -दे काथी २२, १, २६; आपथी १७, २६, १८; हिथी १७, १, १३; -देन बोध १, ८, १३; -देयु लाथी ८, २, ८. निपादी<sup>०</sup>- वाम् बोध १, ८, १३; १, १४.  
 नैपाद- पा ४, १, १०४; पावा ५, ४, ३६; -दे बोथी २, ५: १५५.  
 नैपादायन- पा ४, १, १००.  
 नैपादक- पा ४, ३, ११८.  
 नैपादकि- पावा ४, १, १७७.  
 निपाद-नाम्नार- नौ शैशि १७४; पाशि १२; माशि १, ७; नाशि १, ८, ८.  
 निषाद-ग्राम- मस्य लाथी ८, २, ८.  
 निपाद-पञ्चम<sup>०</sup>- मान् वृदे ७, ६९.  
 निपाद-रथकार- रथो: हिथी ३, १, १५; -रथ हिथी २, १, ५४.  
 निपाद-राष्ट्र- राष्ट्रम् सु १६, २.  
 निपाद-रन्- नान् माशि १, १०.  
 निपाद-रुदित- नः नाशि १, ४, ६.  
 निपाद-रथपति<sup>०</sup>- ति: काथी १, १, १२; -तिम् आपथी ९, १४, १२; माथी ९, १६, १६; हिथी १५, ४, २०; -ते: माथी ५, १, १, २९; काथी १, १, १, ५.  
 नि-यादित-, 'विन्- नि/पद् द.  
 निपासयत्यो: अय ४८, २५.  
 नि/पि (<शि/वन्धने)> नि-यय-, नि-वित- पा ८, ३, ७०.  
 नि/पि (<मि/ञ्) नि-यि-ञ्चि शोथी ४, ४, २; काथी ४, १, १९××; कौष्ट: निपिञ्चत:

काथी ६, ६, ६; निपिञ्चन्ति कौष्ट ५, ४, ३; आमिष्ट २, ५, १०: ११; निपिञ्चन्तु दिष्ट १, १८, २५; निपिञ्च भ्रमा ५, १३५<sup>०</sup>; निपिञ्चेत् कौथी २०, १६: ३०; ३१; कौष्ट १, १२, १; ८; शाष्ट १, १९, १; ५.  
 निपेचयति हिथी १०, १, ४९; निपेचयेत् ऋम्या २०, ४; २४, ४.  
 नि-पिक-कानाम् अय ६८, १, ६. ऋनिपिक-या<sup>०</sup>- वाम् आपथी १३, १८, १; माथी २, ५, ४, १२.  
 नि-पिच्य काथी ४, ४, ८; ५, ४, ३३××; आपथी १२, ६, १; वैथी.  
 नि-पिच्यमान- नेयु अय ६८, १, ७.  
 नि-पिञ्चत्-ञ्चन् अयाय १, ३; अय ४, १५५.  
 नि-येक<sup>०</sup>-कम् वैष्ट ६, २: १; -कात् वैष्ट १, १: ११.  
 निपेक-कर्मन्-मै विध २७, १.  
 निपेक-पुंसवन-स्तीमन्तोन्नयन-जा-तकर्म-नामकरण-अद्यप्राशन-चौ-ल-ह्यानि वैष्ट ६५: ४.  
 निपेका(क-आ)दि-दीनाम् वैष्ट १, ६: १.  
 निपेकादि-रमदानान्त-न्ता: आमिष्ट ३, १०, ४: २२.  
 निपेकादि-संस्कार-राणाम् वैष्ट ६, १: १; -रान् वैष्ट १, १: १.  
 निपेका(क-आ)द्य-द्य: विध २, ३; -द्या: वैष्ट १, १, ३.

नि-येचन-> षन्-वत्-वन्तम् हिथी २४, २, ११.  
 नि/पि (<शि/ञ्) निपेच क्रमा ५, १५५.  
 निपिपेच वृदे ३, १९.  
 निपिप्यते कौशि ७६.  
 नि-पेच-पाग ८, ३, ९८<sup>०</sup>; -ध: पावा १, ३, २०<sup>०</sup>.  
 नि/पि, सि/ञ्च<sup>०</sup>  
 नि-यीदत्- नि/पद् द.  
 रनिपेध<sup>०</sup>-ध: निम् ६, १०: ३४; -धे लाथी ७, ८, १०.  
 निपेधा(ध-आ)न्धीमव-न्वे निम् ७, ८: ३०.  
 नि/पे (<ते/ञ्) वै, निपेवेत् विध ७३, १०.  
 नि-पेवज-णाम् अय ७०<sup>०</sup>, १४, २.  
 नि-पेवमाण-णा: आपथी २१, १२, ९.  
 नि-पेवयत्-यन् माथी २, १, १, ३८.  
 नि-पेवित-तम् विध ७१, ९०.  
 नि/पो<sup>०</sup> (<सो)  
 निष्क पाधा. तुरा. आत्म. पारिमाणे.  
 निष्क- पाठ ३, ४५, पाग २, ४, ३१; ५, १, २०; -ष्क: काथी २२, ४, १८; आपथी; -ष्कम् काथी १६, १, ६; काथी; -ऋष्का: आपथी १, १४, १२; ३, १३, ५; माथी; -ष्काणाम् वृदे ३, १४८; -ष्कात् शोथी १२, १४, १५; १५, ३, १४; आपथी; -ष्केण

a) = निपाद-श्री-। b) विर.। बस.। c) वैष्ट १ द.। d) पाथे. वैष्ट १, ३६२ h द.। e) = वरमांपाल-वर्तकार-। f) नि-पेच-इति [पे]भाष्ये, पाशि.। g) उ. पाशि.। h) पा ८, ३, ७०; ७१ पराष्ट: द.। i) = सामन्-। वैष्ट २, ३८. द.। j) पा ८, ३, ७० पराष्ट: द.। k) पा ८, ४, १७ पराष्ट: द.।



आपथी २०, १३, ६; पंवाथी ३, ४, ३, ३; ९; हिथी.  
 मैथिलिक- पा ५, १, २०.  
 निष्क-क (ण >) ण्डी- ण्डी:  
 वाथी ३, १, १, २९; -पठोनाम्  
 आथी ९, ९, १४; -ण्ठः काथी  
 १४, २, ३०.  
 निष्क-त्रय- -यम् वैथी ११, ५: ७.  
 निष्क-रज्जु- -ज्जुः बोथी ११,  
 ६: ११; १२, ७: २६; -ज्जुः  
 बोथी ११, ६: २६; १२, ७: ३६.  
 निष्क-शयल- 'सहल- > वैष्कदा-  
 तिक, 'सहन्निक- पा ५, २, १११.  
 निष्का (पठ-भा)दि- -दियु पाता ५,  
 १, २०.  
 निष्किल- -ष्की आपथी २२, १२,  
 ११.  
 निष्किली- -ययः काथी २७, १,  
 १२१०.  
 निष्कल्प- -नम् कप्र १, ६, ३.  
 नि(स् >) प्-कर- -नाः वाप १९,  
 २६.  
 निष्-कर्तु- निष्/कृ द.  
 निष्-कर्ष- निष्/कृ द.  
 नि(स् >) प्-कल् > निष्-कालन-  
 > 'न-प्रवेतन- -त्रे गोप ३,  
 ६, ६.  
 नि(स् >) प्-क(ला) > ल- पाग ४,  
 १, ४१<sup>३</sup>; -लम् वैप ४, ११: २.  
 निष्कली- पा ४, १, ४१.

नि(स् >) प्-कल्म(प) > पा- -या:  
 वाप २८, ६; वीप २, ३, ५६.  
 नि(स् >) प्-कप्, स् > निष्-काप,  
 स'- -यः वाथी १, ७, ३, ३; -पम्  
 वाथी ३, १५, १४; काठथी १६०;  
 माथी १, ७, ४, ७; -परय काठथी  
 ३६; काथी २२: १४; -ये  
 माथी २, ५, ५, २; -वेण वाथी  
 ३, १४, १९; काठथी ३६; -सः  
 वाथी ८, १०, ९; -सम् आपथी  
 ८, ६, ६; बोथी; -सत्त्व आपथी  
 ८, ६, ६; नीष् ११, ३, ११; -से  
 बोथी ८, २१, ३; -सेन आपथी  
 ८, ७, १४; बोथी २१, ३: ६;  
 २५, २: १५; माथी ८, १०,  
 ६; ११; हिथी ५, २, ६३.  
 निष्कास-वत् आपथी १३, २०,  
 ५.  
 निष्कासि(त) > प्रा- -ताम्  
 वैथी ९, २: ६; हिथी ५, ३, २२.  
 नि(स् >) प्-काम- -मः अप २३,  
 १४, ४; वैप २, ५, ३; -मम् वैप  
 १, ९, ९; ११; १२; -मत्त्व अप  
 २३, १४, ४; -मेज अप २३,  
 १४, ५.  
 नि(स् >) प्-कालक- पाग ६, २,  
 १८४<sup>३</sup>; -क! वाप २०, १४;  
 ४२.  
 निष्-कालन- निष्/कृ द.  
 नि(स् >) प-कालिक<sup>१०</sup> - पाग ६,

२, १८४<sup>३</sup>.  
 नि(स् >) प्-कुल- (> वैकुल्य-  
 पा.) पाग ५, १, १२६.  
 निष्कुला/कृ पा ५, ४, ६२.  
 नि(स् >) प्-कुप् > निष्-कुपित-  
 'ववत्- पा ७, २, ४७.  
 निष्-कोपण- -जे पा ५, ४, ६२.  
 नि(स् >) प्-कृ, निष्कृष श्रया ४,  
 ६०<sup>१०</sup>.  
 नि: ... कृतेन वाथी २, १, ५,  
 ११.  
 निष्कोवि वाथी १४, २३:  
 २१; २५; २४: ११; २६.  
 नि: ... वरकृत वृदे २, ११५;  
 श्रया ४, ८६; १०, ३; ११, ९;  
 उस् २, ३०.  
 निष्-कर्तु- -र्ता आपथी १, ७, ११;  
 काप २७, ११.  
 निष्कर्तु- -केण नीष् १०, २,  
 २७.  
 निष्-कृवान- -नाः या १२, ७.  
 निष्-कृत- -न्तम् बोथी ६, ३१:  
 ६; पाप ३, ३, ५; या १२, ७;  
 श्रया ४, ९३<sup>१०</sup>; -वेषु पाप ३,  
 ३, ५.  
 निष्कृता(त-भा)दाव'- -वम्  
 आपथी १६, १८, २; बोथी १०,  
 २५: २; वाथी २, १, ५, १;  
 वैथी १८, १५: ९; हिथी ११,  
 ६, २३.

a) विप. १ वस. १ स्त्री. लीप् प्र. १ b) मलो. वस. १ c) पाथे. वैप २, ३३. निष्कृत्यः मात १३,  
 ४, १, ८ टि. द. १ d) वा. क्रि. १ e) विप. १ वस. १ f) उप. = १४२-१ g) = निष्प्रतन- १  
 h) = वनस्पति-विशेष इति पाठम्. १ i) वैप १ द. १ j) अर्थः स्यु. च? १ k) परस्परं वामे. १ l) = शुक्ति-  
 धारम्. १ उप. ( क-धारम्- ) + अलक- (केश- ) > सत. ) = धारय-केश- (उ. पमा ३, ३१४ B. ३ व; वैपु. पाका.  
 विष्कालक- इति, < निष्/कालि इति शक. च) १ m) निष्-का (ली) > लि- > प्रास. इति न्यासकारः १  
 n) पा ७, २, ४६ परानुष्ठः द. १ o) पाथे. वैप १, १८३७ li द. १ p) पाथे. वैप १, ८४६ q द. १ तत्र च BC. व'  
 सरथ. यनि. शोधः १ q) = निष्कर्तुर्मन्- १ तस्य कर्मोत्पद्ये दम् > कः प्र. वस. (पा ४, ३, १२४) १ r) वैप १,  
 १८३८ द. १ s) वैप १, १६९९ ० द. १ t) पाथे. वैप १, १८३८ i द. १ u) पाथे. वैप १, ८४७ ० द. १

निष्कृति-तिः कौत् ५, ३११;  
 वाप २१, १५; शंघ ३७८; बौध  
 २, १, ९; विघ ३४, २; -विम्  
 वैधौ २, १ : १; १८, १ : २;  
 माष्ट २, १७, ११; शंघ ४४०;  
 बौध १, १, ३१; २, १, ९; विघ  
 ५१, ६०; -ठीः ऋप्रा ८, २०१;  
 -पृथ्वी आपथौ ३, ११, २; बौधौ  
 १, २१ : १३; भाथौ ३, १०, २;  
 वाधुधौ ४, १९ : ३; वाधौ १,  
 १, ७, २०<sup>३</sup>; द्विधौ २, ९, १;  
 कौष्ट १, ५, २१; आमित्य १, ५;  
 २ : १६.

नि(स् >)प्/कृत् (छन्दो), निष्कृ-  
 न्नामि पाठ १, ३, १८१; णिः...  
 कृत्नामि<sup>३</sup> बौधौ १७, ४४ :  
 ५७; बौष्ट १, २, ३६६; णिः...  
 कृत्नामि<sup>३</sup> द्राधौ १२, १, १९;  
 लाधौ ४, ९, १२०.

निष्कृद्वायोऽपनी कौम् १२८, ४.  
 नि(स् >)प्/कृप्, निष्कृकथं धुदे  
 ६, १०५.

निष्कृकथं-धे<sup>३</sup> मीम् ११, ३, ५२.  
 निष्कृकथं मासि २, ६.

नि(स् >)प्/कृयल- > निष्कृवलय-  
 -क्यम् आधौ ७, ५, १८; ७,  
 २४४; आधौ, -क्यस्य आधौ  
 ५, १५, १; ७, ६, ४; आधौ,  
 -क्यत् आधौ ११, १०, ८;  
 -क्ये आधौ ६, ६, १५; ७, ३,  
 २२४४; आधौ ४४, २१, ३; १६,  
 ८, ११; द्विधौ १०, ५, ४.  
 निष्कृवलय-मभृति- -तिपु आधौ  
 १५, ४, १.  
 निष्कृवलय-मभृतीय- -यधोः

आधौ ७, ५, २१; १०, ८, १६;  
 ११, ११; १६, ८, ५; -ये आधौ  
 १५, २, १५; १३, ६; -यौ आधौ  
 ९, १०, ९.  
 निष्कृवलय-सूक्त- -क्षानाम्  
 आधौ ७, १, १३.

निष्कृकोपण- निष्कृ/कृप् द.  
 नि(स् >)प्/कृम्, निष्कृकामते वैधौ  
 १४, ६ : १; निष्कृकामति आधौ  
 ९, १३, ९; आधौ १०, १४, २;  
 बौधौ; निष्कृकामतः आधौ ७, ६,  
 ११; ९, १०, ५; १०, ४, ११;  
 आधौ १२, २२, ३; बौधौ २९,  
 ९ : १२; वैधौ १५, २८ : १,  
 निष्कृकामन्ति आधौ ९, २५, १२,  
 ४, १२; आधौ; निष्कृकामन्तु बौधौ  
 ७, ७ : १६; निष्कृकाम सु १८, ४;  
 निष्कृकामेत् द्विधौ ७, ७, २४<sup>३</sup>;  
 २५<sup>३</sup>; द्राधौ २, ३, २१; १५, ४,  
 १; आधौ १, ७, १९; ५, १२, ८;  
 ज्ये १, १७ : ७, शंघ ७८,  
 निष्कृकामिपुः द्राधौ ७, ३, १६,  
 आधौ ३, ३, १८.

निष्कृकामयति बौधौ १, २१ : ६;  
 आधौ १, २, ४, ३३; वैधौ १०,  
 १४ : ५; निष्कृकामयति बौधौ ९,  
 ५ : ३४; १३ : ९; निष्कृकामपेयुः  
 स्य १८<sup>३</sup>, १, ११.  
 निष्कृकाम- पाग ५, १, ९७; २, ३६;  
 -णम् आधौ १, ८, २५, ९, ४,  
 ३०, २६, ७, ६; आधौ १०, १३,  
 ६१; आधौ १, १, ६, ७; माष्ट १,  
 २, १९; -णे बौधौ २, ११ : ४१.  
 निष्कृकाम- पा ५, १, ९७.  
 निष्कृकाम-प्रवृत्ति- -ति पाठ १,

८, ३.  
 निष्कृकाम-प्रवेशन- -नानि आपथ  
 १, २०, ७; द्विध १, ८, ७; -ने  
 आपथ १, २४, १९; द्विध १, ६,  
 ६७; -नेपु शंघ २५५.  
 निष्कृकाम(ए-क-)णिका- -का  
 कौष्ट १, १८, १; पाठ १, १७, ५.  
 निष्कृकामिगित- पा ५, २, ३६.

निष्कृकाम्य आधौ १, ११, १४; ३, ५-  
 ४४४; आधौ; आपथ २, ११,  
 १६१<sup>३</sup>.

निष्कृकाम(न्त->)न्ता- -न्ताम् वैधौ  
 १०, १४ : ६; आपथ ३, ११.

निष्कृकामण- -णम् वैध १, ११, ४.  
 निष्कृकामत्- -मत् जैधौ २१ : ३-  
 कौष्ट २, ७, २३; ३, ४, १; आष्ट  
 २, १२, ९; ३, ५, १; -मन्तः  
 द्राधौ ६, ३, १३; आधौ २, ११-  
 ६; वैताधौ ९, १५; -मन्तम्  
 आपथौ १२, २६, १६; वैधौ  
 १५, ३४ : ३; द्विधौ ८, ८, १०;  
 आधौ १, ११, २<sup>३</sup>.

निष्कृकाम- -णम् वैध १, ११, ४.  
 निष्कृकामत्- -मत् जैधौ २१ : ३-  
 कौष्ट २, ७, २३; ३, ४, १; आष्ट  
 २, १२, ९; ३, ५, १; -मन्तः  
 द्राधौ ६, ३, १३; आधौ २, ११-  
 ६; वैताधौ ९, १५; -मन्तम्  
 आपथौ १२, २६, १६; वैधौ  
 १५, ३४ : ३; द्विधौ ८, ८, १०;  
 आधौ १, ११, २<sup>३</sup>.

निष्कृकाम- -णम् वैध १, ११, ४.  
 निष्कृकामत्- -मत् जैधौ २१ : ३-  
 कौष्ट २, ७, २३; ३, ४, १; आष्ट  
 २, १२, ९; ३, ५, १; -मन्तः  
 द्राधौ ६, ३, १३; आधौ २, ११-  
 ६; वैताधौ ९, १५; -मन्तम्  
 आपथौ १२, २६, १६; वैधौ  
 १५, ३४ : ३; द्विधौ ८, ८, १०;  
 आधौ १, ११, २<sup>३</sup>.

निष्कृकाम- -णम् वैध १, ११, ४.  
 निष्कृकामत्- -मत् जैधौ २१ : ३-  
 कौष्ट २, ७, २३; ३, ४, १; आष्ट  
 २, १२, ९; ३, ५, १; -मन्तः  
 द्राधौ ६, ३, १३; आधौ २, ११-  
 ६; वैताधौ ९, १५; -मन्तम्  
 आपथौ १२, २६, १६; वैधौ  
 १५, ३४ : ३; द्विधौ ८, ८, १०;  
 आधौ १, ११, २<sup>३</sup>.

निष्कृकाम- -णम् वैध १, ११, ४.  
 निष्कृकामत्- -मत् जैधौ २१ : ३-  
 कौष्ट २, ७, २३; ३, ४, १; आष्ट  
 २, १२, ९; ३, ५, १; -मन्तः  
 द्राधौ ६, ३, १३; आधौ २, ११-  
 ६; वैताधौ ९, १५; -मन्तम्  
 आपथौ १२, २६, १६; वैधौ  
 १५, ३४ : ३; द्विधौ ८, ८, १०;  
 आधौ १, ११, २<sup>३</sup>.

निष्कृकाम- -णम् वैध १, ११, ४.  
 निष्कृकामत्- -मत् जैधौ २१ : ३-  
 कौष्ट २, ७, २३; ३, ४, १; आष्ट  
 २, १२, ९; ३, ५, १; -मन्तः  
 द्राधौ ६, ३, १३; आधौ २, ११-  
 ६; वैताधौ ९, १५; -मन्तम्  
 आपथौ १२, २६, १६; वैधौ  
 १५, ३४ : ३; द्विधौ ८, ८, १०;  
 आधौ १, ११, २<sup>३</sup>.

निष्कृकाम- -णम् वैध १, ११, ४.  
 निष्कृकामत्- -मत् जैधौ २१ : ३-  
 कौष्ट २, ७, २३; ३, ४, १; आष्ट  
 २, १२, ९; ३, ५, १; -मन्तः  
 द्राधौ ६, ३, १३; आधौ २, ११-  
 ६; वैताधौ ९, १५; -मन्तम्  
 आपथौ १२, २६, १६; वैधौ  
 १५, ३४ : ३; द्विधौ ८, ८, १०;  
 आधौ १, ११, २<sup>३</sup>.

निष्कृकाम- -णम् वैध १, ११, ४.  
 निष्कृकामत्- -मत् जैधौ २१ : ३-  
 कौष्ट २, ७, २३; ३, ४, १; आष्ट  
 २, १२, ९; ३, ५, १; -मन्तः  
 द्राधौ ६, ३, १३; आधौ २, ११-  
 ६; वैताधौ ९, १५; -मन्तम्  
 आपथौ १२, २६, १६; वैधौ  
 १५, ३४ : ३; द्विधौ ८, ८, १०;  
 आधौ १, ११, २<sup>३</sup>.

a) परसर्गं पाठे । b) ?नेहावृद्धिम् टि. द. । c) ?नेहावृद्धिम् टि. द. । d) ?नेहाविर्द्धं कृत्वाणि टि. द. । e) वैप १ द. । f) सु. पाठः । g) = संस्कार-विशेष- । h) पाठे. वैप १, १८८७ b द. । i) वष. आधौ ३, ३, ११ निःसर्गस्य इति पाठे । j) वि. । वष. ।

निरकीणात् सु ५, १.  
 निप्-क्य- -यः सु ११, ३; ३०, १;  
 कौस् १११, ११; १२७, १३;  
 मौस् ४, ४, २६.  
 निष्क्य-वाद्- -दः मौस् ४, ४,  
 ३८; -दात् काथौ २५, ११, ३;  
 मौस् ६, ४, ३४.  
 निप्-क्यण- णानि वाध २२, ८;  
 बौध ३, १०, १०; गौध १२, १२.  
 ऋनिष्-कीत्- -तः शौच २, ६३;  
 -ताः माधौ १, ८, ३, ३०.  
 निष्-कीय शोधौ १६, २२, १९;  
 आपधौ.  
 नि(म्) > ष्-क्रीड्, निष्क्रीड्यगित  
 बौधौ ८, १: १४.  
 नि(स्) > ष्-खिद्, निष्खिदति  
 द्विथौ ७, ६, ६; १५, ८, १७;  
 तैप्रा ८, २३; निष्खिदन्ति  
 द्विथौ २१, २, ४४; निष्खिदामि  
 द्विथौ ७, ९, ६.  
 नि(म्) > ष्-ट (<त)च्, निरतट  
 शोधौ १६, ३, १२; या ४, १३.  
 ऋनिष्टतद्युः आपधौ १७, १८;  
 १: ऋप्रा ५, ३६; छुप्रा ३, ७०;  
 पा ८, ३, १०३.  
 निष्-तट- -टः माधौ १६, ३, ११;  
 या ४, १३.  
 नि(म्) > ष्-ट (<त)न्, निष्टतन्पु  
 ऋपा ५, ३६.  
 नि(म्) > ष्-ट (<त)प्, निष्टपति  
 आपधौ ५, ८, ५; बौधौ २, १६:  
 १; माधौ; ऋनिष्टपामि आपधौ

२, ४, १०; बौधौ १, १२: ३;  
 भाधौ २, ४, ११; वाधौ १, ३,  
 २, १४; तैप्रा ६, ५; निष्टपत्  
 भाधौ ५, ४, ४; माधौ ३, १, २.  
 ऋनिष्-त- -सः आपधौ १, १३, १;  
 भाधौ १, १२, २; -सम् आधौ  
 २, ३, ९; काथौ; -सम् आधौ  
 २, ३, ९; माधौ १, ६, १, २५;  
 वाधौ.  
 निष्टतो(स-उ)पवा(त)ता-  
 -तायाम् आपधौ १, २४, १;  
 भाधौ १, २४, ११.  
 निष्-टप्य बौधौ-१, १७: २२; २,  
 १८: ३८४४; भाधौ.  
 ऋनिष्टपत् बौधौ २, ५: १०.  
 नि-ष्ट, स्तस्, म् > नि-ष्ट (<व्य) >  
 व्या- -व्ययोः द्विथौ २४,  
 २, ५.  
 नि-स्तव्य- पा ८, ३, ११४.  
 नि(म्) > ष्-टु (<तु)क् (<ष्ट  
 छिन्ते) > ष्-टु- पा ३, १,  
 १२३; -कर्म आपधौ २, ५,  
 ६४४; बौधौ.  
 ऋनिष्टि- -प्याः भाति ५१.  
 नि-ष्टु, स्तु  
 नि-ष्टु (<तु)क् > नि-ष्टु (<व्य) >  
 व्या- -व्ययोः आपधौ १५, ५,  
 १०.  
 निष्टप, ष्या- पावा ४, २, १०४;  
 -कथ्यः शोधौ ४, १२, १०;  
 आपधौ; -प्याः वैताथौ ४०,  
 ५; ४१, १२; ऋप्रा ८, १७.

-ष्टावाम् आपध ३, ३; भाप  
 १, १२: १४; -ष्टायै बौधौ  
 २८, ४, ८; वैप ३, २०: ७.  
 निष्टया-वाद्- -दः आपध ३, ४.  
 नि-ष्टये (<निष्-स्ते) >, ऋनिष्टया-  
 यताम् द्विथौ ९, ५, ३६; वैताथौ  
 २४, १; छुप्रा ३, ६९.  
 नि(म्) > ष्-टव (<व्य) > ष्-ट-  
 -क्यासः या १, १०.  
 नि-ष्टा (<स्था), निष्टपते बौधौ १०,  
 २१: १२; १५, १७: ५;  
 निष्टोदन्ते बौधौ २६, १७: ३.  
 निष्टापयति कौस् २४, १७.  
 नि-ष्टा- पावाग ४, ३, ६०; -ष्टा  
 निष् १०, ३: २०; आपध २, १५,  
 २४; २३, १०; २६, ११; द्विथ  
 २, ३, ५८; ५, १६३; ६, २२;  
 -ष्टाम् गौध ११, २७.  
 वैष्टिक- पावा ४, ३, ६०;  
 -कः वैप २, १२: २६; शेष  
 १३३; विध २८, ४६; वैप १,  
 ३, १; ६; -कम् आप ४०, १, ३.  
 वैष्ट- -ष्टम् बौधौ १८, ४९:  
 ३, ५.  
 नि-ष्टाय काथौ ८, ४, २२; ६, ११.  
 नि-ष्टाय बौधौ ४, २: २६.  
 नि-ष्टित, ता- -सम् काधौ २६, १,  
 १८; -ताम् पाए ३, ४, १८;  
 -ते शोधौ ११, ३, १२; लाधौ ४,  
 ३, १३; गौध १, ३, १७.  
 नि-ष्टिक्, ष्टीक्, निष्टोक्ते द्विथौ १०, २,  
 २०; निष्टोक्ति वाधौ १, ५, ४.

a) पाठे. वैप १, १८२३ ० द.। b) पा ८, ३, १०२ पराष्टुः द.। c) पाठे. वैप १, १८२१ म।  
 द.। d) पाठे. वैप १, १८२१ म द.। e) स्या. निष् <> निष्टु इति पाठे.। f) वैप १ द.।  
 g) वैप २, ३०१. द.। h) पा ८, ३, ७०; ७१ पराष्टुः द.। i) = स्थाति-नक्षत्र-। j) विप.। वल. उर. उर.  
 = वल-। ल. रक. इति। k) भाप. (शब्दा- निर्णय- पूर्ण-। l) ट- पागम.। m) विप. > नाप.।  
 नक्षत्रे ष्ट् प्र. उत्तं. (पा ५, २, ११६)। n) तत्रनवीयः प्र.। o) विप. (भय-। प्राद्वीच्यतीयः पयः प्र. उत्तं.  
 (पावां ४, ३, ८५)।

२०; वैधौ १२, १०: १४; हिष्टौ ६, ६, २४; वाष्ट ५, १३; निष्टो-  
केव काश्री २५, ११, २७; माश्री १०, ८, १२; कौष्ट ३, ११, १८;  
शाष्ट ४, १२, १७; आश्रिष्ट २, ७,  
८: ३; वाष १२, १२; शेष  
२२६.

नि-क्षेवन- नम् माश्री २, १, २,  
३२, वैष्ट ३, ९: ११.

नि-क्षीवित-> ष-दक्षित-विजृम्भि-  
ता(त-व)स्फोटन- नानि गीष  
२, २१.

नि-क्षीवित्- चो मिष ५, २१.

निष्टोवि-ता- ता आश्रयो १२,  
१०.

नि-क्षीष्य बौधौ २८, ९: ९; वैधौ  
१६, २१: ५, २१, १: ६; हिष्टौ  
९, ४, ५३, कौस् ५८, ७; विष  
२२, ७५.

नि-क्षेव- पाग २, ४, ३१.

नि-क्षृत-> ष-वत् काश्री २५,  
११, ३२.

नि-क्षृत-> ष-वान्त-रुधिर-विष्-  
मृय-स्नानोदक- नानि विष  
६३, ४१.

निष्पुट- पाउभो २, ३, ५२.

निष्प्या( <स्ना )> निष्प्यात- पा  
८, ३, ८९; -ता: माश्री ४, १,  
२१; २४.

निष्पिणा( <क्षि )क्ष- > मैलिङ्ग-  
-ष्टम् काश्री ९, ७, ३५.

निष्( > )प्/पष्, निष्पचतात्  
बौधौ १५, ३१: २५.

निष्( > )प्/पञ-> निष्पञा/कृ पा  
५, ४, ६१.

निष्( > )प्/पद्, निष्पद्ये हिष्टौ  
१, १, ३७.

निष्पादति बौध ३, २, ३.

निष्पसि- -त्ति: श्रव ५२, १, ३.

† निष्पद्- पाग ५, २, ९७<sup>०</sup>;

-वत् आश्री १५, ३, १७;

बौधौ २, ३: २६; माश्री ११,  
३, १०; वैधौ १३, ४: ९; हिष्टौ  
२४, १, १९.

निष्पल्ल- पा ५, २, ९७.

निष्पद्य- -द्यम् श्रव ७०, १२, २;  
-द्ये या १, १३, १४<sup>३</sup>; -द्येन  
मीस् १२, ३, १६.

निष्पद्य- -हात् मीस् ८, ३,  
३०<sup>०</sup>.

निष्पद्य-चोदितव- -वात् निस्  
१०, ३: १८.

निष्पद्य-शब्द- -द्: पावा ३, ३,  
१३३.

निष्पाद्- ( > ) निष्पाल्ल- पा.)  
पाग ५, २, ९७.

निष्पाय हिष्टौ १०, ५, १२.

रनिष्( > )प्/प( > )र्दी- पाग ५,  
४, १३९.

निष्( > )प्/पा(पाने), निष्पचित  
आश्री १९, २४, ७; बौधौ १३,  
३२: १५; १८, ९: ३०; हिष्टौ  
२२, ५, ७, तैत्रा ८, २४<sup>१</sup>.

निष्-पिबत्- -यन्तम् बौधौ १३,  
३२: १६; १८, ९: ३०; हिष्टौ  
२२, ५, ७.

निष्-पीत- -त: वाधुश्री २, १६: ८;  
-तम् वाधुश्री २, १६: ९.

निष्( > )प्/पा(रक्षणे), नि: (पाय)  
श्रवा ७, ४६<sup>१</sup>.

निष्पा- ( > ) ष्या-ल- ) निष्पाव-  
टि. द.

निष्( > )प्/पाटि ( < पाट- ),  
निष्पाटयति वैधौ २०, ३७:  
८.

† निष्पाव- ( > ) ष्य-ल- पा.) पाग  
५, २, ९७.

निष्( > )प्/पिप > निष्पेव-  
( > ) मैल्येपि- पा.) पाग ५, १,  
१०१.

निष्पेष्टवै- काश्री ७, २, १५<sup>१</sup>.

निष्( > )प्/पीद् > निष्पीडन-  
-नम् गीपि १, ५, ५.

निष्-पीड्य श्राष्ट १, १७, ९; वैष्ट ३,  
१४: ५; श्रव ४२, २, ९.

निष्-पीत- निष्/पा(पाने) द.

निष्( > )प्/पु( < प ) निष्पुनाति  
काश्री २, ४, १८; माश्री ६, १६,  
२५; माश्री १, २, २, २०; वाश्री  
१, २, ४, ५५; वैधौ ४, ७: ७;  
हिष्टौ १, ५, ६२.

निष्-पवण, न- -नम् हिष्टौ १, ६,  
४१.

निष्पवणा( ष-ण )-न्त- -न्तम्  
माश्री १, ६, ४, ९.

रनिष्-पाव- पा ३, ३, २८.

निष्-पुन( त )- > ) वी- -तीम् कौस्  
६१, २५.

निष्( > )प्/पुरीष- -यम् आश्रिष्ट  
३, ५, १: १९; बौपि १, २: ६;  
दिवि ४: १, २; -पण बौधौ  
२६, ५: १.

निष्पुरीष्य- -ष्यम् वैधौ १२,  
१२: १०; श्रापथ १, २७, ३;  
बौध २, १, ६३; दिष १, ७, २८.

a) = निष्ठीवन- (द्र. पागम.)। b) = निष्पेह-। बस.। c) वैप १ द.। d) निष्पाद- टि. द.।  
e) ष्णाव इति जीतं.। f) गस. उप. कर्तारि क्त इति। † निष्पद्- इत्यन्ये (द्र. पागम.)। g) अर्थ: द्यु. व.।  
निष्पा- ( < प/पा (पाने) ) इत्यन्ये (द्र. पागम.)। h) वैप २, ३६ द.। i) विप.। बस.। j) = धान्य-विशेषे-।

निष्पुत्रीपी ✓भू > ०पी-भाव- वा:  
 वाध २३, २०; गौध २३, २३.  
 नि(स् >) पृ/पृ. निष्पृ<sup>२</sup> छुप्रा ३,  
 २३.  
 नि: ... पिपृष्ठ > वा क्रप्रा ८, १५;  
 छुप्रा ३, १०७; निष्पिपर्वतन  
 क्रप्रा ४, ६०.  
 नि: ... पारयय: क्रप्रा ५, ३६.  
 शनिष्पृषेप- निष्/पिष् द.  
 रनिष्पृषेप<sup>०</sup> - पाग ६, २, १८४.  
 निष्पृषेप्यै निष्/पिष् द.  
 नि(स् >) पृ-प्रमाण<sup>०</sup> - जम् वैध २,  
 ११, १०.  
 नि(स् >) पृ-प्रया(णी) णि-  
 -णि: पा ५, ४, १६०.  
 नि(स् >) पृ-प्रीत्य(ति-अ)भिताप<sup>०</sup>-  
 -या: गौध १३, ३.  
 नि(स् >) पृ-प्लु, णिष्प्लुववाणि  
 आपथी ६, २०, २; बाथी २, ५,  
 ४, २०; वायु ५, १३.  
 नि(स् >) पृ-फल<sup>०</sup> - लम् अय ९, २,  
 ६; संघ ४६३; कौशि ३७; -ला:  
 आपथ १, २०, २; हिध १, ६,  
 १६; -लात् पावा ४, २, ३६.  
 नि ✓फ्लु, स्फुड, ल् पा ८, ३, ७६.  
 नि ✓प्य (<स्) न्द् पा ८, ३, ७२.  
 नि-प्यन्द् > ०द्-यत् - वन्तम्  
 वैथी १३, ७: २५६.  
 नि-प्यन्द्- > ०न्-वत् - वन्तम्  
 बोथी ९, ५: २०६; १४, २६: २२२.  
 नि ✓प्या, स्त्वांज् पा ८, ३, ७०;  
 ७१.  
 नि ✓प्य (<स्) पृ. णिष्प्यापय >

या क्रप्रा ५, १५; ८, २११.  
 नि ✓प्य (<स्), णिष्प्य<sup>०</sup> आपथी  
 १२, ९, ९; बोथी ७, ६: ९; वैप्रा  
 ६, १३.  
 णिष्पिप्यपिन्<sup>२</sup> - यो अय ४८, ११५;  
 निध ४, २; या ५, १६६; क्रप्रा  
 १४, ३६.  
 नि(स् >) पृ-प (<स) म- पा ८, ३,  
 ८८; पाग २, १, १७२.  
 नि(स् >) पृ/प (<स) ह् > नि-  
 पृ-पहमाण- ण्य: वा ३, १०.  
 णिष्पिप्याह- य्यात् वा ३, १०६;  
 क्रप्रा १४, ३६.  
 नि(स् >) पृ-पा (<ता) मन्- पाग  
 ८, ३, १८.  
 नि(स् >) पृ/पि (<सि) पृ (संराटौ)  
 > निष् विष्- > ०पिष्प (वृ >  
 २) ती- -रो: क्रप्रा ५, १९६.  
 नि(स् >) पृ: ✓ष्ट (<स्त) न्, निष्-  
 निहि<sup>०</sup> छुप्रा ३, ६९; नि. षनिहि<sup>०</sup>  
 क्रप्रा ५, १२६.  
 नि(स् >) पृ/घ्रा (<स्था), निष्पेठे  
 निष् २, ५: ३५१.  
 नि(स् >) पृ/प्लु L = ✓छिष् णिष्-  
 छविपम् आपथी १०, १३, ११;  
 बोथी २८, ९: १०; वैताथी  
 १२, ८.  
 नि(स् >) पृ/प्लु (<स्फु) ड, ल् पा  
 ८, ३, ७६.  
 नि(स् >) -पे (<सं) पि- नि पन्धि-  
 दि. द.  
 नि(स् >) -प्य (<म) म- निष्प-यन-  
 दि. द.

नि(स् >) -पा (<वा) मन्- निष्-  
 पामर टि. द.  
 नि(स् >) -; पृ/पि (<सि) च्, नि:  
 पिपेच बोथी १८, ४५: २३.  
 नि: पित्त- -कम् या ६, १;  
 -कम्: वैथी १५, ११: १०.  
 नि: पित्त आपथी १३, १, ३; बोथी-  
 नि: येचन- > ०न्-वत् - वन्तम्  
 आपथी १५, ६, २२.  
 निष्पेचन- > ०न्-वत् - वन्तम्  
 भाथी ११, ६, १७.  
 नि(स् >) -; ✓वि (<सि) पृ (गती),  
 नि. येचन्ति वाथी १६, १८, २०;  
 णिष्पि: ... सेच<sup>०</sup> आपथी १, २२,  
 २; बोथी १, ८: ४; २७, ८:  
 ४; २४, २६: २; भाथी १,  
 २४, २.  
 नि: पित्त- > ०द्-वाप्यन्<sup>०</sup>-  
 -प्यामन: वाथी १६, १८, २१.  
 नि: येच- - पाग ८, ३, १८.  
 नि(स् >) -; ✓पू (<स्) पिरथो),  
 णिष्पि: (सुतामि) कौम् ४२,  
 १९; अय १, १८.  
 णिष्पि: (साविपृ) अय १, १८.  
 नि(स् >) -; ✓पू (<स्) अय १, १८.  
 > नि: पृति- पा ८, ३, ८८.  
 नि(स् >) -; ✓प्य (<स्) पृ पा ८,  
 ३, ८८.  
 निष् पाग १, ४, ५८.  
 नि: सर्म- नि: ✓यत् द.  
 ✓निसङ्ख्याय (<नि-सङ्ख्या) >  
 छुप्रा<sup>०</sup> > निष्पुत्राय-  
 -वन्त: वैध २, १०, ४७.

a) पामे. वैप १, १८४१ C द.। b) विप. वल.। c) उप. भाप.। d) प्रास. वा. पस. वा।।  
 e) विप.। वस. > द्रुत.। f) परस्परं पामे.। g) वैप १ द.। h) वृ. पाका.। नि.प<sup>०</sup> इति भाष्या. प्रयु.।  
 i) वृ. पाका.। नि:वा<sup>०</sup> इति भाष्या. प्रयु.। j) पामे. वैप १, १८४२ C द.। k) ष्टेठ इति पाठा? यनि. शोध:  
 (वृ. संस्कर्तु: दि.)। l) पामे. वैप १, १८२१ G द.। m) वृ १०३४ f द.। n) पामे. वैप १, १८१५ f द.।  
 o) पामे. वैप १, १८४२ m द.। p) वस. पू. = वन्। q) न संख्यावन्त: इति C.।

नि/स्> नि-स्व- -स्व वाचि १, १२.

नि/स्व> नि-सर्ग- (> निसर्गिक-पा.) पाग ५, १, १०१

नि-स्व(ष्ट)> दा- -शायाम् वीथ ४, १, १८.

नि-स्त्वध्य- नि/स्व, ष्टम् द.

निस्-तरी-क<sup>३०</sup> - पाग ६, २, १८४.

निस्-तरीय<sup>१</sup> - पाग ६, २, १८४.

निस्-तष्ट- नि/स्व/तत् द.

निस्-तान्तव<sup>१६</sup> - न्यम् काय ४, ७.

निस्-तुप-> स्तुपा(प-भा)मष्ट-यव<sup>१</sup> - नानाम् काथी ५, ३, २.

निस्/त्> निस्-वीर्यं अय २३, ८, १.

निस्-प्रिथ<sup>६</sup> - पावा ५, ४, ७१; -शः अय २३, २, १.

निक्षिप्त-सुद्वार-निपात<sup>१६</sup> - नाः शेष ३७४.

निक्षिप्त- -दिनः काथी ९, ७, ४.

नि/स्फुटल् नि/स्फुट, ल् द.

नि/स्धु. निस्त्रायति वीथ २, ७, १०.

नि-स्त्रा- -येण ज्ये १, १२ : २३

निस्त्रोहत<sup>१</sup> - नाः वीथीय १९ : ५.

नि/स्वन् > नि-स्वन- पा ३, ३,

१४, -मः अय ७१, १३, २;

-नाः अय ६४, ४, २, ७०<sup>१</sup>,

४, १.

?निस्वरित- -वा. निस् ४, १ : २०.

निस्-संचय<sup>१</sup> -> निस्संचयिन्- वीथ ३, ६, ६.

निस् संधि<sup>१</sup> - -धिः शैलि ३३३.

नि/स्-साळा<sup>१</sup> - न्याम् क्रीस् ८, २५; ९, १; ३४, ३; ४४, ११; ७२, ४; ८२, १४; अय २, १४.

निस्/स्था, निस्त्वष्टे निस् २, ५ :

३१; निस्त्वष्टि वीथी ४, १ :

३१xx; निस्त्वष्टन्ति वीथी

१०, १० : १०; ४६ : ३०xx;

निस्त्वष्टत् वीथी ६, २३ : ७;

२५ : २३, २७ : २६; निस्त्वष्टत्

निस् २, ५ : ३५

निस्-तिष्ठत् - ष्ट् वीथी २२ : १४.

निस्-स्फु(हा)> ह<sup>१६</sup> - हः वैष ३, ५,

७.

निस्/स्फुटल् नि/स्फुट, ल् द.

नि(स् >)-संशय- न्यम् विष १०, १३.

नि(स् >)-संज्ञा> ज-ज- -नाः अय ३६, ८, ४.

नि(स् >)-सार्थ<sup>१</sup> - रे कय ३, ३, ५.

नि(स् >)-सा(ल)> ल<sup>१</sup> -

न्याम् अय १७, २, ३; ३२, १, ३;

२६, अयं २२१; अय २, ४, १६.

नि(स् >)-स्वज् > नि-सर्ग- (नै-

सर्गिक) निस्सर्ग- टि. द.

नि-स्वज् - न्यम् अय ११, ३५.

नि(स् >)-स्वप्, निस्वपति माथी

१, २, १, ३९; २, २, ४, ३९;

निस्वपति वीथी ६, १३, ६;

७, १४, १०; ८, ८, ८; अयथी

१२, २९, १५; काठथी १४५.

नि-स्वपत् - न्यस्तु वीथी १५, २,

१८; लाथी ५, १०, १८, -वंतः

वीथी १६, १२ : १६; द्विथी ८,

४, ४३; ९, १, १७; ३, ३४;

-वंतम् वीथी ७, ७ : ३२;

दाथी ३, १, ११.

नि-स्वप वीथी १५, ३८ : १४; १६,

१० : ६; द्विथी ८, ४, ४५.

नि(स् >)-स्व<sup>१६</sup> -> निःस्व-वक्ष-

-क्षेण अय ११, १, १५.

नि(स् >)-स्व(न)> ना<sup>१</sup> - नाः अय

५८<sup>१</sup>, ३, १.

निस्, :/स्व, निस्त्रायति माथी १, ६,

१, ४८; ७, ३, २४; वाथी १,

६, १, ३०.

?निःसर- -रः वाय ५, २, ५.

निस्, -सरण- -णम् काय ३, १३;

वाय ९, १९.

निःसारण-> णा (ख-अन्त->)

न्ता<sup>१६</sup> - न्ताम् माथी १, ८, १,

२०; २, २, १, ५४.

निस्-सार्थं वीथी ७, ४, ५; ५, ४;

माथी ७, २, ९; वीथी.

नि-स्व- -ताः अय ५२, १२, ५.

नि-स्वय माथी २, २, ५, ३४<sup>१</sup>xx;

द्विप १ : ४; अय.

निस्, :/स्व, निस्त्रयति वीथ १,

५, ३; द्विप १, २, २.

निह<sup>१६</sup> - निहः अय ७, १, ५; अय

३, ४, १.

नि/हन्<sup>१६</sup>, नि...हन्ति अय ८, ४६;

निहन्ति वीथी ८, ३, ७; अयथी

११, ४, १२xx; वीथी; निहन्ति

वीथी १२, २४, २५; काथी ६,

५, १५; ८, ८, २८; अयथी;

नि...हन्ति वीथी २, १६, ४;

a) नि.सर्ग- इति वामना (ग्र. पायम.) । b) विप. । अय. । c) उप. = नौका- । d) प्रास. इति न्यासः । e) उप. < क्तु- । देपु-वा एजु-वेति देवपालः । f) कय. > कय. । g) = खत्र- । प्रास. उप. = प्रियन् । h) = नरक-विद्येप- । द्रव. > अय. । i) = अयि-विद्येप- । व्यु. । j) पूष. = नम् । k) प्रास. वा. अय. वा । l) देप १, १८४२ ll द. । m) पामि. वैष १, १८४२ ll द. । n) उप. = धन- । o) द्विप. पाठः । p) वैष १ द. । q) पा ८, ४, १७ पराष्टः द. ।

८, १२, ७; ऋषा ७, ४६;  
 ऋनिह्वमि वैप ४, ४ : ३; ५,  
 १५ : १; ऋनिह्वन्तु माधौ २, २,  
 ३, १६; ३, ५, ५, नि...जहि > ही  
 ऋषा ७, ५४; निह्वन्यात् वीथी  
 २१, १४ : २८; वीथी १ : ११ × ×;  
 निह्वन्तुः वीथी २६, २४ : १३.  
 ऋनिजघान अय १, ४०, १; ४१,  
 २; अथा १०, १; ११, २;  
 निह्वनिप्यति वाधौ २, १, ५, १५.  
 निह्वन्यते आधौ ७, ११, ५;  
 अय ४७, २, ६; उत् ८, १३;  
 ऋषा १, १, १२; २३; वीथि १४८;  
 निह्वन्यत् अय ७०, १२, ३.

नि-घ- पा ३, ३, ८७.  
 १ नि-घात्- -तः नासि १, ७, १९;  
 पावा १, १, ६३; -तस्य निघ् ७,  
 ११ : १३; -ते गीष २१, ३१.  
 निघात्-अस्त्र- -ऋः पावा २,  
 ४, ८५; ८, १, ५५.  
 निघात्-युष्मद्-अस्मद्-आदे-  
 त- -घाः पावा २, १, १; ८, १,  
 १८.  
 निघात्युष्मद्अस्मदादेव-अ-  
 त्तियेव- पावा २, १, १.  
 रनिघा(त>)ता- -ता सौच  
 ३, ६५.  
 निघाता(त-श्च)निघात्-सिद्धि-  
 -द्धिः पावा २, ४, ८१.  
 नि-घाति- पाठ ४, १२५.  
 नि-घातिन्- (> नैवात्य- पा.) पाग  
 ५, १, १२४.  
 नि-घ्न- -घ्नतः द्विथी १७, २, ६१;

-घ्नताम् विष ५, ७३; -घ्न-  
 वीथी २०, २६ : १३.  
 ऋनिघ्नती- -तीः द्विथी १६, ६,  
 ३९.  
 ऋनिघ्नन्ती- -न्तीः आपधौ  
 २१, १९, १८; वीथी १६, २२ : ८.  
 ऋनि-जहि- -शिः वीथी ८, १७, १.  
 नि-ह्व- -तः सु २५, ६; वीथि १०;  
 १७; १९; २८; -तम् वीथि  
 १८; शक्ति १४५; -ते माधौ  
 ५, ३, ८, ६; -तेन वीथि १४.  
 निह्वत्-स्वरित- -तम् वीथि ३५.  
 निह्वत्(त-श्च)त- -तः वीथि  
 २१.  
 नि-ह्वत् वीथी ४, १५, १५; आपधौ  
 ९, १९, ४; १९, ११, ६; काधौस.  
 नि-ह्वन- -ने वीथी २०, २८ : १४;  
 २१, १४ : २७.  
 नि-ह्वन्- -न्ता विष ५१, ७४.  
 नि-ह्वन्मान, ना- -नाम् आपधौ  
 १९, १७, ११; द्विथी २२, १,  
 २३; -नाय वीथी ४, ६ : ३१;  
 ११, ४ : १६; १५, २८ : २४;  
 -नायाः निघ् ७, ११ : ११; द्विथि  
 ५ : २.  
 १, २, नि-ह्व- नि/ह्वे द.  
 नि/ह्वा(गतौ), निजीह्वते<sup>१</sup> अय १, ७,  
 ४; ७; नि...निह्वताम्, नि-  
 (निह्वताम्) माधौ ७, ६, ३;  
 ऋनि...निह्वत् > ता, नि/निह्वत्  
 > ता) माधौ ५, ७, ३.  
 नि/ह्वा (त्यागे), न्यन्हाव सु २५,  
 २; ४.

नि...हीयताम् ऋषा ५, ३.  
 नि-हीन-> न-व-वृत्ति- -विः  
 आपध २, ५, ५.  
 निहीन-वर्ण-गमन- -ने गीष  
 २३, १४.  
 नि-हाफा- पाठ ३, ४४.  
 रनि-हित- नि/वा द.  
 रनिहित- -वाः वीथीय १४ : २.  
 नि/हील् (= ह्), निजिहोवते वीथी  
 १२, १४, २१.  
 नि-ह्व- नि/ह्वे द.  
 नि/ह्व, निह्वामि वीथी ५, १-२४१;  
 ऋनिहरामः आपधौ १३, २३, ५;  
 वीथी ४, ११ : १५; नि...हर >  
 रा वीथी ५, १० : २३१.  
 निजिहीषेव द्विथि १, ३०.  
 नि-निहीषेव- -र्ष्व द्विथि १, ३०.  
 नि-हारम् वीथी ५, १० : २३१.  
 नी-हार- -ऋः वीथि ५, ५, ६;  
 वीथि ८२, २६; वाप १९, १४४;  
 अय १८, ३; अय ३ : ६४; ऋषा  
 ३, ४, १; -नाम् ऋषा ३, १२१;  
 -र्ष्वे वाप २, ११, ६; आपध १,  
 ११, २५; ३१; वीथि १, ११;  
 २३; द्विथि १, ३, ७५; ८२; -रेण  
 काष्ठ ७, १८; वा १४, १०-१४,  
 सुभा ३, १०५; ५, ३०.  
 ? निहारिक- -कम् वाध  
 १९, १५.  
 ? निहाराय पावा ३, १, १७.  
 नि/ह्वन्, निह्वन्ते आधौ ४, ५, ७;  
 ८, १३, २७; माधौ १२, १, १०;  
 ३, ११, ४, ४.

a) पामे. वैप १, १८४३ ग द.। b) भाष., पारिभाषिक-संज्ञा- (अनुदात्त-। c) इत्. > इत्. >  
 पय.। d) विष. (निह्वता- अणुमात्रा-। e) परस्परं पामे.। f) वैप १ द.। g) = अनुदात्त-। वीथि.  
 वीथि.। h) छान्दसो दीर्घः। i) पामे. वैप २, ३६. वाज्जा २८, ५ द्वि. द.। j) सप्त. द्विथि २, १, ८६ हीनवत्  
 इति पामे.। k) = ऋषि-विशेष-। शु. ?। l) = निर्दो- इति कृष्णपरिहृतः (दृ. B.ub.).। m) वनसायवीथ्य  
 प्र. इति कृष्णपरिहृतः (दृ. B.ub.).।  
 वैप ४ प्र-६६-

निहुने बोधो ३, २९: २३;  
 बाधो १, २, ३, २९; काष्ठ ३९:  
 १५; गोष्ठ ४, ३, १७; निहुवते  
 बाधो ५, ८, ५; काधो ८, २, ८;  
 आपधो; निहुवे बाधो १५, २५,  
 ११; निहुवोरन् बाधो १४, २,  
 ६; लाधो ५, ६, ९.  
 निहुव- -व: आधो ४, ८, ९; ११;  
 आपधो ११, ४, २; -वात् आपधो  
 ११, ३, १३; -वे बोधो २०, २१:  
 २२.  
 निहुवा(व-ञ)न्त- -न्तम् वधो  
 १४, ३: ११.  
 निहुवन- -नम् द्विधो १०, ३, १५;  
 द्राष्ट ३, ५, २३; गोष्ठ ४, ४,  
 १४.  
 निहुस्य बाधो ५, १०, ३६.  
 निहुवा(न>)ना- -नाम् बोधो  
 १५, २९: ३१.  
 निहुस > निहास- -स: द्विष्ट १,  
 १०; ३८; ४, ३८.  
 निहुद्, निहादयन्ति द्विधो १३, १,  
 ४७; १४, ३, ३९.  
 निहुँ, निहुयामहे आपधो १७,  
 २२, १; द्विधो १२, ६, २६.  
 निहुव- पा ३, ३, ७२; -व:  
 ऋम् २, १०, १२४.  
 निहुव- -व: छुम् ३, ९: १५,  
 -वस्य लाधो १०, ८, ९.  
 निहुव-वधाव- -ववे लाधो  
 १०, ८, ८.

निहुवा(व-ञ)नुमह- -हाय निम्  
 ६, ३: ११.  
 निहुव->व-व- -वत् निम्  
 २, ११: २५.  
 √नी पाथा. भ्वा. उभ. प्राणणे, नयते  
 शेषि १६६; याति १, १२; ३३;  
 नयति आपधो ७, १५, ९५५;  
 बोधो; वैधो १६, ७: ३६; या  
 ७, १४; २१५५; नयत: या ७,  
 २९; नयन्ति बाधो ४, १७, १०;  
 आपधो; या ३, १९; ४, १४१;  
 ७, २१; २४१; निवामि बाधो  
 १२, २, २२; आपधो ७, १८,  
 १४; २३, ५, १०; बोधो; निवाम-  
 मसि पाठ ३, १३, ५; द्विष्ट  
 १, १५, ३; बोध ३, ८१;  
 निवत् आपधो ६, २०, २; २२,  
 १५, ६; माधो १, ६, ४, २१;  
 द्विधो ८, ४, २१; काष्ठ ४१,  
 ७; नवात् जैष्ठ १, १२: ६;  
 ८; १०; नवासि द्विधो ६, २,  
 १७; निवत् आपधो ३, १४,  
 २५५५; बोधो; पाठ १, ८, २,  
 नयताम् माधो २, ३, २, १३<sup>५५</sup>;  
 नयन्ताम् कौत् १३७, १५१;  
 निवन्तु आपधो ९, १४, १;  
 काधो १०, ३, २२; बोधो;  
 निव, > या आपधो ३, ७, ५५५;  
 बाधो; नयतम् बाधो १, ६,  
 २, ७१; निवत् बोधो ६,  
 २५: २; वैष्ट १, २१: २; गोष्ठ

३, ४, २५; जैष्ठ १, १९: २३;  
 नयन्तम् गोष्ठि १, २, १०१;  
 निवत्, > वा काधो २५,  
 १३, २०; आपधो; निवामि  
 आपधो ५, १३, १२; बाधो २,  
 ६, १२५५; निवन्तु आपधो  
 १४, १२, ६; बाधो १, ५,  
 ५, ७; द्विधो १०, ६, ६; छु  
 २६, २; ४; या २, २६; ऋम्  
 २, ४६; ४७; निवन्तु आपधो  
 ८, ३, २५; बाधो १२, १९, १;  
 १५, ३, ७; बाधुधो ३, १७:  
 १४६; उम् ३, १; अनयत् > वा  
 ऋम् ८, ३०१; नयेत् बाधो  
 १३, २४, १४; काधो; द्विष्ट १,  
 ४, ८१; नयेयु: आपधो ३,  
 १०, ३; ९, १, १०; आधो १२,  
 १४, १४१; २०, ७, १७; २२, २१,  
 ८; बोधो.  
 निवपि आपधो ३, ७, ६; ८, ११-  
 १; माधो ५, १, ६, २६.  
 निभ्ये अप १, ६, ६;  
 निनाय बाधुधो ३, ८८: १७;  
 वैताधो ६, १; निन्विरे बोधो  
 १८, २३: २; निन्वु: आपधे  
 १, ९, ७१; आग्निष्ट १, ५, ४:  
 ४७; बोष्ट; नेष्याम: छुम् ३, १:  
 ५; निवत् आपधो ५, ९, १;  
 बाधो ७, १, १; बोधो;  
 नेषत् पाठा ३, १, ३४; २, ३५;  
 वै: माधो २, ५, ४, २४१; वैष्ट

a) = नमस्कराञ्जलिद्वय- [दक्षिणान्याणीत् उतानान्कृत्वा सव्यासीचः] इति (आपधो [११, १, १२] प्रत्य.  
 द्वि. J. Brough सिभा १, १२६-३०-१)। b) विप. १ वस. १ c) पाभे. पृ १४२६ f द्र. १ d) पा १, ३, ३०  
 परामृष्ट: द्र. १ e) = साम-विशेष-। f) ऋम् १४, ४४ वा ७, १४; २९ वा १, ३, ३६ पाठा १, ४, ५२ परामृष्ट: द्र. १  
 g) पाभे. पृ १२९८ d द्र. १ h) सधा. आपधे २, २२, २ वि... नवामसि इति पाभे. १ i) सधा. तै ५,  
 ७, २, ३ नेषत् इति पाभे. १ वैष्ट १, १८४६ i अपि द्र. १ j) पाभे. वैष्ट १, १८४५ g द्र. १ k) पाभे.  
 वैष्ट १, १८४४ d द्र. १ l) पाभे. वैष्ट १ विचक्रमे वै ३, २, ६, १ इति. द्र. १ m) सकृत् पाभे. वैष्ट १,  
 १८४५ i द्र. १



श्रमा १४, ४४†.  
 नीयते आपथी २०, १७, ७;  
 वीथी १६, २५ : ६×४; कप्र;  
 नीयन्ते आपथी ५, १३, ११;  
 वीथी १८, २ : ३; १९, ५ :  
 ३५; २४, २९ : ८.  
 नय > रनयन् (र >) वी-  
 न्वा वीथी ६, १० : २६; ८,  
 ५ : १२×४; वैथी; -वयाम्  
 वैथी १६, ८ : ५.  
 नय-शस्त्र (ः) अप ६८, ४, २.  
 नय- पाग ५, २, ६४<sup>७</sup>; ६, १,  
 १६९<sup>७</sup>; -यम् शंष ११३; ५७<sup>७</sup>.  
 नय-क- वा ५, २, ६४.  
 १नय-यत्- न्वा शंष २५३.  
 नयत्- यन् काथी ५, ५, ९; ६,  
 ६, १×४; आपथी,  
 नयन्ती- न्ती वा ९, १८;  
 -न्तीः वीथी ८, ५ : २१†.  
 नयति-> एय(ति-अ)थे- न्थम्  
 श्रमा ५, ५७.  
 नयन<sup>७</sup>- पाठवृ २, ७८; -नम् काथी  
 २२, ३, २१; -नस्य नीम् ४, १,  
 २५.  
 नयमान- न्थनः वीथी १०, १० :  
 १; माथी ६, २, २६; काथी २,  
 १, १, ५०; वैथी १८, ४ : १.  
 नाय- वा ३, ३, २४; पावा ३, २, १.  
 नायक- कम् वैथी १८, १ : २४;  
 अप २४, १, ९.  
 १नीत्, वा- न्तः वीथी १८, ३० :  
 ८; बाधूथी ३, ४५ : ४; भाषि

१२५†; -तस्य वीथी १८,  
 ४१ : १७<sup>७</sup>; -ताः आपथी १३,  
 ६, १४; -तात् वा ७, १४;  
 -तासु आपथी १३, ७, १६;  
 काथीसं ३४ : १; वीथी.  
 नीत्-दक्षिण<sup>१४</sup> -नम् वीथी  
 २४, १३ : ५.  
 २नीत्<sup>१४</sup>-> त-मिथ- -अ आपथी  
 २०, २५, २; -अण आपथी १४,  
 २४, १४; २२, १०, १०; वीथी.  
 नीति- न्ती वा ५, ३, ७७.  
 !नीति-नारी<sup>१४</sup> -राः बाधूथी  
 ३, ३५ : ४.  
 नीत्वा काथी ४, ९, १२; आपथी.  
 नीय- पाठ २, २; -न्यानि<sup>१४</sup> आपथी  
 ५, ९, १; काथी ७, ९, १; -येऽ-  
 आपनं २, ११, ८†; -थैः भाथी  
 ५, ४, २.  
 नीय-विद्- -वित् काथी ७, ९,  
 १<sup>६</sup>.  
 नीया-> न्था-विद्<sup>१</sup> -विद्ः  
 श्रमा ९, १७.  
 १नीयन्तम् सुथ १३.  
 नीयमान, ना- नम् वीथी ३, २६ :  
 ४; ४, ६ : २९; वेताथी १३,  
 १२; वृदे ४, २७; -नस्य वाथी  
 ३, ४, ४, ७; -नाः विष ४३,  
 ३३; -नाम् काथी ७, ६, १४<sup>७</sup>;  
 आपथी १९, १७, १०; वीथी;  
 -नायाः काथीसं २८, १०; -नासु  
 आपथी १९, १४, १४; वीथी  
 १९, ६ : १५; दिथी २, १३×४;

नीथी; -ने वैताथी १०, १७.  
 नेत्(व्य>)न्या- न्वा या ४४, १५.  
 नेवृ- न्तः श्रमा १, १०१†;  
 -न्या थाथी ५, १४, १७; काथी  
 ७, १९, १२; ८, १७, १<sup>७</sup>; बाधूथी;  
 या १, ८; २, १४†; -न्याः थाथी  
 ७, ६, ६; आपथी १०, ८, ६; १६,  
 ८, १३; वीथी ६, ४ : ६; १०,  
 १३ : ५; माथी; पावा ५, ४,  
 ११६<sup>६</sup>; -न्याम् वीथी  
 ४, ४ : १७†; -न्याम् भाथी  
 ७, ७, १६†; कीत् ४८, ११.  
 नेत्री- न्त्री पाठ ३, ३, ५  
 -न्यो गोर ३, ४, २५†; द्राष्ट ३,  
 १, २३†.  
 न्यत्र- पावा ५, ४, ११६.  
 नेतोत् (ः) आपथी १०, १३, ३;  
 भाथी १०, ८, २.  
 नेत्र<sup>७</sup>- वा ३, २, १८२; पाग<sup>७</sup> २, ४,  
 ३१; ५, ४, ३; -त्रम्<sup>७</sup> अप २२,  
 ६, ५१०, १; -त्रे नेत्र १, १९ :  
 २२<sup>७</sup>; कप्र १, १०, ३; अप  
 २२, ७, ३४; वृदे ४, १५; -त्रेण<sup>७</sup>  
 कप्र १, ८, ४; अप २२, ८, २;  
 -त्रेषु माथि १५, ९; वासि २,  
 १०९; नासि २, ८, २३.  
 नेत्र-क- वा ५, ४, ३.  
 नेत्र-कन्यरा-वाहु-सक्ये (त्रि-  
 श्र)स-भङ्ग- -क्रे विष ५, ७०.  
 नेत्र-चपल- क्तः वाप ६, ४२.  
 नेत्र-द्रव- न्यम् शंष ५७, ४५६;  
 ४५८.

a) वैष १, १८४७ ० द.। b) भाष.। c) = साध्याऽन्यतम-। मयम् इति पाठः ? सनि. वीथः (वृ-  
 अपु २१९, २६ शक. च)। d) भावायर्थे वृद् प्र.। e) प्रकरणात्: अग्रिमन्तं नीतास्य इति (वृ. वीथी १८, ३० :  
 ८)। f) विष.। नस.। g) उप. = २दक्षिण-। h) नवनीत- इत्यस्योत्तरात्:। i) एय. अर्थः ३।  
 j) पागे. वैष १, १८४७ १ द.। k) पागे. वैष १ विद्वन्वित् तै ५, ६, ६, ६ टि. द.। l) वैष १ द.। m) पागे.  
 वैष २, ३४. अतिविच्छ्रमानान् कास ४, २, ४, १२ टि. द.। n) सप. सन्थी <> नैवे इति पागे.। o) = व्येचन-।  
 p) वृ. पागम.। q) = मन्वन-रज्जु-। r) विष. (उपानद्-)।

नेत्र-युग्म- -नमस् शेषि ३५६.  
नेत्र-विच्छ- -तः शेष ३७७ :  
११.

नेत्रा(त्र-मा)दि-करण- -जः अथ  
२३, ३, २.

नेत्रा(त्र-मा)द्यु(दि-उ)होत्र-  
शोभिष्ट- -ष्टम् अथ २१, ६, २.

नेनीयाम्/अस, नेनीयामास वीथी  
१८, ४०:१३.

नेन्य- पा ३, १, १३४.

नेट्ट- पाठ २, १५, पा ६, ४, ११;

पावा ३, २, १३५; -तं ०२: आथी

५, ७, ३; शोथी, -ष्टा आथी ४,

१, ६; ५, ३, २१; ५, १७; शोथी;

वाथी ३, २, १, १३५; -ष्टारः

काठथी १३०; -ष्टाम् आथी

५, १९, ६; शोथी; -ट्टुः आथी

९, ४, १७; १२, ९, ६; शोथी;

-ट्टा काठथी १४२; वीथी ७,

१६: ५१; ५३; -ट्टे आथी

१३, ५, १२; लाथी ९, ६, ६.

नेष्टा-नोत्र- -गरी वीथी १७,

१८: ४; १९: ४; वीथ ३, १०,

६; -नृन्याम् काथी १५, ६, २३;

वीथी १२, १८: १७.

नेट्ट-मुष्य- -क्यात् वाथी ३,

२, १, १५.

नेट्ट- -ट्टात् काथी ९, ८, १२;

आपथी ११, १९, ८; काठथी

१३०; वीथी ७, ९: ११; माथी

२, ३, ६, १७; दिथी ७, ८, ४२; पा

८, ३; १; ऋप्रा १४, ५८; पावा

३, १, ३४; २, १३५.

नेट्ट(ट्ट-अ)च्छावासीय-  
-ये काथी २४, ४, ४३.

नेट्टा(ट्ट-आ)दि- -दीन् काथी  
१२, २, १८.

नेट्टीय, वा- -यः माथी २, २,  
६, १७; -यस् आपथी १२,

५, १४; माथी २, २, ४, ४;

-यस्य माथी २, ३, २, २३;

५, २, १६; -यात् या ८, ३;

-याम् भाषि १३१.

नी(नि/इ), न्येति वीथी १५, ८:

१५; १६, ९: ४; विद्यन्ति

वीथी १४, २७: १; २८: ७;

अथ १, ६, २; ५; ऋना २, १०;

नीयात् आपथी ५, २६, ३.

न्य(नि-अ)यन- -नन् आथी २,

१२, २; आपथी १७, १३, ५;

वीथी; -नात् आपथी १८, ९,

१६; वाथी ३, ३, १, १७; दिथी

१३, ३, ३३.

न्या(नि-आ)य- -पा ३, ३, २७;

१२२; पाग ४, २, ६०; ३, ५४,

७३; ८, १, २७; -यः दाथी

३, १६, २३, ६, ११, १४;

वीथी; -यम् वीथी २४, १:

१४; निवृत्तः ऋप्रा १०, २२;

-यात् शोथी १५, २४, १; काथी

१३, ४, १२; -येन आथी

११, ४, ८; १२, ५, १३; १४;

माथी; -यैः ऋप्रा १, ५३.

नैयाय- पा ४, ३, ७३.

नैयायिक- पा ४, २, ६०;

-कम् भाषि १५, ११.

न्याय-नल्लक्षणा- -सः आथी

११, २, १२; शोथी १३, १८, ४;

निवृत्तः ८, ८: ४०; -ष्टम् आथी

११, २, ३; ८; १३; निवृत्तः -साः

आथी २, ४, २; ११, ६, १.

न्याय-वर- -रः निवृत्तः २, ९:

२१; ६, ५: २६; ७, १३: ९;

१८; -रेण निवृत्तः १, १०: १४.

न्याय-तस्रः (ः) शेष १३३; गौथ

११, ९.

न्याय-नृण्ड- -ण्डः विध ३, ९६-

न्याय-नृवं- -र्वन् नीत् ३, ८,

२०.

न्याय-प्रगाथ-धर्म- -र्मिण्याम्

लाथी ६, १, १२.

न्याय-मात्र- -त्रम् नीत् ५, २,

९; २१.

न्याय-मुत्त- -त्तम् अथा १, १,

४.

न्याय-वद- -वान् या १, १३.

न्याय-विद- -विदः आपथ २,

१४, १३; दिथ २, ३, २४.

न्यायविद्य-समय- -यः आपथ

२, ८, १३; दिथ २, १, ११५.

न्याय-विप्रतिषेध- -धात् नीत्

५, ३, २५.

न्याय-विहित- -तः लाथी ६, ७,

१३.

न्याय-वृत्त- -त्तम् गौथ ११,

१४.

न्याय-संहित- -तम् शुप्रा ५, ८;

-ताम् आपथ १, २२, १; दिथ

१, ६, १.

a) विप. । बस. > सलो. कस. > वृत्. । नेत्र- = उज्जुः, उल्लोच- = वितान- । b) तु. पाषि. ।

c) नेत्र १६. । d) ष्ठाः इति पाठः इति मनि. शोथः । e) विप. । बस. । f) नेष्टात् इति पाठः इति मनि. शोथः

(इ. १-१-२५०) । g) परलुप्य उस्. (गवा १, १, ६४) । h) बसा. । भाप. नाप. (श्रीचिन्त्य- दर्शन-शास्त्र-

प्रश्नः) । i) इ ११२६ ० द. । j) = प्रकृति- । k) = उत्सर्ग-विधि- । l) एकम् इति पाठः इति मनि. शोथः । m) उप. < विदुः । नाने । n) पृष. = न्याय-नियम- ।

न्याय-सिद्ध- -द्धः पावा ८, १, १२<sup>०</sup>.

न्याया(य-प्र)ग(त>)ता-

-ताम् श्रम ७, ११५.

न्याया(य-प्र)धिगम- -मे गौध ११, २५.

न्याया(य-प्र)न्ययन- -नरय अत्र १, १, १.

न्यायो(य-उ)क- -क्ते नीष्ट ३, ८, ४१; -केतु नीष्ट १०, ५, ७७.

न्यायो(य-उ)वित- -तम् बौधो २९, ८ : २२; कौष्ट ३, ९, ५१;

-वेभ्यः चाष्ट ७, ८, १.

न्याय्य, न्याः- पा ७, २, ५४; ४, ९२; -न्याः लाधो ७, १, ६; ३, १०; ४, ६; पावा १, २, ६४; मीष्ट ६, १, ४५; ९, ४, १८; -न्याः पावा ३, २, १०२; १२३; -न्याः लाधो ६, ९, २; -न्याः लाधो ६, ९, १; -न्याः मीष्ट १२, १, ११;

-न्ये निष्ट ८, ८ : ३३; -न्येन लाधो ६, १२, १४<sup>२</sup>.

न्याय्य-दण्ड-त्य- -न्यम् गौध १०, ८.

न्याय्य-प्रतिहार<sup>०</sup>- -राणाम् लाधो ६, ११, २.

न्याय्य-भाव- -वात् पापवा २, २.

न्याय्य-समाज्ञा- -ज्ञा लाधो ६, १०, २८.

नी<sup>०</sup> वाधो १, १, २, १६<sup>१</sup>.

नीक- पाठ ३, ४७.

नीकपिन्- नि/इ<sup>०</sup> इ. ४.

नीच<sup>०</sup>- पाठो २, २, ७८<sup>६</sup>; पाग ७,

३, १५२<sup>०</sup>; -चः शुभा १, १५०;

माधि ५, ११; ६, १; ७, १०; माधि; -चम् दाधो १, ३, २५; माधि;

-चस्य ऋत् ५, ४, २; नाधि १, ७, २; -चा<sup>०</sup> दाधो ७, ३, ६; ९, ५; काधो; वा ७, २४<sup>१</sup>कृ;

-चात् माधि ५, १; २; याधि १, ५८; कौधि ३२; नाधि १, ८, ६; २, ३, ३; -चे दाधो १, ३, २५;

अप ६५, १, २; ऋत् २, ६, ४; शैधि १३६; याधि १, ३; नाधि १, ७, १२; -चेन नाधि १, ७, ८;

-चै<sup>०</sup> काधो ३, ६, ७; आपथो; वा २, ५; ७, २४<sup>१</sup>; ५, १८; वा १, २, ३०; पाग १, १, २७; -चो शैधि १७७; याधि १, ७.

नैच- वा ७, ३, १५२.

नैच(च>)चा<sup>०</sup>-> नैचा-द्या- (चा>)त्<sup>०</sup>- -चम् वा ६, १२कृ.

नीच-नात्- -तानि याधि १, ५१.

नीच-तर- -रम् माधि ५, १; २; याधि १, ५८; ६५; कौधि ३२; नाधि १, ८, ६.

नीच-तत् (:) नाधि २, ३, २.

नीच-त्वं- -त्वंम् कौधि ५; -त्वे कौधि ५.

नीच-दक्षि(णा>)त्<sup>०</sup>- -णस्य चाष्ट १, २३, २०.

नीच-पूर्व- -र्वः शुभा १, १११; याधि १, ७८.

नीच-स्वर- -र्वः- -राः शुभा १, ११३.

नीच-स्वरित- -वम् उच्च ८, २०; २६.

नीच-स्वार-प्रतो(त-उ)दात्त- -चात् कौधि ३८.

नीचा-पूर्व<sup>०</sup>- -र्वः तैत्रा ५, ८.

नीचा(य-अ)वमह- -हम् माधि ६, ५.

नीचा-द्या(द्या>)त्<sup>०</sup>- -न्यः वा ६, ३२.

नीचो<sup>०</sup>च<sup>०</sup>, नीचोभवति अप ५०, १, ३; ४.

नीचो-च्छ- -न्याि तैत्रा २२, १०.

नीचो-गामन- -नम् वा १, ११; अम्रम् ८.

नीचो-शा(शा>)त्<sup>०</sup>- -सः वा ६, ३२.

नीचेत्-तर-> पात्त काधो ७, २, २८<sup>३</sup>; आपथो १०, ४, १०<sup>०</sup>;

२७, १४, ५; वैधो १२, ४, ७; ६; द्विधो २१, २, ४०; चाष्ट ७, १५, १८<sup>१</sup>; कौष्ट ७, ३; तैत्रा १, ४४.

नीचेत्-ता- -तायाम् द्विधो ६, १, ४.

नीचो(च-उ)च-त्वं- -वम् याधि २, २७.

नीचो(च-उ)च-स्वार-संप(स>) -स- -साम् तैत्रा २३, २४; कौधि ६७.

नीचापा, यीक<sup>०</sup>- (><sup>०</sup>पकोच, षकीय- वा.) पाग ७, २, १००.

नीची<sup>०</sup>, नीचीन- प्रथ. न्य(नि/अ) च्, च् ६.

नीड<sup>०</sup>- पाठो २, २, ११५; पाग २, ४, ३१; -चम् उ ३१, १; याप ६, ३; निप ३, ४<sup>१</sup>; -दात्त बोधो ६, १७ : ८; वधो १२,

a) दु. पाप्मि. । b) विप. । वत्. । c) सवा. आपथो ७, ४, ५ भाधो ७, ५, ५ द्विधो ६, १, ५१

इन्ः इति पाथे. । d) विप., नाप. (अनुदात्त). । e) वैप १ इ. । f) <<sup>०</sup>चम् । g) अर्थः? । दु. पाप्म. ।

३नीप- इति भाष्ये. पाप्मि., नीळ- इति [पथे] पाप्मि. । h) उप. = २३शिव्या- । i) विप. । वत्. > वत्. ।

j) दु. भाष्ये. प्रथ. । k) दु. पाप्मि. ।

२१: १५; -हे आपथी ११, १७, १०; १२, २, १२; बोधी. १,२नीत- नीति- प्रयु. ✓नी द. १नीप- (> नीप-वा.) पाठ ३, २३; पाग ४, ३, १५२<sup>b</sup>.  
२नीप- > नीप्य- व्याप्य शुभ्रा ५, ३०<sup>†</sup>.  
नीपातिधि- षि: ऋञ्च २, ८, ३४; ताञ्च १, ३४८.  
नीयन्तम्, नीयमान- ✓नी द. नीर- पाठ २, १३; -रम् अथ ४८, ७५<sup>†</sup>; ८५<sup>†</sup>; निप १, १२<sup>†</sup>; या १४, ११.  
नी (< निर) रजस्- (क) कार्- का बोध २, ३, ६३.  
नी (< नि) / राज् > नी-राजव- नम् अथ १७, १, ४; ८, १८<sup>†</sup>, ८, १, १२, २; १६, १; -ने अथ ३, ७, ८; अथ २४, १, २.  
नी-राजवित्वा रूप १८, ३, ९.  
✓नील् पाथा. भ्या. पर. वने १नील. लाट्- पा ४, १, ४२; पावा ४, २, २; पाग ३, १, १२<sup>b</sup>, १३, ४, ३, १५२<sup>†b</sup>; -ल: अथ २४, ३, ४; -लम् बोधी १४, १: १०, १२<sup>†</sup>; आपथ्य शंघ ११६<sup>†</sup>; बोध २, ५, २५<sup>†</sup>; -ला अथ २१, ६, २; -ला: अथ ४३, ५, ६०<sup>†</sup>; नाशि २, १; उतिस् ८: ७; -लान् विध ५०, २५, -लानि बोधी २६, ५: ३१; -लान् जण २, १: ३४; -लाय आपथ्य २, ६, ८: ३४<sup>†</sup>;

-लेन अथ १५, १; -लिषु आपथी १७, ५, ३; वैधी १९, ५: १८; हिथी १२, २, १७; -ले: अथ ७०<sup>†</sup>, ७, १७; ७१, ११, ५.  
नीलो- पा ४, १, ४२; -ली कौस् १२६, ५.  
नीलो-काण-क्षत- त: शंघ ४१२.  
नीलो-रक्त- -कम् विप ६६, ३.  
नैल- पा ४, ३, १५२.  
नील-मीव- व्याय बोध २, ५, ३३; बोध २६, १२.  
नील-नल- -लेभ्य: अथ ४६, ९, ४; अथ १९, २२.  
नील-पद्म-पत्रा (प्र-अथ >) क्षी- क्षीम् विप १, २२.  
नील-पर्वत- जे विध ८५, ११.  
नील-वन्धन- न: हिण २, ७, २१<sup>†</sup>.  
नील-सौम- -मम् शंघ ११६: ३.  
नील-सु (>) क्षा- क्षा: कौस् ११७, १.  
नीलमक्षा (धा-अ) नाचार- -रे कौस् ९३, २४.  
नील-मक्षिष्ठा- का बोधी २७, १: १.  
नील-रश्मि-प्ररोह- -हन्त: अथ ६५, १, ११.  
नील-रुद्र- -त्रै: अथ १९, ३, ५.  
नील-लोहित- -तं शुभ्रा २, २०; -त: अथ २, ३<sup>†</sup>; अथ ४८, ११६; -तम् कौस् १, ८, ८; पाण १, १२, ८; काण ३१, ४;

-ताभ्याम् बोधी ५, १७: ४; २१, ६: ४; वैधी; -ते बोधी ५, १६: ४<sup>†</sup>; आपथ्य १, ६, ८<sup>†</sup>; आपथ्य ३, ६, ३: ४; वीण १, ५, १०<sup>†</sup>; वीण १, ११: ४; कौस् ८३, ४; -तेन काण ३१, ४; पाण १६, ११; कौस् १६, २०.  
नीलोहित-पर्यन्त- -का: अथ ५७, १, ७.  
नीलोहित-पर्यन्त- -न्त: अथ ५३, ५, ३; -न्तम् अथ ६१, १, १४.  
नील-लोहित-पीत- -का: अथ ६४, ३, १०.  
नील-व (>) णी, णी- -णाया: अथ ३८, १, ५; -ग्या: आपथ्य २, ७, ७: ६.  
नील-वृष- येण शंघ ३३३.  
नीलवृष-वत्स-प्रभव- -व: शंघ ३३३.  
नील-शिरण- -गण्ट हिण १, १५, ६; -पडेन अथ ११, २<sup>†</sup>.  
नीला (ल-अ) ङ- > ङ-लोहित- ल- ली अथ ६४, ६, ५.  
नीला (ल-अ) ङ- नै (>) ङा- -त्रे विध ९९, ३.  
✓नीलाय पा ३, १, १३.  
नीलो (ल-उ) षल- > ष-दल-प्र- (भा >) म- -मै: अथ ६४, १, १०.  
नीलोत्पल-निम्न- -म: अथ २१, ७, ३.

- a) अर्थ: व्यु. व?। b) नीच- टि. द.। c) वैप १ द.। d) उदक-।  
e) = गृह-। f) विप.। वम.। g) = धाराधिक-। h) वृ. पागम.। i) = महापर्वता-  
न्वयतम-। j) अथ.। k) = वम-। l) सपा. आपथ्य २, १६, १ पाण १, १६, २४ बालवन्धन: इति पाथे.।  
m) = नाताल-विशेष-। वम.। n) उप. = मसिद्ध-। o) = मन्त्र-विशेष-। p) वैप १, १८५- ३३ द.।  
q) पाथे. वैप १, १८५- ० द.। r) = शिव-। वस.। s) पाथे. वैप १, १८५- ७ द.। t) विप.। वस.  
> अथ.।

नीलोत्पल-यु(त>)ता- -ताः  
विष १, २७.

नीलो(ल-उ)पकार<sup>३७७</sup>- -शः  
आपथी ६, ९, ११.

नील<sup>३</sup>- पाय ४, १, १५४; -लाः  
बोधप्र ४८: ८; १३.

नीलायनि- पा ४, १, १५४.

नीला(ल-आ)त्रिय- -याः बोधप्र  
२७: ९.

नीलङ्गु<sup>३</sup>- पाठ १, २६.

नीलागलसाला<sup>३</sup>- -का अय ४८,  
११६; अया ३, ४, ७.

नीघ् पाधा. अत्र. पर. स्थीत्ये.

नीचर- पाठ ३, १.

नीचार- नि<sup>३</sup>वृ(भोजने) द.

नीचि, वी<sup>३</sup>- पाठ ४, १३६; -निविः

काथी ७, १, २३; आपथी १०,  
६, ६; भाथी १०, ४, ४; द्विथी

१०, १, ३९; शुभ १, २५०;  
-विम् काथी ४, १, १५७ ७, २,  
१७; ३, २३; आपथी १०, ६, ६;

द्विथी १०, १, ३९; -योः द्विथी  
९, ४, २८; -वीम् काथी ५, ९,  
२०; माथी १०, ४, ४; माथी.

नीचि-वेश- -से बोधी ३, २७:  
२९.

नीची-हस्त<sup>३</sup>- -स्तेन अय १, २८, ४.

नीचृत्- नि<sup>३</sup>चर द.

नीचर- / नीहाराय नि<sup>३</sup>च द.

नी<sup>३</sup>> वृ<sup>३</sup> आथी ३, ७, १३; ८, १<sup>३</sup>४४;  
६, ४, १०<sup>३</sup>; शोथी; आपथी ५,  
६, ३; बोथी १०, ११: १<sup>३</sup>६;

वैष ४, ८, ७<sup>३</sup>; या १, ४<sup>३</sup>;  
४, २; १७<sup>३</sup>४; १०, ३४; पा ६,  
३, १३३; पाय १, ४, ५७.  
सुकम्<sup>३</sup> निष ३, १२<sup>३</sup>; पाय १, ४,  
५७.

नी<sup>३</sup>वृ, नू पाधा. अत्र. वृदा. पर.  
स्तान्ते, नवते निष २, १४;

नवन्ते अत्र २, ९, १००; साध  
१, ५५०; श्रया ७, ४३.

नीति अत्र ४८, ९; निष ३, १४.  
अनूपत आथी ६, १, २; ८, ३, ३४;

शोथी १२, १२, ६; वैताथी २५,  
९; कौस् ४७, १६; अय ३७, १,  
९; अत्र २, ३, १०; ४३;

साध १, ३७५; या ४, १९<sup>३</sup>४;  
श्रया ४, ७८.

नोतुनाः आथी ५, १५, २; ६,  
५, १८; आपथी.

नवन- -नम् या ४, १६.

नु<sup>३</sup>- तुः श्रया ३, १३३४४.

नी<sup>३</sup>वृ पाधा. वृदा. उभ. प्रेरणे, उरते  
बोथी २३, ७: ३; उरति या ५,  
२६; उरन्ति तु ८, १; उरतु

कौस् १३५, ९<sup>३</sup>; उरतात् बोथी  
२, ९: ४<sup>३</sup>; उरन्तु कौस् १३५,  
९<sup>३</sup>; नी<sup>३</sup>वृत्त्व वैताथी ४, ५;

माय १, १३. १५; २, १, ७;  
अथाय २, ५; नी<sup>३</sup>वृ, > वा अय  
४२, १, ८; श्रया ३, १०७; तैत्रा  
३, ८; उरत माय २, १७, ११.

अनुवत् वृदे ४, २३; उदेत् श्रया  
११, ४३; उदेय बोथी १७, २८;

१७; द्विथी १२, ८, ७; आपथु  
१२, ६१; द्विथु ४, २८१.

नुतुदे बोथी १८, ३१: १५१.  
नुदेत् बोथी २३, ७: ४.

नुत्<sup>३</sup>- पा ८, २, ५६; -चान्त्  
अत्र २, ३, १६१.

उदत्- -वृत् वैताथी १४, ११.  
उदत्- पाठना ३, ५१.

नी<sup>३</sup>वृगता- -ने आपथी ४, ६, ५;  
भाथी ४, ९, ३; वैथी ५, ७: ५;

द्विथी ६, २, १६.  
नुत्- पा ८, २, ५६.

नोचमान- -नः तु ८, ४.

नुत्<sup>३</sup>- -त्तुः अय ४८, ११६.

नी<sup>३</sup>वृ / वृ द.

नी<sup>३</sup>वृ<sup>३</sup> आथी ४, ४, ४<sup>३</sup>; भाथी ४,  
५, ५; द्विथी ६, १, ५१.

नी<sup>३</sup>वृत्त<sup>३</sup>- पावा ५, ४, २५४; -नम्  
अय ४८, ६९; निष ३, २८;

अया ३, ४, १; -नाः आमिष्ट  
३, ४, १: १५; वीपि १, ४:  
१०; १५: ४; -नेन आथी ३,  
८, १; ५, १७, ३; बोथी १३,  
२२: ४; अथाय ६, १; -नैः  
या ७, १६४.

नी<sup>३</sup>वृ<sup>३</sup>- पावा ५, ४, २५; -नी<sup>३</sup>वृ अय  
४८, ६९; निष ३, २८.

नी<sup>३</sup>वृन्म<sup>३</sup> आथी २, ९, ४४४; शोथी;  
या १, ५, ६; ११, ३६; नृगम  
बोथी १८, ४५: २२.

नूपुर- पाठमो २, ३, ५३; पाय २,  
४, ३१<sup>३</sup>

a) विप. । वस. । b) उप. =पकार- । c) =कवि-विशेष- । व्यु. १ । d) वैप १ द. । e) अनु ।  
इति पाठः इ यनि. शोधः (वृ. ऋ ८, १५, ७) । f) पामि. वैप १ परि. अनु ऋ ३, १७, १ टि. द. । g) अनु इति  
पाठः इ यनि. शोधः (वृ. मा २७, २४) । h) अनु इति पाठः इ यनि. शोधः (वृ. लाट ४, ४, ४) । i) पामि.  
वैप १ परि. अमिषयः ऋ १, १३४, २ टि. द. । j) =स्तोत्र- । कण्ठे खुद् द. । k) =न- (वृत्-विशेष- ) ।  
व्यु. १ । l) अर्थः व्यु. व ! । m) पामि. वृ १४४५ C द. । n) नृ इति पाठः इ यनि. शोधः (वृ. C., भाथी.  
प्रष्ट. च) । o) =पाद-मूषण- । व्यु. १ । p) द. पामि. ।

नित्तं<sup>०</sup> द्वि २,९,१०.

नृ- पाउ २,१००; पा ६, १, १८४;  
 ४,६; पागवा ४,१,७३; नृनरः  
 काथी २, १३, ७५x; शोथी;  
 माथी ५, २, ८, २००; या १,  
 १०; ५, १०; ९, १९;  
 १०, ३०; नृनरः काथी ८,  
 ३, ३००; शोथी ६, १०, ८;  
 १०, २४, २०; १६, ११, ९;  
 काथी १०, ५, ४०; आपथी ११,  
 ५, १९; माथी १,२,४, १९९; माथी  
 १,३,२, १९; लाथी; नरम् काथी  
 ७, ४, ३९, शोथी १८, ५, १९;  
 वेताथी<sup>०</sup> ४०, १४; ४३, १;  
 ४२, ५; ऋपा ७, ४३, नृनरा  
 आथी ४, १५, २; शोथी ६,  
 ६, ६; ७, १०, १०. नृनरा  
 काथी ७, ९, २, शोथी, या ५,  
 २४; नरे आपथी १४, २९, २०;  
 नृनरी अयाय ६. ०; नृणाम्  
 नृमाथी ८, ६, १२; ९, ५, ५;  
 शोथी; या ६, ११<sup>०</sup>; नृनृभिः  
 काथी ६, १२, ११; शोथी; या  
 ५,६; नृभ्यः या ११, १६,  
 पाका ७,३,१०९; नृपु वृदे ७,  
 १०; नृणाम् अप ३१, १०, ५;  
 ७०, १, २; शंघः नृपु शोथी  
 १४, ४३, १<sup>०</sup>; वेप ३, ११, ७,  
 या ११, ११<sup>०</sup>; ऋपा ४, ७१<sup>०</sup>;

उरुका; ७९<sup>०</sup>xx; पा ८, ३,  
 १०.  
 नरारि, शि<sup>०</sup>- पावा ४, १, ७३;  
 ४, ४९; -नृंरि शोथी १६,  
 १३, १३; वेताथी; आपमं १,  
 १३, २<sup>०</sup>; -नृंरिषु वीथी १३,  
 १३:५; काय ७३, २; वा  
 ११, ३८; -री शोथी १२,  
 २४, २<sup>०</sup>; लाथी ९, १०, ६<sup>०</sup>;  
 आपमं; -नृंरिः शोथी ४, १६,  
 ६; काय ४, ६, १२; कौट;  
 -रीणाम् अप ६४, ८, ७; ७३,  
 १८, १; शंघः -रीम् कायि २,  
 ७, ६:४; १०; ज्येथः -रीषु  
 विथ २९, २१; -मं सु ४, २;  
 अप ७०<sup>०</sup>, १०, २; ७०<sup>०</sup>, ११, ११;  
 -याः शंघ ३००; -नृंराम्<sup>०</sup>  
 कायमे १, १२, ६; माय २,  
 १८, ४; -नृंरि आपमं १, ८, १.  
 नरी-निबन्धन<sup>०</sup> -नः यासि  
 २, १०२; नासि २, ८, २४.  
 नरी-मप्य- -ज्ये विथ ७०,  
 १५.  
 नरी-सुख-प्रसव<sup>०</sup> -याय  
 अम १, ११.  
 नर(र-आ)दि<sup>०</sup> -दिः वेथी २१,  
 ३:४.  
 नृ-वचस<sup>०</sup>- पाउ ४, २३३; -०क्षः  
 वाथी १, ६, ५, १०; -नृक्षसः

शोथी ९, २८, १०; काय ४०:  
 ८; -नृक्षसम् शोथी ७, ४, ४;  
 आपथी; -वसा द्वि १८:  
 ८<sup>०</sup>; -नृक्षसाम् काथी १७,  
 १०, १३; वीथी १०, ४२: १०;  
 माथी ६, २, १, २४; -नृक्षाः  
 काथी ५, १९, ४; शोथी ७,  
 ४, ४<sup>०</sup>; जैथी; नासि ११, ३<sup>०</sup>.  
 नृ-जिव<sup>०</sup> -जिवम् शोथी १४,  
 ४३, १.  
 नृजिव-अभ्रुति- -विभ्यः शोथी  
 १५, १०, ६.  
 नृ-नृ-ज्यायम्<sup>०</sup> माथी ५, १, ५, ६७.  
 नृ-तम- -मः शोथी १८, १५, ५;  
 -मम् आथी ८, ६, १२; शोथी  
 १४, ३, ७; १८, १९, ७.  
 नृ-नम<sup>०</sup>, नृ-नमन- पाग ८, ४,  
 १९.  
 नृ-प, पा<sup>०</sup> - ०० वृदे ३, १४६;  
 -पः अप २, १, ५xx; विथ;  
 अम २०, ६३३; -पम् अप ७,  
 १, ३२xx; वृदे; -पस्य कप १,  
 ६, ५; अप; -पाणाम् अप ७,  
 १, १३; ७०<sup>०</sup>, १०, ४; -पाय  
 का २४, ५, ५; -पायाम्<sup>०</sup> वेध  
 ३, १४, १; १५, ६; ८; ९; -ये  
 शोथी १६, ९, १०<sup>०</sup>; अप ६९,  
 ८, २xx; -पेय अप २, ४, २;  
 ५, ५, १; -वी वृदे ५, १२७.

- a) पाठः। तर्कम् (नृ. भाष्यम्) इति संस्कृतः टि. ? ।  
 (तस्मा ३, १, २, ३) नर- > नः इति ।  
 f) पामे. वेप २, १४३ नृः तस्मा ३, ७, ७, ११ टि. द. ।  
 १, १८५६ टि. ।  
 g) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 h) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 i) पामे. वेप १, १८५७ टि. द. ।  
 j) नृत् इति पाठः। यनि. घोषः (नृ. II. ५). ।  
 k) वेप १, १८५९ टि. द. ।  
 l) महत् पामे. वेप १, १८५९ टि. द. ।  
 m) पामे. वेप २, १३५५ टि. द. ।  
 n) पामे. वेप १, १८५९ टि. द. ।  
 o) विर.। वर. ।  
 p) पामे. > नृत्. ।  
 q) पृ. = < नृ > नृत्: (स. ७, १, १) इति ।  
 r) पामे. वेप १, १८५९ टि. द. ।  
 s) उपरिष्ण संघिपार्षः। सघ. यासि २, ९४ सघना इति पामे. ।  
 t) = अन्तु-  
 विद्येन-। उर. उच. वरुणे प्र. ।  
 u) [पक्षे] पागम. ।  
 v) नाप. । ध्यु. ? ।  
 w) कर्तरी < नृत् (नृ. वेप १, १८० i) इति महत् ।  
 x) = पयिवा- ।  
 y) पामे. वेप २, १४३. इति माघ ३, ५, १८ टि. द. ।  
 b) वेप १ द. ।  
 c) वेत्. भा. सा. पामे. वेप १, १६०६ टि. द. ।  
 d) वेप १, १०८८ टि. द. ।  
 e) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 f) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 g) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 h) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 i) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 j) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 k) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 l) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 m) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 n) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 o) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 p) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 q) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 r) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 s) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 t) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 u) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 v) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 w) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 x) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 y) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।  
 z) पामे. वेप १, १८५६ टि. द. ।

वृष-क्षय<sup>०</sup> - ये-वृदे ५, १९.  
 वृष-इक्षव - नम् आज्यो ८, २.  
 वृष-म.सा.र-संनिधि- -धौ अत्र  
 ६४, ६, ९.  
 वृष-प्रेष्य<sup>०</sup> - न्ने अत्र ७०<sup>३</sup>, १०,  
 ६.  
 वृष-राष्ट्र- -प्याय अत्र ७, १, ९.  
 वृष(१-३)पि-कुल- (ज > )  
 जा<sup>०</sup> - जा वृदे ५, ५७.  
 वृष-वाता(त-त्र)धिपता- -वाम्  
 अत्र २४, ६, १.  
 वृष-स्त्री- -स्त्रियाम् अत्र ७०<sup>३</sup>,  
 १०, ६.  
 वृषा(१-२आ)य<sup>०</sup> - धानाम् अत्र  
 ६३, २, ४.  
 वृषा( १-अ)धक्ष- -क्षाः अत्र  
 ६८, ३, २०.  
 वृषा(१-अ)भिपेक- -कम् आज्यो  
 ८, २.  
 \* वृषा( १-आ)लय- -यम् अत्र  
 ७०<sup>३</sup>, २३, ८.  
 वृषनि<sup>०</sup> - तिः अत्र ३, २, ५; १९,  
 १, १३××; वृदे ७, ५९; ८, १;  
 -तिम् वीथी १३, ५ : १४; वीथ  
 ५, ३, ३१; आभिष्ट ३, ६, १ :  
 २९; वीथि १, ९ : ६; -तिपु  
 अत्र ५१, ५, ३; -ती वृदे ५, ६२;  
 -फंते<sup>०</sup> वा ६, १; श्रुता २, १९;  
 -तेः अत्र २४, ३, ५××; विध ३,  
 १७; वृदे ५, ३२; -तौ अत्र ६४,  
 १०, ६.  
 वृषति-नाम- -गः अत्र ५१, ४,

३.  
 वृषति-प्रयाण- -गम् आज्यो  
 ८, २.  
 वृषति-सय-कर- -राः अत्र  
 ७०<sup>३</sup>, ११, २९.  
 वृषति-वध- -धे विध ५०, ११.  
 वृष-वाण<sup>०</sup> - गः आपथी १६,  
 १४, ५; वाथी २, १, ५, २०;  
 वंथी १८, १२ : १३; -गम् वा  
 ५, २६१०.  
 वृष-वाय<sup>०</sup> - वयम् श्रुता ४, १५३१  
 वृ-सगस<sup>०</sup> - वृणः द्राथी २, ४, १;  
 लाथी १, ८, १; -वृणसि<sup>०</sup> जैथी  
 १४, १७; जैथीडा १४१; -फणाः  
 वीथी १५, ७ : १४; वंताथी.  
 वृ-मव<sup>०</sup> > नामंतव - वे पात्रा ८,  
 ३, ९.  
 वृ-मादन<sup>०</sup> - नम् निस् ८, १ : १९.  
 वृ-मेघ<sup>०</sup> - धः श्रम २, ८, ९८××;  
 श्रम; अत्र २०, ६२; ६४<sup>१</sup>; १००;  
 १०४<sup>१</sup>.  
 नामंध<sup>०</sup> - धः श्रम २, १०,  
 १३२; -धम् राथी २, ४, १;  
 लाथी ८, १, १८; १०, १०, ११;  
 श्रम; -धस्य लाथी ६, १२, ३;  
 १०, १०, १३; -धाव् धुम् १, ५,  
 २७; निस् ४, १० : ९  
 नामंध-सटय- -सम् निस्  
 ६, ४ : ३.  
 नामंध-स्तोत्रीया- -वं  
 निस् २, ११ : २६.  
 फं नामंधा(ध-अ)न्व- -न्ते

द्राथी १, ४, १८; लाथी १, ४,  
 १४.  
 वृमेघ-सुसमेघ- -धयोः श्रम २,  
 ४२७; -धौ श्रम २, ८, ८९;  
 साथ १, २४८××.  
 वृ-मेघस<sup>०</sup> - घसः वाय ४१ : २०.  
 वृ-यज<sup>०</sup> - अः कत्र २, ३, ३; विध  
 ५२, २५.  
 वृ-लोक- -के विध २०, ४०.  
 वृ-वत्<sup>०</sup> आथी ६, ७, ६; ८, ७, २२;  
 वाथी.  
 वृ-वत्- वत् वीथी १८, ६ : १३;  
 -वत्तः आपमं १, १४, ३.  
 वृवती- -तीः आपथी २४,  
 १३, ३१.  
 वृवत् सवि<sup>०</sup> - स्वा वीथी ३, २२;  
 १४१.  
 वृ-वर<sup>०</sup> - पाग २, २, ३१.  
 वृ-वराह<sup>०</sup> - पाग २, १, ६२.  
 वृ-वाहण<sup>०</sup> - गम् काथी १२, ३,  
 १४<sup>१</sup>; कापथी.  
 वृ-वाह्य<sup>०</sup> - दसा वीथी १५, २४;  
 ५१.  
 वृ-वंस<sup>०</sup> - सम् अत्र २, ६, २; -सस्य  
 शंष ४३४; -साः काथी २२,  
 ४, ४.  
 वृ-वंस-नाम- -गः काथी २२,  
 ४, ७.  
 वृ-पद<sup>०</sup> - पाग ३, १, १२; -वत् वा  
 १४, ३११; -फदम् आपथी  
 १८, २, १; वीथी ११, ३ : १०;  
 वंथी १४, ९ : ४; द्विथी १३, १,

a) उप. < √क्षि (निवासे) । b) उप. = वृष- । c) विव. । कस. > उप. । d) विप. ।  
 वस. । e) वैष १ द. । f) पागे. वैष १, १८६० । j द. । g) पाठः ? नृमगाः जति इति शिपदः शोधः संभाव्यते  
 (तु. मवा. ना २२, १९) । h) व्यप. । i) प्धाः इति पाठः ? यनि. शोभे । j) वी इति पाठः ? यनि. शोधः ।  
 k) व्यप. (स्रज.), स्तोत्र-विशेष- (शाथी.), साम-विशेष- (अयत्र) । l) = शक्ति विशेष- । व्यु. ? । m) = महायज्ञ-  
 नद- । n) तु. पागम. । o) वृषादरण्य इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ २, ३७, ५) । p) वैष  
 १, १८६२ । j द. ।  
 वैष-प्र-८७

वृ->

१६; -नृषदे काश्री १८, ३, ५; आपथी.  
 नृनार्यद\* - दः क्रमा ५, २०;  
 -देन शौच ४, ८३.  
 √नृपाय पा ३, १, १२.  
 नृनृ-पल\* - छे क्रमा ९, ४३; ४४.  
 नृ-पा\* - याः क्रमाय ६, ३१.  
 नृ-पासहि - हिः माथी १, ६, २,  
 १०१.  
 नृ-य-ह\* - पाहम् क्रमा ९, ४०१.  
 नृ-पाह\* - छे क्रमा ९, २०१.  
 नृ-पू\* - तः क्रमा ७, २३१.  
 नृ-न्यक्षस् - प्रभ. वृ-द.  
 √नृत्\* पाथा. दिवा. पर. गात्रविक्षेपे,  
 नरैति अय ६८, ४, २.  
 नृयति वापथी ३, ४१ : ५१;  
 नृयन्ति शीस् १०५, १; अयं ३.  
 ५५१; या ५१.  
 नरुं\* - पा, पाग ३, १, ११४.  
 नरुं\* - [वि] ( > नासिक- पा. )  
 पाग ५, १, ६४.  
 नरुं\* - पावा ३, १, १५५; -कः वैष  
 ३, १२, १०.  
 नरुंकी - वयः आसिध ३, ८, १ :  
 २१; शीति १, १४ : १९.  
 नरुंन - पाग ८, ४, १९; -नम् काय  
 ३, १०; २२, १; अय ६४, ४,  
 १०; ६८, ५, १३.  
 नृयति\* - उये आसिध ३, ७, १ :  
 २०; शीति १, १० : १८.  
 नृयत्\* - ००वे निम् १, ७ : १६१;  
 क्रमा २, ४२; अय ३, २, ८.

नृय- पाठ १, ११.  
 नृय-> नृय-गीत-वादित्र- ग्राणि  
 हिपि १४; १५; आपथ २, २५,  
 १४.  
 नृयगीतवादित्र-वपु- वत्  
 काथी २१, ३, १११.  
 नृय-गीत-वादित्र-गन्ध-मास्थो-  
 (ल्य-उ)पानच्-छत्रधारणा(म-अ)  
 जन(न-व)अयजन-वर्जित्-  
 -र्त्तौ वीप १, ३, २५.  
 नृय-गीत-वादित्र-रुदित-साम-  
 शब्द- -व्येषु वीप १, ११, २३.  
 नृय-गीत-वाद्या(व-आ)दि-  
 -दीनि आसिध २, ४, ३ : १८.  
 नृय- > नृय-गीत- -जे बाय ६,  
 २३; विप ७१, ७०  
 नृयगीत-शील- -लेभ्यः  
 विष ९३, १४.  
 नृय-गीत-कथा-शील- -लाः  
 अय ६८, १, ४१.  
 नृय-गीत-वादित्र- -तानि  
 आथी १२, ८, १८.  
 नृय-गीत-वादित्र- -ग्राणि पाय  
 २, ७, ३; आपथ २, २५, १४,  
 हिप २, ५, १९४.  
 नृय-वादित्र-गीत- -तानि अय  
 ६४, ६, २.  
 नृयत्- -वपुः शीस् ९३, १३;  
 -त्यन्ति. अय ६८, २, ४२.  
 नृयत्तम- , नृय-प्रभ. वृ-द.  
 नृयन्ति\* - गिः पाय १, १६, २३.  
 नृ-मादन- वृ- द.

नृयन्ति\* - अगः आपथी १३, १६, ८;  
 हिथी १०, ५, १२; -अगम्  
 शीथी १०, १४, ६; माथी; या  
 ११, ९४; -अगस्य आपथी १३,  
 १६, ८; हिथी १०, ५, १२; या  
 १०, १०४; -अग उस् ३, ५.  
 नृ-य-व- प्रभ. वृ-द.  
 √नृ<sup>१</sup> पाथा. भ्वा. क्वा. पर. नये.  
 नेक\* - का साय १, २०१.  
 नेक्षणा\* - अने शीस् २, ११; ८७,  
 १२.  
 नेग\*<sup>१</sup> - गेभ्यः साय १, १.  
 नेगि- -गिः अय ४, ३, २; -गिग  
 अय २, ६, ९.  
 नेगेष\* - याः चव्यु ३ : ८.  
 नेजमेप\* - ००प आपथ १, १२, ७;  
 आयः वृदे ८, ८३<sup>१</sup>; -पः वृदे  
 ३, ५९<sup>१</sup>; -पाय वीप २, ६, १८.  
 नेजमेप\* - वन् माय २, १८, ४.  
 नेतव्य- , नेवृ- , नेतोष, नेत्र- प्रभ.  
 √नी द.  
 नेत्व- पाठना ४, ११६.  
 नेवृ\*<sup>१</sup> आथी ३, ३, १; आसिध ३,  
 ५, ७ : २५; या १, ११; अय  
 ६, १०; भास् २, ६; पाग १,  
 ४, ५७४.  
 √नेवृ<sup>१</sup> पाथा. भ्वा. उभ. कुत्सार्त्तन-  
 कर्त्तव्यो, नेदति निय २, १४४<sup>१</sup>.  
 नेवृ\* - > नेदिष्ठ- पा ५, ३, ६३; -उः  
 शीथी १५, २३, ११; आपथ १,  
 ४, १५१; आसिध १, ५, ४ :  
 १०; अय ४, ११; -अय

a) वेप इ द. । b) पा १, ३, ८९; ७, २, ५७ पागवा ८, ४, १९ परामृष्टः द. । c) मेघ- , नरुं- इति भागदा. पासि. , मेघानरुं- इति पाका. । d) पासि. पाठः । e) वरुं- इति पाका. । f) त्तः इति पाठः इति. शोषः (पु. अ. २, २१, ४) । g) = वाटप्रद-विशेष- । म्यु. ! । h) पाथे. वृ १००० इ. । i) पा ७, ३, ८० परामृष्टः द. । j) = ऋषि-विशेष- । म्यु. ! । k) < √निवृ इति शंशुः टि. । l) = शाखा- , तदप्यायिन्वा । देन प्रोक्तमधीयत इत्यर्थे वृक् > एवः प्र. उरुं. (पा ४, ३, १०१) । m) = ऋषि-विशेष- । n) विप. ४ इत्येदमर्थः अयु प्र. । o) परिभवे इति या १, १० । p) गती इतिः ।



काश्री २५, १३, २७; वाधूश्री  
४, १०८: १३; वैताश्री ३७,  
१६; कौश्व १२७, ५१; -छा:  
कौश्व ५, ३, ९; -छे निम् ६, ३:  
१०.

नेदिष्टि<sup>१</sup> - छिनम् आश्री ६,  
१०, २५; -छिनौ निम् ५, ८:  
५; -छी काश्री २५, १४, १;  
आपश्री.

नेदीयस्- पा ५, ३, ६३; -पूय<sup>२</sup>  
आश्री ५, १४, ५; शाश्री ७,  
१९, १०; वीश्री १५, १३: १३;  
वाधूश्री ३, ४०: ९; या ५,  
२८४; -पति आपश्री ५,  
४, ५; वीश्री; -यसौ निम् ८, ४:  
५; -यान् वीश्री २०, ३: २९.  
नेदीयसी- सी निम् ४, ७:  
५; -स्या निम् ११, ११:  
११.

नेदि वाधूश्री ४, ७५: ३.

नेनीयाम्, नेन्य- ✓नी द्र.

नेप- पाठ ३, २३.

नेपाल<sup>३</sup> -> नेपाल-कामरूप- परम्  
अप ५६, १, १०.

१नेम<sup>४</sup> - पाठ १, १४०; पाग १, १,  
२७; -म: अप ४८, ११९; निप  
३, २९१; या ३, २०१; -ने  
या ३, २०१.

नेम-स्पृष्ट<sup>५</sup> - छा: पाति २३.

२नेम<sup>६</sup> -> ✓नेम->३नेम<sup>७</sup> -म:  
अप २, ८, १००; वृदे ६, ११७;

११८.

१नेमविधीवन्<sup>८</sup> - वान: शाश्री ८,  
२१, ११०.

नेम-धित- पा ७, ४, ४५.

३नेम-धिति<sup>९</sup> - ता आश्री ३, ७, ११;  
निघ २, १७; -ति: अप ४८,  
१०५.

४धनेम<sup>१०</sup> -म: अप ४८, ८८; निघ २, ७.

नेमि<sup>११</sup> - पाठ ४, ४३; पावा ३, २,  
१७१; -मि: आश्री १, २, ९१;  
शाश्री; अप ४८, १०४; -मि:  
निघ २, २०१; -मिम् वीश्री  
१७, २९: ९; वीश्र; -म्याम्  
वीश्र १६: २०.

नेमि-नाभि- मयो: वीश्र १६: १४.

✓नेप् पाधा. भा. उम. गती.

निप्राचिद्धंश्रुतानि<sup>१२</sup> लाश्री ४, ९, १३.

निप्राचिद्धम्<sup>१३</sup> वीश्री १७, ४४: ५.

निप्राचुद्धिम्<sup>१४</sup> वीश्र १, २, ३६.

नेप्टु, नेप्- प्रम. ✓नी द्र.

नेकटिक-, षटय- १निक्ट- द्र.

नेकती<sup>१५</sup> - (नेकत- पा) पाग ४, २,  
११०.

नेकरि- रि: वीश्र १०, ३.

नेकी - (> नैक-) नैकती- टि. द्र.

नेकृतिक- नि✓छ द्र.

नेकेती - (> नैकेत- पा.) नैकती-

टि. द्र.

नेगम-, षी नि✓गच्छ द्र.

नेगि-, नैनेय- नेग- द्र.

नेघरडुक- निघरडु- द्र.

नेघात्य- नि✓हृ द्र.

१नेघ-, २ने(च)घा- नीच- द्र.

नेजमेप- नेजमेप- द्र.

नेतकी - (> नैतक- पा.) नैकती- टि. द्र.

नेतन्धय<sup>१६</sup> - म: लाश्री १०, १८, १३;

-वे वाश्री १३, २९, २८; काश्री

२४, ६, ३१; आपश्री २३, १३,

१३; द्विशी १८, ४, ४८.

नेतिरक्षि<sup>१७</sup> - क्षय: वीश्र २४: १.

नेतुन्दि- न्दय: वीश्र १७: १६.

नेतुन्य<sup>१८</sup> - न्वा: वीश्र २०: २.

नेतोर- नि✓उरु द्र.

नेत्य-, ष्यक- नित्य- द्र.

नैदाघ-, षी- नि✓दृ द्र.

नैदान- नि✓दो द्र.

नैघन- नि✓धर द्र.

नैघवन- निघवन- द्र.

नैधान-, ष्य- नि✓धा-> निभान- द्र.

नैधिनी - (> नैधिरु- पा.) नैकती-

टि. द्र.

नैधुय-, ष्वि- निधुय- द्र.

नेप- १नीप- द्र.

नेपातिक-, ष्य- नि✓ष्व

> निपात- द्र.

नेपुण-, ष्य- ✓निपुण- द्र.

नेवद्धक- १निवद- द्र.

नेमग्नक- १निमग्न- द्र.

नैमार्जस- नि✓यु द्र.

नैमित्त-, ष्वि- निमित्त- द्र.

नैमिषायण-, ष्वि- निमिष- द्र.

नैमिषायण-, ष्वि- निमिष- द्र.

a) नेप १ द्र. b) = देहा-विधेय- । व्यु. ? । c) (शलाक) आभ्यन्तर-प्रयान- । d) वाति.  
<नेमधि-तीवन्- (वैप १ द्र.) ।  
इति दे. । e) पागे. वैप १, १८९९ i द्र. । f) = अष- । व्यु. ? < ✓नी  
निप् डे (<ते) आविद्धम् इति शोधः । g) पाठः ?  
i द्र. । h) पाठः ! निप् डे (<ते) आविद्धं वृत्तानि इति शोधः । j) पाठः (गुं). 'विद्धिम्' ! शोधः  
इति पाठा., नैकी- इति वामनः (तु. पागम.) । k) अर्थः व्यु. च ? । = ग्राम-विधेय- इति Plw. प्रम. । l) नैकेती-, नैकती-, नैधिनी  
m) = [ सरस्वती-तीरवर्तिन्- ] स्थान-विधेय- । व्यु. ? ।

नैमिष- -यम् अथ ४२, २, ४; शंष  
 ११६; १३; -वे शंष १२४.  
 नैमिषा(पञ्च)रण्य- अथे विष ८५,  
 २८.  
 नैमिषीय- > ग्याणाम् (अयन-)  
 आथी २३, ११, १०; हिथी  
 १८, ४, १४.  
 नैमिषायण-, -पि- रनिमिष- द.  
 नैमिषोद्य- न्यमोद्य- द.  
 नैमिमिक- नि/यच्छ् > नि-यम- द.  
 नैमियाय-, नैमायिक- नी(नि/य) द.  
 नैमासिक- न्य(नि/य)म् (सिपणे) द.  
 नैम्यमोद्य- न्यमोद्य- द.  
 नैरथि- अथयः बौधोप्र ५; १.  
 नैरुक्त-, फकि- निद्र/वत् द.  
 नैरुक्त- , शी-, श्व- निद्र/क्त द.  
 नैर्वाध्य- निद्र/वाध् द.  
 नैर्हस्त्य- निर्हस्त- द.  
 नैल- नील- द.  
 नैलायनि- रनील- द  
 नैय- (> शीय-) नैवाह्व- टि. द.  
 नैयकायन-, फकि- निवक्त- द.  
 नैयतायन-, फति- निवक्त- द.  
 नैवाक्य- (> शीय- वा.) पाग  
 ४, २, १०.  
 नैयाक्यि- निवायु- द.  
 नैयातायन- रनिवात द.  
 नैयार- नि/य् (भोजने) द.  
 नैयासिक- नि/यम् (निवासे) द.  
 नैयेद्य- नि/विद्र् (सोने) द.  
 नैयेदा- रनिवेत द.  
 नैव्य- रनिव- द.  
 नैयु-, नैसिक- निशा- द.

नैरुय- निरु- द.  
 नैय- तिष्य- > शीय- टि. द.  
 नैयध- रनिवध- द.  
 नैपाद्- प्रवृ. निपाद्- द.  
 नैष्कल्य- निष्/क्त द.  
 नैष्करातिक-, सहायिक-, नैष्किक-  
 निष्क- द.  
 नैष्कुल्य- निष्कुल- द.  
 नैष्कमण- निष्/कम् द.  
 नैष्ठयन- -तानि बौधो १७, ४५;  
 ५; -नैः बौधो १७, ४५; १ x x.  
 नैष्ठिक-, नैष्ठव- नि/अ द.  
 नैष्ठिहृ- नि/ष्णिह् द.  
 नैष्पदीय- निष्परीय- द.  
 नैष्पेपिक- निष्/पिप् द.  
 नैसार्गिक- नि/स्य् द.  
 नैहारिक- नि/ह द.  
 नो १ न द.  
 नोट- (> शी-) नाट- टि. द.  
 नोटल- -लम् आपमं २, ११, १९;  
 द्वि २, ३, ३.  
 नोद्यमान- √वृ द.  
 नोद्यस्- पाठ ४, २२६; -धसि वृदे ३,  
 १२८; -धाः ऋ २, १, ५८; ८,  
 ८८, १, ९३; शुभ; याध, १६१ फु.  
 नोद्यस्- -सः ऋ २, ८, ८०;  
 -सम् शीथो ७, २३, ३; १५, ५,  
 ४; बौधो, -सस्य आथो ८, ६,  
 १७; शीथो ७, २३, ३; शीथो  
 १०, १, १३; छुष् १, १; २; ८;  
 २; २१; ३; ११; ४; १४;  
 २२, ५; १; २, ६; १४; १; १७;  
 १८; २५; -सात् निस् ४,

१०; ११; -से शीथो ७, २३,  
 ६; निस् ३, १०; १२; -सेन  
 छुष् २, ६; ३१; शीथो १७;  
 २५; निस् ६, ३; ४.  
 नोद्यस-प्रतिपेव- -धः निस् ६;  
 ११; १५.  
 नोद्यस-वैरुप- -पे आथो ९, ११,  
 ५.  
 नोद्यस-श्वैत- -उम् छुष् २,  
 ५; २४.  
 नोद्यस-श्वैत-योनि- -नी  
 वैताथो ३३, ७.  
 नोद्यात् आ ४८, ११५४.  
 नोपध- न- द.  
 नोपर- १ न- द.  
 नोपान- -नेन अथ ६८, २, ४१.  
 नोहि १ न- द.  
 नो अयमद्- द.  
 नो- पाठ २, ६४, पाग ५, २, ११६;  
 ४, ३, १५१; नावः आथो ३,  
 ७, ८१; १२, ८, १०; बौधो  
 १२, ११; ८; ऋ २, ८, २;  
 औस् ७१, २०; ८६, २३;  
 पा ५, ४, ९९; नावम् आथो  
 ४, १३, २१; आपथो १०,  
 ९, ४१; बौधो ६, ५; ६१; ३८,  
 ४०; १६; २२; २५, ७; ५;  
 भाथो १०, ६, ११; वाधुथो ३,  
 ३९; १६, १८; ९९; १; ३;  
 ४, २६; २; वैथो १२, ८ =  
 १११; छु १२, ५; आथ १,  
 ८, २; २, ६, ८; शीथ १, ९,  
 १४; आथ १, १५, १७; पाथ

a) = अरुण-विशेय-। व्यु. ! < निमिष- वा = नैमिष- (< निमित्त-। < नैमि- + √पु।) इति शक. ।  
 b) = नैमिष-निवासिन्-। c) ऋषाः छु. ४! । नैव-, वध- इति पाठा. । < निवाहु- इति पागम. PIV. ।  
 d) = इन्द्र-निवेद्य- (द्र. IIIV.) । व्यु. ! । e) पाठाः! नो दलम् (द्र. द्वि. पाठः) ! इति वा न उदलम्  
 (= उदरम्) इति वा संस्कृतः टि. (द्र. आपमंम्. [पु. ३३। १४]) । f) वैप १ द. । g) अतयापेण मण् प्र. । h) तो-  
 इति मूठे. । षोः इति च तत्र संस्कृतः टि. षोः । i) पाठः! नोत्यातेन इति संस्कृतः टि. । j) द्र. पागम. ।

न्यप्रोध-शुद्ध, झ- - इम् जेष १,  
५ : ५; - इम् गोय २, ६, ६;  
द्राण २, २, २०.

न्यप्रोध-शुद्ध- - इम् कामिण २,  
१, १ : १२; हिण २, २, ६.

न्यप्रोध-स्तिभि- - भोन् काथी  
१०, ९, २९.

न्यप्रोध-स्तिभि ( > ) नी- - नीः  
आपथी १२, २४, ५; वैथी १५,  
३१ : २; हिथी ८, ७, ४३.

न्यप्रोधा ( ध-घ ) वरोध- - वम्  
भाय १, २२ : २०.

न्यप्रोधा ( ध-घ ) वरोध- - इम् कौम्  
५७, ६; - हान् पाण १, १४, ३०

न्यप्रोधा ( ध-घ ) वरोध-शुद्ध- - इति  
वाण १६, ५०.

न्यप्रोधा ( ध-घ ) श्व-तिल्यक-हरिदु-  
रहृमैक-विभोदक पापनामन्-  
-भयः काथी २१, ३, २०.

न्यप्रोधि- - न्यप्रोधिन्- पा ४, २,  
६०.

न्यप्रोपो ( ध-उ ) ल्य- - न्यान्  
काठथी ६; काण्ड ४१. २.

न्यप्रोपो ( ध-उ ) दुम्भ- - र- अप  
२६, ५, ६

न्यन् ( नि-ञ ) ङ- - ङो- आपथी १८,  
४, ६, २२, २६, १७; २८, १८;  
वीथी ११, ७ : २६; १८, १० :  
२०; १७ : ११; वाथी ३, १,  
२, १; वैथी १७, १२ : १०,  
हिथी १३, १, ४४; २३, ४, २१;  
५७; आपथं २, २१, १७; पाण  
३, १४, ६; भाण.

न्यङ्कु- - पाठ १, १७; पाण ७, ३, ५३.

न्यङ्कु-साति ( व > ) णी- - णी निम्  
१, २ : २२; ऋष १, ७, ३; २,  
१०, ९३; १३२; शुभ १,  
२०५; ५, ४३; अय ७, ६४;  
अप्रा १६, ४६; उनिम् १ :  
२६; पिं ३, २८; - णीन् शुभ  
२, ४७.

न्यन् ( नि-ञ ) च्- - च्, न्यचति आपथी  
१०, ११, ३; वीथी ६, २१ :  
१५; १८, ९ : ३७; न्यचति  
भाथी १०, ७, २; माथी २, २,  
१, ८; वैथी १२, १० : २.

न्य ( नि-अ ) च्- - च्, पा ६, २, ५३;  
वीचः आथी ४, ५, ७; आपथी  
११, १, १२; माथी १२, १, ११;  
४, ४; माथी २, २, १, १३;  
वैथी १२, २३ : ९; हिथी ७,  
३, ८०, दाथी १४, २, ६; लाथी  
५, ६, ९; अप्रा ३, ४, १५,  
न्यन्कम् अप १, ३२, ५; उम्  
८, २८; न्यह आपथी १०,  
१५, ९; १२, १७, ३; माथी  
१०, ८, १०; न्यञः दाथी १४,  
२, १०, लाथी ५, ६, १०-१;  
न्यञम् आपथी २, १४, ५; ३, ७,  
१; माथी २, १३, ११××; वाथी  
१, ३, ४, १२; वैथी ७, ६ : ८;  
हिथी २, १, २९; ३०××; आण  
३, १०, १२; न्यञ्चि आपथी १,  
११, ४; १५, ६; वीथी; न्यञ्चो  
गोय ३, ७, १७××; द्राण १, २,  
७××.

नीची- - वी चाथी १८,  
११, २; - वीः अप्रा ३, ४, १३;  
- स्याः माथी ७, २२, १०; १३;  
माथी १, ८, ६, १६; वैथी १०,  
२१, १८; - च्यै आपथी ७, २७,  
१०; आपथी ७, २७, ११; वीथी-  
नीचीन- - नस्य अप्रा ३, ४,  
१५.

नीचीन-द्वार- - रम् वा १०,  
४.

नीचीन-वार- - रम् वा  
१०, ४७.

न्यन् ( नि-अ ) च् ( व > ) वी- - वीः  
आपथी १, १६, ८; माथी १,  
१८, ६; हिथी १, ४, ५४.

न्य ( नि-अ ) न्चन्- - नम् वीथु १ :  
१९; २९; - नेन वीथु १ :  
२०; ३०.

न्य ( नि-ञ ) च्- - च्, न्यह्ते कौम् ७, २७.

न्यन् ( नि-अ ) क- - कम् आपथी ५,  
१, ७××; वीथी २, ६ : ३७.

न्यन् ( नि-अ ) ङ- - ङः आपथी १,  
२१, २; वीथी १, ६, २९; माथी  
१, २२, १२; हिथी १, ५, ७६.

न्यन्-ता-युक्त- - कि विथ ५,  
३३४.

न्य ( नि-अ ) म्य काथी १६, ६, ८; १७,  
३, २०; न्यज्यऽन्यज्य काथी  
२६, ६, ११.

न्य ( नि-ञ ) ङ् > न्या ( नि-आ ) ङ-  
पा ३, ३, ६०.

न्य ( नि-अ ) धि-स्था, न्यधित्थे  
माथी १, ८, ४, १०.

a) दण. उप. = मुञ्जित-मल्ल- । b) Bcht (ZDMG ५२, ८६) 'शुद्धम् इति शोधकः ( उ. सप्र. शुद्ध- इति  
दण. ) । c) पण. उप. = यत्सुवक- । d) सप्र. 'शोधम् <> शोदान् शुद्धान् <> शोधशुद्धानि इति पाठे. ।  
e) पापनामन्- = श्लेषातक- प्र. इति विचारः । f) विर. । वर. । g) उप. भाष. < उद्-स्था ।  
h) मटो. छव. । i) वैप १६. । j) पाठे. वैप १, १८६८ । k) = ङ-तो-विद्येय- । l) शोधः पृ १२२३१ द. ।  
m) वैप १, ४६६ द. । n) = लक्ष- । o) वैप २, १६. द. । p) न्यन्तायुक्ताये इति जीति. ।

न्य(नि-अ)न्त<sup>२</sup> - पा ६, २, १८१;  
 -न्ते आपधौ १३, १२, ९; वैधौ  
 २६, १४ : ११; द्विधौ ९, ३,  
 ५३; १०, ५, ८.

न्य(नि-अ)यन्त - नी (नि/इ) द.  
 न्यरक<sup>२</sup> - कम् या १, ११.

न्य(नि/अ)इ<sup>२</sup> > न्य(नि-अ)र्ण-  
 पा ७, २, २४.

न्य(नि-अ)कुंद्<sup>०</sup> - न्द्रु आपधौ २२,  
 २१, १७; सुद्रु २, १ : ११; -दे  
 शोधौ १५, ११, ४; आपधौ.

न्य(नि-अ)व/अह<sup>२</sup> > न्य-अह<sup>२</sup> - न्दः  
 सुमा १, १२०.

न्य(नि-अ)व/मन्, नि...अवमेस्थाः  
 सु १२, ३.

न्य(नि/अ)स्(क्षिप्ये), न्यसेत् द्विधौ  
 २२, २, २६; आदिपु २, ४, ११ :  
 ८××; वैट्ट

न्यरवते शोधौ १, १५, १४;  
 न्यस्वति आपधौ २, ५, १××;  
 काटधौ; न्यस्वत् वाधुधौ ३,  
 १९ : ७; १०; न्यस्वत् काधौ  
 २१, ३, २६; आपधौ १९, १९, ३;  
 माधौ.

न्य(नि-अ)सन्त - नम् वीधौ २१,  
 ४ : २१; २३; २४.

न्य(नि-अ)स्त - न्द<sup>२</sup>उत्त आपधौ  
 १०, १, ३; वीधौ; -स्ताताम्  
 वीध १, ६, २१.

न्यस्व-त्(र>)ता-रा क्रमा  
 ३, २७.

न्यस्त-सत्प्र<sup>२</sup> - सत्राः अय ५७,  
 ३, ६.

न्यस्ता(स्त-आ)पुष<sup>२</sup> - > प्-  
 प्रकीर्णकेश-धाञ्जलि-पराडावृत्त-  
 -तानाम् आपध २, १०, ११;  
 द्विध २, ४, ११.

न्य(नि-अ)सवा अय ३६, १४, १.

न्य(नि-अ)स्य आपधौ २२, २, १६;  
 वीधौ ६, २५, १३××; माधौ.

न्य(नि-अ)स्यत् - स्यन्तम् कौट  
 ७८, ३.

न्य(नि-अ)स्य> स्या-स्याः वैधौ  
 १९, ६ : १४३.

न्या(नि-आ)स-पाम ७, २, ६०<sup>०</sup>;  
 ४, १०; -सः नाशि १, ४, १०;  
 २, ७, १०; -सम् क्रमा ३, २३६;  
 माशि ५, १०.

नैयासिक- पा ७, २, ६०.  
 न्यास-प्रणय- न्यैः वाधुधौ ७,  
 ७२ : ६; ८६ : २७; २०.

न्यासा(स-अ)पहासिन्<sup>२</sup> - नी  
 कंथ ३७७ : ४; १३.

न्यासिक- पा ७, ४, १०.

न्य(लक>)स्तिका<sup>२</sup> - का कौट  
 ३६, १२; अम ६, १३९<sup>३</sup>; अयं  
 २ : ६४; ३ : ३७.

न्य(नि-अ)ह<sup>२</sup> > ह<sup>२</sup> - न्ते धीव ८७, २.  
 न्याद- न्य(नि/अ)इ द.

न्या(नि-मा)य-न्य- नी (नि  
 /इ) द

न्यासपं वाधुधौ ३, ४० : ९; १०.

न्यासीवताम्<sup>१</sup> वा ८, १३.

न्यु(नि/उ)च्, नि...उवोच वाधौ  
 ३, ३, ३, ११.

न्युप वाधौ ३, २, ४, १०.

न्युत्त- न्युत्थ नि/अ/वृ द.

न्यु(नि/उ)ञ्ज<sup>२</sup>, न्युञ्जति आपधौ  
 १२, २९, १; १३, १५, ३; वीधौ  
 ७, २०, १६; ८, ८ : २८;

२५, १८ : १६; २४ : १३; माधौ  
 २, ३, ६, १०; ७, २, ३६; वैधौ

१५, २७ : ११××; द्विधौ ८,  
 ६, ३९<sup>२</sup>××; कौट; न्युञ्ज  
 आपधौ १७, १, १०; वैधौ;

न्युञ्जतात् वीधौ ७, ७ : ११××.

न्यु(नि-उ)ञ्ज,ञ्जा<sup>२</sup> - ञ्जम्  
 कय ३, १, ११; २, ११; -ञ्जाम्  
 काधौ १६, ४, ११; -ञ्जेन  
 काधौ १, ६, ४.

न्युञ्ज-पात्र- न्यम् आशिपु ३,  
 १, ३ : १९; ११, २ : १५; द्विध  
 २, १२, १०; -वापि आपध  
 २१, ९.

न्यु(नि-उ)ञ्ज<sup>२</sup> - पा ७, ३, ६१.

न्यु(नि/अ)ञ्जस्<sup>२</sup>, न्युञ्जति द्विधौ  
 १६, ३, २१.

न्युञ्जयि शोधौ १२, १३, १;  
 वीधौ २३, १० : ५; न्युञ्जयन्ति  
 वीधौ १६, ३ : २७<sup>१</sup>; न्युञ्जयेत्  
 आधौ ७, ११, १८; शोधौ १२,  
 १३, ५; ६.

न्यु(नि-उ)ञ्ज<sup>२</sup> - पाठभौ २, २, ४९;  
 -दुः आधौ ७, ११, १; १××;  
 शोधौ १०, ५, १९; १२, २४, ३;

-दुम् शोधौ १०, ५, ९; शोधौ १३,  
 १५, १२<sup>१</sup>; द्विधौ १६, ३, २१;  
 ३२; -द्वेन शोधौ १२, २४, ५.

न्युञ्ज-निर्देश- न्द<sup>२</sup> नैताधौ

a) वैप २, ३६. द.। b) वैप १, १०५ j द.। c) वैप १ द.। d) विर.। वर.। e) = मन्थ-  
 विधिप-। f) = अनुदाप-। g) विर.। उरत पूव. = निक्षेप। h) = अपराह- (दु. ईश्वर्यः टि.)। i) वैप १,  
 ६०७। द.। j) पावा ७, ३, ६१ पराश्रयः द.। k) °अति इति पाठः? सवि. शोधः। l) = अशोमुत्प-  
 (दु. वा ईश्व ७, २०)। मर. उप. कर्त्तव्य धन् प्र.। m) = उपताप-। n) = वीरशौकर-समृद्ध-। यत्. (वैद.  
 पाठभौ. अन्धभाष्यतादृकः)। o) प्रहरणस्य युताऽऽपचक्षरः सन्युञ्जम् इति पाठः प्रतिभावात् (दु. भाष्यक्षरः)।

|   |   |   |
|---|---|---|
| ३२,१४.<br>न्यून्व प्रतिगर- नेपु वैताथी<br>३२,१५.<br>न्यून्वा(ङ्ग-भा)दि- दि आथी<br>७,११,३१<br>न्यू(नि-ऊ)द्वत- ने वीथी २३,<br>१० ५<br>न्यून्वनीय- य शाथी १३,<br>१७, -यम् शाथी १३, १, ७,<br>-यस्य शाथी १२,१३,५<br>-यु(नि-ऊ)ङ्ग- -ङ्गम् आथी<br>२२७, २, १३, वीथी १६, ३<br>२६, वाथी ३, २, १, ५३<br>न्यू(नि-ऊ)ङ्गमान- ने आथी ७,<br>११,५<br>न्यू(नि-ऊ)न ता- फनम् आथी १, | .११,१५, शाथी, -ना श्रम ३,<br>६२, वापुउ ४४.९, -ना:<br>यप ३,५,९, -नाम् निम् १०,<br>४ २, -नानि उनिम् २ ९,<br>-नाम् आथी १२, ७, ९, -ने<br>वाथी १, ३, ७, २०†, हिथी,<br>-नेपु वीथी २९, १. २<br>न्यून्व- -ने उनिम् २. १३<br>न्यून्वा( ह > )हा <sup>०</sup> - हा वीथी<br>११,११. ३<br>न्यून्वा( न म )धर <sup>०</sup> - रम् शुभ ४,<br>२१४<br>न्यून्वा( न म )विरिक- -त्तेउ शुभ<br>४, २१४<br>न्यून्वा(न म, घिक- -कात् शाथ ६,<br>६, १६, -कै अथ ७१, ६, | ४.<br>न्यून्वाधिक-व- -ने मम १२<br>४<br>न्यून्वी✓न्यू>भाव- -यः निम् १,<br>७ : २७.<br>न्यून्वो( न-उ )द्वत- -नेन आथी ३<br>३१ : ११.<br>न्यू(नि म्)✓(६), न्येयान् वाथी ३,<br>७५ : ४.<br>न्यून्व <sup>०</sup> आपम २,१७,११.<br>न्यू(नि म्)वस्- -का वीथ ३,<br>१०, ३३†<br>न्यून्वस्- पाउट ४, २२३.<br>न्यून्वा <sup>०</sup> वाथी ३, ७९. २५.<br>न्यून्वा <sup>०</sup> वीथी १०, २१ १२××, वाथी.<br>न्यून्वो <sup>०</sup> शाथी १२, १३, ५. |
|---|---|---|

a) वैप १६ । b) विप । वस । c) नैव । यकारोपत्तन दात ह्रस्वत. (तु. भू. [XXXVII]) ।  
d) तु वाय > नैय यनि (तु वैप १-वै) । e) तु (स १०, ६६, ४) क्षयस्य न्यून्व ।